

शान्तकुटी-वैदिकग्रन्थमाला

सा च

विश्वबन्धु-शास्त्रिणा

कर्मिष्ठसंघटकानां लम्बितप्रौढिविशेषाणामुपत्रिंशानां विदुषां सहयोग-

तश्च परामर्शकसंघटकानां नानादेशीयानामुपत्रिंशानां

विपश्चिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश्च

संपादिता

अयं च तस्यां

प्रमो ग्रन्थः

लाभपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

२००२ वि०

THE SANTAKUTĪ VEDIC SERIES

EDITED

With the co-operation of a Staff Organisation of about thirty specially
Trained Scholars and under the general guidance
of an Inter-national Advisory Board

By

VISVA-BANDHU ŚĀSTRĪ, M.A., M.O.L.

VOLUME V

LAHORE

Published by the V. V. R. Institute

1945

वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

मंहितात्रात्मणोपनिषत्सूत्रवर्गीयोपपञ्चशत [५००] वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः
प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-निर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तन्नवीनपुराण-
वेदाङ्गीयविचारसमन्वितटिप्पणैः सनाथितश्च

संभूय चतुर्दशखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्व्यूढश्च

सन्

दयानन्दब्राह्ममहाविद्यालयीयाचार्यपदप्रतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य
च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

विश्वबन्धु-शास्त्रिणा

रामानन्द-शास्त्रिणः ————— अमरनाथ-शास्त्रिणश्च

नान्तरीयेण साहाय्यकेन

संपादितः

३यो विभागः (औपनिषदः)

२यः खण्डः

प-द, परिशिष्टम्

पृष्ठानि I-IV, ४६९-११८५

ज्ञानपुरे

विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानेन प्रकाशितः

२००२ त्रि०

अथ

वैदिक-पदानुक्रम-कोषे

ऋग्वेदे तृतीये विभागे

द्वितीयः खण्डः

प

प^१

प^१ आथ ३९६: १; व ४३६: ६.
पं-कार- -०र अच् ५.

पक-√पच् द्र.

पक्^{१०}- -क्ष: तै २, १-५, १^१; नाद १;
त्रिवि ३, ४; १अव ३; -क्षम् ते
६, २६; नाप ५, २१; त्रिवा २,
१२०; -क्षयो: महा ६, १९;
वपू २, ५; -क्षा: १संन्या १, १;
गु २१; -क्षात् नाद ३२;
-क्षाभ्याम् भव १, ३३; -क्षेण ब्रसू
३, ४, ४७; -क्षे: इ १६: १०;
-क्षौ वृ ४, ३, १९; हं १४; पै
२, ४३; गरु १११^१.

पक्ष-चञ्चु(क>)का- -का: सार
२८८: ३.

पक्ष-द्वय- -यम् त्रिवि ३, ४.

पक्ष-पात- -तम् ते ६, २६.

पक्षपात-विनियुक्त- -क्तम् ब्रवि
६; त्रिता ५, ६; अवि ६.

पक्ष-मध्य- -ध्ये इ १९: २.

पक्ष-मास(स-श्रु)र्तु-वर्ष-ज- -जम्
राउ ५, ७.

पक्ष-मासत्व(स-श्रुतु-अ)यन-संव-
त्सर-भेद- -देन सी १४.

पक्ष-विपक्षा(क्ष-आ)दि-भेद-
वि-धुर- -र: आबो ३.

पक्ष-तस(>) पारा १६.

पक्षिन्^१- -क्षण: कौ २, ९^०; सार
२२२: १९; २२५: ३; २३७:
८; २५९: ५; २६२: १७; १८;
२६४: १०; २६६: २२; २६९:

१६; -क्षिणाम् सार २२८: ४;
२२९: ४; २६३: ६; २८२:
१६; भव १, ३३; गी १०, ३०;
-क्षिषु सार २६२: १९; -क्षी
वृ २, ५, १८; ते ६, १३; योशि
१, ५९; बा १५; सु २९४:
११.

पक्षिणी- -णी १संन्या २,
२९.

पक्षि-गण- -ण: भव १, २२.

पक्षि-राज- -जाय त्रिवि ७, ३७.

पक्षि-संबन्धा(न्ध-अ)भि-

(ज्ञ>)ज्ञा^१- -ज्ञा सार २६३: ६.

पक्षी(क्षि-इ)न्द्र- -न्द्राय गरु
३; ६.

पक्षीय^१-

पक्षीय-चर^१- -रम्^१पा४, २१^१.

पक्षमन्^{११}- -त्माणि गु ११.

पक्^{११}-

पक्क-गत- -तम् अज १, ३९.

पक्क-ज^१- -जम् ध्या ३९; ४४; योचू
७; -जै: रार २, ३४; शि ७,
१३७; वपू २, ५.

पक्कज-मध्य-स्थ- -स्थम् योशि
५, ४४.

पक्कजा(ज-आ)दि-

पक्कजादि-वत् सांस् ४, ३१.

पक्क-वर्जित- -तम् शि ५, १३.

पक्क-स्तम्भा(म्भ-आ)कार- -राणि
नाप ६, १^१.

पक्का(ङ्क-अ)क्क-राग- -गेण सार
२४३: २.

पङ्क्ति^{११}- -ङ्क्तय: सार २३४: ९;
-ङ्क्ति: मैत्रि ७, ५१^{११}; सार २२८:

५; रार २, १०१^{११}; गार ४०७:
१६१^{११}; -ङ्क्तिम् मना २, ३८१^{११};
३९१^{११}; ४०१^{११}; अशि ७, ७; महा
६, ८३; चर १: १२; ऊद ४: १३;
वि २६; -ङ्क्तिषु गार ४०८: १९.
पाङ्क्त- -ङ्क्त: वृ १, ४, १७^१;
-ङ्क्तम् तै १, ७, २^१; वृ १, ४,
१७; -ङ्क्तेन तै १, ७, १.

पङ्क्ति-दोष- -वै: शि ५, ४.

पङ्क्ति-पावन- -न: पत्र ३, २; राउ
५, ४; पै ४, २३; दत्ता ३; वि
२६.

पङ्क्ति-बद्धे(द्व-इ)न्द्रिय-पञ्चु-
-शुम् महा ३, २९^१.

पङ्क्ति-शत-सहस्र-पावन- -न:
रुजा ३, १.

पङ्क्ति-शस(>) सार २७४: १०.

पङ्क्ति-स्थ- -स्थ: शि ५, ४.

पङ्गु^{११}- -ङ्गु: मैत्रि ४, २; नाप ३,
६२^१; ६५; इ १७: ६.

पङ्गव(ङ्ग-अ)न्ध-

पङ्गवन्ध-वत् सांका २१.

√पच्, > पाचि, पचति श्वे ५, ५;
गर्भ ५^१; मैत्रि ६, १५; १७; अज
५, २९; पचन्ति मैत्रि ६, १२^१;
गी ३, १३; पचामि वा १४; गी
१५, १४; पच-पच त्रिवि ७, ३३;
त्रिता ३, ३१; गरु ६; वपं ३१२:
१४; व ४३०: ११.

पच्यते क १, १, ६; वृ ५, ९, १;
मै २, ८; मैत्रि २, ६; ६, १५;
पच्यन्ते इ ११: १९.

पाचयति भाव २०^१; पाचयन्ति
सार २७०: १२; १३.

a) =वर्ण- । b) =बीजमन्त्रविशेष- । c) =विभाग- वा पतत्र- वा । वैपश् यद्र. । d) मा १२, ४ । e) °णा
इति अख्या. । f) छ > ईय: प्र. डसं. (पा ४, २, १३८) । g) कस. । उप. भाप. । h) वा. क्रिवि. द्र. । i) °क्षी अचरम्
इति मुपा. यनि. सु-शोध: [एतदनु गपू. (पृ १६) अ-चर- > -रम् इति सस्थ. यनि. शोध: द्र.] । j) व्यु: ? =अक्षि-
लोमन्- । k) व्यु: ? =जलहृद- । l) पन्च^१ इति अख्या. संटि. । m) =आवली- वा छन्दोविशेष- वा । वैपश् यद्र. । n) तैआ
१०, ४८, १ । o) तैआ १०, ५०, १ । p) °ङ्क्तिपन्चे^१ इति अख्या. संटि. । q) व्यु: ? । r) 'पङ्गु:' इति अख्या.
संटि. । s) 'पाचयति' इति अख्या. । t) 'पचन्ति' इति आन. संटि. । u) 'पाचयन्ति' इति तान्त्रि. ।

पञ्चदशाक्षरी-री ब १९.
 पञ्चदशा(श-अ)र्ण-र्णः रार
 २, ५९.
 पञ्चदश-शः मैत्रि ७, २; छाग
 २३ : १२; २४ : १५; -शम् २ प्र
 ३२ : १३; गार ४०७ : ८; १३;
 -शात् कौ १, २; -शे अक्षे ५.
 पञ्चदशी-शी नाप ८, १;
 महा १, १; -श्याम् व ४६२ :
 १०५^{११}.
 पञ्च-दुःखौ(ख-ओ)घ-वे(ग>)-
 गा-गाम् श्वे १, ५; नाप ९, ४.
 पञ्च-देवता-ताः ते ६, ५६.
 पञ्च-दैवत-तम् ध्या १३; -ते योशि
 १, ७२.
 पञ्च-दैवत्य-त्यम् ब्रवि ४०.
 पञ्च-दोष-विनिर्मुक्त-कम् शि ५,
 १०.
 पञ्च-धा प्र २, ३; ३, १२; मुं ३, १, ९;
 छां २, २१, ३; ७, २६, २; मना
 २, ७९५^{१०}; मै २, ६; ९; ५, १; ४;
 मैत्रि २, ६^१; ६, ४; वृजा ४, २;
 मन्त्रि १५; ब्रवि ४०; १ योत ८४;
 रापू १, १०; रार ५, १; पै १, १९;
 पं २२; २६; चू १५; पिं ३; बा १९;
 राधा ४, ४; शि ५, २२; सांका ५३.
 पञ्च-नवति-त्या शि ४, ४.
 पञ्च-पञ्चक-कम् चक्र ५.
 पञ्च-पञ्चाक्षर^b-ज्ञानाम् वउ ४,
 २१.
 पञ्च-पद-दः गोपू १६; -दम् गोपू
 १२^०; २३; ३२; ३३; ४६; ४७;
 -दात् गोपू २४^d.
 पञ्च-पर्व(व>)र्वा^e-र्वा भव ३, १०;
 -र्वा^e श्वे १, ५; नाप ९, ४.
 पञ्च-पाद-दम् प्र १, ११.

पञ्चपाद-ब्रह्मन्-ह्यणः पत्र २.
 पञ्च-प्राणो(ण-ऊ)र्मि-र्मिम् श्वे १,
 ५; नाप ९, ४.
 पञ्च-बन्ध-
 पञ्चबन्ध-स्वरूप-पेण लि
 ३०९ : ४.
 पञ्च-बाण-सदन-ने व ४५६ : २२.
 पञ्च-बुद्ध्या(दि-आ)दि-मू(ल>)-
 ला-लाम् श्वे १, ५; नाप ९, ४.
 पञ्च-ब्रह्मन्-ह्य पं २१.
 पञ्चब्रह्म-मन्त्र-न्त्रः वपं
 ३११ : २.
 पञ्चब्रह्म-मय-यम् योशि २,
 १५.
 पञ्चब्रह्म-स्वरूपक-कम् रुजा
 २, ५.
 पञ्चब्रह्मा(ह्य-अ)भिहोत्रक^{११}-
 कम् रुह १.
 पञ्चब्रह्मा(ह्य-आ)त्मक-कम् पं
 १६; २१; २३.
 पञ्चब्रह्मात्मिकी-
 कीम् पं २६^{१६}.
 पञ्चब्रह्मात्मका(क-अ)तीत-
 तः पं १७.
 पञ्चब्रह्मा(ह्य-आ)त्मन्-
 पञ्चब्रह्मात्म-तत्त्व-
 पञ्चब्रह्मात्मतत्त्व-तस्-
 (>) पं २५.
 पञ्चब्रह्मो(ह्य-उ)पसंहार-रम्
 पं १६.
 पञ्च-भूत-तानाम् योचू ७२; पै
 १, २१; सांसू २, १०; -तानि
 अद्वैमा १२; दे १; वउ ४, १४;
 सांका २२; -तेषु गोच ६७ : १५.
 पञ्चभौतिक-कः सांसू ३,
 १७; -कम् सांसू ५, १०२.

पञ्चभौतिक-त्व-स्वेन
 वसू ८.
 पञ्चभूत-कारण-णम् मं २,
 १, २.
 पञ्चभूत-जनक-कम् त्रिता १,
 ३५.
 पञ्चभूत-मय-ये त्रिवा २,
 १३३.
 पञ्चभूतमयी-यी त्रिवा
 २, ४^{१७}.
 पञ्चभूत-समवाय-यः योचू
 ७२.
 पञ्चभूता(त-आ)त्मक-कः
 वरा ५, १; -कम् गोउ ५५^१.
 पञ्च-भूमि-मिम् वरा ४, १४.
 पञ्च-भौम-मम् शि २, १६; ६,
 १३५.
 पञ्च-भ्रम-निवृत्ति-त्तिः अश १,
 १५.
 पञ्च-म-मः क २, ३, ३; तै २, ८,
 १; छां ५, १०, ९; ७, १, ४; हं
 १६; वृपू २, १४५^१; अक्ष १, ५;
 ह ८; तु ८^{१६}; सूता २, १८; नापू
 १, ५; ५, ६; लि ३१० : ५; गार
 ४०६ : १०; भव २, २२; ६३;
 -मम् छां ३, १०, १; ७, १, २; २,
 १; ७, १; कौ २, ९^१; वृपू २, ४^१;
 ६; शारी ७; यो १, ५९; गोपू
 ११; दत्ता १, ३; ६; योरा १२;
 ऊ ६४ : ७; नापू ६, ३; वृष
 ८४ : ४; ७; ८५ : ७; शि ५, ११;
 गार ४०७ : ६; ११; २कौल १२;
 वपू १, ६; २, १; २; गौ १८, १४;
 -मस्य वृष ८४ : १६; २०; ८५;
 ४; -मात् गोपू ३१; -मे हं १९;
 गर्भ ३; अक्ष ५; त्रिता १, ६४;

a) तैआ १०, ६३, १ । b) =पञ्च-पञ्चाशत्- (तु. गपू. २०४a, २०५i) । c) °दीम् इति आन. ।
 d) °दा इति अज्या. संटि. । e) वैतु. पा. (४, १, ३३) स्त्री. पञ्च-पर्वन्-> °र्वा- इति । f) तदाख्योपनिषद्विशेषयोः
 समाहारे द्वस. । g) प° इति मुपा. यनि. शोधः द्र. । h) °या इति अज्या. यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) । i) °कः इति
 आन. । j) तैआ ८, ८, १ । k) वा. पुं. ? स्त्रीत्वपरः शोधः द्र. । l) 'पञ्चमुखम्' इति शांआ ४, ९; अज्या. च ।

पञ्चविंशतिवत्सर-
पर्यन्त- न्तम् नाप २.
पञ्चविंशति-वर्णक- -कः
रार २, ७६.
पञ्चविंशत्य(ति-श्च)क्षर-
-राणि द्व २.
पञ्चविंश- -शे अन्त ५.
पञ्चविंशक^०- -कः गौ २, २६;
मं १, ४, ३; भव २, ३२; -कम्
निरु १, २०; शि १, १२.
पञ्च-त्रि(धा>)ध- -धः शां १, ८;
अज १, १३; भा १८^b; १९^b;
-धम् छां २, २, १; ३; ३-७, १; २;
१संन्या २, ६५; -धस्य छां २,
७, २.
पञ्च-विषय- -याणि सांका ३६.
१पञ्च-वृत्ति^०-
पञ्चवृत्त्या(ति-श्चा)त्मक- -कम्
पै १, २२.
२पञ्च-वृत्ति^d- -त्तिः ब्रसू २, ४, १२.
पञ्च-वृद्धि- -द्ध्या यो १, ५५.
पञ्च-व्याहृति-
पञ्चव्याहृति-मय- -यम् गोप्
२९.
पञ्च-शत- -तम् रुजा १, १६^०;
२०; -त्तानि कौ १, ४.
पञ्च-शाखा^f- -खाः सी २५.
पञ्चशाखा-सुशोभित- -तम्
शि ४, ४.
पञ्च-शाला(ला-श्च)ण्डक- -कैः शि
६, १३६.
पञ्च-शि(खा>)ख^g- -खः सांसू ५,
३२; ६, ६८; -खाय सांका ७०.
१पञ्च-शीर्ष^h- -र्षेण व ४३४:२१.
२पञ्च-शीर्षⁱ-
पञ्चशीर्षो(र्ष-उ)पनयन- -ने
मना २, ३५९^f.

पञ्च-संस्कार-युक्त- -क्तानाम् सु
२९५: १.
पञ्च-संस्कार-संस्कृत- -तम् सु
२९४: २१.
पञ्च-सप्त-गृह- -हाणाम् १संन्या
२, ६१.
पञ्च-संमार्जनी-तोय- -यम् शि
६, ५८.
पञ्च-सूक्ष्म-भूत- -तानि वउ ४,
२०.
पञ्च-सूत्र- -त्रम् लिं ३१०:१२.
पञ्च-स्थान- -ने वृजा ४, १२.
पञ्च-स्रोत(स्>)- -समन्वित-
-तः शां १, ३९.
पञ्च-स्रोतो(तस्-श्च)म्बु- -म्बुम् श्वे
१, ५; नाप ९, ४.
पञ्च-स्वरूप- -पम् लिं ३१०:८;
१२.
पञ्च-हस्त-समुच्छ्रित- -तम् शि
४, ९.
१पञ्चा(श्च-श्च)क्षर^०- -राणि काम ३.
पञ्चाक्षर-मय- -यम् पं २४.
२पञ्चा(श्च-श्च)क्षर^d- -रः म २, ४;
२८; -रम् त्रिता १, ३५; म २,
२८; नापू ३, ६; ता १, २; पं
२५; रार ३, १; व १; लिं ३१०:
१२; -रे सिधि ३८२: ६; -रेण
वृजा ६, ७.
१पञ्चा(श्च-श्च)क्षि^०- -क्षिना^f पं १०.
पञ्चाक्षि-योग-
पञ्चाक्षियोग-तस(>)
सांसू ४, २२.
पञ्चाग्नि-रूप- -पम् योशि ५,
३५.
पञ्चाग्नि-रूपक- -कम् योशि
५, २८.
२पञ्चा(श्च-श्च)ग्नि^d- -गनयः क १,

३, १.
पञ्चा(श्च-श्च)ङ्ग- -ङ्गम् गोप् १२.
पञ्चा(श्च-श्च)ण्डक-विभूषित-
-तम् शि ४, १२.
पञ्चा(श्च-श्च)त्मक- -कः गर्भ ३^k;
-कम् गर्भ १ⁱ; पं २५; नाप ९,
१८; १योत १०; योशि १, ८;
-कस्य सिधि ३८१:८; -के श्वे २,
१२; गर्भ १; पिं ३.
पञ्चात्मिका- -का गर्भ ३^l.
पञ्चात्मक-ता- -ताम् पं २६.
पञ्चा(श्च-श्च)त्मन्- -त्मा मना २,
७९९^m.
पञ्चा(श्च-श्च)थर्व-शीर्ष-जप-
फल- -लम् दे २०.
पञ्चा(श्च-श्च)धिकरण- -णैः रा
४२६: २.
पञ्चा(श्च-श्च)मृतⁿ- -तम् वउ ६,
२१.
पञ्चामृत-पात्र- -त्राणि वउ
६, ११.
पञ्चा(श्च-श्च)र- -रम् वृष ८४:७^०.
पञ्चा(श्च-श्च)र्ण- -र्णः रार २, १०;
-र्णम् द ४.
पञ्चा(श्च-श्च)र्द्र-तत्त्व- -विद्वस्-
-दुषाम् सु २९४: २१.
पञ्चा(श्च-श्च)वयव-योग- -गात्
सांसू ५, २७.
पञ्चा(श्च-श्च)वर्त,र्ता- -तम् सौ ३,
१; -तम् श्वे १, ५; नाप ९, ४;
योरा ९.
पञ्चा(श्च-श्च)वस्था-स्वरूप- -पम्
सु २९४: २२.
पञ्चाशत्^०- -शत् रुजा १, २२^०;
सु १, १, १३; हंषो १७; सांका
४६.
पञ्चाशत्-कोटि-योजन- -नम्

a) तु. टि. एकविंशक- । b) 'पञ्चधा' इति तान्त्रि. । c) द्विस. । d) वस. । e) °अदशम् इति अञ्ज्या. संटि. । f) =पञ्चाशत्^०- (तु. उब्र.!) । g) =सांख्याचार्यविशेष- । h) विप. । i) तैश्चा १०, ३५ । j) समाहारे द्विस. । k) °कसमर्थः इति अञ्ज्या. । l) °त्मकतेजसा इति अञ्ज्या. । m) तैश्चा १०, ६३, १ । n) पा ५, १, ५९ । o) पा. (तु. उब्र.!) ।

पठित्वा १योत १; २योत १, १; त्रिता १, ३७; व ४६२: ११.

पड्वीश^{1a}-

पड्वीश-शङ्कु- -ङ्कन् छां ५, १, १२; ६, १, १३.

पड्वी(शक>)शिकार¹- -काभिः आर्षे ७: ६.

पणव^{1b}-

पणवा(व-आ)नक-गोमुख¹- -खाः गी १, १३.

पण्डित, ता¹- -तः छां ६, १४, २; वृ ६, ४, १८; कै १, ११; भव २, १५; -तम् भव १, ९; गी ४, १९; -ता वृ ६, ४, १७; -ताः वृ २, १७; महा ५, १७६; जाद २, ४; गी २, ११; ५, ४; १८; -ते या २, १६; -तैः भव १, ३२.

पाण्डित्य- -त्यम् वृ ३, ५, १^२; भव १, ५८; -त्यात् योशि २, ३; -त्येन सुबा १३.

पाण्डित्या(त्य-अ)र्थ- -र्थे कालि ४०३: १२.

पण्डित-मानिन्- -निनः सार २३५: ११.

पण्डितं-मन्यमान¹- -नाः क १, २, ५; मुं १, २, ८, मैत्रि ७, ९.

पण्डित-लक्षण-णम् महा ५, १७१.

पण्डित-शास्त्रिन्- -स्त्रिणाम् भव १, ५; ८.

पण्डितो(त-उ)त्तम- -०म जाद ४, ४३.

√पठ्(गतौ)>पाठि, पतति के १, १; वृ ४, ३, २०; मै ४, ३; ध्या ७२;

योचू ५१; महा ५, ७०; योशि ५, ४१; १संन्या २, ९६; अन्धि १५; ३७; शा ९; सु २, २, २३; पतन्ति छां ५, १०, ९; गौ ४, ४६; महा ५, १४४; छाग २५: १४; स्व ६१: १९; भव १, ५४; गी १, ४२; १६, १६; पत गरु ११^{१०}; अपतत् महा १, १; च २०: ३.

पतिष्यामि मना २, ११^१.

पातयति भ १, ९; २, ३०; अपा-तयत् वृ १, ४, ३; पातयेत् १संन्या २, २; कुं ४.

पतत्- -तन् महा ६, ३४.

पतन्ती- -न्तीम् शि ४, ५५.

√पतत्र¹- -त्रैः श्वे ३, ३; मना १, ३; त्रिवि ६, १३; रु ३; २शिसं २६.

पतत्रिन्¹- -त्रि ऐ ५, ३.

पतन- -नम् योशि १, १६२; भव १, ३; १४.

पतना(न-अ)नुमान- -नात् ब्रसू ३, ४, ४१.

पतन्त¹- -न्तः पा ९, ५.

पतित- -तः मैत्रे २, १९; ते ६, ९७; नाप ३, १; २; १२; योशि १, ६४; १संन्या २, ३; भ १, ७; वरा २, ६७; -तम् वृजा ३, १; १संन्या २, २; ७४; ते ६, ९७; -ताः १योत ६; योशि १, ४; रुजा १, १; २; -तान् १संन्या २, २; -ते महा ६, २६; -तैः सिसि ३८३: ४.

पातित्य- -त्यम् नाप ३, ११.

पतित-संभाषण- -णात् रुजा ३,

१; सू २८; ह १२.

पतिता(त-आ)दि- -दयः मैत्रि ७, ८.

पतिता(त-अ)भिषस्त-वर्जन- पूर्वक- -कम् १संन्या २, १३.

पतित्वा छां ६, ८, २^३.

पात- -तः पा ५, १०^१; -ते ब्रसू ४, १, १४.

पात-भीत- -तस्य भव १, ७.

पातयत्- -यन् भव १, १७.

पातित- -तम् ब्रवि ४४.

पतङ्ग¹- -ङ्गः छां ६, ९, ३; १०, २; श्वे ४, ४; कौ १, २; -ङ्गाः वृ ६, २, १६; गी ११, २९.

पतङ्गि(न्)>नी¹- -नी नाद ९^६.

पतञ्जल¹- -लः वृ ३, ७, १^२; -लम् वृ ३, ७, १^३; -लस्य वृ ३, ३, १; ७, १.

पतञ्जलि¹-

पातञ्जल- -लाः सार २७३: १२.

पतचू¹- -त्त्रे पा ७, १०.

१पति¹- -तयः श्वे ५, ३^{१०}; मना २, ५४^{१०}; योचू ७२; पा ६, ८^{१०}; भव १, २६; -तिः प्र २, ९; मुं १, २, ५; छां १, २, ११; वृ १, ३, २०; २१; ४, ३; २, ४, ५^३; ४, ५, ६^२; श्वे ६, ९; मना १, ९^{१०}; २, ५५^{१०}; ते २, १३; पाशु १, ५; जाद ४, ३९; गु ६८; व ४६४: १^{१०}; भव २, ४४; -तिम् तै १, ६, २; श्वे ६, ७; मना १, ४^{१०}; २, १३, १^{१०}; २, ३०^{११}; वृजा ६, १; नाद १५; रापू ४, १२; महा १, १; पा १, ५; ७, ९;

a) वैपश् यद्र. । b) व्युः? =वाचविशेष- । c) व्युः? । d) पूष. द्वि. अलुक् द्र. । e) मा १२, ४ । f) तैश्चा १०, ९, १ । g) ऋ १०, ८१, ३ । h) झ>अन्तः प्र. उसं. [पाउ ३, १२८ (वैतु. पाटी. पत्ते पतत्->-तन्तः)] । i) =प्रणतिः (तु. पाटी.) । j) बच्च. सत् बव्यु. प्राति. वैपश् यद्र. । k) 'पतङ्गी' इति श्रान. । l) =शालकारविशेष- । m) पा. ? =प्रदातृ-? [वैतु. पाटी. पत- (=पतन-)+तृ- (=त्रातृ-) इति] । n) पा. ? √पठ्>पति>पतयत्->-यन् इत्येतत्परः शोधः द्र. [तु. सस्थ. विकृर्वत्->-र्वन् (वैतु. शं. प्रसृ. यनि. =पतीन् इति)] । o) ऋ १०, १२१, १० । p) ऋ १०, १५२, २ । q) मा ३२, १३ । r) तैश्चा १०, ११, १ । s) °तिः (तु. तैश्चा १०, २३, १) इति मुपा. यनि. शोधः द्र. (तु. सा.) ।

पल्- -स्त्रे पा ८, ४.

पद^b - दम् क १, २, १५^३; ३, ७-९;
२, २, १; वृ ५, १४, १^३; २^३; ३^३;
५; ६^५; अना ४; अन्न १, २७;
२, २२; ३३; ४१; ३, १; २४;
४, २२; ६५; ६८; ७३; ७५-७७;
५, ४३; ५०; ५१; ५४; अबि
४; अशि ५, ११; १२; १४^०;
आरु^५ १^०; ऊद^५: १०^१; कुं९:
२०; कै २, ५^३; गा २-६; ७^३;
८; १०; १९; २०; यु ३९^२; गोच
६७: १३; गोपू ११; २१; २७^१;
३१; ३२; ता ३, ९^१; ते १, ५;
२, २१; ४, १३; ६, ४; ४३; ५०;
त्रिता १, ४२; ४६; ४, १८^१;
२०^३; ५, ४; २०; २१; त्रिवि १,
११; ७, १७; द १^३; २^३; ६^३;
७^३; १२^३; ध्या २; २५; १०५;
ना ३^३; नाद १५; ४७; ४९;
नाप ३, ७८; ९, २०; नापू १,
१६; ३, ३१^३; नि ३; १०; ४८;
४९; नृपू १, ६; १०; ४, ८; ५,
२०; २१^१; पं २०; पन्न ३, २;
पा २, १; ८, ५; पाशु १, २४;
पिन्न ६, २०^३; पी ४२२: १; पै
४, २१^३; २३^१; २३ ३४: २०;
२२; २३; ३५: २; वृजा ८, ६^३;
१^३; ब्र २; ब्रवि ४; ब्रवि ४२;
५४; भव १, ४४; २, १२; ३, ५;
३२; ५, २३; मं ५, १, ५; म ४८:
६; मना २, १३, ११^३; महा ३,
४; २३; ४, २८; ६०; ९२; १०३;
१०४; ५, ४१; ४३; ४८; ६०;

११४; ११५; १७२; ६, ३३; ५३;
७३; ७८; सु २, २, ४; २१;
७७^१; मै ४, २; ४, ७; मैत्रि ४,
२; ६, २६; ३४; मैत्रि १, ४, १;
या २, २४; यो ३, ५; १६;
योचू ६२; १योत ६; ७; १७;
१३६; १४०; १योत १, ७;
योशि १, ३; १५; १३६; ६,
२१^१; ७८; राउ ५, २९^१;
राधा २, ९; रापू ५, १०; रार
२, ५६; ६३^३; ६४; ७३^३; ७५^३;
८६: ८८; व ४३६: १४; ४४३:
१६^१; ४४९: २१^३; ४५३:
११^३; वउ ५, ३०; वरा २, १४;
३, ६; ४, ३८; ४१; ५, ७६^१; वा
३२; शां १, ७, १५; ३७; शि १,
२१; ७, ४२; शु३, १०; संशां^१;
१संन्या २, ५५; स ३७८: ८;
सु २९४: १२^१; सुबा ६^१;
१३; सूता १, ३३; ३, २; सौ २,
१९; स्क १४^१; १५^१; गौ १,
१५; ४, २८; ७८; ८५; १००; गी
२, ५१; ८, ११; १५, ४; ५; १८;
५६; -दयो: वृजा ४, २२; -दा
मना १, ४^१; वा ३७^३; -दानाम्
त्रिता १, २६; -दानि अव्य२; ग
६; द्र १, नापू ५, ३२^१; म ४९: २;
सर २, ६^१; योशि ३, ६; -दाय
वृ ५, १४, ७; अन्न १, ३०; गा
२३^१; -दे वृ ५, १४, ४; अन्न
४, २०; २४; ७४; गा १०; त्रिब्रा
२, ९^३; पै ४, १९; बा १; महा
२, ७७; ४, ७२; १०३; ६, ३२;

वरा २, ४३; ४, २९; हे ५; -दे-दे
ऊ ६३: ८^१; पा ५, १०; मना १,
८^१; व ४५८: ८; ४६४: १०^१;
-देन वृ १, ४, ७; -देभ्य: योशि
३, ६.
पद-कमल- -लयो: भव२, ३५.
पद-क्रम-समन्वित- -तम्
मन्त्रि १०; चू १०.
पद-द्वय- -यम् रार २, ७८^१.
पदद्वय-द्विर-भावृत्ति- -त्ते:
रार २, ५७^२.
पद-न्यासा(स-अ)रिष्ट- -ष्टम् व
४३३: ९.
पद-पांसु- -सुम् ब्रवि ३०.
पद-विद्- -वित् वृ ४, ४, २३;
इ १२: १३.
१पद(वि>)वी^०- -वी: ए २;
-व्य: पं ३१२: १९.
२पद-वी^०- -^१वी: मना २, १२,
१; २, ४०; व ४४२: १९;
४४८: २; ४५२: ९.
पद-व्योमा(म-अ)नुस्मरण-
-णम् मैत्रि ६, ३४.
पद-संप्राप्ति- -सि: सु २, २,
११; -सौ शि ७, ११.
पदा(द-अ)न्तर- -राणि महा
५, २.
पदा(द-अ)र्थ- -र्थ: महा ६, ४२;
-र्थस्य महा ६, ४२; अन्न ४,
४६; सु २, २, ५७; -र्थो: ते ६,
२२^३; -र्थान् पा ३, ९; -र्थानाम्
महा ५, ३२; ६, ४१; अन्न ५,
५; वरा ४, ८.

a) वैतु. पाटी. पद-+त्र-($\sqrt{\text{त्रै}}$) इति । b) बप्रा. । यत्र शब्दात्मकेऽर्थे वृत्तिः (तु. ना ३^२ प्रभू.), तत्र $\sqrt{\text{पद्}}$ शब्दे (पाधा. उरसं.) इत्येवं व्यु. सुवचा स्यात् । c) 'पद्मानामकम्' इति आन. । d) ऋ १, २२, २०; २१ । e) ऋ १, २२, २० । f) 'फल्म्' इति आन., अज्या. । g) स्थलद्वय इतः प्राक् २^० इति इत्यस्य लोपः द्र. । h) इत्यत्र प्राक् २^० इति इत्यस्य लोपः । i) ऋ १, २२, १७ । j) 'प्रभुम्' इति तैश्चा १०, ११, १ । k) ऋ १, २२, २१ । l) 'पदानि' इति मा ३२, ९ । m) ऋ १, २२, १८ । n) ऋ १, १६४, ४५ । o) माश्रा १४, ८, १५, १० । p) तैश्चा १०, १, ८ । q) सामर्थ्यादादितः = इति^० द्र. । r) ^०द्वयैः ^०वृत्तैः इति अज्या. । s) स्त्री. =मार्ग- । t) वैपश् यद्र. । u) ऋ ९, ९६, ६ । v) ^०र्थम् इति अज्या. ।

पाद-शस्(>) गौ १, २४^३.
 पाद-संज्ञा-
 पादसंज्ञित- -तः नाप८, १३.
 पाद-संधि- -धौ शां १, ७, ५२.
 पाद-स्थान- -नानि शि ७, ४८.
 पाद-हस्त- -स्तयोः शां १, ४.
 पादा(द-अ)ङ्गु(लि>)ली- -व्यः
 गु १९.
 पादा(द-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठम् त्रिब्रा २,
 ८०; १३०; -ष्ठे त्रिब्रा २, १०९;
 १२२; शां १, ७, ४३; जाद ६,
 २२; ७, ८; -ष्ठौ त्रिब्रा २, ४३.
 पादाङ्गुष्ठ-धारण- -णात्
 शां १, ७, ४५.
 पादाङ्गुष्ठ-निरोधन^०- -नात्
 जाद ६, २४.
 पादाङ्गुष्ठा(ष्ठ-अ)न्त-
 -न्तम् जाद ४, १९; शां १, ४.
 पादाङ्गुष्ठा(ष्ठ-अ)वधि-
 -धिः त्रिब्रा २, ७४.
 पादा(द-अ)ङ्गुष्ठ-गुल्फ-जङ्घा-
 जाब्ज(नु-ऊ)रु-पायु-मेढ-नाभि-
 हृदय-ऋण्ठकूप-तालु-नासा-
 (सा-अ)क्षि-भ्रमध्य-ललाट-
 मूर्धन्- -भ्राम् शां १, ८^६.
 पादा(द-आ)दिक- -कम् नाद
 २०; भव २, २८.
 पादा(द-आ)दि-जानु-पर्यन्त-
 -न्तम् १योत ८५.
 पादा(द-आ)दि-जान्व(नु-अ)-
 न्त- -न्तम् वपं ३१२ : ८.
 पादा(द-आ)दि-मस्तक-
 प्रमाण- -णम् नाप ४, ३८.
 पादा(द-आ)द्य- -द्यैः सूता १, ३१.
 पादा(द-अ)धिष्ठित- -तः त्रिब्रा
 १, ९.

पादा(द-अधस्>)धो-भाग-
 -धो शां १, ७, ५२.
 पादा(द-अ)भाव- -वात् ते ५,
 १९.
 पादा(द-अ)भ्यङ्ग- -ङ्गम् शि ७,
 ३३.
 पादा(द-अ)म्बुज-ध्यान- -नात्
 श २१.
 पादु^१-
 पादु-(क>)का^३- -का निर्वा
 २९७ : ८; -क्के शि ६, ९६; ७,
 ४६; ९१.
 पादो(द-उ)दर^{३०}- -रः प्र ५, ५.
 पाद्य^{२१}- -द्यम् मं २, २, ५; भा
 ३०; आपू २; -द्ये वज ६, २७.
 पाद्या(द्य-अ)र्घ्या(र्घ्य-आ)-
 चमन-मधुपर्क-पुनराचमन-
 निवेदन-पात्र^{३२}- -त्राणि वज
 ६, ९.
 पाद्या(द्य-आ)सन-प्रदान-
 -नेन शि ६, १९७.
 पद्-, पद-, पदन- √पद् द्र.
 १पद्म^३- -मम् कालि ४०१ : ८; गोउ
 २०; ५६; योचू ५; १योत १३७;
 १३८; २योत १, ९^३; २, १;
 राधा १, १४; -मस्य ध्या ३५.
 पद्म-कर- -रम् सूता १, २६.
 पद्म-कल्प-तरु- -रवे त्रिवि ७, ४३.
 पद्म-काञ्ची^{३३}- -ञ्चीम् व ४२७ : २.
 पद्म-कोश-
 पद्मकोश-प्रतीकाश- -शम् च
 २१ : १९^{३५}; ब्र ३, १२; मना
 २, १३, २९^{३५}; महा १, १९^{३५}.
 पद्मकोश-वत् त्रिब्रा २, ७.
 पद्म-(ग>)गा- -गा सौ १, २.
 पद्म-ज^{३४}- -ज योशि १, ६५; १६२;
 ६, ७१; -जः यो ३, १.

पद्म-त्याग- -गो हं ८.
 पद्म-द्वय-
 पद्मद्वया(य-अ)भय-वर-द-
 हस्त- -स्तम् सू ५.
 पद्म-नयन- -नम् सूता १, २७.
 पद्म-नाभ^{३५}- -भाय त्रिवि ७, ४१.
 पद्मनाभो(भ-उ)रस्- -रसि सौ
 १, २.
 पद्म-निधि^{३६}- -धये त्रिवि ७, ४३.
 पद्म-निभे(भ-ई)क्षण- -णम् रार
 २, १००.
 पद्म-पत्र- -त्रम् योचू ८, ८; २योत
 २, ५; महा ५, १७३; गी ५, १०.
 पद्म-पराग^{३७}-
 पद्मपराग-मय- -यः सार
 २५३ : २.
 पद्म-प्रि(य>)या^{३८}- -या सौ १, ३.
 पद्म-बान्धव- -वम् सूता १, २७.
 पद्म-रान^{३९}- -राम् शि ६, ९९.
 सिशि ३८२ : १८.
 पद्मराग-कुड्य- -ड्यानि सार
 २४० : ९.
 पद्मराग-जाम्बूनदसुवर्ण-ख-
 चित- -तम् सार २३९ : १.
 पद्मराग-पुष्पराग-चन्द्रकान्त-
 सूर्यकान्त-मणि- -णीनाम् सार
 २५८ : २२.
 पद्मराग-मणि-गणा(ण-आ)-
 वलित- -तम् सार २६८ : ३^{४०}.
 पद्मराग-मणि-जटिल-नील-
 मणि- -गिना सार २३९ : १२.
 पद्मराग-मणि-लता-प्रथित-
 -ताः सार २८१ : २१.
 पद्मराग-वर्ण- -र्णम् ध्या ९३,
 १४.
 पद्म-वन^{४१}- -ने सार २८७ : ११.

a) °ष्टे नि° इति श्रद्ध्या. संटि. । b) °धिर्न इति श्रद्ध्या. । c) पादौरज° इति आन. । d) नैप्र.>*पादा-
 (द-अ)व्- [तु. नभा. खडौव् =काष्ठ-पादाव्; वैतु. पाउ. (१, ८५)<√पद् इति] । e) =सर्प- । f) पा ५, ४, २५ ।
 ङ्) व्यु. ? =कमल-, मणिविशेष- प्रभृ. । h) तैआ १०, ११, २ । i) =मणिविशेष- । j) पा. ? नाउ. पदेन समासे सति
 °तभू° इत्यैकपयात्मकः शोधः द्र. (तु. सस्थ. टि. भूमि-रचित-> -तम्) ।

पयो-मूल-फला(ल-आ)दि-भुज्-
-भुक् रार ४, १.

पयो(यस्-अ)म्बु-

पयोम्बु-वत् ब्रसू २, २, ३.

पयो(यस्-अ)र्ष- -र्षम् वृजा ३, ५.

पर, रा^१ - रः क १, २, ६; ३, १०; ११;
२, ३, ८; सुं २, १, २; छां २, १०,
६; ४, १-२, ३; वृ ३, ७, १, २; ४,
१, २; ४, २०; ५, ११; ६, ४, १२;
श्वे ६, ५^१; ६; वृपू २, १०^१;
मना २, १२, ३^१; १३, १^१;^१;
ते ३, १^१; नाड १, ६^१; -रम्
क १, २, १६; १७; ३, २; १०;
११^१; १५; २, ३, ७; प्र १, १;
४, १०; ५, २; ५^१; ७; ६, ७;
८; सुं २, २, १; ३, २, ८; तै २,
१, १; छां २, १०, ५; २१, ३; ३,
४, ३; ४^१; ८, ३, ४; १२, २; ३; वृ
१, ४, ११; १४; २, ३, ६; ३, ७, १;
श्वे १, १२; ३, ७^१; ९^१; ४, १६;
६, १९; मना २, १३, १^१;^१; त्रिवि
७, ४३^१;^१; गोड ६४; गोपू ५;
जाद १, १०^१; ते १, १^१; ११^१;
२, ८^१; ९^१; २४^१; त्रिवा २, ९^१;^१;
निर्वा २९८: १५^१; वृड ५, ३^१;
पं२१^१; १योत१४०; ब्रवि५३^१;
योचू११३^१; राड ४-५, १; रुजा
२, १४^१; स्क५; शां ३, १^१;^१;
म ४८: २; ३; स ३७८: ८; ११;
३७९: १६^१; वड ३, ५; गी५,

१६; ६, ७^१; ११, ३७; -रया ब्रवि
२७; भव ३, २; महा ५, १७५;
योशि ५, ५७; ६, ५८^१; गी १,
२८; -रस्मिन् बा१; भव३. १७;
-रस्मै कौ ३, १९^१; -रस्य जा २;
त्रिवा २, १४७; नाप३, १; बा१४;
मैत्रि ४, ६; राड ३, १; शि ७,
५५; सिशि ३८१: ६; ब्रसू ३,
२, ११; गी १७, १९; -रस्याम्
छां ६, ८, ६; १५, १; २; -रा क१,
३, १०; ११; सुं १, १, ४; ५; श्वे ६,
८; २३; अता १७^१; अन्न १, ४८;
जाद ८ ३; तु ११^१; ते १, ३५;
त्रिवा २, ३; नाद ६^१; ९; ११;
नाप८, १^१; योरा १८^१; षो५९^१;
हं१९^१; -रा-रा ९^१ व४४०: १२;
४४५: १७; ४५०: १७; ४५४:
१; शा ३६; ३७; -रा: क १, ३,
१०; वृ ६, २, १५; अन्न ३; आर्षे
८: ९; गु ४१; -राणाम् शा३०;
-राणि भव २, २०; गी ३, ४२;
-रात् प्र ५, ५; सुं ३, २, ८; तै
१, ११^१; त्रिवा २, १५७; नाप९,
१६; पं१९; बि१; ब्रवि४०; महा४,
७१; मना १, १९^१; म ४८: २;
३; रशिसं १७; १८; -रात् कर४;
कशु३, ४; कुं१२; त्रिवा २, १^१;
शा३१; गौ१, १२; -राम् ए १४;
गु ३८; तै १, ४३; त्रिता १,

७८-८०; ८६; द ९^१;^१; नाप ५,
२९; भव २, ५०; महा ५, ८१;
मैत्रि ६, ३०; योशि ६, १९; -राय
पा १, ३; ४; ३, २; ४, ३; ९,
८-१०; -राया: अन्न२, ४१; महा
३; १२; -रायाम् पप ४२०: १;
यो ३, १८; -रे प्र १, ११^१; ४,
२; ७; ९; सुं २, २, ९; ३, २, ७;
अध्या २४; २५; अन्न ४, १०;
१आ ३०; कौ १, १; कु १६; कर
३०; त्रिवा २, ९^१;^१; २९; १६४;
नाप ९, ६; -रेण ए १, २; वृ १,
३, १२-१६; कै १, ३^१;^१; मना २,
१२, ३^१;^१; मै ४, ५; मैत्रि ५, २;
वृड ७, १४; नाप ३, १; अन्न५,
८०; जाद १०, ११; -रेषाम् व
४५७: १७; -रेषु मैत्रि ६, ३०;
रै: ते ४, ५५; ५६; महा ५, ७४;
योसू २, ४०.

पर-काय-प्रवेश-

परकायप्रवेश-कृत्- -कृत् योशि
५, ४८.

परकायप्रवेश-वत्- -वान् कामे
१७.

पर-काय-मनो-योग- -गः योशि
५, ४८.

पर-कृता(त-अ)भिचार-भस्मन्-
-स्मना व ४३३: ९^१;^१.

पर-गुरू- -रुम् द १४^१;

a) बप्रा. वैप१ यद्र. । b) 'परिः' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. आन.) । c) सा ८, ३६ । d) तैआ
१०, १०, ३ । e) तु. सस्थ. टि. 'नारायण-> -णः' । f) 'रम' इति अज्या. । g) परः इति आन. संटि., J.C. ।
h) 'वरम्' इति अज्या. । i) स्थूलसूक्ष्म' इति अज्या. । j) सकृत् 'परे' इति अज्या. संटि., 'संविदुः' इति आन. ।
k) 'पदम्' इति अज्या. संटि. । l) 'रसम्' इति अज्या. । m) पा. 'परे' इति शोधः द्र. । n) 'रम्' इति अज्या. ।
o) सकृत् 'पुरम्' इति निसा. । p) 'इदम्' इति निसा. संटि., अज्या. । q) सकृत् 'अमृतम्' इति अज्या. ।
r) 'परमम्' इति अज्या. । s) 'तत्परः' इति अज्या. । t) सकृत् 'परब्रह्म' इति अज्या. । u) तु. J.C.; वैतु. शं.
परमा' इति । v) 'परे' इति निसा. संटि. । w) 'अवरस्मै' इति आन., शांआ ५, १ । x) नाप. =तदाख्यवाग्विशेष- ।
y) 'वशानुगा' इति आन. । z) =संविद् इत्यस्य विप. । a') =देवीकलाविशेष- । b') ऋ १, ३८, ६ । c') अ' इति
निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । d') तैआ १०, १, १ । e') 'वरान्' इति अज्या. संटि. । f') =ह्रीं-बीजाक्षर- ।
'परम्' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । g') 'परम्' इति अज्या. यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) । h') 'नाम्' इति
मुपा. यनि. शोधः द्र. । i') 'सुरगुरुम्' इति निसा. संटि. ।

पर-मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र-न्त्राणि व
४५६ : १२.

परमन्त्रयन्त्रतन्त्र-भ्रम(र>)-
री- -०रि व ४३२ : १२.

पर-मन्त्रयन्त्र-पर-तन्त्र-पर-
भूत-प्रकटि(न् >)नी- -०नि
व ४३० : १३.

परं-पर- -राय पा १, ३; ३, १०; ४, ३.
परं-परा-

पारंपर्य- -र्यात् पा ४, ३;
-र्ये सांसू १, ६८; ६, ३५; -र्येण
सांसू १, ७४; ४, २१; ६, ५८.

पारंपर्य-तस(>) सांसू
१, १२२.

परंपरा-प्राप्त- -सम् गी ४, २.

परंपरा-श्रेणि-संचार- -रः
सार २७२ : ८.

पर-योगिन्- -गिनः रुह ५०.

पर-रक्षा- -क्षा व ४३४ : १५.

पर-र(न्ध्र>)न्ध्रा^{१०}- -न्ध्रा वरा ५,
३०.

पर-लोक- -के शि ६, १६६.

पारलौकिक- -कम् राउ ५,
११.

परलोक-यियासु- -सवः १अव
१२.

परलोक-स्थान- -नम् वृ ४, ३,
९; -ने वृ ४, ३, ९.

पर-वक्ष-

पारवक्ष- -इयात् सांसू ३, ५५.

पर-वक्षयन्त्रतन्त्रादि-दुष्टवाक्-
स्तम्भन- -नम् व ४३३ : १६.

पर-वस्तु- -स्तु नाउ २, १.

पर-वाद-विवर्जित- -ताः सांका ७२

पर-विद्या-निवारण- -०ण लां
२१४ : ११.

पर-शरीरा(र-आ)वेश- -शः योसू
३, ३९.

पर-शिव- -वः कृपु १९.

परशिव-त्व- -त्वम् रा ४२४ :
१४.

परशिवद्वय- -यः ६ २०°.

परशिव-शक्ति- -क्तिः कृपु ७.

पर-श्राद्ध- -द्धम् इ १४ : ११.

पर-संविद्- -वित् ते ४, ४९.

पर-स्त्री-पुर-पराङ्-मुख- -खाः
या २, १.

पर-स्थ्या(स्त्री-आ)लिङ्गना-
(न-आ)दिक- -कम् वृजा ४,
३५.

परस्पर- -रम् गौ ३, १७; ४, ३;
गर्भ २६; नाप ३, ५८; महा ३,

५; ५, ९; अन्न ५, ५२; त्रिता
३, ७; आर्षे ७ : १; सार २२५ :

३; २२८ : १९; २३३ : ११;
२३४ : १२; २५२ : १६; २६६ :

९; २६८ : १३; शि ७, ११२;
वउ ४, २६; २७; गी ३, ११;

१०, ९.

परस्पर-क्रीडा-संवलित-

देह- -हाभ्याम् सार २४७ : १९.

परस्पर-गोष्ठी-युक्त- -क्ताः

सार २६२ : २०.

परस्पर-ज्योत्स्ना-संवलित-

वीथि- -थयः सार २६६ : ८.

परस्पर-बाल-लीला-सुख-

युग्म- -ग्म(ग्मम्^{११}) सार
२४० : ८.

परस्पर-मध्यमा-पृष्ठ-वर्ति-
(न् >)नी- -न्यौ त्रिता ३, १२.

परस्पर-रासकेलि-कला-

कौतुक- -काय सार २६१ : १३.

परस्पर-विरुद्ध-धर्म- -मौ
त्रिवि २, १.

परस्पर-विलक्षण- -णाः सांका
३६.

परस्पर-शृङ्गार-सुख-भोग-
परस्पर-शृङ्गारसुखभोग-

वत्- -वद्भ्याम् सार २४७ :
२०.

परस्पर-संचार- -राय सार
२६६ : ४.

परस्पर-सुख- -खम् सार २४० :
४; २६६ : २२.

परस्पर-सुगन्ध-संवलि(त>)-
ता- -ता सार २७१ : १६.

परस्पर(र-आ)कृत-हेतु(क>)-
का- -काम् सांका ३१.

पर-स्वरूप- -पम् भव २, ५८.

पर-हंस^{१२}- -से नाप ४, २३.

पारहंस्य- -स्यम् या २, २४.

परहंस-समाह्वय- -यः नाप ६,
२२.

परहंसा(स-आख्या>)ख्य-
-ख्यः नाप ६, २१.

परहंसा(स-आ)श्रम-स्थ- -स्थः
नाप ४, २५.

पर-हिंसा-रुचि- -चिः भव ४, ११.

परा(र-आ)काश- -शम् मं १, २,
१३^१; ३, १, ३^१; ४, १, २; ३.

परात्
परात्-प(र>)रा- -रा षो ५.
परात्परा(रा-आ)ली(त>)-
ता- -ता षो ५.

परात्परातीता-रूप- -पः
कामे ८^{१३}.

परात्परा-रूप- -पः कामे
८^{१४}.

a) तु. सस्थ. टि. आत्मरक्षा- । b) =नाडीविशेष- । c) °कधियापरे इति निसा. अख्या. च संटि. ।

d) उप. कर्तरि कृत । e) पा.° वः अद्वय-> -यः इति शोभः द्र. । f) पावा ८, १, १२ । g) °रर इति आन. संटि., अख्या. । h) पा.° उत्तरेण समासे इ तदभावः शोभः द्र. । i) परमा° इति अख्या. संटि. । j) परमा° इति निसा. ।

k) °तीतरू° इति मुपा. यनि. सु-शोभः । l) °पररू° इति मुपा. यनि सु-शोभः ।

परो(र-उ)पञ्चम-शालि(र>)नी-
नी १संन्या २, २४.

परम,मा^१-मः छां १,१,३; वृ ४,३,
२०;३२^३;३३^३; कै १८^३; मना
२,१३,२९^३; मैत्रि ६, २८; मैत्रे
३,२;१०; नृपू १,८^३; ते २,१०;
३,१;५,५८; ब्रवि ६;९९; त्रिवि
२, १६; नाप ४, १४; महा १,
१९^३; १४^३; योशि ३,२; अन्न
१,५४^३; त्रिता २,१६; म २,४;
१५; त्रि १६; गोपू २; ४९^३; च
२१: ६९^३; १प्र ३१: १०; बा
१५; सूता १,६; नापू ३,६९^३; पा
१,१;७,२,१;७,७; हे ७;कालि
४०२: १६; ४०३: ७९^३; तारा
८४: ११; भव ४,१; गी ६,३२;
-मम् क १,३,९; १७;२,२,१४;
मुं ३,१,३;६;२,१;९; वृ ४, १,
२-७;५,११,१^३; श्वे १,७;६,७^३;
२१;२२; मै १,१;४,४-७; मैत्रि
१,२;६,२६; ३०; ३४; मैत्रे १,
१; मना १, २९^३;२,७९^३; ब्र
२९^३;३,६; ब्रवि ४;७;९; कै १,
१०; अना १; अशि ६,१७;बृजा
८,६^३; आरु ५^३; नृपू १,२;
१०^३;१५; ५,२०^३; २१^३; नृउ
४,१-३;७,२;७;१०;सुबा ६^३;
नि १०;४८;४९^३; ते १,५;९;२,
३५;६,६२; नाव ४७;४९; ध्या
२; २५; ८९; ब्रवि ४५^३; ५९;
१योत ६;१७;२योत १,७;नाप ४,
३८^३;९^३; ९,६;१६; २०; त्रिवि
१,११; ४,७;७,१७^३; त्रिजा २,
२८; योचू १०; ६२; मं ५,१,
५; स्क १४^३;१५^३; रापू ४,

६७;५,१०; राज ५,२९^३; शां
१,७,३७;पै ४,२१;२३^३; महा
१,१;१०^३; ५,४१;८८; योशि
१,३;१५; ३, १६; ६, २१^३;
अव्य ३; अन्न ३, १;४,४५;५,
४३;५४; ६३; ११९; पाशु २,
३०^३; पन्न ३, १२; त्रिता १,
४२; ४६; ४८; ४९; ४, १८^३;
२०^३; ५, १;४; २०; करु २७;
रुह ५२;यो १,७३;३,५; ता ३,
९^३; जाद २,६; पं १४;२०; सं
क्षा^३; गोपू ३;२१;२७^३;३१;
वरा ४, ३८;४१^३; ५, ७६^३;
शा ४; ह १५^३; सर २,७९^३;सु २,
२, ७७^३; योरा २१^३; आर्षे ७:
२०; इ १९: २१; च २०:
१०^३; क ६४: १०^३; नापू
१,१६;पा १,१०;७,७;सु २९४:
१२^३; वृ ३१८: १; शि १,
२१;२८; ४,६७; ५,२;२९; ६,
८८;२२३; ७,४२;८१; सि ४,
११; व ५,३०; ६, ३२; भव
२,६; १२; ३,५^३; गी ८,३;८;
२१;१०,१;१२;११,१;९;१८;
१५,६; १८, ६४; ६८; -मया
महा ४,९२;१२८; गोपू ३३;
-मस्य महा २, ४; वरा ३, ५;
-मा वृ ४, ३,३२^३; नृपू १, २;
नाव ७; महा ५,८९; योशि १,
११७; ६, ४७; अन्न १, २५;
अध्या २९; त्रिता १, ९; रुह
३०; म २, ८; इ ११: १६^३;
राधा २, ११; तारा ८४: ८; ११;
वपू १,४; योसू २,५५; -^३मात्
मना २,१; व ४६: १४; -माम्

क २,३,१०; वृ ६,४,२८; मैत्रि
६,३०; मना १, ९^३; नाप ४,
१; योशि ६,३४;४०; अव्य २;
कुं २२; त्रिता १,७९; २, ६९;
१अव ५; गु ६६^३; भव १,३७;
गी ८, १३;१५;२१; १८, ४९;
-माय मना २,१६^३; -मै क १,
३,१; तै २,१,१;३,६,१; श्वे ४,
८^३; मैत्रि ६, ३५; मना १,
१^३; नृपू ४, ९; ५;९; बृजा
६,१२^३; राज ५, २९^३; सु २,
२; त्रिता ४,३०; ५, २१; करु
११; ह १६^३; व २३^३; २प्र
३३: १५^३; नाउ १, १४^३; गु
५३^३; चक्र ३९^३; -मौ रुह ४३.
परम-अधि- -विम्यः प्र ६, ८^३; मुं
३,२,११^३.

१परम-कल्याण^३-

परमकल्याण-विलास-विशेष-
-षम् त्रिवि ७,९; सि ५,३.

२परम-कल्याण^३- -णम् त्रिवि ६,
२२; सि २,५; ४,५.

परमकल्याणी- -०णि व ४३२:
१६; ४३६: १८.

परम-कान्त(र>)न्ता- -न्तया महा
५,१२२.

परम-कारुणिक- -कः १अव १; म
१, २.

परम-कैवल्य- -ल्यः सि १,३; -ल्यम्
त्रिवि ७,२०; ८,४.

परमकैवल्य-स्वरूपा(प-अ)-
नन्त-नाण- -णाः सि ५,२१.

परमकैवल्य(ल्य-आ)नन्द-रूपा-
(प-अ)नन्त-शिखर- -राः सि
४,१.

- a) वैपश् यद्र. । b) तैआ १०, ११, २ । c) °मशिखः इति अच्ञ्या. । d) °मस्फुट° इति अच्ञ्या. ।
e) 'परः' इति आन. । f) तैआ १०, १, २ । g) तैआ १०, ६३, १^३. । h) पापू २, २, ११ । i) ऋ १, २२, २०; २१ ।
j) 'परम्' इति निसा. । k) °मपदम् इति अच्ञ्या. । l) ऋ १, २२, २० । m) ऋ १, २२, २१ । n) तैआ १०,
११, १ । o) ऋ ८, १००, १० । p) पा. १°मः इत्येवं शेषः द्र. । q) शौ ७, ६५, १ । r) तैआ १०, १, ९ । s) तैआआ १०,
१६ । t) ऋ १, १६४, ३९ । u) तैआ १०, १, १^३. । v) ऋ १, १६४, ४१ । w) तैआ ८, १, १ । x) कस. । y) बस. ।

परमशिव-विद्या- -द्या त्रिता १,
७२.

परम-शोभन- -नम् व ४६६ : २१.

परम-संन्यास-स्वरूप- -पः राधा
४, १.

परम-सुख-द- -दम् शु १, १८.

परम-सुन्दर(>)री- -रि व
४३६ : १६.

परम-सूक्ष्म-मूल-कारण- -णम्
त्रिवि ३, ७.

परम-स्थिति- -तिः पदं ३^b.

परम-हंस^१- -सः जाद^१; हं७; १०;
नि ५५; शु १, १८; २, ५^{१०}; पदं
२; ३; नाप ५, १^१; वा १९; निर्वा
२९७; १; मं ५, १, ९; १संन्या २,
१३; तुअ७; पप ४१७; ४; ४१९;
११; पाशु १, २९; या २, १; वरा
२, ३७; शा ११^१; म ४९; १५;
गोच ६६ : १८; -सस्य नाप ३,
२८; ५, १^१; ७^१; १संन्या २, ५९;
-साः जाद; वृजा७, ३; आश्र४^१;
या २, १; मि ७; १६; -सानाम्
पदं १.

परमहंस-सुरीयातीता(त-अ)-
वधुत^१- -तैः पप ४२० : ४.

परमहंस-परिव्राज^१- -व्राट् पप
४२० : १८.

परमहंस-परिव्राजक^१- -कः पप
४१९; १९; ४२०; १०; -कानाम्
आरु ४.

परमहंसपरिव्राजक-लक्षण-
-णम् पप ४१७ : २.

परमहंस-पुरुष- -षस्य अद्वै २६

परमहंस-पूर्ण- -र्णः अद्वै २३.

परमहंस-प्रीत्य(ति-अ)र्थ- -र्थे
शु १, १८.

परमहंस-मार्ग- -र्गः पदं १.

परमहंसा(स-आ)चरण- -णेन
भि १५.

परमहंसा(स-आ)दि-त्रय-

-याणाम् नाप ५, १.

परमहंसा(स-आ)धिकारिन्- -री
नाप ३, १.

परमहंसा(स-आ)श्रम^१- -मेण
नाप १.

परमा(म-आ)काश- -शम् अता
७; मं ४, १, २; ३; -शो महा ५,
१५९; योशि ६, ४०.

परमाकाश-रूप- -पः योशि १,
५७.

परमाकाश-विग्रह- -हः ते ३,
१२.

परमाकाशा(श-अ)खण्ड-
मण्डल- -लः मं १, ४, ४.

परमा(म-अ)क्षर- -रम् एद; रुह ३०.

परमाक्षर-निर्णय- -यम् ब्रवि ४६

परमाक्षर-विद्- -वित् ब्रवि ४९.

परमा(म-अ)णु^१- -णवः शि २,
२०; ३, १४; ५, २४.

परमाणु-परम-महत्त्वा-
(त्व-अ)न्त- -न्तःयोसू १, ४०.

परमाणु-वत् त्रिवि ६, ५.

परमा(म-आ)त्मन्- -त्मनः मं ३,
२, २; त्रिवा २, १४७; योशि

४, ५; त्रिता २, ११^d; गोपू १७;

पाशु २, २६; अद्वै ४; शि ६,

१३३; वउ ४, १८; ५, ३; -त्मनि

ब्र ३, १४; अ १; ३; १योत

११; नाप ३, १८; मं ३, १, ४;

पै ३, १^१; ४, ९; योशि १, ९; यो

३, २४; पाशु २, १५; जादद, १७;

सर ३, ३१; भव २, ५४; -त्मने

वृजा ४, २९; -त्मा मैत्रि ६, ९;

१७; मैत्रे ३, १२; वउ ९, ३;

१३; काला १६; हं ९; मना २,

१३, २४^०; २, ६६^१; ससा १,

३७; नि ५; १९; २०; शु २,

५^१; ते ४, ४१; ४५; ६२; ५,

५८; ६, ६७; नाद ४८; ब्रवि

९९; त्रिवि १, ११; १आ १^१;

२आ १; ३^१; महा १, १४^०; ४, ५६;

५, ८९; योशि १, १३४; अन्न

१, ४४; २, ३४; ५, ५६; पाशु

१, २५; २९; २, १; रार ५, ४;

राउ ४, ४६; वा २३४^०; मं १,

४, ३; ३, १, ६; त्रिता १, ३१; ३७;

२, ११; ५, १; रुह १३; जाद

१०, ८; ता १, २; २, ४; ३, १;

३; ८; मवा ६; प्रा १, ६; ह ६;

जाबा २५; सु १, ४; अद्वै १३;

च २१ : ५; म ४९ : १४; नापू

५, ७; नाउ १, २०^१; सूता ४,

१०^१; पा ३, ८; ४, ३; १०, ३;

कृपु २५; लिं ३११ : ७; कालि

४०३ : ६४^०; वपू २, ३; भव

२, ४१; गीद, ७^b; १३, २२; ३१;

१५, १७; -स्मान् नाप ५, ३८;

त्रिवा २, १२९; १४४; त्रिवि ३,

४; रापू ५, ५; रार २, ६; अव्य

६; रुह १२^१; ह १२; वउ ५, ३१.

पारमात्मिक- -कः पा ३, ७;

-कम् पा १, ३.

पारमात्मिकी- -की

१संन्या २, ४६^१.

परमात्म-वगन- -ने मं २, ५, २.

परमात्म-जीवात्मन्- -त्मनोः

त्रिता १, ४५.

परमात्म-तत्त्व- -त्वात् महा ५,

५२.

परमात्म-दृष्टि- -दृष्ट्या मं ३, १, ३.

परमात्म-ध्यान- -न्नेन मं २, ३, ६

४) बस. (तु. नादी.) । ५) ०मे स्थि० इति निसा? यनि. शोधः द्र. । ६) सकृत् 'हंसः' इति श्रद्धा. ।

७) ०त्मना इति श्रद्धा. । ८) तैश्चा १०, ११, २ । ९) तैश्चाश्चा १०, ६६ । १०) ०स्म इति मुपा. यनि. शोधः द्र. ।

११) 'परात्मसु' इति SCHR. पाठे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] । १२) ०मार्थि० इति श्रद्धा. ।

पारमार्थिक-कर्तृत्व-
 भ्रम-मः अन्न १, १६.
 पारमार्थिक-रूप-
 पारमार्थिकरूपि-
 (न>)णी-णी सु १, १, १८.
 पारमार्थिक-विज्ञान-
 -नम् नाप ६, ९.
 परमार्थ-तत्त्व- -त्त्वम् योशि १,
 ९०.
 परमार्थ-तत्त्व(>) गौ १, १७;
 ४, ७३; त्रिवि २, १३^१; १७; ३,
 २; ५, ४; ६, १; महा ५, १०८;
 सर २, १^२; जाद १०, १२.
 परमार्थ-ता- -ता गौ २, ३२;
 १भा ३१; ब्रवि १०; १अव ८;
 त्रिता ५, १०; अबि १०.
 परमार्थ-दर्शिन- -र्शिनः वस्
 १७.
 परमार्थ-दृष्टि- -दृष्टिः वरा २, ६९.
 परमार्थ-मति- -तिः नाप ६, ३६.
 परमार्थै(र्थ-ए)क-विज्ञान- -नम्
 वरा २, २९.
 परमा(म-आ)लय- -यम् मैत्रि ६,
 २७.
 परमा(म-आ)वधि- -धिः अध्या ४१.
 परमा(म-आ)श्रम- -मम् नाप ६,
 २८.
 परमे-छिन्^{1b}- -छिनः वृ २, ६, ३;
 ४, ६, ३; -छिनम् कै १, १; नाप
 २; ८, १; तारा ८४ : ७; -छिने
 मना २, ६७^१; -छी वृ २, ६, ३;
 ४, ६, ३; मना २, ७९^२; नाप
 २; ८, १; त्रिवि १, १; महा ३,

५१; अव्य १; बा २५.
 परमे(म-ई)श- -शः योचू ८३;
 -शस्य योशि २, १०; -शास्य शि
 ६, २७.
 परमे(म-ई)ज्ञा(न>)नी- -नि वपं
 ३१३ : २.
 परमे(म-ई)श्वर¹- -०र राज ३, २;
 योशि ६, १; गोपू ४३; गी ११,
 ३; -रः मैत्रि ७, ७; स्क ५; नृपू
 २, १३; वृउ ४, ४; ८, २-५; ब्रवि
 १०१; श १; १४; त्रिवि १, ११;
 २, १५; रापू ४, ३१; महा ४,
 ११८; ६, ८; पाशु २, १२; त्रिता
 १, २५; म १, २; या २, १;
 गोपू २५; स ३७९ : १२;
 -रम् कै १, ७; मैत्रे १, ४, ८; ते
 ४, १; राज ४, १; योशि १, ७२^०;
 ७८^१; ५, ५७; बि १; ३; गी
 १३, २७; -राय व ४३४ : १४;
 -रे योशि १, ७४^२.
 परमेश्वरी- -री ध्या ६६;
 योचू ३८; त्रिता १, ९; नापू २,
 १०; -र्यां रापू ४, ८.
 परमेश्वर(>)री- -री अन्न
 १, ५३; १कौल ८ : २; -रीम्
 ब्रवि २६^३.
 परमेश्वर-रूप- -पेण ध्या ९३,
 १३^४.
 परमेश्वर-सत्ता- -त्ता निर्वा
 २९७ : १३.
 परमेश्वर-स्तुति- -तिः आपू ६.
 परमेश्वरा(र-आख्या)>ल्य-
 -ल्यम् पै ४, ११.

परमे(म-इ)ष्वा(सु-आ)स- -सः गी
 १, १७.
 परमै(म-ए)का(क-अ)न्त-
 पारमैकान्त्य-
 पारमैकान्त्य-सिद्धि-द-
 -दाः भव ५, २२.
 पारमैकान्त्य-हेतु- -तवः
 भव ५, २१.
 परमो(म-उ)दार, रा- -रम् महा ६,
 ५२; -रा ते १, २९; १संन्या २, ४४.
 परमो(म-उ)पशम-प्र(द>)दा-
 -दा अन्न ४, ४८; सु २, २, २९.
 परशु¹- -शुः कौ २, ११९^५; -शुम्
 छां ६, १६, १^६; २.
 परशु-राम¹-
 परशुरामा(म-अ)वतार- -राय
 नापू ५, १०.
 परशु-हस्त¹- -स्तेन व ४५३ : २२.
 परश्वन्¹- -श्वा कौ १, २.
 परस्¹- -रः छां १, ६, ५; ६, ७, ४^३; ३,
 १३, ७^०; मैत्रि ४, ४; मना २,
 १३, १^३; -रांसि मना २, ७८^१.
 परस-तात् सुं २, २, ६; छां २, २४,
 ६; १०; १५; वृ १, २, ४; ७; श्वे ३,
 ८९^२; ६, ७; कै १, ७; मना १,
 १९^०; कौ २, २^६; ३, ५^१; वृउ ९,
 ११; त्रिवि ४, ५; ७^९; सुबा २;
 ११; १३-१५; ३११-८; २प्र ३३;
 १२^१; २शिसं १५^९; गी ८, ९.
 परः-शत-षष्टि-वाणी- -श- -शः
 पारा १५^१.
 परो(र-सु-अ)क्ष¹- -क्षम् पै ३, १;
 सूता १, ३५; ६, १३; शि ७, २२;

a) 'परमेश्वरी' इति श्रव्या. । b) =ब्रह्मन्- । वैप१ यद्र. । c) तैआआ १०, ६७ । d) तैआ १०, ६३, १ ।
 e) °छिनम् इति श्रव्या. संटि. । f) °छिनम् इति श्रान. । g) °छिनः इति श्रान. । h) 'पावर्नी पराम्'
 इति श्रव्या. । i) °रस्वरू° इति निसा. । j) वैप१ यद्र. । k) माशवा १४, ९, ४, २६ । l) =अवतारविशेष- ।
 m) मलो. कस. । n) व्यु. ? =जन्तुविशेष- (तु. वैप१ पुरस्वरू-) । o) वा. क्तिवि. (=न. द्वि१) । p) तु. सस्थ. टि.
 नारायण-> -णः । q) पा. ? नैप्र. <पर-(सना.)> -रस्मिन् इति तत्परः शोधः द्र. [वैतु. j.c. 'तपांसि' इति सुपा.
 (तैआ १०, ६२, १), यत्र यनि.>नैप्र. एव पांसि>त्° इति शोधाभासः] । r) मा ३१, १८ । s) तैआ १०, १, १ ।
 t) 'पुरस्तात्' इति शोधः द्र. (तु. गोत्रा १, १, २२) । u) पराशत° इति सुपा. यनि. शोधः द्र. ।

ब्रवि ५, ६; १योत् २३; सी २४;
 रार २, ३९; १संन्या २, ८२;
 यो २, २०; जाद २, १४; ४,
 ३७; ८, ५; १प्र ३१: ८; १०;
 गु ८३; गी १८, ७; २७; -तम्
 वृजा ५, १७; १योत् ८८; यो १,
 ६०; नापू ३, ८; शि ५, १२; ६,
 ९; ३३; ७, १३३; -ता अना
 १६; १योत् २०; सी २१; २२;
 रार २, ३१^०; गु २५; -ता: महा
 ४, २; शि ६, २४६; ७, १०१;
 -तौ गु १२.
 परि/क्रम, > क्राम^b, परिक्रामति
 वृप् ५, ७.
 परिचक्राम सार २७६: १७.
 परि-क्रम- -मम् सार २५६: ६.
 परि/क्री, परिक्रीयते ब्रसू ३, ४,
 ४५.
 परि/क्लिश्
 परि-क्लिष्ट- -ष्टम् गी १७, २१.
 परि-क्लेश- -शे शि ७, ११९.
 परि/कल्प (<कृप्>) कल्प, कल्पि,
 परिकल्पयेत् शि ६, २०६; २२३.
 परि-कल्पित, ता- -त: १संन्या २,
 १८; -तम् वरा २, ६५; -ता:
 नाप ६, १०; जाद ४, ५९; -ताम्
 शि ७, ७८; -ते शि ७, ४९; -तौ
 वरा २, ५१.
 परि-कल्प्य भ २, २४.
 परि/क्लि (ज्ञये)
 परि-क्षय- -य: जाद ६, ५०^२.
 परि-क्षी (ण>) णा- -णा योशि १,
 ३६.
 परि/क्लि (निवासे)
 परि-क्षित^०-
 पारिक्षित- -ता: वृ ३, ३, १^३.
 परि/ख्या, परिक्रियायते छां ८, ७, ४^३.

परि/गल् (*बधा.)
 परि-गलित^d-
 परिगलित-समस्त-जन्म-
 पाश- -श: अन्न २, १६.
 परि/गा, पर्यगात् ई ८.
 परि/*गृह्, ग्रह (> भ्), परिग्रहेत्
 आरु १; ३; १योत् ६७; नाप
 ३, ८६; ४, ३८; पदं १; ४;
 १संन्या २, ९.
 पर्यगृहीत कौ २, ११९^०.
 परिजग्राह वृउ ६, १; ऽपरि-
 जग्रभत् श्वे ४, १९; मना १, २;
 गु ६२.
 परि-गृहीत, ता- -तम् वृ ५, ५, १;
 मना २, ७८^१; १शिसं ४^१;
 २शिसं १^१; -ताम् छां ३,
 ११, ६.
 परि-गृह्य कौ ३, ३; वृजा ७, १;
 काला ६; नाप ४, ३८; त्रिवि
 ५, ४; १२; १३; ६, २१; १संन्या
 २, १२; प ४१८: ३३.
 परि-ग्रह- -ह: नाप ३, २८; १संन्या
 २, ८१; ८२; -हम् नाप ३, २९;
 गी १८, ५३.
 परिग्रहा (ह-अ) वलम्ब- -म्ब:
 मै ३, ५; मैत्रि ३, ५.
 परि/गै > गा, परिगीयते १योत् ४०;
 अन्न ५, ५६.
 परिघ- परि/हन् द्र.
 परि/चक्ष्, परिचक्षते गौ ३, ४७; गु
 १७; ८०; गी १७, १३; १७;
 परिचक्षीत तै ३, ८, १.
 परि/चर्, > चारि, परिचचार छां
 ४, १०, १; पर्यचारीत् छां ४,
 १०, ४; परिचचारीत् छां ४,
 १०, २.
 परिचारयस्व क १, १, २५.

परि-चरत्- -रन् छां ७, ८, १; ८,
 ८, ४.
 परि-चरित्- -रिता छां ७, ८, १.
 परि-चर्य- -र्य: छां ८, ८, ४.
 परि-चर्यमा (ण>) णा- -णा सी ३७.
 परि-चर्या^१-
 परिचर्या (र्या-आ) स्मक- -कम्
 गी १८, ४४.
 परि-चारयमाण- -णम् वृ ६, २, १.
 परि-चारि (न्>) णी- -णी छां ४,
 ४, २; ४.
 परि/चर्च्
 परि-चर्चित- -तान् पाशु १, २७.
 परि/चि (*बधा.)
 परि-च्य^१- -च्य: १योत् २०; वरा
 ५, ७१.
 परिचया (य-अ) वस्था- -स्था
 १योत् ८१.
 परि-चित^k- -त: १योत् ८२.
 परि/चिन्त् > चिन्ति
 परि-चिन्तयत्- -यन् गी १०, १७.
 परि/च्छिद्
 परि-च्छिन्न- -न्न: १वा १४; -न्नम्
 तै ५, ९५; ६, २७.
 परिच्छिन्न-त्व- -त्वात् सांसू १,
 ७६^१.
 परि-च्छेद-
 परिच्छेद-रहित- -तम् त्रिवि १,
 ५; ७, १७.
 परि-जन^m- -नस्य गर्भं ४.
 परि/जप्
 परि-जप्य व ४५९: १.
 परि/जीव्, परिजीवति योशि १, ४६.
 परि/ज्ञा
 परि-ज्ञात- -ते नाद २७.
 परिज्ञात-स्वभाव- -वम् महा
 २, २८; -वस्य अन्न १, ४१.

a) ०त: इति श्रद्धा. । b) पा ७, ३, ७६ । c) वैपश् यद्र. । d) धा. धारणे वृत्ति: द्र. । e) 'पर्यगृह्णात्' इति
 शांत्रा ४, ११ । f) मा ३२, २ । g) तैत्रा १०, ६२, १ । h) मा ३४, ४ । i) पावा ३, ३, १०१ । j) =योगावस्था-
 विशेष- । k) धा. चयने वृत्ति: द्र. । l) ०र्त्तं न इत्यपि पाठे. । m) प्रास. ।

परि-धि^१- -धयः सुद्र १, ६९^१; सार
२३९ : २; २६६:५; -धीनाम्
शि ४, ६२.
परिधि-त्रय- -यम् शि ५, ४.
परिधी/कृ
परिधी-कृत- -तम् सि ५,
८; ६, ७.
परि/धाव्(गतौ), परिधावति त्रिवि
५, ४; महा ५, ९३; जाद ६, ४८.
परि/नश् (अदर्शने)
परि-नष्ट- -ष्टे मं ३, १, ५.
परि-निर्/वा, परिनिर्वामि अन्न
३, ९.
परि-नि/ष्टा (<स्था)
परिनि-ष्टा- -ष्टा सांसू १, ६८.
परि/पक्
परि-पक्, क्का- -कः मं २, ४, ४;
-क(कम्^१) त्रिवि ५, ९; -क्का ते
१, ४५; -क्काः योशि १, २५.
परि-पाक- -केन वरा ५, ४८.
परि/पद्^०
परि-पा(टि^१>)टी- -टी गु ८३.
परि/पद्, परिपद्यते ब्रवि ४०.
परि/पत् (गतौ), >पाति, परिपतन्ति
छां २, ९, ४.
परिपातय मना १, ५९^०.
परि-पन्थिन्^१- -न्थिनि या २, २०;
-न्थिनौ गी ३, ३४.
परि/पद्, परिपश्यति सूता १, ८;
परिपश्यन्ति मुं १, १, ६; २, २, ७;
२शिसं १५९^०; पर्यपश्यत् छां १,
४, ३; परिपश्येत् छां १, ४, ३;
अक्षि ४४.
परि/पा(रक्षणे), परिपाति सं ७.
परि-पाल^१-
/परिपालि, परिपालयति त्रिवि

८, १२; परिपालय त्रिवि ८, १७.
परिपालित- -तः शि ७, १०६.
परि/पीड्
परि-पीडित- -ते जाद १, १७.
परि/पूज्
परि-पूज्य कालि ४०३:१९.
परि/पृ>पूर
परि-पूर्ण, णी- -र्णः मै ३, ५; मैत्रि
३, ५; ४, ४; शु ३, ३; ते ४, ५;
त्रिवि ८, ५; अन्न ४, ६७; अध्या
६८; शि ६, ११३; -र्णम् मै ३,
४; मैत्रि ३, ४; मैत्रि १, ३; पै १,
३; वृत् ९, १७; त्रिवि ७, १७;
अध्या ६०; वरा २, ७३; अद्वै २१;
-र्णस्य अन्न ४, ७; -र्णा अन्न १,
५०; -र्णे अध्या २३; मं ५, १, ३.
परिपूर्ण-चन्द्र-मण्डल- -लम्
मं २, १, १०^१.
परिपूर्ण-चन्द्रा(न्द्र-अ)शृत-
-तस्य मं २, २, ५^१.
परिपूर्ण-चन्द्रा(न्द्र-अ)शृत-रसै-
(स-ए)कीकरण- -णम् आपू ५.
परिपूर्ण-ता- -ता मु १, २, ६.
परिपूर्ण-त्व- -स्वात् शि ६, ३९.
परिपूर्ण-ध्यान- -नम् मा ४१.
परिपूर्ण-परमाकाश-मग्न-
मनस्- -नाः मं ३, २, १^१.
परिपूर्ण-राज-योग-
परिपूर्णराजयोगिन्- -गिनः
आपू ६.
परिपूर्ण-वेदन- -नः वरा २,
३१.
परिपूर्ण-स्वरूप- -पम् योशि १,
१९.
परिपूर्ण-स्वरूपक- -कः ते ५,
६६.

परिपूर्ण-स्वा(स्व-आ)त्मै-
(त्म-ऐ)क्य-रु(प>)पा- -पा
भा २६^१.
परिपूर्णा(र्ण-आ)नन्द- -न्दः
त्रिवि १, १.
परिपूर्णा(र्ण-अ)न्तर- -रम् महा
५, ६८.
परिपूर्णा(र्ण-ए)क-चिन्मय- -यः
महा ६, ६३.
परि-पेल(व>)वा- -वा महा ३, ८.
परि/प्रच्छ, >पृच्छ, परिपृच्छति
त्रिवि १, १; ८, १; ३; ७; पाशु १,
२; गार ४०५ : २; ३.
परि-पृच्छक- -कः २प्र ३५ : २०.
परि-प्रश्न- -श्नम् १संन्या २, ८५;
-श्नेन गी ४, ३४.
परि-प्रा(श>)षू^१- -प्राद् वा १.
परि-प्र/वच्, परिप्रवोचन् छां ४,
१०, २.
परि/प्लु
परि-प्लव-
पारिप्लव-
पारिप्लवा(व-अ)र्थ- -र्थाः
ब्रसू ३, ४, २३.
परि-भव-, परि-भावितव्य- परि-
/भू द्र.
परि/भाष्
परि-भाषा^१- -षा इ १० : १९.
पारिभाषिक^१- -कः सांसू ५, ५.
परि/भुज्(कौटिल्ये), परिभुज नी २,
१७१^१.
परि/भू, >भावि, परिभवन्ति नाप
६, ४.
९^०परि...बभूव मना २, ५४; पा
६, ८; परि...बभूय व ४३७ :
१६९^०.

a) ऋ १०, ९०, १५। b) पा.१ यनि. शोधः द्र.। c) गतौ भ्वा.। d) भाप.। e) तैश्चा १०, १, ५।
f) वैपश् यद्र.। g) मा ३१, १९। h) तु. वैपश्, २०५a। i) उपरिपूर्ण^० इति निसा.। j) *तरसस्य इति निसा.।
k) *पराका^० इति निसा., अञ्चा. संटि.। l) पूर्णा स्वा^० इति अञ्चा.। m) पावा ३, २, १७८; पा ६, ४, १९; ८, २,
३६। n) *भू^० इति मुपा. यनि. सु-शोधः (तु. मा १६, ११)। o) ऋ १०, १२१, १०। p) ऋ १, ६९, १।

परि-त्राज्^{१०}—-त्राट् जा ५; नाप ३,
१; ३३; ६६; ८६; ५, १; ३२; ९,
२०^५; १संन्या २, ५९; या २,
१^२; शा ३१; सु १, १, ३४^{११०}.
पारित्राज्य—-ज्यम् शा २६;
२९.
पारित्राज्य-स्वरूप-क्रम-
-मम् नाप २.
परि-त्राजक^{११}—-का: निर्वा २९७:
१; शा ११; १८; आश्र ४;
-कानाम्^{१२} जा ५; या २, १.
परित्राजक-त्व—-स्वम् पप
४१७ : ४^१.
परित्राजक-लक्षण—-गम् पप
४१७ : ३.
परित्राजका(क-आ)भरण—-ण:
नाप १.
परि/त्रश्च्>वृश्च्^{१३}
परि-वृक्वण—-क्वणः, -क्वणे छां ८, ९,
१; २.
परि/शिष्, परिशिष्यते क २, १, ३;
२, ४.
परि-शिष्ट—-ष्ट: छां ६, ७, ३; -ष्टम्
छां ६, ७, ५; सु २, २, ५०^१.
परि-शेष—-षात् ब्रसू ३, २, १०.
परि/शुच्
परि-शुद्ध—-द्धम् शि ६, ३२; चू
१६.
परि-शुभ्र^{१४}—-भ्रम् मन्त्रि १६; योशि
१, ७५^{१५}.
परि/शुष्, परिशुष्यति प्र ६, १; गी
१, २९.
परि/श्रम्
परि-श्रान्त—
परिश्रान्त-ता—-तया अक्षि ३६;

वरा ४, १५.
परि/श्रि
परि-श्रित^१—-ते इ १५ : १५.
परि/श्रु>शुश्रूष
परि-शुश्रूषु—-षवे मवा २.
परि/ष(<स)द्
परि-षद्^१—-षदम् वृ ६, २, १.
परि/षि(<सि)च्>ञच्, परिषि-
ञामि प्रा २, १.
परि/षे(<स)ष्^{१६}
परि-षेवि(त>)ता—-ता त्रिवि ६,
१६; -ताम् त्रिवि ६, २३.
परि-(स्)>ष्/कृ
परि-ष्कृत—-तः, -ते छां ८, ९, १;
२; -तौ छां ८, ८, २^२; ३^२.
परि/ष्टु(<स्तु)
परि-ष्टुति—-ति: श्वे २, ४९^{१७}.
परि/ष्व(<स्व)ञ्ज्, ङ्परिषस्व-
जाते मुं ३, १, १; श्वे ४, ६; नाउ
१, ३; भव २, २.
परि-ष्वक्त—-क्त: सांसू ३, ६०.
परि-सं/वह्(वहने)
परिसम्-उह्य वृ ६, ३, १; कौ
२, ३^{१०}.
परि-सं/क्रम, परिसंक्रमेत् ओ २,
४८.
परि-सं/ख्या
परिसं-ख्या—-ख्या शि ६, ४४.
परि-समा(म्/आ)प्, परिसमाप्यते
गी ४, ३३.
परिसम्-भास—-सा: वृउ ६, ४.
परिसम्-भाष्य—-जा ४^१.
परि-समे(म्-आ/इ)
परिसमे(मा-इत्य वृजा ७, ७;

तुअ २; १अव १; रुजा ३, १;
हे १.
परि/सेव्^{१८}, परिसेवन्ते सि ५,
२२.
परि-सेवित—-तम् त्रिवि ७, ५०;
रार २, ४६; सि ६, ३४.
परि/स्तु>स्तीर्
परि-स्तीर्य वृ ६, ३, १; कौ २, ३.
परि/स्था>तिष्, परितिष्ठति वउ
३, ३५.
परि-स्थातुम् मैत्रि ७, ८.
परि/स्पन्द्
परि-स्पन्द—-न्दे अज २, ३२.
परि/स्फुर
परि-स्फुरत्—-रत् महा ५, १८.
परि/सु
परि-सुत—-सुतम् त्रि १२; -सुता
त्रि ७^{१९}; १५^१.
परि/हन्
परि-व^{१९}—-वम् छां २, २४, ६;
१५.
परि/हा(त्यागे), >हापि
परि-हापित—-तः नाप ५, २७.
परि-हीन—-नम् योशि १,
१६०.
परि/हृ, परिहरति त्रिवि २, २; १०;
१२; ४, ३; ८, २; परिहराणि छां
२, २२, ५; परिहरेत् छां २,
१३, २; मैत्रे २, २६; महा ४,
१०८.
परि-हरत्—-रन् अज ३, ४; ५,
१०३; शि ७, १२४.
परी(रि/इ), पर्यैति छां ८, १२, ३; वृ
३, ३, २^२; कौ ४, २०^{२०}; परि-
वन्ति क १, २, ५^२; सुं १, २, ८;

a) पावा ८, २, ३६। b) =तदाख्योपनिषद्विशेष—। c) 'प्रवाजिनाम्' इति अख्या। d) 'त्रज्' इति अख्या।
e) पा ६, १, १६। f) 'यशोऽरिष्टम्' इति निसा। g) प्रास। h) परशु^० इति निसा. संटि., ^०शुद्ध^० इति आन.।
i) =परिश्रय—। j) पा ३, २, ६१। k) षत्वं वा उस्ं. (पा ८, ३, ७०)। l) पा ६, १, १३७। m) मा ११, ४। n) ऋ १,
१६४, २०। o) 'परिमुक्तः' इत्यपि पाभे.। p) ^०मूह्य इति आन., अख्या। q) 'समाप्य' इति आन., अख्या। r) ^०सु^०
इति अख्या.। s) पा ३, ३, ८४ (=अर्गल—)। t) सकृत् 'पर्यैत्' इति शांआ ६, २०। u) 'पर्यैन्ति' इति आन.संटि.।

वृ ३, ८, ९; -तेषु क २, १, १४;
-तौ कौ २, १३.
पर्वत-धातु- -त्ताम् अना ७.
पर्वत-मूर्धन्- -र्धनि मना २, ३६५.
पर्वत-वन-देवतालय- -येषु नाप
४, ३८^b.
पर्वत-वर- -रम् शि ६, ६६.
पर्वत-वृक्ष-नृण-गुल्म-लता(ता-आ)
द्य(दि-आ)नन्त-वस्तु- -भेद-
-दः त्रिवि ८, २.
पर्वता(त-आ)ग्र- -ग्रे जाद ५, ४.
पर्वते(त-ई)श-पदम्- -दम् वड
४, ३४.
पर्वते(त-ई)शो(श-ऊ)ह- -रुम् वड
४, ३७.
पर्वन्^{१०}- -र्वणि कौ २, ४; तुल ७०:९;
वड ६, १०; ४४; -र्वणिः इ १८:
२२; -र्वसु शि ७, ७८; -र्वणि
वृ १, १, १.
पार्वण-
पार्वण-चन्द्र-कोटि-सह-
श-च्छत्र- -त्रेण रार २, ३७.
पार्वणा(ण-आ)दि- -दीनि
पै ४, ६.
पर्व-ग्रन्थि-विराजित- -तम् १संन्या
२, १०.
पर्वो(र्व-उ)स्सव- -नेषु शि ७, ९.
पशु^{११}- -श्वः वृ १, १, १.
१पार्श्व- -श्वयोः वृजा ४, १४; ३०;
३१; ३५; सिशि ३८१: १८;
-श्वे वृ १, १, १; २, ३; -श्वौ व
४३६: १३; पित्र १, १०.
पार्श्व-दन्त-पटल- -लानि गर्भ
५.

पार्श्व-द्वय- -वे योशि ५,
१८.
पार्श्व-परीवर्त- -र्तः गु २४.
पार्श्व-शिरो-धमनिका(का-आ)-
क्षि- -क्षीणि २आ १, १? .
*पर्वद्^{१६}-
पार्षद्^{१७}- -दाः सार २८५: २०.
१पल^{१८}- -लम् त्रि १२^१; सुमु ९
२पल^{१९}- -लम् शि ६, २९; -लानि
गर्भ ५.
पल-द्वय- -यम् शि ६, ८७.
पल-नैवेद्य- -द्यम् शि ६, ३०.
३पल^{२०}- -ले-ले शि ६, २५३.
पलल^{२१}- -लम् नाप ७; १संन्या २,
७९.
पलल-पिण्ड- -ण्डम् अशि ४, ५;
नृपू २, १०; त्रिता ४, १९; वड
३१५: २०.
पलाण्डु^{२२}- -ण्डुम् रुजा २, १७.
पला(ला<रा/अ)य, पलायन्ते नृपू
२, १४.
पला(ला-आ)यित- -तम् आबो २१;
१अव २८.
पलाल^{२३}- -लम् त्रिवि १८; त्रिता ५,
१८; अवि १८.
पलाश^{२४}- -शानि छां ५, २, ३; वृ ६,
३, ७-१२; -शो वृजा ३, ७.
पलाश- -शाम् आरु ५; शि ७,
११.
पलाशो(श-उ)दुम्बारा(र-आ)-
श्वत्थ-पृषदाज्य-तिल- -लैः शि
२, २३.
पलाश-कदली-पञ्च-पत्र- -त्राणि
शि ६, ४५.

पलाशा(श-अ)ङ्कुर-
पलाशाङ्कुर-ज-
पलाशाङ्कुरजा(ज-आ)रिष्ट-
पाला(ल>)ली- -त्यः शि
४, ४०.
पलाशाङ्कुर-संख्या- -ख्यानाम्
शि ४, ४१.
पलाशो(श-इ)न्धन-ज- -जे शि ४,
४७.
पलित^{२५}- -तः मन्त्रि ११^{११}; चू ११;
-तम् १योत १२५.
पलिता(त-आ)दि- -दि जाद ६, १९.
पली(लि<रि/इ), पल्ययते वृ ४, ३,
२-६.
पल्लव^{२६}- -वैः सार २३७: १३.
पल्लव-कोणा(ण-आ)ग्र-लम्बा-
(म्ब-आ)म्बु-कण- -मङ्कुर- -रम्
महा ३, ९.
पल्लवा(व-आ)दि- -दिषु सांस् ५,
३५.
पवन-, पवमान-, पवि-, पवित्र-
✓पू द.
✓पश्^{२७}, पश्यते सुं ३, १, ३; ८; त्रिवि
१९; अना ३०; अवि १९^१;
पश्यति के १, ६^२; क १, २,
२०^{११}; २, १, १; १०; ११; ३,
९; प्र ४, १; २; ५^२; ६; मां ५;
ऐ ५, १; छां १, २, ४; ५, २, ८;
१२-१७, २; ७, २४, १^२; २६, २^२;
वृ १, ३, ४^२; ५, ३; २, ४, १४; ३,
२, ५; ९, २०; ४, ३, ९^२; १४^२;
१५; १६; १९; २०; २३^२; ४, २;
१९; २३^२; ५, १५; ५, ५, २; श्वे
३, १९; २०^{११}; ४, ७; १२^{११};

a) तैश्चा १०, ३०, १ । b) °देवाल इति अज्या. । c) बप्रा. वैपश् यद्र. । d) =पारश्वोस्थि- । वैपश् यद्र. । e) पावा ४, २, ४२ । f) तु. सस्थ. टि. स्वक्च° । g) नैप्र. =परिषद्-? । h) =परिजन- । i) व्यु? =मांस- । j) 'फलम्' इति निसा. यनि. शोधः द. (तु. अज्या., तान्त्रि.) । k) व्यु? =परिमाणाविशेष- । l) व्यु? =कालपरिमाणाविशेष- । m) व्यु? =१पल- । n) व्यु? =सुकन्दक- । o) व्यु? =धान्यरहितकारण- । p) 'फलितः' इति निसा. अज्या. च यनि. शोधः द. (तु. आन.) । q) ✓दश् इत्यस्य आदेशः (पा ७, ३, ७८) । वैपश् यद्र. । r) 'पश्यति' इति आन. संटि. । s) तैश्चा १०, १०, १ । t) 'पश्यत' इति तैश्चा १०, १०, ३ ।

मना १, १९^a; ५९^b; सुभा २; सू
३१; व ४६२: १९; वउ ३, २३;
-शनाम् वृ १, ४, १६; ४, ५, ६;
मैत्रि ६, १३; नाद १५; सी
१३; ए ५; -शौ वृ १, ४, १०.
पशुच्य- -व्य: इ १०: १३; -व्यम्
छां २, २२, १.
२पशु^c- -शु (शुम्^d) वपं३१२: ४.
पशु-कुक्कुट-कीटा(ट-आ)द्य- -द्या:
योशि १, १६१.
पशु-ता- -ताम् श १२.
पशु-धन-धान्य^e- -न्यम् कालि
४०२: १५.
पशु-पक्षिन्- -क्षिणः सार २७८:
११.
पशुपक्षि-गण- -णा: सार२२१:
२२.
पशुपक्ष्या(क्षि-आ)द्य- -द्या: कर
१६.
पशु-पक्षि-मृग-कीटक-लिङ्ग-
धारण^f- -णम् लिं ३०९: ३.
पशु-पति^g- -तये मना २, २२९^h;
६७९^b; म १, ६; मृ ४; -ति:
नृपू १, १२; श १२; पाशु १,
१११ⁱ; २९; ३२; २, ७; ११;
जाबा ८-१०; १३.
पाशुपत- -तम् अशि^h, २२९ⁱ;
सु १, १, ३७९^h; वट्ट ३१७:
१२९^h; -ता: म २, २८; -तेन
लां २१३: १२९^h; वपं ३१२:
८९^h.
पाशुपता(त-अ)स्त्र-
पाशुपतास्त्र-ब्रह्मास्त्र-बैल-
(वैष्ण^d)वास्त्र-नारायणास्त्र-काल-
शक्तिकास्त्र-दण्डकास्त्र-पाशा-
(श-अ)घोरास्त्र-निवारण^l- -०ण

लां २१४: ९.
पाशुपतास्त्र-ब्रह्मास्त्र-बैल-
(वैष्ण^d)वास्त्र-नारायणास्त्र-मृड-
-०ड लां २१४: १०.
पशु-पाल-
पाशुपाल्य- -ल्ये शि ७, ११९.
पशु-पादा- -शात् सिशि ३८२:
१७.
पशुपाश-पर- -र: शि १, १६.
पशुपाश-विमोक्षण- -णम्
अशि ५, ९; -गाय अशि^h, २२;
वट्ट ३१७: १३.
पशुपाश-विमोचक- -क: म २,
१४; -कम् म २, ३.
पशु-पुत्रा(त्र-आ)दिक- -कम् सु
२९४: ९.
पशु-बन्ध- -न्धा: मना २, ८०९^m.
पशु-भाषण- -णम् लिं ३१०: ४;
२कौल ६.
पशु-मत्- -मान् छां २, ६, ३; १८, २.
पशु-भ्लेच्छा(च्छ-आ)दि- -दय:
महा ५, ३९.
पशु-रोमन्- -माणि इ १३: ८.
पशु-वत् सांसू ३, ७२; कृपु १९१ⁿ.
पशु-संभाषण- -णम् १कौल ५: १.
पशु-हर्तृ- -र्ता पाशु १, २९.
पश्चा(शु-आ)दि- -दय: नि ७;
२१.
पश्चादि-स्थावर- -रे वरा ३,
१६.
पश्चा(शु-आ)द्य- -द्या: मुद्र २.
पश्चात्^o- -सुं २, २, ११; छां ३, ६, ४;
वृ १, १, २; मैत्रि ६, २१; कौ २,
८; अना २२; वृजा ४, १०; नृपू
५, ८; ते ४, १९; महा ५, १०४.
पाश्चात्य^p- -त्यम् महा ६, १५.

पश्चात्-तात्^q सू २३९^q; ग ४.
पश्चान्-मुख- -खम् शि ४, ५.
पश्चिम, मा^r- -मम् ध्या ७६; ब्रवि
८०; त्रिवा २, ५१; योचू ४९;
योशि १, १४५; ६, ३१; यो
१, ४९; -मा गार ४०६: ७;
१५; -मायाम् म २, १८; गार
४०६: १२; -मे नाप ६, १; रापू
४, ३३; योशि १, १३२; ६, ३०;
वरा ५, २५; सूता ४, ४; राधा
१, १९; २, ३; ३, २; शि ४, १८;
६, ७४; ७८; ८४.
पश्चिम-तस्(>:) वरा ५, ७३;
सार २७२: १२.
पश्चिम-तान^r- -नेन शां १, ७,
१२; योशि १, ११२; यो १,
५२.
पश्चिम-द्वल- -लम् ध्या ९३, ६;
-ले ध्या ९३: ६; वि ९.
पश्चिम-द्वार-मार्ग- -र्गेण योशि
१, १४२.
पश्चिम-द्वार-लक्षण- -णम्
योशि १, १२१.
पश्चिम-मार्ग-
पश्चिममार्ग-तस्(>:) योशि
१, १२२.
पश्चिम-लिङ्ग- -ङ्गा: निर्वा
२९७: २.
पश्चिमा(म-अ)भिसुख- -ख:
महा १, १; -खम् ध्या ४५; योचू
८; सौ ३, १^s; योरा ८.
पश्चिमाभिसुख-प्रकाश- -श:
मं २, २, १.
पश्चिमा-मुख- -ख: च २०: ५.
पश्चिमा(म-आ)ज्ञाय- -य: म
४८: ७.

a) तैश्चा १०, १, १। b) तैश्चा १०, १, ५। c) =बीजमन्त्रविशेष-। d) पा. ? यनि. शोच: द्र.। e) समाहारे
द्रस.। f) द्रस. > षस.। g) तैश्चा १०, १८, १। h) तैश्चाश्चा १०, ६७। i) 'पशु-कर्तृ->-र्ता' इति सुपा. (तु. उत्र.)
यनि. सु-शोध: (तु. निसा.)। j) =अस्त्रविशेष-। k) =तदाख्योपनिषद्विशेष-। l) उप. कर्तारि कृत। m) तैश्चा १०, ६४, १।
n) पा. वा. च ?। o) वैप १ यद्र.। p) पा ४, २, ९८। q) ऋ १०, ३६, १४। r) पावा ४, ३, २३। s) °मुख्यम् इति अख्या.।

पाचयित्वा, पाचित्-, पाच्य-
√पच् द्र.

पाजस्^a-जः मना २, २७^b; व४६०ः
१८^c.

पाजस्य^d-स्थम् वृ १, १, १.

पाञ्चजन्य- १पञ्चजन- द्र.

पाञ्चब्रह्मात्मिकी-, पाञ्चभौतिक-
पञ्च- द्र.

पाटल^e-

पाटल-कुसुम-मैः रा ४२३:१८.

पाणि^f-णिः वृ ४, ३, ५; १संन्या

२, ७७; -णिना वृ २, १, १५; ५,

१२, १; ६, ४, ७; मना १, १३^g;

कौ २, १५; शि ५, ३३; ३६; ६,

१६३; व ४३४: २१; -णिभिः

मना २, १२, ३^h; -णिभ्याम्

त्रिब्रा २, ४३; शां १, ३, ८; जाद

३, ७; शि ७, ५३; -णिम् शि

५, ४९; -णी वृ ६, ३, ६; ४, १९;

कुं १८; त्रिता ३, ६; -णेः नाप

६, १; -णौ वृ २, १, १५; कौ ४,

१८; कृ २४; शि ४, ६४; ७, ५७.

पाणि-तल-द्वन्द्व-द्वम् जाद ३,
१०.

पाणि-द्वय-येन शि ७, २१.

१पाणि-पात्रⁱ-त्रम् आरु ५; -त्रेण

१संन्या १, १; कश्चु १, १.

२पाणि-पात्र^j-त्रः नाप ५, ९;

१संन्या २, ७७.

पाणि-पाद-दाभ्याम् २योत २,

३; -दौ आच १.

पाणिपाद-चपल-लः या २, १८

पाणिपाद-मय-यम् महा ५,
१२६.

पाणिपादा(द-आ)दि-मात्र-

-त्रः महा ५, १२.

पाणिपादा(द-आ)घ(दि-अ)-

संयुत-तम् भव ३, ३.

पाणिपादा(द-अन्त>)न्ता-

-न्ता गु ४८.

पाणि-पाद-वाक्-चक्षुः-श्रोत्र-शिश्न-

गुदो(द-उ)दर^k-रैः शि ७, ५८.

पाणि-मन्त्र-^lन्त्रम् मना २, १६;

लिं ३०९ : ५.

पाण्य(णि-अ)धिष्ठित-तः त्रिब्रा

१, ९.

पाण्या(णि-आ)दि-दिना नाप

५, १^l.

१पाण्डर^m-रः गर्भ २ⁿ.

२पाण्डर^o-रः ध्या ८६; योचू

६०; -रम् ध्या ८७; योचू ६०.

पाण्डर-गगन-नम् निर्वा

२९८ : ५^p.

पाण्डर-वासस--सः वृ २, १,

१५; कौ ४, १८; -साः वृ २, १,

३; कौ ४, २^q.

पाण्डित्य-पण्डित-द्र.

१पाण्डु^r-ण्डु वृ २, ३, ६.

२पाण्डु^s-

पाण्डव--व गी ४, ३५; ६,

२; ११, ५५; १४, २२; १६, ५;

-वः गी १, १४; २०; ११, १३; -वाः

गी १, १; -वानाम् गी १०, ३७.

पाण्डव((व-अ)नीक-कम्

गी १, २.

पाण्डु-पुत्र-त्राणाम् गी १, ३.

१पाण्डुर^t-

२पाण्डुर^u-रम्(रः^v) इ १९: १५;

-राः वरा ५, ४^w.

पात-√पत्(गतौ) द्र.

पातक^x-कम् योचू १०९; योशि ६,

६१; गी १, ३८; -कात् शि ६,

२२१; -कानि नाप ३, ७१; जाद

६, ४५; -केभ्यः त्रिवि ८, १९;

मृ ६; -कैः योशि ६, ६१; शि ७,

९९.

पातक-नाशि(न्>)नी-नी ध्या

९३^y.

पातकिन्-की नाप ३, २.

पातके(क-इ)न्धन-पावक-कः

योचू १०८.

पातकौ(क-आ)घ-घात् सिशि

३८१: २०.

पातकौघ-गिरि-रैः सिशि

३८१: १६.

पातञ्जल-पतञ्जलि-द्र.

पातयत्-√पत्(गतौ) द्र.

पाताल^z-लम् ते ६, २०; महा ३,

२४; म २, १९; राधा १, ४; गु

१९; व ४३६: १२; वड ३,

२३; -लानाम् योशि ५, २९;

-ले अक्ष २, २३; व ४३०: १९.

पाताल-गमन-नम् योशि ५, ४९.

पाताल-गरुड-हनुमत्-मते लां

२१३: ८; २१५: १२.

पाताल-जङ्गक^{aa}-कम् वड ४, ३८.

पाताल-दिश-दिशम् व४२९: २.

पाताल-द्वार-रम् व ४२८: २.

पाताल-वासिन्^{ab}-सी व४४८: ७.

पातालवासिनी^{ac}-नि व

४५२: १३.

पातित-, पातित्य-√पत्(गतौ) द्र.

पातृ-√पा(रक्षणे) द्र.

a) =बल-। वैपश् यद्र.। b) तैश्चा १०, २०, १। c) ऋ १०, ८४, ३। d) वैपश् यद्र.। e) व्यु.१
f) =हस्त-। वैपश् यद्र.। g) तैश्चा १०, १, १३। h) 'पणिभिः' इति ऋ ४, ५८, ४; JC.। i) कस.। j) वस.।
k) तैश्चा १०, १६। l) प्राण्या^o इति अज्या. संटि.। m) व्यु.१ =वर्णविशेष-। n) 'पाण्डुरः' इति ध्यान.।
o) =वर्णविशेषवत्-। p) अज्या. 'नमहा^o इत्युत्तरेण स. यनि. शोभः द्र. (तु. निसा.)। q) 'वासाधि^o इति अज्या.१,
०ण्डु^o इति JC.। r) व्यु.१ =नृपविशेष-। s) पा.१ यनि. शोभः द्र.। t) ०ण्ड^o इति अज्या.। u) व्यु.१ =१पाप-।
v) 'शनी इति अज्या. संटि.। w) =राक्षसविशेष-। x) =देवीविशेष-।

पापपुण्य-लोका(क-अ)नुभव-
श्रवण-गात् नाप५, १^०; १संन्या
२, १३.
पाप-पूर्ण-र्णस्य सिसि ३८१ : १.
पाप-प्रणाश-शाय गोपू ४१.
पाप-फल-नरका(क-आ)दि-दि
मं २, ४, २.
पाप-बुद्धि-द्विः नाप ६, १; वा ३७.
पाप-भाजू-भाजः इ १० : १८.
पाप-मन्दिर-रम् मैत्रे २, ५.
पाप-मल-निर्मुक्त-क्तः शि ६,
२५६.
पाप-मुक्त-क्तः शि १, २२.
पाप-युक्त-क्तः शि ६, १९४.
पाप-योनि-नयः गी ९, ३२.
पाप-रोग-
पापरोग-महाव्याधि-नाश-
शः त्रिब्रा २, १०६.
पाप-विनिर्मुक्त-क्ताः शि ४, ५६.
पाप-विवर्जित-तः शि ६, १३२.
पाप-संहरण-गात् गोच ६७ : ९.
पाप-सम-सम् सु २९३ : १३.
पाप-हर-०र लां २१६ : १५.
पाप-हारि(त्>)णी-०णि तुल
७१ : ६.
पाप-हेतु-भव-वानि भव १, ६.
पापा(प-अ)पहानि-निः जाद ६,
४७^b.
पापिन्-पिनः अव्य ७.
पापिष्ठ-पापीयस-१पाप-द्र.
पाप्मन्-प्मनः तै २, ५, १; वृ १,
३, १०; ४, १; ५, २; ४, ३, ८; ९;
५, ७, १; -प्मना प्र ५, ५; छां १,
२, २^३-६^३; ५, १०, १०; वृ १, ३,
२-५; ६^३; ७; मै ४, २; मैत्रि ४,
२; -प्मभिः वृ १, ३, ६; ४, ३,
८; -प्मभ्यः छां १, ६, ७^३; वृपू

२, १; सं १९; -प्मा छां ८, ६,
३; वृ १, ३, २^३-६^३; ५, २३; ४,
४, २३^३; वृउ ६, १^३; २; -प्मानः
छां ५, २४, ३; ८, ४, १; -प्मानम्
के ४, ९; सुं ३, २, ९; वृ १, ३,
१०^३; ११; ४, ४, २३^३; ५, ५, ३;
४; मना १, ११९^d; २, ६६^३;
त्रिवि ७, ४९^d; कौ २, ७^३; वृजा
८, ३; वृपू २, १^३; ५, १३; वृउ
६, १; राउ १, २; शां १, ७, ५२;
सु २९३ : १५९^d; कालि ४०१ :
१३; ४०२ : १८; विद्या १; वपू
२, २; गी ३, ४१.

पामन्^१-मानम् छां ४, १, ८.
पामर^२-राणाम् ससा १, ४१.
पायस-पयस्-द्र.
पायित-√पा (पाने) द्र.
१पायु-√पा(पाने) द्र.
२पायु-√पा(रक्षणे) द्र.
पार-√पृ द्र.
पारतन्त्र्य-पर-द्र.
?पारमधाराणि^३ कृपु १७.
पारमात्मिक-पारमार्थिक-पारमे-
श्वरी-पारमैकान्त्य-परम-द्र.
पारंपर्य-पर-द्र.
पारयिष्णु-√पृ द्र.
पारलौकिक-पारवश्य-पारहंस्य-
पर-द्र.
पारायण-√पृ द्र.
पारावत^४-
पारावत-फल-लेबु शि ६, १२.
पारावार-√पृ द्र.
पाराशरी-पाराशर्य-पाराशर्या-
यण-पराशर-द्र.
पारिक्षित-परि/क्षि (निवासे) द्र.
पारिजात^५-
पारिजात-क^६-
पारिजातक-वन^७-नानि सार

२३३ : १५.
पारिजातक-वृक्ष^८-क्षाः सार
२२६ : ४; ५.
पारिजात-पुष्प-ष्वैः रा ४२५ : ७.
पारिप्लव-परि/प्लु द्र.
पारित्राज्य-परि/त्रज् द्र.
पारुष्य-परुष-द्र.
पारोक्ष्य-परस्^९ द्र.
पार्या-पर्या-द्र.
पार्थ-२पृथा-द्र.
पार्थिव-पृथिवी-द्र.
पार्वण-पर्वन्-द्र.
पार्व(त>)ती^{१०}-०ति अक्ष १, ११;
गु २५; -ती नापू २, ९; -तीम्
शि ६, १२२; -त्या हं २.
पार्वती(ती-ई)श-शः व ४५८ :
२२.
१पार्श्व-पर्शु-द्र.
२पार्श्व^{११}-श्वयोः वृजा ६, १२; वृपू ५,
८; शां १, ३, ८; ७, ४९; महा ५,
१५६; योशि १, ९३; त्रिता ३,
११; जाद ३, ७; -श्वैः सार
२२० : ५; -श्वैः सार ३, १; रुह
४; भ १, ६; राधा १, १८; व
४६५ : १६.
पार्श्व-ग(त>)ता-ताम् सार २, २४.
पार्श्व-द्वय-स्थिता(त-अ)नेक-
पुण्य-लोक-कान् त्रिवि ५, १२.
पार्श्व-पाद-दौ जाद ३, ७.
पार्श्व-स्थ-पञ्चा(श्र-आ)न(न>)ना-
नाम् व ४२७ : १४.
पार्श्व-स्थ-बोधित-ताः महा ५,
३८.
पार्श्व(श्व-अ)धः-स्थित-काम-
धेनु-नुम् वपू २, २.
पार्थिण^{१२}-र्षिणः चू १३; -र्षिणम् १योत
११२; -र्ष्या योशि १, १०४.

a) पुण्यलो^० इति अच्चा. । b) पाशा^० इति अच्चा. । c) वैपश् यद्. । d) तैत्रा ३, १२, ३, ४ ।

e) तैत्राद्या १०, ६६ । f) =त्वग्रोगविशेष- । वैपश् यद्. । g) व्यु. ? । h) पा. ? । i) व्यु. ? =वृक्षविशेष- । j) व्यु. ? =दिव्यवृक्षविशेष- । k) व्यु. ? =देवीविशेष- ।

५पिङ्ग(ल>)ला^a-

पिङ्गला-वत् सांसू ४, ११.

पिचण्ड^{12b}- -ण्डः पित्र १, १२.

पिठर^{13c}-

पिठर-खनित्र-शिक्ष्या(क्य-आ)दि-
मात्र-साधन-पर- -रः नाप
५, १^d; १संन्या २, १३.

√पिण्ड¹⁴*वधा.)

पिण्ड- -ण्डः मैत्रि ७, ११; गर्भं
३; त्रिब्रा २, ६; योशि १, ६४;
वरा ५, ५४; -ण्डम् १योट १०;
पै ४, ६; योशि १, ८; पि २:
जादध, ५८; शि ६, १९८; पित्र १,
८; -ण्डस्य योशि १, १६२; -ण्डाः
त्रिब्रा २, ५; ६; -ण्डात् लिं ३०९:
५; १कौल ३: ३; -ण्डान् वृजा
३, १२; इ १३: ३; -ण्डानाम्
वृजा ३, १०; -ण्डे त्रिब्रा १, ४;
पित्र १, ८; -ण्डे-ण्डे पिं १७; -ण्डेन
पं २९; पिं ७-११; १३-१६.
पिण्ड-क- -कात् वृजा ३, १३.
पिण्ड-दान- -नेन पिं १७.
पिण्ड-पात- -तेन योशि १,
१६२; १६३.

पिण्डपातिन्- -तिनः योशि
१, १२३.

पिण्ड-प्रदान- -नानि नाप ४,
३८.

पिण्ड-ब्रह्माण्ड- -ण्डयोः यो १,
८१.

पिण्ड-वर्जित- -तः पै ४, ९.

पिण्ड-स्थ- -स्थः पै ४, ९.

पिण्डा(ण्ड-आ)ण्ड- -ण्डम् अच्या

८; यो ३, २२.

पिण्डाण्ड-शिरो-मध्य-स्था-
(स्थ-आ)काश- -शे अता ९.

पिण्डी/कृ

पिण्डी-करण- -णे गर्भ १.

पिण्डी-कृत्य वृजा ३, ३४.

पितृ- -०तः सार २१९: २; -तरः

छां २, ९, ८; २१, १; ८, २, १; वृ
१, ५, ६^१; ३, ८, ९; ५, ८, १; मना
२, २८^१; ब्र २; अशि ५, १५;
मुद्र ३; त्रिता ५, १; शा ३२;
अक्ष ६-८; इ १३: १; २; १२;
१४; १८; २०; १५; ९; १५; १६;
१६: २१; १७: ४; १८; १८:
२; ३; १९: ८; १०; निरु १, १८;
सार २७८: १९; गी १, ३४;
४२; -तरम् क १, १, ४; प्र १,
११; तै ३, १-५, १; छां ५, १, ७;
७, १५, २; वृ ५, १२, १; ६, २,
२^१; ३; आरु ५; मना २, ५२^१; ५९^१;
कौ १, १; ते ३, १; नाप
३, ७७; ४, ३८; श २^१; महा
२, १४; तुअ २; १संन्या १,
१; पप ४१८: ७; अव्य ७; इ
११: १६; सूता १, १; २, १;
२शिसं २८^१; कश्रु १, १; -तरि
वृ ५, २, १; -तरौ या २, १५;
शि ७, ११०; -ता प्र २, ११;
६, ८; तै १, ३, ३; छां ३, ११,
४; ५; ५, ३, १; ६, १, १; २; ७,
१५, १; वृ १, ५, १; २^१; ७^१; ४,
१, २-७; ३, २२; ६, ३, ६^१; ४,
२८; मना १, ४^१; २, ३९^१; ब्र

२; कौ २, १५^१; सुवा ४; ६; ते
२, १३; ६, १६; १योट १३३^१;
२योट १, ४^१; त्रिवि १, १; महा
५, ८०^१; रूह ३; अद्वै २३; ना
५: १३; सूता २, ६; स्व ६२:
१; नी ३, ४; शि ६, १६६; ७,
३८; १०९^१; व ४३७: १६^१;
अद्वैमा ८; गी २, १७; ११, ४३;
४४; १४, ४; -तु: छां ५, ३, ४;
गौ ४, १५; गर्भ ३; मना १,
४^१; महा २, १७; सार
२३०: ६; १९; २३२: १४; शि
६, १२७; -तुभि: इ १८: ४;
-तुभ्य: छां २, २२, २; वृ १, ४,
१६; मना २, ३^१; ४^१; ५^१;
८^१; ६^१; २संन्या १५: ४;
इ १०: ९; १०; -तुभ्याम् वृजा
४, ३०; -तृणाम् प्र २, ८^१;
तै २, ८, २^१; वृ १, ४, १६^१;
४, ३, ३३^१; ६, २, २^१;
मना २, ७९^१; ८०^१; इ
१०: ११; १२; १५: २३;
१६: ४; तुल ७१: १२; १४;
सार २७३: १७; शि ५, ५०;
५२; चू २०; गी १०, २९; -तृन्
शा ३०; भ २, ३०; इ १२: १७;
२०; १४: २; सार २३५: १;
गी १, २६; २, २५; -आ कौ १,
२; शु ३, १६; महा २, २०; ३१;
३२; ३, १; अक्ष १, ८; शि ७,
१०६; -त्रे पा ६, ४-७; ७, ३;
१०, २.

पैतृक- -कम् आच ४.

a) व्यु. ? =वेश्याविशेष- । b) व्यु. ? =उदर- । c) व्यु. ? =पात्रविशेष- । d) °मन्त्र° इति निसा. यनि.

शोधः द्र. (तु. अख्या.) । e) वैप १ यद्र. । f) तैआ १०, २१, १ । g) ऋ १०, ८८, १५ । h) ऋ १, ११४, ७ ।
i) तैआ १०, ६३, १ । j) ऋ १, ९०, ७ । k) मा ३२, ९ । l) =पालक- । m) ऋ १, ६९, १ । n) मा ३२, ९ ।
'सवितुः' इति काचित्के निसा. यनि. शोधः द्र. । o) तैआ १०, ३, १ । p) तैआ १०, २, १ । q) तैआ १०, ४, १ ।
r) तैआ १०, ६, १ । s) तैआआ १०, ६७ । t) °तृणाम् इति आन. यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) । u) °तृणाम् इति
आन. यनि. शोधः द्र. (तु. ऋ १०, ८८, १५; निसा.) । v) °तृणाम् इति तैआ १०, ६३, १ । w) °तृणाम् इति
पा. (तु. तैआ १०, ६४, १) यनि. शोधः द्र. (तु. वैप २, ६२०) ।

√पिन्व्

पिन्वमा(न>)ना- -ना मना २,
४३९^०.

√पिपास्, पिपासा- √पा(पाने) द्र.

पिपीलिका^{rb}- -का योशि १, ३३;

वरा ४, ३६; -काभ्यः वृ १, ४,

४; १६; -कायाम् योशि १, ११४.

पिप्पल^b- -लम् सुं ३, १, १९^०; वृ

४, ३, ३६; श्वे ४, ६९^०; इ १२:

१०; नाउ १, ४९^०; भव २, २९^०.

पिप्पला(ल-अ)द^{1d}- -दम् प्र १, १;

ब्र १.

पैप्पलाद^{1d}- -०द श १; -दः

अ १; वृजा ७, ६; ७; श १; पं

१; -दम् गर्भ ५^३; श ३२; ३६;

-देन वृजा १, १; ७, ५.

पैप्पलादि^{1d}- -दिः जावा १.

पैप्पला(दक>)दिका^{1e}- -का

गु ३.

पिप्पला(ल-अ)शन¹- -नम् मन्त्रि

८; चू ८.

पिप्पली^{1e}- -लीम् शि ६, ७४.

√पिब्, पिबत्- √पा(पाने) द्र.

पिली^{1b}- -०लि, ०लि-०लि व ४३५:

१९.

पिशाच^{1b}- -०च दत्ता १, ७; -चाः नि

६; २१; इ १६; ५; -चैः प्रा १, ५.

पैशाच- -चाः इ १६; ८.

पिशाच-भिक्षा- -क्षा इ १२; १७.

पिशाच-यक्ष- -क्षाः दे १०¹.

पिशाच-यक्षा(ल-अ)प्सरस-

-रसाम् गु १५.

पिशाच-वत् भव ४, १७; सांसू ४, २.

पिशुन^b- -नः इ १७; ९; -नाः छां ७,

६, १; या २, २.

पैशुन्य- -न्यम् भव ५, ४.

√पिष्, पिनष्टि इ १८; १२.

पिष्ट- -ष्टान् वृ ६, ३, १३.

पिष्ट-रस-पूर्ण-

पिष्टरसपूर्ण-ता- -तया सार

२२६; १.

पीठ^{1a}- -ठम् ध्या २७^६; योशि १,

१७१; १७३; १७४; २, ६; ५,

८; १०; ११; त्रिता ५, २१; भा

७; ल्ह २३; गोपू १८; सौ

१, ३; लिं ३१०; १४; १६; २३;

शि ६, १२३; वउ ६, १७; -ठस्व

रापू ५, ३; -ठे रार ४, ७; योरा

१८; शि ७, ७६; व ४३०; १७.

पीठ-कल्प-मूल-कन्द-नाल-पद्म-

पत्र-केसर-कर्णिका-सूर्यमण्डल-

सोम-वह्नि-ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-

सत्व-रजस-तम-आत्मन्- -त्मा

सूता ४, ९.

पीठ-गा- -गाम् गोपू १९¹; २०.

पीठ-पूजा- -जा सूता ४, ६.

पीठ-रूप- -पेण योशि २, १२.

पीठा(ठ-अ)धरो(र-ऊ)र्ध्व-पार्श्वी-

(श्वे-अ)र्चन- -नम् रापू ५, १.

!पीठावरणदेवतावधान^m- -नेन

वउ ६, ३४.

पीठो(ठ-उ)पपीठ-देवता-परिवृ-

(त>)ता- -ताम् त्रिता १, ७७;

सौ १, १.

√पीड्>पीडि, पीडयेत् त्रिजा २,

९५; जाद ६, ३८; ३९.

पीड्यते ध्या ८१; योचू ५४;

योशि १, २९; भव ४, १७.

पीडन- -नात् भव ४, १४.

पीडा- -डया गी १७, १९.

पीडित- -तः शि ७, ३७; -तम् व

४५५; ११; ४६६; ९.

पीड्यमान, ना- -नः निरु १, १९;

-नम् श १३; -ना ब्रवि ७३;

-ने अध्या ४७.

१पीत- √पा (पाने) द्र.

२पीत^{1a}- -तः गर्भ २; -तम् पं २.

३पीत, ता^०- -तः छां ८, ६, १; -तम्

वउ २, २१^३; २२; ३, ९; -तस्य

छां ८, ६, १; कौ ४, १९; सुभा

४; -^१ता नाउ १, १९; कालि

४०३; ५; -ताः लु ८^१; अक्ष ३;

रुजा १, ९; -तान् रुजा १, १०.

पीत-कौशेय-वासस- -ससम्

नापू ४, २१.

पीत-ग्री(वा>)व- -वाणि सार

२८२; ४.

पीत-पुच्छ-पक्ष- -क्षाणि सार

२८२; ६.

पीत-रक-तरङ्ग-

पीतरक्ततरङ्गित-

पीतरक्ततरङ्गित-नाना-

ज्यो(त्स्ना>)त्स्न- -त्स्नाः सार

२६६; ९.

पीत-वर्ण, गां- -र्णः वसू ९; ध्या

१२; व ४४१; १४; -र्णम् ध्या

९३, ८; १योत ८५; वा ५; गोच

६६; २; -र्णाः गोच ६७; १५.

पीतवर्ण-द्वयो(य-उ)पेत-

-तम् मं १, २, ८; अता ६^x.

पीतवर्णो(र्षा-उ)त्तर-दल-

-ले वि १३.

पीत-वर्णक- -कम् गोच ६९; ९.

पीत-व(स्त्र>)स्त्रा- -स्त्राम् व

४२६; १३.

पीत-वासस- -ससम् १योत ९०;

पी ४२१; ३; -साः रापू ४, ७

a) तैश्चा १०, ४२, १। b) वैपश् यद्र.। c) ऋ १, १६४, २०। d) =ऋषिविशेष-। e) =आथर्ववा-

शाखाविशेष- (पा ४, ३, १२६)। f) उस. उप. कर्तरि कृत् द्र.। g) व्यु. ? =औषधविशेष-। h) तु. टि. कुली-।

i) °चाः य° इति अच्चा। j) व्यु. ?। k) 'पीतम्' इति निसा.। l) 'पीठम्' इति निसा., °स्थम् इति आन.।

m) पा. ? 'देवताः अव° इति शोधः द्र.। n) व्यु. ? =वर्णविशेष-। o) =वर्णविशेषवत्-। p) तैश्चा १०, ११, २।

q) 'पीता' इति अच्चा। r) °तद्गुरुवर्णद्वयोपेतव्योम इति निसा.।

पीतां(त-अं)शु(क>)का- -काः
 पी ४२२: १५.
 पीता(त-अं)म्बर- -रम् राधा
 ३, १२; सार २६५: २०.
 पीता(त-अं)लंकार-संप(न्न>)-
 द्वा- -द्वाम् पी ४२१: ३.
 पीत(ल>)ला- -ला त्रिवा २,
 १३५^६.
 धपी(त>)ता^b- -ता रापू ४, ६३.
 पीत्वा ✓पा(पाने) द्र.
 पीन- ✓प्याय् द्र.
 पीयमान- ✓पा(पाने) द्र.
 पीयूष^c- -षम् ध्या ७९; योचू ५१;
 ६८; शां १, ७, ४३; योशि ५, ४१.
 पीवर- ✓प्याय् द्र.
 पुंस्^d-
 पुंस- पुंसः ते १, ३८; नाद २४;
 पै ४, ५; योशि ३, २४; अव्य
 १; २प्र ३५: ४; सांका ६०; गी
 २, ६३; पुंसा वृ ६, ३, १; कौ १,
 २; पुंसां महा ३, ४६; या २,
 १२; वरा २, ३; सु १, १, ४०;
 व ४५९: ४; भव १, २७; २९;
 पुंसि कौ १, २; अव्य ६; पुंसे
 वृ ६, ४, २०.
 पौत्न^e- -स्नानि कौ १, ७०.
 पुंस-त्व-
 पुंस्त्वा(त्व-आ)दि-
 पुंस्त्वादि-वत् ब्रसू २,
 ३, ३१.
 पुम्-
 पुं-रूप- -यम् अव्य ६.
 पुं-लिङ्ग- -ङ्गम् रुह ९; सार
 २३६: १?.

पुं-स्वय(स्त्री-अ)ङ्गा(ङ्ग-अ)स्त्रा-
 (स्त्र-आ)दि-कल्पना- -ना
 रापू १, ८.
 पुं-हत्या- -त्याम् रुजा २, ५.
 पुम्-अर्थ- -र्थम् सांसू ६, ४०.
 पुं-भाव- -वम् जाद १०, ८.
 पुमस्^f- -मान् सुं २, १, ५; श्वे ४,
 ३१^h; ५, १०; अशि १, ५; ब्रवि
 नाप २५; ६, १३; ८, ८; शां १,
 ६; ७, ४३; महा २, ३७; ए
 ११; अन्न ४, ६९; ५, २; ९; २१;
 अक्षि २९; १आ २१; पाशुर, १;
 ११; यो ३, २०; सु २, २, ६६;
 निरु १, ६; नापू १, ८; गु ५२;
 ६५; भव २, २५; सांसू, १३९;
 सांका ११; गी २, ७१.
 पुङ्ग^g-
 पुङ्गा(ङ्ग-अ)नुपुङ्ग-विषये(य-ई)-
 क्षण-तत्पर- -रः वरा २, ८२ⁱ.
 पुच्छ^h- -च्छम् तै २, १-५, १; वृ १, २,
 ३; नाद १; अक्ष २; ३; यो १,
 ८३; गरु ११^k; १अव ४; -च्छे
 इ १९: १५.
 पुच्छा(च्छ-आ)कार- -रेण १अव ४.
 पुच्छा(च्छ-आख्या>)ख्य- -ख्यम्
 करु २२.
 ✓पुट्
 पुट-
 पुट-द्वय- -यम् १योत ११६;
 वरा ५, ६३.
 पुटि(त>)ता- -ताम् षो १३.
 ?पुटिति षो २१^l.
 पुण्डरीक^m- -कः पा७, ८; -कम् छां
 १, ६, ७; ८, १, १; २; वृ २, ३, ६;

ना ४; मना २, १२, ३१ⁿ; सुबा
 ४^o; ११; तु १०; आबो १; पं
 ३५.
 पुण्डरीका(क-अ)क्ष^p- -क्ष वा
 ११; गोच ६६: १०; -क्षः ना
 ४; आबो १; -क्षाय चा २१;
 नाउ २, ९.
 १पुण्ड्र^q- -ण्ड्रम् ऊ ६४: २; गोच
 ६६: २१^o; -ण्ड्राः वा १७; गोच
 ६६: १६.
 पुण्ड्र-मध्य- -ध्ये वा २१^p.
 पुण्ड्र-स्थ- -स्थम् वा २४.
 २पुण्ड्र^r- -ण्ड्रः आर्षे ८: १४.
 ३पुण्ड्र^s-
 १पौण्ड्र- -ण्ड्रम् शि ६, २७.
 ४पुण्ड्र^t-
 २पौण्ड्र^u- -ण्ड्रम् गी १, १५.
 ५पुण्ड्र^v-
 ३पौण्ड्र^w-
 १पौण्ड्र-कालिक^x- -कः गरु
 २१.
 पौण्ड्रकालिक-दूत- -तः गरु
 २१.
 २पौण्ड्र-कालिक^y-
 पौण्ड्रकालिक-नाग-
 -गाभ्याम् गरु ५.
 ६पुण्ड्र^z-
 पौण्ड्रक- -कम् गार ४०७:
 १३.
 १पुण्य- -ण्यम् वृ १, ४, १५; ५,
 २०; ४, ३, १५-१७; ३४; ते २,
 ३३; ४, १४; ध्या ६५; योशि १,
 ६७; ७७; ६, ६१; १अव ३१^z;

- a) 'पित्तला' इति निसा., अख्या. संटि. । b) =षकार-बीजाक्षर- । c) वैपश् यद्र. । d) पा ४, १, ८७ ।
 e) 'पौस्यानि' इति आन., वे.; 'पौसानि' इति अख्या. । f) पा.१ यनि. शोषः द्र. । g) पा ७, १, ८९ । h) शौ १०,
 ८, २७ । i) व्यु. ? =पुञ्ज- ? । j) पुंघा^o इति अख्या. संटि. । k) मा १२, ४ । l) पा. ? पुटिता- > -ताम् इति
 शोषः द्र. । m) तैआ १०, १०, ३ । n) व्यु. ? =मस्तकचिह्नविशेष- । o) पा. ? 'पुण्ड्रे ?' इति शोषः द्र. । p) वृ.
 सस्थ. टि. न्यस्त-द्वय-> -यः । q) व्यु. ? साहचर्यात् =क्षत्रियजातिविशेष- । r) व्यु. ? =हस्तुदण्ड- । s) अर्थः
 व्यु. च ? । t) =शङ्खविशेष- । u) व्यु. ? =नागविशेष- । v) कस. =नागविशेष- । w) द्रस. । x) व्यु. ? =ऋषिविशेष- ।

पुण्या(एय-अ)पुण्यो(एय-ओ)ष्ट-
-ष्टम् वज ४,३४.
पुण्या(एय-आ)वृत्ति- -त्ति: नाप ६,
१^१.
१पुत्र^१- -०त्र कौ १, १९०; २, ११३;
सूता १, ४३; ६, १२; -त्र: क १,
१, १; वृ १, ५, १७^३; ४, १, ६;
६, ४, १४-१६; १८; २८; कौ २,
१५^१; शु १, ४; ६; १योट १३३^३;
२योट १, ४; महा ४, १२९; कर १;
इ १८: १५; १७; छाग २३: १^१;
२प्र ३४: १५; ३५: ४; स्व ६२:
२; ३; नापू ३, १०; सि ७,
१०९; व ४३७: १६९^०; अद्वैभा
८; कश्च २, २; भव १, १२; -त्रम्
छां १, ५, २; ४; ६, ८, १; वृ १, ५,
१७^३; आरु ५; मै १, १; मैत्रि
१, २; मैत्रे १, १; कौ १, १; २,
१५; नाप २; ३, ७७; निर्वा
२९८: १७; महा २, १८; १संन्या
१, १; कर १; सु २, १, १; इ
१२: २१; १७: १५; १९; १८:
१५; २प्र ३३: १९; कश्च १, १;
२, २; -त्रस्य कौ २, ११; १५;
शु १, २; गी ११, ४४; -त्रा: छां
३, १, १; वृ २, ४, ५^३; ४, ५, ६^३;
श्वे २, ५९^३; महा ३, ३५; इ १९:
१३; मैत्रि ६, २९; सार २१९:
१; २४०: २३; २४३: १६;
भव १, १२; गी १, ३४; ११,
२६; -०त्रा: सार २३६: २३;
-त्राणाम् वृ २, ४, ५; ४, ५, ६;
-त्राव वृ १, ४, ८; गौ ४, १५;
-त्रान् प्र २, १३; छां ७, ३, १;
१३, १; १४, १; आरु १^१; सुवा

१^१; १संन्या १, १; कर १; कश्च
१, १; २, ३; गी १, २६; -त्राय
छां ३, ११, ४; ५; वृ ६, ४, २०;
वृ १, ९; गु १; वपू २, १; -त्रे
पप ४१८: १९; जाद १, १६;
-त्रेण वृ १, ५, १६; १७; शु ३,
२२; -त्रेभ्य: इ १९: २१; सूता
२, ६; -त्रै: गोट ३८; ५८.
पुत्री- -त्री सार २६२: ९; २८५:
१३; १६; -त्र्य: सार २३०: ६;
-०त्र्य: सार २३०: १७.
पौत्र^१- -९^३त्रम् कौ २, ८; १०;
-त्रा: गी १, ३४; -त्रान् गी १, २६.
पुत्र-कर्मन्-
पुत्रकर्म-वत् सांसू १, ३२.
पुत्र-काम- -माय शां ३, १.
पुत्रकामे(म-इ)ष्टि- -ष्टिना सु २,
१, १.
पुत्र-द- -दम् रापू ४, ६६.
पुत्र-दार- -रा: इ १८: ८; -रान्
नाप ३, ३२.
पुत्रदारा(र-आ)दि-सङ्ग-
पुत्रदारादिसङ्ग-तस(>):
सि ७, १०३.
पुत्र-दार-कुटुम्ब- -म्बेषु मैत्रि ६, २८
पुत्र-दार-गृहा(ह-आ)दि- -दिषु
गी १३, ९.
पुत्र-दारा:(१र^१)-पशु-चोद^१- -दम्
इ १८: ८.
पुत्र-दु:ख- -खस्य या २, १७.
पुत्र-पशु- -शुन् क १, १, ८; वृ ६,
४, १२.
पुत्र-पौत्र- -त्रान् क १, १, २३; -त्रै:
शि ६, १५७.
पुत्रपौत्रा(त्र-आ)दि- -दिभि:
सुद्र ४.

पुत्र-पौत्र-कवित्व- -स्वम् तारा
८४: ९.
पुत्र-पौत्र-महैश्वर्य-
पुत्रपौत्रमहैश्वर्य-वत्- -वान्
नाउ ३, १२.
पुत्र-मय- -य: वृ ३, ९, १७.
पुत्र-मित्रा(त्र-आ)दिक- -केषु नाप
६, १६.
पुत्र-रोदम्^१ छां ३, १५, २^३.
पुत्र-वत्- -वान् शि ३, ११.
पुत्र-विश्लेष-कातर- -र: शु ३,
२१.
पुत्र-वृद्धि- -द्धिम् व ४३५: १५.
पुत्रा(त्र-आ)दि- -दय: ब्रसू ३, २, २;
-दीनाम् वसू १०.
पुत्रादि-देह- -हेषु मैत्रे १, ४, १४.
पुत्राद्य(दि-अ)पेक्षा- -क्षया
१अव ११.
पुत्रा(त्र-आ)स-बन्धु-भव-स्थल-
-लम् नाप ७.
पुत्रा(त्र-अ)भिप्राय- -यम् महा २,
१८.
पुत्रिन्- -त्री श्या १९.
पुत्रीय- -य: इ १०: १३.
पुत्रै(त्र-ए)षणा- -णा वृ ३, ५, १;
४, ४, २२; -णाया: वृ ३, ५, १;
४, ४, २२; वृ ६, ४.
२पुत्र^२-
पौत्रायण^१- -ण: छां ४, १, १; ५; २,
१; ३; -णस्य छां ४, १, २.
पुनत्- √पूद्र.
!पुनय^० पा ९, ५.
पुनर्^b(>):* क १, १, ६; १५; प्र १, ९;
१०; २, १; ४, २; ५, ४; ५; सुं १, २,
७; तै ३, २, १; ३, १; ५, १; ऐ ४, ४;

a) ०ण्यवृत्ति: इति अच्चा. , 'पुण्ये वृत्ति:' इति अच्चा. संति. । b) वैपश् यद्र. । c) 'पुत्र:' इति शांशा
३, १; वे. । d) पूर्वेण 'दास्या:' इति पदेन न स. । भूतार्थविषयत्वात् क्षेपस्य ह्यविषयः । e) ऋ १, ६९, १ । f) ऋ १०,
१३, १ । g) स्वपु^० इति अच्चा. । h) 'पुरुषान्' इति अच्चा. संति. । i) पा ४, १, १०४ । j) मंत्रा १, ५, १०; 'पुत्र्यम्'
इति शांशा ४, ८; १० । k) पा. १ यनि. शोध: द्र. । l) द्रस.>बस. उप. भाप. । m) उस. उप. णमुल्ल उसं.
[पा ३, ४, ३६ (वैत. शं. सस. यत्र सप्त. निमित्ते द्र. उप. भाप. च)] । n) व्यु. १ =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । o) पा. १

ध्या १०६; ब्रवि ९९; ११०;
 १योट १४०; नाप ६, १; ९, १;
 मं १, ४, १; त्रिवि १, ११; १२;
 २, १५; १७; ४, ९९^a; ८, १०;
 १५; २३; रार ५, ७; ८; सुद्र २;
 ४^२; शां १, ३, १२; महा १, १^५; ९^b;
 ६, ६१; शारी ९; अव्य ३;
 अन्न २, ४४; ३, २०; अन्ति १९;
 कुं ५; १७; सावि ९^३; १०^३;
 १आ १^३; २आ १-३; त्रिता ३,
 २३; ता १, २, २, ३; प्रा २, १;
 गोपू २५; शा २०; २२; सु २, २,
 ५९; अद्वै १८; आर्षे ८ : १६;
 इ १० : ४; निरु १, ६; गोच
 ६८:७; नाउ १, १६ : ३, २२;
 कृपु २६; सार २१९:५; २२०;
 १२; १४^३; २२१:८; १०; २४५:
 १३; २५० : १९; २७४ : ९;
 २७५ : ५; वि १५; लिं ३११:
 ६; वट्ट ३१५ : ५; सि १, १४;
 २५; ५, ३८; ६, १९७; हे ५;
 गार ४०५ : ४; गु ७; ४२;
 अद्वैभा ३; भव १, ५२; २, ८;
 ९; ३२; ४१; ४, ३; चू १२;
 वपू १, २; २, १; ३; ३, १^३; वउ
 २, ३१; ३४; सांस् १, १५; ६१;
 १३३; ६, ५४; सांका ३; १७; ५५;
 ६५; गी २, २१; ३, ४; १९; ३६;
 ८, ४; २२, ११, १८; ३८; १३,
 २०; २१; २२; १५, १७; १७,
 ३; -षम् क १, १; प्र ५, ५^३; ६,
 १; ५; ६; सुं १, २, १३; ३, १, ३;
 २, १; ८; ऐ १, ३; २, ३; ३, १३;
 छां २, ९, ७; ६, ४, ७; ८, ६;
 १४-१६, १; वृ २, १, १५; ३, ७, २;
 ९, १०^३-१७^३; २६; ६, २, १४; खे

३, ६९^a; ८९^०; १९; कौष्ठ, १२९^३;
 १८; मैत्रि ६, १८; ३५; के १,
 १; मना १, ५९^६; २, २३^६; अशि
 ३, ६; ५, ५; वृपू १, १२; मन्त्रि
 १४; ध्या १०५; नाप ९, १४;
 श ५; त्रिवि ४, ५९^०; सुद्र ४;
 महा १, १; ४, ७१; म २, ३; पं
 १९; च २० : ११९^३; २१:१३;
 चा १६; निरु १, २०; गोच ६८:
 ५; पा ३, ८; ७, ५९^०; सार
 २५८ : १२; वट्ट ३१५ : ६; स
 ३७९ : ४; रशिसं १५९^०; ३०;
 मृ ३:१४; १७; नीश ५, ९^३; ४६४:
 ११९^३; भव २, ७; ४३; ४६;
 चू १४; वउ ३, ५८; ४, ३०; ब्रसू
 १, २, २६; गी २, १५; ८, ८; १०,
 १०; १२; १३, १९; २३; १५, ४;
 -षस्य क १, १, ८; प्र ३, ८; छां
 १, १, २; ६, ८, ६; वृ २, ३, ६; ३,
 २, १३; ४, ३, ९; ६, ३, १; ४, १;
 मना १, ५९^६; ब्र २; मै ५, ६;
 मैत्रि ४, ६^३; ६, ६; ध्या ७; ब्रवि
 ३५; मं १, २, ९; अता ६;
 सुद्र १, ५; महा ५, १८५; ६,
 ५४; पत्र २; जाद ६, १७; ७,
 ९; ९, ६; सु २, १, १; इ १४:
 १७; निरु २, २; व ४५९ : २;
 सांस् १, ६६; २, ५; ३, २६; ७१;
 ५, ४६; ६, ६; सांका १९; २१;
 ३६; ३७; ५८; ५९; ६१;
 योसू ४, १७; गी २, ६०;
 -षा: ऐ ५, ३; वृ ३, ९, २६; मैत्रि
 १, ४, १३; नाप ५, १; योचू
 ७२; महा १, १; ६, २५; सु १,
 २, ६; सार २४३ : ११; सि १,
 १३; गी ९, ३; -षाणाम् कौष्ठ, १८;

राउ ५, २५; त्रिता ५, १; -षान्
 क १, २, ११; सुं १, १, ७; २, १,
 ५; छां ३, १२, ७^३; मना १, २९^३;
 ग१३; गु २७; ४२; -षान् वृ ३,
 ९, २६; मना १, १९^{१०}; -षाय रार
 २, ६३; -षे प्र ३, ३; ४, १; तै २,
 ८, ५; ३, १०, ४; ऐ ४, १; छां ३,
 १२, ३; ४^३; ८^३; १३, ७; ४, १०,
 ३; वृ ३, ९, ४; ५, ९, १; मै २, ८^३;
 मैत्रि २, ६; पै ३, १; जाद ८, ७; पा
 ९, ८; -षेण श्वे ३, ९९^०; मना २,
 १२, ३९^०; मै ३, ३; मैत्रि ३, ३;
 वृपू ५, ५; सुद्र १, ६९^३; अन्न ४,
 ९२; -षी गी १५, १६.

पुरुषी^३ - षि वपं ३१२ :

१६; व ४३७ : ३.
 पौरुष^३ - षम् महा ४, ९३;
 १०४; १२८; ५, ८८; सु २, २,
 १; भव १, ४८; ५०; गी ७, ८;
 १८, २५; -षात् भव १, ४९;
 -षेण श्वे ३, ९९^०; कौ ३, १; महा
 ४, १०३; अन्न ४, ७४; सु २,
 २, ६; ७; १५; भव १, ४७.

पौरुष-यत्न - ज्ञेन रुजा १,
 १३.

पौरुषेय^३ - यम् सांस् ५, ५०.

पौरुषेय-त्व - त्वम् सांस्
 ५, ४६.

पुरुष-कार^३ - रः पित्र १, १२.

पुरुष-कीटक - कम् महा ४, ९९.

पुरुष-ख्याति - ते: योसू १, १६.

पुरुष-ज्ञ - ज्ञः अता १५.

पुरुष-ज्ञान - नम् शां १, ७, ५२;

योसू ३, ३६.

पुरुष-त्व - त्वम् योशि ४, १५; सर

३, १३; नापू ५, १५.

a) ऋ १०, ९०, ४। b) तैत्र्या १०, ११, १। c) 'प्राणः' इति श्रद्धा। d) मा १६, ३। e) मा ३१, १८।

f) षः इति शांत्र्या ६, १४। g) तैत्र्या १०, १, ५। h) तैत्र्या १०, १२, १। i) षः इति तैत्र्या १०, ११, १। j) मा १६, ३। षान् इति आन। k) तैत्र्या १०, १२, १। l) मा ३२, २। m) तैत्र्या १०, १, १। n) षः इति निसा. सुपा. यनि. सु-शोधः (द्रु. नाउ.)। o) तैत्र्या १०, १०, ३। p) ऋ १०, ९०, ६।

२पुलक^{२१६}-कम् वृजा ३, १९; -कैः
वृजा ३, २०^३; २१.

पौलक-कम् वृजा ३, २४.

पुलस्ति^{१७}-

पौलस्त्य^{१०}-स्त्यः रार १, ७.

पौलस्त्य-सूदन-नम् रार १, ७.

पुलिन^{१४६}-

पुलिन-निलीन-नाः सार

२८१ : १०.

पुलिन्द^{१०}-न्दस्य सार २६० : ६.

पुलिन्द-गण-णाः सार २५९ :

१३; १४.

पुलुष^{१७}-

पौलुषि^१-विः छां ५, ११, १; -विष्

छां ५, १३, १.

पुलोमन्^{११}-

पौलोम-मान् कौ ३, १९^६.

पुलक(स>)स्ती^{१७}-स्ती नाप ३, ५०.

पौलकस-सः वृ ४, ३, २२; पृहं ४;
ब्र २^१; ते ६, २५; त्रिता ५, १.

√पुष्, >पोषि, पुष्यति वृ १, ४, १३;

पिं १४; व ४५९ : २१९^१;

पुष्यसि वृ ६, ४, २७^{१६}.

पुष्णामि गी १५, १३.

पुष्यासम् वृ ६, ४, २४.

पोषय-पोषय दत्ता २^१; पोष-

येत् योशि १, १२२.

पुष्वस^१-ष्वान् वा १६.

पुषन्त^३-न्तः पा ९, ५.

पुष्ट, ष्टा-ष्टः रापू ४, ९; -ष्टम् सार

२२७ : ६; शि ६, २०४; -ष्टा

योशि १, ३६; त्रि ६; -ष्टाः सु

२, ३, ४५.

पुष्टि-ष्टिः मना २, ६४^{१९}; अशि

३, २; सौ १, ३; वट्ट ३१५ : २;

-ष्टिम् मना १, ८९^०; २, ६३^९;

६७^९; पा ८, ८; सु २९३ : ७;

कालि ४०२ : २; -ष्यै पा ८,

२; ९, ८.

पुष्टि-काम-मः मना २, ६७^९;

सूता १, २१.

पुष्टि-द-द अक्ष ५.

पुष्टि-पति-तिः मना २, ६७^९.

पुष्टि-मत्-मान् छां ५, १६, १.

पुष्टि-वर्धन-नम् मना २,

५६^९; त्रिता १, ८^९; ४, ९;

१०^९; रशिसं २४^९; ९^९व

४३०; १; ४३८ : १६; ४३९ :

४; १३; २३; ४४० : ११; २१;

४४१ : ८; १९; ४४२ : ७;

१८; ४४३ : ४; १५; ४४४ : ८;

१८; ४४५ : ६; १६; ४४६ :

४; १५; ४४७ : २; १३; ४४८ :

१; १२; २३; ४४९ : ११; १८;

४५० : ३; ९; १६; २३;

४५१ : ९; १६; २३; ४५२ : ८;

१६; २३; ४५३ : ६; १२; १८;

४५४ : १; ७; १५; २१; ४५५ : ५.

पुष्टि-वृद्धि-कर-र अक्ष ५.

पोष(रै->रायः)-षम् भ १, ११;

त्रिता ४, २५; ना ३; -षस्य वपू

१, ६; ७.

पोषण-

पोषणा(ण-अ)र्थे-र्थम् सी १८.

पोषणा(ण-आ)दि-दि त्रिबा

२, ८६.

पुष्कर^{१७}-रः ब्र १; मै ५, २; मैत्रि ६,

२; -रम् अशि १, ८; मै ५, २;

मैत्रि ६, २; -रै अबि १५^१;

ब्रवि १५; मै ३, २; मैत्रि ३, २;

-रै-रै २ प्र ३२ : १.

पौष्कर-रै वृजा ३, ७.

पुष्कर-पर्ण-र्णे वृजा १, १; वृपूर, १.

पुष्कर-पलाश-शो छां ४, १४, ३.

पुष्कर-स्रज्-स्रजा मना २, ४२^९;

-स्रजौ वृ ६, ४, २१^९.

पुष्करा(र-अ)क्ष-क्षम् रशिसं २३.

पुष्करि(न्>)णी^१-णी सार २२८ :

२; २६४ : २; ३^२; २८७ : ९;

-णीः वृ ४, ३, १०; सार २२२ :

१७; -णीम् वृ ६, ४, २३; सार

२३३ : १; २५७ : ८; २६० : १४;

-णीषु सार २२८ : २; ण्यः वृ

४, ३, १०; सार २२४ : २२;

२२५ : १; २५८ : ९; २६४ : २;

२६६ : २०; २६९ : ५; २८१ : ७;

-ण्याम् सार २४० : १४; २५६ :

१; २६७ : १८; २७१ : १९;

२७६ : १५; २३.

पुष्करे(र-ई)क्षण-गाय चा २०.

पुष्कल, ला^१-लाभिः गी ११, २१;

-ले त्रिता ५, १५; -लैः ससा १, ७.

पुष्प^{१७}-ष्पम् छां ३, १, २; २-५, १;

ते ६, २२; मं २, २, ५; रुह २२;

आपू ४; शि ६, १०२; ७, ४३; व

४५९ : २; वड ६, ३; १७; गी

९, २६; -ष्पाणाम् वृ ६, ४, १;

सार २२२ : २३; -ष्पाणि वृ ६,

४, १; कौ १, ३; त्रिता ३, २६;

a) व्यु. ? = शुष्कगोमय- (= उपल-) । b) व्यु. ? = गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । c) पा ४, १, १०५ । d) व्यु. ?

= तीर- । e) व्यु. ? = पञ्चमवर्णाऽवान्तरविशेष- । f) व्यु. ? = दैत्यविशेष- । g) °ला इति शांआ ५, १ । h) वैपश्

यद्र. । i) 'पौष्कसः' इति निसा. । j) ऋ १०, ८३, १ । k) ऋ १, १६४, ४९ । l) वैटु. बे. पुपुष्यत्-> -ष्यन्

इति ? । m) तु. सस्थ. टि. / पत् > पत्तन्त- । n) यनि. सुपा. °ष्टीः इत्येवं श्लोघः द्र. (तु. तैआआ १०, ६४) । o) तैआ

१०, १, ८ । p) तैआआ १०, ६३ । q) तैआआ १०, ६७ । r) उस. उप. कर्तरि क्त द्र. । s) ऋ ७, ५९, १२ ।

t) = कमल- । वैपश् यद्र. । u) °ले इति आन. संटि. । v) °जौ इति तैआ १०, ४०, १ । w) 'पुष्करस्रजा' इति ऋ

१०, १८४, २ ।

सार २२२:७; २२५:७; २६६:६; २७१:८; वज ६, २९; -प्यात् महा ५, १७५; -प्ये ध्या ७; ब्रवि ३५; महा ५, १०७; -प्येषु वा २९; वज ६, ३०; -प्यै: सार २, ३४; सार २२२:२१; २२६:४; २३३:८; १२; २३७:१३; २४२:५; २६९:६; १९; शि ६, ४४.
 पुष्प-ना(न्ध>)न्धा^१- न्धा सार २४२:२१.
 पुष्प-गुच्छ- गच्छा: सार २२२:२२.
 पुष्पगुच्छ-संवलित(त>)वा- ता: सार २२९:८.
 पुष्प-दाम-युक्त-धम्मि(ल्ल>)- ल्ला- छाम् रा ४२४:२०.
 पुष्प-धूप^२- धै: शि ६, ८१.
 पुष्प-धूप-नान्ध^३- न्धानाम् शि ६, ५९.
 पुष्प-धूप-मह्याच्च-दधि-क्षीर-घृता- (त-आ)दि- दिभि: शि ४, ३८.
 पुष्प-न(म्र>)त्रा- त्रा: सार २८७:२३.
 पुष्प-पट्ट-संयुक्त- कम् शि ६, २५६.
 पुष्प-पराग- नै: सार २३३:१७.
 पुष्पपराग-परिधि- धिम् सार २७१:१६.
 पुष्पपराग-परीत- तौ सार २६५:९.
 पुष्पपरागो(ग-उ)हू(त>)ता- ता: सार २६३:१४.
 पुष्प-पल्लव- वै: सार २३४:११.
 पुष्पपल्लवित- ता: सार २३७:३.
 पुष्प-फल- कम् आश्र ३.

१ पुष्प-बाण^४- णा: भा २२^६.
 २ पुष्प-बाण^५- णाय नाम् ४, ३.
 पुष्प-मण्डन- नम् सार २६९:१२.
 पुष्प-मध्य- मध्ये ध्या ५; १ योत् १३६; २ योत् ६, ८.
 पुष्प-माला- लाम् सार २५०:१०.
 पुष्पमाला-परिक्षिप्त- सम् शि ६, १३८.
 पुष्प-मिष्टा(ष्ट-अ)सृतमय-रस- मस्र- म्ना: सार २८७:२३.
 पुष्प-रस- सान् सार २२५:२२.
 पुष्प-राग-मणि^६- णिना सार २६५:२३; णीनाम् सार २३९:२^७.
 पुष्प-राग-रचि(त>)वा- वा सार २७१:१३.
 पुष्प-लता- ता: सार २६६:११; तानाम् सार २३२:१५.
 पुष्पलता-प्रयि(त>)ता- ता: सार २६७:१३.
 पुष्पलता(ता-आ)सन- ने गार २, १२.
 पुष्प-लता-पत्र-स्वक्-पयस- योभि: सार २६४:६.
 पुष्प-वत् ब्रवि ३७.
 पुष्प-व(त>)ती^७- ती सार २३८:१०; २६९:१२; २८२:१०.
 पुष्पवत्या(ती-आ)दि- द्य: सार २६८:१५; २७०:१०.
 पुष्प-वृष्टि- ष्टिम् सार २६८:१५.
 पुष्प-शय्या^८- श्याम् अक्षि १५; श्यायाम् रा ४२४:२३.
 पुष्पशय्या-शृङ्गारवत्-सली- सुख-दावृ- त्रे सार २५१:२१.
 पुष्प-हारा(र-आ)वली- लीम् सार

२७१:८.
 पुष्पा(प्य-अ)ञ्जलि^९- लि: वज ६, ३२; -लिम् त्रिवि ६, २९; २५; सार ४, ९; म २, २४.
 पुष्पाञ्जलियांगमूलमन्त्ररूप-पटलविहितकुसुमपरद्रव्यदान-तर्पण^{१०}- णम् तारा ८३:२५.
 पुष्पा(प्य-आ)धार-करण्डक- कम् शि ६, ६०.
 पुष्पा(प्य-आ)राम^{११}- मम् शि २, १८.
 पुष्पाराम-जलो(ल-उ)पेत- तम् शि ४, १९.
 पुष्पा(प्य-आ)वेश- शेन सार २२९:३.
 पुष्पा(प्य-आ)श्रम-विमूषित- ते शि ७, १२८.
 पुष्पि(न>)णी^{१२}- णी: प्रा १, २५^१; श्याम् रा ४२४:१२.
 पुष्पित, ता- ता सार २६६:६; ता: सार २७१:४; ताभि: सार २७०:४; ताम् गी २, ४२.
 पुष्पित-वचन- नेन स्वदृ: १३.
 पुष्पित-वृक्ष- क्षाणाम् सार २६६:७.
 पुष्पित-वृक्ष-क(त>)वा- ता सार २३९:५.
 पुष्पक^{१३}- पुष्पको(क-उ)परि सार २, १४; ४५.
 पुष्प^{१४}- प्याव व ४३८:३.
 पौष^{१५}- पौष-पुष्पिम-पर्वन्- वैणि शि ६, १४२.
 पुस्त^{१६}- पुस्तक- कम् १०; शि ७, ३५.
 पुस्तक(क-अ)क्षमाला-धारि- (न>)षी- णि हंषो ७.

a) कस. । b) 'सुख्यवर्णाः' इति निसा. संति. । c) वस. =कमदेव- । d) 'प्यराग' इति मुपा. यनि. शोध: द्र. । e) पा. विप्रहृष? =बोग:, °रूप:प(१पा) टकम्, °मम्, पर-द्रव्य-दानम्, तर्पणम् इति षट्पदी ? । f) अ १०, १७, १५ । g) व्यु: ? =विमानविशेष- । h) =नक्षत्रविशेष- । वैपरी यद्र. । i) =मासविशेष- (पा ४, २, ३) । j) व्यु: ? =ग्रन्थ- ।

पुस्तका(क-आ)दि-दीनाम् शि
६, २३९.

√पू->पावि, पोपूय, पवते सुं २, १,
६; तै २, ८, १; छां ४, १६, १;
वृ १, ३, १३; ३, ९, ८; ९; वृपू २,
१४९^०; भ २, ५; १०९^०; वउ ४, ५.
पुनीते अव्य ७; पुनाति छां ४,
१६, १^२; अशि ७, ७^३; राउ ५,
४; पै ४, २३; महा ६, ८३^३; १आ
१; २आ ३; दत्ता ३; ता ३, ९;
च २१ : १२; १३; ऊ ६४: १४;
गोच ६९; ७; पुनन्ति मना २,
३८९^०; ३९९^०; ४०९^०; रशिसं
१६; पुनातु मना १, १३९^०;
१४९^०; २, ३०९^०; प्रा १, ६९९^०;
पुनन्तु मैत्रि ६, ९; मना १, १२९^०;
१४९^०; २, ३०९^०; ६४९^०; प्रा
१, ६९९^०.
पावयते वि २६; पावयेत् मैत्रि
६, ९.

पवत्-वताम् गी १०, ३१.

१पवन^१-नात् मै ५, ७; मैत्रि
६, ७.

२पवन^२-नः त्रिआ २, ११४; पै
३, ३; महा २, ६३; योशि १, १३५;
ए ६; यो ३, ३४; भ २, ५; सु
२, २, ७६; गी १०, ३१; नम्
योच ११४; शां १, ७, १४^३;
योशि १, ६३; यो १, २४; २५; २६;
३५; नानाम् अन्न ४, २३; ने
मना २, ३६९^०; योच ११५; नेन
योशि १, १४७; यो १, ३६; ६६.

पवन-नन्दन^१-०न मु १, १, ४५.

पवन-वेग-

पवनवेग-वत्-वान् योशि
१, १४८.

पवन-व्यत्यय-क्रम-मात् योचू
११७.

पवना(न-आ)त्म-ज-०ज मु
२, २, ७२.

पवना(न-आ)भ्यास-तत्पर(>)-
रा-रा १योत ६५.

पवना(न-आ)वच्छिन्नो(न्न-ऊ)ध्वं-
ज्वलन-सच्चिद्-उल्का-

(ल्का-आ)काश-देह-हः भा
३६०.

पवमान-०^०न व ४२९ : १४;
४६२ : १७; नम् योशि १,
११८; नानाम् वृ १, ३, २८;

नेषु शौ ५२ : १४; ५३ : १.

पवमान-पावक-शुचि-चयः
मै ५, ७; मैत्रि ६, ३४^५.

पवमानपावकशुचि-संघात-

-तः मैत्रि ६, ३४^५.
पवि^१-०^०विः ह १७; व ४४३ :
२२.

पवित्-

पवित्री-०^०त्रि व ४३२ : १६;
४३६ : १८.

पवित्र,त्रा-०^०त्र अत् ५; -त्रः ह
१२; -त्रम् श्वे ६, २१; आह २;

मैत्रि ६, ९; मना १, ११९^०; २, १२,
१९^०; २, १६९^०; ४०९^०; ७९९^०;
ब्र २; ३, २; अशि १, ८; नाप ३,

८२; ४, ३८९^०; मं ५, १, ९;
त्रिवि ७, ४९^०; ५९^०; पै ४, ११; पप
४२० : ७; कुं ९ : १०; पत्र ३, ६;
कर २; शा ७; नार २; ३; का
२; ४; वृष ८५ : ११; १३; पा
१, १०; ९, ९; सु २९३ : १४९^०;
१५९^०; १७९^०; लि ३०९ : ६९^०;
९९^०; शि ७, ९०; ९^० व ४४२ :
२०; ४४८ : ३; ४५२ : १०;
कश्रु ३, १; २; सांका ७०; गी ४,
३८; ९, २; १७; १०, १२; -त्रा
अता १२; -त्राः अता १२;
-त्राणाम् का २; नार २; -त्राणि
इ १५ : १९; -त्रे मना १, १५९^०;
यो १, २२; २३; शि ७, ११;
-त्रेण मना १, ११९^०; त्रिवि ७,
४९^०; सु २९३ : १४९^०; वउ ६,
४२.

√पवित्रि, पवित्रयन्ति सु २९४ :
२०; ह १; २.

१पावक-

पावका^१-का सर २,
३९^०.

पावकी-की शां १, ४.

२पावक^२-कः ब्रवि ६८; जाद
४, ३९; भव २, ३९; गी २, २३;
१०, २३; १५, ६; -कात् सुं २,
१, १; गु २८.

पावका(क-आ)कार-रम्
सौ ३, १.

पावका(क-आ)त्मक-कम्
पं ५.

a) तैआ ८, ८, १। b) तैआ १०, ४८, १। c) तैआ १०, ४९, १। d) तैआ १०, ५०, १। e) तैआ १०,
१, १३। f) तैआ १०, १, १४^२। g) तैआ १०, २३, १^३। h) तैआ १०, १, १२। i) तैआ १०, १, १४। j) तैआ १०,
२३, १^३। k) तैआआ १०, ६४। l) भावे कृत्। m) कर्तरि कृत् = वायु- वा तदधिष्ठातृदेव- वा। n) पा. ? √पू
>पावि>पाव(न>)नी->नीम् इति शोधः [तु. सधु. शौ. (१९, ७१, १) 'पावमानी' इति, तत्रत्ये कीर्ति->-र्तिम्
इत्युपरि वैपश् यस्या. टि. च]। o) 'दुल्कादाका' इति शब्दा. संटि.। p) ऋ ९, ६७, २१। q) 'पवमानः पावकः
शुचिः' इति सात.। r) 'पवमानः पावकः शुचिः संघातः' इति सात.। s) वैपश् यद्र.। t) मंत्रा १, ७, १५। u) तैआ
३, १२, ३, ४। v) ऋ ९, ९६, ६। w) तैआआ १०, १६। x) तैआ १०, ६३, १। y) पाठ २, २, ११। z) ऋ ९,
८३, १। a') ऋ ९, ९७, ४०। b') पावा ७, ३, ४५। c') ऋ १, ३, १०। d') =अग्नि-।

पावन,ना- -०न अक्ष ५; -नः मैत्रि
६, ७, १५; ४ २८; -नम् वृजा
२, ७; १५; महा ४, ६; ६, २३;
भ १, ५; गोच ६८: २४; ६९:
९; ४ २९; -नानि गी १८, ५;
-नाम् दे ६; -ने महा २, ७७:
-०ने सु २, २, ३३.

पावनी- -नी १संन्या २, ४४;
-नीम् ते १, ४३; तुल ७०: ५.

पावन-मानस- -नसः महा २,
४७; अक्ष २, २६^b.

पावन-सरस्- -रसि सार २८९:
९.

पावमान- -नः मै ५, ७, १०.

पावयित्वा सिशि ३८१: १५.

पुनत्- -नन्तः नापू ४, ८१^d.

पुनान- -नः बा १७.

पूत,ता- -तः छां ५, १०, १०; वृ५,
१४, ८; मै २, ४; मैत्रि २, ४; ६,
२८; ३१; ७, ४; ६; कै २, ५^e; मना
१, ११^f; अशि ७, ८; वृजा ७, १;
श ३६^g; त्रिवि ७, ४१^h; ८, १९;
रार ५, १७ⁱ; वा ३८; सु ४^j; १४,
२३; सु २८^k; २९; १अव ३३^l;
भ १, ४; ११^m; २, २१; २२ⁿ;
काला १८; रुजा ३, १^o; गोड
२; वरा ५, ७६^p; ह १२^q; दत्ता
३^r; कलि ३^s; जाबा २७; इ १४:
२३; का १५; नाड ३, ७^t; ८^u; ९^v;
वि ३३; सु २९३: १४७^w; २९५:
५; स ३८०: १^x; कलि ४०३:
१०; गार ४०८: १७; १८^y; १९;
-तम् मना २, ३०^z; सुबा १२;
भ १, ३; ५; प्रा १, ६१^{aa}; गोच
६७: २३; १^{ab}वा मना २, ३०;
प्रा १, ६; -ताः मना १, ११^{ac};

त्रिवि ७, ४१^{ad}; सु २९३: १५^{ae};
गी ४, १०; -ताभिः कुं १२:
कक ३; कथु ३, ३; -ते भ १, ५.
पूत-पाप- -पाः गी ९, २०.

पूयमान- -ताः मना २, ४०^{af}.

पोपूयमान- -नः पा २, ५.

पूय- -नान् शि ६, ४७.

पूय-ताम्बूल-पत्र- -त्राणाम् शि ६,
५३.

√पूज> पूजि, पूजयति वि ३२; पूजयेत्
स्क १०; मैत्रे २, १; शां १, ७, ३८^g;
योशि ५, ५, ७; त्रिता २, ५१: ३.
३४; वि १६; शि १, २६:
३५; ३, १३; ६, १३०; १४८:
७, २; ५: ४२; ७४; ७८; सुसु
१३; काम २१; कलि ४०२:
१; चक्र ६.

पूजयते वृजा ५, ८; गोच ६८:
७; शि ६, ११२.

पूजन- -नम् ते २, ३६; मृता १,
३६; वि २०; कलि ४०१: १२:
४०२: १३; श्या १६; वड १,
२६; -नात् रापू १, ५; हे ६:
काम ९.

पूजनीय- -यः योशि ५, ५८:
भ २, १; गोड ३६; हे ५.

पूजयत्- -यत् शि ५, ४३; रा ४२४:
२; ४-६; ८; ९; ११; १२; ४२५:
२; ६; ९; १०; १३^h; १५; १८;
२०; सुसु १७.

*पूजया-

*पूजयाम् सू/अ/स/भुवि,

पूजयामास सिशि ३८३: ३.

पूजयित्वा त्रिता २, ६८; मृता २,
२२; शि २, २३; रा ४२५: १६.

पूजा- -जया वरा ३, १२; वि १;

-जा मैत्रे २, २६; नाप ६, ३३:
रापू १, १३; योशि २, २१; गोड
१६; तुल ७१: १६; वि ४; ८;
शि २, ३; ३, १३; काम १९; सुसु
४२०: २; तारा ८३: १३:
भव ५, १३; वड ६, १५; -जाम्
मृता २, २३; तुल ७१: १५;
शि ६, १२९; सुसु १६: १कौल
८: ३; २कौल १४; -जायाः गी
४२२: ५; -जायाम् काम १७.
पूजा जा-अक्ष- -क्षः वड ६, १५.
पूजा-पीठ- -ठम् रार ३, १ⁱ.
पूजा(जा-अर्थ)- -र्थम् शि २, ४.
पूजा(जा-अर्ह)- -र्हम् ने ६, २३;
-हौं गी २, ४.

पूजा-विधान- -नम् मृता ४, १.

पूजाविधान-क- -कम् मृता
२, २.

पूजा-विधि- -धौ वि ७.
पूजा-माघन- -नम् भ २, ३.

पूजित,ता- -तः रापू ४, २०^j;
नाप ३, १९; त्रिवि ५, १२; हे
१०; १४; रा ४२३: १५;
४२४: १७; -तम् शां १, ३, ३;
६; मिशि ३८२: १८; -नयोः
वड ६, ८; ना रा ४२३: १९;
२१^k; ४२५: ४; ११; ४२६: १.

पूजिता(त-अ-क्षत- -नान् रा
४२५: १६.

पूज्य* रापू ५, ६; शि ६, १; मिशि
३८२: १७.

पूज्य,ज्या- -ज्यः गौ १, २२; ते
१, १९; नि ५५; वा ४०; रापू
४, ३९; वाद ४, २५; गोड ३३;
भ २, २६; मि ७, २३; पित्र २,
३; वड २, १३; गी ११, ४३^l;

a) 'पावमानः' इति मै ५, ७। b) पूर्णपा^o इति निसा. यनि. श्लोचः ३. (तु. अख्या.)। c) 'पावनः' इति
मैत्रि ६, ७। d) अ १०, ७१, २। e) तैत्ति ३, १२, ३, ४। f) ण्वा (तु. तैत्ति १०, २३, १) इति निसा. यनि. श्लोचः ३।
g) तैत्ति १०, २३, १। h) अ ४, ५८, ६। i) न्युट् = फलविशेष- (=सुपारी)। j) पा. ! तौ इत्येवं श्लोचः ३.
(तु. अ. न.)। k) पा ७, १, ३८। l) 'विद्वत्स्व' इति SCHR. पा. मे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)]।

-ज्यम् शि ७, ३५; -ज्या हे १४;
-ज्याः नापू ६, ६; सार २३६६;
१७; २५० : ८; पी ४२२ : १०;
१५; सुमु १६; -ज्यैः रापू ५,
७; -ज्यौ रापू ३, १.

पूज्य-तपस्विन्- -स्विनाम् रु
१७.

पूज्य-पदार्थो(र्थ-उ)क्ति-परिभा-
षा-समन्वित- -तः भव २,
५२.

पूज्य-पूजा-विवर्जित- -तः अत्र
५, १००.

पूज्यमान, ना- -ना सी ३७; -नाम्
बि १; -ने अध्या ४७^b.

पूत- √पू द्र.

पूत(न>)जा^०-

पूतना-जीविता(त-अ)न्त- -न्ताय
गोपू ४१.

पूतिमाष^०-

पूतिमाष्य^०- -व्यः वृ २, ६, १^३;
४, ६, १^३; -व्यात् वृ २, ६, १;
४, ६, १.

पूतिमाषी-

पूतिमाषी-पुत्र- -त्रः वृ ६,
५, १.

पूंपूम^१ पा ९, ५.

√पूय्, पूयति वृ ५, १२, १; ङाग २५:
१४.

पूति- -ति भव ४, १३; गी १७, १०.

पूति-भाव-प्रसक्ति- -क्तेः सांस्
५, ११४^६.

पूति-भाव-योग- -गात् सांस्
६, ६०^६.

पूय-य^१- -यः भ २, २१.

पूयमान- √पू द्र.

१-२ पूरक-, पूरयत्-, पूरयित्वा,

पूरित- √पू द्र.

पूरुष- पुरुष- द्र.

पूर्या- √पू द्र.

पूर्य^१- -तम् श्वे २, ७^३.

पूर्व, वी^१- -र्वैः वृ १, ४, १^३; श्वे २, १६९^१;

मना १, ३९^१; अशि ५, १९^१; गोउ

१३; द्र २; २प्र ३५ : १६; सूता

१, ११९^१; वट्ट ३१६ : २१९^१;

सांका ५१; -र्वस् ई ४; क २, १,

६^३; तै ३, १०, ६; छां ७, ११,

१^३; वृ ४, ३, १; १८; द, २, ८;

श्वे ३, ४९^१; ५, ६^३; ६, ५ : १८;

गौ २, १६; मैत्रि ६, २१; ऋपू २,

१८९^०; अशि ६, १०; -र्वस्-र्वम्

जाद ६, १५; -र्वस्मिन् राधा १,

२०; -र्वस्य तै २, ३-६, १; -र्वस्याः

त्रिता १, ६०; -र्वस्याम् भ २, २७;

-र्वा अ१; ऋपू २, २; ऋउ ३, १; गार

४०६ : ६; -र्वाः कौ २, ८; १०^{१३};

-र्वाणि कर् १; कश्चु २, ३; -र्वात्

अव्य ७^{१५}; -र्वांन् राउ ५, ४; पै

४, २३; ता ३, ९; -र्वाम् महा ६,

६६; त्रिता १, ७६; २, २६; व

४३० : १२; -र्वायाम् गार ४०६ :

१२; -र्वै क १, १, ६; छां ६, ४,

५; वृ १, १, २; ४, ४, २२; ६, २,

७; कौ २, ५; मवा १०९^१; ङाग
२४ : १७; २प्र ३४ : ९; शि ६,
८३; ब्रसू ४, १, १५; गी १०, ६;
-र्वेण त्रिता १, ४०; ५९; २, १४;
४, १६; ३१; -र्वेभ्यः योसू ३, ७;
-र्वेषाम् के १, ३; मैत्रि १, १^{१३}; योसू
१, २६; -र्वैः शि ६, २२६; गी ४,
१५^३; -र्वौ कौ १, ५^३.

पूर्व-कर्मन्- -र्मभिः शि ७, १२५.

पूर्व-क्रम- -मेण शि ६, ८५.

पूर्व-जन्म-कृता(त-अ)भ्यास-

-सात् योशि १, १४३.

पूर्व-जन्मा(न्म-अ)र्जिता(त-आ)-

गस- -गसाम् वृजा ५, १०.

पूर्व-जन्मा(न्म-अ)र्जिता(त-आ)-

त्मन्- -त्मना कुं २०^{१६}.

पूर्व-जन्मो(न्म-उ)पार्जित- -तानि

चा ७.

पूर्व-जाति^१- -तिम् गर्भ ३^१.

पूर्वजाति-ज्ञान- -नम् शां १, ७,

५२; योसू ३, १८.

पूर्व-तर- -रम् गी ४, १५.

पूर्वतरा(र-अ)व-(-ह>)हा-

-हाः वपं ३१३ : २.

पूर्व-तस(>) सार २७२ : १०; शि

२, १७; ६, ७८.

पूर्व-तारक^१- -कम् मं १, ३, ३.

पूर्व-तारक-योग- -नाः अता ११^१.

पूर्व-दल- -लम् ध्या ९३, २^३; -ले

हं ८; ध्या ९३, २; वि १.

पूर्व-दिश- -दिशाम् व ४२८ : १.

a) 'पूज्य' इति आन. । b) °नः इति अज्या. संटि. । c) व्यु. ? =राक्षसीविशेष- । d) व्यु. ? =गोत्रप्रवर्तक-
श्रुषिविशेष- । e) पा ४, १, १०५ । f) स्वरूपं व्यु. च ? । g) पामे. संटि. द्र. । h) उप. । उप. <√पा(पाने) ।
i) वैप१ यद्र. । j) पा. ? [तु. आन., शं. प्रभृ.; वैतु. निसा. (१२अ)-पूर्व- (तु. परि.) > -र्वम् इति यतः सस्थ. कृण्वते
=प्रपु३ (वैतु. आन., शं. प्रभृ. °से [मपु१]), ते <तद्- (वैतु. आन., शं. प्रभृ. <युष्मद्- इति), अक्षिपत्(१न्)
इति सुपा. शोधश्च । k) सना. वैप१ यद्र. । l) मा ३२, ४ । m) 'पश्यत' इति तैश्चा १०, १०, ३ । n) तु. सस्थ.
टि. देव-> -वाः । o) कौ ३, १, ९ । p) पा. ? °र्वा इति शोधः द्र. । q) °र्वांन् इति निसा. यनि. शोधः द्र. । r) ऋ १,
१६४, ५० । s) पा. ? °र्वम् एषाम् अशीनाम् इति त्रिपदः शोधः द्र. । t) °नाम् इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) ।
घ) उप. =जन्मन्- । v) °वीः इति आन. । w) उप. =४तारक- । x) 'पूर्वभागी तारकयोगः' इति निसा. ।
y) °र्वं दं इति निसा. ।

पूर्व-दृष्ट, दृष्टा- दृष्ट् अत्र ४, ५५;
 -दृष्टाम् नाप ४, ३.
 पूर्व-देह-
 पौर्बदेहिक- कम् गी ६, ४३.
 पूर्व-द्वार- रम् व ४२७ : २१; -रे
 सूता ४, १.
 पूर्व-निरोध- -घात् व्रस् २, २, २०.
 पूर्व-निष्पन्न- -ञ्चम् गौ ४, १८.
 पूर्व-पक्ष- -क्षे कौ १, २.
 पूर्वपक्षा(त्त-अ)परपक्ष- -क्षयोः
 वृ ३, १, ५; -क्षाम्याम् वृ ३,
 १, ५१.
 पूर्व-पत्र- -त्रे सूता ४, ३.
 पूर्व-पीठ- -ठे व ४३० : १५.
 पूर्व-पीठ- -तः १योत १३१.
 पूर्व-प्रज्ञा- -ज्ञा वृ४, ४, २; निरु२, ५.
 पूर्व-प्रतिष्ठित- -तम् त्रिता ३, ३२.
 पूर्व-श्रोष्ठपद^१- -दाय व ४३८ : ८.
 पूर्व-फल्युनी^२- -न्यै व ४३८ : ४.
 पूर्व-भाग- -गे व्रवि८०; जाद४, १८.
 पूर्व-भाव- -वात् व्रस् ४, ४, ७.
 पूर्वभाविन्-
 पूर्वभावि-स्व- -स्वे सांस् १,
 ७५.
 पूर्वभावि-मात्र- -त्रे सांस् १,
 ४१.
 पूर्व-मालिका- -काम् अत्र १४.
 पूर्व-योनि-सहस्र- -स्त्राणि गर्भ४^०.
 पूर्व-योन्य(नि-अ)प्र-रूप-
 पूर्वयोन्यप्ररूपि(न्>)णी-
 -णीम् त्रिता २, ३९^d.
 पूर्व-रूप- -पम् तै १, ३, १; २^३;
 ३; ४; अध्या २९^०; ग ८.
 पूर्व-वत् जा ४; १योत ४२; नाप
 ३, ७७; ४, ३८; रार २, ९; १२;
 ४९; ५३; ५५; ५७; ७१; १०२;

१०५; १संन्या १, १; पप ४१८:
 १३; यो १, २७; ३०; ३७; कृ
 १८; या १, १; सर ३, ३०; गुषो
 ४२३: ३; कथु १, १; मांसू ३,
 ४१; ५, ११२: १२२; ६, ५, ७;
 व्रम् ३, १, २४: २, २९.
 पूर्व-वासना- -नया योशि १, १४१:
 वरा ४, ४०^१.
 पूर्व-विकल्प- -ल्पः व्रम् ३, ४५.
 पूर्व-संन्यासिन्- -सी नाप ३, १;
 या २, १.
 पूर्व-सिद्ध-सस्व- -स्वस्य सांस् ५,
 ५९.
 पूर्व-स्थित- -तः शि २, १.
 पूर्व-हेत्व(तु-अ)भाव- -वात् व्रस्
 ३, ३, ६०.
 पूर्वा(र्व-आ)चार-क्रमा(म-आ)-
 गत- -तम् महा ५, ३८.
 पूर्वा(र्व-आ)दिक्- -कम् पी४२२: ७.
 पूर्वा(र्व-आ)दि-दिस्- -दिशि तारा
 ८४ : २.
 पूर्वा(र्व-आ)दिष्ट- -ष्टम् व ४३०: १२.
 पूर्वा(र्व-आद्य>)घा- -घासु रापू ५,
 ३.
 पूर्वा(र्व-अ)पर- -रे योशि ५, ४३.
 पूर्वापरा(र्व-अ)परिज्ञान- -नम्
 गौ ४, २१^d.
 पूर्वापरा(र्व-अ)ष्ट-हस्त- -स्तम्
 शि ४, १.
 पूर्वा(र्व-अ)पाव- -ये सांस् १, ३९.
 पूर्वा(र्व-अ)मिमुल- -लः महा १, १.
 पूर्वा(र्व-अ)भ्यास- -सस्य शां १,
 ७, १७; -सेन गी ६, ४४.
 पूर्वा(र्व-आ)ज्ञाव- -वः म ४८: १२.
 पूर्वा(र्व-अ)जित- -जानाम् १योत
 ६३.

पूर्वा(र्व-अ)र्ष- -र्षः वृ१, १, १; -र्षम्
 अत्रा ८^d.
 पूर्वा(र्व-अ)वसान- -नयोः वृजा४, ५.
 पूर्वा(र्व-अ)वस्था-त्रय- -यम् अत्र
 ५, ८७.
 पूर्वा(र्व-अ)षाडा^१- -डायै व ४३८ : ७.
 पूर्वा(र्व-अ)ह- -हं ह्यो ५, ११, ७;
 सूता १, १४^३; भव १, ३८.
 पूर्वाह-का लक>, लिका- -का
 गार ४०६ : १६.
 *पूर्व-
 *पूर्व-सु-
 पूर्वसुस(>) १संन्या २,
 ६७; इ १४ : ८.
 पूर्वा(र्व-उ)क, क्ता- -कया सार
 २३३: ४; -कायाः त्रिता १, ६७;
 -केन वो १, ५३; -कैः वरा १, ७.
 पूर्वाक-क्रम-
 पूर्वाकक्रम-शस्त्र(>) अत्र
 २२^d.
 पूर्वाक-ज्ञान-संयुत- -तः त्रित्रा
 २, ८९.
 पूर्वाक-नख-जात- -जानाम्
 वरा १, १५.
 पूर्वाक-त्रि-कोण-स्थान-
 -नात् ध्या ९५.
 पूर्वाक-पात्र- -त्रे वृजा ३, ११
 पूर्वाक-ब्रह्म-यज्ञ-क्रम- -मम्
 पाशु १, ३१.
 पूर्वाक-मन्त्र- -न्त्राणाम् रार
 ३, १.
 पूर्वाका(क-आ)सन- -ने शां
 १, ५.
 पूर्वा(र्व-उ)चर- -राणाम् २प्र ३४:
 १२; -रे त्रित्रा २, ३५; -रेषु
 सु १, १, ४१; -रैः त्रित्रा २, २.

a) उप. <√पा(पाने)। b) =नक्षत्रविशेष-। c) नानाबो^० इति ज्ञान., अथ्या.। d) पूर्वे बो^०
 इति अथ्या. संटि.। e) 'पूर्वपूर्वम्' इति अथ्या.। f) पुनर्वा^० इति निसा. वनि. शोषः द्र. (तु. अथ्या.)।
 g) °परप^० इति संटि.। h) °वैतारकम् इति निसा.। i) तैत्रा ३, १२, ९, १। j) वृ. वैप १, २५०d, e, f।
 k) °कं क^० इति ज्ञान.।

पूर्वात्तर-विधान-
पूर्वात्तरविधान-तस्य (>):
अता ८; मं १,३,१^६.
पूर्वो(र्व-उ)त्पत्ति- -त्ते: सांसू ३,८.
पूर्वो(र्व-उ)त्पन्न- -न्नम् सांका
४०.
पूर्वो(र्व-उ)दित^b- -ते बृजा ३,८.
पूर्व्य- -र्व्यम् श्वे २,५९^०; ७.
पूषन्^{३३}- -षणम् बृ १,४,१३; दे १^९^०;
-०षन् ई १५; १६; बृ ५, १५,
१^९^९; मैत्रि ६, ३५९^६; -षा प्र सुं
मां शां^९^९; बृ १, ४, १३; मना
१, ९९^६; बृजा अशि अ नृपू
नाप सी श त्रिवि रार रापू शां
पप अन्न सू १आ पाशु पत्र त्रिता
दे भा भ ग मवा गोपू कृ ह दत्ता
गरु अबि पदं शि शां^९^९; पं १; रा
४२३: १९^६; १^९व ४४२: ८;
४४७: १५; ४५२: १; ४५५:
६; पित्र शां^९^९.
वौष्ण- -ष्णम् गार ४०७: ७.
पू(ष>)षा^{३३}- -षा ध्या ५३; योचू
१७; १९; शां १,४; योशि ५,
२२; भा १४; जाद ४,७; १५;
२०; ३६; वरा ५, २५; -षाया:
जाद ४, १६.
पूषा-यशस्विनी-नाडी- -ञ्जौ
त्रिवा २,७२.
पूषा-सरस्वती-मध्ये- -ध्ये शां
१,४.
पृच्छत्- ✓प्रच्छ द्र.
पृतना^d- -नासु व ४६०: ६९^६.
१^९पृतना-जित्- -जितम् मना २,
१; व ४६१: १४.

पृथक्^{३३} क२, १, १४; ३, ६; छां ५, ११,
५; १४, १^९; १८, १; बृ २, ४,
१०; ४, ५, ११; गौ १, ६; मैत्रि
६, ३२; ते ४, २५; नाप ३, ८६;
१अव २१; या २, ६; महा २,
७; -थक्-थक् प्र ३, ४; त्रिवा
२, ८३; सी २४; रूह २४; पत्र
२^९; सार २२३: १७; शि ६,
१२४; गी १, १८.
पृथक्-चिह्नो(ह-उ)पलक्षित- -त:
जाद ५, ११.
पृथक्-चेष्टा- -ष्टा: गी १८, १४.
पृथक्-त्व- -त्वम् गौ ३, १४; -त्वात्
मैत्रि ६, १४; -त्वेन गी ९, १५;
१८, २१; २९.
पृथक्-स्थान- -नानि सार २५४:
२३.
पृथग्-उपदेश- -शात् ब्र २, ३, २८;
४, ९.
?पृथग्भवनकल्पनालंकार^{३३}सी ३७.
पृथग्-भाव- -व: ते ६, २३; महा
४, ४६; -वम् क २, ३, ६.
पृथग्-भूत- -त्ते त्रिवा २, १.
पृथग्-रूप- -पेण सार २३८: १९.
पृथग्-लक्षण- -णम् मैत्रि ६, २२.
पृथग्-वर्त्मन्- -र्त्मा छां ५, १४, १;
१८, २.
पृथग्-वाद- -दा: गौ ४, ९४.
पृथग्-वि(धा>)ध- -धम् गी १८,
१४; धा: त्रिवा २, ७६; गी १०, ५;
-धान् गौ २, १६; गी १८, २१.
१पृथा^{३३}- -थाम् पा ६, ६.
२पृथा^{३३}-
पार्थ^{३३}- -०र्थं गी १, २५; २, ३; २१;

३२; ३९; ४२; ५५; ७२; ३, १६;
२२; २३; ४, ११; ३३; ६, ४०; ७,
१; १०; ८, ८; १४; १९; २२;
२७; ९, १३; ३२; १०, २४;
११, ५; १२, ७; १६, ४; ६;
१७, २६; २८; १८, ६; ३०-३४;
७२; -र्थ: गी १, २६; १८, ७८;
-र्थस्य गी १८, ७४; -र्थीय गी
११, ९.
पार्थ-सारथि- -थये गोपू ३८.
पृथिवी^{३३}- -०वि मना १, १०९^९; -वी
प्र २, २; ५; ४, ८; ६, ४; सुं २, १,
३; ४; २, ५; तै १, ३, १; ५, १;
२, १, १; २, १; ८, १; ३, ९, १^९; ऐ
१, २; ५, ३; छां १, १, २; ३, ७;
२, २, १; २; १७, १; ३, १२, २;
३; १९, २; ४, ६, ३; ११, १; ५,
६, १; १८, २; २१, २^९; ७, ६, १;
८, १; १०, १; बृ १, १, १; २, २;
५, ११^९; २, २, २; ४, २; ५, १; ३,
३, २; ७, ३^९; ९, ३; ७; १०; ४, ५,
३; ६, २, ११; ४, १; २०; २२; मै
४, ४, १३; मैत्रि ५, १; ६, ३४; गर्भ
१; ना १; मना २, ३०९^९; ३५९^९;
७९^९^९; अशि २, १२; ६, ५;
अ१; बृजा १, १; नृपू २, २; नृउ ३,
२; सुबा १; २; ५; ७^९; १३; १४;
ते ३, १९; ध्या ९; ब्रवि ४,
१योत ८५; योचू ७२; त्रिवा १,
५; ९; पै १, १६; शारी १; अव्य
१; अध्या १^९; कुं १४; सावि
१^९; म२, ११; जाद ८, ४; प्रा १,
६९^९; गोपू २५; वरा १, ५; ५,
१^९; आच ९; १प्र ३१: ५;

a) विभागतः इति निसा., अञ्ज्या. संदि. । b) उप. = १उदित- । c) ऋ १०, १३, १ । d) वैप१ यद्र. ।
e) ऋ १०, १२५, २ । f) का ४०, १, १५; १६ । g) का ४०, १, १५ । h) ऋ १, ८९, ६ । i) ऋ १, ८९, ५ । j) व्यु? =
दक्षिणकर्णस्थनाडीविशेष- । k) ऋ १०, ८३, ४ । l) शौ ७, ६५, १ । m) अव्य. । वैप१ यद्र. । n) पा. ?
कल्पनालंकार (>) रा-> रा इति शोधः इति कृत्वा गपू. (पृ ९८) अलं/कृ> अलंनकार इति निर्देशः यनि.
सु-शोधः । o) व्यु? = भूमि- । p) व्यु? = अर्जुनजननी- । q) ऋ १, २२, १५ । r) तैत्र्या १०, २३, १ । s) तैत्र्या ३
१०, ३५ । t) तैत्र्या १०, ६३, १ । u) ०वीम् इति अञ्ज्या. ।

पृथिव्य(वी-अ)प्-तेजो-वाय्वा-
(यु-आ)काशे(श-इ)च्छा-द्वेष-
सुख-दुःख-काम-मोह-विकल्प-
ना(ना-आ)दि- -दिभिः १आ
१?; २आ २.
पृथिव्य(वी-अ)ञ्ज- -जे राप् ५, २^b.
पृथिव्या(वी-आ)दि- -दिषु त्रिआ
२, २; -दीनाम् त्रिवि २, १२.
पृथिव्यादि-पञ्च-महा-भूत-
-तानि नाप ४, ३८.
पृथिव्यादि-पञ्च-वर्णक- -कम्
ध्या ९५.
पृथिव्यादि-महा-भूत- -ता-
नाम् शारी १; -तेषु शारी १^३.
पृथिव्यादि-शिवा(व-अ)न्त-
-न्तम् ब्रवि ६२.

१पृथु^०-

पृथु-नित(म्ब>)म्बा- -म्बाम् रा
४२४ : २२.
पृथु-(स्तुक>)स्तुका- -०के वृ ६,
४, २१९^a.
पृथु(धु-उल्का>)ल्क- -ल्काय नापू
४, १९.

२पृथु^०- -धुः भव १, २४.

पृथुक^०- -कान् वपू २, ५.

पृथ्वी^०- -ध्वी कै १, १५^b; मना २,
१९^b; २८९^१; ते ४, १७; योशि
४, १७; २३; त्रिआ १, ३०; कृपु
१५; व ४६१ : ११९^b; वउ ३,
७; -ध्वीम् शि ६, २२८.

पृथ्वी-अ(दि-अ)णुक- -काय शु२, ५

पृथ्वी-धरा(र-आ)धार्थ- -र्थः म

४९ : ३.

पृथ्वी-मण्डल- -ले वरा ५, ४.

पृथ्वीमण्डल-मुद्रा(द्रा-अ)ङ्ग-
-ङ्गः गरु ७.

पृथ्व्य(ध्वी-अ)प्-तेजो(जस्-अ)निल-
ख- -खानि श्वे ६, २?; -खे श्वे
२, १२?^k.

पृथ्व्य(ध्वी-अ)प्-तेजो-वाय्वा-
(यु-आ)काश-पञ्च-महा-भूत-
-तानि वउ २, ३३?!

पृथ्वि^०- -भिभिः अरु ३४९^m.

√पृष्

पृषत्^{१०}-

पृषद्-आज्य- -ज्यम्, -ज्यस्य
वृ ६, ४, २४.

पृषदाज्य-प्लु(त>)ता-

-ताः शि ४, ४०.

पृष्ट-, पृष्ट्वा √प्रच्छ द्र.

पृष्ट^०- -ष्टम् तै १, १०, १; वृ१, १, १; २,
३; मना १, १३९^०; २, २९^p; नाप
४, ३८९^q; वृजा ४, १९^r; शि ६,
१५१; व ४६१ : १९९^p; पित्र
१, १०; -ष्टे सुं १, २, १०; मना
१, १९^०; वृजा ४, २४; २८; २९;
३१; ३४; अज २, २३; त्रि
७; वपं ३१२ : ७; -ष्टेषु छां ३,
१३, ७^१.

पृष्ट-तस(>) वृ १, ५, ३; त्रिआ
२, ७२; शां १, ४; जाद ४, २०;
शि ६, १८१; व ४६५ : १६;
गी ११, ४०.

पृष्ट-देश- -शे व ४५८ : ७.

पृष्ट-पार्थ- -थयोः जाद ४, १४;
-थे त्रिआ २, ३६; शां १, ३, २;
जाद ३, ३.

पृष्ट-भाग- -गान् सार २५० : २१;
-गे वृजा ४, २२; शां १, ४; ७,
५२; योशि ६, ८; बि १३; १६.

पृष्ट-मध्य-स्थित- -तेन जाद ४, १०
पृष्ट-वंश^{१०}- -शः गर्भं ३; योशि १,
११४^u.

पृष्टवंश-नख-गुल्फो(ल्फ-उ)दर-
नाभि-मेद्-कट्यू(टी-ऊ)रु-कपो-
ल-श्रोत्र-भ्रू-ललाट-बाहु-पार्थ-
शिरो(रस्-अ)क्षि- -क्षीणि
१आ १.

पृष्टो(ष्ठ-ऊ)र्ध्व-

पृष्टोर्ध्व-तस(>) ऊ ६४ : ९.

√पृ> पारि, पुर, पर, परि, परत-परत
२योत २, ३.

पृथ्वि मना २, ७३; चा २१.
पर्यते वृ १, ४, ३; २, १, ५; कौ ४,
६; पर्यन्ते त्रिआ २, ९९.

पारय मना २, १९^h; इ २० : २.
परयति मैत्रि ६, २६; परयेत् छु ४;
१योत ३७; ३८; ११३; त्रिआ २,
१४३; योचू ९५; शां १, ७, ७; योशि
१, ९७^३; यो १, २४; ३३; ३४;
३५^v; जाद ७, ११; वरा ५, ५९.

पार- -रम् क १, २, ११; ३, २; ९;
प्र ६, ८; छां २, १३, १; ७, १, ३;
२६, २; मैत्रि ६, २१; २८; ३०;
अज ४, २३; ६४; भव २, १२;
-राय सुं २, ६२; -रे मना ८९^v.

a) निसा. अज्या. च मुपा. यनि. सु-शोषौ । b) °ञ्जस्वा° इति काचित्कः निसा. मुपा. यनि. सु-शोषः ।

c) वैप १ यद्र । d) 'सरस्वति' इति ऋ १०, १८४, २ । e) व्यु. ? = राजविशेष- । f) व्यु. ? = मृष्ट-तण्डुल- ।

g) 'पृथिवी' इति आन., अज्या. । h) ऋ १, १८९, २ । i) तैआ १०, २१, १ । j) °ध्व्याप्य° इति मुपा. यनि.

शोषः द्र. (तु. आन. संटि.) । k) °ध्व्याप्य° इति निसा. अज्या. च मुपा. यनि. सु-शोषौ । l) °महद्व्यू° इति

मुपा. यनि. शोषः द्र. । m) तैआ १, २७, ५ । n) पाउ २, ८४ । o) तैआ १०, १, १३ । p) तैआ १०, १, १६ ।

q) तैआ ७, १०, १ । r) °ष्टम् इति अज्या. । r) 'पृष्टे' इति अज्या. । s) तैआ १०, १, १ । t) °ष्टपूर्व° इति अज्या. ।

u) पा. ? °शे इति-शोषः द्र. (तु. अज्या.) । v) ऋ १०, ७३, ११ । w) 'रेचयेत्' इति अज्या. । x) 'पराय' इति

आन. । y) तैआ ३, १२, ७ ।

पार-दर्शिन- -शिनः १संन्या २, ९८.

पार-विचारजित- -त्तः कुं १६.

पारा(र-अ)यण- -येन रा ४२४: १४.

पारायणिन्- -णी पारा १६.

पारा(र-अ)वार-

पारावार-पूर- -रः मवा ७.

पारावार-विद्- -विदः महा

५, १७७.

पारावारा(र-अ)नन्दरस-

निर्मर- -रैः सि ४, ४.

पारयिष्णु- -ष्णवः इ १२: ८.

१पुर्- -पुर्: ^b वृ २, ५, १८; मना १, ९५^०; २, ५५^०; सु २, २, ७४; इ १६: ९; चा १८; व ४६४: २५^०; वड ३, ३८; ४०; पुरा^b क १, १, २१; सुं १, १, २; ३, २, ११; छां २, ९, २; २४, ३; ७; ११; ४, १६, २; ४; ५, ३, ७; वृ १, २, ४; २, १, १०; १२; ६, २, ३; कौ ४, ६; मना २, ८५^०; शु १, १; १अव ९; म २, १५; जाद ७, ३; गी ३, ३; १०; १७, २३.

पुरस(>:)

पुर-सृ- -ता वृ १, ३, १८.

पुरश्-चरण^१-

पुरश्चरण-विधि- -धिम् रार ४, १; -शौ रार १, ९.

पुरश्चरण-सिद्धि- -द्धिः रा ४२३: १२.

पुरश्-चर्या^१-

पुरश्चर्या-विधि- -धिः दे २०.

पुरस/कृ

पुरस-कृ(त>)ता- -ताम्

सुसु ९.

पुरस-कृत्य मैत्रि ७, ८;

नाप ३, १६; ७; त्रिवि ५, १२; ७, १.

पुरस्तात् क १, १, ११; सुं २, २, ११; छां ३, ६-९, ४; ५, २, २; ६, ८, ६; १०, १; ७, २५, १^०; २; वृ १, १, २; मना १, १०^०; कौ २, १; मै १, १; मैत्रि १, २; मैत्रे १, १; व २.

पुरस्तात्तात् न ४^१.

पुर-सर- -राणि श्वे २, ११.

१पुरो-ना^१- -नाम् शौ ५१: ७.

२पुरो-ना^१- -ना; -गाय इ १८: १९.

पुरो-ना- -नाः शौ ५१: ८; ५२: ५; -नाम् शौ ५३: ५.

पुरो-गाय^१- -यम् शौ ५२: १८.

पुरो/घा

पुरो-धम्^१- -धताम् गी १०, २४.

पुरो-धाय शौ ५१: २.

पुरो-हित^१- -तम् २प्र ३६: १७^१.

पुरो(रस्-अ)नुवाक्या^१-

-क्यया वृ ३, १, १०; -क्या वृ ३, १, ७; १०^१.

पुरो-वात- -तः छां २, ३, १.

पुरा

पुरा-कल्प- -ल्पे श्वे ६, २२; सु ७५.

पुराकल्प-प्रचोदित-

-तम् अक्ष ५, ११९.

पुरा-कल्पित-मन्त्र^१-

पुराकल्पितमन्त्र-मय-

पुराकल्पितमन्त्रमय-

शुद्धब्रह्मनेजोमय-निरनिवाया-नन्दमय-महा-विष्णु-मा-रूप्य-विग्रह- -हम् त्रिवि ५, १२.

पुरा-कृत- -नम् मै ४, २; मैत्रि ४, २.

पुरा-तन- -तः कै २, १; त्रिवि १००; त्रिवि १, २; वि १^१; वड २, २९; गी ४, ३.

पुरातनी- -नी वरा ४, १६^१.

पुरा-विद्- -विदः सार २१९: ७; २२०: १३; २३१: १; २४५: १७; २५८: १५; -विद्धिः शौ १, ९.

२पुर^१- -पुरः ऐ ४, ५५^०; वृ २, ५, १८^१; त्रि १; लि ३११: ८; पुरम् क २, २, १; अर १०५^०; २५५^०; पः छां ८, ५, ३^०; मना २, १५^०; व ४६१: ११५^०; अर १९५^०; पृथु वृ २, ५, १८.

पुर-अग्र- -अ पा ९, ८.

पुरि

पुरि-शय- -यः वृ २, ५, १८; -यम् प्र ५, ५.

१पुर^१-

पुर-तस^१(>:) क १, १, १८; वृड २, ३; ६, ३; ८, ४; ९, १०; १८; त्रिवा २, ७२; अव्य ६; सर ३, १९; शि ४, १; ६, १८१; १८४; ७, २०; २१.

पुरतः-स्थिता(त-अ)नन्त-दिव्य-तीर्थ^१- -र्यानाम् सिद्ध, २६.

a) =अग्र-। वैप १ यद्र.। b) अव्य.। c) अ १०, १५२, २। d) 'प्रोवाच' इति तैश्वा १०, ६, १। e) मा १३, ३। f) 'पुरस्तात्' इति निसा.। g) विप.। h) वैसं। i) उस. उप. √गै+वम्। j) अ १, १, १। k) पुरःक^० इति मुपा. पुनःक^० इति मूको. च यनि. सु-शोषौ। l) °ना इति अख्या.। m) =नगर-। वैप १ यद्र.। n) अ ४, २७, १। o) तैश्वा १, २७, १। p) तैश्वा १, २७, ३। q) 'पूर्वब्रह्मणः' इति निसा.। r) अ १, १८९, २। s) शौ १०, २, ३१। t) वैतु. MIV. नैप्र. =पुरस-तस इति।

२पुर^२-रम् ते २,१९;अध्या १०;
योचू १०; त्रिवि ६, १६; १७;
रापू ४,२६; योशि ४,१६; अन्न
१,३४; शि १,२२; ५,२८; ६,
५८; १८५; १९३; गु ३२; ३४;
-राणाम् त्रिता ४, ५; -रे प्र ४,
३; श्वे ३,१८; नाप ४,२१; वि
१९; शि २,२१; ३,१४; ४,३४;
४२; ४४; ६,४; ६; १३; १८; ५२;
६७; ६९; ७७; ९८; १८०; १९८;
२०३; २०४; २०७; २१८;
२२६; २३७; २३९; २५३;
२५८; २६९; २७२; गु ५०; गी
५,१३; -रे-रे शि ६,१४०.

पुरी-री नाप ८, १; गोड
२१; -रीम् रापू ४, २७; अरु
२२९^b; -र्याम् पप ४१९; ३१९^{१०}.

पुर्यै(री-अ)क-कम्
महा ५,१३२; १५३.
पुर-ग्राम-प्राक्तन-संचार-रम्
नाप २.

पुर-त्रय-यम् कै १,१४; ब ८;
-याणि सिशि ३८१; २१; -ये
कै १,१४.

पुर-नाश-शे लि ३११; ८.
पुर-मण्डप-पे शि ६,१३९.
पुर-मध्य-ध्यम् त्रि १०.

पुरमध्य-स्थ-स्थम् मना
२,१२,३९^d.

पुर-याचक-का: मैत्रि ७,८०.
पुर-युक्त-क्तेन शि ६, १०८.

पुरा(र-अ)न्तक^२-क: कुं १७.

१पुराण^१-ण: कर् २,१८; वृध, ४,
८; ब्रवि ९९; ए १,२; बार ४;
पा १, १; हे ५; भव २, ३७;
गी२, २०; ११, ३८; -णम् क १,

२,१२; वृध, ४, १८; ५, १, १; श्वे
३, २१; मना १, १९^५; ११९^h; अशि
५, ७; नाप ९, १७; त्रिवि ४,
७९^६; ७, ४९^h; महा ४, ७१; ए
१३; सु २९३; १४; गी ८, ९;
-णा: व ४३४; १; -णेन अशि
५, १९^१; वट्ट ३१७; ९.

पुराणी-णी श्वे ४, १८;
शां २, १; त्रि १; गी १५, ४.

२पुराण^२-णम् वृ २, ४, १०;
४, १, २; ५, ११; मैत्रि ६, ३२;
३३; ते ५, ४३; स्व ६०; ४;
नापू ५, ३७; -णानि वृजा ८, ५;
ट्टपू ५, १८; योशि ३, ७; त्रिता
१, ११; सार २८५; १४; वड
५, १८; -णेषु ते ५, ८८; रार १,
३; -णै: सार २३१; १३.

पुराण-क-के जाद २, १२.

पुराण-ज्ञ-ज्ञ: द्र ६.

पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्म-

शास्त्र-नीति-श्रवण-प्राण-
कर्षण-कर्म-विशेष-षान्
१आ १^k; २आ २.

पुराण-पठि(त>)ता-ताम्
तुल ७०; ४.

पुराण-श्रवण-पूर्वक-कम्
नाप ४, ३८.

पुराण-पुरुष-षाय नाड २, ९;
-शै: त्रिवि ६, २३.

पुराणपुरुषो(ष-उ)त्तम-म:
ता ३, ८.

१पूरक^१-कम् त्रि ५.

२पूरक^२m-क: ते १, ३२९^{१५};
ध्या २१; योचू १०१; अन्न ५,
२८९^{१५}; जाद ६, १२९^{१५}; वरा
५, १८^२; -कम् ब्रवि २१;

१योत ११५; त्रिब्रा २, १०८;
योचू १०३; योशि १, १२७;
जाद ६, १८; वरा ५, ५७; ५८;
-कस्य अता १३; -केण ध्या ३०.
पूरक-कुम्भक-कौ वरा ५,
६१.

पूरक-कुम्भक-रेचक-कै:
मं १, १, ६.

पूरका(क-आ)द्य(दि-अ)-
निला(ल-आ)याम-मात् शां १,
७, २८.

पूरका(क-अ)न्त-न्ते शां
१, ७, ११; योशि १, १०९; यो
१, ५१.

पूरण-णम् त्रिब्रा २, ९४; -णात्
त्रिब्रा २, ९९.

पूरयत्-यन्तु लु ११^०; ध्या ७०.

पूरयित्वा वृ ६, ४, १९; ध्या २०;
शां १, ७, ४३; योशि १, ८७;
जाद ५, ७.

पूरित,ता-त: योशि १, १२१;
१२२; -तम् ध्या ४८; ६९;
१योत ४१; त्रिब्रा २, ९७; योचू
४०; ११४; शां १, ६^२; जाद ६,
४; ५; ८; वरा २, ३६; -ता: सार
२२२; १३; -तायाम् सार २७१;
१९.

पूरित-स्व-स्वात् मवा ७.

पूर्ण,णी-णी: तै २, २-५, १; मैत्रि
१, १^०; ते ५, ६१; ब्रवि १००;
त्रिवि १, ११; महा २, ४७; अन्न
२, २६^{१०}; अध्या ११; कर् १९;
२०^३; २१; २२; काम १६; गु
४६; -णम् ईशां^{१०}; छां ३, १२,
९; वृ शां^{१०}; २, १, ५; ५, १, १^५;
६, ३, ४; श्वे शां^{१०}; ३, ९९^{१५};

a) =नगर-। वैपश् यद्र. । b) तैत्र्या १, २७, ३। c) =मात्राविशेष-। d) तैत्र्या १०, १०, ३। e) °रो°
इति सात. । f) वैपश् यद्र. । g) तैत्र्या १०, १, १। h) तैत्र्या ३, १२, ३, ४। i) °णम् इति अब्या. । j) =शास्त्रविशेष-।
k) °ज्ञापिती श्रवणप्राणकर्षण° इति पा.१ यनि. श्लोच: द्र. । l) विप. । m) =प्राणायामविशेष-। n) °येत् इति
अब्या. । o) 'संपूर्णः' इति सात. । p) पूर्णपा° इति निसा. यनि. श्लोच: द्र. (तु. अब्या.) ।

कौ ४, ६; मना २, १२, ३३०;
 वृजा ३, १७; ८, ६; वृष ५, १९;
 वृच ९, ५; ससा १, ३४०; ते २,
 १५; ६, २७; नाप ३, ४६; मि
 शां०; महा ५, ४६; योशि १,
 १७; अध्या शां०; १९; २१;
 ६१; सुबा मन्त्रि नि त्रिषा जा हं
 पहं मं अता पै तुअ ता या शा
 शां०; त्रिना २, १२; यो १, ३६;
 वरा ३, ८; सु शां०; १, २, २;
 अद्वै ९; -र्णस्य ई शां०; वृ शां०;
 ५, १, १; श्वे वृजा हं पहं सुबा
 मन्त्रि नि त्रिषा मं अता पै मि तुअ
 अध्या ता या शा सु शां०; -र्णां तै
 २, ८, १; वृ २, ४, २; ४, ५, ३; सु
 १, १, ३६१०; मार २६४:०; ४;
 -र्णां: वृ ४, ३, २०; सुबा ४; मार
 २२२: ३; २५८: १०; -र्णाव
 ई शां०; वृ शां०; ५, १, १; श्वे सुबा
 मन्त्रि नि त्रिषा वृजा हं पहं मं
 अता पै मि तुअ अध्या ता या
 शा सु शां०; महा २, ६७; ५, ४६;
 -र्णाव वृ ५, १४, ६; या १९;
 -र्णाव वृ ९, ५; -र्णाव वृ ३,
 ११, ६०; १२, ९; सु २, २, ५२;
 योरा १८; शु ४६; शुषो ४२३;
 ३; -र्णे वृजा ६, २; २योत १, ३;
 वरा ४, ३१; -र्णेबु रुजा २, १८.
 पूर्ण-कुम्भ- -म्भ: मैत्रे २, २७;
 वरा ४, १८.
 १ पूर्ण-गिरि-
 पूर्णगिरि-पीठ- -ठम् सौ ३, १
 पूर्णगिरि(रि-आख्या-
 -क्यम् योशि १, १७३; ५, १०.
 २ पूर्ण-गिरि(>)री- -री म
 ४८: १८.

पूर्ण-चन्द्रा-न्-आभ-> भा-
 -भा अता ५.
 पूर्ण-चेतन- -तया महा २, ३२.
 पूर्ण-ज्योति: -स्वरूपक- -कम्
 महा ६, ८१.
 पूर्ण-नारा-अ-कृति- -नि:
 महा २, ६७.
 पूर्ण-ता- -ता १ संन्या २, ५७;
 अन्न २, ३५; -नाम् महा ६, ७५.
 पूर्ण-त्व- -त्वम् तै १, ६२: ५,
 २८; -त्वान् मं ३, २, २; योशि
 १, १९.
 पूर्ण-दीक्षा- -क्षाम् गुणो ४२०: ३
 पूर्ण-धी- -धिय: अन्न ५, २८.
 पूर्ण-पात्रो-त्र- -त्र-क- -कम्
 वृजा ३, १७.
 पूर्ण-प्रभा-शोभित- -नम् म
 ४८: ३.
 पूर्ण-बोध- -ध: शु ३, १२;
 -धस्य शु ३, १३.
 पूर्णबोध-कर- -रम् पं ८.
 १ पूर्ण-मास-
 पूर्णमास- -मे कश्चु २, ३.
 पूर्णमासी- -सी यो ३,
 १; -स्याम् छां ५, २, ४; कौ २,
 ३: ५; यो ३, २; भ २, २४; मार
 २३२: २१; २८६: ७; रा ४२४:
 १: ६; ९; आश्र ३.
 पूर्णमास्या- -स्यम् कश्चु
 २, ३; करु १; -स्ये करु १.
 २ पूर्ण-मास- -सं रुजा २, १८.
 १ पूर्ण-रूप-
 पूर्णरूपा/प-आ/राम्- -रमा
 तै ४, ५.
 २ पूर्ण-रूप- -प: तै ३, १५;
 ३८; ४, ६३.

पूर्ण-विकास- -स: वरा २, ६०.
 पूर्ण-विग्रह- -दे वरा २, ७४.
 पूर्ण-स्वरूप-
 पूर्णस्वरूपिद- -पिण: मृ
 ५०.
 पूर्णो-र्ण-श- -शा: मार
 २४७: १८.
 पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि- -शिल्पि-
 ४, ३८.
 पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि- -शिल्पि-
 ६२; वरा ४, २३.
 १ पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि-
 पूर्णानन्द-सय- -स्य: राश
 ३, १.
 पूर्णानन्द-युत- -नम् मार
 २५३: ११.
 पूर्णानन्द-न्द-ए-क-कारण-
 -णम् मार ५, ३१.
 पूर्णानन्द-न्द-ए-क-बोध-
 -ध: पहं ४: श्वि १००; नाप
 ३, ८६.
 पूर्णानन्द-न्द-ए-क-विग्रह-
 -हम् दना १, ४५.
 पूर्णानन्द-न्द-ए-क-
 विज्ञान- -नम् राउ ४, १५.
 २ पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि- -शिल्पि-
 कपु २.
 पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि- -शिल्पि-
 पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि- -शिल्पि-
 पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि- -शिल्पि-
 पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि- -शिल्पि-
 ७, ८३.
 पूर्णो-र्ण-श- -शिल्पि- -शिल्पि-
 ३; शि ४, ५१; -तिम् शि ४,
 ५२; ५८.
 पूर्णाहुति-त्रय- -यम् शि २,
 २४.

a) तैश्चा १०, १०, ३ । b) 'पूर्वम्' इति आन. । c) 'अन्नपूर्णा' इत्युपनिषद्विशेषस्योत्तरांशः । d) 'र्णम्' इति निसा. । e) =नाप. । f) =देवीविशेष- । g) कस. । h) पावा ४, २, ३५ । i) 'मास्ये' इति करु १ । j) 'मासे' इति कश्चु २, ३ । k) वस. । l) 'कविग्रहम्' इति अज्या. । m) 'न्दकविग्रहम्' इति निसा. । n) 'परिपूर्णानन्दैक-विज्ञम्' इति आन. ।

पूर्णि(म>)मा^{१०} - मा मं २,
१, ६.
पूर्णिमा(मा-अ)भ्यास- सः
मं २, १, ६.
पूर्णे(णे-इ)न्दु- -न्दुः महा५, ६८.
पूर्यमाण, णा- णाः सार २३३:
१०; २८७: ३; -णानि सार
२३७: ४; -णाम् शि ६, १३१.
पेपीयमान- √पा(पाने) द्र.
पेलव^१ - वः १संन्या २, १९.
पेशल^० - लः अन्न २, ३१; -लानि
अक्षि ७.
पेशला(ल-आ)चार- -रः महा६, ७०.
पेशलो(ल-उ)क्ति-
पेशलोक्ति-मत्- -मान् महा ६,
६५.
पेशस्^० - शः व ४३७: २०९^१; -शसः
वृ ४, ४, ४.
पेशस-कारिन्- -री वृ ४, ४, ४.
पे(श>)शी^० - शी निरु १, ९.
पैङ्गल- ३पिङ्गल- द्र.
पैङ्गथ- ३पिङ्ग- द्र.
पैतृक- पितृ- द्र.
पैत्तिक- पित- द्र.
पैप्पलाद-, पैप्पलादि-, पैप्पला-
दिका- पिप्पल- द्र.
पैशाच- पिशाच- द्र.
पैशुन्य- पिशुन- द्र.
√पोपूय, पोपूयमान- √पू द्र.
√पोप्लूय् √प्लू द्र.
पोष-, पोषण- √पुष् द्र.
पौंस- पुंस- द्र.
१-३पौण्ड्र-, पौण्ड्रक-, १-२पौण्ड्र-
कालिक- ३-६पुराड्र- द्र.
पौतिमाषी-, पौतिमाष्य- पूति-
माष- द्र.

पौत्र- १पुत्र- द्र.
पौत्रायण- २पुत्र- द्र.
पौरुशिष्टि- पुरु- द्र.
पौरुष-, पौरुषेय- १पुरुष- द्र.
पौर्यमास-, पौर्यमास्य- √पृ द्र.
पौर्वदेहिक- पूर्व- द्र.
पौलक- २पुलक- द्र.
पौलस्त्य- पुलस्ति- द्र.
पौलुषि- पुलुष- द्र.
पौलोम- पुलोमन्- द्र.
पौलकस- पुलकस- द्र.
पौष- पुष्य- द्र.
पौष्कर- पुष्कर- द्र.
√प्याय्>पी^१
पीन- -नम् ते ६, ११.
पीन-जङ्घ- -ङ्घम् वपू २, २.
पीन-वृत्त-पयो-ध(र>)रा-
-राः शि ४, २६.
पीनो(न-उ)न्नत-धन-स्त(न>)-
नी- -नीम् सुमु २.
पीनो(न-उ)न्नत-वक्षो-रु(ह>)-
हा- -हा तारा ८३: १८.
पीवर^० - रः महा ५, १३.
पीवरी^१ - -री महा ५, ५७.
√प्ये
प्यायन- -नात् मैत्रि ६, ७.
प्र^१ छां २, ८, १.
प्रउग^० - गम् छाग २३: १०; २४: १३.
प्र/कट, >कटि, प्रकटयिष्यामि सार
२४१: १७.
प्र-कट-
प्राकव्य- -व्यम् लि ३१०: ४;
१कौल ५: १; २कौल ५^१; ८^१.
प्राकव्य-देह-रूप-
प्राकव्यदेहरूपिन्-
-पिणे सार २७७: ४.

प्रकटी/कृ, प्रकटीकरोति श ८.
प्रकटी-कृत- -तः रापू १,
२; -तम् सार २४१: ७.
प्रकटी-कृत्य सार २३८: १२.
प्र-कटित, ता- -तः सार २४५:
२१; २५४: २०; -तम् सार
२४०: १९; -त्ता सार २२०: ६;
२४०: ६; २४१: ९; २३; ताः
सार २२०: १४; २४०: ११;
२२; २४९: ६; २७५: ५; २८९:
१५; -ते सार २२०: ५.
प्रकटित-दंष्ट्रो(ष्ट्रा-उ)ग्र-रूप-
वद(न>)ना- -०ने व ४३१:
११.
प्रकटित-वसुन्ध(र>)रा- -०ने
व ४३१: १४.
प्र-कटितवत्- -वान् सार २२०:
१२; २४०: ७.
प्र/कम्
प्र-काम- -मः पा २, ५; -मम् पा
१, ६.
प्राकाम्य-
प्राकाम्य-सिद्धि- -द्धिः
आथ ३९३: ७; ३९८: ३.
प्रकाम-सिद्धि- -द्धिः आथ
३९३: १०.
प्र/कम्प
प्र-कम्पित- -तः नाप ५, २८.
प्रकरण-प्रकर्तव्य-, प्रकार-प्र/कृ द्र.
प्रकल्पित-, प्रकल्प्य प्र/कल्प द्र.
प्रकारणम् २प्र ३५: १२९^१.
प्र/काश्, >काशि, प्रकाशते क १,
३, १२; गौ ३, २६; कै १, १७;
वृ ७, ५; ससा १, २४; त्रिब्रा
२, १६०; योचू ७४; ७८; ८२;
द १; योशि १, ६५; २, १४; १८;

a) =दृष्टिविशेष- । b) व्यु? । c) वैपश् यद्र. । d) ऋ १, ६, ३ । e) व्यु? =मांसखण्ड- । f) पा ६, १,
२८ । g) प्रधा. पीभावः करप् प्र. च उंसं. [पा ३, २, १६३ (वैतु. पाठ. [३, १] <√पा(पाने)] । h) झी. ङीप्
(पा ४, १, १५) । वैपश् यद्र. । i) 'अथनात्' इति मै ५, ७ । j) 'प्रस्ताव-' इत्यस्य पूर्वाशः । k) प्रक^० इति मुष्.
बनि. शोधः द्र. । l) पा. प्रकरण- > -णात् इति शोधः द्र. (वैतु. 'प्रसारणम्' इति गोत्रा १, १, २६) ।

५, १२; ६, ७७; ७८; १संन्या
२, १०४; पप ४२०: ४; अन्न
४, ३०^०; ३३^०; रह ४०^०; ४२;
यो ३, १५; ३२; पं २०; वरा
२, ७७; कलि २; प्रकाशन्ते श्रे
६, २३^०; सुवा १६; योशि २,
२२; सार २६६: १६; गु ७६.
प्रकाश्यते १योत ७; योशि १, ५.
प्रकाशयति प्र १, ६; अ२: वृड
२, ११; हं २१^०; सांमू ६, ५०;
गी ५, १६; ६३, ३३^०; प्रकाश-
यन्ते प्र २, १; प्रकाशयसे गु ३१;
प्रकाशयेत् त्रवि ७६; १आ १०;
यो २, १३; गोपू २१.
प्र-काश- -शः अ२^०; त्रवि १०१;
रार ५, ३; पाशु २, २०; २१; वरा
२, ९; पारा ४; वड ६, ५३;
सांमू १, १४५; त्रमू ३, २, २५;
गी ७, २५; १४, ११; शम् शु १,
४; वरा २, २२; गोउ ४१; प
५, २; ८, ५; गी १४, २२; शानाम्
महा ६, १९; शोभ्यः अ २.
प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शील-
-लम् योमू २, १८.
प्रकाश-तस(>) आबो २८१^०;
सांमू ६, ४९.
प्रकाश-तिमिरा(र-आ)दिक-
-कम् महा ६, ६.
प्रकाश-त्व- -त्वात् महा २, ६;
१संन्या २, ८३.
प्रकाश-प्रक्षेपकौ(क-आ)ण्य-
स्थान-
प्रकाशप्रक्षेपकौण्यस्था-
नीय- -यम् मैत्रि ७, ११.
प्रकाश-प्रवृत्ति-नियमा(म-अ)-
थ- -थाः सांका १२.

प्रकाश-ब्रह्मचारिन्- -गी म ४८:
१४.
प्रकाश-मध्य- -ध्ये अट्टे १४.
प्रकाश-रूप- -याः नो १४.
प्रकाश-वन् त्रमू ३, ०, १५.
प्रकाश-वन्- -वतः कृ ४, ५, ३;
७, १२, २; -वान् कृ ४, ५, ३, ३.
प्रकाश-शक्ति-रूप- -पम् त्रिता
१, ५३.
प्रकाशा श-आत्मक- -कम् लि
३११: ३.
प्रकाशा श-आत्मन्- -त्मा साउ
१, १८.
प्रकाशा श-आदि-
प्रकाशादि-वन् त्रमू २, ३,
४६; ३, २, २५; ३६.
प्रकाशा श-आवरण- -गम्
योमू २, ५२.
प्रकाशावरण-क्षय- -यः योमू
३, ४४.
प्रकाशा श-अ-व्यभिचार-
प्रकाशाव्यभिचार-तस(>);
पशु २, १९: २०.
प्रकाशा श-आश्रय-
प्रकाशाश्रय-वत् त्रमू ३, २,
२८.
प्रकाश्य^१-
प्रकाश्य-भूत- -नाः मैत्रि
७, ८^०.
प्र-काशक- -कम् पाशु १, २६; वरा
५, ५०; सांका १३; गी १४, ६.
प्र-काशन- -नम् महा ६, १९; नो
गर्भे १^१.
प्र-काशमा(न >)ना- -ना सी १४.
प्र-काशयत्- -यन् श्रे ५, ४; गोपू
२५^१; -यन्तम् पे ३, २; यो ३, २६.

प्रकाशयन्ती- -न्ती नृ ६४.
प्र-काशित- -तः सौ ३, २२; कशु
२, २१; जाड १०, ८; अट्टे १३;
१७; -नम् सौ २, ३; ३, १०;
अट्टे २; ११; स्व ६२: ५.
प्र-काशिष्यमा(ग) > गा- -गा सौ
३७^०.
प्र-काश्य प्र २, २; सांका ३६, १९.
प्र-काश्य- -इयम् सांका ३२.
प्रकिर- प्र/कृ ३.
प्रकीर्ति-, प्रकीर्तित- प्र/कृ ३.
प्र-कुल्य- -त्येभ्यः वृ १, ३^०.
प्र/कृ, प्रकुर्वते तुल ७१: १३; प्र-
कुर्वन्ति मार २६४: १०; शि
३, ५; प्रकुर्वीत तु ६; जाड ६,
१५; जाबा १८; कला ९; ऊ
६४: ३; शि २, २४.
प्र...अकः वा ४^१.
प्र-करण^१- -णात् त्रमू १, २, १०;
३, ६; ४, ५; ३, ३, ४५; ४, ४, ३;
१७.
प्रकरण-भेद- -दात् त्रमू ३, ३, ७.
प्रकरणा(ग-अ)न्तर- -रेः शि
१, ७.
प्र-कर्तव्य, व्या- -व्यम् सौ २, ३६;
-व्या वि ४; शि ४, १५.
प्र-कार- -राषि शि ७, ८९; -रेण
व्या ९३, १: १५; त्रिता २, ५१;
त्रिता २, ४३; जाड १, ७: २, ३;
३, १२; वि ३१.
प्रकारा(र-अ)न्तरा(र-अ)संभ-
व- -त्वात् सांमू ६, १६; ५३.
प्र-कुर्वत्- -वैच् पा १, ६.
प्र-कुर्वीण- -णः नाप ३, ५७.
प्र-कृत- -सात् महा ४, १८; -सात्
महा २, ६०; -तानि शारो ८;

a) प्रातिभासिक^० इति निसा. संटि. । b) 'प्रकाशते' इति निसा. । c) तु. सत्य. टि. जडदोष-> -वान् ।
d) विप. । मत्वर्थे यक् प्र. उसं. (पावा ५, २, १२०) । e) प्रकाश^० इति सात. । f) 'रूपदर्शने' इति आन., अ.व्या. ।
g) 'प्रकाशयम्' इति काचित्कं निसा. । h) 'काश्यमाना इति निसा., अ.व्या. संटि. । i) 'लेभ्यः इति संटि. ।
j) वैतु. बाटी. प्रभी-> -भीम् इति ।

-तेन महा ५, ३७.

प्रकृत-त्व- -त्वात् असू ३, १, १७.

प्रकृतै(त-ए)तावस्व- -त्वम् असू ३, २, २२.

प्र-कृति- -तयः शारी ६; गर्भ ३:

-तिः गौ ४, ९; २९; मैत्रि ६, १०;

चपू ४, १५, ९; नि ५; १८; १९; ते

६, ५; २०; सौ २; ८; रार ५, ८;

राउ २, ४; ४, ३८; महा ५, १२१;

६, ६१; अक्ष ३; सर ३, १४; २ प्र

३४ : ११; ३७ : ३; नापू २, ४;

५, १४; राधा ३, १५; शि

१, १२; गु ७; विद्या १; भव २,

८; १४; ४, ५; वपू २, ३; वउ ४,

९; सांसू १, ६१; १३३; सांका ३;

५९; ६२; ६३; असू १, ४, २३;

गी ७, ४; ९, १०; १३, २०; १८,

५९; -तिभिः निरु २, ८; -तिम्

श्वे ४, १०; मुद्र २; यो ३, ८; सौ

२, ११; सार २१९ : ५; गार

४०५ : ४; गु ५५; भव २, १३;

सांका ६५; गी ३, ३३; ४, ६;

७, ५; ९, ७; ८; १२; १३; ११,

५१; १३, १९; २३; -तीनाम् योसू

४, ३; -तैः गौ ३, २१; ४, ७; २९;

वृजा २, १२; ससा ३; ग१ ३; मुद्र

१, ५; भव २, ७; ३०; ३२; ४, ६;

सांसू १, ६१, ६५; ६९; ३, ७२;

६, ३२; ६७; सांका २२; ४२;

६१; गी ३, २७; २९; ३३; ९, ८;

-तौ त्रिवि ३, ४; -त्या गौ ४,

११-१३; रापू ४, ७; ८; गी ७,

२०; १३, २९; -स्यै दे ३.

प्राकृत- -तः गौ ४, ८६; रार

५, ९; रापू २, २; गी १८, २८;

-तम् मैत्रि ६, १०; -ताय मवा

२; -त्वे रापू ४, ६७; -तैः मै ३,

२; मैत्रि ३, २.

प्राकृत-पूर्व-देह- -हम्

त्रिवि ५, १२.

प्राकृतिक- -काः सांका ४३.

प्रकृति-कार्य-वैचित्र्य- -त्र्यात्

सांसू ५, २०.

प्रकृति-कृत- -तः सांका ५६.

प्रकृति-ज- -जान् भव २, ९; गी

१३, २१; -जैः गी ३, ५; १८, ४०.

प्रकृति-स्व- -त्वम् गौ ४ ४४;

सर ३, १२.

प्रकृति-दान्तत्व- -त्वात् गौ ४,

८६.

प्रकृति-निबन्ध(न>)ना- -ना

सांसू १, १८^६.

प्रकृति-निर्मल- -लाः गौ ४, ९८.

प्रकृति-पर- -रः गौ ४ १६^७.

प्रकृति-पुरुष- -षयोः सांसू ५, ७२.

प्रकृतिपुरुष-द्वैविध्य- -ध्यम्

नाप ८, १; तु १३.

प्रकृतिपुरुष-मय- -यः वपू

२, ३.

प्रकृतिपुरुषा(ष-आ)त्मक-

-कम् दे १.

प्रकृति-भेद-वशा- -शात् मैत्रि

६, ३०.

प्रकृति-मय- -यः मै २, ९; मैत्रि

२, ६.

प्रकृति-महत्-तत्त्व- -त्वानि

वउ २, ३१.

प्रकृति-महद्-अहमा-

(म्-आद्य>)द्या- -द्याः गोच

६७ : ८.

प्रकृति-मानुष- -षाः शि ७,

१३९.

प्रकृति-योगिन्-

प्रकृतियोगि-ता- -ता सार

२१९ : ५.

प्रकृति-ल्य- -यः सांका ४५.

प्रकृति-लीन- -नस्य मना २, १२,

३९^९; शु ३, १८; नाउ १, ६९^९.

प्रकृति-वत् सांसू ३, २९.

प्रकृति-वास्तव- -वे सांसू २, ५.

प्रकृति-विकृति- -तयः सांका ३.

प्रकृति-संभव- -वाः गी १४,

५; -वान् गी १३, १९.

प्रकृति-स्वरूप- -पम् सांका ८.

प्रकृति-स्थ- -स्थः भव २, ९; गी

१३, २१; -स्थानि गी १५, ७.

प्रकृति-स्वरूप- -पम् ता १, २.

प्रकृतीय- -यम् नाप ५, १^६.

प्रकृत्य(ति-अ)भिधे(य>)या-

-याम् नि १५^९.

प्रकृत्य(ति-अ)वच्छिन्न-

प्रकृत्यवच्छिन्न-ता- -तया

सर ३, १३.

प्रकृत्य(ति-अ)ष्टक-रूप- -पम्

यो १, ७४.

प्रकृत्या(ति-आ)पूर- -रात् योसू

४, २.

प्रकृत्यु(ति-उ)पकार- -रे सांसू

३, ६८.

प्रकृत्यु(ति-उ)पादान-काल-

भाग्या(य-आख्य>)ख्या-

-ख्याः सांका ५०^१.

प्र-क्रियमाण- -णानि सार २४६ : २.

प्र-क्रिया- -या रुजा १, ७.

प्रा-कार^६- -रम् शि २, १४; -रात्

शि २, १५; -रेण शि ६, १०८.

प्राकार-गुप्त- -सम् शि २, १६.

प्राकार-तत्(>) शि ६, ७५.

प्राकारा(र-अ)न्त- -न्तम् शि

४, १९.

प्राकारा(र-अ)न्तर्-बहिस्(>)

शि ४, १९.

प्राकारा(र-अ)न्तः-स्थित- -तम्

शि २, १४.

a) °नात् इत्यपि पाठे. । b) °रयोः इति आन. । c) तैत्रा १०, १०, ३ । d) 'प्राकृतिकम्' इति अख्या. ।

e) °ध्वेयस् इति अख्या. । f) °भाग्ना° इत्यपि पाठे. । g) पावा ६, ३, १२२ ।

प्र/कृष्, > कृषि प्रकर्षयंत यो २, ३०.
प्र-कृष्ट- -ष्टाय वपु १, ३.

प्र/कृ > किर
प्र-किर- -रम् ३ १५, १३१.

प्र/कृत् > कीर्त्
प्र-कीर्त्ति- -र्यां गौ ११, ३६.
प्र-कीर्त्तित, ता- -तः गौ १, ५; अना

१७: ३७; योचू १११; नाप ३,
६७; मी २२, ३१; महा ६,
४३; वरा ५, ४२; शि ७, ६२;
१०२; -तम् गौ ३, १४; ४, ८८;
१योन ८८; ९, १; ९, ५; नाप ८,
१५; त्रिवा २, १३६; योशि ६,
७२; जाद ४, ३४; शि ५, १०;
४८; -ता अज ४ ४६; दे १८८;
जाद २, १०; ४, ५; सु २, २, ५७;
गु ८१; -ता: वृजा ४, २६; व्या
५५; सी ३०; रापु ४, ५४;
योशि १, १५२; शि १, ११; ७,
१३५; गु १९; -ते गु १०.

प्र-कोटि- -टिभिः वरा ५, ६२.

प्र-कोष्ठ- -ष्टयोः वृजा ४, ३१.

प्र/कृम्
प्र-कृम्प निह २, ८.

प्रक्रियमाण- , प्रक्रिया- प्र/कृ ३.

प्र/कृत्प (> कृप्) कृष्, कल्पि,
प्रकल्पयत् त्रवि ६४; गर २,
८९; ९६; १००; रुजा १, १७;
शि २, १०; ११; १९; ३, ३; ७;
४, ६०; ५, ५२; ६, १०५; १५३;
२२६; ७, ३; ४७.

प्र-कल्पित- -नम् मैत्रि ६, १२; भव
१, ४४; -ता: नापु ५, ३०.

प्र-कल्प्य रापु ५, २; ७^b.

प्र/कृल् > क्षालि

प्र-क्षालन- -नम् वड ६, ११; -नात्

वा ४; गोच ६६: १.

प्र-क्षाल्य वृ ६, ३, ६; ४, ११; महा ५,
८३; भ १, ६; आज १.

प्र/क्षि (> क्षे)

प्र-क्षीण-

प्रक्षीण-चित्त-द्वय- -रस्य महा
५, ७७; सु २, २, ११.

प्रक्षीण-भोगे/ग-इच्छ > इच्छ-
-च्छस्य महा ५, १०६.

प्र/क्षिप, > क्षेपि, प्रक्षिपत् वृजा ३,
१३; त्रिवा २, ९६.

प्राक्षिपत् वै २, २५.

प्र-क्षिप्य नाप ४, ३८.

प्र-क्षेपक- -कः मैत्रि ७, ११.

प्र/गल्

प्र-गलित-

प्रगलित-जगदीश-जीव-
भेद- -दः आबो १.

प्रगलित-नित्र-मा'या > य-
-यः आबो १.

प्र-गुण-

प्रगुणित- -नम् गर २, १३.

प्र-गुरु- -गोः ति ३११: २.

प्र/गृह्, प्रह्

प्र-गृह्ण शि ७, ६६.

प्र-ग्रह- -हम् क १, ३, ३; वै
४, १; शि ६, २७६; भव २,
१०.

प्र/ग्रस्

प्र-ग्रथ- -थम् प्रा १, ५६.

प्र/चक्ष्, प्रचक्षते गौ ३, ३३; नाप
३, ६३; शां १, ३, १; योशि १,
१६९; ५, ५; जाद ३, ४; वरा ५,
१८; ३५; गु २२; २३; भव ३,
२२; ४, १४; पित्र ६, १६.

प्र/चट्, प्रचट-प्रचट वपं ३१२: ५.

प्र-चण्ड-

प्रचण्ड-दण्ड-दो म > द-दण्ड-
-ण्डम वपु २, २.

प्र/चर्, > चरि, प्रचरन्ति प्र ४, २:

मैत्रि ६, ३१; मना २, ६७^b;
२शिमं २; प्रचरेत् ति ३११: ३.

प्रचचार भव १, २४.

प्र-चरत्- -रम् गौ ४, ६३.

प्र-चार- -नः गौ ३ ३६; वरा ५, २.

प्रचार-शून्य- -न्यम् नं ३, १, ४.

प्रचार-संवेदन- -नात् योचू ३,
३१.

प्र-चारण-

प्रचारण-विलेखन-स्थू (स्थौ^०)-
काल (न्य^०)-अ^०इयुन्मेष-निमे-
षा/प-आ दि- -दि शारी ११^१.

प्रचारणां/गु-उत्तारण-आमा-

(स-आ)दिक- -काः वै २, ६.

प्र/चल्, प्रचलति महा ५, ७^१.

प्र-चलन- -नम् मै १, ७; मैत्रि १;
४; मैत्रे १, २.

प्र/चित्, > चैति, प्रचैतयति गर २,
१३^१.

प्र-चेतम्- -०तः व ४६०: ७^१;
-१तमं मना २, ७५; २शिमं ३१.

प्र/चुद्, > चोदि, प्रचोदयात् वृ ६, ३,
६९^१; मे ५, ७^१; मैत्रि ६, ७९^१; हं
११^१; मना १, ५^१; ६^१; ७^१; १५^१;
२, २०^१; ३५^१; वृपु ४, ११;

१३; त्रिवि ७, ३९^१; ४१^१; ४३;
४७^१; गर २, ८०^१; ७९^१; २२;

यावि १०^१; त्रिवा १, ६९^१; ३०^१;
३२; ४८; ३, ३५; ४, २४; दे ७;

ग १०; क ६३; १२; तुल ७०;
१२; नापु ३, २; ४, २-४; वृष

८४; २०; पारा २^१; ४; ६९^१; ९;

a) पा.१^०तम् इति शोधः द्र. (द्र. निसा.) । b) 'समर्ण' इति आन. । c) ०जावर्ण इति अख्या. ।

d) तैआआ १०, ६७ । e) पा.१^०यनि. शोधः द्र. । f) ०इयुन्मेष इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. । g) ०चक इति अख्या.,

०कच इति अख्या. संदि. । h) अ १, ३, १२ । i) अ १०, ८३, ५ । j) अ १, ४३, १ । k) अ ३, ६२, १० ।

l) तैआ १०, १, ५^१ । m) तैआ १०, १, ६^१ । n) तैआ १०, १, ७^१ । o) तैआ १०, ४६, १ ।

गार ४०५:१४;२१; व ४२९:
१९९^a; ४३४:७; ४३६:२;
४५७:१०९^a; ४५९:१३;
४६१:२०; ४६२:५; ८;
४६३:१९^b; २^c; ३^d; ४^e;
५-८^f; ९-१३; १५-२१; वज
२, ९९^g.

प्र-चोदय(त्>)न्ती-न्ती मना
२, ३६९^f.

प्रचोदयात्

प्रचोदयादा(त्-आत्मक>)-
त्मिका--०के सावि १०^h.

प्र-चोदयित्-न्ता मै २, ३; ४ⁱ; ५;
९; मैत्रि २, ३; ४^j; ५^k; ६; छाग
२५:११; -त्रा छाग २५:१२.

प्र-चोदित--तम् श्वे ६, २२; गु७५.

प्रचोदित-काम--म: गार४०५:
२१.

प्रचुर^h-

प्राचुर्य-र्थात् ब्रसू १, १, १३.

!प्रचुर्य:या^h सावि १०.

√प्रच्छ, >पृच्छ^l, पृच्छति कौ १, २;

पप ४१९:२०; ४२०:६; जाबा
१९; राधा १, ६; १४; पृच्छसि प्र
३, २; पृच्छामि प्र ६, १; वृ ३,
३, १; ९, २६; २७^l; जा ५; २प्र
३४:१४; गी२, ७; पृच्छाम: २प्र
३४:५; पृच्छतु वृ ३, ९, २७;
पृच्छ छां १, ८, ३; वृ ३, ८, १;
२; ५; मै १, १; मैत्रे १, १; २प्र
३४:१४; पृच्छध्वम् वपू १, ४;
पृच्छत प्र १, २^k; वृ ३, ९, २७;
वृज ९, १९; पृच्छानि छां १, ८,
३; पृच्छाम पित्र १, २; अपृच्छत
प्र ६, १; अपृच्छत् इ१०:५;
२प्र ३४:१४; अपृच्छन् अशि

१, १; १२; च २१:१५; वृष
८४:१; अपृच्छम् छां ४, ४, ४;
अपृच्छाम वृ ३, ३, १^l; ७, १.

पप्रच्छ प्र १, ३; २-६, १; सु १,
१, ३; छां ६, ७, ४; वृ ३, १, २;
२-७, १; ९, १; ९, २८, १; ४, ३, १;
व्र १^m; कौ १, १ⁿ; वृजा २, १;
४, १०; ७, ८; जा २; ५; काला
३; ११; सुबा ९-११; १५; ते
२-५, १; १योत ३; नाप ३, १;
७७; ४, ३८; ५, १; ८, १; ९, १;
मं २, १, १; ३, १, १; ४, १, १; राउ
१, २; ३, १; ३; वा १; शां १, १;
४; २, १; ३, १^o; पै १, २; ३, १;
४, १; महा २, १४; योशि १,
३; पप ४१७:१; अक्ष १; अन्न
१, २; १७; अक्षि १; १अव १;
भ१, १; २, १; रुजा १-३, १; जाद
१, २; ता १, २; या २, १; वरा
४, १; ५, १; कलि २; ३; जाबा
१; सु १, १, ४; २, १; २, १, १;
आषे ७:१५; ८:६; २२; ९:
१०; सूता १, २; २, १; ऊ ६३:
१; गोच ६५:१; नापू १, १;
सार २२०:२२; २४३:४; शि
१, २; सिशि ३८०:१; सि १,
१; विद्या १; तारा ८४:७; पित्र
१, ६; २-५, १; पप्रच्छु: वृजा ६,
५; शु १, १; नाप २; द १; रार
१, ७^p; २-५, १; गोपू २५; सर
१, १; सार २१९:१; २३०:
१३; २४०:१७; २४२:९;
१९; प्रक्ष्यन्ति छां ५, ११, ३;
प्रक्ष्यामि वृ ३, ८, १; अप्राक्षीत्
छां ५, ३, ५; वृ ६, २, ३; प्राक्षीत्
कौ १, १; अप्राक्ष्य: छां ६, १, २.

पृच्छत्--च्छत: १संन्या २, १०२;
-च्छन् छां ६, १४, २; -च्छन्तम्
वि ५.

पृष्ट-ष्ट: वृज ८, २; वरा २, १;
कलि १; जाबा ७; सार २२६:
१५; २४३:७; शि १, ४; -ष्टम्
शु १, १२; नाप ७^q; जाबा ३;
सु १, १, ७; शि ६, २७९; सि १,
२; -ष्टेन महा २, १६; ३२.

पृष्ट्वा वृजा ६, ८.

प्रश्न-श्न: ब्रसू १, ४, ६; -श्म
प्र ६, १; मै १, १; मैत्रि १, २;
४, ५; मैत्रे १, १; सार २४९:२;
२५०:१६; -श्ना: २प्र ३४:९;
१२; -श्नात् प्र १, २; छां ५, ३,
५; वृ ६, २, ३; पित्र १, १६;
-श्नाभ्याम् वृ ३, ८, २; -श्ने शि
७, ६६; -श्नौ वृ ३, ८, १.
२प्रश्न^r-

प्रश्न-मुण्डक-माण्डूक्या-
(क्य-अ)थर्वशिरो(रस्-अ)थर्वशि-
खा-बृहज्जाबाल-नृसिंहतापनी-
नारदपरिव्राजक-सीता-शरभ-
महानारायण-रामरहस्य-राम-
तापनी-शाण्डिल्य-परमहंस-
परिव्राजका(क-अ)न्नपूर्णा-सूर्या-
(र्य-आ)त्म-पाशुपत-परब्रह्म-त्रि-
पुरातपन-देवी-भावना-ब्रह्म-जा-
बाल-गणपति-महावाक्य-गो-
पालतपन-कृष्ण-हयग्रीव-दत्ता-
त्रेय-गारुड^s-डानाम् सु १,
२, ५.

प्रश्न-निरूपण- -णाम्याम् ब्रसू
३, १, १.

प्रश्न-व्याख्यान- -नाभ्याम् ब्रसू
१, ४, १८.

a) ऋ ३, ६२, १० । b) तैआ १०, १, ६ । c) तैआ १०, १, ६^२ । d) तैआ १०, १, ७ । e) तैआ १०,
१, ५ । f) 'प्रचोदयन्ताम्' इति शौ १९, ७१, १ । g) 'दयात्मि' इति अज्या । h) व्यु. ३ । i) पा. १ (तु. 'र्थाया
इति अज्या.) प्राचुर्य->र्थाय इति शोधः । j) पा ६, १, १६ । k) 'पृच्छथ' इति निसा । l) 'अपृच्छत्' इति
आन. । m) 'पृष्टवन्तम्' इति अज्या । n) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । o) तत्तदुपनिषदां द्वस. ।

प्रष्टव्य- च्यम् १, १२.
 प्रष्ट- ष्टा क १, २, ९.
 प्रष्टुम् वृ ३, १, २.
 प्रशाशु- प्राशम् नी ३, ७.
 प्रच्छथ- पित्र १, १६.
 प्रच्छु- छादि
 प्रच्छादय कौ २, १५; जाद ६, ३४.
 प्रच्छानि- कौ १, १.
 प्रच्छु-
 प्रच्छर्दन-
 प्रच्छर्दन-विधारण- णाम्याम्
 योम् १, ३४.
 प्रच्य- इ १८: २०.
 प्रच्यु-
 प्रच्युत- तः शा २६.
 प्रजग्घ- प्र/घम् द.
 प्रजन- जा, जनि, प्रजायते छां २, १३, २; वृ १, २८, ५; ६, १, ३; ना १; कौ ४, १४; वृ २, १४; नाद १२; शां १, ७, १०; महा ४, ११५; ५, १८१; योसि १, ५३; ५, ३०; ४२; अज ४, ४२; ४९; यो २, ४६; वरा २, ६१; ५, ४८; निव १, २१; पि १०; १३; नापू ५, १२; शि ५, १६; ६, ८९; ७, ११०; सिसि ३८०; १४; ३८१: २; प्रजायन्ते प्र १, ३; १४; सुं २, १, १; तै २, २, १; मैत्रि ६, ११; १५; गर्भ ३; मना २, ७८; ७९; सुबा ६; योसि १, १५५; १५८; अव्य ६;

नापू ५, १९; प्रजायेय तै २, ६, १; छां ६, २, ३; वृ १, ४, १७; शां ३, १; प्रजायमहि छां ६, २, ८.
 प्रजनयति कौ १, २; प्रजनयतः सावि १०.
 प्रजन- नः तै १, १, १; मना २, ७८.
 प्रजन- नः गो १०, २८.
 प्रजन- नम् तै १, ३, ३; मना २, ७९.
 प्रजन- न- ने मना २, ७८.
 प्रजन- कर्मन- मां प्र २, ९.
 प्र- जा- जयाते १, ३, ४; २; ६-१, १; छां २, ११-२०, २; ५, १५, १; १७, २; १९-२३, २; वृ २, १, ५; ४, ४, २२; ६, १, ३; ६, २, ६; कै १, ३; मना २, ७९, ३; कौ २, ८, ९; ४, ६; १४; वृ २, १०; ११; अव्य ६; कर्त्तृ २, ३; मने ३७९: १०-जा प्र २, ११; तै १, ३, ३; ९, १; वृ १, ४, ३; ५, ७; २, १, ४; ५: १३; कौ २, ९, २; ४, ६; १२; १३; -जा: प्र १, ३; ४; १४; २, ७; १०; सुं २, १, ५; तै २, २, १; छां ४, १, ४; ६; ५, ३, २; ६, ८, ६; ६; ९, २; १०, २; ८, १, ५; ३, २; वृ १, २, ५; ५, २०; ६, २, २; श्वे ४, ५; कौ २, ८; १०; ११; मै २, ६; ५, ७; मैत्रि २, ६; ६, ७; ९; ११; १५; ३७; ७, ७; ना १; मना १, ११; १५; २, ३८; ६३; ७९; अशि ६, १३;

सुबा ६; ने २, २०; शा १५; महा ५, १६०; ६, ३९; अव्य ६; प्रष्टु १, ३; कर्त्तृ १०; वृ ११; २३; मं २; छा १७; कर्त्तृ २३१: २; २८०: २२; वृ ३१७: २०; भव ४, २; वृ १, २; गो ३, १०; २४; १०, ६; -जानाम् प्र १, ८; जुं २, २, १; ३, १, ९; छां ४, ३, ७; मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; १६; अव्य २; ५, ९; अजि १; का १८; का ३, २; वृ ३१६: १०; शिसं २; ५; शिसं ३; ६; ९; शि ६, १५५; -जामि: पा ३, १; -जाभ्य: छां १, ३, १; ३; ११, ४; ८, १५, १; -जाम् प्र २, १; वृ १, ४, १६; ४, ४, २२; कर्त्तृ १; मना २, १०; ११; २, ४४; ६; ६; ५; २; संन्या १७: ६; नापू ५, २०; अर ३; २३; कर्त्तृ २, २; -जाया: मना २, ७९; -जायाम् छां १, ३; कौ ४, १०; -जासु मना २, ३; ६; २; शिसं ३; शिसं ४; प्रजा- काम- मः प्र १, ४; -मा: प्र १, ९.
 प्रजा- मनु- न्नु: इ ११: ५;
 -नम् तै १, ११, १.
 प्रजा- पति- -तय: सुबा १; मं ४; -तये छां ३, ११, ४; ८, १५, १; वृ ६, ३, ३; मना २, ६७; संन्या १६: ९; कर्त्तृ १;

a) =पृच्छा- । b) नैप्र. =पृ०, लिपिप्रमादो वा द्र. । c) वृद्धितः पा. । d) तैआ १०, ६२, १ । e) तैआ १०, ६३, १ । f) भावे कृत् । g) कर्त्तरि कृत् । h) तैआ १०, ६३, १ । i) पा ३, २, १९ । j) तैआ १०, १०, ३ । k) मा ८, ३६ । l) ञा: इति निसा. (तु. आन., अख्या., शांआ ४, १०) यनि. शोधः द्र. (तु. सस्थ. टि. पूर्व, वी- > -वी) । m) 'प्रजाम्' इति तैआ १०, १०, १ । n) तैआ १०, १, १ । o) ऋ २, ९७, ४० । p) तैआ १०, ४८, १ । q) पा. १ (तु. तैआआ १०, ६३) 'प्रजाम्' इति शोधः पुनरुक्तप्रहरश्च साहचर्यसमन्वयकश्चेति कृत्वा संभाव्यः । r) मा ३४, २ । s) मा ३४, ५ । t) तैआ १०, १०, १ । u) तैसं ३, ३, १, २ । v) ऋ १०, १८, १ । w) तैआ ३, १५, १ । x) शौ ७, ८७, २ । y) ऋ १०, १५७, २ । z) तैआ १, २७, ३ । a') 'प्रयाजम्' इति निसा. । b') मा ३२, ८ । c') 'तुद् आसीत्' इति मा ३२, १२ । d') मा ३४, ३ । e') तैआआ १०, ६७ ।

आर्षे २:२१; कश्चु २,३; -ति: प्र
१,४; ९; १२-१४; २,७; ऐ५, ३;
छां १, १२, ५; १३, २; २, २३,
२; ३, ११, ४; ४, १७, १; ८, ७,
१; ३; ४; ८, १; २; ४; ९, २; १०,
३; ११, २; १२, ६; १५, १; वृ
१, ५, १४; १५; २१; ३, ९, २;
६; १७; ५, ३, १; ५, १; ६,
४, २; २१^०; ५, ४; श्वे ४, २१^०;
कौ२, ९; ११; ४, १४; मै २, ५, ६;
४, ४, १२; ४, ५, ६; ८; मैत्रि
२, ५; ६; ५, १; २; ६, ६; ८; १५;
१६; ७, ७; आरु १; ना १; मना
१, ११^०; २१^०; ४१^०; २, ६८^०;
७९^०; वृजा १, १; ४, २, ३; ७,
५; ७; नृपू १, १; ६; ८; ९; १६;
२, ८; १०^०; ३, २; ४, २; १५, १;
३३; ५, २; १२; वृष ५, ३; ९,
१९; सुबा ५; ६; १३; मन्त्रि
१३; सी २; अक्ष १; अव्य २;
४; ५; ६; ए२; कर १; जाद
४, ३८; जाबा २२; बा २४;
गोच ६९: १०; नापू ५, १२;
नृष ८४: २; कृपु ५; गार ४०५:
१८; गु५२; कश्चु २, २; चू१३; वपू
१, २; ४; २, १; वरु ३, ४१; ४,
१७; गी३, १०; ११, ३९; -तिभि:
सार २३५: १६; -तिम् छां २,
२२, ४; ५, १, ७; वृ ५, ५, १;
मै २, ३; मैत्रि २, ३; मना २,
४७^०; ७९^०; नृपू२, १; ८; ३, १;
४, १; १४; ५, १; ११; नृज १,

१; ७, १; ९, १; अक्ष १६; सुबा
९; सी १; अव्य ६; दे २; २प्र
३४: १४; नृष ८४: १; कश्चु २,
१; -०ते मना २, ५४^०; वृजा
७, ५; अव्य १; ३; पा ६, ८^०;
वरु ३, ४५; -ते: तै २, ८, ४; छां
२, २२, १; ३; ५; ८, १४, १; वृ ६,
५, ४; आरु १; मै ५, ६; मैत्रि ६,
६; २९; ३३; नाप ४, ३८^०; व
२; अव्य ६; -तौ छां ८, ११,
३; वृ ५, २, १; कौ २, १०^०;
सुबा ५.

प्राजापत्य, त्या- -०त्य
ई१६; वृ ५, १५, ११^०; -त्य: मना
२, ७९^०; आरु १; आश्र १;
-त्यम् वृ १, २, ७; ४, ४, ४; मैत्रि
६, ३६; ना३; मना२, ७९^०; अशि
३, ६; त्रिता १, १; ४, २५; कर
१; म १, ११; गोच ६७: १८;
पा १, ६; च२१: २०; वरु ३१५:
५; गार ४०७: ५; ४०८: ९;
कश्चु २, ३; -त्या: छां १, २, १; वृ
१, ३, १; ५, २, १; -त्यात् गभे
२^०; -त्यानाम् छां २, ९, ५; -त्याम्
जा ४; नाप ३, ७७; पप ४१८:
८; या १, १.

प्राजापत्ये (त्य-इ)ष्टि-
-ष्टिम् नाप ३, ९.
प्राजापति-लोक- -कम् कौ
१, ३; वृजा ७, ५; -का: वृ ३, ६,
१; सुबा १०; -के वृ ४, ३, ३३;
-केषु वृ ३, ६, १; सुबा १०.

प्राजापति-व्रत- -तम् प्र १,
१५
प्राजापति-शक्र- -कौ काम५.
प्राजापति-सकाश- -शम् छां
८, ७, २.
प्राजापती (ति-इ)न्द्र-मनु-
-नव: दे १०.
प्राजा (जा-आ)यति- -ति: पा
१०, ८.
प्राजा-वत्- -वत् मना २, ३९^०;
-वन्त: लि ३०९: ८^०.
प्रजे (जा-ई)श- -श: हे ७; -शाय
पा ६, ७; ८, ७.
प्र-जात- -त: व ४३७: १६^०.
प्र-जाति- -ति: तै १, ९, १; ३,
१०, ३^०; वृ ६, १, ६^०; १४^०; कौ
३, ५; -तिम् वृ ६, १, ६^०; कौ १,
७^०; २, १५^०; ३, ६; ७^०; ८; -ते:
३, ८; -त्यै वृ ६, ३, २.
प्रजातुम् मना २, ३६^०?
प्र-जायमान- -ना: वृ ६, १, ८-११.
प्र/जप, प्रजपेत् नापू ४, २७; २९.
प्र-जप्त्वा^० दे २०.
?प्रजिघाय^० कौ २, ३; ४.
प्र/जीव, प्र...जीवति छां ३, १६, ७.
प्र-जीवन- -नम् शि ६, २२७.
प्र/ज्ञप्, > ज्ञपि, प्रज्ञपयेत् कौ ३,
७^०; प्रज्ञपयेताम् कौ ३, ७^०.
प्र-ज्ञसि- -से: गौ ४, २४; २५.
प्र/ज्ञा, > जा, ज्ञापि, प्रजानाति गी
१८, ३१; प्रजानामि गी ११,
३१; प्रजानीहि ऐ २, १.

a) ऋ १०, १८४, १। b) मा ३२, १। c) शौ १०, ८, १३। d) 'उपस्थाय' इति मा ३२, ११।
e) तैत्र्या १०, ३१, १। f) तैत्र्या १०, ६३, १। g) मा ८, ३६। h) तैत्र्या ३, ७, ७, २। i) ऋ १०, १२१, १०।
j) पापु २, २, १०। k) मंत्रा १, ५, १०। l) वैपश् यद.। m) का ४०, १, १७। n) 'प्राजापत्ये' इति अख्या.।
o) न. द्वि. १। क्वि. वा विप. वा?। p) तैत्र्या १०, ४९, १। q) ऋ १०, ५७, ६। r) ऋ १, ६९, १। s) 'पतिः'
इति निसा.। t) 'पतिः इति निसा., आन. संटि.। u) 'पतिम् इति निसा., आन. संटि.। v) 'प्रजाम्' इति शांआ
३, ७। w) पा. (तु. तैत्र्या १०, ३६) 'व्रजतु' इति शोध: द. (तु. शौ १९, ७१, १; तत्रत्ये > व्रजत इत्यत्र
वैपश् यस्या. टि. च)। x) पा ७, १, ३८। y) पा. (तु. आन. प्रजिघाय) 'प्रजाय' इति शोध: द. (तु. वैप २,
११५९)। z) 'प्रज्ञापयेत्' इति आन., अख्या.। a') 'प्रज्ञापयेताम्' इति आन., अख्या.।

प्रज्ञासिषम् कौ ३, ७^१।
 प्रज्ञायते, प्रज्ञायन्ते वृ ४, १, २;
 प्रज्ञायेत कौ ३, ७.
 प्रज्ञापयन्ति कौ ३, २.
 प्र-ज्ञानत्- -नत् क १, १, १४;
 २८.
 प्र-ज्ञ- -ज्ञः सुवा ५; -ज्ञम् मां ७;
 वृ ४, ७; वृ १, १२; नाप ८,
 १९^१; राउ ३, १; वउ १, १३;
 -ज्ञेन ऐ ५, ४; आबो १.
 १) प्रज्ञा^१ - -०ज्ञ जाद ३, ५;
 ६, ५१; ८, ५; -ज्ञः क १, ३, १३;
 मैत्रि ७, ६; ब्रवि ९९; नाप ६,
 २४; राउ २, ५६; महा ४, ३९;
 १०८; ५, १०६; ६, ७६; योशि
 १, ७२; १संन्या २, ७; अज २,
 ३१; ४, ६१; जाद ६, १५; शि
 १, २६; ४, ६७; ब्रसू १, ४, ५;
 -ज्ञम् अध्या १^५; -ज्ञस्य महा
 ५, १६९; -ज्ञाः जाद २, ५; भव
 १, ४४; -ज्ञेन महा ४, २१.
 २) प्रज्ञा^२ - -ज्ञः मां ५;
 ११; गौ १, १-३; ११-१४; कौ ४,
 १५; १९^१; २०^१; वृ ४, ६;
 वृ १, ८; २, ७; तै ६, १०; नाप
 ५, १; ८, १३; योचू ७२; मं २,
 ४, ४; राउ ३, १; पै २, ३०;
 अक्षि ४४; यो ३, २१; वरा १,
 ११; विद्या १; वउ १, १०; ५,
 ३७; ५१; -ज्ञम् गौ १, ४; २३;
 -ज्ञस्य गौ १, २१; पै २, ३०;
 पप ४१९: २६; -ज्ञे वृ ९,
 ३; -ज्ञेन वृ ४, ३, २१; ३५; छाग
 २५: १३.
 प्रज्ञा-सुरीष- -यः

पप ४१९: २६.
 प्रज्ञ-सुर्य- -स्योः
 गौ १, १३.
 प्रज्ञ-नैजम्- -मः
 पप ४१९: २६.
 प्रज्ञ-व- -वम् पै २,
 ३०.
 प्रज्ञ-प्राज्ञ- -ज्ञः पप
 ४१९: २६.
 प्रज्ञ-विश्व- -वः पप
 ४१९: २६.
 प्रज्ञा-ह-अ-हमक-
 -कः राउ २, २; गोउ ४३.
 प्रज्ञ-वत् ब्रसू २, ३, २१.
 प्रज्ञ-ता- -ता वृ ४, १, २.
 प्र-ज्ञा- -ज्ञया गौ ३, ४५; व ३,
 १४; कौ १, ५; ७; ३, २; ६^१; १५;
 ब्रवि २७; १योन ६; महा ४, १;
 ५, १७५; योशि १, ४; ६, ५८;
 अज १, २७; अध्या ४६; -ज्ञा
 ऐ ५, ३; वृ ४, १, २; श्रे ४, १८;
 मना २, ६४^१; कौ १, ५; २,
 ३; ३, ३^१; ४^१; ५^१; मैत्रि ६,
 ३१; आबो १; शां २, १; महा
 ५, १७३; अज १, ४८; अध्या
 ४, ४; सर १, ४; इ ११: ६; गार
 ४०७: १७; शु ६१; योसू १,
 ४८; २, २७; गौ २, ५७; ५८;
 ६१: ६८; -ज्ञाम् प्र २, १३; वृ
 ४, २, २१; द२; महा ४, ४; अज
 ४, ३७; ५, ७१; वरा ४, ३३; शा
 २३; हंउ: ८; शि १, ६; विद्या ४; व
 ४३५: १४; भव १, ५०; गौ २,
 ९७; -ज्ञायाम् कौ ३, ४^१.
 प्रज्ञा-काम- -मः सूता १, २१.
 प्रज्ञा-भव- -नम् नाप ८, २०.

प्रज्ञा-ज-अ-जम्- -मा कौ ३,
 ३; ३; ९; -मानम् कौ २, १४^१.
 प्रज्ञा-ज-अ-दि- -दीनाम् गु
 १, १०.
 प्रज्ञा-नेत्र- -त्रः तै ५, ३; आबो
 १; -त्रम् ऐ ५, ३.
 प्रज्ञा-नौ- -नावम् महा २, १७६.
 प्रज्ञा-ज्ञ-अ-ज्ञ- -ज्ञयन्त- -वम्
 प्रज्ञान्त- -वृषक-व-व- -वम्
 ३, ३, ५०.
 प्रज्ञा-ज्ञ-अ-वेन, ता- -नः कौ ३,
 ७^१; -नम् कौ ३, ७^१; -नौ कौ ३,
 ७^१.
 प्रज्ञा-मधिन- -धां शि ७,
 १३२.
 प्रज्ञा-मात्रा- -त्राः कौ ३, ८^१;
 ९; -त्रासु कौ ३, ९.
 प्रज्ञा-मेघा-पद- -दम् व १२.
 प्रज्ञा-ज्ञ-आ-लोक- -कः योसू
 ३, ५.
 प्रज्ञा-वाद- -दात् गौ २, ११२.
 प्रज्ञा-सौख्य- -ख्यम् शि ६,
 २८०.
 प्र-ज्ञात- -तः ब्रवि १०१.
 प्र-ज्ञातव्य- -व्यम् कौ ३, ७.
 प्र-ज्ञावृ- -ता त्रिता ५, १.
 प्र-ज्ञान- -नम् ऐ ७, २; ३; कौ २,
 ४^१; शु २, १; ३, १; २; आबो
 १; महा ४, ८१; वरा २, १९; इ
 १३; व १६; इ १४: १९; म
 ४८: १४; १सिंस ३^१; २सिंस
 ४^१; -नस्य ऐ ५, २; -नाप कृपु
 २४; -ने ऐ ५, ३; आबो १^१;
 -नेन क १, २, २४; नाप ९, १९;
 महा ४, ६९.

a) 'प्रज्ञासिषुः' इति शब्दा ५, ७^१; 'प्रज्ञासिषम्' इति अच्चा. । b) पा ५, ४, ३८ । c) =आत्मन
 अवस्थाविशेष- । d) 'प्रज्ञात्मा' इति शांभा ६, २० । e) कस. । f) दस. । g) सकृत् 'मनस्ता' इति शांभा ५, ६ ।
 h) पा. १ (वृ. तैशांभा १०, ६४) 'ज्ञाम्' इति शेषः द. । i) 'मनः' इति शांभा ५, ५ । j) 'प्रज्ञानम्' इति आन., सात. ।
 k) 'ज्ञावै' इति शांभा ५, ४ । l) टि-सोपः (पा ६, १, ८८) । m) 'प्रज्ञवच' इति SCHR. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] ।
 n) 'प्रज्ञाम्' इति आन., शांभा ४, ४ । o) मा ३४, ३ । p) 'प्रज्ञानेत्रे' इति अच्चा. ।

प्रज्ञान-घन,ना- -नः सां ५; वृ
 ४,५,१३; वृत् १,८; ८,४; सुवा
 ५; राउ ३, १; वउ १, ९; ५,
 ३६; -नस् सां ७; वृपू ४,७;
 वृत् १,१२; राउ ३,१; अत्ति
 ४९; जाद ४,६०; वउ १,१३;
 ५,३९; -नाम् विद्या ४.
 प्रज्ञानघन-लक्षण- -णः अत्र
 ४,२७; कर् ८.
 प्रज्ञानघन-वत्- -वान् नाप
 ८, १२.
 प्रज्ञान-वाक्य-हीना(न-आ)-
 त्मन्- -त्मा ते ४, ७७.
 प्र-ज्ञापयितुम् कौ ३, २.
 प्र/ज्वल्, > ज्वलि, ज्वालि, प्रज्वलति
 त्रिवि ६, २४; ७, ६-८; १२; २९;
 ४९; प्रज्वल-प्रज्वल वपं ३१२:
 १; व ४३५: १०; ११; ४५७: ५;
 प्रज्वलेत् योशि १, ७४.
 प्रज्वलय-प्रज्वलय लां २१५:
 २१.
 प्र-ज्वलत्- -लन्तम् त्रिवि ६, २०;
 २३; ७, ५०; सि २, ८.
 प्रज्वलद्-वह्नि-ग- -गाम् भ २,
 १५.
 प्र-ज्वलन- -नम् योसू ३, ४१^०.
 प्र-ज्वलित, ता- -तस् सि ४, ७; ५,
 १२; ६, ७; -ता सार २३९: २१.
 प्र-ज्वाल्य वरा ५, ३७; शि ४, ४९.
 प्र-ण(<न)ख- -खात् छां १, ६, ६.
 प्र/ण(<न)म्, प्रणमामि सु १, १, ५;
 म ४८: ४; प्रणमेत् १योत ३६;
 या २, ३; ४; शि ७, ७२.
 प्रणनाम सूता १, २.
 प्र-णत- -तः योचू ७३^०; अत्र १,

१७; गोपू २५; -ताः दे ३; पा
 १, १०; -ताय मुद्र २, १.
 प्रणत-पाल- -लाय गोपू ४०.
 प्र-णति-
 प्रणति-ब्रह्मचर्यो(र्य-उ)पसर्पण-
 -णानि सांसू ४, १९.
 प्र-णम्य कै १, ५; त्रिवि १, ४; रार
 १, ७; पप ४१७: १; अत्र १,
 १; रहू २; भ १, १; २, १; ऊद ३:
 १; वि १; ३; गी ११, १४; ३५;
 ४४.
 प्र-णाम- -मः या २, १.
 प्र/ण(<न)श् (अदर्शने), > णाशि,
 प्रणश्यति मैत्रि ६, २७; नाप ४, ४;
 त्रिब्रा २, २०; राउ ५, २४; यो २, ३१;
 गी २, ६३; ६, ३०; ९, ३१; प्रण-
 श्यन्ति योशि १, १४६; राउ ५, ९;
 दत्ता १, ७; गी १, ४०; प्रणश्यामि
 गी ६, ३०.
 प्रणाशय-प्रणाशय गरु ६.
 प्र-णाश- -शाम् वरा ३, ११.
 प्र-नष्ट- -ष्टः गी १८, ७२; -ष्टम्
 शि ६, २७९^०; गरु ९; १२^०;
 २४^०.
 प्र-णि(<नि)धा
 प्रणि-धान- -नात् गर्भ १^०.
 प्रणि-धाय गी ११, ४४.
 प्र-णि(<नि)पत्, प्रणिपतति लिं
 ३११: २.
 प्रणिपपात अव्य २.
 प्रणि-पत्य शु १, १^०; ३, १९; १योत
 ३; सूता २, १; का १; नार १;
 शि ६, ८१.
 प्रणि-पात- -तस् सार २२५: १५;
 १७; -तेन गी ४, ३४.

प्रणिपात-पुरस्-सर, रा- -स्'
 सार २१९: २; २६८: १७;
 -राः सार २३०: ९.
 प्र/णी(<नी), > णाधि, प्रणीयते के
 १, ८^०; प्र ४, ३.
 प्रणाययति अशि ४, ३१^०; अ
 ११^०; वृट् ३१५: १८^०.
 प्र-णय- -येन गी ११, ४१.
 प्र-णयन- -नात् प्र ४, ३.
 प्र-णाव्य- -व्याय छां ३, ११, ५.
 प्र-णीत^०-
 प्रणीतिन्- -ती वा २४.
 प्र-णेतृ- -ता मैत्रि ६, २५; -तारम्
 मै ५, ४; मैत्रि ६, ४; २५; ७, ५.
 प्र/णु(<नु), प्रणौति छां १, ४, ५;
 प्रणौमि दे १०.
 प्र-णव^०- -वः सुं २, २, ४; छां १,
 ५, १^०; ५^०; गौ १, २५; २६^०;
 २७; मै ५, ४^०; मैत्रि ६, ४^०;
 अशि ३, १०^०; ४, २; ४१^०; अ
 ११^०; व्या १४; १७; १योत ६४;
 ७४; ७७-७९; त्रिवि ७, ३०;
 रार १, ७; २, ५२; शां १, ६;
 पाशु १, ३२; पत्र २^०; जाद ६,
 २; वरा ५, ७१; तु ११; १४;
 २प्र३४: ४; शौ ५२: ५; ५३:
 ११; पा १, ६; वृट् ३१५: ११^०;
 १७; १९१^०; गु ८१; योसू १,
 २७; गी ७, ८; -वस् श्वे १, १४;
 गौ १, २७; २८; कै १, ११; ब्र ३,
 ९; वृपू १, ६; ७^०; ४, २; ५, १८^०;
 वृत् ३, ९; ६, ४; शु १, ८; व्या
 २२; १योत ६३; आबो १; योचू
 ८८; रार १, ७^०; शां १, ६; १संन्या
 २, १०४; पाशु १, १७; १९; पत्र २;

a) 'ज्वलनम्' इत्यपि पाठे. । b) पा. ? [तु. निसा. (१९३२)] प्रणव-> -वः इत्येवं शोधः द्र. (तु. अख्या.) । c) पा ८, ४, ३६ । d) °ण° इति सुपा. यनि. शोधः द्र. । e) 'प्रतिविधाः' इति अख्या. । f) वा. क्रिवि. द्र. । g) प्रा° इति निसा. । h) 'प्रणामयति' इति पा. यनि. शोधः द्र. । i) 'प्रणानयति' इति निसा. 'प्रणामयति' इति आन. अख्या. च पा. यनि. शोधः द्र. । j) पा ३, १, १२८ । k) मावे निष्ठा । l) =ओम्- । म्यु. विस्तरान्तरं वैपश् यद्र. । m) 'प्रणयः, प्रणवहंसः' इति निसा. ।

जाद ६, ४; ८; या २, १; शौ
५१:७; ५२:१८:५३:५; नाप
४, १६; नृय ८४:१६; २शिमं
२०:२१; स ३७९:१७; वउ
५,२०; -वस्य वृ २, २; वृउ
३,१;२; ध्या१८:३७: त्रवि ९:
योचू ८०; वगा^५, ५०: १प्र३१:
१६; -वात् नाप^५, १; योचू ७६^१:
७७; -वानाम् अशि ७,६; राउ
५,४; वै ४,२३; महा ६,८३; ता
३,९; च २१:१२; -वाम्याम्
राउ ३, १; रापू ४,४२; -वे शौ
१,२५^१; २प्र ३४:४: शौ५३:
११; -वेन खे १, १३; वृजा २,
१२;२९;३०;३२;४,१^१: ६,७;
वृउ ४,३;६,३; वृ३: ध्या१००:
त्रिवि ५,१२; वा १५;१७;३७:
पप ४१८:२२; जाद ६,३३:४१:
८,९^b; वगा ५,३४; सर २, १;
का ५; गोच ६६:१४;१८; -वै:
शा १३.
प्रणव-कर्णिका- -कायाम् त्रिवि
७, २७.
प्रणव-कीर्तन-पर- -र: नाप ५,
१.
प्रणव-गरुड- -ङ्म् त्रिवि ५, १२^१.
प्रणव-न्व- -स्वात् सी ८: राउ
५, १६; राउ२,४; विद्या १:-वेन
गोउ ४४.
प्रणव-पर्यन्त- -दीर्घ-नि:स्वन-
तन्नु- -न्तुना अज ३, १४.
प्रणव-पूर्वक- -कम्^० पप ४१८:
३२;३३; नाप ४,३८.
प्रणव-प्रकृति-रूप-
प्रणवप्रकृतिरूप-स्व- -स्वात्
सी २.

प्रणव-बहुविध-ध्यान-मंली-
न-चिन- -त्ता: सौ २,३.
प्रणव-मध्य- -ध्वे त्रिवि ७,३०.
प्रणव-मन्त्र- -न्त्रान् १२१, ७^१.
प्रणव-मय-
प्रणवमय-विकार- -री सवि
१०.
प्रणवमयो^०य-ऊ ध्वं-गुण्ड-
-ण्डा: वा १७^१.
प्रणवमयो^०ध्वं-पुण्ड-प्रया-
(य-आत्मक- -का: गोच ६६:
१७.
प्रणव-महावाक्य-ग्रहणा-
(गु-अर्थ- -र्थम् नाप ४,३८.
प्रणव-महावाक्यो^०क्य-उ,पदे-
श- -शम् नाप ४,३८.
प्रणव-माला-युक्त- -कम् त्रिवि
७,३१;३२:३६:४८.
प्रणव-माला-संयुक्त- -कम्
त्रिवि ७, ४६.
प्रणव-युक्त-शिव-पञ्चाभर-
मन्त्र- -न्त्र: त्रिवि ७,३०.
प्रणव-रूप- -पम् सं २,२,१^१.
प्रणव-भ्याहृति-पूर्वक- -कम्^०
पप ४१८: २५.
प्रणव-शिरस्-
प्रणवशिरस्-क-
प्रणवशिरस्का-
(स्क-आत्मक>)मिका- -०के
सावि १०.
प्रणव-श्रीबीज-संपुटित-
नारायण-बीज- -जम् त्रिवि ७,
४४.
प्रणव-श्रीबीज-संपुटित-राम-
कृष्ण-माला-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि
७, ४६.

प्रणव-श्रीबीज-संपुटिता-
-त-अ मृत-बीज-द्वय- -यम्
त्रिवि ७,४८.
प्रणव-संपुटित- -नौ त्रिवि ७,
४४^१.
प्रणवसंपुटित-गरुड-पञ्चा-
क्षर-युक्त- -कम् त्रिवि ७, ४३.
प्रणवसंपुटित-महानील-
कण्ठ-मन्त्र-वर्ग- -णाति त्रिवि
७, ४५.
प्रणवसंपुटित-श्री-बीज-
युक्त- -कम् त्रिवि ७, ४४.
प्रणवसंपुटिता^०-अ सि-
बीज-युक्त- -कम् त्रिवि ७, ४१.
प्रणवसंपुटिता^०-अ कुशा-
बीज-युक्त- -कम् त्रिवि ७,
४२.
प्रणव-स्था स्थ-अ,कार- -गस्य
राउ १, ७^१.
प्रणव-स्वरूप- -पम् ना ४:
अधो १; त्रिना ४, २५; नि
३१०:२०; ३११:२; -पस्य
वउ ५, ३.
प्रणव-हंस-शिवो^०ला-उ पवीत-
प्रणवहंसशिवोपवीतिन्-
प्रणवहंसशिवोपवीति-
स्व- -स्वम् पत्र ३.
प्रणव-हंस-सूत्र- -त्रेण पाशु १,
२२^१.
प्रणव-हंसा^०म-अन्तर-द्वि-
न-प्रकृति- -विम् पाशु १, २६^१.
प्रणवां^०व-अंशक- -के च्या
१०-१२.
प्रणवा^०(व-आख्या>)स्व- -स्व:
मैत्रि ६, २५; -स्वम् मै ५, ४; मैत्रि
६, ४; २५; ७, ५; त्रिवि ७, २२.

a) 'बिन्दुनादकलातीतम्' इति निसा. । b) 'वे' इति अख्या. । c) वा. त्रिवि. द. । d) 'वं मन्त्रात् इति अख्या., 'न्त्रम् इति अख्या. संति. । e) 'ण्डः इति अख्या. । f) 'वस्वरूप' इति निसा., अख्या. संति. । g) 'वाः इति निसा. । h) 'वस्याका' इति अख्या. । i) 'ब्रह्मप्रकृतितत्त्वं' इति अख्या. ? वनि. शोचः द. (दु. निसा.) । j) 'न्तर्धानप्रकृतिः इति अख्या. संति. ।

प्रणवा(व-आ)त्मक-कः योचु
१०१; -कम् अ १; त्रिवि १, ५.
प्रणवात्मिका-का सी
१७; वरा ४, १.
प्रणवात्मक-त्व-स्वेन त्रिवि
१, ५; तुअ २३.
प्रणवात्मक-ध्वन्या(नि-आ)-
कार-रम् सि ६, ३८.
प्रणवा(व-आ)त्मन्-त्मानम्
२शिसं २१.
प्रणवा(व-आ)दि-
प्रणवादि-ध्वनि-निम् मं
२, २, २.
प्रणवादि-नमो(मस्-अ)न्त-
न्ताः त्रिवि ७, ४१; ४२; ४७;
४८^३; रार ३, १; सौ १, ३; -न्तैः
सौ १, १; ३.
प्रणवादि-मन्त्र-न्त्राः
त्रिवि ७, ४२.
प्रणवाद्य(दि-अ)खिलमन्त्र-
वाचक-वाच्य-च्यः त्रिवि
१, ११.
प्रणवाद्य(दि-अ)खिलमन्त्रा-
(न्त्र-आ)त्मक-कम् त्रिवि १, ५.
प्रणवा(व-आ)दिक-काः तृप्
१, ६.
प्रणवा(व-आ)धार-राः पाशु
१, २४^b.
प्रणवा(व-अ)धिकार-रः रार
१, ७.
प्रणवा(व-अ)नुष्ठान-नम् पप
४१९ : २.
प्रणवा(व-अ)नुसंधान-पूर्वक-
कम् त्रिवि ५, १२.

प्रणवा(व-अ)न्तर्-गत-तम्
शु १, १०.
प्रणवा(व-अ)न्तर्-वर्तिन्-तीं
पाशु १, १७.
प्रणवा(व-अ)युत-कोटि-जस-
सः दत्ता ३.
प्रणवै(व-ए)क-ध्यान-परा-
यण-णः पप ४१८ : २७.
प्रणवो(व-आ)कार-रम् २शिसं
२१.
प्रणवो(व-उ)द्वीथ-थ ह ५.
प्रणवोद्वीथ-वपुस-पुषे
त्रिवि ७, ४०; ह ४.
प्र/णु(<तु)द्, >णोदि, प्रणुदति मै
२, २; मैत्रि २, २; प्रणुदाम मना
२, ७९^१; प्रणुदेत् मैत्रि ६, २८.
प्र-णोद्य क १, १, १८.
प्रणेत-प्र/णी द्र.
प्र/तन्, §'प्रतनोषि मना १, ८; व
४६४ : ७; §'प्रतनु मना १, ८;
व ४६४ : ६.
प्रतायन्ते छां ८, ६, २.^३
प्र-त(त>)ता-ता-महा १, १.
प्रतनोषि मना २, १^१; व ४६१ : १६^१; §^६.
प्र/तप्, >तापि, प्रतपन्ति गी ११,
३०.
प्रतापयेत् शि ७, ६९.
प्र-तपत्-पन्तम् चा १७.
प्र-तस-सम् य ९; सु २९३ : ९.
प्र-ताप-पः २प्र ३६ : १३; -पात्
सार २८० : १६.
प्रताप-कल्प-ल्पाः सार २२१ : ४
प्रताप-वत्-वान् गी १, १२.
प्रतापवती-ती मै ५, ५;

मैत्रि ६, ५.
प्रताप-शक्ति-क्या सार २४^७
१९; २०.
प्र-तापन-नाय शि ६, २१३;
प्रतरत्-प्र/तृ द्र.
प्रतर्दन-प्र/तृ द्र.
१प्रति^१ छां १, ९, १; २, ९, १^३; १३, १
३, १९, ३^३; वृ ५, १४, ५; त्रि
२, ७२; १संन्या २, ७०; अ
५, ७५; अक्षि ९; जाद १०, १
सार २२१ : १; २२६ : ७; २३८
५; २३९ : २३; २४६ : २१
२५० : १५; २६१ : २०; २६७
५; २६८ : २^१; २८६ : २०; शि
१, १८; गा १९; व ४६२ : १८;
सांका ६३; योसू २, २२; ऋ
४, २, २१; गी २, ४३.
२प्रति^१ छां २, ८, २.
प्रति-कक्ष-क्षम् सार २२७ : १६.
प्रति-कपोल-लम् रार ३, १.
प्रति-कल-लम् सार २७५ : १३.
प्रति-कुञ्ज-अम् सार २२७ : १६;
२२९ : ८; २३६ : ७; २८४ : २३.
प्रति-कूल-लम् व ४६२ : ७.
प्रति/कृ
प्रति-क्रिया-याम् गर्भे ४.
प्रति/कम्, प्रतिचक्रमे छां ४, २, १;
३; कौ १, १^१; प्रतिचक्राम कौ
४, १८^१; प्रतिचक्रमिरे छां ५,
११, ७.
प्रति-क्रिय-यम् सांसू ५, १२०.
प्रति/कुक्ष, प्रतिकुष्येत् नाप ३, ४३.
प्रति/कल्प (<कृ) कल्प, प्रति-
कल्पन्ते वृ ४, ३, ३७^१.

a) °वध्वनिम् इति निसा., अख्या. संटि. । b) °वधा° इति निसा. । c) वा. क्रिवि. द्र. । d) तैश्चा १०, ६३, १ । e) मा १३, २१ । f) मा १३, २० । g) पा. ? 'प्रलुः, हि' इति पदद्वयपरः शोधः द्र. [तु. ऋ. (८, ११, १०); वैतु. तैश्चा. (१०, १, १६) यनि. चिन्त्यस्वरः पा. ? (तु. वैप २, ६६३) तदुपरि भा. सा. च] । h) स्वाअ. वा कप्र. वा । वैप १ यद्र. । i) पा. ? उत्तरेण स. सति शत° इति शोधः द्र. [तु. सस्थ. टि. योजना(न-आ)यत्-> -तम्] । j) 'प्रतिहार-' इत्यस्य पूर्वाशः द्र. । k) अस. । l) 'प्रतिचक्राम' इति अख्या. । m) 'प्रतिचक्रमे' इति शांशा ६, १९ । n) सकृत् कल्पन्ते इति निसा. ।

प्रति-क्षण^a- -णम् महा ४, ६; सार
२२१:१; २२३:८; २३७: १६;
२२; २५५: १२; २५९: ५; ७;
२७०: १३; २७४: १८; २७९:
१०; २८६: २०; २२: -णम्-णम्
सार २२८: १३.

प्रति/गृह्, ग्रह, प्रतिगृह्णाति छां
६, १६, १; २: वृ ४, १, ३;
५, १४, ५; गा १८; प्रति-
गृह्णाति इ १५: १०; १६: २१;
प्रतिगृह्णीयात् वृ ५, १४, ६;
वृ २, १; १संन्या १, १०^b; दत्ता
३; गा १९-२१; कश्चु १, १.

प्रति-गृहीत- -सम् वृ ६, १, १४^c.

प्रति-गृह्ण- -ह्वत् आ १८; -ह्वन्तः
आश्र २^d.

प्रति-गृह्णा छां १, १०, ५; १संन्या २,
९६; कश्चु १, १.

प्रति-ग्रह^e- -हः मना १, १२^f;
-हम् मना २, ३०^g; नाप ४, ८; या
१, ६९^h; इ १४: ६; -हा: अशि
२, ९; -हात् मना १, १३ⁱ;
-ह्वेत् इ १४: १५.

प्रतिग्रहन्- -ही १संन्या २, ९५.

प्रति-ग्राह- -ह्यम् १संन्या २, ९३.

प्रति/गृ(स्तुतौ), > गृ. प्रतिगृणाति तै
१, ८, १.

प्रति-गार^j- -रम् तै १, ८, १.

प्रति/चक्ष्(दर्शने)

प्रति-चक्षण- -णाय वृ २, ५, १९.

प्रति/च्छद्

प्रति-च्छब्- -हः नाप ५, १३^k.

प्रति/जन् > जा, प्रतिजायसे प्र २, ७.

प्रति/ज्ञा, > जा, प्रतिजानीते पाशु १,
२३; प्रतिजाने गी १८, ६५;

प्रतिजानीहि गी ९, ३१.

प्रतिजज्ञे छां ४, १, ८; ९, २; १४, ३.

प्रति-ज्ञा-

प्रतिज्ञा-दृष्टान्तात् -ञ्जन्-

उपरोध- -धात् वृ १, ४, २३.

प्रतिज्ञा-मिद्धि- -द्वे: वृ १, ४,
२०.

प्रतिज्ञा-हानि- -नि: वृ २, ३, ६.

प्रतिज्ञो ज्ञा-उ.परोध- -ध: वृ
२, २, २१.

प्रति-ज्ञात- -त: वृ ६, २, ५.

प्रति-ज्ञान- -नात् वृ ४, ४, २.

प्रति-दल^l- -लम् रार ३, १.

प्रति/दृह्, प्रतिघृह्यति छां २, २२, ८.

प्रति-दिन^m- -नम् १योत् ६८: ७२;
वा ४: गोच ६६: १.

प्रति-दिवसⁿ- -सम् आश्र २.

प्रति-दिश^o- -दिश: अशि १, ५^p.

प्रति-देवता^q- -नात्तु मुं ३, २, ७.

प्रति/घा, प्रतिघीयते ऐ ४, ८.

प्रति/घाष् (गतौ), प्रतिघावन्ति कौ
१, ४९^r.

प्रति/नद्, प्रतिनेदु: शु ३, २१.

प्रति-नाडी^s- -डीषु कु १७.

प्रति-नियत-

प्रतिनियत-कारण-

प्रतिनियतकारण-स्व- -स्वात्

सांत् ५, ६.

प्रतिनियतकारण-नाश्य-

प्रतिनियतकारणनाश्य-स्व-

-स्वम् सांत् ६, १४.

प्रति-नियम^t- -म: सांत् ६, १५;

-मात् सांका १८.

प्रति-न्याय^u- -यम् वृ ४, ३, १५-१७;
३४; ३६.

प्रति-पक्ष^v-

प्रतिपक्ष-भावन- -नम् योस् २,

३३; ३४.

प्रति-पङ्क्ति^w- -ङ्क्ति सार २७४: १७.

प्रति/पद् > पादि, प्रतिपद्यते प्र ४,

१०; छां ३, १३, ६; वृ ४, ३,

१६; चिन्ता १, ५०^x; ३, १३; पं

२२; आयें ७: २; निक २, ९;

दिग् ४, १०; सो १४, १४; प्रति-

पद्यन्ते प्र १, ९; वृ ६, २, २;

२२ ३७: २२; शौ ५३: १४;

५२: १०; सांका ३१: प्रतिपद्ये

सार २५९: २१; प्रत्यपद्यत शौ

५३: २; प्रत्यपद्यन्त सार २४६:

१७; प्रतिपद्यत छां ३, १७, ६.

प्रतिपेदे छां ६, ७, ४; वृ १, ४,

१०; ३, ९, १; प्रतिपेदिरे आंशे

९: २०; २२ ३६: १४; सार

२४०: १६; २९२: ४; प्रति-

पक्ष्ये छां ५, ११, ३.

प्रतिपादयन्ति ह १३; प्रति-

पादयेत् मुं १, २, २.

प्रतिपाद्यते सर ३, १४; नाउ ३,

२; प्रतिपाद्यन्ते सार ४०७: १७.

प्रति-पत्ति- -त्ति: योस् ३, ५४;

-त्तिभि: गोदू १८.

प्रतिपत्त्य(नि-अ)भिसंधि- -धि:

वृ ४, ३, १४.

प्रति-पद्- -पत् सं २, १, ६^y;

यो ३, १; -पद्म् वृ ६, २, २.

प्रतिपद्-दिन-

प्रतिपदिन-तत् > : यो ३, २.

प्रति-पद्य सार २४०: ४; २४६: ६;

२५१: ९.

प्रति-पद्यमान- -न: सार २८०: १०;

-ना: छां ४, १५, ५; सार २४६:

१३; -नौ सार २८९: ९.

प्रति-पद्यवत्- -वान् जाद २, ४.

प्रति-पादन- -नम् निर्वा २९७: ७.

a) अस. । b) लङ् 'प्रतिगृह्णा' इति अख्या. । c) परिगृ^o इति निसा. । d) तैआ १०, १, १२ । e) तैआ १०, २३, १ । f) तैआ १०, १, १३ । g) 'चक्ष्' इति निसा. यनि. श्लोक: द. (वृ. अख्या.) । h) मत्तो. कश्च. । i) 'प्रदिश:' इति आन., 'विदिश:' इति अख्या. । j) 'प्रतिवन्ति' इति आन., वे., सांका ३, ४ । k) 'प्रतिपद्यते' इति अख्या. संदि. ।

प्रति-पादित,ता- -तम् मुद्र २; ह
१३; -ता भा ४३^a.
प्रति-पाद्यमान- -नः सार२२९:१०
प्रति-पद^b- -नेन आर्षे ९:११.
प्रतिपदिक^c- -कम् २प्र ३४:५;
३५:७.
प्रति/पद्, प्रतिपद् क १, १, ६.
*प्रति-पाल^d-
√प्रतिपालि
*प्रतिपालया-
*प्रतिपालयां/कृ, प्रति-
पालयांचकार छां १, १२, ३.
प्रति/पिष्, प्रतिपेक्ष्यति छां २, २२, ४
प्रति-पुरुष- -षः मै २, ५^e; मैत्रि २,
५; ५, २.
प्रतिपुरुष-विमोक्षा(क्त-अ)र्थ-
-र्थम् सांका ५६.
प्रति/पूज्>पूजि, प्रतिपूजयेत् शि ६,
१४१; ७, ४१.
प्रति/पृ>पृ
प्रति-पूर्ण- -णः छां ४, १०, ३.
१प्रतिप्रति^f- -तिः वृ १, ३, १८^f.
२प्रति-प्रति^g
प्रतिप्रति-गुणा(या-आ)श्रय-वि-
शेष- -षात् सांका १६.
प्रति-प्र/सू(प्रसवे)
प्रतिप्र-सव- -वः योस् ४, ३३.
प्रतिप्रसव-हेय- -याः योस् २, १०.
प्रति-प्रस्थात्^h- -ता प्रा ३, १; ४, १.
प्रति/बन्ध्, प्रतिबन्धाति त्रि १३.
प्रति-बद्ध-
प्रतिबद्ध-ज्ञान- -नम् सांस् १,
१००.
प्रति-बन्ध-
प्रतिबन्ध-दश- -दशः सांस् १,

१००.
प्रति-बिम्बⁱ- -म्बम् तेद, ९८; -म्बाः
त्रिविध, १४; -म्बेन अत्र ५, ९८.
√प्रतिबिम्ब्, प्रतिबिम्बन्ति महा
५, ५५; अत्र ४, ७१.
प्रतिबिम्बित- -तम् त्रिवि ४,
१४; सार २८४: १३; -ताः
सार २२५:३; २६५: २३.
प्रतिबिम्बित-शाखा(खा-अ)-
ग्र-फला(ल-आ)स्वादन-मोद-
प्रतिबिम्बितशाखाग्रफ-
लास्वादनमोद-वत् मैत्रे २, २२.
प्रतिबिम्ब-गत- -तैः अत्र ५, ९९.
प्रतिबिम्ब-भावा(व-आ)प(ल>)-
आ- -शाः सार २७१: २१.
प्रतिबिम्ब-वत् सर ३, १२.
प्रतिबिम्ब-सम-ष्टुति- -तिः वृजा
६, ८.
प्रति/बुध्, >बोधि, प्रतिबुध्यते कौ
३, ३ⁱ; ४, १९; वृज ७, ११; नाप
३, ४१; योशि ६, २४; प्रत्यबुध्यत
वृ १, ४, १०.
प्रति-बुद्ध- -द्धः वृ ४, ४, १३; गौ
२, २; ४, ३४; ३५; ३९; अ २^h;
त्रिता ५, १.
प्रति-बोध-
प्रतिबोध-विदित- -तम् के२, ४.
प्रति-बोधन- -नाय मै २, ६; मैत्रि
२, ६.
प्रति-बोधित- -तः ते ५, ६२.
प्रति/ब्रू, प्रतिब्रवाणि कौ १, १; प्रत्य-
ब्रवीत् छां ४, ४, ४; प्रतिब्रूयात्
कौ १, २; ५.
प्रति/भा, प्रतिभाति क १, २, ६;
प्रतिभान्ति छां ६, ७, २; प्रति-

भान्तितराम् सार २८२: २.
प्रति-भा-
प्रतिभ^j- -भात् योस् ३, ३४.
प्रतिभ-श्रावण-वेदना-
(न-आ)दर्शा(र्श-आ)स्वाद-
वार्त्ता- -र्त्ताः योस् ३, ३७.
प्रति-भान- -नम् महा ४, ५१ⁱ.
प्रतिभान-नाश- -शः वरा २,
६९.
प्रतिभान-युक्त- -क्तम् वरा ३, ४.
प्रति/भास्, प्रतिभासते महा ५,
१०८; अत्र ४, ५५; १आ १-३.
प्रति-भास्- -भासम् अत्र ३, १५.
प्रति-भास-
प्रतिभासिक- -कः पै २, २८.
प्रति-भासित- -तम् अद्वै ९.
प्रति-मणि^k- -णि सार २३७: १३.
प्रति/मन्
प्रति-मन्वान- -नः छां ४, ३, ७.
प्रति/मा(माने)
प्रति-मा^l- -मा श्वे ४, १९^j; -माः
जाद ४, ५९; -माभिः गुद २^k;
-माम् गौ ३२; शि ६, १४४;
१४७; -मासु जाद ४, ५९.
प्रतिमा-लिङ्ग-वेदी- -दीषु शि
३, १४.
प्रतिमा-संनिधि- -धौ ग १-८.
प्रति-मान- -नानि मना १, ९^l.
प्रति-मात्रा- -त्राः वृज २, ८; ३, ६.
प्रतिमात्रा-ना(त>)ता- -ताः अ३.
प्रति/मुच्, >ञ्च्, प्रतिमुञ्चस्व अरु
१०^m; प्रतिमुञ्च नाप ४, ३८ⁿ;
अ २; प्रत्यमुञ्चत् अव्य ६.
प्रतिमुच्यते मै ४, ४, १०; मना
२, ३४^o.

a) °ताः इति तान्त्रि. । b) अस. । c) तु. वैप १, २०५a । d) °पूरुषम् इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. मैत्रि २, ५) । e) व्यु. १ पाप. प्रति/प्रा+कर्तरि कतिच् प्र. उसं. (पा ३, १, १३३) । f) तु. वैप२ यस्थाः; वैतु. शं. 'प्रति प्रतिः' इति, रामा. 'प्रति प्रति' इति पदद्वयमिति ? । g) वीप्सायां द्विवचनम् (पा ८, १, ४) । h) °बुध्यः इति निसा. । i) यदर्थेप्र० इति अन्व्या. । j) मा ३२, ३ । k) 'प्रतिमा' इति मा ३२, ३ । l) अ १०, ८९, ५ । m) तैआ १, २७, १ । n) पाण २, २, १० । o) तैआआ १०, ३४ⁱ ।

प्रति/मुद्, प्रतिमोदति मैत्रि ४, ६.

प्रति/युज्, > योजि

प्रति-योगिन्^०-

प्रतियोगि-पुर-सर- -रम्

१अव १०.

प्रति-योज्य सार २५९: २२.

प्रति/युध्, प्रतियोत्स्यामि गी २, ४.

प्रति-योनि^०- -नि वृ ४, ३, १५-१७;
३४; ३६.

प्रति-रूप, पा- -प: क २, २, ९^३; १०^३;
वृ २, १, ८^३; ५, १९; ४, १, ६; कौ
४, १०^३; वृजा २, १^३; अक्षि १;
-यम् छां ८, ८, १; वृ २, १, ८; ३,
९, २२; सार २३९: ११; -पा
कौ १, ३.

प्रति/लिह् > लंहि, प्रतिलेहयन्ति वृ
१, ५, २.

१प्रति-लोम^०- -मम् वृ २, १, १५; ६,
४, १२; -मेन यो २, १८.

प्रातिलोम्य- -म्येन त्रिता २,
४७; ३, ६.

प्रतिलोम-रूप- -यम् कौ ४, १८.

प्रतिलोमा(म-अ)नुलोम- -माभ्याम्
मवा ६.

२प्रति-लोम(>)मा^१- -मा: वृ ६, ४,
१२.

प्रति/वच्, प्रत्युवाच छां ४, १-२,
३; अ १; राउ ३, १; महा २, १८;
रुह ३; अक्ष २; सार २४३:
१५; प्रत्युचु: द १५; प्रति-
वक्तास्मि छां ५, ११, ७; प्रति-
वक्षति छां २, २२, ३; प्रत्यवो-
चत् वृजा १, १.

प्रत्यु(ति-उ)क्- -क्: वृ २,
१, ३.

प्रति/वद्, प्रत्यवदत् क १, १, १५.

प्रति/वह् (वहने)

प्र(ति)>ती-वाह- -ह: २प्र ३३:
२१.

प्रत्यु(ति-उ)क् वृ ३, १, २६.

प्रत्यु(ति-ऊट)>ढा- -ढा: छां ८,
३, २.

प्रति-वाक्य^०- -क्यम् नाप ३, ५२.

प्रति-वात- -ते शि ७, १५.

प्रति/विद् (ज्ञाने), प्रति...विदे कौ
१, २.

प्रति-वि/धा

प्रतिवि-धि- -धि: मैत्रि ३; मैत्रि ४, ३

प्रतिवि-हि(ति)>वा- -ना कौ ३, ५^{१०}

प्रति-विपया य-अ)ध्यवसाय- -य:
सांका ५.

प्रति/वृ(वरणे), प्रति...वृणीव क
१, १, ९.

प्रति-वृक्ष^०- -क्षम् सार २३६: ७.

प्रति-वद्^०- -दम् आश्र १; वृ ३, ३,
५५.

प्रति-वेश^०- -श: तै १, ४, ३.

१प्रति-शरीर^०- -रम् भव २, ३१.

२प्रति-शरीर^१- -रेषु मै २, १०; मैत्रि
२, ७.

प्रति-शास्त्र^०- -त्रम् सार २८२: ७:
२८६: १५.

प्रति-शाखा-नाडी-सहस्र-
-स्त्राणि प्र ३, ६.

प्रति/श्रु, > श्रु, प्रतिश्रुणोति छां ७,
१२, १.

प्रतिश्रुश्राव छां ४, ५, १; ६-८, ३;
९, १; १४, २; वृ ६, २, १.

प्रति-श्रुत्-

प्रतिश्रुत्-क, का- -क: वृ २, ५,

६; ३, १, १३; -काया: (३)यम्^१)
कौ ४, ११.

प्रति/प्रि/ < नि ध्रु, प्रतिप्रेथति वृ
३, २, २२.

प्रतिपिप्यन्ते गौ ३, २५^१.

प्रति-पिह- -हानि नाप ४, ७;
१मंन्या २, ८१.

प्रति-पेष- -धात् वृ ३, २, ३०;
४, ३, १२; -षे सार २८८: १८.

प्रतिपेष-मात्र-

प्रतिपेषमात्र-त्व- -त्वात्
वृ २, १, ७.

प्रति/घ्रा (<स्था), > तिष्, घ्रापि,
प्रतिघ्रति के ४, ९^३; तै १, ६,
१; ३, ६-९, १; छां ४, १६, ५^१;

वृ १, २, ३; ३, १७; ५, १७; ६, १,
३^३; अव्य ५; प्रति...तिष्ठति

छां ५, १, ३; वृ १, ३, २७;
प्रतिघ्रतिष्ठति शौ ५३: १२;

प्रति...तिष्ठति मना २, २६^३;
प्रतिघ्रतिष्ठि प्र २, ७; प्रतिघ्रतिष्ठ

अक्ष ५^१.

प्रतिघ्रास्यामि प्र ६, ३; प्रत्य-
स्यात् नौ १, २.

प्रतिघ्रापयति अक्ष १०.

प्रति-तिष्ठत्- -ष्ठन्तम् छां ४, १६, ५.
प्रति-ह^१- -ह: वृ ६, १, १४.

प्रति-घा- -घा के ४, ८; तै २, १-५,
१; ३, १०, ३; ऐ १, २; ५, ३; छां

५, १, ३; १३^३: १७, १; ७, ५, २;
वृ १, १, १; ३, २, ७; ४, १, २-७;

५, ५, ३; ४; ६, १, ३; १४; मना
२, ७९^३; मै ४, ५; वृजा १,

१; २, १^५; आबो १; नाप ५,
३; १अव ४; दे २२; अक्ष १;

a) पा ३, २, १४२। b) अस.। c) अस. [वैतु. पाणिवा. (५, ४, ७५) प्रास. इति]। d) वस.। e) वैप१ यद्र.।

f) कस.। g) निसा. सुपा. [तु. आन.: वैतु. शांआ. (६, १२) 'आयावाम्' (तु. वैप२ यस्या.) यनि. शोध: द. (तु. अत्र्या.)]।

h) तैआ १०, १९, १। i) विप. (तु. पा ३, १, १३६; वैतु. शं. प्रष्ट. लव्य^० इति स. इति?)। j) तैआ १०, ६३, १^३।

k) वैतु. उज. यद्-अ^० इति बस. इति!। सस्व. 'तेजः' इत्यापि पृथक् पदमिति कृत्वा गणु. (पृ३६२) तेजोविद्याकला-
इत्यत्र शोध: द.। उभयत्राऽनुवाकविधेयप्रकारकत्वसामान्यात्।

अञ्ज ४, २७; कर् १^३; ८; व ७; इ ११; ६; १७; बाए; शौ ५३: ११; १२; कश्चु २, २^३; गी १४, २७; -घा: सुं ३, २, ७; -घाम् कर् १, १४; २, ११^३; तै २, ७, १; छां १, ८, ७^३; ५, १, ३; वृ १, ३, २७; ४, १, २-७; ६, १, ३; ४, २; शौ ५३: १०; वज ६, ४८; -घायै छां ५, २, ५; वृ ६, ३, २; का १०; -छे वृ ५, ५, ३; ४. प्रतिघा-भू^३ - भुव: बा ९. प्रतिघा(घा-अ)र्थ^३ - र्थम् मैत्रे २, २०.

प्रतिघा-वत् - वान् तै ३, १०, ३. प्रतिघा-संस्ताव - वम् छां १, ८, ७.

प्रति-घान - नात् योशि १, ११९^३. प्रति-घापित - तम् मे २, ३; ४^३; ५; ९; मैत्रि २, ३; ४^३; ५^३; ६. प्रति-घाप्य मैत्रि ६, २१; वृजा ३, ११; म १, ३; गी ६, ११.

प्रति-घित, ता - त: सुं २, २, ७^३; तै ३, ७, १; ९, १; छां ५, १७, १; ७, ४-५, ३; २४, १; ३; वृ १, २, ३; ३, २७; ३, ९, २०; २१^३; २२-२४; २६^३; ४, ४, १७; ५, ५, २; मैत्रि ६, ३४; जा २^३; मना २, १२, ३^३; योशि ५, २९; अव्य ६; अना ३३; शु ३, १८; राउ ३, १^३; प्रा २, १; नाउ १, ५^३; -तम् प्र १, १५; २, ६; १३; तै ३, ७-८, १^३; ९, १^३; ऐ शां^३; ५, ३; छां ३, १२, २; वृ १, ५, १; २^३; ३, ९, २०; २२^३; २३^३; २४; ५, १४, ४^३; कै १, १९; मना १, ८^३; ९^३; २, १३, २^३; २, ७९^३; कौ नाद निर्वा अञ्ज त्रि सौ सर व

शां^३; शां १, ७, ४१; योशि १, १७५; ३, २२; ५, १२; ६, १०; १३; अव्य २; ध्या ३०; ४७; ९३, १; आबो शां^३; १; योचू १०; रार ५, ९; मुद्र शां^३; ३; म २, ११; २६; गोउ ४३; वरा ५, २२; य ७^३; गोच ६५: ४; नाउ १, २८; सु २९३: ७; शि ५, ४७; ७, ३१; गा ११; १३; गी ३, १-५; -त्ता प्र २, १२; तै ३, ६, १; ९, १; ऐ शां^३; वृ ३, ९, २१^३; २३^३; २४; ५, १४, ४^३; मैत्रि ७, ११; कौ नाद आबो निर्वा मुद्र अञ्ज त्रि सौ सर व शां^३; शां १, ४; योशि १, १६९; ५, ६; २०; वरा ५, ५१; गा ११; १४; गी २, ५७; ५८; ६१; ६८; -ता: प्र ६, ६; तै ३, ८, १; ऐ २, १; छां ३, १२, ३; ४; वृ ३, ९, २२; ४, २, ३; अर; अशि ३, ९; नृपू ५, २; नाद८; सुबा ४; योचू ५६; अव्य २; वट्ट ३१५: ८; १शिसं ५^३; २शिसं ६^३; -तान् छां ७, ४, ३; ५, ३; सुबा १०; -तानाम् (?ताम्) इ १८: ६; -तानि छां ७, ४, ३; ५, २; वृ ३, ९, २०^३; ४, १, ७; -त्ते प्र ६, ३; जाद ४, ५७; -तौ वृ ३, ९, २६; ५, ५, २; वरा २, ५०. प्रतिघित-चित्त - -त्ता: सार २७४: २.

प्रति-घिति - ल्यै मना २, २६^३.

प्रति-सं/युज् प्रतिसं-योक्ष्यमाण - ण: सार २७८: १८.

प्रति-संख्या- प्रतिसंख्या(ख्या-अ)प्रतिसंख्या-

निरोधा(ध-अ)प्राप्ति- -त्ति: ब्रसू २, २, २२. १प्रतिसंददत्^३ शौ ५२: १६. प्रति-सं/दिश्, प्रतिसंदिदेश शौ ५१: ६; ५३: ३.

प्रति/सृ प्रति-सर- प्रतिसर-योग्य- प्रतिसरयोग्य-त्व- -त्वात् पत्र २^३. प्रति-सृत्वर^३ - -रेण छाग २४: २३.

प्रति/सृप् प्रति-सृप्य छां ५, २, ६. प्रति-स्थान^३ - -नम् वृजा ४, १९.

प्रति/हन् प्रति-हत - -ता: व ४५६: १६.

प्रति/हृ, प्रतिहरति सार २८५: ९. प्रतिहरिष्यसि छां १, १०, ११; ११, ८; प्रत्यहरिष्य: छां १, ११, ९. प्रति-हरमाण - -णानि छां १, ११, ९. प्रति-हर्तृ^३ - -०र्त: छां १, १०, ११; ११, ८; -र्तां छां १, ११, ८; -र्तारम् छां १, १०, ११.

प्रति-हार^३ - -र: छां २, २, १; २; ३-७, १; ८, २; ९, ६; १०, २; ११-२१, १; -रम् छां १, १०, ११; ११, ८; ९.

प्रतिहार-भाजिन् - -जिन: छां २, ९, ६. प्रति-हृत - -ता: छां २, ९, ६.

प्र(ति>)ती-हार- प्रतीहार-समोपे(त>)वा- -ताम् शि ६, १२२.

१प्रती(ति/इ), प्रलेति ग ६. प्रतीयते आबो ११; २५; त्रिवि १, १; प्रतीयन्ते गार ४०७: २२.

a) तु. वे.; वैतु. बाटी. पदद्वयमिति । b) °ना इति अख्या. । c) तैत्र्या १०, १०, ३ । d) ऐत्र्या २, ७, १ । e) तैत्र्या १०, १, ८ । f) °ते इति तैत्र्या १०, १, ९ । g) तैत्र्या १०, ११, २ । h) तैत्र्या १०, ६३, १^८ । i) मा ३४, ५ । j) पा. ? यनि. शोध: द्र. । k) तैत्र्या १०, १९, १ । l) पा. ? प्रतिसं/दिश् > प्रतिसंदिदेश इति शोध: द्र. (तु. नाउ.) । m) प्रस° इति अख्या. संति. । n) पा ३, २, १६३ । o) अस. । p) = ऋत्विग्-विशेष- ।

प्रती(ति-इ)त- -तः क १, १, १०;
११; योशि १, १२४; -न्त्स पाशु
२, ४६; वरा २, २७.
प्रती(ति-इ)ति- -तिः योशि १,
१३२^a; अन्न ५, २२; २अव
३३७ : ६; सांका ६; -सैः वसू
३, १, ६.
प्रतीति-जनक-
प्रतीतिजनक-स्व- -त्वान्
सांस् ५, ४४.
प्रतीत्य(ति-अ, प्रतीति-
-विभ्याम् सांस् ५, ५७.
प्रती(ति-इ)त्य वृ ६, २, ४.
प्रती(ति-ई)यमान- -नः ससा १, २३.
प्रत्य(ति-अ)य- -यः महा ५, १२;
१३; १आ २८; सर ३, ८; २प्र ३४;
६; सार २२७ : १२; २५० : १;
२८८ : १६; -यम् मैत्रि ६, १०;
महा २, १०; -यस्य २प्र ३५;
७; योस् ३, १९; -याः योशि ६,
६४^b; ६५; -येन वरा ४, ९०.
प्रत्यय-कारिन्- -रिषः सार
२८८ : १९.
प्रत्यय-बोधक- -कः पाशु २, ३.
प्रत्यय-रस-वीर्य-सुख-दाह-
गुण-गण-योग्य- -व्याभ्याम्
सार २४८ : ६.
प्रत्यय-सर्ग- -र्गैः सांका ४६.
प्रत्यया(य-अ)क्ष- -क्षम् सौ २, ३.
प्रत्यया(य-आ)नन्द-निश्चय-
-यः महा ६, १७.
प्रत्यया(य-अ)लुपदय- -इयः
योस् २, २०.
प्रत्यया(य-अ)न्तर- -राणि योस्
४, २६.

प्रत्यया(य-आ)पञ्च- -ञ्चाः नार
२४० : २०.
प्रत्यया(य-अ)भाव- -वम् महा
२, १०.
प्रत्यया(य-अ)र्थ- -र्थम् रापृ ४,
२१.
प्रत्यया(य-अ)विशेष- -षात्
योस् ३, ३६^d.
प्रत्यये(य-ए)कतानता- -ता योस्
३, २.

२ प्रती(ति-इ/ई)

प्रती(ति-ई)य अ २३^e.

प्रतीक^f- -कम् वृ १, ५, २; -कानि वृ ६,
२, ३; -के वृ ४, १, ४; -केन
वृ १, ५, १; २.

प्रती(ति-ई)ज्ञ, प्रतीक्षते भव १, ३८;
प्रतीक्षेत नाप ३, ६१^g; ५, १.

प्रती(ति-ई)क्षत्- -अन् शि ७, ३५.

प्रती(ति-इ/ई)क्लृ, इष्(इन्धायाम्,
प्रतीच्छय छाग २४ : ११.

प्रती(ति-ई)रु > ईरि, प्रत्यैरयत्तम् वृ
२, ५, १७^h.

प्रती-वाह- प्रति/वह(वहने) वृ.

प्रती(ति-इ/ई)ष्(गतौ)

प्रती(ति-इ/ई)स्य > ज्या वृ १, १;
वृजा १, १.

प्रती-हार- प्रति/ह वृ.

प्र/तुद्

प्र-तोदⁱ- -दः मै २, ९ⁱ; मैत्रि
२, ६; छाग २५ : १२; २१.

प्र/तुष्

प्र-तुष्वा^j श १४.

प्र/तुद्

प्र-तर्दन^k- -नः कौ ३, १; -नः कौ
३, १ⁱ.

प्रतर्दन- -नम् कौ २, ५.

प्र-तुद्-

प्रानुद्^l- -०३^l; -दः वृ १, १०, १.
प्र/नु > तद्, प्रतरेन ये २, ८; भव ३,
२५.

प्र-तरत्- -रत् पा १, ६; २, ५; ८, ८.

प्रत्^m- -त्स्य छा ३, १७, ७^m.

प्रत्य(ति-अ)क्ष- -क्षः अक्ष २, २०;
-क्षम् मै शी; छा ५, २, १; त्रिवि
३४; अक्ष ४; मृ २ : १०ⁿ; ११ⁿ;
ग २ : ५; सौ ५३ : १९; व ४३८ :
१३; २३; ४३९ : १०; २०;
४४० : ७; १७; ४४१ : ५; १५;
४४२ : ३; १४; ४४३ : १; १२;
४४९ : १६; २३; ४५० : ७; १४;
२१; ४५१ : ७; १४; २१; ४५२ :
६; १४; २१; १कौल सौ^o; सांस्
१, ८९ : ५, १००; -अस्य १प्र
३१ : ४; -क्षेण त्रिवि २, १.

प्रत्यञ्च- -च-

प्रत्यक्षत्व-नियम- -मः सांस् ५,
८९.

प्रत्यक्ष-दर्शन- -नम् मी २६.

प्रत्यक्ष-दैवत- -तम् मूला १, ३५;
६, १३.

प्रत्यक्ष-द्विष्- -द्विषः वृ ४, २, २.

प्रत्यक्ष-भाव- -धात् सांस् ५, ६२.

प्रत्यक्ष-भाव- -वम् सार २७६ : ७.

प्रत्यक्ष-यजन- -नम् त्रिवि ५, ३; ५, ७.

प्रत्यक्ष-रक्षा- -क्षा व ४३४ : १५^p.

प्रत्यक्षा(ञ-अ)नुमान^q- -नाभ्याम्

वृ १, ३, २८; ३, २, २४; -नै

वृ ४, ४, २०.

प्रत्यक्षा(ञ-अ)नुमान(न-आ)-

गम्^r- -माः योस् १, ७.

a) प्रतीषिमन्त्र इति शब्दा. । b) °यद् इति शब्दा. । वनि.सोषः द्र. । c) 'प्रयत्नेन' इति शब्दा. । d) °षः इत्यपि पाठे. । e) पा.ः 'प्रतीयात्' इति निसा., 'प्रतीयात्' इति शब्दा., 'प्रतीषीम्' इति शब्दा. संटि. च वनि. स्यबन्तः सोषः द्र. (तु. सहचरितं भिस्वा इति). । f) वैपरी वर. । g) ऋ १, ११७, २२. । h) ऋ १०, १२९, ४. । i) 'प्रतो-दनेन' इति पा.ः 'प्रतोदः अनेन' इति पदद्वयपरः सोषः द्र. (तु. मैत्रि २, ६). । j) पा ७, १, ३८ । k) °दः इति निसा. । l) ऋ ८, ६, ३०. । m) विप. नाप., त्रिवि. च कृत्वा भूयमाणं यस्या. द्र. व्या. व्यु. च वैपरी यर. । n) तु. सस्व. टि. वात्सरक्षा- ।

प्रत्यक्षा(क्ष-अ)वगम- -मम् गी९, २.
प्रत्यक्षो(क्ष-उ)पदेश- -शात् ब्रसू
४, ४, १८.

प्रत्यक्षो(क्ष-उ)पलब्धि- -ब्धेः सांसू
५, ९४.

१प्रत्य(ति-अ)क्षर^a- -रम् नृपू २, ५;
गार ४०८ : २; वपू २, २.

प्रत्यक्षर-दैवत- -तानि गार ४०७:
१०.

२प्रत्य(ति-अ)क्षर^b- -राणाम् गार
४०७ : १६; २२.

प्रत्यङ्गि(र>)रा^c- -राब २२; -० रे
व ४६४ : २२.

प्रत्य(ति/अ)ञ्च्

प्रत्य-अच्, ञ्च्- -त्यक्^d क २, २, ३;
जाद २, ९; सर २, ४; भव २,
५८; -त्यङ्^d छां २, १२, २; ३,
१३, ३; ६, १४, १; श्वे २, १६९^e;
३, २; अशि ५, २९^e; ३; मना १,
३९^e; बा ६; सूता १, १२९^e; वट्ट
३१६; २३९^e; ३१७; ३; -त्यञ्चः
छां ३, ३, १; वृ ४, २, ४; अशि १,
४; ४, १६; वट्ट ३१६ : ९.

प्रतीची- -ची छां ३, १५, २;

४, ५, २; वृ १, २, ३; ४, २, ४;

मैत्रि ६, १७^f; -चीम् प्र १, ६;

२प्र ३२ : १३; -च्यः छां २, ४,

१; ३, ३, १; ६, १०, १; वृ ३, ८,

९; -च्याम् वृ ३, ९, २२; भ २,

२७.

प्रतीचीन^g- -नः व ४६०:

१९^h.

प्रत्यक्-कर्त्तृ- -तारिम् व ४६२:

१६.

प्रत्यक्-चिति- -तिः व ९.

प्रत्यक्-चेतन- -नम् १संन्या २,
४५.

प्रत्यक्चेतना(न-अ)धिगम-
-मः योसू १, २९.

प्रत्यक्-चेतन्य-रूप- -पाय

१संन्या २, २५; वरा २, ३३.

प्रत्यक्-तस(>) सूता ४, २.

प्रत्यक्-त्व- -स्वम् ते १, ३८.

प्रत्यग्-अभिन्न- -न्नम् पै २,
५४; ३, १.

प्रत्यगभिन्न-पर- -रः आबो २.

प्रत्यग्-आत्मन्- -त्मनि पै ३,
१ⁱ; पाशु २, १७; यो ३, २३;

-त्मा ससा १, ३; शु ३, ७; पै ४,
९; पाशु २, १६; यो ३, ३१; भव
२, २७; -स्मान्म क २, १, १; कर्
१२; अध्या २.

प्रत्यगात्म-ता- -तया कर्
३६.

प्रत्यग्-आनन्द- -न्दम् ना ४;

आबो १ⁱ; त्रिता ४, २५.

प्रत्यगानन्द-रूपा(प-आ)-
त्मन्- -त्मा त्रिवा २, ९.

प्रत्यग्-एक-रस- -सः वृ ९,
८; ब्रवि १००; -सम् अध्या ६.१.

प्रत्यग्-ज्ञान-शिखि- -ध्वस्त-

-स्ते वरा २, ६८.

प्रत्यग्-ज्योतिस्- -तिः जाद
६, १६; -तिषि अव्य ६.

प्रत्यग्-दृष्टि- -ष्टिः त्रिवि ४, १२;

-ष्टिमिः सर २, ६; -ष्ट्या त्रिवि
४, १२.

प्रत्यग्-धातु- -तुः मैत्रे १, ४, ११.

प्रत्यग्-ब्रह्मन्- -ह्मणोः अध्या
४६.

प्रत्यग्-भूत, ता- -तः जाद १०,
८; -ता त्रिता २, ३३.

प्रत्यग्-रूप- -पे अध्या २६.

प्रत्य(ति-अ)धि-देवता- -ता व

४४४ : ३; १३; २३; ४४५; ११;

२१; ४४६; १०; २०; ४४७ : ८;

१९; ४४८ : ७; १८.

प्रत्य(ति-अ)नीक- -केषु गी ११, ३२.

प्रत्य(ति-अ)नुकरण- -णम् सार
२८७ : ७.

प्रत्य(ति-अ)नु^h/भू, प्रत्यनुभवति प्र
४, ५.

प्रत्यनु-भूत- -तम् प्र ४, ५.

प्रत्य(ति-अ)भिⁱ/ज्ञा

प्रत्यभि-ज्ञा-

प्रत्यभिज्ञा-बाध- -धात् सांसू १,
३५.

प्रत्यभि-ज्ञान- -नम् सांसू ५, ९१.

प्रत्यय- १प्रती द्र.

प्रत्य(ति/अ)र्थ^j>अर्थि

प्रत्य(ति-अ)र्थिन्^k- -र्थिनः सूता २, ७.

प्रत्यर्थि-कृत्या- -त्याभिः सूता
१, ४२.

प्रत्यर्थि-हारिन्- -री सूता २,
१४.

प्रत्य(ति-अ)वसर^l- -रम् सार २६९ : ३

प्रत्य(ति-अ)व^m/सृप्

प्रत्यव-सृप्य वृ २, १, १९.

प्रत्य(ति-अ)वे(व/इ), प्रत्यवैति भ १,
८; २, १.

प्रत्यवा(व-अ)थ- -थः गी २, ४०.

प्रत्य(ति/अ)स् (क्षेपणो), प्रत्यस्यति
कौ २, ८९ⁿ.

प्रत्य(ति-अ)स्त, स्ता- -स्तम् मैत्रि
६, १५; १७; -स्ता वृ ४, ४, ७.

प्रत्य(ति-अ)ह^o- -हम् वरा ५, ४७; हे
९; चक्र ४.

प्रत्यहिक-

प्रत्यहिक-क्षुत्-प्रतीकार-

प्रत्यहिक-क्षुत्प्रतीकार-वत्
सांसू १, ३.

a) अस. । b) कस. । c) व्यु. ? = देवीविशेष- । d) वा. क्रिवि. द्र. । e) मा ३२, ४ । f) °तीच्यः इति सात. । g) पा ५, ४, ८ । h) अ १०, ८३, ६ । i) वैतु. उज्र. पदद्वयमिति । j) = शत्रु- । k) 'प्रत्यस्य' इति शांभा ४, ८; 'स्वात्' इति अख्या. ।

प्रत्या(ति-आ)/ख्या
 प्रत्या-ख्यातुम् वृ ६, २, ८.
 प्रत्या(ति-आ)/चक्ष्, प्रत्याचक्षीत तै
 ३, १०, १; प्रत्याचक्षीरन् कौ२,
 १; २.
 प्रत्या(ति-आ)/जन् > जा, प्रत्याजा-
 यते कौ १, २.
 प्रत्या(ति-आ)/घा
 प्रत्या-धान- -नम् वृ २, २, १.
 प्रत्या(ति-आ)/पद्
 प्रत्या-पत्ति- -त्तिम् शा २७.
 प्रत्या-पद्यमाने > ना- -ना मार
 २८५: ५.
 प्रत्या(ति-आ)/प्यै > प्यायि, प्रत्या-
 प्याययेत् २प्र ३३: १२; १३.
 प्रत्या(ति-आ)/या, प्रत्याययु: वपू
 १, ४.
 प्रत्या(ति-आ)/श्रि, प्रत्याश्रयते गार
 ४०५: २१.
 प्रत्या(ति-आ)/श्रु > श्रावि
 प्रत्या-श्रावित- -तम् वृ ६, ३, ४.
 प्रत्या(ति-आ)/स्त्रु
 प्रत्या-स्वर- -र: छां १, ३, २.
 प्रत्या(ति-आ)/ह्, प्रत्याह छां ७, १५,
 २; वृ १, ५, १७; मैत्रि ६, ३१;
 कौ १, २.
 प्रत्या(ति-आ)/ह्, प्रत्याहरेत् योच
 १२१; शां १, ८.
 प्रत्या-हरण- -णम् १योन ६८;
 योच १२०.
 प्रत्या-होरे^{११} - -र: मैत्रि ६, १८;
 अना ५: ६; ते १, १६; ३४;
 ध्या ४१; १योन २५; ६९;
 २अव ३३७: ७; त्रिजा २,
 ३०; १३०; योच २; १११;

१२०; सं १, १, ४; शां १, ८;
 जाद १, ५; ७, २-२; १: १४;
 वग ५, ११; शि १, २७; दोम्
 २, ५४: -रम् जाद ७, १;
 -रा: शां १, ११: -रेग अना ८:
 योच १०९.
 प्रत्याहार-द्वि-पदक- -दकेन
 योच १११.
 प्रत्याहार-परायण- -ण: अत्र ३,
 २७.
 प्रत्याहार-स्मर- -र: जाद ७, ११.
 प्रत्या-हृत- -नम् अत्र ३, ५.
 प्रत्या-हृति^{१२}-
 प्रत्याहृति-वश- -शत अत्र ५,
 १०.
 प्रत्युक्त- प्रति/वच् ३.
 प्रत्यु(ति-उ)त्तर- -नम् मार २, ७६: १.
 प्रत्युत्था(ति-उद्/स्था)
 प्रत्युत्-थान^{१३}- -नम् नाप १.
 प्रत्युत्-थायिन^{१४}- -यिन: वृ ६, २, १६.
 प्रत्यु(ति-उ)प/कु
 प्रत्युप-कार-
 प्रत्युपकार-अर्थ- -र्थम् यो
 १७, २१.
 प्रत्यु(ति-उ)पभोग- -गम् मांका ३७.
 प्रत्युहा, प्रत्युहा- प्रति/वद्(वहने), द.
 प्रत्युप^{१५}- -व: वृजा ४, १६.
 प्रत्यु(ति-उ)ह्/प्रारणे, प्रसौहृत् वृ १,
 २, ७; प्रसौहृताम् मना २, ६८५.
 प्रत्यु(ति-उ)ह् वृ ७, १२.
 प्रत्ये(ति-आ)/ड, प्रत्यायन्ति वृ ५, ५,
 २; कठ १; कथ २, २.
 प्रत्येवाय छां ४, १, ७: ३, ७.
 प्रत्या(त्या-आ)यन- -नम् छां ३,
 १९, ३.

प्रत्ये(ति-आ)क^{१६}- -कम् १योन २८: अ
 ३२; यो १, ५४; शि ४, ३२: ६,
 ७७: ११. नाप २, ६. वृ ३,
 २, ५५.
 प्रत्येक-वगिदृष्ट- -ष्टे मन् ३, २७.
 प्रत्येका/क-अ, दृष्टि- -ष्टे: नाप ३,
 २०.
 प्रत्येका क-अन-उपलक्षि- -क्षय:
 नाप ५, १३०.
 प्रत्ये(ति-आ)नस्^{१७}- -नम् वृ ४, ३ ३७:
 ३८.
 प्रथ^{१८}, प्रथते त्रि ५१.
 प्रथित, ता- -त: यो १, ७, ३८; ना
 योशि ३, ५.
 प्रथम, मां- -म: के १, १: ४, २: ३: क
 १, १, ५: मुं १, १, १; मां ३: छां
 २, २३, १: सं १, ६: वृ २, २: ३;
 ४, ४; वृ ३, ६: ३, १: २: वृ
 ५; नाप ८, १: त्रिभि १, १: योच
 ७२: गउ ३, १: महा ६, ५९:
 योशि १, १०३: सवि १०; यो
 १, ११; जाद ६, ४३: वृ ७, १;
 नाप ५, ५. गार ४०६: ४: ८;
 षो ७; वृ १, ७: वृ १, ६: मम्
 क १, १, १०: ऐ ४, १: छा ३, ६,
 १: ५, १९, १: वृ ५, १४, ३; वै
 २, १५^{१९}; मना १, १०५^{२०}: २, १२,
 ३५^{२१}; अशि १, ५; वृजा १, १५^{२२}:
 ३, ३४; वृ १, १५^{२३}: ३: ५: २, ४;
 ६: नाप ३८: ध्या ४३; १योन
 ४८: नाप ३, ३८; ६, १; योच ६;
 शां १, ७, ५; महा ५, १०; १६०;
 २संन्या १६: ५^{२४}; त्रिता २, ६: ४८;
 यो १, ५८; शा ३०; दगा १, ३;
 ५; ६: योरा ५: आव ६; शौ ५१:

a) °हार: इति अख्या. संदि. । b) °रपरै: इति अख्या. । c) पा ८, ४, ६५ । d) व्यु? = वसुविरोध- ।
 e) तैसं ४, १, ७, ४ । f) अस. । g) वस. । h) अत्र प्र° इति पा. [तु. सस्थ. डि. मद्(न) > मी- > म्या: वैतु.
 तादिप्र प्रथे° इति २थं पदमिति, निसा. मन्त्रिच्- > -त्री इति १मं पदमिति, अख्या. मन्त्र-प्रतत- > -त्रे (तु. उत्र.)
 इति समस्तमेकपदमिति ?] । i) वैप १ वद. । j) वा. पुं: स्त्रीत्वपर: शोध: द. । k) मा ११, १ । l) मा १३, ३ ।
 m) तैसा १०, १०, ३ । n) ऋ १०, १२९, ४ ।

११; सूता १,३०; ऊ ६४ : ६;
नापू ६,२; नृष ८४ : ३; ६; १०;
८५; ६; सार २४१ : ५; २६२;
१; २६४ : १९; लिं ३११ : २;
२क्षिसं ३२९^a; काम २; १३;
कालि ४०३ : १४; गार ४०७;
५; १०; गा १९; गु ७९; विद्या
१; तारा ८३ : २; चू ७; वपू १,
१; ६; २, १; २; -मया सुद्र १, २;
२प्र ३२: १०; -मस्य नृपू १, ९;
११; त्रिता २, ४; १०; १७; नृष
८४: १५; १९; ८५: २; -मा प्र २,
८; मां ९; मैत्रि ६, ३३; अशि
५, ९; अ१; वृजा ७, ७; नृपू १, २;
नाद ६; ९; काला १२; नाप ८,
१; सी ६; रार ३, १^३; महा ५,
१४; अन्न ५, ८१; अक्षि २७;
त्रिता ३, ५; त्रि ३; वरा ४, १^३;
जाबा २१; सौ १, ३; २प्र ३४:
१९; सार २२० : ५; ६; गार
४०६ : ६; व ४६०: १२९^b; वपू
१, ४; -मानि मवा १०९^c; -मास
छां ५, १९, १; वृ १, ३, १२; श्वे
२, १३; अक्षि ९; -मायाम् नाद
१२; -मे हं १८; मना १, १५९^d;
ध्या १०; १योत १२४; अक्ष ५;
यो १, ५४; म ४८ : ७; शि ६,
१३९; ब्रसू ३, १, ५; -मेन नृपू
२, ४; पिं ७; २प्र ३२: ८; कालि
४०१ : १२; वपू २, २; -मै: भव
३, २९; -मौ महा ५, ९५.
प्राथमिक- -क: अन्न १, १३.
प्रथम-कूट(ट>)टा- -टांम् विद्या १.
प्रथम-कूटा(ट-अ)क्षर- -र:
विद्या १.
प्रथम-चक्रे(क-ई)शरी- -री आथ
३९४ : २०.

प्रथम-ज- -जम् वृ ५, ४, १^३; -जा:
योचू ७२; -जान् शौ ५१ : ११.
प्रथम-जन्मन्- -न्मान: महा ५,
१३७.
प्रथम-जा- -जा: तै ३, १०, ६९^e;
मना १, ४९^f; नृपू २, १८९^g.
प्रथम-द्वितीय-नृतीय-भूमिका-
-का: वरा ४, १.
प्रथम-पद- -दात् गोपू २९.
प्रथम-परिणाह- -हे सार २८१: ३.
प्रथम-पाद- -दात् अव्य ६; गोपू
३०^h; -दे त्रिवि १, ९.
प्रथम-सू-पुर-वीथि- -ध्याम्
त्रिवि ७, ४८.
प्रथम-भूमिका- -का वरा ५, ७४^h.
प्रथम-मन्त्रो(न्त्र-उ)क्त- -क्तौ राउ
४, २; ता ३, ८.
प्रथम-याम- -मे रा ४२५ : ५.
प्रथम-रूप- -प: नापू १, ४.
प्रथम-रेखा- -खा ध्या ९३, १२ⁱ.
प्रथमरेखा-बलय- -यम् ध्या
९३, १२.
प्रथम-श्रेणि- -ण्याम् सार २७०: ५.
प्रथम-सङ्ग-रक्षिता(त-आ)स्मन्-
-स्मने सार २५१ : १९.
प्रथमा(म-अ)क्षर- -र: राउ १, २;
ता २, १.
प्रथमा(म-अ)न्ता(न्त-अ)र्ध- -धैस्य
नृपू १, १३.
प्रथमा(म-अ)न्त्य- -न्त्यम् नृपू १, १५
प्रथमा(म-अ)भ्यास- -से नाद ३३.
प्रथमाभ्यास-काल- -ले १योत
३०.
प्रथमा(म-अ)र्ण- -र्णम् रार २, ११.
प्रथमा(म-अ)चरण- -णे सूता ५, ५.
प्रथमा(म-अ)स्तमित- -ते छां २,
९, ८.

प्रथमो(म-उ)त्तम- -मे वृ ५, ५, १.
प्रथमो(म-उ)दित^१- -ते छां २, ९, ३.
प्र-दक्षिण^२- -णम् ते ६, २३; मं २, ३,
५; करु १; आपू ५; तुल ७०: ९;
शि १, २७; ७, ८; ८९; कशु २, १.
प्रादक्षिण्य- -ण्यम् भा ३६;
-ण्यात् तुल ७० : ७.
प्रदक्षिण-क्रम- -मेण वरा ५, २७.
प्रदक्षिण-त्रय- -यम् वि १०.
प्रदक्षिण-नमस्कार- -रम् त्रिवि ८,
१३^k; -रात् त्रिवि ५, १४; ६,
२०; २१; २३; २५^l; ७, १५; ८,
५; १७.
प्रदक्षिणनमस्कार-पूर्वक- -कम्^१
नाप ४, ३८; त्रिवि ५, १२; १३.
प्रदक्षिणा-पूर्वक- -कम्^१ त्रिवि १, ४.
प्रदक्षिणी/कृ
प्रदक्षिणी-कृत्य हं ६; १योत ४०;
अक्ष १५.
प्रदर्शित- प्र/हश् द.
प्र/दह, प्रधाक्षी: छां ४, १, २.
प्र/दा(दाने), > दापि, प्रदद्यात् शि ५,
३०; ६, ५५; ७०; ७२; २२५;
२२७; २४१; २५७; २६१;
२६७; २७०; २७३; २७७; ७,
९२; ९३.
प्रददौ छां १, १०, ३; सांका ७०;
प्रदास्यामि रार ४, १३; प्रादात्
अव्य ६^१.
प्रदीयन्ते जाद २, ७^m.
प्रदापयेत् नाप ४, ८; ब्रवि ४८;
इ १४ : १.
प्र-दत्त, त्ता- -त्तम् सार २३२: २२;
२३४: १६; -त्ता सार २३४: १७.
प्र-दातव्य, व्या- -व्यम् ब्रवि ४७;
४८; शि ६, ४३; -व्या शि ६,
१७०.

a) मा १३, ३ । b) ऋ १०, ८३, ७ । c) ऋ १, १६४, ५० । d) ऋ ९, ९७, ४० । e) कौ ३, १, ९ । f) 'प्रथम-
जाम्' इति मा ३२, ११ । g) आद्यप^० इति निसा., पूर्वप^० इति आन. । h) प्रचयम् इति अज्या. । i) 'स्वाब' इति
निसा. । j) उप. = १उदित- । k) °रान् इति अज्या. संटि. । l) वा. किवि. द्र. । m) °येत् इति अज्या. संटि. ।

प्र-दातृ- -तारम् शि ६, २८१.
 प्र-दान- -नम् शां २, १; -नस्य शि ६, ७०.
 प्रदान-वत् त्रम् ३, ४३.
 प्र-दाय वृ ६, ४, २७; गोच ६९: ७.
 प्र-देय, या- -यम् मृता ६, ६; शि ७, ७९; -या: शि ६, ७५.
प्र/दिष्ट
 प्र-दिष्ट- -ष्टम् गी ८, २८.
 प्र-देशि(न>)नी^१- -न्या प्रा १, ६.
 प्रदेशिनी-मूल- -ले शि ५, ४६.
 प्र-दिष्ट^२- -दिश: श्वे २, १६५^b; मना १, ३५^b; ४५^०; अशि ५, १३^b; मवा ९, ५^a; वा १७; मृता १, १०^b; वटु ३१६: २०^b; २६सं ९.
प्र/दीप
 प्र-दीप- -पम् शि ७, ७१.
 प्रदीप-कल्प- -स्या: सांका ३६.
 प्रदीप-प्रताप-
 प्रदीपप्रताप-वत् मैत्रि ६, ३८.
 प्रदीप-वत् अ २; कुं २३; सांका १३; ब्रह्म ४, ४, १५.
 प्र-दीपन- -नम् योचू ९९; शां १, ७, ८.
 प्र-दीप्त- -प्तम् गी ११, २९.
 प्र-दीप्यमा(न>)ता- -ता: मार २३७: ४.
प्र/दुष्, प्रदुष्यन्ति गी १, ४१.
प्र/दुह, प्रदुषे मना १, २३^०.
प्र/दू, प्रदूयन्ते, प्रदूयेत क्वां ५, २४, ३.
प्र/दृश्>दृशि, प्रदृश्यते रुजा १, १४; शि ७, ६५.
 प्र-दृशित, ता- -त: नाद ५; -ता सुद्र १, ५.
 प्र-देश- -क्षात् ब्रह्म २, ३, ५३; -क्षे गी ४, ३३; सौ २, २.

प्रदेश^१-
 प्रदेश-मात्र- -त्रम् क्वा ५, १८, १.
प्र/द्युन्, प्रद्योतने वृ ४, ६२.
 प्र-द्योत- -तेन वृ ४, ४, २.
 प्र-द्योतमा(न>)ता- -ता मार २६९: २२.
 प्र-द्योति(न>)ता^१- -ता मार २, ५३: १०.
प्रद्युम्न^१- -म्न: गोड ३७; ४२; -भ्रम् त्रिवा २, १४४; -भ्रस्य गोड २७.
 -भ्राय शु २, ५; त्रिवि ७, ४१.
प्रद्युम्न-मूर्ति- -ति: गोड २७.
प्रद्युम्न-संज्ञा>ज्ञ- -ज्ञम् सं ३.
प्र/द्रा
 प्र-द्राण-
 प्रद्राण-क- -क: क्वां १, १०, १.
प्र/द्रु, प्रदुद्राव वृ ६, २, ३.
प्र/द्विष्
 प्र-द्विषत्- -षन्त: गी १६, १८.
प्र/धा
 प्र-धान, ना^१- -०न अत्र ५; -न: मैत्रि ६, १०; वम् ३; पा १, ६; २, १:
 -नम् श्वे १, १०; नाप ९, ९; शां १, ९; त्रिवा २, ७८; १ कौल ३: ६:
 भव २, १३; १६; ६८: सांय २, ४०: ३, ७३; सांका ११; वड ३, ५९; ४, ९; -नस्य मैत्रि ६, १०^१:
 सांय २, १; ३, ५९; ६३: ७०: ६, ३८: ४०; ४३; सांका २१; ५: ७:
 ब्रह्म ३, ३, ११; -ना: ध्या ५२:
 योचू १६; २४; पा १, १०.
 प्राधान्य- -न्यम् सांय २, ४७; -न्येन त्रिवि २, १०.
 प्राधान्य-उत्स(>) गी १०, १९.
 प्रधान-कार्य-
 प्रधानकार्य-त्व- -त्वस्य

सांय ५, १२.
 प्रधान-अंत्रज-पति- -ति: श्वे ६, १६; भव २, ६२.
 प्रधान-वेष्टा- -ष्टा सांय ३, ७१.
 प्रधान-ज- -जै: श्वे ६, १०; भव २, ४८.
 प्रधान-जय- -य: योम् ३, ६९.
 प्रधान-पुण्य^१- -पु: श्वे १, १५.
 प्रधान-पुण्य^१-
 प्रधानपुण्या^१ व-प्र न्तर-
 -रम् सांका ३७.
 प्रधान-बाधक-
 प्रधानबाधक-त्व- -त्वम् सांय ५, ११९.
 प्रधान-विनिवृत्ति- -ते: सांका ६८.
 प्रधान-व्यपदेश- -सात् सांय १, १२५.
 प्रधान-सक्ति-योग- -गात् सांय ५, ८.
 प्रधान-संबन्ध- -रा: महा १, १.
 प्रधान-मृष्टि- -ष्टि: सांय ३, २८.
 प्रधाना^१ न-आत्मन्- -न्या गोड ६४^१.
 प्रधाना न-अ)नुवृत्ति- -ति: सांय ६, ३५.
 प्रधाना(न-अ)न्त: -स्य- -स्य: मैत्रि ६, १०.
 प्रधाना(न-अ) विवेक- -कात् सांय १, ५७.
 प्र-धि- -धय: छाग २५; २०; -धि: वृ १, ५, १५; -धिना वृ १, ५, १५; वा १६.
प्र/धाव्(गती), प्रधावति ध्या ७९;
 योचू ५१; वोशि ५, ४१; ६, ३५;
 यो १, ६२; प्रधावन्ति त्रिवि ४, १६; राउ ५, १०.
प्र/धृ>धारि, प्रधारयेत् रुजा ३, ३३;
 ४, १.

a) वैपर वद्र. | b) मा ३२, ४ | c) मा ३२, ११ | d) तैआ ३, १२, ७ | e) तैआ १०, १, २ | f) पा १, २, २१ | g) व्यु. ? = बाहुदेवपुत्र- | h) विप. वा नाप. वा | i) कस. | j) दस. | k) 'श्रेवात् आत्मा' इति आन. |

प्र/ध्मा, प्रदध्मतुः गौ १, १४.

*प्र-ध्माय^०-

√प्रध्माय, प्रध्मायीत छां ६,
१४, १^b.

प्र/ध्वै

प्र-ध्यायितव्य- -व्यम् अ ३.

प्र/ध्वंस, प्रध्वंसते छां ८, १, ४.

प्र-ध्वंसन^०- -नः, -नात् वृ २, ६, ३;
४, ६, ३.

प्राध्वंसन^०- -नः, -नात् वृ २, ६,
३; ४, ६, ३.

प्र/पञ्च, प्रपञ्च्यते ते ५, ४६.

प्र-पञ्च^०- -ञ्चः श्वे ६, ६; गौ १, १७;

ते १, २१; आवो १२; त्रिवि ३,
२; अञ्ज ५, ७६; जाद १०, ३;

सार २८९ : १७; १कौल २ : ४;
३ : १; -ञ्चम् ते ५, १०, ३१;

३२^३; ७५; नाप ९, १८; १संन्या
२, १००; -ञ्चस्य ते १, ३२; नाद

२५; मं २, ३, ४; योशि ४, ३;
-ञ्चाः(श्वः^०) २कौल २; -ञ्चे नाद

२८; योशि ४, २०.

प्रापञ्चिक-

प्रापञ्चिक-पराङ्-मुख-

-लैः नाप १.

प्रापञ्चिक-शिखो(खा-उ)-

पवीत- -तम् पत्र २.

प्रपञ्च-ज्ञान- -नम् त्रिवि ६, १.

प्रपञ्च-त्व- -त्वात् नाद २८.

प्रपञ्चत्वा(त्व-आ)ष्(दि-अ)-

भाव- -वः सांसू ३, २१^०.

प्रपञ्च-बीज- -जम् सी ३.

प्रपञ्च-मुक्त-चित्त- -त्तः मैत्रे ३,
२०.

प्रपञ्च-रहस्य- -स्यम् त्रिवि ६,
१०.

प्रपञ्च-रहित- -तः मैत्रे ३, २०.

प्रपञ्च-लय- -यः मं २, ३, ४.

प्रपञ्च-वृत्ति- -त्तिम् नाप ७;
१संन्या २, ७९.

प्रपञ्च-हीन- -नः वृत् ३, ७.

प्रपञ्चा(ञ-आ)धार-रूप- -पेण
आवो १३.

प्रपञ्चा(ञ-अ)नुभव- -वः वरा
२, ३१.

प्रपञ्चा(ञ-अ)भि-मुख- -खम्
त्रिवा २, १५.

प्रपञ्चा(ञ-अ)वाङ्-मुख- -खः
नाप ५, ३९.

प्रपञ्चे(ञ-ई)श्वर- -रः २कौल
२^१.

प्रपञ्चो(ञ-उ)त्पत्ति-क्रम- -मः
त्रिवि ३, १.

प्रपञ्चो(ञ-उ)परत- -तः नाप
५, १; १संन्या २, १३.

प्रपञ्चो(ञ-उ)पशम- -मः मां
१२; गौ २, ३५; त्रिवि ९९; वृत् २,
१०; -मम् मां ७; वृत् ४, ७;

वृत् १, १२; नाप ८, २०; राउ
३, १; वउ १, १५; ५, ४०.

प्रपञ्चो(ञ-उ)पशम(न>)नी-

-नीम् विद्या ४.

प्र-पञ्चमान- -नम् ते ४, ५१.

प्र/पत्(गतौ), प्रपतन्ति मैत्रि ६, १२;

प्रापतन् ए २, १.

प्र-पतत्- -तत्^० पा ९, ५.

प्र-पतन- -नम् मै १, ७; मैत्रि १,
४; मैत्रे १, २.

प्र/पद्, प्रपद्यते श्वे ४, २१; गौ
४, ३५; ५६; मैत्रि ६, ३०;

अध्या ५५; कुं ६; २१; सार
२८९ : २३; २९२ : १०; १६;

पित्र २, ७; गौ ७, १९; प्रपद्यन्ते

क २, २, ७; लु २०; म २, ३०;
इ १६:९; गौ ४, ११; ७, १४;

१५, २०; प्रपद्ये छां ३, १५,
३^१; ४; ५^०-७^०; ८, १३, १^१; १४,

१; श्वे ६, १८; गर्भ ४^३; मना १,
१२५^b; २, १५^१; वृत् ३, ४; त्रिवि

७, ३९; कुं १४^३; त्रिता ५,
२१; दे ४५^१; १९; गार ४०८:

१२; गु ७२; व ४५७ : ११;
४६१ : ९५^१; ४६५ : २१५^१; वृत्

२, २; गौ १५, ४; प्रपद्यामि मना
२, १७५^१; प्र...पद्यस्व तै १, ४,

३; प्रपद्ये ऐ ३, ११; प्रापद्यत
ऐ ३, १२^३; प्रपद्येत य १०; सु

२९३:१०.

प्रपदे सार २२६ : १४; प्रपेदिरे

सार २९२ : ८; ९; पित्र ५, ४;
प्रापत्सि छां ३, १५, ४.

प्र-पद- -दाः गु २२.

प्र-पदन- -नम् छां ८, ६, ५.

प्र-पद्य १आ २५; सार २४४:१३;
१४; २९२ : ८.

प्र-पद्यमान- -नः सार २५७ : ११;
२९२ : ११.

प्र-पन्न, न्ना- -न्नः छां २, २२, ३; ४^१;
म २, २०; वा २२; सार २२७:

११; व ४५८ : १४; -न्नम् गौ
२, ७; -न्ना सार २२२:३; -न्नाः

सार २३१:८; १०; २३४ : २३;
२५४:१४; -न्नानाम् सार २५०:

१३; -न्नान् सार २५६:१२.

प्र/पश, प्रपश्यति योशि ४, ९; शि
४, ५५; ६, १८५^१; प्रपश्यन्ति

पाशु २, ३३; रुह ४९; अञ्ज
४, ३६; प्रपश्यसि ते ५, ७२;

a) तु. टि. आ/ध्मा>*आ-ध्माय- । b) 'प्रधावेत्' इति BCH. । c) =गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- ।

d) पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. १कौल २ : ४) । e) 'ञ्जमरणाद्यभावः इत्यपि पाभे. । f) पा.१ 'प्रपञ्च ईश्वरः' इति शोधः द्र.

(तु. १कौल ३ : २) । g) वा. क्रिवि. द्र. । h) तैआ १०, १, १२ । i) खि १०, १२७, १२ । j) 'प्रपद्यते' इति श्रुत्या. ।

k) तैआ १०, ४३, १ । l) पा.१ 'प्रपश्यन्ति' इति शोधः द्र. ।

प्रपश्यामि गी २, ८; प्रपश्येत् गी ११, ४९; प्रपश्येत् श्वे २, १५.
 प्र-पश्यत्- -श्यतः या २, १३;
 -श्यद्भिः गी १, ३९; -श्यन् वरा २, ३१; वा २.
 प्रपश्यन्ती- -न्त्याः महा ४, ११५.
 प्र/पा(पाने)>पिब^१, प्रपिबेत् योशि १, ११७.
 प्र-पा^{१b}-
 प्रपा-पान-
 प्रपापान-नस(>ः) दत्ता ३.
 प्र-पितामह- -हः गी ११, ३९.
 प्र/पीड् >पीडि, प्रपीडयेत् यो १, ४९.
 प्र-पीडय श्वे २, ९; योचू ६६; भव ३, २६.
 प्र/पूज् >पूजि, प्रपूजयेत् शां १, ७, ३८; योशि ५, ३७; सूता ६, ८; शि २, २६.
 प्रपूज्यन्ते जाद ४, ५२.
 प्र-पूज्य त्रिवि ८, १७.
 प्र/पृ >पूर, परि, प्रपूरयेत् योचू ११९.
 प्र-पूर्ण-
 प्रपूर्ण-धी- -धीः अक्ष ५, ११५.
 प्र-प्र^d/दा(दाने)
 प्रप्र-दातृ- -दारम् प्रा १, ४९.
 प्र/प्लु, प्रप्लवस्व अर ७९.
 प्र-फवी^b- -र्व्यम् वृ ६, ४, १९.
 प्र/फुल्ल्
 प्र-फुल्ल^b- -ह्लानि मार २२२ : १८.
 प्रफुल्ल-कमले(ल-ई, क्षण- -णम् शां ३, २.

प्र-फुल्लित,ता- -ताः मार २२६: ४; २२९: १२; २६९: २३; २७०: १; २७६: १८; -तानि मार २७०: १.
 प्रफुल्लित-लता-प्रथिन-पर-स्पर-शुभा भ-अ,ङ्-शोभन-चन्दन-वृक्षात्- -अ, वलम्बि-त- -ताः मार २८६: २३.
 प्र/वन्ध्, प्रवधन्ति महा ४, १४;
 प्रवध्नीयान् योचू ११९.
 प्र-वद्ध- -द्धः छां ६, ८, २.
 प्र/वाच्, प्रवाधते योशि १, ६४.
 प्रवाध्यते योशि १, २८.
 प्र/बुध्, >बोधि, प्रबुध्यते गौ १, १६.
 प्रबोधयेत् त्रिवि ७०; शि ७, ३१.
 प्र-बुद्ध,दा- -द्धः कं १, १४; मैत्रे ३, १४; शु ३, ९; महा ६, २७;
 अक्ष ३, १२; वरा २, ५८; या २, २२; -द्धस्य महा ५, १६;
 -द्धा ध्या ६६; योचू ३८; -द्धाः या २, २२; -द्धानाम् ते १, ३३.
 प्रबुद्ध-बुद्धि- -द्धिः महा ५, १०६.
 प्रबुद्ध-रज्जु-नस्व- -स्वस्य लाम् ३, ६६.
 प्र-बुद्धवत्- -वान् अक्ष ३, १२.
 प्र-बोध- -धः गौ ३, ४०; वरा ५, ४१; अम् ३, २, ८; -धम् मार २२९: २२; -धात् अघ्या ५०;
 -धे महा ५, १०८.
 प्रबोध-पूर्व-पात्र- -त्रे व १५.

प्र/वृ, प्रवृते वृ १, ६, १; प्रवर्धामि क १, १, ३५; प्रवृत्ति क १, १, ३३; छा ४, १०, २; प्रवृत्तम् छां ८, ८, १; प्रवृत्तम् >मा कृ ४, १०, ४; मना २, १२, २७; म १, ३; प्रवृत्तम् छां ३, ११, २; ६, १४, २; कौ १, ७; या ३३; वृ ८५ : १९; शि ६, १६३.
 प्र/भञ्ज
 प्र-भञ्जन- -न्म् मुक् ९, १, ५; त्रिशा २, १३६; -नाय वृत्ता ४, २९.
 प्रभविष्णु- प्र/भृ ३.
 प्र/भा, प्र...भाहि तै १, ४, ३.
 प्र-भा- -भा ध्या २७; गा ४०७ : १८९; गी ७, ८; -भाम् योचू १२१.
 प्रभा-कर >री^a- -री त्रिता १, ६९.
 प्रभा-भा-अ,न्वि(त >)ता- -नाम् शि ६, ११८.
 प्रभा-पुञ्ज- -ञ्जन त्रिता ४, २८.
 प्रभा-मध्य-गत- -न्म् ध्या २७.
 प्रभा-मनो-बुद्धि-शून्य- -न्यम् पै ४, १.
 प्रभा-शून्य- -न्यम् मौ २, १७; मु २, २, ५५.
 प्रभा-हीन- -नाम् तापू १, ४.
 प्र-भात- -नाम् गौ ४, ८१.
 प्रभाव- प्र/भृ ३.
 प्रभावाति^a मना २, ३७; व ४६१ : २१.
 प्र/भाष्, प्रभाषते शि १, ४; प्रभाषेत् गी २, ५४.

a) पा ७, ३, ७८ । b) वैपश् यद्र. । c) 'प्रपद्यन्ते' इति अश्या. । d) पा ८, १, ६ । e) मा ११, ८३ ।
 f) 'मा प्लवस्व' इति तैत्ति १, २७, १ । g) 'प्रपूर्यान्' इति आन. (तु. आगि.) 'प्रफूर्णान्' इति निता. च वनि. श्लोथः द्र. [तु. टि. वैप २, ६८४ (तु. ऋ १०, ८५, २२)] । h) वैटु. पा ७, ४, ८९; ८, २, ५५ । i) 'चवि' इति निता. यनि. श्लोथः द्र. । j) ऋ ४, ५८, २ । k) 'हन्ववाहनाय' इति अश्या. । l) 'प्र...पाहि' इति निता. । m) =देवी-विशेष- । n) पा ३, २, २१; ४, १, १५ । o) पा. ! [तु. निता., तैत्ति. (कालि., मैत्र. १०, १५, १)] 'वृष्णिः सूर्यः (=ऋषिः) आदित्यस्वमर्षवन्त्य (=ऋषिः) अरम् । तपः सत्यं मधु क्षरन्ति तद् रसं, सत्यं (=तिष्ठं) वै तद्, तद् ब्रह्म तद् आपः' इत्येवमानुष्टुभार्धसहस्रत-आगतत्रैष्टुभन्तीवतुरीयपादः सोऽस्तत्र तत्र मूले ववायोमं देवः ? ।

प्रमाण(ण-अ)न्तरा(र-अ)-
 वकाश- श्वात् सांम् ५, २२.
 प्रमाण(ण-अ)प्रमाण-साधार-
 (ण>)णा-णा मसा १, ३९.
 प्रमाण(ण-अ)भाव- श्वात् सांम्
 ५, १०; ९९; ६, ६४.
 प्र-माहृ- ता कर् ३७; ३९.
 प्र-मित- तः प्रम् १, ३, २४; -त्म्
 कौ १, ३; ५.
 प्र-मेय- व्यः मैत्रि ६, १४; -यम् कर्
 ३७; ४०; -यस्य मैत्रि ६,
 १४.
 प्रमेय-सिद्धि- -द्धिः सांका ४.
 प्र/मी, प्रमीयते मना २, ८०^१; कौ
 ४, १३^१; आर्षे ९; ८; इ १०:
 १५^१; १६.
 प्र-मायुक- कम् वृ १, ४, ८.
 प्र-मुख- खे गी २, ६.
 प्र/मुच्, मुच्, प्रमुख नी २, ८९^१.
 प्रमुख्यते क १, ३, १५; वृ ४, ३,
 ३६; कै १, १७; ना ५; मना १,
 १५^१; घ्या ६४; १योत १;
 ९०; २योत १, १; नाप ९, १;
 त्रिवा २, १०२; योचू ३४; रार
 १, ९; योशि ३, १; ६, २५; ३०;
 अज्य ७; २७; ३०; दे २१; र्ह
 १७; २५; यो १, १७; म १, ११;
 २, १४; रुजा २, १८; ग १६;
 १८^१; मवा १२; वरा २, ३२;
 योरा १५; वि २१; सूता २, २१;
 तुल ७२; २३; ७२; १^१; २; शि
 १, २०; ६, १९४; हे ९; कालि
 ४०३; ९; गी ५, ३; १०, ३;
 प्रमुख्यन्ते क २, ३, १४; वृ ४, ४,
 ७; शा २५; सिशि ३८०; ६;
 प्रमुख्ये गर्भ ४^१; प्रमुख्येव

सूता १, ४१.
 प्र-मुक्त- -क्तम् क १, १, ११.
 प्र-मुख्य क् ६, १४, २; ८, १३, २.
 प्र/मुद्, प्रमोदने शि ६, २; २६; ३०;
 ३३; १००; १८२; २४६.
 प्र-मुद्- -मुदः वृ ४, ३, १०^१.
 प्र-मुदा-
 प्रमुदि(ण>)ता- ता १संन्या
 २, ५७.
 प्र-मोद- -दः तै २, ५, १; ने ४, २२;
 १अव ३; वट १, २२.
 प्र/मुष्, प्रमोषीः मना २, ५१^१; १^१व
 ४४१; १; ४४६; ३; ४५१;
 ३; ४५४; १०.
 प्र/मुह
 प्र-मूढ- -ढाः सुं १, २, १०; मिशि
 ३८०; ५.
 प्र/मृज्
 प्र-मृज्य वृजा ३, २६; पा ६, ६.
 प्र/मृण्
 प्र-मृणत्- -णत् वृ ६०: १५^१.
 प्र/यच्छ, यम् दाने, प्रयच्छति वृ १,
 ५, २; ६, ४, १९; २७; ने ३, ५०;
 ७३; त्रिवि ८, १५; रार २, ८७;
 योशि २, ३; महा ५, ८१; इ १३;
 ६; १७; १; शि ६, २४३; ७, २;
 ७३; ९६; गी ९, २६; प्रयच्छन्ति
 सु २, २, १२; २प्र ३५; १९^१; १;
 सांका ३६; प्रयच्छ नाप ४, ३८;
 त्रिवि ८, १७; इ ७; ८; १संन्या
 २, ६; प्रायच्छन् वृ १, ५, १; २;
 ३, ३, २; मैत्रि ६, ३३^१; वृपू २,
 १; ह९; गक १; व ४६५; ३;
 प्रायच्छम् कौ ३, १९^१; प्रयच्छेन्
 क् ५, २४, ४.
 प्रयच्छि कौ २, ११^१.

प्र/यज्
 प्र-याज^१- -जाः प्र ४, १.
 प्र-यम्- १प्र ३.
 प्र/यन्
 प्र-यन्- -ञः नी २, २; -जम् नद
 ५६; श्वात् सोः २१^१; नी ६,
 ४५; -जेन मै ४, २, ३; मैत्रि ६,
 ३४; मैत्रे १, १, ५; वृजा ३, ६;
 नाप ३, ३; महा ४, २१; १०३;
 ५, ३३; योशि २, २१; अज ४,
 ५५; ७४; अना ११; योचू ७०;
 वरा २, २१; सु २, २, ६; ७, १५;
 ६३; सूता १, ४०; शि ५, ९; ६,
 २२४; भव १, ४२.
 प्रयज-जस् > नी ३, ४५; त्रिवि
 ४६; १योत ३३^१; महा ३, २१;
 योशि १, १०८; २, २; ६, ५९;
 योरा ११; शि ६, १९५; ७,
 ७१; ९९; भव ५, ११.
 प्रयज-जस्- -जान् मार २९; १: १.
 प्रयज-जैयिख्या-ज्य- -जन्त-
 ममापत्ति- -तिम्बाश् योद् २,
 ४५.
 प्र/यम् (नियमने)
 प्र-यत्- -तः क १, ३, १७; म २,
 २४; २शिसं २१; तैः म २, २६.
 प्रयत्(त-भा)यम्- -यमनः नी
 ९, २६.
 प्र/यच्
 प्र-यात्-
 प्रयात्-प्रवाहो(ह-उ)परम- -मे
 पित्र ५, ३.
 प्रयात्-प्राण-चिन्तन- -नात्
 यो १, ५०.
 प्र/या, > विवाह, प्रयाति मै ३, २;
 ४, ५^१; मैत्रि ५, २^१; कौ २, ५;

a) तैमा १०, ६४, १^१. b) 'प्रेति' इति शांका ६, १४। c) मा १६, ९। d) तैमा १०, १, १५।
 e) 'प्रमुञ्जामि' इति अख्या। f) निदादित्वम् डसं. (पा ३, ३, १०४)। g) तैमा ३, १५, १। h) ऋ १, २४, ११।
 i) ऋ १०, ८४, ३। j) पा. 'पृच्छन्ति' इति शोषः इ. (तु. गोत्रा १, १, २७)। k) 'प्रायच्छन्' इति शांका ५, १।
 l) ऋ ३, ३६, १०। m) पा ७, ३, ६२। n) अयं इति अख्या. संटि.।

शां १,४; पैर, ५१; महा ५, १२५;
१संन्या २, ३५; यो १, ६८; २,
३४; जाद ६, ३५; गी ८, ५; १३;
प्रयान्ति मुं १, २, ११; मै १, ५^४;
मैत्रि ६, १४; महा ६, २०; वरा
४, ३८; हे १४; प्रयातु १संन्या
२, ३५; प्रयान्तु शि ६, १५९;
प्रायात् महा २, २०.
प्रयास्यन्ति सु २९४ : १२.
प्र-थाण- -णम् योचू ९३.
प्रयाण-काल- -ले गी ७, ३०;
८, २; १०.
प्र-यात्- -यान्तम् शि ७, ३२.
प्र-यात्- -तः मै ३, २; मैत्रि ३, २^३;
६, ३०; -ताः मैत्रि १, ४^४; ७,
१०; वरा ३, २२; गी ८, २३;
२४.
प्र-यियासत्- -सन्तम् वृ ४, ३, ३८.
प्रयाग^०- -गम् जाद ४, ४९; शि ६,
१९२.
प्रयागा(ग-आ)दि-तीर्थो(र्थ-उ)क्त-
प्रायश्चित्त- -शत- -तैः राउ ५,
१९.
प्र/यु
प्र-युत्- -तम् २शिसं १३^{१०}.
प्र-युति^१- -ती मना २, ६०^{११}.
प्र/युज्, > योजि, प्रायुक्त नार १.
प्रयुज्यते अ ३; गी १७, २६.
प्रयोजयति सार २९२ : ६; प्र-
योजयेत् श्वे २, १०; भव ३, २३.
प्र-युक्त, क्ता- -क्तः अ १; गी ३, ३६;
-कम् अ १^३; -क्ताः, -क्तासु
प्र ५, ६.
प्र-युज्य गोउ ३.
प्र-युज्यमान- -नाः सार २९२ : ३; ४.
प्र-युज्जान- -नः अक्ष १६; दे २२;
भ १, ११^३; रुजा ३, १; ग १६; मवा

१२; इ १० : १६; १७^३; सिशि
३८३ : १४.
प्र-योग- -नेण अक्ष ४, ७३; नौः
अक्ष ४, ४४.
प्रयोग-बीज- -जानि व ४५६ :
३.
प्रयोग-विषय- -ये व ४३१ : ३.
प्रयोग-स्थ- -स्थम् मैत्रि ६, ९.
प्र-योग्य- -ग्ये छां ८, १२, ३.
प्र-योजक- -कम् योसू ४, ५.
प्र-योजन- -नम् ते ६, १०; पै ४,
९^३; सु २, १, १^३; सांका ६६.
प्रयोजन-वत्-
प्रयोजनवत्-स्व- -त्वात् ब्रसू
२, १, ३२.
प्रयोजना(न-अ)भाव- -वात्
ब्रसू ३, ३, १४.
प्रयोजना(न-अ)र्थ- -र्थम् रुह
१५.
प्र/रुह्, प्ररोहति वृ ३, ९, २८, ४;
६; प्ररोहेयुः छां ५, २, ३; वृ ६,
३, ७-१२.
प्र-रुह- -ढम् पा ८, ४.
प्र-रोहण- -णम् वरा ३, २४.
प्र-रोह(त्)>न्ती- -ऽन्ती मना
१, ७; व ४६४ : ५.
प्र/लक्ष् > लक्षि, प्रलक्ष्यते अक्ष १^४.
प्र/लप्
प्र-लपत्- -पन् १संन्या २, ४७; गी
५, ९.
प्र/लभ्
प्र-लब्ध- -ब्धः नाप ५, २७.
प्रलम्बक^१- -कः व ४४६ : १०.
प्र/ली, प्रलीयते अ १; सुबा २; अक्ष
४, १९; सौ २, १५; सार २९२ :
१८; गी ८, १९; प्रलीयन्ते ना
१; सुबा २; मन्त्रि १८; त्रिवि

२, १६; ३, ४; सं ६; चू १८;
गी ८, १८.
प्र-लय- -यः अ १; त्रिवि ३, ४-६;
४, १२; गु २३; पिंन १, १४^{११};
गी ७, ६; ९, १८; -यम् त्रिवि ५,
७; गी १४, १४; १५; -ये त्रिवि ३,
४-६; शि १, ३०; ३१; ३३; २,
३१; ४, ५४; ५, २६; गी १४, २;
-येन १योत १०४.
प्रलय-काल-रौद्र- -०द्र लां
२१४ : ६.
प्रलय-महाप्रलय- -यौ पिंन
१, १४.
प्रलय-मास्त^१- -०त लां २१५;
१३.
प्रलया(य-आ)दिक- -कम्
(?कस्य^१) त्रिवि ३, २.
प्रलया(य-अन्त)>न्ता- -न्ताम्
गी १६, ११.
प्रलया(य-अ)वस्था- -स्थायाम्
सी ३५.
प्रलयो(य-उ)दय- -यौ महा ६,
२५; अक्ष ५, ४१; ४२.
प्र-लीन- -नः गी १४, १५; -नम्
गरु ६; ९; -नेषु गौ ३, ४.
प्र/लुभ्
प्र-लोभ-
प्रलोभ-दण्ड- -ण्डम् मैत्रि ६,
२८.
प्रलू(त्)>ता^१- -तानाम् गरु २३;
२४.
प्र/वच्, प्रोवाच मुं १, २, १३; तै ३,
१, १; छां ३, ११, ४; ८, ८, ४;
श्वे ६, २१; मना २, ५९^{११}; त्रिवि
८, १४; १८; पाशु १, २३; २२;
रुजा ३, १^३; पं १; २; गरु १; २ प्र ३६;
१०; कृपु १८; सार २४२ : १०;

a) 'प्रयाताः' इति मैत्रि १, ४। b) 'प्रयान्ति' इति मै १, ५। c) व्यु. ? = तीर्थविशेष-। d) वैप १ यद्।
e) मा १७, २। f) ऋ १०, ३७, १२। g) मा १३, २०। h) 'प्रहृदयते' इति अज्या.। i) व्यु. ? = राक्षसविशेष-।
j) पा. ? यनि. श्लोचः द.। k) व्यु. ?। l) तैआ १०, ६३, १।

प्र-वाहण^a - -णः छां १,८,१;२;८;
५,३,१; -णम् वृ ६,२,१; -णस्य
वृ ६,२,४.
प्रौढ(प्र-क)ढ-
प्रौढा-ढाअभ्र २,१३;५,८६.
प्रौढ-हीन- -नः ते ६,१४.
प्र-वाद्य- -द्यानाम् योचू ११५.
१प्रवाला^b - -लः पा ९,५.
२प्रवाला^c - -लम् सिशि ३८२:२१.
प्रवाल-मौक्तिक-स्फटिक-शङ्ख-
रजता(त-अ)ष्टापद-चन्दन-पुत्र-
जीविका(क-अ)ञ्ज-रुद्राक्ष-
-क्षाः अच् २०.
प्रवाला(ल-अ)ङ्कुर-सदृश- -शम्
सौ ३,१.
प्रवाला(ल-अ)ङ्कुर-संनिभ- -भम्
योरा ८.
प्र-वि/चर्, > चारि
प्रवि-चार-
प्रविचार-तस्(>:) शि७,११६.
प्रवि-चार्यं योशि १,५४; महा २,२.
प्रवि-चार्य- -र्यम् महा ४,२१; योशि
१,१५.
प्र-वि/चिन्त्, प्रविचिन्त्यताम् वरा
२,६४.
प्र-वि/जृम्भ्, प्रविजृम्भते अञ् ५,१०
प्र-वि/तन्, प्रवितन्त्यते महा ४,४७;
४९.
प्रवि-तत- -तम् ध्या ९३.
प्रवितत-सुख-पूर्ण-संविद्-
-वित् आबो २.
प्र/विद्(ज्ञाने), > वेदि, प्रवेद नापू ४,
१२९^d.
प्रवेदयते तै १,५,१; प्रवेदयन्ति
मुं १,२,९.
प्र-विद्दस- -द्वात् मवा ९९^e.
प्र-वि/नश्(अदर्शने), प्रविनश्यति

महा ४,४४; प्रविनश्यन्ति त्रिवि
१,२; ५,७; ८,१८.
प्र-वि/भञ्
प्रवि-भक्त- -क्तः विद्या २; -क्तम् गी
११,१३; -क्तानि गी १८,४१.
प्रवि-भज्य प्र२,३; ३,१; मै २,६; ९.
प्र-वि/भा, प्रविभाति त्रिवि ५,१०;
प्रविभान्ति त्रिवि ५,१०; ११.
प्र-वि/ली, > लापि, प्रविलीयते राउ
५,२३; अच् ३३; यो १,८०;
शां १,७,२५; पं २०; वरा ४,
१३; सु २,२,१७; गी ४,२३;
प्रविलीयन्ति मुं ३,२,२.
प्रवि-लापन- -नेन वरा २,६५.
प्रवि-लापित- -ते पै ३,१; अध्या
३९.
प्रवि-लाप्य पं २३; पप ४१८:२१;
२२.
प्र-वि/विच्
प्रवि-विक- -क्तम् गौ १,४.
प्रविविक्त-भुञ्- -भुक् मां ४;
गौ १,३; वृपू ४,५; योचू ७२;
राउ ३,१; वउ १,७; ५,३४.
प्रविविक्ता(क-आ)हार-
प्रविविक्ताहार-तर- -रः वृ
४,२,३.
प्र/विश, > वेशि, प्रविश्यति यो २,
४२^f.
प्रविशति क १,१,७; प्र १,६;
छां १,४,५; कौ १,५^g; वृजा ८,
६; वृपू ५,२०; वृउ ७,११;
त्रिवि ८,५; ह १२; वउ ५,२८;
पिञ्ज ३,४; प्रविशन्ति वृ ४,४,
१०९^h; गौ ४,४९; ५४; आरु ५;
वृजा ८,६; त्रिवि ८,५; योशि
६,३४; १अव ७ⁱ; ई ९; १२;
भव १,४३; गी २,७०^j; प्रविश

तै १,४,३; प्रविशत ऐ २,३;
प्रविशानि तै १,४,३; प्राविशत्
ऐ २,४^k; तै २,६,१९^l; मै २,६;
मैत्रि २,६; अशि १,३^m; जाद
४,४४; प्राविशन् ऐ २,४ⁿ; छां
१,४,२,३; प्रविशेत् मैत्रे १,४;
१२; १योत ८२; ८३^o; योशि
१,८६; १२२; ६,७४^p; यो ३,
९; १२^q.
प्रविवेश छां ५,१,८-११; वृ ६,
१,८-१२; कौ २,१४^r; त्रिवि
८,५.
प्रवेशय व ४६४: १६९^s; प्र-
वेशय-प्रवेशय व ४३१: २२^t;
२३.
प्र-विशत्- -शस्त्वु पित्र ३,४.
प्र-विश्य क २,१,६; ७; छां १,४,
४; ५; कौ २,१२; १३; वृउ ९,
८; नि १५; नाप ४,३८; त्रिवि
६,२३; २४; पै १,३१; २,२५;
२७; २९; ४४; योशि ६,३४^u;
पाशु २,१२; वरा ४,१; प्रविश्य-
प्रविश्य व ४५७: १५.
प्र-विष्ट,ष्टा- -ष्टः क २,२,९; १०;
वृ १,४,७; ४,४,१३; वृजा २,
१; मैत्रि ५,२; जाद ४,४३;
गोपू १६^v; या २,४; सार २२७:
१०; २९०:२१; -ष्टम् अद्वै २७;
-ष्टस्य १योत ९४; -ष्टा व्या ७९;
योचू ५२; योशि ५,४०; -ष्टाः
-ष्टान् मैत्रि ६,१०; -ष्टे यो २,४३;
-ष्टौ क १,३,१; ब्रम् १,२,११.
प्रविष्ट-चित्त- -क्तः सार २९०:
१७; २२.
प्र-वेश- -शम् कर १; कश्च २,३;
-क्षे जा ५; या २,१; -क्षेन योशि
६,३६.

a) = ऋषिविशेष- । b) व्यु? । c) °ञ्जे रुद्रा° इति निसा. । d) ऋ १०,७१,६ । e) तैआ ३,१२,७ ।

f) 'प्रपश्यति' इति अच्चा. संटि. । g) मा ४०,१२ । h) तैआ ८,६,१ (उ. सस्य. टि. अनु) । i) संप्रा° इति अच्चा ।

j) तैआ ४,३९,१ । k) 'प्रविश्यन्ति' इति अच्चा. । l) 'प्रतिष्टः' इति आन. ।

प्र-व्रजन- नम् पै ४, ५.
 प्र-व्रजित- -ता: शि ५, २२.
 प्र-व्रजिष्यत्- -व्यन् वृ ४, ५, २.
 प्र-व्रज्य नाप ५, ३६.
 प्र-व्रज्या-
 प्रव्रज्या-(ज्या>)ज्य- -ज्यम्
 मैत्रि ६, २८^a.
 प्र-व्राजिन्- -जिन: वृ ४, ४, २२.
 प्र/शंस्, >शंसि, प्रशंसन्ति वृ १, ५,
 १६; ३, ८, ९; मना २, ७८^b; इ
 १५: २१.
 प्रशाशंस वृ ३, ३, २; प्रशाशंसतु:
 वृ ३, २, १३^c.
 प्रशास्यते गौ ३, १३; त्रिवि ८,
 ११; शि ५, ६.
 प्रशासयेत् सू ३१.
 प्र-शांसा- -स्या सुवा ९; -सा वृ १,
 ५, २; सांसू १, ९५.
 प्रशांसा-काम- -मा: छां २, ९, ३.
 प्र-शास्त, स्ता- -स्ता नापू ५, ३५;
 -स्ताम् हे १; -स्ते नाप ५, ८^d;
 गी १७, २६; -स्तै: शि ४, ४९.
 प्रशास्त-गोमय- -यम् वृजा ३, १.
 प्र-शास्ति- -स्तिम् सर २, १०^e.
 प्र/शाम्, >शाम्, प्रशाम्यति त्रिब्रा
 २, १६३; २अव ३३८: ४.
 प्र-शाम- -मम् महा २, १५; ३०;
 अन्न २, ३२; अक्षि ३१; वरा
 ४, १२.
 प्र-शान्त- -न्त: ब्रवि १०१; अध्या
 ६८; शा १८; -न्तम् कै १, ६; ७;
 मं १, ४, १; शां २, १; महा ४,
 ९^f; -न्तस्य अना १५; शि ७,
 १३०; गी ६, ७; -न्ता: मुं ३, २,
 ५; सार २८३: १०; -न्ताय सिशि
 ३८३: ११; -न्ते महा ४, ५४.

प्रशान्त-कलना-रम्य- -रम्यम्
 महा ६, ७२.
 प्रशान्त-धन-वास(ना>)न-
 -नम् अन्न ५, ४८.
 प्रशान्त-चापल- -लम् अन्न ५,
 ६०.
 प्रशान्त-चित्त- -त्ताय मुं १, २,
 १३.
 प्रशान्त-धी- -धी: अन्न ५,
 ११४; महा ६, ७.
 प्रशान्त-मनस- -नसम् गी ६,
 २७.
 प्रशान्त-वाहिन्-
 प्रशान्तवाहि-ता- -ता योसू
 ३, १०.
 प्रशान्त-वृत्तिक- -कम् सु २, २,
 ५४.
 प्रशान्त-सकले[?लै^g(ल-ए)]-
 ष(णा>)ण- -ण: महा ६, ८२.
 प्रशान्त-सर्व-संकल्प- -ल्पम्
 अन्न ५, २३.
 प्रशान्ता(न्त-अ)खिल-भूत-
 भीति- -ति: महा ६, ४०.
 प्रशान्ता(न्त-अ)ग्नि- -ग्नौ नाप
 ६, ६^h.
 प्रशान्ता(न्त-आ)त्मन्- -त्मा ते
 ४, ३३; नाप ६, २५; ३६; अन्न
 ५, ९; गी ६, १४.
 प्र-शाम्य(त>)न्ती- -न्त्याम् शां
 १, ७, ३२.
 प्र-शाखा- -ख्या मैत्रि ७, ११.
 प्र/शास्, प्रशास्ति वृ ५, ६, १; प्र-
 शाष्वम् २प्र ३६: १३.
 प्र-शासन- -नम् छां ५, ३, ७; -नात्
 ब्रसू १, ३, ११; -ने वृ ३, ८, ९ⁱ.
 प्र-शासितृ- -तारम् भव २, ४३.

प्र-शास्तृ- -स्ता सुवा ५.
 प्र-शिष्- -शिष्यम् वृपू २, १६;
 २शिसं ३४.
 १-२प्रश्न- ✓प्रच्छ द्र.
 ३प्रश्न^b-
 प्रा(शन>)क्षी^c-
 प्राक्षी-पुत्र- -त्र: -त्रात् वृ ६, ५, २
 प्र/श्रि
 प्र-श्रय- -येण सार २४३: १४.
 प्रश्रया(य-अ)वन(त>)ता- -ता
 सार २२०: २२; २४३: ४; २६८:
 २०; -ता: सार २३४: १५;
 २४२: ९.
 प्र/श्वस्
 प्र-श्वसितव्य- -व्यम् तै १, ११, ३.
 प्र-सं/कुच्
 प्रसं-कोच- -चे त्रि १५.
 प्र-सं/ख्या
 प्रसं-ख्यान- -ने योसू ४, २८.
 प्र/सञ्ज्, प्रसाङ्क्षी: छां ४, १, २.
 प्रसज्यते गौ ४, १३; ते ५, २०;
 प्रसज्येरन् नाप ४, १६.
 प्र-सक्त- -क्ता: गी १६, १६.
 प्र-सङ्ग- -ङ्ग: ते ५, १५; वरा २, ७३;
 -ङ्गात् शि ६, १८५; -ङ्गेन नाप ३,
 ३६; शि ६, १९३; गी १८, ३४.
 प्र-सत्^d-
 प्रसत्-वत्^e- -वान् बा २५.
 प्र/सद्, >सीद्, सादि, प्रसीदति क
 २, ३, १३; रापू १, ११; १३; राळ
 ५, २८; महा ५, ६६; अक्षि १८;
 रुजा २, १५; सूता ५, २; वृष
 ८५: ९; शि ७, ७९; भव १, ५१;
 प्रसीदन्ति यो २, २३; भव ४,
 १८; प्रसीदतु श २५; प्रसीद्
 वृ ९, १९; शु १, ९; गोपू ४३^f;

a) °बृ° इति सात. । b) तैश्चा १०, ६२, १ । c) 'प्रशास्तवर्णानाम्' इति श्रव्या. । d) अ २, ४१, १६ ।
 e) पा? यनि. शोष: द्र. (तु. श्रव्या.) । f) °न्तेऽग्नौ इति श्रव्या. । g) अ १०, १२१, २ । h) व्यु? =गोत्रप्रवर्तक-
 ऋषिबिंशे- । i) भाप. । अर्थ: व्यु. च? (तु. वैपश् सुत्वन्- इत्यत्र प्रकृत्यंशः) । j) वैतु. बाटी. =साक्षिण-
 वे. =प्रसति- ।

प्र-सूति- -ति: मैत्रि २,६; ६,१०;
मना १,१९^०; ए३; -तिम् गौ १,८.
प्र/सू, > सारि
प्र-सरण- -ण: आर्षे ९: १३.
प्र-सरत्- -रति अक्ष ४,९.
प्र-सार- -र: वपू २,५.
प्र-सारित, ता- -त: १योत ११४; पै
१,९; -त्तम् योचू ६६१^०; -त्ता सार
२६९: १४; -त्ता: सार २३७: १२.
प्रसारित-लता- -ता: सार २३७:
६.
प्र-सार्यं १योत ११२; त्रिब्रा २,४४;
५०; शां १,३,५; ७,४३; यो १,
६६.
प्र-सत्, ता- -त्तम् मुं २,२, ११; पा
८,७; -त्ता शां २,१; श्वे ४,१८;
सार २६९: २२; सु ६१; गौ
१५,४; -त्ता: पा ८,१०; गौ १५,२.
प्र-सूति-
प्रसूति-दिक्-काल-बाह्य-
-ह्यम् महा ४,४२.
प्र/सूप, प्रसर्पति योशि ५,२३^०.
प्रसेदिवस्- प्र/सद् द्र.
प्रस्कृत्व^०- -णव: सूता १,२८.
प्र/स्कन्द, प्रस्कन्दन्ति प्र १,१३.
प्र/स्खल्
प्र-स्खल(त् >)न्ती- -न्तीम् पा
६, ६.
प्र/स्तम्भ
प्र-स्तम्भ- -ब्धम् वृ ६,३,४.
प्र/स्तु, ९^० प्र... स्तवते वृपू २, १३;
नापू ४,१०.
प्रस्तौति, प्रस्तुयात् वृ १, ३,
२८.

प्रस्तोष्यसि छां १,१०,९; ११,
४; प्रास्तोष्य: छां १,११,५.
प्र-स्ताव^०- -व: छां २,२, १; २;
३-८, १; ९, ३; १०-२१, १; -वम्
छां १,१०,९; ११,४; ५.
प्रस्ताव-भाजिन्- -जिन: छां २,
९, ३.
प्र-स्तु(त् >)ता- -ता: मै ५, ५^१;
मैत्रि ६, ५.
प्र-स्तुति-
प्रस्तुति-काम- -मा: छां २,९, ३.
प्र-स्तोतृ^०- -०त: छां १, १०, ९;
११,४; -त्ता छां १,११,४; वृ १,
३, २८; प्रा ३, १; ४, १; -तारम्
छां १,१०,८.
प्र/स्तृ
प्र-स्तर- -र: सी ४.
प्र-स्तार-
प्रस्तार-पङ्क्ति^०- -ङ्क्ति: सौ
१, १.
प्र/स्था, > तिष्
प्र-तिष्ठमान- -ने प्र २,४^०.
प्र-स्थ^०- -स्थौ गर्भ ५.
प्र-स्थित- -त: शि ६, १९३.
प्र/स्पन्द, प्रस्पन्दते अक्ष ४,४२.
प्र/स्फुर, प्रस्फुर-प्रस्फुर वपं ३१२:
४; व ४५८: १.
प्र-स्फुरत्- -रन्तम् गोड ५९^१.
प्र/स्यन्द
प्र-स्यन्दिन्- -न्दि वृ ३, ९, २८, २.
प्र/स्वप्, प्रस्वपिति वृ ४, ३, ९^१.
प्र-सुप्त-
प्रसुप्ता- -सा ध्या ६६; योचू
३८; शां १, ७, ३७; यो १, ६५.

प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नो(व-ल)-
दार- -राणाम् योसू २,४.
प्र/स्विद्
प्र-स्वेद- -द: १योत ५१; जाद ६,
४३.
प्रस्वेद-जनक- -क: जाद ६, १४.
प्रस्वेद-जनन- -नम् त्रिब्रा २,
१०४.
प्र/हस्
प्र-हसत्- -सन् गौ २, १०.
प्र/हा(त्यागे), प्रजहाति वरा ४, २८;
गी २, ५५; प्रजहिहि गी ३, ४१^१.
प्रहास्यसि गी २, ३९; प्रहासी:
ऐ कौ नाद आबो निर्वा सुद्र अक्ष
त्रि सौ सर ब शां ९^१.
प्र/हि, प्रहिणोति श्वे ६, १८; श २;
प्रहिणोतु पा ८, ४; प्राहिण्वन्
पा १, ३; प्रहिणुयात् कौ २, ३.
प्रजिघाय कौ १, १९^०.
प्र-हित- -तानि रापू ३, १.
प्र/हु, प्र... लुहति वृ १, ५, २.
प्र-हुत^०- -तम् वृ १, ५, २.
प्र/हृ, प्रहरन्ति इ १३: २; पा ९, १;
प्रहर-प्रहर व ४३५: १०.
प्र/हृष, प्रहृष्यति गी ११, ३६; प्र-
हृष्येत गी ५, २०.
प्र/ह्लाद्
प्र-ह्लाद^०- -द: गी १०, ३०.
प्रह्लादा(द-आ)दि- -दीन् कौ
३, १^१.
प्रह्लादा(द-आ)ध- -धा: रार
१, २.
प्र-ह्लादि(न् >)नी^०- -नी गार
४०७: १७.

a) तैआ १०, १, १। b) °स° इति निसा. यनि. शोष: (तु. अज्या.)। c) °ते इति अज्या.। d) व्यु: = अशिविशेष-। e) ऋ १, १५४, २। f) 'प्रस्तोता' इति मुपा. यनि. सु-शोष: (तु. नाउ.)। g) = अश्वित्विशेष-। h) = अन्दोविशेष-। i) = परिमाणविशेष-। j) 'प्रस्फुरत्' इति आन.। k) तु. शं. प्रम्.। यदा प्र/हन् > प्रजहि इति कृत्वा 'हि' इति पृथक् पदम् (तु. गी ३, ४३)। l) ऐआ २, ७, १। m) शांआ ३, १ (तु. वैप २, ६९७ टि.)। n) 'प्रह्लादि-> -दीन्' इति निसा., अज्या.; 'प्रह्लादीय-> -यान्' इति आन.; 'प्रह्लादीया-> -याम्' इति शांआ. [५, १ (वैतु. संटि. पा.)] मुपा. यनि. सु-शोषा: (तु. आन. संटि.)। o) = देवीविशेष-।

प्र/हृ

प्र-हृ- -ह्रैः रार २, ४६.

प्राकृत्य- प्र/कृ द्र.

प्राकाश्य- प्र/कम् द्र.

प्राकार- प्र/कृ द्र.

प्राकाश्य- प्र/काश् द्र.

प्राकृत- प्राकृतिक- प्र/कृ द्र.

प्राचुर्य- प्रचुर- द्र.

प्राजापत्य- प्र/जन् द्र.

१-२प्राज्ञ- प्र/ज्ञा द्र.

प्रा(प्र/अ)ञ्च्

प्रा(प्र-अ)ञ्च्- प्राक् क २, ३, ४;

छां २, ९, ६; ७, ७, ३, ७; गौ ३,

१, १४; आरु ५; मैत्रि ५, २, ६;

१५; १७; वृजा ४, ९; त्रिवा २,

९२; राष्ट्र ३, २; ४, ६५; शां १,

७, १; महा ५, १२; अक्षि ४५;

अध्या ४०; म २, २; वरा २,

५१; शि ६, २४८; २५१; भव २,

५८; वड ६, ४७; गौ ५, २३;

प्राङ् छां ३, १३, १; ४, ६-८, १;

६, १४, १; १योट १४१; ना ६;

प्राञ्जः छां ३, १, २; वृ ४, २, ४;

अशि १, ४; ४, १७; वटु ३१६;

९; प्राञ्जम् वृ ६, ४, २.

प्राची- -ची छां ३, १५, २; ४,

५, २; वृ १, २, ३; ४, २, ४; -चीम्

प्र १, ६; १संन्या १, १; शा १८; २प्र

३२: ११; कश्रु १, १; -च्यः छां २,

४, १; ३, १, २; ६, १०, १; वृ ३, ८,

९; -न्याम् वृ ३, ९, २०; वृजा ३,

१८; म २, १८; नाप ४, ३८; व

४३८: २१; ४४४: २; ४४९: १५

प्राच्या(ची-आ)दि- -दौ

पी ४२२: ७.

प्राच्यादि-दिश-

-दिशः मैत्रि ६, १७.

प्राक्-कर्म-निमित्त- -नम् अक्षि २२.

प्राक्-कर्म-फल-पाक- -केन पै २, ४९.

प्राक्-जन- -नः तु २, २, ५; -नम् अक्षि २५; शि ७, १०९: १११;

-नानि वरा ३, २२.

प्राक्-परोक्ष- -श्रम् पै ३, १.

प्राक्-पुण्य-कर्म-वश- -शान् नाप ५, १.

प्राक्-पुण्य-कर्म-विशेष-

-पान् १संन्या २, १३.

प्राक्-प्रणीत- -नम् १संन्या २, ६५; ६७.

प्राक्-प्रवण- -णे वड ६, ४७.

प्राक्-शिरस्- -राः वृ ६, ३, ६.

प्राग्-गुण- -णेन राष्ट्र ३, २.

प्राग्-दल- -ले नाप ६, १.

प्राक्-सुख- -स्वः शां १, ५:

जाद ५, ५; भाव २; २प्र ३३:

१६; सूत १, २४; शि ७, ६३;

-स्वम् शि ४, ५; -स्वाः इ १५: १.

प्राचीन-

प्राचीन-योग^१-

प्राचीनयोग^१- -ग्य

पै १, ६, २; छा ५, १३, १.

प्राचीनयोगी-

प्राचीनयोगी-

पुत्र- -त्रः, -त्रात् वृ ६, ५, २.

प्राचीन-ज्ञात^१- -लः छां

५, ११, १.

प्राचीना(न-आ)तान- -नम्

कौ १, ५.

प्राचीना(न-आ)वीत-

प्राचीनावीतिन्- -तिना

शि ५, ५०; -नी शि ५, ५१.

प्राच्य- -न्यान् प्र १, ६.

प्रा(प्र-अ)ञ्च्, > जलि, प्राञ्वा-
लात् छं ६, ३, ६; प्राञ्चल्येन

छां ६, ७, ५.

प्रा(प्र-अ)ञ्चि- -लयः गौ ११, २१;
-लिः १योट ३६; त्रिवि १, ४;

८, १७; अक्ष १, १०; जाद १, २.

प्राञ्जली/कृ

प्राञ्जली-कृत-

प्राञ्जलीकृत-दो(प्र) > र-

युग्म- -नम् गद ७.

प्रा(प्र-अ)ण, प्राणितिके १, ८; छां १,
३, ३; वृ १, ५, १; २; ३, ४, १; वी

२, ५; गा ६; २१; प्राञ्चान् तै

२, ७, १; वृ १, ५, २३.

प्राण^१- -गण प्र २, ७; ९-११; -णः

के शां^१; १, १, २; ८; प्र १, ५;

७; ८: १२; १३; २, ३; ३, १; ३-५;

८: १०; ४, ३; ८; सुं १, १, ८; २,

१, ३; ४, २; २; ३, १, ४; १; तै १,

५, ३; ७, १; २, १; ३, १; ३, ३,

१; ७, १; ऐ १, ४; २, ४; छां

शां^१; २, १, ५; २, ७; ३, ३; ६;

५, ३; ७, १; ८, ४; ११, ५; १३,

२; २, ७, १; ११, १; ३, १३, १;

१५, ४; १८, २; ४; ४, ३, ३; ४;

८, ३; १०, ४; ५; १३, १; ५, १,

१; १२: १५; ७, १; १४, २; १८,

२; १२, १; ६, ५, २; ४; ६, ३; ५;

७, १; ६; ८, ६; १५, १; २; ७,

१५, १; ४; २६, १; ८, १२, ३;

वृ ६, १, १; २; ३, ३; ७; ११^१;

२३; २७; ४, ७; १७; ५, ३; ४-७;

१०^१; १२; १३; २०^१; २१; २२;

६, ३; २, १, १०; १७; २, १^१;

a) इः प्र. उर्स. (पा ३, २, ४८) । b) उत्तरेण संविरार्षः । c) तु. टि. प्रतीचीन- । d) =गोत्रप्रवर्तक-
ऋषिविशेष- । e) पा ४, १, १०५ । f) =ऋषिविशेष- । g) पा ४, २, १०१ । h) वैतु. निसा. 'ञ्च', आन. 'ञ्चाली'
इति । यत्तु कर्मणि 'ञ्चाली' (= 'लि') इति कृत्वा सं. चिष्णन्तं पाठे. अप्यन्वमन्वत, तच्चिन्त्यम् । i) 'प्राणिन्-> -णि'
इति वृ ५, १४, ३ । j) 'प्राणः' इति निसा. ? । k) पाठ ३, १५, २३ ।

३,५; ५,४; ३, १, ५^३; १०; २,
२; १३; ७, १६^३; ९, ८; ९;
२६; ४, १, ३^३; ४, २; ७; ५, ८,
१; १२, १^३; १३, १^३; २; ३,
४^३; १४, ३; ४; ६, १, १; १३;
२, १२; गौ १, ६; २, २०; मै
शां^३; २, ६; ७; ५, १^३; ५^३;
८^३; मैत्रि २, ६^३; ४, ५; ६, १^३; ५^३;
८^३; ९^३; ११; १३^३; १९^३; ३१;
३३^३; ३५; ७, १; ७; मैत्रे आरु
शां^३; कै १, ८; १५; जा ४^३;
गर्भ ३; ना १; मना २, १५^३;
७२^३; ८०^३; ब्र १^३; २^३; अना
२६; ३३^३; ३५; अशि ६, ८^३;
कौ १, ५; २, १; २^३; ३; १२^३;
१३^३; १४; ३, २^३; ३^३; ४^३; ७;
९; ४, १९; नृपु ४, १५, २७; सुवा
१^३; ४; मन्त्रि १२; ससा ६;
ते ६, ३४; ध्या ४७; ५६; ६०;
ब्रवि १४^३; ६६; १योत ६५;
११९; नाप ३, ७७^३; त्रिवा १,
१; २, ५४; ७९; ८३; ८४; ११७;
११८; योचू शां^३; ११; २३;
३०; १००; रार ५, ४; रापू ४,
६३^३; राउ ४, १२; शां १, ४^३; १,
७, १२; महा शां^३; १, १; योशि
१, ६०; ६१; ६४; १०६; ११२;
१६२; ६, ३६; ५३; पप ४१८: ९;
ए ३; अन्न ४, ४२; ५, २५^३; २९;
३१; ३२; सू १६; पाशु २, ८; कर्
२०; यो १, १४; १९; ४७; ५०;
५२; जाद शां^३; ४, २३; २५;
४२; ४३; ४६; ४७; ६, १७^३; ३५;
१०, ४; १संन्या अन्य कुं सवि

रुजा जाबा शां^३; प्रा १, ६;
४, १; या १, १; वरा ५, ५४;
सौ २, १५; सु २, २, ५१; इ
११: ३; पा ५, ६; लि ३१०:
१५^३; कालि ४०३: ८; गा ५;
चू १२; वपू १, २; ब्रसू १, १,
२३; २८; -णम् क २, २, ३;
प्र १, ४; १३; २, ४; ३, ८; १०;
११; ६, ४; तै २, ३, १^३; ३, १, १;
३, १; छां १, २, २; ११, ५^३; ३,
१५, ३; ४; ४, ३, ३^३; १०, ५; ६,
८, २; ७, १५, १; वृ १, ३, ३; ७;
१३; ५, ३; १४; ३, ७, १६; ४, ४,
२; १८; मैत्रि ६, १९; २५; जा
४^३; मना २, ४७^३; ७०^३; अ
३^३; कौ २, ४; ५; १३^३; १४^३;
१५^३; ३, २; ६; सुवा ९^३; १५;
ध्या ६९; नाप ३, ७७^३; त्रिवा
२, १३९; १४०; योचू ३०; ४०;
९५; ९८; त्रिवि ७, ४८; शां १,
४; ७, १; १३; ४३; ४४; पै १,
२२; २, ९; योशि ६, ३५; ५३;
पप ४१८: ९; १२; यो १, २७;
३२; ४४; ५३^३; जाद ५, ७; ८; ६,
२२; या १, १^३; दत्ता १, ६;
२प्र ३२: १४; गी ४, २९; ८, १०;
१३; -णस्य के १, २; प्र २, १३;
३, १२; छां १, ८, ४; वृ १, ५,
१०; १३; ४, १, ३^३; ४, १८; मैत्रि
६, १३; कौ २, १^३; २; नृउ २,
२; ३; नाप ३, ४; ५, १; योशि
५, ३७; वरा ५, ५४; योसू १,
३४; -णा: प्र ४, ११; सुं २, १,
८^३; तै १, ५, ३; छां ३, १२, ३;

४; १६, १-६; ५, १, ६; ७; १५;
७, ४, २; १०, १^३; वृ १, २, ६; ५,
१७; २१; २, १, २०^३; २, ३^३; ३,
६; ५, १५; ३, २, ११; ९, ४; ४,
२, ४^३; ३, ३८; ४, १; २; ६; ५,
१४, ४; ६, १, ७; मैत्रि ६, १२;
३२; ३५; ३७; मना २, १२,
१^३; २, २९^३; ७९^३; ब्र २;
अशि ३, ८; कौ १, ६; ३, २^३;
३^३; ४, १९; नृपू १, ८; वृउ
५, १-३; सुवा ३; ४; आबो २०;
त्रिवा १, ८; प्रा १, ६^३; ऋपू २४;
पा ५, २; वट ३१५: ८; गा १४;
भव १, ३५; पिब्र ६, ६; ब्रसू २,
४, १; -णात् प्र ६, ४; तै ३, २, १;
ऐ १, ४; वृ १, ५, २३; २, ३, ४;
३, ७, १६; ५, १२, १; जा ४; ध्या
६०; वउ ३, ४९; -णात् प्र १,
६^३; ३, ४; छां १, २, ९; ५, ४, ५,
१, १२; वृ २, १, १८; २, ३^३; ५,
१४, ४^३; ६, १, १३; ४, २४; श्वे
२, ९; मैत्रि ६, ११; २६; हं ६;
मना २, ३८^३; अशि ४, १^३;
१५^३; अ १^३; वृ ५, ९; ब्रवि ७४;
ते ३, ५३^३; त्रिवा २, १९; १०९;
योचू ९२; सुद्र ४; पै २, ४८; ३,
१; ४, ५; योशि ६, ७; यो २, ४५^३;
सूता १, २५; वट ३१५: १६;
३१६: ८; शि ७, २८; गा १५;
भव ३, २६; गी १, ३३; ४,
३०; -णानाम् प्र १, १०; छां ३,
१६, २; ४; ६; ७, ४, २; वृ १,
५, २२; २, १, १७; मना २,
७४^३; कौ ३, २; अन्न २, ३२;

a) पायू ३, १५, २३ । b) तैत्र्या १०, १४, १ । c) शौ १९, ६०, १ । d) तैत्र्या १०, ६४, १ । e) शौ १०, २,
२७ । f) सकृत् 'प्राणः' इति अज्या. संटि. । g) ऋ १०, ९०, १३ । h) सकृत् 'तेजः (इजः)' इति अज्या. । i) = यकार-
बीजान्तर- । णामः इति निसा. यनि. शोषः द्र. (तु. आन., अज्या.) । j) प्राणं इति अज्या. संटि. ।
k) तैत्र्या ३, ७, ७, २ । l) तैत्र्या १०, ३६, १ । m) णाम् इति अज्या. संटि. । n) तैत्र्या १०, १०, १^३ । o) तैत्र्या १०,
२२, १ । p) तैत्र्या १०, ६३, १^३ । q) 'प्राणौ' इति आन., अज्या. । r) तैत्र्या १०, ४८, १ । s) 'सर्वं शरीरम्' इति
अज्या. । t) 'लोकान्' इति अज्या. । u) 'प्राणीन्' इति अज्या. । v) णम् इति अज्या. संटि. । w) तैत्र्या १०, ३७, १ ।

प्राण-वृत्ति- -त्तयः पै २, १०.
 प्राण-वेग- -नेन यो १, ७०.
 प्राण-शक्ति- -स्त्या ब्रवि ७०.
 प्राण-शरीर- -रः मै २, ९; मैत्रि २, ६.
 प्राणशरीर-नेतृ- -ता सुं २, २, ७.
 प्राण-संयम- -मः ते १, ३३; १योत २४; त्रिब्रा २, ३०; २अव ३३७ : ६.
 प्राण-संयमन- -नम् ते १, १६; -नेन जाद ६, १२.
 प्राण-संयाम- -मैः शां १, ७, ९.
 प्राण-संरोध- -धः ध्या ४१; योचू २; योरा २.
 प्राण-संरोधन- -नम् अन्न ४, ४५.
 प्राण-संशित- -तम् छां ३, १७, ६.
 प्राण-संस्पर्श- -शेन मैत्रि ६, २६.
 प्राण-संक्रमण- -णम् जाद ४, ४१.
 प्राण-संग्रहण-क्षम- -मः योचू ९४.
 प्राण-संज्ञा- -ज्ञः जाद ४, २५; २६; ४४.
 प्राण-संज्ञक- -कः मैत्रि ६, १९.
 प्राण-संचारि(न् >)णी- -णी मैत्रि ६, २१.
 प्राण-संतति- -तिः अन्न ३, १०.
 प्राण-संधारण- -णम् तुअ १४.
 प्राणसंधारणा(ण-अ)र्थ-
 -र्थम् जा ६; नाप ३, ८६; १संन्या १, १; पप ४१९ : १४; या २, १; मि १३; कथु १, १.
 प्राण-समृद्ध- -द्धः मैत्रि ६, ११.
 प्राण-स्थान- -नम् यो १, ६५.
 -नानि त्रिब्रा २, ८०; -ने जाद ४, २८.

प्राण-स्थापन-
 प्राणस्थापन-जीवन-वर्षण-
 गुप्त- -सानि वउ ६, ४०.
 प्राण-स्पन्द- -न्दः शां १, ७, २८; ३६; अन्न ४, ८७; सु २, २, २६; -न्देन अन्न ४, ४३; सु २, २, ४९.
 प्राणस्पन्द-जय- -ये अन्न ४, ८९.
 प्राणस्पन्द-निरोध- -धात् अन्न ४, ८६.
 प्राणस्पन्द-निरोधन- -नम् सु २, २, ४५.
 प्राण-स्पन्दन-
 प्राणस्पन्दन-पूर्वक- -कम्^१ महा ६, ७.
 प्राणस्पन्दन-वासना- -ने अन्न ४, ५४; सु २, २, २७.
 प्राण-हर्तृ- -र्ता भव १, ३५.
 प्राणा(ण-आख्या >)ख्य- -ख्यः मैत्रि १, १.
 प्राणा(ण-अ)ग्नि- -अयः प्र४, ३.
 प्राणा(ण-अ)ग्नि-होत्र- -त्रम् शि ४, ६७.
 प्राणा(ण-आ)र्त्मन्- -स्मने गोउ ६४^१.
 प्राणा(ण-आत्मक >)त्मिका-
 -का पाशु १, ४.
 प्राणा(ण-अ)स्थय- -ये ब्रसू ३, ४, २८.
 प्राणा(ण-आ)दि- -दयः मैत्रि ६, २६; ३१; ते ४, ८; जाद ४, २५; वरा १, ३; ब्रसू १, ४, १२; -दि लि ३११ : १; ब्रसू २, १, २०; -दिः ससा १, २१; -दिभिः गौ २, १९; -दीनाम् अना ३६.
 प्राणादि- -चतुर-दश-वायु-
 भेद- -दाः ससा १, १२.
 प्राणादि-पञ्चक- -कम् त्रिब्रा

२, ७८.
 प्राणादि-पञ्चवायु- -युः
 ध्या ९५.
 प्राणादिपञ्चवायु-मनो-
 बुद्धि- -द्धिभिः योचू ७२^०.
 प्राणादिपञ्चवायु-मनो-
 बुद्धि-चित्ता(त्त-अ)हंकार- -रैः योचू ७२.
 प्राणादि-वायु- -यवः त्रिब्रा २, ७८.
 प्राणादि-रूप- -पम् योशि १, ९०.
 प्राणादि-स्पन्दन- -नम् अन्न ४, ४३.
 प्राणाद्य(दि-अ)निल-संज्ञा-
 न्ति- -न्तौ अन्न ५, ५०.
 प्राणा(ण-आ)दिक- -कम् ते ६, ५६.
 प्राणा(ण-आ)दित्य- -त्यौ मै ५, २; मैत्रि ६, २.
 प्राणा(ण-आ)द्य- -द्याः ध्या ५७;
 सांसू २, ३१; सांका २९.
 प्राणा(ण-अ)धिप- -पः श्वे ५, ७;
 भव २, २३.
 प्राणा(ण-अ)धिरूढ- -ढः त्रिब्रा २, ६२^०.
 प्राणा(ण-अ)पान- -नयोः तै ३, १०, २; छां १, ३, ३; ध्या ९३, १५; ब्रवि ७८; मं २, २, २; योशि १, ६८; -नाभ्याम् मवा ६; -नेन योचू २९; -नौ सुं २, १, ७; वृ ६, ४, १२; ध्या १००; ब्रवि २२; १योत १२१; त्रिब्रा २, ७७; योशि १, १०५; कुं १८; यो १, ६५; ७५; गु ३०; गी ५, २७.
 प्राणापान-गति- -ती गी ४ २९.
 प्राणापान-वश- -शः ध्य ५८; योचू २८; ३०; योशि ६, ५१

प्रा(प्र-अ)णित्वा^१ १संन्या १, १^b.
 प्राणपीतेयन्^c अद्वै २७.
 प्रातर^{११d} (>) छां १, १०, ६; १२, ३;
 ५, ३, ६; ११, ५; ७; ६, १३, १; वृ
 १, ५, १४; ६, ३, ६; ना ५; मना
 २, ७९, ११^०; वृजा ३, ५; १योत
 ४३; त्रिन्ना २, १०१; शां १, ७,
 २; अक्ष १६^३; त्रिता ४, ३४.
 प्रातः-काल-ले १संन्या २, ६७.
 प्रातर-अनुवाक^{११} -कः छाग २३:
 १०; २४: १३; -कस्य छां २, २४,
 ३; -के छां ४, १६, २; ४.
 प्रातर-मध्याह्न-ह्नयोः गार ४०८:
 १४.
 प्रातर-मध्याह्न-तृतीय-सवना-
 (न-आत्मक>)त्मिका-का
 गार ४०७ : २.
 प्रातश्-चित्रादिवर्ण-सूर्य-
 प्रातश्चित्रादिवर्णसूर्य-चन्द्र-
 वह्निज्वालावली-
 प्रातश्चित्रादिवर्णसूर्यचन्द्र-
 वह्निज्वालावली-वत् मं १, २, ११
 प्रातश्-चित्रादिवर्णा(र्ण-अ)-
 खण्ड-सूर्य-चक्र-
 प्रातश्चित्रादिवर्णाखण्डसूर्य-
 चक्र-वत् अता ७.
 प्रातः-संध्या^{१२} -ध्याम् नाप ४, ३८.
 प्रातः-सवन^{१३} -नम् छां २, २४, १;
 ६; ३, १६, १^३; २; काला १३;
 जाबा २२; शौ ५२: ४; ११; -नेषु
 शौ ५१ : २.
 प्रातः-सूर्य-सम-प्र(म>)भा-
 -भाम् दे १५.
 प्रातः-स्नान^{१२} -
 प्रातःस्नानो(न-उ)पवासा-

(स-आ)दि-काय-क्लेश-दान
 १योत ४८.
 प्रातर्दन-प्र/तृद् द्र.
 प्रातिपदिक-प्रति-पद-द्र.
 प्रातिभ-प्रति/भा द्र.
 प्रातिभासिक-प्रति/भास् द्र.
 प्रातिलोम्य-१प्रतिलोम-द्र.
 प्रातृद्-प्र/तृद् द्र.
 प्रात्याहिक-प्रत्यह-द्र.
 प्राथमिक-प्रथम-द्र.
 प्रादक्षिण्य-प्रदक्षिण-द्र.
 प्रादुस्(>द्र, ष)^d
 प्रादुर(र/अ)स(भुवि), प्रादुरासीत्
 अत्र १, ९.
 प्रादुर/भू, प्रादुर्भवन्ति शा १८;
 प्रादुर्भवतु अत्र १, ११.
 प्रादुर्भवतु के ३, २; छां १, १२,
 २; २प्र ३३ : ९; प्रादुर्भवतुः
 २प्र ३३ : १०; वपू १, ५; प्रादु-
 र्भविष्यन्ति मुद्र २; प्रादुरभूत्
 अव्य ६; वरा १, १.
 प्रादुर-भाव-वः त्रिवि ५, २;
 भव १, ११.
 प्रादुर-भूत्, वा-तः महा ३, ३;
 -ता पित्र २, ८; -तेषु गोपू २५^f.
 प्रादुष्/क, प्रादुरकार्षम् गोपू २५.
 प्रादेश-प्रदेश-द्र.
 प्राधान्य-प्र/धा द्र.
 प्राध्वंसन-प्र/ध्वंस द्र.
 प्रा(प्र-अ)न्त-न्ते सुसु १६.
 प्रान्त-भूमि-मौ योसू २, २७^g.
 प्रा(प्र-अ)न्तर-रम् शि ६, २१५.
 प्रा(प्र/अ)प्>आपि, प्रापति छां ४,
 ९, ३^h.
 प्राप्नोति वृ १, ४, १७; मं ३,

१, ३; अता ५; अव्य ४; त्रिता
 १, ४; सु १, १, १५; नाउ ३,
 १०-१२; राधा १, २९; सार
 २२२: १; वि १९; प्र...आप्नोति
 वृ ५, १३, ४; प्राप्नुवन्ति छां ७, ६,
 १; मना २, ३८-४०^१; राप ४, ६६;
 राउ ३, ७; म २, १५; सू २०; इ
 १८ : १०; सार २२२ : ४; गी
 १२, ४; प्राप्नोति महा ४, ६०;
 प्राप्नुयात् तै ३, १०, १; अव्य ७;
 अक्षि २८; प्रा ४, १^३; शि ६, २२;
 गी १८, ७१; प्राप्नुयाम् वृ ६, ३, १.
 प्राप छां ४, ९, १; त्रिवि ५, १२^३;
 महा २, २०; प्राप्स्यति त्रिवि ८,
 २१; प्राप्स्यसि त्रिवि ८, १५;
 गी २, ३७; १८, ६२; प्राप्स्ये गी
 १६, १३; प्राप्स्यामि अत्र ५,
 ५८; प्रापत् वृ ५, १४, ७; ६, ४,
 २८; कौ १, ३१^k; प्रापम् वृ ५,
 १४, ७; गा २४.
 प्राप्यते क १, २, १०; मै ४, ३^३;
 मैत्रि ४, ३^३; मैत्रे १, ४, २^३; ध्या
 ८९; योचू ६२; योशि १, १३९;
 १४४; अत्र १, ५१; ४, ७३;
 भव १, ३३; ४९; गी ५, ५;
 प्राप्येते वि २९; प्राप्यन्ते म २,
 १४; भव १, ६.
 प्रापयति मैत्रि २, ६; छाग २५:
 ४; प्रापयन्ति सार २५६ : १६;
 प्रापय छां ४, ५, १; प्रापयेत् छाग
 २५ : ४^१.
 प्रा(प्र-आ)पक-कः वपू १, ४.
 प्रा(प्र-आ)पण-
 प्रापणीय, या-यम् १अव २२
 -या शि ६, १७१.

a) पा ७, १, ३८। b) 'वृत्वा' इति निसा. संटि., 'वृणीत्वा' इति अच्चा.। c) पा. १। d) =अव्य.
 वैप १ यद्र.। e) पा. १ [तु. तैआ १०, ६३, १ (तु. सस्थ. टि. साय-> -यम्)]। f) 'प्रादुरभूवन्' इति निसा., 'प्रादुरभूत्
 इति आन.। g) 'मिः इत्यपि पाभे.। h) 'प्रापयति' इति निसा., 'प्रापत्' इति आन. संटि.। i) तैआ १०
 ४८-५०, १। j) 'प्राप्य' इति निसा.। k) निसा. अच्चा. च मुपा. यनि. सु-शोधौ (तु. J.C.)। l) न्युतमध्यपकार
 मुपा. यनि. सु-शोधः (तु. वे., अत्रैव 'प्रापयति' इति च)।

प्रा(प्र-आ)पयित्वा^० पै ३, १.
 प्रा(प्र-आ)पित-त्तः वृ ४, ४, २३.
 प्रा(प्र-आ)स,सा-सः वृ ४, २, ४;
 नाप ६, २८; महा ४, ६; अञ्जि
 ९; सार २२६: १६; २२७: १५;
 २५८: २; २७८: १८; २७९:
 १२; गी १८, ५०; -सम् गौ २, ३;
 ते ३, ५५; नाप ७; महा २, ७२;
 ४, ३७; ५, ४१; २योत १, ७;
 तुअ १४; अञ्ज २, २१; १अव
 २२; सार २२६: १५; १७;
 २२७: ५; २३०: २; २४३: ५;
 २४९: २; २५७: ११; २८८:
 २३; भव ४, १४; -सम्-सम् महा
 ५, १७०; -सस्य श्वे २, १२; -सा
 सार २२०: १७; २५७: ६;
 २८५: १६; २३; २८६: १७;
 -सा: छां ४, ५, १; ते १, ४५;
 ब्रवि २५; महा ५, ६०; गोड
 २४; २प्र ३६: ८; सार २२१:
 २२; २२४: १०; २४०: ११;
 १२; १३; २४१: ४; २४२: १७;
 २४३: ४; २४६: २२; २४८: १४;
 २०; २५०: २३; २५५: ११; १३;
 २७३: १३; २८०: ३^१; ५; वर्ष
 ३१२: २०; -सान् नाप ३, २५;
 -साम् शि ६, १७२; -साय छां
 ५, ३, ६; -से घ्या १०-१२; नाप
 ५, १८; त्रिभार, १५; योचू ११५;
 पै ४, ९; महा २, १२; यो २, ३०;
 शि ४ ५४; सांका ६८; -सेभ्यः
 छां ५, ११, ५; सौ सार २८९: ८.
 प्रास-कर्म-कर-रः महा ६, ६४.
 प्रास-प्राप्य-
 प्रासप्राप्य-ता-तया १अव
 २६.
 प्रास-वस्तु-मात्र-अम् सार
 २७९: १.

प्रास-वि(या)> घ- -घः महा
 ३, १.
 प्रास-विवेक-कस्य सांनृ १, ८३.
 प्रास-शरीर-संयोग-गम् सार
 १, २०^१.
 प्रास-सत्ताक-कः महा ५, १७२.
 प्रास-हृष-र्षः नाप ७, १^०.
 प्रासा(प्र-अ)ग्विल-मनोरथ-
 -थः महा २, २९.
 प्रासा(प्र-आ)नन्द-न्दः सं २,
 ५, ४.
 प्रासा(प्र-अ)नुत्तम-विश्रान्ति-
 -न्तिः महा २, ४७; अञ्ज २, २६.
 प्रासा(प्र-अ)र्थ-प्रकाश-लिङ्ग-
 -क्ताव् सांनृ ५, १०६.
 प्रासा(प्र-उ)न्मन्य-नी-अ/व-
 (स्था)>स्थ-स्थः सं ३, २, १.
 प्रा(प्र-आ)सवत्-वन्तः सार २४९:
 १; २५७: ४; २७९: ३; ६; ७;
 २८०: ७; १२; २८२: १६; -वान्
 क १, २, १०; अञ्ज १, २; ३, १; १६.
 प्रासवती-ती सार २८५: ११^१.
 प्रा(प्र-आ)सन्ध-न्धम् महा २, ७२;
 १अव २९.
 प्रा(प्र-आ)सि-सिः वृ ५, २; घ्या
 ९३, १३; १५; सी ४; सार
 २३६: ५; २४१: ६; २५०:
 १५; १८; शि ५, ४०^१; -सिम्
 श्वे ३, १२; -से: सार २२६: २३.
 प्रासि-व्यायाम-योग-गः भव
 १, ११.
 प्रासि-सिद्धि^१-द्धिः आथ
 ३९३: ९; ३९९: ९.
 प्रा(प्र-आ)प्तुम् क २, ३, १२; कठ
 ३३; भ २, १४; शि ५, १९.
 प्रा(प्र-आ)प्तुवत्-वन् सार २९१:
 ८; -वन्तः सार २९१: २१.
 प्रा(प्र-आ)प्य क १, ३, १४; २, २, ६;

प्र ६, ५^१; सु ३, २, ५; छां ६, ४,
 ७; ८, ६; वृ ४, ४, ६; ६, २, १६^१;
 गौ ४, ८^१; कौ २, १४; लु १:
 ब्रवि ४६; नाप १: ४, ३८: ५, ९;
 ६, १; २ अ: ब्रवि ५, १३; २४; ६,
 १७; २०; २३^१; २३^१; ७, १^१: ८,
 १३; १७: शां १, ५; पै १, ६; २,
 १९; महा ४, १०३; योशि १,
 १३८: तुअ ६: अञ्ज २, १४;
 अञ्जि १९; कं २२: यो ३, १७;
 वरा २, ५; सु १, २, ६; इ १०:
 ३; सार २४०: १३; शि १, ३०;
 सिशि ३८१: ४; हे ४; रा ४२३:
 १८; गी २, ५७; ७२; ५, २०^१; ६,
 ४१; ८, २१; २५; ९, ३३.
 प्रा(प्र-आ)प्य-प्यः १संन्या २, १५;
 -प्यम् महा ३, १२^१; योशि १,
 १३९; वउ २, २४.
 प्रापञ्चिक-प्र/पञ्च द्र.
 प्राभूत-प्र/भू द्र.
 प्रामाण्य-प्र/मा(नाले) द्र.
 प्राय^१-येण नाप ४, २९; भव १, १३.
 प्राय-मास:>।) सांनृ ३, ७.
 प्रायण-१प्रे द्र.
 प्रायस्>।) सर ३, १०; शि ७, १२९;
 भव १, १७; ५५.
 प्रायश्-चित्त^१-त्तम् नाप ४, ६; तुल
 ७१: ११.
 प्रायश्-चित्ति^१-त्तयः प्रा २, १^०.
 प्रा(प्र/अ, र>अपि, प्रार्पयतु २प्र
 ३६: १९^१.
 प्रा(प्र-आ)/रभू, प्रासते गी १८, १५.
 प्रा-रब्ध^१-ब्धम् नाद २१; २२^१;
 २३; २९; अघ्या ४९; ५६^१;
 ५८; ५९; -ब्धे नाद २९; सु १,
 १, ४३.
 प्रा-रब्ध-कर्म-पर्यन्त-न्तम् पै
 ४, ४.

a) पा ७, १, ३८ । b) ०रसंधियोगम् इति श्रान. । c) ०सिं इति श्रव्या. । d) 'प्राप्य' इति श्रव्या. संदि. । e) व्यु. ? । f) वैतु. पाग ६, १, १५७ <प्राय- इति । g) ०त्तीयः इति श्रान. । h) मा १, १ ।

प्रारब्ध-कल्पना- -ना अध्या
५५; ५७.

प्रारब्ध-क्षय- -यात् सु १, २, ६;
२, १, १.

प्रारब्धक्षय-पर्यन्त- -न्तम्
सु १, १, ४२.

प्रारब्ध-नाश- -शात् वरा २,
६९.

प्रारब्ध-प्रतिभास-नाश-पर्य-
न्त- -न्तम् नाप ७.

प्रारब्ध-संचिता(त-आ)गामि-
कर्म-साधर्म्य-दर्शन- -नात्
वसू १८.

प्रारब्धा(ब्ध-आ)गाम्य(मि-अ)-
जित- -नानि वरा १, १२.

प्रारब्धा(ब्ध-अ)न्त- -न्ते वरा
२, ७१^५.

प्रारब्धा(ब्ध-अ)वस्थिति- -ति:
नाद २८.

प्रा-रम्भ- -म्भः सार २२७ : ३.

प्रा(प्र/अ)र्थ>अर्थि, प्रार्थयते भव १,
४२; प्रार्थयन्ते क२, १, २; मि३;
५; ७; ९; आश्र २^५; ३^५; ५^५; गी
९, २०; प्रार्थयन्ति १योत ७८;
प्रार्थये सर ३, २; प्रार्थयामः सार
२३२ : ३; प्रार्थयस्व क १, १,
२५; प्रार्थय सार २६१ : १९;
प्रार्थयत सार २४८ : १२; प्रा-
र्थयेत् ऊ ६३ : ९.

प्रा(प्र-अ)र्थन- -नम् गोच ६६:६.

प्रा(प्र-अ)र्थना- -नया महा ६, ५१;

-नाते ६, २३; -नाः पाशु १, २०.

*प्रार्थया-

*प्रार्थयाम(प्र/अ)स(भुवि),

प्रार्थयामास सार २८५ : २३.

प्रा(प्र-अ)र्थयित्वा^b शि ७, २७.

प्रा(प्र-अ)र्थित- -त्तः नाप २; सार
२३२ : ४; २४१ : ११; १५;

२४२ : १०; -तम् १संन्या २, ६७.

प्रा(प्र-अ)र्थ्यं त्रिता २, ७१.

प्रा(प्र-अ)र्थ्यमान- -नः श १५.

प्रा(प्र-आ)र्/विशू, प्राविशानि मै
२, ६०.

प्रा(प्र-आ)र्/वृ(आच्छादने)

प्रा-वरण- -णम् वृ ४, २, ३.

प्रा-वृत- -तम् शि ७, १८.

प्रावृत-शिरस- -राः शि ७, ६०.

प्रा-वृत्य शि ७, ६०.

प्रावृष्- प्र/वृष् द.

प्रा(प्र/अ)शू(भोजने), >आशि, प्रा-
श्रुति वृ ६, ४, १९; इ १३:३१^d;

प्राश्रीयात् आरु३; जा४; नाप३,

७७; १संन्या १, १; पप ४१८ :

१५; करु १; कश्रु १, १; २, ३.

प्राशयति वृ ६, ४, २५; प्राशयेत्

वृजा ३, ४.

प्रा(प्र-आ)शयित्वा^b सिशि ३८३:७.

प्रा(प्र-अ)श्य वृ ६, ४, १९; जा ५;

नाप ४, ३८^२; पप ४१८ : २२;

या २, १.

प्राशू- /प्रच्छ द.

प्राश्री- ३प्रश्न- द.

प्रा(प्र/अ)सू(भुवि), प्र...अस्तु नापू
४, ७१^०.

प्रा(प्र/अ)सू(क्षेपयो)

प्रा(प्र-अ)स्त, स्ता- -स्तः वृ २, ४,

१२; -स्ता मैत्रि ६, ३७.

प्रासाद- प्र/सद् द.

प्रा(प्र-आ)र्/स्था>तिष्ठ, प्रातिष्ठते

प्र ३, १; ५^१; प्रातिष्ठन्ते प्र २, ४^२.

प्रा(प्र/अ)ह, प्राह मुं १, १, १; २; सुद्व

१, १; राउ ३, २; वरा २, १; शि

७, १३२; गी ४, १; प्राहुः गौ २,

२७; वृजा २, १०; पै३, १; १संन्या

२, ७०; अध्या ३८; यो १, ४२;

६४; रुजा २, १३; सिशि ३८१:

१६; भव २, ७; १३; पित्र ४, ९;

१०; गी ६, २; १३, १; १५, १;

१८, २; ३.

प्रियङ्गु^६-

प्रियङ्गु-बिल्व-पैपल्य-नालिकेर-

समुद्भव- -वम् शि ४, ५९.

प्रियाल^६- -लम् शि ६, १६.

>प्री, >प्रोणि^१, >पिप्रयस्व मना २,

१; व ४६१ : १७^६.

प्रीयते रुजा २, २; ४; पित्र ३, ३;

प्रीयन्ते रुजा २, ११; प्रीयताम्

सृ १२.

प्रीणाति मना २, ७१^१; प्रीणातु

मैत्रि ६, ९; आच ६; ७^३; ८;

प्रीणन्तु आच १०.

प्रीणयति सार २२९ : २३.

प्रिय, या- -यः वृ २, ४, ५^३; ४, ५,

६^३; कौ २, ४^३; ते ४, ३६; गोउ

३८; सु २, २, ५४; सार २२६ :

८; काम २; अद्वैमा १५; गी ७,

१७^३; ९, २९; ११, ४४; १२, १४;

१७; १९; १७, ७; १८, ६५; -यम्

तै १, ११, १; २, ५, १; छां ५, १२-

१७, २^३; वृ १, ४, ८^५; १०; २, ४,

४; ५^५; ४, १, ३; ५, ५; ६^५; मना

१, ४१^५; कौ३, १; ते३, ५; ४, २२;

१योत १०८; १अव ३; जाद २,

६; गोउ ६०^५; सर ३, २३; व

१२; इ१०:२०; शि६, २७८; ७,

७९; व४६०:२२^१; गी५, २०;

-यया वृ ४, ३, २; १; -या वृ २, ४,

४; ५^३; ४, ५, ५; ६^३; कौ १, ३;

a) आर^० इति अख्या. । b) पा ७, १, ३८ । c) 'विविशामि' इति मैत्रि २, ६ । d) तु. सस्थ. टि.

अनुच-> -चः । e) ऋ ७, १००, ३ । f) प्रति^० इति निसा. । g) व्यु. ? =ओषधिविशेष- । h) व्यु. ? =फलविशेष- ।

i) पावा ७, ३, ३७ । j) ऋ ८, ११, १० । k) पिप्रि^० इति पा. ? यनि. शोषः द. (तु. नापू.) । l) तैआ १०, ३८, १ ।

m) सा ३२, १३ । n) °यः इति आन. । o) ऋ १०, ८४, ५ ।

-घाः वृ२, ४, ५^१; ४, ५, ६^१; कौ१,
४; मना२, ५, २^१; २शि२, २, २^१;
गी १२, २०; -याणि क १, २, ३;
वृ २, ४, ५^१, ४, ५, ६^१; -याम् सुं
१, २, ६; -यायाः गी११, ४४^१;
-०य तुल ७०: १५; ७१: १०;
सार २७६: ९; गु २१: २८;
-येण वि ६; -येषु नाप ३, ५, १;
-यैः भव १, ४.

प्रेयस्- -यः क १, २, १^१;
२^१; वृ १, ४, ८^१; वरा २, ७;
-यसः क १, २, २.

प्रेष्ट- -०ष्ट क १, २, ९; -ष्टः
गोड १२^१; -ष्टाः मना २, ६, ७^१.

प्रिय-कृत्-

प्रियकृत्-तम- -मः गी १८,
६९.

प्रिय-चिकीर्षु- -र्षवः गी १, २३.

प्रिय-तम- -मः वृड २, ३.

प्रिय-तर- -रः गोड ३२; गी
१८, ६९.

प्रिय-ता- -ता वृ ४, १, ३; -ताम्
भव ४, १७.

प्रिय-स्व-

प्रियस्व-जनन-वर्षन-परि-
णाम-अय-नाश- -शाः सुड ४^१.

प्रिय-दर्शन, ना- -०न अक्ष ५;
-नाः शि ४, २६.

प्रिय-पति- -तिः वड २, ७.

प्रिय-मेघ- -^१घाः मना २, ७३;
चा २०.

प्रिय-रूप- -पान् क १, २, ३.

प्रिय-शिरस-

प्रियशिरस-स्व-

प्रियशिरस्त्वा(स्व-आ)य-
(दि-अ)प्राप्ति- -सिः ब्रसू ३, ३, १२

प्रिय-हित- -तम् गी १७, १५.
प्रिया(व-आ)त्मन्- -स्मा वृप
८^१: २.

प्रिया(व-अ)प्रिय- -ययोः,
-याभ्याम् छां ८, १०, १; -ये छां
८, १२, १; सा२४, ५; १आ १^१;
-येषु शां १, १.

प्रीगन- -नाय सार २२३: १३;
२२४: १.

प्रीत, ता- -तः मैत्रि ६, ९; वृवृ ४,
१६; १६; गड ४, १; ५, १; अक्ष
३; अक्ष १, १८; जाड ६, ३; ३;
ता ३, १; व ४३४: ५; -ता प्रिता
२, ७२; काम २२; -ताः प्र २,
४; रूह ३; रूहा २, १०.

प्रीत-मनस- -नाः गी ११, ४९.
प्रीता(त-आ)त्मन्- -स्मा तै ४,
६३.

प्रीति- -तिः जाड २, ५; रापु ४,
६०^१; नापु ५, ३^१; सार २३१:
७: २५९: १०; २७९: २;
२८६: ३; २८७: २२; २८८:
११; रु २७; ताग ८३: २६;
गी १, ३६; -तिम् सार २^१६:
१७; -त्या शु ३, २२; योशि १,
१२९; ६, ६७; सार २८८: ११;

भव ५, १७; -त्यै भव २, ६०.

प्रीति-कर- -रम् वा ३; गोच
६^१: ३; भव १, २९.

प्रीति-पूर्वक- -कम् गी १०, १०.

प्रीति-मत्- -मान् नाप ३, ४८;
४, २८.

प्रीत्य(ति-अ)प्रीति-विषादा-
(द-आ)त्मक- -काः सांका १२.

प्रीत्य(ति-अ)प्रीति-विषादा-
(द-आ)य- -यैः सांस् १, १२७.

प्रीयमाण- -णः क १, १, १६;
-णा मर २६४: २१; -गाय गी
१०, १; -येषु वि३ ३, ३.

प्रीमन्- -मः सार २२९: १२;
-म्या सार २४७: ७.

प्रीम-प्रेञ्ज, ण>णा- -णा सार
२८२: ९.

प्रीम-भजन- -ने सार २^१४: १०.
प्रीमभजन-रू व>वा- -वाः
सार २^१४: ९.

प्रीम-मद्र- -म्याः सार २^१६: ९.

प्रीम-मार्ग-

प्रीममार्गिन्- -गिणः सार
२७८: २३.

प्रीम-योग- -नाः सार २८२: १९.

प्रीम-लक्षणक-

प्रीमलक्षणका(क-आ)ष्टा-
(इशा-प्रतीक्षा- -आ(इंजा-^१)
सार २८३: १३.

प्रीम-व(त>ती- -ती सार
२३४: ६; २६२: २१; २६६: १;
२६८: १७; -त्या सार २६८:
१६.

प्रीमवत्या(त-आ)दि- -द्वयः
सार २२७: २; २२९: १३;
२३९: ७; २६२: ८; २७०: ७.

प्रीम-संवत्सि(त>सा- -ना सार
२७२: ४.

प्रीम-संपत्ति- -तिः सार २८२:
२०.

प्रीमा(म-आ)धिक्य- -क्यम् सार
२२७: १३; -क्येन सार २२७: ८.

प्रीमा(म-आ)जन्म- -जन्मम्
सार २४९: ७; २८६: ४.

प्रीमानन्द-कुत- -तम् सार
२५३: १९.

a) ऋ १, ११४, ७ । b) उत्तरेण संधिरार्षः द्र. । 'प्रियस्व' इति SCHR. पाठे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] । c) वैपश् यद्र. । d) 'पृष्ठः' इति आन. । e) तैश्चात् १०, ६७ । f) °वात्मज इति निघा. यनि. कोषः द्र. [तु. अख्या., अस्तित्वज इति अख्या. संदि. (तु. या १, २)] । g) ऋ १०, ७३, ११ । h) =वकार-बीजाक्षर- । i) =कलाविशेष- । i) वा. क्वि. द्र. । k) पा. यनि. कोषः द्र. । l) कस. ।

प्रेमानन्द-रक्त-पुरुषोत्तमा-
(म-अ)धिष्ठान-सौष्ठव- -वम्
सार २४५ : २२.

प्रेमानन्द-संपत्ति- -त्तिः सार
२४९ : ८.

२प्रेमा(म-आ)नन्द, न्दा^१ - न्दा
राधा १, २४; -न्दात् सार २४५ :
२०; -न्दाय सार २४६ : २३;
-न्दे सार २४५ : २१; २५६ : १७.

प्रेमा(म-आ)स(क्ल>)क्ता- -क्ताः
सार २५४ : ५.

प्रेमो(म-उ)क्क(ण्ठ>)ण्ठा^१-
-ण्ठा सार २२६ : २.

प्रेमो(म-उ)त्पादक-युत- -तानि
सार २७० : २०.

१प्रे(प्र/इ)प्रेति के १, १; ऐ ४, ४; छां
२, ४, २; ८, ३, १; वृ १, ४, १५;
५, १७; ३, ८, १०^१; ९, २८, २;
५, १०, १; ६, ४, १२; कौ २,
१०; शा ४; प्रयन्ति तै ३, १-६,
१; छां ५, ३, २; वृ ६, ४, ४;
कौ १, २; २, ८५^b; वृ १, २^१; ३,
५; भ २, ९५^c; वृ १, ४^१; २, ३;
प्रयन्तु व ४६० : १४५^d; प्रेहि वृ
६, २, ४; व ४६० : ११५^e; १७५^f;
प्रेयात् कौ २, १५^g; शा ३७.

प्रेष्यामि छां ३, १६, ७.

प्र-यत्- -यतः छां ६, ८, ६; -यन्तिः
वृ ६, २, २; -यन् ऐ ४, ४.

प्रयती- -त्यः वृ ६, २, २.

प्रा(प्र-अ)यण- -णम् मना २, ७९५^h;
-णात् आश्र १; ब्रसू ४, १, १२.

प्रायणा(श-अ)न्त- -न्तम् प्र ५, १

प्रे(प्र-इ)त- -तः अद्वैमा १५; -तम्
छां ५, ९, २; वृ ३, ७, २; ५, ११,
१^१; -तस्य छां ८, ८, ५; २संन्या

१५; १; -ताः छां ८, ३, २; -तान्
गी १७, ४; -ते क १, १, २०.

प्रेत-पु(र>)री^१- -री इ १९ : ७.

प्रे(प्र-इ)त्य ई ३; के १, २; २, ५; तै २,
६, १^१; ८, ५; ३, १०, ५; छां ३,
१४, १; ४; वृ २, ४, १२; १३; ३,
९, २८, ५; ४, ४, ११५ⁱ; ५, १३;
गी १७, २८; १८, १२.

२प्रे(प्र-आ/इ), प्र^१ आयन्तु तै १, ४,
२; प्र^१ एयात् छाग २४ : १०.

प्रे^१ त्रिवि ७, ३८.

प्रे(प्र/इ)न्, प्रेक्षते गौ २, ८; प्रेक्षे महा
५, २७; व ४६४ : १४५^k.

प्रेक्ष्यते महा ५, ७२.

प्रे(प्र-ई)क्षक-
प्रेक्षक-वत् मै २, ११; मैत्रि २,
७; सांका ६५.

प्रे(प्र-ई)क्षण- -णम् नाप ६, ३२.

प्रे(प्र-ई)क्ष्य- -क्ष्यः वरा ४, ३.

प्रे(प्र/इ)ङ्ख^१
प्रे(प्र-इ)ङ्खितव(त>)ती^१- -ती सार
२६९ : ८.

प्रेमन्- -प्रेयस्- √प्री द्र.

प्रे(प्र/इ)द्, >ईरि, प्रेर्यते मन्त्रि ४.

प्रेरयति मैत्रि ७, ११; अशिद, ७५^१;
प्रेरयेत् नाप ४, ९ त्रिता १, ३३.

प्रे(प्र-ई)रक- -कम् पं १४.

प्रे(प्र-ई)रयितृ- -ता पं १.

प्रे(प्र-ई)रित, ता- -तम् घ्या ८९;
योचू ६३; पाशु २, ८; -ता चू
४; -तानि पाशु २, ९.

प्रे(प्र-ई)रितृ- -तारम् श्वे १, ६; १२;
नाप ९, ५; ११; भव २, ४;
५७.

प्रे(प्र-ई)र्यमा(श>)णा- -णा योशि
३, ९

प्रे(प्र/इ)ष्(गतौ), >एषि
*प्रेषया-
*प्रेषयाम(मु/अ)स(भुवि),
प्रेषयामास सार २४१ : ८.

प्रे(प्र-ए)षयित्वा^१ नाप ४, ३८.

प्रे(प्र-इ)षित- -तम् के १, १.

प्रे(प्र-इ)ष्य कौ २, १५५^१.

प्रे(प्र-ए)ष^१-
प्रेष-भेद- -दः नाप ३, ६.

प्रेषा(ष-अ)प्ति- -प्तिः १संन्या ८

प्रेषो(ष-उ)च्चारण- -णेन मैत्रे २,
१७.

प्रे(प्र-ए)ष्यत्- -ष्यन् वृ १, ५, १७.

प्रेष्ठ-√प्री द्र.

प्रोक्त-, प्रोक्तवत्- प्र/वच् द्र.

प्रो(प्र/उ)न्, प्रोक्षति आच ८^१.

प्रो(प्र-उ)क्षित- -तम् वृ १, २, ७.

प्रो(प्र-उ)क्ष्य वउ ६, १३.

प्रो(प्र-उद्>)च्/चर>चारि,
प्रोच्चारयेत् योचू ४०.

प्रोच्-चारयत्- -यन् घ्या ६९.

प्रोच्-चार्य पी ४२२ : २.

प्रोच्यमान- प्र/वच् द्र.

प्रो(प्र/उ)ज्ज्
प्रो(प्र-उ)ज्जित-
प्रोज्जिता(त-अ)शेष-संकल्प-
कल(ना>)न- -नः अक्षि २९.

प्रोत- प्र/वे द्र.

प्रोत- प्रोय् द्र.

प्रोदि(प्र-उद्/इ)
प्रोद्-यत्-
प्रोद्यन्-निखिल-परमानन्द-
पूर्णा(र्य-अ)मृता(त-अ)ब्धि-
-ब्धेः भव २, ३४.

प्रोदित- प्र/वद् द्र.

प्रो(प्र-उ)द्/घृ(<ह), प्रोद्धरन्ति अज
४, १२.

a) बस. । b) 'प्रेति' इति शांआ ४, ८ । c) तैआ ९, १, १ । d) ऋ १०, ८४, १ । e) ऋ १०, ८३, ७ ।

f) ऋ १०, ८४, ३ । g) 'प्रयुज्यात्' इति अख्या. । h) तैआ १०, ६३, १ । i) मा ४०, ३ । j) =बीजमन्त्रविशेष- ।

k) तैआ ४, ३८, १ । l) 'प्रेरयत्' इति शौ १०, २, २६; आन., 'प्रेरयन्' इति अख्या. । m) पा ७, १, ३८ ।

n) 'प्रेष्यन्' इति आन., शांआ ४, १५ ।

फल-पुष्प-मणि-लता^a-
 फलपुष्पमणिलता-हरितपी-
 तश्वेतशुभ्र-भ्रमर-संचलित-
 योजित^b-तानि सार २६२:१४
 फल-भाग-
 फलभागिन्-
 ✓फलभागीय्, फल-
 भागीयते श्या २११°.
 फल-भोगिन्- -गिनः गर्भ ४^c;
 -गी १आ १३.
 फल-मुक्ति-प्रदायक- -कम् गर्भ
 ४^{३०}.
 फल-मूल-पुष्प-वारि^d- -रिभिः
 शां १, ५.
 फल-मूलो(ल-उ)दका(क-अ)-
 न्वित- -तम् शां १, ५.
 फल-रस-त्वक्-पत्र-मूलो(ल-उ)-
 दक^e- -कैः नाप ४, ३८.
 फल-विशुद्धा(द्व-अ)ङ्ग-
 फलविशुद्धाङ्गिन्- -ङ्गी कुं६.
 फल-श्रुति- -तेः ब्रसू ३, ४, ४४.
 फल-संपत्ति- -त्तिः सांस् ५, २.
 फल-संप्राप्ति- -प्तिः भव १, ४५.
 फल-सिद्धि- -द्धिः गौ ४, १८.
 फल-हेतु- -तवः गौ २, ४९.
 फला(ल-अ)काङ्गिन्- -ङ्गी गौ
 १८, ३४.
 फला(ल-अ)धिक- -कः राउ ५, ४
 फला(ल-अ)न्-अभिलाष- -षः
 मं १, १, ४.
 फला(ल-अ)फल^f- -ले महा २,
 ४९.
 फला(ल-अ)भिसंधान- -नम्
 नि २६.
 फला(ल-अ)र्थ-
 फलार्थिन्- -र्थिना शि६, ४३

फला(ल-अ)र्थ-
 फलार्थ-क- -कम् शि ६,
 २६६.
 फला(ल-अ)वगम- -मः सांस्
 १, १०६.
 फला(ल-अ)वेश- -शेन सार
 २२९ : ३.
 फला(ल-अ)हार- -रः नाप ५, १
 फलाहारिन्- -री नाप ५, १;
 १संन्या २, १३,
 फलित,ता- -तम् १अव ३१;
 -ताः सार २७६ : १८; -तानि
 मृ ८.
 फलिन्- -लिभिः आर्षे ७:७.
 फलिनी- -नीः प्रा १, २५^g.
 फलो(ल-उ)दय- -यः अध्या ४९
 फलो(ल-उ)पभोग- -गः सांस्
 १, १०५.
 १-२फल- ✓फल द्र.
 फलक^h- -के अव्य ६; शि६, १२१.
 ३फल(>)लाⁱ- -लाम् शां १, ७, ४३^j
 फाणित- ✓फण द्र.
 फाल^k- -लम् बृजा ५, १६.
 फालो(ल-ऊ)ध्वंग-ललाट-
 विशेष-मण्डल- -ले अता ५.
 फूत्^l
 फूत्-कार-
 फूत्कार-शब्द- -ब्दः मं १, २,
 ७; अता ५.
 फेन^m- -नम् अशि ६, १४; त्रिजा २,
 १४; वट्ट ३१७:२१; गार ४०५:
 ५; -नात् अशि ६, १४; वट्ट
 ३१७:२१; गार ४०५:५.
 फेन-तरङ्गा(ङ्ग-आ)दि- -दि जाद
 १०, ६.
 फेन-परⁿ- -पाः आश्र ३.
 फ्रः, फ्रां, फ्रीं, फ्रूं, फ्रैं व ४३२:१५ⁿ.

फ्रौं^o व ४२८:९.
 फ्रौं^p व ४३२:१.
 व
 वं^q आथ ३९६:१; व ४३७:२३;
 हंषो ११.
 वं-कार- -०र अत्त ५.
 १वक^r- -कः छां १, २, १३; १२, १; ३.
 २वक^s- -कः कृ १४.
 ३वक^t-
 वक-मूषिक- -कम् बृजा ४, ६.
 बकुल^u- -लैः काम २४.
 बकुल-वन- -नम् सार २२१:१२.
 बकुल-वृक्ष- -क्षाणाम् सार २३३:
 १४.
 बग(ल>)ला^v- -ला व १९; पी
 ४२२:८.
 बगला(ला-आ)दि-षोडशा-
 (श-अ)नुग(त>)ता- -ताः
 पी ४२२:१५^w.
 बगला-मु(ख>)खी- -०खि व
 ४३६:१३; ४५४:१९.
 बट्ट- वट्ट-द्र.
 बडवा- वडवा-द्र.
 बडिश^x-
 बडिश-पि(ण्डक>)ण्डिका- -का
 महा ३, ४६; या २, १२.
 व(<>व^y)त^zक^१, २, ९; ऐ२, ३; छां १,
 १०, ६; २, १, ३^४; ८, ५; वृ२, ४,
 ४; ६, ४, २८^५; सूता ३, ५; भव
 १, २५; गौ १, ४५.
 १बदर^६-
 बदरी-
 बदरि(क>)का-
 बदरिका(का-आ)श्रम-
 क्षेत्र^७- -त्रम् म ४८:१८.

a) द्रस.। b) सप्तस. > षस. > तृस.। c) गपू. (पृ १६९) ✓ई>ईयते इत्यत्र यनि.शोधः द्र.। d) °भा° इति अत्र्या.।
 e) °यिनम् इति आन. अत्र्या.। f) ऋ १०, ९७, १५। g) विप.। अर्थः व्यु.च १। h) 'कलाम्' इति अत्र्या.। i) व्यु. १।
 j) व्यु. १ =माल-। k) =शब्दानुकृति-। वैपश् यद्र.। m) =वानप्रस्थविशेष-। n) =बीजमन्त्रविशेष-। o) व्यु. १
 =श्रुतिविशेष-। वक- इति J.C.। p) व्यु. १ =राक्षसविशेष-। q) व्यु. १ =जलचरविशेष-। r) व्यु. १ =वृक्षविशेष-। s) व्यु. १
 =देवीविशेष-। t) बला° इति पा. १ यनि.शोधः द्र.। u) व्यु. १ =मत्स्यवेधन-। v) प्रादेशिकोच्चारणभेदमात्रत्वेन निर्देशः।

सर २, ९; गी १८, ३०; -न्धस्य
अञ्ज ५, १०२; वरा ५, ४२;
भव ३, १४; -न्धाः लिं ३०९:
४; १कौल ३:३; -न्धात् गी ५,
३; -न्धाय मै ४, ४, ११; मैत्रि
६, ३४; ब्रवि २; मं ५, १, १;
अञ्ज २, १; २; शा १; भव २,
२२; अवि २; सांसू ४, ८.
बन्ध-कर- -राणि १संन्या २, ७९.
बन्ध-कारण-शैथिल्य- -स्यात्
योसू ३, ३९.
बन्ध-ता- -ता अञ्ज २, ३७.
बन्ध-स्व- -स्वम् ते ५, २४.
बन्ध-ध्वंस-मात्र- -त्रम् सांसू
१, ८६.
बन्ध-नाश- -शाय भव १, १.
बन्ध-मुक्त- -क्तम् वरा २, ३१.
बन्ध-मुक्ति-विहीन- -नः ते ३,
३७.
बन्ध-मोक्ष- -क्षयोः मै ४, ४,
११; मैत्रि ६, ३४; त्रिता ५, ३; शा
१; अवि २; भव ३, १४; -क्षाय
पै ४, १९; महा ४, ७२; वरा २,
४३; -क्षौ ससा ६; १आ २६; २९;
सार २८९: १६; सांसू ३, ७१.
बन्धमोक्ष-कलना- -ने अञ्ज
२, ३६.
बन्धमोक्ष-विभाग- -गम्
ते ५, ८३.
बन्धमोक्ष-विवर्जित- -तः
ते ४, ५०^b; ६६.
बन्धमोक्ष-स्वरूपा(प-आ)-
त्मन्- -त्मा ते ४, ६६.
बन्धमोक्षा(क्ष-आ)दिक-
-कम् ते ५, ३८.
बन्धमोक्षा(क्ष-आ)दि-व्यव-
हार- -रः आबो ११.
बन्धमोक्षा(क्ष-आ)दि-हीन-

-नः मैत्रे ३, ९.
बन्ध-मोक्षण- -णे १आ २७
बन्ध-मोचक- -कम् मु १, १, ४६.
बन्ध-योग- -गः सांसू ६, १७.
बन्ध-योग-विनिर्मुक्त- -क्तम्
शि ४, १०.
बन्ध-यो(ग्य>)ग्या- -न्यया
महा ६, ५९.
बन्ध-रूप- -पम् नि २५.
बन्ध-वत्- -वान् महा ६, ३५.
बन्ध-वर्जित- -तः ते ४, ३६.
बन्ध-विपर्यय- -यौ ब्रसू ३, २, ५.
बन्ध-हेतु- -तुः मं २, ४, ५.
बन्धा(न्ध-अ)भाव- -वे ते ५,
२४.
बन्धा(न्ध-आ)यास-विलोकन-
-नात् महा ६, ५५.
बन्धा(न्ध-अ)योग- -गात् सांसू
१, २०.
बन्धा(न्ध-आ)स्था- -स्थाम्
महा ६, ५३.
बन्ध^{रा} - -न्धः ध्या ७६-७८;
१योत ११९^३; १२०; योचू ४९^३;
५०; शां १, ७, ११; योशि १,
१०६; १०९; १११; ५, ३९; यो
१, ४७; ५१; वरा ५, ४२-४४;
-न्धे ध्या ७८; योचू ५१.
बन्ध-त्रय- -यम् योशि १, १०१;
१०२; यो १, ४०; वरा ५, ४५;
-येण योशि १, ८९.
बन्धत्रय-समन्वित- -तः यो
१, ५५.
बन्ध-सुद्रा- -द्रा ब्रवि ६९.
बन्धन- -नम् छां ६, ८, २; ते ५,
९७; त्रिवा २, २४; २६^३; महा
५, १२८; त्रिता ५, ३; यो ३, ७;
-नात् वृ ४, ३, ३६; मै ४, ४, ५;

मैत्रि ६, ३४; मैत्रे १, ४, ७; मना
२, ५६^१; ५^१त्रिता १, ८; ४,
११; वरा ३, १३; २५; शा २;
इ १२:१०; सूता १, ४१; रशिसं
२४^१; ५^१व ४३०: २; ४३८:
१७; ४३९: ४; १४; ४४०:
१; ११; २१; ४४१: ९; १९;
४४२: ७; १८; ४४३: ५; १५;
४४४: ९; १९; ४४५: ६; १७;
४४६: ४; १६; ४४७: २; १४;
४४८: २; १३; ४४९: १; ११;
१८; ४५०: २; ९; १६; २३;
४५१: ९; १६; २३; ४५२: ८;
१६; ४५३: १; ६; १२; १८;
४५४: १; ७; १५; २१; ४५५: ५;
भव ३, १५; -नाय योचू ४४;
शां १, ७, ३७; योशि ६, ५५.
बन्धन-मध्य-स्थ- -स्थम् यो
३, ६.
बन्धन-स्थ- -स्थस्य मै ४, २६;
मैत्रि ४, २.
बन्धु^ध - -न्धुः वृ १, १, २; ४, १, २;
मना १, ४५^१; सुबा ४; ते २, १९;
महा ६, ७१; अञ्ज ५, ६१; इ ११:
५; १७; स्व ६२: २; हे २; गी
६, ५; ६; -^१न्धुम् वृजा १, १;
वृपू १, १; -^१न्धुन् १संन्या १, १;
कश्रु १, १; गी १, २७; -^१न्धूनाम्
नाप ४, ९.
बान्धव- -वः सुबा ४; -वाः
महा ३, ३५; ४, २८; शि ६, १६६;
-वान् शा ३०; -वैः कर १; शि
६, १२७; कश्रु २, ३.
बन्धु-पुत्र- -त्रम् शा १८^क.
बन्धु-वर्ग- -र्गस्य मै १, ५; मैत्रि
१, ४.
बन्धा(न्धु-आ)दि- -दीन् आर १

a) बद्ध° इति अख्या. संटि. । b) °मुक्ति° इति अख्या. । c) °क्षवि° इति अख्या. । d) =योगसुद्रा- ।
e) बद्ध° इति अख्या., बध्य° इति अख्या. संटि. । f) ऋ ७, ५९, १२ । g) °स्थः इति अख्या. । h) वैपश् यद्र. ।
i) मा ३२, १० । j) ऋ १०, १२९, ४ । k) °न्धुं पु° इति अख्या. ।

छां २, २१, ४; वृ६, १, १३; मना२,
६७^३९^५; कौ२, १^३; २^३; शि२, २९^३.

बलि-देवता- ता भा ३.

बलि-प्रदान- नम् भ १, ३.

बलि-वैश्वदेव-

बलिवैश्वदेव-बलिदानो(न-उ)-

पसर्पण- जैः सार २३१:१८.

बलि-हरण- गम् भा ३९.

बलिन- बलिष्ठ- बलीयस- १बल- द्र.

ब(⟨)व^०स्ति^१- -स्ति: छां५, १६,
२^३; १८, २.

बहिसु (>: ३, ५)^० क २, २, ९; १०; वृ

३, ९, २८, १; ४, ३, १२; खे ३,

१८; गौ २, ९^५; १०^५; १४; मै ४,

५^३; मैत्रि ५, २^३; ना २; मना २,

१३, २९^५; अशि १, ९; बृजा२, १;

पाशु १, १३; २, ५; वृपू५, २^३; ३^५.

बाह्य^१- -ह्य: क २, २, ११; प्र

३, ८; आर्षे ९:१२; -ह्यम् प्र ३,

१; वृ४, ३, २१^३; नाद ३२; ३९;

शां १, १^३; अन्न ५, २८; पै ४,

१२; महा२, ७३; ४, २४; १संन्या

२, १३; जाद१, २०; ६, २२; वरा

५, ७२; वृष ८४:११; १३:८५:

१; राधा २, ५; -ह्यात् शां १, ६;

७, ४३; जाद ६, १२; -ह्यान् वृ

२, ४, ७-९; ४, ५, ८-१०; गौ २,

१६; अन्न ३, ४; गी ५, २७;

-ह्यानाम् महा ५, ३२; वरा ४,

८; -ह्यानि वृष ८५: १; ५; -ह्ये

यो ३, १५; योशि ६, ७७; महा

४, ५१; जाद १, २२; वउ ६, ७;

-ह्येषु राधा २, १; भव १, २१.

बाह्य-कर्म-विनिर्मुक्त- -क्ता:

शि ४, ६७.

बाह्य-चिन्ता- -न्ता शां १,

७, २०; वरा २, ४४.

बाह्य-त्स (>:) ई ५; गौ२,
३८; १योत ४४; कुं ११; पी
४२२: १४.

बाह्य-दृष्टि- -ष्ट्या अध्या५२.

बाह्य-देवा(व-अ)भ्यर्चन-
-नम् १संन्या २, ५९.

बाह्य-देवा(व-अ)र्चन- -नम्
नाप ७.

बाह्य-देश- -शे सर ३, २९.

बाह्य-दोष- -षै: क२, २, ११.

बाह्य-प्रणव- -व: नाप ८, १.

बाह्य-प्रतीति- -ते: सांसू १,
४२.

बाह्य-प्राण- -णस्य अना३३^३.

बाह्य-बुद्धि-नियम- -म:
सांसू ५, १२१.

बाह्य-मार्ग- -गंण यो२, ४०.

बाह्य-वत् अता १०.

बाह्य-वृत्त-वीथि- -थ्याम्
त्रिनि ७, ४८.

बाह्य-वृत्ति- -त्तय: नाप५, १.

बाह्य-शून्य-

बाह्यशून्य-त्व- -त्वात्
महा २, ५.

बाह्य-स्थ-विषय- -यम् वरा
५, ५८^३.

बाह्य-स्पर्श- -शेषु गी५, २१.

बाह्या(ह्य-अ)काश- -शम्
जाद ८, १.

बाह्याकाश-धारण- -णम्
शां १, ९.

बाह्या(ह्य-अ)त्मन्- -त्मा
प्रा २, १^३; २आ १^२.

बाह्या(ह्य-अ)निल- -लम्
जाद ८, २.

बाह्या(ह्य-अ)न्त- -न्ते वउ
५, ३१.

बाह्या(ह्य-अ)न्तरीय- -यात्

वउ ३, १४.

बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर (>:)

बाह्याभ्यन्त- -करण-

-णानाम् भा २८; २९.

बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर-

लक्ष्य- -क्ष्यम् सं २, १, ३.

बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर- -रयो:

सांसू १, २८; -राभ्याम् सांसू १,

६३; -रे व्रवि ३५.

बाह्याभ्यन्तर-विषया-

(य-आ)क्षेपिन्- -पी योसू२, ५१.

बाह्याभ्यन्तर-वीक्षण-

-णात् वृउ ९, ११.

बाह्याभ्यन्तर-स्तम्भ-

वृत्ति- -त्ति: योसू २, ५०.

बाह्याभ्यन्तर-स्थ-व्यो-

म-पञ्चक- -कम् अता ७.

बाह्या(ह्य-अ)भ्यन्तर-मध्य-

(म>)मा- -मासु प्र ५, ६.

बाह्या(ह्य-अ)र्चन- -नम् मैत्रे

२, २६.

बाह्या(ह्य-अ)र्थ-वासनो-

(ना-उ)द्भूत (>)ता- -ता

महा ६, ५०.

बाह्या(ह्य-अ)वष्टम्भन- -नेन

मै २, २.

बहिः-पूर्ण- -र्ण: मैत्रे २, २७; वरा

४, १८.

बहिः-प्र(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञ:मां३; वृपू४,

४; सुबा ५; राज ३, १; वउ १, ५;

५, ३४; -ज्ञम् मां ७; वृपू ४, ७;

नाप ९, २०; राज ३, १; विद्या १;

वउ १, १२; ५, ३८.

बहिर-अङ्ग- -ङ्गम् योसू ३, ८.

बहिर-अन्तर

बहिरन्तर-ज्वलन- -नम् पाशु

१, १५.

१) तैत्र्या १०, ६७^३. २) प्रादेशिकोच्चारणभेदमात्रत्वेन निर्देशः । ३) =अव्य. । वैप१ यद्र. । ४) वैतु.

JC. बहिश्रे^० इति । ५) तैत्र्या १०, ११, २ । ६) वैतु. JC. 'हिवे^० इति । ७) वैतु. JC. 'हिर्मा^० इति । ८) पावा ४,

१, ८५ । ९) 'प्राणः सः इति आन. । १०) स्वान्तस्थवि^० इति अथ्या. । ११) 'एवात्मा' इति आन. ।

बहु-दायिन्- -यी छां ४,१,१.
 बहु-दिन- -ने अन्न १,९.
 बहु-दोषा(ष-आ)श्रय- -यम् पैर, ८
 बहु-धा क १, २, ८; २, २, १२; प्र
 १, ४; सुं १, २, १; ९; २, १, ७; २,
 ६; छां ४, ३, ६; धे ४, १; ५, ३;
 ६, १२; गौ ३, २४; मै ४, ४, १३;
 मैत्रि ५, १; ब्रवि १२; मना १, २९^०;
 २, २४^०; अना २१^०; नृउ ४, ६;
 १योत १९; ५६; नाप ५, २८;
 ब्र ३, ८; मं २, १, १; श १४; त्रिवि
 ७, ५; रार ५, २; मुद्र ३^० ९^०;
 त्रिता ५, १२; कुं १४; म २, ६९^०;
 प्रा १, ५; गोपू १५^०; १९; आर्षे
 ९; १; बा २२; सूता १, ७; ३, १२;
 सु २९३; १६९^०; सं ६; शि
 ७, ८३; गु ४४; ७०; हे १०;
 अबि १२; सांका ७०; गी ९, १५;
 १३, ४.
 बहु-पङ्क-कलङ्कित- -तम् महा ५,
 ८२.
 बहु-पाक्य- -न्यः छां ४, १, १.
 बहु-पुत्र-
 बहुपुत्र-ता- -ताम् मना २,
 ६३^०; ६४^०.
 बहुपुत्र-वत्- -वन्तः सूता १, २०.
 बहु-बाहू(हु-रु)रुपाद- -दम् गी
 ११, २३.
 बहु-भया(य-अ)व(स्था>)स्थ-
 -स्थम् मै ४, २; मैत्रि ४, २.
 बहु-भाषिन्- -विणे मुद्र ४.
 बहु-भिन्न- -ञ्चे यो २, २०^०.
 बहु-भृत्य-
 बहुभृत्य-वत् सांस् २, ४.

बहु-भेद- -देन महा ५, २२.
 बहु-मत^१- -तः गी २, ३५.
 बहु-मार्ग-प्रवृत्ति- -त्तिम् पत्र २.
 बहु-योजन- -नम् ध्या १^१.
 १बहुरूप^क-
 बहुरूपिन्- -पिणः शिदि, १२४.
 २बहुरूप^१- -पः मै २, ९.
 बहु-रोग-घ्न- -घ्नम् योशि १, ९२.
 बहु-ल, ला- -लः छां ५, १५, १^१;
 १८, २; -लम् आवो २८^३; राधा
 १, ४; -ला मना २, १९^०; २८^०;
 गोउ २१; व ४६१ : ११९^०.
 बाहुल्य-
 बाहुल्य^०- -ल्यः पहे १^०;
 तुअ ३.
 बहुल-वन- -नम् गोउ २१.
 बहुला(ल-आ)यास- -सम् गी
 १८, २४.
 बहु-वक्त्र-नेत्र- -त्रम् गी ११, २३.
 बहु-वस्त्र- -स्त्राणि १संन्या २, ९९.
 बहु-विद्- -वित् छां ७, ५, २.
 बहु-विध, धा- -धा सु २९४ : ८;
 -धाः गी ४, ३२; -धैः राउ ५, २२.
 बहु-शस(>) मुद्र ४; सार २४१ :
 १५.
 १बहु-शाखा^क- -खाः सी २०.
 २बहु-शा(ख>)खा^१- -खाः गी २,
 ४१.
 बहु-शास्त्र-कथा-कन्धा-रोम-
 न्थ- -न्थेन मु २, २, ६३.
 बहु-शास्त्र-गुरू(रु-उ)पासन- -ने
 सांस् ४, १३.
 बहु-शास्त्र-युत- -तः भव ५, २३.
 बहु-शोभमा(न>)ना- -नाम् के

३, १२.
 १बहु-श्रुत^क- -तेन सुवा ९.
 २बहु-श्रुत^१- -तम् नाप ४, ३४.
 बहु-संक्रमण- -णम् यो १, ५६.
 बहु-समय- -यम् पित्र १, ४.
 ?बहुहृदयकमलमध्य^१- -ध्ये गोच
 ६६ : २१.
 बहु^१/कृ
 बहु-कृत्य त्रिवि १, ५; ५, ४.
 बहु(हु-उ)दक^{१००}- -कः नाप ५, १^१;
 तुअ ६; १संन्या २, १३; पप
 ४१९:११; शा ११^१; -कस्य नाप
 ५, १^१; ७^१; १संन्या २, ५९;
 -काः मि ३; आश्र ४^१.
 बहुदक-त्व- -त्वम् तुअ ६.
 बहुदक-वनस्थ- -स्थयोः नाप
 ४, २३.
 बहु(हु-उ)दर- -रम् गी ११, २३.
 बहु(हु-अ)ङ्कु(र>)रा- -रा नृउ
 ९, ६.
 बहु(हु-अ)या(!पा^१)न-सहित-
 -तम् योचू ११४.
 बहु(हु-अ)नन-क(र>)रा- -राम्
 गु ७३.
 बहु(हु-ऋ)च- -चाः मन्त्रि ९; चू ९.
 वां^१ सार २३२ : १०.
 बाढ^१- -ढम् नाप २.
 बाण^१- -णः अध्या ५४; लि ३१० :
 १४; १६; आथ ३९८:१९; णम्
 ए ४; लि ३१०:२२; -णेन ते ६,
 ७७.
 बाण-वत्- -वन्तौ वृ ३, ८, २;
 -वान् नी २, १२९^०.
 बादरायण-, बादरि- ३बदर- द्र.

a) तैआ १०, १, २ । b) तैआ १०, १६, १ । c) 'बहुशः' इति आन. । d) तैआ ३, १४, १^१ । e) तैआ ३, १२, ३, ४ । f) तैआआ १०, ६३ । g) तैआआ १०, ६४ । h) 'ब्रम् इति अज्या. ? । i) तस. पू. क्वि. द्र. । j) 'योजनात् बहुन्' इति आन. । k) कस. । l) बस. । m) सकृत् 'अविद्याम्' इति अज्या. । n) ऋ १, १८९, २ । o) तैआ १०, २१, १ । p) अर्वाभाथ् प्र. द्र. । q) 'ल्यम् इति अज्या. । r) पा. ? । s) =संन्यासिभेदविशेष- । t) निसा. पा. ? यनि. शोधः द्र. (उ. अज्या.) । u) =बीजमन्त्रविशेष- । v) व्यु. ? क्वि. सतः अव्य. इति प्रसिद्धिः । w) =शर- । वैप १ यद्र. । x) मा १६, १० ।

बाहुनाभिपीठप्रकृतिरूपक^१- -कम्
लि ३१० : २२.

बाहु-मध्य- -ध्ये वृजा ४, २८.

बाहु-मूल- -ले वृजा ४, २८.

बाहुमूल-परिचिह्नित-शङ्ख-

चक्र- -क्रा: सु २९, ४ : १८.

बाहु-शोभा- -भाम् सार २४४ :
२०.

बाहुल्य- बहु- द्र.

बाह्य- बहिर् द्र.

वि(<>वि^१न्द्^२ -न्दव: मैत्रि ६,
३५; -न्दु ध्या २^३; १०५; -न्दु:मै
३, २; हं १४; ध्या ८४^३; ८५^३; ८६;
८८^३; योचू ५७; ५८^३; ५९; ६०;
६२^३; ६३; ८९; नाप ८, १; राउ
१, २; सी २०; योशि १, १२६;
१७०; ३, ११; ५, ७^०; २८; ३४;
६, ७२^३; ७३^३; यो ३, ५; ६; वरा
५, ५२; ग ८; ता २, १; २; तु ८;
स्व ६० : ५; नापू १, ११; व
४६६; २२; विद्या १; अद्वैभाष;
-न्दुम् ब्रवि ५४; मं २, ५, २;
योशि ६, ७५; यो ३, ८; १३; कृ
२१; वरा ५, ३७; वपू २, ४;
-न्दो: सी २०; गोपू २५; -न्दौ
योशि ५, ४७; पप ४१९ : २९;
सुसु ८.

बैन्दव- -वम् त्रिता २, ९.

बैन्दव-स्थान- -ने योशि ६,
१७^१; यो ३, ८.

बिन्दु-क्रोडि-शत- -तानि नाद ५०.

बिन्दु-क्षय- -य: १योट ६१.

बिन्दु-गत- -तम् वरा ५, ७०.

बिन्दु-द्वय- -यम् योचू ९८.

बिन्दु-धारण- -णात् १योट ६२.

बिन्दु-नाद-कला- -ला: योशि ६,
७०.

बिन्दुनादकला(ला-आ)श्र-

(य>)या- -या अत्र १, ४.

बिन्दु-नाद-कला-ज्योती(<तिस्-)

रवी(वि-इ)न्दु-ध्रुवतारक- -कम्

योशि ६, ६६.

बिन्दु-नाद-महा-लिङ्ग^४- -ङ्गम्

योशि १, १६७; ५, ४^१.

बिन्दु-नाद-शिर:- -शिखा^५- -खा सु

१, १, ३१^१.

बिन्दु-नाद-समायुक्त- -क्तम् जाद

५, ८.

बिन्दु-नादा(द-आ)त्मक- -कम्

रार ५, ८.

बिन्दु-पीठ- -ठम् योशि २, १३.

बिन्दु-पूर्ण-ज्योति:स्थान- -नम्

त्रिता २, १७^१क.

बिन्दु-पूर्वक- -कम्^१ राउ १, २.

बिन्दु-मध्य- -ध्ये योशि ६, ४९;

जाद ५, ६^३; वरा ५, ३२.

बिन्दुमध्य-गत- -तम् व ४६६:

२२.

बिन्दु-म(य>)थी- -थी योशि ६,

४९.

बिन्दु-मूल-शरीर- -राणि योचू

५६.

बिन्दु-मेलन-रू(प>)पा- -पाम्

कालि ४०१ : ३.

बिन्दु-मौलि-

बिन्दुमौलि(न>)नी- -नीम्

सुसु ४.

बिन्दु-युक्त- -केन जाद ६, ४१.

बिन्दु-रूप- -पम् १योट ९९; योशि

५, २७; त्रिता २, ६८; -पस्य

वरा ५, ५०; -पेण योशि २, १२.

बिन्दुरूपि(न>)णी- -णी योशि

३, २.

बिन्दु-स्थान- -नम् योरा १५.

बिन्दु-स्वरूप- -प: ता ३, ४; ८.

बिन्दु-ही(न>)ना- -ना त्रिता १,

५९.

*विभया- √भी द्र.

?विभृत्वा^६ सु २९४ : ५.

विभ्यत्- √भी द्र.

विभ्रत्-, विभ्राण- √सृ द्र.

विम्ब^{१०}- -म्बम् धे २, १४; योचू ९;

९६; योशि १, १७७; ५, १४; त्रि

११^१.

विम्ब-प्रतिविम्ब-दर्शन- -नेन

अत्र १, १६.

विम्ब-वत्- -वन्तम् पा७, १०; ८, ५.

विम्बा(म्ब-अ)धर- -र: सार

२४४ : १७.

बिम्बित- -त: सर ३, १४.

बिम्बो(म्ब-ओष्ठ>)ष्ठी- -ष्ठीम् रा

४२४ : २१.

बिल^{१०}- -लम् छां ३, १५, १; अना

२१; -ले स ३७९ : ९.

बिल-प्रवेश-

बिलप्रवेश-तस्(>) यो १, ४६.

बिला(ल-अ)न्त- -तम् चक्र ७.

बिल्व^{१०}- -ल्वम् वि ३२; -ल्वेन विद.

बैल्व- -ल्वम् आरु ५; वि १४.

बिल्व-क- -केन वि ३१; -कै: शि ६,

१२९.

बिल्व-दल- -लै: भ २, २०; २४.

a) वा. अत्रप्रहश्च ? । b) प्रादेशिकोच्चारणभेदमात्रत्वेन निर्देशः । c) वैपश् यद्र. । d) 'बिन्दुम्' इति निसा., अञ्ज्या. संटि. । e) 'हंसः' इति निसा. संटि. । f) 'बैन्द' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्ज्या.) । g) बस. । h) °लिङ्गविष्णु^१ इति मुपा. यनि. शोधः द्र. । i) तत्तदाख्योपनिषदां द्रस. गर्भितः मलो. कस. । j) °न्दुः ना^१ इति निसा. । k) °र्ण ज्यो^१ इति शोधपरं पदद्वयं वा द्र. । l) वा. क्रिवि. द्र. । m) 'मध्यतुरीयकम्' इति अञ्ज्या. संटि. । n) पा. ? 'विभृत्वा^६ > -स्वा इति शोधः द्र. (तु. ऋ ९, ९६, १९) । o) व्यु. ? बप्रा. द्र. । p) स्तनवि^१ इति निसा. पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. तान्त्रि.) । q) एतन्नाम्नि वृत्ते वा तत्फले वा वृत्तिः द्र. । वैपश् यद्र. ।

बीजा(ज-अ)न्तर- -र राप् ४,४२.
बीजो(ज-उ)क्त- -क्तम रा ५,१०.
बीजो(ज-उ)द्धार- -रम् सता ६,१.
बीजो(ज-ऊ)र्ध्व-भाग- -नो रा २,१

बीजवाप- १बीज- ६.
?२बी(ज>)जा^१- -जा त्रिता ३,१६.
बुद्धिल^१- -लः छां ५, ११,१; -लम्
छां ५, १६, १; वृ ५, १४, ८; गा
२५१^१.

बुद्बुद्^१- -दः निरु १,९; -दम् गर्भ
३; गार ४०५, ५; -दाः मन्त्रि १८;
चू १७; १८; -दात् गार ४०५;
६; -द्वैः आच ५; शि ६, १३७.
बुद्बुद-ता- -ताम् योशि १, १६५.
बुद्बुदा(द-आ)दि-विकारा(र-अ)-
न्त- -न्तः आबो १५.

>बुध< बोधि, बोधत पा ७, ४.

बुध्यते गौ १, १६; २, ११; १२;
योशि ६, ६८; बुध्यति गर्भ १;
नाप ६, १; अबुध्यत गोपू २५;
बुध्येत योशि १, ७८०.
बुधधिरे वृ ६, १; बोधि मना
२, १११; व ४४०: २३१; ४४६:
६१; ४५१: ३१; ४५४: १०१;
४६०: १०१.
बुध्यते सर ३, १०; बुध्यन्ते गौ
४, ९८.
बोधयति मैत्रि ६, १७; बोधय
ते ५, ८०; महा ३, ५६; बोधय-
बोधय ह ५; बोधयीत मै ५, ४;
बोधयेत् वृ ४, ३, १४; महा ५,
१०४; योशि १, ११३.
बोधयेत अन्न ४, ४३.
१बुद्ध- -दः हंर १; वृ ९, ८; १०;
ते ३, ४२; ब्रवि १०२; अन्न १,

३४; ५, ९३; अक्षि १९; -द्धम्
वृ ९, १७; शु २, ५; ते ६, ७०;
योचू ७२; अध्या ६३; -द्धस्य
गौ ४, ९९; -द्धाः गौ ४, ९८;
-द्धानाम् गौ ४, ८०; -द्दाय नाउ
२, ४; -द्धैः गौ ४, १९; ४२; ८८.
२बुद्ध^१- -द्धेन गौ ४, ९९.

बुद्धा(द-अ)वतार- -रः नापू
५, ८; -राय नापू ५, ११.
बुद्ध-मुक्त-स्वभाव- -वः मैत्रे
१, ४, ११.
बुद्धा(द-आ)त्मन्- -त्मा ते ४,
६८.
बुद्धा(द-अ)न्त- -न्तम् वृ ४, ३,
१८; -न्ताय वृ ४, ३, १६; ३४;
-न्ते वृ ४, ३, १७.

बुद्धि- -द्धयः मै ५, ७; मैत्रि ६, ७;
त्रिता १, ३२; रुह ३०; गौ २, ४१;
-द्धिः क १-२, ३, १०; प्र ४, ८;
गौ २, २५; मै ५, ५; मैत्रि ६,
५; ३०; हं ८; गर्भ ३^१; सुवा
५; ६; ७^१; १४^१; ससा १, १८;
१९; ४३; ते ३, ४५; ४, ७; ५, ७६;
९४; ९६; ६, ३२; ध्या ९३, १३;
१योत ६५; नाप ५, १; ६, १^१;
त्रिधा १, ९; त्रिवि ५, ४; पै २,
२२; ४, ११; महा १, १; ५,
१२५^१; १३०; योशि १, ३९;
शारी १; ६; १संन्या २, ३९;
अध्या १^१; प्रा ४, १; कृ २५; वरा
१, ४; ४, २५; ४३; अद्वै ५^१;
६^१; पा २, ७; राधा २, ८; लिं
३०९: १-३; वटु ३१५: २; शि
१, ११; गु ४१; १कौल २: १;
२कौल १; २; ५^१; भव २, २०;

२२; २७; ३, १८; पित्र १, १५;
वपू २, ४; सांसू २, १३; सांका
२३; ३५; ३७; गौ २, ३९; ४१;
४४; ५२; ५३; ६५; ६६; ३, १०;
४०; ४२; ७, ४; १०; १०, ४; १३,
५; १८, १७; ३०-३२; -द्धिम क
१, ३, ३; सुवा ७; ९^१; पै २, २५;
४, १; अध्या १; ए १४^१; यो २, २;
पा ४२२: २; व ४३६: १२,
१४; भव २, १०; गौ ३, २; १२,
८; -द्धेः क १, ३, १०; श्वे ५, ८;
शारी १; वृ २, २; ३; शु ३, ३;
१आ २९; अन्न ४, २३; वरा
२, ६०; ६१; गु ४१; भव ४, ४;
सांसू २, ४७; सांका ४९; गौ ३,
४२; ४३; १८, २९; -द्धौ सुवा
५; सांका ३६; गौ २, ४९; -द्धया
क १, ३, १२; श्वे ३, ४१^१; ४, १;
१२१^१; गर्भ १; अशि ५, ६; १८;
ते ५, ४१; ४६; ८५; ध्या ९३,
१४; नाप ६, १^१; महा २, १२;
१७०; ५, ८४; ६, ४३; ४४; योशि
६, ६७; १संन्या २, ४०; वरा ४,
११; निरु १, १४; वटु ३१७:
७; गु ५६; गौ २, ३९; ५, ११;
६, २५; १८, ५१.
बुद्धि-कर्मद्विय-प्राणपञ्चक- -कैः
शारी ५.
बुद्धि-क्षोभ-निवृत्ति- -त्तिः
जाद १, १७.
बुद्धि-गुहा- -हायाम् मं १, ४, १.
बुद्धिगुहा-निहित-चिज्-
ज्योतिस्- -त्तिः अता १३^१.
बुद्धि-आद्य- -द्यम् योशि ३, १५.
गौ ६, २१.

a) नैप्र. =द्विती(य>)या- । b) व्यु. ? =अधिविशेष- । c) 'बुद्धिलम्' इति पा. १ यनि. शोधः द्र.
(तु. नापू.) । d) वैप १ यद्र. । e) 'बोद्धयम्' इति आन. । f) अ ५, ४, ९ । वैतु. नादी., jC. बोधिन्- > -धी
इति । g) अ १, २४, ११ । h) अ १०, ८३, ६ । i) 'बद्धः' इति निसा. संदि. । j) =शाक्यमुनि- । k) 'इद्धरसः'
इति अश्या. । l) गपू. (पृ २०३) सस्थ. एकता-> -ता इत्यनेनाऽस्य स. द्र. । m) 'बुद्धिमस्तु' इति निसा. संदि. ।
n) 'स्मृत्या' इति तैआ १०, १०, ३ । o) 'बुद्ध्वा' इति अश्या. । p) 'हितज्यो' इति निसा. ।

बोध-चन्द्रमस- -मसि वरा २, ७४.

बोध-(ज>)जा- -जाअब्र १, २६.

बोध-मय- -यः मैत्रे २, १३.

बोध-रूप- -पस्य नाप ६, ११.

बोध-स्वरूप- -पः अध्या ६९.

बोधा(ध-आ)नन्द-

बोधानन्द-तरङ्गिणी- -ण्याः
त्रिवि ६, २२.

बोधानन्द-मय- -यम् जाद
८, ७; -यान् त्रिवि ६, २१^३; -यैः
त्रिवि ६, २३; सि ६, ३३.

बोधानन्दमया(य-अ)-
नन्त-दिव्य-तेजोराशिविशेष-
चैतन्य-प्रासाद- -दैः सि ६,
१४.

बोधानन्दमया(य-अ)-
नन्त-धूपदीपा(प-आ)वलि-
-लिभिः त्रिवि ७, ५०.

बोधानन्दमया(य-अ)-
नन्त-परम-च्छत्र-ध्वज-चामर-
वितान-तोरण- -णैः त्रिवि ६,
२३; सि ५, १२.

बोधानन्दमया(य-अ)-
नन्त-परम-विलासविभूति-
विशेष-समष्टि-मण्डल- -लम्
त्रिवि ७, २०.

बोधानन्द-महो(हा-उ)-
ज्वल- -लम् त्रिवि ७, १९; सि
६, ५.

बोधानन्द-वन- -नम् त्रिवि
६, २३.

बोधानन्द-विमान-परंपरा-
-रासु त्रिवि ६, २१.

बोधानन्द-वैकुण्ठ- -ण्ठम्
त्रिवि ६, २४.

बोधानन्द-स्वरूप- -पम्
त्रिवि ७, ५०.

बोधानन्दा(न्द-अ)चलो-
(ल-उ)परि त्रिवि ७, २३.

बोधानन्दै(न्द-ए)क-मूर्ति-
-र्तिः आवो १०.

बोधा(ध-अ)बोध-स्वरूप-
-पम् ते ५, ८३.

बोधक- -कः ब्रवि ५१; ५२; वि २६.

बोधयत्- -यन्तः गी १०, ९.

*बोधया-

*बोधयां/कृ, बोधयांचकार वृ
२, १, १५,

बोधि(त>)ता- -ता त्रिब्रा २, ६५;
-ते वरा २, ७०.

१-२बुध्- √बुध् द्र.

बुध्^{१०}-

बुध्ति(य>)या- -इ^bयाः मना १,
१०; रशिसं ३२.

बु(ध्न्य>)घ्न्या- -घ्न्याः २संन्या
१६: ७५^०.

बुभुक्षा- √भुज् द्र.

बुं-बुं^d सार २६०: २१.

√बुंह्, >बुंहि, बुंहयति अशि ४, १४;
अ २; सां ३, १; वट्ट ३१६: ७;
बुंहयेत् बुजा ३, १७.

बुंहित-

बुंहिता(त-आ)कार- -रम् अत्र
२, ३७.

१वृ(<>वृ^०)न्द^d- न्दानि सार
२७६: २२.

२वृ(<>वृ^०)न्दा^{१६}- न्दा राधा १,
२३; सार २६३: २२.

बृन्दा-नामन्- -आ सार २२३: १८

३वृ(<>वृ^०)न्दा^{१७}-

बृन्दा(न्दा-अ)रण्य-

बृन्दारण्य-विहारिन्- -रिणे
सार २४७: १०.

बृन्दा-वन^d- -नम् सार २२१: १३;
१४; २२७: २३; २३३: ६;

२४६: ७; २५९: ७^३; २८६: ५;

-नम्-नम् सार २५९: ४; नै
सार २२१: २१; २३३: १; २४६:
२१; २४७: १६; १९; २५५:
१५; २५९: ११; १९; २६०: ५;
१०; २८९: ८.

बृन्दावन-निवासि(न्>)नी-
-०नि तुल ७१: ८.

बृन्दावन-बुद्धि- -द्वया सार
२३२: १७.

बृन्दावन-माहात्म्य- -ल्यम्
सार २५९: १६.

बृन्दावन-रहस्य-मार्गा-
(र्ग-अ)नुसार- -रणे सार
२३६: २१.

बृन्दावन-लीला- -लायाः सार
२५९: ३.

बृन्दावनलीलो(ला-उ)पास-
क- -काः सार २३५: २२.

बृन्दावन-वासिन्- -सिनाम्
सार २५९: १३.

बृन्दावन-विहारिन्- -रिणे सार
२६०: २२.

बृन्दावन-शाशि(न्>)नी-
-नीम् सार २३२: १०.

बृन्दावन-शोभा- -भाम् सार
२३२: २०.

बृन्दावन-सुर-भूरुह-तला-
(ल-आ)सीन- -नम् गोपू ३३.

बृन्दावने(न-ई)श्व(र>)री- -री
सार २५२: २१; २६४: २१;

२६७: २२; -रीम् सार २७३:
१९; -र्या सार २५२: १५;

२५८: १८; २५९: १२; २६१:
१८.

बृन्दावनेश्वरी-नित्य-क्री-
डा-प्रधान- -नम् सार २५३:
१७.

३) वैपश् यद्र. । b) 'बुघ्न्याः' इति मा १३, ३ । c) सा १३, ३ । d) तु. गपू. २३३c । e) प्रादे-
शिकोच्चारणभेदमात्रत्वेन निर्देशः । f) व्यु. ? =समूह- । g) व्यु. ? =गोपीविशेष- । h) व्यु. ? =तुलसी- ।

वृन्दावनेश्वरी-रूप- -पम्
सार २५९ : २३.

वृन्दावनेश्वरी-समनुगृहीत-
-ताः सार २५५ : ६.

वृन्दावनो(न-उ)क्त-मार्ग- -गीः
सार २३४ : २२.

वृन्दावनो(न-उ)द्धव- -वाः सार
२५९ : ९.

वृन्दावनो(न-उ)पासक- -कः
सार २५९ : ८.

√ वृह् (वधा.), वृहति शां ३, १९.

१ वृहत्^b - हत् क २, २; मुं ३, १,
७; श्वे २, ३९; ३, १७; मना १,
१५९; २, १२, २; २, ४०;
४१९; अशिध, १४; वृपू ३, ६;
महा ५, १७; त्रिनाथ, २८; पं १६;
गोड २१^b; ह १८; पा ३, १०;
वट ३१६; ७; गु ३६; वपू २, ३;
-हत्-हत् अज २, ३७; -हतः
श्वे २, ४९; वृजा ३, २९; मर
२, २९^m; -हते पा ८, ५; व ४६५;
४९; -हत् वृ २, १, ३१; कौ ४,
२^p; -०हत् वृ २, १, १५; कौ
४, १८^r; -हन्तः व ४३४ : १;
-हन्तम् श्वे ३, ७; शा ४; इ १२ :
१२; पा ७, ९; १०.

वृहच्-छन्द- -न्दान् नाप ५, १.
वृहच्-आधाल^l- -लम् वृजा
६, १२; ८, १-५; -लस्य वृजा
८, १.

वृहजावाल-नाप(न) >
नी^l- नी सु १, १, ३२.

वृहजावालाल-क नि-
(ध) > धा- -धाम् वृजा १, १.

वृहजावालोल(न-उ)पनिप-
ज-जप-शील- -लस्य वृजा
८, ६.

वृहजावालोल(न-उ)पनिपद-
अध्यापक- -केन वृजा ८, ६.
वृहत्-तिथि- -थि(थि); त्रि १०

वृहत्-त्व- -त्वान् वृज ९, १७.
वृहत्-सन्धि- -स्वा इ ११ : ५.

वृहत्-सं(ना) > न^l- -नाय
ग १; व ४६५ : २.

वृहत्-स्कन्ध- -न्धम् ग १.
वृहद्-आरण्यक^l- -कम् सु १,
१, ३०.

वृहद्-मातु^l-
वृहद्मातु-जाया^l- -याम्
कानि ४०१ : ४; रत्ना ४.

वृहद्-रथ^l- -थ नै २, १;
मैत्रि २, १; मैत्रे १, ४, १; -थः नै
१, १; मैत्रि १, २.

वृहद्-रूप- -पेण नि १२.
वृहद्-वन- -नम् गोड २१; मार
२२२ : १२; -ने मार २६० : ६.

वृहद्-वसु-
वृहद्दसु-श्रंघ- -घः मार
२५२ : १०.

२ वृहत्^l- -हत् छां २, १४, १;

२; मैत्रि ७, २; मना २, २९;
नन्त्रि ९.

वृहत्-मामन्- -म गी १०, ३५;
-न्त्रि वृ ९.

वृहद्-रथन्तर- -रे कौ १, ७;
ग ११.

३ वृहत्^l-
१ वृहत्नी^l- -नी छां १, २, ११;
वृ १, ३, २७; मार २, ६०; मी १, ९;
ग ४०७ : १३; नाप ८३ : १४.

वाहत- -नम् २२ ३३ : ७.
४ वृहत्^l- -हत् आश्र १, ११.

५ वृहत्-
२ वृहत्नी^l- -स्या अशि ४, १४;
वट ३१६ : ७.

वृहन्न^l- -न्ते श्वे १, ६; नाप ९,
५; भव २, ४^l.

ब्रह्म- -हम् श्वे १, ९^l; १२; नाप
९, ८; ११.

ब्रह्मन्^l- -ह्य केशां; १, ४-८; ३, १;
४, १^l; २, ३; क १, २, १६; २५;
३, २; २, २, ६; ८; ३, १; १४; १८;
प्र १, १; २, ६; ४, ४; ७, २; ६,
७; मुं १, ८^l; २, १, १०; २, २;
४; ९; ११; ३, २, १; ९^l; मां २^l;
तौ शां; १, ५, १; ३^l; ६, २; ८,
१^l; २, १-३, १; ६, १^l; ३,
१, १^l; २-५, १^l; ६, १; १०, ४; ऐ
३, १३; ५, ३; छां शां; १, ७, ५;
३, ५, १; २; ११, ४; ५; १२, ७;

a) 'वृहती, ब्रह्मयती' इति निमा. संटि. । b) =महत्- । वैप १ यद्र. । c) मा ११, ३ । d) 'सुहृत्' इति
आन. संटि. (तु. शंदां, नादां, विवि.) । e) ऋ ९, ९७, ४० । f) तैआ १०, ३९, १ । g) °हृति इति अख्या. ।
h) 'ब्रह्मन्' इति अख्या. संटि. । i) ऋ ३, ५३, १५ । 'ब्रह्म' इति अख्या. संटि. । j) °वृत् इति निमा. संटि. ।
k) मा ११, ४ । l) 'ब्रह्मन्तः' इति अख्या. । m) ऋ ५, ४३, ११ । n) तैआ २, १२, १ । o) °हृत् इति निमा., आन.
(तु.शं.) यनि. शोषः द्र. (तु. रामा., Jc.) । p) °हृत् इति निमा. (तु. Jc.) यनि. शोषः द्र. (तु. अख्या.) । q) वैतु.
रामा. °हृत् इति । r) =उपनिषद्विशेष- । s) निमा. अख्या. च पा. यनि. शोषः द्र. (तु. नान्त्रि.) । t) ब्रह्म° इति निमा. ।
घ) =त्वाहा- । च) =वृपविशेष- । च) =सामविशेष- । ङ) तैआ १०, ६३, १ । y) मा १२, ४ । z) =छन्दो-
विशेष- । a') =ब्रह्मचारिभेदविशेष- । b') सकृत् 'वृहन्नतिः' इति अख्या. संटि. । c') अर्थः ? । d') सकृत् > अन्तः
प्र. उसं. (पाउ ३, १२६) । e') 'वहन्ते' इति पा. यनि. शोषः द्र. (तु. श्वे १, ६) । f') ब्रह्म ह्ये° इति नादां. ।
g') नप्रा. वैप १ यद्र. । h') तु. गपू. पृ ३०१ ।

१४, १; ४; १८, १; २; १९, १;
 ४; ४, १०, ४; ५; १५, १; ५; ५,
 १०, २; ११, १; ७, १, ५; २, २;
 ३, १; २; ४, ३; ५, ३; ६-१४,
 २; ८, ३, ४; ७, ४; ८, ३;
 १०, १; ११, १; १४, १; बृ १,
 ३, २१; ४, ९; १०; ११; १५;
 ५, १७; ६, १-३; २, १, १-१३;
 १५; ४, ५; ६; ५, १-१४; १९;
 ६, ३; ३, ४, १; २; ५, १; ९, ९;
 १९; ९, २८, ७; ४, १, २; ३; ७;
 ३, ३७; ४, ५; ६; ७; १७; १८;
 २५; ५, ६; ७; ६, ३; ५, १, १;
 ३, १; ४, १; ५, १; ७, १; १२,
 १; ६, १, ७; ५, ४; श्वे १, १; ७;
 १६; २, ५; ७; ३, ७; ४, २;
 ६, १०; २१; गौ १, २५; २६; ३,
 १२; ३५; ४६; मै शां; २, २;
 ५, ३; ४; मैत्रि २, २; ४, ४;
 ६; ६, ३; ४; ५; १४; १६;
 १७; १८; २०; २२; २४; ३५;
 ३८; ७, ११; मैत्रे शां; ३, १;
 आरु शां; अशि १, १०; ३, २;
 १२; ४, ३; १४; १५; ५, २२;
 ६, १७; अ १; ३; ब्रवि ६;

८; १६; १७; २१; कै १, १०;
 १६; १७; १९; जा १; ४; हं ९;
 २०; गर्भे; नाष्ठ; मना १, २; १;
 १; ६१; १०; १; १५; १; २,
 १; १; १०; १; १३, १; २, १; १;
 २; १; ३; ०; १; ३; ३; १;
 ३; ५; १; ३; ७; ३; ८-४०; १;
 ४; १; ६; ८; १; पं; १; २;
 अना १; २१; नृपू १, १२;
 १३; १५; ४, ३; नृ १, २;
 ३; ४; २, ११; ४, १; २; ३;
 ५, १; २; ३; ६, ३; ४; ७, २;
 ५; ७; १; १०; ८, २; ५;
 ९, १७; सुवा ३; कौ १, ४;
 २, १; २; ६; १२; १३; ४, १;
 ३-६; १८; बृजा ३, २४; मन्त्रि
 १०; १७; ससा १, ३१; ३८;
 ५; नि ४; ११; १४; १५; २०;
 २२; ४३; ४७; ५२; शु १,
 १०; १८; २, १; २; ४; ५; ३,
 २; ४; ८; १७; वसू २९; ३०;
 ते १, १४; १७; ३२; ३६; २,
 ४; ३५; ४१; ३, १६; २०, २६;
 ३९; ६०; ७२; ७३; ४, २; ३;
 १६; २९; ३०; ३६; ३८; ३९;

७७; ५, १; ५; १०; ३०; ३९;
 ४०; ५९-६१; ६, ४; ३१;
 ३२-३४; ३५; ३६; ३७;
 ३८; ३९; ४२-४४; ४८; ६१;
 ६५; ६६; ७०; ७२; १००;
 १०२-१०४; १०५; १०६;
 १०७; १११; नाद १६; १७;
 ४८; ध्या ९; १४; ब्रवि
 २; ४; १३; नाप ३, १७;
 २०; ५१; ६०; ७७; ८६; ५,
 ३९; ६, १; ८, १; ५; ६; ९, ६;
 त्रिबा १, २; २, १५१; १६१;
 १६२; योचू शां; ८०; निर्वा २९८;
 १५; १७; शार ६; २७; २९; मं १,
 २, ४; २, १, ७; ४, ६; ५, १; ३, १,
 ३; २, १; वा शां; २७; अतार; ३;
 १०; १७; मुद्र ३; ४; शार, १;
 ३, १; वै १, ४; २, ५४; ३, १;
 ४, १९; २२; २३; महा शां; २,
 ९; ४, २५; ४५; ७२; ८१; ९१;
 ११९; १२४; १३२; ५, ५६;
 ५७; ६९; १०४; १०५; ११३; ६,
 १२; ६१; योशि १, १६५; २,
 १६; ३, १६; ६, ६६; १संन्या
 शां; २, ६; १०४; २संन्या १६;

a) ऋ १०, १३, १। b) मा ३२, १। c) तैत्र्या १०, १५, १। d) तैत्र्या १०, १, २। e) तैत्र्या १०, १, ६।
 f) मा १३, ३। g) तैत्र्या १०, १, १५। h) तैत्र्या १०, १, १६। i) तैत्र्या १०, ८, १। j) तैत्र्या १०, ११, १।
 k) तैत्र्या १०, १४, १। l) तैत्र्या १०, १२, १। m) तैत्र्या १०, २३, १। n) तैत्र्या १०, ३३। o) तैत्र्या १०,
 २६, १। p) तैत्र्या १०, २७, १। q) वैतु. सा. (तैत्र्या १०, ४८, १) १मे स्थ. 'ब्रह्म मेतु' (=ब्रह्म मे एतु) इत्यत्र
 'ब्रह्मम् (?) एतु' इति पदद्वयमिति। एवं 'मधु मेतु' (=मधु मे एतु) इत्यत्र 'मधुम् (?) एतु' इति पदद्वयमिति, भा.
 Jc. च (तैत्र्या.) यनि. च √मी>मेतु इति च पदद्वयमिति। एवं तत्रैव 'ब्रह्ममेव' इत्यत्र 'ब्रह्म मे एव' इति त्रीणि
 पदानि द्र. [वैतु. सा. (तैत्र्या.) 'ब्रह्मम् (?) एव' इति पदे इति, नादी. (तुं. Jc.) 'ब्रह्म मे अव (<√अव्)'] इति त्रीणि
 पदानि इति ? (वैतु. तैत्र्या. यत्रैवं सति 'वृ इत्यन्तोदात्तो नोपपद्येत)। अथ २ये स्थ. 'ब्रह्म मेधया' इति पदे द्र. [वैतु.
 नादी. (तुं. Jc.) 'ब्रह्ममेधा-> -धया' इत्येकं पदमिति ? (वैतु. तैत्र्या. [१०, ४९, १] यत्रैवं सति प्रतिपदस्वरपार्थक्यं
 नोपपद्येत)। अथापि ३ये स्थ. 'ब्रह्म मेधया (?)या' इति शोधितं सत् पदद्वयं द्र. [=अत्र 'या> 'मां>'वा इति
 लौवि. इत्यभिसंधिः (वैतु. नादी. [तुं. Jc.] यनि. शोधमूरीकुर्वाणोऽपि ब्रह्म इति स. इति [यत्र स्वरविरोधः पूर्ववत्
 द्र.], भा. सा. च [तैत्र्या. १०, ५०, १] 'मेध[=यज्ञ]वत्-> -वा' [प्र१] इतीव पृथक् पदमिति ? [एवं सति स्वरविरो-
 धस्तु द्र. मेध- इत्यस्याबुदात्तत्वान्मध्यस्वरात्तुपपत्तेः]]। r) तैत्र्या ३, १५, १। s) एकतरत्र 'ब्रह्मा' इति तैत्र्या १०,
 ३१, १; अन्यतरत्र तैत्र्या १०, १५, १। t) 'ब्रवि' इति आन.। u) वैतु. Jc. स्थलद्वये ब्रह्म-ब्रह्मस्-इति।
 v) 'आह्वम्' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तुं. अख्या.)। w) 'ह्या' इति अख्या.।

३,५९^०; पप ४१८:२८; ४१९:
 ९; ४२०:४; १७; अक्ष ३: अव्य
 शां^०; २; ४; अक्ष १, १९; २,
 ४; १७; ३६; ३७; ३, १९; ४, २७;
 २९; ५, ८; १०; १९^०; २०^०;
 २१^०; २२; ४८; ५६; ६५; ६८;
 ७२; ७४; ७९; ९५; ११२;
 ११३; १२०; सू १५; स्क ५;
 १३; २४; अक्षि ४९; अध्या
 १०; २१; ३२; ५०; ६३; कुं शां^०;
 १४; २०^०; १आ १; २; ३^०;
 ८; २१^०; २२; २३; पाशु १,
 ११^०; २७; ३०; २, १६; २७;
 ३०^०; ४३; ४४; आबो १^०; २६;
 पत्र २^०; ३, १; त्रिता १, १३; ५७:
 २, ३६; ७३; ३, ३७; ५, १^०; ६;
 ८^०; १६; १७; २०; २१; कठ
 ९-११; १२^०; २२; २७; त्रिवि १,
 ५^०; ११; २, १४; ३, २^०; ४, ३;
 ४; ७; ६, २५^०; ७, ४३; ४४^०;
 ८, ५^०; रा १, ६^०; ५, ५; ६; ११;
 राप् १, ६; राउ १, १; २^०;
 ३, १^०; ४, १^०; ३, ४; र्ह २६;
 ३८; ५२^०; यो ३, २४; भ २,
 ५; ग २; ५; ६; जाद शां^०;
 १, १०; ४, ६०; ६, ११; ७, २;
 ९, १; १०, ६; १०; सावि रुजा
 जाबा शां^०; ता १, १; २^०; २,
 १^०; ३, ८; मवा ६; पं २०^०; २३;
 २४; प्रा १, ६^०; २, १; ४, १०;
 गोपू ५; १२^०; गोउ ३०; ४०^०;
 ४१; ६४; कृ १२; या १, १;
 वरा २, १३; १७; १९; २६; ३८;
 ४१^०; ४३; ६४; ७१-७३; ३, २;

शा ५; ११; २५; ३०; ह १३^०;
 कलि २; सौ २, १९; सर ३,
 २२; व १४; १६^०; १७^०; सु २, २,
 ६४; अद्वै २^०; ९; १०; १५; २१;
 २४; आपे ७; ४: ८: ८: ९; २;
 इ ११; १३; १२: २: १४: १७: च
 २१: १७: १३: १५: १६: १७: १८:
 २३: २४: २५: २६: २७: २८:
 वा ३: म ४८: १४; २०; ४९: ४:
 ११: शौ ५३: ८: गोच ६६: १९;
 ६७: ८; १६; ६९: १५; २०;
 नापू १, १२; १३; १, १७; नाउ १,
 १३; १४^०; २७; गा २, ३; ३,
 १०^०; राधा २, ९; सार २१९:
 ४^०; २३१: १; २४५: १७;
 २५७: १७; २५८: १५; २८९:
 १७; सु १४; १६; क २२; वड
 ३१५; १; १३^०; १८; ३१६: ६;
 ७९^०; ३१७: १३; ३१८: १९^०;
 २शिसं ३०; ३२^०; शि ७, ६२^०;
 ११५: स ३७९: २१; आथ
 ३९९: १८; २०; सु ५२; विद्या
 ४: व ४६१: २२^०; ४६३:
 ३९^०; ४६४: ११^०; ४६७: ३;
 अरु २३९^०; चू १०; १७; २१;
 अवि ६; ८^०; १६: १७; २१;
 कश्रु १, १; २, २^०; वपू १, २^०;
 २, १^०; ३, १; वड १, १; ४; १९;
 २, १०; २५^०; ३, १; ३^०; १४; ४;
 १; ३; ५, ३३; भव १, ३३; ५७;
 २, ६; ३३; ५७; ३, ५; ३२; पित्र
 २, २; १०; गौ ३, १५^०; ४,
 २४^०; ३१; ५, ६; १९; ७, २९;
 ८, १; ३; १३; २४; १०, १२:

१३, १२; ३०; १४, ६; १८,
 ५०: अक्ष मन्त्रि २०: अक्षम:
 के २-४, १: कै १, ४; १; २,
 ४, १; ८, ४; ९, १; ३, १०,
 ४: छां ३, १८; ३-६; ४, ५,
 २^०; ३^०; ६, ३^०; ४^०; ७-८, २^०; ४^०;
 ८, ३, ४, ५, ६: वृ १, ४, ६, २, ३,
 १; ४, ५; ६, ३; ४, ५, ६; ६, ३;
 ६, ५; ४; सौ ७, ३; मैत्रि ४,
 ४^०; ६; ६, ३; १५; २६; २७; २९;
 ३४; ७, १०; मना २, १५^०;
 २१^०; ७९^०; ८०^०; अग्नि ६;
 १५; कौ २, १^०; २: वपू १,
 १२; १४; वृउ ७, ७; नि १८; ते १,
 ९^०; ३५; ३, २२; ६, ४९^०; ५०^०;
 ५१^०; त्रवि १; ४१; १योत १०४;
 नाप ४, ३८^०; त्रिआ १, ३; २,
 ६९; योचू ७२; श ७; १७^०;
 त्रिवि ३, ४^०; ५; ७; ४, १; रा ५,
 ८; राप् १, ७; राउ ३, ७; शां
 ३, १; योशि २, १४; ४, ३; ५;
 ७; ५, २८; अव्य ७; १आ २६,
 २८; वरा ३, २; सर २, २; शु
 ३, १५; कठ २१; जाद ४, ६३;
 गोउ १३; ६८; अद्वै १७; २४;
 २५; १प्र ३०; ३; २प्र ३३९;
 १९; ३५; ३९^०; गोच ६७; १४;
 नापू ५, १३; नाउ १, १; सार
 २१९; १; २४०: २३; २४३:
 १६; २८५: १३; १६; वड ३१७:
 २२; शि ७, १३०; स ३७९:
 २०; मिशि ३८०: ५; गार
 ४०५; ६; व ४६४: १३^०; अरु
 २२^०; भव २, ३३; वड ३,

a) मा १३, ३ । b) सकृत् 'तत्परायणम्' इति अब्या । c) तैआ १०, १५, १ । d) 'ब्रह्मा' इति अब्या । e) 'ब्राह्मणः' इति निसा. संटि., अब्या । f) तैआ ८, १, १ । g) तैआ १०, १, ६ । h) तैआ १०, १२, १ । i) तैआ १, २७, ३ । j) तैआ १०, १४, १ । k) तैआ १०, ४७, १ । l) तैआ १०, ६३, १ । m) तैआ १०, ६४, १ । n) सकृत् 'णे' इति आन. । o) 'ब्राह्मणम्' इति आन. । p) तैआ ७, ४, १ । q) तैआ ८, ४, १ । r) 'णे' इति निसा. । s) 'ब्राह्मणः' इति मुपा. यनि. शोधः द. (दु. गोआ १, १, २५) । t) तैआ ४, ३८, १ ।

४७; गी ४, ३२; ६, ३८; ८, १७; ११, ३७; १४, २७; १७, २३; -ह्यणा तै १, ५, ३; २, १, १; छां ३, १०, १; ३; ११, २; वृ २, २, ३; ३, १, ६; ४, ४, ९; मैत्रि ६, १२; जा ५; वृ १, ३; ४, ३; ७, १४; श २६; त्रिवि ५, १२; रा ३, १; पं २, ३२; महा ४, ५०; ५, १३६; या २, १; गर २; १२-२४; सर ३, ११; इ १२; ६; व ४४०: २२९^०; ४४६: ५९^०; ४५१: २९^०; ४५४: ९९^०; ४६४: १३; व १२, २०; भव २, ५९; गी ४, २४; -ह्यणाम् त्रिता ३, २८^०; वरा ३, २२; व ४२९: १०९^०; -ह्यणि तै १, ६, २; श्वे १, ७, २, ११; गौ ३, १; मना २, ६९^०; कौ १, ७९^०; मै ४, ४, ५; मैत्रि ६, २२; ३४; मैत्रे १, ४, ७; २, २२; वृ १, १५; वृ ४, ४, ५, १-३; ६, ४; सुबा ५; १०; नि ३०; शु १, ५; ते १, २८; ध्या ६; नाप ३, ५२; ९, ६; गो ६३^०; त्रिवि २, १; ३, ७; रा १, १०; महा ४, १५; योशि ४, १३; अध्या ४३; वरा ५, ५७; शा २; १५; मवा ६; कृ ४; सर ३, २३; व ३, ३८; ५, ४६; भव २, ६; ३, १२; १५; गी ५, १०; १९; २०; -ह्यणी मैत्रि ६, २२^०; त्रिता ५, १७; -ह्यणे तै शान् ९^०; १, १२, १; वृ २, ६, ३; ४, ६, ३; ६, ३, ३;

५, ४; कौ २, १, २; मैत्रि ६, ३३; ३५: ३८; मना २, ९९^०; ६७^०; ७९^०; वृजा ३, १९; ४, २९; सुबा ७; वसू १; अध्या ७०; ह २०^०; रसंन्या १६: ९; गो ६७; जा ७, ४; आर्षे ९: २१^०; सार २७५: २०; गार ४०५: १; व ४६२: १६^०; ४६५: ३^०; १कौल शान् १; वपू १, १^०; ३; -ह्यन् क १, १, ९^०; मना २, ७९^०; वृजा ५, ११; १३; १योत १९; २१; २८; त्रिबा २, ८०; ९६; ९९; योचू ९२^०; महा २, ४१; ७२; ३, १९; २०; ५, ८३; ९०; ११०; १२४; १३५; ६, ४३; ५५; योशि १, १३५; १३९; २, २; ५; ८; १३; ५, १; ४७; ६, ७०; अज १, २; ४२; ४३; ४८; ५०; ५, २५; २६; ३४; ६१; पाशु १, २; त्रिवि १, २; ८, १४; मुद्र २, यो २, १४; २५; २६; ४१; जा ६१, ५; ५, १; गो ३१; ५८; इ १२: ७; गार ४०५: २; व ४४२: १३; व २, ४^०; ३, १९; ३६; -ह्यभि: रुजा १, २३; -ह्या सुं १, १, २; तै १, ८, १; ऐ ५, ३; छां ३, ११, ४; ४, १६, २^०; ४; १७, ८; ९; १०^०; ८, १५, १; वृ ३, १, ६^०; ९; श्वे ५, ६^०; मै ४, ४, १२; ४, ५; मैत्रि ३, २५; ४, ५; ५, १; २; ६, ५; कै १, ८^०; गर्भ ५; ना १; २; मना २, १२, १९^०; २९^०; १३, २९^०; २, २१९^०; ३५^०; ४०^०; ४१^०;

७८^०; ७९^०; ८०^०; अ २; अशि २, १; ६, १५; अ १; २^०; कौ १, ३; ५^०; ७; वृजा ४, २६; वृपू १, ८^०; १२; २, २; ४, १५, १; वृ ३, २; ९, १०; सुबा १; ५-७; नि ५; २०; ते २, ५; २७; ५, ५१; ८८; ६, १७; ध्या २१; त्रिवि ३४; ७१; योचू ६२; ७२^०; ७५-७७; ६१; त्रिवि १, १; २, १६; ८, २४; रा २, २; २०; ४८; रा ४, १; ५; शां ३, १; महा १, १^०; ३, ५२; ५, १५८^०; १६०; योशि १, ७६; ४, ३; ५; ६; १८; २०; ५, १३; ५६; प ४१८: २०; ४१९: २०; ४२०: ६; सू १; ९; अध्या २०; ७०; पाशु १, १; ११; २, २२^०; प २; क १^०; रु ४; ८^०; १३; १५; १८; भ २, १२; २७; २९; ग ६; ता १, २; २, १; मवा १; पं १; प्रा १, ६९^०; गो २३; २६; ६२; ६४; ह २; ९; दत्ता १, १^०; रुजा २, १९; गर १^०; २; २५; कलि १; ब २; इ १९: १८; च २०: २; ४; २१: ६; २३ ३२: १; सूता १, ५; १७; स्व ६०: ५; तुल ७१: २१; नापू २, १; ३, १; ५^०; १९; ४, १५; ५, १; १२; ६, १; ना १, १; २, १; १३; ३, १; कृपु १८^०; २२; पा ३, ६; सार २४३: ६; ८; २८०: १५; लिं ३१०: १६; वृ ३१३: ३; ३१७: २१; रशिसं १८; स ३७८: ९; हे ७; कालि ४०३: ७^०;

- a) ऋ १, २४, ११ ।। b) ऋ २, २३, १ ।। c) तैश्चाञ्चा १०, ६९^० ।। d) 'ब्रह्मणः' इति आन., बे., शांथा ३, ७ ।। e) 'णीवे' इति अज्या. यनि. शोधः (तु. आन.; वैतु. निसा. ब्रह्मणीषु) ।। f) ऐश्चा ८, ९, ५ ।। g) तैश्चा १०, ७, १ ।। h) तैश्चाञ्चा १०, ६७ ।। i) तैश्चा १०, ६३, १ ।। j) वृञ् ८, ४५ ।। k) तैश्चा २, १२, १ ।। l) 'ब्रह्मा' इति अज्या. ।। m) 'ब्रह्म' इति आन. संटि. ।। n) तैश्चा १०, ११, २ ।। o) ऋ ९, ९६, ६ ।। p) ऋ ४, ५८, २ ।। q) तैश्चा १०, ४७, १ ।। r) तैश्चाञ्चा १०, ३५ ।। s) तैश्चा १०, ३९, १ ।। t) तैश्चा १०, ६२, १^० ।। u) तैश्चा १०, ६३, १^० ।। वैतु. सा. ब्रह्मन्- > -ह्य इति ।। v) तैश्चा १०, ६४, १ ।। w) 'ब्रह्म' इति अज्या. ।। x) 'ब्रह्म' इति निसा. ।। y) तैश्चा १०, ३१, १ ।। z) 'ब्रह्म' इति अज्या. संटि. ।। a') वा. ? ।।

गार ४०५:३; ६: ४०८: ६:
 २०: गु ७४: व ४४२: १२:
 १३: १८९^३: ४४७: १८: ४४८:
 २९^३: ४५२: ९९^३: ४६५: १:
 ९^३अरु२२: २५: तारा ८४: ११:
 अद्वैभा ५: वपू १, १९^३: २: ४: २,
 १: वउ २, १: २: ३, १७: १९:
 २१: ३७: ४०: ५९: ४, २५:
 -ह्राणम् छां ४, १७, ९: १०: धे
 ६, १८: मना २, ७९९^३: वृउ ३,
 ९: १०: सुवा १: ९^३: शु १, १:
 ध्या ३१: शर: २: त्रिवि ५, १२:
 वे २: जाड ८, ५: गोपू २२: दत्ता
 ३: ह १: कलि १: पिं १: २प्र
 ३२: १: कृता १, १: का १: तुल
 ७१: २१: नार १: नापू १, ९:
 पा ३, १०: २शिमं १६: वउ ३,
 १८: २८: ३६: गी ११, १५:
 -ह्राणि वृजा ३, १४.

ब्रह्मणी--०णि वउ३१:
 १७: ४५२: ६: ण्यै व ४३१: ३:
 ४३६: ४.

ब्राह्म- -ह्रा: आश्र १^३९:
 अद्वैभा ५: -ह्रम् वृ४, ४, ४: पाशु
 २, ६^३: २प्र ३४: २०: शि ५,
 ४५: गार ४०७: १०: -ह्ये त्रिजा
 २, १११: -ह्येण त्रसू ४, ५.

ब्राह्मी- -०ह्रि व
 ४३१: १७: ४५८: ११: -ह्री नाद
 ११: योचू ८६: महा ६, ७३: गोउ
 ६३: कालि ४०१: १०: गार ४०६:
 १५: पी ४२२: १०: श्या १३:
 सुमु १३: तारा ८४: ४: गी २, ७२:
 -ह्रीम् के ४, ७: कुं२: २प्र ३२: ६.

ब्राह्मी-शक्ति-
 -क्ति: आश्र ३९४: २.

ब्राह्मय जी-अ:-
 एक-कम् आश्र ३९४: १.

ब्राह्मयाजी-अ:-
 दि- -इय: सूत ५, ११.

ब्राह्मयथ-
 (दि-अ)ष्टम्- -ष्ट मा १०.

ब्राह्म-काल- -ले जाद ६,
 २१.

ब्राह्मे द्य-ड टि- -ष्टिम्
 २मंन्या १५: २.

ब्राह्मग^३- -ग: क १, ३, ७:
 ८: सुं १, २, १२: ११, ८, २: छां ७,
 १५, १: वृ १, ४, ११: १५: २, १,
 १५: ३, ५, १३: ८, १०: ४, ४, २१:
 २३: ६, ४, १२: मना २, ८०^३:
 जा ५: अशि ७, १: कौ २, ९:
 मैत्रि ७, १०: वृजा ७, ४: सुवा
 १९^३: नि ५६: वम् ३-५: ७:
 ९: ११^३: १६^३: १७: १८: २०:
 २१: २२: २८: ध्या १४^३: नाप
 ३, १४: ४०: ७७: ८६: ४, ३४:
 त्रिजा १, १: राउ १, २: सुह्र ३:
 शां १, ७, ४६: पै ३, १: महा ६,
 ८३: पप ४२०: ५: ८: अव्य ५:
 अज ४, ३७: सू ६: २६^३: अक्षि
 १: पाशु १, १९: पत्र ३, ३: भ
 १, ८: २, १: रुजा १, १०: ३, १:
 गोपू ३: ५: वग ३, २२: ४, ३३:
 शा २३: या २, १: दत्ता ३: कलि
 ३: इ १०: ४: ११: २०: १४:
 २३: १५: ५: ११: १८: १४:
 व २१: ७: चा १३: २प्र ३३:
 १५: स्व ६१: ९: मार २२६:
 १८: २५६: १७: २७९: ११:
 २८९: २: सु २९३: १: व १^३:
 २: ३: ४^३: ५: लि ३१०: १३:

वपू ३१८: ३: विउ४: गार ४०८:
 १६: ग ४२३: १: ४२५: २:
 विदा १: वृ २०: वउ ३, ४७:
 भव २, ३३: -गम् जी ७, १५, २:
 कौ ४, १८: राउ ५, १५: अरु ५:
 गी २: द्वा ३३९^३: सु १, ३:
 ५१^३: इ १३: १: -णयो: छां
 १, ८, २: -गम्य छां ४, १, ७: वृ
 ४, ८, २३: ६, ८, २८: वृजा ६, १:
 पत्र २: आच २: इ ११: १६:
 १२: १३: व ३: सु २९३: ३:
 शि ६, १५६: गी २, ४६: -णा: नै
 १, ११, ३: ४^३: वृ १, १, २^३: ५,
 १: ८, ८: ९, १८: २७: ४, ४, २३:
 ५, १, १: मना २, ३८^३: ३९^३:
 ४०^३: वृजा ५, २: सुवा ९: मन्त्रि
 २०: पाशु १, ३०: रुजा १, ८: ९:
 सर २, ६९^३: इ ११: ९: १२: ८:
 छाग २३: ४: ५^३: ६: २४: १८:
 २प्र ३३: २२: नापू ५, ३२^३:
 मार २३१: २१: २३५: २:
 २७३: ६: १०: २७८: २: २शिमं
 ३७: मशि ८१: ७: भव २, ६५:
 गी ९, ३३: १७, २३^३: -०णा:
 वृ ३, १, २: ८, १: १२: ९, २७:
 -णान् ५ ४: -णान् छां २, २०,
 २: ५, ३, ७: वृ ३, ९, १९: अशि
 १, १३: वृजा ३, २१: नाप ४,
 ३८^३: म १, ४: २, २१: ग १८:
 अक्षि १: गरु २५^३: इ १०: ७:
 १९: १९: चा १४: वृ ८: गार
 ४०८: २०: व ४५८: २२:
 -णानाम् छां ८, १४, १: वृ ३, १,
 १: म १, ८^३: २, १: वा ३३: इ
 १५: १: लि ३०९: ९: -णाय
 मना २, ३८^३: ३९^३: ४०^३म;

a) ऋ ९, ९६, ६ । b) तैआ १, २७, ३ । c) तैआ १०, ६३, १ । d) ०ह्रयम् इति अख्या. यनि. शोष: द्र.
 (तु. निसा.) । e) तु. टि. द्राविणी-मुद्रा- । f) वैप १ यद्र. । g) तैआ १०, ६४, १ । h) ऋ १०, ९०, १२ । i) 'ब्रह्मणः'
 इति निसा. । j) वाध २, ८ । k) तैआ १०, ४८, १ । l) तैआ १०, ४९, १ । m) तैआ १०, ५०, १ । n) ऋ १, १६४,
 ४५ । o) णः इति सुपा. यनि. शोष: द्र. (तु. वे.) । p) 'ब्रह्मणा' इति SCHR. पामे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] ।

गोत्र १;३; वि २४; -णे वृ १, ४, १५; ६, २, ८; १संन्या २, ६९; ७०; इ १५; १०; गो ५, १८; -णम्यः मना २, ३६^{१०}; अशि ४, ३; वट्ट ३१५; १८; वपू १, ३; -णेषु वृजा ३, १८; -णैः अशि १, १०; सु २९४; १५.

ब्राह्मणी-^{१०}ण्यम् सं १५.

२ब्राह्मण^{१०}-^{१०}णम् २प्र ३३: १७; ३४: ३; ४; १०; ३६: ३; -णे शा ८^०; २प्र ३४: ३.

ब्राह्मण-वचन-^{१०}नम् २प्र ३५: ३.

ब्राह्मण-कुल-^{१०}ले इ १८: २१; -लेषु आश्र ४.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-विश्व-विशाम् गी १८, ४१.

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-^{१०}द्वाः भव २, २६.

ब्राह्मण-घ्न-^{१०}घ्नैः स्व ६१: ८.

ब्राह्मण-न्व-^{१०}न्त्वम् पत्र २^३; इ ११: २३; न्वात् इ ११: २३.

ब्राह्मणत्व-सिद्धि-^{१०}द्धिः वसू २९.

ब्राह्मण-भूपाल-वैश्य-शूद्र-^{१०}गाण-^{१०}गाः महा ५, १३९.

ब्राह्मण-योनि-^{१०}निम् छां ५, १०, ७.

ब्राह्मण-वध-^{१०}धात् भ १, ११.

ब्राह्मण-सत्तम-^{१०}सत्तम त्रिब्रा २, २४.

ब्राह्मण-हन्-^{१०}हा छां ७, १५, २; ३.

ब्राह्मणाच्-छंसिन्^{१०}-^{१०}सी प्रा ३, १; ४, १.

ब्राह्मणा(ण-अ)तिक्रम-^{१०}मः इ १४: २०.

ब्राह्मणा(ण-आ)दि-^{१०}दयः ब्र ३, ४; नि ७; २२; नाप ३, ८४; चू २१.

ब्राह्मणा(ण-अ)धिक-^{१०}कः ४५.

ब्राह्मणा(ण-आ)भास-^{१०}मात्र-^{१०}त्रेण पत्र ३, ९.

ब्राह्मणा(ण-अ)यन^{१०}-^{१०}नाः वृ ६, ४, ४.

ब्राह्मणा(ण-उ)त्तम-^{१०}मम् महा ६, ४६.

ब्राह्मण्य-^{१०}ण्यम् गौ ४, ८५; ब्र ३, ५; पत्र ३, ११; आबो २२; नाप ३, ८५; वरा २, ५; शा १७; -ण्येन अशि १, ११^{११}.

ब्राह्मण्या(ण्य-आ)धा-^{१०}(२>)रा-^{१०}राम् पप ४१८: २१.

ब्रह्म-ऋषि-^{१०}पिः शां २, १.

ब्रह्म-कर्मन्^{१०}-^{१०}र्मं गी १८, ४२.

ब्रह्मकर्मो(र्म-उ)क्त-धी^{१०}-^{१०}ब्रह्मकर्मोक्तधी-मत्-

-^{१०}मते श ३४.

ब्रह्म-कर्म-समाधि^{१०}-^{१०}धिना श २६; गी ४, २४.

ब्रह्म-कल्प-तरु-^{१०}रवे त्रिवि ७, ४३.

ब्रह्मकल्पतरु-वन-^{१०}नैः सि ३, ३.

ब्रह्म-कल्प-वना(न-अ)मृत-^{१०}पुष्प-^{१०}वृष्टि-^{१०}ष्टिभिः त्रिवि ७, ५०.

ब्रह्म-कार्य-^{१०}र्यम् पं २२^२.

ब्रह्म-का(ल>)ली-^{१०}ब्रह्मकाली-त्व-^{१०}त्वम् हंपो १०.

ब्रह्म-कुल-दर्प-^{१०}र्पम् ते १, १३.

ब्रह्म-कृत्-^{१०}कृत् इ ११: २१.

ब्रह्म-कैवल्य-जाबाल-^{१०}श्वेताश्व^{११}-^{१०}श्वः सु १, १, ३१.

ब्रह्म-कोश-^{१०}शाम् मैत्रि ६, २८;

३८; भ २, २५; २९^१.
ब्रह्म-क्षत्र-वैश्यक-^{१०}कम् ते ६, १२.

ब्रह्म-क्षत्रा(त्र-आ)दि-^{१०}ब्रह्मक्षत्रादि-^{१०}कम् पाशु २, ३९.

ब्रह्म-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-^{१०}द्वाः वसू २.

ब्रह्म-गन्ध-^{१०}न्धः कौ १, ५.

ब्रह्म-ग(व>)वी-^{१०}वीः वृ ३, ७, १.

ब्रह्म-गायत्र-राघव-^{१०}वाः रार २, ३५.

ब्रह्म-गाय(त्र>)त्री-^{१०}त्रीम् वपू ३, १.

ब्रह्म-गुप्ति-^{१०}स्ये पा ३, १०.

ब्रह्म-गुह्य-प्रकार-^{१०}रः पाशु १, २५.

ब्रह्म-ग्रन्थि^{१०}-^{१०}न्थिः ब्रवि ७०;

-^{१०}न्थिम् योशि १, ८६; यो १, ६७; ८५; वरा ५, ६५.

ब्रह्मग्रन्थि-तस(>): वरा ५, ६४.

ब्रह्म-घन-^{१०}ने महा ६, १३.

ब्रह्म-वोष-समन्वित-^{१०}त्वे शां १, ५.

ब्रह्म-घ्न-^{१०}घ्नः रार १, ९; गोच ६८: १^५.

ब्रह्म-चक्र-^{१०}कम् श्वे ६, १; सौ ३, १९^{११}; योरा ५९^{११}; भव २, ३;

-^{१०}क्ते श्वे १, ६; नाप ९, ५; भव २, ४.

ब्रह्मचक्र-^{१०}क-^{१०}कम् ते ६, १०१.

ब्रह्म-चर्य^{१०}-^{१०}र्यम् क १, २, १५;

प्र १, १३; १५; सुं २, १, ७; छां ४, ४, १; ३; १०, १; ६, १, १; ८, ५, १^१-३^२; ७, ३; ११, ३; वृ ५, २, १^१; ६, २, ४; जा ४; आरु ३;

४^{१०}; नाप १; ३, ७७; ५, १; त्रिब्रा २, ३२; शां १, १; महा १, १; १संन्या २, १३; पप ४१८: ३;

a) तैआ १०, ३०, १। b) =ग्रन्थविशेष-। c) 'ब्रह्मणः' इति अख्या.। d) पूष. पञ्चम्या अलुक् (पावा ६, ३, २)। e) बस.। f) °ब्रह्मणेन इति निसा. यनि. शोषः इ. (तु. आन., अख्या.)। g) षस.। h) सस. > कस.। i) कस. > बस.। j) तदाख्यो-पनिषदां द्रस. > कस.। k) ब्रह्महन्त्- > न्त्वा इति Jc.। l) =शरीरव्यापिचक्रविशेष-। m) 'ब्रह्मचारिणाम्' इति आन., अख्या.।

ब्रह्म-दृष्टि- -ष्टिः ब्रह्म ४. १. ५;
-दृष्ट्या अत्र ५, ४४.

ब्रह्म-देवता- -ताः तुल ७१:४.

ब्रह्मदेव(ल्य>)त्या- -त्या
अशि ५, ९५^b.

ब्रह्म-दैवत- -तम् २प्र ३२:६.

ब्रह्म-दैव(ल्य>)त्या- -त्या २प्र
३४: २०५^०; गार ४०६: १८.

ब्रह्म-द्वार- -रम् मैत्रि ४, ४;
योचू ३७; यो २, ४२; -रे यो
२, ४२.

ब्रह्मद्वार-पार- -रम् मैत्रि
६, २८.

ब्रह्मद्वार-मुख- -खम् योचू
३७.

ब्रह्म-द्विष्- -द्विष्: व ४३८:

१९; ४३९: ६; १६; ४४०:
३; १३; ४४१: २; ११; २२;

४४२: १०; २१; ४४३: ७; १७;
४४४: ११; २१; ४४५: ९;

१९; ४४६: ८; १८; ४४७: ५;
१७; ४४८: ५; १५; ४४९: ३;

१२५^०; १३; २०; ४५०: ४;
११; १८; ४५१: ४; ११; १९;

४५२: ३; ११; १९; ४५३:
३; ८; १४; २१; ४५४: ३; ११;

१७; ४५५: १; ८; ४६६: ७; १०.
ब्रह्म-धामन्- -म सुं ३, २, ४;

ब्र १.
ब्रह्म-धी- -धी(धि)यः मैत्रि
७, ११.

ब्रह्म-ध्याना(न-अ)र्ह-
ब्रह्मध्यानार्ह-त्व- -त्वम्
पत्र २.

ब्रह्म-नाडि, डी^१- -डी त्रिवा २,
६९; अता ५; योशि १, १२५;

५, १७; ६, ८; ९; जाद ४, ९.

ब्रह्मनाडि-ग- -गः शां १, ७,
१२; योशि १, ११२; यो १, ५२.

ब्रह्मनाडी-मुखा(ख-अ)न्तः-
स्थ-कफा(फ-आ)द्य(दि-अ)-
गल-नाशन- -नम् योशि १,
९९; यो १, ३८.

ब्रह्मनाड्य(डी-अ)न्तर- -रम्
यो १, ४६.

ब्रह्म-नाल- -ले सु १, १, १९.

ब्रह्म-निधि^१- -धये त्रिवि ७, ४३.

ब्रह्म-निर्वाण- -णम् गी २, ७२;
५, २४; २५; २६.

ब्रह्म-निश्चय- -यम् ते ६, १०१.

ब्रह्म-नि(छा>)ष्ट- -ष्टः मं १, ४,
२; त्रिवि ८, २२; -ष्टम् सुं १, २,
१२; त्रिवि १, ४; रुह ३५; -छाः
प्र १, १; सुं ३, २, १०.

ब्रह्म-निष्ठा- -ष्ट्या अध्या १;
-ष्टायाम् अध्या १४.

ब्रह्मनिष्ठा-पर- -रः पप
४२०: ५; ८; -रम् नाप २.

ब्रह्म-नीड- -डम् मैत्रि ६, १५.

ब्रह्म-पथ- -थः छां ४, १५, ५;
मैत्रि ६, ३०.

ब्रह्म-पद- -दम् अशि ५, १०.
ब्रह्म-पदवी- -वी मैत्रि ६, ३०.

ब्रह्म-पर- -राः प्र १, १; -रे श्वे
५, १.

ब्रह्म-परिज्ञान- -नात् महा ४,
८१; वरा २, २०.

ब्रह्म-पर्ण- -र्णे भ १, ३.
१ब्रह्म-पुत्र^१- -०त्र नाप १; -त्रः
पाशु १, २; २३; ३२; वपू १, ४;

-त्राय वपू १, १; ३; -त्रेभ्यः
गोउ ६८.

२ब्रह्म-पु(त्र^१>)त्रा- -त्रा कृ ६,
ब्रह्म-पुर^१- -रम् छां ८, १, ५;

आबो १; -रे सुं २, २, ७; छां
८, १, १; २; ४; ब्र १^१; पं ३४.

ब्रह्म-पुरुष- -षम्^१ ना ४; आबो
१^१; त्रिता ४, २५; -षाः छां ३,
१३, ६; -षान् छां ३, १३, ६^१.

ब्रह्म-पूत- -तः वृजा ८, १; वृपू
५, १२; राउ ५, ४; पै ४, २३.

ब्रह्म-प्रणव- -वः नाप ७; ८, १^१;
२०; पप ४१९: २०; २१; ४२०;

३; -वम् वृजा ८, ५^१; नाप ३, ८६.
ब्रह्मप्रणव-ध्याना(न-अ)नु-
संधान-पर- -रः नाप ७.

ब्रह्मप्रणव-नादक- -के नाद
५१.

ब्रह्मप्रणव-संलभ-नाद- -दः
नाद ४६.

ब्रह्मप्रणव-संधान-नाद-
-दः नाद ३०^१क.

ब्रह्मप्रणव-स्तुति- -तिः इ
२०: २.

ब्रह्मप्रणवा(व-अ)नुसंधान-
-नेन पप ४२०: १७.

ब्रह्म-प्रवृत्ति- -त्तौ पाशु १, २२^१!

ब्रह्म-प्रास- -सः क २, ३, १८.

ब्रह्म-प्रासि-कर- -रम् शु ३,
१४; -रौ वरा ४, ४२.

ब्रह्म-बन्धु- -न्धुः छां ६, १, १.

ब्रह्म-बाध-प्रसक्ति- -क्तेः सांस्
५, १६.

ब्रह्म-बिल- -लम् यो २, ४०.
ब्रह्मबिला(ल-अ)न्तर- -रम्
त्रिवा २, १५१.

ब्रह्मबिला(ल-अ)वधि- -धि
त्रिवा २, १४१.

a) मलो. कस. । b) गोत्रा १, १, २५ । c) ०देव० इति गोत्रा १, १, २५ । d) खि ५, ८४, १ । e) अष्ट ८, ६४, १ । f) पा.१ यनि. शोघो वा मौस्थि. प्राक्नतरं रू. वा द्र. । विसर्गलोपे सत्युत्तरेणाऽऽर्धः संधिश्च द्र. (तु. राती.; वैतु. सात्.) । g) षस. । h) बस. । i) समाहारे द्रस. । j) वैतु.: उत्र. पदद्वयमिति । k) ०नं ना० इति निसा. यनि. शोघः द्र. (तु. अख्या.) । l) तु. सत्य. टि. प्रणवर्हस-सूत्र- > -त्रेण- ।

ब्रह्म-बोधक-काः सार २७८ः
२१.

ब्रह्म-भाव-वम् नाप ३, ८०;
त्रिवि १, २; १आ २५; -वे जाद
१, १४; -वेन नाद २०.

ब्रह्मभाव-मय-यम् १
२; पत्र ३, ४.

ब्रह्म-भावन-नम् ते ६, १००.

ब्रह्म-भावना-नया पप ४१८ः
२०.

ब्रह्म-भुवन-नात् गी ८, १६.

ब्रह्म-भू-भूः दे १३.

ब्रह्म-भूत-तः ते ४, ३३; या २,
१८; भव ३, ७; गी ५, २४; १८,
५४; -तम् गी ६, २७; -ताय पै
४, ६.

ब्रह्मभूत-त्व-स्वात् १आ
२६.

ब्रह्मभूता(त-आ)त्मन्-
-त्मनः कर १३.

ब्रह्म-भूय-याय जा ५; नाप
४, ३२; ५, १५; पप ४१९ः ८;
कर ४२; ग १६; या २, १; वि
२५; सिशि ३८३ः ७; गी १४,
२६; १८, ५३.

ब्रह्म-भूयस्-यसे नाप ५, १८.

ब्रह्म-भेद-दः त्रिवि ४, ३.

ब्रह्म-भूष-वीर-हत्या-स्यायाः
वि २५.

ब्रह्म-मण्डल-लम् व ४४२ः
१३; १४.

ब्रह्म-मन्त्र-न्त्राः स १, ५.

ब्रह्ममन्त्र-तस्(>) वृजा ३,
२८.

ब्रह्म-मय-यः कौ १, ७; योशि
६, ३२; ग ५; -यम् वृजा ६, १२;
वृष ५, ८; ते १, २९; ६, ३८^१;

नी ३३.

ब्रह्ममयी-यी विषा १ः
-यीम् ते १, ४७^२.

ब्रह्ममय-वैकुण्ठ-वठम्
त्रिवि ५, १३.

ब्रह्ममयवैकुण्ठ-वामिन्-
-मिभिः त्रिवि ६, २१.

ब्रह्म-मात्र-त्रः ते ३, २१;
-त्रम् ते ३, ३२; ५, ३०^३; ६,
४२; ४७^४; ४८^५; ४९.

ब्रह्ममात्र-क-कम् ते ६,
१०३.

ब्रह्ममात्र-त्व-स्वात् ते ३,
३५; ५, १७.

ब्रह्म-मान-नेन त्रिवि ३, ४.

ब्रह्म-मार्ग-मै जा ६; मि १५;
पप ४१९ः २.

ब्रह्म-मुख-स्वात् सु १, २, ७.

ब्रह्म-मूर्ति-तैयः पा ३, १०.

ब्रह्म-मूर्धन्-धानिस् वउ ४, ३५.

ब्रह्म-यज्ञ-ज्ञः नैत्रि १, १;

पाशु १, १६; -ज्ञम् नाप ४, ३८.

ब्रह्मयज्ञ-क्रिया-युक्त-कः
पाशु १, १९.

ब्रह्मयज्ञ-मय-यम् पाशु १,
१७^६.

ब्रह्म-यज्ञस्-ज्ञः कौ १, ५९^७.

ब्रह्म-योग-युक्ता(क्त-आ)त्मन्-
-त्मा गी ५, २१.

ब्रह्म-योनि-निः मना २,
७९^८; -निम् मुं३, १, ३; खे ५, ६;
नैत्रि ६, १८; कै १, ६; वृष ३, ४.

ब्रह्मयोनि-स्वरूप(>)पा-
-पाम् त्रिता ५, २१; वपू २, २.

ब्रह्म-रन्ध्र-रन्ध्रम् हं६; शां १,
४; योशि ६, ३४; यो २, ३६; जाद
६, ३५; ३६; वरा ५, २३; मौ ३,

१; योरा १६; -रन्ध्रस्य वरा ५, ३०;

-रन्ध्रान् त्रिवि ५, १२; योशि ६,
३३; भा ३८; त्रि १, ९; -रन्ध्रे

त्रि २, १५१; योशु ६; न्न
२, २३; वा २९; शां १, ४^९;

योशि ६, ४७; कलि ४०१ः १;
पौ ४२१ः १; रवा १; तारा ८३ः

१; -रन्ध्रेषु ध्या १०४.

ब्रह्मरन्ध्र-गत-नस्वरा ५,
७०.
ब्रह्मरन्ध्र-गामिन् > नी-
नी अना ५.

ब्रह्मरन्ध्र-निवासिन् > नी-
नी -नीम् योशि ६, १९.

ब्रह्मरन्ध्र-पर्यन्त-न्तम् हं
९; भा ३८; नं १, २, ६.

ब्रह्मरन्ध्र-मुख-स्वम् त्रि १
२, ६४; जाद ४, १३.

ब्रह्मरन्ध्र-समन्विता > ता-
ता यो १, ८३.

ब्रह्म-रस-सः कौ १, ५९^९.

ब्रह्म-रात्रि-त्रिः सार २४१ः
२३; २४२ः १; ४; ११.

ब्रह्म-रुद्रा(द्र-आ)दि-वन्दि-
(त)ता-ताम् गोव २७^{१०}.

ब्रह्म-रूप, पा-पः स ३७९ः ५;
-पम् सर ३, २४; वि १६; १४;
-पा सर २, १०; -पाः कृ १३.

ब्रह्मरूप-ता-तया १आ १;
वरा २, १४; -ता सांस् ५, ११६.

ब्रह्मरूप-रुष्-रुष् कृ १९.

ब्रह्मरूपिन्-पिणे नापू ३,
१५.

ब्रह्मरूपिणी-नी नु १६;
योशि ६, ५; -नीम् कलि ४०१ः १.

ब्रह्म(ह्र-श्र)र्वि-र्वयः खे ४, १५;
सु ५८.

a) 'वम् इवम् इति निसा., अख्या. संटि. । b) 'ज्ञानम्' इति अख्या. । c) 'ह्रतेजः' इति आन., शांआ ३, ५ । d) तैआ १०, ६३, १ । e) 'न्त्रा' इति निसा. संटि., अख्या. । f) 'ब्रह्म सः' इति वृटिते निसा. मुपा. यनि. श्लोचः ३. (उ. सांआ ३, ५) । g) 'ह्रादिब' इति निसा., 'ह्रादिलेवि' इति आन. ।

ब्रह्मर्षि-गृह- -हे भि ४.
 ब्रह्मर्षि-न्यास- -सः द ६.
 ब्रह्म-लिङ्ग- -ङ्गम् लि ३११:२.
 ब्रह्म-लोक- -कः प्र १, १५: १६;
 मुं १, २, ६; छां ८, ४, १-३; ५, ४;
 वृ ४, ३, ३२; ४, २३; ते ६, १८;
 गु १७; -कम् प्र ५, ५; छां ८,
 ३, २; ४, ३; १३, १; १५, १; कौ
 १, ३; मैत्रि ६, ३०; मना २,
 ३६९^०; म २, २५; गोड ५२;
 थोरा २०; सार २२६: १९;
 २३५: ३; मृ ८: गार ४०८: २०;
 वपू १, ६; -कस्य कौ १, ३; -का:
 वृ ३, ६, १; मुवा १०; -कान् वृ
 ६, २, १५; -के क १, २, १७; ३,
 १६; २, ३, ५; छां ८, ५, ३; ४;
 १२, ५; वृ ४, ३, ३३; मना २,
 १२, ३९^०; सुवा १२; इ ११: २१;
 गोच ६७: ४; ६९: १४; सार
 २४२: १४; गु ४०; -केषु मुं ३,
 २, ६९^०; वृ ३, ६, १; ६, २, १५; कै
 १, ४९^०; सुवा १०; भव ३, ३३९^०.
 ब्रह्मलोक-काम- -मः म २,
 २५.
 ब्रह्मलोक-ग>गा- -गा:
 गोच ६९: १८.
 ब्रह्मलोक-ज्ञान- -नम् शां
 १, ७, ५२.
 ब्रह्मलोक-पदा(द-अ)न्वे-
 विन्- -षी अना २.
 ब्रह्मलोक-स्थ- -स्था: सु १,
 २, ७.
 ब्रह्म-वत्- -वान् तै ३, १०, ४.
 ब्रह्म-वन- -नेषुत्रिविद, २१; २३.
 ब्रह्म-वर- -रम् गोच ६९: १८.
 ब्रह्म-वर्चस्-
 ब्रह्मवर्चस्विन्- -स्वी सु
 २९५: ४.

ब्रह्म-वर्चस^०- -सम् तै १, ३, १;
 छां ३, १३, ३; ५, १२-१७, २;
 मना २, ३६९^०; अव्य ७; कौ २,
 १५; सार २३५: ३; -सेन तै १,
 ३, ४; ३, ६-९, १; छां २, १६, २;
 ३, १८, ३-६; ५, १९-२३, २; वृ
 ६, ४, २८; मना २, ७७९^०.
 ब्रह्मवर्चसिन्- -सी छां २,
 १२, २; ३, १३, ३.
 ब्रह्मवर्चसो(स-उ)पासक-
 -का: सार २७३: ६.
 ब्रह्म-वश- -शः २प्र ३४: २.
 ब्रह्म-वस्तु- -स्तु पाशु २, २५.
 ब्रह्म-वाच्- -वाक् अव्य १.
 ब्रह्म-वादिन्- -दिन: छां २, २४,
 १; श्वे १, १; ३, २१; मै ५, ७^०;
 मैत्रि ६, ७^०; वृ २, ५; १७; ३,
 ३; सी ८; राउ २, ४; १संन्या १,
 १; अध्या १४; गोड ४४; ४५;
 २प्र ३४: १०; ३६: १५; कशु १,
 १; वपू २, २; -दिना शु ३, १६;
 -दिनाम् तै १, २२; २७^०; नाप
 ५, ५; राउ १, ३; गी १७, २४;
 -दिभि: ब्रविद; ४; द १९; शारी
 ४; गोड ५३; वरा २, ५२; -दिषु
 इ १७: २; १प्र ३१: १; ६.
 ब्रह्मवादिनी- -नी वृ ४, ५, १
 ब्रह्म-वार्ता- -र्तायाम् तै १, ४६.
 ब्रह्म-विग्रह- -हे वरा ३, १६.
 ब्रह्म-विज्ञान- -नम् नाप ६, २१.
 ब्रह्मविज्ञान-लाभ- -भाय
 नाप ६, २२.
 ब्रह्मविज्ञान-विहीन- -नस्य
 पाशु २, ३७.
 ब्रह्मविज्ञान-संपन्न- -न्न:
 पाशु २, ४६; वरा २, २७.
 ब्रह्मविज्ञानिन्- -निनाम्
 नाप ६, १५.

ब्रह्म-विद्- -वित् तै २, १, १; छां
 ४, ९, २; वृ ३, ७, १; ४, ४, ९; जा
 ५; ध्या ६; त्रिवा २, ५५; मं २,
 ३, २; ५; वां ३, १; महा ४, ८५;
 १आ २३; पाशु २, २७; ३९; म
 २, १२; गोड ३०; या २, १; वरा
 ४, १; शा ३७; सु २, २, ६४; य
 १; सु २९३: १; आथ ३९९:
 १८; गी ५, २०; -विद: क १,
 ३, १; मुं १, १, ४; छां ४, १४,
 २; वृ ४, ४, ८; श्वे १, १; ७; मैत्रि
 ६, १८; जा २; ब्र ३, ५; नाप ३,
 ८५; राउ ३, १; ऐ १०; १आ ८;
 वरा १, ४; सु २९४: १४; भव
 २, ६; गी ८, २४; -विदम् नाप
 ६, १७; १आ १४; -विदाम् मुं ३,
 १, ४; अन्न १, १; ३, १९; वरा २,
 २२; पा ३, ६; य १; सु २९३: १;
 शि ५, ४०; -विद्भि: जाद ७, ३.
 ब्रह्मविच्-ह्रेष्ठ- -ष्ठ: १आ
 २२.
 ब्रह्मवित्-तम- -म: अन्न
 ३, ३; १आ २०; -मम् १आ
 १६; -मै: शारी ३.
 ब्रह्मविद्-उत्तम- -म: १आ
 २०^०.
 ब्रह्मविद्-दृष्टि-गोचर- -रा:
 वरा ४, ४४.
 ब्रह्मविद्-वर- -र: वरा ४, १.
 ब्रह्मविद्-वरिष्ठ- -ष्ठ: वरा
 ४, १.
 ब्रह्मविद्-वरीयस्- -यान्
 वरा ४, १.
 ब्रह्मविन्-मात्र- -त्रेण पैष्ठ. १.
 ब्रह्म-विद्या^०- -ध्या वृ १, ४, ९;
 मैत्रि ६, २९; -द्या छां ७, १, ४; मै २,
 ३; मैत्रि २, ३; म २, २८^०; -द्याम्
 मुं १, १, १; २; २, १३; ३, २, १०;

a) शौ १९, ७१, १। b) तैआ १०, १०, ३। c) °के तु इति तैआ १०, १०, ३। d) पा ५, ४, ७८।
 e) तैआ ३, ७, ६, २०। f) राजयोगि इति अज्या। g) गप्र. (पृ १७६) उत्तम-> -मः इत्यत्र सस्य. यनि. शोषः द्र.।

छां ७, १, २, २, १, १, १; कै १, १;
 ब्र १; शां २, १; अक्ष १, १७;
 छ, ३८; अक्षि १; क्त १; वरा
 १, १; २, १; शा १, १; २, १; ह
 १, १; १, १; गरु १, २; २, १; व १, १;
 १, २; कश्चु २, २; -द्यायाः त्रिवि
 १^b; १ प्र ३० : ८.
 ब्रह्मविद्या-कल्प-तरु-वन-
 -नैः मि २, १०.
 ब्रह्मविद्या-तरङ्गिणी- -णीम्
 त्रिवि ६, २, १; -ण्याः मि ३, ४.
 ब्रह्मविद्या-तीर- -रे त्रिवि
 ६, २, १.
 ब्रह्मविद्या-परिज्ञान- -नम्
 शु ३, १४.
 ब्रह्मविद्या-पाद-वैकुण्ठ-
 -ण्डम् त्रिवि ६, २, ३.
 ब्रह्मविद्या-प्रबोध- -धः द्वै.
 ब्रह्मविद्या-प्रवाह- -हैः त्रिवि
 ६, २, १; मि २, २.
 ब्रह्मविद्या-मय- -यैः त्रिवि
 ६, २, १; मि २, ३; ४, ८.
 ब्रह्मविद्यामया-य-आ-
 नन्त-परिध- -धाः मि ३, २.
 ब्रह्मविद्या-विद्- -विन् मैत्रि
 ४, ४.
 ब्रह्मविद्या-वैकुण्ठ- -ण्डम्
 त्रिवि ६, २, १.
 ब्रह्मविद्या-साकार- -रः त्रिवि
 २, ६.
 ब्रह्मविद्या-मेविन्- -विनः
 सार २५६ : २२.
 ब्रह्म-विज्ञान- -नम् चू २१.
 ब्रह्म-विज्ञान- -द्वैः ते १, ४१.
 ब्रह्म-विषय- -यम् मैत्रि ६, ३५.
 ब्रह्म-विष्णु-
 ब्रह्मविष्णु-मय- -यः रुह ९.

ब्रह्मविष्णवा-पु-आ-दि-
 -विभिः षं १३.
 ब्रह्मविष्णवादि-नाग-
 -गानाम् वउ ३, ८.
 ब्रह्मविष्णवा-पु-आ-दि-
 -काः वृ ३०.
 ब्रह्म-विष्णु-पुण्ड्र- -आ-घ-
 वि-अ-मर-वर- -मवित- -नम्
 मं २, १८.
 ब्रह्म-विष्णु-महेश- -ग्रानाम्
 वृज ४, ३६.
 ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर- -राः वृज
 ६, १२; वृज ४, ८; मि २, ५;
 -रान् नाप ४, ३८.
 ब्रह्मविष्णुमहेश्वर- -नम्
 पठ २.
 ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा- -आ-
 मक- -कम् पाशु १, १४.
 ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा- -आ-घ-
 -धाः न ४९, १५.
 ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर-मदाशिव-
 यिन्दु-मेलन- -क(प)>, पा-
 -पातरा ८३ : २.
 ब्रह्म-विष्णु-रुद्र- -द्राः वीचू ७२;
 अक्ष १०; वउ ४, ४१; -द्रागाम्
 रा १.
 ब्रह्मविष्णुरुद्र-नेत्रस- -नये
 व ४३५ : २३.
 ब्रह्मविष्णुरुद्रा- -आ-नीत-
 -नम् मं १, १,
 ब्रह्मविष्णुरुद्रा- -आ-दि-
 -दयः सार २२१ : ४; २३१ :
 २; २४५ : १९; -दीनाम् मं ३,
 १, ३.
 ब्रह्म-विष्णु-रुद्रे- -द्रा-
 अ ३.
 ब्रह्म-विष्णु-रुद्रे- -द्रा-
 अ ३.

शिव-महाकाल-विष्णु- -आ-
 म्वा-र- -यः कले १०.
 ब्रह्म-विष्णु-शिव-रूप-
 ब्रह्मविष्णुशिवरुमि- > -
 गी- -गी वृउ ७, ३.
 ब्रह्म-विष्णु-शिव-व- -आ-मक-
 -कम् वृज ४, १०; वि १५.
 ब्रह्मविष्णुशिवगमिका-
 -काम् मं २, १५.
 ब्रह्म-विष्णु-शिव-व- -आ-दि-
 -दीनाम् योर ३.
 ब्रह्म-विष्णु-शिव- -दीनाम्
 -नः मं ४, ३२.
 ब्रह्म-विष्णु-शिव- -दीनाम्
 -नः मं ४, ३२.
 ब्रह्म-विष्णु-शिव- -दीनाम्
 -नः मं ४, ३२.
 ब्रह्म-विष्णु-शिव- -दीनाम्
 -नः मं ४, ३२.
 ब्रह्म-वृत्त- -त्तम् नाप ४, ३५.
 ब्रह्म-वृत्ति- -त्त्या ते १, ४२.
 ब्रह्म-वेद- -दस्य २ प्र ३, १९.
 ब्रह्म-वेदन- -नम् अक्ष ४, ३८;
 पाशु २, ३८; रा २४.
 ब्रह्मवेदन-मात्र- -त्रेण कल्प.
 ब्रह्म-व्यतिरिक्त- -कम् नाप ५.
 १; त्रिवि ३, ३; ४, ३.
 ब्रह्म-शक्ति- -क्तिः मि १९.
 ब्रह्म-शङ्कर-विष्णु-रूप- > पा-
 -पा गार ४०७ : ४.
 ब्रह्म-शब्द- -शब्दः पा १, ६;
 -शब्देन शु ३, ८; नाप ८, ४.
 ब्रह्मशब्द-वत् अम् २, २, ५.
 ब्रह्म-शाश्वत्- -शिवे चू २१.
 ब्रह्म-शाला- -शालाम् मैत्रि ६, २८.
 ब्रह्म-संविधि- -धितः व १०.
 ब्रह्म-संसद्- -संसद् क १, ३, १७.
 ब्रह्म-संस्थ- -स्थः छां २, २३, १.
 ब्रह्म-संस्पर्श- -संस्पर्शम् गी ६,
 २८६.

a) °धा इति निसा. यनि. शोधः द. (तु. अख्या.)। b) °द्यायाम् इति अख्या.। c) °विद्ः इति सात.
 (वैतु. J.C.)। d) °षयः इति सात.। e) °ह्यवतम् इति अख्या.। f) °अथर्ववेद-। g) °संयोगम् इति SCHR.
 पाने. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)]।

ब्रह्म-संगत- -तः गोठ ४४^a.
 ब्रह्म-संज्ञा-
 ब्रह्मसंज्ञित- -तम् पं १३^b.
 ब्रह्म-सत्ता- -त्ता आबो १२.
 ब्रह्म-सदन- -नम् जा १^c; राउ १, १^d; ता १, १^e.
 ब्रह्म-संध्या-क्रिया- -या पाशु १, १८.
 ब्रह्म-संपत्ति- -त्तिः पाशु १, २२.
 ब्रह्मसंपत्ति-कारि(न् >)णी-
 -णी पाशु २, १.
 ब्रह्म-सर्ग- -र्गयोः अध्या ४६;
 सर ३, १८; २२.
 ब्रह्म-सलोकता- -ताम् मना १,
 १३५^f.
 ब्रह्म-सवन- -नम् गोपू २, ५^g.
 ब्रह्म-साक्षात्कार-
 ब्रह्मसाक्षात्कारा(र-अ)नुभव-
 विशेष-बोध-सारतरा(र-अ)-
 नन्त-प्राकार- -रैः सि ६, ७.
 ब्रह्म-सूचन- -नात् आरु ३.
 ब्रह्म-सूत्र^h- -त्रम् आरु ३; पत्र ३,
 १०; पाशु १, १६; १७ⁱ; भा ३३.
 ब्रह्मसूत्र-पद- -दम् पाशु २,
 ६; -द्वैः गी १३, ४.
 ब्रह्म-स्तु(त >)ता- -ताम् दे ६.
 ब्रह्म-स्थान- -नम् ध्या ६५^j;
 -ने ब्रवि ७६.
 ब्रह्म-स्थावरा(र-आ)त्मन्-
 -त्मा सी १०.
 ब्रह्म-स्वरूप- -पः राधा ४, ३;
 -पम् नृपु १, ३; नाप ९, १^k; ता १,
 २^l; ति ३१० : २१; वपू १, ६.
 ब्रह्मस्वरूप-कथन- -नम्

त्रिवि ४, ३.
 ब्रह्मस्वरूप-विज्ञान- -नात्
 पाशु २, ४०.
 ब्रह्मस्वरूपा(प-आ)चार्य-
 -र्यः म ४८ : ८.
 ब्रह्मस्वरूपिन्- -पिणम् राउ
 ४, १^m.
 ब्रह्मस्वरूपिणी- -णी दे
 १; -णीम् श्या १.
 ब्रह्म-स्वरूपक- -कम् योशि ५, १
 ब्रह्म-स्वा(स्व-आ)त्मन्-
 ब्रह्मस्वात्म-ता- -तया पाशु
 २, ४१ⁿ.
 ब्रह्म-हृत्- -त्यात् श ३६^o;
 १अव ३३.
 ब्रह्म-हत्या- -त्या स ३७९ : १४;
 -त्याम् मना २, ३८५^p; वृजा ८,
 ३; वृपू ५, १३; राउ १, २; कलि
 ३; मृ ५; विद्या १; -त्यायाः कै
 २, ५^q; रार ५, १७^r; भ २, २२;
 नाउ ३, ७; तुल ७२ : १; स
 ३८० : १.
 ब्रह्महत्या(त्या-आ)दि- -दि
 वृजा ६, ५.
 ब्रह्महत्यादि-दोष-
 संभव- -वात् वसू १०.
 ब्रह्महत्यादि-पातक- -कैः
 ह १२; दत्ता ३.
 ब्रह्महत्यादि-पाप- -पेभ्यः
 राउ ३, ६.
 ब्रह्महत्यादिपाप-
 नाशक- -कम् वृजा ६, ७.
 ब्रह्महत्या-पूत- -तः रार ५,
 १७^s.

ब्रह्महत्या(त्या-अ)श्वमेधा-
 (ध-आ)द्य- -द्यैः ब्रवि ५१.
 ब्रह्महत्या-सहस्र- -त्तानि
 राउ ५, ८.
 ब्रह्महत्या-सुरापान-स्वर्ण-
 स्तेय-गुरुतल्पगमन-तत्सं-
 योगि-पातक- -केभ्यः पै ४,
 २३.
 ब्रह्महत्या-सुरापान-स्वर्ण-
 स्तेय-गुरुदारगमन-तत्संयोग-
 पातक- -केभ्यः रुजा ३, १.
 ब्रह्म-हन्- -हा छां ५, १०, ९;
 मना २, ६४५^t; पंहं ४; सुबा ४;
 रुह २५; शा २६; वि ३३; सि
 ७, ६२.
 ब्रह्मा(ह्य-आ)कार^u- -रम् ते ४,
 ५१; अन्न १, १६; -रेण ते १, ५०.
 ब्रह्माकार-ता- -तया ते १,
 ३७.
 ब्रह्मा(ह्य-आ)का(र^v >)रा-
 ब्रह्माकार-मनो-वृत्ति-
 प्रवाह- -हः सु २, २, ५३.
 ब्रह्मा(ह्य-आ)काश- -शः नाप ८,
 २०^w.
 ब्रह्मा(ह्य-आ)ख्य >)ख्या-
 -ख्याम् ते १, ४३.
 ब्रह्मा(ह्य-आ)सि- -ग्नौ श २६;
 गी ४, २४; २५.
 ब्रह्मा(ह्य-आ)ङ्ग-लक्षण-युक्त-
 -क्तः पाशु १, १६.
 ब्रह्मा(ह्य-आ)ण्ड^x- -ण्डः यो २,
 ४९; -ण्डम् आरु १; पंहं १;
 नाप ३, ८६; त्रिवि ३, ५; ६, १;
 अध्या ८; यो ३, २२; अता ९;

a) ज्ञानसं इति निसा., अज्या. संटि., °तप्र इति आन. (तु. नादी.?) च यनि. शोधः द्र. । b) 'सत्य-
 विस्तृतम्' इति निसा. संटि. । c) तैआ १०, १, १३ । d) °सद इति निसा. । e) °ह्यरन्ध्रम्, °ह्यद्वारम् इति
 अज्या. संटि. । f) परब्र इति अज्या. । g) परज्योतिःस्व इति आन., परब्रह्मस्व इति आन. संटि. । h) °ह्यसात्म
 इति अज्या. संटि. । i) °त्यायाः इति निसा. संटि. । j) तैआ १०, ४८, १ । k) °त्यात् इति आन., अज्या. ।
 l) °त्यात् इति अज्या. । m) °त्यात् पू इति अज्या. । n) तैआआ १०, ६४ । o) तस. । p) वस. । q) °कारः
 इति अज्या. ।

राधा १,५; पित्र १,१; २^१; ६;
 ८^१; ११^१; -ण्डस्य त्रिवि ६, ६;
 राउ ४,३६; करु १६; पित्र २,१;
 २; १०; ३,९; -ण्डात् त्रिवि ६,
 १; गु ७; -ण्डानाम् सार २५,८;
 १३; -ण्डानि कृपु ११; सार
 २२१:३; २५,८:१४; -ण्डे सार
 २२३:२१; २२४:१४:१६.
 ब्रह्माण्ड-गण्ड- -ण्डम् वउ
 ४,३२.
 ब्रह्माण्ड-गोलक- के गुणो
 ४२१:६.
 ब्रह्माण्ड-तद्-गत-लोक-
 -कान् पै ३, १.
 ब्रह्माण्ड-निल(य>)या-
 -०ये व ४३६:२१.
 ब्रह्माण्ड-ब्रह्मरन्ध्र- -न्ध्राणि
 पै १, २९^१.
 ब्रह्माण्ड-भाण्डो(ण्ड-उ)-
 दर-रूप-धारि(त्>)णी-
 -०णि व ४३१:१०.
 ब्रह्माण्ड-मय- -य:यो३, १३.
 ब्रह्माण्ड-वर्तिन्- -र्तिन: सार
 २२४:१३.
 ब्रह्माण्ड-स्वरूप- -यम् त्रिवि
 ६, १; २.
 ब्रह्माण्डा(ण्ड-अ)खण्ड-
 विग्रह- -हम् पं ११.
 ब्रह्माण्डा(ण्ड-आ)दि- -दि
 करु १५.
 ब्रह्माण्डा(ण्ड-अ)न्तर-गत-
 -तम् वउ ३, २०; २१.
 ब्रह्माण्डा(ण्ड-अ)र्ध- -र्धम्
 गु ८.
 ब्रह्माण्डा(ण्ड-आ)वरण-
 -णम् त्रिवि ३, ५.

ब्रह्माण्डा(ण्ड-आ)श्रय- -यम्
 पित्र २, ९.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)त्मक- -कम् ते ६,
 ५२; पाशु २, २३.
 ब्रह्मात्मिका- -का: राउ १,
 २^०.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)त्म-ज- -जम् नप१
 ब्रह्मा(द्वा-आ)त्मन्- -त्मना पाशु
 २, ३९: -त्मनो: अथा ४३.
 ब्रह्मात्म-बोधि न >, ती-
 -नीम् रूह ३६.
 ब्रह्मात्म-विद्- -वित् पाशु
 २, ३५.
 ब्रह्मात्म-सच्चिदानन्दात्मक-
 -मन्त्र- -न्त्रम् विद्या १.
 ब्रह्मात्म-संविधि- -धौ हं२०.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)त्मै, त्म-ए)कत्व-
 विज्ञान- -नात् पत्र २, १^१.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)त्रि-रवि-सवितृ-भा-
 -गव'- -वा: ह ६.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)धर्व-आ(ण>)-
 णा- -णाम् तुल ७०: ३१^१.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)दि- -दय: त्रिवि
 ६, १; वा १५; त्रिना ४, २१;
 दे १७; वरा १, १; गोच ६६:
 १४; ६८: ६; -दि भव २, ४२:
 -दिना सार २५, ६: ७; -दिभि:
 सी ३७; वा ३; गोच ६५: ३;
 नापू ४, २६; सार २३५: १६;
 बि १६; -दीनाम् नि १६: ते
 १, २४; त्रिवि ४, १३; रापू १,
 ११; पत्र २; सार २५९: ६.
 ब्रह्मादि-कार्य-रूप- -पाणि
 जाद ८, ८.
 ब्रह्मादि-कीट-पर्यन्त- -न्ता:
 आनो १४.

ब्रह्मादि-पिपीलिका-पर्यन्त-
 -न्तम् ममा १, २६.
 ब्रह्मादि-भोग- -भोग्य: जाद
 ६, ४६.
 ब्रह्मादि-लोक-पर्यन्त-
 -न्तात् जाद २, ६^०.
 ब्रह्मादि-वन्दित- -तम् वृज
 ८, ६; वृपू ५, २०; वउ ५, ३०.
 ब्रह्मादि-स्त्व-पर्यन्त-
 -न्त: सांका ५४; -न्तम् पै २,
 ४६; अथा १९.
 ब्रह्माद्या(दि-आ)चरण- -णम्
 ग १८.
 ब्रह्माद्यै(दि-रे)धर्व-
 ब्रह्माद्यैश्वर्यै(र्ध-आ)शा-
 सिद्ध-संकल्प-बीज-संताप'-
 -यम् नि ४७^१.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)दित्य- -त्य: इ १८:
 १९.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)द्य- -द्यम् मन्त्रि
 १६; वृ १६; -द्या: ते १, ४७.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)द्वैत- -तम् त्रिवि
 ४, ३.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)धिपति- -ति: मना
 २, २१५^१.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)धिपत्य- -त्यम् वपू
 १, ६.
 ब्रह्मा(द्वा-आ)नन्द- -न्द: १अव
 २७; -न्दे आनो १७; १अव २५.
 ब्रह्मानन्द'- -न्द: सार
 २८९:१९; -न्दम् महा ४, ७०;
 करु ३४; वरा २, २०.
 ब्रह्मानन्द-कर(>)री- -री
 सु १, १, २५.
 ब्रह्मानन्द-कला'- -ला व
 २२.

a) °ण्डं ब्र° इति अख्या. । b) °त्मकः इति अख्या. । c) °नम् इति निसा. । d) पा.१ मूलतः यजुर्मन्सं
 सामाऽथर्व° इत्येवं सतः स्थानि यजुर्मन्सां माऽथर्व° इत्येवं श्रेषप्रयोजितः °नां ब्रह्माऽथर्व° (=मुपा.) इति
 शोभाऽऽभासः द्र. । स चोक्तं मूलपाठमनु प्रतिशोध्यः । e) °ज्ञावलोक° इति अख्या. । f) वस.>वस.>कस.>वस. ।
 g) °पः इति अख्या. संटि. । h) तैआ १०, ४७, १ । i) कस. । j) =ब्रह्मानन्दवत्- ।

ब्रह्मानन्द-कारण- -णम्
गोच ६७ : ३.

ब्रह्मानन्द-कुटुम्बक- -कः ते
४, ५९.

ब्रह्मानन्द-जन- -नैः ते ४, ६१
ब्रह्मानन्द-निरन्तर- -रः ते
४, ५९.

ब्रह्मानन्द-परं-ज्योतिस-
-तिः ते ४, ५९.

ब्रह्मानन्द-मय- -यः ते ४,
३३; त्रिवि २, १६; -यान् त्रिवि
७, १.

ब्रह्मानन्दमय-विमान-
कोटि- -टिभिः त्रिवि ७, २१.

ब्रह्मानन्दमया(य-अ)-
नन्त-निरतिशयानन्द-सागरा-
(र-आ)कार- -रम् सि १, ७.

ब्रह्मानन्दमया(य-अ)-
नन्त-प्राकार-प्रासाद-तोरण-
विमानो(न-उ)पवना(न-आ)-
वलि, ली- -लिभिः त्रिवि ५,
१३; -लीभिः सि १, ८.

ब्रह्मानन्द-रस-
ब्रह्मानन्दरस-क्रीडा-
वन- -नैः सि ५, ९.

ब्रह्मानन्दरस-निर्भर-
-रैः त्रिवि ७, ५०.

ब्रह्मानन्दरस-प्र(भा>)-
म- -मः ते ४, ५८^b.

ब्रह्मानन्दरसं-भर- -रः ते
४, ६०.

ब्रह्मानन्दरसा(स-अ)आ-
(अ-अ)द- -दः ते ४, ५९.

ब्रह्मानन्दरसा(स-आ)-
रूढ- -रुः ते ४, ६०.

ब्रह्मानन्दरसो(स-उ)-
द्वाह- -हः ते ४, ६०.

ब्रह्मानन्द-रूप- -पः गोच
६७ : ७.

ब्रह्मानन्द-विभूति- -तिम्
त्रिवि ७, १^३.

ब्रह्मानन्दविभूति-
विशेष- -षान् त्रिवि ७, १.

ब्रह्मानन्द-शिवा(व-आ)-
नन्द- -न्दः ते ४, ५८.

ब्रह्मानन्द-शिवा(व-अ)-
र्चन- -नः ते ४, ५७.

ब्रह्मानन्द-समष्टि-कन्द-
-न्दम् सि १, ६.

ब्रह्मानन्दा(न्द-आ)त्मन्-
-त्मनि ते ४, ६१.

ब्रह्मानन्दा(न्द-अ)नुभावक-
-कः ते ४, ५८.

ब्रह्मानन्दा(न्द-अ)मृत- -तम्
राउ ४, ३

ब्रह्मानन्दा(न्द-अ)मृतरसा-
(स-अ)म्भोनिधि-तरङ्गिणी-
-ण्याः सि ६, ११.

ब्रह्मानन्दै(न्द-ए)क-चिद्-
घन- -नः ते ४, ६०.

ब्रह्मानन्दै(न्द-ए)क-विग्रह,
हा- -हः राउ २, २; -हा विद्या १.

ब्रह्मा(ह्य-आ)नन्दा(न्द-अ)श्रु-
संजा(त>)ता- -ते तुल ७१:८

ब्रह्मा(ह्य-अ)नुशासन- -नम् नाप
४, ३७.

ब्रह्मा(ह्य-आ)नुष्टुभ-राघव^a-
-वाः राउ २, ९३.

१ ब्रह्मा(ह्य-अ)ब्रह्मन्^a- -ह्य अशि
१, ४.

२ ब्रह्मा(ह्य-अ)ब्रह्मन्^a- -ह्यणी
दे १.

ब्रह्मा(ह्य-अ)भि(धा>)ध- -धम्
महा ५, ४३.

ब्रह्मा(ह्य-अ)भिधेय- -यम् स
३७८ : ३.

ब्रह्मा(ह्य-अ)मृत- -तम् मैत्रे २,
३; स्क १२.

ब्रह्मामृत-रस- -सः ते ४,
५७; -से ते ४, ५७; ५८.

ब्रह्मामृतरसा(स-अ)यन-
-नः ते ४, ५६.

ब्रह्मामृतरसा(स-आ)-
सक्त- -क्तः ते ४, ५७.

ब्रह्मामृतरसा(स-आ)-
स्वाद- -दः ते ४, ५६.

ब्रह्मा(ह्य-आ)यतन- -नम् ध्या
४०^f.

ब्रह्मा(ह्य-आ)राधन-बुद्धि-
ब्रह्माराधनबुद्धि-तस(>:)
जाद ७, ४.

ब्रह्मा(ह्य-अ)गैल- -लम् यो २,
४१.

ब्रह्मा(ह्य-अ)है- -हैः कौ १, १^६.

ब्रह्मा(ह्य-अ)लंकार- -रणे कौ १,
४^२.

ब्रह्मा(ह्य-आ)वर्त^३- -ते द १.

ब्रह्मा(ह्य-अ)वलोकन-धी-
-धियम् वरा २, ८२.

ब्रह्मा(ह्य-अ)वलोक-योग-पट्ट-
-ट्टः निर्वा २९७ : ८.

१ ब्रह्मा(ह्य-अ)ख^a- -खेण व
४५४ : २०.

ब्रह्मास्त्र-स्वरूप-
ब्रह्मास्त्रस्वरूपि(न्>)-
णी- -णीम् पी ४२१ : १.

२ ब्रह्मा(ह्य-अ)स्त्र^b>स्त्रा- -स्त्राम्
पी ४२१ : १.

ब्रह्मिष्ठ^१- -ष्ठः प्र ३, २; वृ ३, १,
२^३; -ष्ठाः कश्रु २, १; -ष्ठाय वृ ३,
१, २; -ष्ठेभ्यः कश्रु २, १.

a) बस. वा कस. वा । गपू. (पृ ३३६) ज्योतिस-> -तिः इत्यत्र सस्थ. यनि. शोधः द्र. । b) °प्रदः इति
अख्या. संटि. । c) कस.>बस. । d) द्रस. । e) कस. । f) विश्वस्य आय° इति आन. । g) 'ब्रह्मार्चः' इति आन., अख्या. ।
h) बस. । i) =ब्राह्मणतम- ।

ब्रह्मी/भू
 ब्रह्मी-भूय अध्या ६^{१३}.
 ब्रह्मे(ह्य-इ)न्द्र-रुद्रा(द्र-आ)दि-
 विभावित- -तः ते ७, ६२.
 ब्रह्मे(ह्य-ई)शान-पुरन्दर-पुरो-
 गम- -मैः त्रिवि १, १.
 ब्रह्मे(ह्य-ई)शा(न>)नी- -०नि
 व ४६२ : ९.
 ब्रह्मे(ह्य-ए)कता- -ता मैत्रि ६,
 ३५^b.
 ब्रह्मे(ह्य-ए)कत्व- -त्वम् वृजा ७,
 ७.
 ब्रह्मे(ह्य-ए)क-पाद- -व्यास-
 -सम् त्रिवि २, १४^१.
 ब्रह्मे(ह्य-गे)न्य- -न्यम् सं २, २,
 ४; मवा ७.
 ब्रह्मे(ह्य-उ)दुप- -येन श्वे २, ८;
 भव ३, २५.
 ब्रह्मे(ह्य-उ)दभव- -वम् गो ३,
 १५.
 ब्रह्मे(ह्य-उ)द्य^१- -द्यम् वृ ३, ८,
 १; १२; आर्षे ७: १.
 ब्रह्मे(ह्य-उ)द्वासन- -नम् नाप
 ४, ३८.
 ब्रह्मे(ह्य-उ)पदेश- -शः शु १,
 ३; भ २, ४.
 ब्रह्मे(ह्य-उ)पदेश-काल- -लः शु
 १, ३.
 ब्रह्मे(ह्य-उ)पनिषद्^१- -पदः
 पाशु १, ३०; ३२; -पदम् केशां^१;
 छांशां^१; ३, ११, ३; मै मैत्रे आरु
 रुजा वस् योचू वा महा १मंन्या

अव्य कुं सावि जाद जावा शां^१;
 वपू १, १.
 २ब्रह्मन् २पति-) -ह्यगः वृ १, ३,
 २१; मना १, १३१; २, ३०१;
 वृ २, १७१; त्रिना ३, २८१;
 प्रा १, ६१; सु २०३; १७१;
 लि ३१०; ११; व ४२९; १०१;
 वउ ५, ३०.
 १-५वृहन्-, १-२वृहती-, वृहन्-
 √वृह द.
 वृहन्भानव्या^१ गोपू १३.
 वृहस्पति^१- -तये मना २, ३७१; व
 ४३७; १४; ४६५; २; -तिः
 प्र मुं मां शां^१; तै शां^१;
 छां १, २, ११; वृ १, ३,
 २०^१; मैत्रि ७, ९; मना
 १, १२१; १२१; जा १; अशि अ
 वृजा वृपू शां^१; नारशां^१;
 ४, ३८; सी श त्रिवि राग रापू
 शां^१; राउ १, १; सां उप अजसू
 १आ पाशु पत्र त्रिना वे भा द्र भ
 ग मवा गोपू कृ ह दता गरु अचि
 पदंशां^१; नार, १; मर २, १; मि
 शां^१; रा ४२३; २^१; व
 ४६५; २; पित्र शां^१; -निम् छां
 १, २, ११; गो १०, २४; -०ते व
 ४३७; १३^१; -तेः तै २, ८, ४^१;
 छां २, २२, १; मना २, ४८^१.
 वृहस्पति-प्रसू त>ता- -ताः प्रा
 १, ११; २^१.
 वृहस्पति-सम- -मात् १मंन्या २,
 ७१.

वैजवापि- वैजवापायन- १मंन- द.
 वैन्दव- विन्दु- द.
 वैल्य- विल्व- द.
 योद्धव्य-, वोद्धुम् वोद्धु-, बोध-,
 बोधक- बोधयत-, बोधया-
 बोधित- √बुध द.
 व्रं राग ३, १; व ४३६; २१.
 ब्रह्म-, १-२ब्रह्मन्-, ब्राह्म-,
 १-२ब्राह्मण-, ब्राह्मी- √वृह द.
 ब्राह्मी (ह्य) क- -कम् व ४३३;
 २०.
 ब्रुचन्-, ब्रुवाण- ताउ. द.
 ब्रू- ब्रूते ह्यग २५: १३; ब्रवीति ब्रू
 ३, २, २२; ब्रवीषि गो १०, १३;
 ब्रवीमि क १, २, १५; प्र ३, २;
 छां ६, ७, २; ७, २४, २^१; वृ २, ४,
 १२; १३; ४, ५, १३; १४; मना २,
 ४६१; लि ४; १योत १८; सु
 ३२; गो १, ७; वृमः २प्र ३५;
 २२; लि ४, ३२; ब्रवीतु छां ४, ५,
 २; ६-८, २; १४, ३; ६, १, ७; ७,
 १, ५; २-३, २; ४-५, ३; ६-१४,
 २; ४४, २, १; ७, २, १-३; मृता १,
 ३; २, ३; ब्रुवन्तु २प्र ३५: २०;
 ब्रूहि के ४, ७; क १, १, २९; छां
 ५, ३, ६; ११, ६; वृ २, ४, ३; ३,
 ७, १; २; ८, २; ४, १, २-७; ३,
 १४-१६; ३३; ५, ४; ६, २, ५;
 ६; मै १, १; मैत्रि १, २; जा ३;
 ४^१; वृजा १, १; वृपू ३, १; वउ
 ९, १५; ब्रूहि-ब्रूहि व ४५७;
 १६; वृत् वृउ ९, १२; १९^१;

a) °ब्रह्मू° इति निसा. यनि. शोषः द. (तु. अख्या.)। b) °ब्रह्मन्° इति सात.। c) °दं ब्या° इति अख्या. यनि. शोषः द. (तु. निसा.)। d) उप. <√वृ। e) तैआ १, १८, १। f) तैआ १०, २३, १। g) अ १, ४०, ५। h) अ २, २३, १। i) अ ९, ८३, १। j) पा. ? (तु. 'वृहन्भानव्या' इति निसा., 'वृहदधनम्' इति आन., 'ब्रह्मन् मा° इति अख्या. संटि.) ब्रह्म-भावन- > -नया इति शोषः द. (तु. 'वृहद्-भावनया' इति नादी. पाथे.)। k) वैप १ यत्र.। l) तैआआ २, ६७। m) अ १, ८९, ६। n) अ १०, १५२, २। o) तैआ १०, १, १२। p) अ २, २३, १५। q) शौ ७, ५५, १। r) शौ ६, ९६, १। s) अ १०, ९७, १५। t) =बीजमन्त्रविशेष-। u) 'ब्रू' इति अख्या.। v) पा. ? यनि. शोषः द.। w) अ १०, १८, १। x) 'ब्रुवन्ब्रूहि' इति आन., अख्या.।

सार २३०:१८; ब्रवाणि छां ४, ५, २; ६-८, ३; वृ २, १, १; कौ ४, १; १८; अश्वीत् के ३, ४; ८; क १, १, १६; ऐ २, ३; ५; छां ५, ३, ४; वृ ३, ३, १; ७, १; ४, १, २-७; मै १, १; मैत्रि १, २; ४, ४; मैत्रि १, १; अशि १, १; वृजा ७, ५; अब्रूताम् ऐ २, ५; अमु-वनू के ३, ३; ७; ११; ऐ २, १; २; ३; वृ १, ३, १८; मै २, ३; मैत्रि २, ३; वृपू २, ८; वृज १, १; सी ११^b; रार १, २; त्रिता २, ३५; अब्रूथा: वृ ५, १४, ८; अब्रू-वम् प्र ६, १; अब्रूम के ४, ७; वृ ३, ३, १; ब्रुवीत् छां ५, ३, ४; वृ ३, १, २; कौ २, ३^c; ब्रूयात् छां १, ७, ८; ८, ६; ८; २, २२, ३; ४^d; ३, १६, २; ४; ६; ४, ९, २; ५, २, ३; ८, १, २; वृ १, ४, ८; ३, ७, १; ४, १, २-७; ५, १४, ४; ६, ३, १२; कौ १, ६; ब्रवि ३४; नाप ४, ८; १संन्या २, १०२; अव्य ७; रूह १६; शा १८; योरा १८; ब्रूयु: छां ७, १५, ३; ४; ८, १, २; ४; ब्रुवीथा: छां ४, ४, २; ब्रूया: शा ३३; सु १, १, ५१^e.

ब्रुवत्-वत: क २, ३, १२; -वताम् त्रिता ४, ३; -वन्तम् वृ ६, २, ८; वि ३.

ब्रुवाण,णा-णम् वृ १, ४, ८; -णा सार २७७:२२; -णा: मैत्रि ७, ८.

ब्रू^f वृ ६^f.

ब्रू^g त्रिता ३, १७; सर २, ४^g; नापू ५, ११; आथ ३९४:१३; वृ २८: ९; ब्रू^h-ब्रू^h वृ ४५७: २.

ब्रूⁱ-कार-रम् वृ ४५६: २१;

-रेण त्रिता ३, १८.
ब्रू^l आथ ३९८: २.
ब्रू^o वृ ४२७: २२.

भ

१भ^m

भ-कार-रम् रार २, १०१.
भⁿ यो ३, १ⁿ; आथ ३९६: १;
वृ ४३६: ६; हंषो ११.
भं-कार--०२ अक्ष ५.
२भ^o-भ: मैत्रि ६, ७९^o.
३भ-√भा द.
१भक्त^p-क्तानि त्रि १२.
२भक्त-√भज् द.
१भक्ति^q-

भाक्त-क्त: ब्रसू २, ३, १६; -क्तम् ब्रसू ३, १, ७.
भाक्त-त्व-त्वात् ब्रसू ३, १, ४.
२भक्ति-√भज् द.
√भक्ष्, >भक्षि, भक्षयति भव ४, १७; भक्षयन्ति छां ५, १०, ४; वृ ६, २, १६; भक्षय वृजा ६, ७; भक्षय-भक्षय वृ ४३५: १०; अभक्षयत् वृजा ६, ८; भक्षयेत् नाप ५, ३७; सार २५५: ९; शि ६, ४९.
भक्षयिष्ये वृजा ६, ७.
भक्ष^r-क्षम् सार २८८: ४; -क्षा: शि ७, १०७; -क्षै: शि ६, १६१.
भक्षण-णात् तुल ७०: ६; शि ५, १२; भव ४, १६.
भक्षयत्-यता सार २२६: २२; -यत् वृ १, ३, २४.
*भक्षया-
*भक्षयाम(म्,√अ)स(भुवि),

भक्षयामास सार २७६: १६.
भक्षित-तम् पाशु २, ४१; ४२;
-ता: शि ७, १०७.
भक्षय^r-क्षयम् नाप ३, ६९.
भक्षय-भोज्य-ज्यानि सार २८२: १४; शि ६, २; -ज्यै: सार २३: ६.
भक्षयभोज्य-प्रदान-मै: शि ६, १७७.
भक्षयभोज्य-स्थल-लम् सार २२८: ७.
भक्षयभोज्या(ज्य-आ)दि-भक्षयभोज्यादि-क-कम् ते ६, १४.
भक्षय-भोज्य-लेह्य-चोष्य-पेया-(य-आ)स्मक-कम् भा २०^m.
भक्षय-वत् शि ७, १०७.
१-३भग-भगवत्-, *भगवस-, √भज् द.
भगालⁿ-लम् शि ७, ८१.
भगोस्* √भज् द.
भग-√भज् द.
√भज् (*बधा.), >भाजि, भजते अत्र २, १९; शा २७; सिशि ३८१: १२; कामे १; पित्र ३, ७; गी ६, ४७; ९, ३०; भजति त्रिवि ३, ७; रार ४, १०; गोपू ५; सु १, १, २१; २३; कालि ४०१: १३; ४०२: १^p; गी ६, ३१; १५, १९; भजन्ते क १, १३; त्रिवि ३, ७; त्रि ९; सार २९०: १५; सि ६, ३९; गी ७, १६; २८; १०, ८; भजन्ति अशि ४, २३^q; त्रिवि ४, १३; वरा १, १६; सार २३५: ८; २८०: ५; य ३; छ २९३: ३; वट ३१६: १५;

a) ब्रह्मविद्->-वित् इति सात. । b) °ब्र इति अज्या. यनि. शोध: द्र. (तु. निसा.) । c) ब्र इति निसा. यनि. शोध: द्र. (तु. आन.) । d) °धात् इति निसा. संटि. । e) =बीजमन्त्रविशेष- । f) 'ब्रू' इति अज्या. । g) =वर्ष- । h) 'हं' इति अज्या. संटि. । i) भर्ग- इत्यस्याऽऽयांशः । j) व्यु? =अत्र- । k) व्यु? =उपचार- । l) 'भक्षयन्' इति अज्या. । m) °कपञ्च इति तान्त्रि. । n) व्यु? =कपाल- । o) 'भवति' इति तान्त्रि. । p) 'भवति, लभते' इति तान्त्रि. । q) 'भजति' इति आन. ।

गी ९, १३; २९; भजे शु २, ५;
 रार २, २४; ३७; १०३; १०४;
 १अव १५; दे १५; व ४६५;
 १७; भजामि १अव १७; गी
 ४, ११; भजतु मना १, १०४^६;
 वृजा ३, ८; व ४६२: १४^४;
 भजन्तु शि ६, १५९; भजस्व
 सु २, २, ७२; गी ९, ३३; भज
 मैत्रे २, २९; शां १, ७, ३९; महा
 ६, २८; वरा ४, २०; म ४८: ४;
 व ४२६: ११; भजेत्ते १, २०^७;
 गोपू ४९; सु १, १, २४; भजेरन्
 सार २७२: १९.

भेजिरे सिसि ३८३: २; भजि-
 व्यथ गोच ६९: १७.

भाजयत मना १, १२४^६; अ-
 भाजयत् वृ १, ५, १; २.

२भक्त, क्त- क्तः वृजा ६, ११;
 गोड ३८; कृपु १८; राधा ४, ४;
 सार २३१: ११; भव ४, १८; पित्र
 ६, १८; गी ४, ३; ७, २१; ९,
 ३१; -क्तम् छां ५, १९, १; दत्ता
 ३; -क्ताः अशि ४, २२; सार
 २२२: ३; २२६: १९; २०;
 २२७: १२; २३१: ३; ४; १०;
 २३४: २१; २३६: १४; १८^२;
 १९; २२; २३८: १४; १६; २१;
 २३९: ७; २४०: १९; २०;
 २४१: २; १३; १७; २४२:
 १५; २४४: ५; २४५: १५;
 २४६: ४; २४९: १९; २५४:
 १२; २५६: ६; २३; २६७: ४;
 २७२: १८; २७३: २; ३; ५^२;
 २७५: २१; २७८: ६; १३;
 २७९: ५; ७; २८०: १६; २८१:
 १४^३; २८३: ९; २८५: २०;
 २८६: ४; २८७: १९; २८८:
 १५; २९२: १८; वट्ट ३१६:

१५; गी ९, ३३; १२, १; २०;
 -क्तान् सार २७८: २२; -क्तानाम्
 रार ४, १३; रुजा १, ४; सार
 २३०: २; २३१: ११^३; २३६:
 १४; १६; २४०: १५; २४४:
 १४; २५७: ९; ११; २५९:
 १५; २७३: २१; २७९: २;
 १२; २८१: २३; २८९: ७;
 वपू २, २; -क्ताय ब्रवि ४७;
 -क्ते अन्न २, २९; कृ ४; -क्तेन
 रापू ४, २०; -क्तेः अशि ४, १९;
 १संन्या २, ६७; सार २२७: १५;
 २३०: १९; २३१: ११; २३२:
 १९; वट्ट ३१६: ११.

भक्त-काम-दुघा- -घाम् दे १५.
 भक्त-क्रिया- -याम् सार २७८:
 १३.

भक्त-जिह्वा(ह्वा-ञ्)प्र-सद-
 (न>)ना- -ना सर ३, ५.

भक्त-त्राण-पराय(ण>)णी-
 -०णि व ४३२: १४.

भक्त-प्रिय- -याय सार २६१: ७.
 भक्त-वत्सल- -लः त्रिवि ८, १२;
 राड ५, २७.

भक्त-वात्सल्या(त्य-आ)विर्मा-
 व- -वाम्याम् सार २४८: ५.

भक्त-व्यापिन्- -पी राधा ४, २२

भक्त-समाचार- -रः अन्न २, २९

भक्त-हृद्- -हृदि राधा ४, २२.

भक्ता(क्त-आ)नन्द-प्रद- -दाय
 सार २६१: ८.

भक्ता(क्त-आ)नुकम्पिन्- -म्पिनः
 शां ३, १; -म्पिनम् शां ३, ३; ग
 १३.

भक्ता(क्त-आ)नुग्रह-कारण-
 -णात् रुजा १, ३.

भक्ता(क्त-आ)र्ति-भजन- -नः
 वरा २, १.

२भक्ति^१- -क्तिः श्वे ६, २३; वृजा ६,
 ११; सुवा १६; त्रिवि ५, ९; योशि
 २, २२; गोपू १४; कृ २५; शा
 ३७; वा ४०; ऊ ६४: १०; सार
 २२०: ९; २७७: २३; २७९:
 २; २८८: १२; सु २९४: ८;
 गु ७६; भव २, ५९; ५, २०; गी
 १३, १०; -क्तिम् त्रिवि ८, १२;
 सिसि ३८१: ४; काम २५; भव
 २, ६०; गी १८, ६८; -क्तेः सार
 २२०: ७; -क्त्या के १, ५; वृजा
 ३, २१; ५, १५; श १७; त्रिवि
 ८, १२^३; रार ४, १२; राड ३, ६;
 वा २७; महा २, १४; योशि ५,
 ५७; ५९; कृ ६; सु १, १, ४;
 वि २२; सार २४६: ११; २८८:
 १२; वि ३२; शि १, २; ४, २४;
 ६, १; १०; १७; ८८; १२१;
 १७३; १७४; २२४; ७, ५; सिसि
 ३८३: ३; गी ८, १०; २२; ९, १४;
 २६; २९; ११, ५४; १८, ५५.
 भक्ति-नाम्य- -म्यः सार २२०:
 २; -म्यम् वृजा ६, ८; योशि ३, २३.
 भक्ति-ज्ञान-वैराग्य^२- -ग्यम्
 नाप ६, १^०.

भक्तिज्ञानवैराग्य-वासना-
 (ना-ञ्)भाव- -वात् त्रिवि
 ५, ४.

भक्ति-तस(>:) वरा १, १६^३; सु
 १, १, १४; शि ६, १८५; २२०.

भक्ति-नि(छा>)ष्ट- -ष्टः त्रिवि
 ८, १२^३; १३; -ष्टान् त्रिवि ८, १२.
 भक्ति-निष्ठा- -ष्टाम् त्रिवि ८,
 १७.

भक्ति-पर- -राय ब्रवि ४७.

भक्ति-पुरःसर- -रम्^३ घ्या ९३, २

भक्ति-भावित- -तः पं २६; गु
 ८४.

a) तैश्चा १०, १, १० । b) 'भवेत्' इति शब्दा. । c) ऋ १०, ९, २ । d) समाहारे इत्स. । e) कर्म-
 भक्तिज्ञानवैराग्य^० इति शब्दा. । f) 'तरवतः' इति शब्दा. । g) वा. किवि. द्र. ।

भक्ति-भक्त-भताम् त्रिवि ८,
११^१; मान् जाद १,२; गी १२,
१७; १९.

भक्ति-मार्ग-गंम् सार २३१:
२२; २३६: १७.

भक्तिमार्ग-रस-संबलित-
-तः सार २८१: १५.

भक्तिमार्गीय-याः सार
२२०: ११.

भक्ति-युक्त, क्त-क्तः गु ७४;
-क्ता सी ३६.

भक्ति-योग^१-गाः त्रिवि ८,
११^१; सार २८२: १८; -गात्
त्रिवि ८, ११; -गे गोउद ३; -गेन
सु १, १, १६; गी १४, २६.

भक्ति-रति-दातृ-त्रे सार
२७७: ९.

भक्ति-वर्ति-समन्वित-ते द
१५.

भक्ति-श्रद्धा(द्धा-अ)भियुक्त-
-कस्य सर ३, ८.

भक्ति-समन्वित-तः रूह ११.

भक्ति-सुन्दरी-री सार २२०: ५

भक्त्य(क्ति-अ)तिशय-यः त्रिवि
५, १०; -येन त्रिवि ५, १०; ८, १३.

भक्त्य(क्ति-अ)साध्य-ध्यम्
त्रिवि ८, १२^१.

भक्त्यु(क्ति-उ)पहत-तम् गी
९, २६.

भग-गा-वृ ६, ४, ५; त्रि १४.

भग-वत्-वतः छां १, ८, ७;
८; ११, २; ८, ७, ३; मैत्रि ६, १३;

कलि १; सी ३४; ३५; भव १,
३५; ३, २८; -वतामै २, ३; मैत्रि
२, ३; शां ३, १; -वति छां ४, ४,
३; -वते वृ ४, ३, १४-१६; ३३;
४, ७; २३; ६, २, ४; द १; ११;
त्रिवि ७, ३३; ३४^३; ३५; ३६^३;

४१; ४६; ४८; रार २, ६२;
६४; ६६; ६९; ७३; ७५; ७८;
९०; राष्ट्र ४७; राष्ट्र ४, ४४;
अन्ति १^३; त्रिता ३, ३०; ४, २३;
ह ७; ८; दत्ता २; गुरु ३; ६; १०;
चा ९; १९; नापू ३, ८; १२; नाउ
२, ६; लां २१३: ५-१०; २१४:
३; २१; २१५: २०; २१६: ९;
वपं ३१२: १२; व ४३४: १३;
१८; ४३८: ९; ११; २०; २१;
४३९: ७; ८; १७; १८; ४४०:
४; ५; १४; १५; ४४१: २; ३;
११; १३; २२; ४४२: १; १०;
१२; २१; २२; ४४३: ८; ९; १८;
१९; ४४४: १; २; ११; १२; २१;
२२; ४४५: ९; १०; १९; २०;
४४६: ८; ९; १८; १९; ४४७:
६; ७; १७; १८; ४४८: ५; ६; १५;
१७; ४४९: ३; ५; १४; १५; २१;
२२; ४५०: ५; ६; १२; १३; १९;
२०; ४५१: ४; ६; १२; १३; १९;
२०; ४५२: ३; ४; ८; १०; १५;
१६; २१; २२; ४५३: ३; ५;
११; १३; १८; १९; ४५५: २;
३; ९; १०; ४५७: १; ४५८:
२; ४; ४५९: ८; १०; ४६५: ५;
-वद्भ्यः छां ५, ११, ५; -वन् प्र
१, ३; २-६, १; छां ५, १, ७; १२;
३, ६; वृ ३, ७, १^३; ४, २, १; ४;
मै १, १; २; ७; २, ३; ४; ५; ३, १;
मैत्रि १, २-४; २, ३^३; ४; ५; ३, १;
४, १; ५; ७, १०; मैत्रे १, १; २;
३^३; २, १; कै १, १; जा ४^३; ५; हं
१; आरु १; अ १; वृजा ७, १; ७;
८; ८, १; वृपू ४, १४; वृउ ९, १;
१५; १९; काला ३; सुवा ९-११;
१५; सु १, १; नाप १; २; ३, १;

५, १^३; ६, १; त्रिवा १, १; मं १,
१, १; २, १, १; श १; त्रिवि १,
१; ४; २, १; ११; ३, १; ४, २; ५,
१; ३; ८, १; ३; ७; १७; राष्ट्र ४,
१; वा १; शां २, १; ३, १; पप
४१७: २; ४१९: २०; ४२०:
४; अक्ष १^३; अव्य ३; अन्ति १;
१अव १; करु १; रुजा ३, १; म
१, १; जाद १, ३; ता १, १; या
१, १^३; २, १; वरा २, १; ह १;
दत्ता १, १; कलि १; ३; जावा १;
७; सौ १, १^३; सर १, १; २प्र
३४: १४; ३६: १४; क ६३:
२; नार १; सार २३०: १४;
वि १; ४; सि १, ३; स ३७८:
२; सि १, १; हे १; व ४५८: १३;
तारा ८४: ८; पित्र १, ६; २, १;
३, १; ४, १; ५, १; ८; ६, ३; कथु
२, २; गी १०, १४; १७; -वन्तः
छां ५, ११, ५; ६, १, ७; मना २,
७९^१; अक्ष ६; ८; १२; -वन्तः
छां ५, ११, २; ४; ५; वृ ३, १, २;
८, १; १२; ९, २७; छाग २३: ३;
पित्र १, २; ५; -वन्तम् प्र १, १;
छां १, ११, १; २; ४, ४, ३; कै १,
१; मै ३, २; मैत्रि ३, २; पहं १;
वृजा ४, १०; ७, ८; काला ३; ते
५, १; नाप २; ८, १; त्रिवि १, १;
२, १; ५, १; १२; ८, १; शां २,
१; तुअर; १अव १; करु १; त्रिता
१, ४१; २, ३५; ३, १; ४, १; १३;
५, १; म १, १; रुजा २, १; ३, १;
वरा ४, १; ५, १; ब्र १; शा ३०;
जावा १; सौ १, १; सर १, १;
२प्र ३६: ८; सूता १, १; ६; १९;
२२; २, १, क ६३: १; गोच ६५: १;
नापू १, १; तारा ८४: ७; पित्र १, ३;
कथु २, २; -वन्तौ छां १, ८, २;

a) बुद्धिम^० इति निसा., अग्न्या. संटि. । b) ँन्या अस^० इति निसा. । c) =भाप. । वैपश् यद्र. ।

d) 'ब्रह्मन्' इति निसा. । e) तैत्र्या १०, ६३, १ ।

-वान् छाँ १, ११, ३; ४; ६; ८; १२, २; ४, ५, २; ६-८, ३; ९, २; १४, ३; ५, ३, ४; ६, १, ७; ५, ४; ६, ५; ८, ७; ९, ४; १०-१५, ३; ७, १, ३; ५; २-३, २; ४-५, ३; ६-१४, २; २६, २; वृ २, ४, ३; १३; ४, २, १; ५; १४; श्वे ३, ११; ५, ४; गौ ४, ८२; ८४; मै १, १; २, १; २; मैत्रि १, २; २, १; २; ६, ३०; मैत्रे १, १; १, ४, १; २, १; अशि २, १-२६; ३, १३; ४, २२; २४; ६, १२; ७, ७; वृजा ३, ३४; ६, ४; पं १; ब्रवि ५; १०२; नाप ९, २०; द २०; श ६; १५; १९; २०; वृयु ४, १५, १-३२; वृज ७, १; काला ५; २१; मन्त्रि ७; १२; १९; ते ५, १; त्रिवि ८, २; ४; १४; राज ३, २; ४, १; ५, १; वा १; २; ४२; शां ३, १; महा २, १८; ५, १५८; १५९; ६, ८३; तुअ २; पप ४१८ : १; अक्ष १६; अव्य ३; अक्ष ३, ८; अक्षि १; पत्र ३; त्रिता १, १; १३; २५; ४९; ७५; २, ३; ३७; ७१; ३, १; ४, १५; ३७; ५, २; म १, २; ११; रुजा १, १; जाद १, १; ४, ३७; ३९; १०, १३; ता १, २; ३, १-८; मवा १; पं १; कृ २; ८; या २, ४; त्रि १४; वरा १, १; २, १; दत्ता ३; गरु २५; सौ १, १; इ १९; १८; च २१; १४; चा १२; छाग २५; १७; १प्र ३१ : ८; शौ ५४ : २; सूता १, ४; ६; २, ३; ४; ५, १४; ऊ ६४ : १४; गोच ६५ : २; तुल ७१ : २१; नापू १, २; २, १; ४; १६; १८; ३, १; १९; ४, १; १५; ३१; ५-६, १; नाउ १-२, १; ३, १; १६; वृष ८५ : ९; पा २, ९;

सं १०; १३; १५; सार २३२ : ४; २७३ : २१; वि १; वृ १२; लि ३०९ : ९; वट्ट ३१३ : ३-१०; ३१४ : १-२३; ३१५ : १४; १५; ३१६ : १५; १७; ११; ३१७ : १९; स ३७८ : २; सिशि ३८३ : १२; आथ ३९९ : १९; कालि ४०२ : २२; कामे १२; गार ४०८ : २०; हंषो २२; तारा ८४ : ११; अद्वैभा २०; भव २, ४२; ५१; ५५; ६१; ५, १५; पित्र १, ५; चू ७; १२.

भगवती--०ति अक्ष

१, ६; ८; दे १०; अक्ष १५; वपं ३११ : ५; ३१२ : १७; वक्ष २८ : ७; ४२९ : १४; ४३२ : ३; ४३४ : १२; ४३५ : ३; ४३६ : १५; १७; ४४९ : ७; १५; २२; ४५० : ६; १३; २०; ४५१ : ६; १३; २०; ४५२ : ५; १३; २१; ४५३ : ४; १०; १६; २२; ४५४ : ५; १३; १२; ४५५ : ३; ११; १५; ४६२ : ६; २०; हंषो १३; -ती सार २, ९५; रुह ९; त्रिता १, २-४; ४, १४; ३६; ता २, ४; ३, ७; ८; सर १, ३; गु ४७; ६१; आथ ३९३ : १-६; ७; ८-१०; ३९४ : १-६; ७; ८-२३; ३९५ : १-५; ६; ७-१२; १३; १४-१९; २१-२३; ३९६ : १-७; ९-१०; ११; १२-१९; २०; २१; २३; ३९७ : १-१४; १५; १६-२१; २२; २३; ३९८ : १; ३; ४; ५; ७-९; ११-२३; ३९९ : २; ३-७; ९; १०; ११-१३; १६; व ४२७ : ८; वळ ६, १; -वीम् त्रिता १, ८०; २, ७२; आथ ३९९ : १८; स्यै व ४५५ : १५; २२.

भागवत--तानाम् सार

२८६ : ८; -तैः सु १, १, २. भगवच्-छब्द--उदः भवन्, ५०.

भगवच्छब्द-वाच्य-

-चयानि भव २, ५३.

भगवच्-ज्ञान--नम् सु २.

भगवत्-कथा-श्रवण-

ध्याना(न-आ)दि--द्वौ त्रिवि ५, ८.

भगवत्-त्व--त्वम् राउ ५, ११.

भगवत्-प्राप्ति--सिः भव १, ३१.

भगवत्-प्रीत्य(ति-अ)र्थ--र्थम् सी ३६.

भगवत्-संकल्पा(त्य-आ)-लुगुण्य--ग्येन सी १६.

भगवत्-सत्ता-मात्रा-

(त्र-अ)न्तर-लक्ष्य--रूप-पम् सं २, ४, ४.

भगवत्-सह-चारि(त्)--णी--णी सी ३४.

भगवद्-अनन्त-विभूति-

विधि-निषेध--परिपालक--कम् त्रिवि ६, २०.

भगवद्-अर्थ--र्थे सार २९२ : ४.

भगवद्-उपासक--कानाम् सी ३६.

भगवद्-दश--शेभ्यः छां ४, ९, ३; ७, १, ३.

भगवद्-ध्यान-पूर्वक--कम् त्रिवि ५, १२; १३; ६, २१.

भगवद्-भक्त--कम् नाप १.

भगवद्-भक्ति-विशेष--वैः नाप १.

भगवद्-वट्टके(क-ई)धर--रम् वट्ट ३१८ : ८.

भगवद्-विग्रहा(ह-अ)र्चा-
पूजो(जा-उ)पकरण- णैः
सी ३६.

*भग-वस्- --०वः^१ सुं १, १, ३;
तै ३, १-५, १; छां ४, १, ८; २, २;
४; ५, १; ६-८, २; ९, १; १४, २;
५, ३, १; २^३; ३^३; १२-१७, १; ६,
१, ३; १२, १^३; ७, १, १; २^३; ३^३;
५; २-३, २; ४-५, ३; ६-१४,
२; १६, १^३; १७-२४, १; ८, ७,
४; ८, १; ३^३; ९, २; १०, ३;
११, २; वृ ६, १, १३; मैत्रि २, १;
वृषू ३, १^३; ४, १; ५, १; ११; वृउ
९, १९; पं १^३; वरा २, ३४; ता
३, १; का १; नी २, ५^३; पिब्र
६, १.

भगोस्^{०*} -गोः^१ वृ २, ४,
२; ४, ५, ३.

भग-वित्त^१-

भागवित्ति^१- -त्तिः वृ ६, ३,
१०; -त्तये वृ ६, ३, ९.

२भग^{२३}- --०ग तै १, ४, ३^३; -गः
वृजा ३, ४^३; -गम् दे २^३;
-गस्य छां ५, २, ७^३.

भग-दैवत- -तम् गार ४०७: ६.

भग-माला-

भगमालि(त्र>)नी- -नी
आथ ३९९: ७.

भगे(ग-ई)श- -शम् श्वे ६, ६.

भगेशी- -शीम् गु ६६.

३भग^{२३}- -गात् १योत १३२; -गे
१योत १३२; २योत १, ३^३; -गेन
इ १६: २२.

भगं-दर^{२३}- -रम् जाव ६, ४५^३.

भग-मण्डला(ल-आ)कार- -रम्
सौ ३, १^३.

भगा(ग-आ)कृति- -ति योरा ५.

भगा(ग-अ)ङ्क-कुण्ड- -ण्डम्
त्रिता ३, २३.

भगो(ग-उ)दक- -केन कालि
४०२: १३^०; श्या १५. *

भजत्- -जताम् गी १०, १०; -जन्
मना २, ४०^३.

भजन- -नम् गोपू १४; गोउ २०;
सार २३१: ५; २३३: ५^३; २३६:
६; १२; १३; २५२: १९; २५४:
८; १४; २५७: २२; -ने सार
२३५: २०; २८०: १; -नेन सार
२३६: १०; २४९: ७; २८५:
१८.

भजन-प्रकार- -रम् सार २३६:
१०.

भजन-प्रेमा(म-आ)नन्द-

सुख-प्राप्ति- -सौ सार २५१:
३.

भजन-भेद- -दाः सार २३५: ८.

भजन-मार्ग- -नीम् सार २३५:
११; -नीं सार २२२: ३.

भजना(न-आ)नन्द- -न्दः सार
२३१: ९; २५२: २३; -न्दम्
सार २५४: १२; -न्दे सार २५२:
१९; २५४: १४; २८०: २.

भजनानन्दो(न्द-उ)पासक-

-कानाम् सार २३१: ५.

भजना(न-अ)र्थ- -र्थम् सार
२५४: १७.

भजनीय- -यम् त्रिता १, २३.

भजमान- -नम् सार २२६: १८;
-नाय सार २५२: १६.

भाग- -गः श्वे ५, ९; मना २, ६७^३;

शि २, ९; भव २, ३६; -गम् शि २,
३; पिब्र ३, ७; -गस्य ध्या ४^३; -ने
योचू १८; योशि ६, ३०; ३२;
३३; ४९; इ १५: २२; -गैः त्रिवा
२, २; महा ५, १६९^३; -गौ
१संन्या २, ५९; शि २, ९.

भाग-क्लृप्ति- -स्तिम् शौ ५१:
१०.

भाग-गुण- -णाभ्याम् सांसू ५,
१०७.

भाग-त्रय- -यात् पै १, २२.

भागत्रय-समष्टि-

भागत्रयसमष्टि-तस्(>)
पै १, २३.

भाग-धेय- -यम् वृ ६, ३, १.

भागधेयिन्- -यी शौ ५१: ८.

भाग-योग- -गः सांसू ५, ८१.

भाग-लाभ- -भः सांसू ५, ७३.

भागा(ग-अ)र्ध- -र्धम् ध्या ४.

भागिन्- -गिनः ध्या ४^३; सांसू
५, ७३.

भागिनी- -न्यौ ऐ २, ५^३.

भाग्य^{२३}-

भाग्य-वत्- -वन्तः सार
२८८: १३; -वान् सू ३१.

भाग्यो(ग्य-उ)दय- -यात्
सार २८८: १३; -येन सार २८७:
१२.

भाजक- -कः शि ६, १६३.

a) =भगवत्- । b) वैतु. पा. (८, ३, १) भगवत्- इत्यस्य वैकल्पिकं सं१ इति । c) °वन् इति निसा. ।
d) मा १६, ९ । e) नैप्र. <*भग-वस्- । f) सं१ [वैतु. पा. (८, ३, १) भगवत्- इत्यस्यैव सं१ इति, पाका. (गपू.)
सं. अर्थे अव्य. इति (तु. पाम. [गपू.]) । g) =नाप. । वैप१ यद्र. । h) ऋ ६, २८, ५ । i) °ङ्कम् इति निसा. यनि.
शोधः द्र. (तु. ऋ १०, १२५, २; अज्या.) । j) ऋ ५, ८२, १ । k) नाप. =गुह्याङ्ग- । l) =रोगविशेष- । m) °धर°
इति अज्या. । n) त्रिरावृत्तभङ्गि° इति अज्या., °भग° इति अज्या. संदि. । o) सुभ° इति तान्त्रि. । p) तैसं ४,
२, ९, ६ । q) तैआआ १०, ६७ । r) निसा.? 'भोगैः' इति शोधः द्र. (तु. अज्या.) । s) °गशः इति अज्या. । t) स्वार्थे
यत् प्र. उलं. [पा ५, १, ४९ (वैतु. अभा. प्रधा. न-यत् इति)] ।

भाजन^१- नम् योरा १०; १३.
 √भञ्ज्, > भञ्जि, भञ्जयति त्रिना ३.
 ३; भञ्जय-भञ्जय लॉ २१६; १८;
 व ४२८: ५; ४३०: ११; ४३७:
 ५; ४६५: १.
 भञ्ज- भञ्ज् त्रवि १४; अवि १४^b.
 भञ्ज-भाण्ड- ण्ड: कृ १७.
 √भण्, वभाण वृजा १, १.
 भणयते ते ५, ९४; महा ६, ५०;
 वरा २, ५९.
 भाण्- भाणम् वृ १, २, ४.
 √भण्ड् (कल्याणे?)
 भण्डीर^२-
 भण्डीर-वट^३- ट: मार
 २५५: ४.
 √भट् (वधा.)^४
 १ भट्, ट्रा- -ट्र: वृ २, १५; वृ ३,
 ४, ४; ५, १; २; अव्य २; -ट्रम्
 प्र सुं मां श्वे शां^५; मना २,
 ३९^६; अशि अ वृजा शां^६;
 वृपू शां^६; १, १५; २, ६;
 १५^६; १^६; वृ ५, ३; ६,
 १; श नाम शां^६; त्रिवि शां^६;
 ७, ४०; शां शां^६; १, ७,
 ४७; अव्य २; पत्र सी रार राप्
 पय अक्ष सू १ आ पाशु त्रिना दे
 भ ग भा मवा गोपू कृ ह दत्ता गक
 अवि पहं शां^६; सु १, २, ५^६;
 वपं ३१२: ११; शि ७, ८९; मि
 शां^६; व ४५, ७: १३; पित्र
 शां^६; -ट्रा मना २, ४१^६; वृजा
 १, १; नापू ४, ९^६; पा १०, १;
 -ट्रा: दे ८; त्रि २; ट्राय रापू ४,

१४; राउ १, २; -ट्रायि दे ३:
 -ट्रे पा ७, १०.
 भट्ट-कर्ण^७- णे शि ६, ११०.
 भट्ट-जाति^८-
 भट्टजाति-विकट-रुद्र-वीर-
 हनु-मत्- -मने कां २, ३: १०:
 २१६: १३^८.
 भट्ट-स्व- -स्वात् वृ ७, १.
 भट्ट-पदा^९-
 भाट्टपदा^९- -दे राउ २४: ३.
 भट्ट-पद्य-पादा द-अ, चार्थ-
 -र्थ: म ४८: १३.
 भट्ट-रूप-
 भट्टरूपि त> गी- गी मं
 १२.
 भट्टा(द-अ, र्थ-दावृ)> त्री-
 -त्रीम् द ५.
 भट्टे(द-इ)श्वर^{१०}- -र: गोउ २३.
 २ भट्ट^{११}- -ट्रम् ५या ४३; १द्योत
 २९; जाद ३, १; वरा ५, १६.
 भट्टा द-आसन^{१२}- -नम् अन्
 १९; त्रिमा २, ४५^{१३}; शां १,
 ३, ८^{१३}; अव्य ६; जाद ३, ४^{१३}.
 भट्टासना(न-अ)दि-
 -दीनाम् भव ३, २४.
 ३ भट्ट^{१४}- -ट्र: गोउ २१.
 भट्ट-कृष्ण-निवाभिन्- -मिभि:
 गोउ ३६^१.
 भट्ट-वन- -नम् गोउ २२: २४.
 भट्ट-श्री-लोह-भाण्डीर-महा-
 ताल-स्वदिर-बकुल-कुमुद-
 काम्य-सधु-वृन्दा-वन- -जानि
 राधा ३, १.

४) भट्ट^{१५}-
 भट्ट-यज्ञ-यज्ञीय^{१६}- -य: औ
 ३, २६.
 ५) भट्ट> ट्रा^{१७}- -ट्रा रावा १, २३.
 ६) भट्ट> ट्रा^{१८}- -ट्रा पाठ ४०७:
 २०.
 भट्ट-काली^{१९}- -०लि व ४६६:
 ६: -ली म ४८: ८.
 ७) भट्टार्थ- (अरन्विक- टि. द.
 ८) भट्टम् -भक्तो,
 भक्त - भ्त: वै ७, ६.
 भय-भयानक- √भो ३.
 भर-भरणी-, १-२ भरत्-, १-३ भरत-,
 भरद्वाज- √भृ ३.
 भर्ग-भर्गत्-, भञ्जित- √भृ ३.
 ९) भर्ण- कोपिष्ट- टि. द.
 भर्तृ- √भृ ३.
 १०) भर्त्स्व
 भर्त्स्व- -जात् सिशि ३८१: १६.
 ११) भर्ध- २ अर- टि. द.
 १२) भर्व-व(ल)> ला- औपला- टि. द.
 १३) भल्
 भल्-
 भला(ल-अ, श्व- -०श्व-०श्व वा
 ४, १, ३.
 १४) भल्लवि^{१४}-
 भाल्लवि^{१५}-
 भाल्लवेय^{१६}- -य: कां ५, ११, १;
 -यम् कां ५, १४, १.
 १५) भभव^{१५}-
 भो- भो वृजा ६, १; ७, ५; पं १;
 का ४.
 २-३ भव- √भृ ३.

a) =पात्र- । b) 'भेदे' इति अज्या. । c) शिव: प्र. उलं. (पा ३, २, ६२) । =भाप., न. । d) =वटविशेष- ।
 e) कस. । f) तु. पाषा. √भदि (=√भन्द) । g) ऋ १, ८९, ८^१ । h) ऋ ५, ८२, ५ । i) तैत्ति १०, २९, १ ।
 j) ऋ १०, ७१, २ । k) =तीर्थविशेष- । l) वस. =भट्टजन्म- । m) 'जातिनिक' इति पा. इ यति. श्लोच: ३. (तु.
 नापू.) । n) =नक्षत्रविशेष- । o) =भासविशेष- । p) =शिवलिंगविशेष- । q) =आसनविशेष- । r) =वृक्षविशेष- ।
 s) °ष्ण: नि° इति आन. । t) =सामविशेष- । u) इत्स. । यद्वा पा. इ श्रीशेरा चापरो पादौ यज्ञायज्ञीयं स्त्रीष्वयम्
 इत्येवं मूलत: संभाव्यमाने पा. पादौ > भट्ट° इति लैवि. वा वावि. वा स्यात्? । v) °श्रावशि° इति शांशा ३, ५ ।
 w) =गोपीविशेष- । x) =देवीविशेष- । y) पा ६, ४, १५ । z) व्यु. इ =गोत्रप्रवर्तक-श्राविविशेष- । a') =१भवत्- ।

१ भवत्- -वतः पिब ६,२; -वता छु
१,३; महा २, ३३; ७२; सु २,
२, ५; २प्र ३३: २०; -वताम्
रुजा ३,१; -वते पा १,१; ३,४;
-वन्तः २प्र ३५:२०; वल ४,४४;
गी १, ११; -वन्तम् वृ ६, २,
७; कृ १; पिब ५,९; गी ११,
३१; -वान् वृ ५, २, १-३; ६,
२,३; ४; ७; अशि १,१; ते २,
११; ४२; अव्य ३; सु २,२,३०;
सूता १,४; वल ३,३५; ४,२३;
गी १, ८; १०, १२; ११, ३१.
भवती- -०ति छां ४, ४, १;
-ती वृ ४, ५, ५^३; दे १०^b; सार
२४३:१८; -तीनाम् सार २३०:
१७; २३२:२३; २४१: १५;
२४२:११; -स्यः सार २४१:१८;
२४२: १२; १३; १६.

भवद्-वाक्य- -क्यम् कृ २.

भवत्-

भवाद्-शाः सार २३०:
१५; -ज्ञानाम् सिशि ३८०: १.

२ भवत्-, भवन- √भू द्व.

*भवत्-

भोस्- भोः के ४, ७; छां ४, ४,
४^३; १४,२; ६, ७, २^३; वृजा १,
१; ७, ६; मैत्रे २, १; नाप १;
२^३; मं १, १, १; श १; त्रिवि
७, ४०; रार १, ५; २, ८१; रापू
४, १५; योशि १, १३; अक्ष १;
अक्ष ४, ७८; सूता १, २^३; सार
२३०: १७; २४३: १५; १८;
२६०: १२; पिब २, ५; भोः-भोः
पप ४२०: ६; अव्य १; व
४५९: १०; भोः-भोः-भोः व
४३४: १२; भोः^० वृ ६, २, १.

१-२ भवानी-, भवितव्य-, भविष्य-,
भविष्यत्-, √भव्य, भव्य- √भू द्व
√भस् (*वधा.)

बभस्- -सः छां ४, ३, ७.

भसित^६- -तम् वृजा १, १^३; ९^३; रु
९; वा ३६.

भसित-रुद्राक्ष-भूषित- -तान्
भ २, २८.

१ भ(स्त्र>)स्त्रा^{११}- -स्त्रा योशि १,
९६; यो १, ३४.

२ भ(स्त्री>)स्त्री^१- -स्त्री यो १, २१;
-स्त्रीम् योशि १, ८८; ११३.

भस्त्र्या(स्त्री-आख्या)>ख्य-
-ख्यम् योशि १, १००; यो १, ३९.

भस्मन्^{११}- -स्म अशि ५, २०^३;
२१^३; २२; वृजा १, १^५; २, १०;
१२; १३; ३, १; २; २४; २६^३;
३०; ३४; ४, २; ५, १; १७; ६,
१; ३; ५^३; ७^३; ८; ७, १; काला

६^३; ७^३; म १, ४; ५^३; ६^३; जाबा
१५; १६; वपं ३११: १; वटु
३१७: ११^५; १२^३; रु १०^३; ११;
शि ५, ८; ९; १२^९; २७; ३०;
सिशि ३८१: १६; -स्मनः वृजा

१, १; ६, २; ५; ७; १०; म १, १;
६; १०; -स्मना वृजा २, ११;
४, ८; ५, ७; ६, ४; ७; काला १७;
म १, १; २, २; ३; जाबा २६; वटु
३१७: १३; शि ५, २३; ७, ४३;
-स्मनि छां ५, २४, १; वृजा ३,
२८; ५, १२; नाप ३, ७; इ१४:
२१; वपं ३१३: ५; सिशि ३८३: ८.

भस्म-कल्प^{११}- -ल्पम् वृजा ३,
३४.

भस्म-कुण्ठन- -ने सिशि ३८०:
१३.

भस्म-च्छन्न- -न्नः वृजा ७, ७.

भस्म-ज्योतिस्- -तिः वृजा ७,
१-३; ७^३; ८; रुजा ३, १.

भस्म-तत्त्व-विद्- -विदः वृजा
४, २७.

भस्म-त्रि-पुण्ड्र-धारण- -णे
काला २^१.

भस्म-दर्शन- -नात् वृजा ५,
११.

भस्म-दिग्ध- -ग्धः वृजा ३, २४.

भस्मदिग्धा(ध-अ)ङ्ग- -ङ्गः
म २, २०; -ङ्गाः म २, २७.

भस्म-दीप्त-त्रिपुण्ड्रक- -कः
वृजा ५, १९.

भस्म-धारण- -णम् वृजा ५,
९; म १, ८^३; ९; वपं ३११: १;
३१३: ३; -णात् वृजा ७, २;
३; -णे वृजा ५, १४.

भस्मधारण-संपन्न- -न्नः
वृजा ६, ११.

भस्म-धारिन्- -रिणम् वृजा
५, १३.

भस्म-नि(छा>)छ- -छः वृजा ५,
१८; १९; -छस्य वृजा ५, १८.

भस्म-प्रहरण- -णः व ४३४: ४.

भस्म-मुष्टि- -ष्टिम् वृजा ४, १;
करु १; कश्रु २, ३.

भस्म-रहित- -तम् वृजा ५, १६

भस्म-रुद्राक्ष-गण-दर्शन^{११}-
-नैम् सु १, १, ३७.

भस्म-न्या(वि-आ)-पाण्डु-
रा(र-आ)ङ्ग- -ङ्गः द ८.

भस्म-शक्या-शयान- -नः वृजा
७, ७.

भस्म-शायिन्- -यिनः शि ५,
१९; -यी वृजा ५, १९.

a) सना. । व्यु. ? <√भा इति पाठ. (१, ६३); <√भू इति MW. । b) 'भवति' इति अब्या. ।

c) पा ६, ३, ९१ । d) = १ भवत्- । e) पा ८, २, ८३ । f) = भक्त्यशील- (तु. शं. प्रभृ.) कः प्र. लिङ्गत्वं च उत्सं. (पा ३, २, १७१) । g) = भस्मन्- । h) = धमिज- । i) = कुम्भकप्राणायामभेद- । j) स्त्री. डीष् (पा ४, १, ६३) । नैप्र. कृते तु. गपू. उजायी- । k) वैपश् यद्र. । l) 'जपे' इति अब्या. । m) तत्तदुपनिषद्नाम्नां द्वस. >मलो. कस. ।

भानु-मण्डल-संकाश>शा-
-शा नाद ७.

भानु-मध्य-गत- -तः ध्या २६.

भानु-लक्ष- -क्षम् रार २,६.

भानु-वत् नाप ८, २०.

१भाम^१-

भाम-नी- -नीः छां ४, १५, ४.

भा- √भा द्र.

भाक्त- १भक्ति- द्र.

भाग-, भागवत्-, भागवित्ति-,

भागिन्-, भाग्य-, भाजक-,

भाजन- √भज् द्र.

भाण्- √भण् द्र.

भाण्ड^१- -ण्डम् शि ६, २६०.

भाण्ड-संपुट- -टान् शि ६, ५६.

भाण्डीर^१- -रः गोड २१.

भाण्डीर-वन- -नम् गोड २१; सार
२२१: १२.

भात्-, भात- √भा द्र.

भाद्रपद्- √भद्र द्र.

*भाद्रार्थिक- १भारत्रिक- टि. द्र.

भान-, भानवीथ-, भानु- √भा द्र.

√भाम्

२भाम^१- -मः व ४६०: ५९^०.

भामित- -ऽतः श्वे ४, २२१^०; मना
२, ५३; २शिसं २९.

भार- √भृ द्र.

१भारक^१-

भारक-स्व- -स्वात् मै ५, ७.

१भारत-

भारता^१- -ताः अरु १५९^१.

२भारत-

भारती^१-

भारती-जि(ह्रा)>ह्र- -ह्रम् व
४, ३४.

३-४भारत- √भृ द्र.

भारद्वाज- √भृ द्र.

भार्गव- भृगु- द्र.

भार्य-, भार्या- √भृ द्र.

भाल^१- -लम् वृजा ५, १६^१.

भालु(कि^१>)की-

भालुकी-पुत्र^१- -त्रः, -त्रात् वृद, ५, २

भालुवि-, भालुवेय- भल्लवि- द्र.

१-२भाव-, भावन-, भावना-, भाव-

यत्-, भावयितव्य-, भाव-

यित्री-, भावयित्वा, भावित-,

भाविन्-, भाव्य, भाव्य-, भाव्य-

मान- √भू द्र.

√भाष्, भाषते नाप ५, १७; भाषसे वृ

२, ४, ४; गी २, ११; अभाषत गी

११, १४; अभाषथाः छां ५, ३,

६; वृ ६, २, ५.

भाष्यते ते ६, ५२; व १६; १८.

भाषा- -षा गी २, ५४; -षाः योशि

३, ७.

भाषा(षा-ञ्चा)दान-विहारिता-

-ताः भव २, १९.

भाषा-हीन- -नः ते ३, १३.

भाषा(षा-ञ्चा)भि(ज्ञ)>ज्ञा^१-

-ज्ञा सार २६३: ६.

भाषित- -तः यो ३, २१; -तम् गो

४, ९९; योशि ४, ८.

भाषितुम् कौ २, ५^०.

भाषितृ- -ता वृ ६, ४, १८.

√भास्, >भासि, भासते कौ २,

५१९^०; ससा १, १६^१; ३०^१; त्रिब्रा

२, ९; रापू २, १; योशि ६, ७७^१;

१आ ६; पाशु २, २४; यो ३,

१६; पं १७; २६; सर ३, २२;

भासति-भासति मैत्रे २, १४;

भासन्ते पाशु १, २; भाससे पं १८

भास्यते १आ ८.

भासयते गी १५, ६; १२; भास-

यति मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; पित्र ६, ४;

भासयन्ति भ२, १९^१; पित्र ६, ४.

भास्- भाः छां १, ६, ५, ६; ७, ४^१;

मैत्रे ३, ५; गी ११, १२; भासः

गी ११, १२; ३०; भासा क२, २,

१५; सुं २, २, १०; वृ ४, ३, ९; श्वे

६, १४; त्रिब्रा १, २^१; ए४; गु४५.

भासा

भासा-हीन- -नः मैत्रे ३, ५.

भास्-कर^१- -रः मैत्रि ७, २;

१संन्या २, ६; जाद ४, ३७; सूता

१, १७; २९; -रम् त्रिब्रा २,

१५७; सूता १, २२; २८; ५, १३;

व ४६२: ३; -राः नाप ५, १०;

महा ४, २०; -राय मना १, ७९^१;

चा ८; सूता ४, ५; व ४६१: २०;

४६३: ६९^१.

भास्कर-वर्ण- -र्णः इ१०: ४.

भास्कर(र-ञ्चा)कार-देह-

-हौ सावि १०.

भास्-वत्^१- -वतः छां ७, ११, २;

-वता गी १०, ११; -वन्तम् महा

४, ८०; वरा २, १९; -वान् महा

४, ५६.

भास्वती- -ती मै ५, ५; मैत्रि

६, ५; मना २, १३, २९^१; अ १;

a) =दीप्ति- (तु. २भाम-). b) व्यु. ? =पात्र-। c) व्यु. ? =भण्डीर-। d) =क्रोध-। e) ऋ १०,

८३, ४। f) ऋ १, ११४, ८। g) °मिनः इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. ऋ १, ११४, ८; आन.)। h) निसा. ?

भरग- इति शोधः द्र. (तु. मैत्रि ६, ७)। i) भा-र(त)>ता- इति वा भा-आर(त)>ता- इति वा कृत्वा उपसः (सं३)

इत्यस्य विप. द्र. [वैतु. सा. (तैत्रि १, २७, २) <√भृ इति कृत्वा पुं. प्र३ इति (तु. नाउ. स्थ. 'स-युज्->-युजा' इत्यत्र

टि.), लटी. <भारती- इति कृत्वा पुं. सं३ इति ? (न त्वेवं सत्याद्युदात्तः [तु. तैत्रि.] उपपद्येत)]। j) तैत्रि १, २७, २।

k) व्यु. ? =सरस्वती-। l) व्यु. ? =मस्तक-। m) फा° इति अञ्ब्या.। n) व्यु. ? =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-। o) 'भातुम्' इति

अञ्ब्या.। p) निसा. अञ्ब्या. ? 'भाषते' इति शोधः द्र. (तु. आन., शांआ४, ५)। q) 'अवभासते' इति आन.। r) 'अवभासते'

इति अञ्ब्या.। s) 'भावयन्ति' इति निसा.। t) 'भासेन' इति अञ्ब्या. संटि.। u) तैत्रि १०, १, ७। v) तैत्रि १०, ११, २।

भिद्यमान- नम् ब्रवि १४; त्रिता
५, १४; अवि १४; -ने गौ ३, १९.
भिन्दत्- न्दन् मैत्रि ६, ३८^१;
वा १^५.
भिन्न,त्रा- -न्नः बृ ४, २, ३; ३, २०;
वृ ८, ५; सुवा ४; आबो २८;
गो ६; ७; ८^१; ९; १०^१; १४;
१५; कृ २५; सार २४५; १४;
भव २, ३१; -न्नम् छां ६, १२, १;
गौ ४, ११; ध्या ४६; आबो २७;
रुह २७; पं ३२; पत्र २^१; कृ
२५; अद्वै २६; शि ७, ८०; ८३;
-न्नस्य आबो २३; -त्रा छां ६,
१२, १; रुह ४४^१; अन्न ४, ३३^{२०};
गौ ७, ४; -न्नाः शा ११; -न्नाम्
त्रिता ५, २१; -न्ने ब्रवि १५; मन्त्रि
२; महा ४, ५३; योशि ६, ७७;
त्रिता ५, १५; यो ३, १६; पिं ३;
चू २; अवि १५; -न्नौ वउ ३, ४५.
भिन्न-जगत्- -गतः अन्न १,
१५; १६.
भिन्न-ता- -ता योशि १, १७.
भिन्न-त्व- -त्वेन भा ३३.
भिन्न-भिन्न- -न्नम् रुजा १, ११.
भिन्न-रूप- -पौ अन्न १, १३.
भिन्न-वत् त्रिबा १, २.
भिन्ना(ज-त्रा)अन-सम-प्र-
(भा)भ- -भम् त्रिब्रा २, १४१.
भिन्ना(ज-त्रा)भिन्न-रूप(प)पा-
-पा सी १०.
भेद- -दः गौ ३, ६; १५; पं २; ध्या
१; १योत १११; मं २, ३, ३; ३,
२, २; त्रिवि १, ८; १०; २, १०^१;
महा २, ७; योशि ४, १; ५, ५८;
पाशु २, २६; अन्न २, २९; ४, ३३;

अध्या २५; रुह ४२; ४५; रुजा
१, २०; पं ३३; सर ३, २३; अद्वै
१; स्व ६१; २१; सांका ४८;
-दम् ते ४, ४२; ६, ५५; १००;
अक्षि २०; अध्या ४६; जाद ४,
६३; सर ३, १८; २१; अद्वै २६;
गौ १७, ७; १८, २९; -दस्य महा
५, ३४; योशि ४, ४; वरा ४, १०;
-दाः मैत्रि ७, ११; स्क १०;
अक्ष १; पं १; सार २४९; ४;
सांका ४६; -दात् सौ २, ७; सांस्
५, ६६; ब्रस् ३, २, १२; ३, २;
-दान् गौ २, ११; १२; ध्या ४२;
-दानाम् गौ २, ४; ५; ११; योशि
१, १०२; यो १, ४०; सांका १५;
-दे गौ ४, ९४; पाशु २, २५; सर
३, २१; ब्रस् ३, १२; -देन अक्षि
४३; रुजा २, १; पं ३२; पिं ३
६, २; ब्रस् १, २, २०; ३, ४२;
-दैः यो १, २१; सर २, ७; -दौ
सार २७५; ८.
भेद-कर्तृ- -र्ता अध्या २५^१.
भेद-कलन- -नम् ते ६, ९९.
भेद-तस(>) ब्रवि ३९; सु १,
१, १३.
भेद-त्रय- -यम् ते ३, ४७.
भेद-त्व- -त्वेन गो ३३.
भेद-दृष्टि- -ष्टिः महा ५, ११३.
भेद-निन्न- -न्नाः गौ ४, ९४.
भेद-निर्देश- -शात् ब्रस् २, १,
२२.
भेद-निष्पन्द-वित्त-
भेदनिष्पन्दचित्त-ता- -ता
महा ५, ७^६.
भेद-बन्ध-विनिर्मुक्त- -क्तः

योशि १, ४१.
भेद-बुद्धि- -द्धिम् ते ३, ६२.
भेद-भू- -भूः ते ६, ३३.
भेद-भ्रम- -मः अन्न १, १६.
भेद-वासना- -नाम् महा ४,
१०९.
भेद-व्यपदेश- -शात् ब्रस् १,
१, १७; २१; ३, ५.
भेद-श्रुति- -तेः ब्रस् २, ४, १८.
भेद-सिद्धि- -द्धौ सांस् २, २४.
भेदा(द-त्रा)नुपपत्ति- -त्तिः ब्रस्
३, ३, ३६.
भेदा(द-त्रा)भाव- -वात् मं २,
३, ५; ५, १, ६.
भेदा(द-त्रा)भेद- -दः पाशु २,
२६^१.
भेदन- -नम् हं १८^१.
भेदयत्- -यत् ब्रवि ७४.
भिषज्- -षक् मैत्रि ६, १३; -षजा
मना २, ४८^१.
भिषज- -जम् स शां^१; भव १,
३१; -जानि लिं ३१०; १^१.
भिषज-कृत- -तः छां ४, १७, ८
भैषज्य-
भैषज्या(ज्य-त्रा)हारपात्र-
-त्राणि शि ७, २७.
भिषग्-ग्रहण-काल- -ले स्व ६१;
१४.
√भी, > भीषि^१, §^१भयामहे मना १,
१९; व ४६३; ३२.
बिभेति क १, १, १२; तै २, ४,
१; ९, १; बृ १, ४, २; वृ २,
१४; सुवा १^१; १३; श १७^१;
महा ४, ७०; योशि ६, ६७; अन्न
५, २; अक्षि ६; कर ३४; ग १८

a) °न्दत् इति सुपा. यनि. शोधः द्र. (तु. सात.) । b) °न्नम् इति निसा. । c) °न्ना इति निसा. ।
d) °न्नाभिन्नम् इति निसा. । e) सकृत् °न्नः इति अज्या. संटि. । f) °दकम् इति निसा. संटि. । g) °निष्पत्ति° इति
अज्या. संटि. । h) °दात् भे° इति अज्या. संटि. । i) खे° इति निसा. । j) वैपश् यद्र. । k) शौ ७, ५५, १ ।
l) खि १०, १९१, १५ । m) ऋ ६, ७४, ३ । n) पा ७, ३, ४० । o) ऋ ८, ६१, १३ । p) गप्. (पृ ७९) अभि/षा
> अभि-धा-> -धा इत्यत्र यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । q) तैत्र्या ८, ४, १ ।

भेतव्य- व्यम् वृत् ९, १९; इ
१०:२.

भुक्तरिक्तवासम्- -सः वत् ६,
३५.

√भुज्(बधा.)>भोजि, बुभुक्ष्,
भुङ्क्ते कौ ४, २०^३; मैत्रि ६,
१०^३; काला २०; मन्त्रि ७; ते
६, ९५^b; श २४; शां २, १;
पै २, ३८; महा २, ५४; योशि
५, २३; सुनक्ति वृ १, ४, १०;
१५; शा ३५^१; पा ४, २; गुणो
४२१ : ६; वत् ६, ४९; भुञ्जते
कौ ४, २०^१; योचू ४३; इ
१३ : १; सार २२६ : ३;
२७३ : ४; गी ३, १३; भुञ्जे
ते ३, २३^०; सुनक्तु क शां^१; तै
शां^१; श्वे कै गर्भना मना ब्र अना
काला जु ससा शु ते ध्या ब्रवि
१योत द स्क शारी योशि ए अन्नि
१अव करुह यो पं प्रा वरा कलि
शां^१; १प्र शां^१; व ४६६ :
१७१^१; भुङ्क्व ते ४, ८०; गी
११, ३३; भुनजत् वृ १, ५, १७;
भुञ्जीत १संन्या २, ७१; वृजा ३,
२१; इ १४:११; १५:१३; १७:
१६; १८ : १; शि ७, २४; ४८;
भुञ्जीयात्^१ १३:१५; भुञ्ज्यात्
नाप ५, ९^१; भुञ्ज्युः वृ १, ४,
१०; भुञ्जीथाः ई १; भुञ्जीय
गी २, ५.
बुभुजे सार २३८ : १७; २४० :
१५; भोक्ष्यसे गी २, ३७.
भुञ्ज्यते ते ६, ५३; यो १, ४.
भोजयति शि ६, २१५; भोज-
येत् वृजा ३, २१; रार ४, ८;

भ १, ४; इ १७ : १५; शि ७,
३२; ७७; काम १९.

बुभुक्षा-क्षा पित्र १, १२; -क्षाः?
भव १, १४.

भुक्त- -क्तः महा ३, १९^h; -क्तम्
मना १, १२^१; सुवा ४; महा ३,
१७; योशि ५, ३५; अत्र ५, ३;
-क्ताः गर्भ ४; निरु १, १७.

भुक्त-पात्र- -त्रम् या २, १^१.
१^१भुक्त-भो(ग>)गा- -गाम् श्वे
४, ५; मना २, १२, १; नापू ५,
२१.

भुक्त-वि-रस- -सम् महा ६,
७६^१.

भुक्ता(क्त-अ)न्न-रसा(स-आ)-
दिक- -कम् शां १, ४.

भुक्तवत्-
भुक्तवज्-जन- -ने नाप ५, ८;
१संन्या २, ७३.

भुक्ति- -क्तिः सौ १, ३; सांसू ६,
५५; -क्तिम् वपू १, ४; वत् ६, ४९.

भुक्ति-भुक्ति- -क्ती सर ३, ७.
भुक्तिभुक्ति-प्रद- -द अत्
५; -दम् रार ५, १५.

भुक्तिभुक्तिप्रदायि(न>)-
नी- -नीम् दे १०.

भुक्तिभुक्ति-फल-प्रद- -दः
रार ५, १२; -दम् हं ३; गोच
६८ : २४.

भुक्तिभुक्ति-फल>)ला-
-ले का १३.

भुक्ति-सिद्धि- -द्धिः आथ ३९३:
८; ३९८ : १७.

भुक्त्य(क्ति-अ)न्त- -न्तम् नाप
४, ३८^m.

भुक्त्वा वृजा ४, ६; नाप ३, ३८;
रापू ५, १०; महा ४, ३२; योशि
१, ४९; यो १, ७३; भ २, २१;
गोत् ३; इ १२:१९; शि १, ३०.

भुज^{१h}- -जः सु २९३:१३; -जम्
वि २१; -जयोः य ९; सु २९३:
९; -जे सु २९४ : १३.

भुज-ग^१-
भुजग-बिल-समाबद्ध-
कक्ष्य- -क्ष्यः द ५.

भुज-दण्ड- -ण्डेन ध्या ५९;
योचू २७; योशि ६, ५२.

भुज-द्वय- -यम् व ४५८ : ५;
-ये वृजा ५, २.

भुज-लता-कर-कङ्कण-मर-
कत-ज्योत्स्ना- -त्स्नाभिः सार
२६५ : १०.

भुज-स्पन्द- -न्दम् व ४३२:१७
भुजा(ज-अ)न्तर- -रे गरु ५.

भुज्यु^{१०}- -ज्युः वृ ३, ३, १; २.
भुञ्ज^१-

√भुञ्ज्
भुञ्जमान- -नः सार २६९:
२०.

भुञ्जत्- -ञ्जन् नाद २१; १योत
२३; सिशि ३८१ : १२.

भुञ्जान, ना- -नः गौ १, ५; शि ७,
१६; -नम् गी १५, १०; -नाः
सार २४०:५; २९१:२१; -नान्
सार २४६ : २०.

भोक्तव्य- -व्यम् ते ४, २१; १संन्या
२, ६८; ६९; वरा ५, ९.

भोक्तुम् नाप ३, १८; भव १, १३;
गी २, ५.

भोक्तृ- -क्ता क १, ३, ४; श्वे १, १२;

a) पा. १ भुक्तरिक्तवा^० इति शोधः द्र. । b) 'ज्ञाते' इति अञ्जा. संटि. । c) वाध २, ११ । d) 'न्ते' इति
निसा. यनि. शोधः द्र. । 'भुञ्जति' इति आन., अञ्जा., शांआ ६, २० । e) 'भुङ्क्ते' इति अञ्जा. । f) तैआ ८, १, १ ।
g) वृ. गपू. पृ ४५१i । h) 'भुक्तः' इत्यपि निसा. पाभे. । i) तैआ १०, १, १२ । j) 'शिक्ष्यं, पात्रम्' इति अञ्जा. ।
k) तैआ १०, १०, १ । l) 'भुक्ति' इत्यपि निसा. पाभे. । m) सु^० इत्यपि निसा. पाभे. । n) धा. अर्थः? =बाहु- ।
o) धा. अर्थः? =शुषिकिरोष- । p) शः प्र. उरसं. [पा ३, १, १३७ (वृ. गपू. पृ २७७r) ।

गौ १, ५; २, २२; मैत्रि ६, १०^५;
१६; कै १, १८; समा ३; ते ६,
१५; ध्या ९३, १; नाप ९, ११;
पै ४, ३; शारी ३; अक्षि २१;
अज १, ५७; गोउ ६-११;
१३^५; वरा ३, १९; इ १४:८;
भव २, ११; ५७; गी ९, २४;
१३, २२; -कारम् गी ५, २९;
-क्तुः सांम् ५, ११४; -क्त्रे पा४, २.
भोक्ता[क्षि] (क्त-आ)दि-
शब्द-

भोक्तादिशब्दित^५- -त्तः भव
२, ३१.

भोक्तृत्व- -त्वात् मैत्रि ६, १०;
-त्वे भव २, ८; गी १३, २०.

भोक्तृभाव- -त्वात् श्वे १, ८; नाप
९, ७; भव २, ५; सांम् १, १४३;
सांका १७.

भोक्तृ-भोगा(ग-आ)यतन-
भोक्तृभोगायतन-त्व-
-त्वम् सांम् ५, १२२.

भोक्तृ-भोगा(ग-आ)र्थ-यु-
(क्त)क्ता- -क्ता श्वे १, ९; नाप
९, ८; भव २, ३.

भोक्तृ-भोज्या(ज्य-आ)दि-
रूपक- -कम् ते ५, ७९.

भोक्तृ-विद्- -विदः गौ २, २२.

भोक्तृ(क्त-आ)भोक्तृ- -कारौ गोउ
१३^६.
भोक्त्रा(क्त-आ)पत्ति- -त्तेः ब्रम्
२, १, १३.

भोक्ष्य^६-

√भोक्ष्य, भोक्ष्येत् ते ४, ३१.

१भोग^७- -नाः वृ १, ३, २-६; कै १,
१८; ते ४, २१; महा ५, ७१;
अज २, ४२; ४, ३३^१; शि १,
३३; पित्र २, ३; सांम् १, १०४;

-नाम् गौ १, ३; अक्षि ६; रुह
४२; शि ६, ३९; नाः महा २,
२६; ४२; सार २३८:२; २८२:
१४; शि २, २१; गी १, ३३; ५,
२२; -नात् सांम् ३, ८; ४, २७;
-गात् ते ३, ५४; नाप ३, २५;
महा २, ६०; कुं ८; त्रिता १,
५६; शि १, ३१; ३३: ४, ३८;
४२; ४४; ५०; ५३; ५, ३०; ६, ४;
२२; ४७; ५६; ५९; ६५; ६७;
६९; ७७; २०४; २०७; २०९;
२१४; २१८; २२६; २३०;
२३४; २५८; २६९; २७२;
२७३; ७, ७३; गी २, ५; ३, १२;
-गानाम् महा ५, १७१; -नाय
योच् ७२; -गेन काम २२; ब्रम्
४, १, १९; -गेभ्यः महा २, १३;
७१; शि ४, ३०; -गैः वृ ४, ३,
३३; शि ४, ३५; ६, ६; २७;
५४; ९८; १००; १८०; १८७;
२०३; २११; २४४; गी १, ३२.
भोग-(ङ्)ङ्गा^८- -ङ्गा सार
२२३:४.

भोग-तस(ङ्) योच् ७३.

भोग-ताम्बूला(ल-आ)द्य- -द्याः
सार २६६:२३.

भोग-तृण्या-विमोहि(न्)नी-
-नीम् शि १, ६.

भोग-(द)दा^९- -दा सौ १, ३.

भोग-दा(त्)त्री- -त्रीम् सार
२३२:९.

भोग-दायिन्- -यिने सार २७७:
११.

भोग-देस-काल-लाभ- -भः
सांम् ६, ५९.

भोगद्रष्टे^{१०} सार २५२:३.

भोग-पर(र)रा- -रा सार

२८४:१४.
भोग-प्रद(र्)दा^{११}- -दा माग
२२३:४.

भोग-भुज्- -भुज् ते ५, ११.

भोग-भू- -भूः महा ३, ४८; व
२, १४.

भोग-मात्र-माभ्य-लिङ्ग-
-ङ्गात् ब्रम् ४, ८, २१.

भोग-मोक्ष- -क्षम्^{१२} वा ४२३:
१०; -क्षयोः ह ६; -श्रौ वि २९.

भोगमोक्ष-जिगीषा- -षया
शि १, ३५.

भोग-यो(न्य)ग्या- -ग्या ते
६, ९१.

भोग-रूप, पा- -पा सौ ३६;
-पाम्याम् सार २४७:६.

भोग-लाल(सा)स- -सम् ते
१, ४०.

भोग-व(त्)ती^{१३}- -ती सार
२२६:२; २३४:५; २३८:१;

२४२:२१; २६२:२३; २६८:
१८; २६९:२; २८४:१४; -स्या
सार २२३:८.

भोगवत्या(ती-आ)दि- -दयः
मार २७०:९.

भोग-वारि-संप्रदाय- -यः म
४८:१२.

भोग-वासना- -नाः महा ५,
७७; सु २, २, ४१.

भोग-विसर्जन- -ने १संन्या २,
३५.

भोग-शक्ति- -क्तिः सी ३६.

भोग-श्री- -श्रीः महा ५, ७२.

भोग-संचय- -यैः महा २, २५.
भोग-संभव- -वाय सार २५२:३

भोग-साक्षि(न्)णी- -ण्यै सार
२४७:५.

a) पा. ! यनि. शोधः द्र. । b) पा ५, २, ३६ । c) °कमो° इति ध्यान. । d) कर्त्तरीच्छाविषये स्थः प्र. उसं. (पा ३, १, ७) । e) भाप. । f) निसा. पा. ! 'भोगम्' इति वा 'भोगेन' इति वा शोधः द्र. (तु. निसा.संति., अज्या.) । g) पा. ! 'भोगद्रष्टृ-> -ष्ट्रे इति शोधः द्र. । h) समाहारे द्रस. ।

भोग-साधन- -नम् त्रिवि ५,
१३.
भोग-सुख-रूप- -पाय सार
२४७ : १२.
भोग-स्थान- -नम् सार २२५;
१८; २८४ : १.
भोग-स्थिति- -तौ १संन्या २,
३५.
भोगा(ग-आ)काङ्क्षा- -ङ्क्षा
१संन्या २, ८६.
भोगा(ग-आ)त्मन्- -त्मने सार
२७७ : १२.
भोगा(ग-आ)त्मक- > -त्मिका-
-काम् सार २३२ : १२-१३;
-कायै सार २४७ : ५.
भोगा(ग-आ)दि- -दिभ्यः ब्रम्
२, २, ४०.
भोगा(ग-आ)पवर्गा- -र्गाः रा
४२५ : २३.
भोगापवर्गा(र्ग-आ)र्थ- -र्थम्
योस् २, १८.
भोगा(ग-आ)भि(ज्ञ- >)ज्ञा- -ज्ञा
सार २८४ : १४.
भोगा(ग-आ)भोग^१- -गाःअच्चि
२३.
भोगा(ग-आ)यतन-निर्माण-
-णम् सांसू ५, ११४.
√भोगाय्
भोगायमान- -नः अशि ६,
१३; वट्ट ३१७ : १९.
भोगा(ग-आ)र्थ- -र्थम् गौ १, ९;
-र्थे सार २३७ : २१; २५९ : १७.
भोगा(ग-आ)वस्था- -स्थायाम्
सार २८६ : २१.
भोगा(ग-आ)ज्ञा- -ज्ञाः महा
३, ५६.

भोगिन्- -गौ गौ १६, १४.
भोगिनी- -नी सौ १, ३.
भोगे(ग-इ)च्छा- -च्छा महा ३,
४८; या२, १४; -च्छाम् महा ४,
१२८; अन्न ४, ८२; सु २, २,
१५.
भोगेच्छा-मात्रक- -कः महा
५, ९७.
भोगै(ग-ए)क-वासना- -नाम्
महा ४, १०९.
भोगै(ग-ए)श्वर्थ-गति- -तिम्
गी २, ४३.
भोगै(ग-ए)श्वर्थ-प्रसक्त- -क्ता-
नाम् गी २, ४४.
भोग्य^२- -ग्यम् छां ८, ९, २^३;
१०, २; ४; ११, १-२; श्वे १, १२;
कै १, १८; नाप ९, ११; व ४;
भव२, ५७; ४, ५; न्ये अध्या ४१.
२भो(ग- >)गा- -गा पी ४२२ : ९.
भोजन^३- -नम् छां ५, २, ७^४; ते
६, १५; जाद १, १९; शि २,
२८; सार २५४ : ५; गी १७,
१०; -नाव सार २३४ : १८;
-ने शि ६, २६८; गु २३; -नेषु
शि ६, २६८; -नैः महा २, २५.
भोजन-छीव-मार्जन- -नम् शि
७, ३३.
भोजना(न-आ)च्छादन- -नम्
नाप ५, ४.
भोजना(न-आ)घा(र- >)रा-
-राम् शि ६, २६८.
भोजना(न-आ)र्थ- -र्थम् शि ६,
४४.
भोजनीय- -यः(ःयाः) शा३५.
भोजनो(न-उ)च्छिष्ट-कृपा-
प्रसाद- -दाव सार २३४ : १८.

भोजयान- -नस्य इ १३ : १.
भोजयित्- -ता वरा ३, १९.
भोजयित्वा भ २, २१^१.
भोज्य, ज्या^१- -ज्यः ते ६, ८९^१;
-ज्यम् गौ १, ५^०; २, २२; मैत्रि
६, १०^१; ते २, २२; ५, ११; ६,
१५; नाप ३, ६९; पाशु २,
४०-४३; वरा२, २६; सार२२२ :
८; भव ४, १९; -ज्या मैत्रि ६,
१०; -ज्यानि महा २, २६;
-ज्याय वपू १, ३.
भोज्यत्व- -त्वम् मैत्रि ६, १०.
भोज्या(ज्य-आ)पन्न- -न्नाः सार
२३८ : २.
भोज्या(ज्य-आ)र्थ- -र्थे सार
२३७ : १६.
√भुञ्ज्, भुञ्ज- -भुञ्जव- , भुञ्जमान- ,
भुञ्जान- √भुज् द.

भुभवन-
भुवना^१- -ना तारा ८३ : १४; १७;
-नाम् तारा ८३ : २.
भुभवन- √भू द.
*भुर्- , *भुर्मा- उमा- टि. द.
?भुवर्णायुदेवादाव्यदेहितेरस-
कारः^२ अद्वै १९.
भुवस् √भू द.
भुसुरा^३- -ण्डः वृजा १-३, १; ४, १;
१०; ६, १; भ१, १^१; २, १; रुज
१, १^१; २, १; -ण्डम् वृजा १, १^१.
√भू(*बधा.) > भावि, बुमूष, बोभू,
भवते सुं ३, १, ४; श्वे २, १४;
भवति क १, २, १; प्र ३, ११;
सुं १, १, ३; मां ९; तै १, ६, २;
ऐ ४, १; छां ५, १, १५^६; वृ
१, २, १; कौ २, १४^६; त्रिवि ४,
५^६; मं२, ३, ७^६; जाद ५, १४^६;

१) वैपश् यद्र. । २) ऋ ५, ८२, १ । ३) पा. ? यनि. शोचः द्र. (तु. वाच २, ११) । ४) अग्निभो^० इति
अञ्च्य। ५) *ग्यम् इति संटि. । ६) व्यु. ? = देवीविशेष- । ७) पा. ? । ८) व्यु. ? = ऋषिविशेष- । ९) *ण्डः इति
निसा. संटि. । १०) *ण्डः इति अञ्च्य। । ११) 'भवन्ति' इति निसा. । १२) 'गच्छति' इति शांआ ४, १४ । १३) 'एति'
इति मा ३१, १८ । १४) 'भवेत्' इति निसा., अञ्च्य। संटि. । १५) 'विभाति' इति अञ्च्य। ।

वरा २, ७५^०; सी ८^b; गोपू २^०;
भवतितराम् सार २२० : १०;
भवतः क १, २, २५; प्र ५, ५;
ऐ २, ५; छां ३, १७, ६; वृ ३,
५, १; हं ६; वृ ४, ५; शां १,
४; योशि १, ५५; अथा ४^५;
सार २८९ : ७; भवन्ते इ १३:
१२; २०; भवन्ति के १, २; क
२, ३, २; प्र ३, ५; ऐ ५, २;
छां २, ६, २; १२, १; २३, १; वृ
१, ४, ७; खे ३, १; हं ८; गर्भ १;
मना १, ३९^d; राउ ५, ४^०; भवन्ति-
तराम् सार २६८ : २; २८३ :
१३^f; भवसि खे ४, ३९^g; वा
२; भवामि छां ८, १४, १; मसा
१, ४२; शु ३, ४; कुं २७; जाद
१, ३; गोउ ६; सु १, १, ६; सार
२२७ : १६; गी १२, ७; भवामः
सार २४३ : १७; वपू १, ४; भवतु
तै शां ९^h; कै २, ५; ते ६, ७७;
शु १, ५; शि ६, १५७; गाग् ४०६ :
१२ⁱ; श्या ३; विद्या शां ९^j; भवन्तु
वृ ६, ३, ६९^k; मना २, ३९^l; नापू
३, ४९^m; सार २४८ : १४; शि
६, १५९; भव १, ५५ⁿ; भवस्व
मना २, १७^o; भव > वा तै १,
११, २; वृ ६, ४, २८; मैत्रे २, २८^p;
मना १, १०^q; आर ३९^r; ते ४,
८०; त्रिवि ८, १२; वा ७; शां
१, ७, १८; व ४३७ : ८^s; भवानि
शौ ५२ : ५; २ प्र ३६ : ९^t;

अभवत् तै २, ६, १^u; वृ १, २, २;
मैत्रि ६, ३; मना १, ४^v; वृजा ६,
१; वृउ ६, १; शां ३, १; अव्य ५^w;
ता २, १; कृ १२^x; अभवत्
त्रिवि ४, ९; अभवताम् छां ३,
१९, १; वृ १, ४, ३; सार २४८ :
१०; अभवत् छां १, ४, ४; वृ १, ३,
७; १५; वृजा ६, ३; गोवि ६० : २०;
सार २४६ : १५; गर ४०५ : ९^y;
वपू १, २; अभवम् वृ १, ४,
१०; रुजा १, १; सार २२७ : ८;
भवेत् सुं २, २, ४; गौ २, ३७;
मैत्रि ६, ३४; मैत्रे २, १२;
हं २०; कै १, १८; जा ४^z; नाप
३, ७३^{aa}; ५, १८^{ab}; महा ५, २८६^{ac};
पाशु २, ४२^{ad}; भवेताम् सार
२४४ : २३; भवेयुः रुजा २, १०;
सार २४६ : १२; वपू १, ५;
भवेयम् सार २२७ : २३; वि
३०; भवेम सार २४१ : १४.
भूत अरु ६^{ae}; व ४६१ : १३^{af}.
बभूव क १, २, १८; छां १, २,
१३; वृ २, ५, १९; मै ४, ५; मैत्रि
५, २; प्र १^{ag}; वृजा २, १; वृपू
२, १२^{ah}; शा ६; त्रिवि ८, ५; नी
२, १६^{ai}; बभूवतुः वृ ४, ५, १;
बभूवुः प्र २, ३; छां १, ८, १; वृ
३, १, १^{aj}; खे ५, ६; योचू ७२;
कृ १; २ प्र ३५ : १८; नापू ४,
१३^{ak}; सार २२९ : १३;
भविता क १, १, ११; १६; नाप

३, ४८; गउ ३, ८; वउ ३१३ :
२; भव २, ३७; गौ १८, ६^{al};
भविष्यति प्र २, १०; छां १, ९,
३; खे ६, २०; गौ ३, २१; वृजा
६, ११; ते ६, ७६; अथा ६५;
योचू ३५; सुत २; योशि १, ३५;
भविष्यन्ति छां १, ५, २; वा १;
१०; गौ ११, ३२; भविष्यमि
अरु १, ४; अत्रि १; भविष्यामि
प्र ६, ३; अशि १, २; भविष्यामः
सार २४८ : १३; गौ २, १२;
भूयात् क १, २, ९; योचू ७८;
१ अव ३३; गौ १, २; भूयासुः
मना १, ११^{am}; भूयासम् तै १,
४, १; वृ ६, ३, ६^{an}; मना २, १९^{ao};
नाप ४, ३८^{ap}; वग २, ८; ह
२०^{aq}; लि ३१० : १०^{ar};
अभूत् इ ७; क २, ३, १८; छां ५,
३, ७; वृ १, २, १; कौ ३, ७^{as}; वृजा
३, २; १ गौ १०; त्रिग्रा २, ३^{at};
योशि १, ८; अव्य १^{au}; सूत वृ
६, २, ७^{av}; म २, २८; अमूवन्
गोपू २४; सार २४६ : २०; वउ
४, ३०; अमूः वृ ६, ४, २८^{aw}; मूः
गी २, ४७; अमूवम् छां २, २, २,
३; वृ १, ५, ३^{ax}; भूवम् वरा २, ८;
९^{ay}; अमूम अशि ३, ४; च २१ :
१९; वउ ३१५ : ३; अभविष्यत्
छां ७, २, १; अभविष्यः छां ५,
१३, २.
भूयताम् सार २३३ : २.

- a) 'अजति' इति अच्चा. । b) 'भगवती' इति निसा. । c) 'भानि' इति आन. । d) तैच्चा १०, १, २ ।
e) सकृत् 'भवति' इति अच्चा. । f) °ति इति मुपा. यनि. शोधः द्र. । g) शौ १०, ८, २७ । h) ऋ १, ९०, ९ ।
i) ऋ १, ९०, ८ । j) 'अवन्तु' इति ऋ १, २२, १६ । k) पा. ! 'भजस्व' इति शोधः द्र. (तु. तैच्चा १०, ४३, १) ।
l) ऋ १, २२, १५ । m) आपमं २, ९, ५ । n) ऋ १, ९१, १६ । o) °वान् इति पा. ! यनि. शोधः द्र. (तु. गोत्रा १, १,
२८) । p) मा ३२, १२ । q) सकृत् 'भवेत्' इति अच्चा. । r) 'भवेत्' इति अच्चा. । s) 'अभवत्' इति ऋ १०,
९०, ४ । t) 'यतिः' इति अच्चा. । u) 'भजेत्' इति अच्चा. । v) 'भव' इति अच्चा. । w) °त् इति निसा. ।
x) ऋ १०, १५७, ३ । y) 'बोधि' इति ऋ ५, ४, ९ । z) मा १६, ११ । a') ऋ १०, ७१, ७ । b') 'सन्तु' इति
मा ६, २२ । c') तैच्चा १०, ७, १ । d') तैच्चा ७, ४, १ । e') तैच्चा १०, ५१, १ । f') 'अमूव' इति निसा. ।
g') ऋ ८, ४८, ३ ।

भावयति ऐ ४, २; महा ५, १२२;
भावयन्ति योचू ५६; सार २७२:
२३; भावयन्तु गी ३, ११;
भावयस्व वरा २, ४५; भावय ते
६, १०६; महा ४, १०; अन्न १,
१९; या २, २३; वरा २, ४७; सु
२, २, ७४; भावयत गी ३, ११;
भावयेत् ऋषि ७; मैत्रे १, ४, ८;
वसू २९; ते २, २४; १योत ६९;
रापू ५, ४; वा २४; मुद्र ३; शां
१, ७, ४३; योशि ५, ३५^२.
भाव्यते अन्न ४, ४७; ४९; ६०.
बुभूषति वृ १, २, १८; ४, १; ६,
१, १; २; बुभूषे (१षेत्^b) कौ २, ४.
बोभवीमि वा ११; बोभुवे वा
२२; बोभवीत् वा १८.
१^०बभू (वसू) बुषी^d - षी ह १६;
चक्र ३.
२भव^e - -वः ते ४, १७; -वम् पा
१, ३; -वात् महा ४, १०७; शा
३०; -वे-वे मना २, १७१^f.
भव-नाशन^g - -नम् जाद १०, १.
भव-प्रत्यय - -यः योसू १, १९.
भव-बन्धन - -नम् पित्र ५, ७;
-नात् व्रवि २०; योशि ६, ३१;
सु १, १, ६.
भव-बन्ध-मोचन^h - -नाय दत्ता
२.
भव-बन्ध-विनाशि (नू>) नी -
-नीम् रार १, ५.
भव-बन्ध-विमोचनⁱ - -नाय व
४५६ : ६.
भव-भय-मुक्त-पद - -दः
अन्न ४, ७२.

भव-भागिन् - -गिनः भव १,
१८.
भव-भाम - -माय नी १, ४.
भव-भावन-वर्जन - -नात् अन्न
४, ८८; सु २, २, २८.
भव-भावना - -नया महा ४,
९२; ५, १३५.
भव-भीत - -तः दे १९.
भव-भूत - -तम् श्वे ६, ५.
भव-भोग-महा (हा-अ) णव -
-वात् शि ४, २८.
भव-भ्रम - -मः पित्र ५, ५.
भव-मन्यु - -न्यवे नी १, ४.
भव-मुक्ति - -क्तये त्रिब्रा २,
१४३.
भव-सोचन - -नम् वउ १, २६.
भव-रोग - -गः जाद ७, १०;
-गात् व ४५५ : ११.
भव-वर्जित-चिन्-मात्र - -त्रम्
ते २, २५.
भव-संताप-निर्वापण-सुधा-
नदी - -दीम् सर ३, ६.
भव-सागर - -रम् यो ३, १८;
योशि ६, ७९; -रात् शि १, ३; ४,
५४.
भव-स्थिति - -तौ अन्न ५, १०५^२.
भवा (व-अ) न्त - -न्तः महा ४, ६६
भवा (व-अ) न्तर - -रे कृ १.
भवा (व-अ) प्यय - -यौ गी ११, २
भवा (व-अ) रि - -रिम् रापू ५, ८.
भवा (व-अ) णव - -वात् महा ४,
४०; ५, ८४; १७४; -वे महा ५,
७६.
भवो (व-उ) दधि-महा-सेतु - -तुः

योचू १०८.
भवो (व-उ) ऋव - -वम् ते ३, ५८;
-वाय मना २, १७१^f.
√भव्य
भव्यमान^b - -नम् मना १,
१११ⁱ.
३भव^g - -वः मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; ७,
७; मन्त्रि १२; व ५; सुसु २०;
चू १२; गी १०, ४; -वाय मना
२, १६१^h; भ १, ६; पा १, १; ३;
९, ७; नी ३, ७; -वेन नी ३, ४.
१भवानी^l - -०नि व ४४९:
६; -नी गु ६४; -नीम् सर ३, ६.
२भवानी^m -
भवानी-तट-स्थ -
-स्थम् वृजा ६, १.
भवानी-पति - -तिम् द
१४.
भव-लिङ्ग - -ज्ञाय मना २, १६१^h.
२भवत् - -वत् मां १; वृ ३, ८, ३;
४; ६; ७; वृपू ४, ३; वृउ १, २;
योचू ७२.
भवन्ती - -न्त्यः सार २४१: १२.
भवन - -नम् सार २६२ : १.
भवितव्य - -व्यम् महा ४, २६.
भविष्य - -ष्याणि गी ७, २६.
भविष्यत् - -ष्यत् मां १; वृ ३, ८,
३; ४; ६; ७; मै ५, ५; मैत्रि ६, ५;
कौ १, ५; वृपू ४, ३; वृउ १, २;
ते २, २८; नाप ८, ३; ९, १३;
योचू ७२; राउ ३, १; ४, ३५;
मुद्र २; ए ६; अन्न २, २८; ५,
५७; ता २, ५; गोपू २५; गोउ
६१ⁿ; १शिसं ४१^o; २शिसं ११^o;

a) °वयन् इति अच्ञ्या । b) निसा. पा. ? यनि. शोघः द्र. (तु. आन., शांआ ४, ४; वैतु. अच्ञ्या. 'बभूषे' इति) ।

c) ऋ १, १६४, ४१ । d) वैपश् यद्र. । e) =उत्पत्ति-, संसार- ? । f) तैआ १०, ४३; १ । g) उप. कर्तरि कृत् ।
h) कर्मकर्तरि रु. द्र. । i) पा. ? 'भव्यम्, आन- (<√अच्>) -नम्' इति पदद्वयमिति नादी. (तु. j.c., BC.),
'भव्यमा (व्यम् आ)' इति निसा. च [तु. तैआ. (१०, १, १) इत्यत्र सा. संमतः पाभे. च] यनि. शोघः द्र. । j) घा.
अर्थः ? =रुद्र- । k) तैआआ १०, १६ । l) =भवपत्नी- । m) =नदीविशेष । n) 'भविष्यति' इति आन., 'भविष्यन्'
इति अच्ञ्या. संटि. । o) मा ३४, ४ ।

भावा(व-अ)द्वैत- -तम् स्व
६२:४.

भावा(व-अ)रुरूप- -पेण महा
४,१२५;१२६.

भावा(व-अ)पन्न,जा- -न्नः सार
२३६:८; २५७:३; २७८:१८;

२८९:३; २९२:१५; -न्नम् सार
२५१:९; २८८:२०; -न्ना सार

२८६:११; २८८:२१; २३;
-न्ना: सार २२५:१६; २३०:

१; २३२:५; २३९:६; २४८:
१८; २७२:५; २७४:२; ९;

२७६:३; -न्नैः सार २३०:१९.
भावा(व-अ)भाव- -वम् अन्न५,

६७; -वान् पा२,८; -वे अन्न ५,
५; -वौ अन्न २, ३६; मं २, ३,

६^०; महा ४, १०९.
भावाभाव-कर- -रम् श्वे५, १४

भावाभाव-कला-विनिर्मु-
(क्त>)क्ता- -क्ता व १०.

भावाभाव-गोच(र>)रा-
-रा महा ५, ४४.

भावाभाव-दशा-कोश-
-शम् अन्न ४, ४०.

भावाभाव-दहन- -नम्
निर्वा २९८:१०.

भावाभाव-विनिर्मुक्त- -क्तम्
महा ६, ७२^०; योशि ३, २२.

भावाभाव-विहीन- -नः भैत्रे
३, ५.

भावाभावा(व-अ)दि-द्वन्द्व-
(न्द्र-अ)तीत- -तः मं३, १, ३.

भावाभावा(व-अ)दि-भेद-
भावाभावादिभेद-तस
(>:) १आ २.

भावा(व-अ)भि(ज्ञ>)ज्ञा- -ज्ञा
सार २६२:१०.

भावा(व-अ)श्रि(त>)ता- -ताः
सार २५४:८.

भावो(व-उ)त्सा(ह>)हा- -हा
सार २८२:११.

२भाव^०- -वम् ते ५, ८९.
भावन- -नम् त्रिवि ८, ८; अन्न ४,

५०; महा २, ६७; पिं १६^०;
-नात् ते १, ३१.

भावना- -नया त्रिवि ५, १२; ८, ५;
महा ४, १६; ५, ११२; -ना मं २,

२, ५^०; योशि ३, २४; अन्न २, २;
५, ३८; भा ४३^१; नापू ४, १८;

गी २, ६६; -नाम् मैत्रे २, २८;
अन्न ५, ९५; १०४; वरा ४, १९;

पिं ५, १०.
भावना-तस(>:) योसू १, ३३.

भावना(ना-अ)तिग- -नाम् मैत्रे
१, ४, ९.

भावना-अथ-नाशन- -नम् मु
१, १, ४०.

भावना-पर- -रः भा ४१^६.
भावना(ना-अ)भाव-मात्र-

-त्रेण महा ५, १८३.
भावना-म(य>)यी- -यीम्

महा ६, १.
भावना-मात्र- -त्रम् योशि ३,

२३.
भावनामात्र-गोचर- -रम्

योशि ३, २२.
भावना-युक्त- -क्तः भा २७.

भावना(ना-अ)र्थ- -र्थाय जाद
४, ५९.
भावनो(ना-उ)पचय- -यात्

सासू ३, २९.
भावयत्- -यत् महा ५, १५४; -न्यन्

नाप ५, ३८; अता २; मं २, ४,
६; महा ३, ५७; ६, ३७; योशि

५, ५३; पप ४१९:९; अन्न ४,
६७; गोच ६६:१९; सुमु १९;

-यन्तः शा ११; सार २४६:
१५; गी ३, ११.

भावयन्ती- -न्ती महा ५,
१८०^१.

भावयित(व्य>)व्या- -व्या ऐ ४, ३
भावयि(तु>)त्री- -त्री ऐ ४, ३.

भावयित्वा १योत ८२; अत्त १४;
सुमु ६.

भावित,ता- -तः शि ५, ४५; -नम्
ते १, ५०; महा ५, १२२; सु २,

२, ५८; -न्ताः पिं ५, ९; -न्ताम् यु
३५; -न्ते महा ६, ४२; अन्न ५,
२१; -तेन अन्न ५, १४; त्रि १५^१.

भाविन्-
भावि-कर्मन्- -र्मभिः अध्या ५१.

भाव्य^१ षो ३.
भाव्य- -व्यम् ते ५, ८६; १योत ७५.

भाव्यमान- -नः श १९; महा ४,
६७; -नाः भा ६.

२भुवन^०- -नम् क २, २, ९; १०; तै
३, १०, ६; श्वे २, १७; मना २,

२४९^१; वृजा २, १; वृपू २, १२;
१८९^०; ते ६, १०३; वरा २, २३;

म २, ६९^१; गोपू १६; सु २९४:
२०; १शिसं ४९^०; २शिसं १९^०;

-नस्य मुं १, १, १; श्रॉं ४, ३, ६;
श्वे ४, १५; ६, १५; १७; मना १,

१९^०; २९^०; १४^३; १५^०; २,
४७९^०; वृपू २, १२; ए १-३; ९;

- a) °वम्, °वे इति अख्या. संटि. । b) 'भवभावनया मुक्तम्' इति अख्या. । c) करणे वाऽधिकरणे वा कृत् । विप. । d) °वानाम् इति आन. । e) सर्वात्मभा° इति अख्या. संटि. । f) 'अन्तश्चक्रभावनाः' इति तान्त्रि. । g) °नया युक्तः इति निसा. संटि. । h) °न्ति इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या. । i) पा° इति तान्त्रि. । j) पा ७, १, ३८ । k) वैप१ यद्र. । l) तैत्र्या १०, १६, १ । m) कौ ३, १, ९ । n) मा ३४, ४ । o) तैत्र्या १०, १, १ । p) तैत्र्या १०, १, २ । q) सकृत् 'भूतस्य' इति तैत्र्या १०, १, १४^१. । r) ऋ ९, ९७, ४० । s) तैत्र्या ३, ७, ७, २ ।

भू-स्थ-स्थः छाग २५:८; पा ५, ६; -स्थम् पा ५, ६.
 २भू^१- भुवे वा २२.
 ३भू^२- भूः राप् ४, ६२.
 भू-माया^३- याम् पी ४२२:२.
 ?भूमाग्रविन्दु^४- न्दुम् पी ४२१:८.
 भूत,ता^५- तः मना २, १२, १९^१;
 अशि ४, १७; मै ४, ५; मैत्रि ५, २; महा ५, ४; २आ ३; पा ९, ९; वट्ट ३१६:१०; अद्वैम ११५;
 -तम् मां १; छां ३, १२, १^२; २; १५, ४; वृ ३, ८, ३; ४; ६; ७; ध्वे ३, ५^१; ४, ९; गौ ४, ४; मै ५, ५; मैत्रि ५, २^१; ६, ५; कै १, ९; ना २; मना १, १९^२; २, २४^१; ७९^१; अशि ६, १०; ११; कौ १, ५; वृषू ४, ३; वृत् १, २; सुबा ६^१; तै २, २८; ५, ३५; ४३; ७८; ६, १०५; ध्या ६५; नाप ८, ३; ९, १३; योचू ३५; ७२; श २४; राउ ३, १; ४, ३५; मुद्र २; ए ६; अन्न ५, ५७; म २, ६^१; ता २, ५; २प्र ३७:२; पा २, ६; वट्ट ३१७:१७; १शिसं ४^१; २शिसं १^१; कालि ४०२: १६; गु ५४; वत् १, २; ३, २; ब्रसू १, २, २७; गी १०, ३९; -तस्य वृ २, ४, १०; ४, ५, ११; गौ ४, ३; मैत्रि ६, ३२; कौ १, ६; सुबा २; इ ११: २; -ता मना २, २८^१; -ताः मना २, ६७^१; श्या १९; -तात् क १, २, १४; गौ ४, ३८; -तानाम् मां ६; तै २,

२-३, १^२; छां १, १, २; ६, ३, १; वृ १, ४, १६; ५, २०; २, १, २^२; ४, ५; ५, १-१४; १५^२; ४, १, ७^२; ४, ४; ५, ६; ६, ४, १; गौ १, ८; ४, ३३; मैत्रि ५, २; ६, ३७; जा १^३; मना २, १५^१; ७९^२; कौ २, ६९^१; १४; ४, २^२; २०^१; वृषू २, १३; ३, ५; ४, ६ वृत् १, ९; सुबा १; नाप ३, ४५; ४, ३३; ५, १८; ८, १५; राउ १, १^३; ३, १; महा ६, ६५; १संन्या २, ९४; कुं १४; त्रिता ५, २१; रुह १३; म २, ११; ता १, १^३; गोउ २०; पा २, ७; ३, ४; नापू २, ११; शि १, १६; ७, २; विद्या ४; वपू २, ३; वत् १, १२; भव १, ११; ५, ९; सांका ६९; गी ४, ६; १०, ५; २०; २२; ११, २; १३, १५; १८, ४६; -तानि ई ६; ७; के ४, ६; प्र ४, ११; तै २, २, १^३; ३, १, १-६; ऐ ३, १३; छां १, ९, १; ११, ५; ७; ९; २, ९, २; ३, १२, ६^१; १९, ३^२; ५, १०, ८; २४, ५; ८, १, ४; ११, १; २; वृ १, ४, १६; ५, २०^२; २, १, २०; ४, ५^२; ६^३; ५, १-१५; ३, ७, १^२; २; १५^३; ४, १, २^२; ३-७; ३, ३२; ३७; ५, ६^२; ७^३; ११; ५, १२, १^४; १३, २^२; ३^२; ध्वे १, २; गौ २, २०; मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; १२^२; १३-१५; २८; ३२^२; मना १, १९^२; ४९^२; २, २९^१; ७८^१; कौ २, १, २; ६^२; ९^२; ३, ४; वृषू १, २; ८; २, ८-१२; १४; ३, ५; वृत् ९, ८; सुबा २^२; ध्या ६; नाप

९, १; त्रिवि २, १६; ४, १९^१; श २४; शां ३, १; पै १, १८^२; महा १, १; ४, ३०; योशि ३, १६; ए १२; अन्न ५, ७९; ८०; सू ८; २०; १आ ९; त्रिता ५, २१; जाद १०, १०; ११; म २, १९^१; प्रा ४, १^२; गोउ १५; ४०; कर् १५; २प्र ३२:४; ८; शौ ५१: १५; ५२:१; ५३:११; ५४: १; सूता १, १३^१; नाल ३, २१; सं ५; नी २, ३; शि १, ११; सिशि ३८२: ७; वपू १, २; ४; २, १; ३; वत् २, ३५; ४, ४०; ४४; भव २, ५४; सांका ३८; गी २, २८; ३०; ३४; ६९; ३, १४; ३३; ४, ३५; ७, ६; २६; ८, २२; ९, ५; ६; २५; १५, १३; १६; -ताय वृ ६, ३, ३; वत् २, ३; -ते यो १, ७६; -ते-ते ब्रवि १२; २०; त्रिवा २, २; त्रिता ५, १२; अबि १२; २०; -तेन सूता २, १८; -तेभिः क २, १, ६; ७; म २, ९; -तेभ्यः वृ २, ४, १२ ३, ७, १५; ४, ५, १३; मना २, ६७^१; सुबा ७; त्रिवा २, ६; अध्या ७०; शि २, २९; वत् ४, २३; -तेषु क १, ३, १२; छां ५, १८, १; २४, २; वृ ३, ७, १५; मै ४, ५; मैत्रि ५, २; ब्रवि २२; मना २, ६८^१; ब्रजा २, १; तै ५, ६३; त्रिवा २, १३३; वा २९; ३०; त्रिता ४, २२; प्रा १, ६^१; गोउ १५; इ १८: ६; ६ ८; भव २, ५४; अबि २२

a) =सत्ता- । b) =लकार-बीजाक्षर- । c) =ह्रीं-बीजमन्त्रविशेष- । d) पा. अर्थश्च ? । e) वप्रा. द्र. । f) तैआ १०, १०, १ । g) ऋ १०, ९०, २ । h) तैआ १०, १, १ । i) तैआ १०, १, २० । j) तैआ १०, ६३, १ । k) तैआ १०, १६, १ । l) मा ३४, ४ । m) तैआ १०, ११, १ । n) तैआ १०, ६७ । o) तैआ १०, १४, १ । p) तैआ १०, ६३, १^३ । q) 'तेषु' इति शांआ ४, ६ । r) सकृत् 'देवानाम्' इति अख्या., शांआ ६, २० । s) ऋ १०, ९०, ३ । t) मा ३२, ११ । u) तैआ १०, २२, १ । v) तैआ १०, ६२, १ । w) तैआ ९, १, १ । x) 'भूतगुणाः' इति निशा. संदि., 'गुणाः' इति अख्या. । y) तैसं ४, ५, १, ३ । z) तैआ १०, ३१, १ ।

भूत-सर्ग- -गौ गी १६, ६.
 भूत-स्थ- -स्थः गी ९, ५.
 भूत-हित-यथार्था(र्थ-अ)भि-
 भाषण- -णम् शां १, १.
 भूत-हृत्-पञ्च-पट्पद- -दम्
 महा ५, १५३.
 भूता(त-आ)त्मन्- -त्मनः मै ४,
 ३; मैत्रि ४, १; ३; -स्मा मै ३, २^{ab};
 ३^c; ५; ४, २; मैत्रि ३, २; ३^d; ५;
 ४, २; ६, १०^e; मैत्रे १, ४, १; ब्रवि
 १२; सुवा ५; श २४; त्रिता ५,
 १२; गोउ ६४; अवि १२.
 भूतात्मा(त्म-आख्या>)-
 ख्य- -ख्यः मैत्रि ३, २.
 १भूता(त-आ)दि^b- -दिः सुवा १;
 २; -दिम् सुवा ११^c; गी ९, १३;
 -देः सुवा १; सांका २५; -दौ
 सुवा २.
 २भूता(त-आ)दि^o- -दि ते २, ३९
 भूतादि-पाद-व्यपदेशो-
 (श-उ)पपत्ति- -त्तेः ब्रसू १, १,
 २६.
 भूता(त-आ)दिक- -कम् रापू
 ५, १.
 भूता(त-आ)धिपति- -तिः वृ ४,
 ४, २२; मैत्रि ७, ७.
 भूता(त-आ)र्थ-चिद्-रूप- -पम्
 अक्षि २.
 भूता(त-आ)वास- -सम् नाप ३,
 ४७.
 भूते(त-इ)ज्या>ज्य- -ज्याः गी
 ९, २५.
 भूते(त-इ)न्द्रिय- -येषु योसू ३,
 १३.
 भूतेन्द्रिया(य-आ)त्मक-

-कम् योसू २, १८.
 भूते(त-इ)न्द्रिय-मनः-प्राण-
 रू(प>)पा- -पा सी १०.
 भूते(त-इ)न्द्रिया(य-अ)र्थ-
 -थान् मैत्रि ६, २८.
 भूते(त-ई)वा- -०वा शु १, ९;
 गी १०, १५.
 भूतो(त-उ)त्सारण- -णम् वउ
 ६, ४.
 १भूति^{iv}- -तिः पा ३, ६; गी १८,
 ७८; -त्यै तै १, ११, १; पा ३, ३;
 ९, ९.
 भूति-क(र>)री- -री वृजा ६,
 १२.
 भूति-काम- -मः सुं ३, १, १०;
 -मैः गोपू २४.
 भूति-मत्- -मताम् पा ३, ६;
 -मान् वपू १, ५; ३, २.
 भूति-योग- -नो सांसू ४, ३२.
 २भूति^o- -तये पा ३, ३.
 २भूतिⁱⁱⁱ- -तिः वृजा १, ११^{iv}; ६,
 १२; -तिम् शि ५, २२.
 भूति-भूषित-विग्रह- -हम् भ
 २, २९.
 भूति-रुद्राक्ष-भरण- -णः बि ९.
 भूति-रूप- -पम् शि ५, २.
 भूति-स्पृष्ट- -ष्टम् शि ५, ५.
 भूत्वा ऐ २, ४^c; छां ३, ६-१०, ३;
 ५, १०, ५^d; ६^e; ८, ८, २^f; वृ १,
 १, २; ५, ८-१०; २१; २, ५, १८;
 ३, ३, २; ४, १, २-७; ३, ७, ४,
 २३; ५, १२, १^g; ६, २, २; ३, १;
 गौ २, २९; मैत्रि ६, ९; जा ४^h;
 अशि ४, ११; कौ १, २; वृजा
 ३, ५; भूत्वा-भूत्वा गी ८, १९.

√भू(लाभे), भवते मैत्रि ६, ३५^{is}.
 १-३भू- √भू(*वधा.) द्र.
 भूमⁱⁱ- -मः अशि ६, ९; -माय मना
 २, ६७ⁱ.
 भूमन्'- -मा छां ७, २३, १ⁱⁱ; २४,
 १ⁱⁱ; ते ३, ५१; शु १, १८ⁱⁱ; ब्रसू १,
 ३, ८; -मानम् छां १, ५, ४; ७,
 २३, १; सौ २, ११; -म्नः ब्रसू
 ३, ३, ५७; -न्नि या २, ३.
 भूम-ता- -ताम् महा ५, ६०.
 भूमा(म-आ)काश-स्वरूप-
 भूमाकाशस्वरूप-वत्-
 -वान् ते ३, १६^k.
 भूमा(म-अ)धिपति- -तिः शु १, १८ⁱ.
 भूमा(म-आ)नन्द-
 भूमानन्द-मय- -यः ते ३, ३८.
 भूमानन्द-स्वरूप- -पः ते ३,
 १३.
 भूमिⁱ- -मयः सार २३३ : ७;
 २४६ : ३; -मिः वृ ५, १४, १;
 कै २, ४; मना १, ८१^m; १५ⁿ;
 वृजा ६, १२; वृपू ५, १०; ते २,
 ३; ५, ३६; ७६; १०१; १योत
 ८४; त्रिब्रा २, ४; अता १२;
 १संन्या २, ९९; सू १२; रुजा
 ३, १; ग ६; गोपू २९; गोउ
 १०^o; इ ११ : १७^o; नापू १,
 ७; य ६१^m; सार २५४ : २३;
 २७१ : १२; १८; सु २९३ : ६१^m;
 गा १; भव १, २३; वउ ३, ५०;
 गी ७, ४; -मिम् श्वे ३, १४^o;
 सुवा १^q; १योत ५५; पै ३, १;
 महा ५, ३६; अक्षि ४०; जाद ८,
 २; शि ३, २; ७, ५४; षो ७;
 -मिषु सार २८८ : ७; योसू ३, ६;

a) सकृत् °स्माख्यः इति अज्या. । b) तस. । c) बस. । d) =ऐश्वर्य- । e) कर्तरि कृत् ? (वैतु-
 पाटी. =१भूति-) । f) =भस्मन्- । g) 'भवतः' इति सुपा. यनि. शोधः द्र. । h) =भूमन्- (वैतु. PW. =भूमि-
 MW. नैप्र. <भौम-) । i) तैश्चा १०, ६७ । j) =बहु- । वैप १ यद्र. । k) °कार° इति अज्या. । l) वैप १ यद्र. ।
 m) तैश्चा १०, १, ८ । n) पा. १ [तु. नादी., J.C.; वैतु. मा. सा. (तैश्चा १०, १, १५) 'रुजोभूमिः' इति स. इति स्वरतः
 पर्यन्तु योज्यौ] । o) °मिम् इति सुपा. यनि. शोधः द्र. । p) अ १०, ९०, १ । q) पा. ? °भिः इति शोधः द्र. (तु. उव्र.) ।

भूर

भूर(>) तै १, ५, ११, २३, ३; ६, १३;
 छां २, २३, २; ३, १५, ३; ५; ४;
 १७, ३; ४; वृ ५, ५, ३; ४; ६, ३,
 ३; ६; ४, २५; मै ५, ५; मैत्रि
 ६, ५; जा ६: मना २, ३; अशि
 २, ९; वृपू ४, ११; शु १, १८.

भू-पति-

भू-पति-स्व- स्वम् वपू १, ६.

भू-पुरुष- -षः सूता ४, १०?

भूर-आदि- -दयः तै ५, ८१; यो ३,
 २२.

भूरादि-चतुर्दश-भुवन-
 -नानाम् सी १७.

भूर-भुव-सुवः-पुरुषा(ष-आ)-
 ष- -ज्ञैः सूता ४, १०.

भूर-भुवः-स्वः-पति- -०ते वपू
 १, ३.

भूर-भुवः-स्वर-आदि- -दीनाम्
 म २, ५.

भूर-भुवः-स्वर-इति-व्याहृति-
 रु(प>)पा- -पा गार ४०७:२.

भूर-भुवस्-स्वर-लोक-समासीन-
 तत्-स्व-पद-शोधना(न-अ)-
 थं- -थंम् लां २१३:४.

भूर-भूति- -तये पा ५, ६.

भूर-लोक- -कः काला १३; नाद
 ३; नाप ५, १; -कम् वृजा ८, ४;
 वृपू ५, १६; वउ ५, ११; -कां;
 -केषु सुवा १०.

भूर्लोक-भुवलोक- -कौ नाप
 ५, १.

भूर्लोक-भुवलोक-स्वलोक-मह-
 लौक-जनलोक-तपोलोक-सत्य-

लोक- -कम् आरु १.

भूरि- -रि तै १, ४, १; नाप ४, ३८;
 व ४६०: ११; भव १, २७.

भूरि-भङ्ग- -ङ्गभ्यः महा २, १३.

भूरि-वारि-संप्रदाय- -यः म ४९:१.

भूर्ज-^क

भूर्ज-पत्र- -त्रे त्रिता ३, १९.

√भूप, > भूपि, भूपयन्ति सार २६३:
 १५; भूपयेत् शि ६, १५२; काम
 १८.

भूपण- -णम् वसू १; ते ६, ७६;

-णानि सार २२३: १२: २८४:

६: -णैः सार २४४: ११:

२६७: ६.

भूषण-ज्ञ->ज्ञा- -ज्ञा सार

२६३: ८.

भूपण-भू(षि)-पी- -प्या सार

२२३: १२.

भूषण-स्थान- -नम् सार

२८७: २.

*भूपया-

*भूपयां/कृ, भूपयांचक्रुः सार
 २५४: ५.

भूषा-^३

भूषा-व(त)-ती-

भूषावत्या(ती-आ)दि- -दयः

सार २७०: ११.

भूषित, ता- -तः त्रिवि ५, १२; -तम्

जाद ४, ४; सार २६६: २; -ता

सार २४४: १०; -ताः सार २६७:

६; -तानि सार २६३: १४; -ते

महा ५, १६७.

√भू, > बुभूष, भरते श्वे १, ८; नाप

९, ७; भव २, ५.

विभक्ति प ४, १; ३; वृ १, ६,

१-३; श्रे ५, २; मना १, २४; मै

५, १; मैत्रि ६, १; त्रिवा २, ७९;

निर्वा २०, ८: १०?; शां २, १;

योशि ४, ६; त्रि १००; रुजा २,

१४: पा ८, १: ४; मृ २०, ४: ३;

मु ७०: भव २, ४१; गी १५,

१७; विभक्ति ३, ६९; पा ७,

२: ८, ९; नी १, ५; व ४६१:

१९; विभक्ति ६, १९; या १२;

अविभ: वृ १, २, ४; विभृत्यात्

१गंन्या २, १०; म २, २; रुजा

१, १०; १८; शा ७; का ६;

वृप ८, ८: मृ २०, ४: १३: १४.

बुभूपति वृ १, ३, १८.

विभ्रत- -अत् मभा १, १; सूता ३,

७; मृ २०, ४: ५; -अतः लिं

३००: ८.

विभ्रती- -तीम् व ४२७: १२;

१६.

विभ्रान- -णम् ६ १०; ग ११.

भर- -रे-वे आर्षे ०: १७.

भर-क्षम- -मम् शि ६, १४५.

भर(गा)-णी- -ण्याम् ६ १९:

१; -ण्यै व ४३८: १.

भरत्-^३

भरन्ती- -न्त्यै पा १, ५.

२भरत्-^३

भरद्-वाज- -जः वृ २, २, ४;

गृ १; सार २, १; आर्षे ७: २१; इ

१८: २०; -जाय गृ १; इ १८:

२०.

३) =व्याहृतिविशेष- वा लोकविशेष- वा । वैपश् यद्र. । b) तैत्र्या १०, ३, १। c) °षभु° इति मुपा. यनि.
 शोधः द्र. । d) उप. = भूति- । e) समाहारे द्वस. । f) अश्या. असमस्तः पा. । g) वैपश् यद्र. । h) वा. क्वि. द्र. ।
 i) तैत्र्या ७, ४, १ । j) ऋ १०, ८३, ७ । k) व्यु. ? = भोजपत्र-वृत्त- । l) तैत्र्या १०, १, २ । m) 'विभ्रति' इति निसा.,
 'विभ्रति' इति अश्या. मुपा. यनि. सु-शोधौ । n) 'भासति' इति निसा. संटि. । o) मा १६, ३ । p) ऋ १०, ८४, ६ ।
 q) ऋ १०, १२५, १ । r) 'बुभूषति' इति निसा. यनि. शोधः द्र. । s) ऋ ९, ६६, १९ । t) ऋ १०, ५७, ६ ।
 u) भाप. (पा ३, ३, ५७) । v) = नक्षत्रविशेष- । वैपश् यद्र. । w) शत्रन्तं भरत्- इति । x) विप. अन्तोदात्तम्
 (वैपश् यद्र.) । y) = ऋषिविशेष- ।

भारद्वाज^१—०ज प्र ६, १;
सिंशि ३८०:३; ३८३:९; १०;
सि १, ३; -ज: प्र १, १; ६, १;
सुं १, १, २; वृ २, ६, २^३; ३;
४, १, ५^३; ६, ३^३; राज १,
२^३; ४-५, १; ता १, २; ३, १;
सिंशि ३८०: १; सि १, १; व
४६५: २; -जम् गार ४०७:
१०; -जाव वृ २, ६, २^३; ३; ४,
६, ३^३; -जाय सुं १, १, २; व
४६५: २.

भारद्वाजी-

भारद्वाजी-पुत्र-

-त्र: -त्राव वृ ६, ५, १; २.

भारद्वाज-रूप-

भारद्वाजरूपिन्-

-पिणे सार २६१: ६.

१भरत^b—-त: राज २, २; ता २, ३;
३, ५; ८; -तम् रार १, ७; २,
१०२; रापू ४, ३५; -ताय रार
२, १०१.

भरता(त-अ)ग्रज—०ज त्रिवि
७, ३४; रार २, ५३.

भरता(त-अ)दि—दिभि: रार
२, ३७.

भरता(त-अ)धस्—ध: रापू ४,
३३.

२भरत^c—

३भारत^d—-ते नाद १२;
सार २५४: १९.

भरत-वत् सांसू ४, ८.

३भरत^e—

४भारत^f—०त गी १, २४;
२, १०; १४; १८; २८; ३०; ३,
२५; ४, ७; ४२; ७, २७; ११, ६;
१३, २; ३३; १४, ३; ८-१०;

१५, १९; २०; १६, ३; १७, ३;
१८, ६२.

भरत(त-अ)र्षभ—०भ गी ३,
४१; ७, ११; १६; ८, २३; १३,
२६; १४, १२; १८, ३६.

भरत-श्रेष्ठ—०ष्ट गी १७, १२.

भरत-सत्तम—०त्तम गी १८,
४.

भर्तृ—-र्ता वृ १, ३, १८; गी ९, १८;
१३, २२.

भार—-र: महा ३, १५^४; -रम् इ
१३: १७.

भार-पीडित—-ता: इ १३: १८.

भारा(र-अ)ध्ययन-संगम^h—
-मम् इ १४: ५.

भार्य—-र्यान् वृ १, ३, १८; १संन्या
१, १; जाद १, १३; इ १८: १४;
रा ४२४: २३; कश्रु १, १; -र्येभ्य:
वृ १, ३, १८^१.

भार्या^g—-र्यया कुं७; -र्या वृ ३,
७, १; वृजाद, १; १योत १३२^१;
२योत १, ४^३; इ १६: २२; १८:
१५; १७; स्वदर: २; ३; -र्याया:
रा ४२५: ५; -र्यायाम् रा ४२४:
१२; -र्यायै कौ १, ६^३; -र्यै वृ ४,
५, १.

भार्या—जगन्-मोहन-

चक्र—-क्रे रा ४२३: १२; २०;
४२४: १; ३; ५; ६; ९; १०; १३;
४२५: ३; ७; ८; १९.

भृत-

भृत-क—-क: नाप ३, ६१.

भृतका(क-अ)ध्यापक—-क:
नाप ३, १; ३; १संन्या २, ३^१; इ
१७: ८.

भृत्य—-त्य: महा ५, ७९; -त्यानाम्

सि ६, १७३; -त्यै: सि २, ३०;
४, २५; ५३; ६, १२७.

भृत्य-द्वार—-द्वारा सांसू ५,
११५^४.

भृत्य-वत् सांसू ३, ६१.

भृत्य-वर्ग—-गेषु सांसू २, ४०.

भृगुⁱ—-गु: तै ३, १, १; गी १०, २५;
-गुणाम् व ४६४: १४४^m; -गून्
२प्र ३७: ३; -गो: वपू १, ५.

भार्गव^j—०व वपू १, ५; -व: प्र
१-२, १; सर २, ७; ८; -वम् गार
४०७: ११; -वा: मन्त्रि १०;
चू १०.

भार्गवी^k—-वी तै ३, ६, १.

भृगु-निचृद्गायत्री-श्री—-श्रिय:
सौ १, २.

भृगु-पुण्या(ण्य-अ)दि^l—-दिभि:
सी ३७.

भृगु-पुत्र—-त्र: वपू २, ३; ३, १; २;
-त्रम् वपू १, ४.

भृगु-विस्तर—-रे मन्त्रि ११^१; चू
११.

भृगु(गु-उ)त्तम—-मा: मन्त्रि १०;
चू १०.

भृग्व(गु-अ)ङ्गिरस्-

भृग्वङ्गिरो-मय—-यम् २प्र
३७: २.

भृग्वङ्गिरो-विद्—-विद्भय: २प्र
३६: ११.

भृङ्ग^p—-ङ्ग: नाद ४२.

भृङ्ग-त्व—-त्वम् कामे १६.

भृङ्ग-सुनु—-नु: ते ६, ८६; -नुना
महा ४, ६५.

भृङ्गी/भृ

भृङ्गी-भृत्वा^q कामे १६.

√भृज्, > भर्जि, भर्जति मै ५, ७.

a) 'भरद्वाजः' इति श्रद्ध्या. । b) =रामानुज- । c) =जडभरत- । d) =भारतदेश- । e) =नृपविशेष-
तत्प्रवर्तितचत्रियकुलविशेष- । f) =अर्जुन- । g) सकृत् 'भारम्' इति श्रद्ध्या. । h) समाहारे द्वस. । i) 'भायाः' इति
श्रान. । j) 'काः' इत्यपि निसा. । k) 'व्यवर्गद्वा' इत्यपि पाभे. । l) वैपश् यद्र. । m) तैश्चा ४, ३८, १ । n) तु. उन्न. ।
o) बहुवि^० इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. श्रान.) । p) व्यु. ? =१अमर- । q) पा ७, १, ३८ ।

भर्जयति भर्त्रि ६, ७.
 भर्ग^१ - भर्गः मै ५, ७; ११; मैत्रि ६, ७; ११; ३५.
 भर्ग-मय - यः सावि १०?^{१)}
 भर्गा(र्ग-आख्या) ख्य - ख्यः मै ५, ७; मैत्रि ६, ७.
 भर्गस्^१ - भर्गः वृ ६, ३, ६१; मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; ३४; मना २, ३५; त्रिवि ७, ३१; ४४; सु ६; सावि १०; ११; त्रिता १, ५; २४; २५; २७; ४४; ५३; पारा २; गार ४०; १३; १८; व ४२; १८; ४५; ६.
 भर्गो-रूप - पम् त्रिता १, २६.
 भर्जित - तम् शि ६, २३.
 भृत - भृत्य - √भृ द्र.
 भृश^१ - भृशं छां ७, १५, २; वृजा १, १; ४-५, ८; जाद ६, ४३; या २, २१; सु २, २, ९.
 √*भृष् (<भ्रस्ज्)
 भृष्ट - भृष्ट शि ६, २४; ३२.
 भृष्ट-बीज-समुत्पन्न-वृद्धि-
 -द्धिः ते ६, ९४.
 भृष्ट-बीजो(ज-उ)पमा^१ - मा १ संन्या २, ४३; अन्न ४, ५२.
 √*भृ(दीप्तौ) उमा - टि. द्र.
 भृक^१ - कः मै १, ७; मैत्रि १, ४; मैत्रे १, २.
 भृकी -
 भृकी-वत् सांसू ४, १६.
 भृेतव्य - √भृी द्र.
 भृेद - √भिद् द्र.
 भृे(रि)री^१ - र्थः गी १, १३.
 भृेरी-नाद - दः हं १६.^{१)}
 भृेरी-शब्द - दः सौ २, ८.

भेषज - भिषज् - द्र.
 भेषं लां २१६ : १७.
 भेषज - भेष्य - √भिष् द्र.
 भेष्य - √भी द्र.
 भेषज्य - भिषज् - द्र.
 भेषो - *भव - द्र.
 भेषोक्तव्य - भेष्य, भेष्य, १-२ भोग-
 भेष्य - भोजन - भोजनीय -
 भोजयान - भोजयित् - भोज-
 यित्वा, भोज्य - √भृज् द्र.
 भेषो - *भव - द्र.
 भेषोक्त - १-२ भौम - √भृ(*वधा.) द्र.
 भेषं रार ३, १; राष्ट्र ४, ५०.
 √भ्रंश्, भ्रंश-भ्रंश हंपो १३.
 √भ्रम् (*वधा.), > भ्रामि, ब्रंभ्रम्,
 भ्रमते त्रिब्रा २, ६१; भ्रमतेतराम्
 यो १, ७२; भ्रमति ध्या ५०;
 त्रिब्रा २, ६१; योच १४; शां १, ४;
 महा ३, २४; गी १, ३०; भ्रमन्ते
 योच २६; भ्रमन्ति मैत्रि २, २५;
 त्रिवि ६, ७; ९.
 भ्रामयाभि त्रिब्रा २, ६०; भ्रामय-
 भ्रामय लां २१५: २०; व ४५७:
 २२; भ्रामयेत् योशि ६, ३५; शि
 ६, १४३; १५४.
 भ्राम्यते श्वे १, ६; ६, १; ब्रवि
 १८; नाप ९, ५; भव २, ४.
 ब्रंभ्रममाण - भ्रम् आर्षे ८ : ७.
 भ्रम - भ्रमः ते ६, १६; अन्न १, १३;
 १५; पित्र ५, ५; भ्रम् महा ४,
 १; भ्रमाः सुद्र ४; भ्रमात् नाद
 २६; भ्रमे महा ६, २२.
 भ्रम-तस (>) यो १, ८०.
 भ्रम-वासना-बल - लात् त्रिवि
 ५, ४.

भ्रम-विश्रान्त-शकुनि - निः पै
 २, ४२.
 भ्रमा(म-प्रा)त्मक - कम् महा
 ४, ६५.
 भ्रमत् - भ्रमत् ५ ६, ३, ४; भ्रमता
 गार २, ३५; भ्रमन्तः १ योत्र १३४;
 २ योत्र १, ५; व ४ ४, २५.
 भ्रमन्ती - न्तीः गार २, ५०; १२.
 भ्रमर^१ - भ्रमर सार २२७: ६; भ्रमः
 गार २२६: ६-१०; १४; २३;
 भ्रमः गार २२२: १६; २०;
 २२६: १२; २५४: ३.
 भ्रमर-कीट -
 भ्रमरकीट-कार्य - यैण रु
 २५.
 भ्रमरकीट-न्याय - येन नाप
 ३, ८६; ५, ३५.
 भ्रमरकीट-न्याय-वत् गाप
 ५-६, १; १ संन्या २, ५९.
 भ्रमरकीट-वत् सु १, १, २४.
 भ्रमर-चातुर्य - र्थम् सार २२६:
 १३.
 भ्रमर-पिक-शुक्र-सारस-हंस -
 श्रेणि - णयः सार २५९: २.
 भ्रमर-रूप - पेण सार २२७:
 २०.
 भ्रमर-सृष्टि - ष्टिः योशि ६, १९.
 भ्रमर (>) रा^१ -
 भ्रमरा(र-य)म्बा^१ - भ्रम्ब व
 ४५७: २१.
 भ्रमरिका^१ - का पी ४२२: ९.
 भ्रान्त - भ्रन्तम् महा ६, ९; सु २,
 २, ६०; व ४६६: ९; भ्रन्ताः वरा
 २, ५७; सार २३१: १७; २३५:
 ११; भ्रन्तानाम् सांसू २, २३;
 भ्रन्तैः जाद १०, ४.

a) वैपश् यद्र. । b) असंगतः पा. । c) ऋ ३, ६२, १० । d) व्यु? । e) वा. क्वि. द्र. । f) भ्रं इति निसा. अंध्या. पा. यनि. शोषः द्र. । g) व्यु? = १ मण्डूक - । h) व्यु? = वाद्यविशेष - । i) मृदङ्गना इति निसा. । j) = बीजमन्त्रविशेष - । k) 'भृं' इति निसा. संदि., आन. । l) स्रवतेत् इति अंध्या. । m) धा. अर्थः? = भृज् - । n) धा. अर्थः? = देवीविशेष - ।

आन्त-चित्त- -त्तैः सार २३१:
१७.
आन्ति- -न्तिः ते ४,२६; ५,४२;
अध्या ५७; यो १,६०; -न्तिम्
महा २,७२; ६,१२; -न्तेः अज
५,७७; -न्त्या नाप ६,१४; महा
६,९; १आ १६; अज ५,७६;
जाद १०, २.
आन्ति-कारण- -गम् अध्या २४.
आन्ति-हरण- -गम् निर्वा २९८:
१३.
आमयत्- -यन् गी १८, ६१.
आम्य^b वज ६,२४.
आम्यत्- -म्यन् मैत्रि ७,८.
आम्यमाण- -गम् मै ४, २; मैत्रि
४,२.
?भ्रमं^b रार ३, १.
√भ्रस्ज् √*मृष् द्र.
√भ्राज्, आजते श्वे २,१४; ५,४; गु
६४.
आजमान,ना- -नम् शु २, ५;
त्रिवि ७,५९; सार २२२:१०;
सु २९३:१६९; -नाः सार
२३३:९; २८३:१६; -नेषु सुं
१,२,५.
आजस- -जः मना २,३५९; ४४९;
-जसा मना १,१९.
आजिष्णु- -ष्णवे सू १९.
?आतान्^b इ १७:१५.
भ्रातृ^b - -तरः छां ८,२,३; -तरम् छां
७,१५,२; -ता छां ७, १५,१;
सुवा ६; ते २,१३; राधा १,२;
-तृन् आरु १; गी १,२६.
भ्रातृ-लोक^c - -केन छां ८,२,३.
भ्रातृलोक-काम- -मः छां ८,२,३.

भ्रातृ-वैर- -रम् वृजा ६,१.
भ्रातृव्य^a - -व्यः वृ १,३,७; -व्यम्
गार ४०७:८; -व्याः तै ३,
१०,४; -व्यान् वृ २,२,१; शौ
५२:३; -व्येभ्यः अव्य ६.
भ्रातृ-हन्- -हा छां ७,१५,२;३.
भ्रान्त- √भ्रम् द्र.
भ्र^a - भ्रुवः शां १, ७,४८?; भ्रुवोः
जा २; काला १२; नाद ४; ध्या
३९; ८०; त्रिब्रा २,१३२; १योत
९५; २योत २, ५; योचू ५२;
९१; राज ३, १; रार २, २३;
ब्रवि ७०; ७१; ७४; ८०; योशि
१, १७५; १७८; ५, ११; १५;
४०; १संन्या २, १०; वा ३०;
यो १,७; ६९; जाद ४, ४८; ६,
२७; ७, १२; जावा २०; योरा
१५; गी ५,२७; ८, १०; भ्रुवौ
वृ ६, ४, ५; शां १, ७, १७; गु
१०.
भ्र-चक्र- -क्रम् सौ ३, १; योरा १५.
भ्र-दहर- -रात् अता २.
भ्र-मध्य- -ध्यम् योशि ५, २२; पै
२, ३६; -ध्यात् योत ९८; -ध्ये
वृज ३, ९; ध्या ४०^k; योचू ५^l;
मं १,२,४; रार २, ११; शां १, ३,
७; ७, ३३; ४३; ५२; यो २, ४६.
भ्र-मध्य-दृष्टि- -दृष्टिः १योत ११८.
भ्र-मध्य-निलय- -यः योशि ५,
३४.
भ्र-मध्य-संस्थित- -तम् त्रिब्रा
२, १५०.
भ्र-मध्या(ध्य-अ)न्त- -न्तः जाद
८, ४^m.
भ्र-मध्या(ध्य-अ)वधि- -धिः

यो २, ३३.
भ्र-मध्यम- -मे १योत २५.
भ्र-युग-मध्य-बिल- -ले मं १,
३,३; अता ११.
भ्र-युग(ग-अ)तीत- -तम् मं १,
३,१; अता १०.
भ्र-युगम- -गम् अता ११.
भ्रⁿ सार २३२: ९; ११.
भ्रुण^{rr} -
भ्रुण-हस्या- -त्यया कौ ३, १; -स्याम्
मना २, ३९९^o; ६४९^p; वृपू ५,
१३; राज १, २; वृजा ८, ३; कालि
४०२: १८; विद्या १.
भ्रुण-हन्- -हा वृ ४, ३, २२; मना
१, १५९^q; शा २६.
भ्र^r लां २१५: १६.
भ्र^s व ४२७: २२.

म

म^r
म-कार- -रः मां ८; ११; गौ
१, २३; मैत्रे ३, ११; ना ४; अ
१; वृपू २, २; वृज २, ७^s; ३, ४;
५, ३; ७, ७; काला १६; नाद १^t;
ध्या १३; ब्रवि ६; ८; आबो १;
नाप ८, १^u; योचू ७४^v; ७५;
७६; रार ५, ६; ११; १२; राज
१, २; वा १७; अक्षि ४४; त्रिता
४, २६; जाद ६, ९; ता १, २;
२, १; जावा २४; तु २; ८; १प्र
३१: १०; १३; २प्र ३५: १३
१५; नापू १, १०; स ३७९:
५; सिशि ३८२: ११; १२; गु
८२; विद्या १; -रम् वृज ३, ९^w;

a) पा ७,१,३८ । b) 'जं अं' इति अख्या. । c) तैत्रा ३,१२,३,४ । d) तैत्रा १०,३५ । e) तैसं ३,
३,१,२ । f) तैत्रा १०,१,१ । g) पा. ? 'आतृन्' इति शोधः द्र. । h) वैप१ यद्र. । i) पा ४,१,१४५ । वैप१ यद्र. ।
j) 'भ्रुवोः' इति शोधः द्र. । k) 'वोः मं' इति निसा., आन. । l) 'ध्यम्' इति अख्या. संटि. । m) 'ध्यांशः'
इति अख्या. संटि. । n) =बीजमन्त्रविशेष- । o) तैत्रा १०, ४९, १ । p) 'त्या' इति तैत्रा १०, ६४ । q) तैत्रा
१०, १, १५ । r) =वर्ण- । s) 'रः' इति आन. । t) अं इति निसा. ।

-रस्य रार१, ७; -रं ध्या१२; अवि
७०; ७२; १योत १३९; २योत
२, १; योचू ७८; पप ४१९; :
२९; २प्र ३४; १९; -रेण अना
४; वृउ ५, ३; ७, ७; ८; १०;
जाद ६, ५.

मकार-तुरीयां(य-अंश)>-

शा- -शा वरा ४, १^a.

मकार-भाव- -वे गौ १, २१.

मकार-मूर्ति- -र्तिः शां १, ६.

मकारमूर्ति-ध्यान- -नेन
शां १, ६.

मकार-रूप- -पैः वृउ २, ७.

मकार-वाच्य- -च्यः ता ३,
३; ८.

मकार-श्रुति- -त्या २प्र
३३; ४.

मकार-संभृ(त>)ता- -ता
विद्या १.

मकार-स्थूलां(ल-अंश)- -शे
वरा ४, १.

मकारां(र-अंश)- -शम् पप
४२०; ३.

मकारा(र-अ)क्षर-संभव-
-वः राउ २, २; गोउ ४३.

मकारा(र-अ)क्षर-संभूत-
-तः ता २, २.

मकारा(र-अ)र्ध- -धेन वृउ
७, २.

म-पञ्चक- -केन काम १९.

मपञ्चक-लाम- -भे २कौल
१०^b.

मं आथ ३९६; १; व ४३५; २३;
हंषो ११.

मं-कार- -०र अक्ष ५.

मकर^{१०}- -रः गौ १०, ३१.

मकर-कुण्डल- -लः राधा ३, १०.

मकर-निधि^{११}- -धये त्रिावि ७, ४३.

मकर-मुख- -०ख लां २१६; १३.

मकरा(र-आ)कृति-कुण्डल- -लौ
सार २६५; ५९.

मकरा(र-आ)रूढ- -ढः व ४४०;
१६.

मकरन्द^{१२}- -न्दम् नाद ४२.

मकुट^{१३}-

मकुटा(ट-आ)भरणा(ण-आ)दि-
-दिपु शि ६, ९६.

मक्षिक, का^{१४}- -कः वृजा ६, १; -का
अद्वै १५; -काः प्र २, ४; अ १;
-कायाः वृ ३, ३, २.

माक्षी(क>)का^{१५}- -का अ १.

माक्षीक-वन् अ १^१.

मख^{१६}-

मख-रूप(प>)पा- -पा गौ १५^१.

१मघ^{१७}- -वः मैत्रि ७, १.

२मघ^{१८}-

मघ-वत्- -०वन् के ३, ११; छां
८, ९, २; ३; १०, ३; ४; ११, २;
३; १२, १; मना १, ९१^{११}; कौ
२, १११^{१२}; व ४६३; २३१^{१३};

-वान् प्र २, ५; छां ८, ११, ३.

मघ-वन्- -वा मना १, १११^{१४};

सुवा ६.

मघा^{१९}- -घाय(१५^{१५}) व ४३८; ३.

मा(घ>)घी^{१६}- -ध्याम् रा
४२४; १०.

मघा(घा-आ)घ- -घम् मैत्रि ६,
१४^{१६}.

मङ्कु^{१७} गौ १३.

१मङ्गल^{१८}- -लम् शि ७, ८०; ८१;
-लानि शि ७, ८९.

मङ्गल-प्र(द>)दा- -दा रा ४२३;
१५; ४२४; १५; ४२६; २.

मङ्गला(ल-आ)चरण- -णम् सांस्
५, १.

२मङ्ग(ल>)ला^{१९}- -ला त्रि ६.

✓*मज्जु(२०)ला^{२०}, २०मज्जु, २०मज्जि, मज्जे
गिंश ३८०; १२; मज्जन्ति क
१, २, ३; कौ १, ८; महा ५, ३७;
सार २५६; १.

मझ, झा- -झः गर्भ ४; ते ४, ५७;

निह २, ६; -झम् गौ ४४; -झा

गार २८६; १७; -झाः सार

२२५; १८; २३२; १८; २३९;

७; २४६; १५; २५४; १०;

२७२; २२; २३; २७३; १;

-झासु गार २७९; १९^{२१}.

मझ-वन् गौ ३, ५४.

मज्जन- -नम् सार २२८; ३; २५५;

२१; २६४; ८.

मज्जन-क्रिया- -याम् सार

२२८; ३^{२२}.

मज्जनक्रियो(या-उ)पयोग्य-

-न्याः सार २६४; ७.

मज्जन-लीला- -लाम् सार

२८६; १९.

मज्जन-व(त>)ती^{२३}- -ती सार

२६९; ७.

मज्जनवत्या(ती-आ)दि-

-दयः सार २२४; २२.

मज्जन-स्थान- -नम् सार २२४;

२१; २६४; ४.

a) °शाः इति अड्या. । b) °ञ्जमला° इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । c) =बीजमन्त्रविशेष- । d) =जलवर-
विशेष- । वैप१ यद्र. । e) व्यु.१ =पुष्परस- । f) व्यु.१ =मुकुट- । g) वैप१ यद्र. । h) =ऊर्णनाभ- । i) °क्षि° इति
आन. । j) सु° इति निसा. । k) =विप. । वैप१ यद्र. । l) =भाप.(=ऐश्वर्य-). । वैप१ यद्र. । m) ऋ ८, ६१, १३ ।
n) ऋ ३, ३६, १० । o) तैसं १, ४, ४१, १ । p) व्यु.१ =नक्षत्रविशेष- । q) पा.१ यनि. शोधः द्र. ।
r) वास्तुम° इति सात. । s) =मञ्जु(=अव्य.) । वैप१ यद्र. । t) व्यु.१ =कल्याण- । u) व्यु.१ =आवरणदेवताविशेष- ।
v) पा.१ 'मझाः तु' इति शोधः द्र. । w) °ज्ज° इति पा.१ यनि. शोधः द्र. ।

मज्जना(न-अ)र्थ- -थंम् सार
२२४ : २२.
मज्ज(न>)ना-व(त>)ती^१-
-ती सार २६४ : ८.
मज्ज(त>)न्ती- -न्त्यः सार २५४ : ४.
मज्जमा(न>)ना- -ना सार २८६ :
६; -नाम् सार २४३ : १४.
मज्जयित्वा सार २८६ : २.
म(ज>)ज्जा^{११} - -ज्जा तै १, ७, १; छां
२, १९, १; ६, ५, ३; वृ ३, ९, २८,
३; गर्भ २; ते ४, २५; निरु १, ५;
पिं १०.
मज्जा-तस(>) गर्भ २^b; निरु १, ५.
मज्जा-शत- -तानि गर्भ ५.
मज्जो(जा-उ)प(म>)मा- -मा वृ
३, ९, २८, ३.
√मज्ज्
मज्ज^० - -ञ्जः सार २४५ : १२.
मज्ज-क- -कम् नाप ३, ७१;
१संन्या २, ८७.
मज्ज(रि>)री^{१२} - -री शि २, ९; १२;
-र्याः शि २, १०.
मज्जु^० -
मज्जु-का(न्त>)न्ता- -न्ताम् व
४२७ : ४.
मज्जु-हा(स>)सा- -साम् रा
४२४ : २१.
मज्जुषा^{१३} - -षाः सार २८४ : ५.
मटची^१ -
मटची-हत- -तेषु छां १, १०, १.
√मट्
मट^{१०} - -ठः मैत्रे २, १५^६; निर्वा
२९८ : १; म ४९ : १४; -ठम्
१योत ३२; १संन्या २, ७०;
जाद ५, ४.
मठा(ठ-आ)काश- -शः जाद

१५^६.
मणि^{१३} - -णयः सुवा १०; योशि १,
११८; सार २२२ : १२; २३७ :
२; १२; २५३ : २३; २६२ :
१३; २६६ : १; २८० : १७; २८७ :
२; -णिः सांसू २, ३५; -णिम्
चू १^{११}; -णीनाम् सार २३३ : ८;
९; २३९ : ५; २५३ : १०; २६४ :
४; २८१ : २०; -णेः योसू १, ४१;
-णी ध्या ६^६.
मणि-क^{१३} -
माणिक्य^{१३} - -क्यम् शि ६, ५६.
माणिक्य-वर्ण- -र्णम् ध्या
९३, ७.
मणि-कटक-विचि(त्र>)त्रा- -त्रा
सौ १, १^१.
मणि-क(रां>)णी^{१४} - -ण्याम् राउ
३, ३.
मणिकर्णि(क>)का^{१४} - -काम्
योशि ६, ४१.
मणि-कुञ्ज-घटित- -तम् सार
२६५ : २२.
मणि-कुण्डल- -ले इ १८ : १३;
१६; १७.
मणि-खचित- -तम् सार २३९ : १३.
मणि-गण- -णाः ब्र २, ३; पत्र ३,
३; नाप ३, ७९; योशि १, ११९;
गो ७, ७; -णे ससा १, २८^१.
मणिगणा(ण-आ)कर- -राः
सार २५८ : १०.
मणि-नात- -तैः रार २, ३७.
मणि-गुण-वलया(य-आ)घ- -घैः
व ४२७ : ३.
मणि-अधि(त>)ता- -ता सार
२७१ : २२.
मणि-घटित-हाटक-खचित-तारा-

जाल-शोभा- -भाम् सार
२४५ : ४.
मणि-ज- -जम् शि ३, ९; ७, ७६.
मणिज-पार्थिव- -वैः शि ३, ८.
मणि-जटित- -तानि सार २२३ : १.
मणि-ज्योत्स्ना- -त्स्नाः सार २७१ :
२१; -त्स्नाभिः सार २३३ : ८;
२३४ : १; -त्स्नाम् सार २३९ : ३.
मणिज्योत्स्ना(ज्ञा-अ)पाकृता-
(त-अ)न्धकार- -रैः सार २६२ :
२०.
मणि-दन्त^{१३} - -न्तम् शि ६, ६६.
मणि-द्योतित- -ताः सार २६६ : ५.
मणि-धनुस्- -नुः शि ७, ८२.
मणि-परीक्षा-कोवि(द>)दा^१-
-दा सार २६३ : ५.
मणि-पीठ- -ठे राधा १, १३.
मणि-पुष्प- -ष्पैः सार २७१ : ३.
मणि-पूर^{१५} - -रम् यो ३, ९; ११.
मणिपूर-क^{१५} - -कम् हृद्; ध्या ४९;
योचू १३; योशि १, १७२; ५, ९.
मणिपूरक-चक्र^{१५} - -क्रम् सौ
३, १.
मणि-प्र(ख्या>)ख्य- -ख्यः अना
३७.
मणि-प्रेष्ठ- -ष्ठैः सार २६६ : १८.
मणि-बन्ध^{१०} - -न्धः गु २१; -न्धयोः
बृजा ४, २८; ७, ८; म २, २;
सिशि ३८२ : ५; -न्धे बृजा ४,
१४; १८; २९; त्रिना २, १२३;
म १, ६^९; रुजा १, १६.
मणि-भूमि^{१०} - -मिषु सार २७४ : ९.
मणिभूमि-क- -कम् शि ६, ४३.
मणि-भ्रू^{१०} - -भ्रुवौ सार २६५ : ४.
मणि-मण्डप^{१०} - -पेन सार २२२ :
१०.

a) व्यु. ? = पञ्चमधातु - । b) 'मज्जः' इति आन., °ज्जायाः इति अख्या. । c) धा. अर्थः ? । d) व्यु. ? शक. <मज्जु- इति । e) व्यु. ? । f) व्यु. ? = अशनि- । g) °ठम् इति अख्या. । h) महा° इति अख्या. संदि. । i) वैपश् यद्र. । j) पा. ? १अणु-> -णुम् इति शोधः द्र. (तु. मैत्रि ६, ३५; मन्त्रि १.) । k) मणिसू° इति आन. । l) °णिमकुटवि° इति अख्या. । m) = त्रेत्रविशेष- । n) °णसूत्रम् इति आन. । o) = शरीराङ्गविशेष- । p) मलो. कस. ।

मणि-मण्डल— -लम् सार २२२:९.
 मणि-मय— -यम् सार २५३:२.
 मणिमय-भूमि— -मिम् सार
 २६९:१५.
 मणिमय-मुक्ता-फल— -लैः
 सार २४४:१७.
 मणिमय-सप्त-भूमिक— -कम्
 सार २७१:११.
 मणि-लता— -ताः सार २४२:५;
 २७१:३; -तानाम् सार २८२:
 ३; -ताभिः सार २३७:५;
 -तासु सार २२५:३.
 मणिलता-ग्रथि(त>)ता— -ता
 सार २७१:२०.
 मणिलता(त-श्र)न्तर— -रे सार
 २६४:१.
 मणिलता-युत— -तानि सार
 २२२:९.
 मणिलता-सुगन्धा(न्ध-श्राब्ध>)
 ङ्या— -ढ्या सार २६३:२१.
 मणि-वत् ष्या ४६; ४८; योचू ९;
 १२; सांसू १,९६.
 मणि-विद्रुम-लता—ग्रथित— -ताः
 सार २२२:७.
 मणि-स्तम्भ— -म्भाः सार २२२:
 १०; २३९:१३; २८४:१०;
 -म्भैः सार २४२:६.
 मणिस्तम्भा(म्भ-श्रा)कुल—
 -लम् सार २६२:३.
 मणि-हीरक-जात्य-तिलक-योजि-
 (त>)ता— -ता सार २४४:
 १२.
 मणि(ण्)णी-नारङ्ग-प्ररोह— -हैः
 सार २५३:६.

*मणु^१—
 माणव^२—
 माणव-क— -कः इ १०:७.
 मण्टप^३— -पः शि २, १२: -पे सार
 २२२:११.
 √मण्ड^४(^१वधा.)->मण्ड,मण्डयन्ति
 त्रि ४.
 १मण्ड^५— -ण्डम् श्रे ४, १६; ३५९०.
 २मण्ड^६—
 मण्ड-प^७— -पात् शि २, १३.
 मण्डप-स्तम्भ-पर्यन्त— -न्ते
 शि ६, १२९.
 ३मण्ड^८—
 मण्ड-ल,ला^९— -लम् वृ ५, ५,
 २; मना २, १४^{१०}; अना २७;
 ३९; त्रिआर, १३२; रापू ४, ५४;
 योशि १, १७८: ५, १५; १संन्या
 २, ६; त्रिता १, २९; सू १४; सार
 २२४: १; ७; ८; ११; २३७:
 १०; २४२: २३; २७०: ३;
 २७२: ७; ९; १७; १९-२१;
 २७३: ८; १७; २२; २३; २७४:
 २; ६; १९; २७८: १३; २०; २१;
 २७९: ५; १४; १५; २८७: १७:
 २९२: १६; -लस्य सार २७२:
 ११; -ला त्रि ११^{११}; -लाः त्रि
 ४^१; -लानि मैत्रि ६, ३८; -ले
 वृ २, ३, ३; ५, ५, २; ३; मैत्रि ६,
 १६; मना २, १४^{१२}; अना १८^{१३};
 आषे ८: ७; सार २२१: १९;
 २२४: २; २३८: १२; २६३:
 २०; २७२: १०; १२; २७८:
 १२; १७; २७९: ४; २८५: १;
 -लेन सार २६४: २०.

मण्डल-पुरुप— -पः भं ३;
 १, २: -पम् भं ३-४, १, १.
 मण्डला(ल-प्रा)कार— -र
 गार २६३: १९.
 मण्डला(ल-प्रा)घ्रा(दि-प्रा)
 लम्बन— -नम् धिाि ८, ८.
 मण्डला(ल-प्रा)चरण— -
 सार २८४: १८.
 मण्डला(ल-प्रा)सक्ति—
 -क्तिम् गार २७३: २३.
 मण्डले(ल-२)श्वर^{१४}— -रे
 शि ६, १८९.
 मण्डन— -नात् गो-न ६८: १४.
 मण्डु^{१५}—
 माण्डव्य^{१६}— -व्यः वृ ६, ५, ४;
 अज ३, २^{१७}; -व्यात् वृ ६, ५, ६.
 १मण्डूक^{१८}—
 मण्डूक-म(य>)या— -या सी
 १९.
 मण्डूका(क-श्रा)दि— -दीनाम्
 त्रिवि ५, २.
 २मण्डूक^{१९}—
 माण्डूक^{२०}—
 माण्डूकाय(न^{२१}>)नी—
 माण्डूकायनी-पुत्र— -त्रः,
 -श्रात् वृ ६, ५, २.
 माण्डूकायनि^{२२}— -निः, -नेः वृ
 ६, ५, ४.
 माण्डू(क^{२३}>)की—
 माण्डूकी-पुत्र^{२४}— -त्रः, -श्रात्
 वृ ६, ५, २.
 माण्डूक्य^{२५}— -क्यम् मु१, १, २६.
 मत्(मद्-) अस्मद्— द्र.
 मत— √मन् द्र.

a) =२मनु- । b) वैतु.पाम. (४, १, १६१) <२मनु- इति । c) व्यु? =मण्डप- । d) धा. अर्थः ? =सार- ।
 e) धा. प्राति. चार्थः ? । f) उप्त. । उप. <√पा (अर्थः ?) । g) उप्त. । उप. <√ला (अर्थः ?) । h) तैआ १०,
 १३, १^२ । i) °लात् इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. तात्रि, भारा.) । j) =स्त्री. द्वि३ (तु. भारा; वैतु. उत्र. प्र३
 इति) । k) तैआ १०, १३, १^२ । l) पा. ? मङ्गल-> -लम् इति शोधः द्र. । m) =तीर्थविशेष- । n) धा. अर्थः ?
 =गोत्रप्रवर्तक-श्रृषिविशेष- । o) पा ४, १, १०५ । p) पा° इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अश्या.) । q) धा. अर्थः ?
 =भेक- । r) पा ४, १, १९ । s) फिज् >आयनिः प्र. उप्त. (पा ४, १, १५४) । t) =तदाख्योपनिषद्विशेष- ।

१मतङ्ग^{3a}-१मातङ्ग^{3b}- -ङ्गम् महा ५, १३५.२मतङ्ग^{1b}-

मतङ्ग-ऋषि- -विम् रा ४२३: ४.

मतङ्ग-भगवत्^o- -०वन् रा ४२३:

५; -वान् रा ४२३: ६.

३मतङ्ग- नाउ. व्यु. औप. द्र. •

२मात(ङ्ग>)ङ्गी^{1a}- -०ङ्गि व ४३५:

१; ३; ५; ६; ७; ८; -ङ्गी ब १९;

व ४२७: ८; -ङ्गीम् व ४३३: ६.

मति- √मद् द्र.

१मतिमता^o २कौल ५.मत्कुण^{1a}- -णैः १योत ३३.

मत्त्वा √मद् द्र.

मत्सर⁵- -रः कृ १४; -रे वि ६.

मात्सर्य- -र्यम् मै ३, ५; मैत्रि ३,

५; ते ६, १३; वरा १, १०.

मात्सर्या(र्य-अ)ङ्कित-तनु-

-नवे त्रिवि ८, २०.

१मत्स्य^{1b}- -स्यः कौ १, २; त्रिब्रा २,

१७; -स्यम् छां १, ४, ३.

२मत्स्य¹-

मत्स्य-कच्छप-वराह-नृसिंह-

वामन-परशुराम-रामो(म-उ)-

पासक- -काः सार २३५: १३.

मत्स्य-कूर्म-वराह-नारसिंह-वा-

मन-राम-राम-कृष्ण-बुद्ध-

कल्कि-सद्योजात-वामदेव-

-वाः नापू ६, ९.

मत्स्य-कूर्मो(र्म-आ)दिवराह-

सिंह- -हान् श १३.

मत्स्य-कूर्मो(र्म-आ)द्य(दि-अ)-

वतार- -राः राउ ४, १०.

मत्स्या(त्स्य-अ)वतार- -रः नापू

५, ५; -राय नापू ५, ८.

३मत्स्य^{1a}-

मत्स्य-पीठ-

मत्स्यपीठ-क- -कम् त्रिब्रा

२, ४९.

४मत्स्य^{1b}- -स्येषु कौ ४, १.

√मथ्, मथ-मथ त्रिता ३, ३१; व

४३०: ११; ४५९: ११.

मथ्यते गोउ ५०.

मथन- -नम् योशि ६, ७६; यो २,

४२; ४३; ४४; ४७; ३, १४; -नात्

त्रिब्रा २, १४; -नेन यो २, ४३.

मथना(न-अ)वस्था- -स्था यो

२, ४६.

मथित- -तम् अशि ६, १४; वटु

३१७: २०; -ते अशि ६, १४.

मथ्यमान- -नम् अशि ६, १४; वटु

३१७: २१; -नस्य छां ६, ६, १.

मथुरा^{1a}- -रा गोउ २०; ५०; १; राधा४, ४; -राम् गोउ २७^m; -रायाम्गोउ ३१^m; ४५^m; गोच ६९:

१५; -रासु गोउ २६.

माथुर-

माथुर-मण्डल- -लम् राधा

१, १२; -ले राधा १, १५.

मथुरा-मण्डल- -ले गोउ ३२.

मथुरा-वन¹-

मथुरावन-मधुवन-महावन-

खादिरवन-भागडीरवन-नन्दी-

श्वरवन-नन्दवना(न-आ)नन्दवन-

खाण्डववन-पलाशवना(न-अ)-

शोकवन-केतकवन-हुमवन-

गन्धमादनवन-शेषशायिवन-

श्यामायुवन-भुज्यवन-दधिवन-

वृषभानुवन-संकेतवन-दीपवन-

रासवन-क्रीडावनो(न-उ)सुक-

वन- -नानि राधा ३, ३.

√मद्, >माद्, मादि, मदन्ति त्रि ७^o.माद्यति नाप ६, ३१^o.१^oमादयन्ताम् मना २, २; व

४६१: १९; मादयस्व मना २,

१२, २१^o; मादय वृ ६, ४, ९;

मादय-मादय लां २१५: २१.

मत्त, त्ता- -त्तः महा ४, ६४; सु २,

२, ४४.

मत्त-काली¹- -०लि व ४३६: २०मत्त-दुष्कृत-वारण¹- -णा:(१^o) महा ५, ७६.

मद्- -दः ते ६, १३; अत्र ४, १३;

वरा १, १०; -दम् नाप ३, ७०;

गी १८, ३५.

मद्-गम(न>)ना¹- -ना पी

४२२: ९.

मद्-मात्सर्य- -र्यम् १संन्या २, ८५

मद्-मोह- -हेन इ १७: १९.

मद्-वश- -शात् सु २, २, ६०.

मद्-शक्ति-

मद्शक्ति-वव् सांसू ३, २२.

मदा(द-अ)दि- -दिः १कौल

४: २.

मदा(दि-अ)भिमान-मात्सर्य-

लोभ-मोहा(ह-अ)तिशायिता-

-ताम् अक्षि १३.

मदा(द-अ)मद्^o- -दम् क १,

२, २१.

मदो(द-उ)कट- -टम् वपू १,

५; -टे ते ६, ८२^o.

a) व्यु. ? = हस्तिन्- । b) व्यु. ? = ऋषिविशेष- । c) कस. । उप. २भग-वत्- इति नाप. इति कृत्वा

मौलिकात् सतः १भग-वत्- इत्यतः सुवेचं द्र. । d) = देवीविशेष- । e) पा. ? । f) व्यु. ? । g) = क्रोध- । वैप १

यद्र. । h) = मीन- । वैप १ यद्र. । i) = अवतारविशेष- । j) = आसनविशेष- । k) व्यु. ? = देशविशेष- । l) व्यु. ?

<√मथ् इति पाउ. (१, ३९) । m) °धुं इति आन. । n) 'मदन्ती' इति निसा. अज्या. च यनि. शोधः द्र. (तु.

तान्त्रि.) । o) तैआ १०, १, १६ । p) ऋ २, ३, ११ । q) कस. > बस. । r) पा. ? यनि. शोधः द्र. । s) पदविभागः ?

यनि. मद्मप्यामदयति आनन्दैकघनत्वादित्यभिसंधिः (तु. सस्थ. टि. मदन-> °न्य-> -न्यः; वैतु. शं. प्रभृ.

मदा(द-अ)मद्- इति । t) तदो^o इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) ।

मदन^१- नः त्रि ५; -नेन रा२ २, ८८.

मदनी- न्या त्रि ५^b.

मदन-कला(ला-आ)घ- -घम् त्रिता १, ६७.

मदन-राज्य- -ज्ये व ४३२:४.

मदन-सुन्दरी^१- -री राधा १, २२.

मदना(न-अ)घस(>) त्रिता १, ६१.

मदना(न-आ)वेश-बाण-

-णाय व ४५७:३.

मदनो(न-उ)न्मादन-कारि-

(न>)णी- -णीम् त्रिता १, ८१.

मदन्य- -न्यः क १, २, २१^०.

मद(त>)न्ती^{१d}-

मदन्ति(क>)का^{१d}- -का त्रि ६.

मदिरा^{१३}-

मदिरा(रा-आ)मो(द>)दा^१-

-दाम् व ४३३:६.

मदिरो(रा-उ)न्मत्त- -त्तः मै ४, २; मैत्रि ४, २.

मद्य^{१३}- -द्यम् रुजा २, १७.

मद्य-प- -पः छां ५, ११, ५.

मद्य-पान- -नेन रा३ ५, १२.

मादक- -कम् भव ४, १३.

मादन- -नम् काम २१.

मद्- अस्मद्-द्र.

मद्:° गा २४.

मदाशक^{११}-

मदाशक-महोदर^{११}- -रौ वपू २, ४.

मद्गु^{११}- -द्गुः छां ४, ८, १:२; मैत्रि ६, ३४.

मद्गु^{११}- -द्गुः वृ ३, ३, १; ७, १.

१मधु^{११}- -धुः छां ६, ९, १; वृ २, ५,

१:१४^३; १६^३; १७^३; १८:

१९; ६, ३, ६^३; ४, २५; मना

२, ३७^३; ३८^३; ३९^३; ४०^३;

४०^३; अशि ६: १६; १संन्या

२, ७५; इ ११:७; गार२८७:९;

व ४६१:२१^३; -धुनः इ १८:९;

-धुना भ २, २२; कालि ४०२:

१२^३; -धुनि वृ ६, ३, १३; -धूनि

इ १७: २१; -ध्वः व ४६०:

१२^३.

१माध(व>)वी-

माध्वी^१- -ध्वीः वृ ६, ३,

६^३; मना २, ३९^३.

मधु(>धू)-कर-

माधु(>धू)कर- -रम् नाप

५, १^३; ७; १संन्या २, ६५; ६६;

७१; -रेण १संन्या २, ५९.

माधुकरी- -रीम्

नाप ६, ६.

माधूकर-मातृ- -तरम्

मैत्रे २, २३^३.

मधुकर-राजन्- -जानम् प्र २,

४; वृ १^३?

मधुकर-वृत्ति- -स्या नाप ५,

१; ७; १संन्या २, १३; ५९.

मधु-कृत- -कृत मना २, ४०^३;

-कृतः छां ३, १, २; २-५, १;

६, ९, १.

मधु-घृत्-दुग्ध-दधि-नवमीता-

(त-आ)घ- -घाः सार२८१:४.

मधु-ज्ञान- -ने गौ ३, १२.

मधु-न्व- -त्यम् मैत्रि ६, २२.

मधु-दान- -नेन कालि ४०२: १४.

मधु-नाडी^{११}- -ड्यः छां ३, १, २;

२-५, १.

मधु-मक्षि- -

मधुमक्षिक-वन् १संन्या २, ६६.

मधु-मत्- -^३मत् वृ ६, ३, ६; मना

२, ३९; -^३मात् वृ ६, ३, ६^३;

मना २, ३९^३.

मधुमती- -ती वृ ४२७:

७^३; -तीः वृ ६, ३, ६.

मधुमत्-त(म>)मा- -मा तै

१, ४, १; नाप ४, ३८^३.

मधु-मांस- -सम् मि ४.

मधु-र, रा^{११}- -र^{११} रा२ २, ९१;

-राणि रा१ २६६: १०; -रात्

शि ६, ७९.

मधुर-प्रसन्न-वदन- -नाय त्रिवि

७, ४६.

मधुर-वृत्ति-

मधुरवृत्ति-मत्- -मात् अन्न

१, ५७.

मधुर-स्वभाव- -वः हे ६.

मधुरा(र-आ)दि-

मधुरादि-मथ- -थः शृजा२, ३.

मधुरा(र-अ)म्ल-तिक्त-कटु-कषा-

य-लवण-भेद- -द्वाः भा ६^०.

a) =कामदेव- वा क्लीं-ह-आदिर्बीजाक्षर- वा । b) तु. सस्थ. टि. √प्रथु>प्रथते; वैतु. भारा. पत्ते

मदन्या-> न्या इति विकल्पुकः । c) गपू. (पृ १२५) अस्मद्->मद्->मत् इत्यत्र सस्थ. यनि. शोधः द्र. ।

d) =आवरणदेवताविशेष- । e) 'ह मदः' इति पा. १ 'अहम् अदः' इति शोधः द्र. (तु. वृ ५, १४, ७) । f) व्यु. १

=गणदेवताविशेष- । g) व्यु. १ =जलकाकविशेष- । h) व्यु. १ =देशविशेष- । i) वैपश् यद्र. । j) ऋ १, ११७, २२ ।

k) ऋ १, ९०, ६^३; ७^३; । l) तैश्चा १०, १५, १ । m) तैश्चा १०, ४८, १^३ । n) तैश्चा १०, ४९, १ । o) तैश्चा १०, ५०, १^३ ।

p) मैथु^० इति तान्त्रि. । q) ऋ १०, ८३, ७ । r) ऋ १, ९०, ६; ८ । s) असंक्लृप्तमा^० इति श्रद्ध्या. । t) 'मान्त^०

इति श्रद्ध्या. । u) सकृत् °राज इति मुपा. यनि. शोधः द्र. (तु. आन.) । v) तैसं ४, २, ९, ६ । w) ऋ १, ९०, ७ ।

x) ऋ १, ९०, ८^३ । y) =देवीविशेष- । z) तैश्चा ७, ४, १ । a') पा ५, २, १०७ । b') मधुरप्रसन्नवदन-> -नाय

इत्यस्याऽऽर्धशः । c') °णरसाः इति श्रद्ध्या., तान्त्रि. ।

मधुरा(र-अ)म्ल-लवण-तिक्त-
कटु-कषाय-रस-सान् गर्भ१२.
मधु-वन^१- -नम् गोल २१.
मध्व(धु-अ)द- -दम् क २, १, ५.
मध्वा(धु-आ)दि- -दिसु ब्रसू १, ३,
३१.
मध्वादि-वत् ब्रसू १, ४, १०.
२मधु^२- -धोः गोल २१.
मधु-कैटभ-(घ>)मी- -०घ्न व
४६५ : २२.
मधु-कैटभ-महिषासुर-धूम्रलोचन-
चण्ड-मुण्ड-प्रचण्ड-रक्तबीज-
शुम्भ-निशुम्भ-दैत्य-निकृन्त-
(क>)का- -०के व ४३१ : १४.
मधु-सूदन^३- -०न गी १, ३५; २,
४; ६, ३३; ८, २; -नः ना ४;
आबो १; गी २, १; -नाय त्रिवि
७, ४१.
३मधु^३- -धौ वड ६, ४२.
मधुक^४- -कः वृ ६, ३, ९; -काय वृ
६, ३, ८.
मधुच्छन्द(इन्दस्^५)- -न्दः(इन्दाः^५)
सर २, ३-५.
मधूक^६-
मधूक-कुसुम- -मानि शि ६, १६.
मध्य^७- -ध्यम् गौ १, २७; अशि १,
९; ३, १; ते ५, ३७; ६, ५; १योत
९५; त्रिन्ना २, ७९; १३१; १३२;
महा ४, ५९; ५, ९८; १७२; अज
४, २२; रुह १४; यो १, ७; ६९;
वरा ५, २०१^५; च २१ : १६;
वट्ट ३१५ : १; रशिसं १३१^५;
गु ६२१^५; गी १०, २०; ३२;
११, १६; -ध्यात् छां ६, १३, २;

महा ५, ६९^६; -ध्ये क २, १, १२;
२, ३; प्र ३, ५; छां ३, ५, ३; ११,
१; १६, २; ४; ६; ६, ११, १; श्वे
४, १४; १९१^६; ५, १३; ६, १५;
मैत्रि ६, ३५^६; कै १, ६; जा २; हं
८; मना १, ११^६; २१^६; २, १३,
२३^६; ४०१^६; ब २; अना ३७;
३८; अशि ५, १६; कौ २, ७;
बुजा ४, २९; वृपू ५, २; ८; सुबा
१; ४; ११^६; वृ १२^६; १४; १५;
१७; ते १, २३; नाद ३४; ध्या
३९; ४४; ४५; ९३, ११-१४;
१०३; ब्रवि ७; ६४; ७०^६; ७१;
८०; १योत १३८; २योत १, ९;
२, ५; नाप ४, ३८; ५, ९; त्रिन्ना
२, ७; योचू ७; ८; ८२; ९१; श
१; रार १, ४; २, १२; २३; ३७;
३, १; राज ३, १; रापू ४, ४;
४०; ५, ४; १^६वा २१; २३;
शां १, ७, १२; ४०-४२; महा १,
१३^६; २, ६९; ५, ५; ४८; ४९;
१५६; शारी ५^६; योशि १, ११२;
१७५; १७८; ५, ११; १५; ३८;
६, ५; ६; ९; अज २, १७; कुं १८;
पत्र २; १अव ४; यो १, ५२;
जाद ४, १५; १६^६; १७; २६; ६,
२७; ३६; ४१; ७, १२; गोल ५;
१८; १९; पं १८; वरा ५, ६७;
सु १, १, ४४; योरा १५; २०;
अद्वै ३; ८; ११; १४; २७; आच
४^६; इ १७ : ३; च २१ : ३-५;
१प्र ३१ : १२; बा १४; १८; सूता
१, १४; ५, १३; स्व ६१ : १; ऊ
६४ : २; गोच ६६ : २१; २३;

नापू ६, ४; नाड १, २०^६; सार
२२३ : १७; २३४ : ३; २३५ : ४;
२३७ : १०; २३८ : ८; २५३ :
२२; २६५ : २२; २६७ : १८;
२७० : १; २८१ : १; २८२ :
१९; लिं ३१० : ६; वट्ट ३१३ :
१; शि २, २५; ६, १३४; १४९^६;
कालि ४०३ : ६१^६; गु ५७; तारा
८४ : १२; वपू २, ४^६; सांस् ३,
५०; सांका ५४; गी १, २१;
२४; २, १०; ८, १०; १४, १८;
-ध्ये-ध्ये महा ६, ३८; सार २२२ :
१९; २३९ : २; २८१ : १; २२.
मध्य-ग- -गः सौ २, ६; -गम् योशि
६, १६; यो ३, ४; ७.
मध्य-नात- -तः ध्या २६^६; -तम् ध्या
२८; महा ६, १९; योशि १, ७४^६;
-ताः योशि ६, १०.
मध्य-च्छिद्र- -द्रम् कृपु २०.
मध्य-तस(>) तै ३, १०, १^६; वृ ५,
५, १; ६, ४, ३; काला १२; जाबा
२०; योरा १२; शि २, ५; ६,
७८; ८२; ८३.
मध्य-त्रिकोणा(ण-अ)प्र-
चतुष्टय- -यात् त्रिता २, ४४.
मध्य-दल- -ले वि १९.
मध्य-देश- -शो ध्या ५६; ब्रवि ६६;
योचू १९.
मध्यदेश-(स्थ>)स्था- -स्थ
ध्या ५६^६.
मध्य-नाडी-प्रदर्शन- -नात् योशि
६, ४२.
मध्य-नाडी-विचार- -रस्य योशि
६, ४१.

- a) षयान् इति अच्चा. संटि. । b) व्युः? =दैत्यविशेष- । c) =२कृष्ण- । d) व्युः? =चैत्रमास- ।
e) व्युः? =ऋषिविशेष- । f) निसाः? यनि. शोषः द्र. (तु. अच्चा.) । g) व्युः? =वृक्षविशेष- । h) वैपश् यद्र. ।
i) मा १७, २ । j) 'मध्ये' इति मा ३२, २ । k) 'ध्ये' इति निसा. संटि., अच्चा. संटि., 'ध्यम् इति अच्चा. ।
l) मा ३२, २ । m) तैत्र्या १०, १, १ । n) तैत्र्या १०, ११, २^३ । o) तैसं ४, २, ९, ६ । p) 'मर्म' इति अच्चा. ।
q) 'ध्यम् इति अच्चा. संटि. । r) तैत्र्या १०, ११, २ । s) 'ध्ये स्थि' इति निसा. । t) 'ध्ये ग' इति आन. ।
u) 'शो तु' इति निसा., अच्चा. संटि., 'स्थाः इत्यपि अच्चा. संटि. ।

मध्य-दिन-नः छां २, १४, १; नम्
ना ५; मना २, ८०^{१६}; नात् छां २,
९, ६; -ने छां २, ९, ५; शां १,
७, २; त्रिता ४, ३४; ग १, ११.
माध्यंदिन-नम् छां २, २४,
१; १०; ३, १६, २; ३^१; ४; काला
१५; भ १, ११; मवा १२; शौ
५२: २८; -नस्य छां २, २४, ७;
शौ ५२: १३; -ने १थोत् ४३^१;
त्रिवा २, १०१^०.

माध्यंदिन-सवन^२-नम्
जावा २३^१.

माध्यंदिना(न-अ)यन-नः,
-नात् वृ ४, ६, २.

मध्य-पद्म-अम् कृपु २१.

मध्यपद्मा(अ-अ)चन-नम् रापू
५, १.

मध्य-पुण्ड्र-ण्ड्रम् वृजा ५, १.

मध्य-पूर्ण-णम् मु २, २, ५६.

मध्य-भू-पुर-वीथि-थ्याम्
त्रिवि ७, ४८.

१ मध्य-म, मा-मः क १, १, ५; छां
६, ५, १-३; वृ १, ५, २१; २२;
२, २, १; ध्या १०२^०; त्रिवा २,
१०५; शि २, ७; -मम् मैत्रे २,
२१; योशि ६, १९; त्रिता ३,
१८; रुजा १, ७; १३; २०; जाद
६, १४; वरा ५, ३०; वृष ८४: ११;
१२; १८; -मया प्रा १, ६^१; -मा
नाप ८, १९^{१६}; योशि ३, ४९^{१६}; तुं
१०९^{१६}; गार ४०६: १५; -मा:
स्व ६१: २३; -मानि वृष ८४: १८;
२१; -माभ्याम् शु १, १८; २,
५^१; गरु ३; लां २१३: ७; शि
६, १७०; व ४२६: ६; मायाम्
पष ४२०: १९^{१६}; यो ३, १९९^{१६};

गार ४०६: १२; -मे ध्या १०३:
त्रिवा २, १०६; योत् १०४:
१०५; शां १, ७, ३; योशि ६, ४७:
४८: ५०^१; त्रिता ३, ४; १०: १३;
जाद ४, ४८; -मेन योशि ६, ५०^१.
मध्यम-दक्षिणा-णाम् शि २,
२७.

मध्यम-द्वार-भाग-

मध्यमद्वारभाग-तम् (>)

वरा ५, ३९.

मध्यम-पाद-मध्य-प्रदेश-शे
त्रिवि १, ११.

मध्यम-रूप-पम् ग ८.

२ मध्य(म>)मा^१-माम् मुवा
९^१.

मध्यमा(म-अ)ङ्गुलि-मध्य-
-ध्येन शि ५, ४७.

मध्यमा-नख-मिलिता(त-अ)-
ङ्गुष्ठ-छौ त्रिता ३, ८.

मध्यमा-व(ह>)ह्वा-ह्वे त्रिता
३, ७.

मध्यमा-रू(प>)पा--०पे अक्ष
१५.

मध्य-मण्डल-ले सार २३३: २३;
२३८: ७.

मध्य-मध्यम-मम् योशि ६, १९.

मध्य-लक्ष्य-त्त्यम् मं १, २, ११.

मध्यलक्ष्य-लक्षण-णम् अता
७.

मध्य-वर्तिन्-र्ति त्रिता १, २५;
२६; -र्तिनः भ २, १४; -र्तिना
त्रिता २, १३; ३, १९; -र्तिनौ
त्रिता ३, १३.

मध्य-विवेक-

मध्यविवेक-तस(>) सांसू ३,
७७.

मध्य-शक्ति-क्तिम् योरा ९.

मध्यशक्ति-प्रयोध-धेन योरा
२१.

मध्य-श्रृणो-णी-णीपु सार
२३३: १३.

मध्य-शंभार-रः गार २२५: १४.
-रे शां १, ७, १०.

मध्य-स्थ, स्था-स्थः प्रति ६२;
-स्थम् पं ३, १; यो ३, २५; -स्था
सार २८५: १.

माध्यस्थ-स्थम् सांका
१०.

मध्यस्थ-कृणुलि(न-नी)-

-नीम् शां १, ८.

मध्य-स्थल-ले गार २६७: २१.

मध्य-स्थान-नम् गार २५९: १९;
२८०: ५; -ने गार २६५: २१.

मध्य-स्थित-ता: सार २५३: ९.

मध्या(य-अ)कार-रः का ९.

मध्या(य-अ)ङ्गुलि-लिभिः वृजा
४, १०.

मध्या(य-अ)न्त^k-न्तम् महा ५,
४६.

मध्या(य-अ)ह-हः सार २२४:
८. -ह्वात् वृजा ४, १०; -ह्वे नाप
४, १९; स २०; रुजा ३, १;
जाद ६, २१.

मध्याह्न-काल-

मध्याह्नकालि(क>)का-

-का गार ४०६: १९.

मध्याह्ना(ह-अ)र्क-मण्डल-

-लम् मं २, १, १०.

मध्याह्न-सायाह्न-ह्वेपु भ १, ७.

√मन्(वधा.), मन्यते क १, २, १९^१;
वृ १, ४-५, १७; ४, ३, २०^१; ६,
१, ७; महा २, १७^१; ५, ७३; ७४;

a) तैत्र्या १०, ६४, १ । b) म^० इति निसा. । c) म^० इति निसा., अख्या. संटि. । d) ०^० नं सव^०
इति अख्या. । e) मुपा. ०^०मेव (=०^०मः इव) । f) 'मध्यमिकया' इति आन., अख्या. । g) =वाविशेष- ।
h) ०^०मा इति निसा. संटि. । i) 'तनुमध्ये' इति निसा. संटि., ०^०ध्यमे इति अख्या. । j) अर्थः? । k) समाहारे द्वस. ।
l) ०^०त् इति अख्या. ।

१अव २६; योशि १, ५४; ३, १३; अव्य ६; आबो २६^१; लिं ३११:५; शि ७, ११२; गी २, १९; ३, २७; ६, २२; १८, ३२; मन्यन्ते क २, २, १४; ३, ११; मां ७; छां १, २, १०-१२; ८, ८, ५; वृ १, ४, ९; ६, १, १४; गौ १, ७; ८; वृषू ४, ७; नृउ १, १२; पंहं १; नाप ८, २०; त्रिवि ४, १४; राउ ३, १; तुअ ५; अव्य ७; लिं ३११ : ६; विद्या १-४; वउ १, १५; २, ३; २४; ३, १५; २५; गी ७, २४; मन्यसे के २, १; क १, १, २४; कौ ३, १; आषे ७ : १५; ८:६; २२; ९:१०; गी २, २६; ११, ४; १८, ५९; मन्ये के २, १; २; क १, २, ४; १३; वृ ४, ४, १७; कौ २, १०^१; ३, १; मैत्रि ७, ९; महा ५, ७९; ८०; १अव १६; सु २, २, ३७; गी ६, ३४; १०, १४; मन्यासै वृ ३, ९, २५; मन्यताम् पित्र ४, ९; मन्यन्ताम् १अव १६; अमन्यत क १, १, २; वृ १, २, ७; ४, १, २-७; मै २, ६; ९; मैत्रि २, ६^१; ७, १०; अव्य ६; मन्येत जा १; अना १७; राउ १, १; १कौल ८ : ४; गी ५, ८; मन्येध्वम् वृ ३, ८, १२. मनुते छां ७, १८, १; १९, १^१; ८, ५, २; वृ २, ४, १४; ४, ३, २८^१; ४, २; ५, १५; ते ५, ४०; अन्न ४, ४८; गोउ ११; शा ४; सु २, २, २९; इ १२:१२^१; मन्वते पित्र ६, ४; मन्वानि छां ८, १२, ५; मन्वीत वृ २, ४, १४; ४, ३, २८; ३१; ५, १५; मन्वीरन् छां ७, १३, १^१; मन्वीथा: वृ ३, ४, २.

मने वृ २, १, १६; ३, ९, २६; ४, ३, १; आषे ७:९; ८:१३; मैत्रिरे पित्र ५, २; मंस्यन्ते गी २, ३५. मत, ता- -त: १योत १३; नाप ५, ३३; त्रिब्रा २, २३; रार २, १०; २६; ५२; ६५; ७, ७; ११; वरा ५, ४५; सर ३, ३०; ख ६१:१०^१; २१^१; २२; वपू १, ६; ७; भव २, ३०; गी ६, ३२; ४६; ४७; ११, १८; १८, ९; -तम् के १, ५; २, ३^१; ४; छां ६, १, ३; हं २; शु ३, ७; पं २८; वरा ५, १७; सु २, २, १; गी ३, ३१; ३२; ७, १८^१; १३, २; १८, ६; -ता गौ ४, २४; ते १, ३५; नाद ११; १योत २७; योचू १०४; रार २, ४२; शारी ७; सु १, १, १४; भव १, ३१; गी ३, १; १६, ५; -ता: रार २, २८; ७१; अन्न ४, ८३; सु २, २, १०; गु २०; गी १२, २; -ते वृ ४, ५, ६; गी ८, २६; -तौ गु १०; १३. मति- -ति: क १, २, ९; ऐ ५, २; छां ७, १८, १; हं ८^१; ते ४, १२; ध्या २३, २; १०; १४; त्रिब्रा २, ३४; शां १, २; महा ४, ६८; ७५; ६, ६०; अन्न १, १२; त्रि ६^१; यो १, ७९; जाद १, ८; १०; १८; २, १; १०; वरा २, १०; ५६; ५, १४; पिं ९; वि ४; ६; १०; १२; १४; १८; २०; भव ३, ९; सांका ६१; गी ६, ३६; १८, ७०; ७८; -तिम् छां ७, १८, १; अक्षि १६; व ४३६:११; -तीनाम् मना २, ४९^१; अ २, ५; -ते: वृ ३, ४, २; ४, ३, २८; -स्या वृ २, ४, ५. मति-मत् -मान् योशि १, ७३.

मति-विज्ञान-संपत्ति-शुद्धि- -ह्ये रुजा २, ७. मत्वा क १, २, १२; २२; २, १, ४; ३, ६; छां ७, १८, १; श्वे १, ६; १२; गौ १, २८; मैत्रि ६, ३६; सुवा ३; नाप ७^१; १संन्या २, १३; अन्न ५, ९. मनन- -नम् ते ३, ४६; ५, १२; ३३; शु ३, १३; नाप ७; पै ३, १; महा ५, ६२; अन्न २, ५; अध्या ३३; जाद १, २०; -नात् रापू १, १२; महा ४, १२३; योशि १, ५४; २, ७; -नेन महा ३, १३. मनन-ध्यान-भेद- -दात् जाद २, १४. मनना(न-आ)दि- -दौ नाप ५, १. मनना(न-आ)स्पद- -दम् महा ५, १२५. मननो(न-उ)स्थ- -स्थे अन्न २, २४. १मनस^१- -न: के १, १-३; ५; ४, ५; क १, ३, ३; १०; २, ३, ७; प्र २, २; ४; ४, ४; ८; ६, ४; सुं १, १, ८; २, १, ३; २, २; ५: ऐ शां^१; १-२, ४; ५, २; तै १, ७, १; ३, १, १; ४, १^१; १०, ३; छां १, २, ६; ७, ३^१; २, ७, १; ११, १; ३, १३, ४; १८, १; ४, ३, ३; ८, ३; १६, १; ५, १, ५; ११^१; १४; १८^१; २; २२, २; ६, ५, १; ४; ६, २; ५; ७, ६; ८, २^१; ६; १५, १; २; ७, ३, १^१; २^१; २६, १; ८, ६, ५; १२, ५; वृ १, २, १; ६; ३, ६^१; १६; ४, ७; १७; ५, ३^१; ४-७; ९^१; १२; १९^१; २, १, १७; ४, ११; ३, १, ६^१; ९^१; २, ७; १३; ७, २०^१; ९, १०-१७; ४, १, ६^१; ४, ६; १८; ५, ८, १; ६, १, ५; ११^१; १४; श्वे २, १९^१;

a) मंत्रा १, ५, १०। b) 'तेदं' इति सुपा. १ 'मनुते तं' इति द्विपदः शोधः द्र.। c) 'मतः' इति SCHR. पाभे. [वैतु. बे. (NIA २, २३१)]। d) =आवरणदेवताविशेष-। e) तैआ ३, १५, १। f) 'कृत्वा' इति अज्या.। g) ऐआ २, ७, १। h) सा ११, १।

४१^०; ६; ९; गौ २, २५; ३;
 २९^०; ३०; मे २, ९; ४, ३; ६; ७;
 ११; ५, ५; मैत्रि २, ६; ४, ३; दि,
 ५; ९; १३; १९; २४; ३०; ३१;
 ३४^०; ७, ११; मैत्रे १, ४, २; २,
 २; ब्रवि १-३; कैश, १५; हंश १५;
 २१; गर्भ ५; ना १; मना २,
 १५१^०; ४२१^०; ७९^०; ८०^०;
 अना ५; १६; अशि ५, २१; दि,
 ८१^०; कौ शां^०; २, १^०; २^०; ३;
 ४; १३-१५; ३, २; ३^०; ४; ७^०; ८;
 ४, १९; सुवा ५; ६^०; ७^०; ९^०;
 ११^०; १४^०; लु ३; ससा १, ४३;
 शु २, ५; ते १, ३५; २, ७; ३, ४४;
 ४, ९; ५, १५; ३०; ७६; ८०;
 ९८^०-१०२^०; ६, ३२; ९६; नाद
 शां^०; १८; ३७-३९; ४७; ४८;
 ध्या २५^०; ९३, १४; १०५; ब्रवि
 ४४; १यौत ६५; १३८; २थोन
 १, ९; आनो शां^०; २०; नाप
 ५, १; ६, १^०; त्रिवा १, ९;
 २, २२; २७; ११६; १६४;
 मे २, १, ८; २, २; ४, ५^०; ३,
 १, ४; ५, १, १; ४; ५^०; स्क
 ११; त्रिवि ५, १२; शां १, ७,
 १८^०; २१; २२; २५; पै २, २१;
 २७; ४, १; २१; महा १, १^०;
 २, २६; ५९; ३, १३; १५;
 १८; ४, ३३; ५१^०; ५२^०; ८७;
 ९४-९६; ९९; १०१; १०३;
 १०५; १०७; १२३; १२४^०; ५,
 ५२; ६२; ६७; ७०; ७५; ७८-८०;
 १२६; १३०; १३५; १४६;
 १४७; १५०; १५१; १५४;
 १८३; ६, ५; २७; ३३; ७४; शारी

१:दि: गीशा १, ३९; ५९; ६०;
 ७१; १२३; १७१; ३, १२; २४;
 ५, ७; ४८; ५२; ५७; दि, २१;
 ६०^०; ६१^०; ६२^०; ६३^०; ६४^०; ७०;
 ७३; १संन्या २, ४६; ४८; अथ
 १, ३०; ४१; ४३; ५३; २, ५; २४;
 ३२; ४३; ३, ३; ४, १३; १७; ४८;
 ७८; ९०; ५, १०; ३८; ४०; ६०;
 ६२^०; अध्या १^०; ४; गाल ८^०;
 पाशु २, ८; १२; १४; त्रिवा ५,
 १; २; ३^०; ४; निर्वा मुद्र आ
 शां^०; कठ ३२; मा २३;
 यो ३, ४^०; ५^०; जाद १०, ४; ७;
 पा ४, १; गीउ ११^०; ५६; वरा
 १, ४; २, ७८; ८०; ५, ५२; शा
 १; भौ शां^०; २, १९; सार
 शां^०; ३, ३१; सु २, २, १६;
 २०; २९; ३४; ३६; ३९; ४०;
 ४२; ४३; व शां^०; निज १,
 ३; २प्र ३३; ४; म ४८; ४; वि
 १; ३; ५; ७; ९; ११; १३;
 १५; १७; १९; नाव ३, ३; पा
 २, ६; राधा २, ८; लां २१६;
 १८; सार २२१; १; २२६;
 १८; २२७; १३; २४०;
 १२; २५१; ९; २५६; १०;
 २७८-२७९; १७; २८३; ७;
 २८८; १८; २०; २९१; ३; १९;
 सं ३; लि ३००; ८१^०; वहु
 ३१७; १२; १शियं १-६१^०;
 रशिसं ११^०; २; ३१^०; ४१^०; ५१^०;
 ६१^०; ७; ८१^०; ९-३७; मु ४१;
 व ४६६; २२; भव २, १०; २०;
 ३, १४; १७; १८; २१; २६; ५, २;
 पित्र ३, ८; ६, ३; ४; अवि १-४;

५५, १, १; २; गासू २, २६;
 ४०; दि, २५; गीशा २७; बसू
 ४, २, ३; गीश, ३०; २, ६०; ६७;
 ३, ४०; ४२; ५, १९; ६, १२; १४;
 २५; २६; ३४; ३५; ७, ४; ८, १२;
 १०, २२; ११, ४^०; १२, २; ८;
 १५, ५; १७, ११; -नमः ई ४;
 के १, २; ६, ३, १०; २, ३, ७;
 तै १, ६, २; ३, ४, १; ५, १, ४;
 छां ७, ३, २; ४, १; ५, १, ५, ९;
 १२; ३, ७, २०; ४, ४, १८; गौ
 ३, ३१; ३४; ४०; ४१; भै ४, ४,
 २; भौत्रि ४, ३; ६, १३; ३४;
 मैत्रे १, ४, ४; विवि ३; मना २,
 ६०^०; ७९^०; सुवा १, ११^०;
 मुप्र १, ११^०; प्रउ २, २; ३; सुवा
 ११^०; लु ११^०; गी १, ३४; ३९;
 त्रिवा २, २६; ११४^०; १३४; पै
 ४, २०; महा २, ३८; ४, ३४;
 १०५; ५, ७३; ७६; ९७; १६४;
 योशि १, १७८; ५, १५; ६, ३७;
 १अव २१; त्रिवा ५, १; भा ३५;
 गोपू ४८^०; सु २, २, ३८^०; वरा
 २, ७८; सार २२७; १९; २८३;
 ९; मु ४१; आवि ३; वउ ३,
 ४५; सांस् ५, ६९; थोसू २,
 ५३; गी ३, ४२; -नम्या के १,
 ५; क १, ३, ५; ६; २, १,
 ११; ३, ५१^०; १०; १२; मुं ३,
 १, १०; तै २, ४, १; ९, १; ३, ४,
 १; ५, ८^०; ११; छां २, २२, ३;
 ४, १६, २; ५, १, ८-१०; ७, ३,
 १; ८, १२, ५; ५, १, ४; ५, ३^०;
 ३, १, ६; २, ७; ४, १, ६; ४, १९;
 ६, १, ८-१२; ४, २४; ५, २

a) मा ११, ४। b) तैत्र्या १०, १४, १। c) तैत्र्या १०, ४१, १। d) तैत्र्या १०, ६३, १^०। e) तैत्र्या १०, ६४, १। f) शौ १०, २, २७। g) ऐत्र्या २, ७, १। h) 'मतः' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.)। i) सकृत् 'स्मृतम्' इति अख्या. संदि.। j) 'नसा इति निसा.। k) ऋ १०, ५७, ६। l) मा ३४, १-६। m) मा ३४, ४। n) मा ३४, २। o) मा ३४, ३। p) मा ३४, ६। q) मा ३४, ५। r) मा ३४, १। s) ऋ १०, ३७, १२। t) तैत्र्या १०, ६३, १। u) ऋ १०, १२९, ४। v) ऋ १०, ९०, १३। w) मा ४०, ४। x) तैत्र्या १०, १, ३।

२९^०; ३९^०; ८; ३, १३९^०; ४,
१७९^०; २०; मै४, ३; मैत्रि६, ३०^३;
मैत्रे१, ४, २; ऋवि२०; जा ५; गर्भ
१; मना १, ३९^०; १२९^०; २, १९^०;
३१९^०; ३२९^०; ४०९^०; ४७९^०;
७९^०; अना३२; ऋ३, १६; कौ१,
४^३; ७; २, १३; १४; ३, २; ४; वृजा
१, १; ४, ३४; वृपू १, १; वृच ४,
३; ते १, २०; ३५; ५, ४०; ४५;
ध्या ६६; योचू ३८; ८७; नाप
३, १०; २२; ७०; ४-५, ३८;
त्रिबा२, १०९; १२९; श १७९^०;
त्रिवि ६, १४९^०; अता ५; रार४,
७; राउ ३-४, १; शां १, २; ७,
१८; ४४; ५१; २, १; महा १,
१^३; ३, ५७; ४, ४९; ५०; ६७;
१०७; ५, १८३; ६, २७; ३३;
४२; शारी५; योशि ६, ६२; ६३^३;
६४^३; ७३; १संन्या २, ३६; पप
४१८ = १७; २५; अन्न १, ५३;
२, ६; ३, ५; ७; अक्षि ८; कुं १४;
यो३, ५; ६; जाद १, ७; ११; १३;
१५; १७; ८, ९; गोउ ३०; वरा
५, ३५^३; शा ३५९^३; गरु २५;
सर १, ४; इ १०: २१; ११: १;
१२: ७; १५: ८^३; नापू ४, ८;
२७; सार २२७ = १७; २१;
२७५ = ११; २८३ = ६^३; रशिसं
२; शि४, ६६; कालि४०२ = १२^३;
२२; गु ६०; ६३९^०; व ४६१;
१३९^०; ४६४ = १४९^०; चक्र १०;
विद्या ४; भव ३, २५; ३०; ५, ३;
१४; अवि२०^०; वपू १, १; २; ४;
५; वउ१, २०; ३, ७; ६, ३; गी३,
६; ७; ५, ११; १३; ६, २४; ८,

१०; -नसाम् वरा२, ८१; -नसि प्र
२, १२; ३, ९; ४, २; ५, ४; ऐ
शां^०; छां ५, २२, २; ६, ८, ६;
१५, १; २; वृ १, ३, ६; ३, ७, २०;
गौ १, २; मैत्रि ४, ५; मैत्रे २,
१९; हं २१; अ ३^३; कौ नाद
आवो शां^०; वृपू १, १; सुबा ५;
नाप ३, १२; मं १, २, ७; अता
५; निर्वा शां^०; २९८ = १८;
सुन्न शां^०; महा३, ३; योशि ६,
७१; १संन्या २, ३६; अन्न १,
११; २, २४; ५, २२; ७८; अक्ष
त्रि सर मौ ब शां^०; जाद १०,
९; गोउ ४९; सार २२० = २३;
२३१ = ७; २३५ = २०; २४३ =
१९; २२; २६८ = २०; २७५ =
१७; २७७ = २३; २८२ = २३;
२८३ = ६; २८७ = ८; ऋपु २४;
ब्रह्म ४, २, १; -नसे वृ ६, ३, २;
-नांसि छां ५, १, १५; सार२४१:
२१; २६९ = २३; २८५ = ८.

मानस- -स: वृ २, ५, ७; ६,
२, १५; पाशु १, १२^३; जाद २,
१३-१५; -सम् मना २, ७८९^३;
७९^३; ते ५, ९७; १०४; योचू
१०९; १२१; शां १, २^३; ७, २३;
पाशु १, ११; जाद १, २०; सौ
२, १५; इ ११: १३; १५; शि ५,
३१; ३६; भव ५, ३; गी १७,
१६; -सा: मना २, ७९९^३; गी
१०, ६; -सान् सुबा १; -से मैत्रि
६, २४; मना २, ७८९^३; ७९९^३;
शां १, ७, २३; १संन्या २, ९७;
गोउ ५१^३; सर ३, १; अद्वैभा
२०; -सेन मना २, ७९९^३; राधा

१, २८; ३, १८; ४, २५; -सै:
योशि १, २८; गोउ ५८.

मानसी- -सी कौ १,
३; -सी: सु २, २, ६९; -सीम्
महा ४, १००; काम २५.

मानस-पूजा- -जया
राधा १, २८; ३, १७; ४, २५.

मानस-मध्य-(ग>)गा-
-गाम् शां १, ७, १८.

मानस-वत् ब्रह्म ३, ४५.

मानस-सरोवर^३- -रम्
म ४९ = ९; सार २५६ = २.

मानस-स्नान- -नम्
नाप ७.

मानसा(स-अ)चैन- -नम्
नाप ७.

मानसो(स-उ)पचार-
-रै: लां २१४ = ३.

मन-आदि- -दि: ससा १, २१.

मनआदि- -चतुर्वंश-करण-
-गै: ससा १, ६; १४.

मनआदि-साक्षिन्- -क्षिणम्
वृउ ७, १०.

मनआद्य(दि-अ)विवृ-
-तारम् वृउ ७, १०.

मन-आनन्द- -न्दम् तै १, ६, २.

मन-ईप्सित- -त्तानि सार
२७० = ११.

मन:-कल्पन- -नम् गोपू १४^३.

मन:-कल्पना- -नया महा ३, ५.

मन:-कल्पित-

मन:कल्पित-त्व- -त्वात्
मं २, ३, ४.

मन:-कोश-विहीना(न-आ)-
रम्- -त्मा ते ४, ७४.

a) मा ११, २ । b) 'सविता' इति मा ११, ३ । c) तैआ १०, १, ३ । d) तैआ १०, १, २ । e) 'नुमसा'
इति ऋ ५, ४, ९ । f) तैआ १०, २४, १ । g) तैआ १०, २५, १ । h) ऋ ४, ५८, ६ । i) तैआ ३, ७, ७, २ । j) तैआ
१०, ६३, १^३ । k) तैआ ८, ४, १ । l) वाध २, ११ । m) 'मैथुनासक्तमानसः' इति ताम्नित्रि । n) तैआ ४, ३८, १ ।
o) मनोम^० इति अड्या । p) ऐआ २, ७, १ । q) ^०सम् इति निसा । r) तैआ १०, ६२, १ । s) तैआ १०, ६३, १^३ ।
t) तैआ १०, ६३, १ । u) 'सममानसैः' इति थान । v) ^०ल्पितम् इति अड्या । संटि ।

मनः-क्षय- -यात् मैत्रि ६,२०.
मनः-क्षोभ- -भम् व ४,५९;४.
मनः-पिशाच- -चम् अञ ५,
३५.
मनः-पितृ- -ता महा ५,८१.
मनः-पूत- -तम् भव ५,१०.
मनः-पूति- -तिम् मैत्रि ६,९.
मनः-प्रग्रह-
मनःप्रग्रह-वत्- -वान् क१,
३,९; भव २,१२.
मनः-प्रचार- -रात् पित्र ५,५३.
मनः-प्रद- -दः पा २,६.
मनः-प्रभा- -भा वरा ४,२२.
मनः-प्रवाह-योग-रूप-
निवात-स्थित-दीप-
मनःप्रवाहयोगरूपनिवात-
स्थितदीप-वत् मं ३,१,३.
मनः-प्रशमनो(न-उ)पाय- -यः
महा ५,४२.
मनः-प्रशम-मात्र- -त्रेण महा
४,९०.
मनः-प्रसाद- -दः गी १७,१६.
मनः-प्राण^०- -णःत्रिभ्रा २,१६४;
-णान् त्रिभ्रा २,२२.
मनः-प्राणे(ण-इ)न्द्रिय-क्रिया-
-याः गी १८,३३.
मनश्-चक्षुर-अधीन-
मनश्चक्षुरधीन-त्व- -त्वात्
अता १०.
मनश्-चार- -रम् जाद १,१४.
मनः-शक्ति- -क्तिःमहा ५,१४६.
मनः-शान्ति-पद(इथ^b)-
-द(इथ^b)म् मैत्रि ६,३४.

मनः-शुद्धि- -द्धिः शां १, १;
-द्धिम् सं २३.
मनः-शून्य- -न्यम् सौ २,१७;
सु २,२,५५.
मनः-पष्ट- -ष्टानि गी १,५,७.
मनःपष्टे(ष्ट-उ)न्द्रिय- -याणि
कृपु १०१.
मनःपष्टेन्द्रिय-स्थिति-
-तेः महा २,३.
मनःपष्टेन्द्रिया(य-आ)-
स्पद- -दम् अञ २,२११.
मनःपष्टेन्द्रिया(य-अ)-
तीत- -तम् अञ १,२१.
मनसि
मनसि-ज- -जम् राष्ट्र १,३;
-जाः राष्ट्र ५,२३.
मनस-ता- -ताम् अञ ४,१६.
मनस-तृष्टि- -ष्टिः महा ६,३०.
मनस-त्व- -त्वम् पाशु २,१२.
√मनस्य्, मनस्यति छां ७,
३-५,१.
मनस-वत्- -वान् मैत्रि ६,१३.
मनः-संग्रह- -हम् सार २,८३;
६.
मनः-सहकारि-चक्षुस्- -क्षुपा
अता १०.
मनः-सुस्थिरी-भाव- -वः
शां १,७,१०१.
मनः-स्थान- -नम् शारी १,१.
मनः-स्थिति- -तिः शु २,५.
मनः-स्थैर्य- -र्यम् मं २,१,९;
शां १,७,१०.
मनः-स्पन्द- -न्दःशां १,७,२९.

मनःस्पन्दो(न्द-उ)पशान्ति-
-न्त्या शां १,७,२५.
मनीषा- -पया मना २,७९^१;
-पा क २,३,९^१; पं ५,२; हं
ः मना २, ७९^१; वृजा १,
१^१; प्र १, १^१; त्रिवि ६,
१०^१; गद०; द३^१; -पाम् गुद६.
मनीषिन्- -पिणः क १, ३,
४; गौ २,१; ५; ४,५४; मना २,
७९^१; पं ४, २; महा ५, ८०;
क० ६; मजा २,७; आद १,२०;
गर २, ६^१; नापू ५, ३२^१;
पाशमं २^१; राशमं ३^१; भव
२,११; ४,५; कष्टु ३,६; गी २,
५; १; १८,३; -पिणा शां १, ७,
३७; -पिणाम् त १,२; गी १८,
५; -पिभिः भव ४, १९; -षी
ई ८; श्रे ३, १३^१; ४, १७^१;
मना १, ३^१; मं ३, ८^१; य १;
य २९,३; १.
मनोःकृत- -तेन म ३,३.
मनो-गत- -ताः पदं ४^१; -ताम्
गी २,५५.
मनो-गति- -तिः अञ १, ५०;
भव ३,१२.
मनो-जव- -वेषु नापू ४, १३^१;
मनोज(व>)वा^१- -वा
शुं १,२,४.
मनोजव-त्व- -त्वम् जाद
६, १९.
मनोजविन्-
मनोजवि-त्व- -त्वम्
थोसू ३,४९.

a) वसः?। b) पाः? यनि. शोधः द्र.। c) °नःसर्वे° इति पाः? यनि. शोधः द्र.। d) °रोभा° इति
निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.)। e) °न्त्यायाम् इति अज्या.। f) वैपश् यद्र.। g) तैश्चा १०,६३,१। h) तु.
तैश्चा १०,१,३; भा., रामा.; वैतु. शं., सा. च (तैश्चा.) मनस-+ईश- (<√ईश>)मनीश->यनि. रु. इति?
[एवं हि सत्यन्तोदात्तो नोपपद्येत (तु. तैश्चा.)]। °षी इति निसा.। i) ऋ १०,१२९,४। j) तैश्चा १०,१,३। k) ऋ
१,१६४,४५। l) सा ३४,२। m) °षा इति तैश्चा १०,१,३। n) °षा इति तैश्चा १०,१,३;। c.। o) 'वशी'
इति निसा.। p) पाः? यनि. तु. शं. प्रश्न.; वैतु. °नोधिक्त्° इति निसा.। q) °तात् इति आन. संटि., °तात् इति
अज्या.। r) °जी° इति मुपा. यनि. शोधः द्र. (तु. ऋ १०,७१,१। s) तु. गू. पृ २२९४।

मनो-ज्ञा,ज्ञा- -ज्ञा सार २३८ : ४५^१; -ज्ञानि सार २३८ : ३.
मनो-दण्ड- -ण्डः नाप ६, ५; -ण्डम् नाप ५, १; ३९.
मनो-दृश्य- -श्यम् गौ ३, ३१.
मनो-द्वार- -रेण ह्यु १२^१.
मनो-धर्म- -र्मः महा ४, ९९.
मनो-धारण- -णम् शां १, ९.
मनो-धैर्य- -र्यम् योचू ११०.
मनो-ध्यान- -नम् अन्न १, २९.
मनो(नस्-अ)नवस्थान- -नात् सांका ७.
मनो-नाथ- -थः वरा २, ८०.
मनो-ना(मन्>)स्त्री- -स्त्री महा ४, १०८; ११९.
मनो-नाश- -शः महा ४, ११०; ५, ९७; अन्न ४, १८; ८१; मु २, २, ३५^१; ३८; -शम् मं ३, १, ५^१.
मनोनाश-वशा(श-अ)-
जुग(ङ्गा^०)- -ग(ङ्गा^०)म् महा ६, ७५^१.
मनो-निरोधन- -नम् मं १, १, ७.
मनो-निरोधि(न्>)नी- -नी निर्वा २९८ : २.
मनो-निर्मथन- -नात् त्रिवा २, १४.
मनो-निर्वासनी-भाव- -वम् सु २, २, १६.
मनो-निवृत्ति- -त्तिः मं १, १, ४.
मनो(नस्-अ)नुकूल- -ले ध्वे २, १०; भव ३, २३.
मनो(नस्-उ)न्मन^१- -नाय मना २, १८५^०.
मनो(नस्-उ)न्म(नि>)नी^१-
-नी नाद ४८; शां १, ७, १०५^१.
मनोन्मनी^१- -नी

नाप ८, १; तु १०^१; -न्याम् पप ४१९ : ३१; -न्यै योशि ६, ३.
मनोन्मन्य(नी-अ)वस्था-
परिपक्व- -क्वम् मं ५, १, २.
मनो(नस्-अ)प्रचार- -रात् पित्र ५, ५^१.
मनो-बुद्धि- -द्धयोः त्रिवा १, ६.
मनोबुद्धि-समन्वि(त>)-
ता- -ताम् सु २, २, ७१.
मनो-बुद्धि-चित्ता(त-अ)हंकार-
-राः नापू ५, १४.
मनो-बुद्धय(दि-अ)हंकार-
चित्त-संघात-
मनोबुद्धयहंकारचित्त-
संघात-क- -काः ते ६, ३^१.
मनो-बुद्धय(दि-अ)हंकृति^१- -ति वरा ३, १८^१.
मनो-भञ्ज(न>)नी^१- -०नि व ४३२ : ६.
मनो-भव- -वः सार २२८ : ११५^१; -वाः ते ५, १०३.
मनोभव-भाव- -वे सार २८७ : ६.
मनो-भाव- -वेन सार २८६ : १६.
मनोभाव-बुभुस्सा- -त्सया सार २४१ : ७.
मनोभावा(व-अ)पन्न,ज्ञा-
-न्नः सार २६० : १; २८८ : १९;
-ज्ञा सार २२५ : १६.
मनो(नस्-अ)भिन्न-मति- -तिः वि ८.
मनो(नस्-अ)भिलषित- -तम् सार २४८ : १२.
मनो(नस्-अ)भिलाष- -षः सार २३० : १८; २१; २३२ : २३;

२८६ : १३; -षम् सार २३० : २२; २७५ : १७.
मनो-भेद- -दात् नाप ४, २९.
मनो-मणि- -णिः महा ५, ८२;
-णिम् महा ५, ८३.
मनो-मत्त-गजे(ज-इ)न्द्र-
-न्द्रस्य नाद ४४^१.
मनो-मध्य- -ध्ये शां १, ७, ४३.
मनोमध्य-गत- -तः व ४६७ : १.
मनो-मनन- -नम् महा २, ५२.
मनो-मय- -यः सुं २, २, ७; तै १, ६, १; २, ३, १; छां ३, १४, २; वृ १, ५, ३; ४, ५, ५, ६, १; मै २, ९; मैत्रि २, ६; सुवा ५;
ससा १, १५; कर २०; अद्वै २२;
-यम् तै २, ८, ५; ३, १०, ५; तै ५, १०३; महा ४, ५०; -याः ते ५, १०४; -यात् तै २, ४, १;
-येन कर २०.
मनोमयी- -यीम् अना १८.
मनोमय-कोश- -शः पै २, २१.
मनोमय-ज्ञानमय- -यान् यो ३, ३२.
मनो-मल-स्याग- -गः मैत्रे २, २; स्क ११.
मनो-मात्र-म(ङ्ज^१)य- -येन महा ४, २८.
मनो-यज्ञ- -ज्ञस्य पाशु १, १७;
-ज्ञेन अव्य ४.
मनो-याग- -गः, -गस्य पाशु १, १८.
मनो-युक्त,का- -क्तम् मं १, ३, २; अता ९; ११; शां १, ७, ३७;

a) °नोधा° इति अच्चा. । b) °शः इति निसा. । c) पा.१ यनि. शोभः द्र. । d) °नाशद° इति निसा. संदि. । e) तैत्रा १०, ४४, १ । f) =अवस्थाविशेष- । g) =मात्राविशेष- । h) °ना इति पा.१ यनि. शोभः द्र. । i) °द्विरहं इति निसा. यनि. शोभः द्र. (तु. अच्चा.) । j) समाहारे द्रस. । k) °तिः इति अच्चा. । l) =अनङ्ग- । m) °नोन्मत्त° इति अच्चा. । n) निसा. पा.१ यनि. शोभः द्र. (तु. अच्चा.) ।

न्का अता १०; -न्केन अता १०.

मनोयुक्ता(ता-या)न्तर-
ट्टि"- -ट्टि: सं १, ३, २.

मनोयुक्ता(ता-या)भ्यास-
-स: अता १०.

मनोरथ^१"- -थम् गौ १६, १३;

-थान् त्रिभि ५, ४; -थेन सार
२८९: ११; -थै: भव १, ४३.

मनोरथ-मय- -यम् सार
२९१: २३.

मनोरथ-शत- -शै: सार
२४१: २३; २७४: १.

मनो-रम, मा- -मम् सार २२५:
८; २२९: २३; २६८: १७; -सिमा

सार २२३: २; २२५: १५;
२२९: १६; २३; २३४: ५;

२४२: २१; २८९: ३; -माणि
सार २२३: १२; -मे जाद ५, ४.

मनो-राज्य- -ज्यम् महा ५,
१४; वरा २, ६४.

मनो-राम- -मम् नाप ३, ६७.

मनो-रूप- -पम् ते ३, ८८.

मनो-लक्ष्य- -क्ष्यम् शां १, ३, ७.

मनो-लय- -य: मवा ७; -यम्
योशि ५, ४७^३; ५१.

मनो-लय-कारण- -णम् सं ५,
१, ३.

मनो-लया(य-अ)विशेष- -वे
सं २, ३, ३.

मनो-वचस^०- -चोभि: महा ५,
४६; अत्र ५, ८९.

मनो-वत् ब्रह्म २, ४, १२.

मनो-वन^१- -नम् १संन्यार, ५४.

मनो-वश- -शात् त्रिब्रा २, ११७.

मनो-वाक्-काय-कर्मन्-

-मैणाम् शां १, १; -मैभि: नाप १;
३, ६०; ५, ३९; शां १, १^४;

-माणि मना २, ६६^१."

मनो-वाग्-वेद-संभव- -वम्
भव ५, १.

मनो-वाच्- -वाचाम् मैत्रि १, ४,
९; शिवा १, ५; ६, १५; ७, १७;

अथा ६३; भक्ति ४८; गि ६, ३.

मनो-वाग्-मगोचर- -रम्
निर्वा २९७: १०.

मनो-वायु^१- -यू वा: ५०.

मनो-विकल्प-संज्ञान- -तम्
महा २, ३४.

मनो-विद्- -विद: गौ २, २५.

मनो-विलास- -स: महा ४,
६८.

मनो-वृत्ति- -त्ति: शां १, ७, ३७.

मनो-वेग^१- -वग अं २१४: १३.

मनो-व्याधि- -धै: महा ४, ८८.

मनो-व्यामन्- -सि महा ४,
११७.

मनो(नग्-अ)हंकार-विलय-
-ये अत्र १, ५२.

मनो-हर, रा- -रा रागा १,
२४^१; -रा: सार २३२: १६;

-राणि सार २८७: ११; -रेशि
४, ६३; -रेण सार २३७: ९.

मनोहर-शब्द- -ब्देन सार
२२६: १२.

मनोहर-शोभा- -भाम् सार
२२२: १५.

मनो-हारि(न्)णी- -णीम्
सार २३२: ११.

मनु^१- -नव: भ १, १; गोपूर ४;
-नु: ते ४, १८; द २; ४; ७; ९;

१३; रार २, १; १०; १८; ५०;
७६; ८०; रापू ४, ६४; सू २६;

भ २, ४^२; ह ८; नापू ४, २९;
सूता १, २; व ४२७: १७; -नुना

रार २, १२; त्रिता १, ५९; ४,
३१; -नुम् रार २, ६; ११; १५;

७२; ८५; ९४; ३, १; ४, ७; राउ
३, १; ग २, २८; गोपू २३;

२६; ४७^१; -नुपु रार ५, १५;
-नो: रार २, २; २१; ४३; ९५;

राउ ५, १; त्रिता ४, २८.

मनु-जापिन्- -पी कालि ४०२:
१८.

मनु-परायण- -ण: सार ४, १२.

मनु-राज-

मनुराज-क- -क: सार २, ५६.

मनु-संयोग- -गम् कुं १४^१.

मनु-स्वरूप- -पम् ग ७.

२^१ मनु^१-

१मानव- -व: श्रवि ५०;
रापू ३, १; कर्म ९; मु १, १,
२०; शि ६, २९; २२०; स३७९:

१८; रा ४२४; ८; ९; ११; १२;
४२५: १५; १८; -व: व ४६५:

१४; १८; गौ ३, १७; १८, ४६;
-वम् भव १, १६; -वा: श्वेद, २०;

नृजा ५, ९; योशि १, ३२; पित्र
५, १; २; गौ ३, ३१; -वानाम्
गोपू २४.

मानवी- -वी गोउद ३३^१;
त्रिता १, ६२; -वीम् त्रिता १, ६१.

मनु-ज- -जानाम् जाद ४, २^१.

मनु^१- -नव: पित्र २, ८; गौ १०,
६; -नव् छां ३, ११, ४; ८, १५,

१; गौ ४, १; -नु: छां ३, ११,
४; ८, १५, १; वृ १, ४, १०; मै

४, ४, १३; मना २, १५^१; वृपू
४, १५, २३; गोच ६८: १२; गौ

४, १; -नुभ्य: तुल ७^१: २३.

२मानव- -व: छां ४, १७,
१०; -वम्-छां ४, १५, ५.

a) न्तद इति श्रद्धा. संटि.। b) वैप१ यद्र.। c) द्रस.। d) मलो. कस.। e) तैश्चात्रा १०, ६६। f) वस.।

g) मनने धा. वृत्ति:। =मन्त्र-। h) 'मन्त्रम्' इति आन.। i) मनसि सं० इति श्रद्धा.। j) धा. अर्थ: ? =मनुष्य-।

k) 'मानसी' इति आन.। l) 'मनुष्याणाम्' इति श्रद्धा. संटि.। m) धा. अर्थ: ? =प्रजापतिविशेष-। n) तैश्चा १०, १४, १।

४*मनु^a-

मन्व(नु-ञ्च)न्तर- -राणि शि २,
२१.

मन्वन्तर-सहस्र- -स्रैः राउ
३, १.

मनुस्^b-

मानुष^b- -षः तै २, ८, १;
-षम् तै १, ९, १; छां ५, ३, ६;
वृ १, ४, १७; २, ५, १३; गी ११,
५१; -षस्य छां ५, ३, ६; वृ २,
५, १३; -षाः तै २, ८, १; छां ५,
१, ४; -षाणाम् वृ ६, २, ६; -षे
वृ २, ५, १३; गी ४, १२; -षेभ्यः
स शां^c.

मानुषी- -षी गोउ
६३; -षीः तै ३, १०, २; व
४६० : २५^d; -षीम् गी ९, ११.

मानुष-प्रणव- -वः नाप ७
मनुष्य^b- -व्यः क १, १, २७:

१योत ११०; १अव १८; सु
२९४ : ११; गु ८४; भव २,
२६; -व्यम् क १, २, २; वृ १, ४,
१०; व ६; -व्याः क १, २, ३;
मुं २, १, ७; तै २, ३, १; छां २,
९, ३; वृ १, ४, ३; ९; १०; ५, २;
६^e; ३, ८, ९; ५, २, १; २; ८, १;
मना २, २८^f; नि ७; २१; सुद्र
३; करु १६; गोउ २२; ६२;
सार २, ६५^g; नापू ५, ३३^h; सार
२५५ : ६; २७४ : ८; गु ३०; गी
३, २३; ४, ११; -व्याणाम् छां
७, ६, १; वृ १, ४, १०; १६; ४,
३, ३३ⁱ; ६, ३, ६; मै ४, ४, ११;
मैत्रि ६, ३४; वसू ८; ब्रवि २;
त्रिवा २, ५८; ६६; सी १४; शां
१, ४^j; पाशु १, २७; पत्र २;

त्रिता ५, ३; भा १९; शा १;
भव ३, १४; अवि २; गी १,
४४; ७, ३; -व्यात् शा १८;
-व्यात् छां ७, २, १; ७, १; वृ १,
१, २; ४, १६; वृषू ५, १५; पार,
२; १शिसं ६५^k; २शिसं ५५^l;
वउ ५, १०; -व्याय कौ ३, १^m;
-व्ये क १, १, २०; -व्येभिः क
२, १, ८५ⁿ; -व्येभ्यः छां २, २२,
२; ४, ९, २; मना २, ६७^o; -व्येषु
प्र ५, १; वृ १, ४, १५^p; ते ६,
९७; गोउ ६३^q; गी ४, १८;
१८, ६९; -व्यैः क १, १, २५.

मानुष्य^k- -व्यः सांका
५३^r; -व्यम् वरा २, ५.

मानुष्यक^m- -कम् विदि,
११३; -कैः वृ ४, ३, ३३.

मनुष्य-काम- -मान् छां १,
७, ८; -मानाम् छां १, ७, ६.

मनुष्य-कृत- -तस्य मना २,
५९^s.

मनुष्य-गन्धर्व- -र्वाणाम्
तै २, ८, २^t.

मनुष्य-लोक^r- -कः वृ १,
५, १६^u; ३, १, ८; -कम् प्र ३, ७;
५, ३; वृ ३, १, ८; -कै गी १५, २.

मनुष्य-श्राद्ध- -द्धे नाप ४,
३८.

मनुष्या(ष्य-ञ्चा)दि-
-दीनाम् योचू ७२.

मनुष्या(ष्य-ञ्च)धिकार-
मनुष्याधिकार-त्व-

-त्वात् ब्रसू १, ३, २५.

मनुष्या(ष्य-ञ्च)श्व-गवा-
(गो-ञ्चा)दि- -द्विषु शु ३, २.

मन्तव्य- -व्यः वृ २, ४, ५; ४, ५,

६; ब्रवि ११; त्रिता ५, ११; अवि
११; गी ९, ३०; -व्यम् प्र ४, ८;
सुबा ५, ६; ९^v; ते २, ३६; -व्ये
सुबा ५; त्रिता ५, १७.

मन्तु- -न्ता प्र ४, ९; छां ७, ८-९,
१; वृ ३, ७, २३^w; मै ५, ७; मैत्रि
६, ७; ११; त्रिता ५, १; २आ २;
-न्तारम् वृ ३, ४, २; कौ ३, ८;
-न्तुः वृ ४, ३, २८; -न्तु वृ ३, ८,
११^x.

मन्त्र^y- -न्त्रः मैत्रि ६, १६; सुबा ६; ते
२, २; ३, ६०^z; ७०^{aa}; ७१; ७२^{ab};
७३; ६, २१; नाद ५; १योत ६४;
रार २, २७; ३८; ३९; ४१; ४८;
५४; ६२; ६४; ६५; ६७; ६८;
७०; ७४; ७६; ७७; ३, १^{ac}; रापू
१, ११; १२^{ad}; ४, २; ३; राउ ५,
५; ६; ११; २७; योशि १, १२९;
१३१; २, २०; अक्ष १६; म २,
४^{ae}; २८; जाद २, १६; गोउ १६;
ऊ ६३; २; नापू २, ३; १०; नाउ
३, ४; वृष ८४; १३; सार २४४;
३; शि १, २०; व ४६३ : २०;
तारा ८४; ११; अद्वैभा १०; पित्र
२, ३; गी ९, १६; -न्त्रम् मैत्रि
६, ९; पर्व ४; वृषू २, १७^{af}; ते
३, ५२; ७४; ५, १४; ५३; घ्या
६२; ६३; ब्रवि ६३; १योत २१;
नाप ३, ६^{ag}; ७^{ah}; ८६; योचू ३२;
३३; रार २, ४७; योशि १, ७०;
२, ५; ८; ६, ५४; अव्य ६; दे
१२; रुह २५; जाद ८, ३; गोपू
२९; वरा ५, १०; ७०; योरा ३;
इ १४; २०; सूता १, ३७; २, २०;
नापू ३, १८; सार २४६ : १७;
२७६ : ७; शि १, २१; ५, ४४;

a) धा. अर्थः ? =समयमानविशेष- । b) वैपश् यद्र. । c) खि १०, १९१, १५ । d) ऋ १०, ८३, २ ।

e) तैश्चा १०, २१, १ । f) ऋ १, १६४, ४५ । g) मा ३४, ६ । h) ऋ ३, २९, २ । i) तैश्चाश्चा १०, ६७ ।

j) सकृत् 'मानसेषु' इति आन. । k) पा ४, ३, १२० । l) 'मानवकः' इत्यपि पामे. । m) पा ४, २, ३९ । n) मा

८, १३ । o) सकृत् 'चक्रः' इति अच्चा. । p) ऋ १, ४०, ५ ।

हृष्टः। गोश २, १; मर २, १-१०; न्त्राः
 न्त्रस्य २, ४१; गम् ४, ११;
 गोश २, १; मर २, १-१०; न्त्राः
 प ६, ४; श्रौ ७, ४, १; २; ५, १;
 २६, १; नाना ४; ४ २; गोश
 ३, ७; अन्व २; पंरः ४ ३; १३;
 गौ १, ३; सु २, २, १२; ३ १०;
 २२; २०; १; २५ ३३; १०; १२;
 ३४; १०^५; नापू २, २; नाप १,
 १६; न्त्राणाम् श्रौ ७, ४, २;
 वृजा ६, १२; वृपू ५, १०; मर ३,
 १; रापू ४, ५; ६ १७; रुजा ३,
 १; २५ ३३; १०; नारा ८४; ८;
 ११; न्त्रान् श्रौ ७, ३, १; १४, १;
 रापू ४, ४९; ४ २; १२; नारा ८३;
 ९; न्त्राम्याम् सु १, ८; न्त्रेण
 जा ४; आरु ३; वृजा ३, ३; ९;
 १०; २०; २४; २६; २९; ५, १;
 ६, १; ५; ६; नाप ३, ७७; ६, १;
 ६ १; ४; ६; ९; ११; निमि ५,
 १२^३; रार २, ५३; राउ ३, ६;
 ५, १६; २५; सु १, ३; ४; ७^३;
 ८; ५५ ४१८; १२; ३२; मर ३, ३^३;
 ६; या १, १; मर २, १-१०;
 सूता ६, १०; शि ५, ३४; ताग
 ८४; १०; न्त्रेषु सुं १, २, १; श्रौ
 ७, ४-५, १; रार ५, १४; वृष
 ८५; १७; न्त्रैः वृजा २, ११;
 ४, १; वृपू २, २; ४, १४; १५, ३३;
 ४, १६; वृउ ३, ५; शु १, १६;
 श १५^५; रार १, ९; २, ३८;
 राउ ४-५, १; वा ३७; २ संन्या
 १५; १; त्रिता २, ७१; ७३; ४,
 १४; ३७; मर २, १; रुजा १, १;
 ता ३, १; का६; नार६; वि १०;
 शि २, २६; सिशि ३८३; ८;
 आथ ३९९; १८; २०.

मान्त्र-न्त्रम् शि ५, ३१.

मन्त्र-क- -कः गोत्रा ३, १५.
 (मन्त्र-कल्प- -ल्पः २५ ३६;
 ३३).
 मन्त्र-कृत- -कृतं ३ १६; २०.
 मन्त्र-कोटि- -त्रिसु (ग^५)
 त्रिता ३, ३४.
 मन्त्र-ग्राम- -ग्राम् ग २, १.
 मन्त्र-धन्ता- -न्ता मंत्रे २,
 २१.
 मन्त्र-जप- -पेन ग ४२३; १२.
 मन्त्रजपा(प-श्र)धिकरण-
 मन्त्रजपाधिकरण-न्या-
 याधिकरण-स्तोत्राधिकरण-
 पूजाधिकरण-भेषुनाधिकरण-
 णैः रा ४२३; ९.
 मन्त्रजपा(प-श्र)धिकार- -रः
 नाप ७.
 मन्त्र-जापिन्- -पिनः कालि
 ४०२; ३.
 मन्त्र-ज्ञ- -ज्ञः ह ५.
 मन्त्र-तन्त्र-व्यापार- -रः नाप
 ५, १; १ गंन्या २, ५९.
 मन्त्र-तन्त्रा(न्त्र-श्रा)दि-
 संग्रह- -हम् तै ५, ८२.
 मन्त्र-तत्स(ः) वृजा ३, ८; त्रिता
 २, १६.
 मन्त्र-तारक- -कम् विद्या १.
 मन्त्रतारक-ब्रह्मन्- -ह्य
 विद्या १.
 मन्त्र-देवता- -तानाम् तारा
 ८४; ८.
 मन्त्र-द्वय- -यम् रापू ४, ५५;
 -येन नापू ३, ५.
 मन्त्र-नायक- -कः सिशि
 ३८२; ८.
 मन्त्र-पद- -दानि व ४३५; १६;
 -वैः रुह २४.
 मन्त्र-पाठक- -कस्य श्या १७.

मन्त्र-पारायण-
 मन्त्रपारायणिन्- -णी पारा
 १३.
 मन्त्र-पूत- -तम् म १, १०; ३
 १३; ६; -नैः त्रिभि ६, २५.
 मन्त्र-शक्त- -क्तः १५.
 मन्त्र-भेषज- -जैः गोश १,
 ६१.
 मन्त्र-मय-
 मन्त्रमय-शरीर- -रम् त्रिभि
 ६, २१.
 मन्त्र-मातृ(ः)का- -०के
 अक्ष १५.
 मन्त्र-यन्त्रा(न्त्र-श्रा)क्य-
 गायत्री-प्राण-स्थापन- -नम्
 त्रिभि ७, ४८.
 मन्त्र-यन्त्रा(न्त्र-श्रा)दि-
 किलिप- -पैः सूता १, ४२.
 मन्त्र-योग^{१०}- -गः १ योत १०;
 गोश १, ५३२; योरा १; ४;
 -गात्र गोश १, १३२.
 मन्त्र-रत्न- -त्नः ह ३.
 मन्त्र-रहस्य-श्लोक- -काः द १.
 मन्त्र-रहित- -तम् नाप ३, ७.
 मन्त्र-राज- -जः द १३; रार २,
 १; ७-९; २५; ४०; ५०; ५, १; राउ
 ५, ६; दता १, ५; नापू २, ३; -जम्
 वृपू १, २; २, १^३; ५, ८; १२-१८;
 राउ ५, ४; कालि ४०१; १२;
 ४०२; ५^३; ४०३; १७^३; वृपू १, ४^३;
 ५; ६^३; ३, २; वउ ५, ३; ५; १६;
 २०, -जस्य वृपू ३-४, १; ५, १;
 ११; वउ ६, २; -जाय व ४६३;
 २०; -जेन वृउ २, ११.
 मन्त्रराज-क- -कः रार २,
 १०५.
 मन्त्रराज-जापक- -कस्य
 वउ ५, २७.

a) 'मन्त्रः' इति गोत्रा १, १, २४। b) 'अङ्गीकरोत्' इति निसा. संटि., अख्या.। c) 'न्त्रः क° इति गोत्रा १, १, २७। d) पा. १ यनि. शोधः द.। e) =योगप्रभेद-। f) 'न्त्रं बी° इति तान्त्रि.।

मन्त्रराजा(ज-आ)त्मक-
-कम् ह ९.
मन्त्रराजात्मक-स्तव-
-वम् रार १,९.
मन्त्रराजा(ज-आ)ध्यापक-
-कस्य वृपू ५,२०; -केन वृपू
५, १९.
मन्त्रराजा(ज-आ)र्ण- -र्णान्
रापू ४,५१.
मन्त्र-रूप- -पा: नापू ५,४.
मन्त्र-वर्ण- -र्णात् ब्रसू २,३,४४.
मान्त्रवर्णिक- -कम् ब्रसू १,
१,१५.
मन्त्र-वर्ष- -र्ष: सिशि ३८२:७;
-र्षे सिशि ३८२:६; ३८३:८.
मन्त्र-विद्- -वित् छां ७,१,३;
अना २२^६; वृजा ३,२४;३०; इ
१४: २३.
मन्त्र-विभाग- -ग: कालिष्ठ ०१:
१२^७.
मन्त्र-शक्ति-नियामक- -कम् पं
१०.
मन्त्र-शास्त्र^{१०}-
मन्त्रशास्त्र-क^{१०}- -कम्
नापू ५,३८.
मन्त्र-संयुक्त- -कै: चू १३.
मन्त्र-संस्कार-दग्ध- -ग्धम्
वृजा ५,७.
मन्त्र-संस्तुत्य- -स्तै: मन्त्रि १३.
मन्त्र-सत्कृत- -त्तम् शि ५,३.
मन्त्र-साफल्य- -ल्यम् कालि
ष्ठ ०३: १४.
मन्त्र-सा(र>)रा- -रा अञ्ज
१, ६.
मन्त्र-सिद्ध- -द्धा: राउ ३,७.

मन्त्र-सिद्धि- -द्धये वरा ५,७०;
-द्धि: रा ४२३: ११;१२; -द्धे:
१कौल ४: २.
मन्त्र-स्नान- -नम् शि ५,३३.
मन्त्र-हीन- -नम् गी १७,१३.
मन्त्रा(न्त्र-आ)दि- -दिते २,३४.
मन्त्रादि-वत् ब्रसू ३,३,५६.
मन्त्रादि-साधन- -नम्
१योत ३०.
मन्त्रा(न्त्र-आ)नुष्ठान- -नम् अञ्ज
१,८.
मन्त्रा(न्त्र-आ)न्तर- -रम् नाप ३,
७७.
मन्त्रा(न्त्र-आ)भ्यास- -स: जाद
२,११.
मन्त्रा(न्त्र-आ)भ्रेडन- -नम् द
१५^६.
मन्त्रा(न्त्र-आ)र्ण- -र्णान् त्रिता
२,१३; -र्णै: रार २, १२; २३;
२९;३६;५५.
मन्त्रा(न्त्र-आ)र्थ- -र्थ: अद्वैभा
१०; -र्थम् मैत्रि ६,३४; रार ४,
५; -र्थेन वउ ६,३४.
मन्त्रार्थ-चिन्तन- -नम् भव
५,१८.
मन्त्रा(न्त्र-आ)वृत्ति- -त्तिम् नाप
३,५.
मन्त्रावृत्ति-विधि- -धि:
नाप ३,८.
मन्त्रा(न्त्र-आ)श्रय- -य: द्व ५.
मन्त्रा(न्त्र-आ)सन-ग(त>)-
ता- -ताम् त्रिता २,२५.
√मन्त्रि,मन्त्रयस्व नाप ४,३८;
१संन्या २, १२; मन्त्रयेत् वृजा
३, ३१.

*मन्त्रया-
*मन्त्रयां/कृ, मन्त्रयां-
चक्राते वृ ३,२,१३.
मन्त्रित- -तम् वृजा ५, १;
६, ५.
मन्त्रिन्- -न्त्रिण: रापू ४,३;
-न्त्रिणा रापू १, ११; -न्त्री रार ४,
७; रापू ४, ४४; ४९; महा ५,
७९.
मन्त्रो(न्त्र-उ)त्तम- -म: श्या ५.
मन्त्रो(न्त्र-उ)पनिषद्- -षदम्
मन्त्रि १०; चू १०.
मन्त्रो(न्त्र-उ)पासक- -क: ना
४; आवो १.
मन्त्रौ(न्त्र-औ)षध-गरा(र-आ)-
शिस- -शिष: नाप ४,६.
मन्त्रौ(न्त्र-औ)षधा(ध-आ)ज्या-
(ज-आ)मिष-पुरोडाश-स्था-
लीपाका(क-आ)दि- -दिभि:
मैत्रि ६,३६०.
मन्यमान- -न: सुं ३,२,२; मै १,
१; ३,२; मैत्रि १,२; ३,२; ६,
३०; मैत्रे १,१; वृउ ८,५; अव्य
४; कुं २७; वरा २,३७; आर्षे
७: २; वा ७; -ना: सुं १, २,
१०; वृ ३,९,२६.
मन्यु^१- -न्यवे मना २,६२^६; -न्यु:
मना २, १५^६; ३१^६; ३२^६;
६२^६; ८०^६; व ४५९: १७;
४६०: १^६; ४६१: ३^६;
४६४: २०^६; चू १२^०; कश्चु ३,
२^६; -न्युम् व ४५९: २०; ४६०:
२^६; -०न्यो मना २, ६२^६; व
४५९: २१^६; ४६०: २^६; ३^६;
५^६; ८^६; १०^६; १३^६; १५^६;

a) 'मन्त्र' इति श्रान. । b) 'मन्त्रं विदध्यात्' इति तान्त्रि. । c) =विद्याविशेष- । d) मन्वा^१ इति
श्रब्धा. । e) °ज्यमिव पुरो^० इति सात. । f) =क्रोध- वा तदधिष्ठातृदेव- वा । वेपश् यद्र. । g) तैश्चात्रा १०,६२ ।
h) तैश्चा १०,१४,१ । i) तैश्चा १०,२४,१ । j) तैश्चा १०,२५,१ । k) तैश्चात्रा १०,६२^१ । l) तैश्चा १०,६४,१ ।
m) ऋ १०,८३,२^१ । n) ऋ १०,८४,७ । o) 'मृत्युः' इति श्रान. संटि. । p) शौ ११,८,१ । q) ऋ १०,८३,२ ।
r) ऋ १०,८३,१ । s) ऋ १०,८३,३ । t) ऋ १०,८३,४ । u) ऋ १०,८३,६ । v) ऋ १०,८४,१ ।

१०५^१: १०५^२: २१५^३: ४६१:
 २५^४: -न्यो: व ४^५: १६:
 मन्धु-कृत- -नोभ्य: मना २,
 ३१५^६: ३२५^७.
 मन्धु-पति- -तय: मना २,
 ३१५^८: ३२५^९.
 मन्वान - -न: श्रौ ७, १५, ४: २५,
 २: वृ १, ४, ७: ४, ३, २८: -नस्य
 श्रौ ७, २६, १.
 १मान- -नम् नाद ५४: दला १, ६:
 गार २२^{१०}: ६: -नेन गार २७४:
 १४.
 मान-तम् (>:) पाशु २, ४२.
 मान-रूप- -पम् वग २, १४^{११}.
 मान-लीला- -ल्लायाम् गार
 २२६: ११: २८^{१२}: ४.
 मान-व्र(त >)ती-
 मानवत्या(ती-आ)दि- -द्वय:
 सार २२^{१३}: ६.
 मान-वर्जित- -त: ते ४, ७०.
 मान-स्थान- -नम् सार २२^{१४}:
 ५: -ने सार २२६: ७: १३.
 माना(न-अ)पकरण- -णम् गार
 २२६: ८.
 माना(न-अ)पमान- -नयो: गी
 ६, ७: १२, १८: १४, २५.
 माना(न-अ)वमान- -नयो: ते
 १, १४^{१५}: -ने नाप ३, ८६: पहं
 २^{१६}: -नौ शा १८.
 मानावमान-हीन- -न: मैथे
 ३, ४.
 मानिन्- -नी क १, २, ६.
 मानिनी^{१७}- -नी त्रि ६.

मान्य- -न्यानाम् मैत्र १, २^{१८}.
 मान्य-स्थान- -तम् गार २२७:
 २२.
 १मनस- √मन्, प्र.
 २मनस^१-
 मन-शिला^२- -लाम् शि ६, ६^३.
 मनाक^३ मना २, ४८: ४, ११७: पञ
 २, ३५: ४३: ४, ५५: ९२: श्या
 २^४: १८.
 १-४मनु- ,मनुज- ,मनुष्य- , मनुस- ,
 मन्तव्य- , मन्तृ- , मन्त्र- ,
 *मन्त्रया- , √मन्त्रि, मन्त्रित- ,
 मन्त्रिन्- √मन्, प्र.
 १मन्त्री^५ त्रि ५.
 √मन्थ
 मन्थ- -न्थम् श्रौ १, २, ४: ६: व ६,
 ३, १: -न्थे श्रौ १, २, ४: ५^६: व
 ६, ३, २^७: ३^८.
 मन्थन- -नम् श्रौ १, ३, ५.
 मन्थयितव्य- -व्यम् श्रवि २०:
 अवि २०^९.
 मन्थान^{१०}-
 मन्थान-भूत- -तेन श्रवि २०:
 अवि २०.
 √मन्द^{११} (*वधा.)
 १मन्द^{१२}- -न्दम् शि ७, १२४:
 -न्दम्-न्दम् जाद ६, २५.
 मन्ध- -न्धम् ते ४, २४:
 अञ ४, १३.
 २मन्द^{१३}- -न्द: क १, २, २: -न्दात्
 गी ३, २५: -न्दानाम् सांघ १, ६८.
 मन्द-पवन- -न: महा २, २६.
 मन्द-बुद्धि- -ह्वय: शि १, ३.
 मन्दबुद्धि-विमुक्तय-
 (क्ति-अ)र्थ- -र्थम् शि १, ४.

मन्द-बुद्धि-मति- -ति: वि४^{१४}.
 मन्द-वायु- -व्यु: वजा ६, १.
 मन्दाब्द- -प्रादि-पवन-युक्त-
 -क्तानि राधा ३, ८.
 मन्दा(न-अ)निक- -न्या: अञ
 २, ४३.
 √मन्दाय, मन्दायते ३१५: २२
 १मन्द्र^{१५}-
 मन्द्रा- -न्द्रा ये १५^{१६}: १६^{१७}:
 गार २, ७५^{१८}: ८५^{१९}.
 √मन्दि, मन्दिषते अरु २८५^{२०}.
 २मन्द्र- -न्द्रम् गौत्रि ७, ११: शौ
 ५२: ४५^{२१}: -न्द्रेण शौ ५२: ३.
 मन्द्र-मध्यम-तार-ध्वनि-
 -निभि: पाप ४१८: २६.
 मन्द्र-मध्यम-तालज-ध्वनि-
 -निभि: नाप ४, ३८^{२२}.
 मन्दाकिनी^{२३}- -नी ग ११.
 मन्दार^{२४}-
 मन्दार-निकुञ्ज- -ञ्जा: गार २२५:
 ९: -ञ्जे गार २२६: १३.
 मन्दार-पारिजात-पुष्प- -ष्पाणि
 गार २६४: १९.
 मन्दार-पुष्प- -पै: गार २, ४४: रा
 ४२५: ९.
 मन्दार-वृक्ष- -क्षा: गार २२^{२५}: ६:
 २३३: १४: १७.
 मन्दारा(र-आ)दि- -दिभि: सूता
 ४, ८.
 मन्दिर^{२६}- -रम् गार २२८: ७: २३७:
 १३: २६४: १३: २६८: १६:
 २७१: १०: -राणि गार २२२:
 १८: २२३: ६: १५: २३७: ५:

a) ऋ १०, ८४, ३ । b) ऋ १०, ८४, ४ । c) ऋ १०, ८४, ५ । d) ऋ १०, ८४, ६ । e) तैश्चा १०, २४, १ । f) तैश्चा १०, २५, १ । g) भा° इति श्रद्ध्या । h) °पमा° इति श्रान. । i) °पमानम् इति श्रान. संटि., श्रद्ध्या । j) तु. टि. मदनिका- । k) अन्या° इति श्रद्ध्या । l) व्यु. अर्थश्च ? । m) व्यु. ? = अर्थश्च । n) निम्ना. श्रद्ध्या. च पा. ? 'अत्र' इति शोध: द्र. (तु. तान्त्रि.) । o) 'मन्थ भङ्ग' इति श्रान. ? यनि. शोध: द्र. (तु. नापू., श्रान. संटि., श्रद्ध्या.) । p) विप. । धा. आलास्ये वृत्ति: द्र. । q) वा. क्वि. द्र. । r) विशेषि. । s) °न्दं बुद्धिर्मे° इति पा. ? यनि. शोध: द्र. । t) वैप १ यद्र. । u) ऋ ८, १००, ११ । v) ऋ ८, १००, १० । w) तैश्चा १, २७, ४ ।) °तारध्वनिभि: इति श्रद्ध्या. । y) व्यु. ? = वियद्गङ्गा- । z) व्यु. ? = वृत्तविशेष- । a') व्यु. ? = गृह-

२६७ : १^६; २८४ : ३; ४; - रेखु
सार २२३ : ८; १३; १४; १६^६;
१९; २७४ : ८.

१-२मन्द्र-; √मन्द्र √मन्द द्र.

मन्मथ^{१२} - -थम् श १३.

मन्मथ-कला(ला-आ)दि- -दिः
काम ८.

मन्मथ-क्षेत्रपाल- -लाः निर्वा
२९७ : २.

मन्मथ-बीज-युक्त^b - -क्तम् त्रिवि
७, ३९.

मन्मथ-मनो(नस्-उ)न्मादि(न्>)-
नी- -०नि व ४३६ : २१.

१मन्मन्त्रम्^० तारा ८४ : ८.

मन्यमान-; मन्यु-, मन्वन्तर-,
मन्वान- √मन् द्र.

*१ममर्- अस्मद्- द्र.

*२ममर्- निर्मम- टि. द्र.

१-२मय्- अस्मद्- द्र.

मयस्^d-

मयस्-विन्- -वि वा ३.

मयो-भू- -भुवः मना १, ११९^०;
-भूः वृ ६, ४, २७९^०;

मयूख^e- -खाः मैत्रि ६, २६; ३१; -खे
मैत्रि ६, ३५; सावि १०.

१मयूर^d- -रम् शि ६, २०८.

मायूर- -रम् ध्या १०३.

२मयूर^{१२}- -रम् वरा ५, १५.

मयूरा(र-आ)सन- -नम् त्रिबारा,
४८; शां १, ३, ११; जाद ३, १; ११.

मयूर-कोकिल-हंस-सारस-विहगा-
(ग-आ)घ- -घाः सार २६८ : १.

मयूर-पिक-हंस-सारस-युत- -ताः
सार २६९ : १६

मयूर-पिच्छ(च्छ^१)-हिरस- -राः
राधा १, १७.

मयूर-वत् त्रिबारा २, ४७.

मर- √मृ द्र.

मरकत^{१३}-

मारकत- -तम् सिशि ३८३ : १.

मरकत-गुम्फित- -तानि सार
२४४ : २०.

मरण- √मृ द्र.

मरि(>री)च^{१४}-

१मारीच- -चम् शि ६, ७३.

मरिचा(च-आ)ह^१- -हेन शि ६, ७३.

१मरीचि^e- -चयः प्र ४, २; ऐ १, १; छां
२, २१, १; ३, १, १; मैत्रि ६, ३१;
अरु ११९^m; -चीः ऐ १, १; व
४६४ : १६९^२.

मरीचि(क>)का- -का योशि ४,
२३.

२मरीचि^{१०}- -चिः गी १०, २१.

३मरीचि^{१०}-

२मारीच^१- -चः व ४६५ : ९.

मारीच-क^१- -कः व ४४४ : १३.

४मरीचि^{१०}-

मरीच्या(चि-आ)दि- -दयः सं ४.

५मरी(चि>)ची^{११}-

मरीची-यायिन्- -यिनाम् गु १५.

मरु^{१२}- -रुषु महा ३, ६; -रौ योशि ४,
१८.

मरु-भू-मात्र- -त्रम् महा ४, ८४;
वरा २, ७२.

मरु-भूमि- -मौ महा ४, ८४; वरा
२, ७२.

मरु-मरीचिका- -का ते ६, ७३.

मरु-शुक्तिका-स्थाणु-स्फटिका-

(क-आ)दि- -दौ पै १, ४.

मरु-स्थल- -ले योशि ४, १५; अज
१, २०.

१मरुत्^१- -रुत् ते ५, १०२; योशि

६, ७१; यो १, १५; १६; -रुतः

छां ३, ९, १; वृ १, ४, १२;

मैत्रि ७, ३; अ १; वृषु २, २;

सुबा ६; वृड ३, ५; नाप ४, ३८;

त्रिबारा २, ११३; योशि १, १२४;

गोड २६; गार ४०८ : ७; गी ११,

६; २२; -रुतम् योचू १०७; -रुता

ध्या ६६; त्रिबारा २, ६५; योचू ३८;

-रुताम् छां ३, ९, ३; ४; १योत

२६; त्रिबारा २, ८८; नी ३, ४; गी

१०, २१; -रुद्धिः मना १, ११९^५;

अरु ५९^५.

मारुत- -तः मैत्रि ७, ११; अना

३८; शां १, ४; ७, ९; ४०;

महा ५, ११९; योशि १, ३०; यो

१, ७५; वरा २, ८०; सार २९१ :

७; भव २, ३९; गी २, २३; -तम्

मैत्रि ७, ११; अता १९; ध्या

७०; १योत ९६; त्रिबारा २, १४०;

१४२; शां १, ७, ५०; योशि १,

८२; यो १, ३३; जाद ६, २९; ७,

६; -तस्य वरा २, ८०^१; -ते शां

१, १०.

मारुत-क्षय- -ये वरा ५, ५.

मारुता(त-आ)त्मज^१- -०ज

सु १, १, १२.

मारुति^१- -तिः सु १, १, ४; २,

१; २, १, १; -०ते सु १, १, ४९;

२, २, २४; ६३; ७१.

मरुज्-जय- -यः योशि १, ८०.

a) व्युः? =कामदेव- । b) पूष. बीजाक्षर-विशेष- । c) पा.१ 'मतं तं मन्त्रम्' इति शोधः द्र. ।

d) वैपश् यद्र. । e) ऋ १०, ९, १ । f) ऋ १, १६४, ४९ । g) =किरण- । वैपश् यद्र. । h) =आमनविशेष- । i) पा.१

यनि. शोधः द्र. । j) व्युः? =मरिचिविशेष- । k) व्युः? =मिरच- । l) उप. =परिमाणुविशेष- । m) तैआ १,

२७, २ । n) तैआ ४, ३९, १ । o) व्युः? =मरुद्देवताविशेष- । p) व्युः? =राक्षसविशेष- । q) व्युः? =प्रजापतिविशेष- ।

r) व्युः? =अप्सरोविशेष- । s) व्युः? । t) =वायु- वा तदधिष्ठातृदेव- वा । वैपश् यद्र. । u) ऋ ३, ४७, २ । v) ऋ १०,

१५७, ३ । w) म^० इति अज्या. ।

२५^a; २, १३, २५^b; ब्र२^o; ३, १२;
 ते २, २१; ५, ९९; १०१; वृ७ ५,
 ३; लु १०; सुबा १३; ध्या ४०;
 त्रिवि २, १४; नाप ५, १; त्रिब्रा
 १, ३; मं १, ३, ४^d; २, ३,
 ३; श २४; शां १, ७, ३^o; पै ३,
 १; महा ६, ८१^f; योशि १, ७९^g;
 अव्य ७; अन्न १, ४०; अध्या
 ६५; त्रिता ५, २०; रुजा २, ६;
 ८; गोल ४०; ब १५; इ ११:३;
 २प्र३३: ६५^h; ३६:७; सुता १,
 ३७; २, २०; गु ६२ⁱ; रा ४२४:
 ४; ४२५: १३; शि २, १६; ३,
 १४; ४, ११; ६, १०४; २४१;
 २७९; गी १, ४५; ११, २३;
 १४, ४; -हत्त: क १, २, २०^j;
 ३, ११; १५; २, ३, ७; छां ६, ७,
 ३; ५; ११, १; वृ २, ४, १०;
 ४, ५, ११; श्वे ३, २०^k; मना
 १, १^l; २, १२, १^m;
 मैत्रि ६, ३२; सुबा २; नाप ९,
 १३ⁿ; १८; त्रिब्रा १, ३; श
 १८^o; त्रिवि २, १४; ७, १७;
 शां ३, १^o; पै ३, ४; महा ३,
 २०; ४, ७१^p; गोल ४०; त्रि ७;
 यो ३, ३५; नाउ १, ७^q; पा ९,
 ३^r; २शिंसं १०; शि ६, १४९;
 २२१; २२३; गु ४२; सांसू १, ६१;
 ६, ६६; गी २, ४०; -हत्ता गर्भ४;
 ते १, १९^s; शि ६, १८८; गी ४, २;
 -हत्ताम् सुबा १५^t; योचू १०७;
 अव्य २; अन्न १, ५४; -हत्ति क
 १, १, २९; ३, १३; ऐ २, १;
 अशि ४, १३^u; २४; सुबा २;

नाद ३६; पै ३, १; वट्ट ३१६:
 ५; १६; शि ४, ६३; ६, २७१;
 निरु २, ५; गी १, १४; -हत्ते
 मना २, ५^v; गोपू ४२; चा १०;
 सार २५७: २३; २७५; १९;
 -हत्ति: ते ५, ८७; अन्न १, ५१;
 शि ७, ९९; -हान् क १, ३, १०;
 २, ३, ७; तै ३, ६, १^w; ७-९,
 १^x; १०, ३; छां २, ११-२०,
 २^y; वृ ४, ४, २०; २२; २४;
 २५; श्वे ३, १२; कै २, १; मना
 १, १०^z; २, १३, २५^{aa}; कौ १, ७;
 बृजा ६, १२; वृपू ५, १०; वृउ
 ४, ४; ५, १; २; सुबा २; ते ३,
 १७; ४, ६३; ५, १०२; नाद ३३;
 ब्रवि १०२; योचू ११५; श ५;
 अता ११; रापू २, २^{ab}; राउ १,
 २; ५, ४; पै ४, २३; महा १, १^{ac};
 ४, २६; ५, ८७; अव्य २; अक्षि
 १; पाशु २, २१; प्रा २, १^{ad};
 रुजा ३, १; च २१:३; शौ ५१:
 ९; सार २४०: १९; २४१:५;
 शि ७, १२३; सिशि ३८०:११;
 गु ४१; वउ २, १२^{ae}; ३१; भव
 १, ३९; सांसू १, ६१; सांका
 २२; गी ९, ६; १८, ७७; -हान्त:
 नाप ५, १०; त्रिवि १, २; महा
 ४, २०; अन्न ४, २४; -हान्तम्
 क १, २, २२; २, १, ४; वृ ४, २,
 १; छां ४, ३, ७; श्वे ३, ८^{af}; १९;
 मना १, १^{ag}; २, ५२^{ah}; काला ८^{ai};
 वृउ ६, १; सुबा ११^{aj}; १५; नाप ९,
 १४; १५; १८; त्रिवि ४, ५^{ak}; महा
 ४, ७१^{al}; जाद ४, ६२; पा ७, ५^{am};

२शिंसं १५^{an}; २८^{ao}; वउ ४, ३०;
 भव २, ४६; -हान्ति त्रिब्रा २,
 १३३; जाद ६, ४५; शि २, २१.
 महती- -ती के २, ५; वृ ४,
 ४, १४; मैत्रि ६, ६^{ap}; नाद ११^{aq};
 त्रिब्रा २, ११२; रुजा २, ९; गार
 ४०८:१०; -ती: मै ५, ६^{ar}; -तीम्
 मै १, ५; मैत्रि १, ४; वृपू ३, २; ३;
 ४, १२; गु ५१; वपू २, २^{as}; गी १,
 ३; -त्या वउ ६, ४५; -त्यै त्रि १२.
 महच्-छन्द- -ब्दा: वउ ३, २८;
 -ब्दै: वउ ३, ५७.
 महच्-छैले(ल-इ)न्द्र-नील-
 -लम् ते ६, ८५.
 महत्-त्व- -त्वम् गु ७; वउ
 ४, १०.
 महत्तत्त्वा(त्व-अ)भिमान-
 महत्तत्त्वाभिमानिन्-
 -नी पै १, १२.
 महत्-तम- -म: पाशु २, १६.
 महत्-तर, रा- -०र अन्न ५;
 -रम् मैत्रि ७, ११; त्रिवि ७, १७;
 -रा त्रि १.
 महत्-ता- -ताम् छां ७, ६, १^{at}.
 महत्-त्व- -त्वम् ते ६, २७; त्रिता
 १, २८; -स्वात् वउ ७, २; ९^{au}.
 महत्त्वा(त्व-आ)दि-गुण-
 -णै: महा ६, ७४.
 महत्-पद- -दम् महा ५, ३६;
 राधा १, १३.
 महत्-संसार- -र: ते ५, ९०.
 महद्-अहंकार-पृथिव्य(वी-अ)-
 प्-तेजो-वाय्वा(यु-आ)काश-
 महद्अहंकारपृथिव्यसेजोवा-
 य्वाकाश-त्व- -त्वेन नि १२.

a) तैआ १०, १, २ । b) तैआ १०, ११, २ । c) 'विदुः' इति निसा । d) °हा° इति निसा ।
 e) 'भवेत्' इति अच्ञा । f) 'महः' इति अच्ञा. संदि. । g) 'परम्' इति आन. । h) =व्याहृतिविशेष- । i) मा
 ३२, ३ । j) तैआ १०, १०, १ । k) तैआ १०, १, १^o । l) °हताम् इति अच्ञा । m) °तीम् इति अच्ञा । n) °हस्ति
 इति निसा. यनि. शोध: द्र. (तु. अच्ञा.) । o) तैआ १०, ४, १^p । p) तैआ १०, १, १० । q) °हा° इति आन. । r) तु. सस्व.
 गपू. पृ१००g । s) मा ३१, १८ । t) तैआ १०, १, १। u) ऋ १, ११४, ७ । v) 'महतीः' इति सात. । w) =मात्राविशेष- ।
 x) °हत्तः इति निसा. यनि. शोध: द्र. । y) आत्वाभावः उर्स. (पा ६, ३, ४६) । z) °त्वम् इति BCH. ।

महद्-अहंकृति-तमम्- -मोभिः
 त्रिभि ६, ३.
 महद्-आ(कृत्वा)क्य- -क्यम्
 गांसु १, ७१; -क्या पि १, ११.
 महद्-आदि- -दि वरा ३, १५;
 सांका ८; -देः गांसु २, १२९.
 महदादि-क्रम- -मेण सांसु
 २, १०.
 महदादि-विशेषभूत-
 पर्यन्त- -न्तः सांका ५६.
 महदादि-समष्ट्या(प्र-आ)-
 कार- -रम् त्रिभि ६, ३.
 महदादि-सूक्ष्म-पर्यन्त-
 -न्तम् सांका ४०.
 महद्-आण, घा- -णम् मौलि ६,
 १०; -घाः गोल ६७; १४;
 सांका ३.
 महद्-आनन्द^b-
 महदानन्द-दायक- -कः दे
 १४.
 महद्-आनन्द^a- -न्दम् वरा
 २, ६२.
 महद्-उपराग- -गात् गांसु २,
 १५.
 महद्-दीर्घ-
 महदीर्घ-वत् ब्रम् २, २, ११.
 महद्-देह- -हाः वज ३, २७.
 महद्-द्युति-कर- -राय मना
 १, ७५^d.
 महद्-ब्रह्मन्^c- -ह्य गी १४, ३.
 महद्ब्रह्म-वैव(त्य)त्या-
 -त्या अ १°.
 महद्-भय^e- -यम् क २, ३, २.
 महद्-भूत- -तम् वृ २, ४, १२.
 महद्-वत् ब्रम् १, ४, ७.
 महद्-वृप् १, १३^b; रार २, ६२^b.
 मह(हा-आ)स्विज्- -स्विजः

पा ४, १.
 मह(हा-क)पि- -पयः वरा
 १२, गे ४, ३; २; २५३६; ७, पि १
 ४, ९; गी १०, २; ३; -पिः पि ३,
 ४^b; ४, १२^b; मना २, १२,
 ३५^b; अ २, ६; -पिभिः गी ५,
 ४; गाप् ५, ३; गाप् ४, २; ५;
 -र्षाणाभू गी २०, गां १०, २; २५.
 महपि-वेण- -यम् गं १,
 ३, ६.
 महपि-स्विह-संघ- -घाः
 गी १२, २१.
 महा-कर्म^f- -रम् म २, २,
 १६.
 महा-कर्तृ- -र्ता अथ १, १८.
 महा-कल्पा(प-अ)न्तरो-
 (२-अ)ह्य- -त्रः म २४.
 महा-कल्पा(त्य-अ)भ्यु-
 -भ्युना वरा २, ३६.
 महा-काय- -यः २ योत १, २.
 महा-कारण- -णं नृउ ३, १०
 महा-कारुण्य-रूप-
 महाकारुण्यरूपि(र्-अ)-
 णी- -णीम् दे १६.
 महा-काल^g- -लः शि १, ४;
 गु ७७; षो २; -लान् शि ७,
 १३१; -लाय पारा ३; ८; -ले
 शि ६, १८९.
 महाकाली^h- -लि
 व ४३६; १८; २०.
 महाकाल-प्रि(थ)या-
 -ये हंपो ५; १६.
 महाकाल-भैरव- -वः
 कालि ४०३; ११.
 महा(हा-आ)काश- -शः अक्र
 ५, ७७; -शम् मं १, २, १३; ४,
 २; ३; अता ७; -शो अध्या ७;

वरा २, ५०.
 महा-कुण्डलि(र्-अ)नीⁱ-
 -नी त्रिवा १, २१; -नीम् त्रिवा
 १, ७५.
 महा-कुल- -ले वरा ४, ४०.
 महा-कुल्या- -त्वे व ४५८;
 १९.
 महा-क्रीडा- -डायम् सार
 २८८; ९.
 महाक्रीडा-पर- -रे सार
 २८६; १०.
 महाक्रीडा-सुख-द-
 -दाय गार २६१; ९.
 महाक्रीडा-स्थान- -नम्
 गार २८१; १८.
 महा-क्षेत्र- -त्रे योशि १,
 १३६.
 महा-क्षेम- -मम् व ४३६; २.
 महा-क्षोभ- -भम् वं
 ३११; ४.
 महा-खग- -गः त्रिभि १०;
 योचु ४८; वरा ५, ६.
 महा-खर- -रः तं ६, ९२;
 ९३.
 महा-ख(र्-अ)ला- -लाम्
 वृत्रा ३, १.
 महा-गण- -णेन व ४३४;
 २१.
 महा-गणपति- -तथे व
 ४५६; ५.
 महा-गति- -तयः पित्र १,
 १; ५.
 महा-गरुड^j- -ड गरु १०;
 व ४६५; ६; -डः गरु २; -डाय
 गरु १०.
 महा-गुण- -णम् शि ६,
 २८१; -णाः महा ४, १७.

a) आत्वाभावः उसं. (पा ६, ३, ४६) । b) कस. । c) बस. । d) °हाद्यु° इति तैश्चा १०, १, ७ ।
 e) ब्रह्मदे° इति आन. । f) कस. बस. च पूष. पुंवद्भाव आत्वं च द्र. (यक्र. पा ६, ३, ३४; ४२; ४६) । g) मन्त्रान्तर्गतयोः
 पदयोः पूर्वांशः द्र. । h) तैश्चा १०, १०, ३ । i) =वैसं. । उप. =३काल- ।

महा-गुहा(१हा^०)-
-ह्या(१हा^०)म् योशि ५,६०.
महा-गृह- -हम् महा ३,
२८.
महा-ग्रास- -साय अशि
३,८; श २३; ३१; च २१;
२१; वट्ट ३१५: ७.
महा(हा-अ)क्कुश-मुद्रा^१-
-द्रया त्रिता २,६०; -द्रा आथ
३९४: १६; ३९८: ४.
महा-चक्र^१- -क्रम् वृपू५, १;
२; ८^१; १०; त्रिवि ७, ३; ६; योशि
१, १७३; ५, ९; वृष ८४: ७;
८५: २; -क्ते योचू १३.
महाचक्र-नायक- -कम्
त्रिता २, ३५.
महा-चमस^{१b}-
माहाचमस्व^{१b}- -स्य: तै
१, ५, १^०.
महा-चय- -य: नाप ४,
२७.
महा-चित्- -चित् अन्न ५,
५५.
महाचित्-स्व- -स्वात्
वृत् ७, २.
महा-चीन-
महाचीन-गुरुकपाल-
पञ्चमुद्रा-विराजि(त>)ता-
-ता तारा ८३: १९.
महा-चैतन्य- -न्य: वृत्
२, ३.
१महा-च्छत्र^d-
महाच्छत्र-चामरा(र-आ)-
दि- -दिभि: सुमु १७^{१०}.
२महा-च्छत्र^d- -त्रम् शि ६,
१३८.
महा-जन- -नेषु नाप ६, ३.

महा-जलौ(ल-ओ)घ-
महाजलौघ-मत्स्य-बुद्-
बुदा(द-अ)नन्त-सङ्घ-
महाजलौघमत्स्यबुद्-
बुदानन्तसङ्घ-वत् त्रिवि ६, ७.
महा-जाग्रत्^{१d}- -ग्रत् महा
५, ८; १३^{१५}.
१महा-ज्ञान^e-
महाज्ञान-पद- -दम् द
१३.
महाज्ञान-प्रद- -दाय
दत्ता २; व ४५६: ८.
२महा-ज्ञान^f- -ना: गौष्ठ, ९५
महा-ज्ञेय- -य: ब्रवि १०२^{१b};
-यम् मना २, १३, १५^१.
महा-ज्वाला-मणि-
महिषो(ष-उ)परि-स्थि-
(त>)ता- -०ते व ४३१: २०.
महा(हा-अ)ट्टहास-धवली-
कृत-दिग्-अन्त(र>)रा-
-०रे व ४३१: १२.
महा-तन्त्र- -न्त्राय व
४६३: १९.
महा-तपस- -पा: १योत २;
१३०; २योत १, २.
महा-तल^१- -लम् राधा १, ४.
महातल-लोक-ज्ञान-
-नम् शां १, ७, ५२.
महा-तीर्थ- -र्थम् जाद ४,
५३.
१महा-तेजस्^e-
महातेजो-मय- -यम्
सार २७१: ११.
२महा-तेजस्^e- -जा: शु १,
१; महा २, १.
१महा(हा-आ)त्मन्^०-
महात्म-वत्- -वान् नाद

१३.
२महा(हा-आ)त्मन्^f-
-०त्मन् अन्न ४, ९१; गी ११,
२०; ३७; -त्मन: छां ४, ३, ६; श्वे
६, २३^१; मैत्रि ७, ११^१; सुबा
१६; महा २, ७१; ४, ४५; योशि
२, २२; पं २७; जाद ६, १७;
७, ९; ९, ६; गु ७६; गी ११,
१२; १८, ७४; -त्मना महा २,
३१; -त्मनाम् महा ४, ७२; पैष्ठ,
१९; अक्षि २५; वरा २, ४३;
-त्मनि मैत्रि ६, १५; -त्मने ते ६,
१०९; महा २, २१; नाउ २, ८;
९; -त्मभि: योरा ५; शि ७,
१३६; गु ३५; -त्माक १, १६;
श्वेष्ठ, १७; ५, ३; महा २, ७७; अन्न
२, १६; पा ८, २; गु ६०; गी ७,
१९; ११, ५०; -त्मान: योचू ८१;
मन्त्रि ८; महा ४, ३५; ५, ३६;
गी ८, १५; ९, १३; -त्मानम् नाउ
१, २९; चू ८.
माहात्म्य- -त्म्यम् वृजा
१, १^१; ६, १; ७, ५^१; ६^१; रार ५,
२; राउ ५, १; योशि २, १; सार
२२६: २३; २२७: १; २५६:
१४; गी ११, २.
माहात्म्य-लेशां-
(श-अं)श- -शम् श २८.
महा-त्यागिन्- -नी अन्न १,
१८.
महा-त्रिपुर(र>)रा^१- -राम्
त्रिता १, ८६.
महात्रिपुर-भैरवी-
-०वि हंपो ७.
महात्रिपुर-सुन्दरी- -री
भा ७; ब ९; ११; १३^१; -रीम्
त्रिता २, ६९; -र्यां त्रिता २, ६६.

a) पा.१ यनि. शोध: द्र. । b) =वैसं. । c) महा^० इति निसा.१ । d) ०रादिसर्व^० इति पा.१ यनि. शोध:
द्र. (वृ. सस्थ. टि. सर्वदेव-> -वै:) । e) कस. । f) बस. । g) =अवस्थाविशेष- । h) सकृन् 'महादेव:' इति
अख्या. । i) तैआ १०, ११, १ । j) कस. । उप. =३त्रिपुर(र>)रा- ।

महा-दान-निवेदन-ने शि
६,३४.

महा-दुःख- -वान् तुल
७२: २.

महा-दुर्ग- -र्गाणि दे २१.

महादुर्ग-प्रशम(न)-
नी- -नीम् दे १६.

महा-देव- -व स्का १;
योशि १,७; -यः अ २; काला
१७; मैत्रे २,१; स्क ४: राउ ४,
४३; महा १,१^१; पं २७; जावा
२५; कपु २२; लि ३१०: ६;
-वम् श्रवि २३; १योम ९९; पं
१८; भ १-२, १; २शिगं २०:
वपू १,५^३; -वस्य मना १,५९^१;
व ४३४: २०; -वाय मना २,
२०९^१; श २३: त्रिधि ७,४३:
भ २,४; पं १; -वे सिशि ३८०:
१३; -वेन व ४३२: १९.

महादेवी- -०वि मना
२,३४^०; सावि १०; दे १; व ४५८:
२१; -वी योशि २,११; नापू २,
१२; -व्या: दे २१; -व्यं दे ३;
नापू ४,३; व ४६२: ७.

महादेवी-संनि-
धि- -धौ दे २२.

महादेव-स्व- -स्वात् वृउ
७,२.

महा-दोष- -षात् ग १८.

महा-द्युति-कर- -राय व
४६१: २०; ४६३: ६९^१.

महा-द्रुम- म: रा १५, ९^०.

महा-धन- -नस्य व ४६१:
२९^१.

महा-धनुर्धर- -रा: मै १,

५: मैत्रि १, ४.

महा-धी- -धियः गौ ४,

८५: महा २, ४०: ५, ६१;
अश ४, ११; -धिया महा २,
३१.

महा-ध्यान-परायण- -णम्
माउ १, २६.

महा-ध्यान-योग- -योग
विता २, ८६.

महा-ध्वज- -जम् शि ६,
१३८.

महा(हा-अ)ध्वर- -र: शि
५, ३८.

महा-नदी- -दीपु मै ४, २;
मैत्रि ४, २: -शाम् ग १८.

महा(हा-आ)नन्द- -न्दम्
वृउ ८, ५; सगा १, २३.

महानन्द-स्व- -स्वात्
वृउ ७, २.

महानन्द-पद- -दम्
त्रिवि ७, १३.

महा-नरक-जाल- -लेपु
महा ५, १०५.

महा-नरक-साम्राज्य- -ज्यं
महा ५, ७६.

महा-नवमी- -म्याम् रा
४२५: १५; वउ ६, ४३.

महा(हा-अ)नस^१म्- -सम्
शि २, १७.

महा-नाग^१- -गानाम् गर
२४.

महानागा(ग-आ)दि-
रूप- -पाणाम् गर २४.

महा-नाडी- -डी योशि ५,
२२.

महा-नारायण^१-

महानारायणा(ण-अ)-
द्वय^१- -यम् मु १, १, ३४^१.

महा-निन्यो(न्य-उ)पस्थि-
(न-ता- -ताम् विता १,
८२.

महा(हा-अ)नुकम्पा-स्विन्धु-
-न्धु: दे २.

महा(हा-अ)नुभाव- -वान्
गी २, ५.

महा-नैवेण-पीठा(ठ-आ)-
वरण- -णानि वउ ६, २५.

महा(हा-अ)न्धकार- -र: मै
४, २: -रम् मैत्रि ४, २.

महान्धकारो(र-उ)ल्का-
विद्युद्-भग्न्य(भा-अ)निल-चोर-
शस्त्रा(श-अ)स्त्र^१- -स्त्रेभ्यः व
४३४: १६.

महा-न्यग्रोध- -ध: छां ६,
१२, २^१.

महा-पथ- -थ: छां ८, ६, २;
-थम् १योत ८३.

(महा-पथिन्- -थि योचूद्^१.)

महा(हा-आ)पद्- -पत्सु रा १
४, १०.

महा-पद- -दम् महा ४,
३५.

१महा-पद्म^१- -मम् रापू ४,
५०; -धे हंषो ७.

२महा-पद्म^१- -मः रापू ४,
५४; गर ५.

महा-पद्मक^१- -क: गर
१८.

महापद्मक-वृत्त- -त्त: गर
१८.

a) तैआ १०, १, ५ । b) तैआ १०, ४६, १ । c) तैआआ १०, ३४ । d) तैआ १०, १, ७ । e) °हान् हु° इति श्रव्या । f) श्र १०, ८४, ६ । g) पा ५, ४, ९४ । h) =उपनिषद्विशेष- । i) तदाख्योपनिषदोः समाहारे द्वस । j) °णाहम् इति निसा । k) तु, सस्थ. टि. आत्मरक्षा- । l) °हान् न्य° इति निसा । m) निसा. पा. महा-अधि-> -धि इति शोचः द्र. । n) =कमल- । o) =सर्पविशेष- ।

३महा-पद्म^{११०}-

महापद्म-निधि- -धये
त्रिवि ७, ४३.

महा-पातक- -कात् मुद्र ४;
-केभ्यः कालि ४०३: १०; त्रिवि
८, १९; भ २, २०; -कैः वृजा
५, १४.

महापातक-नाशन^b-
-नम् गु ६; व ४६२: ४.

महापातक-पापिष्ठ-
संगति- -स्या राउ ५, १७.

महापातक-युक्त-
-क्तानाम् वृजा ५, १०.

महापातकिन्- -किनाम्
१संन्या २, ४; -क्ती शा २६.

महापातको(क-उ)पपा-
तक- -कानि षो १८; -केभ्यः
काला १८; जावा २७; वि ३३;
-कैः अन्य ७.

महा-पाताल-पादा(द-अ)-
न्त-ल(म्ब>)म्बा- -म्बा गु८.

महा-पाप- -पम् ते ५, ९६.
महापाप-भञ्जि(न्>)-
नी- -नीम् तुल ७०: ७.

महापापा(प-अ)ब्धि-
दुस्तर- -रात् तुल ७१: १०.

महा-पाप्मन्- -प्मा गी ३,
३७.

महा-पिशाचिनी- -नीम्
सुसु ४.

महा-पीठ- -ठम् योशि १,
१७५; ५, १२; -ठे वृउ ३, ९.

महा-पुण्य- -ण्यम् शि ६,
१९३.

महा-पुरुष- षः पंह १; मुद्र
२; तुअ ५; पप ४२०: ११; ह
१९; -षम् नापू १, १४; -षस्य
त्रिवि ५, ११.

महापुरुषो(ष-उ)पेत-

-तम् लि ३११: ५.

महा-पूजा-विशेष- -षैः शि
६, १५३.

महा-प्रतिम-लिङ्ग- -ज्ञानि
शि २, २१.

महा-प्रतिस(र>)रा- -रा
तारा ८३: १५.

महा-प्रभु- -भुः ता २, ३.
महाप्रभु-त्व- -स्वात् वृउ
७, २.

महा-प्रलय- -यः पित्र १,
१४४^{११}; -यम् शि ७, ९८.

महाप्रलय-संपत्ति- -त्तौ
महा ४, ५५.

महा-प्रस्थ^{११०}- -स्थैः भ २,
२५.

महाप्रस्थ-शत- -तम् भ
२, २३^d.

महाप्रस्थशत-मान-
-नैः भ २, २३^d.

महा-प्रस्थान- -नम् कर १;
कश्रु २, ३; -ने जा ५; पप४१८:
१६; या २, १.

महा-प्राज्ञ- -०ज्ञ शु १, २;
१२; अज ४, २५; जाद ४, ४८;
६, ३७; ५०; ८, ६.

महा-फल- -ले त्रिब्रा २, ११.

महा-बन्ध^{११०}- -न्धः १योत
२६; ११५.

महाबन्ध-स्थित- -तः
१योत ११५.

महा-बल, ला- -०ल रार १,
४; ७; २-३, १; -लः श ४; योशि
१, ४१; १आ १२; -लाय त्रिवि
७, ३७; -०ले सावि १०.

महा-बाहु- -हुः गी १, १८;
-०हो रार १, ३; ८; योशि १,

२२; सु १, १, ७; गी २, २६;
६८; ३, २८; ४३; ५, ३: ६; ६,
३५; ७, ५; १०, १; ११, २३; १४,
५; १८, १; १३.

महा-बोध-दायक- -कम्
पं ५.

महा-ब्राह्मण- -णः वृ २, १,
१८; १९.

महा-भक्ति- -क्त्या योशि
५, ५८.

महा-भय- -यम् व ४३३:
१४; -यात् गोच ६७: २; तुल
७२: १.

महाभय-निवारण-
-णाय दत्ता २.

महाभय-विनाशि(न्>)
नी- -नीम् दे १६.

महा-भाग- -०ग नाप ४,
३८; महा २, ३५^f; -गाः सू ३१;
-गाः महा ५, ३६; सार २३०: १५;
२८३: ११; -गेन त्रिता १, २२.

महा-भागवत^{११०}- -तः
अद्वैभा ९.

महा-भाग्य-वश- -शात्
सार २८८: १०.

महा-भाग्यो(य-उ)दय-
-यः सार २८८: १५; -येन सार
२८७: २२; २९१: २.

महा-भाण्डीर-वट- -मूल-
-ले द १.

महा-भारत^{११०}- -तः अद्वैभा
९.

महा-भीष(ण>)णा- -०णे
व ४२७: १९.

महा-भुज-परिवारित-
सप्त-द्वीप- -पाय व ४३४: १८.

महा-भूत- -तः १योत २;
१३०; -ताः नापू ५, १८; -तानि

a) =निधिविशेष- । b) उप. कर्तरि <√नश् (अदर्शने) । c) कस. । =परिमाणुविशेष- । d) महान् प्र^०

इति निसा. । e) =योगावस्थाविशेष- । f) °हाबाहो इति अज्या. । g) =ग्रन्थविशेष- ।

महा-यशस्- -शाः महा ३,
२; वपू १,४.
महा-यष्टि-समाश्रित- -तम्
शि ६, १४६.
महा-यान- -नैः शि ६,४.
महा-योग- -गः योशि १,
१३०; १अव ६^६; -गात् योशि
१, १५६; -गे योचू ११.
महायोग-प्र(द>)दा-
-दा रा ४२५ : २१.
महा-योग-माया- -या
त्रिवि ६, १६.
महा-योगिन्- -गिने दत्ता
२; व ४५६:८; -गी १योत २;
१३०; २योत १, २; योशि १,
१५१; ५, ५३; ५४; अन्न ४, ४;
जाद १, १; वरा २, १.
महा-योगे(ग-ई)श्वर- -रः
गी ११, ९.
महा-रजन^{८b}-
माहारजन- -नम् वृ २,
३, ६.
महा-रजस्- -जः ध्या ८७;
योचू ६०.
महा-रत्न- -त्नम् जाद ४,
५०; शि ६, १०४; -त्नानि शि
६, ९०.
महारत्ना(त्न-अ)न्वित,
ता- -तम् शि ६, ९१; -ताम् शि
६, ८९.
१महा-रथ^८-
महारथ-विमान- -ने
शि ६, १३९.
महारथो(थ-उ)प(मा>)-
म- -मैः शि ६, १८२.
२महा-रथ^d- -थः गी १, ४;

१७; -थाः गी १, ६; २, ३५.
महा-रमण-स्थान- -नम्
सार २८६ : १६.
महा-र(य>)या- -याः महा
५, १४२.
महा-रस- -सैःत्रिता ३, २६०.
महा-राज^१- -०ज मै २, १;
मैत्रि २, १; मैत्रे १, ४, १; -जः वृ
२, १, १८^१; १९.
महा-रास-स्थल- -लम्
सार २४६ : २१.
महा-रिपु- -पुः ते ५, ९८.
महा-रुद्र- -द्राय पं १.
महारुद्र-राजन्^६- -ज्ञः
सार २४३ : २१.
महारुद्र-शत-सहस्र-
जापिन्- -पी दत्ता ३.
महा-रुद्राक्ष-वृक्ष-
महारुद्राक्षवृक्ष-क- -काः
रुजा १, ३.
महा-रूप- -पम् अन्न ४, ६५.
महा-रोग- -गम् मैत्रे २, ५;
-गाः अन्ति २३.
महारोग-विनाशन-
-नम् त्रिवा २, ११२.
महा-रौरव-संज्ञक- -कान्
पहं ३^h.
महा-रौरव-संज्ञा-
महारौरवसंज्ञित- -तान्
नाप ५, २.
महा(हा-अ)र्ष^१- -र्षम् इ
१७ : १.
महा(हा-अ)र्ष्य- -र्ष्यम् वउ
६, ७.
महार्ष्यो(र्ष्य-उ)दक-
-केन वउ ६, १३.

महा(हा-अ)र्णव- -वानाम्
मै १, ७; मैत्रि १, ४; मैत्रे १, २.
महा(हा-अ)र्थ- -र्थम् शि
१, ८.
१महा-लक्ष्मी^१-
महालक्ष्मी-प्र(द>)दा-
-दा रा ४२४ : १.
२महा-लक्ष्मी^{१k}- -०क्ष्मि
सार २४८:१८; व ४५२:२१;
४५८:१२; हंषो १५; -क्ष्मीः
वृपू १, ६; ४, ११^१; सी १०; योशि
२, ११; अन्न १, ५^१; दे ७; नापू
२, ८; १२; १६; पी ४२२ : ११;
सुसु १४; -क्ष्मीम् वृपू ४, १२;
त्रिता १, ८३; २, २५; -क्ष्म्यै व
४३१ : ६; सूता ४, ३.
माहालक्ष्म्य-
-क्ष्म्यम् नृष ८४ : १५.
महालक्ष्मी-व्रत-दिन-
-नेषु रा ४२४ : ३.
महालक्ष्मी-शक्ति- -क्तिः
आथ ३९४ : ९.
महालक्ष्म्या(क्ष्मी-आ)-
लिङ्गिता(त-अ)र्ष-शरीर-
महालक्ष्म्यालिङ्गि-
तार्धशरीरिन्- -रिणम् नापू ४,
२४.
महा(हा-आ)लय^m- -यम् इ
१९ : ६; -ये शि ६, १८९^{१n}.
महा-लिङ्ग- -ङ्गम् योचू ८;
शि ३, १३.
महा-लीला- -ला सार २४०:
६; २४१:८; -लाम् सार २४१:
११; २४३ : ९; २८०:६; २८५:
२३; २९०:२१; -लायाः सार
२२६:२३; २३२:३; २२;

a) ०यागः इति अञ्ज्या. । b) =हरिद्रा- । c) कस. । d) बस. । e) ०रसाः इति निसा. संटि. । f) पा ५, ४, ९१ । g) समासान्तस्य टचोऽभावः उंसं. (पा ५, ४, ९१) । h) ०रवम्, एव च इति अञ्ज्या. । i) विप. । j) कस. विप. । k) कस. नाप. =देवी- । l) =श्री-बीजाक्षर- । m) बस. । उप. भाप. =सन्तान-१ । n) =तीर्थविशेष- ।

२३६:५;२०; २२; २३७:१;
२४०:१८; २४१:५; ७; २४३:
७; २९०:१२; -लायाम् सार
२३४:१७; २३६:५; २३९:१;
२४३:३; २४८:१४; २७०:
२०; २८६:१२; १७; २८८:१८;
२८९:१२; १३; २९०:५; १७;
२९१:३; ५.

महालीला-दर्शना-
(न-आ)काङ्क्षा- -क्षा सार
२४१:१६.

महालीला-योग्यता-
-ताम् सार २४०:१६.

महालीला-विहारिन्-
-रिणं सार २६१:१०.

महालीला-संकेत- -तस्य
सार २६०:५.

महालीला-स्थान- -नम्
सार २२१:२; २४०:
१९.

महालीला(ला-उ)पसेव्य-
मान- -ना: सार २९०:६.

महा-वज्र-कपाट- -भिद्-
-भित् यो २,३७^६.

महा-वज्र-कवच- -चै: व
४३८:१४; ४३९:१; ११; २१;
४४०:८; १८; ४४१:६; १६;
४४२:४; १५; ४४३:२; १३;
४४४:६; १६; ४४५:३; १४;
४४६:१; १३; २३; ४४७:११;
२२; ४४८:१०; २१.

महा-वन- -नम् सार २२१:
१३; -ने सार २६०:३.

महावन-लीला-
-लायाम् सार २९०:१३.

महावन-विहार-लीला-
दर्शन- -काङ्क्षिन्- -ङ्क्षिणः सार
२४३:१७.

महावन-विहार-स्पर्शन-
-नम् सार २३२:८.

महा-वश्य-ह(र>)री-
-रीम् सिगा १,८१.

महा-वाक्य- -क्यम् ते ६.
२५; ५५ ४१८:३३; ४६ १;
-क्यानि शु १, १४; २, १; ३.
१, ५^१; -क्यै: ४ १३.

महावाक्य-जप- -पं शु
१, १८.

महावाक्य-त्रय- -यम् ग
८०.

महानाक्य-पद- -द्वै: शु
३, ९.

महावाक्य-विचार- -रेण
वरा ४, ३७.

महावाक्य-विवरण-
-णम् पं ३, १.

महावाक्य-पङ्-अङ्ग-
-ङ्गानि शु २, ५.

महावाक्या(५-य-अ)र्थ-
-र्थम् त्रिवि ८, ५.

महावाक्यार्थ-तम्
(>:) ते ५, ५.

महावाक्यार्थ-स्व-
रूपा(५-अ)नन्त-शाखा- -सम-
न्विन- -तम् सि ६, १८.

महावाक्यो(क्य-उ)पदे-
श- -शे नाप ३, १; १संन्या २, ३.

महावाक्योपदेशा-
(श-अ)धिकार- -र: नाप ७.

महा-वादित्र-निर्घोष- -घै:
शि ६, १४२.

महा-वादित्र-निस्वन- -नै:
शि ६, १७२.

महा-वायु^{११}- -यो: त्रिवि २,
१२; सं १०.

महावायु-देव- -वस्य

त्रिवि २, १२.

महा-विघ्न- -घ्नात् ग १८.

महा-विज्ञान- -नम् आषे
९:१०.

महा-विदेह- -हा: योसू ३,
४४.

महा-वि(या>)च- -द्याय
व ४^{१६}:१४.

महा-विद्या- -द्या योचू ३५;
मं १, ३, ५; नाप २, १४; व

४^{१८}:२२; -द्या: वपं ३१३:१;
-द्याम् व्रति २६; अत्र १, ३; यो

२, २४; पी ४२१:२; व ४३२:
१९; ४६२:११; ४६५:१०;

१४; १८; -द्यायै व ४३३:१७;
-द्यो व ४३२:४; ४३७:३;

४६६:६.

महाविद्या-वत्- -वताम्
व ४^{१९}:४.

महाविद्या-संचय-प्रभा-
भासित-सकल-दिग्-अन्त-

(र>)रा- -रे व ४३१:१२.

महाविद्या-सर्वा(र्व-अ)-
र्थ-साधि(न्>)नी- -नि व
४३६:१५.

महाविद्यो(या-ई)श्वरी-
विद्या- -द्याम् त्रिना २, ८.

महा-विन्व्य-स्थि(त>)-
ता- -ते व ४३१:२०.

१महा-विभूति^d-

महाविभूति-द- -दम्
शृजा ६, ७.

२महा-विभूति^e- -ति वृत्
५, ३^{११}.

महाविभूत्य(ति-अ)र्थ-
-र्थ: वृत् ५, ३.

महा-विमान- -ने शि ६,
१४४^{१०}; -नै: शि ६, १७९.

a) °कवा° इति निसा. सटि., अज्या. । b) रहोवा° इति अज्या. । c) कस. । d) वस. । e) °नया°
इति पा.। यनि. शोध: द्र. ।

महा-विराट्-पद- -दम्
त्रिवि ६, १०.
महा-विराट्-पुरुष- -षम्
त्रिवि ३, ५.
महा-विराट्-स्वरूप- -पम्
त्रिवि ६, ११.
महा-विष्णु- -ष्णवे त्रिवि ७,
३४; चा २३; नाउ २, ६; -ष्णुः
नृपू १, १६^३; त्रिवि १, २; ७,
१४; ८, २; ४; १४; १८; २४; राउ
४, ४५; जाद १, १; राधा ३,
१३; सार २९१ : २०; -ष्णुम्
नृपू २, ६; १०^३; ध्या २९; ३०^३;
त्रिवि १, १; ५, १२; ७, ४०; ८,
१; १७; अव्ययः वपं ३१२ : १०;
व ४५७ : १२; -ष्णो नापू ३,
१६; नाउ ३, २०; -ष्णोः त्रिवि
१, ११; ३, ५; ४, १३; ५, १२^३;
६, ८; ९; २३; ७, ६; १५; ८, १६;
योशि ५, ३४; वरा २, ५; राधा
१, ५; -ष्णो रापू १, १.
महाविष्णु-राम-कृष्ण-
द्वादशा(श-अ)क्षर-मन्त्र-
-न्त्राः त्रिवि ७, ३४.
महाविष्णु-स्वरूपक-
-कम् रुजा २, १४.
महा-वीचि-वागुरा- -रा
नाप ३, ४९.
१महा-वीर- -रः श ६; वि
१९; -राय लां २१४ : २१९^३.
२महा-वीर^{११b}-
महावीर-संभरण-
-णानि छाग २३ : ११; २४ : १४.
महा-वी(र्य>)र्या- -र्याः
योशि १, १५५.
महा-वृक्ष-निवासि(न>)-
नी- -नीम् व ४३४ : २३.
महा-वृष^३- -षेषु छां ४, २, ५.
महा-वेध^{१०}- -धः १योत

२६; ११७.
महा-व्यतीपात- -ते भ २,
२४.
महा-व्याधि- -धिः कृ १५.
महाव्याधि-भय- -यात्
सू २७.
महा-व्याहृति- -तयः नृपू
४, १५, १५; राउ ४, २०.
महा-व्रत- -तम् १अव ६;
योसू २, ३१.
महा-शक्ति- -क्तयः व ४३२ :
२; -क्तिम् व ४३३ : ५; -क्त्यै
योशि ६, ३.
महा-शङ्क^१- -ङ्कम् गी १, १५.
महा(हा-अ)शन- -नः गी
३, ३७.
महा-शब्द- -ब्दः भव २,
५१; -ब्दम् शि ६, १५५.
महा-शा(ला>)ल- -लः सुं
१, १, ३; अ १; -लाः छां ५, ११,
१; ३; ६, ४, ५; छाग २४ : ६; ७;
पित्र १, १.
महा-शास्त्र- -स्त्रम् ते ६,
१०८; श ३२; ३६; -स्त्रे शि ७,
१३३.
महा-शिल्पि-विनिर्मि-
(त>)ता- -ताम् शि ६, १३३.
महा-शुद्ध, द्वा- -द्धम् शि ६,
१०१; -द्धाम् शि ६, ३१.
महा-शून्य- -न्यम् सौ २, ९.
महा-शृङ्गार-रस- -सः सार
२८७ : ५.
महा-शैव- -वाः भ २, २८.
महा-श्मशान- -ने निर्वा
२९८ : ३.
महा-श्री- -श्रीः रुजा २, ६; ८.
महा-श्रेयस- -यांसि त्रिवि
८, १८.
महा-श्रोत्रिय- -याः छां ५,

११, १; ३; ६, ४, ५; छाग २४ :
६; ७; पित्र १, १.
महा(हा-अ)श्व-शिरस-
-रसे त्रिवि ७, ४०; ह ४.
महा-संवर्तक- -के सुवा १२.
महा-संसार-
महासंसार-ता- -ताम्
अत्र ४, ५६.
महा-संहिता- -ताः तै १,
३, १; ४^३.
महा-सत्ता- -त्ता अत्र ५, ५५.
महा-सत्त्व- -त्वात् नृउ ७, २.
महा-सत्त्र^{१२}- -त्राय द १.
महा-समता- -तया अत्र ५,
९०.
महा-संपत्-प्रद- -दाय व
४५६ : ७.
महा-सरस- -रांसि शि ६,
३७.
महा-सरस्वती- -ती सर
१, ३; ४; ३, ४.
महा-साम्राज्य- -ज्यम् दत्ता
१, १.
महा-सार- -रम् शि १, ८.
महा-सिद्ध-लक्ष्मी- -क्ष्म्यै
व ४३६ : १.
महा-सिद्धान्त- -न्तः निर्वा
२९८ : ५.
महा-सिद्धि- -द्धयः सार
२५३ : २०; २७४ : १०; -द्धेः
१योत ७६.
महासिद्धि-क(र>)री-
-री योचू ७०.
महा-सुदर्शन- -नम् त्रिवि
७, १; -नाय त्रिवि ७, ३६.
महा-सुरे(र-इ)न्द्र- -न्द्रः
अज्ञा २^१.
महा-सु-हय- -यः वृ ६,
१, १३.

महा-सुक्ष्म- -क्ष्मम्, -क्ष्मे
वृ३३, १०.

महा-मे(ना)न- -नाय
मना १, ६९^०; अति १; व ४६३;
१९^०.

महा-सौभाग्य- -ग्यम् जिता
२, ५.

महासौभाग्य-दायि-
(न)नी- -नी नापु २, ११.

महा-स्तम्भ(म्भ-ई)स्वर-
-रः पी ४२२: ३.

महा(हा-अ)स्त्र- -स्त्रम् सु
२, २, ३.

महा-स्थान- -नम् भार
२३३: १८; २३८: १५; २५५:
१; २८३: १४; २८४: १८; २८५:
११; -ने योशि ६, ४७.

महा-स्थूल- -लम् वृ३ ३,
१०.

महा-ज्ञान- -नम् शि ५, १.

महा-स्नापन-पूजा- -जाम्
शि २, २६.

महा-हरि- -रिः स्फु ४.

महा-हस्तिन्- -स्ती वपू १,
४९^०.

महे(हा-इ)न्द्र- -न्द्रम् महा
३, ३८^०; -न्द्रस्य शि ७, १३०^०.

महेन्द्र-जाल-दर्शक-
-कः षो २१.

महेन्द्र-मलय-सहा-
मन्दर-मेरु- -रवः महा ५, १४१.

महे(हा-ई)श- -शः श १९;
२०; पं १; सिशि ३८३: ५;

-शम् श २; -शस्य महा ४, ८७;
-शात् हे १४.

महेशी- -शि हे ३.

महे(हा-ई)शान- -नम् श

१६: जाद ८, ६.

महे(हा-ई)शर- -रः शु १,
६; -रः मना २, १२, ३९^०; अशि
३, १३; ४, २२; २४^०; जप ४,
१५, ३; मानि १२; शु ३, १८;

या ११; ४२; अवि ४१; ६२;
१०२; १०१ १२१; श ४; राउ
४, ५; ४२; शां ३, १^०; ९^०; योशि
१, ३; अथ ४, ३२; ३३^०; कः
१३; १५; ४१; ४२; क २०; क
९; काला १३; सु १, १, २०; नाउ
१, ६९^०; क २५; व ३३ १५; १४^०;

३१६: १५^०; १७; शि ७, ७९;
गी १३, २२; -रम् श्वे ४, १०; ६,
७; गर्भ ४; पायु १, ११^०; श १४;
क १०; जाद ९, २; -राय श
२३; ३१; ४ ९; -रे शि ६, १३.

महेश्वरी- -री
२शिसं १९; -रीम् सु ५^०; ६६.

साहेश्वर- -रम् श्या
१०५.

साहेश्वरी- -रि
त्रिवि ७, ३५^०; व ४२८: ८;
४३१: १०; १८; ४३६: २२;
४५८: ११; ४६२: ६; -री कति
४०१: ११; भार ४०६: १५;
पी ४२२: १०; इया १३; सु १३;
तारा ८४: ४; -श्वे व ४३१: ४.

साहेश्वरी-
शक्ति- -क्तिः आथ ३९.४: ३.

महेश्वर-त्व- -त्वात् वृ३
७, २; व २४.

महेश्वर-पादो(द-उ)-
दक- -कम् व २७.

महेश्वर-पूजन- -नात् व
२६.

महे(हा-इ)शवा(शु-आ)स-

-०म् त्रिवि ७, ४०; रार २, ८१;
रापू ४, १५; -सा: गी १, ४.

महो(हा-उ)क्ष- -क्षा: सार
२७४: २०.

महो(हा-उ)प्र-विपो(ष-उ)-
प्र-भक्षित- -दंष्ट्रा-

महोप्रविपोप्रभक्षित-
दंष्ट्रि(प्र)णी- -०णि व ४३१:
१८.

महो(हा-उ)ज्व(ल)ला-
-ला त्रिआ २, ६५; शां १, ४.

महो(हा-उ)स्वव- -वः अत्र
४, १३.

महोस्वव-काल- -ले
मा २३२: २२.

महो(हा-उ)दधि- -धिः पित्र
१, १२^०; ९^०.

महोदधि-तीर्थ- -र्थम्
म ४८: १३.

महो(हा-उ)दय- -यः महा
५, ९७; सु २, २, ३८.

महो(हा-उ)न्मादिनी-
सुद्रा- -द्रया त्रिता २, ५८.

महो(हा-उ)पनिपद- -षत्
वृ३ १, १६; २, १८; ३, ६; ४,
१६; ५, २१; राउ ५, १; महा १,
१; अव्य ३; त्रिता १, ८७; २,
७४; ३, ३७; ५, २१; त्रि १६;

-पदम् मना २, ७९^०; वृ३ १,
१६; रार १, ९^०; महा १, १९^०; ६,
८३^०; च २०: १; २१: ७.

महो(हा-उ)पसर्ग- -र्गम् वउ
५, ४८.

महो(हा-उ)पहार- -रैः अत्र
१४.

महो(हा-उ)रग- -गः वरा
२, ४०.

a) तैआ १०, १, ६। b) ऋ ८, ८१, १। c) तैआ १०, १०, ३। d) 'वर्तते' इति निसा. संटि.। e) माहे^० इति निसा.। f) ०री इति अज्या. संटि.। g) तैआ १०, ६३, १। h) मम उप^० इति अज्या.। i) =तदाख्योप-निषद्विशेष-।

महोरग-दष्ट-ष्टः मै ४,
२; मैत्रि ४, १.

महो(हा-उल्का)लक-
-स्काय त्रिवि ७, ४२; नापू ४, १९.
१महिमन्^{१०}-मा के ३, १; सुं
२, २, ७; छां ३, १२, ६९^{१०}; ७,
२४, २; वृ ४, ४, २३; श्वे ६, १;
मै २, ३; मैत्रि २, ३; ४, ४; ६,
२१; ब्र १^३; त्रि १; पाशु १, २;
इ १२: १२; छाग २३: ४; शौ
५१: ९; -मानः वृ ३, ९, २; मवा
१०९^०; -मानम् क १, २, २०९^०;
प्र ४, ५; ५, ३; सुं ३, १, २; छां
४, ३, ७; श्वे ३, २०९^०; ४, ७; मै
३, १; मैत्रि ३, १; ६, २१; मना
२, १२, १९^०; २, ७९^०; ८०^०;
नाप ९, १३९^०; श १८९^०; योशि
५, ५२; आर्षे ७: ११; ८: १;
१२; १६; बा १२; नाउ १, ८९^०;
पा ९, ३९^०; सार २५१: ६; सिधि
३८१: ६; गी ११, ४१; -मानौ
मना २, ८०९^०; -मः सुद्र २; आर्षे
९: ५; ६^३; ब्रसू १, ३, १६; -म
छां १, १, ९; -मि छां ७, २४,
१^३; मै २, ४; मैत्रि २, ४; ६, २८^३;
३८; नृउ ७, १३; ब्रवि १०५.

महिमा-

महिमा-सिद्धि^{१०}-द्धिः

आथ ३९३: ४.

महयत्-यन् छां ८, ८, ४.

महय्य-य्यः छां ८, ८, ४.

महस्^{१०}-हः तै १, ५, १; २^३; ३^३;

६, २; २, ४, १; ३, १०, ३; छां ३,

१३, ५; मना २, ५९^०; २४९^०;

३५९^०; अशि २, १४; सु २, ५;

ते २, ६; ३, २३; त्रिवि ७, ४४९^०;

महा १, १; सर २, ५९^०; सूता

३, ७; नाउ १, ११; राधा १, ३;

लां २१३: ८; गार ४०५: १२;

१५; -हसा त्रिता १, ४; -हसे

मना २, ७९९^०; सूता ४, ५.

महर-जगत्-गत् नाद ३.

महर-लोक^३-कः गार ४०५:

१५; -कम् बृजा ८, ४; नृपू ५,

१६; नाद १६; वउ ५, १२;

-काः, -केषु सुवा १०.

महर्लोक-ज्ञान-नम्शां १,

७, ५२.

मह^०-स्तोम-फल-प्र(द)दा-

-दा सी १३.

महस-त्व-स्वात् नृउ ७, २.

महस-वत्-वत् त्रिवि ७, ५;

सु २९३: १६९^०; -वान् छां ३,

१३, ५; मना २, ७९९^०.

१महि^{१०}-हि वृ ६, ३, ५.

महि-स्व^{१०}-स्वा नापू ४, ७९^०;

२शिसं ३३९^०.

महि-दास^{१०}-सः छां ३, १६, ७.

✓महीय, महीयते क १, २,

१७; ३, १६; छां ८, २, १-१०;

अशि ४, २४; नाद १४; १योत

१०९; इ ११: २१; सूता १,

१५; गोच ६७: ४; ५; ६८: ८;

वट ३१६: १७; शि ४, ३६; ४१;

५, २४; ६, ५; ७; ९; ११; १५;

१७; २०; २३; २५; २८; ३२;

३८; ४५; ४८; ५०; ५३; ५४;

५७; ६२; ६२; ६६; ९२; २०१;

२१३; २१५; २२७; २३२;

२३३; २३५; २३६; २३८;

२४२; २४४; २६०; २६२;

२७५; २७८; ७, ९४; गु ४०;

विद्या १; महीयन्ते तै १, ५, २^३;

३^३; महीयध्वम् के ४, १; अ-

महीयन्त के ३, १.

महीयमान-नः छां ८,

१०, १.

महीयस्-यांसः शौ ५१:

९; -यान् क १, २, २०९^०; श्वे ३,

२०९^०; मना १, १९^०; २, १२,

१९^०; नाप ९, १३९^०; श १८९^०;

त्रिवि १, १; नाउ १, ७९^०; पा

९, ३९^०.

महीयसी-सी शि ६,

१७१; -सीम् गु ५१.

१महिष^{१०}-षः सु २९४: ६९^०.

म(ह)ही^{१०}-ही श्वे २, ४९^०; पं

१; कृशु १५; -हीम् मना १, १९^०;

नाप ४, १८; २२; ३६; ५, २०;

२५; ऊ ६३: ५; शि ६, ८९;

वउ ३, १३; २३; गी २, ३७;

-हीनाम् त्रि २.

मही-कटि-देश-शम् वउ ४,

३७.

मही-कृत-ते गी १, ३५.

मही-क्षि-क्षिताम् गी १,

२५.

मही-तल-ले ब्रवि ५२; कृ ७.

मही-प^{१०}-पानाम् वरा ३, २२.

मही-पति-तिः शि ६, ६५;

६९; २०५; २१४; -०त्वे भव २,

२८; गी १, २१.

a) =माहात्म्य- । b) ऋ १०, ९०, ३ । c) ऋ १, १६४, ५० । d) तैत्रि १०, १०, १ । e) तैत्रि १०, ६३, १ । f) तैत्रि १०, ६४, १ । g) तैत्रि १०, ६४, १ । h) वैपश् यद्र. । इह =तेजस्-महत्-लोक-व्याहृतिविशेष- । i) तैत्रि १०, ४, १ । j) तैत्रि १०, १६, १ । k) तैत्रि १०, २८, १ । l) तैत्रि १०, २७, १ । m) ऋ १, ३, १२ । n) तैत्रि १०, ६३, १ । o) विसर्गलोपः (पावा ८, ३, ३६) । p) तैत्रि ३, १२, ३, ४ । q) वैपश् यद्र. । r) ऋ ७, १००, ३ । s) ऋ १०, १२१, ३ । t) बस. । उप. भाप. =दान- (वैतु. MW. =मही^० इति षस. इतीव ?) । u) तैत्रि १०, १, १ । v) =महत्- । वैपश् यद्र. । w) ऋ ९, ९६, १९ । x) ब्रपा. वैपश् यद्र. । y) मा ११, ४ । z) उस. उप. < ✓पा (रक्षणे) ।

मानयष्टि-रेखा- -खाम्
त्रिता २,४५.
मान-सामान्य- -न्यम् गौ १,२१.
*मापया-
*मापयां/कृ, मापयांचक्रे छां
४,१,१.
मित^०- -तम् नाप ३,६३; वरा ५,
९; भव ४,१८.
मित-द्- -द्रौ व ४६६: १५९^०.
मित-भोजन- -नम् जाद १,१९.
मित-हिता(त-अ)शन- -न:
शां १,७,१.
मिता(त-अ)शन- -न: त्रिब्रा २,
१०७.
१मिता(त-आ)हार^०- -र: त्रिब्रा
२,३३; शां १,१९^{१५}; यो १,२;
४९^{१५}; जाद १,६; वरा ५,१३.
मिताहारिन्- -री ध्या ७२;
योचू ४२; ४३९^{१५}.
२मिता(त-आ)हार^०- -र: गोच
६८: ९.
मिमान- -न: व ४६०: १६९^०.
मेय-
मेय-वर्जित- -त: ते ४,४३.
मेय-हीन- -न: मैत्रे ३,१३.
मेया(य-आ)स्मन्- -स्माते ४,४३
मां-मां^१ व ४३६: २२; ४३७: ३.
मांस^०- -सम् तै १,७,१; छां २,१९,
१; ६,५,१; गर्भ २; ते ४,२४;
६, ७; महा ४, २३; १२७;
रुजा २,१७; इ १३: ७; निर १,
४; शि ६,३३; गार ४०८: ११;
भव ४,१५^१; १७; -सस्य नि २३;
भव ४,१६; -सात् गर्भ २; निर
१,४; -सानि वृ १,१,१; ३, ९.

२८,३;-सेन मै ३,४; मैत्रि ३,४;
मैत्रे १,३.
मांस-चक्षुस्- -क्षुषा भव ३,७.
मांस-स्वक्-छोणितो(त-उ)स्रव-
-व: पिं ८.
मांस-पाञ्चालिका- -काया: महा ३,
३९; या २,५.
मांस-पिण्ड- -ण्डम् सुवा ४; ११;
-ण्डा: योशि १,४८.
मांस-मय- -य: महा ४,१३१.
मांस-मेदो-मजा(जा-अ)स्थि-
-स्थीनि वरा १,१०.
मांस-शोणित-लेपित- -तम् नाप
३,४६.
मांसा(स-आ)दि- -दि ब्रस् २,४,२१.
मांसा(स-आ)द्य- -द्यै: काम १९.
मांसा(स-अ)सूक्-पूय-विण्-मूत्र-
स्नायु-मजा(जा-अ)स्थि-संहति-
-तौ नाप ३,४८; ४,२८.
मांसौ(स-ओ)दन- -नम् वृ ६,४,१८
मात्सीक- -मत्सिक- द्र.
माख(?)षु^१ सूता ६,४.
माघी- मघा- द्र.
माणव- , माणवक- *मणु- द्र.
माणिक्य- मणि- द्र.
मारिट^१- -ण्टि: , -ण्टे: वृ २,६,३; ४,
६,३.
माण्डव्य- , माण्डूक- , माण्डूकायनि- ,
माण्डूकायनी- , माण्डूकी- ,
माण्डूक्य- √मण्ड् द्र.
१-२मातङ्ग- १,३मतङ्ग- द्र.
मातरिष्वन्^०- -श्वन: प्र २,११;
-श्वना त्रिब्रा २,९८^१; ९९; -श्वा
ई ४; के ३,८; दे ९; त्रि ८; पा
३,३; ब्रसू २,३,८.

मातुल- २मात्- द्र.
१मात्- √मा(माने) द्र.
२मात्^१- -०त: दे १०; व ४६५: २२;
हंपो १२; -त्त: छां ८,२,२; मना
१,१२९^१; त्रि ३; निर १,१८;
-रम् छां ४,४,१; ४,५,२४,५,७,
१५,२; वृ ६,२,२९^१; ४,२८; मना
२,५२९^१; राउ ५,१६; १संन्या
१,१; पप ४१८: ७; २प्र ३३:
१२; लिं ३११: १०; २शिसं
२८९^१; कथु १, १; -तरि कौ
१,२; महा ४, ३०; -त्ता प्र २,
१३; तै १,३,३; छां ७,१५,१;
वृ १,५,७^१; ४,३,२२; मना २,
२८९^१; ३४९^०; ब्र २; मैत्रे २,
१३; सुवा ४; ६; ते २,१३; ६,
१६; १योत १३२^१; २योत
१,४; १संन्या २,१२^१; भा ३;
कृ १५; २१; अद्वै २३; इ ११:
१६; स्व ६२: १; शि ६, १६६;
७,३८; १०९^१; व ४२७: १०;
अद्वैमा ८; गी ९,१७; -तु: गर्भ
३; शि ६, १२७; -तृणाम् व
४३२: २०; -त्रा गर्भ ३^१; -त्रे
वृ ६,४,२७.
माता-पितृ^०- -त्रो: अध्या ६.
मातापितृ-ज- -जम् सांसू ३,७;
-जा: सांका ३९^१.
मातापितृ-मला(ल-आ)स्मक-
-कम् मैत्रे २,४.
मातापितृ-विनिर्मित- -त: महा
६,५५.
मातापितृ-गुरु-
मातापितृगुरु-स्यागिन्- -गी
इ १७: १०.

a) पा ७,४,४० । b) ऋ ९,९४,४ । c) कस. । d) बस. । e) ऋ १०,८४,२ । f) तु. टि. कुं-कुं ।
g) वैपश् यद्र. । h) पा. १ । i) व्यु. ? =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । j) वैपश् यद्र. । इह =जननी- वा देवीविशेष- वा ।
k) ऋ १०,९,२ । l) ऋ १०,८८,१५ । m) ऋ १,११४,७ । n) तैश्वा १०, २१,१ । o) तैश्वा १०, ३४ ।
p) सकृत् ०त् इति निसा. ? यनि. शोध: द्र. । q) 'माते' इति निसा. ? मातेव (=माता+इव) इति शोध: द्र.
(तु. अच्चा.) । r) तु. गप्. पृ ११२a । s) पूष. आनङ् (पा ६,३,२५) ।

पाशु २, १६; १८; ४४; ४५;
 यो २, २१; जाद १०, ७; गोउ
 ५६; कृ ४; ५^२; ११; वरा २,
 ११; ५१^०; ५२; ७१; ३, १८; सर
 ३, १४; १५; अद्वै ४; १५; म
 ४९; ९; सार २९०:१; २९२:
 ६; काम ४^०; ५^०; व ४२७:
 ७५^०; वपू २, २^३; ३; ३, १;
 ४, ८; पित्र ६, १५; गी ७, १४;
 -याभिः वृ२, ५, १९; गौ ३, २४;
 बा ११; वपू २, ३५^०; -याम् श्वे
 ४, १०; वृपू ३, २^३; नाप ३,
 ७०; द ६^०; रार २, ३०^०; ५३^०;
 त्रिता १, ७९; ८०; सूता ६, ४; गु
 ५५; चू ३; वपू २, २; पित्र ६,
 १४; गी ७, १४; -यायाः अव्य १;
 सर ३, १७; सार २२०:७;
 -यायाम् सर ३, १४; -यायै सूता
 ४, २^३; ३.
 माया-कार्य- -र्यम् ते ६, १००.
 मायाकार्या(र्य-आ)दिक- -कम्
 ते ५, ३३.
 माया-कलस- -सौ १आ २६.
 माया-जाल- -लेन १योत ४; योशि
 १, १.
 मायाजाल-निकृन्तन- -नम्
 १योत ५; योशि १, २.
 माया-ज्ञाना(न-आ)दि-संज्ञक-
 -के कर १०.
 माया-तत्-कार्य-विलय- -ये
 वरा २, ५२.
 माया(या-अ)तीत- -तः आबो २०;
 त्रिवि १, ११.
 मायातीत-गुणा(ण-अ)तीत-
 -तम् त्रिवि १, ५^१.
 माया(या-आ)त्मन्- -स्मा वृषट् ५:३.
 माया-दासी- -सी सार २२०:६.

माया(या-आ)दि- -दिः रार २, ८८.
 माया-देव- -वः वपू १, ४.
 माया-द्वय- -यम् कालि ४०१:३.
 माया(या-अ)धीन-
 मायाधीन-त्व- -त्वम् सार
 २९०:२३.
 माया-पर- -रम् पित्र २, ७.
 माया-परिमोहिता(त-आ)त्मन्-
 -त्मा कै १, १२.
 माया-प्रकृति- -तिः ते ६, ६३.
 माया-बीज- -जम् रार ३, १.
 मायाबीज-युक्त- -क्तम् त्रिवि
 ७, ३८.
 माया-ममता(ता-अ)हंकार-दहन-
 -नम् निर्वा २९८:१२.
 माया-मय- -यः गौ ४, ६९; -यम्
 मै ४, २; मैत्रि ४, २; वरा ३,
 १५; हे ९; -यात् गौ ४, ५९;
 -याय रापू ४, १२.
 मायामयी- -यी सी ३^{१६}.
 माया-मात्र- -त्रम् गौ १, १७; वृउ
 १, १०; ११; ५, १^५; नाप ८, १५;
 १८; जाद १०, १२; ब्रसू ३, २, ३.
 मायामात्र-विकास-
 मायामात्रविकास-त्व- -त्वात्
 आबो १९.
 माया-मारुत-विभ्रम- -मात् कुं
 १४.
 माया-मोह- -हम्^१ अद्वै ८; १४;
 -हौ पित्र ६, १५.
 मायामोह-पाश-
 मायामोहपाश-तस(>):
 पित्र ६, १९.
 माया-मोहित- -तः पित्र ६, १४.
 मायामोहित-मानस- -साः पित्र
 ६, १३.
 माया-रहित- -तः कृपु २.

माया-रूप- -पम् सार २९०:९.
 माया-लक्ष्मी-तन्त्र- -न्त्रेण त्रिता
 २, ७१^१.
 माया-लेश-समन्वित- -तः पै १,
 ३१.
 माया-वश- -शात् श २८.
 माया-वाद-मदा(द-अ)न्धकार-
 मुषित-प्र(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञः भव
 २, ३३.
 माया-विग्रह-धारण- -णः कृ १०.
 माया-विद्या- -द्ये रापू ५, ५.
 अध्या ३२.
 माया-विन्- -वी शां ३, १.
 माया-विनिर्मुक्त- -क्तम् रापू ५, ११.
 माया-शक्ति- -क्तिः योशि ६, ४८.
 माया-शबल- -लम् वउ ४, ६.
 माया-शबलित-ब्रह्मन्- -ह्य गोच
 ६७:१४^६.
 माया-शरीर- -रः हे ६.
 माया-संबन्ध-
 मायासंबन्ध-तस(>): कर ३९.
 माया-संभव- -वः पाशु २, १७.
 माया-सहित- -तम् गोच ६७:१६.
 माया-हस्तिन्- -स्ती गौ ४, ४४.
 मायिक- -कम् ते ६, ९; -कौ अता ३.
 मायिका(क-अ)मायिक-
 -काभ्याम् सांसू ३, २६.
 मायिन्- -यिनम् श्वे ४, १०; -यिने
 द १२; -यी श्वे ४, ९.
 मायो(या-उ)प(मा>)म- -मम् गौ
 ४, ५८.
 १मायो(या-उ)पाधि^१-
 मायोपाधि-भेद- -देन सार
 २९१:१०.
 मायोपाधि-वश- -शात् त्रिवि
 ३, ७.
 मायोपाधि-विनिर्मुक्त- -क्तम्
 कर ३८.

a) 'मा तथा' इति अच्चा. । b) =बीजाक्षरविशेष- । c) =देवीविशेष- । d) ऋ ६, ४७, १८ । e) =ह्रीं-
 बीजाक्षर- । f) °तं गु° इति निसा. । g) °या इति पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) । h) °त्रः इति निसा. ।
 i) समाहारे द्रस. । j) °क्ष्मीम° इति अच्चा. । k) °तं ब्र° इति J.C. । l) कस. ।

२मायो(या-उ)पाधि^१- -धिः पं २,
२९; ३, १; आया ३०.
मायो(या-उ)पाधिक- -कः त्रिंश २,
१५; ३, ७.
मायोपाधिक-नारायण- -णम्
त्रिंश ३, ६.
!मायापल्लव^१ गोत्र ६७: १७.
मायूर- १मयूर- द.
मार- √मृ द.
मारकत- मारकत- द.
१-२मारण- √मृ द.
१मारीच- मरीच- द.
२मारीच- ३मारीच- द.
मारुत-, मारुति- १मरुता- द.
मार्कण्डेय- मृक्षगु- द.
मार्ग- √गृ द.
मार्जन-, मार्जनीय- √मृजू द.
१मार्जरी^१- -रः स्व ६१: २३; -राः
स्व ६१: २२.
१मार्जरी-
२मार्जरी^१- -री १संन्या
२, १०१.
मार्जार-मूपिका(क-आ)थ- -थैः
शि ५, ९.
२मार्जरी(र>)री^१- -रि हंपो ११.
मार्ताण्ड^१-
मार्ताण्डा(सह-आ)दि-
मार्ताण्डादि-आन्व(नु-आ)-
दित्य-हंस-सूर्य-दिवाकर-तपन-
भास्कर- -राः सूता ५, ५.
मार्दव- मृदु- द.
मालती^१-
मालती-दाम-भूषित-शरीर-
-रः राधा ३, ११.
माला^१- -ला गोड ५८; वड ५, ३२;

-लाम् राजा १, १७; -लायाम्
वड ६, ३२.
माला-मनु^१- -नुः गर २, १२;
-नोः राष्ट्र ४, ४५.
मालामनु-वर्ण- -र्णान् राष्ट्र ३, १.
मालामनु-वर्ण-पट्टक- -ट्टकम्
गर ३, १.
माला-मन्त्र- -न्त्रः राष्ट्र ४, ५१;
-न्त्रम् नाप ३, १८.
माला-व(ग-)वी^१- -वी गर
२८२: १०.
माला-क(मा -)स्ता- -स्ताः वी १,
४९.
√मालि, माल्यते गोड ५८.
मालिन्^१- -ली राष्ट्र २, ४.
मालिनी^१- -नी १ ४२७: ७;
-नीम् त्रिंश २, २८.
माल्य- -न्यानि गर २७०: १०.
माप^१- -थैः म २, २५.
माप-क-
मापक-मायक- -कम् शि ६,
१०२.
माप-मन-जल- -लम् आय ५.
माप-मा(ध>)या- -याम् कुं १०.
माषा(ष-अ)पुषा(प-आ)दि- -दि
१संन्या २, ७६.
मास^१- -सः प्र १, १२; त्रिंश ३, ४;
१संन्या १, १; -सम् ते ६, १०९;
त्रिंश २, १२०; शां १, ७, ५०;
इ १३: १८; -साः तै १, ४, ३;
वृ १, १, १; ३, ८, ९, ९, ५; मना
१, २९^१; २, ८०^१; गु २१; गी
८, २४; २५; -सात् ते ६, ८०;
-सान् छां ४, १५, ५; ५, ९, १;
१०, १; ३: वृ ६, २, १५; १६;

आम ४: नाप ४, १५; १संन्या
१, १; पप ४१९: १०^१; शा
२०; कशु १, १; आश्र ३; इ
१३: १४; -मानाम् जाद ४, ४५;
गी १०, ३५; -से गर्भ ३^१; मृ १६;
निक १, १२; २१; -से-से यो २,
४७; -सेन गर २३३: ५; मृ १८;
-सेभ्यः छां ४, १५, ५; ५, १०,
२, ४; वृ ६, २, १५; १६; -सेषु
त्रिंश २, ११२; -सैः मैत्रि ६, २८;
अना २९; १संन्या २, १०४;
-सौ १संन्या १, १.
माम^१- -मामि वृ ६, ४, २२^१; गर्भ
३^१; वी २, ८^१; अना ३०; नाप
७: रा ४२३: २०; ४२४: ३.
मास-चतुष्क- -ष्केण निक १, १२.
मास-तस्य () पाश १६.
मास-त्रय- -यात् शां १, ७, १; -येण
गर्भ ३: निक १, ११.
मासत्रया(य-अ)भ्यास- -सात्
१थोत ४४.
मास-द्वय- -यम् त्रिंश ३, ४; -यात्
योचु ०, ८; -येन गर्भ ३.
मास-मात्र- -त्रम् जाद ६, २९;
-यात् निक १, १०.
मासा(स-अ)भ्यन्तर- -रे गर्भ ३^१.
मासा(स-अ)वधि- -धि त्रिंश २,
१२५^१.
मासिक- -कम् व ४३३: १९.
माहाचमस्य-, माहात्म्य- माहा-
रजन-, माहालक्ष्म्य- √मह द.
माहित्यि^१- -स्थिः, -स्थेः वृ ६, ५, ४.
माहिपिक- ४माहिष- द.
माहेश्वर- √मह द.
√मि, मिनोति मां ११; वृ २, ७.

a) वस. । b) पा. ? अनुपल्लव-> -वः इति शोधः द. (तु. J.C.) । c) व्यु. ? = विडाल- । d) = वृषि विशेष- ।
e) व्यु. ? = देवी विशेष- । f) वैपश् यद्र. । g) व्यु. ? = जाती- । h) व्यु. ? = वषा. । i) उप. = १मनु- । j) °क्यह° इति
आन., बे., चांआ ३, ४ । k) = गण विशेष- । l) तैआ १०, १, २ । m) तैआ १०, ६४, १ । n) "सि इति निसा.
यनि. शोधः द. (तु. अख्या.) । o) पा ६, १, ६३ । p) अ १०, ८४, ३ । q) °से इति अख्या. । r) °सान् इति
अख्या. । s) °रेण इति आन., अख्या. । t) °धिः इति निसा. । u) व्यु. ? = गोत्रप्रवर्तक-श्रुषि विशेष- ।

मिति- -ते: मां ११; वृत् २,७.
 मित- √मा(माने) द्र.
 रमित्र^{१४} - -त्र: तै शां^{१५}; मना २,
 १५^{१६}; वृत् २, १७^{१७}; ए १२;
 अह्ना १^{१८}; विद्या शां^{१९}; वत्
 ४, १७; -त्राय सू १९; सूता
 ४, ४.
 रमित्र- -त्रम् गार ४०७ : ६.
 रमित्र-महस- -०ह: सूता २, ८;
 ३, १०.
 मित्र-रवि-सूर्य-भानु-खग-पूव-
 हिरण्यगर्भ-मरीच्या(नि-आ)-
 दिव्य-सवित्र(तृ-अ)कै-भास्करा-
 (र-आख्या>)ख्य- -ह्यै: सूता
 १, ३२.
 मित्रा(त्र-आ)दि- -दय: सूता ५, ६.
 मित्रा-वरुण^१ - -णौ मैत्रि ७, ५;
 दे १^{१६}.
 मैत्रावरुण- -ण: प्रा ३-४, १;
 -णम् गार ४०७ : ८.
 मैत्रावरुणी- -णी वृ ६, ४,
 २८.
 रमित्रे(त्र-ई)श-नाथा(ध-आ)-
 टिमका- -काम् विद्या १.
 रमित्र^{१५} -
 मैत्राय(ण^{१६}>)णी^{१७} - -णी सु १,
 १, ३२.
 मैत्रि^१ - -त्रि: मैत्रि २, २; -त्रिणा
 मैत्रि २, ३.
 ३-धमित्र- √मिद् द्र.
 मित्रयु^{१८} -
 मैत्रेय^{१९} - -०य भव १, ५६; -य: छां
 १, १२, १, ३; मैत्रे २, १; -येण
 मै २, ३.
 मैत्रेयी^{२०} - -०धि वृ २, ४, १, ५;

४, ५, २; ६; -यी वृ २, ४, १, २;
 ३; १३; ४, ५, १^{२१}; ३; ४; १४; १५.
 √मिथ्(वधा.)
 मिथ्स(>):^{२२} अत्र ४, ८१.
 मिथु^{२३} आपे ९:४; छाग २४:८; बा
 ६; शौ ५३: ८.
 रमित्युन^{२४} - -नम् प्र १, ४; १५; छां
 १, १, ५; ६; वृ २, ४; ४, ४; नाप
 ३, ५६^{२५}; ५७^{२६}; सावि १-९;
 -नात्-नात् छां २, १३, २; -ने
 छां २, १३, १; २; -नौ छां १,
 १, ६.
 मिथुनी √भू, मिथुनीभवति
 छां २, १३, २.
 रमित्युन^{२५} - -नम् वृ १, ५, १२.
 मैथुन- -नम् छां ३, १७, ३;
 शारी ४; १संन्या २, ८८; कर
 ६; रा ४२५: २३; कश्रु ३, ६;
 -नात् मै ३, ४; मैत्रि ३, ४; मैत्रे
 १, ३; -नान् क २, १, ३.
 मैथुन-त्याग- -ग: शां १, १.
 मिथ्या^{२६} गौ २, ७; ४, ३२; नि ४७;
 ते ५, ४३-४५; ४७; ५२; ५४;
 ५५; ५८; ६, ७३; महा ५, १६५;
 २अव ३३७ : ६; योशि ४, ४;
 १२; पं ३३३; सु २, २, १४; गी
 १८, ५९.
 मिथ्या(थ्या-आ)चार- -र: गी
 ३, ६.
 मिथ्या-ज्ञान- -ने वरा २, ६८.
 मिथ्याज्ञान-समुद्भव- -वम्
 राउ ५, १३.
 मिथ्या-तर्क- -कंण योशि १, ३४.
 मिथ्या-त्व-
 मिथ्यात्व-कारण- -णात्

पत्र २, १.
 मिथ्यात्व-भान- -नात् मं
 २, ३, ५.
 मिथ्या-दर्शन- -नम् मै ४, २;
 मैत्रि ४, २.
 मिथ्या-दृष्टान्त-हेतु- -तुभि:
 मैत्रि ७, ८.
 मिथ्या(थ्या-अ)ध्यास-वश-
 -शात् नि १७.
 मिथ्या-प्रतीति- -ति: त्रिन्ना २,
 ३०.
 मिथ्या-भूत- -तान् त्रिभि ५, ४.
 मिथ्या-मनोरम- -मम् मै ४, २;
 मैत्रि ४, २.
 मिथिला^{२७} -
 मैथि(ल^{२८}>)ली^{२९} - -लीम् राष्ट्र
 ४, २५.
 मिथिला-पुर- -रे महा २, १९.
 √मिद्(वधा.)
 रमित्र^{३०} - -त्र: कृ १६.
 रमित्र^{३१} - -त्रम् ते ४, १९; स्व
 ६२: २; शि ६, १६७; पित्र ५,
 ६; -त्रा मना २, ७९^{३२}; -त्राणि
 महा ४, २८; शा ३०; -त्रे जाद
 १, १६; गी १२, २८.
 रमित्र- -त्र: नाप ६, २५;
 गी १२, १३.
 मैत्री- -त्री महा ६, ३०;
 वरा १, १३; -त्रीम् महा ५, ७१.
 मैत्री-करुणा-मुदितो-
 (ता-उ)पेक्षा- -क्षाणाम् योसू १,
 ३३.
 मैथ्या(त्री-आ)दि-
 -दिभि: अत्र ४, १७; सु २, २,
 ३४; -दिषु योसू ३, २४.

a) वैप१ यद्र. । =देवताविशेष- । b) ऋ १, ९०, ९ । c) तैआ १०, १४, १ । d) ऋ १, ४०, ५ । e) ऋ १,
 ५०, ११ । f) पा ६, ३, २६ । g) 'मित्रावरुणा' इति ऋ १०, १२५, १ । h) व्यु. १ =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- ।
 i) पा ४, १, ९९ । j) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । k) व्यु. १ =ऋषिविशेष- (तु. पा ७, ३, २) । l) पा ६, ४, १७४ । यद्वा
 रमित्र- + स्वार्थे ङ् प्र. १ । m) वैप१ यद्र. । n) =संन्यासविशेष- । o) =मैथुन- । p) अव्य. । q) पा ४,
 ३, ८९ । r) =विप. । s) =सुहृद्- । t) तैआ १०, ६३, १^२ ।

मुकुली-कृत्य वरा ५, ३३.
 १मुक्त-√मुच् द्र.
 २मु(क्त>)का^{१३} -क्ता: महा ६, १६.
 मौक्तिक-कम् शि ६, १००;
 सिशि ३८२: २१; -के जाद १,
 ११.
 मौक्तिकी-कीम् द ३.
 मौक्तिका(क-आ)द्या(दि-आ)-
 भरणा(ण-अ)लंकृत(त>)ता-
 -ता सी ५.
 मुक्ता-खचित(त>)ता- -ता सार
 २६७: १८.
 मुक्ता-गुच्छ- -च्छै: सार २२५: २;
 २३३: १०.
 मुक्ता-गुम्भित-हार-बल्ली-द्वय-
 -नौ सार २४५: २.
 मुक्ता-मणि-विभूषित- -तम् ध्या
 २८.
 मुक्ता-यू(थक>)थिका- -का: सार
 २७०: २३.
 मुक्ता(क्ला-अ)लंकार(र>)रा- -रा
 सौ १, ३.
 मुक्ता-लता- -ता: सार २२५: २;
 २३३: १०; २४२: ५; -ताभि:
 सार २३७: १२.
 मुक्तालता-अथित(त>)ता- -ता
 सार २५३: १०.
 मुक्ता-हार- -रस्य महा ३, ४१; या
 २, ७.
 मुक्ताहार-प्रलम्बिन्- -म्बिभि:
 शि ६, १४८.
 मुक्ताहार-विभूषण- -णम् द
 १४.
 मुक्ताहार-समायु(क्त>)क्ता-
 -क्ता सर ३, ३.

मुक्ति-, मुक्त्वा √मुच् द्र.
 मुख^१- -खम् ई १५; ऐ १-२, ४; छां
 ४, २, ५; १४, २; वृ १, ५, २;
 ५, १४, ८^२; १५, १४^०; ६, ४,
 ९-११; २१; श्वे ४, २१; मैत्रि ६,
 ३५४^०; हं १४; गर्भ ५; मना २,
 ३५४^०; ८०४^०; कौ २, ९^५; वृपू १,
 १५^१; वृजा ३, ३१; ४, १; ५; ११;
 सुबा १४^०; ते ६, ६; त्रवि ७४;
 नाप ६, १; द १९; अत्त २; ३;
 यो १, १४; २६; ३२; त्रि ११;
 आच ८; पिं ६; शि ६, १४६;
 गार ४०८: ७; गा २६; २७;
 गु १६; पी ४२२: १; व ४३६:
 ११; १४; वउ ६, १६; गी १,
 २८; -खा नी २, ११४^०; -खात्
 ऐ १, ४; छां ८, १३, १; वृ १,
 ४, ६; कौ ३, १^१; सी २०; सु १,
 १, ४१; वउ ३, १७; ४८; ४९;
 -खानि शि ६, १२४; गी ११,
 २५; -खे गर्भ ५^१; वृजा ४, ३;
 ते १, ४^३; प्रा २, १; इ १९; १५;
 वपं ३११: ५; व ४५२: ६;
 वउ ६, २९; भव १, ४३; गी ४,
 ३२; -खेन छां ३, ६-१०, १;
 ३; ४, २, ५; वृ १, ५, २; ६, ४,
 ९-११; २१; कौ २, ९^{१०}; ध्या ६६;
 त्रिवा २, ६४; योच् ३६; ३७;
 शां १, ४; ७, ३७; योशि १, ९५;
 यो १, ८३; शि ७, ६९.
 मुख-तस(>) तै ३, १०, १^१.
 मुख-त्रय- -यम् शि ६, १४०.
 मुख-नासिका- -काभ्याम् प ३, ५.
 मुख-नासिका(का-अ)क्षि-श्रोत्र-
 -त्रम्^१ निरु १, १३; -त्राणि गर्भ ३^{१३}

मुख-बीज-सप्तक- -कम् श्या ४.
 मुख-मण्डल- -लम् सार २६५: ८;
 व ४६६: ५.
 मुख-युक्त- -कम् रुजा २, १.
 मुख-वत्- -वान् अव्य २.
 मुखवती- -ती मै ५, ५; मैत्रि
 ६, ५.
 मुख्य, ख्या- -ख्य: छां १, २, ७; ५,
 ३; पर्व १^३; १योत २८; अव्य ५;
 वउ १, २३; २, १३; ३८; ५, ५०;
 -ख्यम् वृजा ५, ३; सुबा ९^३;
 १५; ते ४, २६; ५, ४४; यो १,
 ८; ७८; सार २७९: १७; सिशि
 ३८१: १४; वउ ६, ३५; गी १०;
 २४; -ख्यया अक्षि ११; -ख्या
 १योत २९; त्रिवा २, ३९^{११}; -ख्या:
 शां १, ४; जाद ४, ६; ८; २५;
 -ख्यान् त्रिवा २, २^{११}; -ख्याम्
 गोउ ५; -ख्याय पा २, १; ६, ६;
 -ख्येन २प्र ३३: २०४^०; -ख्यौ
 पा ५, ९.
 मुख्य-त(म>)मा- -मा: जाद
 ४, ९; गु १.
 मुख्य-त्व- -त्वम् गौ ३, १४;
 -त्वात् प्रसू ४, ३, १२.
 मुख्य-द्वार- -रम् वृपू १, ११.
 मुख्य-वस्तु- -स्तु नाउ ३, ४.
 मुख्य-विज्ञान-विग्रह- -ह: ते
 ६, ६८.
 मुख्य-वृत्ति-काम- -म: नाप
 ३, ७७^{११}.
 मुख्या(ख्य-आ)धार- -नौ पा
 ५, ९.
 मुख्या(ख्य-आ)नन्द-महो-
 (हा-उ)द्वय- -व्य: ते ६, ६८.

a) व्यु. १ = मणि- । b) बप्रा. वैप १ यद्र. । c) मा ४०, १७ । d) तैत्र्या १०, ३५ । e) तैत्र्या १०, ६४, १ ।
 f) मन्त्रगतस्य सर्वतोमुख-> -खम् इत्यस्याऽन्तिमोऽवयवः । g) ऋ १०, ९०, १२ । h) मा १६, १३ । i) °खम्
 इति अब्या. । j) °खात् इति आन., °खम् इति अब्या. । k) °खानि इति आन. । l) प्राणयज्ञतयैकवद्भावः
 (पा २, ४, २) । m) 'नासाक्षिणीश्रोत्राणि' इति आन., 'नासाक्षिश्रोत्राणि' इति अब्या. । n) °ख्यात् इति निसा. ।
 o) °खेन इति गोत्रा १, १, २३ । p) °त्तिका इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अब्या.) ।

मुक्तामुक्त-वपुस- -पुः अन्न
५, ९.

मुक्तामुक्त-विवर्जित- -तः
ते ४, ६५.

मुक्तामुक्त-स्वरूपा(प-आ)-
त्मन्- -त्मा ते ४, ६५.

मुक्ता(क-आ)सन^{१०}- -नम् त्रिब्रा
२, ४६९^{१५}; शां १, ३, ९९^{१५};
जाद ३, १; ८९^{१५}; ९९^{१५}; वरा ५,
१६.

मुक्तासन-सुख-गोष्ठी- -ष्ठी
निवा २९७ : ६.

मुक्तो(क-उ)पभोग- -गः सांसू
६, ४४.

मुक्तो(क-उ)पसृप्य-व्यपदेश-
-शात् ब्रसू १, २, २.

मुक्ति^{१०}- -क्तयः सार २५७ : २०;
२८५:२१; -क्तये मं ५, १, १; शां
१, ७, ३; सु १, १, ५; -क्तिः वृ ३, १,
३-६; ब्रवि ३; १०; मैत्रे २, १६^१;
वृजा ७, २; ते २, ४३; आबो १९;
नाप ५, १; २; त्रिब्रा २, १५८;
मं २, ३, ६; त्रिवि ८, ११; पै ४,
२३; महा ५, २; २३; २६; द,
७७; योशि १, १; १४०; १४४;
१६३; १६३^१; ६, २६; ४२; अन्न
२, १८; ५, ८५; पाशु १, २६; पत्र
२; त्रिता ५, १; वरा २, ५७;
५, ८; ह ९; सौ १, ३; सु १, १,
१५; १७; २३; २५; सार २९१:
१२; शि ७, ३८; अबि ३; सांसू
३, २३; २५; ५, ७४; ८५; ६, २०;
-क्तिम् मैत्रे २, ३; २०; शु १, ६;
स्क १२; त्रिवि २, ६; रार २,
८७; राउ ३, ३^१; गोउ २६; वरा
१, १; ४, ४१; सु १, १, २०; ४३;
शि १, ३०: २, २२; ३१; ५,

२६; ६, ९३; १२८; ७, २८; ७३;
७४; ९८; भव ५, २३; वपू १,
४; वउ ६, ४८; -क्तैः १अव ९;
भव ३, १४; -क्त्यै ब्रवि २०; मै
४, ४, ११; त्रिता ५, ३; अबि
२^१; शा १.

मुक्ति-कर- -रम् १योत ५.

मुक्ति-कल्पक-तरु- -रवे त्रिवि
७, ४३.

मुक्ति-कल्प-तरु-वन- -नैः
सि ४, ४; ५, १०.

मुक्ति-काम- -मानाम् भ २, १६.

मुक्ति-क्रम- -मम् पाशु १, ३१.

मुक्ति-गोहि(र>)नी- -नी कृ ३^०

मुक्ति-ग्रन्थि-संचय^१- -यम् ते
१, १३.

मुक्ति-तारक- -कम् १योत ५^६.

मुक्ति-द, दा- -दः रार ५, ११;

वा ७; गोच ६६:५; -दम् रार

५, ११; १४; -दा महा ५, ११३;

ऊ ६३ : १४.

मुक्ति-फला(ल-अ)नियम- -मः

ब्रसू ३, ४, ५२.

मुक्ति-भाज्- -भाक् मं १, १,

११; पत्र ३, ४; १२; -भाजः वरा

४, ३४.

मुक्ति-भाजन- -नम् योचू ४५;

-नाः शि १, ३६.

मुक्ति-मण्डप-संज्ञा-

मुक्तिमण्डपसंज्ञित- -तम्

भ २, २८.

मुक्ति-मार्ग- -गोषु नाप ६, १७.

मुक्तिमार्ग-प्रवर्तक- -कः

नाप ३, ४.

मुक्ति-रूप(प>)पा- -पा योशि

६, ५५.

मुक्ति-श्रुति- -तिम् वृजा १, १.

मुक्ति-सहि(त>)ता- -ताः योरा
१९.

मुक्ति-साधन- -नम् वा ५; शा
१०; गोच ६६: २.

मुक्ति-सिद्धि- -द्धये राउ ३, ५.

मुक्ति-स्थान- -नम् भ २, २८^१.

मुक्ति-स्वरूप- -पम् लि ३०९: २

मुक्ति-हीन- -नः मैत्रे ३, २२^५.

मुक्ति-हेतु- -तवे योरा ७.

मुक्तिहेतु-स्व-

मुक्तिहेतुत्वा(त्व-अ)-

भाव- -चात् मं २, ३, ३.

मुक्ति-हेतु(क>)की- -कीम्

नाप ३, ७२^१.

मुक्त्य(क्ति-अ)र्थ- -र्थम् भ २,

२८; शि १, २८; -र्थे शु २, ५.

मुक्त्यु(क्ति-उ)पाय- -यः नाप १.

मुक्त्वा ब्रवि २१; त्रिब्रा २, १०८;

नाप ३, ६६; योशि १, १२७;

१संन्या २, ८४; जाद ६, १८;

सार २९२ : १९; गी ८, ५.

मुञ्चत्- -ञ्चन् ध्या ६९; योचू ४०.

मुमुक्षा- -क्षा ब्रवि १०; वरा २, ४.

मुमुक्षु- -क्षवः वृपू २, १७; राउ ५,

३; भ २, २९; सु १, २, ६; -क्षुः

खे ६, १८; गौ २, ३२; वृपू १,

११; काला १०; १योत १५;

नाप ६, २१; ७; त्रिवि ८, १८;

वा ३५; पै ४, १; योशि १, १४;

१आ ३१; पत्र ३, २; १अव ८;

त्रिता ५, १०; गोपू २२; २३;

वरा ४, १; जाबा १९; गु ७२;

अबि १०; -क्षुणा ब्रवि ३;

योशि १, १५; त्रिता ५, १; अबि

३; -क्षुभिः ध्या ९; अता ५;

त्रिवि ७, २०; महा ४, ७५; योशि

१, ६६; १संन्या २, ६८; कः ७:

a) =योगासनविशेष- । b) °क्तिः इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्ज्या.) । c) 'मुक्तम्' इति आन. ।

d) 'मुक्तम्' इति आन. यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्ज्या.) । e) मौ° इति अञ्ज्या. । f) पा! बस. । °क्तिं ग्रन्थ° इति
आन., मुनिग्रन्थ° इति अञ्ज्या. संटि. । g) मृत्युता° इति निसा. । h) मुक्त° इति अञ्ज्या. । i) °हेतु° इति अञ्ज्या. ।

मोक्ष-साम्राज्य-दायि(न्) >-
नी- नीम् अन्न १,३.
मोक्ष-सिद्धि-द- -दः महा ६,
५८.
मोक्ष-स्वरूप- -पम् त्रिवि ५,३.
मोक्ष-हीन- -नः मैत्रे ३,२२.
मोक्ष-हेतु- -तवे योशि १,६६;
-तुः पै ४,१९; महा ४,७२; भ
१,८; वरा २,४३.
मोक्षा(क्ष-आख्या) > > > > > >
-ह्यम् अन्न ५,५३.
मोक्षा(क्ष-आ)त्मन्- -त्मा ते ४,
३६.
मोक्षा(क्ष-आ)नन्दै(न्द-ए)क-
सिन्धु- -न्धुः आबो ४.
मोक्षा(क्ष-आ)पेक्षिन्- -क्षी पत्र
३,१४.
मोक्षा(क्ष-अ)र्थ- -र्थम् शि ७,
७४.
मोक्षार्थिन्- -र्थिनाम् भि १;
-र्थिभिः ऊ ६४ : २; -र्थी नाप
४,३८; शि ७,११७.
मोक्षार्थि-त्व- -त्वम् मु
२,२,६८.
मोक्षा(क्ष-आ)श्रम^० - -मात्,
-मे शा २८.
मोक्षा(क्ष-आ)स्था- -स्थाम् महा
६,५३.
मोक्षिन्- -क्षी वृजा ७, १; ता
१,१; दत्ता १,६; ७.
मोक्षे(क्ष-इ)च्छा- -च्छापै २,५०
मोक्षै(क्ष-ए)क-कारण- -णम्
१कौल २ : ३.
मोक्षै(क्ष-ए)क-सिद्धि- -द्धिः
आपू ८.

मोक्षो(क्ष-उ)पगमन- -नम् शि
१,१८.
मोक्षो(क्ष-उ)पदेश- -शात् ब्रम्
१,१,७.
मोक्षो(क्ष-उ)पलब्धि- -ब्धिः
भ १,१.
मोक्षो(क्ष-उ)पाय- -यः त्रिवि ५,
३; जावा २; -यम् शि ७,११६.
मोचक- -कः भ २,१७.
मोचन-
मोचना(न-अ)वधि- -धि वरा
२,७४.
मुञ्चत्- √मुच् द.
१मुञ्च^b- -ञ्जात् क २,३,१७.
मौ(ञ्) > > > > > > >
मौञ्जी- -ञ्जीम् आर ५^०.
मौञ्जी-कौपीन-सहित- -तम्
रार २,१०६.
२मुञ्च^{td}-
मौञ्जाय(न^०) > > > > > > >
नी^१ - -नी गु ३.
√मुण्ड > > > > > > >
१मुण्ड^{११६}-
२मुण्ड^{१०५}- -ण्डः जा ५; नाप ३,
८६; या २,१; -ण्डाः आश्र ४.
मुण्ड-मात्र- -त्रम् शा २०^१.
मुण्डिन्- -ण्डी नाप ६,२४; वरा
१,१७; शा १८.
मुण्डन- -नेन नाप ५,२^१.
मुण्डित-
मुण्डित-मुण्ड- -ण्डः गुणो
४२१:८; पी ४२२ : २०.
मुण्डित-शीर्षक- -कः भव १,
५५
√मुद् > > > > > > >
मोदि, मोदते क १,१,१२;
१८; २, १३; मैत्रे २, २२; पंह
४^k; द १; रापू ४,२२; योशि ६,
६७; अक्षि ४; यो १,८६; वि २०;

शि ६,१८; ५५; ९८; ९९; १०१;
१०३; १९९; २३९; २५३;
मोदन्ते सार २२५ : ५; २शिसं
२५; हे ५; मोदस्व ते ४,८१.
मोदिव्ये गी १६,१५.
मुद्- मुदः वृ ४, ३,१०^३; मुदम्
१योत १३१; हे १४; मुदा शु
१,७; ते ६,११०; सार २५४;
३; ६; शि ६,११४.
मुद्^१-
मुदा(द-अ)सृत- -तः ते ५,६१.
मुदा-
मुदा(दा-अ)न्वित- -तम् गर ५.
मुदि-
मुदि-ता- -ता वरा १,१३.
मुदिता-मुदिता(त-आ)ह्य-
-ह्यः मैत्रे ३,१६.
मुदित- -तः अक्षि ३५; -ताः महा
४, १७.
मुदित-मानस- -सः महा २,२७.
मुदिता(त-आ)त्मन्- -त्मानम्
महा २,२८.
मोद- -दः तै २,५,१; ते ४,२२;
१अव ३; -दम् नाप ३,७७^m.
मोद-प्रमोद-रूपा(प-आ)-
त्मन्- -त्मा ते ४,६७^m.
मोद-प्राय- -येण पा ८,१.
?मोदादिविनिवर्जित^०- -तः ते
४, ६७.
मोदिन्- -दी मैत्रि ६,३३.
मोदिनी^१- -नी आथ ३९,८:९
मोदक^१- -कैः वपू २,५.
मोदक-पृथुक-लाज-सक्तु-रम्भा-
फले(ल-इ)क्षु-नारीकेला(ल-अ)-
पूप- -पान् वउ ६,४५.

a) =संन्यासाश्रम- । b) वैपश् यद्र. । c) 'अजिनम्' इति आन., अज्या. । d) व्यु. ? =गोत्रप्रवर्तक-श्रुषि-
विशेष- । e) पा ४,१,९९ । f) =आथर्वणशाखाविशेष- । g) =शिरस्- । h) =संन्यासिन्- । i) मूर्धमा^० इति
अज्या. । j) 'मुण्डेन' इति अज्या. । k) 'मोदम्' इति आन. यनि. शोधः द्र. (तु. निसा., आन. संटि.) । l) कः प्र.
(पा ३,१,१३५) । m) निसा. ? मोक्ष-द- > -दम् इति शोधः द्र. (तु. अज्या.) । n) मोदः प्र^० इति अज्या. संटि. ।
o) पा. ? 'मोदामोदविवर्जित- > -तः' इति शोधः द्र. (तु. अज्या. संटि.) ।

मुनि-पुंगव- -०व महा ४, ५९;
अन्न १, ११; यो २, ४०; जाद
१, १७; ३, २; ४, ४-६; १९; २८;
३१; ४७; ५६; ६, ४३; ८, ७; या
२, २४; -वः अन्न ३, १६; -वाः
सर १, २.
मुनि-प्रोक्त- -क्तम् जाद ४, ३^६.
मुनि-भावित- -तः सु २, २, ५५.
मुनि-वत् सांसू ४, २७.
मुनि-वर- -रः जाद १, २.
मुनिवर-निकर- -रैः द ८.
मुनि-राज्- -राद् महा २-३, १.
मुनि-शार्दूल- -०ल अन्न ४, १.
मुनि-श्रेष्ठ- -०ष्ठ शु ३, १६; महा
३, २२; अन्न १, ४४; रुजा २,
२; जाद ३, १०; ४, ३; ३७; ४४;
१०, ५; -ष्टाः सु १, १, १५^६.
मुनि-सत्तम- -०म जाद ४, ११;
२६; वरा ५, १५; वि ६; -मैः
शि १, ७.
मुनि-सम- -मः वउ ५, २१.
मुनी(नि-इ)न्द्र- -न्द्राःशि ७, १३८.
मुनीन्द्रा(द्र-आ)त्रेय-भाषित-
-तम् शि ७, १३४.
मुनी(नि-ई)श्वर- -०र शां १, ७,
२४; महा ६, ४७; ८२; रुह २९;
जाद १, ९; ६, १०; वरा २, ८;
३, २७; -०राः रार ४, १२.
√मुमुब्, सुसुक्षा-, सुसुख-√मुच् द्र.
√मुमूर्ष, सुमूर्ष-√मृ द्र.
मुर्^{१०}-
मुरा(र-अ)रि^१- -रये नाउ २, ११.
√मुर्छ^१ √मूर्छ^१ द्र.
मुल्द-मुल्द^१ व ४३४ : १५.
मुष्क^{१०}- -कौ वृ ६, ४, ३.
१मुष्टि^{१०}- -ष्टिः छां ७, ३, १; -ष्टिभिः
पै ४, २२.

२मुष्टि^१-
मुष्टि-क^१- -कः कृ १४.
मुसल^{१०}- -लैः शि ७, १०४.
मुसला(ल-आ)दि- -दिभिः गोउ
२७.
मुसलो(ल-उ)लूखला(ल-आ)घ-
-घानि शि ६, २१०.
√मुद्, > मोहि, मुह्यते सुवा ९; त्रिभ्रा
२, १६; योशि ६, ६८; मुह्यति
महा ६, ७३^६; अन्न ४, ३४; रुह
४६; गी २, १३; ८, २७; मुह्यन्ति
गी ५, १५.
मुमुहुः सार २३४: १५; अमुहन्
छाग २३: १३.
मोहयति रार २, ८८^६; हे ९;
मोहयसि गी ३, २; मोहयेत्
श्या २०.
अमूमुहत् वृ २, ४, १३.
मुग्ध- -ग्धः नाप ३, ६२; ६८; वृउ
६, ४; -ग्धाः वृ ६, १, ११; -ग्धे
ब्रसू ३, २, १०.
मुग्ध-चेतस- -तसः महा ३, ४५;
या २, ११.
मुग्ध-तर-
मुग्धतर-मुनि-शब्द-
वाच्य- -च्यैः स्व ६१ : २.
मुह्यत्- -ह्यते सु १, १, ४८.
मुह्यमान- -नः सुं ३, १, २; श्वे ४, ७.
मूढ- -ढः वृउ ९, ८; मैत्रि २, २२;
नि १०; ४४; ४५; १योत ७७;
नाप ३, ४८; ४, २८; महा ५,
२७; अन्न ४, ५; जाद १, २२;
वरा ४, ३; पित्र २, ७; गी ७,
२५; -ढम् क १, २, ६; भव १,
९; -ढस्य आबो २६; -ढाः क
१, २, ५; सुं १, २, ७; ८; मैत्रि ७,
९; १०; योशि १, ३४; ४६; १२३;

१आ १७; सांका ३८; गी ७,
१५; ९, ११; १६, २०; -ढानाम्
योचू ४४; शां १, ७, ३७; योशि
६, ५५; -ढैः वृउ ९, ४; ते ६, ९६;
भव १, ४४.
मूढ-ग्राह- -हेण गी १७, १९.
मूढ-ता- -ता ते ६, १५; -ताम्
अन्न ४, १६.
मूढ-त्व- -त्वम् मै ३, ५; मैत्रि
३, ५.
मूढ-धी- -धीः नाद २७.
मूढ-घोनि- -निषु गी १४, १५.
मूढ-वत् १अव ६.
मूढा(ढ-आ)त्मन्- -त्मा जाद
४, ५७.
मोह- -हः ई ७; ते ४, १९; ६,
१३; ३६; नाप ९, १२; महा ५,
४; ९; ६, १३; वरा ४, ४२; सार
२९२ : ६; भव ३, १०; वउ ५,
२९; गी ११, १; १४, १३; १८,
७३; -हम् प्र २, ३; वृ २, ४,
१३; ३, ५, १; ४, ५, १४; कौ
३, ३; ते १, १२; नाप ३, ७०;
दत्ता २; पित्र ६, १५; गी ४,
३५; १४, २२; -हस्य सांका ४८;
-हात् नाप ४, ४; श १; राउ ५,
१५; १६; महा ५, ६७; योशि १,
६३; १संन्या २, ६३; शि ७,
१०४; १०५; १११; ग १७; गी
१६, १०; १८, ७; २५; ६०; -हेण
शि ७, ११२.
मोह-कञ्चुक- -कम् शि ४, ६६.
मोह-कर- -०र अन्न ५^१.
मोह-कलिल- -लम् गी २, ५२.
मोह-गुण-जाल-कलित-
-तम् निर्वा २९७ : १२.
मोह-जाल- -लस्य मैत्रि ७, ८.

a) 'मनुजानाम्' इति अञ्घ्या. । b) °ष्ठ इति अञ्घ्या. संटि. । c) व्यु. ? =द्वैत्यविशेष- ।

d) =बीजमन्त्रविशेष- । e) वैपश् यद्र. । f) व्यु. ? =राक्षसविशेष- । g) विसु° इति अञ्घ्या. । h) संमो° इति अञ्घ्या. ।

मोहजाल-क-
मोहजालक-निर्धृत-
-तः २५५ ३३८: ७.
मोहजालक-मंघात-
-तम् त्रिधा २, १६५.
मोहजाल-समावृत्त- -ताः
गी १६, १६.
मोह-पङ्क- -कै महा ५, २१.
मोह-भानु-ज-संक्रान्त-
-न्तम् ६ १७.
मोह-मद्दिरो(रा)-उन्मत्त-
-त्तम् मैत्रि ४, २.
मोह-मन्दिर-रम् मैत्रि २, १२.
मोह-म(य>)थी- -थी मैत्रि
२, १३.
मोह-मल- -लम् वरा ५, ६६.
मोह-महिमन्- -म्ना पित्र ५, ४.
मोह-मात्र- -त्रम् पित्र ५, २.
मोह-माया- -यायाम् महा ५,
१६८.
मोह-राग- -गौ शारी ४.
मोह-राहु-मुषिता(त-आ)म्-
तेजस्- -जसि वरा २, ७४.
मोह-रूप- -पम् त्रिधा २, ८.
मोह-लोभ-मद- -दः(इदा: ६)
१योत १२; योशि १, १०.
मोह-वश- -सम् व ४६५: १९.
मोह-संक्षय-कारि(न्>)णी-
-णी महा ४, ११४.
मोह-सागर- -रे योशि १, २१.
मोह-स्तम्भ-बलीयस्- -यसा
शि ७, १०३.
मोहा(ह-आ)त्मक- -कम् वृत्
९, ४.
मोहा(ह-आ)न्त- -न्तम् वृ ४,
५, १४.

मोहा(ह-आ)न्धकार- -रे ६१६.
मोहा(ह-आ)र्णव- -वान् महा ५,
४१.
मोहक- -कः भा १८: १०.
मोहन- -०न अत्त ५; शां २१५:
१७; -तम् गी १४, ८; १८, ३९;
-नेन सार २५२: २०.
मोहन-कोदण्ड-रूप-
मोहनकोदण्डरूपि(न्-
णी- -णी आथ ३९८: २०.
मोहन्यन्- -यन् पा ३, ४.
मोहिन- -तः पै १, ३१; यो ३,
२७; पित्र २, ७; -तम् क १०;
गी ७, १३; -ताः १योत ६; श
२८; योशि १, ४; पं १८; स्व
६१: १३; सार २४२: २; गी ४,
१६.
मोहित-चेतस्- -तसः मैत्रि २,
२५.
१मोहि(न्>)नी- -नीम् गी ०, १२
२मोहि(न्>)नी- -०नि व
४२७: २०; ४४९: ८; -नी सार
२२३: ३; पी ४२२: ८; -नीम् व
४३३: ४; ७.
मुहुस्(>): अ २३; १संन्या २, ६७;
अरु ८९; मुहुः-मुहुः ते १, १७;
३४; योशि १, ९२; भ १, ५; सु
१, १, ५; २, ४३; शि १, ९; ७,
५५; भव २, ३३; गी १८, ७६.
१मुहुत्- -तम् आचो ३१; शां १,
७, ५१; वरा २, ३२; -ताः वृ ३,
८, ९; मना १, २९; शु २०;
-ते त्रिधा २, १११.
मुहुर्त-त्रय- -यम् भा ४१.
मुहुर्त-द्वय-पर्यन्त- -न्तम् यो १, १३.
मुहुर्त-मात्र- -त्रम् नाप २.

२मुहुर्त- -ताः कौ १, ३६; -तन् कौ
१, ४.
मुह्यन्- मुह्यमान- √मुह् द.
मूक- -कः ष्या ०३, १; नाप ३, १;
महा ४, १३१; १संन्या २, ३; सु
१०; -काः मृत् ६, ४; -कान् कौ
३, ३.
मूक-वन् नाप ४, ३६; ५, २३.
मूका(ह-आ)न्ध-बधिरो(र-उ)प-
(मा>)म- -मः महा ४, ८; अत्र
५, ११५.
मूकी-√क
मूकी-करण- -णम् महा ४, २६.
मूढ- √मूह् द.
मूत्र- -त्रम् शां ६, ५, २; वृजा ३,
२; ६; नाप ७; योशि ५, २६;
१संन्या २, ७९; भ २, ३०.
मूत्र-क- -कम् ते ६, ७.
मूत्र-द्वार- -रेण मै ३, ४; मैत्रि ३,
४; मैत्रे १, ३.
मूत्र-पुरीप- -पम् श्वे २, १३; गर्भ
५; निरु २, ४; -षयोः ष्या ७३;
नाप ३, ४६; योच ४७; यो १,
५६; -पाभ्याम् १संन्या २, ७२;
व ४६५: ९.
मूत्रपुरीप-वत् १संन्या २, ९१.
मूत्र-श्लेष्म-रक्त-शुक्र-स्वेद- -दाः
शारी १.
मूत्र-सम- -सम् १संन्या २, ७६.
मूत्रा(त्र-आ)दि- -दि सिशि ३८१:
१२; -देः त्रिधा २, ८४.
√मूत्रि
मूत्रित- -तः नाप ५, २८.
मूर्ख- -र्खः १योत ७७०; इ१४: २०;
-र्खस्य महा ५, १६९; -र्खाः स्व
६१: १८.

a) °तः इति निसा. । b) पा. १ यनि. शोधः द. । c) =वायुभेदविशेष- । d) =त्रिप. । e) नाप. =देवी-
विशेष- वा सखीविशेष- वा । f) वैप१ यद्र. । g) तैश्चा १, २७, १ । h) तैश्चा १०, १, २ । i) °तैत्रितयम् इति तान्त्रि. ।
j) अर्थः १ =नाप. । k) °तैः इति अश्या. । l) मुहुर्तान्वि० इति समस्तः अश्या. पा. । m) समाहारे द्वस. ।
n) °षयोः इति अश्या. । o) 'अन्धः' इति निसा. ।

मौर्ख्य- -र्ख्यम् ते ४,२२.
 मौर्ख्यो(र्ख्य-उ)न्मेष-निमेष-
 -घाभ्याम् अञ्ज ५,४२.
 √मूर्(<मु)र्छ, >मूर्छि, मूर्छन्ते कौ
 २, १२५^०; १३५^०.
 अमूर्छयत् ऐ १,३.
 मूर्छा- -र्छा घ्या ८१; योचू ५३;
 पै २,४५.
 मूर्छा-निद्रा-
 मूर्छानिद्रा-मय-
 मूर्छानिद्रामय-निश्वा-
 सो(स-उ)च्छ्वासा(स-अ)-
 भाव- -वाव मं ३,१,४.
 मूर्छित- -तः वरा २,७९.
 मूर्त्,ती^०- -र्त्तः गौ २,२३; -र्त्तम्
 प्र १,५; वृ २,३,१; २;४; मै ५,
 ३^३; मैत्रि ६,३^३; भव ३,२८;
 -र्त्तस्य वृ २,३,२;४; -र्त्ताः छां
 ७,१०,१^१.
 मूर्त्-स्व- -स्वाव सांसू १,५०;
 -स्वे सांसू ३,१३.
 मूर्त्-विद्- -विदः गौ २, २३.
 मूर्त्(त-अ)मूर्त्- -र्त्तं त्रिवि २,
 १६^१.
 मूर्त्(त-अ)दि- -दि ते
 २,३३.
 मूर्त्ति- -र्त्तयः रापू २,३; वा १५;
 गोउ २६; ६३; गोच ६६:१४;
 नापू १,८; गी १४,४; -र्त्तये द
 १; ६; -र्त्तिः प्र १,५; ऐ ३,२^३;
 खे १,१३; मैत्रि ६,१४; योशि
 ६,३३; रुह १५; तारा ८३:
 १७; -र्त्तिम् सूता १,१६; -र्त्तिषु
 शि २,२५; -र्त्ती सार २२०:५;
 -र्त्तीनाम् गोउ ६२.
 मूर्त्ति-वारक- -कम् मं १,३,

१^१;५^१; अता १०.
 मूर्त्ति-त्रय- -यम् ते ३,५१; वि
 २२.
 मूर्त्ति-धर- -राणाम् शि २,२७.
 मूर्त्ति-नैवेद्य-दीप- -पानाम् शि
 ३,७.
 मूर्त्ति-ध्यान- -नम् शां १,१०.
 मूर्त्ति-भू(त>)ता- -ताम् त्रिता
 २,२९.
 मूर्त्ति-मव्- -मव् अता १०५^१.
 -मद्भिः त्रिवि ६,१६; २३; २५;
 ७,४९^१; सि ६, २४; ३५.
 मूर्त्तिमती- -त्यः सार २४२:
 ६; २६७:५.
 मूर्त्ति-रूप-
 मूर्त्तिरूपि(न्>)णी- -णीम्
 त्रिता २,२९.
 मूर्त्ति-स्फोट- -टः षो २०.
 मूर्त्ती(ति-ई)श्वर- -राः शि २,
 २५.
 मूर्धन्^{१०}- -धन् दे ३५^१; -धनि मैत्रि ६,
 २१; अना ३८; त्रिवि ११; भ १,६;
 जाद ६,३५; ७,१२; प्रा २,१६;
 १प्र ३१: १९; -र्धां सुं २,१,४;
 छां १,८, ६^३; ८^३; १०, ९-११;
 ११,४-९; ५, १२, २^३; १८,२;
 वृ २, १, २; ३, ६-१; ९,
 २६^३; व २; कौ ४,२^३; प्रा ४, १;
 गार ४०८: ६; व ४३७:९५^३;
 -र्धानम् क २,३, १६; छां ८, ६,
 ६; वृ १,३, २४; अशि ६, ६५^३;
 कौ २, ११^३; योशि ६, ४; भ १,
 ६५^३; जाद ४, ४४; कुं २१; २२;
 शि ५, ३३; -धन्तः वृ ४, ४, २;
 -र्धां शि ६, १६२; -र्धि मैत्रि ६,
 २३; व ३, १३; वृजा ४, २; २१;

७,८; अना २७^३; नाप ५, १;
 त्रिवा २, ९^३; १९; योचू १०७;
 ११४; शां १, ७, ५२^३; महा ६,
 २४^३; योशि ५, २५; ४९; भ २,
 २; आच १०; वि ३०; शि ५,
 २१; वउ ६, १७; गी ८, १२;
 -ध्नोः काला १२.
 मूर्ध-ज्योत्सि- -त्सि योसू ३, ३३.
 मूर्ध-पर्यन्त- -न्तम् शां १, ४.
 मूर्धा(र्ध-अं)श- -शाः जाद ८, ५.
 मूर्धा(र्ध-अ)ञ्जलि- -जलि भ २, २७.
 मूर्धा(र्ध-अ)दि- -दीनि वृजा ४, १.
 मूर्धा(र्ध-अ)न्त- -न्तम् १योत ९८;
 वरा ५, ५३.
 √मूर्
 १मूल^०- -लम् द ११; -लम् छां
 ६, ८, ४^३; अशि ५, १८; ते १,
 २७; त्रिवा २, १३१; १३२^३;
 १३३^३; पत्र २; रुह १४; यो २,
 ३४; सु २, २, ३६; नार ८; का
 ९; वट ३१७: ६; शि १, १२;
 ३७; वउ ६, २६; सांसू १, ६७;
 -लाव वृ ३, ९, २८, ४^३; ६; -लानि
 गी १५, २; -ले छां ६, ११, १;
 रार २, १२; राधा २, ४; १०; वपू
 ३, १; सांसू १, ६७; यो २, १३;
 -लेन वृजा ४, ८; वपं ३११: ३;
 व ४२६: ४; सुमु ९; वउ ६,
 १२; २१; २३.
 मूल-कन्द^{१०}- -न्दम् यो १, ८२;
 -न्दे सौ ३, १.
 मूलकन्दा(न्द-आख्या>)-
 ख्य- -ख्यम् योरा ६.
 मूल-कारणा(ण-अ)व्यक्ता-
 (क्त-आ)विभाव- -वः त्रिवि
 २, १४.

a) दीर्घः (पा ८, २, ७८) । b) 'मृच्छन्ते' इति आन., 'अञ्जमृच्छन्ते' इति शांश्चा ४, १२; १३ ।
 c) पा ६, ४, २१; ८, २, ५७ । d) ०त्तम् इति निसा. । e) वप्रा. वैप१ यद्र. । f) ऋ १०, १२५, ७ । g) 'मूर्च्छि' इति
 आन. । h) ऋ ८, ४४, १६ । i) शौ १०, २, २६ । j) ऋ ६, ७, १ । k) 'मूर्धद्वारम्' इति आन., अख्या. । l) 'ध्नोः'
 इति अख्या. संति. । m) वटमूल-निवासिन्-> -सिने इत्यत्रत्यो मध्यमोऽशः द्र. ।

मूल-चक्र-रन्ध्र- -न्ध्रे गौ ३, १.
 मूल-च्छेद- -दात् अथ ४, ५४.
 मूल-तरु(ः) भा ४०; सांस् ३, ४५; सांभा ५४.
 मूल-त्रिक- -कम् त्रि ९.
 मूल-स्व- -स्वात् योशि २, ८.
 मूल-स्वगु-दास-निर्याम-पत्र-
 पुष्प-फलो(ल-उ)दभून-
 -तानाम् ग २४.
 मूल-प्रकृति- -तिः शां ३, १; पै १, ५; गौड ४४^५; नापू २, १६;
 ५, २७; सांभा ३; -त्या त्रिवि ६, ३; -स्य त्रिवि ७, ४८.
 मूलप्रकृति-जननी- -नीम्
 त्रिवि ६, १०.
 मूलप्रकृति-रूप-
 मूलप्रकृतिरूप-न्व-
 -स्वात् सी २.
 मूलप्रकृति-संग(त>)ता-
 -ता विद्या १.
 मूलप्रकृति-संज्ञा-
 मूलप्रकृतिसंज्ञि(त>)-
 ता- -ता सी ८; राउ २, ४.
 मूल-फल- -लावि शि ४, ६१.
 मूल-बन्ध- -न्धः तै १, १५; २७;
 ध्या ७५; १योत २६; योचू ४६;
 योशि १, १०३; यो १, ४१;
 ४२^{११}; ४६; ६४^{११}; वरा ५,
 ४५; -न्धम् योचू ४५; -न्धेन
 १योत १२१; योशि १, १०५.
 मूलबन्ध-मन्त्र- -न्त्रम् राउ
 ५, २४^७.
 मूल-बन्धन- -नात् ध्या ७४;
 योचू ४७.
 मूल-मन्त्र- -न्त्रः योशि २, ९;
 सार २७६; १३; -न्त्रम् योशि
 २, ४; षो १४; -न्ध्रेण राउ ४,

९; रुजा १, २३.
 मूलमन्त्र-तस्(ः) गौजा ४,
 १०.
 मूलमन्त्र-द्वय- -यम्(येन)
 नार ४.
 मूलमन्त्र-भाज्- -भाजि
 नारा ८३; १६.
 मूलमन्त्र-मालामन्त्र-कवच-
 दिग्बन्धनमन्त्र- -न्त्राः त्रिवि ७,
 ४८.
 मूलमन्त्र-विभाग- -गेन
 राउ २, ७१.
 मूल-मृत्-लेपन- -नात् तुम्
 ७० : ७.
 मूल-रोग- -गः जाद ६, ४४.
 मूल-वैदिक-कल्प- -ल्पः वउ
 ६, ६.
 मूल-शक्ति- -क्तिम् योशि ५, ३७.
 मूल-शृङ्गाद-मध्य- (स्थ>)-
 स्था^५ - -स्था अथ १, ४.
 मूल-स्थान- -ने गानू २०.
 मूल-स्वरूप-लिङ्ग-
 मूलस्वरूपलिङ्ग-स्व- -स्वात्
 योशि २, ९.
 मूला(ल-श्र)भि- -भिः योशि ५,
 ३०^{११}; -मौ वउ ३, ९.
 मूला(ल-श्र)दि-ब्रह्म-रन्ध्र-
 ग- -गम् त्रिता १, ४०.
 मूला(ल-श्र)धार^{११}- -रम् योशि
 १, १६८; ५, ५; यो ३, ९; जाद
 ४, ४३; वरा ५, ५०; -रस्य जाद
 ६, ४१; -रात् ध्या १०१; मं १,
 २, ६; अता ५; योशि २, ५;
 जाद ४, ३; भा ३७; चक्र ७;
 -रे जाद ७, ७; ११; ग ६^०; कालि
 ४०३; २.
 मूलाधार-ग(त>)ता- -ता

योशि ३, २.
 मूलाधार-त्रिकोण-(स्थ>)-
 स्था- -स्था योशि ५, १७.
 मूलाधार-नाभि-हृदय-ब्रह्म-
 रन्ध्र- -न्ध्रेषु तारा ८३; १६.
 मूलाधार-पर्यन्त- -न्तम् भा
 ३८.
 मूलाधार-समुद्भव- -वात्
 योशि २, ८^१.
 मूलाधारा(र-श्र)दि-पद्-
 चक्र- -कम् वरा ५, ५३.
 मूला(ल-श्र)भाव- -वात् सांस्
 १, ६७.
 मूला(ल-श्र)र्धे-च्छिन्न-वंशा-
 (श-श्र)भा- -भा योशि
 ५, १७.
 मूला(ल-श्र)विद्या- -द्या त्रिवि
 १, ९.
 मूलाविद्या(श-श्र)ण्ड-
 -ण्डस्य त्रिवि ३, ७.
 मूलाविद्याण्ड-परिपा-
 लक- -कस्य त्रिवि ३, ७.
 मूलाविद्या-पुर- -रम् त्रिवि
 ६, १०.
 मूलाविद्या(द्या-श्र)विर्भाव-
 -वः त्रिवि २, १४.
 मूलाविद्यो(द्या-उ)दय-स्थि-
 ति-लय- -याः त्रिवि २, १४.
 मूला(ला-श्र)विर्भाव- -वः
 त्रिवि २, १४.
 मूलासुनियम^{११}- -मम्^{११} वउ ६,
 १४.
 १मूल- ✓मूल द.
 २मूल^{११}- -लाय व ४३८ : ६.
 ३मूल^{११}-
 मूल-क^{११}- -कम् शि ६, ८३.
 ४मूल(ल>)ला^{११}- -लाम सुसु ९.

a) °ति इति श्रद्ध्या. यनि. शोषः द. (तु. निसा.) । °तिरु° इति श्रान. । b) 'बुद्धिपूर्वम् अधम्' इति श्रद्ध्या. । c) पा. ? यनि. शोषः द. । d) =ऐकार-बीजाक्षर- । e) °रस्थितः इति निसा. । f) °धारात् इति श्रद्ध्या. । g) अवयवविभागः ? । h) वा. क्तिवि. द. । i) व्यु. ? =नक्षत्रविशेष- । j) व्यु. ? =शाकविशेष- । k) व्यु. ? =देवीविशेष- ।

√मूष(*वधा.)

मूषक^१-

मूषिका-काणाम् गर २४.

मूषक-ध्वज-जम् ग ११.

मूषा^{११६}-

मूषा-स्थ-द्रुत-हेमा-

(म-आभा>)म-भम् महा
५, १५५.

√मृ, > मारि, मुमूर्षु, म्रियते क १, २,
१८; छां ६, ११, ३; वृ १, ५, २१;
३, २, ११; १२; ६, २, १३; गौ ४,
६८; ६९; ७०; कौ २, १२; १३; १३;
नृपू १, १५; सुबा ९; राउ ३,
३; महा ३, ४; ४, १२०; ५, १६५;
योशि ६, ३७; १आ १; २आ
१; ३; या २, १७; गोच ६८; ३;
भव १, २५; २, ३७; गी २, २०;
म्रियन्ते कौ २, १३; १योत ६०;
म्रिये अत्र ५, ९१; म्रियस्व छां
५, १०, ८; म्रियेत २संन्या १५:
१; म्रियेत् अना ३९.

मारिष्यति मृ १३.

मारयति नृपू २, १६; त्रिता ३,
२१; २५; मारय महा ४, ९४;
मारय-मारय दत्ता २; लां २१४:
१७; २१५: १८; व ४४९: ९;
४५६: १२; अमारयत् वृजा ६,
२; मारयेत् वपू २, ५.

मर-रः, -रम् ऐ १, २.

मरण-णम् क १, २५; २, २, ६;
छां ३, १७, ५; मना २, ८०; १योत ९७;
५, २४; ध्या ८०; १योत ९७;
नाप ३, ६१; ५, १; योचू ५३;
९०; रापू १, २; महा २, ५५; ३,
५३; योशि १, ४५; ४६; ५८;
वरा ३, ५; अत्र ५, २४; राधा

३, ८; भव १, १४; पित्र १, १४;
-णात् प्रा ४, ११; गी २, ३४;
-णे गौ ३, ९; सु १, १, २०.

मरण-जन्मन्-न्मनी महा २,
५६; अत्र १, ४०.

मरण-प्रभव-प्रणाश-हेतु-

-तु: वरा ३, १२.

मरणा(ण-अ)वस्था-स्था पै
२, ४७.

मरणो(ण-उ)स्त्व-युद्ध-द्धेषु
महा ४, ३३.

मर्त्य^१-र्त्यः क १, १, ६; २८; २,
१३; २, २, ५; ३, १४; १५; वृ १,
४, ६; ३, ९, २८, ४; ६; ४, ४, ७;
ते ६, ८०; महा ४, ८१; वरा २,
१९; शा २५; कृपू २३; -र्त्यम्
छां ७, २४, १; ८, ३, ५; १२, १;
वृ २, ३, १; २; ४; गौ ३, २; ४;
७; सुबा ५; च २१: १९; १०; व
४३७: ६; -र्त्यस्य क १, १,
२६; वृ २, ३, २; ४; अशि ३,
५; वट्ट ३१५: ४; सिशि
३८१: १; -र्त्या: छां ४, ३, ६;
पाशु १, २८; -र्त्यात् वृ ३, ९, ४;
-र्त्यान् मना २, १२, २; शौ
५३: १७; ५४: १; -र्त्यानाम्
वृ ६, २, २; का ३; -र्त्याय
मना २, ५७; -र्त्यै मै ४, २; ३;
मैत्रि ४, २; -र्त्येषु गी १०, ३.
मर्त्य-ता-ताम् गौ ३, १९;
२०; २२; ४, ६; ८.

मर्त्य-भोग-

मर्त्यभोग-वत्-वान् योशि
५, ५३.

मर्त्य-रूप-पेण रापू १, ३.

मर्त्य-लोक-कम् गी २, २१;

-के क १, १, २५.

मार-

मार-द^१-दम् पा ५, ४.

मार-हारि(व>)णी--णि हंषो
९.

१मारण^{११}-

मारण-मोहन-वशीकरण-स्त-
म्भन-जृम्भणा(ण-आ)कर्षणो-
(ण-उ)ष्ठादन-मिलन-विद्वेषण-
युद्ध-तर्क-मर्मन्-मार्णि लां
२१६: ४.

२मारण^{११}- -ण लां २१५: १७.

मुमूर्षु-र्षो: राउ ३, ८.

मृत, ता-तः वृ ३, २, ११; गर्भ
४; नृपू १, ७; ते ६, ७४; ८०;
पै १, ३३; २, ३४; ४, १३; योशि
१, ४५; ४६; अत्र ५, १९; प्रा
४, १; वरा २, ४०; ७९; निरु १,
१५; गोच ६७: १९; सार
२५९: ८; शि १, २९; २, १६;
७, १२०; -तम् मैत्रे २, ४; वृजा
६, १; योचू २६; अत्र ४, १२;
भर, ३०; च २१: १९; शि ७,
८०; ८२; गु ३४; गी २, २६;
-तस्य वृ ३, २, १३; योशि १,
४५; ६, ४२; पिं २; शि ६, १६६;
गी २, २७; -ता वृ ४, ४, ७; मैत्रे
२, १३; -ता: राउ ३, ४; शि ६,
१८८; १९१; -तान् (१त्^१) पा
२, २; -ते स ३७९: ९.

मृत-कर्षट-टम् इ १५: १८.

मृत-गात्र-अस्प त्रिभा २, ८७.

मृत-जन्तु-न्तौ वृजा ६, १.

मृत-तु(ल्य>)ल्या-ल्या पै २,
४५.

मृत-वत् नाद ५२.

अ) घा. अर्थः ? । b) तैत्र्या १०, ६४, १ । c) वा. ? पा. शोध्यः द्र. । d) बप्रा. वैपश् यद्र. । e) 'मर्त्यस्य'
इति ऋ ८, ४८, ३ । f) ऋ १, ३५, २ । g) ऋ ८, ४८, ३ । h) ऋ ४, ५८, ३ । i) ऋ १०, ८८, १५ । j) तैत्र्या ३,
१०, ८, २ । k) 'ते इति निसा. यनि. शोध्यः द्र. (तु. सात., नाउ.) । l) =कामप्रद- (तु. पाटी.) । m) भावे कृत । n) कर्तारि-
कृत । o) 'मृतस्य' इति आन., अज्या. । p) विशिष्ट इह ऋ. (८, ४८, ३) पभे. । q) पा. ? यनि. शोध्यः द्र. ।

मृदु-लोहित- -ता: मैत्रि ६, ३०.
मृदु-वर्म-प्रकल्पित(>)ता- -ते
शि ७, ४६.
मृदु-रक्षण-सु-तुलिका-
-कायाम् राष्ट्र ५, २.
मृद्रा(दु-आ)सन- -नेषु शां १, ५.
मृदङ्ग^०-
मृदङ्ग-नाद- -द: हं १६.

√मृध्
मृध्^b- मृध: मना १, ९९^०; ११९^०;
व ४६०: १६९^०; ४६३: २३९^०.
मृधा^a गौ ४, ३३; श २३; कौ ४, १८;
३०; महा ४, ६३; यो १, ८०^३;
पं ३२.
मृधा-मात्रं- -त्रा: अध्या १९.

मृष्ट- √मृज् द्र.
मेखल(>)ला^b- -लाम् आरु ५९^{११}.
मेखला-त्रय-भूषित- -तम् शि ४, ८.
मेखला(ला-आ)दि-विभूषित(>)-
ता- -ता शि ४, १३.

मेघ- √मिह् द्र.
मेघ^{११b}- -द्रम् ध्या ४८; योचू १२;
-द्रस्य त्रिभ्रा २, ६६; -द्रत् ध्या
४७; ५० त्रिभ्रा २, ४९; योचू
१०; १४; शां १, ३, ७; १, ४;
जाद ३, ९; ४, २; वरा ५, २०.

मेघ-देश- -शात् वरा ५, २०.
मेघा(दु-आ)न्त- -न्तम् शां १, ४.
मेघान्ता(न्त-आ)वधि- -धि:
त्रिभ्रा २, ७३.

मेदस्- √मिद् द्र.
१मेदिन्^b- -दी व ४६१: २९^६.

२मेदि(व>)नी^b- -नी मना २, २८^९;
-नीम् रार २, ८८.

मेघ^b-
मेघा(ध-अ)तिथि^१- -थिम् वा १.
मेघ्य- -ध्यम् वृ १, २, ७^३; -ध्यस्य
वृ १, १, १^१.
मेघ्या(ध्य-अ)मेघ्य- -ध्यौ १अव
६^१.
मेघ्यामेघ्य-रस- -सम् शि
५, ४२.

?मेघवा^k मना २, ४०^{३९}.
१मेघा^m- -ध्या क १, २, २३; सुं ३,
२, ३; तै १, ४, १^३; वृ १, ५, १;
२^३; मना २, ३९^{३९}; ७९९^०; सुबा
९; नाप ४, ३८^३; ९^३; -धा ऐ ५, २;
मना २, ४१^९; ४२^{३९}; ४३^{३९};
७९९^०; गी १०, ३४^६; -घाम् मना
१, ४९^३; २, ४२^{३९}; ४४^{३९}; द२;
१संन्या २, ६; ह ७; ८; कामे १६.

मेघा-काम- -म: सूता १, २१.
मेघा-दक्षिणा-मूर्ति-मन्त्र-
-न्त्रस्य द १^{११}.
मेघा-दीक्षा- -क्षाम् कामे ११.
मेघादीक्षा-तस(>) कामे ११.
मेघा-दीक्षित-रूप-
मेघादीक्षितरूप(व>)णी-
-णीम् कामे २.

मेघा-वत्- -वान् ग १८.
मेघा-विन्- -विन्म् शा ३४^९.
सु १, १, ५२^९; -वी क १, ३, १६;
छां ६, १४, २; वृ ४, ३, ३३; ब्रवि
१८; अना १; १योत ३५; १०६;

१संन्या २, १०२; त्रिता ५, १८;
इ १०: ८; १९: १९; अवि १८;
गी १८, १०.

मेघा-स्पर्श-मणि-काली^१- -लीम्
कामे ३.
२मेघा^{११d}- -धा सर १, ४; ३, ५; -०धे
मना २, ४१^९.
३मेघा^{११a}- -ध्या राष्ट्र ४, ५९; -धा
राष्ट्र ४, ५८.

मेघातिथि- मेघ- द्र.
मेय- √मा(माने) द्र.
मेरु^{११b}- -रु: ते ६, ८२; ८५; महा ४,
६५; गोउ ५२; गु ९; पित्र १, १०;
गी १०, २३; -रुम् ते ६, ८६^०;
-रो: महा २, ७५; अन्न १, ४९; गोउ
१९; भवर, ३३; नौ महा २, १४.
मेरु-चालन- -नात् वरा ५, ६४.
मेरु-प्रासाद- -द्रम् शि ६, १०६;
१०९.

मेरु-मध्य-गत- -ता: वरा ५, ६४.
मेरु-शृङ्ग-सटो(ट-उ)लासि-गङ्गा-
जल-रयो(य-उ)प(म>)मा-
-मा महा ३, ४१^{११}; या २, ७.
मेरु-सर्षप- -पम् महा ३, ३८.

मेलन- √मित् द्र.
मिवाह^० मृ ३.
१मेघ^{११}- -घ: वृ १, ४, ४; -घम् शि
६, २०८.
२मेघ^{११d}-
मेघा(घ-आ)दि- -दय: सूता ५,
१२.
मेघ-भूय^१-
मेघभूयो(य-उ)पगत- -त: वा १.

a) व्यु. १ = वाचविशेष-। b) वैप १ यद्र.। c) ऋ ८, ६१, १३। d) ऋ ३, ४७, २। e) ऋ १०, ८४, २। f) = अन्व्य.।
वैप १ यद्र.। g) ऋ १०, ८४, ६। h) व्यु. १ = पृथिवी-। i) तैआ १०, २१, १। j) °व्ये इति अज्या.। k) तु. सस्थ. टि.
ब्रह्मन्-> -ह्य। l) तैआ १०, ५०, १^३। m) = बुद्धिविशेष-। वैप १ यद्र.। n) तैआ १०, ४९, १^३ (तु. सस्थ. टि. ब्रह्मन्->
-ह्य)। o) तैआ १०, ६३, १। p) तैआ ७, ४, १। q) तैआ १०, ३९, १। r) तैआ १०, ४०, १^३। s) तैआ १०, ४२, १^३।
t) अर्थ: ?। u) ऋ १, १८, ६। v) तैसं ३, ३, १, २^३। w) श्रीमे^० इति अज्या.। x) वाध २, ९। y) दस. > पस. > मलो.
कस.। z) व्यु. १ = सरस्वती-। a') व्यु. १ = धकार-बीजाक्षर-। b') व्यु. १ = पर्वतविशेष-। c') 'मेरु:' इति अज्या.।
d') 'ङ्गाचलो' इति निसा. यनि. शोध: द्र. (तु. अज्या., नाउ.)। e') पा. १ 'मा, इव, आह' इत्येवं शोध: द्र.। f') व्यु. १
= २अधि-। g') = मेघराश्यधिष्ठातृदेवता-। h') भावे कृत्य: (पा ३, १, १०७)।

यत- -तः लु ११^०.
 यत-चित्त- -त्तस्य गी ६, १९.
 यत-चित्ता(त्-ञ्चा)त्मन्- -त्मा
 गी ४, २१; ६, १०.
 यत-चित्ते(त्-इ)न्द्रिय-क्रि-
 (या>)य- -यः गी ६, १२.
 यत-चेतस्- -तसाम् गी ५, २६.
 यत-वाक्-काय-मनस्- -नसः
 (ःनाः^०) सूता २, ५.
 यत-वाक्-काय-मानस्- -सः
 गी १८, ५२.
 यत-वाच्- -वाक् मैत्रि ६, ९.
 १यता(त्-ञ्चा)त्मन्^०-
 यतात्म-वत्- -वान् गी १२,
 ११.
 २यता(त्-ञ्चा)त्मन्^०- -त्मा गी
 १२, १४; -त्मानः गी ५, २५.
 यता(त्-ञ्चा)हार- -रः ते १, ३^०.
 यते(त्-इ)न्द्रिय- -यः कुं १३.
 यते(त्-इ)न्द्रिय-मनो-बुद्धि-
 -द्धिः गी ५, २८.
 यन्त्- -न्ता नाप ६, १; क्वाग् २५: ४^१.
 यन्त्र^{११}- -न्त्रः व ४६३: १९; -न्त्रम्
 त्रिवि ७, ४९^१; रार ३, १^१; रापू
 ४, ६५; ६७; सूता ५, १; २; नापू
 ६, ४; सुमु ६; तारा ८३: २४;
 -न्त्रस्य त्रिवि ७, ४८; सूता ४,
 १; -न्त्रे सूता ६, १; ८; -न्त्रेण
 गर्भ ४; रापू १, १३.
 यन्त्र-कल्पना- -ना रापू १, १३.
 यन्त्र-राज- -जम् सुमु ७; -जाय
 व ४६३: १८.
 यन्त्र-लोल- -ले महा ३, ३९;
 या २, ५^१.
 यन्त्रा(न्त्र-ञ्च)क्क-दशक- -कम्

सौ १, २.
 यन्त्रा(न्त्र-ञ्चा)क्क- -द्वानि गी
 १८, ६१.
 यन्त्री/कृ
 यन्त्री-कृत-
 यन्त्रीकृत-दुष्ट-त्रिकोण-
 यन्त्र-मध्य- -ध्ये व ४३३: ९.
 १यम^{११}- -०म ई १६; वृ ५, १५,
 १५^१; व ४३९: १९; -मः वृ १,
 ४, ११; ३, ९, २१; मै ४, ४, १३;
 मैत्रि ५, १; अशि २, २१; तृपू
 ४, १५, २५; कौ ४, १५; ते ६,
 १९; राउ ४, १३; ए ११; ऋ २; व
 ४३९: १८; १९; ४४४: २२; गी
 १०, २९; ११, ३९; -मम् श १३;
 इ १३: ४; ङ^१ व ४४०: २; ४४५:
 ७; ४५०: १०; ४५३: १९; -मस्य
 क १, १, ५; मना २, ४८^१; -माय
 त्रिवि ७, ४७; गोउ ६६^१; ङ^१ व
 ४४०: १^१; ४४५: ७^१; ४५०: ९;
 १०; ४५३: १९^१; -मेन सिशि
 ३८३: १.
 १याम-
 यामी^१- -०मि व ४३१:
 १६^१; ४५०: ६^१; -म्याम् राधा
 १, २१; व ४३९: १८; ४४४:
 २२; ४५०: ६.
 १याम्य^०- -म्यस्य
 जाद ४, २०^१; -म्ये त्रिवा २,
 ११८; -म्येन जाद ३, ८.
 २याम्य, म्या^१-
 -म्यायाम् शि ६, ८३; -म्ये हं ८;
 रापू ४, ३१^१.
 याम्य-कर्णा-
 (र्ण-ञ्च)न्त- -न्तम् शां १, ४.

याम्य-दिश-
 -दिशम् व ४२८: १०.
 याम्य-नासा-
 (सा-ञ्च)न्त- -न्तम् शां १, ४;
 जाद ४, १८^१.
 याम्य-नेत्रा-
 (त्र-ञ्च)न्त- -न्तम् शां १, ४.
 यम-क्षय^१- -ये भव १, ३.
 यम-जिह्वक- -कम् व ४३०:
 १६.
 यम-दण्ड- -०ण्ड व ४३५:
 ११.
 यम-देव(ता>)त- -तः वृ ३, ९,
 २१.
 यम-दैवत्य- -त्यम् रुजा २, १२.
 यम-द्वार- -रम् व ४२७: २२.
 यम-पुरी^१- -री रावा ४, ५.
 यम-मण्डल- -लम् व ४३९:
 १९; २०.
 यम-मुख- -खेन व ४३८: ११.
 यम-राज्य- -ज्यम् मैत्रि ६, ३६.
 यम-लोक^१- -कः ते ६, १९.
 यमलोक-ज्ञान- -नम् शां १,
 ७, ५२.
 यम-विषय-स्थ- -स्थस्य मै ४,
 २^१; मैत्रि ४, २.
 २यम^{११}- -मः ते १, १५; १७; १योत
 २४; त्रिवा २, २८^१; २अव
 ३३७: ३५^१; जाद १, ४; वरा
 ५, ११; -माः शां १, १^१; त्रिवा
 २, ३३; मं १, १, ३; जाद १, ६;
 वरा ५, १३; शि ७, १०१; योस्
 २, ३०; -मेषु १योत २८; नाप
 ६, २६; -मैः त्रिवा २, ५३; सार
 २३३: १४.

a) 'इति' इति अञ्चया. । b) पा.१ यनि. शोधः द्र. । c) कस. । d) बस. । e) जिता^० इति आन. ।
 f) 'यन्तारम्' इति बे. । g) वैपश् यद्र. । h) 'के' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्चया.) । i) कर्तारि कृत = देवविशेष- ।
 j) का ४०, १, १७ । k) ऋ १०, १४, १३ । l) शौ ७, ५५, १ । m) 'पित्रे' इति आन. । n) = देवीविशेष- वा दिग्-
 विशेष- वा । o) विप. । p) पा.१ सामर्थ्यात् नाउ. स. स्यात् । q) विशेषि. । r) 'यामे' इति आन. । s) वामना^०
 इति अञ्चया. संटि. । t) उप. = रत्नय- । u) 'स्थः' इति अञ्चया. । v) भावे कृत ।

१०^०यजत्र- -०त्राः प्र मुं मां अशि अ
वृजा शां^१; वृपू शां^२; २, १५; नाप
सी श मना त्रिषि रार रापू शां
पप अन्न सू १आ पाद्यु पत्र त्रिता
दे मा व्र भ ग मवा गोपू कृ ह
दत्ता गरु अवि पहं शां^३; सि पित्र
शां.

यजन- -ने गोपू २६^०.

यजमान^१- -नः प्र ४, ४; मुं २, १,
६; छां १, ११, १; ३; २, २४, ६;
१०; १५; ४, १६, ३; वृ ३, १,
३-६; मैत्रि १, १; ६, ३४; गर्भ
५; मना २, ८०^०; प्रा ३-४,
१; २प्र ३६ : १२; नापू १, ६;
सार २६१ : १९; यु २९; १^०व
४४० : २३; ४४६ : ६; ४५१ :
२; ४५४ : ९; -नम् प्र ४, ४; मुं
१, २, ६; छां ४, १७, १०; वृ ३,
८, ९; मैत्रि ६, ३३^३; अ २, १५;
-नस्य छां २, २४, २; ५; ९; १५;
वृ ६, ४, ३; मैत्रि ६, ३३; १संन्या
१, १; कश्रु १, १; -नाः मैत्रि ६,
३५; -नाय छां २, २२, २; २४, ५;
९; १४; वृ १, ३, २८; मैत्रि ६,
३५^५; दे २.

यजुस^{१०}- -जुः तै २, ३, १; छां १,
४, ४; ७, ५; वृ ५, १३, २^३; मै
५, ५; मैत्रि ६, ५; ३५^३; मना २,
७९^०; अशि १, ७; वृपू १, ६;
७^३; ४, २; कौ २, ६; ध्या १०;
मुद्र ३; अव्य २^३; ५; सू १०;
रुह २८; त्रि १६; २प्र ३४ : ३;
१०; वपू १, ६^३; ७; ३, १; गी ९,
१७; -जुभिः प्र ५, ४; ७; वृपू २, ३;

वृज ३, ३; अ १; ए १०; -जुभ्यः
छां ४, १७, ३; -जुषः छां १, ४,
३; वृ ५, १३, २; सु १, १, १२;
-जुषा वृपू ४, ८; १०; वृजा ३, १७;
अव्य ३; सूता ३, ४१^६; -जुषाम्
छां ४, १७, ५^३; मना २, १४^०^३;
सी २५; २प्र ३६ : १८; -जुषि
छां १, ४, ३; २प्र ३४ : ३; -जूषि
प्र २, ६; मुं २, १, ६; तै १, ५,
२; छां ३, २, १; २; ४, १७, २;
६, ७, २; वृ १, २, ५; ५, १४, २;
६, ५, ३; मना २, १४^०^३; २९^०^३;
कौ १, ५; वृजा ८, ५; वृपू ५, १८;
सुवा ६; सी २२^०^३; ए ७; गरु
११^०^३; इ ११ : १२; छागर ३ : ३;
१शिसं ५^०^३; २शिसं ६^०^३; गा
३; यु २९; वज ५, १७.

याजुष-

याजुषी- -षीम् वृपू
४, १२.

याजुष-मन्त्रो(न्त्र-उ)-

पासक- -कः त्रिता ४, १७.

यजुर-गायत्री^{११}- -त्री वृपू ४,
११.

यजुर-मय- -यम् कौ २, ६^०^३;
वृजा ६, १२; वृपू ५, ८.

यजुर-वेद^{१२}- -दः मुं १, १, ५;
छां १, ३, ७; ३, २, १; ७, १, ४; वृ
१, ५, ५; ४, १, २; मैत्रि ६, ३२;
वृपू २, २; वृज ३, ३; सुवा २;
काला १५; ब्रवि ५; महा १, १;
जाबा २३; आच ७; च २० : ६;
१प्र ३१ : ७; नापू ५, ४०; सिशि
३८२ : ११; गार ४०६ : ५; -वम्

छां ३, २, २; १५, ७; ७, १, २; २^०
१; ७, १; २प्र ३२ : १२; ३६ :
२०; -दे २प्र ३४ : १७; सूता १,
१४; सु २९३ : १२.

यजुर्वेद-प्रपठन- -नम् म
४९ : ४.

यजुर्वेद-वाच्य- -व्यः वृपू
१, १२.

यजुर्वेद-शिरस्- -रः ना २.

यजुर्वेद-संहि(त>)ता^{१३}-

-ता गार ४०६ : २१.

यजुष-ट(<त)स(>) छां ४,
१७, ५.

यजू^{१४}(जुस्-उ)दर- -रः कौ १, ७.

यजू^{१५}- -०ञ्ज मना २, ७७^०^३; २संन्या
१६ : ११^०^३; -ञ्जः प्र २, ६; छां २,
२३, १; ३, १६, १; २; ४; ६; ४,
१६, १^३; ३; ५; १७, ८; ९; ८, ५,
१; वृ १, ४, १७; ५, १७^३; ३, ९,
६^३; २१; मैत्रि १, १; ६, १६;
मना २, ६८^०^३; ७८^०^३; ७९^०^३; ब्र
३, ६; नाप ४, ३८^०^३; पै ४, १८;
१संन्या १, १; २संन्या १६ :
१३^०^३; पप ४१८ : २०; ए २; सू
८; सावि ४^३; पाशु १, १२; कर्
१^३; रुह २०; प्रा १, ६^०^३; शा
१५; २प्र ३३ : १४; १शिसं ४^०^३;
२शिसं ११^०^३; शि ७, ४०; १^०व
४४० : २; ४४५ : ७; ४५० :
१०; ४५३ : १९; कश्रु १, १;
२, २^३; गी ३, १४; ९, १६; १६,
१; १७, ७; ११; १८, ५^३; -ञ्जम्
तै २, ५, १; छां १, १०, ७; ४, १६,
३; ५; १७, १०; वृ ३, १, ७; ७, १;

- a) ऋ १, ८९, ८ । b) ०नेन इति निसा., आन. । c) तैश्चा १०, ६४, १ । d) ऋ १, २४, ११ । e) =गद्या-
त्मकमन्त्र- वा तदात्राय- वा । f) तैश्चा १०, ६३, १ । g) पा. ? षाम् इति शोषः द्र. । h) तैश्चा १०, १३, १^३ ।
i) तैश्चा १०, १३, १ । j) तैश्चा १०, २२, १ । k) तैश्चा ३, १२, ८, १ । l) मा १२, ४ । m) मा ३४, ५ ।
n) सकृत् ०ये इति शांश्चा ४, ६ । o) =वेदविशेष- । p) संधिरार्थः द्र. । q) तैश्चा ३, ७, ६, २० । r) शौ ७, १०२, ५ ।
s) तैश्चा १०, ३१, १ । t) तैश्चा १०, ६२, १^३ । u) तैश्चा २, ५, ८, ८ । v) शौ ७, १०२, ६ । w) मा ३४, ४ ।
x) ऋ १०, १४, १३ ।

यज्ञ-विद्- -वित् ब्र ३, ६;
-विदः गी ४, ३०.

यज्ञ-शत- -तैः शि ५, १९.

यज्ञ-शमल- -लम् मना १,
११५^a.

यज्ञ-शिष्टा(ष्ट-अ)मृत-भुज्-
-भुजः गी ४, ३१.

यज्ञ-शिष्टा(ष्ट-आ)शिनू-
-शिनः गी ३, १३.

यज्ञ-साधारणा(ण-अ)ङ्ग- -ङ्गम्
पाशु १, १५.

यज्ञ-सूत्र- -त्रम् पाशु १, १६;
१७; १९^b; गरु ५.

यज्ञसूत्र-संबन्ध-

यज्ञसूत्रसंबन्धिन्- -न्धी
पाशु १, १६.

यज्ञ-स्तोम- -मम् महा १, १.

यज्ञा(ज्ञ-अ)ङ्ग- -ङ्गम् पाशु १,
२२; शि ६, २८३.

यज्ञाङ्ग-लक्षण-ब्रह्म-स्व-
रूप- -पः पाशु १, १५.

यज्ञा(ज्ञ-आ)दि- -देः सांसू ५,
४२.

यज्ञादि-श्रुति- -तेः ब्रसू ३,
४, २६.

यज्ञा-यज्ञा^c

यज्ञायज्ञियrd- -यम् गरु
११५^o.

यज्ञायज्ञीयrd- -यम् छां
२, १९, १; २.

यज्ञा(ज्ञ-अ)र्थ- -र्थात् गी ३, ९.

यज्ञि(य>)या- -या नाप ४,
३८; -याम् बा १३.

यज्ञे(ज्ञ-ई)श्वर- -राय नाउ२, १२

यज्ञो(ज्ञ-उ)पवीत^{rs}- -०त नाप

४, ३८^f; -तम् जा ५; ६;
आरु १; ५; कौ २, ७; पहं २;

निर्वा २९८: १०; ब्र २^g; ३, ६;
नाप ३, ३२; ७७; ४, ३८^g; १९^h;

१संन्या १, १ⁱ; २, ६ⁱ; पप ४१८:
२३; ४२०: ७; पत्र ३, १२; कर १^j;

२; या १, १; २, १^k; अद्वै२५; सूता
३, ७; कश्रु १, १^k; २, २; ३; ३, २.

यज्ञोपवीत-धारिन्- -रिणः
आश्र ४.

यज्ञोपवीतिन्- -तिनः ब्र ३,
१; नाप ३, ८१; पत्र ३, ५; -त्ती

आच २; ब्र ३, ६; पत्र ३, १२;
य १; सु २९३: १.

यज्ञो(ज्ञ-उ)पासक- -कानाम्
सांसू ४, २१.

यज्वन्^{rs}- -ज्वभिः मन्त्रि ७;
-ज्वानः भ २, २६; अरु ३०५^b.

यष्टव्य- -व्यः मैत्रि ६, ३४^c; -व्यम्
मैत्रि ६, ३६; गी १७, ११.

याग^{rs}- -गः तेष्ट, २१; पाशु १, २०;
-गम् आरु १.

याग-देव- -वः पाशु १, ११.

याग-व्रत-तपो-दान-विधि-
विधान-ज्ञान-संभव- -वः
नि ३९^d.

याज^l- -जाः प्रा ३, १.

याजक^{rs}- -कः नृष८५: १६; -कानि
सुद्र २; -क्रेषु महा ४, ३४.

याजयत्- -यन्तः आश्र २^e.

याजित- -तः वा ३९.

या(ज्य>)ज्या^{rs}- -ज्यया वृ ३, १,
१०; -ज्या वृ ३, १, ७; १०^g;
-ज्याः छाग २३: १०; २४: १२.

यजुर्मनाम्^k तुल ७०: ३.

यजुर्वेद-, यजुस-, यजुदर-, यज्ञ-
√यज् द्र.

यज्ञभृगुहायाम्^l पी ४२२: ३.

यज्ञवचस्- यज्ञवल्क- √यज् द्र.

यत्(यतने), यतते सुं ३, २, ४; गी ६,
४३; यतति गी ७, ३; यतन्ते

भ २, १४; सार २७८: १९;
यतन्ति गी ७, २९; यतत त्रिब्रा

२, ८९; १२२; १४३.

यतत्- -ततः गी २, ६०; -तता गी
६, ३६; -तताम् गी ७, ३; -तन्तः

गी ९, १४; १५, ११^r.

यतमान- -तः गी ६, ४५.

यत्त- -त्तः महा ५, १८२; पा १, ६.

यत्न- -त्नः अन्न ४, ८९; भव १, ३२;
योसू १, १३; -त्नम् महा ५, ८८;

११६; अन्न ४, ७८; -त्नात् १योत
७२; ८२; शां १, ७, ३०; महा

४, १२८; सु २, २, ५; शि ४,
११; ६, १५०; १५४; ७, ३२;

९६; -त्नेन आरु ३; श ३५^m;
महा ५, ५६; योशि ५, ३७; पप

४१९: ६; अन्न ४, ७६; ७७;
५, ६८; यो १, ३२; शि ६, २;

१९७; ७, ७५; १०६.

यत्न-तस(>) ब्रजा ४, २; ४; रापू
४, ५१; शां १, ७, ४३; १संन्या

२, ६०; सौ २, ८; शि ३, २; ६,
५१; १४७; १७७; २४९; ७, ३३.

यत्न-वत्- -वान् त्रिब्रा २, १०९;
१४२; जाद ६, १०ⁿ; शि ५, ९.

यत्(निकारे)>याति
यातना^{rs}- -नाः भव १, ३; -नानाम्
भ २, २१.

यत्- √इ द्र.

a) तैसं ७, ३, ११, १। b) °ब्रप्र° इति निसा.। c) ऋ १, १६८, १ इत्यत्रत्यमादिमं पदम्। d) =साम- विशेष-। e) मा १२, ४। f) °तम् इति अख्या.। g) पाशु २, २, ११। h) तैआ १, २७, ५। i) °संकल्पः इति अख्या.। j) प्रया° इति शोधः द्र. (तु. आन., अख्या.)। k) पा. यजुर्मनस-> -नसम् इति शोधः द्र. (तु. गपू. पृ५९५d)। l) पा. यज्ञभृगुजाया-(=स्वाहा)> -याम् इति शोधः द्र.। m) 'यतः, न' इति अख्या.। n) ज्ञान° इति अख्या.।

यत्- / यत्-इ. यत्(यामिनो) इ.
यत्त- यत्तमास- / यत्त(यामिनो) इ.
यत्तर- यत्तम्- / यत्त-इ.
इयति- नव्यः मुं३, १, ५; २, ६; ३, ३; ४, ३; आरु५; मना २, १२, ३; १; १संन्या २, ९८; १९; मुं२०, ४; भव१, ३६; ३, ३३; गौ ४, २८; ८, ११; -तये भना १; -तिः गौ २, ३७; मैत्र २, २३; २६; आरु४; काला १८; नि ५५; ब्रांवि ८०; १यौत ७०; नाप ३, ३२; ३५; ५७; ५९; ७०; ७३; ७४; १०; १४; ५, १; ३; ७; ६, ६; ८; ३६; ३८; ७; वा १४; ३२; १संन्या २, १०; ५९; ७१; ७६; ९१; ९२; ९४; ९६; १००; अ-या४२; ५१; कुं१०; १आ२५; करु२; यो २, ११; म १, ९; या २, १८; जाबा २६; इ१३; ७; ऊ ६४; ११; गोच ६६; १४; शि५, २०; स३७९; २१; भव२, ३४; ३, २४; कश्रु ३, २; -तिना वृजा ८, ६; वृपू ५, १९; -तिभिः १संन्या २, ६९; -तिषु त्रिता १, १६; -तीन् कौ ३, १; म १, ९; -तीनाम् आरु ४; वृजा ५, ६; ८, ६; वृपू ५, १९; नाप ३, ७१; ४, १३; रार ५, १६; या २, २४; शि २, २७; ७, १०१; वल ५, २४; गौ ५, २६; -तेः नाप ३, २८; ४, ४; ५, १; ७; महा४, ४०; १संन्या २, ५९; ७९; ८१; पत्र२; शा ८.
यति-त्व- -त्वम् पत्र २.
यति-विशेष- -षः नाप ५, १.

यति-वृत्ति-हन्- -हा नाप ५, १.
रयति-रयिथी- -यद्-इ.
यत्- यत्- / यत्(यामिनो) इ.
यत्र, यथा यद्-इ.
यथार्थकथन- वृ ४.
यद्-
अय.या- याः ई ६; के २, २; क १, १, १८; प १, ९; मुं १, १, ९; मां ९; तं १, ३; ४; शं १, १, ३; वृ १, २, १; यो १, ३; कौ १, २, १; २, ३; २, ३; शि ६, १, ८; ५; यम् क १, १, १९; मुं ३, १, ५; छां ५, १२-१४, १; वृ १, ३, २८; ना ४; मना १, १, ११; आभो १; अव्य ३; यम्-यम् नाप ५, १; यथा मुं १, १, ५; तै ३, १०, १; वृ १, ५, १८; सगा १, ६; शां १, ७, १; योशि २, १२; रुढ ३०; इ १; गार २३२; ६; यस्मात् क १, ३, ८; वृ १, ३, १९; श्वे ६, ६; पहे ४; वृपू २, १०; १; वृज ८, ४; ते १, २०; घ्या ८२; अता १८; अव्य १; यस्मिन् ई ७; क १, १, २९; मुं २, २, २; ए २, १; छां ४, २, ४; वृ १, ५, २१; श्वे ४, ८; ब्रवि १६; कै १, १४; मना १, १, १; प्रा १, १; यस्मै छां ४, ३, ६; वृ ५, १४, ४; ७; महा २, ४२; पा १०, ८; कालि ४०२; ८; गा १६; यस्य के २, ३; क १, १, ८; मुं १, १, ९; छां ३, १४, ४; वृ ३, ७, ३-२३; श्वे ३, २१; मना १, १, २; कौ २, ४; मैत्र २, १८; ब्र ३, ३; यस्याः वृ ३, २, १०; अज १, ४; दे १७;

यो १, १०; सार २२१; १८; गु ४६; गषो ४२१; ६; यस्याम् क १, २, ३; छां १, ३, ९; वृजा ७, ४; महा ५, २६; सर २, ५; गथा ४, १; गार २२१; १७; गृ ५३; गौ २, ६९; यस्वै ऐ २, ५; कौ २, ४; या क १, १, २; २, ४; प २, १२; मुं १, २, ४; ए ३, २; छां १, ३, ४; १०, ९; वृ ४, २, ३; श्वे ३, ५; कौ १, ७; मना १, ८; २, ४२; याः क १, १, १५; तै २, २, १; ए १, २; छां २, ४, १; वृ २, २, २; मना २, ३८; कौ २, ५; वृपू ४, १५, १२; योशि १, १५२; १संन्या २, २६; यान् मुं ३, १, १०; छां ४, १५, ५; वृ ६, २, १५; कौ २, १३, सार २१९; ७; गौ २, ६; यानि मुं १, २, १; छां १, ३, ५; वृ १, ३, २८; मै २, ९; वृपू ४, १५, २१; अव्य ५; पाशु १, २; चा ६; निरु १, १६; सार २५४; २२; यानि-यानि शां १, ४; याभ्याम् वृ ६, ४, २२; याम् क १, २, ९; मुं १, १, २; छां १, ३, ९; वृ ४, १, ३; अशि ५, १८; वृजा ६, १२; वृपू ३, ४; लु १; वि १६; गरु १; सर २, ८; प्रा १, ३; याम्-याम् वृ ३, ८, ९; यास्याम् सार २५०; २३; ये ई ३; के १, ३; क १, ३, १; प्र १, ९; मुं १, २, ७; तै १, ११, ३; छां १, ६, ८; वृ १, ५, १७; कौ १, ३; श्वे ४; ये-ये अज ४, ४;

- a) तैश्चा १०, १०, ३ । b) तैश्चा १०, १०, ३ । c) पा. ? 'यथाकथम्' इति श्लोचः द्र. (तु. गपू. वृ ८१) ।
d) तु. टि. तद्- । e) 'यत्' इति शांआ ३, २ । f) पा. ? 'अपः' इति श्लोचः (तु. गोआ १, १, २०) । g) पा. ? 'ये' इति श्लोचः द्र. ।
h) मा ६, २२ । i) मा ८, ३६ । j) ऋ १, १६४, ३९ । k) मा ३२, ८ । l) 'अस्मिन्' इति श्रान. । m) ऋ १०, ९, ३ ।
n) मा १६, २ । o) तैश्चा १०, १, ८ । p) तैश्चा १०, ४, १, १ । q) सकृत् 'यान्' इति श्लोचः द्र. (तु. तैश्चा १०, ४८, १; वैतु. सा. मा. यनि. इति) । r) 'युगानि' इति श्रज्या. संदि. । s) 'मा' इति पा. ? यनि. श्लोचः द्र. । t) निसा. श्रान. च पा. ? ये, आदि-ह-> -हाः, -हान् इति श्लोचः द्र. [वैतु. श्रज्या. अन्वेष्टि°, शांआ. (३, ३-४) यष्टि° इति, बे. येष्टि° इति] ।

येनं के१,४; क२,१,३; सुं १,२,
१३; तै ३,१,१; ऐ ५,१^५; छां
५,११,६; वृ १,५,१९; श्वे ६,
१; मै २,३; उ; ८; कौ २,११;
हं १^{१०}; व्र २^{१०}; येषाम् प्र १,
१५; वृ ४,४,२२; व्र ३,१; वृजा
५,११; नाप ३, ८१; रार १,७;
अन्न ४, ५२; पत्र ३,५; सार
२३५:४; गी २, ३५^०; येषु प्र
१, १५; सुं १, २, ७; मना २,
१२, १९^०; मै ४, २^०; शि ५, ७;
येषु-येषु राव ५, २६; यै: सुं ३,
२, १०; वृ २, १, ९; मै १, ७;
मैत्रे १, २; सार २५५: १२; यौ
छां १, ७, ५.

यत्तर- -रे छां ८, ८, ४.

यत्स(>) क२, १, ९; तै २, ४,
१; छां ५, ९, २^३; जा ४^९; मैत्रि
६, ३४; कौ ४, १९; मना १, १९^०;
पहं २; व्रवि ३^१; यतः-यतः छां
४, १७, ९.
२यति^१-

यति-(थ^१>)थी- -ध्याम् वृ
६, २, २.

यत्र क १, २, २५; प्र ४, ११;
सुं १, २, ५; ११; मां ५; तै १,
६, १; छां १, २, १; वृ १, २, ३;
मै ५, ७^३; मैत्रि ६, ७^३; कौ २,
१४; यत्र-यत्र अना ३९^३; त्रिब्रा
२, ११३.

यत्र-(स्थ>)स्था- -स्था यो
३, ७.

यथा के १, ३; क १, १, ६; प्र

२, ४; सुं १, १, ७^३; तै १, ४, ३^३;
ऐ १, ४; छां १, २, ७; वृ १, ४,
७; श्वे २, १४; कौ १, ४; २,
१२^१; लु १९^३; नाप ८, १९^०;
जाद ५, १९^०; योशि ४, १४^३;
छाग २४: १०^१; यथा-यथा
मुद्र ३; सार २३९: १५; शि
३, १३^३; ६, १०४^३; २७८^१.

यथा-कर्मन्- -र्म^१ क २, २,
७; वृ १, ५, २१; कौ १, २.

यथा-कल्प- -ल्पम् वृजा
३, ३४^३.

१यथा-काम- -सम् प्र १,
२; वृ २, १, १८^३; पित्र १, १६;
त्रसू ३, ३, ६०.

यथाकाम-चार- -रः छां
७, १, ५; २-३, २; ४-५, ३;
६-१४, २.

२यथा-काम- -सः वृ ४, ४, ५.

यथा-कारिन्- -री वृ ४, ४, ५.

यथा-काल- -लम् सुं १,
२, ५; महा २, ४३; ६, ४७.

यथाकालो(ल-उ)पपञ्च-
सेवा- -वा सार २४९: ११.

यथा-क्रतु- -तुः छां ३, १४, १.

१यथा-क्रम- -सम् शु १,
११; व्रवि ५६; योचू १२०; मं
१, १, ६; पै २, ४; योशि १,
१०१; ५, १; म १, ६; शि ४,
३९; गु १२; -मेण मैत्रि ६, २६;
३१; शारी १; त्रिता २, ४२.

२यथा(था-आ)क्रम- -मः वृ

४, ३, ९.

यथा-क्षण- -णम् महा ४,
३९.

यथा(था-आ)क्षर- -रम्
१आ १^१; २आ ३.

यथा(था-आ)गत- -तम्
अन्न ५, ११६.

यथा-चारिन्- -री वृ ४, ४, ५.

यथा-जात-रूप- -धर- -रः
जा ६; नाप ३, ८६^३; -राः या
२, १^१.

यथा-ज्ञात- -तम् जावा
३; सि १, २.

यथा-तथ- -थम् त्रिब्रा २,
११६^३; महा ५, १९^३; वरा २,
५७^३.

याथातथ्य- -थ्यम् योशि
२, ३; -थ्येन सार २९०: १२;
पित्र १, २.

याथातथ्य-तस(>)
ई ८.

यथा-देश- -शम् महा ४,
३९; तारा ८४: २.

यथा-दैवत- -तम् वृ १,
५, २२^१.

यथा(था-आ)धिकार- -

यथाधिकार-वत्- -वान्
गुषो ४२०: ३.

यथा-निकाय- -यम् श्वे
३, ७.

यथा(था-आ)नुशासन- -

-नम् छां ८, १, ५.

a) अञ्ज्या. 'केन' इति शोधः द्र. (तु. निसा., आन., अञ्ज्या. संदि.) । b) सकृत् 'तेन' इति आन. ।

c) 'एषाम्' इति SCHR. पाठे. [वैतु. बे. (NIA २, २३१)] । d) तैत्रा १०, १०, १ । e) 'येषाम्' इति

अञ्ज्या. । f) ऋ ३, २९, १० । g) तैत्रा १०, १, १ । h) 'अतः' इति आन. । i) इति: प्र. उरसं. (पा ५, २, ४१) ।

j) इति धुगागमः उरसं. (पा ५, २, ४८; ५१) । k) 'यत्र तत्र' इति आन. । l) 'यद्' इति आन. । m) 'यदा' इति अञ्ज्या. ।

n) पा. त्रुटितः (तु. तु ४-६) । o) निसा. पा. ? 'यथा' (तृ१) इत्येवं शोधः द्र. (तु. अञ्ज्या.) । p) पा. ? 'अथ' इत्येवं शोधः

द्र. । q) अस. । r) वा. क्वि. द्र. । s) 'कल्पोकविधिना' इति अञ्ज्या. । t) वस. । u) 'रः' इति पा. ? यनि. शोधः

द्र. । v) 'रः' इति अञ्ज्या. । w) 'यथा तथा' इति अञ्ज्या. संदि. । x) पा. ? यनि. शोधः द्र. । y) 'दे' इति JC. ।

z) पूष. =यथाविध- इति कृत्वा विप. सतः उप. मलो. कस. ।

यथेष्ट-धारण- -णम् योचू
९९; -णात् १योत् ५०; शां १,
७,८^a.

१यथो(था-उ)क्त^b- -क्तम् क
१, १, १५; वउ ६, ३७; -क्तेन
त्रिवा २, ११६.

यथोक्त-काल- -ले जा
६; नाप ३, ८६; मि १३; या २, १.

यथोक्त-फल- -लम् शां
१, २.

यथोक्तफल-द- -दः
जाद २, १६.

यथोक्त(क्त-ऋ)र्षि-च्छ-
न्दो-दैवत- -तम् वउ ६, १४.

यथोक्त-विधि- -धिना
त्रिवा २, ९४.

यथोक्त-शेष- -षः २प्र
३५:१६.

२यथो(था-उ)क्त^c- -क्तः नाप
३, ५६.

यथो(था-उ)चित^d- -तम्^d
नाप २.

यथोचिता(त-श्चा)तिथ्य-
पूर्वक- -कम् नाप १.

यथो(था-उ)पदिष्ट^b- -ष्टम्^d
वउ ६, १०; ४६.

यथो(था-उ)पपत्ति^b- -त्ति^d
शा ६१^e.

यथो(था-उ)पपन्न- -चातुर्व-
र्य- -मैक्ष-चर्य- -र्यम् आश्र ४.

यथो(था-उ)पयोग- -शुश्रू-
षा-पूर्वक- -कम्^d नाप २.

यदा क २, ३, १०; प्र २, १०; सुं
१, २, २; तै २, ७, १^२; ऐ ४, १;

छां १, १, ६; वृ १, ३, १२-१६;

श्वे १, ९; गौ १, १६; मैत्रि २, ६;
मैत्रे १, ४, ७^१; गर्भ २^६; १योत्
५३^b; यदा-यदा योशि १, ३६;
गी ४, ७.

यद्- यत् ई १; के १, २; ४^२; क १, १,
५; ९; २२; प्र शां^१ १; १, ५; ६^२;

सुं शां^१ १; १, ४; ६; मां शां^१ १;
१; तै २, ६-७, १; ऐ ३, ३-९;

१०^२; वृ १, १, १^३; कौ १, २९^१;
६९^६; ३, १९^१; ब्र २^५म; महा ५,

१४^११^२; गी ५, २१^०; यत्-यत्
छां ६, ९, ३; वृ १, २, ५; महा ३,

१७; १संन्या २, ५९; योशि १,
३१; भव १, २९; २, २५.

यच्-चित्त- -त्तः प्र ३, १०; मै
४, ४, ३; मैत्रि ६, ३४; मैत्रे १,
४, ५; शा ३.

यच्-छ्(छा)> - -द्धः गी
१७, ३.

यज्-जप- -पात् सूता १, ३.

यज्-ज्ञान- -नेन मं ३, १, २.

यत्-करा(र-श्च)प्र- -प्रात् वउ
४, ४१.

यत्-काम- -मः छां १, ३, १२^२;
तृपू १, १; -ऽ^१माः मना २, ५४;
पा ६, ८.

यत्-किं-चिद्-
यत्किंचिद्-इदम्-आत्मक-
-कः तै ४, ७९.

यत्किंचिद्-धर्म- -र्माः सार
२८७ : १५.

यत्-ऋतु- -तुः वृ ४, ४, ५.

यत्-पर- -रम् २शिसं १७;
-रात् २शिसं १७^२.

यत्-परिग्रह- -हः महा २, ९.

यत्-पादा(द-श्च)भोरुह-
द्वन्द्व- -न्द्वम् शा १६.

यत्-प्रकाशै(श-ए)क-बन्ध-
(न>)ना- -ना वरा २, ९.

यत्-प्रभाव- -वः गी १३, ३.

यत्-संकोच-विकास-
-साभ्याम् महा २, १०.

यत्-स्वरूप-ज्ञान-
यत्स्वरूपज्ञानिन्- -नितः
त्रिवि ८, १४.

यद्-अग्र- -ग्रे तुल ७१ : ५.

यद्-अमृत- -ताः छां १, ४, ५;
कौ २, १४.

यद्-अर्थ- -र्थम् महा ४, ५१^१;
१३१.

यद्-उ(क>)क्ता- -क्ता यो २, ८.

यद्-उपासना- -नया सार १, १.

यद्-उपासना-मात्र- -त्रात्
सार २८० : १३.

यद्-ऋच्छा- -च्छया सार २७९:
१; २९१ : २; १५; गी २, ३२;

-च्छा श्वे १, २; नाप ९, १.

यद्-च्छिक- -कः गौ २,
३७; पदं ४^२; नाप ३, ८६; ६, ३८.

यद्-च्छा-कथा-सेवा- -वा
सार २७९ : २.

यद्-च्छालाभ-
यद्-च्छालाभ-संतुष्ट-> -ष्टः
जाद २, ५.

यद्-च्छालाभ-संतुष्ट- -ष्टः
नाप ३, ८६; गी ४, २२.

यद्-च्छालाभ-संतुष्टि^६-
-ष्टिः शां १, २.

यद्-गोत्र- -त्रः छां ४, ४, २^२; ४^२.
यद्-दीप्ति- -प्या पित्र ३, ५.

a) °णम् इति अज्या. । b) अस. । c) कस. । d) वा. क्रिवि. द्र. । e) °प्तिम् इति निसा. यनि. शोषः
द्र. (तु. अज्या.) । f) 'यथा' इति अज्या. । g) 'यथा' इति आन. । h) 'यथा' इति निसा. । i) ऋ १, ८९, ८ ।
j) 'यः' इति शांआ ३, २ । k) 'तत्' इति शांआ ३, ६ । l) 'यः' इति शांआ ५, १ । m) सकृत् 'तत्' इति निसा. ।
n) सकृत् निसा. ? 'तत्' इति शोषः द्र. । o) 'यः' इति SCHR. पामे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] । p) ऋ १०,
१२१, १० । q) °र्थप्र° इति अज्या. । r) 'नवषट्कारः' इति अज्या. । s) °भतु° इति अज्या. ।

यमुना-केलि-रसिक- -काभ्याम्
सार २४७ : २२.

यमुना-जल-कलोल-विहारा-
(र-आ)स्मन्- -स्मने सार
२७७ : ४.

यमुना(ना-अ)मृतो(त-उ)दक- -कैः
सार २५८ : २०.

यंभ^v व ४२७ : १८.

यव^{cb} - -वः वृ ५, ६, १; -वात् छां ३,
१४, ३; -वैः भर, २५; शि२, २३.

यव-पर्वत- -तम् शि ६, ६८.

यव-मात्रक- -कम् शि ६, १०१.

यव-मात्र-विनिर्गत(त>)ता- -ताम्
कुं १८१^o.

यवनिक्ताrd - -काः सार २६३ : १४.

यशस्^b - -शः तै १, ३, १; ४, ३; ३,
१०, ३; छां ३, १, ३; २-५, २;
१३, २; ८, १४, १^५; वृ १, २, ६^३;
४, ११; २, ३, ३^३; ६, ४, ६-८; श्वे
४, १९^९; मना १, २^९^१; २,
१५^९^६; कौ २, ६; १५; नाप ४,
३८; महा १, १; १संन्या २, ६;
त्रिता ३, ३६; ४, ८; सार २२२:
१६; १७; २१; २२४ : १७;
२२७ : २०; २५३ : १४; २५९:
२; २६२ : १८; २७४ : १४; गु
६२^९; वउ ६, ४९; गी १०, ५;
११, ३३; -शसः मैत्रि ६, ३५;
-शसा छां ३, १८, ३-६; वृ ५,
१४, ३; ६, ४, ७; ८; २८; कौ १,
३; गा ९; अर २४^९^५; -शसाम्
छां ८, १४, १.

√यशस्व, यशस्यन्ते तारा ८४ : १४.

यशस-विन्- -विनौ वृ ६, ४, ८;
-वी छां ३, १३, २; सु २९५ : ४.

१यशस्विनी- -नीम् वृ ६,
४, ६.

२यशस्विनी^{११}- -नी ध्या
५३; योचू १७; २०; शां १, ४^३;
भा १३^१; जाद ४, ७; १५; १६;
१९; वरा ५, २४; -न्याः जाद
४, १६; ३७.

यशस्विनी-कुहू-

मध्य- -ध्ये शां १, ४.

यशस्वि-तम- -मः, -मम् कौ
२, ६.

यशो-(द>)दा^१- -दा कृ ३; सार

२५२ : १०; -दायाः सार २६२ : ८.

यशोदा(दा-आद्य>)द्या- -द्याः
सार २५७ : २२; २८० : १.

यशो(शस्-अ)र्थ- -र्थम् १संन्या २,
८२.

यशो-वत्- -वान् ग १८.

यष्टव्य- √यजू द्र.

यष्टि^{१६} - -ष्टिम्, -ष्टेः शि ६, १३४;
-ष्ट्या वृ ६, ४, ७; कौ ४, १८; ब्र १.

याष्टीक- -कैः महा २, २१.

यष्टि-(क>)का- -का कृ ८.

यष्टय(ष्टि-अ)र्थ- -र्थम् शि ६, १५०.

√यस्^१(यजने), अयासिषम्^m मना १,
४^९^m.

यस्क^१ -

यास्क^१ - -स्कात् वृ २, ६, ३; ४, ६, ३.

√या, याति क १, २, २१; छां ७, १५, १;

वृ ४, ३, ३५; श्वे ६, ४; गौ ३,
३२; मै ४, ४, ७; मैत्रि ६, १७;
ब्रवि ४; कै १, १^३; हं १८; योचू
११^४^५; यान्ति मैत्रि ६, ३०;
अशि ५, १५; मन्त्रि १७^५; ते
१, ४६; नाद ५१; योचू ६९;
त्रिवि ५, ७; रापू १, २; पै ३,
१; महा ४, ३; शि ६, १८४^९;
यासि अक्ष १५^३; यामि महा
३, ९^५; यातु अक्ष ५, ३८^३;
यान्तु महा ४, ९७; अयाम् अक्षा
२^३; यायात् वृ ४, ३, ३५.
यथौ वृजा ६, ४; शु ३, २०; सार
२८६ : १४; ययुः कौ २, १४^५;
१५^९^५; मन्त्रि १८; चू १८;
यास्यति शु १, ४; यास्यसि सु
१, १, २७; गी २, ३५; ४, ३५;
यास्यामः गोज २; ४.

यात्- याति महा ५, ५.

यात्, ता- -तम् महा ४, ८९; १३४;
५, १४७; -ता(ःतः^v) महा ३,
१९; -ताः महा ५, ६१; वरा ३,
२२; -ते यो १, ४३; शां १, ७,
२३; महा ६, ३; -तौ महा ६,
४७; यो १, ४४.

यात्-याम- -मः मुद्र ४; -मम्
भव ४, १४; २प्र ३३ : ११; गी
१७, १०.

याता(त-आ)यात्- -तः (ःतम्^v)
योचू ११; १३३.

याते(त-इ)न्दु-चक्र^m - -क्रम् यो
१, ७१.

a) 'भय->-यम्' इत्यस्य गुह्यजपार्थो विपर्यासः । b) वैपश् यद्र । c) 'न्ने वि' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । d) व्यु. ? । e) मा ३२, ३ । f) तैत्र्या १०, १, २ । g) तैत्र्या १०, १४, १ । h) तैत्र्या १, २७, ३ । i) = नाडीविशेष- । j) 'स्वती इति निसा., अज्या., 'शोवती इति तान्त्रि. च यनि. शोधः द्र. । k) व्यु. ? = लगु- । l) तु. वैप. १, ४५९ d । m) इति वृद्धिनिषेधबाधः उंसं. (पा ७, २, ३) । विशेषः वैपश् यद्र. । n) ऋ १, १८, ६ । o) व्यु. ? = गौत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । p) 'उपैति' इति अज्या. । q) 'न्ति इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । r) 'याति' इति अज्या. । s) 'याति' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । t) 'जय' इति अज्या., 'ईयुः' इति आन. । u) निसा. पा. ? 'यदि-उ' इति शोधः द्र. (तु. आन., अज्या., शांआ ४, १५) । v) पा. ? यनि. शोधः द्र. । w) वस. । पूर्वत्र 'पित्तम्' इत्यस्य वि. द्र. ।

√युज् (*बधा.) > योजि, युजे श्वे २, ५९^०.

युज्यस्व गी २, ३८; ५०.

युनक्ति के १, १; मैत्रि ६, २५;

सुद्र ३; युज्यते श्वे २, ४१^०;

मैत्रि ६, २५; २प्र ३३: १४^०;

अयुज्यत सार २४९: १२; युज्यीत

गौ १, २५; मै ५, ३; मैत्रि ६,

३; २१; मना २, ७९^०; त्रिवा २,

१२८; भव ३, २४; गौ ६, १०;

युज्य्यात् गी ६, १२.

युज्यते श्वे ५, १०^०; गौ ३, १४;

२७; २८; ४, २०; महा ३, ११^०;

पाशु २, २१; २प्र ३३: १३; भव

२, २५; यु ६५; गी १०, ७; १७,

२६^०; युज्यन्ते वृ ५, १३, २^०;

कौ २, ६; सार २७३: २०; २७९:

९; अयुज्यन्त सार २४९: ३.

योजयति महा ३, २५; सु २, २,

४; योजयेत् गौ ३, ३६; अक्षर;

वृजा ४, १२; वृष ६, ५; ७, १५^०;

रार २, ५८; १०५; ५, १४; जाद

८, ९; वरा १, ७; कालि ४०३:

१५; पी ४२२: ३.

योज्यते महा ४, १०३; सार

२३९: १८; अयोज्यन्त सार

२३९: २०.

युक्त, क्ता- -क्त: के १, १; प्र ३, १०;

छाँट, १२, ३^०; श्वे २, १५; ते ४, ६१;

ब्रवि १७; नाप ५, ५; ३१; ६, ४;

२६; रापू ४, ३६; ६३; योशि १,

१४१; ४, १; जाद ३, १३; सूता

२, १५; शि ६, १२७; भव ४,

१; गी २, ३९; ६१; ३, २६; ४,

१८^०; ५, ८; १२; २३; ६, ८; १४;

१८; ७, २२; ८, १०; १८, ५१;

-क्तम् गौ २, १०; ४, ३४; वृजा

४, ९; रापू ४, २८; महा ५,

१६८^०; अक्ष १, ५६; ४, १७; ग

७^०; सु २, २, १६; ३४^०; सार

२३०: ११; शि ६, १३६; १३८:

-क्तम्-क्तम् योचू ११९^०; शां १,

७, ७^०; -क्तस्य मैत्रि ६, २८; योशि

२, १९; -क्ता रापू ४, ५९; त्रिता

३, ११; वल ३, १६; -क्ता: तै १,

११, ४^०; श्वे ४, १५; वृ २, ५, १९;

वृजा ५, १४; ब्रवि ६७; ६८; शि

४, ७; भव ५, २२; -क्ते गौ १,

१४; -क्तेन क १, ३, ६; श्वे २, २४^०;

योचू ११६; -क्ते: गी १७, १७.

युक्त-ग्रावन्- -वा वृपू २, ९९^०.

युक्त-चातुर्मास्य-व्रत-नियम-

-म: पप ४१९: १६.

युक्त-चेतस्- -तस: गी ७, ३०.

युक्त-चे(ष्टा>)ष्ट- -ष्टस्य गी ६,

१७.

युक्त-तम- -म: गी ६, ४७; -मा:

गी १२, २.

युक्त-स्वप्ना(प्र-अ)वबोध-

-धस्य गी ६, १७.

युक्ता(क-आ)त्मन्- -त्मा गी ७,

१८; -स्मान: सुं ३, २, ५; भ २,

१४.

युक्ता(क-आ)हार-विहार-

-रस्य गी ६, १७.

युक्ति- -क्तय: सु २, २, ४५; -क्तिभि:

योशि १, ६१; -क्तिम् अक्ष ४,

९०; सु २, २, ४३; -क्तिषु सु २,

२, ४६; -क्ते: ब्रसू २, १, १८;

-क्त्या महा ६, ९; अक्ष ४, ८७;

५, ५०; अध्या ४; ३३.

युक्ति-कल्पित- -तै: अक्ष ४, ४४.

युक्ति-तस्(>:) सांसू १, ५९.

युक्ति-दर्शन- -नात् गौ ४, २५.

युक्ति-युक्त- -क्तम् गौ ३, २३.

युक्त्वा गी ९, ३४.

युक्तवायु श्वे २, ३९^०.

१युग^०-

युग-पत्(१द्)^०- -पत्^० गौ ४,

१६; यो २, ५; ३९^०; शि ७, ७१;

सांका ३०; गी ११, १२.

यौगपद्य- -द्यम् ब्रसू २,

२, २१.

युगपज्-जायमान- -नयो:

सांसू १, ३८.

युगपद्-उदिता(त-अ)नन्त-

कोटि-रवि-प्रकाश- -श: त्रिवि

७, १४.

२युग^०- -ने वृजा ४, २१.

युग-मात्रा(त्रा-अ)वल्लोकिन्-

-की शा १८^०.

युग-ल^०- -लम् गोट ५९^०.

३युग^०- -गम् छाग २५: २०.

४युग^०- -गा: सु २१; -गानि पाशु

१, ६; सं १५; शि ६, २६; भव

१, ५७; -ने-ने सं ११; गी ४, ८.

युग-कोटि-शत- -तम् शि ६,

१९९.

युग-संधि-काल- -ले सं १०;

१३

युग-सहस्रा(स-अन्त>)-

न्ता- -न्ताम् गी ८, १७.

a) ऋ १०, १३, १। b) ऋ ५, ८१, १^०। c) 'युज्यते' इति गोब्रा १, १, २२। d) तैत्र्या १०, ६३, १।

e) 'रक्ष्यते' इति आन.। f) 'गीयते' इति SCHR. पाभे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)]। g) 'चोक्तः' इति SCHR.

पाभे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)]। h) तु. सस्थ. टि दुःख->-खम्। i) 'रुद्धम्' इति निसा.। j) 'क्तः' इति

निसा. संटि.। k) मा ११, २। l) ऋ ३, ४, ९। m) मा ११, ३। n) भाप. =साहचर्य-। घक् प्र. उंसं. (पा ३, ३, १८)।

o) वृस. उष. भाप. (वैतु. पाप्र. अन्व. इति)। p) वा. क्रिवि. द्र.। q) धा. योगे वृत्तिः =युग-। r) 'गम् आत्मा'

इति अख्या. संटि.। s) स्वार्थे लः प्र.। t) 'गु' इति आन.। u) धा. अर्थः? =योक्त्र-। v) धा. अर्थः? =दीर्घकालात्मक-।

युगा(ग-अ)नुवतिन्- -तिन्ः
 गा ३ ३४.
 युग्म- -माः गर्भ ३.
 युग्म-कलसि- -पश्या नापष्ठ ३८.
 युग्म-स्तन-पदा(ग-अ)न्त^१-
 -न्तम् १३७ ६.
 युञ्- युजा ४ ४१९. २ २९^१ ४६०:
 ३९^१ २०९^१.
 युञ्जन्- -ञ्जतः गी ६, १९; -ञ्जन्
 योशि ५, ५२^१; ५४^१; यो २, १६;
 गी ६, १५; २८; ७, १.
 युञ्जान- -नः श्वे २, १९^१; -नस्य
 त्रिब्रा २, ११६^१; १४५^१.
 योक्तव्य- -व्यः गी ६, २३.
 योक्त्र^१- -क्त्रम् शि ६, २७६.
 ययोग^१- -गः रापू ४, २; योशि १,
 ६८; ६९; ११६; रुह ११; वरा
 ५, ४५; पित्र २, ३; मांस् २, ९;
 -गम् श्वे ६, ३; सार २४१: २०;
 -गाः त्रि २; -गात् योशि १,
 १३७; त्रिता १, ४२; ४५; २प्र
 ३६: १३; -नो २प्र ३५: १७९^१;
 यो ६; -नेन सुह २.
 योग-क्षेम- -मः तै ३, १०, २;
 -मम् गी ९, २२; -मात् क १, २, २.
 योगक्षेम-फल- -लानि सार
 २७८: ८.
 योग-तस(>) वरा २, ७५; सौ
 २, १४.
 रयोग^१- -गः क २, ३, ११; तै २,
 ४, १; मैत्रि ६, १८; २५^१; ९^१; २७;
 २८^१; अना ६; २४; ब्रवि ४४;
 १योत १५; १९; २५; नाप ४,
 १२; २४; त्रिब्रा २, १९; २३; शां
 १, ७, २४^१; महा ५, ४२; योशि

१, १३; ५२^१; गी २, १८; वरा
 ५, १०; ४०^१; सौ २, १३; योरा
 २; १११: १७; १शौळ २: ५;
 २शौळ ३; भव ३, १२; १३; योसु
 १, २; अस् २, १, ३; गी २, ४८;
 ५०; ४, २; ३; ६, १६; १७; २३;
 ३३; ३६; -गम् क २, ३, ११; ब्रवि
 ७; गर्ग ४; अना २३; सु १२; ब्रवि
 ५८; १योत १५; १८; २२; नाप
 ३, ८०; अना ८; मं १, ३, १; शां
 १, ५; योशि १, १४; ६३; ६६;
 ५, १; अञ्ज ३, १; अश्वि ३; जाद
 १, ३; ४; वरा ५, २; ३९^१;
 ७५; सौ २, १२; निरु १, २०;
 शि ५, २९; ७, १०३; अबि ७;
 गी २, ५३; ४, १; ४२; ५, १;
 ६, २; ३; १२; १९; ७, १; ९,
 ५; १०, ७; १८; ११, ८; १८, ७५;
 -गस्य १योत १२२; योशि १,
 १०५; यो २, १; गी ६, ४४; -गाः
 वरा ५, १०; सार २८२: १८;
 -गात् त्रिब्रा २, १९; भव ३, ११;
 योशि १, ५३^१; ५५^१; ६५; ६७^१;
 १२३; जाद ६, ३८; सौ २, १;
 शि १, ३२; हे ३; गी ६, ३७;
 -गानाम् सार २८२: १९; -गाय
 गी २, ५०; -नो श्वे २, ११; त्रिब्रा
 २, २७; गी २, ३९; -नेन ब्रवि
 ५६; त्रिब्रा २, ५५; निर्वा २९८:
 २; योशि १, २५; २६; ५१; ७९;
 सौ २, १^१; १२; सूता १; १९; गी
 १०, ७; १२, ६; १३, २४; १८,
 ३३; -नैः सुबा ९; त्रिब्रा २, २१;
 अञ्ज ४, ५; वरा ४, ३५; शु ३७.
 ३योग^१- -गाय सार २७५: २०.

४योग^१- -गम्, -नैः गी ५, ५,
 ५योग^१-
 १योगिन्- -० गिन् गी १०, १७.
 योगे(ग-ई)ज्ञ- -शाय सार
 २७५: २०.
 योगे(ग-ई)श्वर- -रः गी ११,
 ४; १८, ७८; -रात् गी १८, ७५.
 ६योग^१-
 योग-वादिन्- -दिनाम् अञ्ज
 ३, २०.
 योग-कल्प-तरु- -रवे त्रिवि ७,
 ४३.
 योगकल्पतरु-वन- -नम्
 मि १, १३.
 योग-काल- -ले शां १, ४; -लेन
 त्रिब्रा २, ६५.
 योग-गुण- -णे श्वे २, १२.
 योग-चतुष्टय- -यम् योशि १,
 १३८.
 योग-चार- -रेण नाद १९.
 योग-चूडा-मणि^१- -णिम्
 योचू १.
 योग-जि(ह्ला)>ह्ला^१- -ह्लाः सृ ३.
 योग-ज्ञ- -ज्ञः अता १४; -ज्ञैः
 जाद ४, ५.
 योग-ज्ञान- -ने त्रिब्रा २, २१.
 योगज्ञान-पर- -रः त्रिब्रा २,
 २०.
 योग-तत्त्व- -त्त्वम् १योत
 १९^१; ३; २योत १, १९^१;
 -त्त्वस्य यो १, ६१.
 योग-द- -दम् शि ५, ११.
 योग-धारणा- -गाम् गी ८, १२.
 योग-धी(धी-इ)शारा(रा-अ)-
 न्त^१- -न्तैः त्रिवि ७, ४९.

a) पूष. =बीजाक्षर- । b) ऋ १०, ८३, १ । c) ऋ १०, ८३, ३ । d) ऋ १०, ८४, ४ । e) मा ११, १ ।
 f) °नश्च इति अख्या. संटि. । g) =भाप. । h) 'संयोगः' इति गोब्रा १, १, २७ । i) वैतु. राती. 'सम्यक्' इत्यनेन
 संबन्धमिच्छुः । j) °गवरः इति अख्या. । k) 'योगी' इति अख्या. । l) =योग-मूर्ति- । m) =योगाङ्गभूत-तत्साधन-
 प्रकार- (वैतु. शं. =योगिन्- इति) । n) =स्वतःसिद्ध-योग- । o) =योगशास्त्र- । p) =तदाख्योपनिषद्विशेष- ।
 q) व्यसं? । r) तस. > कस. > बस. ।

योग-ध्यान- -नम् ब्रवि ५९.
 योग-न(न्द>)न्दा^१- न्दा
 राधा १,२४.
 योग-निद्रा- -द्रा शां १,७,१८.
 योगनिद्रा-परायण- -णम्
 नाड १,२४.
 योग-निर्मल-धा(रा>)र-
 -रेण छु १८^b.
 योग-नि(छा>)ष्ट- -ष्टाः १योत
 ७९; अता १४; योशि ६,६४.
 योग-पट्टा(ट्ट-अ)भिराम- -मः
 द ८.
 योग-पट्टा(ट्ट-अ)भिषिक्त- -क्तः
 नाप ४;३८; १संन्या २,१२.
 योग-पथ- -थे ध्या ३८^०.
 योग-परायण- -णः ध्या ७२;
 योचू ४२.
 योग-परिच्छेद- -क्षम् शि ७,
 ११७.
 योग-पीठ- -ठेषु राधा २,१.
 योग-प्रकाशक- -कम् त्रिब्रा २,
 २१.
 योग-प्रवृत्ति- -त्तिम् श्वे २,१३.
 योग-बल- -लेन योशि १,४५;
 गी ८,१०.
 योग-भूमिका- -का अक्षि ४१;
 -काः महा ५,२२; -काम् अक्षि
 १०; १५.
 योग-अष्ट- -ष्टः गी ६,४१.
 योग-माया- -या सार २२३ :
 १९९^१.
 योगमाया-लक्ष्मी- -क्ष्मीम्
 त्रिवि ६,१७^०.
 योगमाया-समावृत- -तः
 गी ७,२५.
 योग-मार्ग- -र्गे भि ३; ५; ७;
 ९; योशि १, ६२; १५८; -र्गेण
 वृजा २,१६.

योग-मुद्रा- -द्रया त्रिब्रा २,९३.
 योग-यज्ञ- -ज्ञः शा १४; -ज्ञाः
 गी ४,२८.
 योग-युक्त- -क्तः योशि ५,५५;
 गी ५,६; ७; ८,२७; -क्तम् नाद
 १८^१; -क्तस्य लु १६.
 योगयुक्ता(ङ्-आ)त्मन्-
 -त्मा ते ४,५०; १योत १४०;
 २योत २,२; गी ६,२९.
 योग-युक्ति- -क्त्या वृजा २,
 १३.
 योग-योगिन्- -गिनः अन्न ५,
 ५०.
 योग-राज^१- -जम् योरा १.
 योग(ग-ञ्च)र्द्धि- -र्द्धेः नाप ५,
 २९.
 योग-लक्ष्मी- -क्ष्मीः नापू २,६.
 योग-वत्- -वान् सौ २,६.
 योग-विह्व-करा(र-आ)हार-
 -रम् १योत ४६.
 योग-विद्- -वित् व्र २; लु
 २४; ध्या ४६; ६१; ९१; नाप
 ३, ७९; ६,३; योचू ९; ३०;
 ६४; योशि ६, ३७; ५४; ५५;
 ६३; पत्र ३,३; ४; भव ३,२७;
 -विद्ः त्रिब्रा २,३८.
 योगवित्-तम- -मः १योत
 ४६; त्रिब्रा २,१२२; -माः पै ३,
 १२; अध्या ३८; गी १२,१;
 -मैः योचू १; वरा ५,१६.
 योग-विधि- -धिसू क २, ३,
 १८.
 योग-विरोध- -धः सांसू ४,९^१.
 योग-विशारद- -दैः योचू ११२.
 योग-वृद्धि-कर- -रम् १योत
 ४९.
 योग-शक्ति- -क्तिः सी ३५.
 योग-शास्त्र-प्रवृत्ति- -त्तिः नाप

५,१; १संन्या २,५९.
 योग-शिखा^१- -खाम् योशि
 १,६९; ५,६०.
 योग-संसिद्ध- -द्धः गी ४,३८.
 योग-संसिद्धि- -द्धिः ते ६,१२;
 -द्धिम् गी ६,३७.
 योग-संस्थि(त>)ता- -ताम्
 शि ६,११९.
 योग-संज्ञा-
 योगसंज्ञित- -तम् गी ६,२३.
 योग-संन्यस्त-कर्मन्- -र्मणम्
 गी ४,४१.
 योग-साम्राज्य- -ज्यम् वरा २,
 ८३.
 योगसाम्राज्य-दीक्षित-
 -तः जाद १,१.
 योग-सिद्ध- -द्धः त्रिब्रा २,
 १०३; -द्धस्य योशि १,१५६.
 योग-सिद्धि- -द्धयः सांसू ५,
 १२९; -द्धये लु १; १योत ७५;
 योरा १; -द्धिः १योत १२७;
 मवा ७; -द्धिम् नाप ५, २९;
 योशि १,१४१.
 योग-सेवा- -वया १योत १४३;
 २योत २,६^१; योशि ३,१४; गी
 ६,२०.
 योग-स्थ- -स्थः अक्षि ३; गी
 २,४८.
 योग-हीन- -नम् १योत १४;
 योशि १,१३; -नाः योशि १,२६.
 योगा(ग-अ)ग्नि- -ग्निना योशि
 १,२६; ४०.
 योगाग्नि-मय- -यम् श्वे २,
 १२.
 योगा(ग-अ)ङ्ग- -ङ्गानि ध्या ४१;
 योचू २.
 योगाङ्ग-द्रव्य-संपूर्ण- -र्णम्
 त्रिब्रा २,९०.

a) =गोपीविशेष-। b) °लसा° इति अर्थ्या। c) °पदे इति आन। d) =सखीविशेष-। e) °गल°, अङ्गमायाम् इति निसा। f) °क्तः इति अर्थ्या। g) °क्तः सः इति आन। h) =तदाख्योपनिषद् विशेष-। i) °गे वि° इत्यपि पाठे।

योगी(गि-इ)न्द्र-न्द्रः योशि
१,४३; १५०; अन्न १,१; -न्द्राः
रार १, ७; सार २५८: १६;
-०न्द्राः रार १, ५; -न्द्राणाम्
शि ७, १०२.

योगीन्द्रा(न्द्र-आ)वसथ-
-थम् शि २, १६.

योगी(गि-ई)श्वर- -रः मैत्रि
७, १; योचूँ १४^१; योशि ६, ६५.
योगै(ग-ए)क-गम्य- -म्यः शां
२, १.

योगै(ग-ऐ)श्वर्य- -र्येण अशि ४,
२४; वट्ट ३१६: १६.

योग्य, ग्या- -ग्यः ते १, २७; त्रिता
१, ५२; -ग्यम् शि ४, २१; -ग्या
सार २४९: ९; -ग्याः सार २४१:
१४; २४२: १२; २६६: १३;
२६७: १५; -ग्यानि सार २४०:
४; -ग्येषु सार २४८: २१.

योग्य-ता- -ता सार २३४: १७;
योसू २, ५३; -ताम् सार २३९:
७; २४०: २; २४६: २२; २५४:
१८; भव ३, १६.

योग्य-त्व-
योग्यत्वा(त्व-अ)भाव-

-वात् सांसू ६, ३३.
योग्या(ग्य-अ)योग्य- -ग्येषु
सांसू ५, ४४.

१योजन- -नात् खे १, १०; नाप
९, ९.

योजनी(य>)या- -या भ १,
४७; सु २, २, ६.

योजना- -ना गौ ४, ५९.

योजयित्वा त्रिता २, ४५.

योजित, ता- -तम् वृजा ४, ९; शि
७, १०८; -ताः सार २७२: ७;

यु ७७; -ते वरा २, ७०.

योजिता(त-आ)त्मन्- -त्मने
सार २५२: ३.

योज्य- -ज्यः ब्रवि १२; रार ४,
११; १प्र ३१: २२.

योज्यमान, ना- -नाः सार २७०:
२२; -नाम् सार २४६: १३;
-नानि सार २६७: ३.

युत- √यु(मिश्रणे) द्र.

√युध्, >युयुत्स्, युध्यते ते ६, ९२;
युध्यस्व गी २, १८; ३, ३०; ११,
३४; युध्य गी ८, ७.

योत्स्ये गी २, ९; १८, ५९.

युद्ध- -द्धम् राफु ४, २८; महा ४,
६४; गी २, ३२; -द्धात् गी २,
३१; -द्धाय गी २, ३७; ३८;
-द्धे गी १, २३; ३३; १८, ४३;
-द्धेन कौ ३, १.

युद्ध-विदारद- -दाः गी १, ९.

युध्- युधि गी १, ४.

युधा

युधा-मन्यु^१- -न्युः गी १, ६.

युधि

युधि-ष्ठि(<स्थि)र^१- -रः गी
१, १६.

युधि- -धये व ४६०: १९^१ b.

युध्म^१- -ध्मम् आर्षे ९: १७^१.

युयुधान^१- -नः गी १, ४.

युयुत्सु- -त्सवः गी १, १; -त्सुम्
गी १, २८.

योत्स्यमान- -नान् गी १, २३.

योद्धव्य- -व्यम् गी १, २२.

योद्धुम्

योद्धु-काम- -मान् गी १, २२.

योध- -धाः गी ११, ३२.

योध-मुख्य- -ख्यैः गी ११, २६.

योध-वीर- -रान् गी ११, ३४.

युव- युष्मद्- द्र.

युवति-, युवती-, युवन्- √यु
(मिश्रणे) द्र.

युष्मद्^१-

*तय^१- ते ई १६^१; १८; के२, १; क
१, १, ९; प्र२, १०; तै शार्^१; १, १२,
१; छां १, ५, २; १०, १०; ११; वृ
२, १, १; ३, ६, १; १५, १^१ १^१; कौ
२, ८^१; नी १, ३^१; पा ९, ६^१.

*तवद्^१- -व क १, १, १६^१; १९;
छां ४, २, ३; ५, २, ६; वृ ६, २, ८;
मना १, ९^१; शु १, ६; स्क १;
त्रिवि ८, १; अन्न ५, ३८^१; अक्षि
२२^१.

तुभ्य^१- -भ्यम् प्र २, ७; वृ ६, २,
४; ८; मै ४, ४, १४; १५; ते ४,
२८; द ९; वा ७; योशि ६, ३;
अन्न ५, १०५.

त्वद्^१- -त्वत् वृ ६, १, १३; मना २,
५४^१; नाप २; पा ६, ८^१; वउ
३, ४३.

त्वच्-छाया- -यायाम् तुल
७१: २.

त्वत्-तस(>:) छां ५, ३, ७; राउ
३, ७; महा २, ३५; ग ६^१; पा
२, ६; सार २२०: २३; वउ ३,
३३; गी ११, २.

त्वत्-ता- -ता ते २, २६; ६,
५१; महा ५, ४४.

त्वत्-पाद-युगल- -ले वृजा ६,
११.

त्वत्-प्रसाद- -दात् गी १८, ७३.

त्वत्प्रसाद-तस(>:) शु १, ५.

त्वत्-प्रसृष्ट^१- -ष्टम् क १, १०

त्वत्-सकाश- -शात् वरा १, १.

a) १राः इति निसा. यनि. श्लोचः द्र. (तु. अज्या.) । b) ऋ १०, ८४, ४ । c) वैप १ यद्र. । d) 'बुध्मम्' इति बे. । e) का ४०, १, १६^१; ऋ १, १८९, १ । f) 'मे' इति ऋ १, ९१, १३ । g) 'वित्ते' इति पा. 'वि ते' इति पदद्वयपरः श्लोचः द्र. (तु. अ्यान.) । h) वैतु. पाटी. √वद् > वहते इति । i) ऋ ८, ६१, १३ । j) 'तथा' इति अज्या. संटि. । k) 'मम' इति अज्या. । l) ऋ १०, १२१, १० । m) वैतु. J.C. पदद्वयमिति ।

स्वप्-अम- -मः गी ११, ४३.
 स्वप्-अन्य- -न्यः गी ६, ३९;
 -न्येन गी ११, ४७; ४८.
 स्वप्-अभिज्ञ- -ज्ञम् त्रिभिः, १७.
 स्वदीय- -यम् गी ५, ५०.
 स्वप्-भागभयिन- -यी शौ
 ५१ : ९.
 स्वप्-रूप- -पम् मु १, १, ५.
 स्वप्-ज्ञान- -नात् वरा
 १, १.
 स्वप्-प्रतिपा(६क>)-
 दिका- -काम् वरा १, १.
 स्वप्-व्यतिरिक्त- -क्तम् त्रिभि
 १, १.
 स्वप्-नाम-भजन- -नात् मु १,
 १, १६.
 स्वप्-मुख- -खात् पप ४१७ : २.
 स्वप्-मूल- -ले तुल ७१ : २.
 स्वप्- ई १५; के १, ४; ५; ६; ८; २,
 १; क १, १, १२; प्र २, ७; ९; १०;
 ११; ६, ८; छां १, ५, २; ४;
 वृ १, २, २-७; ३, १, २; मना २,
 १९; ६८; ७६; ७६; ७६; ७६.
 स्व-शब्द-ईनि- -नः ते ५, ६.
 स्वप्-अर्थ- -र्थः शु ३, १०; रार
 ५, १३.
 स्वप्-अहं-शब्द- -लक्ष्या-
 (क्ष्य-अ)र्थ- -र्थम् वरा २, १७.
 स्व-पद- -दम् शु २, ५; योचू
 ८२; दे शु ३, १०.
 स्व-पद-महा-मन्त्र- -न्त्रस्य
 शु २, ५.
 स्व-पद-वाच्य- -च्यः पै ३, १.
 स्व-पदा(द-अभि(धा>)-
 -धः अध्या ३१.

स्व-पदा(द-अ)र्थ- -र्थः मगा
 १, ३०; -थात् मगा १, ३७.
 स्व-पदा(द-अ)र्थ- -वाच
 ग ५, १२.
 स्व-पदा(द-अ)र्थिन- -तम् शु
 ३, ६.
 स्वप्- -न्वया क १, १, २०; मना
 १, ९; २, ४१; शु १, १२;
 नाप ५, १; ग १, ८; मगा २,
 ७०; ७१; प ३, आभा ४; मु २,
 २, ३१; स्वयि ३, २; के ३, ५; ९;
 पै २, ४, ३; वृ ३, १; ४, २४; २५;
 मना १, ८; कौ २, १५; ते
 २, ४२; मु २०, ३; ७; य ७.
 श्वा- -स्वाम् क १, १, ११; पै
 १, १, १; १२, १; छां ४, ४, २; ४;
 वृ ३, ९, १८; वृजा ३, २०; ६,
 १०; त्रिभि ७, ४०; महा ४, ९४;
 स्वा-द्व- -द्वक् क १, १, २२; २, ९.
 रत्वा- -त्वा क १, १, ४; प्र ६, १;
 तै १, ४, ३; छां १, ८, ३; २, २२,
 ३; वृ २, १, १४; १५; श्वे ४, २२;
 जा ५; कौ १, १; २, ११; १५;
 नी २, २५.
 युव- -वम् लि ३१० : १९;
 -वाभ्याम् सार २७७ : १७.
 युष्मद्-
 युष्मक-
 युष्माक- -कम् वृ ३, ८, १;
 १२.
 यूयम्- छां ५, १८, १; वृजा ६, ५;
 अल ३, ८; त्रिता १, ७६; गोपू
 ४६; कृ १ सौ १, १; वपू १, ५.
 व- -वः प्र १, २; ६, ६; सुं १, २, १;
 ६; २, २, ६; छां ५, १, ७; वृ ३,

१, २; ९, २७; मना १, १२; १३;
 २, ६०; वाम् ऐ २, ५; वृ २,
 ५, १६; १७; १७.
 यूथ- -थानि सार २२८; १६; २३३;
 ११; २३४ : १; २४० : २३;
 २४१ : १; २४५ : २३; २६६ :
 २१; २६७ : २; २७४; १५; १६;
 २७५ : २२; २८२ : ४; -शेषु
 सार २७४ : १७.
 यून- /यु(मिप्रणे) द.
 यूनानव(स्थ>)स्था- -स्था अद्वै ६.
 यूप- -पः मना २, ८०; प्रा ३, १;
 ४, १.
 यूप-त्व- -त्वम् इ ११ : २२.
 यूप-रक्षणा-शोभित- -तस्य प्रा
 ३-४, १.
 योक्तव्य- , योक्त- , १-दयोग- , योगि-
 का- , १-२योगिन- , योगिनी- ,
 योग्य- , १योजन- /युज् द.
 योजन- -नात् नाप ३, ६५; नानि
 सार २५५ : १५.
 योजन-मात्र- -त्राय शि ६, २०६.
 /योजनाय्
 योजनायित- -तम् सार २५३;
 ४; २६२ : ७.
 योजना(न-आ)यत्- -तम् सार
 २६८ : ३.
 योजनीय- , योजना- , योजयित्वा,
 /योजि, योजित- , योज्य- ,
 योज्यमान- /युज् द.
 योत्स्यमान- , योद्धव्य- , योद्धकाम- ,
 योद्धुम् , योध- /युध् द.
 योनि- -निः मां ६; छां ५, ८, १;
 वृ १, १, २; ४, ६; ११; ६, २,
 १३; श्वे १, २; जा ४; ९;

a) वैपश् यद. । b) ऋ १, १८९, २ । c) तैश्चा १०, ३१, १ । d) ऋ २, १, १ । e) 'सत्त्वम्' इति निसा., 'नक्तम्' इति अश्या. । f) 'तया' इति तैश्चा १०, १, ८ । g) तैश्चा १०, ३९, १ । h) तैश्चा १०, १, ८ । i) तैश्चा ३, ११, ८, १ । j) सकृत् 'त्वाम्' इति शांश्चा ४, ११ । k) 'एनम्' इति मा १६, ७ । l) ऋ ६, ७४, ३ । m) ऋ १०, ९, २; ३ । n) ऋ १०, ३५, १२ । o) ऋ १, ११६, १२ । p) ऋ १, ११७, २२ । q) पा. १ 'जरा(रा-अ)-व(स्थ>)स्था-' इति शोचः द. । r) तैश्चा १०, ६४, १ । s) तु. सस्थ. टि. १प्रति । t) बप्रा. वैपश् यद. । u) ऋ ३, २९, १० ।

मैत्रि ६, १४^२; ७, ८; मना २, ३५^१; वृषू ६; वृउ १, ९; सुवा ५; ध्या ४^५; नाप ३, ७७^३; ४^७; ८, १४; ९, १; योचू ८; १४; राउ ३, १; पप ४१८, १०^१; १२; ए ३; सावि २-९; दे ३; ९^१; त्रि ८; या १, १^१; ४^७; विद्या ४; वउ १, ११; ५, ३७; वसू १, ४, २७; गी १४, ३; ४; -निम् क २, २, ७; छां ५, १०, ७^३; वृ १, ४, ११^३; ६, ४, २१^१; श्वे २, ७; मैत्रि ६, १८; मना १, १०^१; ध्या ७४; १योत १२०; नाप ३, ७७; ४, ३८^१; त्रिब्रा २, ४९; योचू ४६; ६६; शां १, ३, ७; ७, ४३^२; पप ४१८: १२; त्रिता २, ३८; ३९; २संन्या १६: ८^१; १२^१; या १, १; चा १७; निरु १, ३; २शिशं १५^१; ३२^१; पी ४२१: ८; ४२२: १४; सुमु ६; ९; गी १६, २०; -निम्-निम् श्वे ४, ११; ५, २; अशि ५, ४; -निषु पिंन ५, ३; गी १६, १९; नी: श्वे ५, २; सावि १^१; त्रि २^१; १२^१; -ने: वृ १, ४, ६; कौश १, ६; ध्या ९३; ब्रसू ३, १, २७; नौ निरु १, ५; १०; सुमु १५; तारा ८४: १२; न्या रापू ४, ६३^१; न्या: गर्भ ४^५; न्याम् गर्भ ३^१.

योनि-कोटि-सहस्र- -ल्लेषु भव १, ५.
 योनि-गत- -तस्य श्वे १, १३.
 योनि-जन्मन्- -न्मानि १योत १३४.
 योनि-स्व- -त्वम् वृउ ९, ६.
 योनि-द्वार- -रम् गर्भ ४^०.
 योनि-पञ्चक- -के सुमु १४.
 योनि-बन्ध- -न्ध: १योत १२१.
 योनि-मण्डल- -ले ध्या ८५.
 योनि-मध्य- -ध्ये ध्या ४५; योशि १, १३६.
 योनि-मुक्त- -क्ता: श्वे १, ७; भव २, ६.
 योनि-मुद्रा^१- -द्रया ध्या ८६; योचू ५९; त्रिता २, ६६; -द्रा आथ ३९९: १०; -द्राम् त्रिता ३, ३.
 योनि-स्थान- -नम् ध्या ४४; योचू ७; -ने ध्या ८७; १योत ११२; शां १, ७, ४३.
 योनि-स्वभाव- -वान् श्वे ५, ४^७.
 ?योनिपार:^१ ए ३.
 योषा^१- -षा छां ५, ८, १; वृ ६, २, १३.
 योषित्^१- -षित् ते ६, २८; अरु २८^१; -षित: राउ ५, १६; त्रिता ३, २४.
 योषित्-प्रिय-कर- -र: कालि ४०२: १२^१.
 योषिद्-आसक- -क्त: कालि ४०२: १४.
 योषि(त>)ता^१- -तायाम् सुं २, १, ५.

१^१योस्(>): मना २, १; व ४६१: ११.
 यौगपद्य- √युज् द्र.
 यौवन- √यु(मिश्रणे) द्र.
 र
 १र^१ र-र-र वपं ३१२: १.
 १र-कार- -रम् ध्या ९५.
 र-म- -मौ रार २, १०^२.
 १र^१ आथ ३९६: २; व ४३६: ६; हंपो १२.
 रं-कार- -०र अत्त ५.
 र:^१ रार ३, १.
 २र^१
 २र-कार- -र: रार ५, ३.
 ३र^१
 ३र-कार- -र: ता १, २.
 ४र^१- -र: मै ५, ७^१; मैत्रि ६, ७^१.
 ५र- √रम् द्र.
 २रं^१ व ४३५: २१^३.
 √रंह, रंहति ब्रस् ३, १, १.
 १-४रक्त- √रब्ज् द्र.
 √रक्ष^१(*बधा.), >रक्षि, रक्षति वृपू ३, २; वपू २, २; पिंन ३, २; रक्षन्ति पिंन ३, २; रक्षसि वउ ३, ६०; रक्षतु व ४५८: ५; ६; रक्षन्ताम् मना २, ३१^१; ३२^१; रक्षस्व प्र २, १३; मना १, ८^१; ऊ ६३: ८^१; व ४६४: १०^१;

a) तैश्चा १०, ३५ । b) ऋ ३, २९, १० । c) ऋ १०, १२५, ७ । d) ऋ १०, १८४, १ । e) मा १३, ३ । f) तैश्चा ३, ५, ८, ८ । g) शौ ७, १०२, ५ । h) मा ३१, १९ । i) निसा. पा. ? °नि: इति शोध: द्र. (तु. अज्या.) । j) °नि: इति निसा. °निम् इति अज्या. च यनि. शोध: द्र. (तु. तान्त्रि.) । k) °नि: इति अज्या. । l) =एकार-बीजाक्षर- । m) °न्याम् इति आन., अज्या. । n) 'तनु स्यात् तत:' इति निसा. यनि. शोध: द्र. (तु. आन.) । o) °द्वारि इति आन., अज्या. । p) °नि: स्व° इति आन. संटि. । q) निसा. ? °ऊनि-पर-(=ऊनि-पूरक-)> -र:' इति शोध: द्र. । r) वैप१ यद्र. । s) तैश्चा १, २७, ४ । t) °षित्सु प्रिय° इति तान्त्रि. । u) =योषित्- यत् यनि. एवाऽन्तत ऊनितं रूपान्तरं द्र. । व्यु. विस्तरस्तु वैप१ यद्र. [वैतु. विषु. (IHQ १७, ८९) यनि. <योषित्- इति नैप्र. प्रतिशोमुक इव] । v) ऋ १, १८९, २ । w) तु. गपू. पृ२६५६ । x) वैतु. उन्न. अन्यथा कल्पुक: । y) =बीजमन्त्रविशेष- । z) 'राम-' इत्यस्याऽऽशाऽक्षरम् । a') 'नारायण-> -गाय' इत्यस्य द्वितीयमक्षरम् । b') 'भर्ग-> -र्ग:' इत्यस्य मध्यमाक्षरम् । c') निसा. प्रच्युत: पुन:प्रदानसापेक्ष: द्र. (तु. नाउ., सात.) । d') तु. टि. कुं । e') तैश्चा १०, २४, १ । f') तैश्चा १०, २५, १ । g') तैश्चा १०, १, ८ ।

रजस्^a -जः वृ ५, १४, ३; द, ३, ६९^b;
जा ४; काला १३; मै ४, ५; मना
१, १५१^c; २, ३९९^d; ध्या ८७;
८८^e; ८९; ९०; १योत १२; नाप
३, ७७; योचू ६१; ६२^f; ६३;
६४; रापू ५, ४; योशि १, १०;
१३७; पप ४१८ : १०; त्रि ४;
गोड ५५; या १, १; जाबा २१;
इ १६ : १८; पा १०, ६; या ९;
वड ३, १७; सांका १३; गी १४,
५; ७; ९; १०^g; १७, १; -जसः मै
४, ५; योशि १, १३७; गोड
३०^d; पा १०, ६; गी १४, १६; १७;
-जसा २प्र ३६; १२; व ४३७ :
६९^h; -जसि गोड ५५; गी १४,
१२; १५; -जसे अक्षि १; चा १०;
-जांसि नापू ४, ५९ⁱ; शि ७, ५१.
राजस- -०स वड ४, ४६; -सः
मै ४, ५; मैत्रि ५, २; योचू ७२;
७५; शारी ५; वड ४, ११; २५;
गी १८, २७; -सम् शारी ५; भव
४, ८; गी १७, १२; १८; २१;
१८, ८; २१; २४; ३८; -सस्य
शारी ३; गी १७, ९; -साः गी
७, १२; १४, १८; १७, ४; -सात्
सांका ४५; -सानि मै ३, ५१^k;
मैत्रि ३, ५.
राजसी- सी गोड ६३;
कृ ४; वड ४, १२; गी १७, २;
१८, ३१; ३४; -स्याः वड ४, १४.
राजस-माया(या-आ)श्मक-
-कः पाशु १, १०.
रजस-तमस- -मोभ्याम् मैत्रि ६,
२८.

रजस्तमः-स्वरूप- -पेण भव
४, ७^l.
रजस-व^m -वम् मना १, १४९ⁿ.
रजस-वल, ला^o -लम् नाप ३, ४७;
-ला इ १६ : १७.
रजः-सत्त्व-तमो-गुण- -णाः गुट १;
-णैः रापू २, २.
रजस-स्त्री-संगम-
रजस्त्रीसंगमिन्- -मी इ १७ :
१२.
रजो(जस-अ)श- -शान् पै १, २१.
१रजो-गुण^p-
रजोगुण-प्रधान- -नैः त्रिवि
६, ७.
रजोगुण-समुद्भव- -वः गी ३,
३७; -वम् यो १, ६७.
२रजो-गुण^q- -णः ध्या १२.
रजो(जस-उ)द्वि(कृ>)क्ता^r- -क्ता पै
१, ११.
रजो-धूमा(म-आ)दि- -दिभिः गौ
३, ५.
रजो-रूप- -पः शां १, ४.
रजो-विशाल, ला- -लः सांका ५४;
-ला सांसू ४, ५०.
रज्जु^s- -ज्जुः गौर, १७; १८; योशि
४, २; २१; २२; कृ २१; सार
२३९ : २१; -ज्जुभिः शि ६,
१३५; -ज्जुम् नाद २६; शि ६,
२७६; -ज्जौ नि २९; आबो २९;
१आ २७; -ज्जवा योशि १, ५९;
-ज्जवाम् गौ २, १८; योशि ४, १.
रज्जु-खण्ड- -ण्डे नाद २७.
रज्जु-बद्ध- -द्धः योचू २९; -द्धाः
महा ६, ३९.

रज्जु-भुजङ्ग-
रज्जुभुजङ्ग-वत् यो १, ७९.
रज्जु-सत्ता- -त्ता आबो १२.
रज्जु-सर्प- -पेण ते ६, ७७.
रज्जुसर्प-दर्शन- -नेन अन्न १, १६
रज्जुसर्प-वत् निर्वा २९७ : १२;
कठ १३; रुह ३४.
रज्जव(ज्जु-अ)ज्ञान- -नात् योशि
४, २.
√रञ्ज् (>वधा.), > रञ्जि, रारञ्ज्,
रञ्जयति मै ५, ७; मैत्रि ६, ७;
रञ्जयेत् योशि १, ५६.
१रक्त- -क्तः नाप ३, १८; कालि
४०२ : ११.
रक्त-ता- -ता महा ५, २९; वरा
४, ५; -ताम् महा ६, ७५^o.
रक्त-शरीर-संयुक्त- -क्तः सार
२९१ : ११.
२रक्त^p- -क्तः गर्भ २; -क्तम् ते ४,
२५; अव्य १^q; २; पं १२.
३रक्त, क्ता^r- -क्तः योचू ७५;
-क्तम् १योत ९२; शि ७, ५०;
९१; वड २, २२^s; २३; ३, ९;
-क्ता अशि ५, ९; मन्त्रि ५;
२प्र ३४; २०; गार ४०६; १३;
१६; -क्ताः कु ८; अक्ष ३; -क्तान्
रुजा १, १०.
रक्त-गन्ध-माल्या(त्य-अ)नु-
लेप(न>)ना- -ना गार ४०६;
१७^t.
रक्त-गन्धा(न्ध-अ)नुलिप्ता-
(म-अ)ङ्ग- -ङ्गम् ग १२.
रक्त-चञ्जु-पुट- -टानि सार
२८२; ४; ६.

a) बरा. वैपश् यद्र. । इह =लोक-, धूलिकण-, रजोगुण- प्रसृ. । b) ऋ १, ९०, ७ । c) तु. सस्य. वि.
भूमि->-मिः । d) उत्तरेण संधिरार्षः । e) ऋ १, ३५, २ । f) ऋ १, १५४, १ । g) °सान्वितै° इति निशा.
अब्धा. च यनि. शोधः द्र. (तु. नाड., सात.) । h) °जस्त्वमस्व° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । i) वः प्र. (पावा ५,
२, १०९) । j) तु. गपू. पृ १२८p; वैतु. भा. सा. 'रजः स्वम्' इति (तु. तैश्चा १०, १, १४), नादी., Jc. । k) पा ५,
२, ११२ । l) कस. । m) बस. । n) वैपश् यद्र. । o) रि° इति अब्धा. । p) व्यु. ? =वर्णविशेष- । q) विप. =वर्ण-
विशेषवत्- । r) °नी इति पा. ? यनि. शोधः द्र. ।

रागाद्य(दि-ञ्)संभव- -वे
जाद ६, ५१.
रागा(ग-ञ्)द्य- -द्याः वरा ३,
२४.
राग(ग-ञ्)नुरञ्जना- -ना महा
४, १३२^०.
रागा(ग-ञ्)न्ध- -न्धम् मै ४,
२; मैत्रि ४, २.
रागिन्- -गिणः महा ३, १५;
-गिणाम् सांसू ६, ५१; -गी गी
१८, २७.
रागो(ग-उ)पहत- -ते सांसू ४,
२५.
रागो(ग-उ)पहति- -तिः सांसू
३, ३०१^०.
२राग^०-
राग(ञ्)ज्ञा^१- -ज्ञा सार
२३४ : ८.
राग-रङ्ग-सुगन्ध-रस-वीणा-
वेणु-प्रणालिका- -क्या सार
२२९ : २१.
राराग-
राराग-मुक्क- -क्कम् पा ७, ९.
१ररा^१- -गाय मना १, १२५^०.
२ररा^१- -गाक् गी २, ३५; -गे गी १,
४६; ११, ३४.
रण-समुद्यम- -मे गी १, २२.
रत-, १-परति- √रम् द्र.
रत्न^{१४}- -त्नम् महादि, २०; -त्नानि ध्या
१०५; इ १८ : ११; सार २५८ :
९; पित्र १, १२५^१; -त्ने महा ४,
१३; जाद १, ११.
रत्न-कर्णभूषण-ञ्चलित-कुण्ड-
क- -लाभ्याम् सार २४४ : १०.

रत्न-खचि(त>)ता- -ता सार
२२१ : १७; २६७ : १८.
रत्न-गौरा(र-ञ्)भ- -भम् ध्या
३१^१.
रत्न-घट- -टैः सी ३७.
रत्न-चित्र- -त्रे रार २, ४४.
रत्न-जटित, ता- -ताः सार २६९ : ५;
-तानि सार २७० : ११.
रत्नजटित-दोला- -लायाम् सार
२७१ : २१.
रत्न-जटि(ल>)ला- -लाः सार
२३३ : ७.
रत्न-द्वीप- -पाय त्रिवि ७, ४८.
रत्न-धा- -धाः वृ ६, ४, २७५^१.
रत्नधा-तम- -मम् २प्र ३६ :
१७५^१.
रत्न-धातु-
रत्नधातु-मय- -यः सार २५८ :
१८.
रत्नधातुमय-लतौ(ता-ञ्)-
पधि- -धयः सार २७६ : १८.
रत्न-पङ्कज-मध्य-ग- -गम् गोपू९
रत्न-परिधि- -धिषु सार २८८ : ७.
रत्न-पीठ- -ठम् त्रिता ५, २१.
रत्न-पूरित- -ताः वरा ५, ३०^६.
रत्न-प्रभा-मण्डल- -लम् मं २, १,
१०^१.
रत्न-बद्धो(द्व-उ)भय-त(ट>)टी-
-टी सार २६७ : २१.
रत्न-मण्डप-मध्यम- -मे मु १, १,
१^३.
रत्न-मण्डप- -पाय त्रिवि ७, ४८^१.
रत्न-मय- -यः सार २२१ : २०.
रत्नमय-कुब्ज- -ज्येषु सार

२२२ : १८.
रत्न-माला-
रत्नमालिन्- -ली रापू ४, ७.
रत्न-रूप- -पम् सिशि ३८३ : ३.
रत्न-विषय- -यः ते ६, ८९.
रत्न-वीथि- -थिषु सार २७० : २२^०.
रत्न-वेदिका- -का भ २, २८.
रत्न-संपूर्ण(र्ण>)र्णा- -र्णाम् शि ६,
२२८.
रत्न-सानु-शिखर- -रेपु रा४२३ : ४
रत्न-सिंहासन- -नाय त्रिवि ७, ४८.
रत्न-सोपान-संबलि(त>)ता-
-ता सार २७१ : १२.
रत्न-हाटक-
रत्नहाटक-मय- -यानि सार
२७६ : १९.
रत्ना(ल-ञ्)दि- -द्वेः राउ ५, १४.
रत्ना(ल-ञ्)लवाल- -लैः सार
२२४ : २३.
रत्ना(ल-ञ्)वली-खचि(त>)ता-
-ता सार २७१ : १५.
रत्ना(ल-ञ्)वली-भूषि(त>)ता-
-ता सार २७२ : ६.
रत्ना(ल-ञ्)सन- -नम् सार २३४ :
३; -ने रापू ५, २.
रत्नासन-प्रदान- -नेन शि ६, ९६.
रत्नौ(ल-ञ्)घा(घ-ञ्)बद्ध-मौ-
लि- -लिः सौ १, २१^०.
रत्ना √रम् द्र.
रथ^{१६}- -थः छां ४, १६, ३; ५; मै २,
९; मैत्रि २, ६; अना ३^१; ते
६, ९०^१; प्रा ३, १; ४, १^१; इ
१८ : १२; -थम् क १, ३, ३; प्र
६, १; वृ ४, २, १; अना ३;

a) ०नम् इति अज्या. । b) ०गाप० इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । c) =गान- । d) विप. =रमणीय- ।
वैप१ यद्र. । e) ऋ १०, ९, १ । f) =संप्राम- । वैप१ यद्र. । g) वैप१ यद्र. । h) रक्तगौ० इति निसा., 'रक्तगौराङ्गम्'
इति च आन., J.C. । i) ऋ १, १६४, ४९ । j) ऋ १, १, १ । k) रक्तपू० इति अज्या. संटि. । l) नवरत्न० इति निसा.,
अज्या. संटि. । m) ०ण्ड० इति निसा., J.C. । n) मणिम० इति निसा. । o) ०वि० इति पा.१ यनि. शोधः द्र. ।
p) रक्तौ० इति निसा. यनि. शोधः द्र. (द्र. अज्या.) । q) ०थप० इति निसा. (द्र. आन., अज्या., J.C.) 'रथः पथि' इति
पदद्वयपरः शोधः द्र. । r) 'जगद्' इति अज्या. संटि. ।

रति-कला-कोमल- -लाः सार
२७३ : १४.
रति-कला-कौतुक- -कानि सार
२३८ : ३; २७३ : २१.
रति-कला-भाव-स्थान-
-नानि सार २६२ : १५.
रति-कला(ला-अ)भि(ज्ञ>)-
ज्ञा^१- -ज्ञा सार २८४ : १४.
रति-कल्लो(ल>)ला^१- -ला
सार २८४ : २१.
रति-केलि-कला-कोवि(द>)-
दा- -दाम् सार २३२ : १०.
रति-केलि-कला-कौतुका-
(क-आ)स्मन्- -स्मने सार
२७७ : ८.
रति-क्रीडा- -डायाम् सार
२३९ : ७.
रति-गति-योग्यता- -ता सार
२८८ : २३.
रति-गुणा(ग-आ)ढ्य- -ढ्याः
सार २७९ : ७.
रति-दानु- -त्रे सार २७७ : ८.
रतिदात्री- -त्री सार
२६३ : २.
रति-दायक-सुरता(त-आ)-
नन्द- -न्दाय सार २४६ : २३.
रति-प्रसङ्ग- -ङ्गेन सार २४६ :
१९.
रति-प्रिय- -याय सार २६१ : २.
रति-प्रीति- -तिः हं ८; -तिम्
सार २७५ : ७.
रति-प्रेमा(म-आ)नन्द-
स्थान- -ने सार २६७ : ४.
रति-भर-रसा(स-आ)लस्य-
मुकुलित-नय(न>)ना- -ना
सार २८४ : २१.
रति-भाव- -वे सार २२९ : २.

रति-म(त>)ती^१- -ती सार
२६२ : २३.
रति-मन्दिर- -रे सार २३७ :
१४.
रति-मात्र- -त्रम् मैत्रि ७, ९.
रति-योग्यता-भाव- -वम् सार
२७९ : १०.
रति-रङ्ग- -ङ्गाः सार २३७ : २०.
रति-रस-भाव- -वेन सार
२४६ : १५.
रतिरसभाव-भेद-ध्याना-
(न-आ)पन्न- -न्नः सार २५९ :
२२.
रति-रस-भावना- -नया सार
२७३ : २.
रति-रस-मग्न- -ग्नाः सार
२७४ : ८.
रति-रस-सुरता(त-आ)नन्द-
-न्दः सार २२९ : १०.
रति-व(त>)वी^१- -ती सार
२३८ : २; २८४ : २०.
रति-शृङ्गार- -रम् सार २८२ :
१२.
रति-शृङ्गार-रस-स्थान- -नम्
सार २८७ : १.
रति-सङ्ग- -ङ्गः सार २५७ : ३.
रति-संभावित-सुख-संव-
लिता(त-आ)स्मन्- -स्मने
सार २५१ : १७.
रति-संभोगा(ग-आ)तिकला-
कौतुक- -कानि सार २२८ : १०.
रति-सुख- -स्वम् सार २७२ :
५; २८४ : २; २१; २८६ : १७.
रतिसुख-संपत्ति-प्रतिकृ-
(ज>)जा- -जा सार २७२ : ७.
रतिसुख-संपत्-प्र(द>)-
दा- -दा सार २६३ : ३.

रति-सेवा- -वायाम् सार २४९ :
१२.
रतिसेवा-कथा- -थायाम्
सार २४९ : १२.
रत्यौ(ति-औ)षध-पराङ्ग- -न्नम्
इ १४ : १०.
रति-प्रीति-मनोभ(व>)वा-
-वाः पी ४२२ : १४; सुमु १५.
रत्वा वृ ४, ३, १५-१७; ३४.
रन्तु- -न्तारम् अव्य ६^१.
१रम-
१रमा^{१६}- -माम् सार २, ६७^०;
रापू ४, ४२; ४६.
रमा-बीज- -जम् द ९.
रमा-माया- -ये रापू ४, ४३.
रमामावा-बीज- -जे
सार ३, १.
२रम-
२रमा^{१८}- -मया सार २२० :
१९; पं १; सार २५७ : २०.
रमा-पति- -तिम् वरा २, १.
रमा-पीठ- -ठम् सौ १, ३.
रमा-मानस-हंस- -साय
गोपू ३७.
रमा-रमण^०- -रण सार
२७४ : ४; -णः सार २२० : २०.
३रम-
३रमा^{१९}- -मा सुवा ११^२.
४रम-
४रमा^{१६}-
रमा-धर- -राय रापू ४,
१३^१.
रमा-सहित- -तः रापू ५, ९.
रमण- -णम् सार २६० : १२; -णे
सार २५१ : २.
रमण-योग्य- -वम् सार
२६२ : ४.

a) 'रन्ता' इति अख्या. । b) धा. अर्थः? = श्री-बीजाक्षर- । c) °मा इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) । d) धा. अर्थः? = लक्ष्मी- । e) उप. कर्तरि कृत् । f) धा. अर्थः? = नाडीविशेष- । g) धा. अर्थः? = सीता- । h) रामायणं [(तु. नादी.) इति आन., °म-अ° इति बस. इति पञ्चान्तरमपि] ।

राम-चन्द्र^१- -न्द्रः रार २, १०५; ५, १७; राउ ३, १; नापू ५, ७; -न्द्रम् कृ १; लां २१४: २; -न्द्रस्य रार २, १; राउ ५, १; -न्द्राय त्रिवि ७, ३२; रार २, ७५; नापू ५, १०.

राम-चन्द्र-भद्र- -द्रौ रार २, ५४
राम-तपन^{१०}- -नम् सु १, १, ३५
राम-नामन्- -म रापू १, ३;
-मनि रार ५, १०.

राम-पत्नी- -स्त्रीम् रापू ४, १७.
राम-पद- -देन रापू १, ६.
राम-पुरी^{११}- -री राधा ४, ५.
राम-बीज- -जम् रार ३, १; -जे रार ५, ९.

रामबीज-स्थ- -स्थम् रार ५, १०; रापू २, ३.
राम-भद्र^१- -०द्र त्रिवि ७, ४०;
रार २, ८१; रापू ४, १५; -द्रः रार २, ११; २२; राउ ३, ११^b;
५, २६; -द्रम् रार २, ८५.

राम-मन्त्र- -न्त्रः रार ४, ११;
राउ ५, ४; -न्त्रम् रार १, ७^३;
-न्त्रस्य राउ ५, १३; -न्त्राणाम् रार ५, १७; -न्त्रेषु रार ५, १.

राममन्त्र-प्रभाव-
राममन्त्रप्रभाव-तस(>):
राउ ५, १०.

राममन्त्रा(न्त्र-अ)नुकीर्तन-
-नात् राउ ५, ९.

राममन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ-
विज्ञान-

राममन्त्रार्थविज्ञानिन्-

-नी रार ५, १६.
राम-मूर्ति- -र्तिः गोउ २५०.
राम-लक्ष्मण- -णौ रापू ४, २०.
राम-वैखानस-पर्वत^१- -तः सी २०.
राम-शता(त-अ)भिधान- -नम् रार १, ९.

राम-षडक्षरी(री-इ)त्यादि-
-दिभिः रार १, ९०.
राम-सप्ता(त-अ)क्षर- -रः रार २, ३९.

राम-सेवक- -कम् रार २, १०६;
४, ११.
राम-सेवा-परायण- -णम् रार २, १०२; १०४; १०६.

रामा(म-आ)ख्या- -ख्या रापू १, ५
रामा(म-अ)ङ्ग- -ङ्गम् रार १, ७.
रामा(म-आ)दि- -दिः रार २, ८८
रामा(म-आ)द्य- -द्याः सार २५८: २.

रामा(म-अ)निरुद्ध-प्रद्युम्न- -ज्ञैः गोउ २८^१.
रामा(म-अ)नुज^१- -जः सं १६.
रामा(म-अ)भिरा(म>)मा-

-माम् रार २, ३३.
रामा(म-अ)य(न>)ण^{११}- -णः अद्वैभा ९.
रामा(म-आ)राधन-तत्पर-

-रम् रार २, १०१.
रामा(म-आ)लोकन-तत्पर(>)-
रा- -राम् रार २, ९७.
रामे(म-ई)श्वर-क्षेत्र^१- -त्रम् मं ४९: २.

२रा(म>)मा^{११}- -माः क १, १, २५.
१-धरम्-, रमण-, रमणीय-, √रम-
णानन्दीय, रमत्- √रम् द्र.
रमन्ताम्^१ पा ८, ३.

रममाण-, *रमया-, १-धरमा-,
रम्य- √रम् द्र.

रय- √री द्र.

रयि^१- -यिः प्र १, ५^३; ९; १२; १३; २, ५; छां ५, १६, १; १८, २; मना २, ४५^१; मुद्र ३; पा ७, ३; -यिम् प्र १, ४; जा ४^१; नाप ३, ७७^१; पप ४१८: ११^१; या १, १^१; पा ७, १; १०; -यीणाम् मना २, ५४^१; बा १४^१; पा ६, ८^१; ७, ९; लि ३१०: ३^१.

रयि-द- -दम् पा ७, २.

रयि-द- -दम् पा ७, १.

रयि-भूत-भूत- -तम् पा ७, ९.

रयि-सत्- -सत् पा ७, ३; ९, १;
-मान् छां ५, १६, १.

रयिसत्-सुपुण्य- -ण्यम् पा ७, १०.

रयिसत्-सुर-त्र- -त्रः पा ७, ९.

रयि-वत्- -वन्तः सूता १, २०.

रयि-(स्थ>)ष्ट- -ष्टाः मना २, ७९^१.

रचक^१- -कैः शि ६, १५२.

रवि^{११}- -वये सूता ४, ३; -विः ते २, १७; ४, १३; ध्या ८८; ब्रवि ६८; योच ६२; १२१; शां १, ४^३; योशि ६, ७०; यो १, ७०^{१६}; १आ १५; १अव ६; रुह ४; जाद ४, ४०; अद्वै ३; इ १५: २२; सूता १, १८; गौ १०, २१; १३, ३३;

a) =तदाख्योपनिषद्विशेष-। b) °द्र° इति निसा. अख्या. च यनि. शोधः द्र. (तु. आन. 'रामचन्द्र->-न्द्रः' इति)। c) °मा सू° इति आन.। d) पूष. विप. [=रा-(<√राज्)+म-(<√महीय)] इति उग्र.। e) °रेत्या° इति अख्या. संटि.। f) रमाऽनिरुद्धः प्र° इति अख्या. संटि.। g) पूष. =तीर्थविशेष-। h) =स्त्री-। i) पा. वा. च? धूर्नः =(*धूर-ध्->)धूर्धः (प्र३) इति शोधः? द्र.। पदं चैतत् 'प्रभूति-मत्->-मन्तः' इत्यनेन समानाधिकरणं द्र.। एतदनु गपू. (पृ ६०, ५५०) 'अन्तः, प्रभूतिम्' इत्यत्र द्विपदे निर्देशे च शोधः कर्तव्यः (वैतु. पाटी. अन्यथा पा. वा. चेति)। j) बप्रा. वैप१ यद्र.। k) तैत्रा ३, ७, १४, ५। l) 'गिरः' इति ऋ ३, २९, १०। m) ऋ १०, १२१, १०। n) °पि° इति बे.। o) ऋ २, ४०, १। p) तैत्रा १०, ६३, १। q) व्यु? =मणि-। r) व्यु? =सूर्य-। s) तु. गपू. पृ २७९h।

रस-म(म>)मा- -मा सार
२८७ : ६.
रस-मार्ग- -र्गः सार २८८ : १० ;
-र्गम् सार २७८ : १७ ; २९२ :
११ ; -र्गे सार २३१ : ८.
रसमार्ग-रू(प>)पा- -पा
सार २२७ : ९.
रसमार्ग-व्यतिरिक्त- -क्ताः
सार २८३ : ५.
रसमार्गिन्- -र्गिणः सार
२३१ : ३ ; २८१ : १५ ; -र्गिणाम्
सार २५० : ९.
रसमार्गिणी- -णी सार
२३० : ३.
रसमार्गीय- -याः सार २२६ :
२० ; २२७ : १२ ; २३१ : ३ ;
२७९ : ५ ; -याणाम् सार २२७ :
९ ; २३० : ३.
रसमार्गी(र्ग-उ)पासक- -काः
सार २४१ : १३.
रस-रङ्ग-लीला- -लाम् सार
२२९ : १९.
रस-रमणा(या-आ)नन्द- -न्दे
सार २३९ : ६.
रस-रहस्य-विद्या- -द्याम् सार
२४४ : ५.
रस-रूप- -पम् सार २७७ : १.
रसरूपिन्- -पिणः सार
२७९ : १७ ; -पिणे सार २४७ : ८.
रसरूपिणी- -णी सार
२८३ : ४ ; -णीम् सार २२० :
१८.
रस-लम्पट-
रसलम्पट-परिपूर्ण-देह-
दातृ- -रूप^a-
रसलम्पटपरिपूर्णदेह-
दातृरूपिन्- -पिणे सार २७७ : ७.
रस-लीला- -लाम् सार २३० :

२० ; २३६ : ४ ; -लायाः सार
२३६ : ४ ; ६ ; -लायाम् सार
२२२ : ४^b ; २२७ : ११^c ; २३५ :
२३.
रसलीला-प्रपञ्च- -ञ्चः सार
२३६ : २.
रसलीला-रति- -तिम् सार
२२९ : ११.
रस-व(त्>)ती- -ती सार
२६८ : ६^d ; -त्यः गोड ९.
रस-वर्जम् गी २, ५९.
रस-वृद्धि- -द्धिः वरा ५, ४८.
रस-शक्ति- -क्तिः वृजा २, २.
रस-संयोग- -नो सार २४५ : १५.
रस-संवलित,ता- -तम् सार
२२० : १३ ; -ताः सार २७६ :
४ ; १८.
रस-संख्यात- -तः पा ५, ७.
रस-संभोगा(ग-आ)त्मन्-
-त्मने सार २५१ : १८.
रस-साक्षिन्- -क्षिणे सार
२४७ : ९.
रस-सुरत-भोग- (ज्ञ>)ज्ञा^e-
-ज्ञा सार २८५ : ८.
रसा(स-आ)कर्षि(न्>)णी^f-
-णी आथ ३९५ : ७.
रसा(स-आ)त्मक- -कः सार
२२० : १८ ; गी १५, १३.
रसा(स-आ)त्मन्- -त्मने सार
२७७ : २ ; ७.
रसा(स-आ)दि- -दयः गौ ३,
११ ; -दि त्रिवा २, ८३^g ; -दिषु
शां १, ४.
रसादि-क- -कम् ते ६, ५३.
रसा(स-आ)नन्द-स्वरूप- -पाः
सार २९० : ६.
रसा(स-अ)पू- -साङ्गयः गोड ९^h.
रसा(स-अ)यन- -नम् १संन्या

२, ८६.
रसायन-पान- -नेन महा ४,
३१.
रसा(स-आ)विष्ट-चित्त- -त्तः
सार २५९ : ४.
रसा(स-आ)वेश- -शेन सार
२३९ : ११.
रसा(स-आ)शयⁱ- -ये त्रिवा २,
१४.
रसा(स-अ)सृष्ट-मांस-मेदो-
(दस्-अ)स्थि-मज्जा-शुक्ल-
-कृानि त्रिवा २, ५^j.
रसा(स-आ)स्वाद- -दात् सार
३, ३०.
रसा(स-आ)स्वादन- -नम् नाप
६, १.
रसिक,का- -का सार २८८ : ६.
रसिक-शिरो-मणि- -णिः
सार २३८ : १६ ; -णिना सार
२४० : ५.
रसिका(क-आ)नन्द,न्दा-
-न्दः सार २२५ : १४ ; १७ ; २१ ;
२२ ; २२९ : ६ ; २३१ : १९ ;
२३६ : १० ; २४० : १८ ; २४१ :
९ ; ११ ; १५ ; २१ ; २४२ : १० ;
२४३ : ७ ; २४४ : १५ ; २४६ :
९^k ; २५० : १९ ; २५१ : १ ;
२५८ : ६ ; १८ ; २६२, ४ ; २६८ :
१४ ; २६९ : ४ ; ७ ; १० ; १३ ; १९ ;
२७१ : ८ ; २७३ : २२ ; २७४ :
१५ ; २७७ : २२ ; २७८ : ४ ; २८४ :
२२ ; २८८ : ४ ; २२ ; -न्दम् सार
२२६ : ७ ; २२७ : ८ ; २३६ : ७ ;
२० ; २३८ : ५ ; ९ ; १२ ; २४१ : ४ ;
२४२ : ९ ; २६६ : २ ; २६८ : १७ ;
२० ; २६९ : १८ ; २८२ : १३ ;
२८५ : २ ; -न्दस्य सार २२१ :
६ ; ७ ; २१ ; २२६ : १० ; ११ ;

a) बस.>कस.>बस. । b) °दीनि इति निसा., 'रसानि' इति अर्थ्या. संदि. । c) °साङ्गयाम् इति निसा. ।

d) =जलाशय- । e) °क्राणि इति निसा. ।

रास-सली- -खीनाम् सार
२५३ : १८.

रास-स्थान- -नम् सार २३९ :
११; २८० : १३.

रासा(स-आ)गम-सोत्सा(ह्) >
हा- -हा सार २६३ : ११.

रासा(स-आ)दि-लीला-ध्याना-
(न-अ)वस्था- -स्थायाम् सार
२७९ : ९.

रस- √रस् द्र.

रसकाराकारमध्ये^० अद्वै २०.

रसन- , रसना- , रसयत्- , रसयति- ,
*रसया- , रसयितव्य- , रस-
यितृ- √रस् द्र.

रसातल^{1b}- -लम् राधा १, ३; शि ७,
२९; शु १९.

रसातल-लोक¹- -का; -केषु सुवा १०.

रसातललोक-ज्ञान- -नम् शां
१, ७, ५२.

रसातल-पाताल-गङ्गा-रोहिणी-
कुण्ड- -ण्डम् राधा ४, ६.

रसायन- , √रसि, रसिक- , रस्य-
√रस् द्र.

√रह् (*वधा.)

रहस^०- -हः ते ४, १५^d; ए ६^१;
-हसि १योत ६३; जाद ५, १०^f;
सार २२० : २१; २४७ : १६;
२५८ : ७; २६८ : २१; २८९ :
९; २९२ : १९; गी ६, १०.

रहस्य- -स्यम् मैत्रि ६, २०;
वृज ८, २-५; शु १, १२; ऋषि १;
नाप २^१; रापू ४, ६७; योषि ६,
२; व ७; सु १, १, ३३^{११४};
३५^{११४}; १प्र ३०:४; गोच ६७:
१८; सं २२^१; सार २३० : २३;
२३८ : २२; २४३ : १८; १९;

२४४:४; ७; २४८:२१; २४९:
३; २८९ : १४; २९२:१६; वज
६, ३२; ४९; गी ४, ३; -स्यानि
शु १, ११; -स्ये सार २५४:२२.

रहस्य-कृत-
रहस्यकृत-प्रकाशकृत-
चिरकालात्यन्तकृत- -तेभ्यः
त्रिवि ८, १९.

रहस्य-क्रीडा- -डायाम् सार
२४६ : २१.

रहस्य-नामन्- -मभिः रा
४२५ : ४.

रहस्य-लीला- -लाम् सार
२२०:२०; -लायाम् सार २८८:
२०.

रहस्यलीला-योग्य-
-न्यम् सार २४१ : ८.

रहस्य-स्थान- -नम् सार
२३९ : १; -ने सार २५६:९.

रहस्यो(स्य-ज)पनिषद्¹-
-षत् शु १, १५; ३, १६; -षदम्
शु १, १^१; ३, २३.

रहस्योपनिषद्-ब्रह्मन्-
-ह्य शु १, १६.

रहस्योपनिषद्-विभाग-
रहस्योपनिषद्दि-
भाग-शास(>) शु ३, १.

रहस्योपनिषद्-नामन्-
-म्ना शु १, १३.

रहित- -तः यो २, २६; पा १, ५;
-तम् योषि १, ५१.

√रा, राति रापू १, १; ५^h.

राति- -तिः वृ ३, ९, २८, ७; -ते:
महा २, ९.

रा^१ रार ५, १२.

रा^१ त्रिवि ७, ३०; रार २, ६१; ८२;

३, १; रां-रां^१ सार २६० : २३.
रां^१ पा १, ५^१.

राकि-
राकि(न्)नी^१- -नी पी ४२२ :
११.

रा(क)का^m- -काम् पा ७, ४९^m.

राका-सिनीवाली^१- -लीभ्याम् सी
३७.

रेरा(क)का^१०- -कायाः जाद ४,
१८.

राका(का-आ)ह्व(य)या- -या योशि
५, २४.

राक्षस- , राक्षसी- रत्स- द्र.
१-रेराग- , रागिन्- √रब्ज् द्र.

राघव- १रघु- द्र.

√राज्, >राराज्, राजते ष्या १०४;
रापू १, १; महा ४, ३४; ५, ६८;

योशि १, १३८; सार २४४ :
१६; २४५ : ४; ७; राजन्ते सार
२२१:१६; १७; १९; २२२:२०;

२२३:२; २२८:४; २४४:१९;
२४६ : १; २५८ : १५; २०;
२६३:१८; २६७ : २; २७४ :

१७, २८४ : ४.

राजन्^१- -०जन् छां ५, ३, ६;
१२-१७, १; वृ २, १, १५; मै
२, ३; मैत्रि २, ३; ६, २९; ७,

८; कौ ४, १८; महा २, २१; भव
१, ६; १९; २, १८; ३१; ३, ६; ४,

१८; ५, १८; २२; गी ११, ९;
१८, ७६; ७७; -जभिः गोच ६७:

२३; -जा छां १, १०, ६; ५, २,
६; ४, २; १०, ४; वृ १, ३, २४;

४, ११; २, १, २^१; ३, ५, १५; ४,
३, २०; ३३; ६, २, ९; ३, ५^१; मै

१, १^१; मैत्रि १, २^१; मैत्रे १, १^१;

१) पा. १। २) व्यु. १। ३) धा. अर्थः १। ४) 'रविः' इति अब्धा. संदि.। ५) पा. १ 'हर->-रः' इति श्लोचः द्र. (तु. निसा. संदि.)। ६) 'स्यै' इति अब्धा. संदि.। ७) =तदाख्योपनिषद्विशेष-। ८) 'रामस्य' इति अान. संदि.। ९) 'राम-' इत्यस्य पूर्वाशः। १०) =बीजमन्त्रविशेष-। ११) तु. गपू. पृ२३३८। १२) अर्थः १ (भूयसोऽर्थविकल्पस्य कृते तु. पाटी.)। १३) वैपश् यद्र.। १४) ऋ २, ३२, ४। १५) व्यु. १ =नाडीविशेष-। १६) बप्रा. वैपश् यद्र.।

मना १, १३५^१; १५५^१; कौ २, ९; ४, ३; १५; नाद १२१^१; न २, १९; महा २, २४; प ११; रुजा १, १०; इ १०; २; १८; ११; रशिमं ३३५^१; शि ६, १५७; अल्ला १^१; रा ४२५; १७; २०; गी १, २; १६; -जान; मै १, ५; मैत्रि १, ४; अव्य७; कालि४०२; ५; रा ४२४; १७; -जानम् छां ५, ५, २; वृ १, ३, २४; ४, ३, ३७; ३८; द, २, १०; १६; मै १, १; २, १; मैत्रि १, २; २, १; मैत्रे १, १; छाग २५; ४; -ज्ञः छां ५, ३, ६; कौ २, ९^१; महा ४, १०५; सार २३०; ८; अरु १६५^१; सांस् ३, १६; -ज्ञा वृ १, ४, १४; पाशु १, ३११^१; -ज्ञाम् छांट, १४, १; ह ९; नापूर, ७; ज्ञे सिशि ३८०; ७; रा ४२५; १७.
 राज्ञी- -ज्ञी छां ३, १५, २; -ज्ञीम् षो १३^१.
 राज्ञी-पुटित- -तम् षो १२^१.
 राज-कर्मन्- -मैगि मैत्रि ७, ८.
 राज-गुह- -ह्यम् सुद्र४; गी ९, २.
 राज-चोर-सर्प-सिंह-व्याघ्र- (घ्र-अ)ग्न्या(मि-आ)द्यु(दि-उ)- पद्म- -वम् व ४३८ : १४; ४३९ : २; ११; २१; ४४० : ९; १९; ४४१ : ६; १७; ४४२ : ५; १५; ४४३ : २; १३; ४४४ : ६; १६; ४४५ : ३; १४; ४४६ : २; १३; २३; ४४७ : ११; २२; ४४८ : १०; २१.
 राज-दन्त^१- -न्तम् योरा १४.
 राजदन्ता(न्त-अ)वलम्बि-

नी-विवर- -रम् षो ३, १.
 राजदन्तो(न्त-अ)ध्व- कुण्डल-
 राजदन्तोध्वकुण्डलिन्- -ली षो २, ४९.
 राज-धा(न्ते-^१)नी- -नीम् नाप ७; १मंथा २, ७९.
 राजन्य- -न्यः स्या १५^१; -न्यम्य षो ४, ४.
 राजन्य-बन्धु- -न्धुः छां १९, ३, ५; वृ ६, २, ३.
 राज-पट्ट- -ट्टम् शि ६, ६५.
 राज-पुत्र- -त्रः प ६, १.
 राजपुत्र-वत् सांस् ४, १.
 राज-पुत्री- -त्रीणाम् गार २४२; ८; -श्वः सार २४१ : १४; १५; २४२ : १; १८.
 राज-पुरुष- -पम् छाग २५; ४.
 राजपुरुष-स्त्री-पुरुष-वशं-क(र>)री- -रि व ४४० : ६.
 राज-प्रजा-वशं-क(र>)री- -रि व ४५७ : २२.
 राज-मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र-भ्रम- (र>)री- -रि व ४३२ : १२.
 राज-मात(त>)ज्ञी^१- -ज्ञी व २१
 राज-मार्ग- -गैण शि ६, १४३; १५४; १७४.
 राज-योग^१- -गः १योत १२९; योशि १, १२९^१; १३७; योरा १; -गेन १योत १२९.
 राजयोग-क- -कः १योत १२^१.
 राजयोग-तस(ः) योशि १, १३८.
 राज-रम्भो(म्भा-ऊ)रु- -रुम् रा ४२४ : २२.

राज-राजे(ज-ई)श्व(र>)री- -रि हंपो १५.
 राज(ज-ऊ)पि- -र्षयः षो ४, ३; ९, ३३.
 राज-लक्ष्मी- -क्ष्मीः व ४२७; ५.
 राज-वशं-क(र>)री- -री रा ४२४ : १५; ४२५ : ४.
 राज-वार्ता(र्ता-आ)दि- -दि नाप ३, ५८.
 राज-विद्या- -द्या षो ९, २.
 राज-वृक्ष^१- -क्षेपु शि ६, ११.
 राज-श्याम(ल>)ला^१- -ला रा ४२५ : ४.
 राजश्यामला(ला-अ)म्बा^१- -म्बाम् रा ४२५ : १४; १९.
 राजश्यामला-रहस्यो- (स्य-उ)पनिपद्^१- -पद्म् रा ४२३ : ५; ६.
 राज-सूर्य^१- -ये वृ १, ४, ११.
 राज-स्तम्ब^१-
 राजस्तम्बिय^१-
 राजस्तम्बायत^१- -नः -नात् वृ ६, ५, ४.
 राज-स्त्री-संभोग- -गम् रा ४२४ : ११.
 राजा(ज-अ)भिक्रयण^१- -णानि छाग २३ : ११; २४ : १४.
 राजे(ज-इ)न्द्र- -न्द्र भव १, २१
 राजो(ज-उ)पचार- -रैः सार २३६ : १२.
 राज्य- -ज्यम् छां ५, २, ६; वै २, २०; महा २, ५५; सु १, १, ४६; वि १८; सि ६, ९४; ९५; २१८; गी १, ३२; ३३; २, ८; ११, ३३; -ज्याय छां २, २४, ४; -ज्ये मै १, १^१; मैत्रे १, १;

a) तैआ १०, १, १३ । b) अ ९, ९७, ४० । c) वर्षरा^१ इति पा. ? 'वर्षे, राजन्-> -जा' इत्येवं शोधः द. । d) अ १०, १२१, ३ । e) °ज्ञा इति श्रव्या. । f) तैआ १, २७, २ । g) तु. गपू. पृ३४२८ । h) =ऐ-बीजाचर- । i) पू. =बीजाचर- । j) अ १०, ९०, १२ । k) °गा^१ इति श्रव्या., श्रव्या. संति. । l) °योगतः इति निदा. । m) =गोत्रप्रवर्तक-श्रविशेष- । n) विरा^१ इति मैत्रि १, २ ।

रापू ४, २४; -ज्येन गी १, ३२.
 राज्य-योग्य- -न्यम् शि ६,
 २२२.
 राज्य-लक्ष्मी- -क्ष्मीः नापू
 २, ७.
 राज्य-सुख-लोभ- -भेन
 गी १, ४५.
 राज्या(ज्य-अ)भिविक्त-
 -क्तस्य रापू ४, ६४.
 राज्या(ज्य-अ)हूँ- -ह्रीणाम्
 रापू १, ४.
 राजन^{१०}- -नम् छां २, २०, १; २.
 राजमान, ना- -नः सार २२१ :
 २०; २४५ : ९; १२; २५७ : ७;
 ०२५८ : ८; -ना सार २४५ : ८;
 २६५ : ६; २६७ : २१; -नाः सार
 २२२ : ६; ११; १४; २२५ : ११;
 २३३ : ९; २६६ : १; ५; २६७ : ८;
 २७० : ७; २७१ : २; ४; २७४ :
 ११^१; १७; २७५ : ६; २८१ :
 २१; २८३ : २१; २८४ : ७;
 २८५ : २०; -नानि सार २४६ :
 १; २६५ : ११; २६६ : १६;
 २७१ : १; २७६ : ४; २८१ : २०;
 २८२ : ४; २८४ : ५; -नाम् सार
 २३९ : ३; -नौ सार २४४ : २१.
 राजमान-त्व- -त्वम् सार
 २४५ : २३.
 शराजि-
 राजि-मन्त^{१०}- -न्तम् पा ८, ३.
 राजिमन्ता- -न्ताम् पा ९,
 ६^०; ८^०.
 राजित- -तम् रार २, ३७.
 राराजि-
 राराजि-मत्- -मन्तम् पा ७, १०.
 राजत- -रजत- द्र.
 राजन्य- √राज् द्र.

राजस- रजस्- द्र.
 शराजि- √राज् द्र.
 शराजि^१- -जयः वृ २, २, २.
 राज्य- √राज् द्र.
 रात्रि, त्री^०- -त्रयः वृ १, ५, १४; सार
 २४२ : ३; -त्रिः प्र १, १३; छां ५,
 ६; १; वृ १, १, २; ६, २, ११; श्वे ४,
 १८; मना १, १३९^१; २, ३२९^१; ते
 ६, १७; सी १४; त्रिवि ३, ४; १संन्या
 २, ८३; २०; गुह १; गुषो ४२० : २;
 गी ८, २५; -त्रिभिः वृ १, ५,
 १४; -त्रिम् छां ५, १०, ३; वृ
 १, ५, १४^१; ६, २, १६; त्रिन्ना
 २, १२०; सार २४१ : १७; गी
 ८, १७; -त्रीः क १, १, ९; ११;
 छां ७, ९, १; -त्रेः छां ५, १०, ३;
 वृ ६, २, १६; -त्रौ प्र १, १३;
 छां ५, २, ४; नाप ४, १९; शां
 १, ७, ३८; १संन्या १, १; सार
 २३६ : ७; २४१ : २३; २४६ :
 १२; २५४ : ८; २६२ : २१;
 २७३ : २०; २७४ : १; २७९ :
 १९; २८३ : ८; २८७ : ८; शि २,
 २९; ७, ३३; ६०; कालि ४०२ :
 ११; रा ४२४ : १८; ४२५ : ५;
 १४; १६; १८; भव १, २२; कश्रु १,
 १; -ज्या मना २, ३२९^१; ३४^१ ९^१.
 रात्रि-कृत- -तम् ना ५; अक्ष १६;
 द्वे २२; ग १६; मवा १२; इ
 १० : १७; सं २१; सिशि ३८३ :
 १३; -तात् म १, ११.
 रात्रि-पर-भाग- -नौ सार २८६ :
 १८.
 रात्रि-प्रव(तैक>)तिक्का- -०के अक्ष
 १५.
 रात्र्या(त्रि-अ)गम- -मे गी ८, १८;
 १९.

राथीतर- रथ- द्र.
 √राश्^{(०)बधा.}, राध्यते तै ३, १०, १^३.
 बराधि तै ३, १०, १.
 राद्- -द्धः वृ ४, ३, ३३; -द्धम् तै
 ३, १०, १^३.
 राधन- -नम् गी ७, २२.
 राधस्- -धः व ४४९ : १२९^१.
 रा(ध>)धा^१- -धा सार २५१ : ७;
 -धाम् सार २२१ : ९; -धायाः
 सार २८७ : ९; -०धे सार २४४ :
 ६; २९२ : २१.
 राधा-कुण्ड- -ण्डम् राधा २, ६.
 राधा-कृष्ण- -ष्णयोः राधा २, ७.
 राधा(धा-अ)ङ्ग- -ङ्गम् राधा २, ६.
 राधा-मनो-हारिन्- -रिणे सार
 २६१ : १.
 राधा-रसिक-लीला- -लयोः
 सार २३२ : २०.
 राधा-रसिकानन्द- -न्दाभ्याम्
 सार २५४ : ५.
 राधा(धा-अ)स्वादित-मिष्ट-
 रस- -साः सार २६७ : ७.
 रा(धक>)धिका^१- -का राधा
 १, १८; ३, १५; ४, २; -काम् सार
 २२६ : ७.
 राधिका(का-अ)र्थ- -र्थे सार
 २३८ : ५.
 श-राम- √रम् द्र.
 रामठ^{१३}-
 रामठा(ठ-आ)दि- -दि १योत ४७.
 रायि^१-
 रायि-रूप- -पम् पा ७, ९.
 √रारञ्ज्, राराग- √रञ्ज् द्र.
 √राराज्, राराजि- √राज् द्र.
 राव-रावण-, √रावि √रु द्र.
 √*राश्(<राज्)
 शराष्^{१३}- -ष्टम् महा ५, ७४.

a) =सामविशेष- । b) *उप. =सतुप् प्र. । c) गपू. (पृ ५९) 'अन्त,न्ता- >न्ताम्' इत्यत्र सस्थ. यनि. श्लोघः कर्तव्यः । d) =पङ्क्ति- । वैपश् यद्र. । e) वैपश् यद्र. । f) 'रात्री' इति ऋ १०, १९०, १ । g) तैश्चा १०, २५, १ । h) °ज्यात् इति पा. ? [तु. °त्रियात् (तैश्चा १०, ३४^१)] यनि. श्लोघः द्र. । i) ऋ ८, ६४, १, । j) =गोपी- विशेष- । k) व्यु. ? =हिङ्गु- । l) व्यु. ? =रवि- । m) अधिकरणे नाप. वैपश् यद्र. ।

रुं व ४३५: २३.

✓रुच् (*वधा.), रोचते मना २, ७९^१°.
योशि १, ७०; अन्न ५, १०५^१;
पाशु १, २८; शि ६, ४२;
रोचन्ते महा २, ४२; सार २४४:
२३; पित्र ५, १; रोचताम् अन्न
५, १०६; १°अरोचथा: जा ४;
नाप ३, ७७; पप ४१८: ११^१°;
या १, १.

रुक्म-

रौक्म- -कमे अव्य ६.

रुक्म-वर्ण- -र्णम् मुं ३, १, ३;

मैत्रि ६, १८.

रुक्मा(कम-आ)भ- -भम् भव
२, ४३.

रुक्मा(कम-अ)म्बर-निभा-

(भ-आ)काश- -शम् वपू २, २.

रुक्मि(न>णी- -णी गोउ४४;

-ण्या गोउ २८; ३४.

रुक्मिणी-कान्त- -०न्त

गोपू ४४.

रुक्मिणी-वल्लभ- -भाय

त्रिवि ७, ३६.

रुक्मिण्या(णी-आद्य>)-

द्या- -द्या: सार २४१: १०;
२४२: १८.

रुच्- -रुचे मना २, ४०^१°.

रुचि- -चि: सार २१९: ३; २२७:

७; २५०: १२^१; २९१: १७^१.

रुचिर, रा'- -रम् अना ९; १०^१°;

-रा: सार २५३: १६; -राम् सार
२४६: १२.

रुचिर-रति- -तिम् सार २७४: ६.

१रोचन- -न: १^१वृपू २, ११; १५.

२रोच(न>)ना^१-

रोचना(ना-आ)लभन- -नम् शि
७, ४४.

रोचमान- -न: १^१वृपू २, ११; १५;
सार २४५: १२.

रोचिष्णु- -ष्णु: वृ २, १, ९^१.

✓रुज्

रुज्- रुजम् योचू १०९; भ २, ८.

रुग्-आदि- -द्वय: योशि १, ३६.

रुजत्- -जन् व ४६०: १७^१.

रोग- -ना: श्वे २, १२; ध्या ८०;

योचू ५३; यो १, ५७; ५८; -गम्

छां ७, २६, २; मैत्रि ७, ११^१; व

४३२: १८; -गा: योचू ६९;

११७; शां १, ३, १२; योशि १,

१४६; अव्य ७; यो १, १८; -गात्

सूता १, ४१; -गान् व ५, १०;

-गोण ध्या ८१; योचू ५४; -गै:

यो १, १७.

रोग-झ- -झ: सूता २, १२; १४.

रोग-नाशि(न>)नी- -नीम्

तुल ७०: ६.

रोग-प्रद- -दे शि ७, ८६.

रोग-शमन- -नम् शि ५, १६.

रोग-शाला- -लाया: महा ५,
११६.

रोगा(ग-आ)दि-दूषित- -ते

त्रिवा २, ११३.

रोगा(ग-आ)यत्न- -नम् नाप

३, ४७.

रोगा(ग-आर्ति>)र्ता- -र्ताम्

वृजा ३, १.

रोगिन्- -गी इ १७: ६; सूता
१, ४१.

✓रुद्, >रोदि, रोदिति छां ३, १५, २;

८, १०, २; ४; रुदन्ति स्व ६१:

१९; रोदिवि महा ४, १३०.

रुदति व ३, ५८.

रुदम् छां ३, १५, २; १^१कौ २, ८;
१०.

रोदयन्ति छां ३, १६, ३; वृ ३,

९, ४^१; १^१रोदयस्व मना १, १५^१°.

रुद(त>)न्ती- -न्त्य: सार २३२:
१८.

रोदन- -नात् व ३, ५८.

१रुद्र^१- -०द्र श्वे ३, ५^१°; ४, २१;

२२^१°; मना २, १९^१°; ५२^१°;

५३^१°; नी १, ८^१°; लि ३०९: ६^१°;

२शिंसं २८^१°; २९^१°; व ४३८:

१२; ४६२: २३^१°; -०द्र-०द्र

रुह १६; -द्र: प्र २, ९; वृ १, ४, ११;

२, २, २; श्वे २, ४^१°; ४, १२^१°;

मै ४, ४, १२; ४, ५^१; ५, ५, ७;

८; मैत्रि ४, ५, ५, १; २^१; ६, ५, ७;

८; ७, ७; जा १; हं १४; ना १; मना

१, ५^१°; २, १^१°; १२, ३^१°; २,

२०^१°; २४^१°; २५^१°; ३५^१°;

६८^१°; ७४^१°; ब्र २; पत्र २;

अशि २, १^१; २; ३; ४^१; ५-८; ९^१;

१०-१२; १३^१; १४-१७; १८^१;

१९-२४; २५^१; २६; ३, १३^१; ४,

१८; १९^१°; ५, ३^१°; १९^१°;

a) तु. गपू. पृ २३३ b) i) b) तैआ १०, ६३, १। c) ऋ ३, २९, १०। d) आरो^१ इति निसा. यनि. शोघः
द्र. (तु. अज्या.)। e) मा १३, ३९। f) विप. =रुचिमत-। g) वा. क्रिवि. द्र. [वैतु. नादी. (आन.) विशे. एवेति]।
h) 'कुर्यात्' इति शेषः। °रे इति आन. ? यनि. शोघः द्र. (वैतु. गपू. नादी.)। i) तैआ ३, १०, १, २। j) ऋ १०,
८४, ३। k) °गः इति सात.। l) मंत्रा १, ५, १०। m) तैआ १०, १, १५। n) वैप १ यद्र.। इह =देवताविशेष-
बीजाक्षरविशेष- , विप. अपि। o) मा १६, २। p) ऋ १, ११४, ८। q) मैसं २, ९, १०। r) ऋ १, ११४, ७।
s) तैआ १०, १०, ३। t) 'ब्रह्मा' इति सात.। u) तैआ १०, १, ५^१। v) तैआ १०, १, १६^१। w) तैआ १०, ४०, १।
x) तैआ १०, १६, १^१। y) तैआ १०, १६, १। z) तैआ १०, ३५। a') तैआ १०, ३१, १। b') तैआ १०, ३७, १।
c') तैसं १, ८, ६, १। d') °द्रम् इति अज्या.।

वरा ५, ६५; ६६; -न्यौ योशि १,
८७.
रुद्र-चरित- -तम् अशि ४, २४; वट
३१६: १९.
रुद्र-ज(ट>)टी'- -०टि व ४३५:
२३; -टीम् व ४३४: २३;
४५६: २.
रुद्र-त्व- -त्वम् मैत्रि ६, २६; त्रिता
१, ५७; ३, २२; ४, १७.
रुद्र-दण्ड- -०ण्ड व ४३५: ९.
रुद्र-दैव(ल>)त्या- -त्या अ१; गार
४०६: २०.
रुद्र-नेत्र-समुद्रव- -वम् रुजा २,
१६.
रुद्र-पति- -०ते ङि ३०९: ७.
रुद्र-पूत- -तः वृजा ८, १; वृपू ५,
१२; राउ ५, ४; पै ४, २३.
रुद्र-प्रि(य>)या- -याम् व ४५६: १.
रुद्र-भवन'- -ने शि ६, १८७.
रुद्र-मण्डल- -लम् व ४३८: १२.
रुद्र-मन्त्र- -न्त्रेण शि ५, ३२; -न्त्रैः
भ १, ४^०.
रुद्र-मातृगण- -णानाम् शि ४, १६.
रुद्र-यु(क>)क्ता- -क्ता रापू ४,
६२.
रुद्र-रूप- -पे योशि ५, ५४.
रुद्र-लोक'- -कः राधा १, ९; १०;
-के सार २४२: १४; शि ६, ११;
१७; २०; २३; २५; ५०; ८२;
८६; २०१; २७५
रुद्रलोके(क-ई)श- -शाः शि ७,
१३९.
रुद्र-वर्णा(र्ण-आ)त्मक- -कः रार
२, ५०.
रुद्र-वेदी- -दी शि ४, १५.
रुद्र-शिव-पुष्करिणी- -ण्याम् सार
२५५: २१.

रुद्र-सं(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञः वज ३, ५८.
रुद्र-सूक्त- -केन भ २, २२; -कैः
भ २, २; ३; २०.
रुद्र-स्नान- -नम् भ २, २१.
रुद्रा(द्र-अ)क्ष'- -क्षः वृजा ७, ८;
रुजा ३, १; -क्षम् वृजा ७, ८;
रुजा १, १२; १९; २, १; ३-६;
८; ९; ११; १२; १४; ३, १९^{१०};
-क्षाः वृजा ७, ८^१; ९^{११}; रुजा १,
१; ३, १^१; ९^{११}; सिशि ३८१: २३;
३८२: १; -क्षानाम् रुजा २, १;
-क्षाणि रुजा १, १२; -क्षान् भ
२, २; -क्षे वृजा ७, ८^१; रुजा ३, १^१.
रुद्राक्ष-गण-दर्शन^{१०}- -नम् सु
१, १, ३७.
रुद्राक्ष-जाबाल^{१०}-
रुद्राक्षजाबालो(ल-उ)पनि-
षद्- -षदम् रुजा ३, १.
रुद्राक्ष-त्व- -त्वम् वृजा ७, ८;
रुजा ३, १.
रुद्राक्ष-धारण- -णात् रुजा १,
६; २, १८; भ २, १६^०; -णे
सिशि ३८१: २.
रुद्राक्षधारण-विधि- -धिम्
वृजा ७, ८; रुजा ३, १^१.
रुद्राक्ष-भूषण- -णः भ २, २०.
रुद्राक्ष-मूल- -लम् रुजा २, १९.
रुद्राक्षा(ल-आ)भरण- -णाः भ
२, २७.
रुद्राक्षो(ल-उ)स्पति- -त्तिः रुजा
१, १.
रुद्रा(द्र-अ)सि- -सिम् शि ४, २४;
-सेः वृजा ५, १७.
रुद्रा(द्र-अ)क्ष- -क्षी- -क्षीम् व ४३४:
२३.
रुद्रा(द्र-अ)दि- -दयः सार २५७:
१७; १८; -दिना सार २९२:

१६; -दिभिः सार
२३५: १६;
रुद्रा(द्र-आ)दित्य- -त्याः गी ११,
२२.
रुद्रादित्या(ल-आ)दि-रूप-
(स्थ>)स्था- -स्थां सर २, ५.
रुद्रा(द्र-आ)राधन-तत्पर- -रः
अना २.
रुद्रा(द्र-अ)र्क- -र्कौ वृजा ४, २२.
रुद्रे(द्र-ई)श्वर- -रः गौड २३.
रुद्रे(द्र-ए)कादश-दैवत- -तम् रुजा
२, १३.
रुद्रो(द्र-उ)पासक- -काः सार
२३५: ६.
✓रुद्र, > रोधि, रोत्स्यति वृ १, ४, ८.
रोष्यते योशि ६, ६८.
रुद्रध्वा गी ४, २९.
रोध- -धात् यो १, ५६; -धे नाद
४६.
रुधिर^०- -रम् वृ ३, ९, २८, २; नाप
७; योशि १, १२५; १संन्या २,
७९; -रस्य सुवा ४.
रुधिर-प्रदिग्ध- -ग्धान् गी २, ५.
रुह^१- -रुः सूता ५, ११.
✓रुह^१(*बधा.), रोहति वृ ३, ९, २८, ४;
शि ६, ४०; ९^०रोहन्तु व ४३८:
१९; ४३९: ६; १६; ४४०: ३;
१३; ४४१: २; ११; २२; ४४२:
१०; २१; ४४३: ७; १७; ४४४:
११; २१; ४४५: ९; १९; ४४६:
७; १७; ४४७: ५; १६; ४४८:
४; १५; ४४९: ३; १३; २०;
४५०: ४; ११; १८; ४५१: ४;
११; १९; ४५२: ३; ११; १८;
४५३: २; ८; १४; २०; ४५४:
३; ११; १७; ४५५: १; ८.
रुहत्^{१०}- -हत् २ प्र ३३: ६.

a) ०द्रसूक्तः इति अख्या. । b) तत्तदुपनिषद्नाम्नां समाहारे द्वस. । c) =तदाख्यो-
पनिषद्विशेष- । d) ०क्षाद्यधा ० इति निसा. । e) वैपश् यद्र. । f) व्यु? =भैरवविशेष- । g) खि ५, ८४, १ ।
h) =व्याहृतिविशेष- ।

रूप-परिज्ञान- -नम् रह् ५०.
 रूप-प्रतिकृति-युत- -तानि
 सार २७१ : ५
 रूप-लावण्य-बल-वज्रसंहनन-
 -नानि योसू ३, ४७.
 रूप-लावण्य-युत- -ताः सार
 २५३ : १५.
 रूप-वत्- -वत् अव्यय १; गोड
 ८; सार २४८ : ९; -वान् वड
 २, १४.
 रूपवत्-ता- -ता भव४, १०.
 रूप-वर्जित- -तम् ते १, ६; रह्
 ३१; गोड ३२.
 रूप-विद्- -विदम् कौ ३, ८९^६.
 रूप-शालि(न्)नी^१- -नी सार
 २४३ : २३.
 रूप-शोभा-संचरित-रस-
 रूपशोभासंचरितरस^२-
 संवादि-गुण-गणना-भावा-
 (व-अ)भाव-संवाहिन्-
 -हिभ्याम् सार २४८ : ८.
 रूप-(स्थ)स्था- -स्थानाम्
 रापू १, ८.
 रूपा(प-आ)कर्षि(न्)णी^१-
 -णी आथ ३९५ : ६.
 रूपा(प-अ)ग्नि- -ग्निभ्याम् गोड८.
 रूपा(प-अ)तीत-स्वरूप- -पः
 ते ३, १२.
 रूपा(प-आ)दि- -दिषु सांकार८.
 रूपादि-मत्-
 रूपादिमत्-त्व- -त्वात्
 ब्रसू २, २, १५.

रूपादि-रस-मला(ल-अ)-
 न्त- -न्तः सांसू २, २८^०.
 रूपा(प-आ)सक्ति- -क्तिः सार
 २५१ : ३.
 रूपो(प-उ)पन्यास- -सात् ब्रसू
 १, २, २३.
 १रूप- √रूप् द्र.
 २रूप^३ वपं ३१२ : ५.
 ३रूपसामान्याद्यर्थसामान्यान्य-
 न्यदीयः^० २प्र ३५ : ६.
 रूप्य^४-
 रौप्य^५- -प्यम् शि ६, १२३; सिशि
 ३८२ : १९१^६.
 रौप्य-(ज)जा- -जाम् यो २,
 ४४.
 रौप्य-बुद्धि- -द्धिः यो १, ८०.
 १रे^७ रे-रे व ४२८ : ७.
 २रे^८ भव २, ३३.
 रेखा- √रिख् द्र.
 रेच- , रेचक- , रेचन- , रेचयित्वा,
 √रेचि, रेचित- √रिच् द्र.
 रेणु^९-
 रेणु-(क)का-
 रेणुका-योगि(न्)नी^१- -०नि व
 ४३६ : १९.
 रेत^{१०}-
 रेत-भोजन- -नाः इ १३ : १२.
 रेतस्^{११}- -तः प्र १, १४; सुं २, १, ५; ऐ
 १-२, ४; ४, १; छां ५, ७, २;
 ८, २; १०, ६; वृ १, २, ४; ३, २,
 १३; ७, २३^१; ९, १७; २२^२; ६, १,
 ६; १२^३; १४; २, १३; ४, १; ४; ५;

१०; ११; २०; कौ १, २; ६^३; वृजा
 १, १९^४; वृपू १, १९^५; भ२, ३०;
 इ १२ : १९; निह १, ५^६; सार
 २४३ : ९; १०^७; वड २, ३४;
 -तसः ऐ १, ४; छां ३, १७, ७९^८;
 वृ १, ४, ६; ३, ७, २३; ९, २८, ५;
 योशि १, १३७; निह १, ३; -तसा
 वृ ६, १, ८-१२; ४, १०; ११; इ
 १२ : २०; -तसि वृ ३, ७, २३;
 ९, २२; -तसे वृ ६, ३, २; -तांसि
 व ४३७ : १०९^९.
 रैतस- -सः वृ २, ५, २.
 रेतः-सिग्-योग- -गाः ब्रसू ३, १, २६
 रेतो(तस्-अ)तिरेक- -कात् गर्भ ३^१.
 रेतो-भक्षिन्- -क्षी भ २, २१.
 रेतोबुद्ध्यापमनस्स्वरूपम्^२ लिं
 ३१० : ९.
 रेफ^३- -फः(इफे^४) रापू ५, ५.
 रेफ-बिन्दु-युक्त- -क्तम् शां १, ५.
 रेफा(फ-अ)क्षर-समुज्ज्वल- -लम्
 १योत ९२.
 रेफा(फ-अ)क्षर-समुज्ज्व- -चम्
 १योत ९२.
 रेफा(फ-अ)नुग्रहे(ह-इ)न्दु-नाद-
 शक्त्या(क्ति-आ)दि^५- -दिभिः
 रापू ४, ५५.
 रेफा(फ-आ)रू(ढ)ढा- -ढाः रापू
 २, ३^६.
 √रेम्
 ९^७रेभत्- -भन् मना २, १२, १; २,
 ४०; व ४४२ : २०; ४४८ : ४;
 ४५२ : १०.

a) 'द्रष्टारम्' इति शांआ ५, ८ । b) 'रसरसवा' इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । c) 'सवर्गा' इत्यपि पा. ।
 d) पा. झुटितः । e) पा.१ 'रूपसामान्यात्, अर्थसामान्यम्, नेदीयः' इति पदत्रयात्मकः शोधः द्र. (तु. गोत्रा १,
 १, २६) । f) व्यु.१ =रजत- । g) इदं पदं स्थानतो व्यत्यस्तं सत् 'विश्वे' (>रवैः) इत्यतः प्राक् पाठतः सु-शोधम् [तु.
 सत्थ. टि. २देव (विइव-)> -वैः (-श्वेः>श्वैः), रविश्व(२देव-)> -श्वे (इश्वैः [-वैः]) । h) व्यु.१ =बीजमन्त्रविशेष- ।
 i) व्यु.१ =सं. अव्यय. । j) व्यु.१ । k) =रेतस्- । l) वैपश् यद्र. । m) 'पुत्त' इति आन., अज्या. । n) ऋ १०,
 १२९, ४ । o) ऋ ८, ६, ३० । p) ऋ ८, ४४, १६ । q) पा.१ 'रेतो-बुद्बुद-> 'दाय् (नाधा.)> 'मान-> 'स्वरूप-
 (वस.)> -पम्' (प्र१) इति शोधः द्र. । r) व्यु.१ =वर्णविशेष- । s) निसा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । t) =द्वयौ-
 बीजाक्षर- । u) 'पाः इति अज्या. । v) ऋ ९, ९६, ६ ।

लक्ष्य-क्ष्यम् सु २,२,३; पदं ४;
 शु ३,१०^३; ते २,६; ४१; ४,१७;
 ५,७८; घ्या १४; २३,१५; नाप
 ३,८६; अता ७; शां १,७,१४;
 अध्या ५३; ५४; मं १,४,२;
 रुह ३९; -क्ष्ये ते १,३८^१; मं १,
 ३,५; वरा ५,५७; -क्ष्येषु मैत्रि
 ६, २४.
 लक्ष्य-त्रया(य-अ)नुसंधान-
 -नम् अता ४^b.
 लक्ष्य-त्रया(य-अ)वलोकन-
 -नम् मं १,२,५.
 लक्ष्य-लक्षण-कारण- -णम् वरा
 ५,५६.
 लक्ष्य-लक्षण-हीन- -नः ते ५,
 ७१.
 लक्ष्या(क्ष्य-आ)त्मन्- -त्मा ते
 ४,३५.
 लक्ष्या(क्ष्य-आ)दि-विबर्जित-
 -तः ते ५,६४.
 लक्ष्या(क्ष्य-अ)लक्ष्य- -क्ष्ये मं २,
 ३, ७.
 लक्ष्यालक्ष्य-गति- -तिम्
 महा ४,८५^१; १आ १९.
 लक्ष्यालक्ष्य-निवर्तक- -कः
 पप ४२० : १६; या २,१^d.
 लक्ष्यालक्ष्य-विहीन- -नः
 मैत्रे ३,१३.
 लक्ष्यै(क्ष्य-ए)क-ता(न>)ना-
 -ना सां १,७,१५.
 लक्ष्यमा(रा>)णा- -णा सी १६.
 लक्ष्^{१०}- -क्षः अना ३४; -क्षम् रार
 २,९४; रुजा १,४; सार २४४;
 ८; कालि ४०१ : १३; ४०३ :
 १९; तारा ८४ : ५; वपू २,५.
 लक्ष-क- -कम् शि ४,४३.

लक्ष-कोटि-विहार-रूप-
 लक्षकोटिविहाररूपिन्- -पिणे
 सार २७७ : १५.
 लक्ष-कोटि-शत- -तानि रुजा १,५.
 लक्ष-कोटि-सहस्र- -खाणि रुजा
 १, ५.
 लक्ष-जप- -पः सौ १,३.
 लक्ष-प्रदान- -नस्य शि ६,२२४.
 लक्ष-मात्र- -त्रम् नापू ४,२९.
 लक्ष-शस्(>) महा ५,१३६.
 लक्ष-सूर्य-समुज्ज्वल- -लम् राधा
 २, २.
 लक्षा(क्ष-अ)र्ध- -र्धम् शि ६,२३६.
 लक्षाण-लक्षणा-, √लक्षि, लक्षित-
 √लक्ष् द्र.
 लक्ष्मण^{११}- -णः रार २, ९९; रापू ४,
 १८; ता २,३; ३,६; ८; -णम् रार
 १,७; रापू ४,३३; ३६; -णाय
 रार २, ९८; -णेन रार २, १३;
 १४; ४६; रापू ४,१०.
 लक्ष्मण-प्राण-प्रतिष्ठा(ष्ठा-आ)-
 -नन्द- -कर- -० र लां २१४ : १३.
 लक्ष्मन्- √लक्ष् द्र.
 लक्ष्मी^{१२}- -क्ष्मि सार २४९ : १३;
 २५३ : ७; २५६ : १३; २७८ :
 १६; २८० : ११; २८३ : ४; २८७ :
 १२; २९१; २८९ : १; २९० : १७;
 २९२ : १८; -क्ष्मीः मना २,
 ६४^{१३}; वपू ४, ११^३; सी १६;
 ३७; राउ ४,२३; त्रि ६; रुह
 १८; तुल ७१ : २; नापू २,५;
 ४,४; ९१^४; ५,२७; राधा ४,२;
 सार २२० : २१; २२१ : ५; २४३ :
 ४; २४८ : २१; २५२ : १९;
 २५४ : २२; २५६ : ९; २५७ :
 ६; २७२ : १९; २७४ : ३; २७५ :
 २; २७८ : २२; २७९ : ५; २८० :

१२; २८२ : १७; २८५ : १०;
 २८८ : २०; २८९ : १३; २९० :
 २३; २९१ : ४; व४६२ : ८; तारा
 ८३ : २४; अद्वैमा १४; वपू २,
 २; -क्ष्मीम् मना २, ६३^{१४}; वपू
 १, ७^३; ३, ४; ४, २; त्रिवि ६, २३;
 त्रिता १, ८०; २, ३१; सार २११ :
 १; २५३ : १; २८० : ६; व ४५५ :
 १७; वपू २, २; -क्ष्म्या सिशि
 ३८३ : २; -क्ष्म्याः सार २५० :
 १५.
 लक्ष्मी-कान्त- -न्तः सार २७५ :
 १३.
 लक्ष्मी-दुर्गा-विजया(या-आ)दि-
 -शक्ति- -क्तिः राधा १, १९.
 लक्ष्मी-नारायण^{१५}- -णः नापू २,
 १८; -णम् नापू ४, १३; ६, ४;
 -णाय नापू ३, १२.
 लक्ष्मीनारायण-दैव(ल>)त्या-
 -स्ये नार ११.
 लक्ष्मीनारायण-हयग्रीव-
 गोपाल-दधिवामन-मन्त्र-
 -न्त्राः त्रिवि ७, ३५.
 लक्ष्मीनारायणीय- -यः सार
 २२० : १९.
 लक्ष्मी-निधि^{१६}- -धये त्रिवि ७, ४३.
 लक्ष्मी-भर्तृ- -र्तुः मव २, ३५.
 लक्ष्मी-रूप- -पः कृ १६.
 लक्ष्मी-लज्जा-धृति-कान्त्य(न्ति-अ)-
 -वेका(क-आ)कर- -राय सार
 २७७ : २०.
 लक्ष्मी-वाह-मन्मथा(थ-आ)दि^{१७}-
 -दिः रार २, १७.
 लक्ष्मी-वासुदेव- -वाय त्रिवि ७,
 ३५.
 लक्ष्मी-समेत- -तस्य नाउ २, ७.

a) °क्ष्यः इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । b) °नः इति निसा. । c) °क्ष्यम् इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । d) °क्ष्यनिर्वं इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । e) व्युः? । f) व्युः? पाग. (५, २, १००) < लक्ष्मी- इति । g) च्म्रा. वैप१ यद्र. । इह = देवीविशेष-, धन-, बीजाक्षरविशेष- प्रभृ. । h) तैच्चाआ १०, ६४ । i) ऋ १०, ७१, २ । j) तैच्चाआ १०, ६३ । k) पूप. = बीजाक्षर- ।

लब्ध-काम- -मान् रापू ५, १०.
लब्ध-पद- -दः अन्न ४, ६९.
लब्ध-योग- -गः योशि १, ७८^६.
लब्ध-योग-नि(द्रा>)द्र-
-द्रस्य शां १, ७, १८.
लब्ध-शान्ति-पद- -दम् पै
४, ९.
लब्धा(ब्ध-अं)ज्ञ- -शम् वउ ५,
३१; ६, ३; ३५; -शेन वउ ६, ३४.
लब्धा(ब्ध-अ)तिशय-योग-
-गात् सांसू ४, २४.
लब्धा(ब्ध-आ)त्मन्- -स्मा
१संन्या २, १६.
लब्धा(ब्ध-अ)नु(ज्ञा>)ज्ञ-
-ज्ञः पित्र १, ६.
लब्ध- -ब्धा क १, २, ७.
लब्ध्वा क १, २, १३; २, ३, १८; तै
२, ७, १; छां ७, २२, १^९; अना
१७; कौ २, १; वृउ ९, २०; शु
१, ८; ब्रवि २८; मं २, ४, ४; द
२०.
लभ्य,भ्या- -भ्यः क १, १, २२; २,
७; २३^१; सुं ३, १, ५; २, ३^१; ४;
श १; स ३७९ : १२; गी ८,
२२; -भ्यम् शां १, १; यो २,
१०^६; -भ्या पाशु २, ३२.
लम्भन-
लम्भनीय- -याः क १, १, २५.
लम्भुक- -कः छां ५, २, २.
लाम- -भः ते ४, २६; पित्र २, ४;
-भम् योशि ३, १३; गी ६, २२;
-भात् शि ६, १८४; -भे नाप
५, ६.
लाभा(भ-अ)लाभ- -भयोः जा
६^६; -भे नाप ३, ८६^६; -भौ ते
३, ५६; मि १०; तुअ १४; पप
४१९:८; १४; या २, १^९; गी २,
३८.

लाभालाभ-रत- -तः पप
४१९ : १५.
लाभालाभ-विवर्जित- -ते
योशि १, १५८.
√लम्ब्, ङ्लम्बति मना २, १३, २;
महा १, १; च २१ : १.
लम्ब-
लम्ब-नासि(का>)क- -कम्
वपू २, २.
लम्बो(म्ब-उ)दर^१- -रः हे १२;
-राय ग १५.
लम्बोदरी^१- -रि हंषो १२;
तारा ८३ : १९.
लम्बो(म्ब-ओ)ष्ठ- -ष्ठम् वपू २, २.
लम्बक- -कैः शि ६, १३७.
लम्बिका-
लम्बिको(का-उ)र्ध्व-
लम्बिकोर्ध्व-तस(>):
ध्या ८३; योचू ५७; योशि ५, ४१.
लय-, लयन-, √लयली, लयलीय-
मान- √ली द्र.
√लल्>लालि, लालयेत् मु २, २, ७.
लल(न>)ना-
ललना-स्तन- -नः महा ३, ४२;
या २, ८.
१ललित-
ललिता(त-अ)क्ष(र>)रा- -रा
सर ३, ९.
ललिता(त-आख्या>)ख्य-
-ख्यम् ब १४.
ललिता(त-आ)त्मन्- -स्मा ते
४, ३५.
२ललि(त>)ता^१- -ता त्रि ६;
राधा १, १९; सार २२३ : २;
२२६:२; २६२: २२; २६७:३;
२६८:६; -तायाम् सार २५२:२.
ललिता(त-आ)दि- -दयः सार
२२५ : १३; २६८:२२; २६९:
२१; -दिः राधा ४, ३.

ललितादि-संस्तुत्य-देह-
-हाभ्याम् सार २४७:२२.
ललिता(त-आद्य>)द्या- -द्याः
सार २६७ : २३.
ललिता-प्रतिक्षण-सुख-दातृ-
-त्रे सार २७७ : १५.
ललिता-विशाखा(ख-आ)दि-
-दयः सार २७० : ६.
ललिता-विशाखा-शृङ्गारवत्या-
(ती-आ)दि- -दयः सार २४०:
११.
ललिता-विहार-
ललिताविहारिन्- -रिणे
सार २६० : २३.
लालन- -नात् महा ५, ८०; गुषो
४२१ : १.
*लालया-
*लालयाम(म्/अ)स(भुवि),
लालयामास महा २, २५.
लाला- -ला १योत ५०.
लालित-
लालित-कङ्कणा(ण-अङ्ग>)ङ्गी-
-ङ्गीम् पा ६, ७.
ललाट^{१६}- -टम् वृजा ४, २५; ते ६,
६; त्रित्रा २, ५१; १३२; गोच
६७ : २०; सार २६५ : ३; गार
४०८:६; गु ९; -टस्य योशि ६,
४८; ४९; -टात् सुबा २; महा
१, १^९; काला १२; जाबा २०;
च २०:३; -टे वृजा ४, १३; १८;
२८; २९^१; ५, २; ११; ध्या ४०^६;
वा १९; म १, ६; जाद ७, १२;
गोच ६६ : १८; कृपु २०; शि
५, २१.
ललाटक- -के जाद ४, ४८; ऊ
६४ : ६.
ललाटकण्ठ-हृदय-बाहुमूल- -लेषु
गोच ६६ : १३.

a) 'मेन इति आन. । b) 'लभ्य' इति अड्या. संटि. । c) 'भौ इति आन., अड्या. । d) 'भौ इति अड्या. । e) तैआ १०, ११, २। f) =आवरणदेवताविशेष-वा सखीविशेष- वा । g) वैप१ यद्र. । h) 'टः इति आन. ।

ललाट-प्र- -मन श ८.
 ललाट-पट्ट- -द्वे वा ३६३ : ६.
 ललाटपट्टो- -उपदसमा-पीठ-
 भन्ना-३-वापी- -र्षम् पीठ २२ :
 ५.
 ललाट-फलक- -के न २९४ : १९.
 ललाट-मध्य- -ध्य ना ४.
 ललाट-स्थ- -स्थः ना ४१ : -स्थम्
 ५ वा ३२ : २ गो २, ५.
 ललाट-हृदय-कण्ठ-बाहुमुख- -लेपु
 वा १३.
 ललाटा(ट-श्रा)दि-भाग- -गे
 योशि ६, ४८.
 ललाटा(ट-श्रा)दि-द्वादश-स्थल-
 -लेपु वा १२.
 ललाटा(ट-श्रा)दि-स्थल- -लेपु
 गो ६६ : ११.

ललाम-
 ललाम-भूत-परस्पर-गन्धा-
 (ध-श्रा)क्य- -क्याः सार २६२ :
 १३.

१-२ ललित- √लल द.

लक्ष^{११७}-

लक्ष(व-ए)क- -कम् क १.

लक्ष^{११८}-

लक्ष-कर्पूरा(र-श्रा)दि- -दयः सार
 २२५ : २३.

लक्षणा(ज्ञा-श्रा)दि- -दि राधा २, ४.

१ लक्षणा^{११९}- -णम् छां ६, १३, १३; २;
 वृ २, ४, १२; १ योत ४७; -णस्य
 मैत्रि ७, ११; णेन छां ४, १७, ७५^d.

लक्षणा-पर्वत- -तम् शि ६, ६२.

लक्षणा(ण-श्रा)दक^{१२०}- -कम् शि ६,
 ७२.

लक्षणा(ण-श्रा)म्बु-

लक्षणाम्बु-वत् योशि ६, ३५.

२ लक्षणा^{१२१}-

लक्षणा-ग-गम्भ-लक्ष- -लक्षम्
 सार २, १०४.

३ लक्षणा^{१२२}-

लक्षणा-
 लक्षणा-वादि ग-नी-
 लक्षणा-वादिनी-कलोक-
 वदिः--भासुर- -रम् १ गो ७,
 १०.

लक्षणाक- -क द.

लक्षणा^{१२३}- -णम् २ वा २, १७.

लक्षणा-संमित^{१२४}- -णम् १ गो २,
 ७५.

√लम्

लम्-
 लम्-कर्म- -कर्म वा १, ५.
 लम्-ऊर्ध्व-पुण्ड- -पुण्डाः मं
 २०४ : १९.

लम्^{१२५}-

लम्-
 लम्-वायनि^{१२६}- -निः ३३, ३, १ : २.

√*ला(दीर्घ) एकल- -दि. द.

ला^{१२७} लां २१६ : १८; आथ ३०८ : १९;
 व ४४८ : ११.

लाक-

लाकि(लु>)नी^{१२८}- -नी पीठ २२ : ११.

लाक्षा^{१२९}- -क्षाम् शि ४, ३३.

लाक्षा-युक्त- -कम् विता ३, २१.

लाघव- लघु- द.

लाज^{१३०}- -जैः ग १८.

लाजा(ज-श्रा)क्षत- -ताः शि ४, ४६.

√लाञ्छ

लाञ्छन- -नैः गो ३ ५३.

लातव्य^{१३१}- -व्यः २ प्र ३५ : ३.

लान्त- ल द.

लाभ- √लभ द.

लालन- √लल द.

√लाल्प, लालपन्ती- √लप द.

*लालया- लाला- √लालि, लालित-
 √लल द.

लाटील^{१३२}- -लाय मना १, ७; व
 ४६३ : ७.

लाघ- लालायनि- लघ- द.

लिकुच^{१३३}- -चपु शि ६, १४.

लि(ल-)>ला-

लिक्षा-कर्मण- -णम् शि ७, ५५.

√लिस्य, लिम्बेत् राष्ट्र, ४०; ४२; ४३;
 ४६; ५०; ५५; ६४; शि ६, १२१;
 १५१; ताग ८३ : ११.

लिखि(ल->)ना- -ताम् नाप ४, ३.

लिखिन्वा व ४५० : १५.

लिख्य^{१३४} राष्ट्र ४, ४४; ४६; ४८.

√लिङ्ग(*वपा.)

लिङ्ग^{१३५}- -ङ्गम् वृ ४, ४, ६; श्वे ६, ९;

मीत्र ६, १०; १९; ३१; तै २, ३२;

४, ९; ५, १०; श्या ४५; नाप ४,

३१; योशु ७२; शारी ५; योशि

२, १०; ६, ३१; अध्या ९; हृ

२३; भ २, १८-२०; वा १०;

२७; गौ ३, १; योरा ८; २ प्र

३४; ६; गार २९० : २२; २९२ :

१ : १२; १४; क २३; लि ३१० :

८; ९; १०; ३११ : १; २; ३;

९; शि १, २४; ३७; २, १; ३;

२६; ३०; ३, ९; १२; ७, ७६;

स ३७८ : ३; ३७९ : २; ६; १५;

१९; २१; सिशि ३८२ : १५; १८;

३८३ : ३; गु ६८; भव २, ४४;

सांसू १, १२४; ३, ९; सांका १०;

२०; ४०; ४१; ४२; ५२; ब्रह्म

१, ३, १५; ४, २०; ३, २, २६;

अस्य योशि ५, ३८; शि २, ३;

a) व्यु. ? । b) =कालमान-विशेष- । व्यु. ? < √ल इति MW. । c) विप. वा नाप. वा । वैपश् यद् । d) जैउ
 ३, ४, ३, ३ । e) उप. =परिमाण-विशेष- । f) व्यु. ? =राक्षस-विशेष- । g) व्यु. ? =सुन्दर- । h) उप. < सं √सा(माने) ।
 i) व्यु. ? =गोत्रप्रवर्तक-श्रुति-विशेष- । j) =बीजमन्त्र-विशेष- । k) वैपश् यद् । l) अर्थः व्यु. च ? आग्नेयं विप. [वैतु-
 नादी. (St. Jc.) कालेय- इति पा. (वैतु. तैआ. [१०, १, ७]), MW. नाप. इति कृत्वा =अग्नि-विशेष- इति । m) तैआ
 १०, १, ७ । n) व्यु. ? =फल-विशेष- । o) पा ७, १, ३८ । p) वप्रा. द. । =चिह्न-, लिङ्गशरीर-, प्रायश्चित्त-विशेष- प्रभ. ।

सांका ५५; -ज्ञात् सांस् १, १३६;
५, ६१; ब्रस् १, ३, ३५; ३, ४,
३९; ४, १, २; -ज्ञात् वृत् ३, १०^६;
-ज्ञानाम् सांस् ३, १६; -ज्ञानि
वृजा ७, ४; गोउ २३; -ज्ञे हं ८;
नाप ४, ३३; शि २, १; ७, ३;
७३; -ज्ञेन सार २९० : १५;
सांका ५२; -ज्ञेषु २ प्र ३५ : १०;
-ज्ञैः मैत्रि ६, ३१; वृजा ३, १८;
गी १४, २१.

लैङ्ग- -ज्ञाः गौ २, २७.

लैङ्गिक- -कम् यो ३, १०.

लिङ्ग-ग्राम- -मः नाप ४, ३३.

लिङ्ग-तृतीय-भाग- -गोन शि
२, २.

लिङ्ग-त्रय- -यम् वि २३.

लिङ्ग-देश- -शे योचू २०.

लिङ्ग-देह^१- -हम् स ३७९; ८;

-हेन सर ३, १९.

लिङ्ग-देह-गत- -ताः आबो
२४.

लिङ्ग-देह-प्रकार- -रः लिं
३१० : १२.

लिङ्ग-धारण- -जम् लिं ३१० :
५; ३११ : ४; ७.

लिङ्ग-धारिन्- -री लिं ३१० :
६; सिशि ३८१ : ११.

लिङ्ग-नाल- -लात् जाद ६, ४०^b.

लिङ्ग-नाश- -शः श्वे १, १३.

लिङ्ग-प्रतिष्ठा- -ष्टाम् शि २, २२.

लिङ्ग-भूयस्त्व- -स्त्वात् ब्रस् ३,
३, ४४.

लिङ्ग-भेद- -दम् ते ६, ५४; -दे
लिं ३०९ : २.

लिङ्ग-मान- -नम् शि २, ७.

लिङ्ग-मूल- -लम् शि २, २४;

-ले योशि १, १७३; ५, ८^०.

लिङ्ग-रूप- -पान् वृत् ३, १०.

लिङ्गरूपिन्- -पिणाम् भ २,
२६.

लिङ्गरूपिणी- -ण्याम् भ
२, ३०.

लिङ्ग-लिङ्गि-पूर्वक- -कम्
सांका ५.

लिङ्ग-व(त्>)ती- -ती मै ५,
५; मैत्रि ६, ५.

लिङ्ग-शरीर^१- -रम् ससा १,
२३^d; पैर, २२; सार २९१ : ३; ८.

लिङ्गशरीर-निमित्तक- -कः
सांस् ६, ६९.

लिङ्गशरीर(र-आ)त्मक-
-कः सार २९० : १६.

लिङ्गशरीरो(र-उ)दय-

-यात् सार २९२ : १.

लिङ्ग-संकोचन- -नम् ध्या १०१.

लिङ्ग-सूत्रा(त्र-आ)त्मन्-

-त्मनोः यो १, ८१.

लिङ्ग-स्वरूप, पा- -पम् लिं
३१० : १३; १४; ३११ : १; -पा
लिं ३११ : ४; ८.

लिङ्गा(ङ्ग-आख्या)>)क्य- -क्यः
सांका ५२.

लिङ्गा(ङ्ग-अ)ङ्ग-सङ्ग^०- -ङ्गः
(?ज्ञात्^f) सिशि ३८१ : ९.

लिङ्गा(ङ्ग-आ)त्मक- -कम् लिं
३१० : २३.

लिङ्गा(ङ्ग-आ)दि-त्रितय- -यम्
सी २३.

लिङ्गा(ङ्ग-आ)दि-ब्रह्माण्डा-

(एउ-अ)न्त- -न्तम् सर ३, १८.

लिङ्गा(ङ्ग-अ)भाव- -वात् नाप
४, ३७.

लिङ्गा(ङ्ग-अ)भिषेक- -कम् व
२६.

लिङ्गिन्- -ङ्गिनः ब्रवि २९; त्रिता
५, १९; अत्रि १९; -ङ्गी नाप ३,
१; ३; १संन्या २, ३.

लिङ्गै(ङ्ग-ऐ)क्य- -क्यम् लिं
३०९ : २.

लिन्दु^१- -न्दु छां ८, १४, १^१.

√लिप्>म्, >लेपि, लिम्पन्ति गी
४, १४.

लिच्यते ई २; क २, २, ११^२;

छां ५, १०, १०; वृ ४, ४, २३;

गौ १, ५; ब्र १; ध्या ८१; ब्रवि
५१; योचू ५४^{१b}; ८८^१; आबो

२७; महा २, ४८; ४, ६७; ५,
१७३; योशि १, ४७; ६, ६१^१;

१संन्या २, ३३; ३९; अन्न ४,
५९; ६१; ५, १७; अध्या ५२^१;

१अव ६^१; यो ३, २१; वरा ४,
२५; इ १२ : १४; शि ५, ४;
४२^१; पित्र ६, ८; ११^१; गी ५,
७, १०; १३, ३१; १८, १७.

लेपयेत् गोच ६७ : २०.

लिपि^१-

लिपि-कर्मन्-

लिपिकर्मा(र्म-अ)र्पितो-

(त-उ)पम- -मः महा ३,
५७.

लिपि-स्थान- -ने गुपो ४२० :
१०; ४२१ : ३; षो ८.

लिस- -सम् १योत ३३.

√लिप्स् √लम् द.

√लिङ्(अ^०बधा.)

लेश^१- -शेन छां २, २२, ५.

लेश-तस(>) महा ५, १७९^१.

लेश-मात्र- -त्रम् पित्र ६, ९.

√लिङ्, >लेलिङ्, लिहेव जाद ४,
५८.

लेलिङ्गसे गी ११, ३०.

a) °ज्ञात् इति निसा. । b) °ज्ञे ना° इति अख्या. संटि. । c) °लम् इति अख्या. । d) °ङ्गं श° इति आन. ।

e) त्स. > षस. । f) पा. ? यनि. शोधः द्र. । g) व्यु. ? । h) °क्य° इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) ।

i) °ति इति निसा. अख्या. च यनि. शोधः द्र. । j) धा. अर्थः ? = भाप. । k) वेश° इति निसा. संटि. ।

लीला-म(य>)या- -याः सार
२५८: २.
√लीलाय्, लीलायताम् गु ५०.
लीला-योग्य- -न्याः सार २४२:
१३.
लीला-योग्यता- -ता सार २५५:
२२.
लीला-रति- -तिः सार २५६:१९;
-तिम् सार २५९: ६.
लीला-लोक- -कम् सार २५१:५.
लीला(ला-अ)वलोक- -कः सार
२३३: २.
लीला-विद्या- -द्याम् सार २४६:
१०.
लीला-समेत- -तौ सार २६०:
१३.
लीला-स्थान- -नम् सार २२६:१७;
२८५: १८.
लीलो(ला-उ)पयोग्य, ग्या- -न्यः
सार २८८:१९; -न्या सार २४४:
२; -न्याः २४१: १८.
लीलो(ला-उ)पसेवा- -वा सार
२४९: १८.
√लुट्, लुठु महा ३, २८; कुं २४.
√लुप्, >लोपि, लोलुप्, लोपयन्ति
वपं ३१३: ६.
लोलुपन्ते मैत्रि ७, ९; अलोलु-
पन्त क १, २, ४.
लुप्त-
लुप्त-पिण्डो(एड-उ)दक-क्रि-
(या>)य- -न्याः गी १, ४२.
लुप्त-सर्व-क्रि(या>)य- -न्यः
वृत्ता ५, ८.
लुप्त्यमान- -नः मैत्रि ३, २; ६,
३०.
लोपन- -नाव काम १२.

लोलुप- -पः इ १४: ११.
लोलुप्यमान- -नः मै ३, २.
√लुभ्
लुब्ध- -ब्धः गी १८, २७.
लोभ- -भः मै ३, ५; मैत्रि ३, ५; ते
६, १३; सार २९२: ५; भव ४,
११; गी १४, १२; १७; १६, २१;
-भम् ते १, १२.
लोभ-क्रोध-मोह-पूर्वक- -काः
योस् २, ३४.
लोभ-क्रोधा(ध-आ)दि- -दयः
कृ ९.
लोभ-जाल- -लम् मैत्रि ६,
३८.
लोभ-मोह- -हौ नाप ४, ५; वरा
१, १०; भव २, २२.
लोभमोह-विनिर्मुक्त- -कः
पित्र ६, २०.
लोभमोहा(ह-आ)दि- -दयः
नाप ३, ३३.
लोभ-मोहित- -तः इ १३: १५.
लोभा(भ-आ)दि- -दयः गर्भ ५.
लोभादि-दोषो(ष-उ)-
जिह्वत- -तः रार २, ३८.
लोभो(भ-उ)पहत्त-चेतस-
-तसः गी १, ३८.
√लुल्
लोल, ला- -लम् महा ५, १४६;
-लया १संन्या २, १६.
लौल्य- -ल्यम् नाप ३, ७१.
लोल-कुण्डल-धारिन्- -रिणे
गोप् ३९.
लोल-ता- -ताम् महा ५, १२०.
लोल-सत्ता- -त्तया १संन्या २,
१६.
√लृ, लव-लव तां २१५: २०.

लृं^१ राप् ४, ५०^१.
लृत^{१०}- -लैः १योत ३३^१.
लृता^१- -तानाम् गर २३; २४.
लृ(तक>)तिक्ता^१- -का त्रिवा २,
६१.
लृं^१ त्रिवि ७, ३६^१; व ४३५: ७.
लृं^१ त्रिवि ७, ३६^१; व ४३५: ७.
लेला^१-
√लेलाय्, लेलायते मुं १, २, २; श्वे
३, १८; लेलायति वृ ४, ३, ७.
लेलाय(त>)न्ती- -न्तीः आपें
८: २१.
लेलायमा(न>)ना^१- -ना मुं
१, २, ४.
लेलिहान- √लिह् द्र.
लेश- √लिश् द्र.
लैङ्ग- , लैङ्गिक- √लिङ् द्र.
√लोक् (*वधा.)
लोका^१- -कः क १, २, ६; तै १, ५,
१^१; ऐ ५, ३; छां १, ८, ५; ७; ९,
४^१; १३, १; २, २४, २; ५, ३, ३;
४, १; १०, ८; ७, ३, १; ४, ३; ८,
१; ८, १, ६^१; वृ १, ४, १६^१; ५,
४^१; १७^१; ३, ३, २; ७, १^१; २^१; ९,
१०-१७; ४, १, २^१; ३, २०; ४,
१३^१; २२; ५, ११^१; ६, २, २; ९;
११; ४, ३^१; गौ ४, ९५; मैत्रि ६,
२४; ७, ८; मना २, १४^१; ६;
७९^१; कौ १, ७; ३, १; ते ५,
४३; ६, १५; ३७; नाद ४; आबो
१; महा ३, ४; ४, १३; ५, ८६;
योशि ४, १०; १संन्या २, ५९;
मवा ४; वरा ३, १४; ४, २६;
जाबा २१; २४; सूता ३, ७; ९;
सार २२०: २; २३; २२१: १०;
१४; २४५: ९; २९१; २४६: ५;

a) =बीजमन्त्रविशेष-। b) 'लं' इति आन., 'लृं' इति अज्या.। c) व्यु.। d) 'लृकैः' इति अज्या.
यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.)। e) 'लृ' इति निसा.। f) 'लृ' इति निसा.। g) व्यु.। =गति-प्रकर्ष- (तु. शं.
नाड.)। h) तु. गप्. पृ२२९g। i) वैप१ यद्र.। j) सकृत् °काः इति निसा.। k) तैश्चा १०, १३, १^१।
l) तैश्चा १०, ६३, १।

कौ १, १; ३, २; पंहं १; व्र ३, १;
 वृजा ७, ८; ते ५, ४९; ६, ५२; अवि
 २६; ३६^a; आवो १^b; १^c; नाप ३,
 ४१; ८१; ६, ३७; त्रिवि ७, ५१^d;
 महा ६, ६६-६९; योशि १, ५८;
 १५१; तुअ ३; पप ४२० : ९;
 अन्न ४, ४; पत्र ३, ५; १अव
 ३०; रुजा ३, १; यो २, १; पंश;
 वरा ४, ३४; ३५; शा ३०; इ
 १९ : ११; सूता ६, ११; गोच
 ६८ : २२; पा १०, ८^e; सार
 २२० : १६; २२१ : ११; २३;
 २२७ : ४; २४१ : १३; २५२ :
 २०; २७७ : २३; २७८ : ३; ४;
 २८३ : १०; सु २९३ : १६१^f; वि
 ७; १९; २१; शि ६, २; ३०;
 ४७; ५५; ९७; १०१; १०३;
 १५५; १९६; १९९; २४०; सिग्नि
 ३८३ : ५; गार ४०६ : २१; गु
 ६८; व ४६१ : १११^g; १कौल
 ६ : २; २कौल ७^h; भव १,
 १३; ४५; २, ४४; ४, ३; १७; ब्रसू
 २, १, २५; ३, १, १९; गी२, ५; ३,
 ३; ४, १२; ६, ४२; १३, १३; १५,
 १६; १८; १६, ६; केन तै १, ३, ४;
 -केभ्यः छां ३, १४, ३; कौ ३, ९;
 ह९; गार ४०५ : १०; -केषु क २,
 ३, ४; प्र ६, ४; छां २, २, १; ३;
 १७, १; २; ३, १३, ७; ४, १५, ४ⁱ;
 ५, ३, ७; १८, १; २४, २; ७, २५,
 २^j; ८, १, ६^k; ४, ३; ५, ४; वृ १,
 ३, १; ५, १४, १; मैत्रि ४, ६;
 १योत ५१; रापू १, २; शां १,
 ७, १४; योशि १, ४३; १४९;
 ५, ५६; ६०; गोउ ६३; गा २;
 गी ३, २२; -कैः वृ १, ३, २२;
 -कौ छां ८, ६, २; ८, ४; वृ ४, ३,

७; मना २, ५०^l.
 लौकिक- -कः ते ६, १५; महा
 ५, ९२; १अव २२; -कम् गौ ४,
 ८७^m; मैत्रे २, ८; ते ५, ३८;
 -कानाम् ससा १, ४१; -के पत्र ३, ८.
 लौकिकी- -की नाप
 ६, ३४ⁿ; महा ५, ९५.
 लौकिक-वैदिक- -कम्
 तुअ १०.
 लौकिकवैदिक-साम-
 र्थ्य- -र्थ्यम् पप ४१८ : १८.
 लौकिका(क-अ)ग्नि-
 -ग्नीन् आर २^o.
 लौकिके(क-ई)श्वर-
 लौकिकेश्वर-वत् सांसू
 ५, ४.
 लोक-कौतूहल- -लम् शि ७, ५९.
 लोक-क्षय-कृत्- -कृत् गी ११,
 ३२.
 लोक-क्षित्- -क्षिते छां २, २४,
 ५; ९; -क्षिन्नयः छां २, २४, १४.
 लोक-जित्- -जित् वृ १, ३, २८.
 लोक-ज्ञ- -ज्ञः शा ३०.
 लोक-तस(>) शि ६, २२९.
 लोक-ता- -ता अन्न ४, २१;
 -ताम् सार २२२ : १.
 लोक-त्रय- -यम् भव २, ४१;
 गी ११, २०; १५, १७; -ये जाद
 १, २४; गी ११, ४३.
 लोकत्रय-विहीन-
 लोकत्रयविहीन-त्व-
 -त्वात् ते ५, १८.
 लोक-दर्शना(न-आ)काङ्क्षा-
 -ङ्क्षा सार २३२ : २३.
 लोक-दुःख- -खेन क२, ११.
 लोक-द्वार- -रम् छां २, २४, ४;
 ८; १२; १३; ८, ६, ५.

लोक-धारि(त्>)णी- -णी
 मना १, ८; य ६; सु २९३ : ६.
 लोक-पाल- -लः कौ ३, ९; मना
 २, १५१^k; -लाः ऐ ३, १; वृपू
 ४, १५, १६; राउ ४, ३१; अद्वैभा
 १६; -लान् ऐ १, ३; -लैः रापू
 ५, ६.
 लोकपाल-मन्त्र- -न्त्राः
 त्रिवि ७, ४७.
 लोकपाल-संवादि(त्>)-
 नी- -नी गुषो ४२० : ११.
 लोक-पालक- -काः ते ६, १९.
 लोक-पितामह- -हः सार
 २४३ : ६.
 लोक-महा-लीला- -लायाः
 सार २५७ : १०.
 लोक-महेश्वर- -रम् गी १०, ३.
 लोक-पृ(ण)णा^l- -णा^m वा
 १५.
 लोक-रक्षणा(ण-अर्थ)- -र्थम्
 सी १६.
 लोक-वत् सांसू २, ४०; ४६;
 ४७ⁿ; ४, १५; ५, ३; ६, ४३; ब्रसू
 २, १, १३; ३३; ३, ७; २५; ३,
 ३, ३०.
 लोक-व(त्>)ती- -ती मै ५,
 ५; ६; मैत्रि ६, ५; ६.
 लोक-वार्ता- -र्तायाः अध्या ५.
 लोक-वासना- -नया सु२, २, २;
 -नाम् नाप ५, १; १संन्या २,
 १३.
 लोक-विद्- -वित् वृ ३, ७, १;
 -विदः गौ २, २१; २७.
 लोक-व्युत्पन्न- -न्नस्य सांसू ५,
 ४०^o.
 लोक-संग्रह- -हम् गी ३, २०;
 २५.

a) 'कश्चित्' इति अशब्दा. । b) अ ९, ११३, ७ । c) तैत्रा ३, १२, ३, ४ । d) तैत्रा १०, १, १६ । e) सकृत्
 °कान् इत्येवं शोधः द्र. (तु. १कौल ७:१) । f) तैत्रा १२, १, १५ । g) °कक्रिया इति अशब्दा. । h) लोका° इति अशब्दा. ।
 i) उप. <√चि(निवासे) । j) तैत्रा १०, १, ८ । k) तैत्रा १०, १४, १ । l) वैपश् यद्र. । m) =वृ १ । n) °के व्यु° इत्यपि पाठे. ।

लोकमन्त्र-युक्त- -स्तानि
नाम १, २, १.
लोक-मन्त्र- -मन्त्रो गान ६,
३५.
लोक-मन्त्र- -न्तरम् ५४.
लोक-मन्त्र-या-नार- -रम् नाम ६,
३५.
लोक-मन्त्र-प्र- -णम् मना
३१.
लोका(क-अ)दि- -दिम् क १,
१, १५.
लोका(क-अ)धिपति- -तिः कौ
३, ९.
लोका(क-अ)धिष्ठित- -तः यत्
३, १.
लोका(क-अ)ध्यक्ष- -क्षः मृग
२०.
लोका(क-अ)नुग्रह- -हाय सुता
१, ४.
लोकानुग्रह-काम्या- -म्यया
१अव २३
लोकानुग्रहा(ह-अ)र्थ- -र्थम्
गोच ६७ : १६.
लोका(क-अ)नुवर्तन- -नम्
अक्षि ४२; अध्या ३.
लोका(क-अ)न्तर- -रम् पै २,
४९.
लोकान्तर-गत- -तः पै २,
३८.
लोकान्तरा(रा-अ)दि-
लोकान्तरादि-क- -कम्
सु. १, १, १९.
लोका(क-अ)न्त-र(य>)या-
-या अक्ष १५.^०

लोका(क-अ)पति- -तिः यत्
३, ३, ५१.
लोका(क-अ)पत्यन्-
लोकापत्या(ति-पा)दि-
मांख्या(क-अ)न्त- -न्ताः मना
४, ५४; यरा २, ५५.
लोकापत्यन्- -काः मना १,
३९.
लोका(क-अ)लोक- -कम् मृग
१५.
लोकित- -किनः मं २, २, २; कौ
४, २, १७, २; ४, ११-१३, २.
लोकै(ह-अ)क्ष- -क्षः मी १, २.
लोकै(ह-अ)क-दीपा(प-य)-
कु(र-य)रा- -राम् व ४५, ५ :
१८.
लोकै(क-अ)पणा- -णा वृ ३, ५,
१; ४, ४, २२; -णायाः वृ ३, ५,
१; ४, ४, २२; मृ ३६, ४; नाप
४, ३८.^१
लोको(क-अ)त्तर- -रम् गौ ४,
८८.
लोक्य- -कथम् वृ १, ५, १७.
✓लोच
लोचन- -ने सार २२८ : २१
लोचन-प्रि(य>)या- -याः मना
३, ४३; या २, ९.
?लोदकंचनंकांचानु" कृपु १७.
लोपन- ✓लुप्. द.
१लो(प>)पा" -पा काम १३.
२लो(प>)पा" -
लोपा-मुद्रा^१ -त्रा त्रिता १, ५८;
-द्रायाः त्रिता १, ७४.
लोभ- ✓लुम्. द.

लोम^१ -मैः आन ५.
लोमन^१ -मक्षां २, १९, १; कौ ३, १;
-मभ्यः ऐ १, ४; छां ८, ८, १; कौ
४, १९; मृग २; -मानि ऐ १-२,
४; छां १०, १८, २; वृ १, १, १;
३, २, १३; ९, २८, १; ६, २, १३;
४, ३; मना २, ८०^१; गु १७;
पिं १, १०.
लोमा(म-अ)धरोष्ठ^१ - -ष्ठम् आच ७.
लोम-(श>)शा^१ - -शाम् तै १, ४,
२; व ४६६ : १२.
लोल- ✓लुल्. द.
लोलुप- , लोलुप्यमान- ✓लुप्. द.
लोष्ट^१ - -ष्टः वृ १, ३, ७; -ष्टम् जाद १,
२२^१; शि ७, ५२.
लोष्ट-काष्ठ- -ष्टैः शि ७, ५४.
लोष्ट-वत् अक्ष १, ३८^१.
१लोह^१ - -हम् छां ६, १७, ७९^०; ६,
१, ५; शि ६, २६९; -हानाम्
१, ५; -हे शि ७, ४९; -हेन छां
४, १७, ७९^१.
लोह-कार^१ - -रस्य योशि १, ९६;
यो १, ३४.
लोह-(ज>)जा- -जाम् यो २, ४४.
लोह-ता- -ता योशि ४, २४.
लोह-मणि- -णिना छां ६, १, ५; पं
३०.
लोह-मय- -यम् छां ६, १, ५; पं ३०.
लोह-वत् सांसु १, ९९^१.
लोहा(ह-अ)दि- -देः १योत ७४.
लोहा(ह-अ)द्य, द्या- -द्यम् शि ६,
२३५; -द्याम् शि ६, २३४.
लोहो(ह-उ)पकरण- -णम् शि ६,
२४१; -णे शि ६, २४२.

a) °ण्डः इति निसा., अञ्ज्या. °न्धः इति निसा. संटि. च यनि. शोषः द. (तु. अञ्ज्या. संटि., गपू. पृ १०६)।
b) °रं ग° इति अञ्ज्या.। c) तु. गपू. पृ ३९७e। d) °के° इति निसा. यनि. शोषः द. (तु. अञ्ज्या.)। e) पा. ?।
f) व्यु. ? = देवी- ?। g) व्यु. अर्थश्च ?। h) = अगस्त्यपत्नी-। प्रकृते तत्रात्रा विद्याविशेष उपचरितः द.। i) = नाउ.।
j) वैप १ यद.। k) तैश्चा १०, ६४, १। l) समाहारे द्रस.। m) पा ५, २, १००। n) °ष्टम् इति निसा. यनि. शोषः
द. (तु. अञ्ज्या.)। o) °ष्ट° इति निसा. यनि. शोषः द. (तु. अञ्ज्या.)। p) = अयस्-। वैप १ यद.। q) जैउ ३, ४,
३, ३। r) वैतु. सांअ. पूप. = अयस्कान्त- इति।

रलोह^६-लोह-वन- -जम् गोड २१; सार
२२१: १२; -ने सार २६०: ६.१लोहित^६-रलोहित^० -तः छां ८, ६, १; ध्या
८६; योचू ६०; -तम् वृ ४, ४,
९; सुबा ४; ११; गु ११; -तस्य
छां ८, ६, १; वृ ४, २, २०; कौ ४,
१९; मैत्रि ७, ११; सुबा ४.लोहिनी^६ -न्यः वृ २, २, २;
४, २, ३.

लोहित-पिण्ड- -ण्डः वृ ४, २, ३.

लोहित-शुक्ल-कृष्ण- -ष्णा-

-ष्णा शां ३, १; -ष्णाम् श्वे ४, ५;
मना २, १२, १९; नापू ५, २०९.लोहिता(त-अ)क्ष- -०क्ष वपं
३१२: १५; -क्षः वृ ६, ४, १६;
श्वे ४, ४.

लोहिता(त-आख्या)>ख्य-

-ख्यम् ध्या ८७; योचू ६०.

लोहितो(त-उ)च्छिष्ट- -ष्टः चू ११.

लोहित-शुक्ल-कृष्ण-गुण-

लोहितशुक्लकृष्णगुण-म(य)>-

यी- यी पै १, ४.

३लोहित^६ -तम् छां ६, ५, २; वृ ३,
२, १३.४लोहित^६-

लौहित- तम् गार ४०७: ११.

लौकिक- √लोक् द्र.

लौक्य- √लुक् द्र.

व

*व् युष्मद्- द्र.

१व^६१व-कार- -रम् ध्या ९६; -रेण
१योत ८९.वं^६ त्रिवि ७, ४८; लां २१६: १९१^६;

आथ ३९६: २; व ४३६: ६;

हंषो १२; वं-वं लां २१६: १९;

व ४३६: २३^६.

वं-कार- -०र अक्ष ५.

वं-बीज- -जम् १योत ८८.

२व^६

२व-कार- -रः सिशि ३८२: १३.

३व^६

३व-कार-

वकार-मात्रा- -त्रया २प्र३३: २.

११३; -शैः शि ४, ६२; ६, १४५.

वंश-काष्ठीक-वीरण- -गैः शि ७, ५६.

वंश-ज- -जम् शि ६, २७१; -जानाम्

शि ६, २६४.

वंशना(ज-अ)र्ध-सम- -मम् शि

६, २६५.

वंश-ताला(ल-आ)दि-संभूत-

-तम् शि ६, ६०.

वंश-मङ्गल-का(ष्ठक)>)ष्ठिका-

-काम् शि ७, ५२.

वंश-मण्डलि^६ -लिना शि ६, १४६.

वंशा(श-अ)लाडु-समुत्थ- -स्थानि

शि ६, ५८.

२वंश^६ -शः वृ २, ६, १; ४, ६, १; ६, ५,

१; -शाम् वृ ६, ३, ६; -शे सं ११.

वंश्य- -श्यान् अव्य ७.

३वं(श^६)शी^६-

वंशी-वट- -टः सार २५५: ४.

वंशीवट-संकेतवट- -टौ मार
२२१: १६.

√वक्

वक्^६-

वक्-तुण्ड- -ण्डम् वपू १, ५;

-ण्डाय मना १, ५९^६; ग १०९^६;व ४६२: २३९^६; वपू १, ६; ५;वउ २, ८९^६.

वक्-तुण्ड-स्वरूप-

वक्-तुण्ड-स्वरूपिन्-

-पिणम् वपू २, २.

वक्-तुण्डा(एड-आ)द्य-

(दि-अ)ए-विनायक- -काः वपू

२, ४.

वक्^६, वक्त्र- √वच् द्र.वक्त्रस्^६ -क्षः पा ९, २; -क्षसः यो १,१५^६; १६^६; -क्षसि ध्या ६९; योचू

४०; ११४; ऊ ६४: ७; सिशि

३८१: १३; -क्षः सु वजा ४, ३४.

वक्षो-ज- -जौ सार २४४: २३.

वक्षो-न्यस्त-हनु- -नुः ध्या ९३;

योचू ६६.

वक्ष्यमाण- √वच् द्र.

१वङ्क्ष(ण)>णा^६ -णाः बा १०.

√वच्, >वाचि, विवक्ष्, वक्ति नाप ३,

६३; शि ७, ४; वस्मि त्रिता २,

४८; कश्च २: ग३; ४; वरा १, ९^६.

उवाच के ३, १२; ४, १; क १, १,

४^६; १५; प्र १, २; ४; २, २; ३;

३-४, २; ५, १; ६, २; ७; सुं १,

१, २; ४; ३, ११; तै ३, १-५,

१; ऐ ४, ५; छां १, ५, २; ४; ८, २;

३^६; ४^६; ५^६; ६; ७^६; ८^६; ९, १३;

a) व्यु. १ = लोभवृत्तविशेष- । b) = वर्णविशेष- । वैप १ यद्र. । c) = वर्णविशेषवत्- । d) पा ४, १, ३९ ।

e) तैत्र्या १०, १०, १ । f) °कृष्णा गुं इति अच्चा. । g) = रुधिर- । h) व्यु. १ = ऋषिविशेष- । i) = वर्णो- वा

बीजमन्त्रविशेष- वा । j) = बीजमन्त्रविशेष- । k) 'व' इति पा. १ यनि. शोषः द्र. । l) तु. गपू. पृ २३३८ ।

m) 'शिव-> -वाय' इत्यत्रत्यो मध्यमो वर्णः । n) प्रणव- इत्यस्याऽन्तिमोऽवयवः । o) व्यु. १ = वेणु- । वैप १ यद्र. ।

p) उप. व्यु. १ पुं. = स्वरड- ? । q) व्यु. १ = कुल- । r) व्यु. १ = वाद्यविशेष- । s) ज्री. जीष् प्र. उंसं. (पा ४, १, ४१) ।

t) वैप १ यद्र. । u) तैत्र्या १०, १, ५ । v) °क्षः इति निसा. संदि., अच्चा. । w) तु. वैप १ वक्ष(ण)>णा- (= अत्र वै.) ;

वैतु. बाटी. 'प्रवङ्क्षण-> -गान्' इति पा. (वैतु. ऋ १, ३२, १) । x) 'उच्यते' इति अच्चा. संदि. । y) तैत्र्या ३, ११, ८, १ ।

योशि १, ५८; गोउ ३६; सूता १, ४३; ६, १२; गोच ६८:२१; सार २३१: २१; २७३: १०; -क्तैः सार २३१: १७.

उक्त-क्रम- -मात् रापू ४, ६४. उक्त-ब्रह्मा(ह्य-आ)नन्द- -स्पृ- ति- -तिम् मं २, ४, ४.

उक्त-महिमन्- -मा पित्र ६, ३. उक्त-लक्षण- -णः वसू २७; -णे त्रिवा २, २७.

उक्त-विकल्प- -रूपम् मं १, ४, २.

उक्त-विद्या- -द्याम् यो २, १५.

उक्ता(क्त-आ)चरण-गुरु- -रुः अद्वै १२.

उक्ता(क्त-आ)नुशास(न>)ना- -ना वृ ४, ५, १५.

उक्ता(क्त-आ)न्यतर- -रैः वउ ६, ३७.

उक्ता(क्त-आ)लाब्धा(तु-आ)- -दि-पात्र- -त्राणाम् १ संन्या २, ८०.

उक्तो(क्त-उ)पनिषत्क- -कः वृ ४, २, १.

उक्ति- -क्तिः पाशु २, २०; जाद १, ९; पं ३२; वरा २, ९.

उक्ति-तस(>) शु ३, ७.

उत्त्वा क १, ३, १६; छां १, ९, ३; २, २४, ६; १०; १५; ३, १७, ६; ५, २, ३; वृ १, ४, १; ४, ५, १५; ६, ३, ७-१२; मैत्रि ६, २९; आरु ३^०; ना ४; अ १; वृजा ४, ३०; शु ३, १६^०; आवो १; कालि ४०१: २^०.

उक्थ^० - -क्थम् छां १, ७, ५; वृ १, ६, १-३; ५, १३, १^०; कौ २, ६^०; ३, ३; -क्थस्य वृ ५, १३, १;

-क्थेन मैत्रि ६, ३६.

उक्थ-विद्- -वित् वृ ५, १३, १.

उक्थ्य- -क्थ्यम् वृपू २, १७^०;

पा ७, ४; -क्थ्येन वृपू ५, १७;

वउ ५, १४.

उचथ^०-

उचथ्य^०-

उचथ्य-पुत्र- -त्रः सर २, ६.

वक्तव्य- -व्यः ते १, २१; नाप १;

५, १; -व्यम् प्र ४, ८; सुबा ५;

६; ९; ते ४, २०; नाप २; त्रिवि

१, ४; २, १३; ८, ४; महा २, १६;

इ १८: ४; वि २^०; -व्याः छां २,

२२, ५^०; इ १७: १४; १८: ३;

-व्यानि शु १, ११; -व्ये सुवा

५; १आ २७.

वक्ति- -क्तैः वृ ४, ३, २६.

वक्तुम् प्र ६, १; वृजा ७, ७; ८; वृउ

९, १९; ससा १, ४२; ते १, २१;

१योत ७; नाप २; ५, १; ८, १;

श २८; त्रिवि २, १^०; रुजा १,

१; ३, १; सार २५६: १४; हंषो

२; गी १०, १६.

वक्तृ- -क्ता कर १, २२; २, ७^०; छां ४,

६-८, १; मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; ११;

त्रिवि १, १; महा ६, ६५; शारी

३; योशि २, ५; वपू १, ४;

-क्तारम् तै शान्^०; १, १२, १^०;

ऐ कौ शान्^०; ३, ८; नाद आवो

निर्वा मुद्र अक्ष सौ सर व शान्^०;

विद्या शान्^०; १कौल शान्^०;

-क्तुः वृ ४, ३, २६; व्रसू १, १,

२९.

वक्त्र^०- -क्त्रम् १योत १३७; नाप

६, १^०; पा ७, ६; सिशि ३८२:

११; -क्त्राणि सिशि ३८१: २४;

गी ११, २७; २८; २९; -क्त्रात्

ए ७; -क्त्रे भ १, ६; -क्त्रेण अना

१३; योचू ११४; शां १, ७, १४;

सौ २, ३; -क्त्रैः सार २६०: २०.

वक्त्र-त्रय- -त्रैः सौ १, १.

वक्त्र-दोष-प्र- -घ्नम् योशि १,

९९.

वक्त्र-समन्वित- -तम् दे १३.

वक्ष्यमाण- -णम् वृजा १, १^०; योशि

१, १०२.

वचन- -नम् शु ३, १५; रूह ३;

२प्र ३४: ६; ३६: २; सार २२८:

१२; २७८: १०; गी १, २; ११,

३५; १८, ७३; -नात् मैत्रि ६,

१०; व्रसू ४, २, १६; -नानि अक्षि

७; सार २७०: १९; -नेषु २प्र

३५: ११.

वचन-प्रतिवचन-

वचनप्रतिवचन-मथ- -याः

सार २३७: २०.

वचनप्रतिवचनो(न-उ)त्तर-

-रम् सार २२५: १३.

वचन-सुख-दायि(व>)नी^०-

-नी सार २६३: ११.

वचना(न-आ)दान-गमन-वि-

सर्गा(र्ग-आ)नन्द- -न्दाः त्रिवा

१, ६; पै २, १२; शारी १; सु १७.

वचनादानगमनविसर्गा-

नन्द-पञ्चक- -क्रम् वरा १, १२.

वचनादानगमनविसर्गा-

नन्द- -हानो(न-उ)पादानो-

(न-उ)पेक्षा-बुद्धि- -द्धयः भा

१२^०.

वचना(न-आ)दान-विहरणो-

(ण-उ)सर्गा(र्ग-आ)नन्द- -न्दाः

सांका २८.

a) 'कृत्वा' इति श्रान. । b) पा.१ 'उ(क्त>)क्ता' इति शोधः द्र. । c) 'सुक्ता' इति पा.१ यनि. शोधः द्र.

(तु. तान्त्रि.) । d) वैपश् यद्र. । e) 'अथ कथम्' इति श्रज्या. । f) ऋ १, ४०, ५ । g) तैआ ७, १, १^० । h) ऐआ २,

७, १^० । i) धा. अर्थः १ । j) 'चक्रम्' इति श्रज्या. संटि. । k) वाच्यमा^० इति श्रज्या. । l) 'हानोपेक्षा' इति

निसा. यनि. शोधः द्र. (वैतु. °क्षाख्यबु^० इति तान्त्रि.) ।

वचनीय- -यः मा २४४ : ४ :
-यम् मा २३० : २३ : २९२ :
१७.

वचम्- -चः शो ८, ७, ३; १६, २,
२; नाप ३, ६७; महा ५, १७;
७२; छाया २४ : ५; व ३,
३९. गो २, १० : १०-११, १;
१८, २४ : -चयः नाप ६, १ : -चया
गो ५ ८७ : पा ४१८ : २५; मर
१, ४; नी १, ६१; -चयाम् आ ५
४१.

वाक्- -कः पा ४, १ : -कम् पा ९,
२; -कम्-कम् पा ४, १.
वाकोवाक्य- -क्यम् शो ७,
१, २; ४ : २, १; ७, १.

वाकोवाक्य-माथा-नारा-
शंसी- -सीः २५ ३३ : ५.

वाक्य- -क्यः ११ १; -क्यम् ते ४,
१३; ६, ४; प्रथि ६१; ७८; १थो १
७९; रार १, ७; श १; पै ३, १;
महा २, १७; अध्या ४०; त्रिता
४, ४; छाया २५ : १२; वरा ५,
३६; सि १, ३; वपू १, ५; गो १,
२१; २, १; १७, १५; -क्यानि शु
१, १४; ३, १५; शु ८०; -क्येन
मैत्रे २, १५; गो ३, २; -क्यैः
योशि ३, ९; अध्या ३३.

वाक्य-त्रय- -यैः शु ८२.
वाक्य-शेष- -वात् ब्रसू १, ४,
१२; २, १, १७.

वाक्य-संभव- -वः योशि ३, ६.

वाक्या(क्य-त्रा)त्मक- -काः
योशि ३, ७.

वाक्या(क्य-त्रा)न्वय- -यात्
ब्रसू १, ४, १९.

वाक्यार्थ-वर्ण- -यैः महा
२, ३३; १मा २, १०; -थम् आ
२, ५; -थम् आ १, १७.

वाक्यार्थ-लक्ष्य-मन्-
-मस्यः पां २४.

वाक्यार्थ-वर्जित- -वः ते
५, ६.

वाक्यार्थ-विचार- -रः पै ३, १.

वाक्यार्थ-श्लोक- -काः शु
३, १.

वाक्यार्थो(र्थ-प्र)देश- -वाः
गो १, १८.

वाच्- -वाक् के शो ११; १, ३; ४,
१; ५२, २; ४; ४, ८; गु २, १, ४;
२, २; १, ३, ४; ७, १; गु शो ११;
१-२, ४; शो शो ११; १, २;
५; २, १, १, २, ३; ४; ७; ७, १;
१३, २; ४; २, ७, १; ८, ३; ११,
१; २, ३; ३; ३, १२, १; १३, ३;
१८, २; ३; ४, ३, ३; १६, १; ५, १,
२; ८; १३; ७, १; २१, २; ६, ५,
३; ४; ६, ४; ५; ७-८, ६; १५,
१; २; ७, २, १; २६, १; ८, १२,
४; शु १, १, १; २, ४; ३, २;
२०-२३; २७; ४, ७; १७; ५,
३-७; ८; ११; १८; २१; ६, १;
२, १, १७; २, ३; ४; ४, ११; ३,
१, ३; २, ३; १३; ७, १७; ९,
२४; ४, १, २; ३, ५; ५, १२; ५,
२, ३; १४, ५; ६, १, २; ८; १४;
२, १२; कौ शो ११; २, १; ३; ३;
८; १४; ३, ३; ४; ५; ७; ४,
१९; मैत्रि ६, ३१; मना २, ७२; १;
८०; आरु मै मैत्रे शो ११; अशि
५, १४; योच् वा महा १ संन्या

कुं साधि रुजा जावा शो ११; शु
१, २; नउ ८, २; ४; सुवा ५;
६; ते ४, ४६; सुद शो ११; १, १;
निर्वा शो ११; २९, ८; १८; नाद
पाथो अक् सौ शो ११; शो १,
७, ४६; शारी ७; अन्य शो ११;
१; सांवि ८; पाथु २, ८; १४;
१अव २४; ६ ५; १३; यो
३, ११; जाद शो ११; २, ८; ६
१५; ग ६; सर शो ११; १, ५;
२, ६; ७; ८; व शो ११; सु १,
२, ११; सुता ३, ५; ६; नाप ५,
३२; १; ४; वउ ३, ६; पित्रे
८; ६, ४; सांका ३४; गो १०, ३४;
वाक्-वाक् ३, ४, २५; वाग्निः
सार २८७; ४; वाचः के १, २; सु
२, २, ५; तै २, ४, १; ९, १; ऐ १, ४;
शो १, १, २; ३, ६; ७; १३, ४; २,
८, १; ३; ५, १, १५; ७, २, ३; ३;
१; ३ १, ५, ८; ११; ३, ७, १७; ४,
४, २१; मना २, ७९; ३, १६;
वउ २, २; ३; ते १, २०; २१;
नाप ५, १; श १७; शो १, १;
महा ४, ५७; अज २, ३३; ४,
३७; त्रिता १, १६; कस ३१; यो
३, २०; वरा ४, ३३; शा २३;
ह १७; सर २, ६; नाप ५,
३३; ३४; गु २०; वउ ३;
२३; ४६; १९; पित्रे २, ५;
६, ३; ब्रसू २, ४, ४; वाचम् के १,
१; २; सु १, २, ६; तै ३, १, १; ऐ
५, १; छां १, २-३, ३; ८, २;
५, ३, ६; ७, २, १; २; ३-५, १;
वृ १, २, ४; ३, २; १२; ५, ३; ३, ७,
१७; ५, ८, १; १४, ५; ६, २, ५;

a) उत्तरेण संधिरार्थः । b) मा १६, ४ । c) नैप्र. <वाकोपवाकिक- <वाकोपवाक- (तु. वैप २ यस्था.) ।
d) =कर्मैन्द्रियविशेष-वचन-, तदधिष्ठातृदेवता-, बीजाक्षरविशेष- प्रसृ. । e) पाथ ३, १५, २३ । f) ऐत्रा २, ७, १ ।
g) 'वाक्यम्' इति श्रद्धा. । h) 'वृत्तः' इति श्रद्धा., 'वा' इति शांशा ४, ८ । i) शौ १९, ६०, १ । j) तैत्रा १०, ६४, १ ।
k) श्र ८, १००, ११ । l) =ऐ-बीजाक्षर- । m) श्र ८, १००, १० । n) श्र १, १६४, ४५ । o) अर्थः १ । p) तैत्रा १०,
६३, १ । q) तैत्रा ८, ४, १ । r) ँचम् इति मंत्रा १, ७, १५ ।

४, १८; अग्निष्ठ, २३; कौर, १, ४; ५, १५^१; ३, २; ६, ८; सुवा ९^१; नाप ३, ४३; रार १, ५; दे ५९^१; सर १, ४; २, २९^१; ८^१; ९^१; इ ११: १; १५: ८; पि १४; २ प्र ३२: ११; ३५: २२^१; नापू ४, ८९^१; नी ३, ५; वट्ट ३१६: १५; गा १७; पी ४२२: १; व ४३६: १४; वउ ६, ४९; भव ५, १०; गी २, ४२; वाचा के १, ४; क २, ३, १२; मुं ३, १, ८; ऐ ३, ३^३; छां ४, १६, २; ५, १, ९-११; ६, १, ४-६^१; ४, १-४^१; वृ १, २, ५; ३, २४-२५; २, २, ४; ३, १-२, ३; ४, १, २^३; ३, ५; ६, १, ८-१२; २, ७; मै २, ४^१; जा ५; गर्भ १; मना १, १२^१; २, ३१^१; ३२^१; कौ १, ६; ७; २, १३, १४^३; ३, २-४; ६; वृजा १, १; वृपू १, १; २^३; ते ५, ४०; ४५; ८६; नाप ३, २२; ४, ३८; पत्र २; पप ४१८: १७; अक्षि ८; जाद १, ७; १३: १७; याद, १; शा ३५^१; नापू ४, २७; सार २२७: १७; रशिसं २; गु ३७; वाचां हं १२^१; मैत्रे १, ४, ९; ते १, ४९; ४, ५२; त्रिवि २, १५; ६, २३; ७, २०; ५०^१; ८, १५; महा २, ११; १संन्या २, २८; अक्ष ५, ९६; सि ३, २; ५, ७; ६, २२; ३६; वाचि प्र २, १२; तै ३, १०, २; ऐ शां^१; छां २, ८, १; ३; ५, २१, २; वृ १, ३, २; २५; २७; २, १, १; ३, ७, १७; ९,

२४; ४, ३, ६; कौ शां^१; २, ५; ४, १; सुवा ५; नाद आवो निर्वा मुद्र अक्ष सौ शां^१; सर शां^१; ३, ३; व शां^१; ७; २ प्र ३५: २१; नापू ४, ९९^१; वाचे वृ ६, ३, २; व ४६५: ४९^१. वाक्कर्म-मनस्- -नोभिः रार ४, २. वाक्-काय-केश-वर्जित->- ता- -ता व्र ३, १५. वाक्-काय-सर्वा(र्व-अ)ङ्ग- -ङ्गम्^१ व ४२८: ६. वाक्-चपल- -लः या २, १८. वाक्-पति- -तिः तै १, ६, २. वाक्-पाणि-पाद-पायू(यु-उ)- पस्थ- -स्थाः त्रिवा १, ५; पै २, १२; सू १७; -स्थान् सांकार ६^१. वाक्पाणिपादपायूपस्था- (स्थ-आख्या)>स्थ- -स्थानि शारी १. वाक्-पाण्य(णि-अ)ङ्गघ्रा- (ङ्घ्रि-आ)दि- -दयः वरा १, ३. वाक्-प्रबोधक- -कः यो ३, २०. वाक्-प्रसाद-कर- -र अक्ष ५. वाक्-सिद्धि- -द्धिः १योल ७४; त्रिवा २, ११२; दे २२; ह १०; -द्धिस् योशि ३, १०. वाक्सिद्धि-द- -दस् सौ ३, १^१. वाग्-अगोचर- -रः वरा २, ८१. वाग्-अधिष्ठित- -तः त्रिवा १, ९. वाग्-अपेत- -तः कौ ३, ३. वाग्-अर्थ-कला- वागर्थकला-मय- -यस्

त्रिता १, ६८. वाग्-ईश- -शाय द १३. वाग्-ईश्वर- -रः कालि ४०१: ६; -राय त्रिवि ७, ३९. वागीश्वरी'- -रि त्रिता ४, ३३; व ४३६: १६; हंपो^१; -रीम् जाद ६, ४०; -यै व ४६३: १५. वागीश्वरी-धाम-शिरस्- -रः यो २, ३२. वाग्-दण्ड- -ण्डः नाप ६, ५; -ण्डे १संन्या २, ९७. वाग्-देवता- -ता सर १, ४; आथ ३९८: ८-१२. वाग्-देवी- -वी सर ३, ५; सार २८५: २२; २८६: १; -वीम् गार ४०८: ११. वाग्-भव, वा- -वम्^१ द ६; रार ३, १; त्रिता १, ६१; ६३; ६८; ७३; ७७; २, १०; काम ६; १३; -वा विद्या १. वाग्भव-कूट- -टस् त्रिता १, ३५; ६०; -टे आथ ३९९: ५. वाग्भवा(व-आ)द्य, धा- -द्यस् त्रिता १, ६७; -द्या त्रिता ३, १६. वाग्मन्'- -मनी ग १८; पी ४२२: १६. वाग्-यत- -तः वृजा ३, २१; इ १८: १; २ प्र ३३: १६; सूता १, २३; शि ७, ४८; -तानाम् इ १८: १०. वाग्-वादि(व->)नी'- -नि वपं ३११: ३; व ४३६: २; ४४४: १; -नी आथ ३९८: ६; व ४२७: ९.

अ) ऋ ८, १००, ११। ब) ऋ ५, ४३, ११। c) ऋ ८, १००, ११^१। d) ऋ १०, ७१, ४। e) ऋ १०, ७१, २। f) वैतु. सं. प्रश्न. उत्तरेण समास इति। g) पा.ई 'वाव' इति शोधः द्र. (तु. मैत्रि २, ४)। h) तैआ १०, १, १२। i) तैआ १०, २४, १। j) तैआ १०, २५, १। k) वाधा २, ११। l) 'वाचा' (तु. J.C.) इति निसा., अख्या. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या. संदि.)। m) ऐआ २, ७, १। n) तैआ २, १२, १। o) द्रस. 1 उप. षस.। p) वा. क्रिवि. इति कृत्वा द्वि १ द्र.। q) 'स्थायक' इति पा.ई 'स्थान् कर्म' इति पदद्वयपरः शोधः द्र.। r) तु. गपू. पृ २१७k। s) =ऐ-बीजाक्षर-। t) वाग्मन्- (पा ५, २, १२४) इत्येवं सत उच्चारणसौकर्यार्थं यनि. प्रयोगः।

वाच विप्रश्न-...-णी-णीम्
१।१।१।१।

वाच-विप्र-...-विप्राम् मा. २.
२२.

वाच विप्रय-...-... ७. ८.
२। ३. १.

वाच-व्यापार-...-नाप ६. १.
वाच-मन-...-नया १. ३.
१३; नाप ३. ३९.

वाचमनो-वाच-...-वाच-
-नः ३. ३८; ४. ५२.

वाचमनो-वाच-...-वा-
-वाच ३३ २. ११.

वाचमनो-वाच-...-वा-
-वाच-...-रम् १. ७.
वाच-मन-...-वाच-...-वाच-
-वाच १. ३३; आ १४.

वाच-मन-...-वाच-...-वा-
-वाच ६. २०.

वाच-मन-...-वाच-...-वा-
-वाच-...-वाच-...-वाच-
-वाच २. ६५.

वाच-मय-...-वाच-...-वा-
-वाच १. २. ५. ३.
ग ५. -यम् भव ५. ४; गी १७.
१५.

वाच-मात्र-...-वाच-...-वा-
-वाच-...-वाच-...-वाच-
-वाच १. ५८.
वाच-यम-...-वाच-...-वा-
-वाच ५. २. ८.
कौ २. ३०; ४.

वाचाम्

वाचाम्-अगोचर-

वाचामगोचर-निरा-
कार-परब्रह्म-स्वरूप-...-
त्रिवि ८. १५.

वाचामगोचर-मनो-
न्मना(न-आ)नन्दाम्बुधि-

दिव्यनेत्रोमय-ज्वालाजाल-
दीपिता(न-अ)व्यन्तोजता(न-अ)-
नन्त-अभय(र-आ)कार-
-रम् १। ६. २२.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-अभय(र-आ)कार-
-रम् ३. २.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-तेजोराश्या(शि-अ)न्तर-
गत-...-वाच-...-वा-
-वाच ७. ५०.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-दिव्य-तेजोराश्या-
(शि-आ)कार-...-वा-
-वाच २. १५.

वाचामगोचरा(र-अ)-
नन्त-अङ्ग-योध-प्रिय-वि-
प्रह-...-वाच-...-वा-
-वाच ७. २०.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्द-...-वा-
-वाच ४. ५२.

वाचामगोचरानन्द-
तेजोराश्या(शि-आ)कार-...-वा-
-वाच ७. ५०.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्दब्रह्म-तेजोराशि-मण्डल-
-लम् ३. २३; सि ६. ३७.

वाचामगोचरा(र-आ)-
नन्दब्रह्म-तेजोराश्या(शि-आ)-
कार-...-वा-
-वाच ५. ७.

वाचिक-...-वा-
-वाच २. १३;
१४; -कम् शां १. २.

रवाच[४पति-(परि.)]- वाचः व
४६५; ४६५.

वाचक-...-वा-
-वाच १. ११; १२; ४,
२; भव २. ५०; योसू १. २७;
-कम् तै ५. १२; -केन रापू ४. ३.

वाच्य-...-वा-
-वाच ४. २; -च्यम्

मै ५. ७१; शु ३. १०; तै ५.
१२; त्रिवि ८. २०; योशि २.
३; इ १९. १०; सूता ६. ७;
राश २४८. २१; सिशि ३८३.
१०; मांसू १. ११९; गी १८.
६७; -च्यस्य शु ३. १०.

वाच्य-वाचक-
वाच्यवाचक-ता-
वाच्यवाचकता(ता-अ)-
भेद-...-वा-
-वाच ४३?

वाच्यवाचक-संबन्ध-...-
सांम् ५. ३७.
विवक्षित-...-वा-
-वाच १. १; नै.
सु ३. ९.

विवक्षित-गुणो(ए-उ)पपत्ति-
-त्तेः ब्रम् १. २. २.

वचकनु^{१६}-
वाचक(व^१>)वी-...-वा-
-वाच ३. ६,
१; ८. १; १२.

१वज्र^१-...-वा-
-वाच ४५९; २१५;
४६१; १५; -जः आरु ३५; तै ३.
७१; नाप ४. ३८; पप ४१८.
३१५; -जम् क २. ३. २; त्रिवि
७४; मुद्र २; इ १३२; शि ६.
९७; गी १०. २८; -ज्रेण महा ६.
२१; गरु ९. १२. २३. २४; शौ
५३. ९; -ज्रेषु त्रिवि ७. ४३; ४८.

वज्र-काय-...-वा-
-वाच २१४. ५.
वज्र-कुम्भ-...-वा-
-वाच ७५.
वज्र-ता-...-वा-
-वाच ४. १३३.

१वज्र-तुण्ड^१-
वज्रतुण्ड-वज्रपक्षा(नि-अ)-
लंकृत-...-वा-
-वाच ४६५. ६.
२वज्र-तुण्ड^१-...-वा-
-वाच २१४. ५;
२१६. ४; -ण्डाय गरु ६.

a) °से इति अश्या. । b) आवाहमनो° इति अश्या. यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) । c) तैश्चा १०. ५२. १ ।
d) °तः इति अश्या. । e) °रम° इति निसा. । f) उत्तरेण संधिगर्षः । g) तैश्चा २. १२. १ । h) पा. १ 'अवाच्यम्'
इति शोधः द्र. (तु. मैत्रि ६. ७) । i) 'वक्ता' इति निसा. संटि., 'वक्ता' इति अश्या. । j) °दाभे° इति निसा. यनि.
शोधः द्र. (तु. अश्या.) । k) व्यु. ? = ऋषिविशेष- । l) ब्रपा. वैपश् यद्र. । m) ऋ १०. ८३. १ । n) ऋ १०. ८४. ६ ।
o) आपमं २. ९. ५ । p) कस. । q) बस. ।

वज्र-दंष्ट्र- -दंष्ट्राय गरु ६.
 वज्र-दण्ड-समुद्भूत- -ताः योशि
 १, ११८.
 वज्र-दन्त- -०न्त लां २१४: ६;
 -न्ताय गरु ६.
 वज्र-दर्पण- -णम् मं २, १, १०.
 वज्र-देह- -०ह लां २१४: ४.
 वज्र-नख- -०ख लां २१४: ५;
 -खाय मना १, ६५^६; वृषू ४,
 १३५^६; त्रिवि ७, ३९५^६; गरु ६;
 वृष ८४: १९; व ४६३: ५५^६;
 ४६५: ५.
 वज्रनख-वज्रतुण्ड- -ण्डाय गरु
 १०.
 वज्र-नेत्र- -०त्र लां २१४: ५.
 वज्र-पक्षा(क्ष-अ)लक्षित-शरीर-
 -राय गरु १०.
 वज्र-पक्षा(क्ष-आ)लक्षित-शरीर-
 -राय गरु ६.
 वज्र-पञ्जर^{११b}- -रेण वपं ३११: १.
 वज्रपञ्जर-नामन्- -न्ना वपं
 ३१३: ३.
 वज्र-पाणि- -णिः दे ९; त्रि ८;
 -णिम् रार २, ७२.
 वज्र-पुच्छ- -०च्छ लां २१४: ४;
 -च्छाय गरु ६.
 *वज्र-बल-
 *वज्रबल-क-
 *वज्रबलिका-
 *वज्रबली-
 ?वज्रोली^{११०}- -ली
 १योत२७^६-लीम् १योत१२६;
 १२८.
 वज्र-बाहु- -हुः मना १, १०५^६;
 -०हो लां २१४: ५.

वज्र-भृत्- -भृत् ए ५.
 वज्र-मुख- -०ख लां २१४: ५.
 वज्र-रेखा- -खे तारा ८३: २३.
 वज्र-रोम- -०म लां २१४: ५.
 वज्र-लाम्बित(त>)ता- -ता त्रिवा
 २, १३५.
 वज्र-शक्ति-खड्ग-पाशा(श-अ)-
 इकुश-गदा-त्रिशूल-चन्द्र-
 मुसल-पद्म- -न्नानि सूता ५,
 १३.
 वज्र-शरीर- -०र लां २१४: ६.
 वज्र-शूला(ल-आ)ढ्य- -ढ्यम् रापू
 ४, ५२.
 वज्र-सूची^{११b}- -चीम् वसू १.
 वज्रसूचि-क^{११b}- -कम् सु १, १,
 ३३.
 वज्र-स्तम्भ-
 वज्रस्तम्भ-वत् १संन्या २, ५०.
 वज्र-हस्त^१- -स्ताभ्याम् व ४४९:
 १६.
 वज्रा(ज्र-अ)इकुश-हस्त- -स्तः व
 ४३८: २२.
 वज्रा(ज्र-अ)ङ्ग- -ङ्गम् लां २१३:
 १३.
 वज्रा(ज्र-आ)शिस- -शिषः व
 ४५६: १५.
 वज्रा(ज्र-आ)सन^{११६}- -नम् यो १, ४;
 ६; -ने यो १, ४८.
 वज्रासन-गत- -तः योशि १,
 ८४.
 वज्रासन-स्थित- -तः योशि १,
 ११२.
 वज्रिन्- -०ज्रिन् व ४६०: १०५^६.
 वज्रे(ज्र-इ)न्द्रनील-वैडूर्य-पद्मरागा^१-
 -गम् शि ६, ९०.

वज्रे(ज्र-ई)श्व(र>)री- -री आथ
 ३९९: ६; -रीम् विद्या २.
 वज्रो(ज्र-उ)द(क>)का- -का तारा
 ८३: १५.
 रवज्र^१-
 वज्रा(ज्र-आ)दि- -दि, -दिभिः रार
 ३, १.
 √वज्र्(*बधा.), >वज्रि, वज्रसि श्वे
 ४, ३५^६.
 वञ्च्यते नाप ४, २९.
 वञ्चयितुम् भव १, ५५.
 वञ्चित- -ताः स्व ६१: १४.
 √वट्(*बधा.)
 वट^१- -टम् महा ५, १३३; शि ७,
 ८८; -टस्य सार २२५: ११;
 -टान् वृ ९, ५.
 वाढ्य^{११}- -ढ्ये मैत्रि ७, ८^{११}.
 वट-क(एक>)णिका- -कायाम्
 ससा १, १७.
 वटकणिका-श्यामाकतण्डु-
 ल-वालाग्र-शतसहस्र- -विक-
 ल्पना(ना-आ)दि- -दिभिः
 १आ १^{१०}; २आ ३^{१०}.
 वट-धान(न>)ना- -नाः महा ५,
 १३३.
 वट-पद- -टम् द ११.
 वट-फल- -लम् शि ६, ७.
 वट-बीज-सामान्य- -न्यम् वृ ४
 ९, ५.
 वटबीजसामान्य-वत् वृ ४
 ९, ५.
 वट-बीज-स्थ- -स्थः रार ५,
 ९; रापू २, ३; -स्थम् दत्ता १, २.
 वट-भाण्डीर- -रः कृ २४.
 वटा(ट-अ)धस(>) द ५.

a) तैश्चा १०, १, ६ । b) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । c) तु. गपू. वृ८७८ । d) वज्रो^१ इति निसा. ।
 e) तैश्चा १०, १, १० । f) मलो. कस. । g) कस. =योगसनविशेष- । h) ऋ १०, ८३, ६ । i) समाहारे द्वस. ।
 j) व्यु. ? =दाशारथिमन्त्रिविशेष- । k) शौ १०, ८, २७ । l) धा. अर्थः ? =वृत्तविशेष- । m) स्वार्थे ष्यञ् प्र. [पावा
 ५, १, १२४; (वैतु. राती. <वाटी- ? इति)] । n) °ढ्यैः इति सात. यनि. शोषः द्र. । o) निसा., आन. (तु. नादी.),
 अख्या. च यनि. शोषः द्र. ।

वटाघः-कृत-नीड- -डम्
द १०.
वटा(ट-अ)श्चत्थ-मूल- -ले
तारा ८३: १३.
वटक^a- -कान् वृजा ३, २९.
वा(टक>)टिका^r- -का: सार २८१:
११.
व(<>^b)टु^o-
वटु-क^r- -क: वटु ३१३: ३-१०;
३१४: १-२३; ३१७: १; ९;
१९; व ४३०: २०; वपू २, ४;
-कम् वटु ३१७: १३; पी ४२२:
६; -काय व ४३०: २१.
वटुके(क-ई)श्चर- -र: वटु ३१५:
१४^r; ३१६: १७; १९.
वटुको(क-उ)पनिषद्^r- -षदम्
वटु ३१८: ३.
श्वड(व>)वा^d- -वा वृ १, ४, ४;
सुभा २.
रव(<>^b)ड(व<>^b)वा^r^o-
वाडव- -व: पित्र १, १२९^r;
-वम् महा ३, ५२.
वडवा(व-अ)भि- -भि: योशि ५, ३०.
वडवा(व-अ)नल- -लम् व ४३०:
१९.
वडवानल-दुर्गा- -मृत्यु- -त्यो:
वपं ३१२: २२.
√वण्(शब्दे)
वा(णि>)णी- -णी सी ३२; रुह
१८; सर ३, ९; -णीम् रार १, ७;
रापू ५, ३; सर १, ४; काम २;
-ण्या सार २३२: २२.
वाणिज^o-
वाणिज्या^o- -ज्ये शि ७, ११९.

वाणिज्या(ज्य-आ)दि- -दिना
सु २, १, १.
वत =वत गपू.
?वत्वम्^o छाग २३: ६; ८.
श्वत्स^h- -त्स ब्रवि ५५; ५७; अन्न
१, १०; २प्र ३४: १५; -त्स:
छां ३, १५, २; वृ ५, ८, १; मना
२, ३८९^r; वृजा ३, ३; २प्र ३५:
४; -त्सम् छां ३, १५, २^r; वृ १,
५, २; -त्साय सांसू २, ३७.
वत्स-तर- -रा: सार २५०: २०.
वत्स-वत्सतरी-सहित- -ता: सार
२७४: २०.
वत्स-विवृद्धि-निमित्त- -त्तम् सांका
५७.
वत्स-ही(न>)ना- -नाम् वृजा ३, १.
रवत्स^h-
वात्स्य^r- -त्स्य:, -त्स्यात् वृ २,
६, ३; ४, ६, ३; ६, ५, ४.
वात्सी-
वात्सी-पुत्र- -त्र:, -त्रात्
वृ ६, ५, २.
वत्स-नपात्^r- -पात्, -पात: वृ २,
६, ३; ४, ६, ३.
श्वत्स^h-
वत्स-राज^r-
वत्सराजा(ज-आ)दि- -दिभि:
योरा ४.
वत्सर^h- -र: त्रिवि ३, ४; ए ११;
-रम् मैत्रि ६, १४; ते ६, १८;
-रात् जाद ६, ११.
वत्सर-शत- -तम् त्रिवि ३, ४^r.
√वद्, >वादि, वदति छां १, २, ३;
७, १७, १^r; वृ १, ३, २^r; ४, १४^r;

५, १८; ४, ३, २६^r; ४, २; गर्भे
१; मै ५, ६^r; कौ २, १३^r;^o
वृजा १, १; वृपू १, १; २, १७^o;
ते ५, ४५; त्रिवि १, ५; रापू १,
१२; अध्या ५९; वदन्ति के १,
१; क १, २, १५: ३, १; १४; सुं १,
१, ४; छां २, २४, १; खे १, १;
२, १३; ४, ९; ६, १; मैत्रि ७, ९;
मना २, ७९^r;^o अशि ५, १४;
नाप ५, १; सी ८; दे ५^o;^o सर २,
६^o;^o नापू ५, ३३^o;^o वदन्ती ३
वृ ६, २, २; वदन्तितराम् सार
२१९: ५; वदसि भवर, ३३; गी १,
१४; वदामि अन्न १, १८; सुं १, १,
७; सार २९०: १२; गु ६; वदाम:
छां १, ८, १; वदताम् छां १, ८, २;
वदस्व वि ४; वद क १, २, १४;
तै १, ११, १; वृ ३, ९, १०-१७;
२३; महा २, १५; योशि १, १; सर
१, १; सुं १, १, ६; सूता ३, ५^r;^r सार
२१९: ३; गी ३, २; वद-वद वपं
३११: ३; व ४३६: २; ४४४:
१; ४५७: ५; वदाम वृजा १, १;
अवदत् वृजा ६, १; अवद: छां
५, ३, ५; ७; वदेत् सुं ३, २,
१०; वदेत् छां ५, ११, ६; वृ ४,
३, २६; ३१; जा ४^o; ब्रवि ७८;
नाप ३, ४३^r; द २; रार २, ३०;
सुद्र ४; महा ५, १०५; १संन्या
२, ७; वदेयु: २प्र ३३: २२^r;
वदेम मना २, ४१^o;^o
ऊदिरे आषो^o ७: २१^o;^o वदिव्यन्ति
भव १, ५७; गी २, ३६; वदिव्ये
वृ ४, ३, १; वदिव्यामि तै शां^o;^o

a) क्वुञ् प्र. (पाठ २, ३७)। b) प्रादेशिकोच्चारणभेदमात्रत्वेन निर्देशः। c) व्यु. ? =पार्श्वविशेष-।
d) व्यु. ? =घोटिका-। e) व्यु. ? =जलाम्नि-। f) वैपश् यद्र.। g) पा. ? (√वृ) 'वृत्त्य' इति वा 'वृत्त्वा' इति वा शोधः
स्यात्। h) वैपश् यद्र.। इह =दिशु-, प्रिय- प्रमृ.। i) तैत्र्या १०, ४८, १। j) =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-। वैपश् यद्र.।
k) व्यु. ? =द्वित्रियविशेष-> =तद्देश-। l) 'चरति' इति मैत्रि ६, ६। m) सकृत् 'वलसि' इति निसा. पा. अष्टः। n) ऋ
१, ४०, ५। o) तैत्र्या १०, ६३, १^r। p) ऋ ८, १००, ११। q) ऋ १, १६४, ४५। r) पा. ? 'वेद' इति शोधः द्र.।
s) 'विन्देत्' इति आन., अज्या.। t) तैत्र्या १०, ३९, १। u) 'धूदिरे' इति पा. ? यनि. शोधः द्र.। v) तैत्र्या ७, १, १^r।

ऐ शां^{१०}; वृ १, ५, २१; कौ
नाद आबो निर्वा सुद्र अत्त सौ
सर व शां^{१०}; १कौल शां^{१०};
अवादिषम् तै १, १२, १^{१०}.
वावदिषत् ऐ ३, १३.
वादयेत् ह १७^{१०}; व ४४३ :
२३.
रउदित,ता- -तः गौ ३,३; महा
५, १७; जाद ७,३; -तम् वृजा
४, १; त्रिता १, ४१; व४६२: २०.
वदत्- -दत् कौ २, १४^{१०}; -दत्तः कशु
२, १; -दति मैत्रि ६, २२; -दतो:
छां १, ८, २; -दन् वृ १, ४, ७, ४, ३,
२६; -दन्तः छां ५, १, १-११; वृ
६, १, ९-१२; स्व ६१: १९;
कशु २, १^{१०}; -दन्तम् वृ १, ४,
१४^{१०}.
वदन्ती- -न्ती ह १५; सर २,
४; -न्तीम् कौ ३, २^{१०}; -न्त्यः
सार २३२: १९.
वदन^{११}- -नम् शारी १; -ने व
४५६: २०; -नेन वरा ५, २३;
-नैः गौ ११, ३०.
वदिष्यत्- -ष्यतः नी ३, ५.
वाद- -दः गौ १, १८; गौ १०,
३२^{१०}; -दाः गौ २, २४^{१०}; -दे
शि ७, ६६^{१०}.
वाद-विद्- -विदः गौ २, २४.
वादयत्- -यन् राधा २, ९.
वादित्र^{१२}-
वादित्र-वज-वाहक- -कान्

शि ६, १७३.
वादित्र-वादिन्- -दिनः व ४.
वादिन्- -दिनः गौ ३, २०; ४, ३;
६; महा ५, २२; वरा १, १; गौ
२, ४२.
वादि-विप्रतिपत्ति- -त्तेः सांस्
१, १११.
वाद्य^{१३}-
वाद्या(द्य-त्रा)रम्भो(म्भ-उ)-
पचार- -रेण शि ६, १५३.
वाद्यमा(न>)ना- -नायै वृ २, ४,
९; ४, ५, १०.
व(द्रि>)दृष्टी^{१४}- -क्षीभिः आर्षे ७. ५.
√वध्^{१५}वधीत् व४४०: १२; ४४५:
१८; ४५०: १७; ४५४: २;
वधीः श्वे ४, २२^{१०}; मना २,
५१^{१०}; ५२^{१०}; ५३^{१०}; श ५;
२शिसं २८^{१०}; २९^{१०}.
वध्यते इ १०: १५; भव २, ५.
वध- -धाः सांका ४९; -धाय भ १,
६^{१०}; -धेन छां ८, १, ५; १०, २; ४.
वध-बन्ध- -न्धौ भव ४, १६.
विधाशङ्कम्^{१६} वृ ४, १, ३.
श्च(धु>)धू^{१७}- -धूम व ४६२: १५.
रश्च(धु>)धू^{१८}- -धूः तारा ८३: १४;
-धूम तारा ८३: ३.
विधूकुर्चशोषणदहनप्रोत्सारणा-
मृतीकृतिः^{१९} तारा ८३: १७.
√वन्(बधा.)
वन्^{२०}- -नम् के ४, ६^{१०}; सुवा ४; नाप
५, १५; रार २, १२; कुं ६; ७;

सार २२२: १५; २३२: १४
२८९: ८; शि ६, ११४; -ना
जा ४; नाप ३, ७७; पप ४१८
४; या १, १; भव १, २; -नानाम
मना २, १२, १९^{१०}; २, ४०^{१०}
सार २६०: ३; ९^{१०}व ४४२: २०
४४८: ३; ४५२: १०; -नामि
मन्म १, ९^{१०}; गोउ २४; राघ
३, २^{१०}; ७; सार २२१: ११; २३३
१४; २५८: १९; २६०: २
२६६: ३; २८५: २१; वपू १
१; वउ ३, २२; -ने वृजा ३, ३४
ते ६, ९८; नाप ३, ८६; जाद ५
४; कृ७; गोउ २४; सार २२१
२२; २२७: २२; २३२: २०
२४३: १६; २४६: ६; २८९
११; शि २, २०; ७, ९५; ९६
१कौल ८: ४; २कौल १४
-नेभ्यः मना २, ७६^{१०}; -नेषु ना
६, २; गोउ २६; सार २३३
१६; २६०: २; २७५: २३.
वन-गत-गज-सिंहे(ह-इ)न्द्र-
-न्द्र लां २१५: १३.
वन-त्रि-वेदी- -दि व
४३६: २३^{१०}.
वन-दुर्गा- -र्गा व ४२६: :
-०र्गे व ४३६: २३.
वनदुर्गा-प्रसाद-सिद्धय-
(द्रि-अ)र्थ- -र्थे व ४२६: :
वन-पु(त्रक>)त्रिका^{२१}- -क
१संन्या २, ५४.

a) ऐआ २, ७, १^१। b) तैआ ७, १२, १^१। c) तैआ ७, १२, १^१। d) 'वादये' इति पा.१ यनि. शोधः द्र. [तु. निसा. नाउ., 'वादय' इति मंत्रा. (१, ७, १५) च]। e) °तीम् इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. आन., अज्या., शांआ ५, २) f) =सुख-। g) व्यु. ? =वरत्रा-। h) ऋ १, ३४, ६। i) 'अवधीः' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. ऋ १, ११४, ८) j) तैआ ३, १५, १। k) ऋ १, ११४, ७। l) ऋ १, ११४, ८। m) पा.१ वधा(ध-अ)श(ङ्क>)ङ्का- इत्यस्य किवि. इति कृत्वा श्रुतौ न. द्वि १ स्यात्। यद्वा °ङ्का (प्र १) इत्येव पा. स्यात् (तु. माशज्जा १४, ६, १०, ३)। अपि वा °ङ्क-> -ङ्कः इति कर्तरि कृतः श्रुतिः स्यात्। अथापि वा °धा(ध-अ)सङ्क-> -ङ्कः इति पदं स्यात्। सर्वथापि नम्भण्यायां श्रुतौ तात्प. द्र. [वैतु. शं. प्रमृ. उप. आवाङ्का- इति पश्यन्त आङ्मध्यत्ववादिनः (एतदनु वैप २, ८७७ इत्यत्र यथावच् शोध द्र.)]। n) वैप १ यद्र.। o) व्यु. ? =त्री-बीजाक्षर-। p) पा.१। q) ऋ ९, ९६, ६। r) ऋ १०, ८९, ५। s) ऋ १, १। t) °रन्नि° इति पा.१ यनि. शोधः द्र.।

वन-प्रस्थ^०-

वानप्रस्थ^०-स्थः आरु २;
काला १८; ब्रवि ४९; नाप ३,
७७; वा ९; पप ४१८:७; जावा
२६; गोच ६६:१२; स ३७९:
२१; -स्थम् कुं ६; -स्थाः आश्र
३; -स्थेन वृजा ८, ६; वृपू ५, १९.

वानप्रस्थ-गृहस्थ-
-स्थाभ्याम् नाप ५, १९.

वानप्रस्थ-धर्म- -र्मम्
नाप १^५.

वानप्रस्थ-शत- -तम्
वृजा ८, ६; वृपू ५, १९.

वानप्रस्था(स्थ-आ)श्रम-
-मम् नाप १^३; १संन्या २, १३;
-मे निर्वा २९८: १६.

वानप्रस्थै(स्थ-ए)का-
(क-आ)धिक-शत- -तम् वउ
५, २३.

वन-फल-तृणौ(ण-ओ)पधि-
-धीः सार २७६: १६.

वन-भार- -राः कृपु १२.

वन-मार्ग- -र्णेण कुं ३.

वन-माला^३- -ल्या सार २६५:
२०; -लायै त्रिवि ७, ४२.

वनमालिन्- -लिनम् नापू
४, २३; गोपू ८.

वन-लीला- -लाम् सार २८७:
७; -लायाम् सार २२९: १२;
२४९: ४.

वनलीला(ला-आ)सक्त-
-क्ताः सार २५१: ६.

वन-वासिन्- -सिनः कृ १.

वन-विहार- -रे सार २७८: ५^२.

वनविहार-लीला- -ला सार
२३६: २३.

वनविहार-स्थान- -नम्

सार २७८: १३.

वन-वैकुण्ठ- -ण्ठम् कृ ९.

वन-स्थ,स्था- -स्थः नाप २:
भव २, २६; ३४; -स्थानाम् वृजा
५, ६; -स्थाम् रापू ४, १७.

वन-स्थान-(ज्ञ->)ज्ञा^१- -ज्ञा
सार २६३: ४.

वना(न-अ)न्तर- -रम् मैत्रे २,
१५.

वना(न-अ)रण्य- -ण्ये म ४८:
१२.

वना(न-अ)वनि-विहार- -रेण
अक्षि १७.

वनिन्- -नी जा ४^३; नाप ३,
७७; पप ४१८: ४; या १, १.

वनो(न-उ)पेत- -तम् शि ६,
१०८; १०९.

वनौ(न-ओ)षधि- -धीनाम् सी
१५.

वन्य-

वन्य-स्रज्-

वन्यस्रग्-विन्- -वी

राधा ३, ११.

वनि(त->)ता-

वनिता(ता-आ)दि- -दिषु रार
४, २.

वनिता-हत- -तः महा ६, २३.

वनस्पति^८- -तयः तै १, ७, ११; वृ
१, १, १; सार २२४: ९; गु १७;
पिब्र १, १०^३; १^५; -तिः वृ ३,
९, २८; १; ६, ३, ६९^०; मना २,
३९९^०; -तिषु श्वे २, १७; अशि
६, ४; -तीन् वृ ३, २, १३; नाप
६, ३५; -तीनाम् नी २, २२९^०;
-तेः मना २, ४५९^०.

√वन्द, वन्दे गौ ४, १; रापू ५, ८; व
४३३: ६; ८; ४५५: २०; ४५६:

१; १८; वन्देत् शि ७, ९२.

वन्दन- -नम् नाप ३, ८६.

√वन्दमान- -नः व ४४०: २३;
४४६: ५; ४५१: २; ४५४: ९.

वन्दित- -तः नाप ३, १९; -तम्
सार २२७: १; ४^२.

वन्द्य- -न्द्यः गौ १, २२; ब्रवि १०^५;
कालि ४०२: २२; वउ २, १३;
-न्द्याः ते १, ४४.

वन्द्यमा(न->)ना- -ना सी ३७.

व(न्ध्य^१>)न्ध्या- -न्ध्या मैत्रि ७, ९;
ते ६, ९१.

वन्ध्या-कुमार-वचन- -ने ते ६,
७३.

वन्ध्या-पुत्र- -त्रः गौ ३, २८.

वन्ध्या-सुत- -तः योशि ४, १८.

√वप्(*बधा.), >वापि, वापयेत् नाप
४, ३८; कुरु १; शा २०; कथु २, ३.

उस- -सम् इ १३: ९; शि ६, ४१.

वपन- -नम् ब्र २; नाप ३, ७७; पत्र
३, १.

वप्त्- -सा इ १३: ९.

वापयित्वा भ २, २१.

वपा^{१०}- -पा निरु २, १.

वपुस्^{११}- -पुः ते ६, ५१; ध्या ४८;
८९; ९०; पदं २; महा ३, १५;
५, ४८; ४९; १४५; १५२;
१५४; १५८; योशि २, १४;
५, २८; अन्न ५, २९; अध्या ६;
१अव २४; वरा २, ६६; -पुषः
त्रिब्रा २, १०५; -पुषा योचू ८७;
सु २९४: ३.

वपुस्- -पुः ते ६, ५१; ध्या ४८;
८९; ९०; पदं २; महा ३, १५;
५, ४८; ४९; १४५; १५२;
१५४; १५८; योशि २, १४;
५, २८; अन्न ५, २९; अध्या ६;
१अव २४; वरा २, ६६; -पुषः
त्रिब्रा २, १०५; -पुषा योचू ८७;
सु २९४: ३.

वपुस्- -पुः ते ६, ५१; ध्या ४८;
८९; ९०; पदं २; महा ३, १५;
५, ४८; ४९; १४५; १५२;
१५४; १५८; योशि २, १४;
५, २८; अन्न ५, २९; अध्या ६;
१अव २४; वरा २, ६६; -पुषः
त्रिब्रा २, १०५; -पुषा योचू ८७;
सु २९४: ३.

वपुस्- -पुः ते ६, ५१; ध्या ४८;
८९; ९०; पदं २; महा ३, १५;
५, ४८; ४९; १४५; १५२;
१५४; १५८; योशि २, १४;
५, २८; अन्न ५, २९; अध्या ६;
१अव २४; वरा २, ६६; -पुषः
त्रिब्रा २, १०५; -पुषा योचू ८७;
सु २९४: ३.

वपुस्-गृह- -हे भव २, २१.

√वम्(*बधा.)

वमन^१-

वमना(न-अ)न्न- -न्नम् नाप ५,
१^३; १संन्या २, १३; पप ४१८: ३.

a) चतुर्विधवा^० इति अञ्ज्या. । b) वैप१ यद्र. । c) ऋ १, ९०, ८ । d) 'वनस्पतीन्' इति मा १३, ७ ।

e) तैआ ३, ७, १४, ५ । f) ऋ १, २४, ११ । g) 'बन्धः' इति आन. । h) व्यु. ? = प्रसवरहित- । i) = शरीर- ।
वैप१ यद्र. । j) भाप. = उद्वरण- ।

वमना(न-आ)हार-
 वमनाहार-वत् मैत्रे २, १८.
 र्वमन^१- -नम् इ १५: १८.
 वयम् अस्मद्- द्र.
 श्वयस्^२- -यः नाप ४, २; व ४६६६:
 १४९^३; -यसा श्वां १, ७, १३;
 -यसि छां ३, १६, २; ४; ६.
 वय-स्थैर्यै- -यैम् कामे १७.
 वयस्थैर्यै-कर- -रः षो १८.
 वयो-गत- -तः ऐ ४, ४.
 वयो-वृद्ध- -द्धाः मैत्रे २, २४.
 र्वयस्^४- -यांसि प्र ४, ७; मुं २, १,
 ७; छां २, ९, ४; २१, १; ७, २, १;
 ७-८, १; १०, १; वृ १, ४, १६;
 ३, ९, २५.
 वयुन^५- -ऽनानि ई १८; वृ ५, १५, १.
 वयुन-प्र(द>)दा- -दाम् तुल ७०: ७
 वयु(न>)ना-विद्- -वित् श्वे २,
 ४९^६.
 श्वर- √वृ (वरणे) द्र.
 र्वर- √वृ (आच्छादने) द्र.
 र्-द्वर- √वृ (*बधा.) द्र.
 श्वरण- √वृ (वरणे) द्र.
 र्वरण- √वृ (आच्छादने) द्र.
 र्वरण(ण>)णा^७- -णा जा २^१; ९^{१५};
 राज ३, १^१; ९^{१५}; -णायाम् जा २;
 राज ३, १.
 वरणा(णा-अ)सी-
 वाराण(स>)सी^८- -सी जाद ४,
 ४८^१; -स्याम् वृजा ७, ७; योशि
 ६, ४२; प्रा ४, १; शि ६, १८९.

वाराणस्या(सी-आ)दिक- -के
 जाद ४, ५५.
 वरणीय- √वृ(वरणे) द्र.
 वरतन्तु- √वृ (*बधा.) द्र.
 वरत्र- √वृ(वरणे) द्र.
 वरत्रा^९- -त्राभिः आर्षे ७: ५.
 वर(त्रक>)त्रिका- -का छाग २५:
 २०^१.
 ?वाराकृतप्राप्तिः^{१०} आपू ३.
 वराह^{११}- -हः छां ६, ९, ३; १०, २; ए
 ६; नापू ५, ६; पा ६, ४; -हेण मना
 १, ८९^{१२}; य ५९^{१३}; सु २९३: ५.
 वाराह- -हम् रार १, ७; ३,
 १^{१४}; रापू ४, ५५.
 वाराही^{१५}- -०हि व ४३१:
 १८; ४५३: १०; ४५८: ११; -ही
 भा ३; व २०; कालि ४०१: १०;
 पी ४२२: १०; व ४५८: ५; श्या
 १३; सुसु १३; -ह्यै व ४३१: ५.
 वाराही-शक्ति- -क्तिः
 आथ ३९४: ६.
 वाराह्या(ही-आ)दि-
 भेदि(न्>)नी- -०नि व ४३६:
 २३.
 वाराह-बीज- -जम् रार ३, १
 वाराह-रूप-
 वाराहरूपिन्- -पिणि
 वरा २, २३.
 वराह-क^{१६}- -कम् सु १, १, ३८.
 वराह-बीज-युक्त- -क्तम् त्रिवि ७,
 ३७.

वराह-रूप-
 वराहरूपिन्- -पिणम् वरा १,
 १६; -पी वरा १, १^{१७}; क ६४: १४.
 वराहा(ह-अ)वतार- -राथ नापू ५, ९
 वरिष्ठ- √वृ (*बधा.) द्र.
 ?वरिष्ठा^{१८} मना २, ७९.
 श्वरुण^{१९}- -०ण व ४४०: १६^१; २२;
 २३^{१२}; ४४६: ४९^{१३}; ६९^{१४}; ४५१:
 १; २^{१५}; ४५४: ८^{१६}; ९^{१७}; -णः
 तै श्वां^{१८}; १, १२, १^{१९}; छां
 १, १२, ५; वृ १, ४, ११; ३, ९,
 १६; २२; मै ४, ४, १२; मैत्रि ५,
 १; ७, ४; मना १, १२^{२०}; १३^{२१};
 १४^{२२}; १५^{२३}; वृपू २, १^{२४};
 सुबा ५, ६; रापू ४, ३८; ए ११;
 १२; सावि^{२५}; जाद ४, ३६; ३७;
 अस्ता १^{२६}; २^{२७}; व ४४०: १५;
 १६; ४४५: २०; ४६०: १^{२८};
 ४६१: ३^{२९}; ४६४: २०^{३०};
 विद्या श्वां^{३१}; वज ४, १६; ऋसू ४,
 ३, ३; गी १०, २९; ११, ३९;
 -णम् तै ३, १-५, १; मना १,
 १२^{३२}; सुबा ९^{३३}; -णस्य छां २,
 २२, १; -णाय मना १, १२^{३४};
 त्रिवि ७, ४७; गोड ६६; सूता
 ४, ४; -णे सुबा ५; -णेन छां ३,
 ८, १; ३.
 वारुण- -णः अना ३१; -णम्
 छां २, २२, १; मैत्रि ६, १४^{३५}; शि
 ५, १५; ३१; ३२; -णात् शि ५,
 १३; -णे १योत् ८९; व ४३०: १७.

a) अर्थः? =नाप. । b) व्यु. ? =आयुस्- । c) ऋ ९, ९४, ४ । d) व्यु. ? =पत्तिन्- । e) नाप. । वैप १ यद्र. । f) ऋ १, १८९, १ । g) ऋ ५, ८१, १ । h) व्यु. ? =नदीविशेष- । i) शैषिकोऽण् प्र. (तु. पा ४, २, ७०) । ततः नैप्र. यनि. । j) °सीम् इति अश्या. । k) वैप १ यद्र. । l) °र(रु) इति बे. । m) पा. ? 'पराऽमृतप्राप्ति- > -सिः' इति शोधः द्र. [तु. सं. (२, २, ५) 'अपाराऽमृतवृत्तिः' इति पा.] । n) बप्रा. वैप १ यद्र. । इह =सूकर-, अवतार- विशेष-, बीजाक्षरविशेष-, तदाख्योपनिषद्विशेष- । o) तैआ १०, १, ८ । p) वरा^१ इति अश्या. । q) =देवीविशेष- । r) पा. ? 'सत्यो महस्वांस तपसां वरिष्ठः' इति पादः स्यात्? [वैतु. तैआ. (१०, ६३, १ °तमसोवरिष्टात् इति)] । s) ऋ १, २४, ११ । t) ऋ १, २५, १९ । u) ऋ १, ९०, ९ । v) तैआ १०, १, १२ । w) तैआ १०, १, १३^२ । x) तैआ १०, १, १४^३ । y) तैआ १०, १, १५ । z) ऋ १, ४०, ५ । a') ऋ १०, ८३, २ । b') ऋ १०, ८४, ७ । c') तु. गपू. ४६२६ ।

वारुणी^a- -०णि व ४३१:
 ४; १६; ४५०: २१; -णी तै ३,
 ६, १; व ४५८: ६; १५; १कौल
 शां^३; -णीम् नाद ७; -ण्याम् हं
 ८; शि २, १८; व ४४०: १५;
 ४४५: २०; ४५०: २०; -ण्यै
 मना १, १२९^b.
 वारुण-मूर्ति- -र्तिना शि ५,
 ३२.
 वारुण-ज्ञान- -नात् शि ५,
 १६.
 वरुण-दण्ड- -०ण्ड व ४३५: १२.
 वरुण-दिश- -दिशम् व ४२८: १४.
 वरुण-देव- -वेन रा ४२४: ८.
 वरुण-देव(ता)>त- -तः वृ ३, ९,
 २२.
 वरुण-द्वार- -रम् व ४२७: २३.
 वरुण-मण्डल- -लम् व ४४०: १६;
 १७.
 वरुण-लोक^३- -कम् कौ १, ३; म २,
 २५.
 वरुणलोक-काम- -मः म २,
 २५.
 वरुणलोक-ज्ञान- -नम् शां १,
 ७, ५२.
 वरुणा(ण-अ)ङ्क-गुणा(ण-अ)र्ण-
 -र्णम् पी ४२१: ९.
 वरुणा(ण-अ)दि- -दयः म २, २९.
 वरुणा(ण-अ)ल्य- -यम् शि २, १८
 २वरुण^{१०}-
 वारुणि^१- -णिः तै ३, १, १.
 ३वरु(ण>)णा^{११d}- -णा मा १३^०;
 जाद ४, ७; १६; ३६.
 वारु(ण>)णा- -णा वरा ५, २४.
 वारु(ण>)णी^{११d}- -णी शां १, ४^१;

योशि ५, २६.
 वरुथ- √वृ(आच्छादने) द्र.
 वरेण्य- √वृ(वरणे) द्र.
 १वर्ग^a- -र्गाः २प्र ३४: १२; -र्गौ
 २प्र ३६: १; २.
 वर्गा(र्ग-अ)ष्टक- -कम् रापू ४, ४५.
 २वर्ग- √वृज् द्र.
 √वर्च
 वर्चस्^१- -र्चसा २संन्या १७: ५९^१.
 वर्चो-दा- -दाः मना २, ७९^१.
 वर्जयित्वा, १-२वर्जित- √वृज् द्र.
 √वर्ण>वर्णि, वर्णयन्ति त्रिवि ६, १;
 सूता १, ७; ३, १३; वर्णयामि
 सार २३७: १; २८०: २२; वर्णय
 सार २३०: २१; २५८: ४; २८०:
 १४; २९०: ३.
 वर्ण्यते यो ३, १; सार २३४:
 १७; २५३: ८; २५९: १६;
 वर्ण्यन्ते त्रिवा २, ३५^१.
 १वर्ण^१- -र्णः तै १, २, १; २प्र ३४:
 ९; सूता २, १६^१; वपू ३, १;
 -र्णम् त्रिता २, २०; यो २, १८;
 १९; -र्णाः गौ४, ६०; योचू ७४;
 अक्ष १; -र्णान् धे ४, १; रार २,
 २२; रापू ४, ४५; -र्णानाम् २प्र
 ३५: २२; -र्णेन २प्र ३२: ९^३;
 -र्णैः त्रिवि ७, ४३; अक्ष ४.
 १वर्ण-क- -काः ब्रवि ६२; -कैः
 रार २, ८९.
 वर्ण-त्रया(य-अ)त्मक- -काः
 जाद ६, २.
 वर्ण-पद-वाक्या(क्य-अ)र्थ-
 स्वरूप- -पेण सर २, ३.
 वर्ण-प्रसाद- -दम् श्वे २, १३.
 १वर्णबीजकाथाः^१ सूता ६, ३.

वर्ण-लक्ष- -क्षम् रार २, १५;
 ३४; ४७.
 वर्ण-वाहन-कल्पना- -ना रापू
 १, ९.
 वर्णा(र्ण-अ)क्षर-पदा(द-अ)ङ्क-
 वर्णाक्षरपदाङ्क-शास्त्र(>):
 २प्र ३५: २१.
 वर्णा(र्ण-अ)त्मक- -काः शां १, ६.
 वर्णात्मिका- -कायै व
 ४३६: ३.
 वर्णा(र्ण-अ)दि- -दिम् ग ७^०.
 वर्णा(र्ण-अ)र्थ- -र्थम् वउद, ३३.
 वर्णन- -नम् सार २३६: २२;
 २६०: ३.
 वर्णयितुम् मै ४, ४, ९; मैत्रि ६, ३४;
 भव ३, ३१.
 वर्णित- -तः शु ३, ४; त्रिवि २, ५;
 -तम् योशि ५, १६; नाप ८, ४;
 २वर्ण^१- -र्णः २प्र ३५: ४; -र्णम् ध्या
 ९५; पं २; ८; १२; -र्णाः अना
 ३६; पं १; -र्णेन अशि ५, ९; ११;
 १२; १४; इ १९: १६; २प्र ३४:
 २०-२२; ३५: १.
 २वर्ण-क- -कैः शि ६, १२१; १४८.
 वर्णका(क-अ)न्वित- -तैः शि ६,
 १३६.
 वर्ण-रति-प्रमोद- -दान् क १, १, २८.
 वर्णिन्- -र्णी भव २, ३४.
 ३वर्ण^१- -र्णः तै ५, ३८; सार २३१: ५;
 गार ४०६: १०; -र्णम् वृ १, ४,
 १३; -र्णाः वसू २; नाप ६, १४;
 शां ३, १; पाशु २, २२; सार
 २८२: १; २९०: ४; भव २, ६३;
 पित्र ६, १२; -र्णान् नाप ६, १२;
 १३; १अव २; -र्णानाम् वसू २;

a) =देवीविशेष-, दिग्विशेष-, विद्याविशेष-, मात्राविशेष- । b) तैआ १०, १, १२ । c) व्यु. ? =ऋषि-
 विशेष- । d) व्यु. ? =नाडीविशेष- । e) वार^० इति तान्त्रि. । f) सकृत् °रुणा इति श्रद्धा., यनि. च बरुणा चेति
 श्रद्धा. संटि. । g) व्यु. ? । h) वैपश् यद्र. । i) शौ ७, ८७, २ । j) तैआ १०, ६३, १ । k) 'वर्ण्यते' इति श्रद्धा. यनि.
 शोषः द्र. (तु. निसा.) । l) =अक्षर- । m) तु. गपू. पृ२६a । n) पा. ? । o) °दीन्, °र्णान् इति श्रद्धा. संटि. ।
 p) व्यु. ? =शुक्रादि- । q) व्यु. ? =ब्राह्मणादि- ।

नाप ५, ८: शि ३, १०; -णोन
सार २५६: १९; २८२: २१;
-णेषु १संन्या१, १; पप४१९: ७;
कश्रु १, १.

वर्ण-भाज्- -भाक् भव २, ६४.

वर्ण-संकर- -र: गी १, ४१.

वर्णसंकर-कारक- -कै: गी १, ४३.

वर्ण-संज्ञा-कर- -रा: भव २, ६४.

वर्ण-हीन- -न: भव ५, २३.

वर्णा(र्ण-आ)दि-धर्म- -र्मम् मैत्रे
१, ४, १३.

वर्णा(र्ण-आ)न्तर- -र: सार २७९:
११.

वर्णा(र्ण-आ)श्रम^१- -मम्^१ मैत्रे १,
४, १४; -मेषु भव २, ६२.

वर्णाश्रम-धर्म- -र्मा: सार
२७८: ६; -र्मान् सार २३६: २;

वर्णाश्रम-धर्म-कर्म- -संकल्प-
-रूप: नि ३८.

वर्णाश्रम-धर्म-क्रम- -मम् पप
४१७: २.

वर्णाश्रम-विवर्जित- -त: नाप
४, ३६; -तम् वरा २, १३^b.

वर्णाश्रम-समन्वित- -तान् ब्रवि
२९.

वर्णाश्रम-स्व-धर्म- -र्मा: सार
२७६: ११.

वर्णाश्रमा(म-आ)चार- -र:
नाप ६, १२.

वर्णाश्रमाचार-युत- -ता:
मैत्रे १, ४, १३.

वर्णाश्रमाचार-विशेष- -षा:
पत्र २.

वर्णाश्रमा(म-आ)दि- -दय:

नाप ६, १०; -दीनाम् भव २, ६७.

वर्णाश्रमिन्- -मिणाम् पत्र २.

वर्णाश्रमो(म-उ)चित्त-धर्म-
-मै: सार २३१: १५.

४वर्ण^०-

वर्ण-देव- -वाय वृजा ३, १३.

१वर्णक- √वर्ण^१ द्र.

२वर्णक- , वर्णिन्- २वर्ण- द्र.

?वर्ण्यः^d मैत्रे १, ४, १.

वर्तन- , वर्तनी- , वर्तमान, वर्तयत्- ,
वर्तिव्यमाण- , वर्तुल- , वर्त्मन्-

√वृत् द्र.

वर्धन- , वर्धमान- , वर्धयित्वा

√वृध् द्र.

वर्मन्- -र्मणा शि ६, १३^{५४}.

वर्मा(र्म-आ)स्त्र^२-नति^३-संयुक्त^४-
-कम् रापू ४, ४९.

१वर्ष^e- -र्षणाम् वृजा ६, १; शि ६, ४;
६; -र्षाणि छां ४, १०, १; ८, ७,

३; ९, ३; १०, ४; ११, ३; शि
४, ३४; आश्र १.

वर्ष-कोटि- -टिम् शि ६, २८; ५३;
६२; १०२; २३२; २३५; २५३;

-टी: शि ६, ५५.

वर्ष-कोटि-द्वय- -यम् शि ४, ३५;
६, ८७.

वर्ष-कोट्य(टि-अ)ष्टक- -कम् शि
६, ५४; २४४.

वर्ष-गण- -णम् छां ४, ४, ५.

वर्ष-त्रय- -यम् यो २, ४२; -येण
यो २, ३५^h.

वर्ष-लक्ष- -क्षम् शि ६, ५; ७;
१५; १८; २६ⁱ; ५१; २३३;

२३६-२३८; २४६; -क्षाणि शि

६, ४८; २४२; -क्षान् शि ४,
४४.

वर्षलक्ष-फल-प्रद- -दा: शि
४, ४६.

वर्ष-लक्ष-चतुष्टय- -यम् शि ६,
२४०.

वर्ष-शत- -तम् छां ३, १६, ७;
जाद ६, २३; इ १०: ८; १९:

१९; -त्ते वृजा ६, २.

वर्ष-सहस्र- -स्त्राणि वृ ३, ८, १०;
पै ४, १५; महा २, ७६.

वर्षसहस्रा(स-आ)युस्- -यु: पै
४, १६.

२वर्ष^१- -र्षे नाद १२^k.

३वर्ष- , वर्षा- √वृष् द्र.

वर्षायस्- -यांस: छाग २४: ६; ७.
√वल्^१(^१वधा.), > वलि, वलन्ति महा
५, ७८^l.

^१वल्^m-

वल्-क^१-

वल्क-ल^१- -लम् १संन्या १,
१; कश्रु १, १.

वलयⁿ- -यम् वृष ८४: ११^३; १४;
१८; ८५: १; -या: सार २८१:

२०; -यानि वृष ८४: १०; १२;
१४; १७; १८; २१; ८५: १; ५;

सार २४४: २०.

वलि, ली^०- -लि: वरा ५, ४; -ली
१योत १२५.

वली-पलित- -नाश- -श: यो २,
२४.

व(⟨)व^pल्लग^०-

वल्लग-हन्- -हन: वपू १, ४; ६; ७.
√वल्गू, वल्गन्ति सु २, २, ४०^०;

a) समाहारे द्रस. । b) °मविलक्षणम् इति अब्ध्या. । c) व्यु: ? = १वरुण- । d) पा: ? 'अयं... भगवो जु, अयवर्णयत इति' इत्येकवाक्यतया शोध: द्र. (वैतु. उत्र.) । e) वैपश् यद्र. । f) १=हुं, २=फट्, ३=१नमस्- । g) व्यु: ? = संवत्सर- । h) °वर्षक्रमेण इति निसा. संटि. । i) °वर्षलोकम् इति पा: ? यनि. शोध: द्र. । j) व्यु: ? = भारतवर्ष- । k) जु. गपू. वृ७१०८ । l) 'वल्गन्ति' इति अब्ध्या. । m) धा. संवरणे वृत्ति: । n) धा. अर्थ: ? गिजन्तात् श: प्र. उसं. [पा ३, १, १३८ (वैतु. पाधामा. <वलि- इति)] । o) धा. अर्थ: ? । p) प्रादेशिकोच्चारण- भेदमात्रत्वेन निर्देश: । q) 'वलन्ति' इति JC. ।

वल्गात्-

वल्गात्-तृष्णा-गृहा(ह-अ)-
ङ्गण-गम् महा ३,२९.

व(लम>)ल्मी^{१०}-

वल्मीक-कात् वसू १३; -के वृ
४,४,७; वरा २, ६७.

वाल्मीक^{११}-कः वसू १३.

वल्मीक-ताडन-नात् वरा २,
४०.

√वल्ह्

व(ल्लि>)ल्ली^१-ल्ली रुह २२;

-ल्लीनाम् सार २८४:१२; वल्यः
सार २६७:१४.

वल्हभ,भा^०-भः सार २२६:११;

-भम् सार २२९:१८; -भा
सार २७१:६; २७८:४; -भाय
रार २,८६; गोपू ११^६.

वल्हभ-ता-तया सार २८५:६.

वल्ह(व^०>)वी-

वल्हवी-वदना(न-अ)म्भोज-

माला-

वल्हवीवदनाम्भोजमालिन्-

-लिने गोपू ४०^१.

√वश्(*बधा.),>वशि,उशन्ति

मैत्रि २,७; वष्टु सर २,३५^६.

वशय-वशय लां २१५:२२.

उशत्-शन् क १,१,१; पा ६,७.

उशती-ती सर २,२५^६; १५^६;

-ती: मना १,१२५^६; त्रि ३;

-तीम् लि ३११:१०^६.

उशन्ती-न्तीम्^१ पा ६,७.

वश-शः ऐ ५,२; महा ३,१९^६;

योशि १,६१; अज १,३७; शस्

क १,२,६; महा ४,३; काम ९;

व ४२९: ८; १३; १७; २२;

४३०:५; १०; ४३५:५; ४५९:

३; ४६०:१८५^६; गी ३,३४; ६,

२६; -शात् महा ५,३०; वरा ४,

६; गी २,८; -शानि पाशु १,२;

६; -शे प्र २, १३; शि ७, ६७;

गी २, ६१.

वश-का(म>)मा^१-मा सार

२६३:२.

वश-ग-गे महा ४,३.

वश-वर्ति(न्>)नी-नीम् रा

४२४:२३.

वशा(श-अ)नुग-गः मन्त्रि ६;

चू ६; -गाः मना २,६४५^६.

वशिन्-शी क २,२, १२; वृ

४,४, २२; खे ३,१८; ६, १२;

मना १, ९५^६; १४५^६; २, ५५५^६;

शां १,७,१; शा ३०; आर्षे ९:

१३; जाद ६, ८; गोपू १९; व

४६०:१८५^६; ४६४:१५^६; गी

५, १३.

वशिनी^{१०}-नी आथ

३९८: ६; गु ७०.

वशिन्या(नी-आ)दि-

शक्ति-क्तयः मा २२.

वशिन्या(नी-आ)द्य-

(दि-अ)ष्टक-कम् आथ

३९८:४.

वशित्व-

वशित्व-सिद्धि^{११}-द्धि:

आथ ३९३: ६; ३९७:१३.

वशी/कृ,वशीकरोति त्रिता ३,

२२; २४; वशीकुरु-वशीकुरु

दत्ता २; व ४५६:१०.

वशीकरण-

वशीकरण-बाण-णाय

व ४५७:३.

वशी-कार-रः योसू १,४०.

वशीकार-संज्ञा-ज्ञा

योसू १,५.

वशी-कृत्य नाप ६,१^१.

वश्य,श्या-श्यः योचू ११८;

शां १, ७, ६; भा २३; -श्यम्

योरा ११; व ४५७: ६; -श्या:

रा ४२४: १७; -श्यानि क १,

३,६; -श्याम् वृज ४,५; -श्याय

वपू २,५.

वश्य-कर--०र अक्ष ५.

वश्य-ता-ता योसू २,५५.

वश्य-मा(या>)य-

वश्यमाय-त्व-त्वम् सर

३,१५.

वश्या(श्य-आ)म्न-त्मना

गी ६,३६.

वश्या(श्य-आ)दि-

वश्यादि-क-कम् त्रिवि

७,४८.

वश(श्य>)श्या^{१२}-श्या पी ४२२:८.

वषट्^{१३} वपू २,४; शु १,१८^३; २,५^३;

ए ५; दत्ता २; गरु ३; लां २१३:

८; वपू २, २.

वषट्-कार-रः वृ ५, ८, १; मना

२,६८५^६; करु १^३; प्रा १,६५^६; कथु

२,२^३; -रम् वृ ५, ८, १; रार ३,

१; रापू ४, ५२.

√वस्(निवासे),>वासि,वसते त्रिवि

१९^{१४}; वसति क १,१,८; वृ ५,

१०,१; त्रिवि २०; २२; कौ ३, ३;

वा २७; योशि १,१३७; ६,६९^{१५};

त्रिता ४, २२; वरा ५, २३; पि ५^१;

पा ९, २; भव २, २१; अबि २०;

a) व्यु. ? = जन्तुविशेष-। b) = ऋषिविशेष-। c) व्यु. ?। d) °भ इति निसा.। e) व्यु. ? = गोप-। f) °वीनय^०

इति ग्रान.। g) ऋ १,३,१०। h) ऋ ५,४३,११। i) ऋ १०,७१,४। j) ऋ १०,९,२। k) °शन्ती इति पा. ?

यनि. शोधः द्र.। l) = आक्रोशन्तीम् (तु. पाटी.) ?। m) 'यशः' इति अश्या. संटि.। n) ऋ १०,८४,३। o) तैश्चाश्या

१०,६४। p) ऋ १०,१५२,२। q) ऋ १०,१९०,२। r) = देवीविशेष-, शक्तिविशेष-। s) स्वव^० इति अश्या.।

t) व्यु. ? = देवीविशेष-। u) अव्य. वैपश् यद्र.। v) तैश्चा १०,३१,१। w) 'बहते' इति अश्या. संटि.। x) °ते इति अश्या.।

२२; वसतः कौ३, ३; वसन्ति
वृ ६, २, १५; त्रि ७; भव २, ५४;
वसामि सार २७८ : ३; वसन्तु
छां ५, ११, ५; वस छां ५, ३, ७;
६, १, १; ८, ९, ३; १०, ४; ११, ३;
सार २७८ : ४; हंषो ५; अवसत्
महा २, २३; अवसन् पित्र १, ५;
अवसाम वृ ३, ७, १; वसेत् कौ
२, १५^b; मैत्रे १, ४, १४; २, ३;
११; ते ४, ३१; सुबा १३; ध्या
८८; नाप ३, १३; २१; २५; २६;
२७; ४, १४; १५^c; २०; ५, १^d;
३४; ६, १^d; २६; ७^d; स्क १२;
योशि ६, ६९; १संन्या १, १^d; २,
९३; अध्या २५^b; कुं २८; यो
२, १७; शा ६; २०; २१; २८;
तुल ७१ : २; पा ८, ८; शि ४,
३५; ६, ६४; १०२; २११; २७०;
२७३; ७, ८६; कश्रु १, १; वसेयुः
मि ६^e.
उवास छां १, १०, १; ४, २, ५;
१०, १; ८, ९, ३; १०, ४; ११, ३^d;
वृ ६, २, ७; ८; ऊषुतुः छां ८, ७,
३; ऊषुः वृ ५, २, १; छाग २४;
१७; वत्स्यथ छाग २४ : १७;
वत्स्यामि छां ४, ४, ३; वत्स्यावः
वृ ६, २, ४; अवात्सीः क १, १,
९; अवास्तम् छां ८, ७, ३^d;
अवात्त छाग २४ : १८.
वासयते वृ १, ४, १६; वासयति
नृपू २, ८; ९; वासयन्ति छां ३,
१६, १; वासयसि अक्ष १५^e.
उषित- -तः नाद १४^f; -तानि
निह १, १६.
उषित्वा छां ५, १०, ५; वृ ५, २, १;
सुबा १; गोड १; गी ६, ४१.

वसत्- -सन् पा ३, ३; -सन्तः आश्र
३; ४; -सन्तम् छां ४, ३, ६; म
२, २५^g.
वसति, ती- -तिम् वृ ६, २, ३; -तौ
तै ३, १०, १; -त्या वृ ६, २, ३.
वसती-व(त् >)री^h- -रीः शौ
५२ : १४.
वास- -सः निर्वा २९८ : ३; वरा
२, ३९; पा ७, ७; ह २८; गी १,
४४; -सम् सार २८९ : १०.
१वासन- -नात् नाप ६, ८; नाड १, ९
१वासस्-
वासो-वृक्ष- -क्षम् प्र ४, ७.
१वासित- -तम् नाड १, ९.
वासिन्- -सिने द ११.
वास्तु^h-
वास्तु-विद्या-विनिर्मित- -तम्
शि ४, २१.
वास्तु-वेद^h- -दः सी ३०.

√वस्(आच्छादने)
वसन^h- -नम् वृजा ३, ३३; ४, १;
-नेन छां ८, ८, ५.
वसना(न-अ)न्त- -न्तेन कौ २,
१५ⁱ.
वसान- -नाः व ४६६ : १५^j.
वस्त्र^h- -स्त्रम् नाप ३, ८६; ४, ३८^k;
५, १^d; ७; १संन्या २, ६; ७९;
पप ४१८ : २३; भा ३२; शि ६,
२७८; ७, १२; ५०; कश्रु १, १;
-स्त्राणि सार २२३ : ११; २८४;
६; २८७; ३; शि ६, १४७; -स्त्रेण
यो २, ३२; -स्त्रैः सार २३३ : १७.
वस्त्र-तन्तु- -न्तानाम् शि ६,
२५७.
वस्त्र-पर्णा(र्ण-आ)दि-
कल्पित- -तम् शि ६, २७२.

वस्त्र-पूत- -तम् शि ६, ३६; भव
५, १०.
वस्त्र-व(त् >)ती^l- -त्या सार
२२३ : ११.
वस्त्र-शय्या(ध्या-आ)सन^k-
-नम् शि ७, २७.
वस्त्र-सुगन्ध-भेद-(ज्ञ >)-
ज्ञा^l- -ज्ञा सार २६३ : ८.
वस्त्र-सूत्रा(त्र-आ)द्य- -द्यैः शि
६, २७४.
वस्त्रा(स्त्र-आ)दि- -दीनाम्
१संन्या २, ९५.
वस्त्रा(स्त्र-आ)भरणा(ण-आ)द्यु-
(दि-उ)पचार- -रैः त्रिवि ५,
१२.
वस्त्रा(स्त्र-आ)लंकरण- -णैः सार
२३० : ११; २५४ : ४.
वस्त्रा(स्त्र-आ)लंकार-भूषण- -णैः
सार २४३ : १.
वस्त्रा(स्त्र-आ)लंकार-महाशङ्ख-
माला- -लया तारा ८४ : ५.
वस्त्रा(स्त्र-आ)लंकार-संयुक्त-
-क्ताः सार २३७ : १९.
२वासस्^h- -ससः छां ५, २, २^d; वृ
२, ३, ६; ६, १, १४^d; म२, २; शा
७; -ससा कौ२, १५; -सांसि तै १,
४, २; व ४६६ : ११^d; शि ७,
५०; भव २, ३८; गी २, २२.
वासो-ह(स्त >)स्ता- -स्ताः
कौ १, ४.
१वास्य- -स्यम् ई १.
√वस्(गन्धे) > वासि, वासयति सार
२२२ : १५; वास्यति लु १९^m.
२वासित- -तम् १यत् ३४.
वासिता(त-अ)न्त(र >)रा- -रा
महा ४, १०८.

a) 'वसेत्' इति अख्या. । b) 'भवेत्' इति अख्या. संटि. । c) 'वसेत्' इति अख्या. । d) सकृत् °स्व इति आन., 'अवात्तम्', °वात्स्व इति BCH. । e) 'वाससि' इत्यपि निसा. पाप्मे. । f) 'भोषितः' इति आन., jC. । g) °न्तः इति अख्या. संटि. । h) वैपश् यद्र. । i) °नात्तनुं इति अख्या., °न्तनुवा, °न्तनवा चेति अख्या. संटि. । j) ऋ ९, ९४, ४ । k) समाहारे द्वस. । l) तैश्चा ७, ४, २ । m) 'वास्यन्ति' इति आन., 'पश्यति' इति अख्या. ।

√वस् (*बधा.) > वासि
 वसन्त^{१०} -न्तः छां २, ५, १; १६,
 १; मैत्रि ६, ३३; ७, १; सार
 २२९ : १; ३; ४; ११; -न्तम्
 २प्र ३२ : ११; सार २२९ : ३;
 -न्तस्य सार २२९ : १५; -न्ते
 कृ १; सार २६७ : १४; कश्चु
 २, ३.
 वसन्त-ऋतु- -तुः सार २२८ :
 २३.
 वसन्तऋतु-सेवित- -तानि
 राधा ३, ७.
 वसन्त-काल- -लम् मुद्र २.
 वसन्त-नव-रात्रि- -त्रिषु रा
 ४२५ : ३.
 वसन्त-रङ्ग-भोग- -गान् सार
 २२९ : २०.
 वसन्त(न्त-ऋ)तु-सेवित-
 रूप- -पाभ्याम् सार २४८ : १.
 वसन्त-लीला- -लायाः सार
 २३० : २.
 वसन्त-सुख- -खानि सार
 २२९ : ७.
 वसन्त-स्थान- -नम् सार २२८ :
 १४; २२९ : १७; -ने सार २२९ :
 १७.
 वसन्तो(न्त-उ)द्भव- -वानि सार
 २२८ : १७; -वैः सार २२९ :
 ७; १२.
 २वसन्त^b-
 वसन्त-पुण्य- -व्यैः रा
 ४२४ : १२.
 वसु^c -सवः छां २, २४, ६; ३, ६,

१; १६, १^२; १^३; २; वृ १, ४, १२;
 ३, ९, २; ३^३; मैत्रि ७, १; ना १;
 मना १, १४^१; २, ६०^०; अ
 १; वृजा ४, १६; ६, १२; वृपू २,
 २; ४, १५, १७; ५, ८; वृउ ३, २;
 सुवा ६; ते ५, १०४; त्रिनि २,
 १६; राउ ४, ३२; दे १०; गोउ
 २३; २६; ६२; शौ ५२; ४; ११;
 नापू ५, २५; सार २५१ : ४; ५;
 १०; २५२ : १३; गी ११, २२; -सु
 वृ४, ४, २४; मना २, ४१^१; ते २,
 ३७; -सुः क२, २, २^१; मना २,
 १२, २^१; २, ४०^१; ७९^१; वृपू
 ३, ६९^१; नापू ५, १^१; ए७^१; त्रिता
 ४, २६^१; वपू १, ६; २, ३^१;
 -सुना मै ३, ४^१; मैत्रि ३, ४;
 -सुनि पा १०, १; -सुभिः वृजा ४,
 १५; दे १^१; सार २५२ : ९;
 सिशि ३८२ : १९; -सुभ्यः वृजा
 ४, २९; -सुम् पा १०, १; -सुपु
 गोउ ६३; -सून् रापू ४, ५१;
 अव्य ५; शौ ५१ : २; गी ११,
 ६; -सूनाम् छां २, २४, १; ३, ६,
 ३; ४; १६, ९; दे ३^१; सार
 २५२ : १०; वपू १, १; ४; गी १०,
 २३; -सूनि नाप ४, ३८^१; इ
 १९ : २१; व ४६० : ४^१; -०सो
 मना २, ७^१; -सोः मैत्रि ६, ९;
 २प्र ३३ : १८.
 वासव- -वः नाउ ३, ३; गी
 १०, २२; -वम् छां २, २४, ३.
 वसव्य- -व्यम् शौ ५२ : ४.
 १वसिष्ठ, षा^d - -ष्ठः छां ५, १,

२^१; १३^१; वृ ६, १, २^१; ७^१;
 १४; -ष्टम् छां ५, १, २^१; -ष्टा
 वृ ६, १, २; १४; -ष्टाम् वृ ६, १,
 २; -ष्टाय छां ५, २, ५; -ष्टायै वृ
 ६, ३, २.
 २वसिष्ठ^e - -ष्टः वृ २, २, ४;
 मना २, २८^१; नसु १४; सार २,
 ४१; आप् ९ : ३; मृ २; गार
 ४०५ : ३; -ष्टेन अच् १५.
 वासिष्ठ- -ष्टम् गार
 ४०७ : १०.
 वसिष्ठ-कश्यप- -पौ वृ २,
 २, ४.
 वसिष्ठ-वंश-ज- -जस्य
 वृजा ६, १.
 वसिष्ठ-वामदेवा(त-श्रा)-
 दि-सुनि- -निभिः रापू ३, १९.
 वसिष्ठ-वालम्विल्य-विश्वा-
 मित्र-कश्यपा(प-श्रा)त्रि-भरद्वा-
 जा(ज-श्रा)ङ्गिरस-जा(१ज)मदग्नि-
 गौतमा(स-श्रा)गस्त्य-जाबालि-
 कपिल- -लाः नापू ६, ८.
 वसिष्ठ-वैयासकि-वामदेव-
 विरिञ्चि-मुख्य- -ख्यैः श १९.
 वसिष्ठा(ष्ट-श्रा)दि- -दि रार
 ३, १.
 वसिष्ठा(ष्ट-श्रा)द्य- -द्यैः रापू
 ५, ७; मु १, १, २.
 वसीयस्^f - -यांसम् अव्य ४;
 -यान् अव्य ६; आप् ८ : ५; १८;
 २१; ९ : ७; ९.
 वसु-दल- -लम्, -ले वपू २, ४.
 वसु-दान^g - -नः वृ ४, ४, २४.

a) धा. अर्थः? = ऋतुविशेष- । b) धा. अर्थः? = वसन्तलता- । c) धा. अर्थः? = देवताविशेष-, घन- । d) तैश्चा १०, १, १४ । e) ऋ १०, ३७, १२ । f) तैश्चा १०, ३९, १ । g) ऋ ४, ४०, ५ । h) °सुरण्वः इति पा. ? (तु. तैश्चा १०, ६३, १) यनि. च 'अण्व- > -ण्वः' (परि.) इति च शोधः द्र. । i) 'विभुः' इति श्रद्ध्या. संटि. । j) 'अवसन्नक्ति' इति निसा., श्रद्ध्या. 'वसुना इति' इति द्विपदः शोधः द्र. । k) ऋ १०, १२५, १ । l) ऋ १०, १२५, ३ । m) तैश्चा २, ५, ८, ८ । n) ऋ १०, ८३, ३ । o) तैश्चा १०, ५, १ । p) = विप. । वैप १ यद्र. । q) सकृत् पा. ? ष्टा इति शोधः द्र. (तु. वृ ६, १, २; १४) । r) वैतु. शं. पत्ते < √वस् (आच्छादने) । s) = गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । वैप १ यद्र. । t) तैश्चा १०, २१, १ । u) वैप १ यद्र. । v) उप. कर्त्तरि < √दा(दाने) ।

वसु-देव^१-वः कृ. ६.
 वासुदेव^१-०व त्रिवि७,
 ४०; नापू३, १९; नाउ१, १०; -वः
 वृजा ६, ९^३; ते ५, ६७; ६, ६९;
 त्रिवि १०३; वा २; ४२; मुद्र २;
 अक्षि ४६; त्रिता ४, २२^{१५};
 गोपू ३२; वरा २, ३७; गोच६५:
 ३; सं १३; भव २, ५४; अवि
 २२; गी ७, १९; १०, ३७; ११,
 ५०; नृपू ५, ८; ध्या २८; त्रिब्रा
 २, १००; १४४; १४८; वा १;
 शा ४; सु १, १, ३५^{११६}; गोच
 ६५ : १; -वस्य त्रिब्रा २, १४७;
 त्रिता ४, २४; नाउ १, ९; भव
 १, ३५; २, ५१; गी १८, ७४;
 -वात् सं २; -वाय मना१, ६९^b;
 शु २, ५^३; त्रिवि ७, ३४; ३९^b;
 ४१^३; ४६; ४८; रापू४, ४७; राउ
 ४, ४४; त्रिता ४, २३; ऊ ६३ :
 १२^b; नापू ३, २^b; ८^b; १२;
 ४, २^b; व ४६३ : ४^b; -वे
 योशि ५, ५४.
 वासुदेव-द्वादशा-
 (श-अ)क्षर- -रः रार ३, १०.
 वासुदेव-संकर्षण-
 प्रद्युम्ना(अ-अ)निरुद्ध- -द्वेभ्यः
 शु २, ५.
 वासुदेवा(व-आ)-
 ख्य- -ख्यम् नाप ३, २०.
 वासुदेवा(व-आ)दि-
 -दि रार ३, १; -दिभिः सौ १, ३^d.
 वासुदेवादि-
 चतुर-भ्यूह-सेवित- -तम् वपू
 १, ६.
 वासुदेवा(व-आ)घ-
 -घैः रापू ४, ३५.

वसुदेव-सद्यन्- -घनि गोच
 ६९ : १६.
 वसु-धा^१- -धा त्रिब्रा २, १३५;
 महा ६, ७१; तुल ७० : २.
 वसुधा-तल- -लम् नाप ४,
 १९; महा २, २०.
 वसुधा-पीठ- -ठे अन्न ३, २.
 वसु-धान^०- -नः छां ३, १५, १.
 वसु-नामन्- -न्ना सार २५१ : ५.
 वसुं-घ(र>)रा^१- -रा सी १७;
 करु १४; -राम् नृपू १, ३; वपू
 १, ६; -० रे मना १, ८^{११}; ऊ ६३ :
 ७^{११}; व ४६४ : ९^{११}.
 वसु-प्रद, क्षा- -दः रार २, ३०;
 -दा सौ १, ३.
 वसु-रुद्रा(द-आ)दित्य- -लैः नृपू
 १, ३; वपू १, ६.
 वसुरुद्रादित्य-रूप, पा- -पा
 गार ४०७ : ३; -पान् नाप ४, ३८.
 वसु-विद्- -वित् वृद्ध, ४, २७^b.
 वस्व(सु-अ)र्ण- -र्णः रार २, ३०.
 वस्व(सु-अ)ष्टक-प्रिय- -यम्
 रुजा २, १०.
 वस्वा(सु-आ)दि- -दयः गार
 ४०८ : ८.
 वस्वा(सु-आ)दित्य-कला-पद्य-
 -घेषु सौ १, २.
 वस्यस्^१- -स्यसः तै १, ४, ३.
 रवास(न>)ना^१- -नया मैत्रे २, २९;
 महा ६, १८; वरा ४, २०; सु २, २,
 १६^३; सांसू ५, ११९; -ना नाद
 ४९; महा ४, १०८; १२९; योशि
 ६, ७१; १संन्या २, ४३; अन्न ४,
 ४६; ५२; ७९; ८८; ५, ५; ६;
 १६^३; यो १, १; वरा २, ७०; सु
 २, २, ८; १७; २६; २८; ५७; ६१;

६२; -नाः महा ५, ७८; १२४;
 अन्न ४, ६२; सु २, ४०; ६८^३;
 ६९; सार २९० : १७; -नानाम्
 अन्न ५, १५; योसू ४, ८; -नाम्
 महा २, ४५; ६, ७; ४५; ४६;
 अन्न १, ३१; ४, ७४; सु २, २,
 १८; २४; सार २९१ : ७; २९२ :
 १३; -नायाः महा २, ३९^१; अन्न
 ५, १७.
 वासना-क्षय- -यः महा ६, ४४^m;
 अन्न ४, ७८; ८०; ८१; अध्या
 १२; सु २, २, ६८; -यम् महा ६,
 ४४.
 वासनाक्षय-विज्ञान-मनो-
 नाश- -शाः अन्न ४, ८३; सु
 २, २, १०.
 वासना-गण- -णात् महा ५,
 १७५.
 वासना-जाल- -ले पै ३, १;
 अध्या ३९.
 वासना-तन्तु-बद्ध- -द्धः महा
 ५, ८६.
 वासना-तानव- -वम् महा २,
 ४१.
 वासना-तृण-पावक- -कः महा
 ४, १२.
 वासना(ना-आ)त्मक- -कम् सार
 २९२ : १२; -केन सार २९० :
 १५.
 वासनात्मिका- -का महा ४,
 १०२.
 वासना-त्याग- -गः महा ६, ४३.
 वासना-त्रय-नाशन- -नम् मैत्रे
 २, ९^m; सु १, १, ४०.
 वासना-त्रय-पूर्वक- -कम्^०
 तुष १२.

a) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । b) तैत्र्या १०, १, ६ । c) °क्षरीमन्त्रः इति अख्या. । d) °दिः इति अख्या. ।
 e) उप. कर्तरि <√धा । f) वैतु. तैत्र्या १०, १, ८ °रा इति । g) पा. ! (तु. तैत्र्या १०, १, ८) यनि. शोधः द्र.
 (तु. Jc.) । h) ऋ १, १६४, ४९ । i) वैपश् यद्र. । j) धा. अर्थः ? =भाप. । k) °नाम् इति निसा. । l) °नायाम्
 इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) । m) °यम् इति अख्या. संदि. । n) °कम् इति अख्या. । o) वा. क्रिवि. द्र. ।

वासना-नाश- -शः अञ्ज ४, ८०.
 वासना(ना-अ)नुदय- -यः अध्या ४१.
 वासना(ना-अ)पर-ना(मन् >)-
 स्त्री- -स्त्रीम् महा ४, १०२.
 वासना-प्रक्षय- -यः अध्या १२.
 वासना-प्राण-संरोध- -धात्
 अञ्ज ५, ४०.
 वासना-बद्ध- -द्धः सु २, २,
 ६८; सार २९१ : ८.
 वासना-मय- -यान् ससा १, ८.
 वासना-मात्र-कारण- -णम् सु
 २, २, २२.
 वासना-मात्र-संत्याग- -गात्
 अञ्ज ५, ६२.
 वासना-मुक्त- -क्तः सार
 २९१ : ९.
 वासना(ना-अ)म्बु-परिप्लुत-
 -ते महा ५, १७६.
 वासना-रजनी-क्षय- -ये महा
 ४, ११७.
 वासना-रहित- -तेषु योशि १,
 १५५; -तैः अञ्ज ५, ३९.
 वासना-रूपक- -कम् पै २, ४१.
 वासना-लय- -यम् अध्या १३.
 वासना-लिङ्ग-शरीर- -रे सार
 २९० : २३.
 वासना-वश- -शात् त्रिभा २,
 १७.
 वासना-वासित- -तः योशि १,
 २३.
 वासना-विलय- -ये सु २, २,
 १७.
 वासनाविलया(य-आत्मक >)
 स्मिका- -का अञ्ज ५, ८२.
 वासना-विवशी-कृत- -तः सु
 २, २, ५९.
 वासना-वृद्धि- -द्धौ सु २, २, ९.

वासना-वेग-वैचित्र्य- -व्यात्
 सु २, २, ६०.
 वासना(ना-आ)वेश-
 वासनावेश-तस् (>) सु २,
 २, २६^५.
 वासना-व्यूह- -हः सु २, २, ३;
 भव १, ४६.
 वासना-संपरित्याग- -गः सु २,
 २, ४५; -गात् अञ्ज ४, ८६; सु
 २, २, २८; -नो अञ्ज ४, ७८.
 वासनासंपरित्याग-सम-
 -मम् अञ्ज ४, ८५.
 वासना-सरित्- -रित् सु २, २,
 ५; भव १, ४७.
 वासना-हीन- -नम् सु २, २,
 २२.
 वासनै(ना-ए)षणो(णा-उ)परि
 नाप १.
 वासनो(ना-उ)दय- -यम् सु २,
 २, ८^७.
 वासनौ(ना-आ)घ- -घः सु २,
 २, ३१; -वेन सु २, २, ३.
 वासन्त >)न्ती^८-
 वासन्ती-पल्लव- -वैः सार
 २६७ : १४.
 वासित्- -तारम् महा ६, ७.
 १-२वसन्त-, वसव्य-, १-२वसिष्ठ-,
 वसीयस्-, वसु-, वसुदेव-
 √वस् (*बधा.) ढ.
 वस्त^९- -स्तः वृ १, ४, ४.
 वस्ति- =वस्ति- गप्.
 वस्तु^१- -स्तु गौ ४, २२^२; ४४; वृत्
 ८, १; शु ३, ६; ते १, ४९;
 ५०; ४, १२; ६, ८८; महा २,
 ५; १३; ३, १७; ४, ८८; अञ्ज ३,
 २२; वरा ३, १; व १४; सु २,
 २, ५९; अद्वै २७; नापू ५, २७;
 वि १७; शि ६, २५५; ७, ६८;

भव १, २९; योसू ४, १६; -स्तुनः
 १आ २९; -स्तुना वि १; -स्तुनि
 पै ३, १; महा २, १२; अञ्ज ४,
 ४९; १आ १०; २८; त्रिता १,
 ३२; सर ३, २९; -स्तुषु मैत्रे २,
 १९; अञ्ज २, ८; भव १, २१;
 -स्तूनाम् अञ्ज २, ४०; नाउ ३,
 ४; -स्तूनि सार २६६ : १५;
 शि ६, २७६.
 वास्तव- -वम् अञ्ज १, १४.
 वास्तवी- -वी ससा १, ४१.
 वस्तु-कल्पना-प्रसक्ति- -क्तैः सांस्
 ५, ३०.
 वस्तु-चतुष्टय- -यम् ससा १, ३६.
 वस्तु-तस् (>) त्रिवि १, ५; ११; २,
 १०; ७, १७; अञ्ज २, ४४; १आ
 २६; पाशु २, २७; ४४; सर ३,
 ३३; स्व ६० : ३.
 वस्तु-तत्त्व- -त्वम् योसू ४, १४.
 वस्तु-त्व- -त्वे सांस् १, २१.
 वस्तु-दशा(शा-आ)लम्ब- -म्बः
 अञ्ज ४, ५८.
 वस्तु-दृष्टि- -दृष्टयः अञ्ज ४, ७१; -ष्टिः
 अक्षि १८.
 वस्तु-धर्म-
 वस्तुधर्म-त्व- -त्वात् सांस् १,
 ४४.
 वस्तु-भेद- -दम् ते ४, ४१; ६, ५४.
 वस्तु-मात्र- -त्रम् सार २२४ : १३;
 २३१ : ११; २८४ : १३.
 वस्तु-लक्षण- -णम् १आ १६.
 वस्तु-विषय^१- -यम् शां १, ७, १६.
 वस्तु-शून्य- -न्यः योसू १, ९.
 वस्तु-सत्ता- -त्ता अञ्ज ४, ६६.
 वस्तु-साम्य- -म्ये योसू ४, १५.
 वस्तु-सिद्धि- -द्धिः सांस् १, ७८.
 वस्त्व(स्तु-अ)भाव- -वम् गौ ४,
 ७९.

a) °वशतः इति निसा., अञ्ज्या. संति. । b) °यः इति अञ्ज्या. संति. । c) व्यु. ? = द्याग- । d) वैपश् यद्र. ।
 e) भाप. (वैतु. विप. इतीव कृत्वा °म्बा इति अञ्ज्या. संति.) । f) = वास्तविक- (वैतु. उत्र. स. अभावे सति वा. ?) ।

वस्त्वा(स्तु-आ)भास-सम् गौ ४,
४५.

वस्यस्-√वस्(*बधा.) द्र.

√वह्(*बधा.)>वाहि, वहते अल्ला
२^६; गु३३; पा १०,२; वहन्ति
मुं १,२,६; वहसि वृ ५,१४,८;
गा२६; वहामि बा१६;२१; गी
९,२२; वक्षि मना २,१२,२९^६;
वह^० पा ९,६; अवहत् वृ १,१,
२; वहम् बा १३; वहेत् शां १,
७,४९; रुजा १,१५;१६.

वहिव्यसे पा २,३; ८.

उह्यमान-नः मै ३,२१^६; मैत्रि ३,
२; ६, ३०.

वहत्-हता पा १,५^०; -हति यो
१,१०; -हन्तः सु २९३; १८९^६.

वहन्ती-न्ती मु २,२,५; भव
१,४७; -न्त्या पा १,५.

वहमान-नः पा २,९.

वह्नि-ह्निः मै ४, ४,१; मैत्रि ६,
३४; मैत्रे १,४,३; कै२,४; वृजा
१,१; ते ४,१७; ध्या २७; ब्रवि
६९; १योत ९२; त्रिबा १, ५;
२,१६३; २अव ३३८: ४; रार
२,६^६; रापु४,३८; ५८^६; वा२८;
शां १,४; योशि १,८५; १४७;
१७०; १७७; ५, ६; १४; ३१^६;
३२; यो १, ६५; रुह २१; जाद
६, ४२; वरा ५, ४७; ५१; व
४६६: १९; गी ३, ३८; -ह्निना
१योत ९४; त्रिबा २, ५५; रापु
४,५; योशि १,८६; यो १,६४;
जाद ६,४२; सूता २,१५; -ह्निम्
वृजा ३,२०; पै ३,१; योशि १,

७४^६; यो २, १७^६; भ १, ३;
वरा ५,३७; षो ११; -ह्नेः श्वे १,
१३; मैत्रि ६, २६; ३१; योचू
१०; रार २,४०; महा ४, ९९;
अन्न ५,१७; जाद ५, ११; गुषो
४२०: १२; सांसू १, ६०; -ह्नौ
१योत ९२; पै ३, १; वरा ५,
४७; पारा १५; शि ४, ४७;
५१; ५४; ७, ६९.

वह्नि-कणा(ण-आ)कार-रम्
महा ५, १५२.

वह्नि-कला-लाः भा २०^६.

वह्नि-कुण्ड-ण्डम् योरा ६.

वह्नि-जाया^क-याम् द ७; १३;
रार २, ६५; ६६; ६९.

वह्निजाया(या-अ)न्त-

-न्तम् रार २, ५४.

वह्नि-ज्वाला(ला-आ)वली-

वह्निज्वालावली-वत् अता ७

वह्नि-तम-मः प्र २, ८.

वह्नि-तल्प-(ग>)गा^क-गा
रार २, २६^६.

वह्नि-त्रय-यम् सिशि ३८१;
१९.

वह्नि-दैवत-ते शि ६, ७९.

वह्नि-बीज-जम् जाद ५, ९.

वह्नि-मण्डल-ले यो १, ४३.

वह्नि-मत्-मात् गा २७^६म्.

वह्नि-मध्य-ग(त>)ता-ता
ध्या २७; व ४६६: १९.

वह्नि-मय-यः पारा १५.

वह्नि-युक्त-क्तेन योशि ३, ९.

वह्नि-योग-गेन ध्या ६६;
योचू ३८.

वह्नि-वचन^६-नः रार ५, ३.
वह्नि-वत् ब्रवि २१^०; अवि
२१; सांसू ५, १२७.

वह्नि-वासि(न्>)नी-नी-नी
व ४३६: ३; -न्यै वपं ३१२: ३.

वह्नि-शिखा-खा मना २, १३,
२९^६; महा १, १९^६; वा २१९^६;
च २१: ४; गोच ६६: २३.

वह्निशिखा-मण्डल-लम्
मं २, १, १०.

वह्नि-संयुक्त-कम् य २; सु
२९३: २.

वह्नि-संयुक्त-वारि-रिणा
शां १, ४.

वह्नि-सारथि-थिम् त्रि ९.

वह्नि-सुन्दरी^क-री रार २, ४८.

वह्नि-सोम-कला(ला-आ)-
त्मक-कम् रार ५, ८.

वह्नि-स्त्रीपथ-सेवन-नम्
१योत ४७^६।

वह्नि-स्थ-स्थम् रार २, १^६.

वह्नि-स्थान-नम् १योत ९१.

वह्नि-अपान-नौ यो १,
४४.

वह्नि-अशन-नात् महा
३, २०.

वह्नि-आत्मन्-त्मनः रार
२, २^६.

वाह-हम् श्वे २, ९; भव ३, २६;
-हाः क १, १, २६.

वाहन-

वाहन-मण्डप-पम् शि ४, ४.

वाहिन-हिने अहि १^६.

वहन्ताम्^६ पा ८, ३.

a) अर्थः?। b) ऋ २, ३, ११। c) वैतु. पाटी. √वह्>वहते इति। d) 'हन्यमानः' इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. मैत्रि ३, २)। e) °तः = °ते इति पाटी?। f) ऋ ९, ८३, १। g) धा. अर्थः?। वैप१ यद्र.। इह = अग्नि-, तदधिष्ठातृ-देवता-, बीजाक्षर- प्रभृ.। h) = रेफ-बीजाक्षर-। i) °ह्निः इति आन.। j) 'धनकलाः' इति अज्या.। k) = स्वाहा। l) °गम् इति अज्या. संटि.। m) पा. ? 'बहु इव' इति द्विपदः शोधः द्र. (तु. वृ ५, १४, ८)। n) उप. कर्तरि कृत्। o) 'वह्निम्, अतः' इति निसा., आन. यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.)। p) तैआ १०, ११, २। q) °पथि° इति अज्या. यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.)। r) °हिनि इति निसा., °हिनी इति अज्या. च यनि. शोधः द्र.। s) पा. ?।

गा क १, १, १५^१; सुं १, २, १०^०; मां
९-११; तै १, ११, ३^२; ऐ ५, १^५;
छां ३, १४, ३^३; वृ ३, ८, २^२; श्वे
२, १४; कौ १, २^{१०}.

√वा(*बधा.), वाति मना २, ११^{१५};
वृजा ८, ६; वृपू ५, २०; सुबा ६;
अव्य २; वळ ५, २८; पिंब्र ४, ७;
वान्ति अन्न ४, ३०; रूह ४०;
वातु व ४३७ : १७^{१५}; वान्तु
महा ४, ९७.

वात-तः तै २, ८, १; वृ १, १, १;
वृपू २, १४^{१५}; म २, १०^{१५}; व
४३७ : १७^{१५}; वळ ४, ४; पिंब्र
४, ७; -तम् वृ ३, २, १३; मना
२, ४७^{१५}; -ताः वृ ६, ३, ६^{१५};
मना २, ३९^{१५}; अन्न ४, ३०; यो
१, ७६; रूह ४०; -तात् कौ २, ४;
-ते योचू ८९; -तेन महा ४, ९६.

वात-ज-जाः जाद ६, ३०.

वात-दोष-षम् यो १, २५.

वात-नाडी-गत-सर्व-रोग-

विनाशन-नम् शां १, ७, १४^{१५}.

वात-पित्त-श्लेष्म-महाव्याधि-

प्रकोप-पः ध्या ९३, १०.

वात-पित्त-श्लेष्म-हर-रम्

योशि १, ९८.

वात-रज्जु-ज्जूनाम् मैत्रि
१, ४^१.

वातिक-कम् व ४३३ : २०.

वा(ल्य>)ल्य-ल्यया महा ६,
३२.

वा(ति>)ती'-

वाती-कार^k-रः नी० १, ३.

वायु^१-यवः ध्या ५७; ब्रवि ६६;
त्रिब्रा २, ९९; योचू २२; २४;
शां १, ४^१; योशि ३, १२^{१५}; गा
१६; जाद ४, २४; वरा ५, ३१;
२२ ३६ : १९^{१५}; सार २२८ : १;
२३ ३ : २०^१; २१-२३; गु १७;
वळ ४, १५; सांसू २, ३१; सांका
२९; -यवे छां २, २४, ९; वृ ३,
३, २; मैत्रि ६, ३३; ३५; मना २,
३९^{१५}; ४९^{१५}; ५९^{१५}; त्रिवि ७, ४७;
गोळ ६६^१; १कौल शां^१; -युः ई
१७; के ३, ८; ४, २; क २, २,
१०; ३, ३; ५२, २; ५; ३-४, ८; ६,
४; सुं २, १, ३; ४; तै १, ३, २; ५,
२; ७, १; २, १, १; ऐ १-२, ४;
३, १०^१; ५, ३; छां १, ३, ७; ६,
२^१; १३, १; २, २०-२१, १; ३,
१३, ५; १५, २; १८, २; ४, ३, १;
२; ४; ५, ५, १; १०, ५; २३, २^१;
७, ४, २; ८, १, ३; १२, २; वृ १,
३, १३^१; ५, २२^१; २, ३, ३; ५, ४;
३, १, ५; ३, २^१; ६, १; ७, २; ७^१;
९, ३; ७; ५, १५, १९^१; ६, ४, २२;
२३; श्वे २, ६; ४, २^१; मै ४, ४;
१२; ५, ५; मैत्रि २, ६^१; ४, ५, ५;
१; ६, ५; ३३; ३५; कै १, १५;
गर्भ १^१; २; ना १; मना १, २९^१;
२, १५^१; ६८^१; ७९^१; अना
१३; अशि २, ५; ५, २०; ६, १५;
वृजा १, १; ८, ६; वृपू ५, २०;
काला ६; सुबा १^१; ९^१; २; ५;
७^१; १३; १४^१; तै १, ३२; २,
२७; ४, १७; ५, ३६; ७६; नाद

५६; ध्या १०; ७९; ब्रवि १४;
१गोत ८२ : ८४; ९५; ११६;
त्रिब्रा १, ५; ९; २, ११३; योचू
५१; ७२; ९०, ९१; ११८; सार
२, १०^१; रापू ४, ६१^१; शां १,
४; ७, ६; पै १, १६; महा १, १;
शारी १; योशि १, १२०; १२२;
१७०; ५, ६; १९; ४१; ६, ६९;
७०; १संन्या २, ७२; अव्य २;
सू १२; अश्या १; कुं १४; सावि
३^१; त्रिता १, ५१; दि १४; यो १,
१९; ६२; म १, ५; २, ११; ग ६;
१आ १; जाद ६, ४२; ४३; गोपू
१६; २५; २९; गोळ ७, १; कृ
२०; वरा १, ५; ५, ४६; ५१; ६३;
७३; ७४; रौ २, ६; च २० : २;
२२ ३६ : १८; गोच ६९ : १०;
नापू १, ५; ७; नाळ १, १५^१; पा
२, २; रु १०; लिं ३१० : ७; वळ
३१३ : ८; ३१७ : ११; २२; सिशि
३८२ : १२; गार ४०५ : ६; गुपू २;
व ४४१ : ३; ४; ४४६ : ९; वपू १,
२; वळ २, २; १९; ३, ७; ४९; ४;
१६; ४१; ५, २७; भव २, १५;
३, २१; गौ २, ६७; ७, ४; ९, ६;
११, ३९; १५, ८; -युना छां ३,
१८, ४; वृ ३, १, ५; ७, २^१; गर्भ
४; ध्या ४८; ८९; १योत ८३;
११३; त्रिब्रा २, ११९; योचू
६३; त्रिवि ५, १२; शां १, ४;
योशि १, ८५; ८६; ११४; ११५;
१२७; ३, ९; ६, १६; यो १, ४३;
जाद ६, ४२; वरा ५, ६२;

a) अव्य. वैपश् यद्र. । b) तु. गपू. पृ५४a । c) तैआ १०, ९, १^१ । d) ऋ ८, १८, ९ । e) तैआ ८, ८, १ ।

f) तैआ ३, ७, ७, २ । g) ऋ १, ९०, ६ । h) °गसर्ववि° इति निसा. वनि. शोधः द्र. (तु. अश्या.) । i) 'वा तरुणाम्'
इति मै १, ७; , आन. संटि. । j) भाप. । धा. अर्थः ? = प्राप्ति- इति नादी. । k) उस. उप. कर्तरि अण् । l) = पवन-,
तदधिष्ठातृ-देवता-, यकार-बीजाक्षर- । m) °यो इति अश्या. । n) मा १, १ । o) तैआ १०, ३, १ । p) तैआ १०,
२, १ । q) तैआ १०, ४, १ । r) 'मरुते' इति आन. । s) मा ४०, १५ । t) मा ३२, १ । u) °युम् इति सात. ।
v) तैआ १०, १४, १ । w) तैआ १०, २९, १ । x) तैआ १०, ६३, १ । y) मा ३१, १२ । z) 'मरुत्' इति अश्या. ।
a') °यौ इति निसा., °यू इति अश्या. वनि. शोधः द्र. । b') = यकार-बीजाक्षर- । c') तैआ ८, १, १ ।

निरु १, २, १; सिशि ३८२ : २०;
 -युभिःयोशि १, ६६; ५, २; -युम्
 के ३, ७; छां ३, १५, २; ६; ४,
 ३, १; २; १७, १; ५, १०, ५; १४,
 १; ७, २, १; ७, १; ११, १; वृ १,
 २, ३; ३, ३, २; ७, ७; ५, १०, १;
 ६, २, १६; हं ६; मै २, ६; अना
 १२; कौ २, १२^{१५}; वृजा ८, २; वृपू
 ५, १४; सुबा ७; ९; ११^१; ध्या
 २०; ३८; १योत ३७; ४१; ८६;
 ८९; ९९; १०५; १०६; २योत
 २, ३; त्रिभा २, ९६; १११;
 योचू ८९; ९०; १०५; ११९;
 शां १, ५; ६; ७, १; ७; १४^१;
 ४३^१; ४५-४७; ४९; पै ३, १;
 योशि १, ९१; ९३; ९५; ९७;
 १०४; ६, १६^१; ७४; ७५; अध्या
 १; यो १, १६; २४; ३०; ८४; ३,
 ७; ८; १२; १३^१; जाद ६,
 २५-२७; ३०; ३१; ४०; ७, ५;
 १०; वरा ५, ६८; ३३^१; सौ २, ३;
 २प्र ३२; १२; लां २१६; २; वउ
 ५, ७; ब्रसू ४, ३, २; -यून् वउ ३,
 २४; -यूनाम् १योत ११६^१; वरा
 ५, ६१; -०यो के ३, ७; तै शां^{१५};
 १, १२, ११^१; व ४४१: ४; ९१^१;
 ४४६: १६१^१; ४५१: १; ४५४:
 १६१^१; -यो: तै २, १, १; छां २,
 २२, १; ४, १७, २; वृ २, ३, २; ५,
 ४; ६, २, १६; अना १०; अशि
 ६, १५; सुबा १; ध्या २३; लु ७^१;
 १योत ५०; ५२; ९७; त्रिभा २,
 ९४; ९५; योचू ७२; ९९; शां १,
 ७, ८; पै १, १६; महा ३, ११;
 शारी १; योशि १, १०१; १७७;

५, १४; १संन्या २, ५९; कुं १४;
 करु १४; जाद ४, ३१; ४०; ६,
 १२; १३^१; नाउ १, १५^१; पा
 १०, २; वट्ट ३१७: २२; गार
 ४०५: ७; गी ६, ३४; -यौ तै
 १, ६, १; छां ५, २३, २; वृ २,
 १, ६; ५, ४; ३, ६, १; ७, ७; कौ
 २, १२; ४, ७; सुबा २; ५; त्रिभा
 १, ९; पै ३, १; शारी १; योशि
 ५, ५१; जाद ६, ३६; ३७; गोउ
 ७; वरा ५, ४७.
 वाय(व>)वी'- -०वि व ४३१:
 १६; ४५१: ६; -वी नाद ६;
 -न्याम् हं ८^१; नाप ६, १; शि
 २, १८; ६, ८०; ८४; व ४३०:
 १७; ४४१: ३; ४४६: ९;
 ४५१: ६.
 वायव्य- -व्य: अना ३१; -व्यम्
 अशि ३, ७^१; वट्ट ३१५: ६; शि
 ५, ३१; गार ४०७: ७; -व्ये सूता
 ४, ४; राधा १, १९; शि ६, ७४;
 -व्येन अशि ३, ७; वट्ट ३१५: ७.
 वायव्य-क- -कम् शि ५, ३४.
 वायव्य-दल- -लम्, -ले ध्या
 ९३, ७.
 वायव्य-दिश- -दिशम् व
 ४२८: १६.
 वायव्य-स्नान- -नम् नाप ७.
 वायु-कार्य-प्राणा(ण-आ)दि-
 विषय- -या: त्रिभा १, ६.
 वायु-क्रिया- -ये ब्रसू २, ४, ९.
 वायु-ग- -ग: पिं ६.
 वायु-गति- -तिम् वरा ५, ३१.
 वायु-गुण- -गौ शारी १.
 वायु-गोच(र>)रा- -रा: योशि

६, १४.
 वायु-चेष्टा- -ष्टाम् जाद ४, १२.
 वायु-जय^१- -य: सी ३१.
 वायु-जित- -जित् त्रिभा २,
 १०३; ११९.
 वायु-दण्ड- -ण्ड व ४३५:
 १०.
 वायु-दल- -ले वि ११.
 वायु-देव^१- -वम् रार १, ७.
 वायु-देवता- -ता जाद ४, ३६.
 वायु-द्वार- -रम् अना २१; व
 ४२७: २३.
 वायु-द्व(द्वि-अ)णुक- -काय शु
 २, ५.
 वायु-धारण- -णे १योत ४९.
 वायु-नन्दन^१- -०न लां २१६:
 १५.
 वायु-निरोधन- -नम् अद्वै १२.
 वायु-पुत्र^१- -०त्र रार १, ३; -त्र:
 लां २१३: ३; -त्रम् रार १, ७;
 -त्रेण रार १, ७^१; रापू ४, २०^१.
 वायु-पुर-गामिन- -मी षो १३.
 वायु-पूत- -त: कै २, ५; अशि
 ७, २; वृपू ५, १२; वृजा ८,
 १; नि ५७; रार ५, १७; राउ
 ५, ४; सुत्र ४; पै ४, २३; महा
 ६, ८३; ता ३, ९; वरा ५, ७६;
 सौ ३, १; च २१: ८; वट्ट ३१८: ४.
 वायु-पूरित-रेचित- -त: १योत
 १४१^१.
 वायु-प्रतिष्ठा(ष्ठ-आ)काशा-
 (श-आ)स्मन्- -स्मा^१, -स्मान: ^१
 कौ २, १४.
 वायु-बीज^१- -जम् द २.
 वायु-भक्ष- -क्ष: कुं ४.

a) सकृत् 'दिशः' इति शांआ ४, १२ । b) पा^० इति निसा. यनि. शोषः द्र. (तु. अख्या.) । c) पा^० इति निसा., अख्या. यनि. शोषः द्र. (तु. अख्या. संटि.) । d) ०युना इति निसा. । e) तैआ ७, १, १ । f) तैआ ७, १२, १ । g) अट्ट ८, २६, २१ । h) पा^० इति अख्या. । i) तैआ ८, १, १ । j) =देवीविशेष- वा दिविशेष- वा मात्राविशेष- वा । k) ०व्ये इति निसा. । l) ०युम् इति अख्या. । m) ईरपु^० इति आन. । n) पा.१^० ते (द्वि२) वा ०तम् (द्वि१) वा शोषः? । o) ०ष्टः आ^० इति आन., शांआ ४, १४ । p) ०ष्टाः आ^० इति आन., शां ४, १४ । q) =यकार-बीजाक्षर- ।

वायु-मण्डल- -लम् व ४४१: ४; ५.

वायुमण्डल-घात-

वायुमण्डलघात-

तस(>): वरा ५, ३^०.

वायुमण्डल-संवृत- -तम् पं १०.

वायु-मय- -य: वृ ४, ४, ५.

वायु-मात्रा- -त्रा प्र ४, ८.

वायु-मार्ग- -र्गेण योशि ६, १४.

वायुमार्ग-निरोधक- -क:

योशि १, ११०; यो १, ५१.

वायु-रक्षा- -क्षा व ४३४: १५^{२०}.

वायु-लक्षण- -णम् वरा ५, २.

वायु-लोक^३- -कम् कौ १, ३; भ २, २५.

वायुलोक-काम- -म: भ २, २५.

वायुलोक-ज्ञान- -नम् शां १, ७, ५२.

वायु-वक्त्र- -वत्रे वरा ५, ६२.

वायु-वत् १योत ९७; नाप ५, ३७; पै ४, १२; योशि १, ८.

वायु-विजय- -यम् शां १, ७, ४५.

१वायु-वेग^०-

वायुवेगि(त्>)नी^१- -नी नाद ९.

२वायु-वेग^०- -०ग लां २१४: १२.

वायु-संश्राव- -वै: कुं २१.

वायु-संचार- -रम् त्रिभार, ६३^२; शां १, ४.

वायु-सं(ज्ञा>)क्ष- -ज्ञ: करु १४.

वायु-सूनु- -नुम् राष्ट्र ४, ३५.

वायु-स्थान- -नम् १योत ९५;

त्रिभार २, १३९; शां १, ४; -ने गर्भ २^{१५}.

वाय्वं(यु-अं)श- -शा: पै २, ७; -शे त्रिभार २, १४४.

वाय्व(यु-अ)मि-सोमा(म-आ)-दित्य-ब्रह्म-विष्णु-रुद्र- -द्रै:

दत्ता ३.

वाय्वा(यु-आ)घात-वश-

-शात् यो १, ८४.

वां^१ आथ ३९८: १९; व ४४६: ३:

वां-वां^१ व ४३६: २२.

वाक-, वाकोवाक्य-, वाक्य-

√वच् द्र.

वागु(र>)रा^१-

√वागुराय्, वागुरायते नाद ४^{१५}.

१-२वाच्-, वाचक- √वच् द्र.

?वाचके^k यो १, ७६.

वाचकवी- वचकनु- द्र.

वाचिक-, वाच्य- √वच् द्र.

वाज^१- -जस्य व ४३७: ८^{१५}; -जा:

कौ २, ८^{१५}; -जेभि: सर २, १९^०; ३^{१५}.

वाज-पेय^२- -य: पाशु १, २९; -येन

वृ ६, ४, ३; वृपू ५, १७; वउ ५, १५.

वाजपेय-शत- -तानि योशि ६,

४३; गोच ६८: १७; वउ १, २७.

वाज-श्रवस^१- -वस:, -वा: वृ ६,

५, ३.

वाजश्रवस^१- -स: क १, १, १.

वाज-सनि^१-

वाजसनेय^१- -य: वृ ६, ३, ८;

-वाय वृ ६, ३, ७; -येन वृ ६, ५, ३.

वाजिन्- -जिन: १शिसं ६^{१५}; २शिसं ५^{१५}; -जिने नी २, ४^{१५}; -जी वृ

१, १, २.

वाजिनी-

वाजिनी-व(त्>)ती-

-ती सर २, १९^०; ३^{१५}.

वाजिनी-वसु- -सु तै १,

१०, १; नाप ४, ३८^{१५}.

वाजि-पति- -०ते वपू १, ३.

√वाञ्छ्, वाञ्छन्ति आबो १^५; महा २, ४७; अन्न २, २६; ४, ५; ८; वरा

३, २६; मर ३, ७; वाञ्छन्ति महा ५, १७७; वाञ्छामि अन्न २, ३.

वा(ञ्छ्>)ञ्छा- -ञ्छा १संन्या २, ३५; अन्न ५, ३७; -ञ्छाम् अन्न ५, ३७.

वाञ्छा-क्षण- -णे अन्न ५, ३७.

वाञ्छित-

वाञ्छित-प्रद- -द: रार २, १८.

वाञ्छित-फल- -लम् ग १८.

वाञ्छितफल-दातृ- -तार:

सार २६२: १४.

वाञ्छिता(त-अर्थ)- -र्थम् रार ४, १३; सिशि ३८३: ५; -र्थान् द २०.

वाटिका-, वाट्य- √वट् द्र.

वाडव- २वडवा- द्र.

वाणिज्य- वणिज्- द्र.

वाणी- √वण् द्र.

वात-, वातिक-, वाती-, वातीकार-,

वात्या- √वा द्र.

वात्स्य- २वत्स- द्र.

a) ०तक: इति अड्या. । b) तु. गपू. पृ १३८e । c) तस. । d) =मात्राविशेष- । e) बस. । f) ०युसारं च इति निसा., अड्या. संदि. । g) ०नम् इति निसा. यनि. शोध: द्र. (तु. अड्या.) । h) =बीजमन्त्रविशेष- । i) तु. गपू. पृ २३३c । j) व्यु? =पाश- । k) पा? 'पाचके' इति शोध: ? । एवं सस्य. अतिवर्धते> ०धित-> -ते, धावयति [गपू. (पृ ४२०s)] >धारयन्ति, अग्निमूषा^० [गपू. (पृ १२)] >अग्नि:, मूषा, हि^० इति शोधान्तराणि ? द्र. । l) बप्रा. वैपश् यद्र. । m) ऋ १, ९१, १६ । n) ऋ १, ९१, १८ (वैतु. 'राजा:' इति अड्या.) । o) ऋ ६, ६१, ४ । p) ऋ १, ३, १० । q) मा ३४, ६ । r) 'मीढुषे' इति मा १६, ८ । s) तैआ ७, १०, १ ।

वाद-, वादयत्-, वादित्र-, वादिन्-,
वाद्य-, वाद्यमाना- √वद् द्र.
वानप्रस्थ- √वन्(*बधा.) द्र.
वानर^{1a}- -रः व ४५९ : १४; -रान्
राप् ४, २७.
१वानरी-
२वानरी^{1b}- -री १संन्या २,
१०१.
वानरी-भाजू-
वानरीभाक्-स्व- -स्वम्
१संन्या २, १०१.
वानीर^{1c}-
वानीर-कुञ्ज- -ञ्जाः सार २५८ :
२३; -ञ्जे सार २६७ : २१.
वानीर-श्रेणि-निकुञ्ज- -ञ्जे सार
२६५ : १६.
वापयित्वा- √वप्(*बधा.) द्र.
वा(पि>)पी^{1d}- -प्यः सार २३३ : १९.
१ध्वाम^d- -मानि छां ४, १५, २^३; ३^३.
ध्वाम-नी^{1e}- -नीः छां ४, १५, ३.
२ध्वाम^e- -मस्य १योट ११२; जाद४,
१९; -मे वृ ४, २, ३; ध्या ५५;
योचू १८.
३ध्वाम, मा^f- -मम् जाद ३, ८;
-मया योचू ९८; शां १, ७, १;
-माभ्याम् पी ४२१ : ३; -मे
राप् ४, ३१; यो १, १२; अच्
३; भ १, ६; सौ ३, १; योरा
१२; -मेन लु १६; त्रिवा २, ४९^३;
शां १, ३, ७; योशि ५, १९; ६, ६;
वउ ६, ४१.
ध्वाम-क- -के गरु ५.
ध्वाम-तस(>) अव्य ६; शि २,
१२.
ध्वाम-दक्ष- -क्षे योशि ६, ३४.
१ध्वाम-दक्षिण- -णे वप् २, ४.

ध्वाम-दक्षिण-मध्यस्थ- -स्थम्
बि १२.
ध्वाम-कटक- -कः गरु ५.
ध्वाम-कर- -रे वपं ३११ : १.
ध्वाम-कर्ण- -र्णे योचू २०; शां १,
७, ५२.
ध्वाम-चक्षुस- -क्षुषि योचू १९; शां
१, ७, ५२.
२ध्वाम-दक्षिण- -णे पित्र १, १३.
ध्वामदक्षिण-मार्ग- -मार्गभ्याम्
योचू २८; -र्णेण ध्या ५९; योचू
९३; योशि ६, ५१.
ध्वाम-नासा-पुटा(ट-अ)वधि-
-धिः त्रिवा २, ७०^६.
ध्वाम-पाणि-तल- -ले शि ५, ४८.
ध्वाम-पाद- -दम् गरु ५; -देन श ९.
ध्वामपाद-पार्ष्णि- -र्ष्णिम् शां १,
७, ४३.
ध्वामपाद-मूल- -लेन शां १, ७,
४३.
ध्वामपादा(द-अ)चित-विष्णु-
नेत्र^{1h}- -त्रः श १०.
ध्वाम-पार्श्व- -र्श्वे रुह ५.
ध्वाम-बाहु- -हुम् त्रिता ३, ९; -हौ
ऊ ६४ : ८; वपं ३१२ : १५.
ध्वामबाहु-दक्षिणकटि- -ज्योः
पाशु १, २५^१.
ध्वामबाहु-मूल- -ले भ १, ६.
ध्वाम-भाग- -गे रार ३, १; नापू ४,
२४.
ध्वाम-श्रोत्र-बिन्दु- -न्दुः दे १३.
ध्वाम-हस्त- -स्ते भ १, ५.
ध्वामां(म-अं)स- -दक्ष-कट्य(टि-अ)-
न्त- -न्तम् पत्र ३, १०.
ध्वामां(म-अं)सा(स-आ)दि-
दक्षिण-कट्य(टि-अ)न्त- -न्तम्

पत्र २.

ध्वामा(म-अ)क्षि-पर्या(न्त>)न्ता-
-न्ता जाद ४, २०.
ध्वामा(म-अ)ङ्ग- -ङ्गेन १योट ११४.
ध्वामा(म-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्टम् त्रिवा २, ४९
ध्वामा(म-अ)ङ्घ्रि- -ङ्घ्रिणा ध्या
९३; योचू ६६.
ध्वामाङ्घ्रि-मूल- -लम् यो १, ६^१.
ध्वामा(म-आ)वर्त- -र्तेन सुसु ११.
ध्वामे(म-इ)तर-दृश- -दृशौ त्रिवा
२, ७२.
ध्वामो(म-ऊ)रु-न्यस्त-तद्-ध-
(<ह)स्त- -स्तम् रार २, ४.
ध्वामो(म-ऊ)रु-मूल- -ले त्रिवा २,
४८.
ध्वामो(म-ऊ)रु(र-उ)परि शां १, ७,
४३.
ध्वाम^k-
ध्वाम-कक्ष¹ⁱ-
ध्वामकक्षि^{1j}-
ध्वामकक्षायण^{1k}- -णः, -णात्
वृ ६, ५, ४.
१ध्वाम-देवा^{1l}- -वः ऐ४, ५; वृ १, ४,
१०; पं२; वरा४, ३४; ३६^३; तुल
७१ : २२; नापू १, १०; बि १;
सिशि ३८२ : ११; -वम् पं ५;
वरा४, ३५; बि ५; -वात् वृजा १,
१; सिशि ३८१ : ७; -वाय मना
२, १८७^३; शु २, ५; भ १, ५; तुल
७१ : २२; -वेन वरा ४, ४१.
२ध्वामदेव- -वम् गार४०७ : ८.
ध्वामदेव-तस(>) वृजा ४, १०.
ध्वामदेव-वत् सांसू ४, २०; ब्रसू
१, १, ३०.
ध्वामदेवा(व-आ)दि- -दिः सांसू
१, १५७.

a) व्यु. ? = मर्कट- । b) = वृत्तिविशेष- । c) व्यु. ? । d) = विशेवि. । वैप१ यद्र. । e) व्यु. ? = सव्य- ।
f) = विशेवि. । g) °धि इति निसा. । h) कस. > बस. । i) °होः द° इति अज्या. संदि. । j) °लक° इति निसा.
यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । k) व्यु. अर्थक्ष ? । l) = गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । m) = ऋषिविशेष- वा शिव-
वा । n) तैत्रा १०, ४४, १ । o) 'वामेन' इति अज्या. ।

वामदेव्य^{११}- -व्यम् छां २, १३,
१; २; मना२, ७९९^{१०}; गरु२ १९^{१०}.
१वामन^०- -नम् क २, २, ३^१; -ना:
गर्भे ३.
२वामन^०- -नः नापू ५, ६; वपू २, ४;
-नम् श १३; -नाय त्रिवि७, ३८; ४१
३वामन- -नम् गार ४०७: ९.
वामना(न-अ)वतार- -राय नापू ५,
१०.
५वाम(>)मा^{११}- -मा सुमु १५.
६वाम^{११}- -मम् वृजा ३, ३१; ४, ३;
त्रिता २, ५; १४.
वामा(मा-आ)दि-नव-शक्ति- -क्ती:
वृजा ४, २०.
वायवी-, वायव्य-, वायु- √वा
(*बधा.) द.
वायुर^{११}- -रम् वृ ५, १, १.
वार^{११}-
वार-धि- -धि: छाग २४: २१.
१वार^{११}-
वार-त्तस(>:) पारा १६.
वार-पक्ष-मासा(स-आ)दि- -दि ते
६, १८.
२वार^{११}- -रम्-रम्^१ ध्या ६९; योचू
४०; योशि १, १०४.
वार-त्रय- -यम् तारा ८३: ७.
वारण^{११}- -णः अञ्ज १, ४२.
वारतन्तवी- √वृ(*बधा.) द.
वारयमाण- √वृ(प्रतिघातने) द.
वाराणसी- ३वरण- द.
वाराह- वराह- द.
वारि^{११}- -रि महा ५, ६६; योशि १,
१६५; अञ्ज १, २०; भव १, ५१;

३, २१; -रिणा वृजा ४, ९; ध्या
७१.
वारि-ज-
वारिज-लोच(न>)ना- -०ने व
४६६: ८^{१०}.
वारि-वन् १योत १०.
वारि-वाह- -हः पित्र १, १५^१; ९^{११}.
वारुण- १वरुण- द.
वारुणा- ३वरुण- द.
वारुणि- २वरुण- द.
वारुणी- ३वरुण- द.
वार्कारुणी- १वृक- द.
वार्क्ष्य- वृत्त- द.
वा(र्ता>)र्ता^{११}- -र्ता सी ३१९^{११}.
-र्ताम् सार २५०: ११.
वार्ता-क-
वार्ताक-वृत्ति- -त्तयः आश्र
२^१; ९^{११}.
वार्ता(र्ता-अ)वसर- -रः ते ६, १४.
वार्त्त- √वृ(*बधा.) द.
वार्धक-, वार्धुषिक- √वृध द.
वार्य- √वृ(वरणो) द.
वार्षगाण-, वार्षिक- √वृष द.
वाण्ण-, वाण्णय- √वृष्(*बधा.) द.
वा(<>२बा^१)ल्^{११}-
वाला(ल-अ)ग्र- -आत् महा ५, ९०;
६, ५६^{११}.
वालाग्र-मात्र- -अम् अशि ५,
१६; वट्ट ३१३: १.
वालाग्र-शत-कल्पित- -तः
त्रवि १४.
वालाग्र-शत-भाग- -गस्य श्वे
५, ९; भव २, ३६.

वालाग्र-शत-साहस्र- -सम्
ध्या ४^१.
वालिन^{११}- -लिनः, -लिनम्, -ली राष्ट्र
४, २३.
वालखिल्य^{११}- -ल्यः पाशु १, २; २३;
-ल्यः मै २, ३; मैत्रि २, ३;
आश्र ३^१.
वालु(क>)का^{११}-
वालुका-त्रपुसा(म-आ)दि- -दीनि
शि ६, १९.
वाल्मीक- वल्मी- द.
वाव^{११} के ४, ७; प्र ४, ४; तै १, ५, २^१;
ऐर, ३; छां १, १३, १; वृ १, ४, ५;
मै ३, २; मैत्रि २, १; छाग २३: ४;
शौ ५१: ४.
वावृधान- √वृध द.
वावृहाण- √वृह द.
वास-, १वासन- √वस्(निवासे) द.
२वास(न>)ना-, वासन्ती-, वासव-
√वस् (*बधा.) द.
वासर^{११}- -रः महा ५, १०७; -रे सार
२२६: १९.
१वासस्- √वस्(निवासे) द.
२वासस्- √वस् (आच्छादने) द.
१वासित- √वस्(निवासे) द.
२वासित- √वस्(गन्धे) द.
वासित- √वस्(*बधा.) द.
वासिन- √वस्(निवासे) द.
वा(सि>)सी^{११}- -सीभिः आषे ७: ७.
वासुकि^{११}- -किः राष्ट्र ४, ५३; गरु ५;
१४; वट्ट ४२: २२; २३; ४४८: ६;
गी १०, २८; -०के व ४४२: २३.
वासुकि-वृत्त- -तः गरु १४.

a) तैत्र्या १०, ६३, १। b) मा १२, ४। c) व्यु. ? = अतिह्रस्व-। d) = संभजनीय- इति पृथक् प्राति. इति सं. ?। e) व्यु. ? = विष्णवतारविशेष-। f) व्यु. ? = शक्तिविशेष-। g) अर्थः ?। h) व्यु. अर्थश्च ? = वायुमत्- इति सं. प्रष्ट.। i) = जल-। वैप १ यद्र.। j) व्यु. ? = दिन-। k) व्यु. ? = पर्याय-। l) वा. क्वि. द.। m) व्यु. ? = हस्तिन्-। n) व्यु. ? = जल-। o) °चनस° इति पा. ? यनि. शोधः द.। p) व्यु. ?। q) प्रादेशिकोच्चारणभेद-मात्रत्वेन निर्देशः। r) वैप १ यद्र.। s) वासा° इति निसा. यनि. शोधः द. (उ. अख्या.)। t) °तसहस्रार्धम् इति ज्ञान.। u) = ऋषिविशेष- वा वानप्रस्थविशेष- वा। v) व्यु. ? = फलविशेष-। w) अव्य. वैप १ यद्र.। x) = वासी-। वैप १ यद्र.। y) व्यु. ? = नागविशेष-।

वासुकि-मण्डल- -लम् व ४४२ :
२३; ४८३ : १.
वास्तव- वस्तु- द्र.
वास्तु- √वस्(निवासे) द्र.
वास्तुक^६- -कम् शि ६, ८३.
१वास्य- √वस्(आच्छादने) द्र.
२वास्य^{१३b}-
वास्या(स्य-आ)दि-
वास्यादि-वत् सांसू ५, ६९.
वाह-, वाहिन- √वह्(*बधा.) द्र.
१°१वि^६- वयः मना २, ७३; चा २०.
२वि- √विश् द्र.
विंशति^०- -तिः छां ७, २६, २; इ
१२ : २; -तीः शि ६, १८७.
१विंश^१- -शम् गार ४०७ : ९;
१४; -शे अक्ष ५.
२विंश^२-
विंशा(श-अ)र्णक- -कः रार २,
६५.
विंशति-प्रत्य(ति-अर>)रा-
-रामिः श्वे १, ४; नाप ९, ३.
विकङ्कत^{१h}-
वैकङ्कत-
वैकङ्कती- -ती मना २, २६१^१;
वृजा ३, १५.
वैकङ्कत-फल- -लानि शि ६, १६.
वि/कच्
वि-कच- -चैः शि ७, १३७.
वि-कट^१- -टाय पा ७, ३.
विकटा(ट-अङ्ग>)ङ्गा- -ङ्गाम् वृजा
३, १.
वि/कम्प
वि-कम्पितुम् गी २, ३१.
वि-करण-
विकरण-स्व- -स्वात् ब्रसू २, १, ३१.
विकरण-भाव- -वः योसू ३, ४९.

वि-करु(णा>)ण-
वैकारुण्य- -ण्यम् मै ३, ५^k.
विकर्ण^१- -र्णः गी १, ८.
वि-कर्मन्- -र्मणः गी ४, १७.
वि-क(ला>)ल- -लः नाप ३, २.
विकल-ता- -ताम् सार २९२ : ४.
विकले(ल-इ)न्द्रिय- -यः सार
२४३ : ९.
वि-कलन- -नम् अन्न ४, ९१.
वि/कस्
वि-कस-
विकसी/कृ
विकसी-कृ(त>)ता- -ता
यो ३, १९.
वि-कसित- -तम् सुवा ४^३; ११;
गोड ४६; ५१; शि ६, ८.
वि-कार-, वि-कारिन्-, वि-कार्य-
वि/कृ द्र.
वि/कास्, >कासि, विकासते त्रिता
१, १४; १५.
वि-कासयत्- -यत् वरा ५, ४३.
वि/कित्(ज्ञाने), >चिकित्स्, वि-
चिकित्सते अक्षि ५; विचिकि-
त्सन्ति क १, १, २९.
विचिकित्सीः वा २३.
वि-चिकि(त्स>)त्सा- -त्सा क१, १,
२०; छां ३, १४, ४; वृ १, ५, ३;
मैत्रि ६, ३०.
वि-चिकित्सित- -तम् क १, १, २१;
२२.
वि-चिकित्स्य- -त्स्यम् वृउ ९,
११^m; १७.
वि-किर-, वि-कीर्ण- वि/कृ द्र.
वि-कुण्ठⁿ-
वैकुण्ठ^०- -ण्ठः वृ २, १, ६; कौ ४,
७; ते ६, १८; त्रिवि २, १; राधा

१, ६^१; ९; -ण्ठम् वृजा ७, ६; कृ
२५; तुल ७२ : २^१; य १०; सार
२८५ : १८; सु २९३ : १०;
-ण्ठस्य त्रिवि २, १^१; -ण्ठाः त्रिवि
८, ४; -ण्ठान् त्रिवि ५, १४; -ण्ठाय
सार २५७ : २३; -ण्ठे सार
२१९ : २; २२० : १९; २०;
२५७ : १४; २७४ : ४; २७५ :
१२; २८५ : १९.
वैकुण्ठ-कल्प-तरु- -रवे त्रिवि
७, ४३.
वैकुण्ठ-पद- -दम् नाउ ३, १५.
वैकुण्ठ-पार्षद- -दाः, -दैः त्रिवि
५, १२.
वैकुण्ठ-पुरी^५- -री राधा ४, ५.
वैकुण्ठ-भुवन^५- -नम् ना ४;
आबो १^५.
वैकुण्ठ-लीला- -लाम् सार
२४९ : २०.
वैकुण्ठ-लोक^३- -कः गु १०.
वैकुण्ठ-वासिन्- -सिनः त्रिवि
५, १३; -सिसिः त्रिवि ७, १.
वैकुण्ठ-स्थान- -नात् वा ३;
गोच ६५ : ४.
वैकुण्ठस्थानो(न-उ)द्भव-
-वम् गोच ६५ : ३.
वैकुण्ठा(एठ-अ)र्चन- -नात् तुल
७० : ६.
वैकुण्ठा(ण्ठ-आ)श्रित>)ता-
ताम् सार २५७ : १८.
वि-कुर्वत्- नाउ. द्र.
वि/कृ, विकरोति गौ २, १३; न्यकुल
वृ १, २, ३; मै ५, ३; मैत्रि ६, ३.
विक्रियते नाप ४, ४; २२ ३५ :
१३.
वि-कर्तृ- -तौ सुवा ६.

a) व्यु. ? = शाकविशेष- । b) = वा(सि>)सी- । c) = पत्तिन्- । वैप१ यद्र. । d) ऋ १०, ७३, ११ ।
e) वैप१ यद्र. । f) तु. गप्. पृ२०३t । g) तु. गप्. पृ२०४a । h) = वृत्तविशेष- । वैप१ यद्र. । i) तैश्चा १०, १९, ११ ।
j) तु. गप्. पृ१७५n । k) °कारि° इति अञ्ज्या., नैष्का° इति मैत्रि ३, ५ । l) व्यु. ? = धातैराष्ट्रविशेष- । m) °स्सम्
इति निसा. । n) व्यु. ? । o) = इन्द्र-, विष्णु-, विष्णुलोक- । p) °ण्ठम्° इति अञ्ज्या. ।

वि-कार-रः छां ६, १, ४-६; ४, १-४; मैत्रि ६, १०; त्रिब्रा २, २०; पत्र २; सर ३, २३; २प्र ३४ : ७; सांका ३; -रम् योच् १०९; १२१; अन्न ५, ३९; भव २, ७; भव ४, ६; -राः गर्भ ३; त्रिब्रा २, १३; शारी ६; -रान् गी १३, १९; -रेषु नि २८.
 विकार-जननी-नीम् मन्त्रि ३; चू ३.
 विकार-दण्ड-ण्डः निर्वा २९८ : १.
 विकार-रहि(त>)ता-ता ससा १, ४०^०.
 विकार-शब्द-ब्दात् वसू १, १३.
 विकार-स्थ-स्थम् त्रिब्रा २, २०.
 विकारा(र-आ)कर-रम् मैत्रे २, ५^०.
 विकारा(र-आ)दि-दि ते ६, ५७; -दिभ्यः वसू २, ३५.
 विकारादि-विहीन-विकारादिविहीन-त्व-त्वात् वरा २, ६०.
 विकारा(र-आ)वयव-वौ गौ ३, ७^३.
 विकारा(र-आ)वर्तिन्-र्तिं वसू ४, ४, १९.
 विकारिन्-रिणः १अव २१; -री २प्र ३४ : ७; ३५ : १२.
 विकारि-त्व-त्वम् अन्न १, १५.
 विकारि-त्व-अम-मः अन्न १, १६.

वि-कार्य-र्यो २प्र ३५ : १२.
 वि-कुर्वत्-र्वन् श्वे ५, ३.
 वि-कृत-र-रत् अक्ष ५.
 रवि-कृत-विकृत-त्व-त्वेन गर ३, २२.
 वि-कृति-तिः सांका ३; -तिम् पै १, ६; सु २, २, ५०^०.
 वैकृत-ताः सांका ४३; -तान् सांसू २, १८; सांका २५.
 वि/कृ>किर, विकिरति मुं २, १, १०; विकिरेत् वृजा ४, २.
 वि-किर-र-रम् इ १५ : १३^३.
 वि-की(र्ण>)णी-र्णाः महा ३, ४५; या २, ११.
 वि/कम्, >काम्, §विक्रमस्व मना २, ४९; श ५; व्यक्रामत् त्रिभि ४, ९९^०.
 विक्रमे नापू ३, ३९^१; ४९^१; ४, ६९^१; §व ४४३ : १६; ४४९ : १; ४५३ : १.
 §विक्रमण-णेषु वृपू २, १३; ४, ११.
 वि-क्रान्त-न्तः गौ १, ६.
 वि-चक्रमाण-णः नापू ४, ६९^१.
 वि/की
 वि-कयिन्-यी इ १७ : ९; २२.
 वि/कल्प<कृप्>कल्प
 वि-कल्प-ल्पः गौ १, १८; ते ३, ४५; वृज ८, १^०; अध्या २२; २६; योस् १, ९; वसू ३, ३, ५९; -ल्पाः त्रिब्रा २, १४; -ल्पेन अध्या १७^०; -ल्पेभ्यः १संन्या २, ३१.
 विकल्प-कल्पना(न-आ)न्वि-(त>)ता-ता अन्न २, ३३.

विकल्प-कल्पिता(न-आ)कार-रम् भाषा ५, १२३.
 विकल्प-त्रय-यम् नाप ८, १७.
 विकल्प-संश्रय-यात् अन्न २, ३३.
 विकल्पा(ल्प-आ)मनन-नात् अक्ष ४, ६, ११.
 विकल्पा(ल्प-आ)सहिष्णु-ष्णु यज ३, ११.
 वि-कल्पक-कः गौ २, ११.
 वि-कल्पित, ता-तः गौ २, १७; १९; -ना गौ १, ७; २, १७; सर २, ७.
 वि/क्ष्व, व्यक्षरत् छां ३, १, ४; २-५, ३
 वि/क्षिप्, विक्षिपति ष १.
 विचिक्षेप कौ ४, १८^०.
 विक्षिप्यते गौ ३, ४६.
 वि-क्षिम-सम् गौ ३, ४२; ४४.
 वि-क्षेप-पः ते १, ४१; १अव २१^३.
 विक्षेप-शक्ति-क्तिः पै १, ११; सर ३, १८.
 विक्षेपशक्त्या(क्ति-आ)वरण-शक्ति-प्रभाशक्ति-त्रिकोण-देवता-ताः नापू ६, ५१^०.
 विक्षेप-सह-भू-भुवः योम् १, ३१.
 विक्षेपा(प-आ)वृत्ति-रूपक-कम् सर ३, १७^०.
 वि/ख्या
 वि-ख्यात, ता-तः ते १, ३६; नाप ४, १३; -ता अन्न १, ५; सार २४२ : २०; २४३ : २; -ताः ध्या ५७.
 वि/गम्
 वि-गल-तः गौ ११, १.

a) °रहेतौ इति आन. । b) °राकारवि° इति निसा. यनि. च 'वि-स्तीर्ण->-र्णम्' इति च द्विपदः शोधः द्र. (तु. अश्या.) । c) कर्तरि क्त. । d) अवि° इति निसा. । e) °तिकाः इत्यपि पाभे. । f) तैश्चा ३, १५, १ । g) ऋ १०, ९०, ४ । h) ऋ १, २२, १७ । i) ऋ १, २२, १६ । j) ऋ ७, १००, ३ । k) ऋ १, १५४, २ । l) ऋ १, १५४, १ । m) अवि° इति अश्या. । n) आवि° इति आन. । o) °रणं श° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । p) °पाव-रणात्मकम् इति अश्या. संटि. ।

विगत-कल्मष- -घः गी ६, २८.
 विगत-इवर- -रः अन्न ३, ९; गी ३, ३०; -रौ महा ६, ४७.
 विगत-नि(द्रा)>द्र- -द्रः मैत्रि ६, २५; -द्रम् मै ५, ४; मैत्रि ६, ४; २५; ७, ५.
 विगत-प्रपञ्च-गन्ध- -न्धः सं २, ४, ६.
 विगत-भय- -यः मैत्रि ६, ३०.
 विगत-भी- -भीः गी ६, १४.
 विगत-स्नेह- -हः महा २, ५१; जाद २, ६.
 विगत-स्पृ(हा)>ह- -हः गी २, ५६; १८, ४९.
 विगता(त-अ)खिल-कौतुक- -कम् अन्न ५, २३.
 विगता(त-अ)भी(ष्ट)>ष्टा- -ष्टा अन्न १, ५०.
 विगता(त-आ)म(य)>या- -या महा ६, ७३.
 विगता(त-आ)शय- -यः अन्न ५, १०१.
 विगता(त-अ)शेष-कौतुक- -कम् महा ५, ५९.
 विगता(त-अ)शेष-संरम्भ- -म्भम् अन्न ५, २३.
 विगते(त-इ)च्छा-भय-क्रोध- -धः गी ५, २८.
 विगते(त-इ)तर-वास(ना)>- न- -नः सु २, २, ५८.
 विगतै(त-ए)नस्- -नसा अन्न ३, ५.
 वि-गर्भ^१- -र्भः ए ९.
 वि/गल्
 वि-गलत्-
 विगलद्-वृत्ति-चेतस्- -तसः महा ५, ६१.

वि-गलित-
 विगलित-गुण-जाल-केवला- (ल-आ)स्मन्- -त्सा आबो ४.
 विगलित-वास(ना)>न- -नम् महा २, ७७.
 वि-गुण- -णः गी ३, ३५; १८, ४७; -णम् ते ५, १२.
 वि/गुप्>जुगुप्स, विजुगुप्सते ई ६; क २, १, ५; १२; वृ ४, ४, १५.
 वि/गै, विगायेत् १ अव ६.
 वि-गीत- -तः वृ ६, ४, १८.
 वि/ग्रह
 वि-ग्रह^२- -हः राप् १, १३; १ संन्या २, ८७; -हम् राप् ४, २१; लिं ३ १०:१७; -हे मै ५, ७^३; मैत्रि ६, ७; महा ३, ३२.
 विग्रह-वत्- -वान् मैत्रि ६, १६.
 वि/ग्लै>ग्लापि
 वि-ग्लापन- -नम् वृ ४, ४, २१; नाप ५, १; अन्न ४, ३७; शा २३; वरा ४, ३३.
 वि/घट्
 वि-घट-
 विघटी/कृ
 विघटी-कृत्य सौ २, ६.
 वि/घस्>जिघत्स
 वि-घस- -सः आर्षे ९ : १३.
 वि-जिघत्स- -त्सः झं ८, १, ५; ७, १; ३^४.
 वि-घ्न- वि/हन् द्र.
 वि-चक्र- -क्राय त्रिवि ७, ४२.
 वि-चक्रमाण- वि/कम् द्र.
 वि/चक्ष्, विचक्षते आर्षे ९ : ४; ५; विचक्षे वा ४; १२; विचक्षत झग २४ : ९^०.
 विचचक्षिरे ई १०; १३.
 १वि-चक्षण,णा- -णः कौ २, ९;

वृजा ३, २९; १ योत १०३; रार २ ७१; रुह १६; रुजा १, १४; वर ५, ३१; -णम् प्र १, ११; -णाः गी १८, २; -णात् कौ १, २; -णैः गौ २, ३१; रार २, ९.
 २वि-चक्ष(ण)>णा^१- -णा कौ १, ३^६; -णाम् कौ १, ५.
 वि-चक्षत्- -क्षन् वा ८.
 वि/चर(>बधा),>चारि, विचरते पा ८, ९; विचरति अशि ५, ५; १३; ब्र २; अद्वै २; १६; १७; २ प्र ३५; १; विचरतः मैत्रि ६, २; विचरन्ति पा २, १०; सार २ ३५:१; विचरामि सार २ ३४ : २०; २५८ : ३; विचरेत् आरु ४; नाप ३, ४४; ५, २०; २४; ३७; जाद ५, १०.
 विचरेतुः राप् ४, १९; विचरेः पित्र १, ३.
 विचारय अन्न १, ४०; विचार-येत् पै २, ५२; ५३; महा ४, ३९.
 विचार्यते इं १५; विचार्यताम् महा ४, ७५; वरा २, ५६.
 वि-चरत्- -रताम् गौ ४, ९४; शां १, ८; जाद ७, १.
 वि-चार- -रः ते ५, ७९; महा ३, ३; ४, २; म ४९:१९; -रात् पै २, ५२; शि १, १७; -रे पित्र ५, ७; -रेण शु १, १७; महा ४, १०२; अन्न १, ४१; ४, ९२; यो १, ६१; -रैः योशि १, ६०.
 विचार-तस्(>) ते १, ४८.
 विचार-इण्ड- -ण्डः निर्वा २९७ : ८.
 विचार-ना(मन्)>न्नी- -न्नीम् अक्षि १०.
 विचार-पर- रम् अन्न ५, १.
 विचार-रूप- -पः मैत्रे ३, १०.

a) प्रास. । b) =युद्ध- वा शरीर- वा । c) विभुवि^० इति निसा. °भु->भुः, विग्रह->हे इति द्विपदः श्लोचः द्र. (तु. मैत्रि ६, ७) । d) अवि^० इति निसा. । e) 'विचक्षेम' इति बे. संटि. । f) घा. अर्थः? । g) °णसं^० इति अख्या. ।

विचार-वत्- -वान् अक्षि ९.
 विचारा(र-अ)भाव- -वात्
 त्रिवि ५, ४.
 वि-चार(ण>)णा^१- -णा ध्या ७२;
 योचूष२; महा ५, २४; २८; ११४;
 ११५; अन्न ५, ८२; वरा ४, १^२;
 ४९^{१५}; गोच ६८: २२; वि १४.
 विचारणा-शुभे(भ-इ)च्छा-
 -च्छाभ्याम् महा ५, २९; वरा
 ४, ५.
 वि-चारितव(त्>)ती- -ती सार
 २७५: १३.
 वि-चार्य हं २; महा ६, ४२.
 वि-चार्थण^१- -णम् तै १, ४, १; नाप
 ४, ३८९^१.
 वि/चलु>चालि, विचालयेत् गी ३,
 २९.
 विचाल्यते योशि ३, १३; गी ६,
 २२; १४, २३.
 वि-चालन-
 विचालन-स्थान- -नम् भ २,
 १८.
 वि/चि, विचिनोति मैत्रि ६, ३४;
 विचिन्वन्ति सु २, २, ४६.
 विचिन्वति^d तुल ७०: १०;
 विचिन्वेत्^d तुल ७०: ९.
 वि-चिति- -ति: ए ९.
 वि-चित्य के २, ५; पा ७, ५९^१; मवा
 ८९^१.
 वि-चिन्व(त्>)ती- -ती सार
 २७१: ७.
 वि-चिन्वमान^१- -न: पा २, ७.
 वि-चिकित्सा-, वि-चिकित्सित-, वि-
 चिकित्स्य- वि/कित् द्र.
 वि-चित्त- -त्तम् शि ७, ५७.

वि-चित्र, त्रा- -त्रम् कै १, १४; २, १;
 भव १, १२; -त्रा: १संन्या २,
 २६; ब्रम् २, १, २८; -त्राणि महा
 ५, १६३.
 वैचित्र्य- -त्र्यात् सांस् ६, २.
 विचित्र-घोष-संयुक्ता(क्त-अ)-
 नाहत- -ते सौ २, ५.
 विचित्र-भोगा(ग-अ)नुपपत्ति-
 -त्ति: सांस् १, १७.
 विचित्र-शाला- -ला: सार २६६:
 १४.
 विचित्र-पुष्प-स्रग्-दामन्- -आ
 शि ६, १५२.
 विचित्रा(त्र-अ)म्बरा(र-आद्य>)-
 ह्या- -ह्याम् व ४२७: ३.
 विचित्रे(त्र-इ)न्द्रिय-वृत्ति- -त्तय:
 १संन्या २, २३.
 वि/चिन्तु>चिन्ति, विचिन्तय
 योशि ४, ५; सु २, २, ५०; वि-
 चिन्तयेत् अना २०^१; ३२^१; ध्या
 ३०; जाद ५, ८; शि ७, ११६;
 ११७.
 वि-चिन्त्य कै १, ६; कौ २, १४९^१;
 त्रिता १, ८३; २, २९; ३१; अक्षि
 ४५; सुसु ७.
 वि/चूर्ण
 वि-चूर्ण्य महा ५, ७५; सु २, २, ४२.
 वि/चुत्
 वि-चृत्य मना १, ४९^१.
 वि-चेतस्- -त्तम्: गी ९, १२.
 वि/चेष्ट, विचेष्टते मैत्रि ६, ३०; कर्
 २४; पित्र ६, ११; विचेष्टति क
 २, ३, १०^१.
 विचे^k द् १४.
 वि/च्छद्>च्छादि, विच्छादयन्ति

छां ८, १०, २: ४.
 वि/च्छिद्, विच्छिन्वान् वृ १, ५,
 १४; कर् १.
 विच्छेत्स्यते छां ६, ७, १.
 विच्छिद्येते इ १६: १४.
 वि-च्छिन्न-
 विच्छिन्न-ग्रन्थि- -न्थय: अन्न
 ४, ११.
 विच्छिन्न-शरद्-अत्रां, द्र-अं)-
 श-विलय- -यम् गरा ४, १३.
 वि/च्छो-च्छा-च्छाथि, विच्छा-
 ययति वृ ४, ३, २०.
 ✓विज्
 वेग- -गम् गी ५, २३; -गेन अध्या
 ५४: यो १, ३३: ३४.
 वेग-नस्(र>:) १योत् ३८; राप्
 ४, २३; योशि १, ९६; वरा ५,
 ४४.
 वेग-वत्-
 वेगवत्-तर- -र: वज २,
 १७.
 वि-जघ्निचस्- वि/हम् द्र.
 वि/जन्>जा, विजायते सुद्र ३;
 व्यजायत क २, १, ७; अव्य १;
 विजायेत जाद ९, ६^१.
 वि-जायमान- -न: मना १, ३९^१;
 सूता १, ११९^१.
 वि-जन- -न: ते १, २३; -ने शि २,
 २०; ७, १२८; तारा ८३: १२;
 १३.
 १-३वि-जय-, वि-जमिन्- वि/जिद्र.
 वि-ज(रा)>र- -र: छां ८, १, ५; ७, १;
 ३; मैत्रि ६, २५; ७, ७; -रम् मै
 ५, ४; मैत्रि ६, ४; २५; ७, ५.
 विजरन्म^१ मैत्रि ६, १३.

a) =भूमिकाविशेष- वा विचार- वा । b) वैपश् अद्र. । c) तैश्चा ७, ४, १ । d) इनुश्च शश्चेति विकरण-
 द्वयम् (तु. पा ३, १, ८५) । e) °चिन्त्य इति तैश्चा ३, १२, ७ । f) अभिचि° इति आन., ज. c. । g) 'चिन्तयेत्' इति
 आन. । h) 'विदित्वा' इति आन., शांश्चा ४, १४ । 'विजित्य' इति अज्या. । i) मा ३२, १२ । 'विचृत्य' इति नादी. ।
 j) °के इति आन. संटि. । k) =बीजविशेष- । l) °ज्ञा° इति अज्या. संटि. । m) 'एव जातुः' इति मा ३२, ४ ।
 n) पा. १ (तु. राती.) वि/ज्>वि-जरण->-णम् इति शोधः द्र. ।

वि-जाति-

विजातीय- -यम् ते ३, ४७; ५, ८१.

विजातीय-तिरस्कृति- -तिः ते १, १८.

विजातीय-द्वैता(त-आ)पत्ति-
-त्तिः सांसू १, २२.

विजातीय-विशेष-विवर्जित-
-तम् त्रिवि ७, १७.

वि-जान-, वि-जानत्- वि/ज्ञा द्र.

वि-जायमान- वि/जन् द्र.

वि/जि, > जिगीष्, विजयति^a त्रिवि
७, २९^b.

विजिग्ये के ३, १; विजेव्यध्वे शौ
५१ : ४.

व्यजिगीषन्त शौ ५१ : २.

वि-जय- -यः के ३, १; गी १८,

७८; -यम् पा ७, २; शि ६,
१५७; गी १, ३२; -यात् महा ५,

७६; -याय व ४६०:२०९^c; -ये
के ३-४, १.

विजय-काम-कार्मुक-खण्ड-
रुता- -ते सार २६५ : ४.

विजया(य-आ)स्मक- -कः हे १२.

२वि-जय^d- -यः राप् ४, ३७.

३वि-ज(य>)या^e- -या व ४२७:
८; -याम् दे १०; व ४६६:४.

वि-जयिन्- -यी त्रिता ३, २३; २६.

वि-जित- -तम् त्रिवा २, ५२; शां
१, ३; १२^f; महा ५, ७८; योशि
१, ३९; जाद ३, १३; सु २, २,

४०; -ताः योशि १, ४८.

विजिता(त-आ)स्मन्- -स्मा गी
५, ७.

√विजितीय^f

विजितीयत्- -यम्(१न्^g)

आर्षे ७ : २.

विजिते(त-इ)न्द्रिय- -यः त्रिवा
२, १०३; योशि १, २४^h; ४४;

रुजा २, १; गी ६, ८.

वि-जित्य कौ ४, २०; श ११; शि
७, १०.

वि-जेष-
विजेष-कृत्- -कृत् व ४६० :
२१९ⁱ.

वि-जिघत्स- वि/घस् द्र.

वि-जिज्ञासा-, वि-जिज्ञासितव्य-,
वि-जिज्ञास्य- वि/ज्ञा द्र.

वि/जृम्भ्, > जृम्भि, विजृम्भते वृ १,
१, १; महा ६, ६२; अज २, ३६;

सी ३२; स्व ६० : २.
विजृम्भयति त्रिता १, ५६.

वि-जृम्भण- -णे योच् २५.

वि-जृम्भयत्- -यन् सं १७.

वि-जृम्भि(त>)ता- -ताः अज २, ७.

वि/ज्ञप्, > ज्ञपि, विज्ञपयिष्यामि वृ
२, १, १५; कौ ४, १८.

वि-ज्ञप्त-

विज्ञप्त-काम-

विज्ञप्तकामिक- -कम् वि २४

वि/ज्ञा, > जा, ज्ञापि, जिज्ञास्य, वि-
जानाति क २, १, ३; ऐ ५, १;

छां १, २, ९; ३, १३, ७; ७, ७,
१^g; १३, १; १७, १; १८, १^h; २४,

१^g; ८, ६, ३; ७, १; ३; ११, १;
१२, ६; वृ १, ५, ३; २, ४, १४; ३,

२, ४; ४, ३, ३०ⁱ; ४, २; ५, १५;
चु २, ३; सुबा ४; शु ३, १; ध्या

४२; नाप ६, १०; महा ४, ७९;
योशि २, ४; ६, २४; अध्या ४६;

क २८; ३५; सर ३, ३; इ १०:
२०; सिशि ३८२ : १५; पित्र १,

२; विजानीतः क १, २, १९;

गी २, १९; विजानते स्क १३;

पित्र ६, १३; विजानन्ति ते १,
४४; विजानासि महा ४, १;

विजानीथः छां ८, ८, १; वि-
जानामि छां ४, १०, ५^j; वृ ४, ५,

१४; कै २, २; विजानीमः के १,
३; विजानीहि के ३, ३; ७; ११;

छां ६, ३, ४; ४, ७; ८, १; ३^k; ५;
कौ ३, १; त्रिवा १, २; शां २, १^l;

पित्र १, ८; २, ५; ३, ९; ४, ३; ९;
५, २; ६; ९; ६, ६-८; व्यजानात्

तै ३, २-६, १; व्यजानत के ३,
२^l; विजानीयात् वृ २, ४, १४^m;

४, ३, ३०; ३१; ४, १२; ५, १५ⁿ;
गौ ३, ४४; कौ ३, १९^o; ब्र ३,

१२; ते १, २५; ब्रवि ४३; त्रिवा
२, १२०; १५०; योशि ६, ६९;

शा २२; सौ २, १८; ऊ ६४ : ४;
गोच ६७ : २३; सार २७७ : २०;

वपू ३, १; भव २, १५; १७;
विजानीरन् छां ७, १३, १^p;

विजानीयाः वृ ३, ४, २; क २,
२, १४; कौ ३, १^q; जा २; वि-

जानीयाम् राउ ३, १; गी ४, ४.
विजज्ञे वपू २, ३; विजज्ञौ के ३,

२; छां ६, ७, ६^r; कौ ४, १८९^m;
२०^s; विज्ञास्यसि छां ६, ७,

३; विज्ञास्यामः प्र १, २; व्य-
ज्ञासिषुः छाग २५ : १५; व्य-

ज्ञासिष्ट वृ ५, २, १^t-३^t; व्य-
ज्ञासिष्म वृ ५, २, १-३.

विज्ञायते वृ ६, २, ७; सी १९^u;
१६; १९; ३७; शारी ५; व २^v;

नापू ५, २७; नाउ २, १; ३, ६;
सिशि ३८३ : १४.

विज्ञापयति छां ७, २, १^v;

a) पाधा. पर. उसं. (पा १, ३, १९) । b) °ते इति निसा. । c) ऋ १०, ८४, ४ । d) =दाशरथि-मन्त्रिविशेष- ।
e) =देवीविशेष- । f) पा ३, १, ८ । g) पा. ? यनि. शोषः द्र. । h) भवि° इति अख्या. । i) ऋ १०, ८४, ५ ।
j) 'व्यजानन्त' इति निसा. । k) 'वेद' इति शांआ ५, १ । l) 'यात्' इति आन. । m) °ज्ञे इति आन., शांआ ६,
१९; , °जिज्ञौ इति अख्या. । n) °ज्ञे इति शांआ ६, २०^r ।

विज्ञापयतु छां ६,५,४; ६,५;
८,७;९,४;१०,३; ११-१५,३;
वृ७, १.
व्यज्ञापयिष्यत् छां ७, २, १.
विजिज्ञासे छां ७, १६-२३, १;
विजिज्ञासस्व तै३, १-५, १; अव्य
१; विजिज्ञासीत कौ ३, ८^{१०}.
वि-ज्ञान^१ - -नः आर्षे ९ : ६^१.
वि-ज्ञानत् - -नतः ई७; क२, १, १५;
छां ७, २६, १; गौ २, ४६; -नता
अञ ४, ५५; यो २, १४; -नताम्
के २, ३; -नम् मुं ३, १, ४; छां ७,
१५, ४; १७, १; २५, २; वृ ४, ३,
३०; शा ४; -नन्तः गौ ४, ४६.
वि-जिज्ञासा - -सा वृ ३, १, १.
वि-जिज्ञासितव्य, व्या - -व्यः छां ७,
२३, १; ८, ७, १; ३; मै ५, ८;
-व्यम् छां ७, १६-१७, १; २२,
१; ८, १, १; २; वपू ३, १; -व्या
छां ७, १८-२१, १.
वि-जिज्ञास्य - -स्यम् वृ १, ५, ८; ९.
वि-ज्ञात - -तः वृ ९, १६; -तम्
के २, ३; मुं १, १, ३; छां ६, १,
३-६; वृ १, ५, ८^१; शां २, १; पञ्च
२; रूह २७; पं २९; ३०; गोपू
२; ३; नापू ३, ७; -ते मुं १, १,
३; वृ ४, ५, ६; शां २, १; सर ३,
३१.
विज्ञात-तत्त्व - -त्वः योशि ५,
६२^०.
विज्ञात-ब्रह्म-तत्त्व - -त्वस्य
अध्या ४८^१.
विज्ञात-ब्रह्म-भाव - -वः अध्या
४८.
विज्ञात-मात्र - -त्रेण योशि ३,
१^०; ६, १; अक्षि १; जाद १, ३.

विज्ञात-वस्तु - -स्तुना मु २, २,
३१.
विज्ञात-विज्ञेय - -यः महा ५,
१७४; -याः अञ ४, ११.
वि-ज्ञातवन् - -वान् महा २,
१२.
वि-ज्ञातव्य - -व्यम् कौ १, ७; २,
१५^१; ३, ५^१; ६^१; -व्यानि शां
१, ४; -व्ये महा ५, ६३.
वि-ज्ञाति - -तेः वृ ३, ४, २; ४,
३, ३०.
वि-ज्ञातुम् के ३, ६; १०; १आ ५;
गौ ११, ३१.
वि-ज्ञातृ - -ता छां ७, ८-९, १;
वृ १, ५, ८; ३, ७, २३^१; त्रिता
५, १; -तारम् वृ २, ४, १४; ३,
४, २; ४, ५, १५; कौ ३, ८^१;
१आ १०; -तुः वृ ४, ३, ३०;
-तृ वृ ३, ८, ११^१.
१वि-ज्ञान - -नम् तै २, ५, १^१; ६,
१; ३, ५, १^१; ऐ ५, २; छां ७,
७, १^१; २^१; १७, १^१; २६, १; वृ २,
१, १७; ३, ७, २२^१; ९, २८, ७;
गौ ४, ४५; ४८; ५१; मै ५, ७^१;
मैत्रि ६, ७^१; १३; ब्रवि २०; मना
२, ७९^१; ८०^१; कौ ३, ३^१;
ब्र २; सुबा २^१; शां २-३, १;
महा २, ९; ६, ६१; १आ ७; यो
३, ३१; अद्वै २३; आर्षे ७:२२;
भव ५, १८; अवि २०; सांस्
१, ८९; गौ १८, ४२; -नस्य छां
७, ७, २; मैत्रि ६, १३; मु १, १,
२८; -नात् मुं २, २, १; तै ३,
५, १; छां ७, ७, २^१; ८, १; वृ ३,
७, २२; गौ ४, ५२; मना २,
७९^१; अध्या ५०; -नाथ वृ

२, ४, १३; -ने वृ ३, ७, २२; गौ
४, ५०; ५१; सुबा ५^१; पै ४, ९;
-नेन मुं २, २, ७; तै ३, ५, १;
छां ७, ७, १^१; वृ २, १, १७; ४,
५; मना २, ७९^१; गोपू २.
२विज्ञान - -नः मैत्रे ३, ३; कर्
१८.
विज्ञान-घन - -नः वृ २, ४, १२;
सुबा ११; १५^१; स्क १; गोल
६३; -नम् गा ४; सि ६, १९.
विज्ञानघन-स्वरूप - -पम्
त्रिनि ७, ८; गि ६, ३८.
विज्ञान-चिन्मात्र-स्वभावा-
(व-आ)त्मन् - -त्मा ससा १,
३०^१.
विज्ञान-दा(त्)त्री - -त्री
सिंशि ३८० : १२.
विज्ञान-निष्पत्ति - -त्तिः जाद
१, १८.
विज्ञान-पति - -तिः तै १, ६, २.
विज्ञान-मनस् - -नसी ब्रसू २,
३, १५.
विज्ञान-मथ - -यः मुं ३, २, ७;
तै २, ४, १; वृ २, १, १६; १७;
४, ३, ७; ४, ५; २२; सुबा ५; ससा
१, १६; सू १८; ग ५; -व्यम् तै
२, ८, ५; ३, १०, ५; भ २, २९;
-यात् तै २, ५, १; -येन भ २, २८.
विज्ञानमथ-कोश^१ - -शः पै
२, २२.
विज्ञान-मात्र - -त्रम् अञ ३,
२०; सांस् १, ४२; -त्रेण शु १,
१३; योशि २, १; ६; ६, २५; अञ
१, ४; अद्वैभा २.
विज्ञानमात्र-रूप - -पः तै ३,
३१.

a) कर्तरि शः प्र. उसं. (पा ३, १, १३७) । b) 'वि-ज्ञान(ः)' इति बे. । c) ज्ञा^० इति अज्या. ।

d) °ह्यभावस्य इति अज्या. संदि. । e) °ज्ञान^० इति अज्या. । f) °व्यका^० इति अज्या. ।
g) तैश्चा १०, ६३, १^१ । h) तैश्चा १०, ६४, १ । i) तैश्चा १०, ६३, १ । j) °नघनः चिन्मात्रस्वरूपः
आत्मा इति अज्ञान. ।

विज्ञान-रूप- -पम् वउ छ, २;
-पाय गोपू ३५.

विज्ञान-वत्- -वतः छां ७, ७,
२; -वताम् छां ७, ८, १; -वान्
क १, ३, ६; ८; मैत्रि ६, १३; यो
२, १^०; वउ छ, ५३.

विज्ञानवती- -ती मै ५,
५^१; मैत्रि ६, ५.

विज्ञान-वश-

विज्ञानवश-तस्(>) महा
५, ६६.

विज्ञान-विद्- -विदाम् अन्न
३, २०.

विज्ञान-विध्वस्त- -स्तम् महा
४, २७; वरा ३, १७.

विज्ञान-संपन्न- -न्नाः वरा २,
११.

विज्ञान-सहित- -तम् गी ९, १.

विज्ञान-सारथि- -थिः क १, ३,
९; भव २, १२.

विज्ञान-स्पन्दित- -तम् गौ ४,
४७.

विज्ञाना(न-अ)त्मन्- -स्मा प्र
४, ९; ११; पै २, २५; १आ १;
२आ २; राउछ, ४७; यो ३, २७.

विज्ञाना(न-अ)दि-भाव- -वे
ब्रसू २, २, ४४.

विज्ञाना(न-अ)दि-विवर्जित-
-तः ते छ, ७४.

विज्ञाना(न-अ)नन्द- -न्दः वउ
६, ५३.

विज्ञानानन्द-धन-स्वरूपा-
(प-अ)नन्त-सोपान-मण्डल-

-रुम् सि ६, २७.

विज्ञाना(न-अ)र्थ- -र्थम् मुं १,
२, १२.

विज्ञाना(न-अ)विज्ञान- -ने
दे १.

वि-ज्ञाप्य नाप २.

वि-ज्ञाय प्र ३, १२^१; तै ३, २-५, १;
वृ ४, ४, २१; अना १; नाप ३,
८६; ६, १; अता ३; महा ५, ७१;
योशि २, २१; अन्नछ, ३७; अध्या
२७; पत्र २; त्रिता १, ७९; त्रि
७; रुह ३४; मवा ३; वरा ४,
३३; शा २३; सूता ६, ५; शि
१, १६; हे ९; ११; सांका ७१;
गी १३, १८.

वि-ज्ञेय, या- -यः मां ७; श्वे ५, ९;
गौ ३, ३४; कौ १, ७; वृपू ४, ७;

वृउ १, १२; ते १, ३४; नाप ३,
३८; ८, २०; त्रिब्रा २, २७; १६२;

रार ५, १३; राउ ३, १; पै ३, ३;
४, १७; महा ५, ४३; यो ३, ३३;

जाद ४, २९; त्रिता ५, १; वरा
२, ३०; ३९; शा १६; शि १,
२३; २, १२; ५, ४१; कालिछ ०२:

८; वउ १, १६; २, ३८; ४, ४७;
५, ४१; भव १, ३४; २, ३६;

-यम् गौ ४, ८८; ध्या ५४; योशि
१, १४३; दत्ता १, २; योरा १०;

सु २९४: २२; वि ११; शि ३,
१४; ४, ३; ६, १९२; २८२; -या

गौ ४, ९; शां १, ४; विद्या ४;
-याः रार २, ३६; शां १, ४; रुजा

१, ९; -याव गौ ४, ९०; -यानि
गौ ४, ९०; सुबा ६.

वि-ज्य- -ज्यम् नी २, १२^१.

वि-ज्वर- -रः महा ६, १४; १५; ६६;
६७; -रम् अन्न १, ४१.

विज्वर-स्व- -स्वम् अन्न १, ४२.
विद् २विष्- द्र.

विटप^१-

विटप-शाखिन्- -खिनः रुह १४.
वि(<>वि^०)डाल^१- -रुम् वृजा

४, ६.

विडू(<>दू^०)र^१-

वैडूर्य^१- -र्थम् सिशि ३८२: १८.

वैडूर्य-प्रदान-

वैडूर्यप्रदान-तस्(>) शि
६, ९८.

वैडूर्य-वर्ण- -र्णम् ध्या ९३, ९.

वि-त(था>)थ- -थम् ते ५, ५१; -थैः
गौ २, ६; ४, ३१.

वैतथ्य- -थ्यम् गौ २, १; ३;
९-११.

वितथा(थ-अ)भिनिवेश- -शः भव
५, ३.

वि/तन्, वितन्यते सार २६२: ७.

वि-तत, ता- -तः सुं ३, १, ६; वृ ४,
४, ८; यो ३, ३१; -तम् छां १,
१०, ७; मना १, ४^१; ११^१; त्रिवि

७, ४^१; पा १, ४; सु २९३: १४^१;
१७^१; लिं ३०९: १^१; -तस्य क

२, १, २; -ताः त्रिब्रा २, ७६; गी
४, ३२; -ताम् १संन्या २, ५५.

वितत-क्रम- -मान् अना ३०^१.

विततो(त-उ)दय- -ये महा ५,
१०८^१!

वि-तत्स ए छ; पा १, ४; ८, ४; कर
१; कश्चु २, ३.

वि-तन्वत्- -न्वन् पा २, ५.

वि-तन्वा(न>)ना- -ना तै १, ४, १;
व ४६६: ११^१.

वि-तान- -वम् पा ४, ७; १०; ६, ३;
८, ७.

वितान-कलन्न- -न्नैः शि ६,
१८३.

a) °ज्ञात° इति अख्या. । b) 'विज्ञानाति' इति निप्ता. यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.) । c) मा १६, १० ।

d) व्यु. ! । e) तु. गपू. पृ५७०V । f) व्यु. ! =मार्जार- । g) पा ४, ३, ८४ । h) मा ३२, १२ । i) तैत्रा ३, १२,
३, ४ । j) ऋ ९, ८३, १ । k) 'तुह्यविक्रमः' इति आन., 'विततः क्रमः' इति अख्या. । l) तु. गपू. पृ५४९i ।

m) तैत्रा ७, ४, १ ।

वि-तन्तु-

वितन्तु-ता- -ता ते ६, २८.

वि-तन्वत्-वि-तन्वान-वि/तन.द्र.

वि/तत्

वि-तत्-पत्- -पत् नृपू २, ११९^४.

वि/तर्क

वितर्क- -र्काः योसू २, ३४.

वितर्क-बाधन- -ने योसू २, ३३.

वितर्क-विचारा(र-आ)नन्दा-

(न्द-आ)स्मिता(ता-अ)नुगम-

-मात् योसू १, १७.

वितल^{१५}- -लम् राधा १, ३.

वितल-लोक-ज्ञान- -नम् शां १,
७, ५२.

वितस्ता^{१०}- -स्तया मना १, १३९^१.

वितस्ति^{१०}- -स्त्याम् मना २, १३,
२१९^१.

वितस्ति-प्रमित- -तम् योशि १, ८१.

वि-तान-वि/तन.द्र.

वि/तुद्

वि-तुद्- -दस्य मना २, ६७९^४.

वि/तुद्, न्यतृणत् क २, १, १.

वि-तृ(ष्णा>)ष्णा-

वैतृष्ण्य- -ष्ण्यम् नाप ३, १२.

वित्त-, वित्ति- √विद्(लाभे) द्र.

?वित्ते^{११} नी १, ३.

√विद्(ज्ञाने), > वेदि, विविदिप्,

वेत्ति श्वे ३, १९; गौ १, २२; ब्र
१^१; ध्या ८१; योत १२७; नाप
९, १४; योचू ३६; पैष्ठ, १४; महा
२, १९; योशि ५, ४२; वेद ई ११;
१४; के. २, २; ३; ४; ६; ९; क १, २,
२४; २, १, ५; प्र ३, ११; ६, ६;

मुं १, २, १३; २, १, १०; ३, २, १;

९; गां ०-११; १२^१; तै १, ३, ४;

५, ३^१; २, १, १; ५-६, १^१; ९,

१: ३, ६-९, १; १०, २; ६: छां १,

१, १०^३; ३, १: ६, ७; १३. ४^३; २,

११-२०, २; २१, ४^३; २४, १६^३;

३, ६-११, ३; १२. ९; १३, १-५;

६^३; ७^३; १५, २; १६, ७; १८, ३-५;

६^३; ४. १, ४^३; ६^३; ३, ८^३; १५,

२-४: ५, १, १-५; १०, १०^३; ६,

१४, २; ७, ५, २; ८, १२, ४^३; ५;

वृ १, २, १: ५; ७^३; ३, ७; ९; १६;

१८; २२; २५^३; २६^३; २७; २८;

४, १; ५; ६; ७^३; १०^३; १७; ५,

१; २; १२; २१; २, १, १९; २, १;

२; ४; ३, ६; ४, ३; ६^३; ३, ३, २; ७,

३; ५-९; ११-१४; १६-२३; ४,

३, २१^३; ४, २४; २५; ५, ४; ७^३;

५, १, १; ३, १^३; ४, १^३; ५, ३; ४;

७, १; ११, १^३; १२, १; १३, १-४;

१४, १; २; ३^३; ६, १, १^३-६^३;

१४; गौ १, ५: सूता ३, ५१^१;

विदन्ति सार २३१ : २२;

सिंशि ३८० : २; ४; विदुः क

२, ३, २; ९९^३; सुं २, २, ९; तै

२, ६, १; छां ५, १०, १; ६, ९,

२; १०, १; २; ७, २५, २; वृ १, ३,

२; ३, ७, ४; १०; १५; ४, १४;

१८; ५, १, १; ६, २, १५; १६; श्वे

३, १; १०; १३९^३; ४, ८९^१;

१७९^३; २०; ५, ६; १४; गौ २, ३, ४;

मना १, ३९^३; ब्र ३, ५; अना २७;

वेत्सि मैत्रि २, ३; वेत्थ के २, १;

प्र ६, १; छां ५, ३, २^३; ३^३; ७,

१, १; वृ ३, ७, १^३; ९, १९;

६, २, २^३; गौ ४, ५; वेत्ति

आवां २१: अध्या ६७; १अव

२७: वृ ३, १९; वेद के २, १;

२^३; प्र ६, १; ७; छां ३, १५, २;

४, ४, २^३; ५, ३, ५; वृ ३, ७, १^३;

९, १०-१७; १९; ४, २, १; ६, २,

२-४; श्वे ३, ८९^३; २१; कौ १,

१^३; त्रिविष्ट, ५९^३; सुद्र १, ८९^३;

पा ७, ५९^३; रशिमं १५९^३;

विश्वे मना १, ५९^३; ६९^३;

७९^३; २, २०९^३; नृपू ४, १३;

त्रिवि ७, ३९^३; रार २, ८६^३; सू

२२; त्रिता ३, ३४; दे७; ग १०;

ऊ ६३ : ११; तुल ७० : ११;

विश्वः के १, ३; वृ ४, १४;

नृ ९, १६; गौ २, ६; विश्वा

व ४६० : २२९^३; विद्धि के १,

४-८; क १, १४; ३, ३^३; सुं २,

२, २; ३^३; छां १, ८, ७; ८; ६,

११, ३; मैत्रि ७, ११; ते १, ५^३;

नाप ६, १; मं १, ३, १; अताट;

राउ १, २; वित्तम् २संन्या १७:

२९^३; वेदानि छां १, ८, ७; ८;

विदाम श्वे ६, ७; अवेत् वृ १,

४, ५; ९; १०; अवेदम् ऐ २,

५९^३; विश्वात् क २, ३, १७^३; छां

२, ९, २; २४, २; ५, २, ८; ३, ४;

वृ १, ५, २; ३, ७, १; ९, १०-१७;

श्वे ४, १०; गौ १, २४; ब्र २^३;

कौ ३, ८^३; नृपू ३, २; नृ २,

११; ते १, २८; विष्टुः क १,

a) तैत्रा ३, १०, १, २ । b) व्यु. ? = लोकविशेष- । c) वैप १ यद्र. । d) ऋ १०, ७५, ५ । e) व्यु. ? ।

f) °स्थान्ते इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. तैत्रा १०, ११, २; JC.) । g) तैत्रा १०, ६७ । h) तु.

सस्थ. टि. युष्मद्- > *तय्- > ते । i) 'नयति' इति आन. । j) √वद् > वद् इति पा. ? यनि. शोधः द्र. ।

k) तैत्रा १०, १, ३ । l) ऋ १, १६४, ३९ । m) मा ३१, १८ । n) तैत्रा १०, १, ५^३; २, ६ । o) तैत्रा १०, १, ६^३ ।

p) तैत्रा १०, १, ७^३ । q) तैत्रा १०, ४६, १ । r) उत्तरेण संधिरार्षः । s) ऋ १०, ८४, ५ । t) वैटु. विष्टु. (IHQ

१७, ८९) विध्य (< √व्यध्) इति । u) 'स्थानम्' इति आन. । v) ऋ १, १०५, १ । w) ऋ ४, २७, १ । x) 'विद्यम्'

इति आन. ।

२,७; वृ १, ४, १०; विद्याः शा
३४५^०; सु १, १, ५२५^०; विद्याम्
क १, १, २०; गी १०, १७.
विदामः गोड १४^०; कश्रु २, १^०.
विवेद छां ६, १३, १; वेदिष्यन्ते
छां १, ९, ३; वेदिष्यथ छागर२४:
१७; वेदिष्यावः वृ ३, २, १३;
अवेदीत् के २, ५^०; अवेदिषुः छां
६, १, ७; अविदम् छां ४, १, ७;
८^०; वा १४; अवेदिषम् प्र ६,
१; अवेदिष्यन् छां ६, १, ७;
अवेदिष्यम् छां ५, ३, ५.
अवेदि वृ ४, ४, १४^०।
वेद्यसे प्र ४, १०; ११; वृ ३,
२, ९; ए १३; इ १० : २०१^०;
वेद्यति मना २, ७९५^०; व्र १;
वेद्यन्ते प्र ५, ७; मुं १, २, १०;
छां ८, ७, ३; वेद्यसे वृ ४, २, ४.
विविदिषन्ति वृ ४, ४, २२; वि-
विदिषाणि छां १, ११, १.

विस्त्वा छां १, ४, ३.

विद्- विव् क २, ३, १८.

*विदा-

*विदां/कृ, विदांचकार के ४,
१-३; छां १, २, १३; वृ ५, १४,
८; सूता ३, ५; गा २६; विदां-
चक्रुः छां ६, ४, ५; ६^०; ७; छाग
२४ : ५.

विदान- -नःवा १; सिरि ३८० : ९.

विदित, ता- -तः गौ १, २९; पाशु १,
२५; -न्तम् के २, १; वृ १, ४, १६;
२, १, १४; ४, ५; ४, ५, ६; व्र २;
सुवा ५; नाप ३, १७; ७८; त्रिवि १,
२; ८, १४^०; पत्र ३, २; पप ४ १७:
२; -ता छां ४, ९, ३; -तात् के १,
३; पाशु २, १३; -त्से गौ ४, ८९.

विदित-बन्ध-कारण- -णस्य
सांसू १, १५५.

विदिता(त-आ)त्मन्- -त्मना
महा २, १६; -स्मनाम् गी ५, २६.

विदिता(त-आ)विदित- -तात्
नृत् २, १६; १९.

विदिस्वा क १, १, १७; १८; २, १,
२; वृ ३, ५, १; ८, १०; ४, ४, २२;
२३; श्वे १, ७; ३, ८५^०; ६, १५५^०;
गौ २, ३६; के २, ४; हं ५; सुवा
१३; नाप ८, १८; त्रिवि २, १७.

विद्या^०- -द्या ई १०; ११; के २,
४; प्र १, १०; छां १, १, १०; वृ
१, ५, १६; मैत्रि ४, ४; ७, ९; रापू
४, ६३५^०; शां ३, १; १संन्या २,
९८; यो २, १६; सार २३२ : ६;
भव ३, १५^०; ब्रसू ४, १, १८; -द्या
क १, २, ४; तै १, ३, ३; ३, ६, १;
छां १, १, ९; १०; २, २१, १; २३,
२; ४, ९, ३; ५, ३, ७; वृ ५, १४,
२; ६; ६, २, ८; श्वे ५, १; मैत्रि ६,
३२; ७, ९; मना २, १४५^०; ७९५^०;
वृजा १, १; ३, १^०; २; नृपू ४, १५,
१०; ससा १, १; ६; ते २, ८; ६,
२०; घ्या ६४; नाप ३, २४; सी
३१; योचू ३४; अता १७; राज
४, २१; महा ५, ११०; १संन्या
१, १; २, ८३; अक्ष ३; १आ ४;
पाशु १, २; ३; २, १८; ३२; त्रिता
१, ९; ६३; ६४; ६९; ७१; ७५;
२, १५; ३३; दे १; रुह २८;
३०; यो २, ४; ३७; मवा ५;
गोड ५७; त्रि १६; शा ३३५^०;
ब ६; सु १, १, ५१५^०; द्र १३;
स्व ६० : ४; सार २८१ : १७;
लि ३१० : ११; शि १, ३४; गा

४; २०; तारा ८३ : २; अद्वैमा
६; भव ५, १२; पित्र २, ८; कश्रु
१, १; ब्रसू ३, ३, ४७; -द्याः वृ २,
४, १०; ४, १, २; ५, ११; महा ६,
१६; गोपू २२^०; नापू ५, ३७;
३९; सार २५८ : १३; -द्यानाम्
वृ २, ४, ११; ४, ५, १२; गी १०,
३२; -द्याम् ई ११; क २, ३, १८;
छां १, ४, २; ४, १७, ३; वृ १, ५,
१६; मैत्रि ७, ९; वृजा ५, १६;
नृपू ३, ४; सुवा ७; नाप ३, ७२;
योशि १, २२; अव्य २; ६; ७^०;
अक्ष १, ३; अध्या ७०; सू ३०;
त्रिता १, ५८; ६१; ७८; २, १५;
१८; १९; २२; २६; २८; ३०;
३२; ६९; ५, २१; रुह ३६; यो
२, १; २; २५; २६; २७; पं २६;
गरु १; सार २३२ : ६; १३; १४;
१६; हे १४; व ४३३ : ७; ४६५;
१८; हंषो २०; कश्रु २, २; वपू २,
२; वड ३, ५३; भव ३, १५^०;
-द्यायाः छां ४, १७, ८; अव्य ५;
त्रिता १, ६०; व ४३६ : ३;
-द्यायाम् ई ९; वृ ४, ४, १०५^०;
अध्या १४; सार २३२ : ८; -द्यायै
गोड ६६; -द्यासु रार १, ४; -द्ये
मुं १, १, ४; ब्रवि १७; रुह २८;
अवि १७; भव ३, २.

विद्या-कर्मन्- -र्मणी वृ ४, ४, २;
निह २, ५; -र्मणोः ब्रसू ३, १, १७.
विद्या-कल्प-तरु- -रवे त्रिवि ७,
४३.

विद्या(द्या-आख्या) >)ख्य-

-ख्यम् वृजा ४, १९.

विद्या-तपस्- -पोभ्याम् भव ३,
१८.

a) वाध २, ९ । b) °म इति निसा. । c) 'अविहम्' इति निसा. ? । d) °दिः (तु. निसा. °दीः) इति पा. ?
यनि. शोधः द्र. (वैतु. शं. प्रभृ. =अज्ञान- इति) । e) °यत् इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । f) तैश्चा १०, ६३, १ ।
g) मा ३१, १८ । h) =ज्ञान-, मन्त्र-, इकार-बीजाक्षर-, देवीविशेष- । i) =इकार-बीजाक्षर- । j) मा ४०, १४ ।
k) तैश्चा १०, १३, १ । l) वाध २, ८ । m) °द्याम् इति निसा. । n) मा ४०, १२ ।

विद्या-तपो-ध्यान-मैत्री-कला-
गुण-संयुक्त- -क्ताः सार २८७ः
२०.

विद्या-तस्मात्(>) सांसु १, १६.

विद्या(द्या-आ)र्त्तात्- -न्तः शिवा
१, १.

विद्या(द्या-आ)त्मन्- -न्मा ध्या
३२.

विद्या-दान- -नम् म ३, २; शि
१, ३५; -नेषु सार १, ४.

विद्या(द्या-आ)दि- -दीनाम्
त्रिवि १, १०.

विद्यादि-साकार-भेद- -दः

त्रिवि २, ९.

विद्या-धन-धान्य-यशस्-क-
(र >)री- -रीम् व ४३३: १.

विद्या-धर- -रः नाद १३;
-राणाम् गु १५.

विद्या(द्या-आ)धिकारिन्- -रिणि
शु ३, ३.

विद्या-ध्वस्त-प्रपञ्चा(स-आ)व-
गाहित-ज्ञाना(न-आ)वशिष्ट-
-ष्टम् नि ४३.

विद्या(द्या-आ)नन्द-

विद्यानन्द-मथ- -मथोः

त्रिवि ६, २३.

विद्यानन्दमथा(य-आ)-

मृत-दिव्य-शरीर- -रम् त्रिवि
६, २१.

विद्या(द्या-आ)नन्द-तुरीय-
-याणाम् त्रिवि २, ९.

विद्यानन्दतुरीया(य-आ)श-
-शाः त्रिवि १, ९.

विद्यानन्दतुरीया(य-आ)-

ख्य-पाद-त्रय- -यम् त्रिवि ४,
१०.

विद्या-निधि- -धये त्रिवि ७,
४३.

विद्या-न्यास-रूप- -पः षो १५.

विद्या-पाद- -दः त्रिवि १, ९.

विद्या-प्रकाशि(ता >)ता- -तया
त्रिता १, ७१.

विद्या-प्रपञ्च- -ञ्चः -ञ्चस्य त्रिवि
३, २.

विद्या-प्रपूरित- -न्तः कान्ठि
४०२: ३.

विद्या-प्राधान्य- -न्धेन त्रिवि २,
१०.

विद्या-प्राध्य-

विद्याप्राध्य-त्व- -त्वे सांसु
५, १८.

विद्या-भक्त- -क्ताय कान्ठि ४०३:
१८.

विद्या(द्या-आ)भीष्मिन्- -तम्
मैत्रि ७, ९.

विद्या(द्या-आ)भीष्मिन्- -प्सिन्-
नम् क १, २, ४^५.

विद्या(द्या-आ)भ्यास- -से १संन्या
२, ८४.

विद्या-मन्त्रै(न-ए)क-संश्रय-
-यः म २, १३.

विद्या-मय- -यः म २, १३;
गोड १४; -यान् त्रिवि ६, २०;
२१.

विद्या-युग-शोधन- -नम् तारा
८४: ९.

विद्या-राज- -जाय हं ३; त्रिवि
७, ४१.

विद्या-राज्ञी- -ज्ञीम् कामे ४;
१३; गुषो ४२१: ३.

विद्याराज्ञी-न्यास- -सम्
गुषो ४२०: १.

विद्याराज्ञ्य(ज्ञी-आ)धिका-
रिन्- -री कामे १३.

विद्या-रूप- -पः म २, १३.

विद्या-लिङ्ग- -ङ्गम् लिं ३११: ३^१.

विद्या(द्या-आ)लोक-समायुक्त-
-क्तम् पं ६.

विद्या-वत्- -वताम् गु ६६;

-वन्तः म २, २९; -वान् ग १८.

विद्या(द्या-आ)विद्या- -द्योः

त्रिवि ६, १९; -द्याभ्याम् गोड
१४; -द्ये षे ५, १^१; ते ५, १४;
मथा ३; गोड १४.

विद्याविद्या(द्या-आ)दि-

भेद- -देन १आ २.

विद्याविद्या(द्या-आ)दि-मेया-
(य-आ)त्मन्- -न्मा ते ४, ७१.

विद्याविद्या(द्या-आ)दि-

रूप- -पम् ते ५, ८२.

विद्याविद्या(द्या-आ)दि-

वर्जित- -तः ते ४, ७१.

विद्या-विनय-संपन्न- -न्ने गी ५,
१८.

विद्या-विभूति- -तिम् त्रिवि ६,
२०.

विद्या-विषय- -यम् अज ४,
२७; करु १०.

विद्या(द्या-आ)विर्भाव- -वः सार
२५०: ११.

विद्या-वृद्ध- -द्धाः मैत्रे २, २४.

विद्या-वेद्य- -द्यः त्रिवि १, १.

विद्या-शक्ति- -क्तिः वृजा ३, १.

विद्या(द्या-आ)ष्टक- -कम् त्रिता
२, ३४.

विद्या-सधर्मन्- -र्माणः सार
२५३: २१.

विद्या-साकार- -रः त्रिवि २, १०.

विद्या-सामर्थ्य- -र्थ्यात् ब्रसू ४,
२, १७.

विद्या-सिद्धि- -द्धिः अत्ति १,
चा १४.

विद्या-स्वरूप- -पः त्रिवि १, १.
विद्यो(द्या-उल्का >)ल्क-
-ल्काय त्रिवि ७, ४२^१.

विद्वस- -दुषः तै २, ७, १; मना २,
८०^१; पदं १; वरा ३, २३^३;

इ ११:१७; योम् २,९^३; -दुषा
अध्या १; -दुषाम् छां ८, ६, ५;
-दुषे वृ ५, १२, १; -द्वन्निः मैत्रि
६, ९; राष्ट्र १, २; -द्वन् वि२७;
-द्वांसः सुं १, २, ११; छां ५, १८,
१; ६, ४, ५; वृ ४, ४, २२; ६,
१, ८-१०; १२; १४; मैत्रि ७,
१०; मना २, ५९९^०; ७८^{१०};
कौ २, ५; १३९^०; सुबा ८; शा
१८; -द्वांसम् वृ ५, ५, १; कौ
२, १०^०; -द्वाव ई १८; क १,
१, १८; प्र ३, ११; ५, २; ७;
सुं १, २, १३; ३, १, ३; ४, २, ४;
८; तै २, ४, १; ६, १; ९, १^१; ऐ
४, ६; छां १, १, ७; ८; ३, ७, ४,
५; ७, ७; ९; ९, २, ४; २, १, ४; २,
३; ३-७, २; ८, ३; १०, ६; २४, २;
३, १६, ७; १९, ४; ४, ५, ३^१;
६-८, ४^१; ११-१३, २^१; ५, २४,
२; ३; ७, ५, २; वृ १, २, ३; ५, २;
३, ९, १९; ४, १, २-७; ४, १७; ५,
१५, १९^१; ६, ४, ३; ४^१; २४; श्वे
२, ८; ९; ६, २१; गौ ४, ८६;
मै ५, १; मैत्रि ४, ४; ६, १; १८;
१९; मैत्रे २, ११; १९; ब्रवि१६;
कै १, १; आरु ३^१; ५^१; मना
१, ३^१; ११९^१; २, ७९९^१;
८०^१; ब्र २; ३, ३; ६; कौ १,
४^१; २, ६; १४; ४, २०; वृजा ३,
८; १६; २९; वृपू १, १३; काला
१७; नि १०; ४३; ४४; ते १,
५१; नाप ३, ११; ८०; ८३; ४,
३५; ५, २६; ९, १; श १७९^१;
त्रिवि ४, ५९^१; मुद्र ४^१; शां १,

५; ७, ४७; पै ४, ११; योशि २,
४; ६, ५४; १संन्या १, १; २,
९०; पप ४१८: १; अव्य ४;
कुं २८; सावि १०; १आ ११;
पत्र ३, ७; १२; त्रिता ५, १६;
जाद ६, ८; ११; ७, ७; ११; १३;
मवा २९^०; पं २३; या २, २२;
शा ३०; जावा २६; सौ २,
१३; गोच ६७: ३; १०; १७;
नापू ४, १४; नाउ १, १; स
३७९: ४; २१; गु ३८; अरु
२७९^०; वपू २, ५; भव १, २; ३,
२५; २६; कश्रु १, १; अवि १६;
गी ३, २५; २६.

वैदुष्य- -व्यम् रार २, ८८^१०.

विद्वत्-संन्यासिन्- -सी नाप४,
३८; ५, १.

विविदिषत्- -षताम् गोपू ६.

विविदिषा-

विविदिषा-संन्यासिन्- -सी
नाप ४, ३८; ५, १.

वेत्- -त्ता श्वे ३, १९; कै २, २; ते
६, ८; नाप९, १४; सिशि ३८१:
६; गु ५१; भव २, ४६; गी११,
३८.

वेद- -दः ब्र १.

वेदन- -नम् ते २, ३४; ६, ८; १आ
८; वरा ३, ५; -नात् जाद १, २५.

वेदयत्- -यन्तः इ १२: ७.

वेदितव्य, व्या- -व्यः सुं ३, १, ९;
कौ ४, १८; -व्यम् वृ ५, १, १; श्वे
१, १२; मैत्रि ६, १०; नाप ६, १;
९, ११; १६; भव २, ५७; गी११,
१८; -व्ये सुं १, १, ४; मैत्रि ६,

२२; ब्रवि १७; दे १; रुह २८;
भव ३, २; अवि १७.

वेदितुम् त्रिवि ३, १; पप ४१७: ३;
स्व ६२: ३; गी १८, १.

वेदितृ- -ता वृ ३, ९, १०-१७.

वेद्य- -द्यः कै २, ३; आबो ८; गी१५,
१५; -द्यम् प्र ६, ६; श्वे ३, १९;
सुबा ५, सतां ५; ते २, ११; ६,
८; नाप९, १४; अता १०^३; महा
२, १९; वरा ५, ५६; वडु ३१८:
९; गु ५१; भव २, ४६; गी ९,
१७; ११, ३८.

वेद्य-वेदक- -कः म४९: १८.

वेद्याद्यस्थिरमायाद्य- -द्याः
पी ४२२: १२.

वेद्या(द्य-अ)भाव- -वात् महा
२, ६.

√विद्(लाभे), >न्द, विन्दते के २,
४^१; तै २, ७, १; छां ८, ३, २; ५,
१; २; वृ १, ४, ७; १७; ४, ४, २४;
श्वे १, ९; ना३; मना २, ४१९^१; कौ
४, ११; ध्या ३; नाप९, ८; त्रिता ४,
२४; करु २६; म१, ११; पित्र २, ७;
६, १४; १९; गी ५, ४; विन्दति
वृ १, ४, १६; गर्भ १^१; ३-५;
ध्या ५०; नाप ३, २७; ५, २९;
योचु १४; पै ४, १८; सू ३२; दे
२०; ग १६; चि ६, २८०; ७,
१०३; व ४२९: १४; ४६२:
१७९^१; वपू १, ४; वड ६, ४८^१;
गी ४, ३८; ५, २१; १८, ४५; ४६;
विन्दन्ते यो २, ५; सार २५४:
९; २९०: १४; विन्दन्ति छां
८, ३, २; ते १, ४^१; आर्षे ७: १९;

- a) तु. गपू. पृ३४१d । b) तैआआ १०, ५९ । c) तैआ १०, ६२, १^१ । d) द्वांसम् इति शांआ ४, १३ ।
e) वैतु. Jc. तद्वि इति । 'ब्रह्म' इति मंत्रा १, ५, १० । f) ऋ १, १८९, १ । g) तैआ १०, १, ३; मा ३२, ९ । h) ऋ
३, ४७, २ । i) तैआ १०, ६३, १ । j) तैआ १०, ६४, १^१ । k) तु. सस्थ. टि. ब्रह्मन्->-ह्य । l) तैआ ८, ४, १ ।
m) 'विदिस्वा' इति मा ३१, १८ । n) तैआ ३, १२, ७ । o) तैआ १, २७, ४ । p) 'दुष्यम्' इति निसा. यनि. शोधः
द्र. (तु. अज्या.) । q) कर्तरि कृत् । r) उप. कर्तरि ण्वुल् द्र. । s) वा.१ । t) तैआ १०, ३९, १ । u) 'ते इति आन.,
अज्या. । v) ऋ ९, ६७, २१ । w) पा.१ 'विन्देत' इति शोधः द्र. (तु. अज्या. संटि.) ।

प्रा ४, १; मु १, १, ९-११;
१प्र ३१ : ३; २प्र ३७ : ३; शौ
५२ : १; स्व ६० : ४; गोच ६६:
१५; ६९ : १२; नापू ५, ३६;
सार २२४ : १६; २८५ : १४;
शि २, ६; सिशि ३८२ : ७; गार
४०५ : ९; गु २०; ३९; ५४;
अद्वैभा ७; वपू १, ७; २-३, १;
भव १, ३५; २, ५०; पित्र ६,
१२; गी २, ४५; १७, २३; -दात्
जाद १, १८; -दात् छां ६, १, २;
७, ३; ६; वृ ४, ५, ७; ६, ४, १६;
१८; श्वे ६, १८; अशि १, १०;
काला १९; नाप ४, १; स २;
अव्य ७; कुं १; १अव १३; कठ
२; मु २, २, ६५; २प्र ३२ : ३;
७; गोच ६९ : १४; २शिसं २७;
गार ४०८ : १७; कश्रु २, ३; ३,
२; -दानाम् छां ७, १, २; ४; २,
१; ७, १; वृ २, ४, ११; ४, ५, ६;
१२; वृषू ४, १३; शु १, १५; २प्र
३५ : ५; ३६:४; बा १४; पा ५,
७; सं २२; पारा १; सांसू ५, ४५;
गी १०, २२; -दे जाद २, १२; मु
१, १, ९; सार २२० : १६; २२१ :
११; २२७ : ४; गी १५, १८;
-देभ्यः गार ४०५ : ९; गु ७७;
वपू १, ३; -देषु मै ४, ३; मैत्रि ४,
३; ७, १०^३; आरु २; ते ५, ८८;
शां २, १; पै ४, २३; जाबा १८;
चृष ८५ : १५; २शिसं २२; स
३७९ : ७; गी २, ४६; ८, २८;
-दैः कै २, ३; अशि ७, ४; सुबा
९; ते ३, १८; पै ४, ९; अव्य २;
कृ ६; सता १, १५; सार २३१ :
१३; वटु ३१८ : ६; हे १४; गी
११, ५३; १५, १५; -दौ वृ ६,
४, १५; कश्रु २, ३.

वैदिक- -कः सु २२५ : ४;
-कम् त्रिवि ६१^१; भव ५, ६; १६;
-काः स्व ६१ : १५; -कान् भव
५, १४; -कानाम् वा ३४; -के त्र
३, ४; नाप ३, ८४; जाद २, ७;
पत्र ३, ८; -केन भव १, ५७; -केषु
मैत्रि ७, ८; जाद २, १०; -कैः
जाद १, १८.
वेद-ऋच्- -ऋचः सार २३९ :
१९; २४० : २१.
वेद-कल्प-तरु- -रवे त्रिवि ७,
४३.
वेदकल्पतरु-वन- -नम् सि
१, १३.
वेद-क्रिया- -या अद्वैभा ७.
वेद-गर्मित- -तम् शु १, १२.
वेद-गुह्यो(ह्य-उ)पनिषद्-
-षत्सु श्वे ५, ६.
वेद-तत्त्वज्ञ- -ज्ञः जाद ६, २८^६.
वेद-तरवा(त्व-अ)र्थ-विहित-
-तम् लु २.
वेद-त्व- -स्वम् पारा १.
वेद-द्वितीयक- -कम् पं ३.
वेद-निन्दक- -कः इ १७ : ९.
वेद-पारग- -गः त्र २; नाप
३, ७८; -मैः गी २, ३५; ते ५,
८७.
वेद-पुरुष- -षः पंहं १; तुअ ४;
पप ४२० : १०; लिं ३११ : ५;
-षाः सार २३९ : १९.
वेद-ब्रह्मचर्य- -र्यम् आश्र १.
वेद-म(य>)यी- -यी पित्र २, ८.
वेद-मर्यादा(दा-अ)तिरि(क>)-
क्ता- -क्ताः सार २४१ : १३.
वेद-मातृ- -तरम् पप ४१८ :
२१; -ता मना २, ३६^१; -तुः
पारा १.
वेदमातृ-त्व- -त्वम् पारा २.

वेद-मार्ग- -मैः भव २, ६१.
वेदमार्ग(र्ग-अ)दि-
-दिभिः सार २३१ : १८.
वेदमार्ग-कर्मा(र्ग-अ)ति-
रिक्त- -क्ताः सार २३४ : २१.
वेद-यज्ञा(ज्ञ-अ)ध्ययन- -नैः गी
११, ४८.
वेद-रह(सक>)सिकी^d- -की
२प्र ३६ : २.
वेद-रूप- -पम् वि १४.
वेदरूपि(न्>)णी- -ण्यः
सार २४१ : ५.
वेद-लौकिक-मार्ग- -गेषु जाद
२, १०.
वेदलौकिकमार्ग-कुत्सित-
कर्मन्- -र्मणि शां १, २.
वेद-वचन- -नम् राधा १,
२७^३; ३, १९^३; ४, २६; २७^३;
सिशि ३८३ : १४; १५.
वेदवचना(न-अ)नुरूप-
-पम् वसू ३.
वेद-वर्जित- -तम् इ १७ : १६.
वेद-वाक्य- -क्यम् अद्वै २१;
-क्यैः ते ५, ९.
वेद-वाद-रत- -ताः गी २, ४२.
वेद-वादिन्- -दिभिः काला
१०; जाबा १८.
वेद-विद्- -वित् वृ ३, ७, १;
मैत्रि ६, १५; कै २, ३; लु १७;
ध्या १८; ३६; ३७; गोचू ३५;
७९; ८१, योशि ६, ६; पत्र ३,
२; वरा ५, ७०; इ १४ : ३; गी
१५, १; १५; -विद्ः गी २, २२;
नाप ९, ६; सार २२१ : ९; १४;
गी ८, ११; -विदाम् ए १०;
जाद ४, ४०.
वेदवित्-तम- -मैः अज १,
५१.

a) वा० इति निसा. यनि. शोभः द्र. (तु. अज्या.) । b) ञ इति अज्या. । c) तैआआ १०, ३६ ।

d) षस. । उप. रहस-+ठ>इकः प्र. इति कृत्वा ली. ङीप् उलं. (पा ४, १, १५) ।

वेद-विद्या(या-प्र)धिगम-
-मः मै ४, ३१^१; मैत्रि ४, ३.
वेद-विद्या(या-अ)न्तर- -रम्
मैत्रि ७, ८.
वेद-विद्या-व्रत-स्नात-देशिक-
-कस्य सु १, १, ४१.
वेद-विहित-कर्म-मार्ग- -मैत्रि
शां १, २.
वेद-वेद- -दः सी २८.
वेद-वेदान्त- -न्तयोः गु ७^१.
वेद-न्यास^१- -मः तुल ७१ :
२२; -सम् गार ४०७ : १२;
-साय तुल ७१ : २२.
वेद-शास्त्रा-
वेदशास्त्रिन्- -स्विनः अद्वैभा
७^०.
वेद-शास्त्र- -स्त्रम्^१ ते १, ४३^१;
-स्त्राणि सुवा १^१; श्रवि ३०; योशि
३, ७; तुल ७१ : ५; -स्त्रैः सुवा ५.
वेदशास्त्र-प्रतिभासित-
-त्तम् अद्वै २१.
वेदशास्त्रा(स्त्र-आ)दि- -दि
ते ४, ४६^१; -दिभिः सी ३७.
वेद-शास्त्र-पुराण- -णानाम्
योशि ३, ११; -णानि १आ ९.
वेद-शिरः-प्रविष्ट- -ष्टाः शा
११.
वेद-संस्कार-कर्मन्- -र्मणि शु
१, २.
वेद-सम- -मः वज ५, २१.
वेद-संपन्न- -न्नः अता १४;
इ ४.
वेद-संमित- -त्तः इ ११ : ९.
वेद-सार- -रम् भ १, १; -रे
सावि १०.
वेद-स्त्री- -स्त्रीणाम् सार

२४१ : १.
वेद-स्वरूप- -पम् लि ३१० :
२१.
वेद-हीन- -नः इ १३ : २१.
वेदा(द-अ)क्षर- -राणि नाउ ३,
१७.
वेदा(द-अ)ङ्ग- -ङ्गानि नाप ३,
३२.
वेदा(द-आ)त्मक- -कम् स्क
१३.
वेदा(द-आ)त्मन- -ऽ^१नाय मना
१, ६; व ४६३ : ३.
१वेदा(द-आ)दि^१- -दिम् द ४.
वेदादि-रूप- -पाय रापू ४,
१३.
२वेदा(द-आ)दि^१- -दिपु
रशिसं १९; -ऽ^१द्वौ मना २,
१२, ३; शु ३, १८; नाउ १, ५.
वेदादि-शास्त्र-हिंसक-
धर्मा(र्भ-अ)भिध्यान- -नम्
मैत्रि ७, ९^१.
१वेदा(द-आ)द्य^१- -द्यम् पी
४२२ : २.
२वेदा(द-आ)द्य^१- -द्याः सर
२, ८^१.
वेदा(द-अ)ध्यायिन्- -यी इ
१५ : ११.
वेदा(द-अ)नुवचन- -नम् तै १,
१०, १; हं २१^१; -नेन वृ ४, ४,
२२.
वेदा(द-अ)नुशासन- -नम् आर
५^१; सुवा २^१; ५^१-७^१; १०^१;
११^१; १३^१-१६^१; स्क १५^१;
अध्या ७०^१; शा १०, १७; २९;
३२; ३७; बि २७.
वेदा(द-अ)न्त^१- -न्तः सु १, १,

९; -न्तम् सु १, १, ७; -न्ताः ते
२, ४०; सु १, १, ८; -न्तान् नाप
३, २३; -न्ते श्वे ६, २२; मना २,
१२, ३१^१; शु ३, १८^१; अत्र
७, ११९; सु १, १, ७; नाउ १,
५१^१; -न्तेषु गौ २, ३१; लु १०;
-न्तैः नाद २६; नाप ६, ११.
वेदान्त-कृत्- -कृत् कै २, ३;
गी १५, १५.
वेदान्त-ज्ञ- -ज्ञः शा ३०.
वेदान्त-ज्ञान-पारग- -मैः
जाद १, १०.
वेदान्त-ज्ञान-लिप्सा-
-प्सया नाप ६, १७.
वेदान्त-निश्चय- -यः गौ २,
१२.
वेदान्त-मान- -नेन वरा २,
१४.
वेदान्त-वर्त्मन्- -र्त्मना पाशु
२, ३२.
वेदान्त-वाक्य- -क्यानाम्
महा २, ११.
वेदान्तवाक्य-ज- -जात्
कर ३६.
वेदान्तवाक्या(क्य-अ)-
र्थ- -र्थम् नाप ६, १८.
वेदान्तवाक्यार्थ-
विचार- -रात् सु १, १, १७.
वेदान्त-विज्ञान- -नम् जाद
९, ६.
१वेदान्तविज्ञान-सुनि-
श्चिता(त-अ)र्थ- -र्थाः सुं ३, २,
६; कै १, ४; मना २, १२, ३;
भव ३, ३३.
वेदान्त-विद्- -विद् नाप
६, २४.

a) एववि^० इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.) । b) =अधिविशेष- । c) °दसाक्षिणः इति कोष्ठ-
गतः पा. । d) समाहारे द्रस. । e) °दं द्वा^० इति अड्या. । f) °स्त्राः क इति अड्या. । g) तैश्चा १०, १, ६ । h) तस.
=ओम्- । i) बस. । j) तैश्चा १०, १०, ३ । k) °स्त्रं हिंसक^० इति सात. । l) देवा^० इति निसा. संटि. । m) °दप्रव^०
इति निसा., आन. ।

वेदान्त-वेदिन्- -दिभिः
जाद १, ८; १५; ४, ९; २२; ३२;
४१; ७, १४.
वेदान्त-वेद्य- -द्याय गोपू १.
वेदान्त-श्रवण- -गम् त्रित्रा
२, ३४; शां १, ५; जाद २, ९.
वेदान्तश्रवण-पूर्वक-
-कम्^१ पप ४१९ : २.
वेदान्तश्रवणा(शा-आ)-
दि- -दि सु १, २, ७; -दिना
नाप ६, २१; वरा २, ५.
वेदान्त-सारभूत-सिद्धा-
न्ता(न्त-अ)नन्त-स्कन्ध-
-न्धैः सि ६, १७.
वेदान्त-स्थिति- -तिम् सु
१, १, ८.
वेदान्ता(न्त-अ)भ्यास-
निरत- -तः नाप ६, २३.
वेदान्ता(त-अ)र्थ-तरवै-
(त्व-ए)क-स्वरूप(प>)पा-
-पा सर २, १.
वेदान्ता(न्त-अ)र्थ-विचार-
-रः शां १, २.
वेदान्तो(न्त-उ)पगत- -तम्
नाप ३, ३९.
वेदा(द-अ)न्तर-आत्मन्-स्मा
पा ५, ७.
वेदा(द-अ)भ्यास- -सः भव ५,
८; -सेन इ १५ : ३.
वेदा(द-अ)र्थ- -र्थः कृ ६; -र्थम्
सू ३२; गोच ६९: १२; १३.
वेदार्थ-प्रतीति- -तेः सांस्
५, ४०.
वेदा(द-अ)वर्तस- -सम् म २,
२८०.

वेदा(द-आ)हरण-कर्मन्- -र्मणे
त्रिवि ७, ४०; ह ४.
वेदिन्^१ -दिनम् पित्र १, ४;
-दी पित्र १, २.
वेदो(द-उ)क्त- -क्तेन जाद १,
७; २, ३; ११.
वेदोक्त-कर्म-मार्ग- -रत-
-ताः सार २४२ : १२.
वेदोक्त-धर्मा(र्म-अ)धर्म-
-र्मेषु शां १, २.
वेदोक्त-विधि- -धिना लिं
३१० : १८.
वेदोक्त-विधि-निषेधा-
(ध-अ)नुष्ठान- -नैयत्य- -त्यम्
शां १, २.
वेदोक्ता(क्त-आ)चरित- -ब्रह्म-
चर्य- -र्यः करु १.
वेदो(द-उ)दित^० -तम् भव १,
३४; ३७; -तेन सार २८२ :
२२.
वेदो(द-उ)पनिषद्- -षत् तै १,
११, ४.
३वेद^१ -दः मना २, ८०^१.
विद्- √विद् (ज्ञाने) द्र.
विद्- √विद् (*बधा.) द्र.
विदथ^१ -थे मना २, ४१^१; -^१थेषु
१शिसं २; २शिसं ३९.
^१विदथ्य- -थ्यम् व ४४१ : २०;
४४७ : ४; ४५१ : १७; ४५४ :
२३.
विदघत्- वि/घा द्र.
विद्-भृत्- √विद् (*बधा.) द्र.
विदर्भ^१-
वैदर्भि^१ - -भिः प्र १-२, १.
विदर्भकौण्डिन्य^१ - -न्यः, -न्यात्

वृ २, ६, ३; ४, ६, ३.
विदत्^१ -
वैदल- -लम् कुं १३.
वि/दह
१वि-दग्ध-
२विदग्धा^१ - -ग्धः वृ ३, ९, १;
४, १, ७.
विदग्धो(ग्ध-उ)दर-पूरण-
-णाय मैत्रे २, २५.
*विदा- १विदान- √विद् (ज्ञाने) द्र.
२विदान- वि/दो द्र.
विदित- , विदित्वा √विद् (ज्ञाने) द्र.
वि-दिश- -दिशु रार ३, १^१; रापू ४,
५४; -दिशः ना २; त्रिवि २,
१६; पा ७, ६.
वि-दुष्कृत- -तः कौ १, ४.
वि/वृ, >दारि, विददार श ६.
विदारय-विदारय त्रिता ३, ३३;
व्यदारयत् गी १, ९.
वि-दर्य ऐ ३, १२; पै १, २९.
वि-दति^१ - -तिः ऐ ३, १२.
वि-देश- -शाम शि ६, २१५.
१वि-देह- -हः अज ५, १८; अध्या १६.
१वैदेह-
वैदेही^१ - -ही ह ९;
-हीम् सु १, १, ४३.
वैदेही-मुक्ति- -कः
ते ४, ८१.
वैदेही-मुक्ति-ग-
-गः सु २, २, ३५.
वैदेहिन्- -ही ते ४, ३३;
३७; ३८; ४७; ४८; ५३; ५४;
६२; ६८; ७९.
२विदेह^१ - -हाः वृ ४, २, ४; -हान्
वृ ४, ४, २३.

a) वा. क्वि. द्र. । b) गपू. (पृ६२) सरथ. 'अन्तरात्मन्->स्मा' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः ।
c) °दादव° इति निसा. संटि. । d) =श्री नानकदेव- । e) उप.=उपदित- । f) =दभंसुष्टि- । वैप१ यद्र. । g) तैआ
१०, ६४, १ । h) वैप१ यद्र. । i) तैआ १०, ३९, १ । j) मा ३४, २ । k) ऋ १, ९१, २० । l) व्युः! =ऋषिविशेष-? ।
m) शं. विदर्भ-(नगरविशेष->), गोपा. PW. च विदर्भि->यनि. इति । n) व्युः! =ऋषिविशेष- । o) व्युः! ।
p) =ऋषिविशेष- । q) द्र. गपू. पृ२३६h ।

रविदेह^१- -ः वृ३, १, १: ८,
 २: ४, १, १-७: ३, १: ४: ३, १: ४,
 ७: ५, १४, ८: जा ४: वृजा ७,
 १-५: या १, १: गा २५: -हम्
 वृ ४, ३, १: -हस्य ३ ३. १. १: २.
 विदेह-नगरी- -रीम् महा २, २०.
 विदेह-कैवल्य- -ल्यम् १ आ २४.
 विदेह-प्रकृति-लय- -यानाम् गोष्
 १, १९.
 विदेह-मुक्त- -क्तः महा २, ६४;
 अत्र ४, १९.
 विदेहमुक्त-ता- -ता अक्षि ४०.
 विदेह-मुक्ति- -क्तिः १५ ४२०: ४;
 मु १, २, ६: २, १, १^३; -क्तः अज
 ३, १: -क्तौ अत्र ४, २०; मु १,
 १, २९.
 विदेहमुक्ति-विषय- -यम् महा
 ५, ३५; -ये अज ४, २०.
 वि/दो, > दा, विद्यति वृ ५, ७, १.
 रवि-दान- -नात् वृ ५, ७, १.
 विद्यमान- /विद्(सप्तयाम्) द्र.
 विद्या- /विद्(ज्ञाने) द्र.
 वि/द्युत्, > द्योति, विद्योतते छां २,
 ३, १: १५, १; ७, ११, १; वृ १, १,
 १; कौ २, १२^३.
 विदिद्युते शौ ५२: ३; व्यद्युतत्
 के ४, ४.
 विद्योतयति मैत्रि ७, ११.
 वि-द्युत्- -द्युत् छां ४, ७, ३; १३, १;
 ५, ५, १; २२, २; ७, १२, १; ८,
 १, ३; १२, २; वृ २, ५, ८; ५, ७,
 १^५; ६, २, १०; मैत्रि ६, ३५; कौ
 २, १२; सावि ५; गु १८: -द्युतः
 के ४, ४; क २, २, १५; सुं २,
 २, १०; छां ६, ४, ४^३; वृ २, ५,
 ८; श्वे ६, १४; मना १, २५^६;

कौ ४, १७; गु ४५; ५^{११} व ४३८:
 १९: ४३९: ६: १६: ४४०: ३;
 १३: ४४१: १: ११: २२: ४४२:
 १०: २०: ४४३: ७: १७: ४४४:
 १०: २०: ४४५: ८: १८: ४४६:
 ७: १७: ४४७: ५: १६: ४४८:
 ४: १५: ४४९: ३: १३: २०;
 ४५०: ४: ११: १८: ४५१: ४:
 ११; १८: ४५२: ३: ११: १८;
 ४५३: २: ८: १४: २०: ४५४: ३;
 ११; १७: ४५५: १: ८: -द्युतम्
 छां ४, १५, ५; ५, १०, २; कौ २,
 १२; -द्युता मूला ३, १०^५; -द्युति
 तौ ३, १०, २; छां ४, १३, १;
 ५, २२, २; वृ २, १, ४; ५, ८; मैत्रि
 ६, २४; कौ ४, ४; -द्युति: छां
 ७, ११, १.
 वैद्युत- -त्त: तै १, ३, २; मैत्रि
 ७, ११; योशि ५, ३२; -तम् वृ
 ६, २, १५^६; अशि ३, १२^३; ४,
 १२; १३^५; २५ ३३: ७; वृ
 ३१५: १२^३; ३१६: ५; ६५^६;
 -तान् वृ ६, २, १५^६; -तेन व्रस्
 ४, ३, ६.
 वैद्युता(त-श्रा)दि-
 वैद्युतादि-मय- -यम्
 वृजा २, ३^{१०}.
 वैद्युता(त-श्रा)म्बर- -रम्
 गोष् ८.
 विद्युज्-ज्वाला-जिह्वा- -० ह्ने
 व ४६४: २२.
 विद्युत्-स्व- -त्वम् छां ६, ४, ४.
 विद्युत्-पुञ्ज-सम-प्र(भ>)-
 भा- -भा योशि ६, २६.
 विद्युद्-आकृति- -ति(शक्तिम्^१)
 योरा ९.

विद्युद्-आभास-नालक- -कम्
 त्रिभा २, ६९.
 विद्युद्-उ(ल्का>)ल्क- -ल्काय
 नाप् ४, १९^{१६}.
 विद्युद्-वत् अ २^१.
 विद्युन्-नि(भ>)भा- -भाम्
 रार २, २४.
 विद्युन्-म(त्>)ती- -ती अ
 १^{११}.
 विद्युन्-माला-
 विद्युन्मालिन्- -ली नाद^{११}.
 विद्युन्मालिनी- -नी सी
 १८.
 विद्युल्-लेखा- -खा मना २,
 १३, २५^१; वा २२^५; २३^६; यो
 १, ६७; कालि ४०३: ४५^१.
 विद्युल्लेखा-वत् मं २, १, ५.
 वि-द्यु(त्>)ता^{११}-
 विद्युतो(त-उ)प(मा>)म- -मः
 श्रवि ८; १ प्र ३१: १३.
 वि-द्योतमान- -नम् रार २, ३७;
 -ता: आर्षे ७: ३.
 वि-द्योतयितव्य- -व्यम् प्र ४, ८.
 वि/द्रु> द्रावि, विद्रावय-विद्रावय
 दत्ता २.
 विद्रुम^{१३}-
 विद्रुम-कान्ति- -न्ति: सार २४४:
 १८.
 विद्रुम-कृ(त्>)ता- -ता: सार
 २८१: २२.
 विद्रुम-दोला- -ला सार २७१: २१.
 विद्रुम-द्रुम-संकाश- -शम् प्या ८७.
 विद्रुम-रङ्ग-रक्षित- -तौ सार
 २६५: ७.
 विद्रुम-लता- -ता सार २८३:
 १५^{१०}; -ताभि: सार २३३: ९.

a) मा ३२, २। b) खि ५, ८४, १। c) तैत्रा ३, ७, ६, २१। d) =लोकविशेष-। e) वैद्युदा^० इति निसा.,
 अख्या. यनि. शोध: द्र.। f) पा.१? यनि. शोध: द्र.। g) °द्युल्का^० इति पा.१? यनि. शोध: द्र.। h) °द्युम^० इति निसा.
 यनि. शोध: द्र. (तु. आन.)। i) 'विद्या मात्रा' इति निसा. °द्युन्मात्रा इति अख्या. च यनि. शोध: द्र. (तु. आन.)।
 j) तैत्रा १०, ११, २। k) 'पीता' इति तैत्रा १०, ११, २। l) तैत्रा १०, ११, २। तद्विल्ले^० इति तान्त्रि.। m) =विद्युत्-।
 n) =सखीविशेष-।

विदुमलता-लवङ्गलता-ग्रथि-
(त>)ता- -ताः सार २६५ :
२१.
विदुम-श्रेणि-
विदुमश्रेणीय- -याः सार
२६३ : १३.
विद्वस्- √विद्(ज्ञाने) द्र.
वि/द्विष्.> द्वेषि, विद्वेष्टि इ १६:८;
१^०विद्विषावहै कशा^१; तै शा^१; श्वे
कै गर्भे ना मना ब्रवि अना काला
नु ससा शु ते ध्या ब्रवि १योत द
स्क शारी योशि ए अक्षि १अव
करु रह्यो यं प्रा वरा कलि शा^१;
हे शा^१; १प्र ३०:२; व४६६:१८.
विद्वेषय-विद्वेषय दत्ता २; व
४५६: ११.
वि-द्वेष- -षः सार २३५: १८.
१वि-द्वेषण^१- -गाय व ४५६: १०.
२वि-द्वेषण^१-
विद्वेषण-कर- -०र अक्ष ५.
वि-द्वेषिन्- -षिणम् त्रिता ३,४.
विद्वेषि-मोहन-कर- -०र
अक्ष ५.
√वि,(<व्य)घ् (*बधा.),> विव्यत्स्र,
विध्यति त्रि १३^१; विध्यन्ति
आर्षे ७:६; विध्यामि व ४६४:
१५१^०; अविध्यन् वृ १,३,२-६;
विध्यात् शि ७,५४.
अविधत् व ४५९: २११^१;
विधेम ई १८१^०; वृ ५, १५, १११^०;
श्वे ४, १३१^१; मना १, ८१^१; २,
५११^१; ५३१^१; वृ २, १६१^१;
२शिसं २९१^१; ३३१^१; ३४१^१; व
४६४: ८१^१.
विविधुः छां १, २, २-६.

अविव्यत्सन् वृ १, ३, ७^१.
विद्ध,द्धा- -द्धः छां १, २, २; ८, ४,
२; -द्धम् छां १, २, ४-६; -द्धस्य
मैत्रि ६, २८; -द्धा छां १, २, ३^०.
वेद्धव्य^१- -व्यम् मुं २, २, ४; ध्या
१५; रह ३८.
वेद्ध^१- -द्धा रह ३९.
वेध^१- -धः वरा ५, ६४; ६७; -धम्
वरा ५, ७३.
वेधा(ध-आ)घ(दि-आ)र्थ-
भेद- -वात् ब्रसू ३, ३, २५.
वेधक-
वेधक-क्रम-योग- -नोन वरा ५,
६२^१.
वि-धरण- वि/धृ द्र.
वि-धर्म-
वैधर्म्य- -र्म्यम् सांसू १, १२७;
१२८; -र्म्यात् ब्रसू २, २, २९;
-र्म्ये गौ ४, ९७.
१वि-धर्मन्- -र्माणः सार २८२: २.
२वि-धर्मन्- वि/धृ द्र.
वि-ध(व>)वा^{१०}-
विधवा(वा-अ)नाथ-वृद्ध- -द्धानाम्
शि ६, २२७.
वि/धा, विधत्ते वृजा ६, ५; पा १, ७;
स ३७९: १९; गु ७०; वि-
दधात्ति क २, २, १३; श्वे ६, १३;
१८; श २; गोपू २०; २२; गोड
१५; गु ७१; भव २, ४९; वि-
दधामि गी ७, २१; विधेहि प्र २,
१३; व्यदधात् ई ८; सार २५२:
२२; विदध्यात् वृजा ४, १७.
विदधे पा १, ७; वि...दधे श्वे
२, ४१^०; व्यधात् अव्य ६.
विधीयते छां ६, ५, १; ३; मैत्रे

२, ४-७; १०; ध्या ७६; नाप ३,
२८; योचू ४६^१; ४९; ९३; वा
३५; १संन्या २, ११; ९७; जाद
१, २१; मु २, २, ६७; शि ६,
४४; २५७; २५९; २७४; गी २,
४४; विधीयन्ते छां ६, ५, २.
वि-दधत्- -धत् छां ८, १५, १; मना
१, १४१^१; पा ६, ५; ८, ५.
वि-धा- -धया तै ३, १०, १; सार
२३३: ४.
वि-धातृ- -त्ता मैत्रि ६, ८; मना १,
४१^०; सुबा ६; ए ६; त्रि १५;
करु १^१; कथु २, २^१; -त्रा सिशि
३८२: ७.
विधात्री^{१०}- -त्री सौ १, ३.
वि-धान- -नम् पा ७, ३; गु ७९;
भव १, ११; -नात् ब्रसू ३, ४, ६;
-नेन गोच ६८: १४; वि ९;
अद्वैमा १९.
विधान-तस्(>) वि २; ३२;
गु ८२; अद्वैमा १९.
विधानो(न-उफ>)क्ता- -क्ताः
गी १७, २४.
वि-धाव त्रिवि ५, १२-१४; ६, २०;
२१^१; २३; २५^१; ७, १५; ८, ५;
१३; १७; पै १, १९; गोड ५; पा
१, ९; सार २२१: ८; २२३: २२;
२२४: १-३; ५; १७; २२८:
९; २३; २२९: १; ७; २३२:
२०; २३३: १; २३६: १२;
२५६: २; २५७: ८; २६०:
१४; २६२: ५; २६९: १५;
२७२: १; १०; १२^१; १६; २८०:
१८^१; २८६: ८; १८; गु ३२;
षो ४.

- a) तैत्र्या ८, १, १। b) कर्तरि कृत्। c) भावे कृत्। d) 'विद्धति' इति अज्या। e) तैत्र्या ४, ३८, १।
f) ऋ १०, ८३, १। g) ऋ १, १८९, १। h) ऋ १०, १२१, ३। i) तैत्र्या १०, १, ८। j) तैत्र्या ३, १५, १।
k) 'हवामहे' इति ऋ १, ११४, ८। l) ऋ १०, १२१, २। m) मा १३, २१। n) 'अविध्यन्' इति निसा।
o) °द्धः इति निसा। p) धा. भेदने वृत्तिः। q) °कन्नययो° इति अज्या., वेदकम्° इति अज्या. संदि.। r) वैपश् यद्र.।
s) मा ११, ४। t) 'अयम्, उच्यते' इति अज्या.। u) ऋ १०, १९०, २। v) मा ३२, १०। w) =शक्तिविशेष-।

वि-धि^१— -धिः सुं २, १, ७; मैत्रिष्ठ, १; जा १९; नृजा ७, ७; तेषु ४, १५; नाप ५, १; ६, १५; ३४; ७; महा ४, ७६; योशि १, १८; पप ४१८; १६; पाशु २, २३; वरा २, ६३; कनि ३; गु ३०; प्रम ३, ४, २०; -धिना मैत्रि ६, ९; अना २९; नाप ३, ५२; योच ९८; १०७; वा ३७; शां १, ७, १; जाद ३, १३; पा १, १; गोन ६९; १५; गार २३६; ५; शि ६, २२९; शिशि ३८२; १८; नारा ८४; १०; -धिम् नृजा ७, ७; ३ १६; २; नज ६, २; मय १, ५८; ४, १७; -०धे योशि १, २५; ५१; ६१; ६, ५८; गोल ६१; -धेः नाप ३, ७७^१; -धौ सार २८८; १८. विधि-चेष्टित- -तम् भाव १, १२. विधि-ज्ञ- -ज्ञः २ १६; २. विधि-दृष्ट- -ष्टः गी १७, ११. विधि-निषेध-मार्गा(र्ग)- -श्र- ननुसारि(न्)णी- -णी सार २८७; ५. विधि-निषेध-विवेक- -कः त्रिवि ५, ६. विधि-निषेध-स्मृति- -त्या सार २३१; १७. विधि-भस्म-धारण- -णम् भ १, ७०. विधि-मुख- -खः सु २, २, ५६; -खेन वरा ४, ३७. विधि-वत् सुं १, १, ३; ३, २, १०; नाप १; २; ३, ५; २३; रार ४, ९; शां १, ७, ९; योशि १, ९१; सु १, २, ६; सु २९५; ३; शि १, २. विधिवद्-गुरु(रु-उ)पदिष्ट- वेदा(द-अ)विरुद्ध-मन्त्रा-

(न्त्र-ग्रन्थास- -सः शां १, २. विधि-वलाभा-)भा- -भा नर ३, ५. विधि-शेष- विधिशेष-वत् भासु ३, ३, ५. विधि-स्नान- -नम् नृजा ४, १; २. विधि-हीन- -नम् गी १७, १३. विध्याधि-आदि- विध्यादि-वत् प्रम ३, ४, ४७. विध्यु(धि-य)क्त- विध्युक्त-कर्म-संयुक्त- -कः भासु ५, २. विध्युक्त-कर्म-संक्षेप- -पात् नाप ३, ८. विध्युक्त-कृच्छ्र-चान्द्रा- यणा(ण-आ)दि- -दिभिः शां १, २. विध्युक्त-मन्त्रा(न्त्र-आ)- वृत्ति- -त्या नाप ३, १०. विध्युक्त-लक्षण- -णम् पाशु २, ६. वि-धेय- विधेया(य-आ)त्मन्- -स्मा गी २, ६४. वि-हित- -तः वृ १, २, ३; अशि ५, १५^१; -ताः गी १७, २३; -तान् गी ७, २२; -तेषु त्रिवा २, २५; -तैः कुं ४^०. विहित-कर्मन्- -र्मं सं २, ४, ४. विहित-तत्तच्छान्ति-पुरःसर- -रम् सु १, १, ४१. विहित-नव- -त्वात् प्रसू ३, ४, ३२. विहित-प्रतिषिद्धा(द्ध-अ)वैय- र्थ्या(र्थ-आ)दि- -दिभ्यः प्रसू २, ३, ४२. विहिता(त-अ)विहित- -तेषु शां १, १.

वि/धाव्(गतौ), विधावति क २, १, १४; गु ४३. विधु^१- विधु-द^१- -दम् पा ८, ५. वि/धु, विधुनुते वृ १, १, १. वि-भूत- विभूत-पाप- -पम् मार २९१; ३. विभूत-विधिनियेध-कृत्याकृत्य- गुणागुण-भावभाव- -वः सार २८०; ९. वि-भूय सुं ३, १, ३; छां ८, १३, १; त्रिवि ८, १३; मार २३६; ९; २५५; १०; २९०; १७; २९१; ३; २९२; १; १२; १४; गु २९४; ४; शि ७, ११६. वि-धूम- -मः त्रिवि ८; १५ ३१; १३; -मे नाप ६, ६; १०; न्या २, ७३. विधूमा(म-अ)शि-सम- -प्र(भ>)- मा- -०मे व ४५८; १९. वि/धु, > धारि, विधारयन्ते प्र २, १; विधारयामि प्र २, ३; वि- धारयामः प्र २, २. वि-धरण^१- -णः वृ ४, ४, २२; मैत्रि ७, ६; ७; वा २४. विधरणी- -णी वृ ६, ३, १. रवि-धर्मन्^१- -र्मन् मना १, १५^१. वि-धारयितव्य- -व्यम् प्र ४, ८. वि-धृत, ता- -तम् शा २६; -ता; -ते, -तौ वृ ३, ८, ९. विधृत-नव-ज(प>)पा- -पाम् व ४२७; १. विधृत-विविध-भूष- -षम् द ३. वि-धृति- -तिः छां ८, ४, १. वि/ध्वंस, > ध्वंसि, विध्वंसते छां १, २, ८^१; विध्वंसते छां १, २, ७; वृ १, ३, ७.

a) ब्रा. द्र. । b) 'विन्देह' इति श्रज्या. । c) 'धिवद् भस्म' इति निसा. । d) 'विततः' इति श्रज्या. । e) 'ता' इति श्रज्या. । f) वा. क्विचि. द्र. । g) व्यु. ? = चन्द्र- । h) उस. उप. < √ दम् (तु. पाटी.) । i) कर्तरि क्त. । j) वैपश् यद्र. । k) ऋ ९, १७, ४० ।

विध्वंसुः छां १, २, ७.
 विध्वंसय-विध्वंसय त्रिता ३,
 ३१; व ४३० : ११; ४३२ : ३.
 विध्वंसमान- -नाः वृ १, ३, ७.
 वि-ध्वस्त-
 विध्वस्त-मोह- -हाः पिब्र ६,
 १३.
 विध्वस्ता(स्त-अ)शेष-विधि-
 निषेध- -धः आबो २.
 वि/नद्
 वि-नद्य गी १, १२.
 वि-नाद-
 विनाद-कृत्- -कृत् जाद ४,
 ३२^१.
 वि-नद्धि- -द्धिः वा २३.
 वि/नम्
 वि-न(त>)ता^१-
 वैनतेय^१- -यः ऊ ६३ : ४; गी
 १०, ३०.
 वि-नय- वि/नी द्र.
 वि/नर्द
 वि-नर्द-
 विनर्दिन्^१- -र्दि छां २, २२, १.
 वि/नश्(अदर्शने), > नाशि, वि-
 नश्यति ससा १, २२^१; ३२; नाप
 ३, ४१; त्रिप्रा २, १५६; स्क ३;
 त्रिवि ३, ५; योशि ४, १३; जाद
 ६, ४४; इ १३ : १०; व ४५९;
 ५; सांसू १, ४४; गी ४, ४०; ८,
 २०; विनश्यतः अष ५, ५३;
 यो १, १; विनश्यन्ति त्रिवि ५,
 ८; शां १, ३, १२; महा ३, ५०;
 जाद ६, ३१; ३२; ४५; गु २८.
 विनेशुः वृ १, ३, ७; विनङ्क्षयसि
 गी १८, ५८.
 विनाशय महा ४, १०२; तुल
 ७० : १७; पी ४२२ : २; व

४३६ : १४; विनाशय-विनाशय
 व ४५८ : २१; विनाशयेत् ते ३,
 ६०^२-६५^२; ६६; ६७^२; ६८^२; ६९;
 राज ५, १२; १४; १९-२२.
 वि***अनीनशत् नी १, ३.
 वि-नश्यत्- -श्यति वरा २, ६६;
 -श्यसु ससा १, ३२; गी १३,
 २७.
 वि-नश्वर-
 विनश्वर-फल- -लैः रार २, ३८.
 वि-नष्ट, घा- -ष्टः भव १, २४; -ष्टम्
 योशि १, १२४; पा ७, ३; सिशि
 ३८० : ८; -ष्टायम् सर ३, २१;
 -ष्टे यो १, १.
 विनष्ट-दिग्-अम- -मस्य महा
 ४, २७; वरा ३, १७.
 वि-नष्टि- -ष्टिः के २, ५; वृ ४, ४,
 १४.
 वि-नाश- -शः गी ६, ४०; -शम्
 ई १४; छां ८, ११, १; २; श २३;
 त्रिवि ३, ५; गी २, १७; -शस्य
 सांसू १, ४४; -शाय गी ४, ८;
 -शेन ई १४.
 विनाश-दर्शन- -नात् सांसू २,
 २२.
 वि-नाशि(न>)नी- -नी नापू २,
 १५.
 विना^१ मैत्रि ६, १४; मैत्रे २, २२; वृजा
 ४, ५; निर ८; वसू १५; ते १, ४७;
 नाद ५६^३; ब्रवि ३२; नाप २;
 त्रिप्रा २, ६२; निर्वा २९८ : १८.
 वि-नायक- वि/नी द्र.
 वि-नि/क्षिप्, विनिक्षिपेत् वृजा ३,
 १८; स ३७९ : ९.
 विनि-अत्- विनि/हन् द्र.
 वि-नि/धा, विन्यदधात् वृ १, ३, १०.
 विनि-हित- -तम् सार २८३ : ३.

वि/निन्द, विनिन्दन्ति वृजा ५, १५.
 वि-नि/यम्(यमने)
 विनि-यत्- -तम् गी ६, १८.
 विनि-यस्य गी ६, २४.
 वि-नि/युज्, > योजि, विनियुक्ते प्र
 ३, ४.
 विनियोजयेत् श्वे ५, ५; ६, ४;
 रार २, ३; ८२; ९६.
 विनि-योग- -गः मना २, ३५^१;
 काला २; शु १, १८; २, ५^१; रार
 २, ३६; ९९; १०३; ह ६; सावि
 १०; म १, ६; सू ३; गर २;
 सर १, ४; २, १-३; वा ४; नापू
 ४, १८; लां २१३ : ४; मृ ३;
 कालि ४०३ : १३; व ४२६ : ४;
 ४५९ : १८; हंषो ३; वज ६,
 १५; योसू ३, ६; -गम् मना २,
 ३३^१; -गान् जाद ६, २१.
 विनि-योजित- -तः महा ५, १०५.
 विनि-योज्य त्रिता २, २०.
 वि-निर/गम्
 विनिर-गत, ता- -तः नाप ५, ६;
 -तम् मैत्रि ७, ११; -ताः मैत्रि
 ६, ३०; भव १, ५५.
 विनिर-गत्य त्रिवि ५, १२.
 वि-निर/क्षा, विनिर्क्षयते वृ ४,
 ३, ५.
 वि-निर/णी(<नी)
 विनिर-णीत्, ता- -तम् महा ३,
 ३२; -ता योशि ४, २३.
 विनिर-णेत्- -ता महा ५, १२५.
 वि-निर/दिश, विनिर्दिशेत् ब्र ३,
 १३^१.
 वि-निर/धू
 - विनिर-धूय यो १, ५०.
 वि-निर/भिद्
 विनिर-भिद्य योशि २, १३.

a) °वाद् इति निसा., अख्या. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या. संति.) । b) =गरुडजननी- । c) =गरुड- ।
 d) =सामगानविशेष- । e) 'नश्यति' इति अख्या. । f) अव्य. वैपश् यद्र. । g) तैश्चात्रा १०, ३५, ।
 h) तैश्चात्रा १०, ३३ । i) 'समाविशेत्' इति निसा., आन. ।

वि-निर्/मथ्

विनिर्-मथ्य शि ७, १३२.

वि-निर्/मुच्, > मोक्ष, विनिर्मुच्यते
प ५, ५.

विनिर्-मुक्त - -क्तः प ५, ५; १गोत
१३; नाप ३, ५२; त्रिशा २,
११०; योशि १, ११; १६; अध्या
५४; -क्तम् मटा ४, ६६.

विनिर्मुक्त-भव-सागर- -रः
अहं १३.

विनिर्-मोक्ष- -क्षः भृजा ५, ९; जाद
१, १८.

वि-निर्/या, विनिर्याति मटा ५, ६७.

वि-नि/विद्(ज्ञाने), > वेदि, वि-
निवेदयेत् शि ६, १-३; ६; १५;
२५; २९; ४७; ४८; ५१; ५४;
६१; ७६; ८५; ९६; २७६.

विनि-वेदिन- -तम् शि ६, ११.

विनि-वेद्य शि ६, १३.

वि-नि/वृत्, विनिवर्तते गौ २, १८;
४, ७९; वरा २, ७०; सांका ५९;
विनिवर्तन्ते गौ २, ५९; वि-
निवर्तते गौ १, १८.

विनि-वर्त्य श्वे ६, ३.

विनि-वृत्त-

विनिवृत्त-काम- -माः गौ १५, ५.

विनि-वृत्ति- -त्तिः जाद १, ११.

वि-नि/विश् > वेशि

विनि-वेशि(त) > ता- -ताः गु ५.

वि-नि/श्वस्

विनि-श्वास- -सः अना ३४^b.

वि-नि(स्) > श्/चर्, विनिश्चरन्ति
वृ २, ४, १०; ४, ५, ११.

वि-नि(स्) > श्/चि, विनिश्चिनु नाप
८, ५.

विनिश्-चय- -यः गौ १, ६.

विनिश्-चित- -तम् ते ५, ५६^c;

-ताः गौ १, ८; -नैः गौ १३, ४^d.

वि-नि(स्) > प्/कम्प

विनिप्-कम्प- -म्पः अना २३^e.

वि-नि(स्) > प्/कम् > काम

विनिप्-कम्प कुं ६^f.

विनिप्-कान्त- -न्तम् ध्रवि १६.

वि-निप्-क्रि(या) > य- -यः अध्या
४३.

वि-नि/हन्

विनि-हत् - -हन् सं १२.

विनि-हित- विनि/धा द्र.

वि/नी

वि-नय- -यः गौ ४, ८६; -यान्
मार २३० : १३; -येन त्रिधि १,
४; ८, १७.

विनय-भाव(व-आ)प(ज) > -

जा- -जाः सार २३४ : १६.

विनया(य-आ)न्वित- -तः ध्या
२९; जाद १, २.

वि-नायक^g - -कः वउ १, २१; -कम्

शां १, ५; जाद ६, ४०; वउ १,
१९; ३, ६२; -कस्य वउ १, २६;

-काः गोउ २३; २६; ६२; वपू
२, ४; -काय गोउ ६६; -केषु

गोउ ६३^h.

वैनाय(क) > की- -की वपू
२, २.

विनायका(क-आ)धिदव- -वम्
रुजा २, ७.

वि/नुद्, विनुदन्ति मैत्रि ६, २७;

वि...नुदस्व व ४६० : १६५ⁱ.

वि-नोद्-

विनोद्-तस्(>) : काम १७.

विन्दमान- /विद्(लाभे) द्र.

विन्दु- = विन्दु- गपू.

विन्ध्य^j - -न्ध्यस्य व ४६५ : ८.

विन्ध्य-वासि(न्) > नी^k - -०नि व

४२७ : १९; -नीम् व ४२७ : १४;
विन्ध्या(न्ध्य-आ)टवी^l - -टव्याम् ते
६, ७८.

वि-न्य(नि/अ)स्/त्तेपणे, विन्यमेत्
आह ५; सार २, ११; २२; ४३;
८३; जाद ३, ६; शि ७, ४७.

विन्य(नि-आ)स्त-

विन्यस्ता(स्त-आ)मृत-भाग-
-गंन बि २८.

विन्य(नि-आ)स्य १गोत ११३; योच्
१०७; सार २, ५३; ८३; शां १,
३, ४; अथ्य ६; त्रिता २, २७;
३, ४; शि ६, ८५; श्या ९.

विन्या(नि-आ)म्-

विन्यामा(म-आ)र्थ- -र्थम् शि
३, ७.

वि-पत्त- -क्षम् नाद ३२.

वि/पट् > पाटि

वि-पाटित- -तः कौ ४, १९^m.

वि-पाठ्य नाप ६, १६.

वि/पण्

वि-पण-

विपण-ग- -गाः अज १, ३३.

वि/पत्, > पानि, विपतेत् छां १, ८,
६; ८.

विपपात वृ ३, ९, २६; वि-

पतिष्यति छां १, ८, ६; ८; १०,

९-११; ११, ४; ६; ८; वृ ३, ७,

१; ९, २६; व्यपसत् वृ ३, ६, १;

व्यपतिष्यत् छां १, ११, ५; ७;

९; ५, १२, २.

विपातयतात् वृ १, ३, २४.

वि/पद्, वि...पद्यते आर्षे ८ : २०;
९ : ८.

वि-पद्-

विपद्-ध(न्त) > न्त्री- -न्त्रीम्

तुल ७० : ६.

a) तु. गपू. वृ ४६००। b) ननि^o इति अच्चा। c) ^oनिर्णि^o इति अच्चा। d) ^oतम् इति SCHR. पाणे.

[वैतु. बे. (NIA २, २३१)]। e) ^oम्पम् इति आन.। f) 'निष्कामति' इति अच्चा.। g) ^oके इति आन.। h) अ १०,
८४, २। i) व्यु. ? = पर्वतविशेष-। j) ^oपतितः इति अच्चा.।

०वि-पद्यत्- -द्यत्(?) आर्षे ७ :
१३.

वि-पन्न- -न्नम् स ३७९ : १३.

वि/पन्

०वि-पन्त्यु- -न्यवः आरु ५; स्क
१५; वृजा ८, ६; वृपू ५, २१; सुबा
६; राउ ५, २९; पै ४, २३; ता
३, ९; वरा ५, ७७; सु २, २, ७७^d.

वि-परि/पत्

विपरि-पत्य वृ ४, ३, १९.

वि-परि/लुप्

विपरि-ल्लोप- -पः वृ ४, ३, २३; ३०.

वि-परि/वृत्, विपरिवर्तते महा ५,
८६; गी ९, १०.

वि-परी(रि/इ)

विपरी(रि-इ)त्, ता- -तः योशि १,
१३१; -तम् करु ७; कथु ३, ७;
सांसू २, १५; सांका १०; गी १८,
१५; -ता वरा ५, ३६; -ताम्
गी १८, ३२; -तानि गी १, ३१;
-ते क १, २, ४; मैत्रि ७, ९; -तेन
नाप ६, ३०.

विपरीत(ग>)गा- -गा ध्या
७९; योचू ५२; शां १, ७, ४३;
योशि ५, ४०.

विपरीत-सुख-द- -दाय सार
२५१ : २३.

विपरीत-सुरत-नृत्य-कला-
कोवि(द>)दा- -दा सार
२३८ : ११.

विपरीता(त-आख्य>)ख्या-
-ख्या १योत १२२.

विपर्य(रि-अ)य- -यः योसू १, ८;
ब्रसू २, १५; -यम् सार २४८:
१७; -यात् सांसू ३, २४; सांका

४४; ४५; ४९; -ये गौ ४, ४६;
नाप ३, १२; -येण ब्रसू २, ३, १४.

विपर्यय-भेद- -दाः सांसू ३,
३७; सांका ४७.

विपर्यया(य-अ)क्राक्ति-तुष्टि-सि-
द्धया(द्धि-आख्या>)ख्य- -क्यः
सांका ४६.

वि-पर्य(रि/अ)स्(क्षेपणे)

विपर्य(रि-अ)स्त- -तः १अव १७;
-स्तम् सांका २३.

विपर्या(रि-आ)स- -सः गौ ४, २७;
-सम् १अव १८; -सात् गौ ४,
४१^c; सांका १९; -से गौ १, १५.

वि-पत्नी[लि(<रि)/इ], विपत्येति
वृ ४, ३, २-६.

वि/पशू, विपश्यति कौ १, ५; वि-
पश्यामः कौ ३, ३^{३०}; व्यपश्यत
क २, १, ६.

विपश्चित्- -श्चित् क १, २, १८;
भव २, ३७; -श्चितः श्वे २, ४९^f;
नाप ४, ३१; यो २, ४३; गी २,
६०; -श्चिता तै २, १, १; वृजा
५, ११; १३; शु १, १६; -श्चिताम्
अध्या ६०.

वि-पाटित-वि-पाट्य- वि/पद् द्र.

वि-पाप- -पः वृ ४, ४, २३; -पम्
मना २, १२, ३९^g.

वि-पाप्मन्- -प्मा मना २, ६५^h;
६६^h; लि ३१० : १०^h.

विपिन-^a

विपिनो(न-उ)प(मा>)म- -मः
अन्न १, ३३.

वि/पुल्

वि-पुल- -०ल अन्न ५; -लान् शि ६,
५६; ६५; २०९; २३०; ७, ७३.

विप्र^m- -०प्र महा ५, ५२; १८५; जाद
१, ९; ६, २४; -प्रः ब्र २; वृजा

४, ११; नाप ३, ७८; त्रिजा २,
९२; पत्र ३, २; ४; १३; शा ४;

इ १५; ११; १७; २२; २प्र ३५;
२; तुल ७१ : २०; सु २९४ :

१३; भव २, ३४; -अम् इ १७ :
१६; स ३७९ : १३; -प्रस्य श्वे २,

४९^f; शि ४, ६४; -प्राः श्वे २, ४९^f;
त्रिता ५, १; गोपू १५; शा ३५^g;

तुल ७१ : १३; कालि ४०२ : ३;
-०प्राः सर ३, १०; -प्राणाम् गौ ४,

८६; मना २, १२, १९^g; २, ४०^g;
रार १, ७; शा १०; ९^व ४४२ :

१९; ४४८ : २; ४५२ : ९; वपू
१, १९^g; -९^hप्रासः आरु ५; वृजा

८, ६; वृपू ५, २१; सुबा ६;
स्क १५; राउ ५, २९; पै ४, २३;

ता ३, ९; वरा ५, ७७; सु २, २,
७७; -प्रेण वृजा ५, ७; स ३७९ :

३; -प्रेः नाप ४, ३८.

विप्र-चित्ति^l- -त्तिः, -त्तेः वृ २, ६,
३; ४, ६, ३.

विप्र-त्व- -त्वम् शा ४.

विप्र-मुख्य- -ख्यानाम् नाप ६, ६.
विप्रे(प्र-इ)न्द्र- -०न्द्र महा ५, १६५;
जाद ३, ५; ६, ४१.

वि-प्र/कृ>किद्

विप्र-कीर्ण-

विप्रकीर्णा(र्ण-अ)ञ्ज-कर्णि-
(का>)क- -कम् ध्या ३४^l.

विप्र/चि(त्त>)त्ता^l- -त्ता कालि
४०१ : ९; श्या ११.

वि-प्रति/पद्, विप्रतिपद्यते गौ २, ७;
४, ३२; विप्रतिपद्यन्ते वृ ६, २, २.

a) पा. इ यनि. श्लोषः द्र. (वैतु. वे.) । b) ऋ १, २२, २१ । c) वैपश् यद्र. । d) ०प[म]^o इति अख्या. ।

e) हि प^o इति आन. । f) ऋ ५, ८१, १ । g) ०पाप्मम् इति तैआ १०, १०, ३ । h) तैआ १०, ५१-५४, १; ६०, १ ।

i) तैआ १०, ५५-५६, १; तैआ १०, ६६^l । j) तैआ १०, ५१, १ । k) व्यु. ? = वन- । l) विप. । m) बप्रा. वैपश्

यद्र. । n) बाध. २, ११ । o) ऋ ९, ९६, ६ । p) बस. = ऋषिविशेष- (तु. टि. वैपश्, ३खं. यस्या.) । q) विकीर्णाञ्जुज^o

इति निसा. । r) व्यु. ? = देवीविशेष- ।

वि-प्रति/पिध्
 विप्रति-पेध- -घात् ब्रम् २,२,१०;
 ४५.
 वि-प्र/मुच् > मोध्
 विप्र-मोक्ष- -क्षः श्वां ७,२६,२.
 वि-प्र/गुञ्
 विप्र-योग- -गम् भव १,४.
 वि-प्र/लभ् > म्भ्
 विप्र-लम्भ-
 विप्रलम्भ-सुख-प्रद- -दाय
 सार २६१: १४.
 वि-प्र/स्था > तिष्ठ्, विप्रतिष्ठन्ते,
 विप्रतिष्ठेन् कौ ३,३; ४, १९.
 वि-फल- -लम् महा ३,२३.
 वि/बुध्, विबुध्यते गौ ३, ३३.
 वि-बुध- -घाः कृ २२; पाशु १,
 २८.
 वि-बोध- -घः मैत्रि २,५^१.
 विबोध-तस् (>) नाद २३.
 वि/ब्रू, विब्रूयात् वृ ३, ४, २.
 वि/भज्, विभजामहे नी ३,७; वि-
 भजस्व व ४६०: १६१^०; वि...
 भज सूता २, ६१^५; व्यभजत्
 वपू १, २; विभजेत् शि २, ९.
 वि-भक्त- -क्तः नाप ८, १८; -क्तम्
 वृ ४,३,२३-३०; गौ १३, १६;
 -क्तान् वृष्ट ३, १०; -क्तेषु गी
 १८, २०.
 वि-भक्ति^१- -क्तिः २प्र ३४: ६;
 -क्तिषु २प्र ३५: १०; -क्त्याम्
 २प्र ३५: २१.
 वि-भजत्- -जन् मना २, १३, २१^०.
 वि-भज्य मैत्रि २, ६^१; ६, २६;
 अव्य ६; पत्र २; गोपू २५;
 सार २३२: १५.
 वि-भाग- -गः ब्रम् २, ३, ७; ३,

४, ११; -गोन शि २, १.
 विभाग-कलना- -नाम् अत्र ४,
 ६६.
 विभाग-विशेष- -पाः गौ १४.
 विभाग-शम् (>) शु ३, १;
 गोत्र ३६.
 वि/भञ्ज्
 वि-भञ्ज- -भ्रः पठं २.
 वि/भा, विभाति क २, २, १४: १५;
 मुं २, २, ७: १०; ३, १, ४: ७; श्व
 ६, १४; मैत्रि ६, २४; अ १;
 २^१; त्रिवि १, ११: २, १२; ४,
 ६: ९, १४; ६, १६: १८-२०; २५:
 ७, ९: १३; १८; २३; महा ४,
 २७; ५, ५३; ए ८; पाशु २,
 २३; १अव २७; गोपू १६;
 १९; वरा ३, १७; सर ३, २२;
 व ११; १२: सि १, ११; २, १;
 ३-४, १; ५, १९; ६, ४; गृ ३६;
 ४५; व ४३७: १३१^१.
 वि-भा-
 विभा-वसु- -सो मना २,
 ६१^५; -सौ गी ७, ९.
 वि-भात- -तम् करु ३६.
 वि-भाव (>) री- -रि व
 ४३८: १८; ४३९: ५; १५;
 ४४०: ३; १२; ४४१: १; १०;
 २१; ४४२: ९; २०; ४४३: ७;
 १६; ४४४: १०; २०; ४४५:
 ८; १८; ४४६: ७; १७; ४४७:
 ५; १६; ४४८: ४; १४; ४४९:
 २; १२; २०; ४५०: ४; ११; १८;
 ४५१: ३; १०; १८; ४५२: २;
 ११; १८; ४५३: २; ७; १४;
 २०; ४५४: २; १०; १६; २३;
 ४५५: ७.

वि/भाप्
 वि-भापित- -तः मुद्र १, ४.
 वि/भिद्, -भेदि, व्यभेक्ष्यत् छां ५,
 १६, २.
 विभेदयेत् ध्या ६८; शां १, ७,
 ३७.
 वि-भिरा त्रिवि ५, १२; रापू ४, २२.
 वि-भिर- -ज्ञः कम् १८.
 वि-भेद-
 विभेद-जनक- -के जाद ४, ६३.
 वि-भेद्य शां १, ७, ४८; ५०.
 वि/भी, > भीपि
 वि-भीत- -तैः तपू २, ५.
 वि-भीषण^१- -णः गर १, ७; ९; णम्
 रार १, ७; रापू ४, २९; ३३; ३६.
 वि/भू (> बधा.), भावि, विभवति मुं
 ३, १, ९; न्यभवत् वृ १, ४,
 ११-१४.
 विभावयति मुमु २०; विभावय
 गोशि ४, ६; अत्र १, २२; वि-
 भावयेत् लु २०; गोशि १, ३१;
 अक्षि ४९; वरा २, २६; वि ११;
 कालि ४०२: १३; मु ८.
 वि-भव- -वैः शि १, ३५.
 वैभव- -वम् मुद्र १, ३; ४;
 ८; २; गोच ६७: १७.
 विभव-भूमि- -मयः महा ३,
 ४; भव १, २६.
 विभवो(व-उ)ञ्जव- -वाय पा
 १, २.
 वि-भावन- -नः अक्षि ३९.
 वि-भावित- -तम् अत्र ५, ९०.
 वि-भाव्य त्रिवि ८, ५; पत्र २;
 सुमु ५.
 वि-भु- -भु कौ १, ३१^१; ५; -भुः
 गौ १, १; १०; मै ५, ७^१;

a) 'अपि फलम्' इति अञ्जा. । b) °धाः इति संदि., °धाय इति सात. । c) ऋ १०, ८४, २ । d) मि...भ° इति पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. खि १, ५०, २) । e) तैआ १०, ११, २ । f) ऋ २, २३, १५ । g) तैआ १०, ५, १ । h) खि ५, ८४, १ । i) °भुम् इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. अञ्जा., वे.; वैतु. आन. °भु प्र° इति, J.C., उत्र.) । j) तु. गपू. ५७५५८ ।

मैत्रि ६, ७; मना १, ३९^a; ब्र
२^b; वृत् ९, ८; मन्त्रि ७; १३;
ससा ४; ते ५, ६८; ६, ३६; ब्रवि
१०३; आबो ७; नाप ८, १;
त्रिब्रा १, २; श १७; त्रिवि १,
११; पै २, १; १संन्या २, १३;
ए ७; अन्न ४, ६७; गोत् २८; कृ
२५; तु १५; पा १, २; चू १३;
गी ५, १५; -भुम् क १, २, २२;
२, १, ४; सुं १, १, ६; कै १, ७;
मन्त्रि १६; नाप ९, १५; त्रिब्रा
२, १५७; शां ३, २; महा ४, ८६;
पाशु २, २९; रुह ३२; जाद ४,
६२; नापु ४, २६; वपु २, २; चू
१६; भव ३, ४; गी १०, १२;
-भूनाम् पा १, २; -०भो वृजा
६, १०; सु २९४ : २२; -भो:
मन्त्रि ५; चू ५.
विभु-ता- -त्ता भव २, ३३.
विभु-स्व- -स्वम् प्र ३, १२; ते
६, २८; सांस् ६, ३६; -स्वात् श्वे
३, २१; -स्वेन श्वे ४, ४.
विभुस्व-योग- -गात् सांका
४२.
विभ्वा(भु-आ)कार- -रः त्रिवि
२, १५^c.
वि-भू- -भूः वृ ६, ३, ४; मना २,
७९९^d.
वि-भूत्- -त्तम् राधा ४, ४.
वि-भूति- -त्तिः वृजा १, १^e; सौ १,
३^f; -त्तिभिः गी १०, १६; -त्तिम्
प्र ५, ४; गौ १, ७; वृजा ६, १; गी
१०, ७; १८; -त्तीनाम् गी १०,
४०; -तेः वृजा १, १; वपं ३१३;
१; गी १०, ४०; -त्यै सर १, ४.

विभूति-कल्पतरु- -रवे त्रिवि
७, ४३.
विभूतिकल्पतरु-वन- -नैः
सि ५, १०.
विभूति-धारण- -णात् वृजा ७,
३; ७^g; जाबा १४.
विभूति-मत्- -मत् गी १०, ४१.
विभूति-योग- -गम् वृजा ३, १.
विभूति-रुद्राक्ष- -क्षयोः वृजा
१, १.

वि/भूष्

वि-भूषण- -णम् भा ३४.
विभूषण-तस्कर- -रौ ते ६, २६.
विभूषित- -त्ता(?!ताः^f) शिदि, १८६.
वि-भेद-, वि-भेद्य वि/भिद् द्र.

वि/भ्रम्

वि-भ्रम- -मः यो १, ७९.
वि-भ्रान्त- -न्ताः सार २३१:१८.
विभ्रान्त-चित्त- -त्तम् वृ ५५५:
१३.

वि/भ्राज्, विभ्राजते

त्रिता ५, १^h.
वि-भ्राजत्- -जत् कै १, ३९^h; मना
२, १२, ३९^h.

वि-भ्राजमान, ना- -नम् सुबा ८;
-नाम् अर २४ⁱ.

वि-मत्सर-

-रः अता १४; द्र ४; गी
४, २२.

वि/मथ्, विमथ्नीरन् वृ

३, ९, २५.
वि/मन्
वि-मत- -तानि योश्चि १, १६४.

वि-मनस्क-

वैमनस्क- -स्कः त्रि १५^j.
विमनस्क-ता- -ताम् महा ५, ६१.
वि-मर्द- वि/मृद् द्र.
वि-मल, ला- -लः मैत्रे ३, २; नाद २०;

अध्या ११; पा ८, २; -लम् शु १,
१८; अन्न १, १९; त्रिता १, ३८;
गोपु ३२; वरा ३, ५; ६; -ला
अन्न ५, ५६; म ४८ : १३९^k;
४९ : १९; राधा ४, २९^k; आथ
३९८ : १०९^k; गार ४०७ :
१९९^k; -लाः महा ६, १६; -ले
शां १, ७, ३२^l; अन्न ४, २०;
-लेन शि ६, १२०.

विमल-क्रम- -मः महा २, ३९.

विमल-तर-

विमलतर-दुकूल(ल>)ला- -ला
सौ १, २.

विमल-स्थिति- -तिः अन्न ३, २४.

विमला(ल-आ)कृति- -तिः अन्न ४,
२६; कर ८.

विमला(ल-आ)दि- -दीः रापु ५, ६^m.

विमला(ल-आ)म्बर- -रे महा ५,
१५५.

विमलाम्बरा(र-आ)भ- -भम्
पै ४, ११.

विमलो(ला-उ)क्वर्षिणी-ज्ञाना-
क्रिया-योगा-प्रह्वी-सत्ये(त्या-ई)-
शा(न>)ना- -नाः त्रिवि ७,
४८ⁿ.

वि/मा(माने), विममे

नापु ४, ५९^o.
वि-मान^o- -नम् त्रिवि ७, २२; शि
६, १३४; २६१; रा ४२३:१७;

-नानाम् शि ६, १२८; २०७;
-नानि पै ४, २; -ने शि ६, २७१;

-नेन शि ६, ५२; -नैः शि ४,
२७; ६, १७६; २०३; २०५;

२१४; ७, ९८.
विमान-परंपरा- -रासु त्रिवि ६,
२३.

a) 'विभूः' इति मा ३२, ८ । b) °भोः इति आन. । c) विश्वा° इति निसा., विम्बा° इति निसा. संटि., विभवा° इति अज्या. संटि. । d) तैश्चा १०, ६३, १ । e) =भस्मन्- वा ऐश्वर्य- वा । f) पा.१ यनि. श्लोघः द्र. । g) °ति इति अज्या. । h) 'विभ्राजते' इति पा.१ [तु. भा., सा. (तैश्चा १०, १०, ३), J.C. प्रथ.] यनि. श्लोघः द्र. [तु. मूको. (तैश्चा.)] । i) तैश्चा १, २७, ३ । j) °स्तः इति तान्त्रि. । k) =शक्तिविशेष- वा देवीविशेष- वा । l) °लाम्ब° इति अज्या. । m) °घाः इति आन. । n) पाभे. कृते तु. अज्या. संटि. । o) ऋ १, १५४, १ ।

विमान-यान-नः शि ६, ६४.
विमान-वत्-नवान् गी ४२३ः
१७.
विमान-(स्थ)स्थान-स्थाम्
शि ६, ११८.
विमानान-आदि-दिभिः गी
३६.
विमानान-आयली-लीपु
भार २७२ः १५.

वि/मार्ग, विमार्गते जाद ४, ५०.

वि/मुच्, > च्च्, मोचि, मोक्ष, > क्षि.
विमुञ्चति गी १८, ३५; विमु-
ञ्चन्ति नाप ५, १०; महा ४,
२०; विमुञ्ज महा ५, १७२; पित्र
२, ५; विमुञ्जथ(श) गुं २, २,
५; विमुञ्चेत् जा १; रा३ १, १;
ता १, १.

विमोक्षये गी ४, ३२; विमोक्ष्ये
छां ६, १४, २.

विमुच्यते क २, २, १; अ ३^b;
१योत् १६; शां १, ७, ४८; ४९;
पै ४, २०; महा २, ७०; ४, ४८;
७२; १२७; योशि १, ३३; ५५;
१संन्या २, ९८; रुह ३४; क
२६; वरा २, १४; ४४; योरा
१६; १८; सं २४^c; शि १, १६;
२३; ७, ११४; महा ६, ३९;
विमुच्यन्ते वरा ४, ४३; शि १,
१३; ३२; ३४; विमुच्येत पित्र
६, १९.

विमोचयति सांसू ३, ७३; सांका
६३.

विमोक्षय-विमोक्षय लां २१५:
१४.

वि-मुक्त-क्तः क २, २, १; सुं ३,
२, ८; ९; अ ३; जा ६; ब्रवि

१०३; मं २, १, ४; श ३६;
अज २, ४४; गा २, १; शा १७^d;
गु २, २, ७३; गा ७; गशि ३, ८१:
२०; हे १; ग ३, ८; ८४; गी ९,
२४; १४, २०; १६, २२; -कम्
१शा १६; क्ताः वृ ४, ४, ८; शा
११; गिशा ३, ८२; १७; गी १५,
५; -क्तानि भार २५० : २.

विमुक्त-ता-ता महा ५, ४०;
पाय २, ३१; जाय ६, १८.

विमुक्त-फल-लः अता ७.
विमुक्त-बोध-धात् सांसू ६,
४३.

विमुक्त-मार्ग-गः कुं ९; कक
१; कश्चु ३, १.

विमुक्त-मोक्षा(त्-अ)र्थ-र्थम्
सांसू २, १.

विमुक्ता(त्-अ)ज्ञान-तत्-
कार्य-र्याः वरा १, १६.

वि-मुक्ति-क्तये कै १, ५; अज ५;
७४; जाद ९, ५; सु १, १, २६;
शि ७, ११९; क्तिः तै ३, १०, २.
विमुक्ति-द-दम् शि ७, १३४.
विमुक्ति-पादप-च्छाया-न्याम्
भव १, ३०.

विमुक्ति-प्रशंसा-सा सांसू ५,
६८.

विमुक्ति-श्रुति-तिः सांसू ६,
५८.

विमुक्तय(क्ति-अ)भिसुख-निवृ-
त्ति-मार्ग-प्रवृत्त-त्तः मं २,
४, ३^d.

वि-मुच्य गी १८, ५३; शि २, ३१.

वि-मुच्यमान-नः वृ ४, २, १;
-नस्य क २, २, ४.

वि-मोक्ष-क्षात् त्रिब्रा २, १७;

-क्षात् वृ ४, ३, १४-१६; ३३;
गी १६, ५.

विमोक्षा(त्-अ)र्थ-र्थम् सांका
५८.

वि/मुह, > मोहि, विमुह्यति मु २, ३,
५९; गी २, ७२.

विमोहयति गी ३, ४०.

वि-मूढ-ढः गी ६, ३८; -ढाः मैत्रे
१, ४, १३; मु २, २, ४७; गी १५,
१०; ढेन गोशि ४, २३.

विमूढ-भाव-वः गी ११, ४९.

विमूढा(त्-अ)त्मन्-स्मा योशि
४, ८; शि ७, १२१; गी ३, ६.

वि-मोह-हाय गोपु ४२.
वि-मोहि(त्-अ)नी-नीम् पित्र ६,
१४.

वि/मृग, > मृग्य, > मृग्य-मृग्य-मृग्य-
त्रिभि ७, १७.

वि/मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

वि-मृज्, > मृज्य, > मृज्य-मृज्य-
त्रिभि ७, १७.

a) °त् > °थ = दक्षिणपथीयः सामान्यः लैवि. इति कृत्वा यनि. शोधः द्र. [तु. गपू. (पृ ३३१) / जान् > जानथ
(वैतु. विष्णु. [IHO १७, ८९] उभयत्र नैप्र. वर्णविकार इति ?)] । b) 'मुच्यते' इति श्रान. । c) °कम् इति श्रब्धा. ।
d) °सुखः नि० इति निसा. । e) अवि० इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. मैत्रि ६, ४) । f) श्र १०, १५२, २ ।
g) वैप१ यद्र. । इह = आकाश-, हकार-बीजाक्षर- ।

पा ८, ९; ब्रसू २, ३, १; -यति पा ८, ५; ९, १०.
 वियत्-तस्(>) पा १, ६.
 वियत्-स्वरूप- -पम् ध्या ९७.
 वियद्-आदि-पञ्चक- -कम् पै २, २४.
 वियद्-आदि-सर्ग-संयुक्त- -क्तम् सू ३.
 वियद्-ईकार-संयुक्त- -क्तम् दे ११^{१६}.
 वि/युज्, वियुज्यते नाद १२; १४.
 वि-युक्त- -क्तः अन्न ५, १००.
 वि-योग- -गाय अक्षि २३.
 वियोग-साक्षि(न्>)णी- -णी भव १, २३.
 वियोगा(ग-अ)न्त- -न्ताः सांसू ५, ८०.
 वियोगो(ग-उ)पदेश- -शः निर्वा २९७ : ४.
 वि-यूथ- -थानि सार २६३ : १६.
 वि-रज्ज,जा- -जः क २, ३, १८; प्र १, १६; वृ ४, ४, २०; २३ मना १, १३^{१७}; अन्न ४, ३०^{१८}; ए १०; रुह ४०^{१९}; -जम् सुं २, २, ९; कै १, ६; अ १; पा १०, ३; -जा कौ १, ३^{१७}; ह्यु १६^{१८}; योशि ६, ५^{१९}; गार ४०७ : २०^{१९}; -जाः सुं १, २, ११; ध्या २४; वरा ४, ३८; -जाम् कौ १, ३^{१७}; ४^{१७}.
 विरजा-नदी- -दीम् त्रिवि ५, १३.
 विरजा(ज-अ)नल-ज- -जम् वृजा ३, ३४; ५, ३; ४.
 विरजा-होम^{२०}- -मम् नाप ४, ३८; पप ४१८ : १८.
 वि-रजस्- -जाः मना २, ६५^{२०};

६६^{२१}; लि ३१० : १०^{२१}.
 विरञ्चि^{२२}- -ञ्चिः जाद ४, ३५; हे ४.
 विरञ्चि-रूप- -पात् महा ५, १६४.
 वि/रञ्ज्,विरजेत् जा ४; नाप ३, ७७; पप ४१८ : ६; या १, १.
 विरज्यते शि ४, २८; सांसू ३, ६६; इविरज्येते^{२३} नाप ६, ३०; विरज्येत मु २, २, ६६.
 वि-रक्त- -क्तः नाप २; ३, ९; १३; १८; ६, १; ७; योशि १, २४; १संन्या २, १; पप ४१८ : ६; शि ४, ३१; कालि ४०२ : २०; हंषो १८; -क्तस्य नाप ६, २०; जाद ६, ४७; सांसू २, २; ४, २३; -क्ताः योशि १, ४८; -क्तानाम् रार ५, १६; रु ७.
 विरक्त-मनस- -नसाम् महा ६, १६.
 वि-रक्ति^{२४}- -क्तिः नाप ६, २०; -क्त्या जाद २, ६.
 विरक्ति-द- -दम् वृजा ५, ६.
 वि-रज्य नाप ६, १६.
 वि-राग^{२५}- -गः महा ५, १६९; सांका २३; -नाम् अक्षि ४; -गाः विया ४.
 वैराग्य^{२६}- -ग्यम् मै १, १; मैत्रि १, २; मैत्रे १, १; २, १९; ते २, ३८; नाप ३, १५; ७७; ५, ३३; ६, १^{२७}; ७; २अव ३३७ : ३; त्रिन्ना २, २८; द १६; त्रिवि ५, ९; रापू १, ५; महा १, १; योशि १, ३२; १संन्या २, ६; जाद ६, ४६; शि १, २६; भव १, १; पित्र ६, १८; योसू १, १५; गी १३, ८; १८, ५२; -ग्यस्य अध्या २८; ४१; -ग्यात् त्रिवि ५, ९; महा

६, ७५; सांसू ३, ३६; सांका ४५; -ग्याय सांसू ६, ५१; -ग्ये वि १२; -ग्येण महा ६, ७४; गी ६, ३५.
 वैराग्य-जनक- -कम् मैत्रे २, २३.
 वैराग्य-तैल-संपूर्ण- -र्णे द १५.
 वैराग्य-दायिन्- -यिने या २, २१.
 वैराग्य-पूर्व- -र्वम्^{२८} महा ५, २७; वरा ४, ३.
 वैराग्य-बोध-कर- -रैः नाप १.
 वैराग्य-भाव- -वः मं १, १, ४.
 वैराग्य-मूर्ति- -र्तिः तुअ ४.
 वैराग्य-रंहस्- -हसा महा ५, ६५.
 वैराग्य-वत्- -वन्तः नाप ३, १; १संन्या २, ३.
 वैराग्य-संन्यास- -सः नाप ५, १.
 वैराग्यसंन्यासिन्- -सी नाप ५, १^{२९}; १संन्या २, १३^{२९}.
 वैराग्य-संपत्ति- -त्तिम् नाप ७.
 वैराग्य-स्थान- -नम् भ २, १८.
 वैराग्या(ग्य-आ)दि- चतुष्टय- -यम् वरा २, २.
 वैराग्या(ग्य-अ)भाव- -वे नाप ५, १; १संन्या २, १३.

a) °दा° इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । b) तैआ १०, १, १३ । c) °जाः इति अज्या. ।
 d) =नदीविशेष- । °जरा इति अ्यान., शांआ. (३, ३), MW., JC., वे. । e) =नाडीविशेष- । f) =शक्तिविशेष- ।
 g) °जराम् इति अ्यान., शांआ. (३, ३), MW., JC., वे. । h) तैआ १०, ५१-५४, १; ६०, १ । i) तैआ १०, ५५-५६, १; तैआआ १०, ६६^५ । j) तैआ १०, ५१, १ । k) व्यु. १ = १अहान्- । l) °रिञ्चः इति अज्या. । m) निसा. 'विराजेते' इति शोधः द्र. (तु. अज्या.) । n) वा. क्वि. द्र. ।

विराग्यो(मृ-३)पल-घृष्ट-
-ष्टन ५, २४.

विरास-कारण- -णम् गु २, ३,
६६.

विराग-ता- -ता वरा २, ३.

विरागिन्- -गी वरा २, ३७.

वि-रग्निन्- -ग्नी वा ९, ११.

वि/रम्, विरमति घृष्ट २, ९; य
३३.

विरराम महा २, १३.

विर-रति- -रति: यो १, ६०; -रति: महा
५, ३०.

विर-राम- -म: ते १, ३०.

विराम-प्रत्यया(य-अ)भ्यास-
पूर्व- -वं: योम् १, १८.

√विरामि, विरामयति घृष्ट
२, ९.

विरल^०-

विरल-स्व- -स्वम् १अव २०.

वि/रह्

विरह- -ह: सार २४१: ६.

विरह-भाव- -वेन सार २४१: ५.

विरहो(ह-उ)क्कण्टि(त>)ता-
-ता: सार २४१: ६.

विर-रहित- -त: अञ्ज ५, ९३; -तम्
नाप ६, १.

वि/राज्, विराजते नाप ८, २०; त्रिवि
१, ११; ५, १३; १४^१; ६, १९;
२०; २४; ७, १४; २२; २६; २८;
महा ४, ४३; वरा ३, ५; राधा
१, १८; सार २६५: २०; २३;
२७१: १०; सि १, १०; १४;
२, ११; ३, ८; ४, ९; विराजति

छां २, १६, २; सर २, ५९^१; वि-
राजन्ते महा ४, १९; सार २३०:
५; २५४: १; २५८: ८; १०:
२३; २६४: २३; २६६: ८:
२७०: २१.

वि-राज्- -राज: गुणा १; पं २, २५:
-राजम् नउ ९, ८; सार २४५:
९; -राट् छां १, १३, २; ४, ३, ८;
बृ ४, २, ३; ममा २, २९९^१; अ
१, ९९^१; घृष्ट १, ८; २, २९^१; घृष्ट
३, ५९^१; मन्त्रि १३; ते २, १४:
योच् ७५; तु ६१^१; नाप ८, ११^१; ९,
१३; अत्रिदि १, २; सार २, ४१९^१;
४८९^१; मुद्र १, ५९^१; पं १, २७:
अव्य ७; गावि १०; यो ३, २२;
जाद ४, ३५; ता १, २; च् १, ३;
तपू २, १; वउ ४, २४.

वैराज- -ज: मैत्रि ७, ४९^१;
गी ४; -जम् छां २, १६, १९^१;
२९^१; योशि २, १५.

वैराज्य- -ज्याय छां २, २४,
८^१.

विराट्-चक्र^१- -क्रम् चक्र ७.
विराट्-चैतन्य- -न्यम् पं १,
१४.

विराट्(इ^१)-ध्यान- -नम् गु ६.
विराट्-पुरुष- -ष: तपू ४, १५,
३०^१; नाउ ३, ३; -षस्य त्रिवि
३, ६; -षेण नाप २.

विराट्-प्रणव- -व: नाप ८, १^३;
तु ३; ५; ६.

विराट्-सूत्रात्मको(क-ई)श्वर-
-रा: ते ६, १०.

विराट्-स्थिति-प्रलय- -चौ
त्रिवि ३, ७.

विराट्-द्विरण्यगर्भे(भ-ई)श्वर-
-रा: पं ३, १.

विराट्-रूप- -पस्य गु २४; -पे
योशि ५, ५२.

वि-राजन्-

विराजन्-कर-कमल-धर-
-र: द ८.

वि-राजमान, ना- -नम् त्रिवि ७,
५०^१; -ना सार २५८: २१;
२६६: १८; -ना: सार २३३:
१२; २३९: १४; २४६: ४;
२४९: ५; २५३: ३; ९; २२;
२५४: २; २६२: १७; २७४:
७; २८४: १; -नानि सार २४०:
१०; २^१; १८; २५८: १५;
२२; २६३: १६; २६७: २०;
२७४: १०; १५; २७५: २२;
२८४: ३.

वि-राजित- -तम् त्रिवि ६, २०;
पाशु २, ३; सार २३९: १३;
सि २, ६; ६, १७; २२.

विराजा^१- -जाम् सुवा ९^११^१.

विराजा-सुदर्शना-जिता-सोम्या-
(म्या-अ)मोवा-कुमारा(रा-अ)-
मृता-सत्या-मध्यमा-नासीरा-
शिशुरा(रा-अ)सूरा-सूर्या-
भास्वरा-विज्ञेय- -यानि सुवा
६^१.

वि-राज्य- -ज्ये मैत्रि १, २^१.

विराज्य-चक्र- -क्रम् चक्र ८.

a) वैपश् यद्र. । b) °इपी इति पा. ? यनि. शोध: द्र. (तु. बाटी., बे.) । c) विप. । व्यु. ? विर- (=बिल- पंजा. विथ)+ल-(तु. MW.) इति तस. । वस. तु वि- +रल-[भाप. <√'रल्(मिलने)] इति स्यात् । d) ऋ १, ३, १२ । e) वप्रा. 'वैपश् यद्र. । f) तैश्चा १०, २३, १ । g) =छन्दोविशेष- । h) गपू. (पृ४००) 'दीर्घ-प्लुत-विराज्- > -राट्' इत्यत्र यनि. च 'दीर्घ-प्लुत-> -त:' इति च शोध: कर्तव्य: । i) विराट्-लु^१ इति निसा. ? यनि. शोध: द्र. (तु. अज्या.) । j) ऋ १०, ९०, ५ । k) =सामविशेष- । l) °जा^० इति निसा. । m) पा. ? यनि. शोध: द्र. । n) गपू. (पृ५१३) सस्य. 'पुरुष-> -ष:' इत्यत्र यनि. शोध: कर्तव्य: । o) व्यु. ? =नाडीविशेष- । p) °जम् इति निसा. ? यनि. शोध: द्र. (तु. अज्या.) । q) °र्यास्वरावि^० इति निसा., °र्याभास्वरीवि^० इति अज्या. ? यनि. शोध: द्र. (तु. अज्या. सटि.) । r) 'राज्ये' इति मै १, १ ।

१विराट्^{३६}-

२विराट्^{३६}- -टः गी १, ४; १७.
 वि-राट्^{३६}- -द्वि प्रा १, ५.
 वि/राघ्, विराधिषि छां ३, ११, २.
 वि-राम- वि/रम् द.
 वि/रिच्, > रेचि, विरेचयेत् यो १,
 ३४; जाद ५, ८; ९.
 वि-रेचन- -नम् जाद ६, १३.
 वि-रेच्य शां १, ७, १; १४.
 विरिञ्चि^{३६}- -ञ्चिः द २०; चक्र १२.
 विरिञ्चि-नारायण-शंकरा(र-आ)-
 लमक- -कम् स्क १३.
 विरिञ्चि-पद- -दात् नाप ६, १६.
 विरिञ्चि-विष्णु-रुद्र- -द्राः स्व ६१:
 २१.
 वि/रिष्
 वि-रिष्ट- -ष्टम् छां ४, १७, ४-६; ८;
 २२ ३३: १११^{३६}.
 वि/रुच्, विरोचते छाग २५: १९.
 वि-रोचन^{३६}- -नः छां ८, ७, २; ८, ४;
 -नेन छां ८, ९, २.
 वैरोचन-
 १वैरोचनी- -नीम्
 मना २, १; दे ४; व ४६१: ८;
 ४६५: २०.
 वैरोचन-शाङ्ग-पाण्डर-
 तारक- -कान् तारा ८४: ३.
 विरोचन-वत् सांसू ४, १७.
 वि/रुघ्, विरुध्यते गौ ३, १७; १८;
 विरुध्यन्ते गौ ३, १७.
 वि-रुद्ध- -द्धम् मैत्रे ६, ३४.
 विरुद्ध-धर्म- -र्मौ त्रिवि २,
 ११.
 विरुद्धधर्मा(र्म-अ)ध्यास-
 -सः सांसू १, १५२.

विरुद्ध-वैकुण्ठ-प्रासाद-प्राकार-
 विमानाद्या(दि-अ)नन्त-वस्तु-
 भेद- -दः त्रिवि ८, १.
 विरुद्धो(द्ध-उ)भय-रूप(प>)पा-
 -पा सांसू १, २३.
 विरुद्धो(द्ध-उ)भया(य-आ)-
 लमक-
 विरुद्धोभयात्मक-स्व- -स्वम्
 त्रिवि २, ११.
 वि-रोध- -धः त्रिवि २, १२; ४, ३;
 ब्रसू १, ३, २७; ३, ३, २९; -धे
 ब्रवि ३२.
 वि-रोधि(न्>)नी^{३६}- -नी कालि
 ४०१: ९; श्या ११.
 वि/रुद्, १^{३६}विरोहसि मना १, ८; व
 ४६४: ७.
 वि-रूप, पा^{३६}- -पम् सांका ८; -पा गार
 ४०७: १८^{३६}; -पान् छां २,
 १५, २.
 वैरूप^{३६}- -पम् छां २, १५, १;
 २; मैत्रि ७, ३.
 वैरूप-वैराज^{३६}- -जे कौ १, ५
 वैरूप्य- -प्यम् अन्न ४, १३.
 विरूपा(प-अ)क्ष^{३६}- -क्षम् मना २,
 २३^{३६}; वृषू १, १२^{३६}; रुह ७;
 भ २, ३; जाद ९, २; सृ ४;
 १५^{३६}; १८; २शिसं ३०^{३६}; व
 ४६४: १२^{३६}; -क्षेण नी ३, ५.
 विरूपाक्ष-महाकाल- -लः हंपो
 २.
 विरूपा(प-आख्या)>ख्य- -ह्ये
 अन्न ४, २१.
 ?विरोदसी^{३६} मना १, १४.
 वि/लज्, विलक्ष्यते अध्या ३२.
 वि-लक्षण- -णः कै १, १८; वृउ २,

२; वरा २, ११; -णम् अध्या ६६;
 ससा १, ३८^{३६}; कुं २३; जाद ६,
 ४९^{३६}; -णाः शि १, १०^{३६}.
 वैलक्षण्य- -ण्यम् वरा १, १५;
 -ण्यात् ब्रसू २, ४, १९.
 विलक्षण-ता- -तया भव २, ३०.
 विलक्षण-स्व- -स्वात् ब्रसू २, १, ४.
 वि/लग्
 वि-लग्न- -ग्नाः गी ११, २७.
 वि/लङ्
 वि-लङ्घ्य १अव २.
 वि/लम्ब
 वि-लम्बित- -तम् १योत ४०.
 वि-लम्बि(न्>)नी^{३६}- -नी योशि
 ५, २०; -न्याम् योशि ५, १८.
 वि-लय- वि/ली द.
 वि/लस्, विलसन्ति त्रिवि ६, ८.
 वि-लसत्-
 विलसत्-क(च>)चा^{३६}- -चा
 अन्न १, ५.
 विलसद्-अमृत-दृष्टि- -ष्टया व
 ४५५: १३.
 वि-लास- -सः महा ४, ८७; सार
 २४१: १९.
 विलास-सुरत-रङ्ग-
 विलाससुरतरङ्ग-व(त्>)-
 ती^{३६}-
 विलाससुरतरङ्गवत्या-
 (ती-आ)दि- -दयः सार २७०:
 १६.
 विलासिन्- -सिनः महा ६, ५९.
 विलासिनी^{३६}- -नी गार
 ४०७: १८.
 वि-लापन-, वि-लापयमान-, वि-ला-
 पिन्-, वि-लाप्य वि/ली द.

a) व्यु. ? = देशविशेष- । b) बस. उप. भाप. <√राघ् । c) °द्धम् इति आन., °रुद्धम् इति अज्या. ।
 d) व्यु. ? = १ब्रह्मन्- । e) 'वरिष्ठम्' इति पा. ? यनि. शोभः द. (तु. गोत्रा १, १, २२) । f) खि १०, १२७, १२ । g) मा
 १३, २१ । h) वैप १ यद्र. । i) = शक्तिविशेष- । j) = सामविशेष- । k) तैआ १०, १२, १ । l) पा. ? (तु. तैआ १०, १, १४)
 'अपि रोदसी' इति द्विपदः शोभः द. (तु. गप्. पृ६९२९) । m) °णः इति आन. । n) निसा. पा. ? 'वि-चक्षण->-णाः'
 इति शोभः द. (तु. अज्या.) । o) पा. ? °णः इति शोभः द. । p) = नाडीविशेष- । q) = सौ-बीजाक्षर- ।

वि. लिम्, विलिखेत् राप् ४, ४४; ४५; ४७, ५१.

वि. लिम् गौ १, १; सूता ५, ३; क ६३: १०.

वि/लिप्, लेपि, विलिप्ये कं २४. वि-लेपि(ना-ना-न्ते त्रिता २, ७०.

वि/लिङ्, विलिङ् श्राम २, १: ७.

वि/ली>ला>लापि, विलीयन्ते सूता २: भार ३८; ३०; ४१; भाषि १३: राउ ५, १३: १८; शां १, ७, २१; पै २, २०; ३, १; महा ४, १५: ११५; योशि ३, १२; २५; अञ्ज ४, ६२; यो १, ७४; भन् ५, १५; विलीयन्ते भाद ५०; योशि ६, ७१:; विलीयन्ते सूता २; कुं १४; मु २७; विलीयताम् १अव २१.

विलापयेत् आक्षि ४१.

वि-लय- -यः त्रिवि ३, ७; -यम् ५, २१; मं ५, १, ५; शां १, ७, २३; पै ३, १, ४, १४; योशि ६, २१; अथ्या ३७; ५०; योरे, ३१; -ये त्रिता १, ४.

विलय-कारण- -णम् त्रिता १, १.

विलय-विलाय- -यः स्व ६०: १.

विलयिन्- -यी १संन्या २, १४.

वि-लापन- -नात् अक्षि ३४.

वि-लापयमान- -नः भार २९, २: १३.

वि-लापि(न्>)नी- -नी अञ्ज ५, ८२.

वि-लाप्य अथ्या ७; मु २, २, ५०: १.

वि-लीन- -नः इं ८: योशि १, ६४; -नम् छां ६, १३, २; पै १,

८: अञ्ज ४, ७८; ५, ४२; ११०; अथ्या २४; त्रिता २, २; -ने मैत्रि ६, २४; कै १, १३: इं २१: १; वरा २, ६२.

विलीन-ना- -ताम् योशि १, १२६; १३५.

विलीन-पात्र- -त्राः नाद २०.

विलीना(न-ञ्)ज्ञान-तन्-कार्य- -र्यं वरा २, ५९.

विलीना(न-प्रा)मन्- -न्मा अथ्या ४३.

वि-लीयमान- -नम् भार २९, २: १४.

वि/लुप्, विलोप्तीय छां ३, १६, २: ४; ६.

वि/लोक्>लोकि, विलोकयति वउ ३, २२; ३०; विलोक्य महा ६, ७८; तुल ७०: १६; वउ ३, २०; विलोकयन् द १५.

विलोकयते महा २, ५३.

वि-लोक्य अता ५; वउ ३, ५८.

वि/लोच् विलोचन- -ने महा ३, ४०; या २, ६.

वि-लोम- -मेन त्रिता २, ४; यो २, १९; ३, १९.

वि-लोहित, ना- -तः सूता १, १२९: १; नी १, ९९: -तम् नी २, १९: -ताः झु ८.

विवक्ति^१ मु २९, ४: ६९: १.

विवक्षित- /वक्ष् द.

वि/वच्, विवक्षयसि वृ ३, ९, २६; व्यवोचः वृ ३, ८, ५.

वि-वक्तुम् छां ४, ४, ५; ५, ३, ५.

वि/वद्, विवदामः गौ ४, ५. व्युद्विरे छां ५, १, ६.

वि-वदत्- -दन्तः गौ ४, ३; ४. वि-वदमान, ना- -नाः वृ ६, १, ७; कौ २, १४; -नौ वृ ५, १४, ४; या ६२.

वि-वाद- -दः १संन्या २, ८७. विवादा(द-ञ्)भाव- -वात् सांस् १, १३८.

वि/वध्, विवधीः मना २, ४९९.

वि-वर्- वि/वृ(*बधा.) द.

वि-वर्ण- विवर्ण-जीर्ण-वल्कला(ल-ञ्)-जिन-परिग्रह- -हम् तुअ ९.

विवर्ण-वस्त्र- -स्त्रम् पप ४१८: ३२.

विवर्ण-वासस्- -साः जा ५; या २, १.

वि-वर्धमान- , वि-वर्धित- वि/वृद् द.

वि/वल्ग, विवल्गति महा ४, १२९.

वि-वश- -त्राः महा ३, ३४; योशि १, २७; शि ७, १२५: १. वैवश्य- -श्यम् अञ्ज ५, २.

विवशा-ता- -ताम् महा ५, १२९.

वि/वस्(निवास), विवस्यामि छां ४, ४, १.

वि/वस्(*बधा.)

वि-वस्वत्^१- -स्वतः गौ ४, ४; -स्वते सूता ४, ४; गौ ४, १; -स्वन्तम् सूता २, २२; -स्वान् गौ ४, १.

वैवस्वत- -न्त क १, ७; -तः मना २, ४५९: -तम् इ १३: ४; -ते गोच ६९: १५.

वैवस्वत-मनु- -नोः सा २३०: ६.

विवस्वद्-इति- -स्तम्भ- -कर्तृ- -र्ता पी ४२२: ४.

व्यु(वि-उ)ष्टि- -ष्टिः छां ३, १३, ४; सौ १, ३९: १; -ष्टीः २प्र ३२: ३: ८.

a) ली° इति अथ्या. । b) °ल्ल° इति अथ्या. । c) °यत् इति निरा. १ यनि. शोधः द. (तु. अथ्या.) ।

d) °लापि° इति अथ्या. । e) 'विनापि' इति निसा. । f) 'लीनः' इति निसा., आन. । g) °लीयते इति निसा. ।

h) मा १६, ७ । i) मा १६, ६ । j) °तः इति मा १६, ७ । k) °ता इति अथ्या. । l) जु. प्रपु १ । घा. १ (तु. वैप १ यस्या.) । m) ऋ ९, ९६, १९ । n) तैआ ३, १५, १ । o) उप. = २वासस्- । p) °क्त्° इति पा. १ यनि. शोधः द. ।

q) बप्रा. वैप १ यद्. । r) तैआ ३, ७, १४, ४ । s) = शक्तिविशेष- । व्या° इति अथ्या. । t) व्यु° इति संटि. (तु. गोत्रा १, १, १६) ।

व्युष्टि-मत्-मान् छां ३, १३, ४.
 वि/वह्(वहने), >वाहि
 वि-वाह्य नाप २.
 व्यू(वि-ऊ)ढ, ढा- ढम् गी १, २;
 -ढाम् गी १, ३.
 वि-वाद- वि/वद् ३.
 वि-वासन^०- -नः महा ६, ६७; अक्षि
 ३७; वरा ४, १६.
 वि-विह्वल- -वम् श १३.
 वि/विच्, विविनक्ति क १, २, २.
 वि-विक, का- -क्तः योस् ४, १५^b;
 -क्तम् शि ७, ६; -क्ता सार २६६:
 १६; -क्ते सौ २, २; शि ७, १२८.
 विविक-देश- -शाम् त्रिन्ना २,
 ८९; योशि १, ९०; -शे कै १, ५.
 विविक-देश-संसक्त- -क्तः
 नाप ३, ७६.
 विविक-देश-सेविन्-
 विविक-देश-सेवि-त्व-
 -त्वम् गी १३, १०.
 विविक-बोध- -धात् सांस् ३,
 ६३.
 विविक-रूप- -पः कै २, २.
 विविक-सेविन्- -वी गी १८,
 ५२.
 वि-विच्य नाप २; त्रिवि १, ४; पै २, ३.
 वि-वेक- -क्तः गौ ४, ६०; -कम्
 छां ६, ९, २; महा ५, ८४; -कात्
 सांस् ३, ४; ४७; ८४.
 विवेक-ख्याति^१- -तिः योस् २,
 २६; -सेः योस् २, २८; ४, २८.
 विवेक-ज- -जम् योस् ३, ५३;
 ५५.
 विवेक-ज्ञान-वह्नि- -ह्निना वरा
 ३, २४.
 विवेक-तस(>:) वरा २, ५२.
 विवेक-दण्ड- -ण्डेन महा ६, २१.
 विवेक-निम्न- -न्मस् योस् ४, २५.

विवेक-बुद्धि- -द्धिः नापू २, ७.
 विवेक-युक्ति-बुद्धि- -द्धया
 आबो ११.
 विवेक-रक्षा- -क्षा निर्वा २९७:
 ५.
 विवेक-लभ्य- -भ्यम् निर्वा
 २९७: १०.
 विवेक-वारि- -रिणा महा ५, ८३.
 विवेक-वैराग्य- -ग्यम् १योत
 १३०.
 विवेक-सिद्धि- -द्धिः सांस् ३, ७५.
 विवेक-हीन- -नाः जाबा १२.
 विवेका(क-आ)ख्य- -ख्यम् द
 १७.
 विवेकिन्- -किनः महा ५, ७९;
 या २, १९; शि ७, १३०; योस्
 २, १५; -किना मु २, २, १५; -की
 योशि १, १८.
 विवेकि-ता- -ताम् महा ५,
 १४४^०.
 वि-वेचक- -काः सांस् ६, ८.
 वि-विट्टि(†ष्टि^d)- -ट्ट्यै(†ष्ट्यै^d) मना २,
 ६६.
 विविदिषत्, विविदिषा- √विद्
 (ज्ञाने) द्र.
 वि-विद्य, धा- -धा श्वे ६, ८; गु ६७;
 भव २, ४५; -धाः सुं २, १, १;
 गर्भे ४; त्रिन्ना २, ८८; योचू ११७;
 योशि ३, ७; निरु १, १७; १८;
 राधा १, २६; गी १७, २५; १८,
 १४; -धान् त्रिवि ५, ४; -धानि
 सुबा ४; शां १, ७, ५१; योशि ४,
 ६; सार २३७: १५; शि ७, ४०;
 -धाम् शि ७, ७३; -धैः रापू ५, ७;
 सार २२४: १९; शि ६, ९१; ९८;
 १८७; गी १३, ४.
 विविध-कला-रूप- -पेण सार
 २२९: १०.

विविध-प्रका(र>)रा- -राम् सार
 २२९: ८.
 विविध-मणि-लसत्-कुण्ड-
 (ल>)ला- -लाम् व ४२७: २.
 विविध-रस-युक्त- -क्तानि सार
 २२३: ७.
 विविध-लता(ता-अ)न्तर- -रेषु
 सार २२९: ८.
 विविध-लता-प्रावार- -राः सार
 २५३: १०.
 विविध-विचित्र-स्थूल-सूक्ष्मो-
 (ह्म-उ)ःकृष्ट-निःकृष्ट(ष्ट-अ)-
 नन्त-देह- -हान् त्रिवि ५, ४.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-
 चिद्-विलास-विभूति-
 विशेष- -धान् त्रिवि ७, १६.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-
 जगद्-आकार- -रः त्रिवि
 २, १५.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-परम-
 तत्त्व-विभूति-समष्टि-
 विशेष- -धान् त्रिवि ७, १.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-परम-
 विभूति-समष्टि-विशेष-
 -धान् त्रिवि ६, १०.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-
 महा-माया-विशेष- -धैः त्रिवि
 ६, १०.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-मूला-
 (ल-अ)विद्या-विलास- -सान्
 त्रिवि ६, १५.
 विविध-विचित्रा(त्र-अ)नन्त-
 शक्ति- -क्तेः त्रिवि २, १२.
 विविध-संचार- -रः सार २७०: २०.
 विविधा(ध-आ)कार- -रम् त्रिवि
 १४; त्रिता ५, १४.
 विविधा(ध-अ)नन्त-महामाया-
 शक्ति-सुसेवि(त>)ता- -ता

a) उप. = २वास(न>)ना-। b) विभ^० इत्यपि पाठे। c) क^० इति निसा. १ यनि. शोषः द्र. (तु. अश्या.)। d) पा. १
 तु. तै. आशा १०, ६६; वैतु. तै. आशा १०, ५८, १) यनि. शोषः द्र. (तु. सा.; वैतु. भा. लोटि मपु १ इति)। एरिष. अपि धा. अर्थश्च ?।

विधि ४, १३.
 विविधो(ध-उ)पचार- रैः त्रिवि ५,
 १४: ६, १०; १५; १७: १९-२१:
 २३: २५; ७, १५; ८, ५; १७.
 विविधो(ध-उ)पाय- रैः त्रिवि ४,
 १३.
 वि/विश्व-विविशामि मैत्रि २, ६.
 वि/वृ-आन्(आदेन), विवृणुते क१, २,
 २३: मुं ३, २, ३.
 १^१वि-आवः मना १, १०;
 रसंन्या १६: ६; रशिमं ३२:
 विवः मना १, १०^१; रसंन्या १६:
 ८९^१; वा ७^१; रशिमं ३२^१.
 विविद्यते गौ ४, ८२.
 वि-वृत्-तम् क १, २, १३; -ता:
 मुं २, १, ४; छां २, २२, ५.
 विवृत्(इति^१)-करण-स्थित-
 -तः २५ ३५: १६.
 वि/वृ(बधा.)
 वि-वर-रम् ध्या ८३; त्रिवा २,
 ६९; योचू ५७; योशि ५, ४१;
 -रेण मैत्रि ७, १-६.
 वि/वृज्>वर्जि, विवर्जयेत् अना
 २८; इ १४: १०; २०; शि ७,
 १४; ८१; भव ४, १५.
 वि/वृत्, विवर्तते तै १, ६, १; श्वे ६,
 २; ज्ञाग २५: ९.
 वि/वृष्, >वर्धि, विवर्धते अध्या
 ३७; विवर्धन्ते मैत्रि ६, १५.
 विवर्धयेत् अन्न ५, ७१.
 वि-वर्धमान-ने वरा ५, ४७.
 वि-वर्धित-तम् शि ७, १०८.

वि-वृद्ध-द्धम् गी १४, ११; -द्धे
 गी १४, १२: १३.
 वि-वृद्धि-द्धिः भव ४, ९.
 वि/वृह, विवृहः मना २, ५१^१.
 वि-वेक-वि-वेचक-वि/विन् द्र.
 १/विश्व, विशते मुं ३, २, ४; गी १८,
 ५५; विशति त्रिवि ३, ७; शां १,
 ७, ९; पै ३, ३; महा २, ६३:
 यो १, ५५^१; ३, ३४; मु २, २,
 ७६; म ३२; विशन्ति मुं १,
 २, १०; वृ ५, १२, १; गौ ४,
 ५१; मैत्रि ७, १-६; कै १, ३९^१;
 मना २, १२, ३९^१; महा ६, १६; मु
 २०.४: ४: गी ८, ११; ९, २१;
 ११, २१; २७; २८; २९^१; विशन्तु
 मैत्रि ६, ९; त्रि ३^१; विश मना
 २, ६९^१; ७४^१; अविशत् मै
 २, ६; विशेत् मैत्रि ६, २८; नाद
 १८^१; ध्या ६१; नाप ५, १२;
 योचू ३१; त्रिवि ३, ७; योशि १,
 १३०: ६, ५३; शि ७, ४८; ६१.
 विवेश मना १, १९^१; सुवा १;
 व ४३८: १८^१; अरु २५^१.
 २वि-वि वृ ५, १२, १.
 विशत्-शत्(इति^१) पा ५, ५.
 विष्ट-ष्टानि वृ ५, १२, १.
 १विश्व-विशः मना १, ९९^१; २, ५५^१;
 कौ २, ९^१; व ४६०: २९^१; ४६४:
 १९^१; विशम् वृ १, ४, १२;
 विशम्-विशम् व ४६०: १९^१.
 २विश्व-विट् वृ १, ४, १५; विशः
 सिशि ३८१: ७; विशाम् छां

८, १४, १.
 वैश्य^१-श्यः वृजा ७, ४;
 सुवा १९^१; वसू ९; रुजा १, १०;
 सार २५६: १८; वल ३, ४८;
 भव २, ३४; ६३; -श्यम् राउ ५,
 १५; -श्याः रुजा १, ८; ९; भव
 २, ६५; गी ९, ३२; -श्येन वृ
 १, ४, १५; -श्यैः सु २९४: १५.
 वैश्य-कर्मन्-र्म गी १८, ४४
 वैश्य-योनि-निम् छां ५,
 १०, ७.

विट्-अन्न-त्रे अव्य ५.

विशद्, दा^१-दः ब्रवि १०४; -दम् कै
 १, ६; -दा सार २८४: १४^१.
 विशद्-चरणा(ण-अ)ङ्कु(लि)-
 ली-ल्यः सार २६५: १५.
 विशदा(द-आ)शय-याः नाप ५,
 १०; महा ४, २०.

वि-शारु-रौ अन्न ५, १११.

वि-शल्य-ल्यः नी २, १२^१.

१विशा(ख)>खा^१-खा सार
 २२३: २; २६२: ९; २२; २६७:
 ३; २६८: १०; -खायाम् सार
 २५२: २.

२विशा(ख)>खा^१-खायै व
 ४३८: ५.

विशारद^१-दम् गौ ४, ९३; १००;
 -दैः योरा ३.

वैशार(द)>दी-दीम् पी ४२२: २
 वैशारथ-थम् गौ ४, ९४.

विशाल, ला^१-लम् त्रिता २, ३८; गी
 ९, २१; -ला राधा १, २०^१;

a) °क्तिसंसे° इति निगा., °क्तिः सुसे° इति अश्या. संटि. । b) 'प्राविशानि' इति मै २, ६; सात. ।

c) व्युपसर्गवशात् = तदपाकरणे । d) मा १३, ३ । e) 'अविवः' इति पा. ? (तु. वाटी., बे.) यनि. शोधः द्र. । f) °त्ताः इति निसा. । g) पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. गोत्रा १, १, २७) । h) तैत्र्या ३, १५, १ । i) 'विशति' इति अश्या. । j) तैत्र्या १०, १०, ३ । k) आवि° इति अश्या. । l) तैत्र्या १०, ६९^१ । m) तैत्र्या १०, ३७, १ । n) 'आदिशेत् इति आन. । o) तैत्र्या १०, १, १ । p) 'चाक्लये' इति शौ ७, ९२, १ । q) तैत्र्या १, २७, ४ । r) डिः प्र. उत्सं. (पाउ ४, १४२) । अर्थः ? । s) पा. ? यनि. शोधः द्र. । t) वैप१ यद. । u) ऋ १०, १५२, २ । v) °शोत्थि° इति अश्या. ? । w) ऋ १०, ८३, २ । x) ऋ १०, ८४, ४ । y) = वैश्य- । वैप१ यद. । z) ऋ १०, ९०, १२ । a') व्यु. ? = स्पष्ट- । b') = सखीविशेष- । c') मा १६, १० । d') व्यु. ? = सखीविशेष- । e') व्यु. ? = नक्षत्रविशेष- । f') व्यु. ? = प्रगल्भ- । g') = गोपीविशेष- ।

-लाः महा ५, १४२.

विशाला(ल-अक्ष>)क्षी-क्षी अक्ष
१, ९; गार ४०७ : १९; -क्ष्या
अक्ष १, ११.

वि-शि(खा>)ख-खः ए ३.

वि/शिष, > शेषि, विशिनष्टि सांका
३७; विशिषन्ति ब्रसू ३, ३, ३७.
विशिष्यते गी ३, ७; ५, २; ६,
९; ७, १७; १२, १२.

वि-शिष्ट, ष्टा- -ष्टस्य सांसू ६, ६३;

-ष्टा भव ३, १२; -ष्टाः गी १, ७.

वैशिष्य- -ष्यत् सांसू ५,
४२; ९५.

वैशिष्य-श्रुति- -तेः

सांसू ५, १२४.

विशिष्ट-देहा(ह-अ)वशिष्ट-

-ष्टः नाप ६, १.

वि-शेष- -षः गौ २, १४; १५; मैत्रे
३, ३; योशि १, २३; वरा २,
६६; स्व ६१:२०; व १८; सांसू
६, २६; योसू १, २२; -षम् मैत्रि
६, २४; अक्ष ४, ६५; ब्रसू ४,
३, १६; -षाः सांका ३८; ३९;
-षात् ब्रसू ३, १, २३; ३, २१;
-षेण नाप ५, ११^०; ६, ८; त्रिवि
३, १; ५, १३; योशि १, १००;
यो १, ३९; गोड ४५; शि ७,
७९; १०२; -षैः सांका ४१.

वैशेषिक^१-

वैशेषिका(क-आ)दि-

वैशेषिकादि-वत्

सांसू १, २५.

वैशेष्य- -ष्यत् ब्रसू १, २,

८; २, ४, २२.

विशेष-कार्य- -र्येषु सांसू १, ९७.

विशेष-गति- -तिः सांसू ५, ७६.

विशेष-गुणो(ण-उ)च्छित्ति-

-त्तिः सांसू ५, ७५.

विशेष-त्स्व-समता- -ताम्
योचू ११४.

विशेष-तस(>) वृजा ५, ४;
शु १, १०; १योत ३४; नाप ५,
५; ३३; अता १५; रार ५, १६;
महा २, ३२; शारी २; यो ३,
२९; रुजा १, १९; गोच ६८:१४;
सु २९५: १; शि २, २९; ६,
४५; ७, ७७; ९३; व ४६२:
१०.

विशेष-दर्शिन- -र्शिनः योसू
४, २४.

विशेष-लेश- -शः वरा २, ६६.

विशेष-वत्- -वत् भव २, १३.

विशेष-विज्ञाना(न-अ)भाव-

-वात् ससा १, ९.

विशेष-विद्- -वित् द्व ६.

विशेषा(ष-अ)नुगति- -तिभ्याम्
ब्रसू २, १, ५.

विशेषा(ष-अ)नुग्रह- -हः ब्रसू
३, ४, ३८.

विशेषा(ष-अ)न्त- -न्तम् मैत्रि
६, १०.

विशेषा(ष-अ)रम्भ- -म्भः

सांसू ३, १.

विशेषा(ष-अ)र्थ-

विशेषार्थ-त्व- -त्वात् योसू
१, ४९.

विशेषा(ष-अ)विशेष-लिङ्गमा-
त्रा(त्र-अ)लिङ्ग- -ज्ञानि योसू
२, १९.

विशेषा(ष-अ)विशेष-विषय-
-याणि सांका ३४.

वि-शेषण- -णात् ब्रसू १, २, १२.

विशेषण-भेदव्यपदेश-

-शाभ्याम् ब्रसू १, २, २२.

विशेषणा(ण-अ)नर्थक्य-

प्रसक्ति- -क्तैः सांसू ५, ३४.

वि-शेषित- -तम् त्रिवि ६, २३; सि
५, १२; ६, १३.

विशेषित-त्व- -त्वात् ब्रसू २,
४, ५; ३, ४, २३; ४, ३, ८.

वि/शुष्, > शोधि, विशुध्यति शि ५,
५; ३८.

विशोधयेत् यो २, २८; महा ५,
१०४.

१वि-शुद्ध, द्वा- -द्धः योशि ४, २०;
अक्ष ४, ३०; रह ४०; शि १,
१५; वउ ६, ५१; -द्धम् श्वे २,
१५; कै १, ६; त्रिवि ४, ७; पाशु
२, ३६; जाद ६, ४६; गोपू ३२;
शि ५, २; सांका ६४; -द्धया त्रिब्रा
२, १४७; गी १८, ५१; -द्धे मुं ३,
१, ९; १योत ११^०; योशि १, ९.

विशुद्ध-सस्व- -स्वः मुं ३, १,
८; १०; गु ३७.

विशुद्धा(द्ध-आ)त्मन्- -स्मा गी
५, ७.

२वि-शुद्ध^{१०}- -द्धम् यो ३, १०^०.

विशुद्धा(द्ध-आ)ख्य- -ख्यम्
योचू ५; योशि १, १७४; ५,
१०^०.

१वि-शुद्धि- -द्धिः पाशु २, ३६.

२वि-शुद्धि^{१०}- -द्धिः यो ३, ११;
-द्धौ हं ६^१.

वि-शोधित- -से शां १, ७, ९.

वि-शोध्य त्रिब्रा २, १६३; २अव
३३८: ३.

वि-शुद्ध- -ङ्गः शौ ५२:८; २१; -ङ्गम्
शौ ५२: ८.

वि/शू> शिर, विशीर्यन्ते महा ३,
४९; शि ७, १२२; व्यशीर्यत्
छां ५, १५, २.

वि-शीर्ण- -र्णः अक्ष १, ४३; -र्णम्
कश्रु १, १; -र्णानि नाप ३,
३०.

a) अन्यस्माद्वा वि^० इति निसा.। अन्यभाषावि^० इति शोषः द्र. (तु. अज्या.)। b) ^०द्धैः इति निसा.।

c) =तदाख्यचकविशेष-। d) ^०द्धिः इति अज्या.। e) ^०द्धया^० इति निसा. संटि.। f) ^०द्धे इति अज्या. संटि.।

विशीर्ण-वस्त्र- -स्त्रम् १संख्या १,
१^०.
वि-शेष- , वि-शेषण- , वि-शेषित-
वि/शिप् द्व.
वि-शोक,का- -कः छां ८, १, ५; ७,
१; ३; मैत्रि ६, २५; ७, ७; मना
२, १२, ३५^b; वा २४; -कम् छां
२, १०, ५; मैत्रि ६, २५; ७, ५;
कै १, ६; महा ४, १०४; गोपृ
३२; -का योसू १, ३६.
वि-शोधित- , वि-शोष्य वि/शुप् द्व.
वि/श्रम्, >श्राम्, श्रामि, विश्रमते
ध्या ९, ३, २-९; विश्रमेत् ध्या
६०; योशि ६, ५२.
विश्राम्यते वि १; ३; ५; ७, ९;
११; १३; १५; १७; १९; वि-
श्राम्यति सी ३५.
विश्राम महा २, ७४.
विश्रामयेत् वि ७, ३२.
वि-श्रम- -मम् महा २, ३५.
वि-श्रमण-
विश्रमणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् सी
३५.
वि-श्रम्य अञ्ज २, ९; भव १,
२२.
वि-श्रान्त- -न्तः महा ५, ५९; वरा
४, २९.
विश्रान्त-संदेह- -हम् महा ५,
५९.
वि-श्रान्ति- -न्तिम् पै २, ४९; महा
४, ३९.

विश्रवण^१-
वैश्रवण^१- -णः पाशु १, १; २; वपू
२, ५.
वैश्रवणो(ण-उ)प(मा>)म- -मः
म १८
वि/श्रु. विश्रुवम् तै १, ४, १; नाप ४,
३८; ५^d.
वि-श्रुत,ता- -तः मै २, १; मैत्रि २,
१; मैत्रे १, ४, १; -तम् गोउ
३९; -त्ता अञ्ज १, ६.
१ विश्व,श्वा^१- -श्वः गौ १, १-३; मैत्रि
६, ९^१; मना २, १५^१; ७९^१; वृउ
१, ६; ते ६, १०; नाप ८, ८; योचू
७२; रापू ४, ६^१; पै २, २६;
४०; प्रा २, १; -श्वम् सुं १, १, ७;
२, १, ४; १०; २, ११; ३, २, १;
तै ३, १०, ६; छां ३, १५, १; वृ
६, २, २५^१; श्वे १, ८; २, १७; ४,
१; ९; ५, ५; मना १, २५^१; अशि
२, २५; वृपू १, १४^१; वृजा २, १;
शां २, १^१; -श्वस्य प्र २, ११; सुं
१, १, १; २, १, ३; श्वे ३, ७; ४,
१४^१; १६; ५, १३^१; गौ १, १९;
कै १, १५; मना १, १४^१; अ ३,
१२; पै २, २६; पप ४१९; २३;
चा १७; -श्वा ऐ ४, ५^१; वृ ६,
४, २७^१; श्वे ३, २; ४, ४; मैत्रि
५, २; अशि ५, ४; मना १, ३५^१;
त्रिवि ४, ९^१; म २, ७^१; आर्षे
९ : १५; नापू ४, ११^१; -श्वाः
मना २, १२, १५^१; सर २, ५^१;

वा १७^१; -श्वात् नाप ४, ३८;
-श्वादि ई १८^१; वृ ५, १५, १५^१;
श्वे ५, २; मना १, ९^१; सुह २;
वध ६१ : १२^१; वपू २, १; -श्वाय
वृ ६, ३, ३; कुं १४^१; गोपू ३४;
-श्वे छां २, २४, १६; श्वे २, ५^१;
४, ८^१; मना १, १५^१; वृजा ६,
१२^१; वृपू २, १६^१; राउ ५,
२९^१; ए २; व २३^१; २विसं
३४^१; अरु २^१; -श्वेन सूता, १,
१०^१; -श्वेभ्यः छां २, २४, १४;
मना २, ६७^१; -श्वेषाम् छां २,
२४, १.
विश्वकर- -रे गोउ ५६^१.
विश्व-कर्तृ- -तारम् वरा ३, १३.
१ विश्व-कर्मन्^१-
विश्वकर्म-कृत्- -कृत् मै ४, ४,
१४; मैत्रि ५, १.
२ विश्व-कर्मन्^१- -र्मा श्वे ४, १७.
विश्व-कारण-भूत- -ताः भव २, १.
विश्व-कृत्- -कृत् वृ ४, ४, १३; श्वे
६, १६; ऋवि १०४; भव २, ४७.
विश्व-क्रीडा-रति- -तिः मै ४, ४,
१४; मैत्रि ५, १४^१.
विश्व-गुरु- -रुम् शां ३, ३.
विश्व-चक्षुस्- -क्षुः मै ५, ६; मैत्रि
६, ६.
विश्व-चर्ष(ण>)णा- -णाः त्रि १^१;
लिं ३११ : ८^१.
विश्व-चर्षणि- -णिः त्रि १३^१; व
४६० : ६^१.

a) षं व इति श्रव्या. । b) तैश्चा १०, १०, ३ । c) वैपश् यद्र. । d) षं इति निसा. ? यनि. शोधः द्र.
(तु. तैश्चा ७, ४, १) । e) नाप. सना. चेति कृत्वा वप्रा. वैपश् यद्र. । f) तैश्चा १०, १४, १ । g) तैश्चा १०, ६३, १ । h) तु. गपू.
पृ ५७b । i) ऋ १०, ८८, १५ । j) तैश्चा १०, १, २ । k) ऋ १०, १९०, २ । l) ऋ ४, २७, १ । m) ऋ १, १६४, ४९ ।
n) 'निहितम्' इति मा ३२, ८ । o) ऋ १०, ९०, ३ । p) शौ ७, ९२, १ । q) ऋ १, १५४, २ । r) तैश्चा १०, १०, १ ।
s) ऋ १, ३, १२ । t) षे इति वे. । u) ऋ १, १८९, १ । v) ऋ १०, ८९, ५ । w) ऋ ५, ४, ९ । x) 'विद्यायाः'
इति श्रव्या. । y) ऋ १०, १३, १ । z) ऋ १, १६४, ३९ । a') ऋ १०, १२१, २ । b') ऋ १, १५७, १ । c') ऋ १,
५०, १३ । d') तैश्चा १०, ६७ । e') श्रव्या. ? 'विद्वं करे' इति द्विपदः शोधः द्र. (तु. निसा., श्रान., श्रव्या. संदि.) ।
f') कस. । g') वस. । h') षं त्रिप्रभुः इति पा. ? (तु. राती., J.C.) यनि. शोधः द्र. (तु. नापू.) । i') षी इति
तान्नि. । j') षी इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. नापू.) । k') षी इति श्रव्या. संदि. । l') ऋ १०, ८३, ४ ।

विश्व-चार- -राणाम् गर २४.
 विश्व-जगद्-योनि- -निः श २२.
 विश्व-ज(न्य>)न्या- -न्या त्रि १३.
 विश्व-जयिन्- -यी सार २४४:१४.
 विश्व-जित्- -जित् नाप ८,९.
 विश्व-तस(>) छां ३,१३,७; श्वे ३,
 १४९^६; मना १, ११९^६; २, १३,
 १९^६; महा १, १९^६; च २०:१०९^६;
 वा २०; नी २, १४९^६; १७९^६; सु
 २९३: १८९^६; व ४३७: ८९^६;
 ४३९: ५९^६; ४४४: ९९^६; ४४९:
 १९९^६; ४५३: ६९^६.
 विश्वतः-कण- -णः म २, १३.
 विश्वतः-पाणि- -णिः म २, १३.
 विश्वतः-पाद- -दः म २, १३.
 विश्वतश्-चक्षुस- -क्षुः श्वे ३,
 ३९^६; मना १, ३९^६; त्रिवि १०३;
 म २, १३; त्रिवि ६, १३९^६; रु
 १२९^६; रशिसं २६९^६.
 विश्वतः-शिरस्- -राः म २, १३.
 विश्वतस-पा(द>)द्- -पात्
 श्वे ३, ३; मना १, ३; त्रिवि ६,
 १३; रु १२; रशिसं २६.
 विश्वतो-बाहु- -हुः श्वे ३, ३९^६;
 -हुम् म २, ३.
 विश्वतो-मुख- -खः श्वे ३, ३९^६; ४,
 ३९^६; मना १, ३, ३९^६; २, १३,
 २९^६; त्रिवि ६, १३९^६; प्रा १, ६९^६;
 च २१: ३९^६; सूता १, १२९^६; रु
 १२९^६; ए १३; रशिसं २६९^६;
 गी १०, ३३; -खम् महा १, १९^६;
 १यौत ९६; योचू १०; ११३;
 योशि ६, १०^०; त्रिता २, ३६; गी

९, १५; ११, ११.
 विश्वतो-हस्त- -स्तः मना १,
 ३; त्रिवि ६, १३; रु १२; रशिसं
 २६.
 विश्व-ता- -ता नाद २६.
 विश्व-तुरीय- -यः पप ४१९: २४.
 विश्व-तैजस- -सः पप ४१९: २४;
 -सौ गौ १, ११.
 विश्व-तैजस-प्राज्ञ- -ज्ञाः पै ३, १.
 विश्व-तैजस-प्राज्ञ-तटस्थ-भेद-
 -द्वैः नाप ६, १.
 विश्व-तैजस-प्राज्ञा(ज्ञ-आ)त्मन्-
 -स्मानः योचू ७२.
 विश्व-तैजस-प्राज्ञे(ज्ञ-ई)श्वर- -रैः
 नाप ६, १.
 विश्व-त्व- -त्वम् पै २, २५.
 विश्व-देव- -द्वैः दे १९^६.
 विश्वदेव- -वम् छां २, २४, ११;
 १३; गार ४०७: ९; -वस्य वृ
 ३, ९, १.
 विश्व-धामन्- -म श्वे ६, ६; पं १९.
 विश्व-धायस्- -थः व ४६०: ९९^६.
 विश्व-धारि(न्>)णी- -णी शां
 १, ४.
 विश्व-धत्- -धत् मना २, ७९९^६.
 विश्व-प्राज्ञ- -ज्ञः पप ४१९: २४.
 विश्व-प्राज्ञा(ज्ञ-आ)दि-लक्षण-
 -णम् अक्षि ४३.
 विश्व-म(द्र>)द्रा^६- -द्रा गा
 ४०७: १७.
 विश्व-भावन- -नः राज २, १.
 विश्व-भावि(त>)ता- -ता
 विद्या १.

विश्व-भुज्- -भुक् मना २, ७१९^६;
 मै ४, ४, १४; मैत्रि ५, १; ६, ९;
 नाप ८, ७; श २४; आर्षे ९: १३.
 विश्व-भू- -भूः ए १; ३१^६.
 विश्व-भृत्- -भृत् मै ५, ६; मैत्रि
 ६, ६; १३.
 विश्व-भेद-कलना(न-आ)दि-
 -वर्जित- -तम् वरा ३, ८.
 विश्व-मन्त्र- -न्त्रेण रु २१.
 विश्व-मय- -यः रु १.
 विश्व-मात्- -तरम् गु ६६; -ता दे
 ९; त्रि ८; -तुः त्रि १०.
 विश्व-माय^७- -यः मै ४, ४, १४.
 विश्व-माया-निवृत्ति- -त्तिः श्वे १,
 १०; नाप ९, ९.
 विश्व-मूर्ति^८- -र्तिषु मना २,
 ६८९^६.
 विश्व-मूर्ति^८- -०र्ते गी ११, ४६.
 विश्व-मोहि(न्>)नी^६- -०नि व
 ४५८: २; -नी दे १०.
 विश्वं-भर- -०र अक्ष ५; -रः वृ १,
 ४, ७; कौ ४, १९; सुबा २.
 विश्वंभरी- -री सुबा २.
 विश्वंभर-कुलाय- -ये वृ १, ४,
 ७; कौ ४, १९.
 विश्व-योनि- -निः श्वे ५, ५; त्रि
 १४; गु ६०; ७४; -निम् व
 ४३३: ५; भव ३, ४.
 विश्व-रु(चि>)ची^६- -ची सुं १,
 २, ४.
 विश्व-रूप^९-
 विश्वरूप-धर- -रम् राज ४,
 १^६; दत्ता १, १.

- a) ऋ १०, ९०, १। b) ऋ ३, ४७, २। c) तैआ १०, ११, १। d) मा १६, १२। e) मा १६, ११।
 f) ऋ ९, ८३, १। g) ऋ १, ९१, १६। h) ऋ १, ७, १०। i) ऋ १०, ८१, ३। j) शौ १०, ८, २७। k) 'सर्वतो-
 मुखः' इति मा ३२, ४। l) तैआ १०, ११, २। m) 'श्वमूर्तिषु' इति तैआ १०, ३१, १। n) 'खः' इति तैआ १०,
 ११, २। o) 'सर्वतो' इति अंब्या। p) 'तोबाहुः' इति ऋ १०, ८१, ३। q) ऋ १०, १२५, १। r) ऋ १०, ८३, ६।
 s) 'श्वस' इति तैआ १०, ६३, १। t) =देवीविशेष-। u) तैआ १०, ३८, १। v) पा. 'विश्व-भूति->स्या'
 इति शोधः द्र. (वैतु. उग्र. अन्यथेच्छुः)। w) उस. उप. √सा(माने) +णः प्र.। x) कस.। y) तैआ १०, ३१, १।
 z) बस.। a') तु. गपू. पृ २९९। b') 'श्वधारम्' इति आन.।

विश्वरूपिन्-पिणम् त्रिधा २,
१५३; महा १,१; न २० : १२.
विश्वरूपिणी-णी योशि
१,११९; दे १७.
रविश्व-रूप, पा^१- -०प गी ११,
१६; -पः प्र १,७; तै १,४,१; छां
५,१३,१; १८,२; श्रे १,९; ५,७;
मैत्रि ७,७; मना २, ८^१; अशि
३,२; नाप ४,३८^१; ९,८; शा
२०; च २१ : १६; वा २४; पा
५,६; वटु ३१५; १; गुषो ४२१;
५; षो १९; भव २,३; २३; -पम्
प्र १,८; छां ५,१३,१; वृ २,२,
३^१; श्वे ६,५; मै ५,८; मैत्रि ६,
८; अक्षि १; म २, ३; जाद ९,
२; प्रा २, १^१; गोड ३२^१; चा
१५; पा ९, ७; मृ १५; १९;
-पस्य त्रिधा २,१५९; -पा मना
२,४३^१; गार ४०७ : २०^१; १६;
-^१पाः दे ५; सर २,८; -पाय मैत्रि
७,७; मना २, २३^१; चा २२;
गोपू ३४^१; पा ५,५; मृ ४; रशिसं
३०^१; व ४६४ : १२^१.
वैश्वरूप- -पस्य सांका १५.
विश्वरूप-चक्र^१- -क्रम चक्र ८.
विश्वरूप-त्व- -स्वम् त्रि १५;
-स्वात् अव्य २.
विश्वरूपै(प-ए)क-पाश- -शम्
श्वे १,४; नाप ९, ३.
रविश्व-रूप^१- -पः, -पात् वृ २,६,
३; ४,६,३.
विश्व(श्व-ऋ)र्षि- -र्षीन् पा ९,४.
विश्व-विचेष्टित- -तम् पाशु २, ४.

विश्व-विद- -वित् श्वे ६, १६; भव
२, ४७.
विश्व-वियजित- -तः वरा २,६३^१.
विश्व-विश्व- -श्वः पप ४१०; २४.
विश्व-वीचि- -चयः कं १४.
विश्व-वेदम्- -दसम् आर्षे ९; १८;
१^१व ४३९; १५; ४४४ : १९;
४५०; ३; ४५३; १३; -दमे मना
२, ६^१; -^१दाः प्र मुं मां शां^१;
मना १,९; उजा अशि अ नृपू नाप
सी श त्रिवि रार रापू शां पप
अञ्ज सू १आ पाशु पत्र त्रिता दे
शा भ ग मवा गोपू कृह दत्ता गरु
अवि पहं शां^१; सि शां; रा
४२३ : १; पित्र शां.
विश्व-व्यापक-रूप-
विश्वव्यापकरूपि(न>)णी-
-णीम् षो २.
विश्व-व्यापिन्- -पी रापू ५,९.
विश्व-शंभु- -भुवम् मना २, १३,
११^१; २१^१; महा १, ११^१.
विश्व-शास्त्र- -स्ता वा २४.
विश्व-संस्थित- -तः गोड ४५.
विश्व-संभव- -वम् च २० : ९^१.
विश्व-सृज्- -सृक् मैत्रि ६, ८; ७, ७;
-सृजः नृपू १, १४^१; १^१; -सृद्
मै ५, ८.
विश्व-स्थित्य(ति-अ)न्त-हेतु-
-तवे गोपू ३४.
विश्व-हीन-
विश्वहीन-क- -कः ते ४, ४३.
विश्व-हेतु- -तवे सू १९.
विश्व(श्व-ऋ)कार- -रेण योशिष्ठ, २

विश्व(श्व-ऋ)क्ष- -क्षम् मना २,
१३, ११^१.
विश्व(श्व-ऋ)ख्य- -ख्यः मै २,
५^१; मैत्रि २, ५.
विश्व(श्व-ऋ)ची- -ची मना
२, ४१^१.
विश्व(श्व-ऋ)तीत- -तम् शु १,
१८^१.
विश्व(श्व-ऋ)त्मन्- -त्मा मै ४,
४, १४; ५, ६; मैत्रि ५, १; ६,
६; तं ४, ४३; वपू २, ३; -त्मानम्
मना २, १३, ११^१; म २, ३.
विश्व(श्व-ऋ)हृद्- -हृदि ते १, १^१.
विश्व(श्व-ऋ)दि- -दीनाम् नाप
८, ६.
विश्व(श्व-ऋ)धार- -रः वट ३,
६०.
विश्व(श्व-ऋ)धिक- -कः मना २,
१२, ३^१; ब्रवि १०४; म २, ६;
७; -कम् सिशि ३८० : ५.
विश्व(श्व-ऋ)भिप, पा- -पः श्वे ३,
४^१; ४, १२^१; १५; -पा गु ५६;
५८.
विश्व(श्व-ऋ)धिष्ठान- -नम् ते १,
२६.
वि(श्व>)श्व-नर^१-
वैश्वानर^१- -रः क १, १, ७; प्र
१, ७; मां ३; ९; छां ५, १२-१७,
१; वृ १, १, १; ५, ९, १; मै २,
८^१; मैत्रि २, ६^१; ६, ९; नृपू ४,
४; नृड १, ६; २, ५; सुबा २; ब्रवि
१०३; नाप ८, ८; त्रिवि ३, ७; राड
३, १; प्रा २, १; गु २२; वट १, ६;

a) बस. । b) तैत्र्या १०, ६, १ । c) तैत्र्या ७, ४, १ । d) ०पः इति निसा. संटि., आन. । e) विश्वरूप^१ इति आन. । f) तैत्र्या १०, ४२, १ । g) =शक्तिविशेष- । h) ऋ ८, १००, ११ । i) तैत्र्या १०, १२, १ । j) श्वस्वरूप^१ इति निसा. । k) =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । l) दृश्यवि^० इति निसा. संटि., अज्या. । m) ऋ १, १२, १ । n) तैत्र्या १०, ५, १ । o) ऋ १, ८९, ६ । p) तैत्र्या १०, ११, १ । q) तैत्र्या १०, ११, २ । r) श्वशंभु^० इति तैत्र्या १०, ११, १ । s) पा. १ यनि. शोभः द्र. (तु. नाड.) । t) तैत्र्या १०, ३९, १ । u) इन्द्रा^० इत्यपि निसा. पाभे. । v) श्वतीर्तं ह^० इति आन., JC. । w) विश्वा धियः (तु. गपू, पृष्ठ २६m^१) इति निसा. १ यनि. शोभः द्र. (तु. तैत्र्या १०, १०, ३; JC.) । x) श्विकः इति तैत्र्या १०, १०, ३; आन. संटि., JC. । y) पूष. दीर्घः (पा ६, ३, १२९) । z) वप्रा. द्र. ।

५, ५१; ब्रह्म १, २, २४; गी १५, १४; -रम् छां ५, ११, २, ४; ६; १२-१७, २; १८, १^१; आर्षे ९: १६; -रस्य छां ५, १८, २^१; -राय मना १, ७५^०; कठ १; व ४६३: ७५^०; -रे छां ५, २४, ४.

वैश्वानरी-रीम् कश्चु १, १.

वैश्वानरा(र-आत्मक>)-
स्मिका-काम् विद्या १.

वैश्वानरे(र-इ)ष्टि^{१२}-ष्टिम् १संन्या १, १^०.

वि(श्च>)श्वा-मित्र^{१०}-त्रः वृ २, २, ४; मना २, ३५५^०; रार २, १०; २१; ६३; ७०; आर्षे ७: २; -त्रेण अक्ष १५.

वैश्वामित्र-त्रम् गार ४०७: १५.

विश्वामित्र-जमदग्नि-ग्नी वृ २, २, ४.

विश्वा(श्व-अ)मृत-तः मैत्रि ६, ९.
विश्वा(श्व-अ)मृत्यु^१-०त्यो अक्ष १५६.

विश्वा(श्व-आ)युस-युः मना २, ३५५^०.

५^१विश्वा(श्व-अ)चिस-चिः मना २, १३, २; महा १, १; च२१: ३.

वि(श्च>)श्वा-वसु^१-०सो वृ ६, ४, १९.

विश्वा(श्व-अ)ह-
विश्वाह-संततो(त-उ)द(य>)-

या-या(श्याम्^१) त्रिता २, २७.

विश्वे(श्व-ई)श-शः योशि ६, ३२.

विश्वे(श्व-ई)श्वर-०र मै ४, ४, १४; मैत्रि ५, १; गी ११, १६; -रः भ २, १३; गोउ २३; श्या ६;

-रम् महा १, १; भ २, २०; २१;
च २०: १२; -राय गोपू ३४.

विश्वेश्वरा(र-अ)भिध-धम्
भ २, १९.

विश्वै(श्व-ए)श्वर्य-र्यम् श्वे १, ११;
नाप २, १०.

विश्वो(श्व-उ)तीर्ण-स्वरूप-पाय
त्रिवि ७, ४१; ह ३.

विश्वो(श्व-उ)दर-
विश्वोदरा^{१३}-

विश्वोदरा(र-अ)भि(ध>)-
धा-धा जाद ४, २३; -धायाः

जाद ४, ३९.
विश्वोदरी^{१४}-री शां १, ४^१;

योशि ५, २३; वरा ५, २७; भा
१३^३; जाद ४, ८^१; १५^१.

२विश्व(२देव-)-श्वे(वाः)क२, २, ३;
छां १, १३, २; वृ १, ४, १२; ३, १,

९; २, १२; मैत्रि ७, ४; वृजा ६,
१२; वृपू ५, ८; अव्य २; दे १०;

-श्वे[श्वैः^०(-वैः)] सिशि ३८२:
१९; -श्वे[श्वौ^०(-वौ)] गार

४०८: ९.
वि/श्वस्, विश्वसेत् १संन्या २, ९०.

विश्वसितु महा ३, ३२.
विश्वास-सः शां १, २; अक्ष २,

२; जाद २, ६; -सम् मैत्रे २,
१६; महा २, १३; ४, ३०.

विश्वास-ता-ता वरा ३, २१.
√विष्(*बधा.)

विष्^{१५}-
विड्-वराह-हम् रुजा २, १७.

विण्-मूत्र-करण-णाय नाप
३, ६५.

विण्-मूत्र-पित्त-कफ-मज्जा-मे-
दो-वसा-साभिः मै ३, ४^१;

मैत्रि ३, ४.
विण्-मूत्र-पूय-ये नाप ४, २६.

विण्-मूत्र-लेप-गन्धा(न्ध-आ)-
दि-मोचन-नम् मैत्रे २, ८.

विण्-मूत्र-वात-पित्त-कफ-मज्जा-
मेदो-वसा-साभिः मैत्रे १, ३.

विण्-मूत्र-वात-पित्त-कफ-
संघात-ते मै १, २.

विण्-मूत्र-वेग-
विण्मूत्रवेगिन्-गिना वरा

५, ९.
विण्-मूत्रा(त्र-आ)दि-विस-

र्जन-नम् शां १, ४^३; जाद ४,
३१.

१विष्^{१६}-षम् वृजा ८, २^१; वृपू
५, १४^१; आबो १७^१; योचू ६८;

मुद्र ३; शां १, ७, ४३; महा ३,
५४^१; ५५; ५, १११; योशि ५,

३३; १संन्या २, ८८; गरु ५; ६^१;
७; ९^१; १०; १२^१-२३^१; २४^१;

वरा २, ३७; लां २१६: ३; वउ
५, ८; भव १, १४; गी १८, ३७;

३८; -षाणाम् गरु ९; २४; -षाणि
शां १, ३, १२; ७, ५१; यो १, ३१;

-षात् आबो २७; -षेण महा ५,
१११.

विष-गल-हस्त-स्ताभ्याम्
व ४५२: १४.

विष-घ्न-०घ्न अक्ष ५.
विष-ज्वर-निघ्न-०घ्न अक्ष ५.

विष-ज्वाला-हस्त-स्ताभ्याम्
व ४५४: ५.

विष-तुण्ड-ण्डानाम् गरु २४.
विष-तुण्ड-दंष्ट-ण्डानाम् गरु

२४.
विष-दंष्ट-ण्डानाम् गरु २४.

a) °रश्च इति निसा. । b) तैत्र्या १०, १, ७ । c) °रीम् इ° इति अज्या. । d) पूष. दीर्घः (पा ६, ३, १३०) ।

e) तैत्र्याया १०, ३५ । f) वस. । g) °स्योर्च° इति अज्या. संटि. । h) तैत्र्या १०, ११, २ । i) पूष. दीर्घः (पा ६,

३, १२८) । j) पा.१ यनि. शोषः द्र. । k) =नाडीविशेष- । l) °रा इति अज्या. । m) °रा इति तान्त्रि. ।

n) °दारा इति अज्या. । o) तु. गपू. पृ३९५a । p) °त्रवातपि° इति अज्या. संटि. । q) =गरल- ।

विप-दन्त- -न्नानाम् गरु २४.
विप-दूषि(न्)णी- -णी गरु
९; १२-२४^०.

विप-दोष- -यैः आबो २७.

विप-नाशि(न्)णी- -नी गरु
९; १२-२४.

विप-पुच्छ- -च्छानाम् गरु २४^०.

विप-भाग- -गः शां १, ४.

विप-मिश्रित- -तम् भव ४, १३.

विप-रूप-

विपरूपि(न्)णी- -णी

गरु ९; २४.

विप-रोग-विनाशन^०- -नम्
जाद ३, ७.

विप-विघ्न-नाशन^०- -न अक्ष
५.

विप-वृक्ष-ज- -जैः वपू २, ५.

विप-शोषि(न्)णी- -णी गरु
९; १२-२४.

विष-संसर्ग-दूषित- -तम् अक्ष
५, ३.

विष-हारि(न्)णी- -णी गरु
९; १२-२४.

विपा(य-अ)ङ्ग- -ङ्गानाम् गरु
२४^०.

२विष^०- -षः रापू ४, ६१.

वि/प(स)द्, > पीद्

वि-षाद- -दः मै ३, ५; मैत्रि ३,
५; १थोत १३; नाप ३, ४०;
योशि १, ११; -दम् गी १८,
३५; -दाय महा ६, ६०.

वि-षादिन्- -दी नाप ५, ६; गी
१८, २८.

वि-षीदत्- -दन् गी १, २७; -दन्तम्
गी २, १; १०^०.

वि-प(स)गम्- -मः महा ३, २०;
-मम् यो १, ६०^०; -माणि महा
४, ३०; -मं गी २, २.

वैषम्य-

वैषम्य-नैर्घृण्य- -ण्ये असू २,
१, ३४.

विपम-ज्वर- -रम् व ४३३ : २१.

विपम-त्व- -त्वम् मै ४, ५१^०; मैत्रि
५, २.

विपमा(म-आ)युध- -धम् १मंन्या
२, ९१.

विपमा(म-आ)सन-दोष- -पात्
यो १, ५७^०.

विषय^०- -यः गौ ४, ८०; ते १, ३९^०;

अक्ष ४, ३; ५, ८६; वरा ३, २७;

गोड १४^०; सु २, २, ७४; सांसू

१, १०८; सांका ११; -यम् योशि

३, २४; नाद ४२; मुद्र २; पाशु

२, १०; वृ ६; सांका ३^०; -याः

गौ २, २१; महा ३, ५५; शागी १^०;

भव २, १९; पित्र १, १५; १कौल

२ : ४; २कौल २; गी २, ५९;

-याणाम् नाप ३, ६८; -यात् यो

३, ३; -यान् क १, ३, ४; मै २, ९;

मैत्रि २, ६; ६, ३१; ससा १, ७;

नाप ३, २६; ४, १; १अव ६; पै

४, २; भव २, ११; गी २, ६२;

६४; ४, २६; १५, ९; १८, ५१;

-ये त्रिभा २, २४; योशि ३, २४;

पाशु २, ८; -येभ्यः त्रिभा २,

११५; मं १, १, ७; -येषु ते १,

३४; योच् १२०; शां १, ८; यो

१, ७३^०; जाद ७, १; पित्र ५,

३; -यैः सार २३१ : ८.

विषय-गोचर- -रम् मैत्रे १, ४, ७;

-रे मै ४, ४, ५; मैत्रि ६, ३४; शा
२; भव ३, १५.

विषय-ग्रहण-बुद्धि- -द्धिः नाप
६, १^०.

विषय-चापल- -लम् महा २, १३.

विषय-न्याग- -गः महा ४, ७७;
वरा २, ७६.

विषय-दष्ट- -ष्टम् मै ४, २१^०; मैत्रि
४, २.

विषय-प्रवा(ल)ला- -लाः गी
१५, २.

विषय-भोग- -गान् त्रिवि ५, ४.

विषय-व(त)ती- -ती योसू १,
३५.

विषय-वर्जित- -ते वरा ४, ३१.

विषय-वासना- -नाः सु २, २, ६९.

विषयवासना-विनाश- -शः
अक्ष १, ५४.

विषय-वैतृण्य- -ण्यम् नाप ५, १०.

विषय-वैषम्य- -म्यम् महा ३, ५४.

विषय-व्याप्ति-वर्जित- -तम् ब्रवि
१६.

विषय-व्यावर्तन-पूर्वक- -कम्^० मं
१, १, ८.

विषय-संकरूप- -रूपः नि ३३.

विषया(य-आ)काङ्क्षिन्- -ङ्क्षी यो.
३, ३.

विषया(य-आ)ख्य- -ख्यम् सांका
३३.

विषया(य-आ)दि- -दीन् वरा २,
३७; -दौ सार २७८ : २३.

विषया(य-आ)नन्द-वाञ्छा- -ञ्छा
आबो १५.

विषया(य-अ)न्तर- -रे सार २९० :
२२.

a) °षणी इति अश्या. संटि. । b) उप. कर्तरि कृत् । c) °पणी इति पा.१ यनि. शोषः द्र. (तु. अश्या. संटि.) । d) =मकार-बीजाक्षर- । e) 'सीदमानम्' इति SCHR. पाभे. [वैतु. बे. (NIA २, २३१)] । f) °यम् इति अश्या. । g) °षय इति निसा.१ यनि. शोषः द्र. (तु. नाउ.) । h) °षाः इति अश्या. । i) व्यु. ? । j) निसा. पा.१ अक्षि इति शोषः द्र. (तु. अश्या.) । k) °यी इति निसा., आन. । l) °मेषु इति अश्या. । m) °हणा इति अश्या. । n) विपद् इति निसा.१ यनि. शोषः द्र. (तु. नाउ.) । o) अवि इति अश्या. । p) वा. क्वि. द्र. ।

विषया(य-आ)शा-शा आबो १६.
 विषया(य-आ)शा-दशो(शा-उ)-
 जित्त- -तः अत्र ५, ९६.
 विषया(य-आ)शीविषा(ष-आ)-
 सङ्ग-परिजर्जर-चेतस्-
 -तसाम् महा ३, १०.
 विषया(य-आ)सक्त- -क्तः ब्रवि ५०;
 -क्तम् ब्रवि २; मै ४, ४, ११; त्रिता
 ५, ३०; शा १; अवि २.
 विषया(य-आ)सङ्ग-
 विषयासङ्गिन्- -ङ्गि मैत्रि ६,
 ३४; भव ३, १४.
 विषयिन्- -यी ब्रवि ५, ५०.
 विषये(य-इ)न्द्रिय-निग्रह- -हः सं
 १, १, ३.
 विषये(य-इ)न्द्रिय-संयोग- -गात्
 गी १८, ३८.
 विषयो(य-उ)घान-चारिन्- -रिणः
 नाद ४४.
 विषयो(य-उ)परम- -मात् सांका
 ५०.
 वि/ष(<स)ह
 वि-षासहि- -हिः वृ २, १, ७^३; कौ
 ४, ८^२.
 विषाण^{११b}-
 विषाण-वत् गौ ४, १६.
 वि-षाद्-, वि-षादिन्-, वि-षीदत्-
 वि/षद् द्र.
 विष्णु^१
 विष्णु-व^{११d}- -वम् जाद ४, ४४, ४५;
 -वस्य शि ६, १९५; ये ब्रवि ५५;
 रुजा २, १८.
 विष्णुवा(व-अ)यन-काल- -लेषु
 जाद ४, ५५.
 विष्व(षु/अ)ञ्च्
 विष्व(षु-अ)च्, ञ्च्- -व्वक् वा

११; १७; -व्वक् २, ३, १६;
 छां ८, ६, ६; त्रिवि ४, ९९^०;
 योशि ६, ४; बा १३; २५; -व्वञ्चः
 वृ १, ३, ७.
 विपूची- -ची क १, २,
 ४; मैत्रि ७, ९.
 विष्वक्-से(ना>)न^{११}- -नम्
 त्रिवि ६, २०; -नाय त्रिवि ७, ४२.
 विष्वक्सेन-परिपालित-
 -तः त्रिवि ५, १२; ७, १.
 विष्वक्सेन-वैकुण्ठ-पुर-
 -रम् त्रिवि ६, १९.
 विष्ट- ✓विशू द्र.
 वि-ष्टप^१-
 विष्टपे(प-ईश>)शी- -शी अत्र
 १, ५.
 वि/ष्ट(<स्त)म्भू
 वि-ष्टभ्य गी १०, ४२.
 वि/ष्टा(<स्था)
 १वि-ष्टा- -ष्ट^१ष्टाः मना १, १०;
 २संन्या १६ : ७; २शिसं ३२.
 वि-ष्टित- -तम् गी १३, १७.
 रविष्टा^१-
 ✓विष्टि
 विष्टित- -तः नापू ५, २८.
 विष्णु^१- -ष्णवे मैत्रि ६, ३५; मना
 २, ७५^१; वृजा ४, २९; स्क ८;
 त्रिवि ७, ३०; ३७; ४१^२; ४६^३;
 ४८; ह ७; नापू ३, ७; १२; पा २,
 १; ५, ५; २, ४; व ४५७; ७; ४६५;
 ४९^४; -ष्णु वृत् ५, ३; -ष्णुः तैशा^१ १;
 १, १२, १९^१; वृ ६, ४, २१९^२; मै
 ४, ४, १२; ४, ५^३; ५, ५; ८; मैत्रि
 ४, ५; ५, १; २; ६, ५; ८; १६; ७,
 ७; ब्र २^३; अशि २, २; अ १-३;

कै १, ८९^५; ना २^३; ४; मना १,
 ६९^०; २, १९^१; ३५९^१; ६८९^१; वृजा
 ४, २२; ७, ६; ७; वृपू २, २; १३;
 ४, १५, २; वृत् ३, ३; ४, ४; ५,
 १; २; ९, १०; सुवा ५; नि ५; २०;
 शु २, ५; ते ४, १६; ५, ५१; ८७;
 ध्या १०; २१; ब्रवि ५; ४१; ७१;
 १०४; १योत २; १३०; २योत
 १, २; आबो १; त्रिवा २, १५२;
 सी ३; योचू ७२^३; ७५; द ११;
 श २२; २४; २५; स्क ८; ९;
 त्रिवि १, ११; ७, ३९; राउ ४,
 ५; वा २८; ३५९^४; शां ३, १; पै
 १, १५; २, १७; महा ३, ५२;
 योशि १, १७६; ५, १३; ५६;
 प ४२० : ६; अव्य ५^१; सू ९;
 अध्या २०; पाशु १, १०; ११;
 पत्र २; रह ५^३; ११; १३; १५;
 १६; १८; म २, २७; २९; रुजा
 २, १९; ग ६; ता १, २; प्रा १,
 ६९^५; कुरि ६; एद; १२^२; वरा २,
 ८; जावार ४; बर; आच ९; १प्र
 ३१:८; सूता १, १७; स्वद ०:५;
 ऊ ६३:१२; गोच ६७:८^३; नापू
 ३, २; तुलु ७१:२; नापू ३, ३९^५;
 ४९^५; ४, ७९^५; ११९^५; पा १, १; ५,
 ५^१; ९, ४; राधा २, ५; लिं ३१०:
 १६; वट्ट ३१३:४; कालि ४०३:
 ८; गार ४०८:६; व ४४३:९;
 १०; १६; ४४८: १७; ४४९:
 १९^६; ४५३:१९^६; ४६३: ४९^६;
 विद्या शां^१; अद्वैमा ५; वपू १,
 २; २, ३; वउ २, १; २७; ३, १८;
 ४१; ५२; ४, १७; २६; भव २,
 ४२; ५, १५; गी १०, २१;

a) °किः इति अख्या. । b) =शुक्ल- । वैप१ यद्र. । c) अव्य. वैप१ यद्र. । d) =विष्णु-वत्- । वैप१ यद्र. । e) ऋ १०, ९४, ४ । f) =विष्णु- । g) वैप१ यद्र. । h) मा १३, ३ । i) व्यु. ३ =पुरीष- । j) तैश्चात्रा १०, ७५ । k) तैश्चा २, १२, १ । l) ऋ १, ९०, ९ । m) ऋ १०, १८४, १ । n) तैश्चा १०, ११, २ । o) तैश्चा १०, १, ६ । p) तैश्चा १०, १, १६ । q) तैश्चात्रा १०, ३५ । r) तैश्चा १०, ३१, १ । s) ऋ १, २२, १८ । t) ऋ १, २२, १७ । u) ऋ १, २२, १६ । v) ऋ ७, १००, ३ । w) ऋ १, १५४, ३ ।

विष्णु-पूजित-भूति-
विष्णुपूजितभूति-त्व- -त्वात्
गोच ६८: ८.
विष्णु-पूत- -तः वृजा ८, १; वृपू ५,
१२; राउ ५, ४; पै ४, २३.
विष्णु-पूर्वक- -काः कर २९
विष्णु-प्रि(य>)या- -यायै तुल ७०:
१०; ११.
विष्णु-प्रीति-क(र>)री- -री तुल
७१: १६.
विष्णु-ब्रह्म-महेश्वर- -राः रुह १४.
विष्णु-ब्रह्मे(द्वा-ई)श-देवता- -ताः
योशि ६, ७०.
विष्णु-भक्त- -क्तः अता १४; द्र ४;
-क्ताः रार १, २; ५; ७; सार २३५:
१४.
विष्णु-भक्ति- -क्त्या त्रिवि ८, १२.
विष्णु-भजन-रत- -ताः सार
२३५: १२.
विष्णु-मण्डल- -लम् व ४४३: १०;
११.
विष्णु-मय- -यः स्क ९; गोच ६८:
१०.
विष्णु-महेश्वरा(र-आ)ख्य- -ख्यैः
त्रिवि ६, ७.
विष्णु-मुख- -खाः मना १, १०५^d.
विष्णु-रति- -तयः शा ११.
विष्णु-रुद्र-
विष्णुरुद्रा(द्र-आ)दि- -दयः
राधा ३, १६.
विष्णुरुद्रादि-पूजन- -नम्
शां १, २.
१ विष्णु-रूप^b-
विष्णुरूपिन्- -पी दत्ता १, ६.
२ विष्णु-रूप^c- -पः स ३७९: ५;
-पम् गोच ६९: ९; बि ११;

-पाय स्क ८; -पे योशि ५, ५३.
विष्णु-लक्ष्मी-निकेतन- -नम् योशि
५, ४१^d.
विष्णु-लिङ्ग- -ङ्गम् शा ९; ११; २६.
विष्णुलिङ्गिन- -ङ्गिनः शा ११.
विष्णु-लोक^e- -कः राधा १, ९-११;
-कम् वपू १, ६; -के गोच ६८: ८.
विष्णुलोक-सुसंलम्भ- -भम्
त्रिवि ६, ५.
विष्णुलोका(क-आ)धिपत्य-
-त्यम् वपू १, ६.
विष्णु-वक्षः- -स्थि(त>)ता- -०ते
व ४३१: १७.
विष्णु-वल्लभ- -भाय गरु ६.
विष्णुवल्लभा- -भा तुल ७०:
२०; -भाम् तुल ७०: ५.
विष्णु-वाह- -०ह गरु ५.
विष्णु-वाहन- -नाय गरु १०.
विष्णु-विध्या(धि-आ)दि-शता-
(त-आ)भिधान- -लक्ष्य- -क्ष्यम्
निर्वा २९७: १२^e.
विष्णु-वृक्ष-फल- -लम् अद्वै २२.
विष्णु-संज्ञा-
विष्णुसंज्ञित- -तम् मैत्रि ६, २३;
७, ३.
विष्णु-सायुज्य- -ज्यम् वा ४१; का
१६^e; सं २०.
विष्णु-हन्- -हा तुल ७०: १०.
विष्णुवा(ष्णु-आ)त्मक- -काःशा ११.
विष्णुवात्मिका- -काम् विद्या २.
विष्णुवा(ष्णु-आ)दिक- -कान् श
३०.
विष्णुवा(ष्णु-आ)दि-बुद्धि- -द्ध्या
सिधि ३८०: १०.
विष्णुवा(ष्णु-आ)दि-मूर्ति- -तयः
त्रिब्रा २, ६०.

विष्णुवा(ष्णु-आ)दि-सुर- -रैः ते
५, ६४.
विष्णुवा(ष्णु-आ)लय- -यम् योशि
५, ४.
विष्णु(<>स्फु^f)लिङ्ग^g- -ङ्गाः मुं २,
१, १; छां ५, ४-८, १; वृ २, १,
२०; ६, २, ९-१३; १४^h; मैत्रि
६, २६^h; ३१^h; कौ ३, ३^h; ४,
१९; -ङ्गेन श ८.
विस- =बिस- गपू.
वि-सुकृत- -कृतः वृ ६, ४, ४; १२;
कौ १, ४.
वि/सृ, विसर्जे सर २, ९५ⁱ.
वि/सृज, >सर्जि, विसृजते प्र ४, २;
विसृजति अशि ४, १६; २३; वृजा
२, ६; वृपू २, ८; ९; वट्ट ३१६:
८; १६; विसृजन्ति भ २, ३०;
विसृजामि आरु १ⁱ; गी ९, ७;
८; विसृजेत् छां ६, १४, १; आरु
१^h; २^h; नाप ४, ३८.
विससर्ज मना १, १५ⁱ.
विससर्जेत् योचू ६७; महा ५,
११३; इ १६: ९.
वि-सर्ग- -र्गैः गी ८, ३; -र्गाणाम् वृ
२, ४, ११; ४, ५, १२.
वि-सर्जन- -नम् पदं ४; मं २, २, ५;
त्रिब्रा २, ८४; नाप ३, ८६; आपू ६.
वि-सर्जयितव्य- -व्यम् प्र ४, ८;
सुबा ५; ६; ९ⁱ; -व्ये सुबा ५.
वि-सृजत्- -जन् १ संन्या २, ४७;
गी ५, ९.
वि-सृज्य ऐ ३, ९; नाप ३, ५१; ७७;
८६ⁱ; ४, ३८ⁱ; ५-६, १; ९, २०;
१ संन्या १, १; २, ६; पप ४१८:
२३; ४१९: १२; कुं ३; कर १ⁱ;
गु ३१; सुसु १९; कश्रु १, १;

a) तैआ १०, १, १० । b) तस । c) बस । d) तु. गपू. पृ५७८h । e) लक्षणम् इति अज्या. संटि. ।

f) तु. गपू. पृ५७०v । g) व्यु. ? =अग्निकण- । h) विस्फु^e इति सात. । i) ऋ १०, ७, १, ४ । j) ०नि इति आन. ।

k) सकृत् ०सर्जयेत् इति आन., ०वर्जयेत् इति अज्या. । l) ०व्यचसर्ज इति निसा. ? (तु. तैआ १०, १, १), इव स^o इति BC. यनि. शोधः द्र. (तु. JC.) ।

२. २३: गी १. ४७.
 वि-सृष्ट- -ष्ट: शि ६, १४, १: -ष्टम्
 ऐ ३, ११: कम् १५.
 वि-सृष्टि- -ष्टि: शि १, ४, ३.
 वि/स्तृस्त्व > स्तर, स्तिर, स्तारि.
 विस्तारयति मार २२९: ११:
 २०: २१: विस्तारयन्ति मार
 २२९: १९.
 वि-स्तर- -र: शि २, २: अवि ५:
 गी १०, ४०: -स्त्व गी १०, १९:
 -रेण मं ४, १, १: मुद्र २: मार
 २५६: १२: शि ३, ६: ७, १३१:
 गी १०, १८.
 विस्तर-शस्(>) मार २३०:
 १८: १९: २५६: १०: २५७:
 १३: गी ११, २: १६, ६.
 वि-स्तर- -रम् शि १, १७: २, १०:
 गी १३, ३०.
 वि-स्तरयिष्णु- -ष्णु: सं १७.
 वि-स्तीर्ण,र्णा- -र्णम् मैत्रे २, ५१:
 ध्या १: शि ४, ३: ६, २६०: -र्णा
 १संन्या २, ९९: सार २५३: १२:
 शि २, ११: ४, १३: -र्णांश्च
 ३, ९.
 वि-स्तीर्यं त्रिता ३, २: यो १, ११:
 सिशि ३८१: ३.
 वि-सृति- -ति: मैत्रि ७, ११.
 वि/स्फुट् > स्फोटि, विस्फोटय-
 विस्फोटय व ४३५: ९.
 वि/स्फुर, विस्फुरन्ति आर्षे ८: १०:
 विस्फुर-विस्फुर व ४३५: ९.
 वि-स्फुरत्- -रत् ध्या ४६: योच्
 ९.
 विस्फुरन्ती- -न्ती: आर्षे ८:
 २३.

विस्फुरत्-गार(क-)का^१-
 विस्फुरत्तारका(क-आ)-
 कार-गाढतमोग-३)पम^१-
 -मम् मं १, २, १३^१.
 विस्फुरत्तारका(क-आ)कार-
 दीप्यमान-गाढतमोग-३)-
 पम- -मम् अता ७^१.
 वि/स्फूर्ज् > स्फूर्जि
 वि-स्फूर्जय(ग-)न्ती- -न्त्य: आर्षे
 ९: ३१^१.
 वि/स्मि
 वि-स्मय- -य: गी १८, ७७.
 विस्मया(य-आ)पञ- -ञा: सार
 २४१: १९.
 विस्मया(य-आ)विष्ट- -ष्ट: गी
 ११, १४.
 विस्मयिन्- -यी अथ ४, ९.
 वि-स्मित- -ता: कृ १: गी ११, २२.
 वि/स्मृ, विस्मरति सार २५०: १३.
 वि-स्मृत- -त: १थोत ७८: -तम् मं
 ३, १, १: महा ४, १३२.
 विस्मृत-जाग्रद्-वासना-
 (ना-अ)नुफल- -लेन मं २, ४, ४.
 विस्मृत-पदार्थ-पुन: प्राप्ति-
 हर्ष- -र्ष: नाप ७^१.
 विस्मृता(त-आ)स्म-पितामह-
 -हम् महा ५, १३४.
 वि-स्मृति- -ति: त्रिवा २, ३२:
 २अव ३३८: २.
 वि-स्मृत्य नाद ३९: ४४: तुअ २२:
 पित्र ४, ५.
 वि/स्मृस्, विस्मृसन्ते आर्षे ७: १८.
 व्यस्मृसिषत् वृ ३, ७, २.
 वि-स्मृमान- -नस्थ क २, २, ४.
 वि-स्मृस- -स्मृस: क २, ३, ४.

विह- विहायग्- द.
 वि/हन्, विजहि व ४६०: ३१^१:
 वि-जहि मना १, ९१^१: व
 ४२९: १४१^१: ४६२: १७१^१:
 ४६३: २३१^१: वि(जहि) मना १,
 ९१^१: व ४६३: २३१^१.
 वि-म^१- -मम् यो १, ५८: -म्रा: १थोत
 ३०: ७६: -म्रान् १थोत ३१:
 त्रिवि ७, ३३: वज ५, १०: ४८:
 -म्रानि ते १, ४०.
 विघ्न-कर- -र: रार १, ७.
 विघ्न-दशक- -कम् यो १, ६१.
 विघ्न-बाहुल्य- -ल्यम् ते १, ४१.
 विघ्नबाहुल्य-संजात^१- -त:
 वरा ४, ३९^१.
 विघ्न-राज- -ज: हे ५: वज १, १९.
 वैघ्नराज- -जम् वज ५,
 १६.
 विघ्नराज-ब्रह्मन्- -ह्राणि वज
 ५, ४४.
 विघ्न-विनाशिन्- -शिनै ग १५.
 विघ्नविनाशिनी- -नी गौ ४
 ६३^१.
 विघ्न-सूर्ये(र्य-ई)श-शक्ति- -क्तिषु
 रार १, ४.
 विघ्न-हर्ष- -र्षे वपू १, १.
 विघ्न(घ्न-अ)न्तक- -क: हे १२.
 विघ्न(घ्न-ई)श- -श: वृजा ४, २२:
 -शम् रार १, ७: रापू ५, ३०.
 विघ्नौ(घ्न-श्रो)व-नाश- -शम् व
 ४५६: १८.
 वि-जघ्नवस- -न्नुष: बा १०.
 वि-हृद्य वृ ४, ३, ९.
 वि-हरत्- वि/हृ द.
 वि/हा(गतौ), विजिहीते वृ ५, १०, १^१:

a) तु. गप्. वृ ७५५४b । b) कस. । c) षस + कस. > वस. । d) °कारं गाढ° इति श्रव्या. संटि. ।
 e) °कारसंदीप्य° इति निसा. । f) °न्तः इति पा. ? यनि. शोधः द. । g) °र्थं पुनः° इति निसा. ? यनि. शोधः द.
 (तु. श्रव्या.) । h) ऋ १०, ८३, ३ । i) ऋ ८, ६१, १३ । j) ऋ ९, ६७, २१ । k) ऋ ८, ६१, १३ (वैटु. Jc.
 <वि/सृच् इति) । l) बस. । m) 'संजातविघ्नबाहुल्यः' इति श्रव्या. । n) °घ्नना° इति श्रान. । o) 'विघ्नम्'
 इति श्रान. ।

विजिहीथाम् वृ ६, ४, २१.
 वि/हा(त्यागे), > हापि, विजहाति वृ
 ४, ३, ८; नि २; शा २६.
 विहापयति वृ ६, ४, २१.
 वि-हाय सुं ३, २, ८; मैत्रि ६, १८;
 अना २३^०; वृजा ३, १; शु १,
 ४; ते १, ४३; नाप २; ७^३; अता
 ३; मुद्र २; शां १, ७, ३७; पै ३,
 १^३; ४, ५; १७; तुअ १०; ११;
 अध्या ३२; वरा २, ५; शि ७,
 १२९; गु ३८; भव २, ३८^३; ३,
 ३२; पित्र ५, १०; गी २, २२^३; ७१.
 वि-हीन- -नः भव २, ६४; -नम् नाप
 ६, ९; वरा २, २९; -नाः भव २, ६५.
 विहायस्^० - -यसः कुं १५; -यसि
 महा ५, १४२^०.
 विह^१ -
 विह-ग- -गानाम् शां १, ४.
 विहं-ग- -गः महा ५, ६७;
 -गानाम् शां १, ४.
 विहं-गम- -मः वरा ४, ३६;
 -मानाम् त्रिजा २, ५७^०; सार
 २३४:९.
 वि-हित- वि/धा द्र.
 वि/हृ^१(<हु)र्छं, विहूर्छति छां २,
 १९, २.
 वि/हृ, विहरति त्रिवि ५, १०; वि-
 हरामि १संन्या २, ५५; विहर
 नाप ६, ३७; महा ६, १; ६६-६९;
 सार २७८:५; विहरेत् १संन्या
 २, १२; ५९; शा २०; सुसु १९.
 विजहार वृ ४, ५, १५; वि-
 हरिष्यसि शु ३, १७.
 वि-हरत् - -रन् १योत १, ९; नाप ४,

३८; महा ६, ७३; अन्न ५, ९९;
 वरा ४, १^३; -रन्तः अन्न १, ३३.
 वि-हार-
 विहार-क्रीडा-प(र>)रा- -रा
 सार २८७:११.
 विहार-पर- -राणि सार २७६:
 २२.
 विहार-शय्या(य्या-आ)सन-
 भोजन- -नेषु गी ११, ४२.
 विहार-स्थ- -स्थस्य सार २५६:
 १५.
 विहार-स्थल- -लम् सार २६१:
 २३; २८३:१५; २८८:८.
 विहार-स्थान- -नम् सार २५५:
 १; २८३:१४; -नानि सार २५५:
 ३; -ने सार २६३:११.
 विहारो(र-उ)पदेश- -ज्ञात् ऋसू
 २, ३, ३४.
 वि-हारि(र>)णी- -णीम् त्रिवि ६,
 १०; २३.
 वि-हृत- -तः महा ३, १.
 विह्वयिष्यामि^० मना २, ११.
 वि/ह्वल्
 वि-ह्वल-
 विह्वल-चेतस- -तसाम् शि ७,
 ९५.
 वी[वि/इ(गतौ)], व्येति कौ ३, १^१; २प्र
 ३५:९; ११; वि...एति श्वे ४, १;
 १^३वि(एति) श्वे ४, ११; मना १, १;
 शां २, १; वियन्ति गौ ४, ४३;
 वि...यन्ति श्वे २, ५१^१; आर्षे ९:
 ४; वि...एमि वा ९.
 वीयाय छां ४, ९, ३^३; वृ १,
 ४, २.

वी(वि-इ)त्-

वीत-कलमष- -षः नाप ५, ३७;
 -षैः यो १, ४०.
 वीत-मन्यु- -न्युः क १, १, १०;
 ११.
 वीत-राग- -गः महा ६, ६७;
 अन्न ४, ९०; -गाः सुं ३, २, ५;
 अन्न ४, ११; सु २९४:४; गी
 ८, ११.
 वीत-राग-भय-क्रोध- -धः गी
 २, ५६; -धाः गी ४, १०; -धैः
 गौ २, ३५.
 वीत-राग-विषय- -यम् योसू
 १, ३७.
 वीत-शोक- -कः क १, २, २०^१क;
 सुं ३, १, २; श्वे २, १४^१क; ३, २०^१क;
 मना २, १२, ११^१क; नाप ९, १३^१क;
 श १८^१क; महा ४, २५; अन्न ४,
 ३५; रुह ४८; नाउ १, ८^१क;
 पा ९, ३^१क; -कम् गौ ४, ७८; अन्न
 ५, ६०.
 वीत-शोक-भय- -याः २प्र
 ३६:१४.
 वीत-शोक-भया(य-आ)यास-
 -सः महा २, ७४.
 वी(*बधा.), वीते^१ छाग २५:९.
 वीति^० - -तये २प्र ३६: २१^१क.
 वीति-होत्र-समन्वित^० - -तम्
 दे ११.
 वी(वि/ई)क्ष, > ईक्षि, वीक्षते वृ ५,
 २; वीक्षन्ते त्रिता ४, २१; गी
 ११, २२; वीक्षसि ते ५, ६७;
 वीक्षे १अव २८; वीक्षस्व ते ४,
 ८०; वीक्षेत सुवा ३.

a) 'विनिर्धार्य' इति आन. । b) व्यु. ? = वियत्- । c) 'विहरन्ति' इति अख्या. । d) पावा ३, २, ३८ ।
 e) °नम् इति अख्या. संटि. । f) तु. गपू. पृ ६७१a । g) निसा. ? [तु. 'विह्वयिष्यामि' (कालि. [तैश्चा १०, ९, १])] ।
 'विह्वयिष्यामि' इति शोधः द्र. [तु. मै. (तैश्चा.)] । h) 'वेत्ति' इति निसा. अख्या. च, 'वेति' इति आन., शांश्चा. (५, १)
 च यनि. शोधः द्र. [तु. शंदी. (आन.)] । i) तैश्चा १०, १, १ । j) 'वि...एतु' इति ऋ १०, १३, १; आन., J.C.; वैतु.
 शंदी. पक्षे 'विश्रोकायन्ति' इति । k) तैश्चा १०, १०, १ । l) गतौ लटि प्रपु १ । m) भाप. = खादन- । n) ऋ ६,
 १६, १० । o) पूष. = रेफ-बीजाक्षर- ।

वीक्ष्यते १०, ५५.
 वी वि-ईक्षमाण-णे शोश ४, १३;
 २०.
 वी(वि-ई)क्षयन्-यन् नाप ४, १९.
 वी(वि-ई)क्षय सार २७, १३; व
 ४, ९, १३.
 वी(वि-ई)क्षयमाण,णा-णा गत
 १, ११२; -णे शोश ४, २०.
 वीचि-चयः पित्र १, १२; -चिभिः
 अत्र २, ४१; द्वाग २४ : २२.
 वीज- = बीज- गणू.
 वी(ण>)णा-णा-णा १०;
 -णायाम् १, ७, ६; -णायै १२,
 ४, ९, ४, ५, १०.
 वीणा-दण्ड-ण्डः शोश ६, ८०;
 -ण्डेन जाद ४, १०.
 वीणादण्ड-ममुत्थित-तः प्या
 १०२.
 वीणादण्ड(रुड-आ)श्रित(त>)-
 ता-ता शां १, ४.
 वीणा-वाद-दस्य वृ २, ४, ९; ४,
 ५, १०.
 वीणा-वादन-तत्पर-रम् सार
 २३० : ११.

वीत-वी द्र.

वीति-√वी(*बधा.) द्र.

वीथि^{१३}-थयः सार २५३ : ३.

वीर- -र लां २१६ : १५; नी ३, ६;
 -रः छां ३, १३, ६; वृ ५, १३, १;
 वृपूर, १९^१; वृउर, ११^३; ४, ५;
 ५, १; २; श ११; -रम् वृ ६, ४,
 २८; वृपू १, ११; २, ६; ९^३; ५,
 ३; ६, १; त्रिवि ७, ४०; रार २,
 १०३; अव्य २; पा ७, ४९^६; वपं
 ३१२ : १०; व ४४१ : २०^१;
 ४४७ : ३^१; ४५१ : १७^१;
 ४५४ : २२^१; ४५७ : १२; -रान्

४, २२^१; मना २, ४६^१;
 ५३^१; शोश २०, १^१; व ४६२ :
 १^१; -रे वृ ६, ४, २८.
 वीर-व-त्वान् वृ ७, ९.
 वीर-चामु. ग. ण्डी- -ण्डिव
 ४, ७ : १९.
 वीर-भद्र- -द्रः श ६.
 वीरभद्र-गिरिश-शंकर-ग-ण-
 कपाद्-अहिलुधन्या(अन्य-आ)-
 दिव्य- -न्याः मना १, ५१^१.
 वीरभद्रा(श-अ)वतार- -र लां
 २१४ : ७.
 वीर-राम- -मः रार २, ७१; -माय
 रार २, ६९.
 वीर-लक्ष्मी- -क्ष्मीः सी ३७.
 वीर-वत्- -वतः वृ ६, ४, २८.
 वीरवती वृ ६, ४, २८.
 वीर-शक्ति- -क्तिः सी ३७.
 वीर-सिंहासन- -ने जाद ३, १.
 वीर-स्त्री- -स्त्रियम् २कौल १२.
 वीर-हत्या- -त्याम् मना २, ४०^१;
 वृजा ८, ३; वृपू ५, १३; कलि ३;
 राड १, २; विद्या १; -त्यायाः
 तुल ७१ : २३.
 वीर-हन्- -हा शा २६.
 वीर-हनुमत्- -मन् लां २१६ :
 १२.
 वीरहनुमत्-साध्य-साधना-
 (न-अ)घोर-मूल-मन्त्र-
 -न्त्रस्य लां २१३ : १.
 वीरा(र-अ)ध्वन्- -ध्वनि जा ५^१;
 पप ४१८ : १६^१; या १, २;
 -ध्वानम् कृ १; कश्चु २, ३.
 वीरा(र-आ)वली- -लि हंषो ११.
 वीरा(र-आ)सन^{११}- -नम् त्रिबा २,
 ३७^१; शां १, ३, ४९^१; जाद

३, ६९^१; वरा ५, १६.
 वीरासना(न-अ)ध्यासित- -न्म्
 रार २, २४.
 वीरामना(न-आ)रूढ- -रम् व
 १, १.
 वीरासना(न-आ)सीन- -न्म्
 रार २, ४.
 वीरो(र-उल्का)>ल्क- -ल्काय ना
 ४, १९.
 वीरो(र-ई)द्वर- -रः गोड २३.
 वीर्य- -र्यम् के २, ४; ३, ५; १; क
 शां^१; प्र ६, ४; तै शां^१; छां
 ३, १, ३; २-५, २; वृ १, २, ६^१; वे
 शां^१; वृजा २, १०^३; १२; ५,
 १७; कै गर्भं त्रिवि ना मना व
 शां^१; काला सु ससा शु ते ध्या
 त्रिवि १योत द स्क शारी शोश
 शां^१; अव्य १; वक्त १०^१; ए
 अक्षि १अव कर्ह रुह यो पं प्रा वरा
 कलि शां^१; १प्र ३० : १९^१;
 शौ ५२ : ९; व ४६६ : १५^१;
 -र्याणि नापू ४, ४९^१; -र्याण
 नापू ४, १०; वृपूर, १३; -र्येण छां
 ४, १७, ४-६; ८; ते ६, ९५.
 वीर्य-तम- -मः वृपू २, १३^१.
 वीर्य-लाभ- -भः योसू २, ३६.
 वीर्य-वत्- -वन्तः भ २, २९;
 -वन्ति छां १, ३, ५; -वान् वृजा
 ५, १७; पिं १४; गी १, ५; ६.
 वीर्यवती- -ती शा
 ३३^१; सु १, १, ५१^१; काय ९.
 वीर्यवत्-तर- -रम् छां १,
 १, १०; १योत ५६.
 वीर्यवत्-त्व- -त्वात् अव्य २.
 वीर्यो(र्य-उल्का)>ल्क- -ल्काय
 त्रिवि ७, ४२.

a) व्यु. ई=तरङ्ग-। b) =वाद्यविशेष-। वैप १ यद्र.। c) °ण्डस्य इति अख्या. संटि.। d) व्यु. ई=१पथिन्-। e) वैप १ यद्र.।
 f) ऋ २, ४, ९। g) ऋ २, ३२, ४। h) ऋ १, ९१, २०। i) ऋ १, ११४, ८। j) ऋ १०, १८, १। k) °ध्यादीनाः इति लैवि.
 पा. १ यनि. शोषः द्र.। l) तैआ १०, ५०, १। m) °ध्वाने इति पा. १ यनि. शोषः द्र. (तु. अख्या. संटि.).। n) =योगासनविशेष-।
 o) तैआ ८, १, १। p) 'द्वितीयम्' इति अख्या. संटि.। q) ऋ १, १५४, १। r) 'वीर्येण' इति ऋ १, १५४, २। s) वाच २, ८।

वी(वि)-रुध्(रुध्)-रुधः अशि
६, १५^०; ३.

√वृ(वरणे), > वरि, वृणुते क १, २,
२३; सुं ३, २, ३; रशिसं १६;
वृणोति श्वे ५, १२.

वृणीते क १, १, २९; २, १; २^३; कौ
३, १; वृणे क १, १, १०; १३;

झां २, २२, १; २प्र ३३ : २१;
वृणीमहे झां ५, २, ७५^०; ५^०व

४३९:१४; ४४४:१९; ४५० :
३; ४५३:१३; वृणीष्व क १, १,

१९; २१; २३^३; २४; मै १, १^३;
मैत्रि १, २^३; मैत्रे १, १^३; कौ ३, १^३;

राज ३, २; वरा १, १; इ १८:११;
१४; २प्र ३३:२१; अवृणीत २प्र

३३ : २१; अवृणीथाः क १, १,
१९; वृणीत झां १, १०, ६; वृ १,

३, २८; वृणीथाः झां ५, ३, ६.
वत्रे वृ ४, ३, १; कौ १, १; गोड

१७; वपू १, ५; अवृषि झां १,
११, २.

वरय अज १, १०; सार २७७:
२३; २८६: १२; वज ३, ३९;

वरयेत् इ १९: १७.
१वर-रः क १, १, २०; २२; २७;
२९; वृ ६, २, ५; सार २३२: २३;

२६१: २१^३; २२; २७८: २;
२८६: १२; -रम् क १, १, १०;

१६; १९; २१; २४; झां ५, ३, ६;
वृ १, ३, २८; ४, ३, १; ६, २, ४;

मै १, १; मैत्रि १, २; मैत्रे १, १;
कौ ३, १५^०; अज १, १०; त्रिता

२, १७; गोड १७; इ १०: ३;
१८: ११; २प्र ३३: २१; सार

२४८: १२; २६१: १९; २७७:
२३; २८६: ११; शि ३, १२;

-राणाम् क १, १, २०; -रान् क
१, १, ९; ३, १४; वज ३, ३९; -रेण

क १, १, १३; १९; सार २३३: ३;
२६१: १८; २०; २८६: १३;

-रेषु वृ ६, २, ६.
वर-त्र-त्रे पा ७, ६.

वर-द, दा- -दः ब्रवि ११^६; श्या
२०; वपू १, ४; ५; २, ३; -दस् श्वे

४, ११; १योत ९३; १०१; ग
११; १प्र ३१: २०^१; वपू २, २;

-दस्य पा ८, २; -दा मना २,
३४५^१; ३६५^१; सौ १, ३५^१; नापू

५, ३५^१; -दाय पा ६, ६; ७;
७, ६; १०, २; वपू १, १.

वरद-मूर्ति^m - -तये ग १५.
वरदा(द-आत्मक) रिम-

का- -के सावि १०^३.
वरदा(द-अ)भय-दा-

(यक) यिका- -काम् शि ६,
११७.

वरदा(द-अ)भय-हस्त-
-स्ताभ्याम् तुल ७०: १६.

वर-दान- -नेषु गुषो ४२०: ९.
वरदान-मुख्य- -ख्यः पा

९, ४.
वर-दा(द-अ)भय-हस्त(क)-
का- -काम् दे १५.

वर-प्रद- -दाय पा ६, ५.
वर-प्रवृद्धि- -द्धयै पा ९, २.

वरा(र-अ)न्तर- -रम् राज ३, ३.
वरा(र-अ)भय-खड्ग-मुण्ड-

सहित-ह(स्त) > स्ता- -स्ता

श्या १०.

१वरण-

वरण-भेद- -दः योसू ४, ३.

वरणीय- -यः क १, १, २७.

वरेण्य- -ण्यः श्वे ५, ४; ब्रवि १०३;
-ण्यम् सुं २, २, १; वृ ६, ३, ६५^०;

श्वे ४, १८; मै ५, ७५^०; मैत्रि
६, ७५^०; ३४५^०; मना २, ३५^०;

अशि ५, १७; श २; त्रिवि ७,
३९५^०; ४४५^०; सू ६५^०; सावि

१०^३; ५^०; त्रिता १, ५५^०; १९५^०;
२२; २३; ३७५^०; ४४^०; ५१; ५२;

आषे ९: १७; वडु ३१३: १; पारा
२५^०; ५५^०; सिशि ३८०: ३; गार

४०५: १३; १८; गु ६१; ५^०व
४२९: १८; ४५७: ९.

वरेण्य-त्व- -त्वात् १अव १.

वार्य- -र्याणि वृ ६, ४, २७५^०.

वृणीत्वा^p कथु १, १.

√वृ(आच्छादने)

२वर-

५^०वर-सद्- -सत् क२, २, २; मना
२, १२, २; २, ४०; वृपू ३, ६; नाप

५, १; त्रिता ४, २७; वपू २, ३.
२वरण-

√वरणि

वरणक- -कम् सांका १३.

वरूथ- -थम् मना २, ७९५^०.

वृत, ता- -तः योशि १, १६; -तम्
ते ६, ४८; १योत ८; योशि १, ६;

-ता नु ८; शि ६, १७१.

वृत्वा श्वे ३, १४५^०.

√वृ(प्रतिघातने) > वारि, वारयति जा
२; राज ३, १; वारय व ४६६: ८;

वारय-वारय लां २१५: १८.

a) वैपश् यद्र. । b) शौ ७, ८७, १। 0) ऋ ५, ८२, १। d) ऋ १, १२, १। e) सकृत् °रः इति आन., शांआ
५, १। f) च १। °त्राय इत्यस्य रू. छान्दसः नैप्र. वर्णविकारः (तु. पाटी.)। पाप्र. तु सोपपदात् √त्रा इत्यतः कर्तरि
इवृच् प्र. उंसं. (पा ३, १, १३३) इति कृत्वा °तृ- इत्यस्य रू. द्र. । g) °दा इति अख्या. । h) पा. १^०दः इति
शोधः द्र. । i) तैआ १०, २६, १। j) शौ १९, ७१, १। k) =देवीविशेष- । l) =हरिकलाविशेष- । m) श्रीव^० इति
निसा. । n) ऋ ३, ६२, १०। 0) ऋ १, १६४, ४९। p) त्वः शिच्वम् उंसं. (पा ३, ४, २१)। q) ऋ ४, ४०, ५।
r) तैआ १०, ६३, १। s) ऋ १०, ९०, १।

वारयमाण- -णः सं ९.

√वृ(वधा.)

वृष, रा^१- -०२ मदा २, ३३: ४, १;
जाद ४, ४०: ४३: ४६; गी ८, ४;
-रः वरा १, ४०^१; ग १४: १५;
५: -रम् गौ ४, १: लु १७^१;
१मंन्या २, ६२: अश्र १, १: ४,
४३; जाद १, १०: वरा १, १: २
१५: ५: शि ७, ११९: १२६;
-रा जाद १, ८: -रा: लु १५^१;
-राणाम् पा ६, ९: -राम् पा ९, २.
वर-कर-तल- -लयोः सौ २, ३.
वर-मणि-स्तम्भ- -म्भैः सार
२६२: २.
वर-मुनि-देवी- -० वि व ४३६:
२२.
वर-लक्ष्मी- -क्ष्मीः व ४२७: ६.
वर-वर-द- -० द व ४२९: ८;
१२: १६: २१: ४३०: ४: ९: -दाय
व ४३४: २२.
वर-वर्ण-
वरवर्णि(वृ>)नी- -० नि गु
२.
वर-वेदम-भूत- -तम् मना २,
१२, ३१९^०.
वरा(र-आ)व्य- -व्यम् द १०.
वरा(र-आ)न(न>)ना- -० ने गु
५: ८४.
वरिष्ठ, छा^१- -छः प्र २, १: ३: सुं
३, १, ४: अशि १, ७: नाप ५, ५;
श ४: पा २, ३: ९, ४: -ष्टम् सुं १,
२, १०: २, १: ११: ए १०: पा
८, ७: ९, २: -छा पा १०, १: -छाम्

ते १, १: व १: वरा २, १: १: १;
-धाय पा ६, ५: ९, २.
वृषर-
वर-वधू- -धू: रा १४, १०.
पवर^१- -रः वरा २, ४.
वृषर-
वर-तन्तु^१-
वारतन्त(व>)वी^१- -वी
गु २.
वृष^१- -त्राणि व ४६०: ११९^१.
वृष-हृन्- -० हृन् मना १, ११९^१;
-हा मना १, ९९^१; २, ५५९^०: व
४६०: ४९^१; ४६४: १९^०.
वार्षधन- -धनः अश्र ३९^१;
नाप ४, ३८: ५प ४१८: ३१.
वृष^१- -तम् तै ३, ७-१०, १: छां
२, ११-२०, २: २१, ४^१: वृ १, ५;
२३: भै १, १^१: मैत्रि ४, ३: आशि
५, २२: वृष ६, ४: काला ९: ते
२, ४^१: ६, २७: नाप ४, २: त्रिआ
२, ३४: शां १, २९^१: १संन्या २,
८९: जाद २, १: वरा ५, १४;
जाया १८: क ६४: ३: गोच ६८:
११: लि ३१०: १०: वृष ३१७:
१२: १कौल ७: १: २कौल ९:
-तस्य शि ४, ५१: -ताव भ २,
१६: -तानि श्वे ४, ९: नाप ६,
३४: योशि ६, ४६: इ १९: २२:
२०: १: सार २७८: ७: गु ५४:
-ते लि ३०९: ८९^१: -तेन पा ३,
१: सार २८२: २१.
वृष-कारिन्- -रिणः सार २८८:
१७^१.

वृष-
वृष-धर- -रः सूता २, ५.
वृष-धारण- -णम् सार २३६:
१४.
वृष-नियम- -मः काम १७.
वृषनियम-लङ्घन- -नात्
सांस् ४, १५^१.
वृष-मीमांसा- -सा वृ १, ५, २१.
वृष-यज्ञ-तपो-दान-होम-स्वा-
ध्याय-वर्जित- -तम् १संन्या २,
५.
वृष-वृत्- -वान् २संन्या १७: ७.
वृषिन्^१- -तिनः शि ७, ७७: वी
जा ४: वृजा ३, ४: ४, ८: नाप ३,
७७: ५प ४१८: ५: गोच २: १, १.
वृषो(त-उ)पवास-धर्मा(र्ष-अ)-
धर्म- -र्माः सार २८७: १५.
वृष्का^१-
वृष्का(क-अ)रुण^१-
वार्कारु(णि^१>)णी-
वार्कारुणी-पुत्र- -अः, -त्राव
वृ ६, ५, २^१.
वृष्क-वृष्ण- √वृश् द्र.
वृष्^१- -क्षः वृ ३, ९, २८, १: ४: ५: श्वे
३, ९९^१: मना २, १२, ३९^१: कौ १,
३: ससा १, १७^१: वृषि ३७: वृ
२२: शा १८: गु ४६: -क्षम् सुं
३, १, १९^१: वृ ३, ९, २८, ६: श्वे
४, ६९^१: कौ १, ५: सुबा १३: व्या
८: नाप ५, १: शा ११: नाउ १,
३९^१: भव २, २९^१: -क्षस्य तै १,
१०, १: छां ६, ९, २^१: ११, १: मना
२, ११९^१: नाप ४, ३८९^१: -क्षा:
इ ११: १२: सार २२१: १५: १६:

a) धा. अर्थः? =उत्तम- । b) वृ. गप्. पृ६९२२। c) वा. क्वि. द्र. । d) प^० इति अच्चा. ।
e) परमेष्ठम^० इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (वृ. तैआ १०, १०, ३; वैतु. नादी., J.C. ०२ वे^० इति) । f) वैतु. पा. (६, ४,
१५७) <उरु-? । g) धा. अर्थः? =भर्तृ- । h) वृ. गप्. पृ६३०f । i) धा. अर्थः? । j) =ऋषिविशेष- ।
k) =आथर्वणशास्त्रविशेष- । l) वैपश् यद्र. । m) ऋ १०, ८३, ७ । n) 'वृषहा' इति ऋ २, ४७, २ ।
o) ऋ १०, १५२, २ । p) ऋ १०, ८३, ३ । q) मंत्रा २, ९, ५ । r) वृ^० इति अच्चा. । s) ऋ १०, ५७, ६ ।
t) वृ^० इत्यपि पाठे. । u) व्यु. अर्थः? । v) तैआ १०, १०, ३ । w) 'गुप्तवटवृक्षः' इति ज्ञान. । x) ऋ १, १६४, २० ।
y) तैआ १०, ९, १ । z) तैआ ७, १०, १ ।

२२२: ७; १९; २१; २२३: १;
 २२४: ९; २३३: १२; २३७: ३;
 २५४: १; २; २५५: २; २५९:
 ११; २६६: ९; २६७: १३; २६९:
 ६; २३; २७८: ११; २८१: ६;
 ११; २८७: २२; -क्षाणाम् छां ६,
 ९, १; सार २३३: १८; २५५:
 १०; -क्षात् वृ ३, ९, २८, २; -क्षे
 सुं ३, १, २; श्वे ४, ७; वि ११;
 -क्षेषु सार २२२: २२; २२५: ७;
 -क्षै: सार २३७: ६; शि ४, ४९.

वाक्ष्यं-

वाक्ष्यां(र्त्य-अ)र्ध-संमित-

-तम् शि ६, २६५.

वृक्ष-काला(ल-आ)कृति- -तिभि:

श्वे ६, ६.

वृक्ष-गुल्म-लतौ(ता-ओ)षधि-वन-

स्पति-तृण-वीरुध्-आदि-

-दीनाम् सांसू ५, १२२.

वृक्ष-तृण-पर्वत- -ता: ते ६, १२.

वृक्ष-त्व- -त्वम् तुल ७०: १७.

वृक्ष-धर्म- -र्मै गोउ १३^०.

वृक्ष-मूल- -लम् शा ११; -लानि

नाप ३, ५४; -ले सुबा १३; नाप
 ५, ३४; मि ९.

वृक्षमूल-निकेत- -त: नाप ५,
 १३.

वृक्ष-रूप(प>)पा- -पा तुल ७०: १७.

वृक्ष-लता- -ता: सार २३७: ५.

वृक्ष-लतौ(ता-ओ)षधि- -धय: सार
 २४६: १६.

वृक्ष-शाखा- -खा: सार २६७: २२.

वृक्ष-संचार- -रा: सार २८८: ८.

वृक्षा(क्ष-अ)म-प्रथि(त>)ता-

-ताभि: सार २६५: २१.

वृक्षा(क्ष-आ)रोहण- -णम् नाप ७.

√वृज्(=बधा.), >वर्जि, वृङ्क्ते क १,

१, ८; वृद्ध, ४, ३; वृञ्जते वृ ६, ४,
 ३; वृङ्धि कौ २, ७^१.

वर्जयति भव ४, ९; वर्जयेत् छां
 २, २२, १; १योत् ४६; ४८; नाप
 ३, ७२; ४, ३; ५, १२; ३१; ६,
 ३२; १संन्या २, ७६; कुं ९^०;
 रुजा १, १२; २, १७; वरा २,
 ३७; करु: इ १४: ६; १६: १३;
 कश्चु ३, १; २.

२वर्ग- -र्गै: कौ २, ७.

वर्जयित्वा १योत् ६२; महा ५, ५१;
 १संन्या २, ७४; मि ४; शा १८.

१वर्जित- -त: ते ५, ७; -तम् १योत्
 ३३.

२^०वर्जित- -त: ते ४, ७७.

वर्ज्य-

वर्ज्यां(र्त्य-अ)वर्ज्य-कल्पना-

-ना नाप ६, १५.

वृजिन- -नम् गी ४, ३६.

वृणीत्वा √वृ(वरणे) द्र.

√वृत्(=बधा.)>वर्ति, वर्तते छां १, १,

९; गौ ३, १; हं ५; वृजा ७, ७;

वृउ ५, १; ससा १, १७; वसू २७;

ते ५, ५५; ध्या ९३, १^३; अवि ९;

वर्तन्ते गौ ४, ६०; ससा १, १३;

ध्या ५८; योचू ७२; मं १, २, ९;

अता ६; वरा ५, २८; सु १, १, ८;

स्व ६१: १३; गी ३, २८; वर्तसे

श्वे ४, ४; वर्ते १अव २३; गी ३,

२२; वर्तामि अशि १, २; वर्तामहे

श्वे १, १; वर्तताम् १अव २४;

वर्तध्वम् अक्ष १^{२०}; वर्तेत् १योत्

७७; गी ६, ६; वर्तेरन् तै १, ११,

४^३; वर्तेथा: तै १, ११, ४^३;

वर्तेयम् गी ३, २३^६.

वर्तयेत् नाप ५, ३५; १संन्या २,

६०; ६२.

वर्तन- -नम् मै २, ५; पै ४, ८.

वर्तनी- -नी छां ४, १६, १; ४;

-नीम् छां ४, १६, ३; -न्या वृ २,
 २, २.

वर्तमान, ना- -न: प्र १, ८; छां ४,

१६, ३; मै ५, ८; मैत्रि ६, ८;

अक्षि १; गी ६, ३१; १३, २३;

-नम् गर्भ १; वसू २४; ते ५,

७८; नाप ९, १८; पं २२; -नस्य

मैत्रे १, ३; -ना: क १, २, ५; सुं

१, २, ८; ९; -नानि गी ७, २६;

-नाम् अक्ष ५, ५८^९; -ने गौ २,

६; ४, ३१; अक्ष २, २८.

वर्तयत्- -यन् छां ८, १५, १.

वर्ति^३-

वर्त्यां(र्ति-आ)धार-स्नेह-

योग- -गात् मैत्रि ६, ३६.

वर्तिष्यमाण- -णानि सार २८५:
 १५.

वर्तुल- -लम् योरा १५; शि २, ४;

-ले त्रिता ३, २४.

वर्त्मन्- -र्मै नाप ६, ४; पित्र ६, ३;

गी ३, २३; ४, ११; -र्मैना त्रिआ

२, ११६^६; -र्मैनीं छां ४, १५, १.

√वृत्- वृता व ४३७: १९.

वृत्, ता^१- -त्तम् वृ ४, ५, १; मै १,

१; मैत्रि १, २; मैत्रे १, १; वृजा

२, ३; ते ४, २७; १योत् ९८;

नाप ३, ७४; ४, २; त्रिआ २, ५७;

त्रिवि ७, ३१-४१; ४२^३; ४३;

४४; ४६; रार ३, १^५; योशि १,

१७८; ५, १५; सूता ५, ३^१; नापू

६, २; शि ४, ८; ६, १४५; २१२;

सुसु ७; -त्ता शि ४, १५; -त्तात्

त्रिवि ७, ३१-४१; ४४; ४६.

वृत्त-च्युत- -त्स्य मैत्रि ७, ९.

वृत्त-त्रय- -यम् त्रिवि ७, ४८;

a) 'मैत्रे' इति अख्या. संटि. । b) 'स्यात्' इति अख्या. । c) सकृत् गपू. (पृ ५४) अमु √वृत् > ^०वर्तध्वम् इत्यत्र यनि. शोष: कर्तव्य: । d) 'वर्तेय' इति SCHR. पामे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] । e) ^०नम् इति निसा. संटि. । f) वैप १ यद्र. । g) 'वर्तनात्' इति अख्या. संटि. । h) ऋ ४, ३१, १ । i) बप्रा. द्र. । j) व्रत^० इति अख्या. ।

रार ३, १; राप् ४, ४४; ५, ४; सौ १, ३.

वृत्त-भानु- -नुम् सूता ६, १^१।

वृत्त-युगल- -लम् सूता ५, ३.

वृत्त-विचिकिल्पा- -रसा ते १, ११, ३.

वृत्त-हीन- -नस्य भव २, ६६.

वृत्ता(त-आ)कार- -रम् शां १, ४; -रेण त्रिवि ७, ४३; राप् ४, ४८.

वृत्ता(त-अ)वकाश- -शेषु त्रिवि ७, ४८.

वृत्ति- -त्तयः नाप ५, १; पै ३, १; अध्या ३६; सांसू २, ३३; योसू १, ५; -त्तिः हं ८, वृजा २, २; ते १, ३२; ४५; त्रिब्रा २, २३; अध्या ४४; जाद २, १२; सार २३०: ४; २८३: ९; सांसू ५, १०७; सांका १३; २८; २९; ३०^३; योसू १, १०; ३, ४४; -त्तिभिः कश्रु २, ३; -त्तिम् ते १, ४३; ४४; ४७; कुं १३; कश्रु ३, ७; सांका ३१; -त्या ते १, ३७; नाप ५, २४; २७; शा ११^३.

वृत्ति-क्षय^४- -यात् मै ४, ४, १; मैत्रि ६, ३४; मैत्रे १, ४, ३.

वृत्ति-ज्ञान- -नम् ते १, ४९.

वृत्ति-तस्(>): सांसू ५, १०५.

वृत्ति-निरोध- -घात् सांसू ३, ३१.

वृत्ति-विस्मरण- -णम् ते १, ३७.

वृत्ति-व्रतति-घारिन्- -रिणः अण ४, ४१; सु २, २, ४८.

वृत्ति-शून्य- -न्यम् योशि ६, ६२.

वृत्ति-सारूप्य- -प्यम् योसू १, ४.

वृत्ति-सिद्धि- -द्धिः सांसू ५, १०६

वृत्ति-स्थ- -स्थम् अण ४, ५१.

वृत्ति-हीन- -नाः ते १, ४६.

वृत्त्यु(त्ति-उ)पार्जन- -नम् आश्र ३.

वृत्र- √वृ(*बधा.) द.

वृथा^० मैत्रे २, २२; ते १, ४३; रार २, ३८^१; रुजा १, ८; वरा २, ७४; सु २, २, ६३; तुल ७०: ८; ७१: १४; सार २, १६: २२.

वृथा-कषाय-कुण्डल-

वृथाकषायकुण्डलिन्- -लिनः मैत्रि ७, ८.

वृथा-गोष्ठी- -ष्ठ्या १योत ८०.

वृथा-जल्प- -ल्पः १संन्या २, ८५.

वृथा-तर्क-दृष्टान्त-कुहके(क-इ)- न्द्रजाल- -लैः मैत्रि ७, ८.

वृथा(था-आ)लाप- -पः १संन्या २, ७९.

√वृध्, > वर्धि, वर्धते वृ ४, ४, २३; महा ३, ३६; ५, १८१; यो १, ४३; ७६; वरा १, ८; ५, ४७; ४९; इ १२: १३; ऊ ६४: १०; शि ६, १६९; ७, ८०; पित्र ३, ७^३; वर्धन्ते तै २, २, १; मैत्रि ६, १२; वरा ५, ४८; वर्धताम् शि ६, १५७; अवर्धत अव्य १.

ववृधे पा ९, २; वावृधे मना १, १५^{१०}; अवृधत् वृ ४, ५, ५.

वर्धयन्ति ते १, ४४; √वर्धय > या जा ४; नाप ३, ७७; पप ४१८: ११; या १, १; वर्धयेत् शि ६, १४३; १७०.

वर्धन- -नेन वरा ५, ४९^६.

वर्धमान- -ने नाद ३३^६; -नेषु पित्र ३, ७.

वर्धयित्वा वि ३२.

√वावृधान- -नम् शौ ५३: २२.

वृद्ध, द्वा- -द्धः घ्या ७४; योचू ४७; योशि १, १०८; अण २, ३०; इ १९: २१; -द्धा ते १, ४५; ६, २८; शां १, ६; गार ४०६: २२; -द्धा: इ १२: १५; -द्धायाम् महा ५, १६८; -द्धेषु महा ५, १६८; अण २, ३०.

वार्धक- -के महा ३, ३६.

वार्धक-कम्पित- -तम् महा ३, ३५.

√वृद्ध-श्रवस्- -वाः प्र सुं मां शां^३; मना १, ९; अशि अ वृजा नृप् नाप सी श त्रिवि रार राप् शां पप अण सू १आ पाशु पत्र त्रिता दे भा ब्र भ ग मवा गोपू कृ ह दत्ता गरु अबि पहं शां^३; सि शां; रा ४२३: १; पित्र शां.

वृद्धा(द्ध-आ)श्रम- -मम् कश्रु १; कश्रु २, ३.

वृद्धो(द्ध-उल्का>)ल्क- -ल्काय नापू ४, १९.

वृद्धोल्का(ल्क-आ)दि- -दयः नापू ६, ५.

वृद्धि- -द्धिः अशि ३, २^६; ते ४, २३; ६, १६; १संन्या १, १; -द्धिम् मैत्रि ६, १४; वरा ५, ४८.

वार्धुषिक^१- -कः इ १७: २; -कम् इ १७: ४.

वृद्धि-हास-भाज्- वृद्धिहासभाक्त्व- -त्वम् ब्रसू ३, २, २०.

√वृध्- वृधे व ४४२: ९; ४४७: १५; ४५२: २; ४५५: ७.

वृधत्^१- -धत् २प्र ३३: ५.

a) °नुमती° इति पा.। °लुम् अती° इति द्विपदः शोधः द्र. । b) उप. = १त्त्य- । c) अव्य. वैप१ यद्र. ।

d) °ता इति निसा.। यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । e) ऋ ९, ९७, ४० । f) ऋ ३, २९, १० । g) °धमाने वै, बन्धने° इति अज्या. संटि. । h) °नः इति अज्या. । i) ऋ ३, ४७, ५ । j) ऋ १, ८९, ६ । k) 'बद्धः' इति आन. ।

l) पाना ४, ४, ३० । m) ऋ १, ८९, ५ । n) तु. गप्. पृ२४१b ।

वृन्त^१-

वृन्त-भाग- गो बि १२.

वृन्ताक^२- -कम् शि ६, ७८.

१-३वृन्द- = १-३वृन्द- गप्.

४वृ(न्त>)न्दा^३- -न्दा कृ २५.वृन्दार^४-

वृन्दार-क- -कः वृ ४, २, १.

वृन्दारक-परमा(म-आ)नन्द-

-न्दम् त्रिवि ७, २०.

वृश्चिक- √वृश्च द.

√वृष्(*वधा.), >वर्षि, वर्षति छां २,

३, १; २; ४, १; ६, २, ४; वृ १, १, १;

मैत्रि ६, ३७^३; मना २, ७९^३;

कौ १, २; सुबा ६; पै ३, १; योशि

१, १४६; ५, ३३^३; अव्य २;

अध्या ३८; वर्षन्ति मैत्रि ७, १-६;

सार २८१: ७; ९^०वर्षन्तु व ४३८:

१८; ४३९: ५; १५; ४४०: २;

१२; ४४१: १; १०; २१; ४४२:

९; २०; ४४३: ६; १६; ४४४:

१०; २०; ४४५: ८; १८; ४४६:

७; १७; ४४७: ४; १६; ४४८: ४;

१४; ४४९: २; १२; १९; ४५०:

३; ११; १७; ४५१: ३; १०; १८;

४५२: २; १०; १८; ४५३: २;

७; १३; २०; ४५४: २; १०; १६;

२३; ४५५: ७.

वर्षिष्यति छां ७, ११, १^३.

वर्षयति छां २, ३, २.

३वर्ष^४- -र्वम् छां ५, ५-६, २; ७,

४, २; वउ २, २१; गी ९, १९;

-र्वस्व छां ७, ४, २.

वर्ष-वर्जम् कर १.

वर्षत्- -र्वति शि ५, ३५; -र्वन्तम्

छां २, १५, २.

वर्षा^५- -र्षा: छां २, ५, १; १६, १;

मैत्रि ६, ३३; ७, ३; -र्षाभ्यः नाप

४, १५; १संन्या २, ८०; -र्षासु

आरु ४; नाप ३, ३१; ४, १५;

१७; २१; ७; शि ७, १२४.

वार्षिक- -कान् १संन्या १,

१; कश्चु १, १.

वर्ष(र्षा-ऋ)र्तु^६- -र्तुम् २प्र ३३:१९^३; -र्तौ रा ४२३: २०.

वर्षा-वर्जम् कश्चु ३, १.

वृष^७- -षः इ १९: १६; शि ४, १८;

-षम् इ १९: १४.

वृष-गज- -जौ शि ४, २२.

वृष-गण^८-वार्षगण^९- -णः, -णात् वृ ६,

५, ३.

वृष-ध्वज^{१०}- -जम् रुह ६.वृष-भालु^{११}- -लुः सार २५२:

११; -नोः सार २५३: १८;

२६२: ७; १०.

वृषभालु-कुमार(>)री- -री

सार २६२: २२.

वृषभालु-गृह- -हम् सार

२५३: ४; -हे सार २४०: ६; ९;

२७५: ४.

वृषभालु-नन्द-गृह- -हे

सार २४७: २१.

वृषभालु-पुर- -रम् सार

२५३: १८; -रे सार २८९: ९.

वृषभालुपुर-नन्दपुरा-

(र-अ)धिष्ठान- -नम् सार

२६०: ६.

वृषभालु-सु(त>)ता- -ता

सार २६६: १७.

वृषभान्वा(लु-आ)दि- -दयः

सार २५०: २२.

वृष-(स्थ>)स्था- -स्थाम् शि

६, ११८.

वृष-स्थान- -नम् शि २, १४;

४, १७.

वृष(>)षा-दर्वि^{१२}- -र्विः इ १०:

५; ११: ३; १८: १९.

वृषादर्वि-कुल- -लम् इ

१०: १.

वृषण^{१३}- -णः निरु २, ३; -णस्थ त्रिषा

२, ४५; शां १, ३, ८; जाद ३, ७.

वृषणा(ण-अ)पान- -नयोः कुं

१८.

वृषन्- -षा मना १, ९९^३; १५९^३; २,५५९^३; व ४६४: २९^३.वृषल^{१४}- -लः वृ ६, ४, १३.

वृषली- -ली वृ ६, ४,

१३; इ १६: १९.

वृषली-गमन- -नात्

कलि ३; गार ४०८: १८.

वृषली-पति- -तिः इ

१६: ११; १९; -तिम् इ १७: ३.

वृषलीपति-भुक्त-

-कानि इ १६: २०.

वृषला(ल-आ)सज- -जः इ

१७: १०.

वृष्य- -ष्यम् व ४३७: ८९^३.वृषभ- -भ मना २, १२, २९^३;-भः मना २, १२, २९^३; बा ४;शौ ५३: १६९^३; २१; -भम् मना२, ४९९^३; शौ ५३: २२९^३; वपू१, ५९^३.वृषभ-ध्वज^{१५}- -जः राउ ३, १.

वृषभध्वज-वन्ध- -न्धाय

गोपू ३८.

a) व्यु?। b) व्यु? = लक्ष्मी-। c) ब्रह्माकारप^०, वृन्दाकारप^० इति श्रव्या. संटि.। d) तैआ १०, ६३, १।e) खि ५, ८४, १। f) वर्षा^{१६} इति गोत्रा १, १, १९। g) = गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष-। h) = शिविपुत्रविशेष-

[=°भि- इत्यन्यत्र (लु. PW. प्रमु.)]। पू. दीर्घः उसं. (पा ६, ३, १३७)। i) ऋ १०, १५२, २। j) ऋ ९, ९७, ४०।

k) = षण्ड-। l) ऋ १, ९१, १६। m) ऋ २, ३, ११। n) ऋ ४, ५८, ३। o) तैआ ३, १५, १। p) ऋ ३, ४७, ५।

q) विशिष्ट इह ऋ. (२, २३, १) पाप्.।

वृषभ-वाह-

वृषभवाहि(नृ>)नी- नी

शां १, ६; गार ४०६: १५.

वृषभा(म-आ)कृति-विराजित-

-तम् शि ६, ३०.

वृषभा(म-आ)रूढ,डा- -ढ: व

४४२: १; -ढम् ग २, ३; -डा

गार ४०६: २०.

वृष्ट-ष्टम् क २, १, १४.

वृष्टि^१-ष्टि: वृ ६, २, १०; मैत्रि ६,

२२^१; ३७; कौ १, २; त्रिता ३, २५:

-ष्टिम् वृ २, ५, १६५^१; ६, २, ११;

१६; -ष्टे: वृ ६, २, १६; मैत्रि ६,

३७; -ष्टौ तै ३, १०, २; छां २,

३, १; २; -ष्ट्या^१ श्वे ५, ११; भव

२, २४.

वृष्ट्या(ष्टि-आ)दिक-कम् योशि

१, १४८.

वृष्ण^१-

वाष्ण^१- -ष्ण: वृ ४, १, ४^२.

वृष्णि^१- -ष्णीनाम् गी १०, ३७.

वाष्ण्य^१- -य गी १, ४१; ३,

३६.

√वृह

वावृहाण- -णम् आर्षे ९: १९.

वेग- √विज् द्र.

वेणु^१- -णुम् महा ६, १६.

वैणव- -वम् आरु ३; नाप ४,

३८; ५, १; १संन्या २, ९; १३;

पप ४१८: ३२.

वेणु-नाद- -द: हं १६.

वेणुनाद-विनोद- -दाय गोपू

३९६.

वेणुनादन-कल-रव-कलाप-

कलित- -तम् सार २६५: २०.

वेणु-वेत्र-हस्त- -स्त: राश्व १, १७.

वेणु-शृङ्ग-धर- -रम् गोउ ४९.

वेनस^१- -म: मना २, ४०५^१.

वेताल^१- -ल: योशि ४, १६; -ला:

महा ५, ७८; मु २, २, ४०.

वेनृ-, १वेद- √विद्(ज्ञाने) द्र.

२-३वेद- √विद्(*बधा.) द्र.

वेदन- √विद्(ज्ञाने) द्र.

वेदना^१- -ना वरा ५, ८.

वेदयत्- √विद्(ज्ञाने) द्र.

वेदव्यास- √विद्(*बधा.) द्र.

वेदस्- √विद्(लाभे) द्र.

वेदि, दी^१- -दि: छां ५, १८, २; वृ ६,

४, ३; मना २, ८०५^१; रुह २०; प्रा

३-४, १; -दिम् शि ३, ८; -दी इ

१६: १४; शि ४, १७; -दीम् शि

६, ११५; -द्या गोउ ५७; -द्या:

शि २, २^२; -द्याम् मैत्रि ६, ३६;

शि ५, २१.

वेदि-(क>)का- -का शि १, २४.

वेदिका(का-आ)कार-

वेदिकाकार-वत् त्रिष्रा २,

१४०.

वेदि-जन्म-हान- -नात् मुद्र ४^१.

वेदि-मध्य-

वेदिमध्य-तस्(>:) शि २, ३; ४.

वृ^१वेदि-षद्- -षत् क २, २, २; मना

२, १२, २; २, ४०; वृपू ३, ६;

नाप ५, १; वपू २, ३.

वेदि-(स्थ>)स्था- -स्थाम् शि ६,

११८.

वेदितव्य-, वेदितुम्, वेदितृ- √विद्

(ज्ञाने) द्र.

वेदिन्- √विद्(*बधा.) द्र.

वेद्व्य-, वेद्वृ- √विष्(*बधा.) द्र.

वेद्य- √विद्(ज्ञाने) द्र.

वेध-, वेधक- √विष्(*बधा.) द्र.

वेन^१- -न: मना १, ३५^१; १०५^१; २संन्या

१६: ६५^१; २शिसं ३२५^१; -नम्

व ४५५: २२५^१; -नात् मना २,

१२, ३५^१.

√वेप्

वेपथु- -थु: वरा ५, ५; गी १, २९.

वेपमान- -न: गी ११, ३५.

वे(ल>)ला^१-

√वेलाय्, वेलायते नाद ४६.

वेश^१-

वेश-शङ्कार-शोभा-संराजि-

(त>)ता- -ताम् सार २२८:

२२.

वेशान्त^१- -न्ता:, -न्तान् वृ ४, ३, १०.

वेशमन्^१- -श्म छां ८, १, १; २; १४, १;

पं ३४; -श्मानि शि ७, ६०.

वेप^१- -पम् श ४; मुद्र २; वट ३१७:

१०; -षेण नाप ५, २; मुद्र २.

वेप-सद्भावा(व-अ)भाव- -वयो:

१आ २१.

√वेष्ट, >वेष्टि, वेष्टयेत् रापू ४, ४२^१;

यो २, ३२.

वेष्टयिष्यन्ति श्वे ६, २०.

वेष्टन- -नम् रार ३, १^१; महा ३, ११.

वेष्टना(न-अ)स्वर-लक्षण- -णम्

योशि १, ८१.

वेष्टयित्वा यो १, ११.

वेष्टित, ता- -तम् वृपू ५, २^२; ३-६;

त्रिता ३, २३; -त्ता शां १, ७, ३;

-ता: योशि १, १; ३४; १थोत ४.

वेष्टित-पाणि- -णिना त्रिष्रा २,

४८.

वेष्ट्यमान- -ना: मैत्रि ७, ९.

a) °ष्टिनिर्वा° इति सात. । b) ऋ १, ११६, १२ । c) लु. गपू. पृ ३२९a । d) =बर्कुनामर्षिविशेषजनक- (लु. शां., रामा.; वैतु. गोपा. =वृष्णि- इति) । e) =यदुवंश- । f) वैपश् यद्र. । g) °णुवादनशीलायं इति आन. । h) ऋ ४, ५८, ५ । i) व्यु. ? । j) व्यु. ? =पीडा- । k) तैत्र्या १०, ६४, १ । l) वेदोज° इति ऋष्या. । m) ऋ ४, ४०, ५ । n) मा ३२, ८ । o) मा १३, ३ । p) तैत्र्या ३, ११, १ । q) ऋ ४, ५८, ४ । r) व्यु. ? =तट- । s) =वेशन्त- (वैपश् यद्र.) । t) °ष्टितम् इति आन. ।

वै^० के ३, ४^३; ८^३; क १, १, १; प्र १, १;

४; ५; ९^३; १०; १२-१४; सुं १, १,

३; मां ९; ऐ २, २^३; छां १, १, ५;

वृ १, १, १-२; कौ १, १; मै १, १.

√वै(शोषणे), वायन्ति वपू १, २.

वै^०वै^० व ४३६ : २२.

वैकङ्कत- विकङ्कत- द्र.

वैकारुण्य- विकरुण- द्र.

वैकुण्ठ- विकुण्ठ- द्र.

वैकृत- वि/कृ द्र.

वैख(र >)री^{१०}-री योशि ३, ५; तु

१०; नापू ५, ३४; -रीम् योशि

३, १०; -यांम् यो ३, १९.

वैखरी-रू(प >)पा- -०पे अक्ष १५.

१वैखानस^०-साः आश्र ३^३.

२वैखानस-सम् सी २६.

वैखानस-ऋषि^१- -षेः सी ३२; ३३.

वैखानस-मत- -तम् सी २६^०.

वैखानस-हरद्विज- -जौ नाप ३,

१-२; १संन्या २, ३.

वैघ्नराज- वि/हृ द्र.

वैचजगती^१ कौ १, ३.

वैचित्र्य- विचित्र- द्र.

वैडूर्य- विडूर- द्र.

वैणव- वेणु- द्र.

वैतथ्य- वितथ- द्र.

वैतृण्य- वितृष्ण- द्र.

वैदभृती-, वैदभृत्य-√विद्(*बधा.) द्र.

वैदर्भि- विदर्भ- द्र.

वैदल- विदल- द्र.

वैदिक-√विद्(*बधा.) द्र.

वैदुष्य-√विद्(ज्ञाने) द्र.

१-२वैदेह-, वैदेहिन्-, वैदेही-

१विदेह- द्र.

वैद्युत- वि/द्युत् द्र.

वैधर्म्य- विधर्म- द्र.

वैनतेय- वि/नम् द्र.

वैनायक- वि/नी द्र.

वैभव- वि/भू द्र.

वैभवाणवभेदाः^० गोच ६७ : १५.

वैमनस्क- विमनस्क- द्र.

वैयाकरण- व्या/कृ द्र.

वैर^१-रम् नाप ३, ४२; शि ७, ५९.

वैर-त्याग- -गः योसू २, ३५.

वैरिन्-रिणः तां २१४ : १४;

-रिणम् गी ३, ३७.

वैरि-विदारि-चक्र- -क्रः भव १,

२४.

वैरम्^{११}-रम् सुबा ९^३; १५; रम्भेण

सुबा ४.

वैराग्य- वि/रञ्ज द्र.

वैराज-, वैराज्य- वि/राज् द्र.

वैरूप-, वैरूप्य- विरूप- द्र.

वैरोचन- वि/रुच् द्र.

वैलक्षण्य- विलक्षण- द्र.

वैवश्य- विवश- द्र.

वैवस्वत- वि/वस्(*बधा.) द्र.

वैशारद-, वैशारद्य- विशारद- द्र.

वैशिष्ट्य-, वैशेषिक-, वैशेष्य-

वि/शिष् द्र.

वैश्य- २विश्- द्र.

वैश्रवण- विश्रवण- द्र.

वैश्वरूप-, वैश्वानर-, वैश्वामित्र-

१विश्व- द्र.

वैषम्य- विषम- द्र.

वैष्णव- विष्णु- द्र.

वौषट्^१ हं १२; शु १, १८^३; २, ५^३;

दत्ता २; गृह ३; लां २१३:१०;

व ४५६:१०; वपू २, २.

व्य(वि-अ)ग्र- -ग्रः मै ३, २; मैत्रि ३, २;

६, ३०^६.

व्यग्र-स्व- -स्वम् मैत्रि ३, ५.

व्य(वि-अ)ङ्गार- -रे नाप ५, ८; १संन्या

२, ७३.

व्य(वि/अ)ज्

व्य(वि-अ)जन^{१३}- -नेन वृजा ६, १;

सी ३७.

व्य(वि/अ)ञ्च्

व्य(वि-अ)क्त, क्ता- -क्तम् मैत्रि ६,

१०; मन्त्रि १५; अव्य १^३; ३^३;

पाशु १, १४; रुह १०; शा ९; ११;

२६; सांका १०; ११; -क्तस्य

अव्य ३; -क्ता सी ५; शां १, ४;

यो ५, २०; गोड ६३; सर २,

१; ७; -क्तानि सार २६२ : २१;

-क्ते अशि ४, १३^१.

व्यक्त-चैतन्य- -न्यः वृड ९, ७.

व्यक्त-ता- -ताम् मैत्रि ६, १०;

मन्त्रि १८; चू १८^३.

व्यक्त-स्व- -स्वम् अव्य ३.

व्यक्त-दर्शन- -नम् चू १४.

व्यक्त-मध्य- -ध्यानि गी २, २८.

व्यक्त-सुकालता^१- -ता सार

२८३ : १६.

व्यक्त-वक्त्र- -क्त्रः शां १, ६^म.

व्यक्त-सू(क्ष्मा >)क्ष्मा- -क्ष्मा

योसू ४, १३.

१व्यक्ता(क्त-अ)व्यक्त^०- -क्तः

अशि १, ४.

२व्यक्ता(क्त-अ)व्यक्त^०- -क्तम् श्वे

१, ८; नाप ९, ७; स ३७८:११;

भव २, ५.

a) अव्य. वैप१ यद्र. । b) तु. गपू. पृ२३३८ । c) व्यु.१ =वाग्विशेष- । d) व्यु.१ =ऋषिविशेष-, वानप्रस्थविशेष-, तन्त्रविशेष- । e) ०तः इति निसा. । f) निसा.१ [तु. 'वै च जगानि' इति आन. (तु. शंटी.), 'वै च जगानी' इति अश्व्या. (तु. उब्र.), 'वैराजगानि' इति शां ३, ३ (तु. वैप२ यस्था., बे.) च] वैराजनिक- > -कानि इति शोभः द्र. । g) पा.१ 'वैभव-> -वात्' इति च 'नव-भे(द >)दा-> -दाः (बस. प्र३)' इति च द्विपदः शोभः द्र. । h) वैप१ यद्र. । i) व्यु.१ =वायुविशेष- । j) व्यु.१ =अव्य. । k) अ^० इति सात. । l) अ^० इति आन. । m) व्यात्तव^० इति अश्व्या. । n) कस. । o) दस. ।

व्यक्ताव्यक्त-कारण-चरण-
समभावयव-मुख-वर्ण-भेदा-
(द-अ)भेद-रूप-पा^१-पा^१-
पा^१ ३४.
व्यक्ताव्यक्त-गिर-गिरः मर
२, ८.
व्यक्ताव्यक्त-ज्ञ-विज्ञान-
-नात् सांका २.
व्यक्ताव्यक्त-पर-रम् २शिंगं
१२.
व्यक्ती/भू
व्यक्ती-भू(त)ता-ता २प्र
३५ : १.
व्य(वि-अ)क्ति-क्तयः गी ८, १८; -क्तिः
त्रिता २, १; -क्तिम् गी ७, २४;
१०, १४; -क्तीनाम् गोउ ६२^b.
व्यक्ति-भेद-दः सांसू ३, १०.
व्य(वि-अ)ञ्ज्, >ञ्जि, व्यज्यते योशि
३, ४; अव्य ३.
व्यञ्जयेत् चू १८.
व्य(वि-अ)ज्यमान(न)ना-ना सर
२, ६.
व्य(वि-अ)ञ्जन^१-नम् रार ५, ४;
२प्र ३४ : १९; -नैः रार ५, ५.
व्य(वि-अ)ञ्जन^२-
व्यञ्जन-सिद्धि-द्धिम् त्रिता ३,
३२.
व्य(ञ्ज्)ञ्जिका-का नृउ ९, ४.
व्य(वि-अ)ति/तृ>तर, व्यति-
तरिव्यति गी २, ५२.
व्य(वि-अ)ति/पत्
व्य(वि-अ)ति>ती-पात^१-ते इ
१९ : २.
व्य(वि-अ)ति/रिच्
व्यति-रिक्त-क्तः अशि १, २; नाप
४, ३८; ७; महा ५, ९०; अशि

१, २; तुअ १६; -क्तम् र्क ३;
महा ५, १८०; त्रिता ४, २०.
व्यति-रेक-कः ब्रसू २, ३, २६; ३,
३, ५४.
व्यतिरेका(क-अ)नवस्थिति-
-तेः ब्रसू २, २, ४.
व्य(वि-अ)ति/प(<ग)ञ्ज्, व्यति-
पजति" नृपू २, ४.
व्यति-पक्त, क्ता-क्तः अशि ४, ५;
नृपू २, १०^१; वट्ट ३१५ : २१;
-क्ताः, -क्तानि नृपू २, ८.
व्य(वि-अ)ति-पा(<सं)/दह्, व्यतिपं-
दहेव छां ७, १५, ३.
व्य(वि-अ)ति/हृ
व्यति-हार-रः ब्रसू ३, ३, ३७.
व्य(वि-अ)ती[ति/इ(गतौ)]
व्यती(ति-इ)त, ता-तः सार २४२ः
११; -तस्य ब्रवि ११; -ताः
सार २४२ः ४; -तानि गी ४, ५;
-तायाम् व ४५९ : ५.
व्यथ, >व्यथि, व्यथते वृ१, ५, २०;
२१; ३, ९, २६; ४, २, ४; ४, २२;
५, १५; १योत ५६; व्यथन्ति
गी १४, २.
व्यथिष्ठाः कौ२, ११; गी ११, ३४.
व्यथयन्ति गी २, १५.
व्यथमान-नः मै २, २०.
व्य(थे)था-था गी ११, ४९.
व्यथ् व्यथ् द्र.
व्य(वि-अ)न्(प्रायाने)
व्य(वि-अ)न^१-नः प्र३, ६; ८; ४,
३; तै १, ५, ३; २, २, १; ७, १; छां
१, ३, ३^१; ३, १३, २; ५, २०, २;
वृ १, ५, ३; ३, १, १०; ९, २६; ५,
१४, ३; मै २, ६; ७; ५, ५; मैत्रि २,
६^३; ६, ५; ३३; अना ३६; ३८;
ध्या ५६; त्रिवा २, ७७; ८२;

योचू २४; शां १, ४; जाद ४,
२३; २८; ३२; प्रा ४, १; गा ५;
-नम् छां १, ३, ३; ५; मना २,
७०^१; सुवा ९; १५; ध्या ९६;
-नस्य मैत्रि २, ६; -नाय छां ५,
२०, ११^१; मैत्रि ६, ९; मना २,
६९^१; प्रा १, ६; -ने छां ५, २०,
२; वृ ३, ९, २६; मना २, ६९^१;
७०^१; प्रा १, ६; -नेन वृ ३, ४,
१; सुवा ४.
व्यान-कर्मन्-र्मं शां १, ४.
व्यान-योग-गेन त्रिवा १, ९.
व्यान-वायु-युना त्रिवा २, ८५.
व्यान-समानो(न-उ)दाना-
(न-अ)पान-प्राण-णाः सू १५^१.
व्याना(न-अ)ख्य-ख्यस्य
जाद ४, ३३^१.
व्याना(न-अ)त्मन्-त्मने गोउ
६४.
व्यानो(न-उ)दान-नौ योचू २२.
व्य(वि-अ)नु/नद्>नादि
व्यनु-नादयत्-यन् गी १, १९.
व्य(वि-अ)न्न-न्ने वृ ५, १२, १.
व्य(वि-अ)प/गम्
व्यप-गत-
व्यपगत-कलना-कलङ्क-
शुद्ध-द्धः महा २, ७७.
व्य(वि-अ)प/दिश, व्यपदिश्यते ब्रसू
२, ४, १२.
व्यप-दिष्ट-ष्टम् वृ ३, ४, २.
व्यप-देश-शात् ब्रसू २, ३, ३६.
व्य(वि-अ)पा(प-आ)/अ
व्यपा-अत्रय गी ९, ३२.
व्य(वि-अ)पे[प/इ(गतौ)]
व्यपे(प-इ)त-
व्यपेत-भी-भीः गी ११, ४९.

a) षस.>षस.>नृस. । b) °क्तानाम् इति आन. । c) पा ६, ४, २५ । d) °तिवि° इति निसा. अख्या. च
पा. ? यनि. शोधः द्र. । e) व्यय° इति मैत्रि २, २ । f) तैश्चा १०, ३६, १ । g) मा २२, २३ । h) तैश्चा १०, ३३, १ ।
i) तैश्चा १०, ३३, १^१ । j) 'व्यानः समानोदानोऽपानः प्राणः' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. [एवं यक्र. गपू. (पृ७४, १८०,
५६०)] 'अपानः', 'उदानः', 'प्राणः' इत्यत्र सस्य. शोधः कर्तव्यः । k) निसा. ? नागाख्य° इति शोधः द्र. (तु. अख्या.)

व्य(वि-अ)पो(प/ऊ)ह्, (गतौ) व्यपो-
हति रुजा २, ५; मृ ५.
व्यपो(प-ऊ)ह्य तै १, ६, १; कै १, १;
ह १; वि १; स ३७९ : ४.
व्य वि-अ)ध्र- -अं शि ५, ३५.
व्य(वि/अ)य्
व्य(वि-अ)यमान- -नः मैत्रि २, २^a.
व्य(वि-अ)र्थ, र्था- -र्थः नाप ५, १; १संन्या
२, ५९; -र्थम् महा ३, १८; -र्था
वि ८.
व्य(वि-अ)व/च्छिद्, व्यवच्छेत्सीः तै
१, ११, १.
व्यवच्छिद्यते सांसू ५, ४३.
व्य(वि-अ)व/धा
व्यव-धान- -नात् सांका७; -ने नाप
६, १.
व्यवधान-वश- -शात् नाप ६, १
व्य(वि-अ)व/वद्, व्यववदति छां ४,
१६, २; ४.
व्य(वि-अ)व/सो, > सा
व्यव-साय- -यः गी १०, ३६; १८,
५९.
व्यवसाया(य-आत्मक) > रिम-
का- -का गी २, ४१; ४४.
व्यव-सित- -तः गी ९, ३०; -ताः
गी १, ४५.
व्य(वि-अ)व/स्था, > तिष्ठ, व्यव-
तिष्ठते सांका ४२.
व्यव-स्था- -स्था गौ ४, १३; सांसू
१, २९; ५, १२५; -स्थाम् श्वे १,
१; गर्भे २^b.
व्यवस्था-तस (>) सांसू ६, ४५.
व्यव-स्थान- -नम् भव ३, २२.
व्यव-स्थित, ता- -तः गौ १, २;
मना २, १३, २९^c; ब्रवि १२; ते
३, १९; नाद ४; ध्या ८^d; ब्रवि
७; ३८; त्रिवा २, ८१; रार ५,

२; वा २४९^e; महा १, १९^f;
त्रिता ५, १२; जाद ६, १६१^g; कृ
१६; चर १: ५९^h; पिष्ठ; नाउ १,
२०९ⁱ; १प्र ३१: १२; शि १, १९;
४, ५२; ६, ३५; कालि ४०३ :
६९^j; भव २, २९; अबि १२; -तम्
मैत्रि ६, ३०; ब्रवि ६४; त्रिवि ५,
१२; पिंन ६, ७; -ता वा २२९^k;
महा १, १९^l; जाद ४, २३; गोच
६६: २३; गार ४०६: २१; -ताः
ब्रवि ६३; वि १२; -तान् गौ २, १३;
गी १, २०; -ताम् कालि ४०३:
३; -तौ गी ३, ३४.
व्य(वि-अ)व/ह्, व्यवहरति पै ४, ४;
व्यवहरेत् नाप ६, १^m.
व्यव-हरत्- -रन् वृउ ९, ८; यो ३,
२९; मु २, २, ७०.
व्यव-हार- -रः १अत्र १९; २२;
-रम् महा ५, १७७; अत्र २, १०;
-रात् पै २, ३८; -रेण महा ४,
१२५; १२६; -रेषु महा ५, १७०.
व्यावहारिक- -कः पै २,
२६; सर ३, २०; -कम् ते २, ३५.
व्यावहारिक-दृष्टि- -दृष्टिः
पाशु २, १९; -दृष्ट्या पाशु २, १८.
व्यावहारिक-प्रणव- -वः
नाप ८, १.
व्यावहारिक-प्रातिभा-
सिक- -कयोः पै २, ३२.
व्यवहार-क्षम- -मः योशि ४, १०
व्यवहार-तस (>) १योत १९;
करु ३८.
व्यवहार-पर- -रः लिं ३१० :
१५.
व्यवहार-प्रकल्पित (>) ता- -ता
नि २३.
व्यवहार-वत्- -वतः वरा ४, २१.

व्यवहार-विवर्जित- -तम् जाद
१, १२.
व्यवहार-स्थ- -स्थः १संन्य
२, ३३.
व्यवहारा(र-अ)र्थ- -र्थम् महा
४, ४५.
व्यवहारा(र-अ)व्यवहार- -रौ
सांसू १, १२०.
व्यव-हारिन्- -री महा २, ६२;
वरा ४, २७.
व्यव-हार्य- -र्यः वृउ २, १०.
व्यव-हृति- -तिः शां १, ७, २६; -त्तेः
१अव २०; -तौ अत्र ५, १०८.
व्यव-हृत्य पै २, ४४.
व्य(वि-अ)वा(व-अ)यⁿ- -यः बा २.
व्य(वि/अ)वा(व्याप्तौ), ^o व्यञ्चोम प्र मुं
मां मना अशि अ वृजा शां^p; वृपू
शां^q; २, १५; नाप सी श त्रिवि
रार रापू शां पप अत्र सू १आ
पाशु पत्र त्रिता दे भा ब्र भ ग
मवा गोपू कृ ह दत्ता गरु अवि
पहं शां^r; सि पिंन शां.
व्यञ्चुते गौ १, २७; कौ १, ७.
व्य(वि-अ)श्नुवान- -नः बा १८.
१व्य(वि-अ)ष्टि^s- -दृष्टिः वृ ३, ३, २; कौ
१, ७; नाप ८, १; -दृष्टिम् कौ १, ७;
-दृष्ट्याम् प्रा २, १^t.
व्यष्टि-कारण-शरीर- -रम् पै २,
२९.
व्यष्टि-देह- -हम् पै १, ३; २,
२५.
व्यष्टि-समष्टि-प्रकार- -रेण
नाप ८, १.
व्यष्टि-समष्ट्या(ष्टि-आ)त्मक-
स्थूल-शरीर- -राणि पै २, ४.
व्यष्टि-सूक्ष्म-शरीर- -रम् पै २,
२७.

a) व्यथ^o इति मै २, २; सात. । b) °स्थानि इति आन. । c) तैत्रा १०, ११, २। d) अध्यव^o
इति आन. । e) °तम् इति अञ्च्य. संटि. । f) बस. [=विगतोऽवायोऽस्य (वैतु. बाटी. भावे <व्य(वि-अ)वे(व/इ)
इति] । g) ऋ १, ८९, ८ । h) =विभेद-, व्यक्ति- । i) °व्यञ्च इति अञ्च्य. ।

व्यञ्ज(वि-प्र)ष्टि^{१०} - -ष्टिः, -ष्टेः वृ
 २, ६, ३; ४, ६, ३.
 व्यञ्ज(नि-प्र)स्/स्(संप्रसारण)
 व्यञ्ज(वि-प्र)स्वन - -नम् नाप ६, ७.
 व्यञ्जनौ(न-प्रो)व-हन्तृ- -न्तृ
 पा ७, १.
 व्यञ्ज(वि-प्र)स्/कुच्
 व्यञ्ज-कोच - -चम् त्रिशा २, १००.
 व्यञ्ज(वि-प्र)कुल-
 व्यञ्जकुलित-
 व्यञ्जकुलित-मनस् - -नसोः गर्भ ३.
 व्यञ्ज(वि-प्र)स्/कृ, व्यञ्जकृस्ते मैत्रि ६, ३;
 व्यञ्जकरोति णे ५, १; शु ३, १; ते
 ५, ८६; व्यञ्जकरवाणि छां ६, ३, २;
 व्यञ्जकरोत् छां ६, ३, ३.
 व्यञ्जक्रियते वृ १, ४, ७; त्रिता १,
 ४६; व्यञ्जक्रियत वृ १, ४, ७.
 व्यञ्ज-करण^{११} - -णः (इणम्^{१२}) गार
 ४०६ : ८; -णम् सुं १, १, ५; सुवा
 २; सीर ७; रुह २९; २ प्र ३४ : ७;
 ३६ : १.
 व्यञ्जकरण- -णाः २ प्र ३५ : ८.
 व्यञ्जकरण-ज्यौतिषा(प-प्र)आ-
 दि-शास्त्र - -स्त्राणि सं ७.
 व्यञ्ज-कृत - -तस्य वृजा ३, १२.
 व्यञ्ज(वि-प्र)स्/ख्या, व्यञ्जख्यास्ये ध्या
 ९३, १; दत्ता १, ३; ६; ७;
 व्यञ्जख्यास्यामि वृ २, ४, ४; ४, ५,
 ५; व्यञ्जख्यास्यामः तै १, २-३, १;
 हं ४; कौ ३, ४; शु १, १; अता
 १; निर्वा २९७ : १; सुद १, १;
 महा १, १; १ संख्या १, १; सू १;
 त्रिता १, १३; २४; २, ३७; ३, १७;
 दे १; मवा १; प्रा १, १; आच १;
 आपे ८ : १; चा १; २ प्र ३४ : १३;
 ३५ : ५; तुल ७० : १; नापू ३, १८;
 मृ १; गार ४०५ : ४; रा ४२३ :
 ८; वपू १, १.
 व्यञ्ज-ख्या^{१३} - -ख्यया अक्षि ११;

-ख्या मैत्रि ६, १०; -ख्याम् नाप
 ५, २२.
 व्यञ्जख्या(वि-प्र)ध्ययन-
 संसद् - -सदि शि ७, ६६.
 व्यञ्जख्या-पीठ - -ठे द ८.
 व्यञ्ज-ख्यात, ता- -तः शसू २, ३, ८;
 -तम् गौ ३, २६; मैत्रि ६, १०;
 श्रानि ४; त्रिता १, २६; २, ४७; ४,
 १; १४; दत्ता १, २; १ प्र ३१ : ६;
 नापू ३, १८; प्रस १, ४, १७; -ता
 मै २, ३; २ प्र ३६ : १; ३; योसू
 १, ४४; -ताः तै १, ३, ४; गौ ३,
 ११; योसू ३, १३; अस् १, ४,
 २८; २, १, १२.
 व्यञ्ज-ख्यान्^{१४} - -नम् त्रिता १, २८;
 -नानि वृ २, ४, १०; ४, १, ३; ५,
 ११; मैत्रि ६, ३२; सुवा २; -ने
 शि ७, ७.
 व्यञ्ज-ख्यान्-निरत - -तः रापू ४,
 ३१.
 व्यञ्ज-ख्यान्-पर - -रः नाप ३, ७३.
 व्यञ्ज-ख्यान्-योग - -गः नाप ४, ५.
 व्यञ्ज(वि-प्र)स्/घ्रा
 १ व्यञ्ज-घ्र^{१५} - -घ्रः छां ६, ९, ३; १०,
 २; १ योत ५९; ११० : योचू
 ११८; शां १, ७, ६.
 २ व्यञ्ज-घ्र^{१६} -
 व्यञ्ज-पा(द>)द्^{१७} -
 व्यञ्ज-पपद्य^{१८} - -० छ छां ५,
 १४, १; १६, १; ध्याय छां १, २, ३.
 व्यञ्ज-पदी -
 व्यञ्ज-पदी-पुत्र -
 -त्रः, -त्रात् वृ ६, ५, १.
 व्यञ्ज-चर्मा(र्म-प्र)म्बर - -धर -
 -रम् म १, १.
 व्यञ्ज-चर्मा(र्म-प्र)सन - -ने
 रार ४, ५.
 व्यञ्ज-स्वग्-आवृ(त>)ता -
 -ता तारा ८३ : १९.

व्याघ्र-बुद्धि - -द्वया अध्या ५४.
 व्याघ्र-मुख - -० छ लां २१६ :
 १४.
 व्यञ्ज(वि-प्र)स्/चक्ष, व्यञ्जचष्टे जा १; वृ
 १, १५; राउ १, १; ता १, १; नापू
 १, २; १५; २, १; ४, १; व्या-
 चक्षते त्रिता १, २७; ३०; ७५;
 १६५; २, १२; १५; ३४; व्यञ्ज-
 चक्षताम् १ अव १३; व्यञ्जचक्ष वृ
 ३, ४, १; २; ५, १; वृउ १, १; त्रिता
 २, ३; पित्र २-४, १; ६, १; ३.
 व्यञ्जचक्षिरे के १, ३.
 व्यञ्ज-चक्षण - -णस्य वृ २, ४, ४; ४,
 ५, ५.
 व्यञ्ज(वि-प्र)स्/दा(दाने), व्यञ्जदाति छां
 १, २, ९.
 व्यञ्ज-त्त - -त्तम् वृ १, १; ६, २, १२.
 व्यञ्ज-त्ता(त-प्र)नन - -नम् गौ
 ११, २४.
 व्यञ्ज(वि-प्र)स्/धा
 व्यञ्ज-धि^{१९} - -धयः शां १, ७, ४५;
 योशि १, ३५; ५७; अक्षि २३; धिः
 भव १, १४; -धिना छां ४, १०,
 ३; -धिभिः छां ४, १०, ३; शां
 १, ७, ४९; योशि १, २८; जाद
 ६, २७; २८; भव १, ४; ४, १७;
 -धिम् वरा २, ७९; व ४५६ :
 १३; -धीन् दत्ता २.
 व्यञ्ज-धित - -तः भव ४, ३.
 व्यञ्ज-धि-पाप - -पानाम् त्रिशा २,
 १०६.
 व्यञ्ज-धि-विनाशि(न्>)नी - -नी
 योचू ६६.
 व्यञ्ज-धिस्यान-संशय-प्रमादा-
 (द-प्र)ख्या(स्य-प्र)विरति-
 आन्तिदर्शना(न-प्र)लब्धभूमि-
 कर्त्वा(त्व-प्र)नवस्थितरव-
 -त्वानि योसू १, ३०.
 व्यञ्ज-धिस्य - -स्थः शां १, ७, ४८

a) धा अर्थः १ = अक्षि विज्ञेय - । b) पा १ गति न्नेधः इ. । c) = अक्षि विशेष - । d) = गोत्रप्रवर्तक-अक्षि विशेष - ।

व्या-हित- -तः वृ ५, ११, १
 व्या(वि-आ)/धु, व्याधुनीते पा४, २^१।
 व्या(वि-आ)/अन्(प्राणने), व्यानिति^b
 वृ ३, ४, १.
 व्यान- व्यन् द्र.
 व्या(वि/आ)प्, > पि, व्याप्नुते त्रिता
 ४, २०; व्याप्नोति अशि ४, ५; अ
 २; वृप् २, १०; शां १, ४^०; त्रिता
 १, १८; ४, १०; ३७; वट्ट ३१५:
 २०; गु ६९.
 व्याप्यते वृप् २, १०; त्रिता १, २१.
 व्यापयते वृप् २, १०; व्यापयति
 वृप् २, १०; अ २; व्यापयेत् ब्रवि
 ४३; गुषो ४२१:३; षो १७.
 व्या(वि-आ)पक- -०क अक्ष ५; -कः
 क २, ३, ८; अशि ६, १२^३; ब्रवि
 १०३; नापू १, ११; वट्ट ३१७:
 १८; १९; -कम् ससा १, ३४;
 नाद १७; योशि १, १७; गोड
 ४१; हंषो १७.
 व्यापक-ता- -तया सार २१९:
 ४; २८९: १८.
 व्यापक-त्रय- -यम् व ४२६:
 ४; ५.
 व्यापक-त्व- -त्वम् चक्र६; सांसू
 ५, ६९; -त्वे सांसू ६, ५९.
 व्यापक-शरीर- -राणाम् त्रिवि
 २, १२^d.
 व्या(वि-आ)पन- -नात् अ २.
 व्या(वि-आ)पयत्- -यन् शां १, ४^३.
 व्या(वि-आ)पिन्- -पिनः सांसू १,
 १२; -पी अ २.
 व्यापिनी- -नी सर २, ६; गार
 ४०७: १९.
 व्या(वि-आ)स- -सः वृट्ट २, ११;

आबो १४; -सम् श्वे ४, १०; हं
 ७; अशि ६, ११; वृप् ४, ८; ते
 १, २३; राड ४, ३६; शां १,
 ४^३; योशि १, ३०; १६६; ५, २;
 त्रिता ३, १९; ४, १६; ३३; ए३;
 म ४८: ५; रशिसं ९; शि ७,
 १३७; गु ५५; वड ३, ४३; ५७;
 गी ११, २०; -सानि त्रिता४, ३६.
 व्यास-तम- -मः वृट्ट ५, ११^३.
 व्यासा(म-आ)खिल-लोक-
 -कम् वड ४, ३१.
 व्या(वि-आ)सि- -सिः मुद्र १, २^३;
 सांसू ५, २९; -सेः ब्रसू ३, ३, ९.
 व्या(वि-आ)प्नुवत्- -वतः त्रिता ४,
 २०.
 व्या(वि-आ)प्य हं ५; मना २, १३,
 २५^०; अना ३६^३; ब्रवि ११; श
 २४; त्रिवि १, ९; ७, १७; मुद्र २;
 पै १, २६; २, ३७; अव्य २; यो३,
 ३१; जाद४, २९; ब८; १प्र३१:
 २०; सार २१९:४; २९०: १;
 वड ३, १४; ३५; ६१; गी १०, १६.
 व्या(वि-आ)प्य-
 व्याप्य-व्यापक-
 व्याप्यव्यापक-ता- -ता
 योशि ४, ४.
 ?व्याप्यव्याप्य^६- -प्यम् भव
 ३, ४.
 व्या(वि-आ)प्यमान- -नम् व४५५:
 १२.
 व्या(वि-आ)/पट्ट, व्यापव्यते त्रिता
 १, ५; १२; ३६.
 व्या(वि-आ)/पृ
 व्या-पार- -रः ते ६, १५; -राः नाप
 ६, १

व्यापारौ(र-आ)घ- -घम् महा
 ६, ७६.
 व्या(वि-आ)/मिश्र
 व्या-मिश्र- -श्रेण गी ३, २.
 व्या(वि-आ)/लिख्, व्यालिख्यते
 त्रिता १, ३९.
 व्या-लिख्य त्रिता १, ४०; गोप् १८^५.
 व्यावहारिक- व्यव/ह द्र.
 व्या(वि-आ)/वृ(आच्छादने)
 व्या-वृत्-
 व्यावृत्-त्व- -त्वम् मै ३, ५^१.
 मैत्रि ३, ५.
 व्या(वि-आ)/वृत्, > वर्ति, व्यावर्तते
 वृ १, ५, २; व्यावर्तते मै ५, १; मैत्रि
 ६, १; व्यावर्तन्ते त्रिता ३, १८^१.
 व्यावर्तयेत् पदं ४^३।
 व्या-वर्त(न>)ना- -ना छां ५, ३, २.
 व्या-वृत्त- -त्तम् कर ३२; -त्तानि
 कर ३३.
 व्यावृत्तो(त-उ)भय-रूप- -पः
 सांसू १, १६०.
 व्या-वृत्ति- -स्या सांसू ६, ३०.
 व्या-वृत्त्य १योत ११७.
 व्यास^१- -सः वसू १३; शु १, १; ३,
 २२; महा २, १८; ह९; २प्र३७:
 ३; गी १०, १३; ३७; -सम् रुह
 २; -साय ह९; -सेन शु ३, १६;
 महा २, १६.
 व्यास-पुत्र- -त्रस्य महा २, २६.
 व्यास-प्रसाद- -दात् गी १८, ७५.
 व्यास-वचन- -नम् शु १, ७.
 व्यास-सुत- -तः महा २, २१.
 व्यासवल्लभविठलेहरयः^१ कृपु १९.
 व्या-हरत्- -नाड द्र.
 व्या(वि-आ)/ह, व्याहरन्ति सर २, ८;

a) व्यञ्जु^० इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । b) तु. गपू. पृ७३३६ । c) 'व्याप्य' इति अश्या. । d) 'रीरि^०
 इति अश्या. संटि. । e) तैशा १०, ११, २ । f) 'वृत्त्य' इति आन. । g) पा.१ व्याप्याऽव्या^० इति शोधः द्र. ।
 h) आलि^० इति निसा., 'व्यासज्य' इति आन. । i) व्यापृ^० इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. अश्या.) । j) 'व्याप्य
 वर्तन्ते' इति अश्या. । k) 'व्यावर्तते' इति आन.१ यनि. शोधः द्र. (तु. अश्या.; वैतु. निसा. 'व्यावर्तन्ते' इति) ।
 l) पा. वा. च १ ।

व्याहरेत् ना ३; नाप ६, १; भ
२, ४; दत्ता २^१; व्याहरेत् १, १,
४, १.
व्याहरेत्-रन् गी ८, १३.
व्याहृत-तम् में ५, ६^१; मैत्रि
६, ६^१.
व्याहृति^१-नयः तै १, ५, १; ३; वा
१५; शां ३, १; महा १, १; २प्र
३६; ४; गोच ६६; १५; गार
४०५; ११; १२; -तिः मना २,
८०९^१; महा १, १^१; च २०; ५;
६; ७^१; २प्र ३२; १०; ३६; ३;
गार ४०५; ७; -तिभिः में ५, २;
मैत्रि ६, २; वृजा ३, २५^१; -तिम्
२प्र ३२; ६; १३; १५; ३६; १०;
-तिपु नाप ४, ३८; ५५ ४१८;
२१; -तीः वृजा ३, १३; १६;
२प्र ३३; ६; गोच ६९; ११;
-तीनाम् ११४; १९; -त्याः गार
४०५; ७.
व्याहृति-त्रय-यम् पप ४१८;
२२.
व्याहृति-शिर-संपुटित-वेद-
गायत्री-पादचतुष्टय-सूर्या-
(र्य-श्च)ष्टाक्षरी-मन्त्र-न्त्रौ
त्रिवि ७, ४४.
व्यु(वि-उद्>)च/चर, व्युच्चरन्ति
वृ २, १, २०^२.
व्यु(वि/उ)च्छ, वि उच्छति,
१^१व्यौच्छत् अव्य ५.
व्यु(वि-उद्>)त्/क्रम
व्युत्-क्रम-मेण त्रिवा २, ३८;
४०; ४४; ४६; शां १, ३, ३; जाद
३, ४.
व्युत्क्रमा(म-श्च)नुक्रम-मेण
त्रिवा २, ९८.

व्युत्था(वि-उद्>)त्/स्था), > तिष्ठ,
व्युत्तिष्ठति कश्चु १, १.
व्युत्-थान-ने योसू ३, ३८; -नेन
मया ९.
व्युत्थान-निरोध-संस्कार-
-रयोः योसू ३, ९.
व्युत्-थाय ३, ५, १; ४, ४, २२;
वृत् ६, ४.
व्युत्-थित-तः नाप ४, ३८; -तस्य
अज १, २६; अध्या ३६.
व्यु(वि-उद्>)त्/पद्
व्युत्-पत्ति-स्या सां ५, ४३.
व्यु(वि-उ)द्/अस्(त्वेपणे)
व्युद्-अस्य गी १८, ५१.
व्यूढ-वि/वह द.
व्यू(वि/ऊ)ह(वहने), व्यूह ई १६; वृ
५, १५, १९^१.
व्यू(वि-ऊ)ह^१-
व्यूह-भेद-दाः त्रिवि ७, २०.
व्यू(वि-ऊ)हन-ने गर्भ १^१.
व्ये(वि-आ/इ(गतौ))वि आयन्तु तै
१, ४, २.
व्योमन्^१-म में ४, ३, १०; मैत्रि ६,
३४; अशि ५, २१; काला ७;
ते १, ९; ६, ९७; १योत २८; पै
४, १३; अज २, ३७; सू १३;
१आ २२^३; त्रिता ४, २०; भ १,
५; गोपू २९; वरा ३, ३; ४, २१;
आर्षे ७; २०; नापू १, ७; रु ११;
वटु ३१७; १२; शि ४, १८; वउ
३, ७; १३; ५०; ५७; -मन् तै २,
१, १; ३, ६, १; श्वे ४, ८९^१; मैत्रि
६, ३५; मना १, १९^१; वृजा ६,
१२९^१; वृपू ४-५, ९९^१; राउ
५, २९९^१; ह १६९^१; ब २३९^१;
२प्र ३३; १५; नाउ १, १४९^१;

मु ५३९^१; चक ३९^१; -मनि महा
२, ६; त्रिता ५, २१; -ञः शि ४,
१८; -ञि मुं २, २, ७; मै ४, ४,
१०; मैत्रि ६, ३४; ध्या १०४;
त्रिवा २, १४२; १५२; सुद २;
शां १, ३, ११; महा ४, ९६; ५,
११९; १५२; योशि ४, १५; ५,
४३; ए ४; त्रिता ४, ३०; क
११; जाद ३, ११; ८, १.
व्योम-क-कम् वृपू १, ३.
व्योम-ना-नाः १योत २७.
व्योम-चक्र^१-कम् योरा १७; -के
शां १, ७, ४२.
व्योम-ज्योतिस-तिः अता ६.
व्योम-ज्वलने(न-इ)न्दिराकला-
बिन्दु-मेलन-रूप(प>)पा^१-
-पा तारा ८३; ३.
व्योम-ज्वलने(न-इ)न्दिरा-शून्य-
मेलन-रूप^१-पम् स्या ४.
व्योम-त्व-त्वम् में १, २, ८.
व्योम-पञ्चक-कम् में ४, १, ५;
योचू ३.
व्योमपञ्चक-लक्षण-णम् में
४, १, १.
व्योम-भाग-वीक्षित-तुः में १,
२, ९; अता ६.
व्योम-रन्ध्र-न्ध्रैः शां १, ४.
व्योमरन्ध्र-गत-तः ध्या १०३.
व्योम-रूप-
व्योमरूपिन्-पिणः अज ४,
५३; -पिणम् वपू २, २.
व्योम-वत् १आ ३०; वरा २, ५३;
४, २४; सांसू ६, ५९; वसू १,
२, ७.
व्योम-वाता(त-आ)दि-रूप-
-पम् ससा ५.

a) 'व्यासम्' इति निसा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.)। b) गपू. (पृ ११०) अ^० इत्यत्र यनि. शोधः कर्त्तव्यः। c) तैआ १०, ६४, १। d) °ताः इति अज्या.। e) व्यैच्छ^० इति निसा. १ यनि. शोधः द्र.। f) का ४०, १, १६। g) 'गमने' इति अज्या.। h) बप्रा. वैप १ यद्र.। इह = आकाश-, हकार-बीजाक्षर-प्रभृ.। i) ऋ १, १६४, ३९। j) तैआ १०, १, १। k) ऋ १, १६४, ४१। l) तैआ ८, १, १। m) = ही-बीजाक्षर-।

व्योम-व्यापिन्-पि रुजा १, २२.
 व्योम-षष्ठस्वर-बिन्दु-मेलन-
 रूप^a-पम् कालि ४०१:३?b;
 श्या ३; तारा ८३: ४.
 §व्योम-सद्-सत् क२, २, २; मना
 २, १२, २; २, ४०; नृपू ३, ६; नाप
 ५, १; त्रिता ४, २७; वपू २, ३.
 व्योम-सम-सम् महा ६, ५८.
 व्योम-साम्य-स्य: महा ६, ७.
 व्योम-स्थ-स्थ: त्रिवा २, ४१;
 -स्थम् महा ५, ४५.
 व्योम-स्थान-नम् त्रिवा २, १४१.
 व्योमां(म-अं)श-शा: पै २, ७; -शे
 त्रिवा २, १४४.
 व्योमा(म-आ)कार-रम् १योत
 ९९.
 व्योमा(म-आ)दि-
 व्योमादि-क-कम् वरा ३, १८.
 व्योमा(म-अ)निला(ल-अ)नल-
 जला(ल-अ)न-ज्ञानाम् त्रिवा
 १, ९.
 व्योमा(म-अ)न्तर--रे ए ४; ८^d.
 व्योमा(म-अ)म्बुज-जे योशि ६,
 ४८.
 व्रं^e रापू ४, ५०^f.
 √व्रजू^g(बधा.), व्रजते नाद १५; व्रजति
 क १, २, २१; ध्या ६७; ८६; योन्
 ३८; ५९; यो १, १४; सार २२१:
 १०; रु १; व्रजन्ते पत्र ३, ९;
 व्रजन्ति छां ८, १, ६^h; अशि ४,
 १६; योरा २०; वट्ट ३१६: ९;
 शि ६, १८४; १९१; व्रजन्तु रु
 २९ⁱ; व्रज छां ६, १४, २; त्रिवि
 ९, १५; अक्ष ५, ७; सार २८६:
 १; गी १८, ६६; व्रजेत् गौ ३,

१९; ४, ८६; कौ २, १५^k; नु
 २३^l; नाद १६; ३२; ब्रवि ५९;
 नाप ४, ७; ५, १२; ६, १; १७;
 त्रिवा २, १६२; योशि २, १; संन्या
 २, ६०; ६१; ८९; ९४; यो १,
 १४; ४५; ४६; २, ३९; ४०; जाद
 ४, ५०; गोपू २२; इ १३: १६;
 १४: १२; १७: २२; १९: १३; शि
 २, ३१; ४, ५५; ५, ४३; ६, ९५;
 १९४; ७, २८; ३७; ६८; ९७;
 भव ५, २३; गी २, ५४.
 व्रजत्-जत: नाप ३, ६६; -जतो:
 छां ८, ८, ४; -जन् छां ४, १६, ३;
 ५; नाप ५, १२; अन्न १, ३४;
 -जन्तम् शि ७, ६.
 व्रजन्ती-न्तीम् पा ९, ७.
 १व्रज^m-ज: वृ ६, ४, २३ⁿ.
 २व्रज^o-जम् सार २४३: १२; -जे
 सार २४८: १४; २७९: २३.
 व्रज-गोप-कन्या-न्या: सार २४८:
 १३.
 व्रज-ध्याना((न-आ)पक्ष-ज्ञा:
 सार २७९: १९.
 व्रज-ना(यक>)यिका-काम् सार
 २२८: २२.
 व्रज-परिणाह-ह: सार २७८:
 ११.
 व्रज-मण्डल-लम् सार २७३: २२;
 -ले सार २२७: १५; २५४: २२;
 २५८: १७; २७४: ५; २७५:
 ९; ११.
 व्रजमण्डलो(ल-उ)पासक-का:
 सार २७८: १५; २७९: २३.
 व्रज-लीला-ला सार २२१: ११;
 २५०: ४; -ला: सार २६२: १;

-लाम् सार २८६: ६; -लाया:
 सार २३९: १७; -लायाम् सार
 २४०: ७; २०; २४१: ३; २४९:
 ३; २५१: ७; २६०: ३.
 व्रज-लोक-क: सार २३०: १९.
 -के सार २२७: १५; २५४: २०;
 २६१: २१.
 व्रज-वास-सम् सार २७८: १४;
 -से सार २८६: १.
 व्रज-वासि(न्>)नी-नी सार
 २५७: ६; २८९: १४.
 व्रज-सङ्ग-
 व्रजसङ्गिन्-ङ्गिन: सार २४६:
 १०.
 व्रज-स्त्री-स्त्रिय: गोउ १.
 व्रज-स्त्री-जन-न: गोउ ४४^p.
 व्रजा(ज-अ)तिसाधन-ने सार
 २७८: १९.
 व्रजा(ज-आ)विर्भाव-भावित-
 ताय सार २७७: १७.
 व्रजे(ज-ई)श्वरी-री सार २२९:
 २; २६२: ५; २७४: १७; २७६:
 ७; २९; २३; २८३: १९; २८५:
 ५; २८६: ९; २८८: ३; २२;
 २८९: ११; -रीम् सार २२८:
 २१; २३; २७३: १३; २७५:
 १०; २८५: ४; २८६: २; २८९:
 ६; २९१: ४; -र्या सार २७४:
 १४; २७५: १.
 १व्रजानाम्^q अशि ४, १८.
 व्रज^r-ण: मै ३, ५^m.
 व्रज-युक्त-कम् रुजा १, १२.
 व्रत-√वृⁿ(बधा.) द.
 √व्रश्च्
 रवृक^h-क: छां ६, ९, ३; १०, २.

a) =ह्रं-बीजाक्षर- । b) °स्वरां बिन्दुमेलनरूपाम् इति पा.१ यनि. शोध: द. [तु. तान्त्रि. (गपू. [पृ५७८] 'बिन्दुमेलनरूप- > -पाम्' इत्यत्र सस्थ. यनि. शोध: कर्तव्य:)] । c) ऋ ४, ४०, ५ । d) हिमा° इति अञ्जा. । e) =बीजमन्त्रविशेष- । f) 'वृं' इति निसा. संटि., आन. । g) 'व्रजेयु:' इति अञ्जा. । h) वैप१ यद्र. । i) 'व्रज:' इति निसा. ? । j) व्यु. ? =देशविशेष- । k) °जनसं° इति पा.१ यनि. शोध: ? । l) निसा. ? 'प्रजानत्- > -नन्' इति शोध: द. (तु. आन.) । m) पा ? 'प्रमाद:' इति शोध: द. (तु. मैत्रि ३, ५) ।

वृको(क-उ)दर^१- -रः गी१, १५.
 वृक्ण- -क्णः वृ ३, ९, २८, ४^३; ६.
 वृश्चिक^१- -काः इ १९:८; -कानाम्
 गरु २३-२४; -कैः योशि १, ३३.
 वृश्चिक-दर्शन- -नात् इ १९:७.
 व्रश्चन- -नम् मै १, ७^१; मैत्रि १, ४.
 व्रात^०-
 व्रात-पति- -त्ये ग १५.
 व्रात्य^०- -त्यः प्र २, ११; मन्त्रि
 ११^१; चू ११; -त्यस्य १संन्या
 २, ६४; -त्यानाम् १संन्या २, ४.
 व्रीं^० सार २४७. १६.
 व्रीहि^०- -हयः गु ३०; -हिः वृ ५, ६,
 १; स्क ६; नाउ १, २२; -हीन् वृ
 ६, ४, १३; -हेः छां ३, १४, ३.
 व्रीहि-यव- -वाः छां ५, १०, ६; वृ
 ६, ३, १३; -वौ मुं २, १, ७.

श

शं^० रार २, १०३; सौ १, २; आथ
 ३९६:३; वध ३६:६; हंषो १२.
 शं-कार- -०र अक्ष ५.
 शंयोस्(>!) ✓शम् द.
 ✓शंस्, शंसति छां १, १, ९; शंसन्ति तै
 १, ८, १; जाद २, ४; शंससि गी
 ५, १; शंसताम् राष्ट्र २, ०; शंस
 अन्य १.
 शस्यते सि २, ८.
 शंसत्- -सन्तम् मन्त्रि ९; चू ९.
 शस्त- -स्तम् १योत ४८; शां १, ७.

५; यो २, ४७.
 शशस्त्र^१- -स्त्राणि तै १, ८, १.
 शस्त्र-कोविद- -दाः मन्त्रि ९^१;
 चू ९^१.
 शस्यमान- -नम् मना २, १२, २१^१.
 श(स्य>)स्या- -स्यया वृ ३, १,
 १०; -स्या वृ ३, १, ७; १०^१.
 ✓शक्(*वधा.) शकेमहि क १, ३, २.
 श्चि^१शग्धि मना १, ९; वध ६३:२३.
 शक्यसे गी ११, ८.
 शक्नोति कौ २, ५^३; नाप ३, २६;
 गी ५, २३; शक्नुवते आषे ७:७;
 शक्नोषि गी १२, ९; शक्नोमि अव्य
 ३; रुजा १, १; गी १, ३०; शक्नुमः
 नृउ २, १९; अशक्नोत् ऐ ३,
 ३-९; शक्नुयात् वृ २, ४, ७-९;
 छ, ५, ८-१०; कौ ३, २; शक्नुयुः
 यो २, १०.
 शशाक के ३, ६; १०; शेकुः पै १,
 २८; शक्षयमि अव्य ३; शक्षयामः
 वृ ६, १, १३; अशकत् क २, ३,
 ४; मैत्रि २, ६^१; अव्य ४; अशकत्
 छां ५, १, ८-११; वृ ६, १, ८-१२;
 अशकम् के ३, ६; १०; छां ५, ३, ५.
 शक्यते मै छ, ४, ९; मैत्रि ६, ३४;
 ससा १, ४२; ते १, २१; श २८^१;
 पै २, ५३; अत्र छ, ९०; जाद ६,
 ५; सु २, २, ४३; भव ३, ७:३१;
 शक्यन्ते त्रिवा २, ७६.
 शक्त, क्ता- -क्तः १योत ४९; -क्तस्य
 सांस् १, ११७; सांका ९: -क्ता

१संन्या २, २९.
 शक्ति^१- -क्तयः राष्ट्र २, ३; १संन्या
 २, २६; भा ४; १०; १२; रुजा
 २, ११; पं १; सार २३९:५;
 गार ४०६:११; -क्तिः श्वे ६, ८;
 हं १०; वृजा २, ७:९; ३; १; काल्य
 ४; शु १, १८; २, ५^३; ध्या ८८;
 १०४^१; नाप ८, १; योक् ६२;
 ७२; रार २, २०; ४२; ५२; ६१;
 ८२; ९९; शां १, ४; ७, ३७; महा ६,
 ६२; योशि १, १६९; ३, २; ५, ६;
 ६, १८; ४८; ४९; ५५; सू ३; त्रिता
 १, २०; ४२; छ, ३४; भा २; यो
 १, ७; ८२; ८६; ३, ७; पं २; त्रि
 १४^१; वरा ५, ५१; ह ६; दत्ता
 १, ४-६; ३; सौ १, १; ३, १; सर
 १, ४; २, २; ३, १९; २२; व ६;
 तु ९; सूता १, ३०^१; तुल ७०:
 २; नापू छ, १७; लां २१३:३;
 कृपु २२; लिं ३१०: १४; आथ
 ३९४: ४^०; ८^०; काम ३; १४;
 २२; कालि ४०३: १२; गु ६७;
 ८१; व ४२६: ३; ४२७: ९;
 ४३६: १; ४५९: १७; ४६३:
 १७; तारा ८३: १४; वउ ३, ५३;
 भव १, १३; २, १४; ४५; -क्तिभिः
 त्रिता ४, ३०; -क्तिम् वृजा ४, १९;
 ६, ७; नृपू ३, १; २^१; त्रिवि ७,
 ४८; राष्ट्र ५, २; शां १, ७, १८;
 महा ४, १००; योशि ३, १०; ६,
 १९; त्रिता १, २०^१; ३९; ६२^१;

a) =क्रीटविशेष-, राशिविशेष- । b) 'स्थानम्' इति निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.) । c) वैप१
 यद्र. । d) तु. गपू. पृ५८९f । e) =बीजमन्त्रविशेष- । f) =स्तोत्र- । g) शा^० इति निसा? (तु. J.C.) यनि. शोधः
 द्र. । h) शा^० इति आन. संटि. । i) ऋ ४, ५८, २ । j) ऋ ८, ६१, १३ । k) 'अविशत्' इति मै २, ६ । l) केनाप्यश^०
 इति निसा. अज्या. च पा. ? केनाथ श^० इति वा केनापि श^० (तु. अज्या. संटि.) इति वा शोधः द्र. । m) वया. वैप१
 यद्र. । इह =सामर्थ्ये-, देवीविशेष-, नाडीविशेष-, बीजाक्षरविशेष-, शस्त्रविशेष- । सामर्थ्याथार्थान्यत्र वा. अर्थः ? ।
 n) पा. ? 'सुधुमन्-> -स्त्रि' इति शोधः द्र. [एतदनु गपू. (पृ५९१) 'ब्रह्मरन्ध्र-> -न्ध्रेषु' इत्यत्र सस्थ. ०न्ध्रे इति
 शोधः कर्तव्यः] । o) गपू. (पृ२३६) सस्थ. 'कौमारी-> -री' इत्यत्र 'कौमारी-शक्ति-> -क्तिः' इति शोधः कर्तव्यः ।
 p) गपू. (पृ३०१) सस्थ. 'चामुण्डा-> -ण्डा' इत्यत्र 'चामुण्डा-शक्ति-> -क्तिः' इति शोधः कर्तव्यः । q) ०क्तिः
 इति अज्या. । r) 'भाकम्' इति अज्या. ।

योरा १८: शि १,६; चक्र ११;
वपू २, २; वउ ३, ४६; -क्तिषु
२कौल ११; -क्ती: रापू ५, ६;
-क्ते: यो ३, ४; वरा ५, ५५; -क्त्या
श्वे २, २^१; ध्या ८६; योचू ५९;
१०७; गोउ २८; -क्त्याम् वउ
३, ४७^१।

शाक्त,क्ता- -क्त: पी ४२२ :
१८; १कौल ६ : २; २कौल ७;
-क्तम् व ५; काम ११-१२; -क्ता:
अञ् १२; सार २७३ : १२;
-क्तासु कालि ४०२ : ११०; -क्ते
पारा १; -क्तेन वृजा २, १३.

शाक्त-सौर- -रेयु राउ
५, ४.

शक्ति-क- -कम् ब्रवि ६०^१; रार
२, ३६.

शक्तिका-

शक्तिका-द्वय-पुटि(त>)-
ता- -ताम् गुषो ४२० : ७.

शक्ति-कपाल- -लेषु लि ३१०:
१७.

शक्ति-कर(र>)री- -री वृजा २, १.
शक्ति-कुण्ड- -ण्डे षो २३.

शक्ति-कूट- -टम् त्रिता १, ५०;
५४; ५८; काम १५; -टे आथ
३९९ : ७.

शक्ति-कूट-राज- -जम् त्रिता
१, ७४.

शक्ति-चक्र^१- -क्रम् काम २१.

शक्ति-चाल- -ल: यो १, २;
-लेन ध्या ८९; योचू ६३; यो १,
१८.

शक्ति-चालन- -नम् यो १, ७.

शक्तिचालन-युक्ति-
शक्तिचालनयुक्ति-
तस(>): योशि १, ८२.

शक्ति-तस(>): ब्रवि ७२; योशि
५, ३८; कुं २; कर १; शा १२;
शि ३, १; ७, ७९; कश्रु २, ३;
सांसू १, १३२; सांका १५.
शक्ति-त्रय- -यम् बि २२; सिशि
३८१ : १९.

शक्तित्रय-यु(त>)ता- -ता
तारा ८४ : ४.

शक्तित्रया(य-आ)त्मक- -क:
ग ६.

शक्ति-त्व- -त्वम् पारा १.
शक्ति-देह- -हे चक्र १०.

शक्ति-द्वय- -यम् सर ३, १७.
शक्तिद्वय-समन्वित- -तम्
पं ७.

शक्ति-पर्यय- -यात् महा २, ४.
शक्ति-प्रधान- -नम् २कौल
१०१^१.

शक्ति-प्रबोध- -धेन योशि ६,
२४.

शक्ति-प्रभाव- -वात् ध्या ६९;
योचू ४०.

शक्ति-बीज- -जम् त्रिता १, ६७;
काम ६.

शक्ति-भुज्- -भुक् काम २१.
शक्ति-भूत-हल्-लेखा- -खा
त्रिता १, ५९.

शक्ति-भेद- -दे सांसू २, २४.
शक्ति-मध्य- -ध्ये ब्रवि ६८;
शां १, ७, १८; यो ३, ४.

शक्ति-मन्मथ-शिवशक्ति-मन्म-
थो(थ-उ)वीं-माया-कामकला-
लय- -यम् त्रिता १, ७०.

शक्ति-मय- -यम् महा ५, १२८.
शक्ति-मिश्रित- -तात् कर १३.

शक्ति-युक्त- -क्त: काम २०;
गुषो ४२०:३; -क्तम् चक्र १२.

शक्ति-योग- -गात् श्वे ४, १.
शक्ति-रक्षण-संयुक्त- -क्तम् पं४.
शक्ति-रूढा- -द्धा योरा १८१^१.
शक्ति-रूप- -प: गुषो ४२०:१;
षो ७; -पम् योशि ५, १२.
शक्ति-विपर्यय- -यात् ब्रसू २,
३, ३८.

शक्ति-शिव-रूप-
शक्तिशिवरूपि(र>)णी-
-णीम् त्रिता २, २०.

शक्ति-शिवा(व-आ)द्या(श्या^१)-
-द्यम् (श्या^१) त्रिता १, ५८.

शक्ति-सेना-कल्पना- -ना रापू
१, १०.

शक्ति-सोमा(म-अ)मृत- -तेन
वृजा २, १६.

शक्ति-स्थान- -नम् वरा ५, ५३.
शक्ति-हर्षो(र्ष-उ)त्पादन- -नात्
काम २२.

शक्ति-हस्त- -स्तेन व ४५३:४.
शक्त्य(क्ति-अ)मृत-
शक्त्यमृत-मय- -य: वृजा
२, १.

शक्त्या(क्ति-आ)ख्य- -ख्यानि
त्रिता १, १०^१.

शक्त्या(क्ति-आ)त्मक- -कम्
त्रिता २, २०.

शक्त्या(क्ति-आ)त्मन्- -त्मना सी
१२^१; -स्मा हं २१.

शक्त्या(क्ति-आ)क्षर- -रम्
त्रिता २, २४.

शक्त्यु(क्ति-उ)द्भवा(व-अ)नु-
द्भव- -वाभ्याम् सांसू १, ११.

शक्त्यु(क्ति-ऊ)र्ध्व- -ध्वम् त्रिता
१, ६२.

शक्त्य,क्या- -क्य: क २, ३, १२;
वृजा ७, ७, गी ६, ३६; ११, ४८;

a) मा ११, २। b) 'शस्त्वा' इति पा.१ यनि. शोध: द्र.। c) °क्त: इति तान्त्रि.। d) 'सत्यकम्' इति
अख्या., 'शक्तिदम्' इति अख्या. संदि.। e) पा.१ शक्ति: प्रधा° इति द्विपद: शोध: द्र.। f) पा.१ 'शक्तिर ऊर्ध्वा' इति
द्विपद: शोध: द्र.। g) निसा.१ यनि. शोध: द्र. (तु. अख्या.)। h) 'शाक्तानि' इति अख्या.। i) °सना इति निसा.।

५३; ५४: क्यम् वृजा ६, १०; ७,
८; १यौत७: रुजा ३, १; वपं ३१२:
१७; भव १, ५३; गी ११, ४:
१८, ११; -क्या शि ५, १९.
शक्य-करण- -णात् सांस् १,
११७; सांका ९.
शक्र^१- -कः ना २: त्रिवि २, १६;
मवा २^१; नापू ५, १६; -क्रेण
सिदि ३८२: १९.
शक्र-क्रजीषिन्- -षिणाम् इ
१२: १.
शक्र-घ्राण- -णम् वउ ४, ३५.
शक्र-पुरी^१- -री राधा ४, ६.
शक्रा(क्र-अ)घ्न-यम-निर्कति-
वरुण-वायव्य-धनदे(द-ई)सान-
प्रजापति-नागेश- -शा: पी
४२२: १२.
शक्ष्यत्- -क्ष्यन् पा ८, ९.
शकट^{१०}- -टम् मै २, ३; मैत्रि २, ३;
अव ३, ६; -टस्य छां ४, १, ८.
शकर^०- -राणि वृ ३, ९, २८, ३.
शकल^{११}-
शकल^१- -०ल पं १; २८.
शकल्य^१- -०ल्य वृ ३, ९, १०-१८;
-ल्य: वृ ३, ९, १; १९; २६; ४, १,
७.
शकुन^०- -न: मैत्रि ६, ३४; सु २९४:
५९.
शकुनि^{१०}- -नि: छां ६, ८, २; कौ १, २;
-निभ्य: छां ५, २, १.
शकुनिक- -क: मैत्रि ६, २६.
शकृत्^१- -कृत् वृजा ३, ३४.
शक्त-, शक्ति-, शक्य- / शकृ द.
शक(न>)री^{११}- -र्य: छां २, १७,
१-२६.
शाकर^{१२}-
शाकर-रैवत- -ते कौ १, ५; मैत्रि

७, ५.
§^{११}श(गम>)ग्मा^१- -ग्माम् सर २, २.
/शङ्ख
श(ङ्ख>)ङ्का- -ङ्का महा २, ५८.
शङ्का-वत्- -वत: अध्या ५०.
शङ्कित- -त: रापू ४, २१.
शंकर- / शम् द.
शंकार- शं द.
शङ्कु^{१३}- -ङ्कुना छां २, २३, ३; -ङ्कुभि:
आषे ७: ६.
शङ्कु-कर्ण^{१४}- -र्णे शि ६, १९०.
शङ्ख^{१०}- -ङ्ख: रापू ४, ५४; कृ २६; -ङ्खम्
गोउ ५५^१; कृ २१: मु २९४:
१४; २९५: २; व ४२७: १२;
वउ ६, ७; गी १, १२; -ङ्खस्य वृ २,
४, ८^१; ४, ५, ९^१; -ङ्खा: गी १,
१३; -ङ्खान् गी १, १८; -ङ्खाय
त्रिवि ७, ४२; -ङ्खौ गी १,
१४.
शङ्ख-कुन्दे(न्द-इ)न्दु-वर्णा-
(र्ण-आ)भ- -भम् शि ५, ८.
शङ्ख-चक्र- -क्रम^१ कृपु २१; -क्रा-
भ्याम् सु २९४: १०; -क्रे रापू
५, ९.
शङ्खचक्र-ध(र>)रा- -राम् व
४२७: १५.
शङ्खचक्र-हस्त^१- -स्ताभ्याम् व
४५३: १७.
शङ्खचक्रा(क्र-अ)ङ्कित-हस्त-
-स्त: व ४४३: १०.
शङ्ख-चक्र-गदा-खङ्ग-धारिन्-
-रिणाम् नापू ४, २३.
शङ्ख-चक्र-गदा-धर- -राय आबो
१; नाउ २, ७.
शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-खङ्ग-श्रीवत्स-
कौस्तुभ-वनमालादि-किरीट-
कुण्डल-केयूर-हारा(र-अ)ङ्गद-

शाङ्गि(ङ्ग^१)-शर-नन्दक-पद्म-
वेणु-बर्हिपिच्छ-शेषा(ष-अ)-
नन्त-गरुड-विध्वक्सेन-ब्रह्मन्-
-ह्राण: नापू ६, १०.
शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-वनमाला-
धर- -रस्य गोउ ३१^{१३}.
शङ्ख-चक्र-गदा-पाणि- -०णे व
१०; गोच ६६: ९.
शङ्ख-चक्र-गदा(दा-अ)भय-ह-
(स्त>)स्ता- -स्ता गार ४०६:
२२.
शङ्ख-चक्र-गदा-शाङ्गि-रक्षि(त>)-
ता- -ताम् गोउ २७.
शङ्ख-चक्र-महामुद्रा-पुस्तका-
(क-आ)ढ्य- -ढ्यम् ह ६.
शङ्ख-चक्र-शाङ्गि-पद्म-गदा(दा-अ)-
न्वित- -तम् गोउ ४७.
शङ्ख-चक्रो(क्र-ऊ)ध्वंषुण्डा-
(रङ्-आ)दि-धारण- -णम्
सु २९४: ७
शङ्ख-चूर्ण- -र्णम् शि ६, ४८.
शङ्ख-तुल्य-फल- -लम् शि ६,
२६३.
शङ्ख-तोय- -येन वृजा ४, ८.
शङ्ख-दुन्दुभि-नाद- -दम् नाद
५२.
शङ्ख-धम- -धमस्य वृ २, ४, ८; ४,
५, ९.
शङ्ख-ध्वनि-निभ- -भ: जाद ६,
३६.
शङ्ख-नाद- -द: हं १६.
शङ्खनादा(द-आ)दि- -दिभि:
ध्या १०२.
शङ्ख-नामक- -क: ता २, ३.
शङ्ख-निधि^{१४}- -धये त्रिवि ७, ४३.
शङ्ख-पात्र- -त्रम् शि ६, २६०.
शङ्ख-मध्य-ग- -ग: ब्रवि ७.

अ) विप. वा नाप. वा वैप१ यद्र. । b) तैआ ३, १२, ७ । c) वैप१ यद्र. । d) व्यु. ? = ऋषिविशेष- ।
e) ऋ ९, ९६, १९ । f) = गोमय- । वैप१ यद्र. । g) °ङ् इति JC. । h) ऋ ५, ४३, ११ । i) °ङ्कः इति आन. ।
j) समाहारे द्वस. । k) तु. गपू. पृ४८२a । l) पा. ? यनि. शोष: द्र. । m) °लावृत: इति आन. ।

शङ्ख-वर्णक- -कम् ध्या ९६.
 शङ्खा(ङ्ख-आ)दि- -दिभिः राष्ट्र
 १,९.
 शङ्खा(ङ्ख-अ)रिष्टा(ष्ट-अ)भीति-ह-
 (स्त>)स्ता- -स्ताम् व ४२६:
 १२.
 शङ्खा(ङ्ख-अ)र्ध- -र्धेन शि ६, २६३.
 शङ्खि(न्)>नी^{१०} -नी ध्या ५३;
 योचू १७; २०; शां १, ४^१; भा
 १४; जाद ४, ८; १७; २२; वरा
 ५, २६; व ४३५: १२९^{१०}; न्या:
 जाद ४, ३८.
 शङ्खिनी-विवर- -रे त्रिवा २,
 ११८.
 शङ्खिन्या(नी-आख्य>)ख्या-
 -ख्या योशि ५, २५.
 २शङ्ख^{१०} -ङ्खः गरु ५.
 शङ्ख-क- -कः गरु १९.
 शङ्खक-दूत- -तः गरु १९.
 शञ्चि(ष्ठ>)ष्टा^१ -ड्या व ४३७:
 १९९^०.
 १श(चि>)ची^१ -चीभिः मना २,
 ४८९^१.
 २श(चि>)ची^{१०} -
 शची-पति- -तिः मना २, ४५९^१.
 शची-भोग- -गम् रा ४२४:
 १७.
 शट^१ -
 शाव्य^१ -
 शाव्याय(न>)नी^{११} -नी सु
 १, १, ३९.
 √शट् (*बधा.)
 शठ- -ठः अज २, २९; गी १८,
 २८; डाय श ३३; शा ३३९^१;

सु १, १, ५१९^१; -ठे अज २, २९.
 शारिडल^१ -
 शाण्डिल्य^१ - -ल्य शां १, ३, ३; ७,
 १६; १८; ३९; २-३, १; -ल्यः
 छां ३, १४, ४^१; वृ २, ६, १; ३; ४,
 ६, १; ३; ६, ५, ४; शां १, १; ४; २,
 १; ३, १^१; -ल्यम् सु १, १, ३५९^१;
 गार ४०७: ११; -ल्यात् वृ २,
 ६, १-३; ४, ६, १; ३: ६, ५, ४.
 शाण्डिली -
 शाण्डिली-पुत्र- -त्रः, -त्रात्
 वृ ६, ५, २.
 शत^१ - -तम् ई २; क २, ३, १६; तै २,
 ८, १; २^१-४^१; ऐ ४, ५९^१; छां ७,
 ८, १; वृ ४, ३, ३३^१; कौ १, ४^१;
 अना ३४^१; वृजा ६, १; इ १२:
 ११^१; -तम्-तम् प्र ३, ६; -ता वृ
 २, ५, १९९^०; ३, ९, १^१; ९^१;
 -तानि छां ४, २, १; २; गर्भ ५;
 -तेन मना १, ८^१; ९^१; ध्या ६२; ९^१व
 ४६४: ६; ७; -तैः भ २, २३;
 २५; सिशि ३८०: ६.
 शत-कल्प- -ल्पम् वृजा ३, ३४.
 शत-कुञ्ज-विद्रुम-लता- -ताः सार
 २३९: ४.
 शत-कृत्वस्(>)ः) सृ १२.
 शत-कोटि-वस्सर-काल- -लः
 त्रिवि ३, ५-७.
 शत-कोटि-शिखर- -रैः त्रिवि ७,
 २२.
 शत-क्रतु^१ - -तो मना २, ६९^१.
 शत-गुण- -णम् शि ६, ३०; २४८;
 २५१; -णैः भ २, २५.
 शत-चन्द्र-निभा(भ-आ)नन-

-नम् गरु ५.
 शत-त्रय- -यम् सिशि ३८२: ४.
 शत-दल-पद्म-पत्र- -त्रेषु राधा
 २, १.
 शत-दाय^१ - -यम् पा ७, ४.
 शत-धा प्र १, ८; धे ५, ९; मै ५, ८;
 मैत्रि ६, ८; वृ ८, ५; अक्षि १;
 सार २८४: ८; मैव २, ३६.
 शत-धार- -रः मना २, ६७९^१.
 शत-पत्रा(त्र-आ)ढ्य- -ढ्यम् ध्या
 ३४.
 शत-पथ- -थम् नाप ४, ३८.
 शत-पूर्व- -र्वान् दत्ता ३.
 ९^१शत-बाहु- -हुना मना १, ८; य
 ५, सु २९३: ५.
 शत-भार्या-समेत- -तस्य वृजा
 ६, १.
 शत-भिषज्^{११} - -वजे व ४३८: ८.
 ९^१शत-मूल(ल>)ला- -ला मना १,
 ७; व ४६४: ३.
 शत-योजना(न-आ)यत- -तम्
 सार २३९: १; १२.
 शत-रुद्र- -द्रेण वृजा ६, ५; ६; ७, १.
 शतरुद्रिय- -यम् कै २, ५^१;
 -येण जा ३.
 शत(त-अ)र्चस्- -र्चस्म नापू ४,
 ६९^१.
 शत-लक्ष- -क्षम् दे २०.
 शत-वत् ब्रसू ३, ४, ११.
 शत-वर्ष(>)र्षा^१ - -र्षाम् नाप ३,
 ६४.
 शत-विचक्ष(षा>)णा- -णाः प्रा
 १, १९^१.
 शत-शर- -रः इ १२: १.

- a) =नाडीविशेष- । b) =देवीविशेष- । c) व्युः =नागविशेष- । d) वैप १ यद्र. । e) ऋ ४, ३१, १ ।
 f) शौ ७, ५५, १ । g) व्युः =इन्द्राणी- । h) तैत्रा ३, ७, १४, ५ । i) व्युः =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । j) =तदा-
 ख्योपनिषद्विशेष- । k) 'अयत्ताय' इति वाध २, ८ । l) ऋ ४, २७, १ । m) 'षट्शतम्' इति आन. । n) °तश्च
 इति पा. १ यनि. शोषः ३. । o) ऋ ६, ४६, १८ । p) काठ ३५, ६ । q) मा १३, २०; २१ । r) =विप. । s) तैत्रा
 १०, ५, १ । t) उस. उप. √दा(दाने)+णः प्र. । u) तैत्रा १०, ६७ । v) तैत्रा १०, १, ८ । w) =नक्षत्रविशेष- ।
 x) तैत्रा १०, १, ७ । y) °द्री° इति आन. । z) ऋ ७, १००, ३ । a') उप.=१वर्ष- । b') शौ ६, ९६, १ ।

शत-शस्(>): जाद ४,५४; सार
 २२२: ११; २३३: ९; २३९:
 १३^१; १९; २४०: ९; १२; २४४:
 २०; २४८: १५; २४९: १५;
 २५२: १३; २५६: १८; २५८:
 ८; २३; २६२: १२; २६४: ६;
 २६७: ३; ८; २७०: २१; २७४:
 ६; १७; २७५: ६; २२; २३;
 २८५: २०; गी ११, ५.
 शत-संब्रह्म(र>)रा- -राभिः आश्र
 २^५.
 शत-संख्या- -ख्याया रा ४२४: २;
 ४२५: २; -ख्या महा ५, २०.
 शत-सहस्र- -स्रम् ता३, ९; दत्ता३:
 -स्त्राणि अशि ७, ६; राउ ५, ४^३;
 पै ४, २३; महा ६, ८३; ता३, ९.
 शतसहस्र-कु(ञ>)जा- -जा
 सार २८३: १५.
 शतसहस्र-कोटि-
 शतसहस्रकोटि-शस(>):
 सार २७७: १४.
 शतसहस्र-धा सार २४८: १६.
 शतसहस्र-शस(>): अञ १२.
 शता(त-अ)क्षर(>)री- -री त्रिता
 १, ९.
 १^१शता(त-अ)ङ्क(र>)रा- -रा मना
 १, ७; व ४६४: ३.
 शता(त-अ)धि(क>)का- -कया
 ब्रस् ४, २; १७; -का: कृ १३^१.
 शता(त-अ)न्त- -न्ते यो २, ६.
 शता(त-अ)पर- -रान् दत्ता ३.
 शता(त-अ)ब्द- -ब्दम् ध्या ३४^०.
 १शता(त-अ)युस्^१-
 शतायुः-कल्पना- -नया सी १४.
 २शता(त-अ)युस्^१- -युषः क १,
 १, २३.

शता(त-अ)र-चक्र- -क्रम त्रिवि ७,
 १०.
 शता(त-अ)र्धा(धि-अ)र- -रम् श्रे
 १, ४; नाप ९, ३.
 शता(त-अ)वयवा(व-अ)न्वित-
 -तः तु २.
 शता(त-अ)वयवो(व-अ)पेत- -तः
 नाप ८, १.
 शता(त-अ)हाव- -वः इ १२: १^१.
 शते(त-इ)षुधि- -०धे नी २, १०^१.
 शतकुबेरः^{११} आच १०.
 शतकुम्भ^{१२}-
 शतकुम्भ^{१३}-
 शतकुम्भ-म(य>)यी- -यीम्
 शि ६, ११६.
 शत्रु^१- -त्रवः १^१व ४६१: ४; ४६४:
 २१; -त्रवे नी ३, ८; -त्रुः ते ४,
 १९; अञ ५, २०; व ४^१९: ५;
 पिब्र ५, ६; गी १६, १४; -त्रुभिः
 जाद १, १७; -त्रुम् व ४^१९: १७;
 गी ३, ४३; -त्रुणाम् कृ १८; व
 ४४९: ९; ४५७: १८; -त्रुन् मना
 १, ११९^१; रार २, ६९; त्रिता ३,
 २१; २५; वरा २, ६५; व ४२८:
 ९; ११; १२; १४; १६; १८; २२;
 ४२९: १; ३; ५; ४३४: १७;
 ४५८: १; २०; २१; ४६०: ३^१०^१;
 १६९^१; १७९^१; गी ११, ३३; -त्रौ
 गी १२, १८.
 शत्रु-कार्य- -र्यम् व ४^१७: १७;
 -र्येषु योशि ६, ६८.
 शत्रु-क्षया(य-अ)र्थ- -र्थे व ४^१९:
 १८.
 शत्रु-गति-स्तम्भन- -नम् व ४^१७:
 १७.
 शत्रु-म^१- -मः राउ २, १; ता २, २;

३, ४; ८; -मम् रार १, ७; -म्राय
 रार २, १०३.
 शत्रुम-भरत- -तौ राष्ट्र ४, ३२.
 शत्रुघ्ना(म-अ)धस(>): राष्ट्र
 ३३.
 शत्रु-जिच्-चक्र- -क्रम चक ८.
 शत्रु-जिह्वा-वज्र- -ज्रे जी ४२१: ३.
 शत्रु-श्व- -स्वे गी ६, ६.
 शत्रु-प्राणिन्- -णिनाम् व ४४९: ७.
 शत्रु-बुद्धि-स्तम्भन- -नम् व
 ४^१७: १६.
 शत्रु-मित्र-पुत्रा(त्र-आ)दि- -दि:
 ते ६, १६.
 शत्रु-मित्र-समान- -इश्- -इक्
 महा ६, ६४.
 शत्रु-मुख-स्तम्भन- -नम् व
 ४^१७: १६; हंषो ७.
 शत्रु-वन् गी ६, ६.
 √शत्रून्, शत्रूयते पिब्र ५, ६.
 शनि^{११५}-
 शनि-राहु-केतु(तु-उ)रग-रक्षो-यक्ष-
 नर-विहग-शरभे(भ-इ)भा-
 (भ-आ)दि- -दयः मैत्रि ७, ६.
 शनैस्(>): शा^१ल्लु^१; नाद १९; ध्या ९३;
 १००; १योत ३८^१; ३९; ४३;
 ४३; योचूद्द; शां १, ४; १, ७, ३;
 १४; महा ५, १२६; १७९; योशि
 १, ४०; ६, ७; अञ ३, ४; ८; ५,
 १०३; यो १, २४-२६; ३०;
 ३५; २, ३२; ३९; ४६; जाद ६,
 ७; नैः-नैः लु ३; २१; ध्या ९३,
 १४; १योत ३७; ५२; नाप ३, ५३;
 त्रिब्रा २, ९६; योचू ११८; त्रिवि ५,
 १२; शां १, ७, ६; योशि १, ४०;
 ३, ९; यो १, ५०; २, २७; ३९;
 जाद ५, ९; ६, ३३; गी ६, २५.
 शनकैस(>):^१ मैत्रि ६, २८; कुं १८.

a) तैआ १०, १, ७. b) °क्यः इति निसा., °क्याः इति अख्या. च पा. इ यनि. शोधः द्र. । c) °रम् इति
 निसा. । d) कस. । e) बस. । f) पा. विसर्गलोपश्चान्दसः द्र. । g) मा १६, १३ । h) पा. ततः कुं इति शोधः द्र. ।
 i) व्यु. ? = सुवर्ण- । j) वैप १ यद्र. । k) अ १०, ८४, ७. l) अ ३, ४७, २. m) अ १०, ८३, ३. n) अ १०, ८४, २ ।
 o) १०, ८४, ३ । p) व्यु. ? = ग्रहविशेष- । q) तु. गप्. पृ १७३s, t, u ।

अनेस्-वर^{१०} - राय व ४३७:१८.
 ✓शप् (बधा.), शपति वृ ६, ४, १२;
 शपे सूता १, ४३; ६, १२; शपामि
 व ४६४: १३; १४; ऽशपात्
 सूता २, १२; १३; अशपन् वृजा
 ६, १; शपेत् कुं १२; करु ४;
 कश्चु ३, ४.
 शपत् - पतः सूता २, १३९^b.
 शपथ - येन व ४६४: १४.
 शपमान - नम् वा ७.
 शप - पम् वृजा ६, १; इ १९: ९;
 काम १२.
 श्शफ - फा: गरु ११९^d.
 श्शफ (>)फा - फाभि: छाग २४:
 २२.
 श्शब (>)री - रीम् राप् ४, १९.
 श्शबल - लम् छां ८, १३, १; वल २,
 ३१; लात् छां ८, १३, १.
 श्शब्द - ष्ट: वृ १, ५, ३; २, १, १०; ४,
 ७-९; ४, ५, ८-१०; मै ६, २२^३;
 २३; कौ ३, ५; ४, १२९^६; नाद
 ४७^b; ब्रवि १३; शारी १; ८;
 १संन्या २, १५; करु ३१-३२;
 सौ २, १०; १प्र ३२: १; २प्र ३५:
 ८; पा १, ६; सांसू १, १०१; ५,
 ५७; सांका ५१; ब्रसू १, ३, २८;
 ३, ४, ३१; गी १, १३; ७, ८;
 ष्टम् का ३, २; ७^३; ८; पहं
 २; अना १५; २०; ध्या ३;
 नाप ५, १; ष्टस्य कौ ४, ५^३;
 वृजा ७, ४; ध्या ३; मं ५, १, ४^३;
 योशि ६, २१^३; ब्रसू ३, ३, ५२;
 ष्टा: स्व ६२: १; ष्टात् ब्रसू
 १, ३, २४; २, १, ४; ३, ४, १५;
 ३, १, २५; ३, ४, १; ४, २, १;
 ४, २२^३; ष्टात् क २, १, ३;

वृ २, ४, ७-९; ३, २, ६; ४, ४,
 २१; ५, ८-१०; कौ १, ७; ३,
 ४^३; ६; सुवा ४; अज ४, ३७;
 वरा ४, ३३; शा २३; २प्र ३२:
 ३; ७; शि ७, ८०; ष्टानाम् वृ
 २, ४, ११; ४, ५, १२; सुवा ४;
 १३; दे १७; ष्टे ब्रसू ३, ४, १७;
 ष्टेन वृ ३, २, ६; मैत्रि ६, २२;
 गोपू १६; सार २३७: ९; ष्टेभ्य:
 ब्रसू २, ३, ६; ष्टै: कौ ३, ३^३;
 ४, १९; यो ३, २१; सर ३, ९.
 शाब्द - ष्ट: वृ २, ५, ९.
 शब्द-क - कम् ते ५, १०२.
 शब्द-काल-लय - येन मं २, २, ४.
 शब्द-गर्भ (>)र्भा - भाम् यो १,
 १७.
 शब्द-गुण - ण: त्रिब्रा १, ९.
 शब्द-ग्रहण - णम् नाप ६, १.
 शब्द-जला (ल-आ)श्रया (य-आ)-
 दि - दिभि: श्वे २, १०^३; भव
 ३, २३.
 शब्द-ज्ञाना (न-आ)नुपातिन् - ती
 योसू १, ९.
 शब्द-ध्वनि - न्या शां ३, १.
 शब्द-नित्यत्व - स्वम् सांसू ५, ५८.
 शब्द-बीज-रसो (स-उ)न्मु (ख >)-
 खी - खीम् महा ५, १४७.
 शब्द-ब्रह्मन् - ह्य मैत्रि ६, २२; ब्रवि
 १७; योशि ३, २; त्रिता ५, १७;
 अद्वैमा ४; अबि १७; गी ६, ४४;
 ह्यणि मैत्रि ६, २२; ब्रवि १७;
 त्रिता ५, १७; अबि १७.
 शब्द-ब्रह्म-म (य >)यी - यी सी
 ६.
 शब्द-म (य >)यी - यी महा ४, ९.
 शब्द-माया (या-आ)वृत् - त: ब्रवि

१५; त्रिता ५, १५; अबि १५.
 शब्द-मूल -
 शब्दमूल-स्व - स्वात् ब्रसू २,
 १, २७.
 शब्द-वत् - वान् गोड ६.
 शब्द-वादिन् - दिन: मैत्रि ६, २२;
 ते १, ४५.
 शब्द-विद्ध-विवर्जित - त: ते ४,
 ७६.
 शब्द-विवर्जित - त: ते १, २१.
 शब्द-विशेष - पात् ब्रसू १, २, ५.
 शब्द-विष (य >)या - या सांका
 ३४.
 शब्द-व्यञ्जन-वर्जित - तम् अना
 ४.
 शब्द-श्रवण - णम् २प्र ३३: ८.
 शब्द-स्पर्श - शौ शारी १.
 शब्दस्पर्श-स्वरूप - पाभ्याम्
 महा ५, १४९.
 शब्दस्पर्शा (र्षा-आ)दि - द्य: मै
 ४, २; मैत्रि ४, २; मैत्रे १, ४, ११^३.
 शब्द-स्पर्श-रस-रूप-गन्ध -
 वर्जित - त: २आ ३.
 शब्द-स्पर्श-रूप - पाणि शारी १.
 शब्द-स्पर्श-रूप-रस - सा: शारी १.
 शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध - न्धा:
 मना २, ६६^३; ससा १, १९;
 त्रिब्रा १, ५-६; पै २, १६; शारी
 १^३; सू १७; भा २२^म.
 शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध-वर्जित -
 त: १आ १.
 शब्द-हीन - न: ते ५, ८.
 शब्दा (ष्ट-आ)कर्षि (न् >)णी - णी
 आथ ३९५: ४.
 शब्दा (ष्ट-आ)काश - शाभ्याम्
 गोड ६.

a) =ग्रहविशेष-। b) तैत्रा ३, ७, ६, २३। c) वैप १ यद्र.। d) मा १२, ४। e) नैप्र. =स्व (र्व >)र्षा-१
 वैतु. ब. पा. १ 'शफरी->रीभि:' इति शोध: इति?। f) व्यु. १। g) 'प्रतिश्रुत्काम्यम्' इति शांआ ६, १३।
 h) 'ष्टम्' इति अज्या.। i) सकृत्, ष्टा: इति शांआ ५, ४। j) वैतु. शंदी, नादी. अन्वयथाऽवग्रह:। k) 'श्रीमया:
 इति निसा. १ यनि. शोध: द. (तु. अज्या.)। l) तैत्रा १०, ५५, १। m) 'शब्दादितन्मात्रा:' इति तान्त्रि.।

शब्दा(ब्द-अ)क्षर—रम् ब्रवि १६;
अवि १६.

शब्दा(ब्द-अ)तीत—तः अद्वै ९.

शब्दा(ब्द-आ)दि—दयः वरा १, ३;
-दिभ्यः ब्रसू १, २, २६; -दिसु भव
३, २७; -दीन् ससा १, ७; ८; १०;
गी४, २६; १८, १५; -द्वेः अध्या ५.
शब्दादि-भेद—दात् ब्रसू ३, ३,
५८.

शब्दादि-रीति—रथै पा ८, १०.

शब्दादि-विषय—यान् अना ५.

शब्दादिविषय—संकल्पा-

(ल्प-आ)दि—दीन् ससा १, १४^b.

शब्दाद्य(दि-अ)भाव—वे ससा
१, ८.

शब्दाद्य(दि-अ)र्थ—विषय—ग्रह-
ण—ज्ञान—नम् पै २, ३५.

शब्दा(ब्द-अ)नुमान—नाभ्याम्
ब्रसू ३, ३, ३१.

शब्दा(ब्द-अ)न्तर—रात् ब्रसू २,
१, १८.

शब्दा(ब्द-अ)र्ण—र्णम् त्रिता ५,
१६.

शब्दा(ब्द-अ)र्थ—र्थयोः सांसू ५,
३७.

शब्दार्थ-भावन—नम् अक्षि
२६०.

शब्दा(ब्द-अ)र्थ-ज्ञान-विकल्प—
रथैः योसू १, ४२.

शब्दा(ब्द-अ)र्थ-प्रत्यय—यानाम्
योसू ३, १७.

शब्दो(ब्द-उ)पलब्धि—उद्यो गर्भे १.

?शब्दान्तरात्मनित्यः^d पा १, ६.

√शम्>शाम्, शमि, शामि, शाम्यति
नाप ३, ३७; महा २, ६४; ३, ६;
५, ११०; अत्र ४, ७९; ५, ४५;
शाम्येत् १अव १०.

शशाम महा २, ७६; अत्र ३, १०.

शमयामः मैत्रि ७, ८; शमयन्तु

मना २, ६४^g; शमय-शमय चा

५; वपं ३१२: १७; व ४२९:

१४; ४३५: १२; ४६२: २०;

४६५: ९; शमयेत् गौ ३, ४४.

शमयिष्यामि वृजा ६, ५.

शामय-शामय तां २१५: २२.

शम्^h तै शांⁱ ११; १२, ११^h;

२प्र ३३: ६^h; ३६: २३^h;

व ४३७: १७^h; विद्या शांⁱ ११;

१कौल शां^o.

शं-योस(>:; २) ग शां^h.

शंयोर्-वाक^l—कः प्रा

३-४, १.

शं-कर^l—०२ योशि १-२, १; यो

३, १; -रः श १५; कृपु १४; गी

१०, २३; -रम् वृपू १, १२; १थोत्

९९; राउ ३, २; र्ह ६; सिसि

३८०: ५; -रस्य रशिसं २५;

-राय भ १, ६; शि ६, ३१.

शांकर—रम् शि ५, ११.

शांकरी^m—००रि

व ४३१: १६; १८; ४३२: १८;

४३६: १८; -री नाद १०.

शांकरीय—यम् ते

६, १०८ⁿ.

शंकर-बल(भ>)भा—भा

व ४२७: ९.

शं-तम, मा—मस्^o मना २,
२५^h; रशिसं ३१^h; -^hभया
श्वे ३, ५; नी १, ८.

शं-मु^l—भवे वृजा ४, २९; सिद्ध

१०३: -मुः मै ५, ८; मैत्रि ६, ८;

७, ७; अ ३; शु १, ७; पै २, १८;

नी २, ११^h; -सुम् पं २४; हे

१४; -०भो वृजा ६, ११; -भो:

पं १८; शि २, २०; ६, ६; सिशि

३८१: २२.

शांभव—वः भ २, २८;

-वम् काला १०; ते १, १; वरा

५, ५३; जावा १८; स ३७८: ३;

काम ११; १२; १६; २कौल ५^h.

शांभवी^l—००वि

व ४३६: १८; -वी मं १, ३, ५, २,

१, ८^l; अता १२; योशि ६, १८;

व ६; लि ३१०: ११; व ४२७:

८; -वीम् पी ४२१: २.

शांभवी-

दीक्षा—क्षासु कालि ४०२: ११^h.

शांभवी-

दीक्षित—तः कामे ७.

शांभवी-मुद्रा-

(दा-अ)न्वित—तम् मं ३, १, २.

शांभवी-रूप-

-पम् लिं ३१०: ११; १कौल ३: ५.

शांभवी-

लक्षण—णम् मं २, १, ५.

शांभवी-

विग्रह—हः लिं ३११: १.

शांभव-स्थान—नम्

योशि ५, १६.

a) ०याः इति आन. । b) ०षयान् सं^o इति आन., ०ल्पादिभ^o इति श्रव्या. । c) ०नाम् इति श्रव्या. ।

d) पा. ? 'शब्दान्तरात्माऽऽत्मनि यः' इति पदद्वयपरः श्लोचः ? । e) तैआद्या १०, ६४ । f) वैपश् यद्र. । g) ऋ १, ९०,

९^h । h) =व्याहृतिविशेष— । i) ऋ १०, ९, ४ । j) ऋ ८, १८, ९^h । k) खि १०, १९१, १५ । l) =देवताविशेषस्य

विष. वा नाप. वा । m) =देवीविशेष— वा मात्राविशेष— वा । n) 'शैवमेतत्' इति श्रव्या. संटि. । o) वा. किवि. द्र. ।

p) ऋ १, ४३, १ । q) मा १६, २ । r) =शिव— वा बीजाक्षरविशेष— वा । s) 'सुमनाः' इति मा १६, १३ । t) पा. ?

०वः इति श्लोचः द्र. । u) =देवीविशेष— वा विद्याविशेष— वा मुद्राविशेष— वा । v) 'ज्ञान्तो भवी' इति निसा. ।

w) 'शाम्भवं(व)दीक्षासुरतः' इति तान्त्रि. ।

शंभु-चन्द्र- -न्द्रौ काम १३.

शंभु-प्रधान-

शंभुप्रधान-त्व- -त्वात्

काम १५.

शम- -मः तै १, ९, १; गौ ४, ८६;

मना २, १०९^a; ७८९^b; ७९^c९^d;

ते५, ७९; नाप ३, २१; ४, ११; महा

४, ३; कृ १६; गी ६, ३; १०, ४;

१८, ४२; -मम् गौ ४, ८६; ते५,

७८; महा ५, १११; ६, ४६; अन्न

१, ४१; सु २, २, १७; गी ११,

२४; -मे मना २, ७८९^b; ७९^d;

-मेन मना २, ७९^c९^d; महा ४,

३१; इ १२: ४.

शम-दम-प्राय- -यैः महा ५,

१०४.

शम-दमा(म-आ)दि-दिव्य-श-

क्त्या(कि-आ)चरण- -णे निर्वा

२९८: ६^f.

शम-दमा(म-आ)दि-षड्-

गुण-पूर्ण- -र्णाय अता १.

शम-दमा(म-आ)दि-संपन्न-

-न्नः वसू २६.

शम-दमा(म-आ)द्यु(दि-उ)-

पेत- -तः वसू ३, ४, २७.

शम-वत्- -वान् महा ४, ३४;

५, ९४.

शम-शालिन्- -लिनि महा ४,

३०.

शम-समा(म-आ)स्मन्- -रमनि

अन्न ५, ११३^e.

शम-समा(म-आ)भास- -सः

अन्न ५, ९३.

शम-समा(म-आ)भोग- -नो

महा ४, १२२.

शमा(म-आ)दिक- -कम् ते ६,

३६.

शमा(म-आ)दि-गुण-दायि-

(न्>)नी- -नी सर ३, ५.

शमा(म-आ)दि-षट्क-शून्या-

(न्य-आ)स्मन्- -स्मा ते४, ७२.

शमा(म-आ)दि-षट्क-

संपत्ति- -त्तिः वरा २, ४.

शमा(म-अ)न्वित- -ताय मुं १;

२, १३.

√शमाय्, शमायन्तु तै १, ४, २.

शमो(म-उ)दित-श्री- -श्रीः

अन्न ४, ९१.

शमन्^h- -नः नि ६; २०.

शमयित्- -ता मना २, ८०९ⁱ.

शमित-

शमिता(त-अ)न्त-त्रितय- -यः

आबो ९.

शान्त,न्ता- -न्त अन्न ५; -न्तः

छां ३, १४, १; वृ ४, ४, २३; मै

२, ४; ५, ८; मैत्रि २, ४; ६, २८;

७, ४; ६; मैत्रि ३, २४; अ १; सुबा

९; ते२, १८; ५, ६१; ब्रवि १०४;

नाप १^j; ३, ५५; ४, ३१; ६, २३;

त्रिवि १, ४; राउ ५, २७; महा ४,

३२; ३३; १संन्या २, १९; ३३;

अन्न ३, ९; ५, ९३; अक्षि २;

जाद ५, ३; शा ५; शि १, १६;

२३; गी १८, ५३; -न्तम् प्र ५,

७; मां ७; खे ६, १९; गौ ३, ४७;

४, ४५; मैत्रि ६, २३; ३६^k; ७,

३; मना २, १०९^a; ब्रवि २; पंहं

२; वृजा ६, ५; ८, ६; वृपू ४, ७;

५, २०; वृउ १, १२; नि १४; ते

१, १^j; ४, २२; ६, ३६; ७२; नाद

१८^k; १योत ८; नाप ८, २०;

त्रिवा २, १५५; त्रिवि ७, १७; राः

२, १५; १०३; राउ ३, १; शां ३,

१; महा ४, ५५; ६०; ९१; ५,

४५; योशि १, ५; ३, २०; २१; ६,

६६; अन्न ५, ८; २१; ५१; ६०;

६३; ६४; ६७; ११२; अक्षि २;

२६; त्रिता ५, २०; अ १, १; २,

३; पं १५; २०; म ४८: ४; नापू

१, १७; शि ४, २९; ५, २८; ३३;

६, १९६; ७, १२८; वपू २, २;

अवि २१; -न्तस्य शि ५, १२; ६,

२०६; -न्ता अन्न ५, १०८; अक्षि

४१; गार ४०७: १८९^l; -न्ता:

मुं १, २, ११; मना २, ७९९^d;

वृउ ६, ४; महा ४, ३५; शि ५,

२२; सांका ३८; -न्तानाम् योशि

५, ४६; -न्ताम् गु ७३; विद्या ४;

-न्ताय नि १; श ३६; सूता १,

३७; ६, ६; नाउ २, ११; -न्तायाम्

वृ ४, ३, ६; -न्ते क १, ३, १३;

वृ ४, ३, ५-६; महा ४, १२२;

५, ७; अन्न ५, ११३; १आ ३०;

-न्तौ महा ६, ४७.

शान्त-कलना- -ना अन्न २, १२.

शान्त-चिद्-घन- -नः अन्न २,

११.

शान्त-चेतस- -तः सु महा ४,

२९.

शान्त-तम- -मः हं २१^m.

शान्त-ता- -ता अन्न १, २९.

शान्त-त्व- -त्वम् मैत्रि ६, २९.

शान्त-धी- -धियः महा ५, ६१.

शान्त-नामन्- -म शि १, ९.

शान्त-मनस- -नसम् नाप ४,

३७; -नाः अन्न ५, ४७.

शान्त-मन्युⁿ- -न्युः पित्र १, १;

३, १; १०.

a) तैआ १०, ८, १। b) तैआ १०, ६२, १। c) पा.१ (तु. तैआ १०, ६३, १ⁿ) सकृत् °मम् इति शोचः द्र.।

d) तैआ १०, ६३, १। e) तैआ १०, ६३, १ⁿ। f) °व्यसत्वाच् इति अख्या.। g) दमसं इति अख्या. संटि.।

h) =१यम-। i) तैआ १०, ६४, १। j) 'शाकम्' इति आन., JC.। k) विशिष्ट इह आन. पाभे.। l) =शक्तिविशेष-।

ma) 'शान्तः' इति निस.।

शान्त-मूल- -लम् वृपू २, १०.
 शान्त-रजस्- -जसम् गी६, २७.
 शान्त-रूप- -पः ते ३, २; -पम्
 अशि ४, ५^१; वट्ट ३१५: २०.
 शान्त-रूपक- -कः ते ४, ६४.
 शान्त-वासन^१- -नः अज^१, ९२.
 शान्त-संसार-कलन- -नः महा
 २, ६१.
 शान्त-संकल्प- -ल्पः क१, १, १०
 शान्त-संदेह- -हः अक्षि ३९.
 शान्त-संदेह-दौराल्म्य- -ल्म्यम्
 महा ५, ६८.
 शान्त-सम्यक्-प्रबुद्ध- -द्धानाम्
 अज ५, ११०.
 शान्त-हृदय- -यः छां ८, ८, ४;
 ९, २; १०, १; ११, १; २; -यौ छां
 ८, ८, ३.
 शान्ता(न्त-आ)त्मन्- -रमने मै
 ४, ४, १५; मैत्रि ५, १; -त्मा अज
 ५, ११५.
 शान्ता(न्त-आ)दि-लक्षणो-
 (ण-उ)क्त- -क्तः मै ६, ३१.
 शान्ता(त-अ)शान्त-विवर्जित-
 -तः ते ५, ६८.
 शान्ता(न्त-अ)शान्त-स्वरूपा-
 (प-आ)त्मन्- -त्मा ते ४, ६४.
 शान्ता(न्त-अ)शान्ता(न्त-आ)-
 दि-हीना(न-आ)त्मन्- -त्मा
 ते ५, ५.
 शान्ता(न्त-अ)शेष-त्रिशेषां-
 (ष-अं)श- -शः अक्षि ३४; वरा
 ४, १४.
 शान्तो(न्त-उ)दित^०- -तौ योसू
 ३, १२.
 शान्तो(न्त-उ)दिता(त-अ)-
 व्यपदेश्य-धर्मा(र्भ-अ)नुपा-

तिन्- -ती योसू ३, १४.
 शान्ति- -न्तये त्रवि१२^१; १५ ३१:
 २१; शि ६, १७०; -न्तिः क २,
 २, १३; गी ३, ४०; मना २, ७९^१;
 व ३, ८; अशि ३, २; ५, १७;
 वृजा १, १; नाप ३, २१; ६, १;
 ८, १^०; १संन्या २, ४२^३; अध्या
 २८; तु ९; नापू ५, २^१; वट्ट
 ३१३: २; ३१५: २; शि १, २५;
 स ३७८: १३; तारा ८३: २५;
 भव २, ४८; ४, १०; गी २, ६६;
 १२, १२; १६, २; -न्तिम् क १,
 १, ७; १७; श्रे ४, ११; १४; अशि
 ५, ६; ८; त्रिवि १६; मना २, ६४^१;
 त्रिवा २, १५; महा ४, ८७;
 १अव ७; त्रिता ५, १६; सु १,
 २, १; २, २, ३४; सं २३; शि ४,
 ६६; गु ५७; अबि १६; गी २,
 ७०; ७१; ४, ३९; ५, १२; २९;
 ६, १५; १८, ६२; -न्तौ पप
 ४१९: ३०; -न्त्या मना २,
 ७९^१; -न्त्यै वृजा ३, १९.
 शान्ति-काम- -मः सूता १, २१.
 शान्ति-गृह- -हम् शि ४, २४.
 शान्ति-जनक- -कम् रुजा २,
 १२^१.
 शान्ति-तेजो-रूप(प>)पा- -पा
 सी ३४.
 शान्ति-तोय- -यम् शि ५, ३१.
 शान्ति-दान्ति- -न्ती नापद, १.
 शान्तिदान्त्या(न्ति-आ)दि-
 -दिभिः नाप ६, २२.
 शान्ति-मण्डप- -पम् शि ४, १.
 शान्ति-समृद्ध- -द्धम् तै १, ६, २.
 शान्त्य(न्ति-अ)तीत, ता- -तम्
 पं १५; -ता वृजा १, १; नाप ८,

१^०; -त्त पप ४१९: ३०.
 शान्त्या(न्ति-आ)दि-युक्त- -क्तः
 नाप ६, १९.
 श(मि)>मी^१-
 शमी(मी-इ)न्धन-कुश-स्थान-
 -नम् शि २, १९.
 शमी(मी-इ)न्धन-तृणा(ण-आ)-
 दि-दीनाम् शि ६, २४०.
 शमी-समित्-फल- -लम् शि ४,
 ४३.
 शम्य(मी-आ)र्ध-फल-
 शम्यर्धफल-वत्-
 शम्यर्धफलवच्च-छे(ष>)-
 षा- -षाः शि ४, ४३.
 शम्बर^१-
 शाम्बर(र>)री^१-
 शाम्बरी-त्र(य>)या- -याम्
 व ४३३: ७.
 शम्बर-वैरिन्^क- -रिणः सार २४५: ६
 शयन- , शयान- , शयित्वा, शय्या-
 ✓शी द.
 शशर^१- -रैः शि ४, ६२; ६, १०८.
 शर-बर्हिंस- -र्हिः वृ ६, ४, १२.
 शर-भृष्टि- -ष्टीः वृ ६, ४, १२.
 शशर^१म- -रः वृ १, २, २.
 शशर^१- -राः श २७.
 शशर-भ^१- -भः श २७.
 शशरभ^१म- -भम् सु १, १, ३४.
 शरभा(भ-आ)भ्य- -भ्यम्
 श ४.
 शशर- ✓शू द.
 शरण^१- -णम् छां २, २२, २; ४^१; वे ३,
 १७; ६, १८; मना २, १९^१; वृजा
 ६, १०; वृपू ३, ४; सुबा ६; नि
 ५२; त्रिवि ७, ३९; ४०; ८, १५;
 रार २, ३८; त्रितार २, ७०; ५, २१;

a) °न्तमूलम् इति अत्र्या. । b) तु. गपू. पृ७८१a । c) उप. =१उदित- । d) तैआ १०, ६३, १ ।
 e) =मात्राविशेष- । f) =कलाविशेष- । g) वा. व्या. च विशेषः द. (तु. तैआआ १०, ६४) । h) तु. गपू. पृ४०६d ।
 i) व्यु. ? =वृत्तविशेष- । वैप१ यद्र. । j) व्यु. अर्थश्च ? । k) =कामदेव- । l) व्यु. ? =उद्भिद्-द-विशेष- । m) व्यु. ?
 =मण्ड- । n) व्यु. ? =जीवात्मन्- । o) =विष्णु- । p) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । q) वैप१ यद्र. । r) तैआ १०, १, १६ ।

दे ४५^a; १९; गोपू २२; बा ७;
गार ४०८ : १२; गु ४९; ७२;
व ४५७; ११; ४५८; १४; ४६२;
९५^a; ४६५ : २१५^a; वपू २, २;
गी २, ४९; ९, १८; १८, ६२;
६६.

शरणा(ण-आ)गत- -तम् वा ११;
गोच ६६ : १०.

शरणागत-दीन- -नानाम् सार
२३० : १६.

शरणागत-नारायण-मन्त्र-
-न्त्रौ त्रिवि ७, ३९.

शरण्य, ण्या- -ण्यः हे ११; -ण्याम्
दे १०; -ण्याय नाट २, १२; -ण्ये
व ४३१ : २; ४५८ : १०.

शरद्^b- -रत् छां २, ५, १; १६, १;
मैत्रि ६, ३३; ७, ४; सार २६९:
२२; -रदः क १, १, २३; कौ २,
११^३; -रदम् २ प्र ३३:३; -रदा
अन्न ५, १४; -रदि महा ४, ९६;
५, ५३; ६, ७५; सार २४७ : ७;
२४८ : २.

शारद-

शारद-निकुञ्ज- -ञ्जाः सार
२७० : १.

शारद-लीला- -लायाः सार
२६९ : २१.

शारत्-छत- -तम् शु १, १७.

शारत्-काल- -लः कृ २३; -ले रा
४२४ : ४.

शारद्-अन्न- -अेषु महा ३, ३२.

शारद-संनिकाश- -शः सं १३.

शारद-आ(अ-अं)श-विलय-
-यम् अक्षि ३३.

शारद्-ऋतु- -तुम् मुद्र २.

१-२शरभ- ३शर- द्र.

३शरभ^०-

शरभ-सालुव-भैरव-दोर-दण्ड-
-ण्ड लां २१४ : ७.

शरव्य- शरारु- / शृ द्र.

शरीर^{११d}- -रम् ई १७; क १, ३, ३; तै
१, ४, १; ३, ७, १^३; छां ३, १२, ३;
४: ५, १, ७; ८, ८, ५; १०, १; ३;
१२, १; ३; १३, १; वृ १, २, ६; ५,
११-१३; ३, २, १३; ७, ३-२३;
४, ३, ८; ४, ३; ४; ७; १२; ५, १५,
१५^०; ६, १, ७; खे २, ८; १२; ५,
१०; मै १, १^३; २, ३-५; ९^३; ३,
२^३; ४; मैत्रि १, २; २, ३-५; ६^३;
३, २; ४; ६, २४; ७, ११;
मैत्रे १, १; ३; कै १, १२; गर्भ १;
५५^{१३}; मना १, ११५^०; २, ८०५^b;
कौ ३, ३; ५-७; ४, १९; सुबा ४;
७^{१३}; तै ५, १०; ६, ४१; नाद २;
ब्रवि २; ४; १योत ९४; नाप ४,
२७; ३८५^३; ६, १; योचू ७२; शां १,
४^३; पै ४, १; महा ४, २३; शारी
१; ५; योशि १, २९; ३८; १४१;
६, २८; अन्न ४, ३९; अध्या
१^३; कुं ११; करु ४; १७; यो
२, ३९; जाद ४, १; प्रा ४, १;
वरा २, ६८; ५, १९; २२; या २२;
निरु १, ८; २, ९; १ प्र ३१:२; ६;
य ३; सार २२७:६; १९; २९१:
११; १५; १८; २३; सु २९३:
३; २शिसं १४; हे ९; गु ६५:
वड ३, ८; भव २, ७; १०; २५;
३, २५; कभ्रु ३, ४; सांस् ५,
१०२; ब्रसू ३, १, २७; गी १३,
१; १५, ८; -रस्य क २, ३, ४;
छां ८, ९, १; २; मैत्रि ६, २७;
१योत ४६; नाप ५, १^३; त्रिवा २,

८६; रापू १, १०; शां १, ४; अन्न
४, ४०; जाद ६, ४४; पिं १७;
सांस् ३, २; -राणाम् सार २९१:
२२; -राणि अशि ४, ११; योचू
५६; ७२; योशि १, १६४; वट
३१६ : २; अरु १२५^३; भव २,
३८; गी २, २२; -रात् क २, ३,
१७; छां ८, ३, ४; ६, ४; ५; १२,
३; वृ ३, ९, ४; मै २, २; मैत्रि २,
२; ६, ८; कौ २, १४^३; ३, ४; त्रिवा
२, ५४; शां १, ४; निरु २, ८; -रे
क १, २, १८; प्र ३, १; ३; ४, ६;
६, २; सुं ३, १, ५; तै २, ५, १; ३,
७, १; छां ३, १३, ७; ८, ९, १; २;
१२, ३; वृ १, २, ६; २, १, १८; मै
१, २; ३; मैत्रि १, ३^३; ३, २^३; मैत्रे
१, ३; अ २; गर्भ १^३; ३; कौ ३,
२-४; वृजा ७, ४; ७; सुबा ७;
८; ध्या ७; ब्रवि ३५; नाप ६,
१; शां १, ५^३; योशि १, ७३; ५,
३०; अन्न ४, ३२; अध्या १, रुह
४१; यो २, ४९; प्रा १, १; ४, १;
सार २९१ : १२^३; १३; गु ३५;
रा ४२३:१४; भव २, ३७; ब्रसू
३, ३, ५३; गी १, २९; २, २०;
११, १३; -रेण कौ १, ७; ३, ६; वृपू
१, ११^३; योशि १, ३८; १४०; जाद
६, ५१; सार २५५:२२; २९१:
१४; भव १, २०; -रेषु क १, २,
२२; नाप ९, १५; जाद ४, ६२.
शरीर- -रः तै २, ३-६, १; वृ २,
५, १; ३, १, १०; ४, ३, ३; ५; कौ ४,
१४५^३; प्रा २, १; ब्रसू १, २, ३;
२०; -रम् वृ ४, ३, ११; भव ५,
५; गी ४, २१; १७, १४; -रात्
वृ ४, २, ३; ब्रसू ४, २, १२.

a) खि १०, १२७, १२। b) = ऋतुविशेष- वा संवत्सर- वा। वैप १ यद्र.। c) व्यु. अर्थश्च?। d) वैप १ यद्र.। e) मा ४०, १५। f) आ^० इति निसा. यनि. शोषः द्र. (तु. अञ्जा., मैत्रि १, २)। g) तैसं ७, ३, ११, १। h) तैआ १०, ६४, १। i) तैआ ७, ४, १। j) °रस्थस्य इति अञ्ज्या.। k) तैआ १, २७, २। l) °रम् इति सात.। m) °रलं इति अञ्ज्या.। n) 'शरीरे' इति शांआ ६, १६।

शरीर-प्रपञ्च- -ञ्चम् मवा ४.
 शरीर-यज्ञ- -ज्ञम् आ १,
 १०; -ज्ञस्य प्रा ३-४, १.
 शरीरक^{२१}- -कम् सु १, १, ३५.
 शरीर-क- -कम् महा ३, ९; शि ७,
 १२१; -के भव २, १६; १८.
 शरीर-क्लेशा(श-अ)सहिष्णु- -ष्णुः
 नाप ३, ८६.
 शरीर-(ग>)गा- -गा वरा ५, ४१.
 शरीर-ज- -जम् योशि १, १४६.
 शरीर-त्रय- -त्रयम् तुड ३, १०; नाप
 ३, ८६; व ८.
 शरीरत्रय-तादात्म्य- -त्मात् पै
 १, ३२.
 शरीरत्रय-संयुक्त-जीव- -वः
 अज १, १४.
 शरीर-त्व- -त्वाय क २, २, ७; ३, ४.
 शरीर-देश- -शेभ्यः वृ ४, ४, २.
 शरीर-द्वय-कारण- -णम् गोड १२.
 शरीर-नाश-दर्शिन-
 शरीरनाशदर्शि-त्व- -त्वात् अज
 ४, ८८; सु २, २, २८.
 शरीर-पद्म-कुहर- -रे १ संन्या २,
 ३४.
 शरीर-पोषणा(श-अ)दिक- -कम्
 शां १, ४.
 शरीर-प्रादेशा(श-अ)ङ्गुष्ठ-मात्र-
 -त्रम् मैत्रि ६, ३८.
 शरीर-भेद- -दाः सार २९१:१४;
 -दात् ऐ ४, ६; -दे सांका ६८.
 शरीर-मध्य- -ध्ये सुबा ८.
 शरीर-यात्रा- -त्रा गी ३, ८.
 शरीर-रूपक-विन्यस्त-गृही-
 ति^०- -तेः ब्रसू १, ४, १.
 शरीर-रूप(प>)पा- -पा सी १०.

शरीर-लघुता- -ता १ योत ४५; शां
 १, ७, ४५; जाद ५, ११:६, २४.
 शरीर-वत् ते ३, १७.
 शरीर-वाङ्-मनस- -नोभिः गी १८,
 १५.
 शरीर-विमोक्षण- -णात् गी ५, २३.
 शरीर-शुद्धि- -द्धिम् योशि ५, ३६.
 शरीर-शोषण- -णम् शां १, २; जाद
 २, ३.
 शरीर-संवलित- -ताः सार २९२:२.
 शरीर-संधारणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् पप
 ४१९:६.
 शरीर-स्थ- -स्थः योशि ५, ३०; गी
 १३, ३१; -स्थम् त्रिब्रा २, ८५;
 शां १, ४; गी १७, ६; -स्थस्य
 क २, २, ४.
 शरीरा(र-आ)र्कषि(न्.>)णी- -णी
 आथ ३०५:१५.
 शरीरा(र-आ)सि-विवर्धन- -नम्
 योशि १, ९४; ९८; यो १, ३७.
 शरीरा(र-आ)दि-व्यतिरिक्त- -क्तः
 सांस् १, १३९.
 शरीरा(र-अ)न्तर-गत- -ताः शां
 १, ३, १२.
 शरीरा(र-आ)भास-दर्शन- -नात्
 १आ १७.
 शरीरा(र-अ)भिमान- -नम्, -नेन
 नाप ६, १.
 शरीराभिमानिन्- -नी नाप ६, १.
 शरीरिन्- -रिणः गी २, १८; -री
 १आ १४.
 शरीरे(र-इ)न्द्रिया(य-आ)दि-
 -दिभ्यः नाप ६, ९; वरा २, २९.
 शरीरो(र-उ)पाधि- -धिम् सार
 २९१:२१.

शरीरोपाधि-धर्म- -र्मात् सार
 २९२:१८.
 शरु- √ शृ द्र.
 शर्कर(र>)रा^{२१०}- -रया भ २, २२-ना
 आबो १३; -रायाः शि ६, ३१.
 शर्करा(र-अ)क्ष^{१०}-
 शार्कराक्ष्य^१- -क्ष्यं छां ५, १५,
 १; -क्ष्यः छां ५, ११, १.
 शर्करा(र-आ)दि- -दयः सार
 २२६:१.
 शर्करादि-विवर्जित- -ते यो १,
 २२.
 शर्करा-पांसु-निर्मुक्त- -क्तम् शि ५, ६
 शर्करा-वह्नि-वालुका-विवर्जित-
 -ते श्वे २, १०^१; भव ३, २३^१.
 शर्मन्^१- -र्म आरु ३५^१; मना १,
 १०^१; नाप ४, ३८^१; पप ४१८:
 ३१^१; २प्र ३६:९; गी ११, २५.
 शर्म-(द>)दा- -दा महा ३, ८.
 शर्व^१- -र्वे मना २, १९^१; नी ३, ६^१;
 व ४६२:२२^१; नी ३, ६^१; नी ३, ६^१;
 त्रि १५^१; वपू २, ३; चू १२; -र्वाय
 मना २, १६^१; म १, ६; नी ३, ८^१;
 शि ६, १७; २२; ३३; ३५; ८९;
 ९९; १०२; -र्वेण नी ३, ४^१; -र्वेभ्यः
 मना २, १९^१; व ४६२:२२^१.
 शर्व- -र्वम् शि ७, १३७.
 शर्व-लिङ्ग- -ङ्गाय मना २, १६^१.
 शर्व-लोक^१- -के शि ६, ११२.
 शर्व(न्.>)री^१- -रीम् गोड १.
 शर्वर- -रम् वरा ३, ११.
 शला(क>)का^{२१०}-
 शला(कक>)किका- -काम् यो २,
 ४४.
 शल्क^१- -कैः मना २, ५०^१.

a) ०ं यं इति आन. । b) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । c) षस.>तुस.>षस. । d) व्यु. ? =सिता- वा
 ज्ञोपलक्षण- वा । e) =गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष- । f) पा. ? ०कर...लुकैर्वि^० इति शोधः द्र. । g) वैपश् यद्र. ।
 h) आपमं २, ९, ५ । i) अ १, २२, १५; तैआ १०, १, १० । j) =शिव- । वैपश् यद्र. । k) स^० इति पा. ? यनि. शोधः
 द्र. (सु. मैसं २, ९, १०; तैआ १०, ४५, १) । l) स^० इति J.C. । m) स^० इति तान्त्रि. । n) तैआआ १०, १६ । o) स^०
 इति आन., J.C. । p) मैसं २, ९, १० (वैतु. तैआ १०, ४५, १ स^० इति) । q) व्यु. ? । r) व्यु. ? =वलकल- । s) तैआ १, २, १, १५ ।

शल्य^१—-ल्यान् शि ३, २; -ल्यानाम्
नी २, ११५^b.

शव^०—-वः कश्चु ३, १५^d; षो १; -वम्
नाप ७; -वानाम् षो १.

शव-ता- -ताम् भव १, ४५.

शव-पिण्ड-

शवपिण्ड-वत् नाप ७; १संन्या
२, ७९.

शव-शयित- -तम् छाग २३ : ७;
२४ : १६.

शवा(व-आ)कार- -रम् नाप ३, ८६.

शवा(व-आ)धिरू(ढ>)ढा- -ढाम्
छुसु १.

शवा(व-आ)लंकार-

शवालंकार-वत् नाप ५, १;
१संन्या २, ५९.

शवा(व-आ)स(न>)ना- -ना कालि
४०१ : ७^०.

शव्य- -व्यम् छां ४, १५, ५.

शवस्^१- -वसा व ४३७ : १४५^d.

√शश्

शश^१-

शश-पृष्ठ- -पृष्ठा वसू १४.

शश-भृद्-विम्ब- -म्बम् शां १,
५; -म्बे जाद ५, ६.

शशभृद्विम्ब-ज्योत्स्नाजाल-

वितानिता(त-आ)कार-

मूर्ति- -र्तिः शां १, ६^b.

शश-विषाण-

शशविषाण-वत् ते ५, ७५;
८९.

शश-शृङ्ग- -श्रेण ते ६, ७४; ९०.

शशा(श-आ)ङ्क^१- -ङ्कः नाप ९,
२०; गी ११, ३९; १५, ६.

शशिन्^१- -शी ते २, १६; ध्या

२६; व४६६:२०; गी १०, २१.

शशि-कला-भास्वत्-कि-
रीटो(ट-उ)ज्ज्वल- -लम् द
१४.

शशि-कान्त- -न्तम् काम ६.

शशि-निभा(भ-आ)नन-
-नम् महा २, २५.

शशि-मण्डल- -लम् ब्रवि
७४.

शशि-मध्य-गत- -तः ध्या
२७; -तम् व ४६६ : २१.

शशि-मु(ख>)खी- -खीम्
व ४२७ : १४.

शशि-रवि- -वी कृपु ६.

शशि-रेखा^१- -खा राधा १,
२३.

शशि-वर्ण- -र्णम् वपू १, २.

शशि-शकल-धर- -रः द८.

शशि-सूर्य- -र्ययोः गी ७, ८.

शशिसूर्य-नेत्र- -त्रम् गी
११, १९.

शशि-सूर्य-हव्यवाहना-

(न-आ)त्मक- -नयन-त्रय-
-यम् अव्य २.

शशि-स्थान- -ने ध्या ८८.

शशिस्थान-स्थित- -तम्
योचू ६१.

शशय^१- -यः वृ ६, ४, २७५^b.

शश्वत्^१-^२ छां ६, १३, २; मै ५, ७^१;

मैत्रि ६, ७; वृजा २, ५; ससा १, ४३;

त्रिवि ६, १०; ७, १८; १९; कृ

१; वरा ५, ३०; इ ११:२१; बा

२; सि ६, ४; सी ३३; वपू १, ५५^m.

शाश्वत- -०त लां २१५ : २३;

-तः क १, २, १८; मै २, ४; मैत्रि

२, ४; ६, २८; ते ३, २; ४८; ब्रवि

१०४; त्रिवि २, ६^३; भव २, ३७;

गी २, २०; -तम् क २, १२; श्वे

६, १२; गौ ४, ५७; मना २, १३,

१५^m; अशि ५, ७; वृजा ८, ६; वृपू

५, १०; ते १, ८; नाद १६; ब्रवि

५४; त्रिवि ४, ४; ७, १७; १८;

महा ५, ४५; योशि ४, ७; अन्न

१, ४७; त्रिता १, १३; कृ १२;

गोपू २०^०; वटु ३१७ : ८; शि

७, ११५; १२१; स ३७९:१९;

सि ६, ४; गु ४४; वउ ५, २९; भव

१, ३३; गी १०, १२; १८, ५६;

६२; -तस्य गी १४, २७; -ताः

गी १, ४३; -ताय नाउ २, ११;

-ते शु १, ४; गी ८, २६; -तेन

अशि ५, १९^p; वटु ३१७ : ९.

शाश्वती- -ती क २, २,

१३; ब३, ८; गोपू १९^q; स३७८:

१३; भव २, ४८; -क्षीः वृ ५, १०,

१; गी ६, ४१; -तीभ्यः ई ८; -तीम्

१संन्या २, २८; शि २, २२.

शाश्वत-त्व- -त्वम् त्रिवि २, ७

शाश्वत-धर्म-गोप्त्- -सा

गी ११, १८.

शाश्वत-विज्ञान-सम-रसा-

(स-आ)त्मन्- -स्मा आबो १०.

शाश्वता(त-आ)त्मक- -कः

ते ४, ६३.

शाश्वता(त-आ)नन्द-वि-

ग्रह- -हः ते ३, ३७.

शाश्वता(त-आ)शाश्वता-

(त-आ)भिघा- -घा गौ ४, ६०.

शश्वत्-छान्ति- -न्तिम् गी ९, ३१.

√शस्

२शस्^१- -स्वम् यो २, २९; भव १,

१४; सार २९१:६; भव २, ३९;

गी २, २३; -स्त्रेण इ १०:१५.

शस्-पाणि- -णयः गी १, ४६.

a) =इसु- । वैप १ यद. । b) मा १६, १३ । c) व्यु.१ =मृतशरीर- । d) शौ ११, ८, ३४ । e) सवा^०

इति तान्त्रि. । f) वैप १ यद. । g) ऋ २, २३, १५ । h) नासाप्रशशा^० इति अख्या. । i) =चन्द्रमसू- । j) =गोपी-

विशेष- । k) ऋ १, १६४, ४९ । l) 'शश्वत्' इति निसा.१ यनि. श्लोचः द्र. (तु. नाउ.) । m) 'सादनम्' इति ऋ २,

२३, १ । n) तैश्वा १०, ११, १ । o) ^०ती इति आन. । p) ^०तम् इति अख्या. । q) ^०तम् इति आन. ।

शस्त्र-बाण-क्षत-
शस्त्रबाणक्षत-स्फोट-व्रण-
महाव्रण-कृत- -तानाम् गर
२४.
शस्त्र-भृत्- -भृताम् गी १०,
३१.
शस्त्र-संपात- -ते गी १,२०.
शास्त्रा(ल-अ)भि-जल-मारुत-
-तैः योशि १,२५.

शा^a आथ ३९८:१९.

शशाक^b-

शाकि(न>)नी^c- -नी पी ४२२:
१२.

शशाक^{cb}-

शाक-जात- -तम् १योत ४७.
शाक-मूल-फल- -लानि शि ६,२१;
-लेन इ १९:५.
शाक-विविध-पडरस-संवलित-
-ताः सार २२३:९.

शशाक^o-

शाकायन्य^o- -न्यःमै १-२,१;मैत्रि
१,२; २,१; ६,२९;३०; मैत्रे
१,१;४,१; -न्यस्य मै १,१;मैत्रे
१,१.

शाकल- , शाकलय- शकल- द्र.

शाकिनी^o ब्रवि ७६.

शाकुनिक- शाकुनि- द्र.

शाक्त- √शक् द्र.

शाकर- शकरी- द्र.

शा(ख>)खा^l- -खाः छां ५, २,३; वृ
६,३,७-१२; मै ५,४^b; मैत्रि ६,
४; वृजा ८,५; वृपू ५,१८; नाप
६,१; सु १,१,१०; ११,१२^c;
१३^d; सार २८७:२३; गु १;

वृ ५,५८; गी १५,२; -खानाम्
गु २; -खाम् छां ६, ११, २:
-खायाः सु १,१,१४; -खासु गी
२५^e; गु ४; अथ ३, ३,५५;
-खे का ९; १२: नार १०.

शाखा-नाडी-सहस्र- -खाणि
सुवा ४.

शाखा(खा-अ)न्तरो(र-उ)पनिप-
त्-स्वरूप- -पम् त्रिवि ४,३.

शाखा-पल्लव- -वानि वरा^h,३६.
शाखापल्लव-रूप- -पेण योशि
३,५.

शाखा-प्रतिशाखा- -खाः सार
२२२:२१.

शाखा(खा-अ)वधि- -धिः(यधि)
यो २,३५.

शाखा(खा-आ)सक्त- -क्ताः सार
२६२:१७.

शांकर- √शम् द्र.

शा(टि>)टी^{hi}- -टीम् नाप ४,३८;५,
१; १संन्या २,१३.

शाटी-द्वय- -यम् नाप ७.

शास्त्र- , शाक्यायन- शस्त्र- द्र.

शाण्डिली- , शाण्डिल्य- शाण्डिल- द्र.

शातकुम्भ- शतकुम्भ- द्र.

शशातातप^{hi}-

शशातातप- -पम् गार ४०७:१२.

शानम्^o शो १.

शान्त- , शान्ति- √शम् द्र.

शाप- √शप् द्र.

शाब्द- शब्द- द्र.

शाम्बर- शम्बर- द्र.

शांभव- √शम् द्र.

शशारद- शरद्- द्र.

शशार(द>)दा^{hi}- -दानिवा २९८:४
शशार(द>)दा^{hi}- -०दे सर ३,२.

शारदा-मठ- -ठः म ४८:७.
शारिका^o- -का सार २८८:५-६;
२१: -काम् शि ६,२०८.

शारीर- , शारीरक- शरीर- द्र.
शार्कराक्ष्य- शर्करा- द्र.

शार्ङ्ग- √शृ द्र.

शार्ङ्गल^{hi}- -लः कौ १, २.

शार्च- शर्व- द्र.

शार्चर- शर्वरी- द्र.

शा(ल>)ला^{hi}- -लासु सार २६६:
१४.
शाला(ला-अ)न्तर- -रे इ १२:१८.

शालावत्^o-

शालावत्^o-

शालावत्य^{hi}- -०त्य छां १, ८,
८: -त्यः छां १, ८, १;३;६.

शालि^{hi}-

शालि-तण्डुल-कल्पित- -तम् शि
६,६६.

शालि(न>)नी^{hi}- -नी गार ४०७:१९

शालीन^o-

शालीन-वृत्ति- -त्तयः आश्र २ⁱ.

शाल्मलि^{hi}-

शाल्मलि-तूल- -लम् भव १, २४.

शाश्वत- शश्वत्^o- द्र.

√शास्>शिष्,शास्त्रि ब्रसू १,१,१९;
शाधि छां ४, २, २; मै ४, १ⁱ;
बा ३; गी २, ७.

शासन- -नम् ब्रवि १०; ते ६, ८;
-नात् ते ५, १८; योशि ४, ४.

शास्तृ- -स्ता मैत्रि ६, ८; ७, ७; मव
५, १५.

a) =बीजमन्त्रविशेष- । b) व्यु. ? । c) व्यु. ? =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । d) पा ४, १, ९८; ५, ३, १३ ।

e) निसा.३ 'शाकिनी' इति शोधः द्र. (तु. अख्या.) । f) वैपश् यद्र. । g) तु. गपू. पृ १४९। । h) पा. ? 'शाखाः स्युः' इति द्विपदः शोधः द्र. । i) निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) । j) व्यु. ? =वस्त्रविशेष- । k) व्यु. ? =ऋषिविशेष- ।

l) 'हमसानम्' इत्यस्योत्तरांशः । m) व्यु. ? विप. =अदृढा- । n) व्यु. ? =सरस्वती- । o) व्यु. ? =पक्षिविशेष- ।

p) पा ५, ३, ११८ । q) व्यु. ? =व्रीहि- । r) व्यु. ? =शक्तिविशेष- । s) व्यु. ? =वृत्तविशेष- । t) 'अनुशाधि' इति मैत्रि ४, १ ।

शास्त्र^१—स्वम् वसू १; ते २, ३; ३, ५०; ५, ४३; ६, ८; ऋषि ४८; आबो १९; सी २१; महा ३, १५; योशि १, १२४; १अव ३२; यो २, १०; ११; १३; २७; रुह २१; मु १, १, ४५; शि ७, १३४; गी १५, २०; १६, २४; -स्वस्य वृजा ५, १४; ऋषि ४२; ५०; महा ४, ५; -स्वाणाम् कौ २, ६५; -स्वाणि अना १; महा ५, १६३; अक्षि ८; १अव १३; त्रिता १, ११; ४, ३६; कृषु ४; -स्वात् लिं ३११ : ४; -स्वे ते २, ४२; -स्वेण ते ३, १९; १योत ७; महा ६, ७४^b; योशि १, ५; यो २, १२; वरा २, ६९; -स्वेषु रार १, ४; महा २, ३३; -स्वैः ते ५, ४६; महा ४, ४; सार २३१ : १३.
शास्त्र-गीत-(ज्ञ>)ज्ञा^१—ज्ञा सार २२३ : ३.
शास्त्र-गुरु-सज्जन-सेवा—वया अक्षि १४.
शास्त्र-चिन्तन—नम् मैत्रे २, २१.
शास्त्र-जाल—लानि पै ४, १७; -स्वेषु १योत ६; योशि १, ४; -स्वैः योशि १, ६१.
शास्त्र-ज्ञान—नात् नाप ५, १; १संन्या २, १३.
शास्त्र-दातृ—तारम् यो २, १२.
शास्त्र-दश—दशा महा ५, ८१.
शास्त्र-दृष्टि—दृष्ट्या ब्रसू १, १, ३०.
शास्त्र-योनि—
शास्त्रयोनि-स्व—स्वात् ब्रसू १, १, ३.
शास्त्र-वाक्या(क्य-अ)र्थ—र्थं अक्षि १६.
शास्त्र-वात्सल्य—ल्यम् नाप २; मु १, २, ६०.

शास्त्र-वासना—नया मु २, २, २; -नाम् नाप ५, १; १संन्या २, १३.
शास्त्र-विज्ञान—नम् वरा ५, ५८.
शास्त्र-विद्या-कला(ला-अ)क्षर—राः योशि ६, ११.
शास्त्र-विद्वस—द्वींसः मैत्रि ७, ८.
शास्त्र-विधानो(न-उ)क्त—क्तम् गी १६, २४.
शास्त्र-विधि—धिम् गी १६, २३; १७, १.
शास्त्र-सज्जन—नैः महा ५, २७; वरा ४, ३.
शास्त्रसज्जन-संपर्क—कैः अक्ष ५, ७१.
शास्त्रसज्जनसंपर्क-वैराग्या(ग्य-अ)भ्यास-पूर्वक—कम्^d महा ५, २८; वरा ४, ४.
शास्त्रसज्जनसंपर्क—वैराग्या(ग्य-अ)भ्यास-योग—शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासयोग-तस्(>) शां १, ७, २६.
शास्त्रसज्जनसंपर्क-वैराग्या(ग्य-अ)भ्यास-रूप—शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासरूपि(न्>)णी—णी अक्ष ५, ८१.
शास्त्र-संतति—तौ यो २, ८.
शास्त्र-सिद्धान्त—न्ते महा ४, १०१.
शास्त्रा(त्र-अ)नुवर्तन—नम् अक्षि ४२; अध्या ३.
शास्त्रा(त्र-अ)न्त—न्तम् पै ४, १६.
शास्त्रा(त्र-अ)र्थ—र्थान् द्व ८
शास्त्रा(त्र-अ)र्थवत्त्व—त्वात् ब्रसू २, ३, ३३.

√शास्त्रि

शास्त्रित—तम् मु २, २, १; भव १, ४८; -तात् भव १, ४९.
शास्त्रीय—यः १अव २२; -येण १अव २३.
शास्त्रो(त्र-उ)क्त—क्तः भव २, ६२.
१शिष्ट—
शिष्ट-पूर्ण-स्वरूप—पः ते ५, ७३.
शिष्ट-प्रतिपालक—काय नाउ २, ८.
शिष्ट-वर्त्मन्—र्त्मनि महा ४, १८.
शिष्टा(ष्ट-आ)चार—रात् सांस् ५, १.
शिष्टा(ष्ट-अ)नुशिष्ट-स्वेष्ट—ध्यान-कथा-सेवा(वा-अ)नुभाव—वेन सार २५७ : १.
शिष्टा(ष्ट-अ)परिग्रह—हाः ब्रसू २, १, १२.
शिष्टि—ष्टेः ब्रसू ३, ३, ६२.
शिष्य—ष्यः नि १०; ४२; ४३; ते ४, १६; ६, ३७; ऋषि २८; त्रिवि १, ४; ५, १; ८, ७; १३; जाद १, २; शि ७, २०; ६३; तारा ८४ : १३; गी २, ७; -ष्यम् मं ३, २, २; त्रिवि १, ५; ५, ४; निर्वा २९८ : १७; महा ५, १०४; पप ४१८ : ७; ग ४; दत्ता ३; -ष्याः १योत ७८; -ष्याणाम् १संन्या २, ८३; -ष्यान् नाप ५, २२; -ष्याय नृपू १, ९; सुद्व ४; मु १, १, ४५; ४९; नापू ३, ११; कालि ४०३ : १८; १कौल ६ : १; २कौल ७; वपू २, १; -ष्ये पप ४१८ : १९; -ष्येण गी १, ३; -ष्येभ्यः मरु १; व ४६५ : ३.
शिष्य-किंकर—राः मैत्रे २, २४.

शिक्ष्य-परंपरा- रथा सांका७१.
शिक्ष्य-प्रशिक्ष्य- -व्यैः शि ७,
१३७.
शिक्ष्य-वत् ते ३, १८.
शिक्ष्य-संग्रह- -हः १संन्या २,
८३.
शिक्ष्य-संचय- -यः १संन्या २,
७९^१.

शि^१

शि-कार- -रः सिसि ३८२: १२.
शिंशुमार^८-
शिंशुमार-चक्र- -क्रम त्रिवि ५, १२
शिंशुमार-प्रजापति- -तिम् त्रिवि
५, १२.
शिक्ष्य^{१३d}- -क्यम् जा ६; नाप ३,
८६; कुं ९; करु १; शा ७; कश्रु
३, १.
शिक्ष्य-कमण्डलु-हस्त- -स्ताः
आश्र ४.
शिक्ष्य-भाण्ड-समाश्रय- -यम् शि
६, २७५^१°.
?शिक्ष्यः^१ मना २, ८.
√शिक्ष्, शिक्षेत् वृ ५, २, ३.
शिक्षक- -काः २प्र ३४: ९५^६.
शि(, > शी)क्षा^{१५}- -क्षा सुं १, ५;
सुवा २; सी २७; रुह २९; गार
४०६: ९; -क्षाम् तै १, २, १^१.
शैक्ष- -क्षम् २प्र ३६: २५^१.
शिक्षा(क्षा-अ)ध्याय- -यः तै १,
२, १.

शिक्षित- -तः राउ ४, १.

शिक्षण्ड^{११k}-

१शिक्षण्डिन्^१- -ण्डिनः नी २,
१२५^{१३}; -ण्डिनम् नी १, १.
२शिक्षण्डिन्^१- -ण्डी गी १, १७.
३शिक्षण्डिन्^{१०}-
?शिक्षण्डिदललम्बितत्रियुमगु-
ञ्जावतंसमणिमयकिरीटशिराः^१
राधा ३, ९.

शिखर^१- -रम् महा २, ७५; -रे मना
२, ३६५^१.

शिखरिन्^१- -रिणाम् मै १, ७; मैत्रि
१, ४; मैत्रे १, २; गी १०, २३.

शिखा^१- -खा मैत्रि ६, २४; मना २,
३५५^१; ८०५^१; ब्र ३, ३^१; ५; ब्रवि
९; १०^१; नाप २, ८३^२; ८५;
त्रिब्रा २, २३; निर्वा २९८: ११;
शां १, ४; १संन्या १, १^१; पप
४२०: ७; पाशु २, ५^१; पत्र २;
३, ७^१; ११; पहं २; शा १७; सु
१, १, ३५५^{११k}; १प्र ३१: १५;
म ४९: १८; कालि ४०३: ३;
कश्रु १, १^१; -खाम् जा ६; आरु
१; नाप ३, १७; ७७; ४, ३८;
१संन्या २, ६; पप ४१८: २३;
पहं १; २^१; या १-२, १; शा २०;
-५^१खायाः मना २, १३, २; महा
१, १; वा २३; च २१: ५; नाउ
१, २०; कालि ४०३: ६; -खायाम्
वृजा ६, १२; ७, ८; नृपू ५, १०;

रार २, ८३; भ २, २; रुजा १,
१५; ३, १; दत्ता १, ५-७; नृष
८५: ७; सिसि ३८२: २; व४२६:
६; -खायै नृपू २, ४; शु १, १८;
लां २१३: ८; वपू २, २.

शिखा(खा-आ)दि-कन्था-धर-
-रः नाप ५, १^१; १संन्या २, १३.
शिखा(खा-अ)न्त- -न्तः गार
४०८: ६.

शिखा(खा-आभ>)भा- -भा १प्र
३१: १७.

शिखा-मणि- -णौ अन्न ५.

शिखा-यज्ञोपवीत- -तम्^१ पत्र २;
-ते पहं १^१.

शिखायज्ञोपवीत-मूल- -रम्
पत्र २.

शिखायज्ञोपवीत-रहित- -तः
नाप ५, १; १संन्या २, १३.

शिखायज्ञोपवीतिन्- -ती नाप
५, १; १संन्या २, १३.

शिखा-रूप- -पम् रार ५, ७.

शिखा-वर्जित- -ताः आश्र ४.

१शिखिन्- -खिनः शा ११^१; -खी
ब्र ३, ३; नाप ३, ८३; पत्र ३,
७; वरा १, १७; शा १८.

२शिखिन्^१-

शिखिनी^१- -न्याम् ब्रवि ८०

शिखि-स्थान- -नम् त्रिब्रा २,
५६; शां १, ४; जाद ४, १.

३शिखि(न्>)नी^१- -नी व४२६: ५.

a) °संग्रहः इति अर्थ्या । b) 'शिव-> -वाय' इत्यस्याद्यमचरम् । c) वैप१ यद्र । d) =साऽऽलम्ब-
भाण्डाऽऽधार- । वैप१ यद्र । e) पा.१ 'क्यं भा° इति द्विपदः शोधः द्र । f) पा.१ शिक्षा-> शिक्ष्य-> -क्ष्यः
इति शोधः स्यात् । अत्र 'स तां शिक्ष्यः पुरोवाचोपनिषदम्' इति जागतः पाद इति कृत्वा यथायोगं शोधान्तरमपि
द्र. [वैतु. भा. प्रसू. वृथैव साऽऽयासाः (तैआ १०, ६, १)] । g) 'शिक्षुकाः' इति गोब्रा १, १, २४ । h) =वेदान्तविशेष- ।
i) शि^१ इति निसा. । j) °क्ष्यम् इति गोब्रा १, १, २७ । k) =शिखा- वा मयूरपुच्छ- वा । वैप१ यद्र । l) १शिव-
इत्यस्य-वि. । m) 'कपर्दिनः' इति मा १६, १० । n) =द्रौपदविशेष- । o) =मयूर- । p) पा.१ । q) व्यु. ? =सानु- ।
r) तैआ १०, ३०, १ । s) =पर्वत- । t) व्यु. ? =अग्निशिखा- वा शिरःशिखा- वोपनिषद्विशेष- वा । u) तैआआ
१०, ३५ । v) तैआ १०, ६४, १ । w) °खाभा इति आन. । x) =योगशिखाख्योपनिषदुत्तरांश- । y) °खम् इति
अर्थ्याः । z) तैआ १०, ११, २ । a') °खाकन्थादि° इति अर्थ्या. । b') समाहारे द्रस. । c') °खां यज्ञोपवीतम् इति
निसा., °तम् इति अर्थ्या. । d') °खिना इति अर्थ्या. । e') =अग्नि- । f') =अग्निज्वाला- ।

शिशु^० - मुम् रुजा २, १७.
 शिशिल^० - लम् अव्य ६.
 शैथिल्य - ल्यम् भव ३, २०.
 शिपि^० -
 शिपि-विष्ट^१ - ष्टः नाप ३, १; ३;
 १संन्या २, ३.
 शिशिबि (<> वि^०)^{१११} -
 शिबि-क) का^{१११} - काम् शि ६,
 २०६.
 शिशिबि^{१६} -
 शैथ्य - ल्यः प्र १, १; ५, १; गी
 १, ५.
 शिबि-कुल - लम् इ १० : १.
 शिबि-सप्तम - ०म इ १८ : १८.
 शिशिमि^० -
 शिमी -
 शिमी-वत् - वान् मना १, ९५^१.
 शिशिमि^१ -
 शिमि-जावरी - ०रि व ४६४ :
 १६५^१.
 शिरस्^{१०} - रः तै २, १-५, १; वृ १,
 १, १; २, ३; २, २, ३; ५, १७५^१;
 ५, ५, ३^१; ४^१; मै ५, ६; मैत्रि ६,
 ६; हं १४; १८; गर्म ३; ५^१;
 मना २, ३५५^१; अशि ३, १०; ६,
 ८^१ ५^१ ५^१; वृजा ४, ११; शु १, १५^१;
 ते २, १४; १अव ३; १योत १४०;
 गरु ११५^१; आच ९; निरु १,
 ११; २, १; पिं ११; नापू ३, १०;
 लिं ३१०:२३^१; वटु ३१५:१०;
 शि ३, ७; ५, ३६; ७, ५५; गु ८;
 व ४५८ : ५; भव २, २८; चू
 १४; नसा मै १, २; मैत्रि १,
 २; मना १, ८५^०; अना ११; रुह
 २; म १, ५; रुजा १, १५; शा

१३; ऊ ६३:८५^०; शि ६, १७१;
 व ४६४ : १०५^०; गी ११, १४;
 -रसि वृजा ३, १८; ४, २९; ३२;
 ५, २; ७; ७, ८; अता ६; रार २,
 ८३; त्रिता २, ९; रुजा १, २१;
 ३, १; २योत २, ३; जाद ६, ३१;
 ऊ ६४ : ९; वृष ८५ : ६; सार
 २४३ : १२; १३; २७६ : ७;
 लिं ३१०:६; २१; वपं ३११:३;
 ३१२:६; शि ७, ४३; व ४२६:
 ६; हंषो ६; -रसे वृपू २, ४; शु
 १, १८; लां २१३:७; वपू २, २;
 -रोभिः सं ९.
 शिरः-कर्णा(शौ-अ)क्षि-वेदना-
 -नाः योचू ११७.
 शिरः-पक्षसी-पृष्ठ-पुच्छ-
 शिरः-पक्षसीपृष्ठपुच्छ-वत्-
 -वान् मैत्रि ६, ३३^१ ५^१.
 शिरः-पाणि-पाद-पायु(यु-उ)पस्थ^१-
 -स्थम् लिं ३१०:१३.
 शिरः-पाणि-पाद-पाद्वर्ष-पृष्ठो(ष्ठ-ऊ)-
 ऊ(रु-उ)दर-जङ्घ-शिक्षो(श्र-उ)-
 पस्थ-पायु- -यवः मना २,
 ६५५^१.
 शिरः-पिण्ड-
 शिरः-पिण्ड-मय- -यम् महा
 ५, १५६.
 शिरः-पीठ- -ठम् लिं ३१०:२३.
 शिरः-प्रदेश- -शे गरु ५.
 शिरः-शूल-
 शिरः-शूला(ल-अ)क्षिशूल-कर्ण-
 शूल-नासिकाशूल-गण्डशूल-
 कपोलशूल-तालुशूलौ(ल-ओ)-
 ष्टशूल-जिह्वाशूल-मुखशूल-कण्ठ-
 शूल-कूर्परशूला(ल-अ)वरगल-

शूल-स्कन्धशूल-बाहुशूल-कक्ष-
 शूल-प्रकोष्ठशूल-मणिवन्धशूल-
 करशूल-करपृष्ठशूल-कराङ्गुली-
 शूल-हृदयशूल-मनःशूल-स्तन-
 शूल-पार्श्वशूल-कुक्षिशूल-नाभि-
 शूल-कटिशूल-गुदशूल-गुह्यशूल-
 मूलशूल(ल-ऊ)स्त्राशूल-जानु-
 शूल-जङ्घाशूल-गुह्यशूल-पाद-
 शूल-पादाङ्गुलीशूल-विस्फो-
 टक-प्रमेदि(न्)नी- ०नि व
 ४३४ : ७.
 शिरस-तुल्य- -ल्यम् १संन्या २,
 १०.
 शिरः-स्थान- -ने जाद ४, ४८.
 शिरो-जात- -तम् ध्या ७७; योचू
 ५०.
 शिरो-देश- -शम् वृजा ३, ३१;
 ४, १.
 शिरो-धार्थ- -र्याः सिक्षि ३८२:३.
 शिरो-मध्य-गत- -ते जाद ६, ३७.
 शिरो-रोग- -गाः जाद ६, ३२.
 शिरो-ललाट- -टे शि ५, २२.
 शिरो-ललाट-भ्रू-मध्य- -ध्ये रार
 २, ४३.
 शिरो-ललाट-वक्ष-स्कन्ध- -न्धेषु
 वृजा ७, १; काला ८; जाबा १७.
 शिरो-ललाट-वक्ष-स्कन्ध-मणि-
 बन्ध- -न्धेषु सिक्षि ३८१:
 १७.
 शिरो-ललाट-हृदय- -येषु वा १४;
 गोच ६६:१४.
 शिरो-लुण्ठन- -नम् व ४४९:९.
 शिरो-व्रत^१ - -तम् सुं ३, २, १०.
 शिरा^{१६} - -राः मै २, ७^१; योचू ५६^१;
 छाग २५:११; -राभिः मना २,

a) व्यु. ? = शाकविशेष - । b) व्यु. ? < √ श्रथ् इति अभा. प्रसू. । c) वैप १ यद्र. । d) = दुश्चर्मन् - ।

e) तु. मपू. पृ ५७० v । f) व्यु. ? = यानविशेष - । g) व्यु. ? = गोत्रप्रवर्तक-अधिविशेष- वा नृपविशेष- वा । h) अ
 १०, ८९, ५ । i) व्यु. अर्थश्च ? । j) तैआ ४, ३९, १ । k) ऋ १, ११६, २२ । l) तैआ १०, ३५ । m) शौ १०,
 २, २७ । सक्त 'श्रियम्' इति अख्या. । n) मा १२, ४ । o) तैआ १०, १, ८ । p) सक्त 'पुच्छपृ' इति पा. ? यनि.
 शोधः द्र. । q) समाहारे द्रस. । r) तैआ १०, ५३, १ । s) व्यु. ? = नाडी - । t) लिं इति अख्या. ।

१३, २१^{१०}; शां १, ४^b; महा १,
११^{१०}.

शिरा-शत- -तानि गर्भे ५.

शिलक^{१d} -कः छां १, ८, १; ३; ६.

शि(ल>)ला^१ -ला महा ५, ५७; -ला:

योशि ६, ११; सार २५६: ५^३:

-लायाः महा ५, ५१.

शैल- -लम् अन्न २, ४३; शि ३,

९; सिशि ३८२: २२; -लाः महा

३, ४९; -लानि सिशि ३८३: २.

शैल-ज- -जानाम् शि ६,
२६४.

शैल-सम- -मम् ध्या १.

शैले(ल-इ)न्द्र- -न्द्रम् अन्न

४, १२.

शिला-पुत्र^१-

शिलापुत्र-वत् सांसू ६, ४.

शिला-वत् मैत्रे २, ३०; महा ५, ६.

शिला-शय्या(ध्या-आ)सना-

(न-आ)सीन- -नः अक्षि १६.

शिला-साम्भ- -म्यम् १संन्या २, ५३.

शिलो(ला-उ)पम- -मः महा २, ६.

शिलिन^{१d}-

शैलिनि^१- -नेः वृ ४, १, २^३.

शिलुष^{१d}-

शैलुष- -षः १आ २१.

शशिल्प^{१d}- -ल्पः, -ल्पात् वृ ६, ५, ३.

२शशिल्प^{१०}- -ल्पम् नाप ४, ५.

शिल्पो(ल्प-उ)पजीविन्- -विनः

मैत्रि ७, ८.

शशिव, वा^१- -व राउ ३, ६; सार

२५९: १६; २१; २६०: २; १२;

-वः मां १२; धे ३, ११; ४, १८; गौ

१, २९; कै १, ८^{१०}; नार; मनार,

१३, २१^{१०}; २, २१^{१०}; ६९^{१०}; अ ३;

वृजा २, ९^३; ४, २२; वृपूर, ८^{१०};

वृउ २, १०; मैत्रे २, १; ३, ४;

१२; १३; ते २, २७; ३, ३३;

४, १; ५, २; ८०; ८७; ६, १७;

नाद ३०; ध्या ८८; ब्रवि ३४:

१०४; नाप ८, २; त्रिवा १, २^३;

२, १२; १३; २७; द १; १९; श

३०: ३१; स्क १; ६^३; ८-१०;

त्रिवि २, १६; रार २, २०: ५, २;

महा ४, ७६; ८५; ६, ६१; योशि

१, ११; अन्न ३, २१; अध्या २०;

१आ १; २०; पाशु २, ७; ११;

त्रिता १, ४१; ४३; २, ११; २३;

रुह ४४; म २, १२; जाद ४,

३५; १०, ५; ता २, २; मवा ११;

पं ३५; ३६; वरा २, ६३; ४,

३२^३; सूता १, ५; नापू ३, ६^{१०};

५, १६; सार २५५: ४; २०^३;

२५७: १२; १४; २६०: १; १९;

२०; नी २, ११^{१०}; ३, ३; रु

१४^३; १५; १६; १८^३; २०;

२३^३; २४; शि १, १०; १४-१८;

२३; ६, ३९; ११२; ७, २-४;

३८; ७२; ७३; स ३७८: १०;

कालि ४०२: ६; २२; ४०३: ७^{१०};

कामे २; ७; १२; काम १६; गुषो

४२०: १; ५; ४२१: ४; ४६२: १;

चक्र ९; हंषो १; ६; १४; १८; तारा

८३: ७; अद्वैता ५; २०; वपू १,

२; २, १; ३^३; ४; ३, १; वउ २, १;

२६^३; -वः-वः शि १, ९; -वम्

मां ७; श्वे ४, १४; १६; ५, १४;

मैत्रि ७, ९^३; ब्रवि ९; कै १, ६;

मनार, १३, १; २, ७९^{१०}; वृजा ४,

१९^{१०}; ५, १५^३; ६, ७^३; वृपू ४, ७;

वृउ १, १२; नि १४; शु १, १;

८; ते २, १; नाद १७; १८;

ध्या ३३; ब्रवि १५; नाप ८,

२०; ९, १८; त्रिवा २, २०; योचू

१०६; निर्वा २९८: १०; मं ३,

१, ३; त्रिवि ५, १२^३; राउ ३, १;

शां १, ७, ३४; २, १; ३, १^३; महा २,

६८; ४, ७१^{१०}; ५, ४५; योशि १,

६७; त्रिता १, ६१; रुह ३७;

४७; यो १, ७४; २, १३; म १,

१: ६: २, ३; २९; जाद ४, ५७;

५९; ८, ७; प्रा १, ५; वरा ३, ६;

५, ६०; नापू १, १७; नी १, ७^{१०};

रु १; २९; शि १, २८; ३२; ५, १८;

३३; ४३; ५२; ६, १; १५१;

१५६^३; ७, ४; ७५; १२८; १३०;

स ३७८: ६; सिशि ३८०: ३;

९; ३८२: १७; व ४३२: ४;

४३५: १५; चक्र १३; षो २०;

वपू १, ५^३; २, २; वउ १, १५; २,

५^३; ५, ४०; -वम्-वम् शि १, २१;

-वया सार २५७: १४; -वत्य

ब्रवि ३; स्क ८; योशि १, १६९;

५, ५; वरा ५, ५०; १प्र ३१: ४;

शि १, २०; २४; २, २०; २४; ६,

१२४; १२५; १३३; १७४; १८१;

१८५; सिशि ३८०: ४; ३८१:

६; ८; ३८२: ६; -वा श्वे ३, ५^{१०};

गौ २, ३३; शां १, ७, १५; योशि

६, ४७; मु १, १, २५; नी १, ७^{१०};

८^{१०}; लि ३०९: ७^{१०}; आष

३९३: १-५; ६^३; ७-१०; ३९४:

१-२३; ३९५: १-५; ६^३; १२^३;

१३-२०; २२; २३; ३९६:

१-१८: १९^३; २०-२३; ३९७:

a) °ला° इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. तैत्र्या १०, ११, २)। b) सि° इति अख्या.। c) सीत्कारा° इति निसा., अख्या., सीत्कारा° इति अख्या. संदि. च यनि. शोधः द्र. (तु. तैत्र्या १०, ११, २)। d) व्यु. ? = ऋषिविशेष-। e) वैपश् यद्र.। f) = पुस्तिका-। g) विप. वा नाप. वा बीजाक्षरविशेष- वा। वैपश् यद्र.। h) तैत्र्या १०, ११, २। i) तैत्र्या १०, ४७, १। j) तैत्र्या १०, ६९। k) मा १६, १३। l) तैत्र्या १०, ६३, १। m) °वश° इति अख्या.। n) तैत्र्या १०, १, १। o) तैसं ४, ५, १, १। p) मा १६, २।

१-१३; १४; १६-२०; २१^३;
 २२; २३; ३९८: १-५; ७-१०;
 १२-२३; ३९९: १-७; ९-१३;
 १५; १६; गु ४७; व ४२७: ८;
 -वा: शि १, ९; -वात् वरा ४,
 ३२; सिशि ३८२: ७; -वानि शि
 ७, १२९; -वाम् प्र २, १२; खे
 ३, ६९^३; दे ६; १०; नी १, ५९^३;
 विद्या ४; -वाय मना २, १६९^३;
 वृजा ४, २९; ३१; नि १; स्क ८;
 त्रिवि ७, ३०; १संन्या २, ३२;
 त्रिता ४, १७; म २, ४; वरा २,
 ३५; दत्ता २; शि १, १६; ६, २;
 ३; ७; ८; १०; १५; १८; १९; २५;
 २८; २९; ३९; ४३; ४६; ६३;
 ६७; ७६; ८१; ९७; १०१; ११४;
 २४५; २४७; २४८; २५०^३;
 २५१; २८२; ७, २; ८९; वपू १,
 ३; -वायै दे ३; -वे त्रिवार, २०;
 यो १, ७५; जाद ४, ५७; सिशि
 ३८१: १; ४; ३८३: ९; -०वे व
 ४३१: १; ४५८: ९; -वेन मना
 २, ७७९^३; शु ३, १९; त्रिवि ५,
 १२; यो १, ८६; कृ १५; सार
 २५८: ५; नी १, ६९^३; शि ४,
 ५२; नौ वरा ४, ४२.

शैव-व: म २, ४^३; २८; पी
 ४२२: १९; १कौल ६: २; २कौल
 ७; -वम् त्रिवि ५, १२; अक्ष ३;
 कुं २०; म २; २८^३; स ३७९:
 २; -वा: अक्ष १२; सार २३५:
 ४; २७३: १२; -वान् म २, २८;
 त्रिता ४, १५; -वानि त्रिता १,
 ११; -वेभ्य: म २, ४; -वेषु राउ
 ५, ४.

शैव-लिङ्ग- -ङ्गेन शि ३, ८

शैवा(व-आ)गम-स्थ-

-स्थानाम् अक्ष ३, २१.

शैवा(व-आ)त्मक- -कम्
 त्रिता २, २०.
 शिव^०-वम् शि १, २२; ५,
 २८; ६, ५८; १८५; १९३; -वे
 शि २, २१; ३, १४; ४, ३४; ४२;
 ४४; ६, २; ४; ६; १३; १८; ३०;
 ५२; ५५: ६७; ६९; ७७; ९७;
 ९८; १०१; १०३; १८०; १९८;
 १९९; २०३; २०४; २०७;
 २१८; २२६; २३७; २३९;
 २४०; २५३; २५८: २६९;
 २७२.

शिव-कर्मन्- -र्मणा शि १, २९.

शिव-केशव- -वयो: स्क १०.

शिव-क्षेत्र^३- -त्रेषु शि ६, १९१.

शिव-गण- -णै: त्रिवि ५, १२.

शिव-गायत्री-पर-ब्रह्म-मन्त्र-
 -न्त्राणाम् त्रिवि ७, ४३.

शिव-गुह-स्वरूप- -प: रू २४.

शिव-गृह-स्थ- -स्थेभ्य: शि ६,
 २१०.

शिव-गृहा(ह-आ)श्रम-

शिवगृहाश्रमिन्- -मी शि ५,
 २१.

शिव-गोह- -हे कालि ४०३: १९.

शिव-गोकुल- -ले शि ६, २७७.

शिव-गोष्ठो(ष्ठ-उ)पयोगा(ग-आ)-
 थं-थंम् शि ६, २७७.

शिवं-कर- -र: अ ३.

शिव-चन्द्र-काम-शंभु-हरि- -रय:
 काम १४.

शिव-जापिन्- -पी शि १, ३६.

शिव-ज्ञान- -नम् शि १, ३०; ४,
 २९; ३१; ६, १९४; ७, ६१; ६२;
 ७८; -नस्य शि ७, ९; ३५.

शिवज्ञान-महोदधि- -धिम् शि
 ७, १३२.

शिवज्ञान-विद्- -विदम् शि १,

३५.

शिवज्ञाना(न-आ)त्म-हस्त-
 -स्तेन शि ७, ४१.

शिवज्ञाना(न-आ)र्थ-तत्त्व-ज्ञ-
 -ज्ञम् शि ७, ४.

शिवज्ञानिन्- -नी शि १, ३६.

शिव-तत्त्व-विद्- -विद: स३७९: ३

शिव-तम, मा- -म: मैत्रि ६, ३१;

मना १, १२९^३; -मा नी १, ७९^३.

शिव-ता- -ता १संन्या २, ४६; -ताम्
 सार २५८: २.

शिव-तीर्थ- -थंम् शि ५, ४७; -थानि
 शि ६, १९४; -थै सिशि ३८१: १५.

शिव-तुल्य- -ल्य: शि ६, ८९.

शिवतुल्य-पराक्रम- -म: शि ६,
 ९३.

शिव-तुषि- -सि: रु २८.

शिव-त्व- -त्वम् यो २, ९; तुषो
 ४२१: २.

शिव-दक्षिणतस(>) शि ४, २१.

शिव-द(>)दा- -दाम् दे १०.

शिव-दान-

शिवदान-तस(>) शि ६,
 १०४.

शिव-दू(त>)ती^{१५}- -०ति व
 ४३१: १५.

शिव-देव-गृह- -हम् शि ३, ३.

शिव-धर्म- -र्मम् शि ७, १३३;
 १३८; १३९; -र्मस्य शि ६, १६३;

७, १३३; -र्मा: शि १, ५; ७,
 १३६; -र्मात् शि १, ३०.

शिवधर्म-प्रवक्तृ- -क्तृभि: शि ७,
 १३७.

शिवधर्म-व्रता(त-आ)रम्भ-
 -म्भे शि ७, १०.

शिवधर्मा(र्म-अ)नन्तो(न्त-उ)-
 क्षत-गोपुर-द्वारा(र-आ)कार-
 -रै: सि ६, २५.

a) मा १६, ३। b) तैत्र्याञ्जा १०, १६। c) तैत्र्या ३, ७, ६, १९। d) मा १६, ४। e) तु. गपू. पृ६६६b।

f) ऋ १०, ९, २। g) तैसं ४, ५, १, १। h) =देवीविशेष-।

शिवधर्मा(र्म-आ)नन्द-मूर्ति-
 वृषभा(भ-आ)वलि- -लिभिः
 सि ६,२५.
 शिव-नामन्- -मानि भ १,१.
 शिव-निरसन- -नम् रु २८.
 शिव-निर्माह्य- -ह्यम् इ १५:१८.
 शिव-निर्मित- -तम् शि ५,२९.
 शिव-पञ्चा(ख-अ)क्षर- -रे रार५,३
 शिव-पुर- -रम् शि १,२९; ४,
 ५५; ६,९५; १८२; ७,९७; -रे
 शि ४,३५; ५,३०; ६,२७; ५६;
 ५९; ६४; २१९; २३०; २३४;
 २७०; २७३.
 शिव-पुस्तक-वाचन- -नम् शि ७,
 ८७.
 शिव-पूजक- -कैः रुजा १, १५
 शिव-पूजा-पथ- -थे रु २५.
 शिव-पूजा-रत- -तः रु २.
 शिव-पूर्णा(र्ण-आ)हुति- -तिम् शि
 ४,५५.
 शिव-प्रसाद- -दात् सिशि ३८१:३.
 शिव-प्रिय- -यः श ३६; -याय व
 ४५६: ८.
 शिव-प्रीति- -तिः रु २७.
 शिव-प्रोक्त- -क्तम् कामे १८.
 शिव-भक्त- -क्तः रु ४; शि ५,२१;
 ६, २२३; -क्तस्य सिशि ३८३:
 ५; -क्तानाम् शि ६,२८४; ७,१;
 -क्ताय श ३४; शि ६, २००;
 २३६; -क्तैभ्यः शि ६, ३७; ७,
 ७८.
 शिवभक्त-चाण्डाल-हस्त-
 विभूति- -तिः रु ६.
 शिव-भक्ति- -क्तेः रु ५; -क्त्या रु ३.
 शिवभक्ति-विहीन- -नः रु २.
 शिवभक्ति-संपुष्ट- -ष्टम् रु ८.
 शिव-भस्मन्- -स्म शि ५, १०;
 -स्मनि शि ५,२४.

शिव-भावित- -तः शि ४,५२: -तैः
 शि ३, १.
 शिव-भाषित- -तम् योशि १,५१:
 १३९; १४४.
 शिव-मन्त्र- -न्त्रः शि १,१९; -न्त्रम्
 शि ७,६३; -न्त्रेण शि ५, ४५:
 ६,२२९.
 शिव-मय- -यः स्क ९; वर्ष ३१३:
 ४; कालि ४०१:४.
 शिव-महाशान्ति- -न्तिम् शि ६,
 १६०.
 शिव-माला- -लाम् शि ६,१६१.
 शिव-यज्ञ- -ज्ञाय शि ६,२२३.
 शिवयज्ञ-महावेदि- -द्याम् शि
 ४,५७?०.
 शिवयज्ञो(ज्ञ-उ)पभोगा(ग-अ)-
 र्थ- -र्थम् शि ६,२८४.
 शिव-योग-
 शिवयोग-निद्रा- -द्रा निर्वा
 २९७: ९.
 शिवयोग-प्रवृत्त- -त्तस्य शि ६,
 २१७.
 शिवयोग-प्रसिद्धि- -द्धये शि ७,
 १०२.
 शिवयोगिन्- -गिनः रु २५; शि
 ४,६७; ६,२१९; -गिनाम् शि ६,
 २१३; २१५; २२०; २२१;
 २५५; -गिने शि ५, ३०; ६,
 २१६; २३२-२३५; २५८;
 २६७; २६९; -गिभ्यः शि ६, १०;
 २३७; २३८; २५७; २६१;
 २६३; -गी भा ४३; शि १,३६;
 ५,१७.
 शिव-रथ- -थेन शि ६,१८८.
 शिव-रात्र- -त्रे शि ६,१९५.
 शिव-रात्रि- -त्र्याम् वर ६,४४.
 शिव-रूप- -रूपम् कै २,१; वि १०;
 १५१.

शिवरूपिन्- -पी त्रिता १,१५.
 शिवरूपिणी- -णि व ४३६:
 २०.
 शिव-रूप- -रूपः रु १५१; त्रिता
 १,३८; -पाय स्क ८
 शिव-लक्ष्य- -क्ष्यम् रुह ३९.
 शिव-लिङ्ग- -ङ्गम् भ २,३; -ङ्गाय
 मना २,१६५°.
 शिवलिङ्ग-धर- -रम् स ३७९:
 १३.
 शिवलिङ्ग-रूप-
 शिवलिङ्गरूपिन्- -पिणम्
 भ २,२२; २४.
 शिवलिङ्गा(ङ्ग-अ)चर्न-युत-
 -तः रु ५.
 शिव-लोक- -कः सु १०; -कम् शि
 २,३१; ४,२५; ५०; ६,६०; ६१;
 १३२; १६८; १७५; १८४;
 १८८; १९१; २१२; २५६; -केशि
 ४,३६; ४१; ५२; ५,२४; ६,५;
 ७; ९; १५; २८; ३२; ३५; ३६;
 ४८; ५३; ५४; ५७; ६२; ९२;
 २१३; २१५; २२७; २३१-२३६;
 २३८; २४२; २४४; २४६-२६०;
 २६२; २७८; ७,९४.
 शिवलोक-ज्ञान- -नम् शां १,
 ७,५२.
 शिव-वक्त्र- -क्त्राणाम् शि ६,१४१.
 शिववक्त्र-योनि- -निम् सुमु ७.
 शिव-वक्षस- -क्षसि वृजा ६,७.
 शिव-वत् शि ७,५.
 शिव-विज्ञाना(न-आ)नन्द-वन-
 शैव-धर्म- -मूर्ति- -तिम् सि ६,
 २९.
 शिव-विज्ञाना(न-आ)नन्द-सागर-
 तीर्था(र्थ-आ)कार- -रम् सि
 ६,२६.
 शिव-विद्या- -द्याया शि १,३३.

a) °द्याः इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । b) समासान्तः अम् प्र. उत्सं. (पा ५,४,८७) । c) तस. । d) वस. ।
 e) तैव्याम् १०,१६ ।

शिवविद्या(द्या-अ)र्थ- -र्थम् शि
१, ३३.
शिव-वेदि- -दिम् शि ३, ५.
शिव-वैकुण्ठ- -ण्ठः राधा १, १०.
शिव-व्रत- -तस्य शि ५, १२.
शिवव्रत-धर- -रम् शि ७, ७२.
शिव-शक्ति- -क्तिभ्याम् वृजा २, ९.
शिवशक्ति-निकेतन- -नम् योशि
१, १६७.
शिवशक्ति-पदा(द-आ)स्पद-
-दः वृजा २, ८.
?शिवशक्तिपञ्चजीवः^a कृपु १८.
शिवशक्ति-मय- -यम् योशि २, ५
शिवशक्ति-योग- -गात् त्रिता
१, १२.
शिवशक्ति-समायोग- -गे योशि
१, ११७.
शिवशक्ति-संपुटित-प्रपञ्च-
च्छेदन- -नम् निर्वा २९८ : ९.
शिवशक्त्य(क्ति-अ)मृत-स्पर्श-
-र्शो वृजा २, १४.
शिवशक्त्या(क्ति-आ)ख्य-
-ख्यम् त्रिता १, ६३^{rb}.
शिवशक्त्या(क्ति-आ)त्मक- -कः
सुमु १९; -कम् पाशु २, ४^o; त्रिता
१, ४१.
शिवशक्त्यात्मिका- -काम्
त्रिता २, २३.
शिव-शब्द- -ब्दम् सिसि ३८१ : ५.
शिव-शान्ति-गृह-द्वय- -यम् शि
३, १.
शिव-शे(ष>)षा- -षा शि ६, १७१.
शिव-संकल्प- -ल्पम् १ शिसं
१-६९^a; २ शिसं १९^o; २; ३९^o;
४९^o; ५९^b; ६९^o; ७; ८९^o;
९-१२; १३९^k; १४-३७.

शिव-सङ्ग- -ङ्गात् सिसि ३८१ :
१०.
शिव-सत्रा(त्र-अ)र्थ- -र्थम् शि ६,
१९९.
शिव-समाश्रय- -यात् शि ६, ४२.
शिव-संप्रीति- -स्या योचू ४३;
-स्यै यो १, ४.
शिव-सायुज्य- -ज्यम् वृजा ७, २;
७; काला २१; श ३६; रुजा ३,
१; वि १; स ३८० : २.
शिवसायुज्य-मुक्ति-भाज-
-भाजः शु २, ५.
शिव-सुत- -ताय ग १५.
शिव-सूर्यै(र्य-इ)न्दु-रूप-
शिवसूर्यैन्दुरूप-वर्- -वान् रार
५, ७.
शिव-स्थण्डिल- -लम् शि ३, ७.
शिव-स्थान- -नम् शि ४, ५७; -ने
शि ७, १२८.
शिव-स्नान- -नम् शि ५, १३.
शिव-स्वरूप- -पः ता ३, ३; ८;
-पम् लि ३१० : २१.
शिवा(व-आ)गम^{ll}- -मे शि १, १४.
शिवा(व-आ)गार- -रम् भ २, १८.
शिवा(व-आ)ग्नि- -ग्निना वृजा २, १६;
-ग्नेः शि ४, ६६; -ग्नी शि ४, ३४.
शिवाम्नि-धूम-संसृष्ट- -ष्टाः शि
४, ५६.
शिवाम्न्या(ग्नि-आ)भ्यतन- -नम्
शि ४, ११.
शिवा(व-आ)ग्नि-होत्र-कुण्ड-
-ण्डम् शि ४, ८.
शिवा(व-आ)ग्नि-होत्र-शरण-
-णम् शि ४, ९; १२.
शिवा(व-आ)ग्रज- -जेभ्यः शि ६,
५७^l

शिवा(व-अ)ग्रतस्(>) शि ६,
३७.
शिवा(व-आ)चार- -रः शि ७, १०२;
-रम् शि ७, १.
शिवा(व-अ)च्युता(त-अ)म्भोरुह-
गर्भभू-धर- -रम् नाप ९,
१७^{mm}.
शिवा(व-आ)ज्ञा- -ज्ञया रुजा १, ८.
शिवा(व-आ)त्मक- -कः त्रिषा २,
११; -कम् योशि १, ११५; मु २,
२, ५६; शि १, २२; ६, २४७;
२५०; -काः रुह ४.
शिवा(व-आ)स्मै(स्म-ऐ)क्यो-
(क्य-उ)पासक- -काः सि ४,
११.
शिवा(व-आ)दि-शक्त्य(क्ति-अ)-
न्तराल-भू(त>)वा- -ताम्
त्रिता २, २४.
शिवा(व-आ)ध-का(म>)मा- -मा
त्रिता १, ६४ⁿ.
शिवा(व-अ)द्वैतो(त-उ)पासक-
-काः सि ५, २०; ६, ३९.
शिवा(व-अ)धस्तात् त्रिता १, ४७.
१ शिवा(व-आ)नन्द^o-
शिवानन्द-मय-
शिवानन्दमय-दिव्य-ना-
नालीलाविग्रहविलासविलासि-
तानन्दाविर्भाव-चरित्र-चित्री-
कृत-चित्र^p- -त्रैः सि ६, २३.
२ शिवा(व-आ)नन्द^a-
शिवानन्द-नन्दसेन-बाण-
रावणा(ण-आ)द्य(दि-अ)-
नन्त-नानामणा(ण^r-अ)नन्ता-
नन्द-मूर्ति^s- -र्तिम् सि ६, ३०.
शिवा(व-अ)न्त- -न्ते पी ४२१ : ८.
शिवा(व-अ)मृत- -तम् शि ६, ३६.

a) पा. ना. ?। b) सकृत् °क्त्यात्मकम् इति श्रद्ध्या. संटि.। c) °वतस्वात्मकम् इति श्रद्ध्या. संटि.। d) मा ३४, १-६।
e) मा ३४, ४। f) मा ३४, २। g) मा ३४, ३। h) मा ३४, ६। i) मा ३४, ५। j) मा ३४, १। k) मा १७, २। l) °जस्त्वे-
भ्यः इति पा. ? यनि. च 'जु' इति च द्विपदः शोभः द्र.। m) वैतु. श्रद्ध्या. संटि. विग्रहान्तरम्। n) °आ का° इति श्रद्ध्या.
संटि.। o) षस.। p) कस. > तुस. > बस.। q) बस.। r) °नानामया° इति पा. ? यनि. शोभः द्र.। s) कस. + कस. > बस.।

शिवा(व-आ)यतन-पुण्य- -ण्यस्य
शि ६, ११०.

शिवा(व-आ)यतन-विन- -नानाम्
शि ६, २४३.

शिवा(व-आ)र्थ-
शिवार्थिन्- -र्थिनाम् शि ७,
१३८.

शिवा(व-आ)लय- -यम् योशि १,
१६८; शि ४, २०; सि ६, २३;
-ये २शिसं २५; शि २, १; ४, ३.

शिवालय-स्थ- -स्थम् वृजा ३,
३४.

शिवा(व-आ)लोकन-संमुख- -खम्
शि ४, १७.

शिवा(व-आ)श्रम- -मे शि ६, ५५;
१३०; १३१.

शिवाश्रमो(म-उ)पभोग- -गाय
शि ६, २४१.

शिवा(व-आ)सन्न- -न्नाः शि ६,
१८७.

शिवी/भू
शिवी-भूत- -तम् शि ७, ८२.

शिवै(व-ए)कादशिका- -काम् शि
५, ३३.

शिवैकादशिका-जस- -सम् शि
५, १०.

शिवो(व-उ)पनिषद्- -षदम् शि १,
८; ७, १४०; -षदि शि १, १९

शिवो(व-उ)पासक- -काः सार
२३५ : ४.

शिवो(व-उ)मा- -माम् शि ६, २२४.

शिवोमा-तनय- -यम् वपू २, २.

शिवोमा-तीर्थ-संयोग- -गात्
शि ५, ४८.

शिवोमा-युत- -तः वपू २, ३.^३

शिवोमा-रामचन्द्र- -न्द्रः रार
२, ३१.

शिवो(व-उ)मा-राम-मन्त्र-
-न्त्रः रार २, ३०.

शिवो(व-उ)मा-स्कन्द-नामन्-
-मभिः शि ४, ३९.

३शि(व>)वा^३- -वाः छाग २५:१४.

शिशिर^{११}- -रः गार ४०८:९; -रम्,
-रे अशि ६, १४; वटु ३१७:२१.

शिश्रियाण- √श्रि ६.

शिश्यु^{११}-
शैशव- -वम्, -वे महा ३, ३३.

२शिश्यु^{११}- -शुः वृ २, २, १९^{११}; -शुम्
वृ २, २, १; सुवा ९.

शिश्र^{११}- -श्रम् ऐ १-२, ४; -श्रा मना
२, ३ १९^१; ३२९^{११}; -श्रात् ऐ १, ४;
-श्रे लु ७; -श्रेन ऐ ३, ९^१; ११.

शिश्र-कृत- -तम् वृजा ४, ३४.

शिश्रा(श्र-आ)भ- -भे हं ६.

शिश्रो(श्र-उ)दर-परायण- -णाः
भव १, ५७.

√शिष्, शिष्यते १संन्या २, २८; अज
१, ४४; ५, ६३; व१५; शिष्यति
पे ३, ४; यो ३, ३५.

२शिष्ट- -ष्टम् मैत्रे २, २८; रार २,
५३; अज १, ४६; ५, १०४; वरा
४, १९; -ष्टेन रार ३, १.

शिष्टा(ष्ट-आ)हंकार-
शिष्टाहंकार-वत्- -वान् महा
५, ९४.

१शेष^{११}- -षः ते ३, ३५; अज १,
४५; ५, १७; अक्षि १०; त्रिता ५,
५; शि ४, २३; अवि ५; -षम्
आरु १; रार २, ४०; ४९; ५१;
१०२; त्रिता २, १४; -षस्य भ

१, ६; सौ १, १; -षाः मै ४, ४, ८;
मैत्रि ६, ३४^१; महा ३, १४; योशि
६, १८; -पाणि सांका ३४; -षात्
आश्र ३; -षे महा ६, २३.
शेष-कर्म-मिद्धय(द्धि-अ)र्थ-
-र्थम् नाप ४, ३८^१.
शेष-त्व- -त्वात् वस ३, ४, २.
शेष-भस्मन्- -स्मनि वपं ३१२:
२३.
शेष-स्थ- -स्थः महा ६, २८.
शेष-स्थिर-समाधान- -नः महा
६, ६; सु २, २, ७१.

२शेष-
शेषा^१- -षाम् शि ६, १६०;
१६८-१७०.

१शिष्ट- √शास् ६.

२शिष्ट- √शिष् ६.

शिष्टि, शिष्य- √शास् ६.

√शी, अशयत छां ३, १९, १.

शेते छां २, १३, १^१; वृ २, १,
१७; १९^१; ३, २, ११; ४, ४, ५;
२२; अशि ६, १३^१; कौ २, १५^१;

नाप ३, ४१; त्रिवा २, १७; ४२;
वटु ३१७ : १९; वपू २, ३; शेते
नी २, २३^१; शयीत वृ २, १,
१९; ४, ४, ७; शि ५, १८.

शिश्ये कौ २, १४^१; ४, १८;
शयिता क १, १, ११; अशयिष्ट
कौ ४, १८; १९; छाग २४:१६.

शयन- -नम् रार २, १०; शि ७,
८७; ९०; षो १^१; -नात् सार
२३४ : १८; -ने शि ७, ७.

शयान- -नः क १, २, २१; ऐ ४,
५; कुं २८; शि ७, १६; -नम्
आर्ष ९ : १९; शि ७, ३१.

शयित्वा छां ५, ९, १.

a) व्यु. ? =शृगाल- । b) व्यु. अर्थश्च ? । c) वैपश् यद्र. । d) व्यु. ? =मध्यम-प्राण- । e) व्यु. ? =मूत्रेन्द्रिय- ।
वैपश् यद्र. । f) तैत्रा १०, २४, १ । g) तैत्रा १०, २५, १ । h) भाप. =अवशिष्ट- । i) उत्तरेण संधिरार्थः । षः इति
सांतः । j) =निर्मात्य- । k) 'शयते' इति JC. । l) श्येत? इति निसा., आन. (तु. नादी. श्येतः), श्यतः इति अच्चा.
च यति. शोषः द्र. (तु. शांआ ४, १५; JC.) । m) मा. १३, ७ । n) ष्ये इति निसा. ? यति. शोषः द्र. (तु. शांआ ४,
१४^१) । o) =आकार-बीजाक्षर- ।

श(द्य) > श्या^१ - श्या १संन्या २, ९९; सार २६३: २३; २६६: १६; -श्या: सार २२२: २३; २३७: १४; २६६: १२; २६७: ८; -श्याम् सार २२९: ७; ८; २६८: १९; शि ७, ९१.
 शय्या-गृह- -हम् सार २२८: ८.
 शय्या-भोजन-शृङ्गार- -रा: सार २२३: १३; १६; -रै: सार २३६: १२.
 शय्या-मन्दिर- -रम् सार २६५: २२.
 शय्या(श्या-श्रा)सन-समायुक्त- -क्तम् शि ४, २१.
 शय्या-सुख- -खम् सार २८४: २३.
 शय्यो(श्या-उ)ष्पा(त) > ता^१ - -ता सार २६३: ७.
 शय्यो(श्या-उ)पकरण^१ - -गानि सार २३७: ८; २६२: १६; २८३: १७; २८४: १८^१.
 शय्यो(श्या-उ)पकरण > णा^१ - -णा सार २८२: ९.
 शीघ्रा- √ शिच् द्र.
 शीघ्र^१ - -घ्रम्^१ मैत्रि २, १; ब्रवि १९; अन्न ४, ७३; यो १, ५७; ६७; २, ४४; गरु ५; शि ७, १२०.
 शीत- √ श्यै द्र.
 शीर्ष- √ शू द्र.
 शीर्ष^१ - -र्ष: गार ४०६: ८; -र्षम् अशि ३, १; च २१: १६; वट्ट ३१५: १; -र्षाणि गार ४०६: २-४; -र्षे मना २, १२, २९^१; १ अव ४; दत्ता १, ५; ७; शौ ५३: १५९^१; सिशि ३८१: १३.

शीर्ष-क- -के वृजा ४, १८; २८.
 शीर्ष-कपाल- -लम् सुबा ११^१; -ले तै १, ६, १.
 शीर्ष-तस(>) अशि ६, ७.
 शीर्षा(र्ष-अ)न्तर-गत-मण्डल- मध्य-ग- -गम् मं १, ४, १.
 शीर्षा(र्ष-उ)दिता(त-अ)नल- हर- -रम् यो १, २८^१.
 शीर्षा(र्ष-उ)परि मं १, २, १०; अता ६.
 शीर्षन्^१ - -र्षा: वज ३, ५०; -र्षां वृ २, ५, १६९^१; -र्षिण सं ८.
 शीर्षण्य- -ण्ये कौ १, ५९^१.
 √शील्(बधा.)
 शील^१ - -लम् नाप ४, २.
 शुक^१ - -०क सार २२६: १६; २२७: २२; -क: सार २२६: १२; १७; २२७: १; २८८: ३; २१; -कम् शि ६, २०८; -केन सार २२६: १३; १५; -केषु सूता २, ९९^१.
 शुक-नास, सा- -सम् शि २, १०; -साम् शि २, ११.
 शुक-पिक-यूथ- -थानि सार २८८: १
 शुक-यूथ- -थानि सार २८२: ६.
 शुक-वत् सांसू ४, २६.
 शुक-वाणी- -णीम् रा ४२४: २३.
 शुक-शारिका- -का: सार २८८: ९.
 शुकशारिका-मिथुन- -नम् सार २८८: ५.
 शुक-श्याम(ल) > ला^१ - -ला व २१.
 शुक^१ - -०क शु १, १२; ३, १६; महा २, ७३; -क: शु १, ८; महा २, १; १२; १७; २०; २१; २७; ७४; रुह २; वरा ४, ३४; ३६^१; तुल ७१: २२; -कम् महा २, २३; २५; २८; रुह ३; गार

४०७: १३; -कस्य शु १, २; महा २, २२; -काय तुल ७१: २२.
 शुक-देव^१ -
 शुकदेव-वामदेवा(व-आ)दि- जीवन्-मुक्त- -क्तानाम् म ४९: १०.
 शुक-मार्ग- -गंम् वरा ४, ३४^१; -गैण वरा ४, ३८.
 शुक-वत् सांसू ४, २५.
 शुका(क-आ)दि- -दय: ते १, ४७; -दिभि: सु १, १, २.
 शुका(क-आ)घ- -घै: द ५; १०.
 शुक्तस्वर- -र: मैत्रि ३, ५१^१.
 शुक्ति^१ - -कौ योशि ४, १३; १४.
 शुक्ति-क > कार^१ - -का योशि ४, २२; -काया: (श्याम्^१) वरा ३, १५; -कायाम् यो १, ८०.
 शुक्तिका-रजत- -तम् ते ६, ७६.
 शुक्ति-मात्र-रस- -सस्य शि ६, २७.
 शुक्त्या(क्ति-आ)दि- -दीनि शि ६, २६२.
 शुक- , १-२शुक्ल- √ शुच्(बधा.) द्र.
 शुक^१ - -ङ्गम् छां ६, ८, ३; -ङ्गेन छां ६, ८, ४^१; ६^१.
 शुक^१ -
 शौ(ङ्ग)ङ्गी-
 शौङ्गी-पुत्र^१ - -त्र: -त्रात् वृ ६, ५, २.
 √शुच्(शोके), > शोचि, शोचते महा २, ५७; शोचति क१, २, २२; २, १, ४; २, १; ३, ६; मुं ३, १, २; छां ६, २, ३; वृ १, ५, १९; खे ४, ७; गौ १, २८; सुबा ३; नाप ९, १५; महा ५, २६; ६, ६४;

a) षसं । b) श्योक^१ इति पा.१ यनि. शोध: द्र. । c) वैप१ यद्र. । d) वा. क्विचि. द्र. । e) अ ४, ५८, ३ । f) शानिल^१ इति अश्या.संति. । g) अ १, ११६, १२ । h) श्यम् इति निसा.अश्या. च पा.१ यनि.शोध: द्र. [तु. आन., बे., आंआ. (३, ५), J.C.] । i) घा. अर्थ: १ । j) व्यु.१ = पक्षिविशेष- । वैप१ यद्र. । k) अ १, ५०, १२ । l) व्यु.१ = अष्ट-विशेष- । m) ०कं मा^१ इति अश्या. । n) पा.१ 'शुक: रस:' इति द्विपद: शोध: द्र. (वैतु. 'शुक: स्वर:' इति सात.) । o) व्यु.१ । p) निसा.पा.१ यनि. शोध: द्र. (तु. अश्या.) । q) व्यु.१ = शुक- , अङ्कुर- । r) व्यु.१ = गोत्रप्रवर्तक-अष्टिविशेष- ।

अज ४, ३४; ५, ९१; ९४; रुह
४६; म २, २५; जाद ४, ६२;
गी १२, १७; १८, ५४; शोचन्ति
वृ १, ५, २०; शोचामि छां ७,
१, ३.
शुचः राउ ३, ६; गी १६, ५;
१८, ६६; शोचीः शां २, १.
शोच्यते महा ३, १२.

शुच्- शुक् ब्रम् १, ३, ३४.

शोक- -कः ई ७; छां ८, ४, १; मै
३, ५; मैत्रि ३, ५; १योत १२;
नाप ९, १२९^५; महा ६, १३;
योशि १, १०; वरा ४, ४३९^५; -कम्
सुं ३, २, ९; छां ७, १, ३; वृ ३,
५, १; दे १०; म २, ८; २०; गी
२, ८; १८, ३५; -कस्य छां ७, १,
३; शां २, १; -काः इ १८ : ७;
-कान् वृ ४, ३, २२; -के योशि ६,
६८; -केन वृजा ६, १.
शोक-भय- -यम् २प्र३६ : ७.
शोक-मोह- -हौ ससा ६; वरा
१, ९.

शोकमोह-विनिर्मुक्त- -क्तम्

आबो १.

शोक-मोह-भय-वैराग्य-दुःख-
नाश-हेतु- -तवे सार २६१ :
१२.

शोक-मोह-भयो(य-उ)द्वेग-
रहित- -ताः सार २३५ : २१.

शोक-वर्जित- -तः योशि १, २६.

शोक-संविभ्र-मानस- -सः गी
११, ४७.

शोक-स्थान-सहस्र- -स्त्राणि
भव १, ९.

शोक-हर्ष- -षौ नाप ४, १०.

शोक-हीन- -नः मैत्रे ३, ३.

शोका(क-अ)तिग- -गः क १,
१, १२; १८.

शोका(क-अ)न्तर- -रम् वृ ४, ३,
२१.

शोका(क-अ)र्त- -तः शि ७, ५७.

शोका(क-अ)वह- -हम् नाप ३,
६७.

शोचितुम् गी २, २६; २७; ३०.

शोच्य- -च्यः महा ३, २७.

√शुच्(*वधा.)

शुक्र^१- -कः मैत्रि ७, ३; ९; ववि १०४;

मना ११; गु ५२; व ४३७; १५९^५;

४६२; २; -कम् ई ८; क २, २, ८;

३, १; १७^५; सुं ३, २, १; वृ ४, ३,

११; श्रे ४, २९^५; मैत्रि ६, २४; ३५;

गर्भ २^०; मना १, २९^५; २प्र३३ : ९;

शौ ५२ : ९; शि ७, १०७; -क्राय

व ४३७ : १६; -क्रेण मना १, १९^५.

शुक्र-कुडव- -वम् गर्भ ५^५.

शुक्र-बिन्दु- -न्दुः शि ७, १०६.

शुक्र-वृहस्पति- -ती गार
४०८ : ७.

शुक्र-भिन्न- -न्नेन निरु १, ७.

शुक्र-वार- -रे रा ४२३ : ११;
२१; ४२४ : १८.

शुक्रवार-यु(क्त>)क्ता-

-क्तायाम् रा ४२४ : १०; १३.

शुक्रवार-यु(त>)ता-

-तायाम् रा ४२४ : १; ६.

शुक्र-वासर-यु(क्त>)क्ता-

-क्तायाम् रा ४२५ : ५; १४; १६;
१७; १९.

शुक्र-शोणित-संयोग- -गात्

गर्भ २; निरु १, ७.

शुक्रा(क-अ)तिरेक- -के निरु
१, ६

१शुक्र^१-

२शुक्र, छां^१- -क्लः प्र १, १२;

छां ८, ६, १; वृ ६, ४, १४; गर्भ

२; ध्या १३; योक् ७५; २प्र ३५;

४; गी ८, २४; -क्लम् छां १, ६,

५; ६ : ७, ४^५; ३, २, ३; ६, ४, १-४;

६; वृ २, २, २; ४, ४, ९; मैत्रि ६,

३५; अशि २, २८ : ३, १२; ४,

९; १०; ते ४, २५; ध्या ८७^५;

९०; १योत ८८; योक् ६०;

६१; ६४; यो १, ७२; ७५^५; पं८;

वटु ३१४ : १५; ३१५ : १२^५;

३१६ : ३; काम ६; व ४ ३, ९;

-क्लस्य छां ८, ६, १; वृ ४, ३, २०;

कौ ४, १९; -क्ला अ १; -क्लानि

वृ ६, ५, ३; शि ६, २५८; -क्लाम्

लु ९; -क्ले प्र १, १२; वृजा ३, ४.

शुक्ल-कृष्ण- -णो गी ८, २६.

शुक्ल-तेजस-

शुक्लतेजो-मय- -यम्

अता १०.

शुक्ल-दन्त- -न्तः वृजा ३,
२४.

शुक्ल-ध्यान-परायण- -णः

जा ६; नाप ३, ८६; प ४१९^५;

१७; -णाः मि १२.

शुक्ल-पट-

शुक्लपट-वत् सांस् १, १०^५;

शुक्ल-भास्वर- -रम् मं २,

१, ५.

शुक्ल-मालया(त्य-अ)जुले-

पन- -नः वृजा ३, २३.

शुक्ल-मोचन-कारि(न>)-

णी- -णी योशि ५, २५^५;

शुक्ल-मञ्जुर्वेद-ग(त>)वा-

-तानाम् सु १, ३, ३.

a) मा ४०, ७। b) ब्रपा. वैप १ यद.। इह = आचार्यविशेष-, २ग्रह-, रेतस्-, दिन- प्रसू.। c) ऋ १, ६९, १।
d) मा ३२, १। e) कृम् इति अच्चा.। f) तैत्रा १०, १, १। g) कं कुं इति आन., कं कुडपम् इति अच्चा.।
h) = वर्णविशेष-। i) = वर्णविशेषवत्-, रेतस्-। j) कृम् इति निसा.। k) कं इति अच्चा.। l) शुक्रं इति
निसा. संटि.।

शुक्ल-यज्ञोपवीत-
शुक्लयज्ञोपवीतिन्-
-ती वृजा ३, २३.
शुक्ल-वस्त्र^a- -स्त्रम् नाप
३, ७१.

शुक्लवस्त्र-क- -कम्
१संन्या २, ८७.

शुक्लवस्त्रो(स्त्र-उ)प-
वीत-

शुक्लवस्त्रोपवीत-
वत्- -वान् शि ७, ४३.

शुक्ल-वासस^b- -साः शि ६,
१६२.

शुक्ला(ङ्-आ)त्मक- -कम्
योशि ५, २८.

शुक्ला(क्ल-आ)भ- -भः
वृजा ६, ९.

शुक्लो(क्ल-उ)स्सर्ग- -र्गः
१संन्या २, ८८^c.

शुचि- -चि योरा १३; -चिः क १,
३, ८; मैत्रि ६, ३०; जा ५; कै १,
५; मना २, ७६^d; अशि ७, ८;
वृजा ३, ५; ते ३, ४९; ५, २०;
नाप ७; योच् ८८; अता १४;
रार ४, २; रुजा २, ९; जाद ६,
१६; कलि ३; या २, १; सौ १,
१; चा १२; द्र ५; शि ५, ४१;
६, १६२; सिशि ३८१: ११; व
४५९: १; गौ १२, १६; -चिम्
मैत्रि ६, ३५^e; मन्त्रि १; चूर्श^f;
-चीनाम् गौ ६, ४१; -चौ छां ८,
१५, १; श्वे २, १०; मैत्रि ६, ३०;
नाप ४, १८; मुद्र ४; कुं ३; जाद ५, ४;
सूता १, २४; भव ३, २३; गी ६, ११.

शौच- -चम् मैत्रे २, २; ९;

नाप ३, २१; २४; त्रिवा २, ३३;
स्क ११^g; शां १, ११^h; पै ४,
१८; शारी १; कुं १२; कर ३;
जाद १, ६; २०ⁱ; २१; वरा ५,
१३; सु २, २, ६७; इ १५: २१;
शि ५, ४४; ७, १००; भव ३,
२२; ५, १२; २१; कश्चु ३, ३;
गी १३, ७; १६, ३; ७; १७, १४;
१८, ४२; -चात् योस् २, ४०; -चे
भव ३, २०.

शौच-पीत-वस्त्र- -स्त्राणि
शि ६, २५५.

शौच-संतोष-तप- -स्वा-
ध्याये(य-ई)श्चरप्रणिधान-
-नानि योस् २, ३२.

• शौचा(च-आ)दिक-
-कम् भ २, २.

√शौचि, शौचयेत् शि
७, ४९.

शुचि-ता- -ताम् कलि ३.

शुचि-रूप- -पः अक्षि १; चा १२.

शुचि-षट्- -षत् क २, २, २;
मना २, १२, २; २, ४०; वृपू
३, ६; नाप ५, १; त्रिता ४, २६;
वपू २, ३.

शुचि-स्मि(त>)ता¹- -ता वृजा
६, १; -०ते वृ ६, १².

शुशुक्स- -कान् व ४३७: १५³.

शोचित¹- -तम् २योत २, १.

शुच्- √शुच् (शोके) द्र.

शुटी³-

शुब्धा(टी-आ)घ- -घैः सार २४४:
११.

शुतुद्री⁴- -०द्रि मना १, १३⁵.

√शुध्, >शोधि, शुध्यते शि ५, ३८;

शुध्यति जाद ४, ५४; भव ३,
१८⁶; शुध्यन्ति भव ३, १८; १९;
शुध्यताम् मना २, ६६⁷; ११⁸;
शुध्यन्ताम् मना २, ६५⁹;
६६¹⁰; शुध्येत् शा २६.
शोधयेत् मै ४, ४, ३; मैत्रि ६,
३४; मैत्रे १, ४, ५; वृजा ३, ८;
रापू ५, १; योशि ५, ३७; वरा
३, २१; शा ३; शि ४, २३.

शुद्ध, द्वा- -द्धः छां ५, १०, १०; वृ
५, १४, ८; मै २, ४; ११; मैत्रि २,
४; ७; ६, २८; ३१; ३८; ७, १; ६;
मैत्रे १, ४, ११; ३, २; ६; हं २१;
ना २; वृ ३, ७; ९, ८; १०; सुवा
८; ससा ४; ते ३, ४२; ब्रवि १०४;
आवो ९; १०; त्रिवा १, २; त्रिवि
१, ११; २, १६; महा ५, १०४;
अन्न ५, ९३; अध्या ३७; ६९¹¹;
१वा १¹²; २वा ३; १भव ६; भ
१, ९¹³; जाद १, २०; ४, ५५; ५,
१३; १४¹⁴; वरा २, ५३; सु २, २,
७४; वृष ८५: १७; गा २८¹⁵;
शि ४, ३१; ५, ४५; ६, १८२; वउ
२, २४¹⁶; २५; ५, ४९; भव २, ३०;
योस् २, २०; -द्धम् ई ८; क २,
१, १५; वृ ५, ५, २; गौ ४, ८७;
मै ४, ४, ६¹⁷; मैत्रि ६, ३४¹⁸; ब्रवि
१¹⁹; कै २, ५; वृ ९, १७; सुवा
८; नि १४; शु २, ५; ते १, ४९;
५, १३; ६, ३७; ७०; नाद १७;
योच् ७२; महा ४, ४२; ५, १७२;
योशि २, १७; अन्न २, ४२; अक्षि
४८; अध्या ६३; १वा ३; त्रिता
५, २²⁰; कर ३७; ३८; भ १, ५;
जाद ६, १६; २७; ७, ३; शि ६,

a) कस. । b) उप. = २वासस्- । c) °क्रो इति अख्या. । d) ऋ २, १, १ । e) °चि इति पा. १ यनि. शोधः द्र. । f) °चिः इति पा. १ यनि. शोधः द्र. । g) ऋ ४, ४०, ५ । h) ऋ १, ६९, १ । i) धा. द्रवणे वृत्तिः । j) व्यु. ? = भूषणविशेष- । k) वैप १ यद्र. । l) ऋ १०, ७५, ५ । m) °ध्यन्ताम् इति पा. १ (द्र. तैश्चात्रा १०, ६६²¹) यनि. शोधः द्र. । n) तैश्चा १०, ५१-५४, १; ६०, १ । o) तैश्चा १०, ५५-५७, १ । p) °द्धवो इति निसा. संटि. । q) सम्यग् शुशु इति पा. १ यनि. च 'संप्साय' इति च द्विपदः शोधः द्र. (द्र. वृ ५, १४, ८) ।

२८; ४८; ९७; हे १४; वउ २,
३१; ३, १०; भव २, ५६; ४, १९;
अवि १^१; -द्धस्य सांसू ३, २९;
-द्धा अशि ५, १३; १संन्या २,
२४; ४३; अज ५, ६; ५५; सु २,
२, ६१^१; रु ६; ७; -द्धा: १योचू
९८; शां १, ३, १२; १, ४; ७, १;
भ २, ३०; -द्धाम् अज ४, ९०;
दे १०; -द्धाय गोपू ४२; -द्धे क
२, १, १५; नाप ३, ३९; महा ४,
१२; ५, ३०; योशि १, ६५; जाद
६, १६; वरा ४, ६; पाशु २, ३०^१;
वउ ५, ४५; -द्धेन मना १, ११७^१;
त्रिवि ७, ४७^१; भ १, ५; सु २, २,
३; सु २९३: १४; -द्धै: काम
१९.

शुद्ध-चित्त- -त्ता: शा ११;
-त्तानाम् ते १, ४९.

शुद्ध-चिद्-आनन्द-ब्रह्म-विला-
सा(स-आ)नन्द- -न्दा: त्रिवि
८, ४.

शुद्ध-चिद्-रूप- -प: पै ४, ९.

शुद्धचिद्रूपो(प-उ)पासन-
रत- -ता: शा ११.

शुद्ध-चेतन- -न: १संन्या २, २०.

शुद्ध-चेतस- -तस: दे १२.

शुद्ध-चैतन्य- -न्यम् ते ४, २;
पं ३४.

शुद्धचैतन्य-भाव- -व: ते ६,
६४.

शुद्धचैतन्य-रूपा(प-आ)-
त्मन्- -त्मा ते ४, ६.

शुद्धचैतन्या(न्य-आत्मक>)-
त्मिका- -का शां १, ११.

शुद्ध-जल- -लेन का ५.

शुद्ध-ज्ञाना(न-आ)मृत- -तम्
अवि ४६.

शुद्ध-नाप- -पम् अवि १५^१.

शुद्ध-तृ(व्याा >)ष्ण- -ष्णा: महा
६, ५९.

शुद्ध-देश- -शे भ १, ४.

शुद्ध-देह-

शुद्धदेहिन्- -ही मिशि ३८१:
१२.

शुद्ध-धी- -धी: महा ६, ६८;
६९.

शुद्ध-पक्ष- -क्षे कौ २, ३.

शुद्ध-पुण्ड- -ण्डे मिशि ३८३: ८.

शुद्ध-बुद्ध- -द्धाय नाउ २, ९.

शुद्ध-बुद्ध-परमानन्द-परमशिव-
स्वरूप- -प: मिशि ३८२: १५.

शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सत्या(त्य-आ)-
नन्द-स्वरूप-

शुद्धबुद्धमुक्तसत्यानन्दस्व-
रूप-त्व- -त्वात् त्रिवि ३, २.

शुद्ध-बुद्ध-स्वरूप- -पम् त्रिवि
७, २.

शुद्ध-बुद्धि-

शुद्धबुद्धि-मत्- -मान् रापू
४, ४२^१.

शुद्ध-बोध-

शुद्धबोध-धन-विशेष- -धम्
त्रिवि ७, २०.

शुद्धबोध-परमानन्दा-

(न्द-आ)कार- -वन- -नम्
त्रिवि ६, २३^१; सि ६, ३४.

शुद्धबोध-मय-

शुद्धबोधमया(य-अ)-
नन्त-प्रासाद- -दै: सि २, ६.

शुद्धबोध-विमाना(न-आ)-
वलि- -लिभि: त्रिवि ६, २०.

शुद्धबोध-सौधा(ध-आ)-

वलि-विशेष- -धै: त्रिवि ७,
१९.

शुद्धबोधा(ध-आ)नन्द-

शुद्धबोधानन्द-मय-

-यान् त्रिवि ६, ३३.

शुद्धबोधानन्दमया-

(य-अ)मृत-निरतिशयानन्द-

तेजोराश्या(शि-आ)कार- -र:
त्रिवि ८, ५.

शुद्धबोधानन्द-लक्षण-

-णम् त्रिवि १, ११; ५, १४; सि
१, ११.

शुद्धबोधानन्दलक्षण-

कैवल्य- -ल्यम् त्रिवि ४, १.

शुद्धबोधानन्द-विभूति-

विशेष- -धम् त्रिवि ७, १७.

शुद्धबोधानन्द-विशेषा-

(ध-आ)कार- -रम् त्रिवि ४, १.

शुद्धबोधानन्द-वैकुण्ठ-

-ण्टम् त्रिवि ६, २३.

शुद्ध-ब्रह्मन्- -ह्य मैत्रे ३, ९^१.

शुद्धब्रह्म-तेजस-

शुद्धब्रह्मतेजो-मय- -यम्
त्रिवि ७, ४९.

शुद्ध-भाव- -व: शि ५, ४३.

शुद्ध-मानस- -स: जा ६; नाप
३, ८६; पै ४, ९; पप ४१९: ५;

-सा: मि १५; या २, १.

शुद्ध-मुक्ताफल-वर्ण- -र्ण: वृजा
६, ९.

शुद्ध-मोक्ष-स्वरूप-

शुद्धमोक्षस्वरूप-वत्- -वान्
ते ३, ३०.

शुद्ध-रूप- -प: ते ३, ५.

शुद्ध-वासन^१- -ना: महार, ४०.

शुद्ध-शेष-भोगा(ग-आ)सन-
-नम् त्रिवि ५, १४^१.

शुद्ध-शौच- -चम् मैत्रे २, ९.

शुद्ध-श्लेष्म-द्रवा(व-आ)त्मक-
-कम् यो १, ७१.

a) तु. गपू. पृ३०५। b) तैब्रा ३, १२, ३, ४। c) °द्धतस्वम् इति अब्या.। d) बुद्धिबुद्धि° इति अब्या.। e) °न्दानन्दाका° इति निसा.। f) °द्धं ब्र° इति अब्या.। g) तु. गपू. पृ७८१a। h) °षोभो° इति अब्या.। यनि. शोध: द्र. (तु. निसा.)।

शुद्ध-संविद्-

शुद्धसंविन्-मय-

शुद्धसंविन्मया(य-आ)-
नन्द-रू(प>)पा- -पा अन्न ५,
८३^a.

शुद्ध-सत्त्व^b- -त्वे त्रिब्रा २,
१६४; २अव ३३८: ६.

शुद्धसत्त्व-प्रधान(न>)ना-
-नायाम् सर ३, १४.

शुद्धसत्त्वा(त्त्व-अ)नुपाति-
(न्>)नी- -नी १संन्या २, ४४.

शुद्धसत्त्वा(त्त्व-अ)नुभावन-
-नः ते ६, ६४.

२शुद्ध-सत्त्व^c- -०त्त्व अक्ष ५;
-ऽ^dत्त्वाः सुं ३, २, ६; कै १, ४;
मना २, १२, ३; भव ३, ३३.

शुद्ध-सन्मात्र-संवित्ति- -त्तेः
महा ५, ३.

शुद्ध-सारिक- -०क अक्ष ५.

शुद्ध-सिद्धि- -द्धिः रु १६.

शुद्ध-सुवर्ण- -र्णस्य त्रिवि ८, २.

शुद्ध-सुषुम्ना-सरणि- -नौ सौ
२, ४.

शुद्ध-स्फटिक-प्रतीति- -त्तिः
त्रिवि ३, ७.

शुद्ध-स्फटिक-संकाश- -शम् हं
९१^e; व्या २९; ३२; १योत ९०;
१००; १३९; २योत २, २; रार
२, ५.

शुद्ध-स्फटिक-संनिभ, भा- -भः
योशि ५, ३४; -भा २प्र ३५: १.

शुद्ध(द्व-अ)काश- -शः ते ६,
९७; -शे ते ६, ९८.

शुद्ध(द्व-अ)स्मन्- -स्मा ते ४,
३४; ६४; ६, ३९; नाप ५, ३६;
कालि ४०२: १०^f.

शुद्धात्म-दृष्टि- -दृष्ट्या मं १,

४, २.

शुद्धा(द्व-अ)द्वैत-परमानन्द-
लक्षण-पर-ब्रह्मन्- -ह्यणः

त्रिवि ८, १.

शुद्धा(द्व-अ)द्वैत-ब्रह्मन्- -ह्य मं
२, ४, ४.

शुद्धा(द्व-अ)द्वैत-सिद्धि- -द्धिः
मं ५, १, ६.

शुद्धा(द्व-अ)द्वैता(त-अ)जाड्य-
सहजामनस्कयोगानिद्रा(दा-अ)-
खण्डानन्दपदा(द-अ)नुवृत्ति-
-त्या मं २, ५, २.

शुद्धा(द्व-आ)नन्द-विमान-
-नम् त्रिवि ६, २०.

शुद्धा(द्व-आ)नन्द-विशेष-सम-
ष्टि-मण्डल-विशेष- -षम्
त्रिवि ६, २३^g.

शुद्धानन्दविशेषसमष्टि-
ण्डलविशेषा(ष-अ)नन्त-प्रासा-
दो(द-उ)ञ्जतो(त-उ)ञ्ज्वल-
-लम् सि ५, १३.

शुद्धा(द्व-अ)नन्तःकरण- -गानाम्
गोच ६७: ९.

शुद्धा(द्व-अ)न्न- -न्नेन भव ४,
१०.

शुद्धान्न-भोजन- -नात् भव
४, १८.

शुद्धा(द्व-अ)शुद्ध- -द्धौ मि १०^h.

शुद्धि- -द्धिः गोच ६८: २०; १कौल
शां; भव ३, २०; ४, ४; -द्धिम्
योचू ९४; १आ ७; शा २६;
शि ६, २२१; -द्धेः भव ३, २१;
-द्धौ त्रिब्रा २, ८९; -द्धया जाद
५, १.

शुद्धि-त्त(म>)मा- -मया मैत्रि
६, २५.

शुद्धि-साम्य- -स्ये योसू ३, ५६.

शोधन- -नम् ध्या ९१; त्रिब्रा २ⁱ
९४; योचू ६५.

शोधयित्वा अक्ष ४.

शोधित- -तयोः ध्या ४३.

शोधित-पर-तत्त्व- -त्त्वः आबो
१०.

शुनक^l-

शौनक(बहुषु शु^o)- -कः सुं १,
१, ३; छां १, ९, ३; ४, ३, ७;
ब्र १; पत्र ३; -क-कः शौ
५४: २; -कम् छां ४, ३, ५;
-काः ज्ञाग २३: ९; २४:
१२.

शौनकी^m- -की गु ३.

शौनका(क-आ)दि- -द्वयः नाप
२; द १.

शौनकादि-महर्षि- -र्षयः
नाप १.

शौनकीयाⁿ- -ये सी ६.

√शुभ्, >शोभि, शोभते १संन्या २,
३९-४१; सार २४४: १७; पित्र
३, ३ⁱ; शोभन्ते सार २५८: २३;
२६६: ५.

अशोभयन्त सार २२८: २२;
शोभयेत् शि ६, ११५.

शुभ, भा- -भः श्वे २, १३; मैत्रे ३, ३;
अक्ष १, ५४; सु २, २, ३; ३१;

-भम् बृजा ३, २; ते ४; १४; ५,
२३ⁱ; ५७; ७८; ब्रवि २७; ४५ⁱ;

५०; रुजा २, १५; सु २, २, ७;
कृपु २१; शि ६, २४; -भया श्वे ३,

४९^d; ४, १; १२९^d; मना २, १२,
३९^d; गु ५६९^d; -भस्य शि ५, १२;

-भा ध्या १०१; त्रिब्रा २, ७३;
योचू १११; छां १, ४; महा ४,

७; ९०; ५, ९०; यो १, ८२; -भाः
रुजा १, ११; शि ४, ४०; ४२;

a) गपु. (पृ १४५) सस्य. 'भानन्दरू(प>)पा->-पा' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः। b) कस.। c) वस.। d) तैत्र्या १०, ३। e) °शः इति अत्र्या.। f) यनि. शोधः द्र. (तु. निसा. आन.)। f) मत्प्र° इति तान्त्रि.। g) °न्दसम° इति निसा.। h) °द्धौ इति अत्र्या.। i) व्यु.। j) ऋषिविशेष-। j) पा २, ४, ६४। k) =आथर्वणशाखाविशेष-।

-भान् गी १८, ७१: -भाम् सु २, २, ९: -भायाम् सु २, २, ९: -०भे तुल ७१: ६; व ४३: ५: १५: -भे वृजा ३, १; त्रिआ २, ९०: सु २, २, ६; भव १, ४७: -भेषु सु २, २, ६: -भै: सार २, ४५; शिदि, १५०.

शुभ-कर- -र: सार १, ७.

शुभ-कर्म-स्वर्ग-फल- -लम् भं २, ४, २^१.

शुभ-तर-

शुभतर-भाव- -व: आबो ७.

शुभ-द- -दम् योशि १, ९७; यो १, ३८.

शुभ-प्र(द>)दा- -दा: महा ५, २२.

शुभ-प्राप्ति- -सौ अत्र ५, ५९.

शुभा(भ-आ)कल्प- -ल्प: गौच ६८: ९.

शुभा(भ-अ)क्ष-

शुभाक्ष-क- -का: रुजा १, ८.

शुभा(भ-अ)ङ्ग-

शुभाङ्गिन्- -ङ्गिने रापृ ४, १४.

शुभा(भ-अ)शुभ- -भम्^b मै ४, ४; मैत्रि ६, १६; २०; ३४; मैत्रे १, ४, ६; गर्भे ३; ४^३; ५; ब्र १; ते ६, ३७; नाप ४, ९; योचु ११०; महा ४, ३२; निरु १, २२; शि ७, ११३; १२६; गी २, ५७; -भयो: पहं ४; तुअ १८; -भस्य हे ८; -भा अ १; -भाभ्याम् सु २, २, ५; भव १, ४७; -भे १आ १५; -भै: ब्र १; लु २०.

शुभाशुभ-कर्मन्- -र्माणि त्रिवि ५, १०.

शुभाशुभकर्म-निर्मूलन-पर- -र: नाप ३, ८६; पप ४१९:

१५: या २, १^१.

शुभाशुभ-परिव्यागिन्- -गी गी १२, १७.

शुभाशुभ-फल- -लम् भव ५, १; -लै: गी ९, २८.

शुभाशुभ-विवर्जित- -त: ते ४, ४९.

शुभे(भ-अ)च्छा^{१११}- -च्छा महा ५, २७; वरा ४, १^१; ३.

शुभेच्छा(च्छा-आभ्य->)- -क्या- -क्या महा ५, २४.

शुभेच्छा(च्छा-आ)दि-त्रय- -यम् वरा ४, ११.

शुभ्र^{११२}- -भ्र: सुं २, १, २; ३, १, ५; सगा २; -भ्रम् प्र ४, १०; सुं २, २, ९; ३, १; ब्र १; २; नाप ४, ३८९^१; हे १.

शुभ्र-वख-घ(र>)रा- -राम् रा ४२४: १९.

शुभ्र-श्वेत-कर्षुरि(त>)ता- -ता: सार २७६: ३.

शुभ्रा(भ्र-अ)भ्र-

शुभ्राभ्रा(भ्र-आ)भे(भ-इ)-भ-युग्म-द्वयकर-घत-कुम्भा-(म्भ-अ)प्- -म्भाङ्गि: सौ १, २.

शोभन- -०न अत्त ५^३; -न: नृप २, ११९^१; १५; -नम् महा ३, ३९; या २, ५; इ १८: ४; शि ६, ९; ४४; १०४; २७८; ७, ८४; -ना: शि ४, २२; -नानि शि ६, २६२; २६६.

शोभमान- -न: नृप २, ११९^१; १५; -ना: सार २७४: २३; २८७: १५; -ने पित्र ३, ३.

शो(भ>)भा- -भया सार २४५: १२; शि ६, १७४; -भा सार

२४५: ३; -भाम् सार २२८:

१७; २४४: २१; २४५: ७; ५; शि ७, ७५; -भायै अत्त ६^१.

शोभा(भा-आ)ङ्घ- -ङ्घम् सार २८१: २३; -ङ्घ्या: सार २३९:

२; -ङ्घ्यानि सार २२१: १८.

शोभा(भा-आ)दि- -दि त्रिआ २, ८७^१; जाद ४, ३३.

शोभा-भेद- -द्वै: सार २७१: २.

√शोभाय्

शोभायमान, ना- -न: सार २४५: १२; -नम् सार २४५: ७;

१६; २६४: १३; २६५: १९; -ना सार २७१: १४; -ना: सार २३७:

५; २५९: २; २६४: १; १४; १६; २६५: १; १५; २६६: १०;

२७६: १; २८१: १९; २८४: ५; -नानि सार २४६: १; २५८: १९;

२६३: १५; २०; २६४: ५; १७; २०; २७६: १९; -नाम् सार २६९: १६; -नौ सार २६५:

१४.

शोभायमान-लवङ्ग-लता-परिशीलित- -ता: सार २२८: १४.

शोभित- -तम् सार २६२: २.

शुभ्र^{११३}-

शुभ्र-ध्वंसि(न्>)नी^{११४}- -०नि व ४६६: २.

शुल्ब^{११५}-

शौल्बायन^{११६}- -न: वृ ४, १, ३^१.

शुशुकस्- √शुच् (*बधा.) द.

शुश्रुवस्-, शुश्रूषण-, शुश्रूषा-, शुश्रूषित-, शुश्रूषु- √श्रु द.

√शुष्, > शोषि, शुष्यते २आ ३; शुष्यति छां ६, ११, २^१; वृ १, ३, १९; ५, १२, १; १आ१; शुष्यन्ते

b) ०र्मफलस्वर्गम् इति निसा. । c) समाहारे द्वस. । d) अशुभक^० इति अश्या. । e) =भूमिकाविशेष- ।

f) =शुद्ध- वा रक्षेत्- वा । f) पाठ २, २, १० । g) 'शुम्भः' इति तैत्ति ३, १०, १, २ । h) तैत्ति ३, १०, १, २ ।

i) अश्या. ? द्वै: इति शोष: द. (तु. निसा.) । j) व्यु. ? =राक्षसविशेष- । k) व्यु. ? =गोत्रप्रवर्तक-अपि विशेष- ।

महा ३, ५^a; शुष्यन्ति महा ३, ५०.
शोषयति यो १, ७०; सार २९१:
७; भव २, ३९; गी २, २३;
शोषय मु २, २, ३७; शोषय-
शोषय त्रिता ३, ३२; लां २१४:
१८; व ४३०: १२; ४४९: ९;
४५६: १२; शोषयेत् भ १, ३.

शुष्क-ष्कम् वृजा ३, ३०; ३४;
सिशि ३८०: ११; -ष्काय छां ५,
२, ३; -ष्के वृद्, ३, ७-१२; यो १,
६३; -ष्कैः शि ४, ४९.

शुष्क-गोमय- -यम् वृजा ३,
३४.

शुष्क-भृङ्गार^१- -रः कौ २, ६^b.
शुष्क-वादिन्- -दिनाम् सार
२५०: ५.

शुष्क-वृक्ष-
शुष्कवृक्ष-वत् ते १, २८; मं
३, १, ४.

शुष्क-स्त्रिधा(ग्ध-अ)ञ-
भोजन- -नाः शि ७, १२२.

शोष- -वम् मु २, २, ३८.
शोषण- -णम् मै १, ७; मैत्रि १, ४;
मैत्रे १, २; ध्या ९२; योचू ६५;
वरा २, ३९.

शोषयित्वा वरा ५, ३७.
शोष्य- -ष्यम् ते ४, २७.

शुष्म^c-
शुष्मिन्- -ष्मिणः प्रा १, ४९^d.

शूक^e- -कम् बा ७.

शूद्र, द्रा^f- -द्र छां ४, २, ३; ५; -द्रः
वृ १, ४, १५^g; वृजा ७, ४; सुबा
१९^h; वसू १०; अव्य ५; रुजा १,
१०; यर; सार २५६: १८; शि ५,
२१; वउ ३, ४८; भव २, ३४; ६३;

-द्रम् राउ ५, १५; अव्य ५; -द्रस्य
शि ५, ४; गी १८, ४४; -द्राः मैत्रि
७, ८; रुजा १, ८; ९; सिशि ३८१:
८; भव २, ६५; गी ९, ३२;
-द्राणाम् वृजा ५, ५; गी १८, ४१;
-द्रायाम् इ १२: १९; -द्रेण वृ
१, ४, १५; -द्रैः सु २९४: १५.
शूद्री- -द्रयाम् इ १२: २१;
१७: १९.

शूद्र- -द्रम् वृ १, ४, १३.
शूद्र-ज- -जः इ १७: ११.
शूद्रयोनिस्त्रिभुम्^h इ १२: २०.
शूद्र-शिव्य- -ष्याः मैत्रि ७, ८.
शूद्र-स्त्री-पतितो(त-उ)दक्या-
संभाषण- -णम् नाप ५, १;
१संन्या २, ५९.

शूद्रा(द्र-अ)ञ- -ञम् इ १४: ४.
शून्य, न्याⁱ- -न्यः मै २, ४; मैत्रि २, ४;
६, २८; ३१; ७, ४; योशि ४, १६;
-न्यम् अना १२; वृउ ६, ३; ४;
ते १, ११; ६, १७; निर्वा २९७:
१३; शां १, ७, ४१; महा २, ६६;
५, ५२; १८४ⁱ; ६, ५८; ६१; अन्न
३, १९; दे १; सौ ३, १; काम ३;
वपू ३, १^j; सांसू १, ४३; ४४; ५,
७९; -न्या इ १९: ७; -न्यानाम्
दे १७; -न्ये नाप ४, २०; महा
६, २२; अन्न ४, ४९; सौ २, ६;
योरा १४; -न्येन महा ५, ५२;
-न्येषु नाप ६, २.

शून्य-कुम्भ- -म्भः मैत्रे २, २७;
वरा ४, १८.
शून्य-गृह- -है भि ९; तारा ८४:
१३.
शून्य-तर- -रम् महा ४, ५८.

शून्य-ता- -ता ते १, ४१; ४२; ६;
२८; -ताम् नाद २८.

शून्य-भव- -वः १संन्या २, १५.
शून्य-भाव- -वम् ते १, १०; -वे
अना १२^k.

शून्य-भूत- -तः मैत्रि ६, २३.

शून्य-मण्डल- -ले राधा १, ६.

शून्य-वादिन्- -दिनाम् अन्न ३, १९.

शून्य-वृत्ति- -त्या ते १, ४२.

शून्य-साक्षि(न)णी- -णी दे १७.

शून्या(न्य-आ)कृति- -तिः १संन्या:
२, १५.

शून्या(न्य-अ)गार- -रे मैत्रि ६, १०.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)मिहोत्रगृह-नदी-पुलिन-
गिरि-कुहर-कन्दर-कोटर-निर्झर-
स्थण्डिल- -लेषु जां ६^k.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)मिहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कन्दर-कुहर-
कोटर-निर्झर-स्थण्डिल^l- -ले
भि १३^m.

शून्यागार-देवगृह-वृणकूट-
वल्मीक-वृक्षमूल-कुलालशाला-
(ला-अ)मिहोत्रशाला-नदी-
पुलिन-गिरि-कुहर-कोटर-निर्झर-
स्थण्डिल- -लेषु या २, १ⁿ.

शून्यागार-देवगृह-वासिन्-
-सिनः आश्र ४.

शून्यागार-अतिश्रय- -यः नापू
५, १३^o.

शून्यागार-वृक्षमूल-देवगृह-
वृणकूट-कुलालशाला(ला-अ)-

a) श्लिष्य^o इति अश्लिष्य, श्लिष्य इति अश्लिष्य. संटि. । b) ँरम् इति अश्लिष्य. । c) = १बल- । वैप १ यद्र. ।
d) मा ११, ८३ । e) व्यु. ? = शङ्का- (तु. बाटी., वे.) । f) वैप १ यद्र. । g) ऋ १०, ९०, १२ । h) पा. ? °निसंभिद्धरे°
इत्येवं शोषः द्र. । एतदनु गपू. (पृ ४१७) सस्थ. 'रेतस्-> नसा' इत्यत्रापि शोषः कर्तव्यः । i) व्यु. ? । j) °वेन
इति आन. । k) °त्रशालानदी... निर्जनस्थ° इति अश्लिष्य. । l) समाहारे द्रस. । m) °लेषु इति अश्लिष्य. । n) °निर्जनस्थ°
इति अश्लिष्य. । o) तु. गपू. पृ ५३२९g ।

मिहोत्रशाला(ला-अ)मिदि-
गन्तर-नदीतट-पुलिन-भूगृह-
कन्दर-निर्झर-स्थण्डिल- -लेषु
नाप ३,८६.
शून्या(न्य-अ)तीत- -तम् ते १,१०.
शून्या(न्य-आ)त्मन्- -त्मा ते ४,४३
शून्या(न्य-अ)शून्य-प्रभाव- -वः
मैत्रे ३,५.
शून्या(न्य-अ)शून्य-विवर्जित-
-तम् शां १,७,१५.
शूर^a- -० र मना १,११^b; अशि ४,
२०^c; वट्ट ३१६ : १३^d; -रः
आरु ५; -राः महा ३,५४; गी १,
४;९.
शौर्यं- -यम् गी १८,४३.
शूर(र>)रा^{ra}- -रा योशि ५,२२.
शूर्प^{ra}-
शूर्प-सुकर्ण- -र्णम् ग १२०.
शूल^a- -लान् इ १३ : ४; -लेन छां
७,१५,३.
शूल-पाणि^a- -णिः महा १,१.
शूल-मूल- -ले त्रिता ३,३१.
शूल-वेष्टित- -तम् गोपू १८^a.
शूला(ल-अ)अ- -अेषु त्रिवि ७,४७.
शूलिन्^a- -लिनम् रार २,३२; -लिन
श २३.
शूलिनी^a- -० नि व ४३० : ११;
४३१ : १८.
शूहक^a- -० क अक्ष ५^b.
शृङ्ग(ल>)ला^{ra}- -लया महा ५,
८७; ला महा ५,९८; मु २,२,३९
शृङ्गला-बद्ध-सिंह-
शृङ्गलाबद्धसिंह-वत् महा ५,
१२९.
शृङ्गला-बन्ध- -न्धम् लां २१५ : १४

शृङ्गली^a√क
शृङ्गली-कृत- -तः शि ७,१०४.
शृङ्ग^a- -ङ्गम् वृ ६,५; ७,१५^b; कृ ८;
-ङ्गयोः वृ ३,१,१; -ङ्गामना २,
१२,२; शौ ५३ : १४; -ङ्गाणि सार
२६४ : ५; -ङ्गाम्याम् वृ ६,५;
-ङ्गे वृ ७, १५; गो ३ १९; शौ
५२ : २०; -ङ्गेण वृ ७, १५;
-ङ्गेषु वृ ६,५^c; -ङ्गैः वृ ४,५.
शाङ्ग^a- -ङ्गम् रार ३,१; कृ २३;
गो ३ ५६; -ङ्गाय त्रिवि ७, ४२.
शृङ्ग-दन्त-शलाका- -कया शि ७,
५६.
शृङ्ग-प्रोत- -तान् वृ ४,६.
शृङ्गा(ङ-अ)र-कला^m- -ला व २.
शृङ्गा(ङ-अ)र्ध्व- -ध्वम् वृ ७, १५.
शृङ्ग^a-
शृङ्गिन्^a- -ङ्गी म ४९ : ३.
शृङ्गार^a- -रम् सार २३४ : १२; २४३ :
१; २६४ : १८; २६५ : १७; २७० :
८; २८६ : १९; -राः सार २३७ :
१९; -रे सार २८७ : १.
शृङ्गार-गृह- -हम् सार २६४ : १६.
शृङ्गार-भोग- -गौ वि १४.
शृङ्गार-यथायोग्य-काला(ल-अ)-
मि(ल>)ज्ञा^a- -ज्ञा सार
२६३ : ८
शृङ्गार-रस^a- -रम् सार २३४ :
१३^c; २३७ : ९; २३९ : ८; -सात्
सार २८७ : ६; -सेन सार २३३ :
११.
शृङ्गाररस-विनोदिन्- -दिने
सार २५१ : १३.
शृङ्गार-र(स>)सा^a- -सा सार
२८२ : ११.

शृङ्गार-रूप- -पाय सार २४७ : ५.
शृङ्गार-लीला- -लायाम् सार २८६ :
१९.
शृङ्गार-व(त>)ती^a- -ती सार
२३४ : ६; २६३ : १; २६८ : ६;
२६९ : ११; -त्या सार २२५ :
४; २३७ : १८; -त्याम् सार
२५२ : ३.
शृङ्गारवत्या(ती-आ)दि- -दयः
सार २२२ : २३; २३७ : ७;
२७० : ७; २८४ : ७; -दीनाम्
सार २६१ : ११.
शृङ्गार-सुख- -खम् सार २७६ : ५.
शृङ्गार-स्थल- -लम् सार २२८ : ६.
शृङ्गार-स्थान- -नम् सार २२५ : ४;
२६९ : ११.
शृङ्गारा(र-आ)दि- -दयः भा ९.
शृङ्गारादि-भोग- -गाः सार
२२३ : १४.
शृङ्गारा(र-अ)लुभव- -वैः सार
२६९ : २०.
शृङ्गेरी^a-
शृङ्गेरी-मठ^a- -ठः म ४९ : १.
शृण्वत्- √श्रु द्र.
शृत- √श्रा द्र.
√शृ^a(^aबधा.), > शि ८, शौर्यं ते वृ ३, ९,
२६; ४, २, ४; ४, २२; ५, १५;
शौर्यन्ते महा ३, ४९.
शशर^a- -रः सुं २, २, ४; मैत्रि ६,
२४; ध्या १४; रुह ३८; ३९;
-रम् सुं २, २, ३; रार २, ७२; ३, १.
शर-चाप- -पौ व ४२७ : १६.
शर-वत् सुं २, २, ४; ध्या १५;
रुह ३८.
शाराह^a- -रुः वा २१.

a) वैपश् यद्र. । b) ऋ ३, ४७, २ । c) ऋ ७, ३२, २२ । d) व्यु? = भ्रूमध्यस्थ-नाडीविशेष- ।
e) °पैर्कर्णकम् इति निसा. । f) मूल° इति आन. । g) व्यु? = छादक- । h) वैतु. मोह° इति निसा., निसा. संटि.
गूह° इति अख्या. संटि. । i) व्यु? । j) वैपश् यद्र. । इह = विषाण-, शिखर-, प्रणवमात्राविशेष- । k) ऋ ४,
५८, ३ । l) = त्रिष्णुधनुस्- । m) = प्रणवार्धमात्रा- (तु. उन्न.) । n) व्यु. अर्थश्च ? । o) व्यु? = ऋषिविशेष- ।
p) व्यु? = साहित्यिकरसविशेष-, वेषभूषाविशेष- । q) तस. । r) बस. ।

शरु^१-
 शर(व्यु>)व्या^१- व्या नी १,
 ७५^b.
 शरु-मत्- -मात् मना १, ९५^०.
 शीर्ण-
 शीर्ण-पर्ण-फल-भोजिन्-
 -जिनः आश्र ३.
 शेमुषी^d- -षी द १९.
 शेव^a-
 शेव-धि^a- -धिः क १, २, १०; शा
 ३३५^०; सु १, १, ५१५^०; -धेः
 मैत्रि ६, ३०.
 १-२शेष- √शिष् द्र.
 ३शेष^f- -षः सं १; -षात् सं ५.
 शेष-देव- -वः राधा १, ७.
 शेष-नाग- -गः कृ १२.
 शेष-फणा(ण-आ)च्छादित-
 मौलि- -लिम् अव्य २.
 शेषा(ष-अ)युत-फ(ण>)णा-
 शेषायुतफणा-जाल-विपुल-
 च्छत्र-शोभित- -तम् त्रिवि
 ७, ५०.
 शैच- √शिक्ष द्र.
 शैत्य- √श्यै द्र.
 शैथिल्य- शिथिल- द्र.
 शैव्य- २शिभि- द्र.
 शैल- शिला- द्र.
 शैलिनि- शिलिन- द्र.
 शैलूष- शिलूष- द्र.
 शैव- १शिव- द्र.
 शैवाल^६- -लम् अध्या १५.
 शैशव- १शिष्ट- द्र.
 शोक- √शुच् (शोके) द्र.
 शोचित- √शुच् (*बधा.) द्र.

शोचितुम्, शोच्य- √शुच् (शोके) द्र.
 शोणित^{११b}- -तम् गर्भ २; निरु १, ४;
 व ४५८ : २०; -तात् गर्भ २;
 निरु १, ४.
 शोणिता(त-अ)तिरेक- -के निरु १, ६.
 शोधन- , शोधयित्वा, शोधित-
 √शुच् द्र.
 शोभन- , शोभमान- , शोभा- , शो-
 भायमान- , शोभित- √शुम् द्र.
 ?शोम्^१ तै १, ८, १.
 शोष- , शोषण- , शोषयित्वा, शोष्य-
 √शुष् द्र.
 शौङ्गी- २शुङ्ग- द्र.
 शौच- √शुच् (*बधा.) द्र.
 शौद्र- शूद्र- द्र.
 शौनक- शुक- द्र.
 शौर्य- १शूर- द्र.
 शौल्वायन- शुल्ब- द्र.
 शौव- श्वन्- द्र.
 श्म^१ षो १.
 श्म(<>स्म^k)शान^{११a}- -नम् षो
 १५^१; -ने निर्वा २९८ : १२;
 -नेषु महा ३, ४२; या २, ८.
 श्मशान-वासिन्- -सिनः भि ९;
 -सिने पारा ३; ८.
 श्मशानवासिनी- -न्यै व ४६३ :
 १३.
 श्मशान-स्थल- -लम् नाप ७;
 १संन्या २, ७९.
 श्मशाना(न-अ)भि-समुद्भव- -वम्
 वृजा ५, ७.
 श्मश्रु^{११a}- -श्रु शि ७, ५५.
 श्श्याम^१-
 २श्याम, मा^m- -मः वृद्ध, ४, १६; र ५

४, ७; अव्य ६; -मम् छां ८, १३,
 १; रार २, ४; १४; ४७; ८४; -मा
 सार २६८ : ६५^{११b}; -मात् छां ८,
 १३, १; -माम् तुल ७० : ३५^०.
 श्याम-कान्ति- -न्तिम् व ४२७ :
 १५.
 श्याम-पीताम्बर- -रः राधा १,
 १६.
 श्याम-वपुर्-ध(र>)रा- -राम्
 तुल ७० : ३.
 श्याम-हिरण्य-परिधि-वन-
 माला- -ल्या सार २४५ : ११५^p.
 श्याम-हिरण्य-परिधि-वन-
 माल्य-बर्हा(ई-आ)द्योतित-
 मुक्ता(क्ता-आ)वली- -ली सार
 २६५ : १७.
 श्याम-त्व-
 श्यामत्व-सदृश्- -दृक् सं १, २,
 ८; अता ६.
 श्याम-ल, ला- -लम् रार २, ३७;
 १०२; -ला राधा १, १९५^{११}; रा
 ४२५ : ११५^{११}; ४२६ : २५^{११};
 -लाम् रा ४२४ : ५५^{११}; १३५^{११}.
 श्याम-वर्ण- -र्णः व ४४३ : १०;
 -र्णे वि ११; १९.
 श्यामाक^६- -कात् छां ३, १४, ३.
 श्यामाक-तण्डुल- -लात् छां ३,
 १४, ३.
 श्याल^१- -लाः गी १, ३४.
 श्याव^m-
 श्याव-दन्तक- -कः १संन्या २, ३;
 इ १७ : ५.
 श्यावा(व-अ)श्व- -श्वः वृ १२^v.
 इयेत^a- -तम् छां ८, १४, १^{११}.

a) वैपश् यद्र. । b) तैसं ४, ५, १, १ । c) ऋ १०, ८९, ५ । d) व्युः । e) वाध २, ८ । f) व्युः = नाग-
 विशेष- । g) व्युः = जलनीली- । h) व्युः = हधिर- । i) शम् + भोम्- एस्थि. शम् इत्यस्य टेः पररूपं
 द्र. (पावा ६, १, ९४) । j) श्मशान- इत्यस्य पूर्वाशः । k) वृ. गपू. पृ ५७० v । l) व्युः = वर्णविशेष- । m) = वर्ण-
 विशेष-वत्- । n) = सखीविशेष- । o) = तुलसी- । p) °रिमध्यव° इति पा. ? यनि. शोषः द्र. । q) = गोपीविशेष- ।
 r) = देवीविशेष- । s) व्युः = धान्यविशेष- । t) = स्थाल- (वैपश् यद्र.) । u) = २श्याम- (वैपश् यद्र.) । v) 'ससुरः'
 इति मन्त्रि १२ । w) सकृत् श्वे° इति निसा. ।

श्येन^१- -नः ऐ ४, ५९^b; वृ ४, ३, १९;
मना २, १२, १९^c; २, ४०^d; कौ
२, ९; ब्र १^d; योचू २९; सु२९४:
५९^e; ९^f व ४४२: १९; ४४८: ३:
४५२: १०; -नम् सुबा ९^g;
१५.

श्येन-वत् सांस् ४, ५.

श्येना(न-आ)काश-

श्येनाकाश-वत् ब्र १.

√श्यै(बधा.)

शीत, ता^१- -तम् पहं २; ते ४, १८;
नाप ३, ८६; वड २, २१; -ता^१
व ४४३: २०^१.

शैत्य- -स्यम् महा ५, १५०.

शीत-ज्वर^१- -रम् व ४३३: २१.

शीत-मन्द-सुरभि-भाव- -वेन
सार २२८: १.

शीत-रश्मि- -रश्मिना योशि १,
९१.

शीत-रुचि- -चौ अन्न ४, ९.

१शीत-ल^१- -लः तेंद, ८४; वरा
४, २७; -लम् अन्न १, ३५; -लैः
सिंशि ३८३: ४.

शीतल-चन्दन- -नेन वड
६, ४३.

शीतल-ज(ल>)ला- -लाः
सार २६६: २०.

शीतला(ल-आ)शय-वर्तिन्-
-र्ति अन्न ४, ५१.

२शीत(ल>)ली^१- -ली यो
१, २१; ३१^k; -लीम् यो १, ८८.

शीतली-करण- -णम् योशि
१, ९६.

शीत-वातो(त-उ)ष्ण-त्राण-
कर- -रम् नाप ४, ३८.

शीत-स्वभावक- -कम् यो १,
७१.

शीतां(त-अं)शु^१- -शुः महा २,
२७.

शीतांशु-मण्डल- -लम् यो
१, ६९.

शीतांशु-संजात- -तम् यो
१, ७०.

शीता(त-अ)भि-जल-वर्जित-
-ते यो १, २२.

शीतो(त-उ)दक-पूर्णा(ण>)णी-
-र्णाः सार २२४: २३; २२५: १.

शीतो(त-उ)पघाति(त>)नी-
-नीम् कुं ९; कर् १; कश्रु ३, १.

शीतो(त-उ)ष्ण- -ष्णम्^१ नाद
५३; -ष्णाभ्याम् कुं ८; -ष्णे ते
१, १३^१.

शीतोष्ण-रू(प>)पा- -पा
सी १५.

शीतो(त-उ)ष्ण-सुख-दुःख-
-खेषु गी ६, ७; १२, १८.

शीतोष्णसुखदुःख-द- -दाः
गी २, १४.

शीतोष्णसुखदुःखा(ख-आ)-
य- -यैः योशि १, २८.

शीतो(त-उ)ष्ण-सुख-दुःख-
माना(न-अ)वमान^१- -नम् तुध
११.

शीतोष्णसुखदुःखमानाव-
मान-वर्जित- -तः पप ४२०:
१२.

शीतो(त-उ)ष्ण-सुख-दुःख(ख-इ)-
च्छा-सत्व-रजस-तमो-गुण-
-णाः भा २१^०.

शीतो(त-उ)ष्णा(ष्ण-आ)हार-
शीतोष्णाहार-निद्रा-वि-
जय- -यः मं १, १, ३.

श्यैतनौघस- -से कौ १, ५१^०.

श्रं^१ रापू ४, ५०^०.

श्रः^१ लं २१६: ९.

१श्रत्कः^१ कृपु १९.

१श्रद्धानन्तरम्^१ अद्वैभा १७.

श्रघ्नं^१-
श्र(घ्न>)द्/घा, श्रद्धते वृ ३, ९,
२१; श्रद्धघाति छां ७, १९, १;
२०, १^१; श्रद्धस्त्व छां ६, १२, ३;
बि २७; हे२^१; श्रद्ध्याम वृ ५,
१४, ४; गा १३१^१.

श्रद्-दधत्- -धत् छां ७, १९, १.

श्रद्-दधान- -नाः द१५; गी १२,
२०; -नाय क१, १, १३; अन्न १, १७

श्रद्-धा- -घया प्र १, २; १०;
५, ३; तै १, ११, ३; छां १, १, १०;

मना २, ७९^१; वृजा ६, १२; वृपू
५, १०; शां १, २; रुजा ३, १;
जाद २, ७; गी ६, ३७; ७, २१;

२२; ९, २३; १२, २; १७, १; १७;
-घा क१, १, २; सुं २, १, ७; तै
२, ४, १; छां ५, १०, १; ७, १९,

१; वृ१, ५, ३; ३, ९, २१^१; मैत्रि ६,
३०; मना २, ७९^१; ८०^१; वृजा
५, १२; नाप ४, ११; त्रिवि ५, ८;

शां १, २; जाद २, १०; सौ १, ३९^१;
सर १, ४९^१; ३, ५९^१; इ ११: १६;

a) विप. वा नाप. (=पक्षिविशेष-, वायुविशेष-) वा । वैप१ यद्र. । b) ऋ ४, २७, १ । c) ऋ ९, ९६, ६ ।
d) ०नम् इति आन. । e) ऋ ९, ९६, १९ । f) धा. स्पर्शे वृत्तिः (पा ६, १, २४) । g) =अमितनूविशेष- । h) तैआ
४, २३, १ । i) पा ५, २, ९७ । j) तु. गपू. पृ६०४। j । k) ०तह्व इति निसा. संटि. । l) =चन्द्रमस- । m) समा-
हारे द्वस. । n) ०ष्णम् इति आन. । o) ०खेच्छाः सत्त्वं रजस्तमः इति तान्त्रि. । p) श्ये^० इति शांआ. (३, ५), श्यै^०
इति निसा. अश्या. च यनि. शोषः द्र. (तु. आन., वे.) । q) =बीजमन्त्रविशेष- । r) 'श्रुं' इति आन. । s) पा. १ । t) वैप१
यद्र. । u) ०द्वस्व इति पा. १ यनि. शोषः द्र. । v) ०द्वश्याः इति पा. १ यनि. शोषः द्र. (तु. नापू.) । w) तैआ १०,
६३, १ । x) तैआ १०, ६३, १^३ । y) तैआ १०, ६४, १ । z) =देवीविशेष- ।

म ४९:१९; राधा १,२ १५^{१०}; शि
३,१३; सिशि ३८०:१४; गु ३०;
भव ४,१०; गी १७,२; ३; धाम्
प्र ६,४; छां ५,४,२; ७,१९,१;
वृ ३,९,२१; ६,२,९; १५; गी ७,
२१; धायाम् वृ ३,९,२१^३; मना
२, ६९^{१०}; ७०^५०.

१ श्राद्ध^{१०} - ङम् पै ४,
७; इ १०:१०; १२:१९; १३:६;
१०; ११; १३; १५^३; १६; १७;
१९; १४:१२; १६:१; ४; ६; १७:
१५; १७^३; १८:१०; १९:६; तुल
७१:१३; १४; १७; शि ६,१९५;
-ङ्गानि इ १२:९^{१०}; १३:१; १६:
२०; -ङ्गे इ १३:७^१; १५:१९;
चू २०.

श्राद्ध-कर्तृ- -तां इ
१४:१०; ११.

श्राद्ध-कर्मन्- -र्मणि
इ १७:११.

श्राद्धकर्म-बहिष्-
कृत- -ता: इ १७:१४.

श्राद्ध-काल- -ले क
१,३,१७.

श्राद्ध-तर्पण- -णम्
२संन्या १५:४.

श्राद्ध-भुञ्ज- -भुक् इ
१४:६.

२श्राद्ध^६ - -ङ्ग:इ १४:२२.

श्राद्ध-कलत्र^१ - -त्रम् मैत्रे २,
२३.

श्राद्धा-देय^१ - -य: छां ४,१,१.

श्राद्धा(द्वा-अ)नुक्(प>)पा-
-या भा २५.

श्राद्धा-भक्ति-ध्यान-योग-
-गात् कै १,२.

श्राद्धा-भक्ति-पुरस्कृत- -ते
१संन्या २,६४.

श्राद्धा-भक्ति-बहिष्कृत-
-तम् १संन्या २,६४.

श्राद्धा-मन्त्र- -य: गी १७,३.

श्राद्धा-मेधा- -धे मना २,
६३५^३; ६४५^३.

श्राद्धा-वत्- -वन्त: गी ३,
३१; -वन्तम् नाप २; सु १, २,
६^१; -वान् त्रिवि ८, २३; गी ४,
३९; ६, ४७; १८, ७१.

श्राद्धा-विरहित- -तम् गी
१७,१३.

श्राद्धा-वीर्य-स्मृति-समाधि-
प्रज्ञा-पूर्वक- -क: योसू १,२०.

√श्रद्धि
श्रद्धयत्- -यन्त: सुं ३,
२,१०.

श्रद्-धालु- -लु: नाप ६,१७.

√श्रम्, >श्राम्, श्राम्यति वृ १,५,
२१^३; अश्राम्यत गोच ६९:१०;
अश्राम्यत् वृ १,२,२; ६.

श्रम- -म: वृ १,५, २१; योशि १,
३२; ९७; यो १,३५.

श्रम-जात- -तेन ध्या ७१; शां
१,७,४.

श्रम-त्याजिन्^३ - -जि सौ २,२.

श्रम-दाह- -हौ शां १,७,४५.

श्रमदाह-विनिर्मुक्त- -क:
जाद ६, २५.

श्रम-निर्हरणा(ण-अ)र्थ- -र्थम्
ध्या ९३,१२^३.

श्रम-संजात-चारि- -रिणा योचू
४१.

श्रमा(म-अ)पनुद्- -दाय पा
२, ४.

श्रमा(म-अ)पनोदा(द-अ)र्थ-
-र्थम् सार २६८: १८.

श्रान्त,न्ता- -न्त: वृ ४,३,१९; पै २,
३८; ४४; महा ५,५९; -न्तस्य
वृ १,२,२; ६; -न्ता सार २६३:
३५^१०; -न्ता: सार २२८:३; -न्ते
जाद २,७.

श्रमण^{१०} - -ण: वृ ४,३,२२; ऋ २.

श्रयत्- √श्रि द्र.

१श्रवण^{१०}-
श्रवणा^{११}-

श्रावण^{१२} - -णे रा ४२३: २०;
वउ ६,४२.

२-३श्रवण- √श्रु द्र.

१श्रवणो^१ इ १९: १७.

श्रवस्- √श्रु द्र.

श्रवि(ष्ठ)>श्रु^{१०} - -ष्टायै व ४३८:८.

श्रविष्ठा(ष्ठा-अ)र्थ- -धम् मैत्रि ६,१४
श्रविष्ठा(र्धा(र्ध-अ)न्त- -न्तम्
मैत्रि ६,१४.

√श्रा>श्र, श्रपि
श्रत- -तास: सु २९३: १८५^३; अरु
३०५^६.

श्रपयित्वा नाप ४,३८; प्रा २, १^३.

श्रां^१ लां २१५: १६.

श्राञ्जित- √श्रु द्र.
√श्रि, श्रयति अक्षि ११; १श्रयन्ते^{१०} गर्भ
५; अश्रयत् छां ३,१,४; २-५, ३.
शिआय सार २६१: २०.
शिआयाण- -णम् वा ९५^३.

a) =गोपीविशेष- । b) तैश्चात्रा १०, ६९^{१०} । c) तैश्चा १०, ३६, १^१ । d) पावा ५, १, ११० । e) च्छ्रा^{१०} इति पा.१ यनि. श्लोघ: द्र. । f) °ङ्गम् इति पा.१ यनि. श्लोघ: द्र. । g) विप. (पा ५, २, १०१) । h) कस. । i) बस. (तु. सं. प्रम्; वैतु. MW. =°देव- इति) । j) तैश्चात्रा १०, ६३ । k) तैश्चात्रा १०, ६४ । l) °न्त: इति निसा. । m) उस. उप. कुत्वाऽभाव: उसं. (पा ७, ३, ५२) । n) °निर्भ^{१०} इति निसा. । o) =सखीविशेष- । p) व्यु. १ । q) व्यु. १ =नक्षत्रविशेष- । r) पा. श्रुटित: । s) श्र ९, ८३, १ । t) तैश्चा १, २७, ४ । u) विषयि^{१०} इति अक्ष्या. । v) =बीजमन्त्रविशेष- । w) श्रि^{१०} इति पा.१ यनि. श्लोघ: द्र. । x) श्र १, ३२, २ ।

श्रित-तः मै५,२; मैत्रि ६,२; मना
२,१२,२९^६; -तम् छां ३, १५,
१; कौ २, ८; -ताः क २, २, ८;
३,१; १४; तै २,२,१; वृ ४,४,
७; शा २५^७; २प्र ३७:३; नी१,
९९^६; गी ९,१२; -तासः शा११.

श्रित्वा त्रिता २,२९; ३१.

श्री^१- श्रियः रार २,८८; सौ १,२; ऊ
६४:१; अद्वैभा १५; श्रियम्
तै १,४,२; छां ३,१२,९; मै १,
५; मैत्रि १,४; मना १,१०९^६;
२,३५९^६; ६३९^६; वृपू ३, २-४;
४,१२; रापू ४, १५; त्रिवि ७,
४०; रार २,८१; ९४; महा १,
१; त्रिता ३, २४; वरा ५, ३४;
३९; सौ १,१; २^३; २शिसं ३ ६९^६;
काम १; व ४६२:१३९^६; ४६६:
१२; १४९^६; १५९^६; वपू २, २^३;
श्रिया तै १, ११,३; वृ ५, १४,
३; ६,४,२८; मना १, ५९^६; वृपू
१, ६^३; ४, ८^३; अब्य २^३; गोउ ३८;
सूता ३, ३^३; का १०; गा ९; वपू
१, ४; ५; श्रियाम् निर्वा २९७:
८^६; श्रिये व ४२६:११; ४६६:
१४^६; श्रियै मना २, ६३९^६; सौ
१,१; २; श्रीः प्र २, १३; छां ३,
१३,२; वृ २, ३, ६; ६, ४, ६; मना
१, १०९^६; २, ६४९^६; कौ १, ५^३;
२, ६१^६; वृजा ३, ८; ४, २३; वपू
४, १५, ७; सी १६; महा ३,
८; अज ४, २१; सौ १, १^३; २;
का १०^३; ९^६; नापू २, ४; सार
२२४: २; व ४६२: १४९^६;
भव ४, १०; गी १०, ३४; १८,
७८.

श्री-अनन्त-घोर-प्रलय-ज्वाला-
भि-रौद्र- -द्रस्य लां २१३:१.
श्री-कण्ठ-रूप- -वः गुषो ४२१:१.
श्री-कर- -०२ त्रिवि ७, ३१; -रम्
ऊ ६४:१; व ४५८: १४.
श्री-कला- -लाम् षो ८:१०.

श्रीकला-पुटि(त>)ता- -ताम्
षो ८: १०.

श्री-काम- -मः सूता १, २१; व
४६२:११.

श्री-काम-राज-
श्रीकामराजी(य>)या- -याम्
त्रिता ५, २१.

श्री-काला(ल-अ)भि-रुद्र^१- -द्रः
काला १.

श्रीकालाभिरुद्र-प्रीत्य(ति-अ)-
र्थ- -र्थे काला २.

श्री-कीर्ति-वर्धन^२- -नम् शि ५, १.

श्री-कृष्ण^१- -०ष्ण गोपू ४४; -ष्णम्
गोपू ४६; -ष्णाय त्रिवि ७, ४१;
गोपू ४०; ४२; गोउ ६४^{११}; सार
२६०: २१.

श्रीकृष्ण-भगवत्- -वान् कृपु
२५.

श्रीकृष्णा(ष्ण-आ)ख्य-पर-
-रम् गोच ६९:२०^१.

श्री-कृष्ण-राधा-रूप-

श्रीकृष्णराधारूपिन्- -पिणे सार
२७७: १४.

श्री-कृष्ण-वामना(न-अ)ष्टा-
(ष्ट-अ)क्षर-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि
७, ३८.

श्री-कृष्ण-वामना(न-अ)ष्टादशा-
(श-अ)क्षर-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि
७, ३७.

श्री-कृष्ण-सुदर्शन- -षोडशा-
(श-अ)क्षर-मन्त्र- -न्त्रौ त्रिवि
७, ३६.

श्री-कैशोर-कृष्ण- -ष्णः राषा ३, १.

श्री-खेचरी-सिद्धि- -द्धिः यो २,
२३.

श्री-गणपति- -तेः वउ ५, २.

श्री-गुरु- -रवे म४८:६; -रुः मा२.

श्री-गुरु-चैतन्य- -न्यम् म ४८:४.

श्री-गोपाल- -लाय गोउ ६४^६.

श्री-गोवर्धन- -नम् सार २८६:५.

श्री-गौतम-विवाह-काल- -ले
वृजा ६, ५.

श्री-चक्र^१- -क्रम त्रिता २, ३७; ६७;
भा ३; -क्रे चक्र १.

श्रीचक्र-न्यास- -सम् चक्र ६.

श्रीचक्र-पूजन- -नम् भा ९.

श्री-चन्दन^१- -नेन रा ४२५:१५.

श्रीचन्दन-विलिस- -भार्या-
जगन्मोहन-चक्र^१- -क्रम रा
४२५: १२.

श्रीचन्दन-विलिसा(स-अ)ह->
ङ्गी- -ङ्गीम् रा ४२४: १९.

श्री-चूर्ण- -णैम् ऊ ६४:१; का
१०.

श्री-तुलसी^१- -सीम् तुल ७१:१३;
-स्यै तुल ७०:१०; ११.

श्रीतुलसी-वैकुण्ठ-पुर^१- -रम्
त्रिवि ६, २२.

श्री-देवी- -नी सी १६.

श्री-धर^१- -०२ नापू ३, १६; -राव
त्रिवि ७, ४१.

श्री-नन्द^१- -न्दस्य सार २६३:१७.

श्री-नारायण- -णस्य व ४५७:१०.

श्री-पति- -तिः शि ६, ४.

a) ऋ २,३,१२ । b) स्थि^१ इति अड्या. संटि. । c) मा १६, ६ । d) वज्रा. वैप१ यद्र. । इह = ऐश्वर्य-,
लक्ष्मी-, बीजाक्षरविशेष-, हरिद्रा- प्रभृ. । e) खि ५, ८७, ९ । f) तैआआ १०, ३५ । g) तैआआ १०, ६३ । h) खि
५, ८५, ९ । i) ऋ ९, ९४, ४ । j) तैआ १०, १, ५ । k) ०या इति अड्या. । l) ऋ ९, ९४, ४^३ । m) तैआ १०, १, १० ।
n) तैआआ १०, ६४ । o) 'श्री' इति निसा., अड्या., 'ह्री' इति अड्या. संटि. च यनि. शोधः द्र. (तु. शांआ ४, ६) ।
p) उप्त.उप. कर्तरि कृत् । q) टां कृ^१ इति आन. । r) पा.१^१ ०^१ इति द्विपदः शोधः द्र. (तु. J.C.) । s) टां गो^१ इति आन. ।

श्री-परम-धामन्- -स्रे स्क् १३.
 श्री-परमात्मन्- -स्मा ता ३, १; २;
 ४; ५-८.
 श्री-पर्वत^१- -तम् जाद ४, ४८; शि
 ६, १९२; १९३; -ते शि ६, १८९.
 श्री-प्राण- -णाय कृपु २४.
 श्री-फल^२- -लम् शि ६, ३; -ले नार
 ९; का ११.
 श्रीफल-दल- -लैः भ १, १; २, ३
 श्रीफल-मूल- -ले तारा ८३: १३
 श्री-बीज- -जम् रार २, ३६; ३, १;
 सौ १, २; ३; -जेन वरा ५, ३४.
 का ११; नार १०.
 श्रीबीज-युग्म- -यम् रार २,
 २८^०; २९.
 श्री-बृन्दावन- -सदा-मोद-दायि-
 न्- -यिभ्याम् सार २४७: १८.
 श्री-बृन्दावने(न-ई)श्वरी- -री सार
 २५६: ५.
 श्री-भगवत्- -वन् गोच ६५: १;
 -वान् गरु २; गी २, २; ११; ५५;
 ३, ३; ३७; ४, १; ५; ५, २; ६, १;
 ३५; ४०; ७, १; ८, ३; ९, १; १०,
 १; १९; ११, ५; ३२; ४७; ५२;
 १२, २; १३, १; १४, १; २२; १५,
 १; १६, १; १७-१८, २.
 श्री-भूमि-नीला(ल-आत्मक>)-
 त्मिका- -का सी १२.
 श्री-मत्- -मत् सार २३३: ६; शि
 २, २०; ४, ४; ७, ९७; गी १०,
 ४१; -मताम् भव १, १३; गी ६,
 ४१; -मते त्रिवि ७, ३९; सार
 २५७: २३; व ४५७: ११;
 -मद्भिः शि ६, ४; ६४; १७९;
 २०५; -मात् छां ३, १३, २;
 मैत्रि ७, १; मुद्र ४; ह ६; का
 १२; शि २, ९; ३, ११; ४, ३०;
 ७, ४५.

श्रीमती^{१b}- -ती राधा १, २०
 श्रीमत्-काम-कटाक्ष- -लब्ध-
 विभव-ब्रह्मे(ह्य-इ)न्द्र-गङ्गाध-
 (र>)रा^०- -राम् व ४५५: १९.
 श्रीमत्-तम- -मः, -मम् कौ २,
 ६.
 श्रीमद्-गोपुर-भूषित- -तम्
 शि ४, १९.
 श्रीमद्-द्वयो(य-उ)त्पत्ति- -त्ति:
 द्व १.
 श्रीमद्-रमा-रमण-नलिन-
 ष्टङ्ग- -ङ्गाः स्व ६१: १८.
 श्रीमद्-व्याख्यान-मण्डप- -पे
 शि ७, ३४.
 श्रीमन्-नारायण- -णः त्रिवि ७,
 ४३; योशि ५, १५; -णस्य नापू
 २, २; -णाय नाड २, ६; -णे वा
 ३९.
 श्रीमन्नारायण-चरण- -णौ
 त्रिवि ७, ३९.
 श्रीमन्नारायण-परमात्मन्-
 -स्मा नापू ४, १६.
 श्रीमन्नारायण-सायुज्य-
 -ज्यम् ना ५.
 श्रीमन्नारायणा(ण-अ)द्या-
 (ष्ट-अ)क्षरार(र-अ)नुस्मरण-
 -णेन ता ३, ९.
 श्रीमन्-महागरुड- -डाय व
 ४६५: ५.
 श्री-म(द>)दा^{१b}- -दा राधा १,
 २२.
 श्री-महाकाल- -लम् शि १, १.
 श्री-महागणपति- -तिः ग ९.
 श्री-महागरुड- -०ड गरु ६; ७;
 -डाय गरु ३; ६.
 श्रीमहागरुड-प्रीत्य(ति-अ)र्थ-
 -र्थे गरु २.
 श्रीमहागरुड-ब्रह्मविद्या-

-धायाः गरु २^०.
 श्री-महा-त्रिपुर-सुन्दरी- -री व
 १९.
 श्री-महादेव^१- -वः लां २१६: २०.
 श्री-महानृसिंह- -हाय त्रिवि ७,
 ३३.
 श्री-महालक्ष्मी^१- -क्ष्म्यै नापू २, १०.
 श्री-महावाक्य-महामन्त्र- -न्त्रस्य
 शु १, १८.
 श्री-महाविद्या- -द्या दे १०.
 श्री-महाविष्णु- -ष्णवे नापू ३, १४;
 -ष्णुम् कृ १.
 श्रीमहाविष्णु-सायुज्य- -ज्यम्
 मवा १२.
 श्री-माया- -ये रार ३, १.
 श्री-माया-मन्मथै(थ-ए)कै(क-ए)-
 क- -कम् रार २, १८^०.
 श्री-मुकुन्द-निधि^१- -धये त्रिवि
 ७, ४३.
 श्री-यशोदा^१- -दा सार २५२: १४.
 श्री-रङ्गधामे(म-ई)श्वरी- -रीम् व
 ४५५: १७.
 श्री-रसिकशिरोमणि-द्वादशश्रेणि-
 -णयः सार २६२: १०.
 श्री-रसिकानन्द- -न्दः सार २३६:
 १५; -न्दम् सार २३१: ६;
 -न्दस्य सार २२६: १६; २२९:
 २३; २३२: ६; २८२: ३;
 -न्देन सार २२७: १; ३; २७१:
 १९.
 श्री-राजश्यामला^१- -ला रा ४२३:
 १९; २१; ४२५: २२; -लाम् रा
 ४२४: ६.
 श्रीराजश्यामला-मन्त्र- -न्त्रम्
 रा ४२३: १०.
 श्रीराजश्यामला(ला-अ)म्बा-
 -म्बाम् रा ४२४: २; ३; -म्बायाः
 रा ४२४: १४.

१) ०म्बौ इति अञ्ज्या. । १) =गोपीविशेष- । ०) कस. >तृस. >बस. । १) श्रीगारु^० इति अञ्ज्या. संटि. ।

०) श्रीराममन्म^० इति निसा. संटि. ।

श्रीराजश्यामला-रहस्यो(स्य-उ)
पनिषद्^१ -षदम् रा ४२३:८.
श्रीराजश्यामलारहस्योपनि-
षद्-वेत्तु- -तारम् रा ४२३:४.
श्री-राधा^१ -घया सार २५१ : १;
-धा सार २२० : १६; २७१:७;
-धाम् सार २३८:१७; २८५:२;
-धाया: सार २७१:६; ९; २८१:
१३; २८२:२; २८५:१२.
श्रीराधा(धा-अ)धर-सुधा—
शालिन्- -लिने सार २४७:१४.
श्रीराधा-ध्याना(न-आ)पञ्च-
देहा(ह-आ)श्मन्- -स्मने सार
२७७:६.
श्रीराधा-पुष्करिणी- -ण्याम्
सार २४६:१६.
श्रीराधा-श्री- -श्रिय: सार
२४९:१९.
श्री-राधाकृष्ण- -णस्य सार
२८१:२.
श्रीराधाकृष्ण-नामा(म-अ)ङ्कि-
(त>)ता- -ता: सार २५६:५^२.
श्रीराधाकृष्ण-पुष्करिण्यु-
(शी-उ)ङ्ग(व>)वा- -वाम् सार
२२६:२१.
श्रीराधाकृष्ण-रूप- -पाभ्याम्
सार २४५:१४.
श्रीराधाकृष्णरूपिन्- -पिणे
सार २७७:१३.
श्री-राधारसिक- -क: सार २५५:
१६; -कस्य सार २५६:८.
श्रीराधारसिक-मोहन- -नम्
सार २५२:२३.
श्री-राधारसिकशिरोमणि- -णि:
सार २५५:१८.
श्री-राधारसिकानन्द- -न्दाभ्याम्
सार २७६:१३; -न्दौ सार २६०:
१२.

श्रीराधारसिकान्द-विनोद-
-दाभ्याम् सार २५१:१०.
श्री-राधिका^१ -कया सार २२५:
२१; २२; २२६:३; २२७:२३;
२२९:१८; २३०:२१; २३२:
७; २३४:१६; २३५:१७; २३६:
८; १०; ११; १६; २३८:८; २४०:
२२; २४१:२; ४; २४३:७; १३;
२४८:१६; २४९:१; २५८:
११; २६८:१३; १७; २०; २६९:
४; ७; ९; १३; १८; १९; २७१:
१९; २८३:२३; -का सार २७०:
२; -काम् सार २२३:२२; २२४:
१९; २२९:१४; २३; -काया:
सार २२१:२०; २२२:२१;
२२३:१८; २२५:१०; २२६:
८; १०; १३; १६; २२७:२; २२;
२२९:१७; २३३:५; २३४:
१९; २३७:८; २१; २३८:२;
२४१:२२; २५६:२३; २६३:
२३; २६८:१२; २७२:२; २८२:
७; -कायाम् सार २३०:४; -कायै
सार २३७:१६; २३८:४.
श्रीराधिका(का-अ)र्थ- -र्थे सार
२३७:१९; २२.
श्री-राधिकारसिक- -कम् सार
२३४:१४.
श्री-राधिकारसिकानन्द- -न्दस्य
सार २५६:१४.
श्री-राधिकावल्लभ- -भाय सार
२४७:१४.
श्री-राम^१ -०म सार २,५६; -म:
रार १,६; ७; ९; २, ३८; ५१;
राउ ३,२; ४; ता २, ४; सु १,
१,१८; २,१; २,१,१; -मम् राउ
३,३; -मस्य राउ ३, १; -माय
रार २,७३; रापू ४,१३.
श्रीराम-तारक-पर-ब्रह्म-विश्व-

रूप-दर्शन^b -०न लां २१४:
१३.
श्रीराम-मन्त्र- -न्त्राणाम् रा
४,१.
श्रीराममन्त्रा(न्त्र-अ)र्थ-
-र्थम् रार ५,१.
श्रीराम-मन्त्र-राज- -जस्य राउ
५,१.
श्रीराम-संनिधि- -धौ रार ४,५.
श्रीराम-सांनिध्य-वश- -ज्ञात्
सौ ७; राउ २,३.
श्रीराम-सेवक- -०क लां २१५:
१५.
श्री-रामचन्द्र^१ -न्द्र: राउ ४, १;
५, १; लां २१६:२०; -न्द्रम्
सु १,२,१; २, १, १; -न्द्रेण राउ
४, १^१.
श्रीरामचन्द्र-मनु-स्मरण-
-णेन राउ ५, ४.
श्रीरामचन्द्र-षडक्षर- -रम् राउ
५, ४.
श्रीरामचन्द्र-सेवक- -०क लां
२१६:१६.
श्री-राम-लक्ष्मण- -णौ लां २१३:२
श्री-रुद्र^१ -०द्र रुह १६.
श्री-लक्ष्मी^१ -क्ष्मी: सौ १, ३; व
४२७:६.
श्री-वल्स^१ -स्सम् गोल ५३^१;
-स्साय त्रिवि ७, ४२.
श्रीवल्स-कौस्तुभ-वनमाला-
(ला-अ)ङ्कित-वक्षस- -क्षसम्
त्रिवि ७, ५०.
श्रीवल्स-कौस्तुभो(भ-उ)रस्क-
-स्कम् ध्या २८.
श्रीवल्स-लक्षण- -णम् गोल
५३^०.
श्रीवल्स-लाञ्छन- -नम् गोल
४७.

a) ०माङ्गि^० इति पा.१ यत्नि. शोध: द्र. । b) कस. > षस. > उस. उप. कर्तरि कृत् । c) ०म: इति आन. ।

d) ०स्सस्य इति निसा., अञ्ज्या. संटि. । e) ०स्सलाञ्छनम् इति आन. ।

श्रीवत्सा(त्स-त्रा)कृति- -ति: सी
३५.
श्री-वन^१- -नम् गोउ २१.
श्री-वनदुर्गा-महामन्त्र- -न्त्रस्य
व ४२६:१.
श्री-वराह^१- -ह: ऊ ६३:३.
श्रीवराह-रूप-
श्रीवराहरूपिन्- -पिणम् ऊ
६३:१.
श्री-व(रुि>)र्णा- -र्णा का १४.
श्री-वागीश्वरी^१- -री सर १,४.
श्री-विद्या- -द्या व१८;वर्ष३११:३.
श्रीविद्या-सिद्धि- -द्धि: सौ १,३.
श्री-विष्णु^१- -ष्णम् य३;सु२९३:३.
श्रीविष्णु-वल्लभ- -भाय गरु ३.
श्रीविष्णु-सायुज्य- -ज्यम् सु
२९५:६.
श्री-वीरभद्र^१- -द्र: लां २१६:२१.
श्री-वेदव्यास^१- -स: शु १,२;५.
श्री-वैष्णव- -व: दत्ता १,६; -वा:
सु २९४:२०
श्री-वृषभालु^१- -नो:सार२६३:१७.
श्री-शुक^१- -कमहा २,३६^१; -क:
शु १,९.
श्री-शैल-दर्शन- -नात् योशि ६,
४२.
श्री-सखी- -सखि तुल ७०:१५;
७१:६; -खीम् त्रिवि ६, २३.
श्री-सदाशिव^१- -व: शु १,१२.
श्री-सरस्वती^१- -ती सर २,१.
श्रीसरस्वती-दशश्लोकी-महा-
मन्त्र- -न्त्रस्य सर १, ४.
श्री-सिद्धि- -द्धि: ह १०.
श्री-सुदर्शन- -नम् व ४५८:१४.
श्री-सूक्त^१- -क्त्य सौ १,१; -क्तै:
सौ १,१;२.

श्रीसूक्त-गता(त-त्रा)र्धा^१-
(र्ध-त्रा)र्ध- -र्धा सौ १,२.
श्री-सूर्य- -र्याय अत्ति १^१.
श्री-सूर्यनारायण- -ण: अत्ति १;
-णम् सू ५.
श्री-हनुमत्-प्रसाद-सिद्धय-
(द्धि-त्रा)र्थ- -र्थम् लां २१३:३.
श्री-हृत्क- -त्कम् वउ ४,३६.
श्रय(श्री-त्रा)मि- -मि: सौ १, १^०.
श्री^० त्रिवि ७, ३०; रार २, ९५; अन्न
१,८; ह ७; दत्ता १,३^१; सौ १,
२^०; नापू ३,९; १२; पारा ८^१;
सार २३२:११; श्री-श्री^१ सार
२६०:२१; व ४६२:१.
√श्रु,>श्रु, श्रावि, श्रुश्रूष^१,>षि,
श्रुषि>धी १^०व ४४०:२२;
४४६:५; ४५१:१; ४५४:८.
शृणोति के १,७; प्र ४,२; ऐ ५,
१; छां १,२,५; ७,१२,१; २४,
१^१; वृ १,३,५^१; ४,१७; ५,३; २,
४,१४; ३,२,६; ४,३,२७; ४,२;
५,१५; ५,९,१^१; खे ३,१९; मै
२,८^१; मैत्रि २,६^१; कौ २,१३^१;
नृपू २,१२;शृण्वन्ति खे२,५१^१;
सार २७३:१; शि ७,१३९;
शृणोमि कै २,२; अष्या ६७;
१अव १६; शृणुम: मै १,१; मैत्रे
१,१; शृणोतु सर२,२१^१;सूता १,
४; पा७,४; शृण्वन्तु १अव१६;
शृणुष्व अद्वैमा १; शृणु हं २;
अना १५; बृजा ६,७; ब्रवि ५३;
१योत ४; नाप ३,१; त्रिवा २,
२४; सी३३; श १; महा २,३६;
शृणुहि मना१,१३१^१; शृणुष्वम्
रार १, ५; शृणुत सौ १, १;
सार २२०:१; शृणुवानि छां ८,

१२,४; शृणुवाम वृ ४,१,२-७;
भ १,६; अशृणुवम् वृ६,२,२१^१;
शृणुयात् वृ २,४,१४;४,३,२७;
३१;५,१५; नाद ३१; नाप ६,
१८; त्रिवि ८,२३; गरु २५; सु
१,१,५०; सार २५०:५; सृ ५;
शि ४,३३; गी १८,७१; शृणुयु:
छां ७,१३,१^१; शृणुया: वृ ३,४,
२१^१; १^१शृणुयाम प्र सुं मां अशि
अ अवि बृजा शां^१; नृपू शां^१; २,
१५; नाप सी शां^१.
शुश्रुम ई १०; १३; के १, ३;
शुश्रुमो(म-उ)^१ मैत्रि १, २;
श्रोष्यसि गी १८,५८; श्रोष्यामि
छां १,८,२; वृ १,५,२१; अ-
श्रोषम् वृ १, ५,३; ५, १४,४;
गा १२; गी १८,७४.
श्रूयते खे ६,८; गौ २,३; मै २,
४; मैत्रि २,४; मना२,१३,११^१;
ते ५, ४७; नाद ३३^१; त्रिवि २,
८, पं २१; वरा३,२; श्रूयन्ते मै
२,३; मैत्रि२,३; नाद३५; त्रिवि
२, १२; २प्र ३६:५; श्रूयताम्
नाप २; त्रिवि १, ५; पै २, ३.
अश्रावि अव्य ३.
श्रावयन्ति सार २२३:२१; शि
७, १३८; श्रावय तै १, ८, १;
श्रावयेत् क १, ३, १७; श ३६;
इ १०:७; सार २५०:११; चू
२०.
शुश्रूषन्ते छां ७,५,२.
शुश्रूषयेत् पै ४,८.
शुश्रूषस- -बांस: सुबा ९.
शुश्रूषण- -णात् रुह ३.
शुश्रूष(ष>)षा- -षया सु १, १,४;
-षाम् योशि २,२.

१) °कम् इति काचित्क: निसा.पामे. । २) श्री: अ^० इति अख्या. संटि. । ३) =बीजमन्त्रविशेष- । ४) 'भोम्'
इति निसा. । ५) 'श्रीं' इति अख्या. । ६) तु. गपू. पृ२३३८ । ७) ऋ १,२५,१९ । ८) 'शृण्वन्तु' इति ऋ १०,
१३,१; आन. । ९) ऋ ५,४३,११ । १०) ऋ १०,७५,५ । ११) ऋ १०,८८,१५ । १२) 'वात्' इति निसा. । १३) ऋ
१,८९,८ । १४) वैतु. °म: इति राती. । १५) ऋ १०,११,१ ।

शुश्रूषा(षा-ञ्च)र्थ-काम- -माः
 शि ७, ६५.
 शुश्रूषा-लाभ-पूजा(जा-ञ्च)र्थ-
 -र्थम् १ संन्या २, ८२.
 शुश्रूषि(त>)ता- -ताम् बृ ६, १८
 शुश्रूषु- -षवे वृ १, ९; सूता ६, ७;
 वृ २, १.
 शृण्वत्- -ण्वत् कौ २, १४^२; ३, २;
 -ण्वतः गी १०, १८; -ण्वते मना
 २, ४६९^३; -ण्वत्सु पित्र ३, ४;
 -ण्वन् बृ १, ४, ७; ४, ३, २७; त्रिता
 ३, २८९^४; सर २, ९९^५; व ४२९:
 १०९^६; वपू १, ५; गी ५, ८; -ण्वन्तः
 क १, २, ७; छां ५, १, ८; ९; ११;
 वृ ६, १, ८; ९; ११; १२.
 शृण्वन्ती(इती^७)- -न्त्यः(इत्यः^८)
 सार २७५ : ८.
 श्रवण^९- -णम् शु ३, १३; ते ३,
 ४६; ५, १२^१; ३३; नाप ७; पै ३,
 १९^२; अध्या ३ ३९^३; भव ५, १९;
 -णात् २ प्र ३५ : १९; नाउ ३,
 १४; -णाय क १, २, ७; छां ८, १२,
 ४; -णेन वृ २, ४, ५; त्रिवि १, २.
 श्रवण-कीर्तन-स्मरण-वन्दन-
 रत्न- -ताः सार २३५ : १३.
 श्रवण-कीर्तन-स्मरण-वन्दन-
 सेवनो(न-उ)पकरण-दास्य-
 भाव^४- -वेन सार २२० : १०.
 श्रवण-मनन-निदिध्यासन-
 -नानि मु १, २, ६.
 श्रवण-मनन-निर्विचिकित्स-
 -स्ते पै ३, १.
 श्रवण-मात्र- -त्रात् सांसू २, ३;
 -त्रेण पं २८.
 श्रवणा(ण-ञ्च)दि- -दिभिः पित्र
 १, ११.

श्रवणा(ण-ञ्च)ध्ययना(न-ञ्च)-
 र्थ-प्रतिषेध- -धात् ब्रसू १,
 ३, ३८.
 श्रवणा(ण-ञ्च)र्था(र्थ-ञ्च)नुसं-
 धान- -नम् पै ३, १.
 श्रवणीय- -यम् छां १, २, ५.
 श्रवण^{१०}- -णे कुं १९.
 श्रवण-मुख-नयन-नासा-
 निरोधन- -नेन सौ २, ४.
 श्रवणा(ण-ञ्च)ङ्गुष्ठ-योग- -गेन
 मैत्रि ६, २२.
 श्रवणा(ण-ञ्च)वधि- -धिं त्रिणा
 २, ४३.
 श्रवस्- -वः ह १८९^१.
 श्रावित,ता- -तम् बृ ६, ३, ४; -ताम्
 सार २४४ : २^२.
 श्रुत,ता- -तः छां ३, १३, ७; जाद
 २, १६; सार २२० : १; -तम् के १,
 ७; प्र ४, ५^३; तै १, ४, १; ऐ शां^४;
 ३, ११; छां ३, १३, ७; ४, ९, ३; ६,
 १, ३; ७, १, ३; वृ ६, २, २; मना
 २, ९९^५; १०९^६; कौ शां^७म्;
 वृजा ४, ३६; ५, ७; वृ २,
 ८९^८; सुबाध; ते ३, ५०; ५४; ६,
 ४८; ध्या ३, १२; नाद शां^९म्;
 नाप ४, २; ३८९^{१०}; ५, १; आबो
 निर्वा मुद्र शां^{११}म्; महा २, ७०;
 योशि २, ४; पप ४१७ : २; अक्ष
 शां^{१२}म्; जाद १, ९; पं २८; गोल
 ६८; शा ३४९^{१३}; ३५९^{१४}; ३६; ह
 २०९^{१५}; सौ सर ब शां^{१६}म्; मु १,
 १, ५२९^{१७}; इ ११ : १५; सार
 २२६ : २२; २२७ : १; २३७ :
 १; २५१ : ६; २६० : १५; शि ५,
 ४४; ब्रसू ३, १, १२; गी १८,
 ७२; -तम्-तम् प्र ४, ५; -तस्य

गी २, ५२; -ता सार २२७ : ९;
 -ताः शा ८; -ते वृ ४, ५, ६; सार
 २५१ : ५; -तेन क १, २, २३;
 मुं ३, २, ३; इ १२ : ३; -तैः शु १,
 १६; -तौ गी ११, २.
 श्रुत-त्व- -त्वात् वसू १५; ब्रसू
 १, १, ११; ३, २, ३९.
 श्रुत-पर(इरा^१)का(छा>)ष्ठ-
 -ष्टाः सार २८० : ६.
 श्रुत-महालील- -०लाः सार
 २३४ : २१.
 श्रुत-मात्र- -त्रः सार २३० :
 २०; -त्रे सार २७६ : ६.
 श्रुता(त-ञ्च)ध्ययन-संपन्न- -न्नाः
 नाप १.
 श्रुता(त-ञ्च)नुमान-प्रज्ञा-
 -ज्ञाभ्याम् योसू १, ४९.
 श्रुतो(त-उ)पनिषत्क-गाल्य-
 (ति-ञ्च)भिधान- -नात् ब्रसू १,
 २, १६.
 श्रुतवत्- -वान् गी १८, ७५.
 श्रुति^{१२}- -तयः गोच ६९ : १३;
 १८; २०; भव २, १; -तये १ प्र ३१ :
 २२; -तिः गौ ३, २३; ब्रवि ३१;
 अध्या ५९; दे १; जाद ४, ४२;
 शा ३१; २ प्र ३६ : १२; राघा २,
 १०; भव ३, २; सांसू ३, ८०; ५,
 १२; -तिभ्यः गोच ४४^{१३}; -तैः
 त्रिवि २, १^{१४}; ब्रसू २, १, २७; ३,
 २, ४; ४, ४६; -त्या ब्रवि ३२^{१५};
 सांसू १, १४७.
 श्रौत- -तम् लिं ३१० : १८;
 -तानाम् लिं ३१० : ५; -तै वृजा
 ५, १२; जाद २, ६.
 श्रौता(त-ञ्च)श्रौत- -तेषु
 लिं ३१० : १८.

a) ऋ १०, १८, ११ b) ऋ २, २३, ११ c) ऋ १०, ७१, ४ d) पा. १ यनि. शोचः द्र. । e) माप. ।
 f) श्रा^० इति श्रद्धा. । g) द्रस. > मलो. कस. । h) = १कर्ण- । i) वा. क्विवि. भवति । j) ऋ ३, ५३, १५ । k) तैश्चा.
 १०, ७, ११ l) तैश्चा १०, ८, ११ m) ऐश्चा २, ७, ११ n) ऋ २, ३३, १११ o) तैश्चा ७, ४, ११ p) 'शुचिम्' इति
 वाध २, ९ । q) वाध २, ११ । r) = २वेद- वा मन्त्र- वा । s) वृ. गण. पृ ८०७ k ।

श्रुति-तस(>) सांसू ५, ११^१.
 श्रुति-न्याय-विरोध- -धात्
 सांसू १, ३६.
 श्रुति-प्रोक- -क्तम् गु २५.
 श्रुति-लिङ्गा(ङ-आ)दि- -दिभिः
 सांसू ५, २१.
 श्रुति-वाक्यो(क्य-उ)दित-
 -तम् भव ३, ५.
 श्रुति-विरोध- -धः सांसू ६, ५१;
 -धात् सांसू ६, ३४.
 श्रुति-शासन- -नम् नाप ५, १.
 श्रुति-शास्त्र- -स्त्राणि अद्वैभा१०.
 श्रुति-सार-
 श्रुतिसार-क- -कम् योशि
 ६, २.
 श्रुति-स्मृति-पुराणे(ण-इ)ति-
 हास- -सानाम् वसू २८.
 श्रुति-स्मृति-विभ्रम- -मैः महा
 ४, ४१.
 श्रुति-स्मृति-सदाचार-धारणा-
 ध्यान-कर्मन्^० - -र्मणः^० अक्षि
 ११.
 श्रुति-स्मृती(ति-इ)तिहास-पुरा-
 ण- -णानि ह २.
 श्रुति-स्मृत्यु(ति-उ)क्त- -मार्ग-
 -र्गण भव २, ६७.
 श्रुत्य(ति-अ)नुष्ठान-मार्ग- -र्गण
 नाप ३, १०.
 श्रुत्या(ति-आ)दि-बलीयस्त्व-
 -स्त्वात् ब्रसू ३, ४९.
 श्रुत्यु(ति-उ)क्त- -क्तः भव ४, १.
 श्रुत्यु(ति-उ)त्पन्ना(ङ-आ)त्म-
 विज्ञान-प्रदीप- -पः वरा २,
 ४९.
 २श्रुति^१ - -तिः छां ३, १३, ८; -त्या
 अध्या ४.
 श्रुति-परायण- -णाः गी १३,

२५.
 श्रुति-विप्रतिप(ङ)ञ्जा- -ञ्जा
 गी २, ५३.
 ३श्रुति^{१०} - -तेः वृ ३, ४, २; ४, ३,
 २७.
 श्रुत्वा क १, २, १३; ३, १६; ऐ ३,
 ६; श्रु १, ७; १योत १; नाप ३,
 २३; महा ४, ३२; योशि ६, २;
 अव्य ७; त्रिता १, ७६; रह ३.
 श्रूयमाण,णा- -णा सार २७६:९;
 -णे नाद ३६.
 श्रूयमाण-त्व- -त्वात् त्रिवि ३, २.
 श्रोतव्य- -व्यः वृ २, ४, ५; ४, ५, ६;
 -व्यम् प्र ४, ८; सुबा ५, ६; ९;
 ते ४, २०; नाप ५, १; -व्यस्य गी
 २, ५२; -व्ये सुबा ५.
 श्रोतुम् शु १, ११; योशि २, १; पाशु
 १, २; रुजा ३, १; गार ४०५:२.
 श्रोतु-का(म)मा- -मा सार
 २५६ : १२.
 श्रोतृ- -ता प्र ४, ९; छां ७, ८-९,
 १; वृ ३, ७, २३^१; मैत्रि ६, ७;
 ११; योशि २, ५; १आ १; २आ
 २; त्रिता ५, १; -तारम् वृ ३, ४,
 २; कौ ३, ८; रापू ४, ३२; ग ४;
 -तारौ इ ११ : २; -तुः वृ ४, ३,
 २७; शु ३, ६; -तृ वृ ३, ८, ११^३;
 -तृणाम् इ १०:१८.
 श्रोत्र^१ - -त्रम् के शां^१ १, २, ७;
 प्र २, २, ४; ४, ८; तै १, ७, १;
 ३, १, १; ऐ १-२, ४; छां शां^१ १,
 १, २, ५; ७, ३^३; २, ७, १; ११, १;
 ३, १३, २; १८, २; ६; ४, ३, ३; ८,
 ३; ५, १, ४; १०^३; १४; ७, १; २०,
 २; ८, १२, ४; वृ १, ३, ५^३; १५; ४,
 ७; १७; ५, २१^३; २, १, १७; ४,
 ११; ३, २, ६; १३; ७, १९^३; ९,

१३; ४, १, ५^३; ४, १८; ५, १२; ६,
 १, ४; १०^३; १४; २, १२; मै
 शां^१ १, ६; मैत्रि ६, ३१; मैत्रे आर
 शां^१ १, ६; मना २, १५^१ १; ७२^१;
 ८०^१; कौ २, १^३; २^३; ३; ४; १३;
 १४; १५^३; ३, २; ३^३; ४-७; ४,
 १९; सुबा ५, ६; ९^३; ते ४, १०; ५,
 ४७; योचू वा शां^१ १, ६; शारी १;
 ७; महा १संन्या अव्य कुं सावि
 शां^१ १, ६; पाशु २, ९; ११; रुजा
 जाद जाबा शां^१ १, ६; दत्ता १, ६;
 २प्र ३३ : ८; भव २, १६; पित्र
 ३, ८; ६, ४; योसू ३, ४२; गी १५,
 ९; -त्रस्य के १, २; वृ ४, ४,
 १८; वृ २, २; ३; पाशु २, ११;
 -त्रयोः वृजा ७, ८; नाप ६, १;
 भ १, ६; २, २; -त्राणि छां ५, १,
 १५; २आ ११^३; -त्रात् ऐ १, ४;
 वृ ३, ७, १९; सुबा ११^३; वृ ३,
 ५०; -त्राभ्याम् ते ५, ४७;
 -त्राय वृ ६, ३, २; -त्रे प्र २, १२;
 सुं २, १, ४; छां ५, २०, २; वृ १,
 ३, ५; ३, ७, १९; ६, १, ४; गर्भ १;
 सुबा ५; शां १, ७, ५२; कुं १९;
 जाद ६, ३४; प्रा ४, १; सौ २,
 ३; रशिसं ११; व ४३६ : १०;
 -त्रेण के १, ७; ऐ ३, ६^३; ११; छां ५,
 १, ८; ९; ११; वृ १, ४, १७; ३, २,
 ६; ६, १, ८-१२; कौ १, ७; २, १३;
 १४^३; ३, २; ४; ६; जाद २, १६.
 श्रोत्र- -त्रः वृ २, ५, ६^३; ३,
 ९, १३.
 श्रोत्र-ता- -ताम् पाशु २, ११.
 श्रोत्र-स्वक्-चक्षु-र-जिह्वा-घ्राण-
 -णाः पै २, १६; त्रिभा १, ५^३.
 श्रोत्र-स्वक्-चक्षु-रसन-घ्राण-
 -णाः सू १६.

१) श्रू इति पा. ? इति. श्लोघः द्र. (तु. संटि.) । २) द्रस. > बस. । ३) द्वि ३ । ४) = २श्रवण- । ५) = ३श्रवण- ।
 ६) सकृत् 'श्रोत्रा' इति निसा. । ७) पाण्ड ३, १५, २३ । ८) तु. गणू. पृ २८९r । ९) रौ १९, ६०, १ । १०) तैत्रि १०,
 ६४, १ । ११) तु. गणू. पृ ३७८a । १२) मा ३१, १२ । १३) श्रो^० इति निसा. । १४) °णानि इति निसा. ।

श्रोत्र-स्वग्-अक्षया(दि-आ)दि-
 श्रोत्रस्वगक्षयादि-खादि-
 कर्मेन्द्रिय- -याणि कर् ३३
 श्रोत्र-स्वग्-लोचना(न-आ)दि-
 -दयः वरा १, २.
 श्रोत्र-द्वय- -यम् योशि ५, २२.
 श्रोत्र-द्वार- -द्वारा त्रिबा १, ९.
 श्रोत्र-निरोधन- -नात् जाद ६,
 ३१.
 श्रोत्र-पति- -तिः तै १, ६, २.
 श्रोत्र-मय- -यः वृ ४, ४, ५.
 श्रोत्रा(त्र-आ)काश- -शयोः
 योस् ३, ४२.
 श्रोत्रा(त्र-अ)क्षि-कटि-गुल्फ-
 घ्राण-गाल-स्किरदेश- -शेषु शां
 १, ४.
 श्रोत्रा(त्र-अ)क्षि-मध्य- -ध्ये
 जाद ४, २८.
 श्रोत्रा(त्र-आ)दि- -दीनि शारी
 १; पित्र १, ११; गी ४, २६.
 श्रोत्रादि-कारण- -गानि
 त्रिबा २, ११६.
 श्रोत्रादि-ज्ञाने(न-इ)न्द्रिय-
 -यैः पै २, ३५.
 श्रोत्रा(त्र-अ)पेत- -तः कौ ३, ३.
 श्रोत्रो(त्र-ऊ)रु-कटि- -क्याम्
 त्रिबा २, ८२.

२६६:४; १४; २७० : ५; २७१:
 ४; -णी सार २६३:२१; २६६:
 ५; १८; २७१: ६; -णीनाम
 सार २६३: २०; -णीषु सार
 २३३:१८; -ण्यः सार २७०:२१;
 -ण्याम् सार २६५:२२; २६७:
 ४; २७०: २१; २७१: १०;
 -ण्याम्-ण्याम् सार २७२:९.
 श्रेणि-संचार- -रः सार २६५:२२;
 -राः सार २७२: ८.
 श्रेणी-सप्तम-द्वार- -रम् सार २६६:
 २३.
 श्रेयस्^d- -यः क१, २, १^१; २^३; सुं १, २,
 ७; १०; वृ १, ४, ११; १४; मैत्रि
 ४, ५; त्रिबा २, २८; शां २, १;
 अन्न २, ७; ४, ४३; गोड २; भव
 १, ३९; गी १, ३१; २, ५; ७; ३,
 २; ११; ३५; ५, १; १२, १२; १६,
 २२; -यसः वृ १, ४, ६; -यसि त्रिबा
 २, २६; -यसे वृ ३०; अन्न ५,
 २७; -यांसः तै १, ११, ३; -यांसम्
 वृ १, ४, ११; अव्य ७; -यांसि
 त्रिवि ५, ७; -यान् तै १, ४, ३; छां
 ४, १६, ५; ५, १, ६^२; सांका २; गी
 ३, ३५; ४, ३३; १८, ४७.
 श्रेयस्-काम- -मः नाप ५, २८; -मैः
 सूता १, ३६.
 श्रेयो-विघ्न- -घ्नाः त्रिवि ५, ७.
 श्रेष्ठ, घ्रा^d- -ष्ठः छां ५, १, १^१; ७^३; १२;
 २, ६; वृ १, ३, १८; ५, १६; २१;
 ६, १, १^१; अशि १, ७; नाप ५, ५;
 श ४; पप ४२०: ९; अक्षि २०;
 पाशु २, ३५; गोड १८; रु १५;
 लि ३१०: ६; वड २, १७; ब्रह्
 २, ४, ८; गी ३, २१; -ष्ठम् क १,
 २, १७; छां ५, १, १; २, ७^१; वृ
 ६, १, १; त्रिता १, २२; २, ५; रुजा
 १, ६; गुडः ७; वड २, ६; छा अक्षि

२९; गोड ५; -घ्नात् ब्रह्म २, ४, १७;
 -घ्नानि कौ २, ११^१; -घ्नाम् त्रिता
 १, ७९; -घ्नाय छां ५, २, ४; वृ ६, ३,
 २; मना २, १८^१; -घ्नेः कौ ४, २०^१
 श्रेष्ठय- -च्छाम् छां ५, २, ६; कौ
 ४, २०^१; इ १४: १९; -च्छाय
 वृ ५, १३, २; ३; कौ २, ६^१; ४, १५.
 श्रेष्ठ-तम- -मः तृप् २, १३^१; -मम्
 गोड ३; -माय २ प्र ३६: २०^१.
 श्रेष्ठ-तर- -रः रु ४.
 श्रेष्ठ-पण्डित- -तान् अक्षि ११.
 श्रेष्ठा(ष्ठ-आ)सङ्ग- -ङ्गः अक्षि २६^१.
 श्रेष्ठिन्- -ष्ठिन्म् कौ ४, २०^१; -ष्ठी
 कौ ४, २०.
 श्रे^b लां २१६: ९.
 श्रो(ण>)णाrd- -णायै व ४३८: ७.
 श्रोतव्य- , श्रोतुम्, श्रोतृ- , श्रोत्र-
 √श्रु द.
 श्रोत्रियrd- -यः वृ ४, ३, ३३^३; अशि
 ७, १; महा ६, ८३; गोड २; च २१:
 ७; ऊ ६४: १३; वड ३१८: ३;
 -यम् सुं १, २, १२; नाप २; रु
 ३५; सु १, २, ६; -यस्य तै २,
 ८, २^१; ३^१; ४^१; वृ ६, ४, १२; कर्
 ३०; -याः सुं ३, २, १०; वृ ६,
 १, १४; शा ५.
 श्रोत्रिय-स्वर्ण-हरण- -णात् राउ
 ५, १४.
 श्रोत्रिया(य-अ)गार- -रात् पप
 ४१८: १३.
 श्रोत्रियागार-पचना(न-अ)भि-
 समुद्भव- -वम् वृजा ५, ५.
 श्रोत्रिया(य-अ)घ्न- -घ्नम् १ संन्या
 २, ६४.
 श्रौ^b लां २१६: ९.
 श्रौत- , श्रौत्र- √श्रु द.
 श्रुद्धण¹- -क्षणम् छां २, २२, १^१.
 श्रुद्धण-वस्त्र- -स्त्राणि शि ६, २५, ८.

४) समाहारे द्रस. । ५) =बीजमन्त्रविशेष- । ६) 'श्रं' इति अख्या. । ७) वैप१ यद्र. । ८) श्रु ५, ८२, १ ।
 ९) श्रु २, २१, ६ । १०) तैस्र १०, ४४, १ । ११) ष्ठी इति आन., शांआ ६, २० । १२) मा १, १ । १३) विप. । वैप१ यद्र. ।

√श्वथ्

श्वथ- धे महा ५, ६५.

√श्लिष्, श्लिष्यते छां ४, १४, ३; अथ्या ५१; श्लिष्यन्ते छां ४, १४, ३.

श्लिष्ट- ष्टः राप् ४, ९; महा ५, ९.

श्लेष्मन्^१- -ष्म, -ष्मणः निरु १, ३;

-ष्माणम् योशि ५, २४.

श्लेष्मिक- -कम् व ४३३:

२०.

श्लेष्म-हर- -रम् शां १, ७, १४.

श्लेष्मा(ष्म-ञ्)त^२-

श्लेष्मात-क^३- -कम् रुजा २,

१७.

श्लेष्मा(ष्म-ञ्)दि- -दि शां १,

४; -दीनाम् नाप ४, २७.

श्लो^४ व ४२७: २३.

श्लोक^५- -कः प्र १, १०; ३, ११; ४,

१०; ६, ५; तै २, १-७, १; ८, ५;

छां २, २१, ३; ३, ११, १; ५, २,

८; १०, ८; २४, ४; ७, २६, २; ८,

६, ६; वृ १, ५, २३; २, २, ३; ४,

४, ६; ७; वृ ६, ५; ७, १५; ९,

२०; अता ८; गोपू १३; २ प्र

३४: ४; स्व ६१: ४^६; ११; २३;

वप् १, ५; -कम् वृ १, ४, ७;

-काः वृ १, ५, १; २, ४, १०; ४,

३, ११; ४, ८; ५, ११; श्वे २, ५^७;

मै ४, ४, १; मैत्रि ६, ३२; ३४;

वृजा ३, १; ४, १; १०; ५, ७; त्रिज्वा

२, १; राउ २, १; ५, ४; शां १,

७, १; ३, १; कुं ९; १८; त्रिता ५,

१; गोपू ८; १९; गोउ २७; ता

२, १; रुजा १-२; १; करु १; या

२, १; २संन्या १७: ८; वरा ४,

१; सु २, २, १; छाग २५: १७;

कश्रु ३, १; -के २ प्र ३४: ४; -केन

कौ १, ६; -कैः वृ ३, ९, २८, १; -कौ
प्र ५, ५; वृउ ४, ५; गोच ६९: १७.

श्लोक-कृत्- -कृत् तै ३, १०, ६^१.

श्व(, > शु)न्^२- शुना ते ६, ९५^१;

शुनि गी ५, १८; श्वभिः महा ३,

४२; या २, ८; श्वभ्यः छां ५, २, १;

वृ ६, १, १४; श्वा छां १, १२, २;

श्वानः छां १, १२, २; वृ ३, ९, २५;

छाग २५: १४; स्व ६१: २२;

श्वानम् इ १६: ११.

शौव- -वः छां १, १२, १.

श्वान- -नेन ते ६, ९६.

श्वान-नार्दभ- -भौ स्व ६१:

२२.

श्व-पच^३- -चः सार २७९: ११;

-चस्य अञ ५, १०१.

श्वपच-गृह- -है पै ४, ५.

श्वपचा(च-ञ्)धम- -मः तुल

७१: २०.

श्व-पाक^४- -के गी ५, १८.

श्व-मूत्र-सदृश- -शम् १संन्या २,

७५.

श्व-योनि- -निम् छां ५, १०, ७.

श्व-पद^५- -दाः वृ १, ४, १६; -दानि

छां ७, २, १; ७-८, १; १०, १.

श्वभ्र^६- -भ्रम् छां २, ९, ७.

श्वशुर^७- -राः गी १, ३४; -रान् गी

१, २६.

√श्वस्, श्वसति छाग २५: १३^१.

श्वसत्- -सन् गी ५, ९.

श्वसन- -नम् त्रिज्वा २, १३७; -ने

वृजा ४, २१; -नेन ध्या ९३;

योचू ६६.

श्वस- -सः योचू ११७^१; -सैः वरा

५, ३.

श्वस-प्रश्वस- -सयोः योस् २,

४९.

श्वस-रूप- -पेण शां १, ४.

श्वस्(>)° क २, १, १३; वृ १, ५, २३;

भव १, ३८.

श्वो-भाव- -वाः क १, १, २६.

श्वो-भूत- -ते छां ४, ६-८, १.

√श्वि, अश्वत् वृ १, २, ७^४.

श्वितुम् वृ १, २, ६.

√श्वित्(°बधा.)

श्वित्^५-

श्वित्रिन्- -त्री इ १७: ५; सृ ९.

१ श्वेत^६-

श्वेत, ता^७- -तः छां १, १२, २;

इ १९: १५; -तम् वृजा ४, १;

त्रिज्वा २, १३७; वउ २, २२^३;

-तस्य सुबा ४; -ता गार ४०६:

१३; -ताः मना २, ६४^४; रुजा

१, ९; -तान् भ २, २; रुजा १,

१०; -ताम् का ४; नार ३१^५;

-तेन भ २, २; -तेभ्यः वृ ३, ८,

९; -तैः गी १, १४.

श्वेत-केतु^६- -तुः छां ५, ३, १;

६, १, १; वृ ६, २, १; -तुम् छां ६,

८, १; कौ १, १; -तौ छां ६, १,

१; २; ८, ७; ९, ४; १०-१६, ३.

श्वेतकेतु-ऋभु-निदाघ-

ऋषभ-दुर्वासः-संवर्तक-दत्तात्रेय-

रैवतक-

श्वेतकेतुऋभुनिदाघ-

ऋषभदुर्वासःसंवर्तकदत्तात्रेय-

रैवतक-वद नाप ३, ८६.

श्वेत-गन्ध-माल्या(ल्य-ञ्)-

तुलेपनी(इना^८)- -नी(इना^८) गार

४०६: २०.

श्वेत-गन्धा(न्ध-ञ्)क्षत-

-तैः रा ४२५: २०.

४) =फलविशेष- । ५) =बीजमन्त्रविशेष- । ६) वप्रा. वैपश् यद्र. । ७) °कः इति ऋ १०, १३, १; जान. । ८) वैपश् यद्र. । ९) °नाम् इति अख्या. । १०) =श्वपच- । ११) पूष. दीर्घः (पा ६, ३, १३७) । १२) °स(सि)° इति बे. । १३) =रोगविशेष- । १४) °श्ववत् इति निसा. । १५) =वर्णविशेष- । १६) =वर्णविशेषवत्- । १७) तैश्चाञ्चा १०, ६४ । १८) °तम् इति पा.३ यनि. शोधः द्र. (तु. नापू.) । १९) पा.३ यनि. शोधः द्र. ।

श्वेत-च्छत्र- -त्राय त्रिवि७, ४८
 ?श्वेतजा^०- -जा रु ७.

श्वेत-क्षीप^१- -पे ऊ ६३ : ३.

श्वेत-पुरी^१- -री राधा ४, ५.

श्वेत-पुष्प- -स्पैः राध २५ : २०.

श्वेत-मृत्तिका- -कामऊ ६३ : ५

श्वेत-मृत्सना- -स्सना का ५.

श्वेत-मृद्- -० मृत् ऊ ६३ :
 १३; नार ४.

श्वेत-रक्त-पीत- -तानि सार
 २२२ : १४.

श्वेत-वर्ण,र्णा- -र्णः वसू ९; व
 ४४० : १६; ४४२ : २; -र्णम् ध्या
 ९३, २; -र्णा मना २, ३५^१^०;
 वृजा १, १; २प्र ३६ : १; -र्णाम्
 सौ ३, १; -र्णे वि १.

श्वेत-वास^०-

श्वेतवासि(त् >)नी- -नी
 गार ४०६ : १९.

श्वेता(त-अङ्ग >)ङ्गी- -ङ्गी
 शां १, ६; गार ४०६ : १९.

श्वेता(त-अ)श्वतर^१d- -रः श्वे
 ६, २१.

श्वेतो(त-ऊ)र्ध्व-पुण्ड्र- -

धारिन्- -री नाप ५, १; १संन्या
 २, १३.

३श्वेत^१०- -तम् सुबा ९^१; १५.

४श्वे(त >)ता^१- -ता रापू ४, ६०.

श्वोभाव-, श्वोभूत- श्वस् द्र.

ष

ष^० सूता २, ५.

ष^१ आथ ३९६ : ३; व ४३६ : ६; हंषो

१२.

षं-कार- -० र अक्ष ५.

षण्णाम्^१ नृपू १, १३.

षण्ड^१- -ण्डः नाप ३, १; १संन्या २, ३.

षण्ड-क- -कः नाप ३, ६२^१; ६४^१.

षण्ड^१- -ण्डः नाप ३, २^१.

षष्^१- षट् छां ४, २, १; २; १५, ५;

५, १०, १-३; वृ ३, ९, १; ७^१; ६,

२, १५; १६; नृपू ५, २; ध्या ४१;

नाप ३, ६९-७१; योचू २; सुद्ग

४^१; रार २, २२; रापू १, ८१^१;

योशि ६, ३३; षट्-षट् वृजा ७, ८;

षट्सु नृपू ५, ८; गुष्ठ; षड्भिः श्वे

१, ४; मैत्रि ६, २८; नाप ३, ६२;

अता ६; सौ २, ३; सर ३, ३१;

भव ३, २९; षण्णाम् नृष ८४ :

१७; २१; ८५ : ५; १०१^०; षो ५.

षट्-कर्म-संसिद्ध- -द्धः वपू २, २.

षट्-कला- -ला षो ४.

षट्कला-त्व- -त्वम् षो ४^१?

षट्-कुक्षि- -क्षिः मना २, ३५^१^०.

षट्-कृत्वस(>) शां १, ५; जाद ५,

१०.

१षट्-कोण^०- -णेषु त्रिवि७, ३०; रार

३, १^१; सूता ६, ३.

षट्कोण-कपोल- -लेषु त्रिवि ७,

३०.

षट्कोण-ग(>)गा- -गाः श्या

११.

षट्कोण-शक्ति- -क्तयः नापू ६, ६.

२षट्-कोण^०- -णम् रार ३, १^१; रापू

४, ३४; योशि १, १७७; ५, १४;

नापू ६, २; ५; वपू ३, १; -णे वपू

२, ४.

षट्कोण-चक्र- -क्रम त्रिवि ७,
 १२; ३०.

षट्कोण-पार्श्व- -श्वे रार ३, १.

षट्कोण-मध्य- -ध्ये रार ३, १.

षट्कोणमध्य-स्थ-रामाङ्को-

(ङ्क-उ)परि-शोभि(त >)ता-

-ताम् रार २, ९७^०.

षट्-कोणक- -कम् १योत ९५.

षट्-कोश-रहित- -तः मैत्रे ३, १८.

षट्-कोश-विनिर्मुक्त- -कम् सुद्ग ४.

१षट्-चक्र^१- -कम् योचू ३.

षट्चक्र-वासि(त् >)नी^१- -०नि

हंषो ५.

२षट्-चक्र^१-

षट्चक्र-मण्डलो(ल-उ)द्वार-

-रम् त्रिवि ७६.

षट्-चत्वारिंशत्-

षट्चत्वारिंश- -शे अक्ष ५.

षट्-छता(त-अ)र-चक्र- -क्रम

त्रिवि ७, ८.

षट्-छांभव-संपन्न- -न्नः कामे १५.

षट्-त्रिंशत्- -शत् वरा १, ७; २प्र

३४ : १२; -शतम् रुजा १, १६.

षट्त्रिंश- -शे अक्ष ५.

षट्त्रिंशत्-तत्त्व- -त्वानि वरा

१, १.

षट्त्रिंशत्तत्त्वा(त्त्व-अ)तीत-

-तः नाप ८, १; तु ६^१?

षट्त्रिंशद्-अस्त्रे(ब-ई)श्वर- -रः

पी ४२२; २०.

षट्त्रिंशद्-दल-पद्म- -द्मम्

त्रिवि ७, ४१.

षट्त्रिंशल्लक्ष-योजन- -नम्

गु ९.

a) पा. ? 'श्वे(त >)ता या' इति द्विपदः शोधः द्र. । b) तैश्चाद्या १०, ३५ । c) उप. <√वस् (आच्छादने) ।
 d) =अभिनिवेश- । e) धा. अर्थः ? =वायुविशेष- । f) धा. अर्थः ? =सकार-बीजाक्षर- । g) पा. वृटितः । h) =बीज-
 मन्त्रविशेष- । i) 'भीषण->-णम्' इत्यस्योत्तरांशः । j) व्यु. ? । k) प^० इति अञ्ज्या. । l) ण्डः इति अञ्ज्या. ।
 m) वैपश् यद्र. । n) तु. गपू. पृष्ठ १७९ । o) पा. ? 'षट्' इति शोधः द्र. । p) 'ट्कालि' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. ।
 q) द्विस. । r) बस. । s) 'रिसंस्थि' इति अञ्ज्या. । t) उप. <√वस् (निवासे) । u) 'सत्त्वायुतः इति पा. ? यनि.
 शोधः द्र. (तु. नापू.) ।

षट्-पत्र- -त्रम् तृपू ५, २.
 १षट्-पद^०- -दः १संन्या२, ३४; वपू
 १, ६^३; -दम् वपू १, ५; ६.
 २षट्-पद^{०b}-
 षट्पद-वत् सांसू ४, १३.
 षट्पद-वृत्ति- -स्या नाप९, २०.
 षट्-पदा(द-अ)र्थ-
 षट्पदार्थ-नियम- -मः सांसू
 ५, ५८.
 षट्पदार्थ-वादिन्- -दिनः सांसू
 १, २५
 षट्-शत- -तम् त्रवि ७९; -तानि
 हं ११; योचू ३२; वरा ५, ३.
 षट्-सं(ख्य)ख्या- -ख्यया हं ११;
 रार ३, १.
 षट्-सप्त-
 षट्सप्त-धा रार ५, २.
 षट्-सहस्र-लक्ष-गायत्री-जप-
 फल- -लम् रुजा ३, १.
 षट्-स्वर-भि(अ)ञा- -जया यो
 २, ३८.
 षट्-स्वरा(र-आ)रूढ- -डेन सू ४.
 १षट्-अक्षर^०- -राणि काम ४.
 २षट्-अक्षर^d- -रः रार २, १६; ९४;
 ५, १; राउ ५, ५; ६; दत्ता १, ३;
 -रम् तृपू ५, ८; राउ १, २; ३, ७;
 दत्ता १, ३; नापू ३, ७; -रस्य वृजा
 ३, १२; रार ५, २.
 षडक्षरा(र-अ)धिकार- -रः रार
 १, ७.
 १षट्-अङ्ग^०- -ङ्गम् रार २, १२;
 २९; यो २, ३८; सौ १, २; ङ्गानि
 शु १, ११; रार २, ९६^०; -ङ्गेन
 सुबा ३.
 षडङ्ग-क- -कम् रार २, ७; २३;
 ९३.
 षडङ्ग-कल्पित- -ताः नापू ४, २०.

षडङ्ग-न्यास- -सः सावि १०.
 षडङ्ग-विद्- -विदः २प्र ३५;
 २२.
 २षड्-अङ्ग^d- -ङ्गः मैत्रिदि, १८; अना
 ६; -ङ्गम् सू ४; इ १० : ८;
 १९ : १९.
 षड्-अङ्गुल-दशा(श-अ)शीति-
 -तिः पाशु १, २४.
 षड्-अध्व-परिवर्तक- -कः त्रिता
 १, ४९.
 षड्-अन्वय-महावन- -नम् योशि
 १, १६६; ५, ३.
 षड्-अर- -रम् तृपू ५, २^३; -रे
 प्र १, ११.
 षड्-अर्चै(ः)र्ण^०- -र्चैः(ः)र्णः^० सूता
 २, १९.
 १षड्-अर्ण^०- -र्णैः रार २, ८९.
 २षड्-अर्ण^d-
 षडर्ण-वत् रार २, २७; ५१; ७४.
 षडर्ण-वेद्य- -द्यम् सूता १, २६.
 षड्-अवस्था-परित्याग- -गे महा
 ५, १८.
 षड्-अश्र- -श्रम् सूता ५, ३.
 षड्-अस्त्र- -स्त्रम् त्रिब्रा २, ५७; -त्रे
 रापू ४, ४३.
 षड्-अस्त्रक- -कम् योशि ५, ८^h; -के
 योशि १, १७२^h.
 षड्-आधार- -रम् मं ४, १, ५.
 षडाधारा(र-अ)पवरक- -कम्
 योशि १, १६६; ५, ३.
 षड्-आनन^०- -०न ते २, ९; ४, ८०;
 -नात् जाबा ४.
 षड्-आश्रय- -यम् गर्भ १^३.
 षड्-ऊर्मि-
 षडूर्मि-रहित- -तः नाप ७.
 षडूर्मि-वर्जम् पदं २^१.
 षडूर्मि-वर्जित- -तः नाप ३, ८६;

पप ४२०:१३; -तम् मुद्र ४.
 षडूर्मि-षड्भावे(व-ह)त्यादि-
 सर्व-दोष-रहित- -तम् वसू
 २३.
 षड्-ऋतु- -तुः ते ६, ५७.
 षड्-गुण-प्रसिद्ध- -द्वम् सार
 २७२ : ९.
 षड्-गुण-योग-युक्त- -क्तम् गर्भ
 १.
 षड्-ज^{११}-
 षड्ज-ऋषभ-गान्धार-मध्यम-
 धैवत-निषाद- -दाः गर्भ १.
 षड्-जन्म-कृत- -तम् रुजा ३, १.
 षड्-ढ(<ह)स्त- -स्तः शि २, ६७.
 षड्-दल- -लम् योचू ४; सौ ३, १.
 षड्दल-पद्म- -पद्मम् त्रिवि ७,
 ३०.
 षड्-दश-शिरस्- -रः दत्ता १, ६.
 षड्-दीर्घ-युक्त- -क्तैः रार २, २३.
 षड्-वीज- -जैः सूता १, ३२.
 षड्-भाव-विकार-शून्य- -न्यः
 नाप ७; मुद्र ४; पप ४२०:१३.
 षड्-भाव-विकृति- -तिः, -तिम्
 वरा १, ८.
 षड्-भूमिका-चिरा(र-अ)भ्यास-
 -सात् वरा ४, १०^१.
 षड्-योनि-गर्भा(र्भ-अन्त<)-
 न्ता- -न्ताः पी ४२२ : ११.
 षड्-रस- -सः ते ६, ५७; -सैः; रार
 ४, २.
 षड्-वक्त्र- -क्त्रम् रुजा २, ६.
 षड्-वर्ण- -र्णैः रार २, १८; १९.
 षड्वर्ण-वत् रार २, ९०.
 षड्-विशत^३-
 षड्विंशद्-अक्षर- -रः रार २, ७७
 षड्विंशद्-अङ्गुलि- -लिः योचू
 ९३^१.

a) विप. । b) =मधुकर- । c) द्विस. । d) वस. । e) °ङ्गेन इति अञ्ज्या. । f) सकृत् °डक्षरम् इति
 निसा. । g) पा. १ यनि. शोधः द्र. । h) °अ^० इति अञ्ज्या. । i) °वर्जितः इति निसा. । j) भूमिषट्कवि^० इति अञ्ज्या. ।
 k) उप. =विशति- । l) °लीः इति अञ्ज्या. ।

षड्-विंशति-

१षड्विंश^a- -शो अक्ष ५.
 २षड्विंश^b- -शः गौ २, २६.
 षड्विंशक^c- -कः मन्त्रि १४^d;
 मं १, ४, ३^e; सार २९१: २०;
 शि १, १४; -कम् चू १३^f.
 षड्-विकार-विहीन- -नः मैत्रे ३,
 १८.
 षड्-विकार(र-अ)दि- -दि ते ६,
 ५७.
 षड्-विध, धा- -धः गर्भ २; नाप ५,
 १; रार २, ८; १६; ५०; १संन्या
 २, १३; सार २३८: २३; -धम्
 नाप १^g; -धा छां ३, १२, ५;
 सार २८०: ११.
 १षण्-णवति^h- -तिः पाशु १, २४;
 -त्यः वरा १, १५.
 षण्णवति-कोटि-नामन्-
 -मानि रार १, ९.
 षण्णवति-तत्त्व- -त्वानि पत्र २.
 षण्णवतितत्त्व-ज्ञ- -ज्ञाः वरा
 १, १७.
 षण्णवतितत्त्व-तन्तु-
 षण्णवतितत्त्वतन्तु-वत्
 पाशु १, १४.
 षण्णवत्य(ति-अ)ङ्गुला(ल-आ)
 र्मक- -कम् शां १, ४; जादध,
 १; वरा ५, १९.
 षण्णवत्य(ति-अ)ङ्गुला(ल-आ)
 यत- -तम् त्रिब्रा २, ५४.
 २षण्णवति- -तीनि वरा १, १ⁱ.
 षण्-मास- -सम् योशि १, १०९;
 यो२, ३१^j; ४६^k; -सात् जादद,
 १०; यो २, ३१^j; सर ३, ८^l; मृ
 ११; -सेन मृ १३.
 षण्मासिक- -कम् व ४३३:

१९.
 षण्मास-कृत- -तानि गार ४०८:
 १४.
 षण्मास-मात्र- -त्रेण यो२, ३३^m.
 षण्मास-वत्सर- -रम् ते ६,
 १०९ⁿ.
 षण्मासा(स-अ)भ्यन्तर- -रेण व
 ४६५: १५.
 षण्मासा(स-अ)भ्यास- -सात्
 शां १, ७, ४७.
 षण्मासा(स-अ)र्ध- -र्धात् १योत
 १२५.
 षण्मासा(स-अ)वधि- -धिः
 त्रिब्रा २, १२४.
 षण्-मुख- -खः मना १, ६९^o; २,
 १९^p; व ४६३: १९^q; -खस्य शि
 ६, २३०.
 षण्मुखी- -खी त्रिता १, ७१.
 षण्मुखी/कृ
 षण्मुखी-करण- -णेन मं २,
 २, २; योशि २, १३.
 षष्टि- -ष्टिम् १संन्या २, ७^r; -ष्टीः
 गर्भ ५^s.
 षष्टि-तन्त्र^t- -न्त्रस्य सांका ७२.
 षष्टि-सहस्र- -साणि अशि ७,
 ५; महा ६, ८३; च २१: ११;
 मृ ८.
 षष्टिसहस्र-लक्ष- -क्षाणि
 गार ४०८: १६.
 षष्टि-सिद्धी(द्वि-ई)स्वर- -रः
 कामे १८.
 षष्टय(ष्टि-अ)र-चक्र- -कम् त्रिवि
 ७, ११.
 षष्ट- -ष्टः हं १६; तु ९^u; सूता २,
 १८; नापू १, ६; ५, ७; -ष्टम् चूपू
 २, ६; त्रिता २, ५९; त्रि ९; दे

१३; यो १, ६०; दत्ता १, ३; ६;
 योरा १३; ऊ ६४: ७; नापू ६,
 ३; वृष ८४: ४; ८; ८५: ७; सार
 २८४: ३; रशिसं ७; गार ४०७:
 ६; ११; वपू १, ६; २, २; -ष्टस्य
 वृष ८४: १७; २०; ८५: ४; -ष्टे हं
 १९; गर्भ ३; अना ३०; अक्ष
 ५; त्रिता १, ६५; निरु १, १३; म
 ४९: १४; सूता ५, ९; राधा २,
 ५; -ष्टेन पिं १२; वपू २, २.
 षष्ठी^v- -ष्ठी नाद १०; नाप
 ८, १; महा ५, २५; ३३; अक्ष ५,
 ८४; ८८; त्रिता ३, ९; वरा ४,
 १^w; २; ९; सार २६६: १८; गार
 ४०६: ८; गु ४; हंषो १८; -ष्ठीम्
 चूपू ३, ४; अक्षि ३७; गोउ २६;
 गुषो ४२१: ३; हंषो १५; वपू २,
 २; -ष्ठ्याम् नाद १५; अक्षि ४०.
 षष्ठी-कला-
 षष्ठीकला-वत्- -वान्
 षो १९.
 षष्ठी-व्यपदेश- -शात्
 सांसू ६, ३.
 ?षष्ठी(ष्ठी-ई)ज्ञ-नाथा-
 (ध-आत्मक>)त्मिका- -कम्
 विद्या २.
 षष्टय(ष्ठी-अ)न्त- -न्तम्
 रार ३, १; रापू ४, ४१.
 षष्ट-क- -कम् यो ३, १०.
 षष्ट-कूटा(ट-अ)क्षर- -रः विद्या
 १.
 षष्ट-भूमि- -भ्याम् वरा ४, १.
 षष्ट-श्रेणि- -श्रेणाम् सार २७०:
 ११.
 षष्टा(ष्ट-अ)क्षर- -रः राज १, ३;
 ता २, १.

a) तु. गपू. पृ२०३t । b) तु. गपू. पृ२०४a । c) तु. गपू. पृ२०४b । d) °कम् इति चू १३ ।
 e) °वाः इति निसा. । f) °कः इति मन्त्रि १४ । g) °षणा° इति अंश्या. । h) तस. । i) पा. ? । j) षा° इति
 अंश्या. । k) 'षण्मासात्' इति अश्या., षा° इति अश्या. संटि. । l) तैआ १०, १, ६ । m) तैआ १०, १, १६ ।
 n) °ष्टिः इति आन. । o) तु. गपू. पृ४७३k । p) वप्रा. द्र. ।

षष्ठा(ष्ठ-अ)ह-

षष्ठाहिक-कम् व ४३३ :

१८.

षोडशन्^१-श प्र ६,२;५; गर्भ ३;
५; वृजा ३, २५; ४,२०; २२;
तृपू ५,८; नाप ४,३८; त्रिब्रा २,
१; रार ३,१; रापू १,८; झारी
६; भा ११; इ १३; १; तु ११^१;
नि २,१; -श-श वृजा ७,८; भ
२,२; रुजा १,१६; -शभिः यो
१,६९; जाद ६,३; ७; योरा १७;
-शसु तृपू ५,८; -शानाम् छां ६,
७,३; ६.

षोडश- -शः शां १, ७, १३;
-शम् छां ३, १६, ७^३; योचू १०३;
दत्ता १, ६; गार ४०७ : ८; १३;
-शे अच् ५.

षोडशी- -शी वृ १, ५,
१४; १५; ब्रवि ७३; नाप ८, १;
ब १८; विद्या १; -शीम् तृपू २,
१०४^०; पै ४, १५; योशि ६, ४१;
४३; ४६; त्रि १०४^१; वउ १, २८;
-श्या वृ १, ५, १४.

षोडश-तस(>)सूता २, १८.

षोडश-क- -कः सांका ३; २२;
-कम् कलि २; -कस्य कलि ३^१;
-कात् सांका २२.

षोडश-कर्णिक(>)का- -का वपू
२, ४.

षोडश-क(ला>)ल- -लः छां
६, ७, १; वृ १, ५, १४; १५; तृपू
५, ५; वपू ३, १; -लम् प्र ६, १.

षोडश-कला-

षोडशकला(ला-आ)वृत-
-तस्य कलि २.

षोडश-त्रुत्पष्टि-द्वात्रिंशत्-
संख्या- -ख्यया मं १, १, ६.

१षोडश-दल^१- -लेषु रार ३, १.

२षोडश-दल^२- -लम् रार ३, १;
रापू ४, ४८; नापू ६, ३; -लाः
नापू ६, १०; -ले राधा १, २१.

षोडशदल-कमलो(ल-उ)-
परि पी ४२१ : ६.

षोडशदल-पद्म- -अम् त्रिवि
७, ३६; सौ ३, १.

षोडशदल-मध्य- -ध्ये राधा
१, १६.

१षोडश-पत्र^१-

षोडशपत्र-संवृत- -तम्
त्रिता २, ४६.

२षोडश-पत्र^२- -त्रम् तृपू ५, ५;
वपू ३, १.

षोडश-भेद- -दाः आश्र १.

षोडश-मात्रा- -त्रया १ योत ४१;
त्रिब्रा २, ९६; -त्राः तु ११; १२;
-त्राभिः शां १, ६.

षोडशमात्रा(त्रा-आ)त्मक-
-कः नाप ८, १; पप ४१९ : २१;
तु ११; -कम् तु ७.

षोडशमात्रात्मक-त्व-
-त्वम् नाप ८, १.

षोडशमात्रा(त्रा-आ)न्वित-
-तः तु ६.

षोडशमात्रा(त्रा-आ)रूढ-
-ढाः पप ४१९ : २८.

षोडश-वर्ष-

षोडशवार्षिक(>)की-
-कीम् नाप ३, ६४.

षोडश-संख्या(क>)का-
-कानाम् सु १, २, ४.

१षोडश-समा^१-

२षोडशस(म>)मा-

षोडशसमा-समा-

(म-आ)कार(>)रा- -राम् सुसु

२.

षोडश-तहस्र-जप- -पः सौ १,
२.

षोडश-स्थान^१- -नम् वृजा ४,
२४; -ने वृजा ४, १७.

षोडशस्थान-क- -के वृजा
४, १२.

षोडश-स्वर-भेद- -देन कालि
४०१ : ११.

१षोडशहलचूर्णस्वरबिन्दुमेलन-
रूपा^१- -पा तारा ८३ : ४.

षोडशा(श-अ)क्षर- -रः रार २,
६०; -रम् दत्ता १, ६.

षोडशाक्षरी- -री नापू
३, १०; -रीम् विद्या ४.

षोडशाक्षर-मन्त्र- -न्त्रः
दत्ता १, ६^१.

षोडशा(श-अ)ङ्गुल- -लम् शि
३, ६; ९.

षोडशा(श-आ)दि- -दिषु सांस्
५, ८६.

षोडशा(श-आ)धार- -रम् योचू
३.

१षोडशा(श-अ)न्त- -न्ते वृउ
३, ९.

षोडशान्त-स्थ-तुरीय-
चैतन्य- -न्यम् अता १३.

षोडशान्त-स्थित-ज्ञाना-
(न-आ)त्मन्- -स्मानम् त्रिवि
५, १२.

२षोडशा(श-अ)न्त^२- -न्तम् श्वे
१, ४; नाप ९, ३.

षोडशा(श-अ)ब्जक- -कम् सुसु
७; -के सुसु ११.

षोडशा(श-अ)र- -रम् तृपू ५,
५; योचू ५; -रे वपू २, ४.

१) वैप १ यद्र. । b) तु. गपू. पृष्ठ ७३३। c) °स्त्री इति मा ८, ३६ । d) तु. गपू. पृष्ठ ५४। e) °स्त्रीक° इति निसा., अज्या. यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या. संदि., नापू. स्थ.) । f) द्विस. । g) वस. । h) उप. = १वर्ष- । i) पा. ! °शज्वलनत्° इति शोधः द्र. । j) °न्त्रे इति निसा. ! ।

षोडशा(श-अ)स्त्रक-कम् योशि
१, १७४^४; ५, १०^४.
षोडशिन^४-शाना मैत्रि ६,
३६; नृपू ५, १७; -शी मना १,
१०१^०.
षोडशीय^४-येन वउ ५, १४.
षोडशो(श-उ)पचार-रैः त्रिवि
७, ४९.

षिपिस्व^४ व ४२७: १८.

षिरुपु^४ व ४२७: १८.

√षूङ् त्रिता १, १९.

षो(ढ>)ढा^४-ढाषो ६; -ढाम् कामे
१३; षो ३; ४.

षोढान्यास-सस्य हंषो २.

षोढान्यासा(स-अ)धिकारिन्-
री पारा १६.

षोढान्यासिन्-सी षो ४.

षोढा-रूप-पः शुषो ४२०: ४.

ष्टत्तिउ^४ व ४२७: १८.

स

१स-तद्-द्र.

२स^४ व ४२९: ७^२.

स-कार-रः योच् ८२; ८३; सी
४; -रम् ब्रवि १६; -रेण ध्या
६१; योच् ३१; योशि १, १३०;
१३३; ६, ५३.

सा(स-आ)दि-विद्या-द्या ब७.

सं^४ यो ३, १^२; सर २, ९^२; अह्ना २,
६^२; आथ ३९६: ३; व ४२८:
८; हंषो १२; सं-सं^४ सार २६०:

२१.

सं-कार-०र अच् ५.

सः^४ शु २, ५; नापू ५, ११; व ४५६:
२२.

सोहम्^४ हं १०; शु १, १८; २,
५; नाप ६, १; त्रिवि ७, ४५; मवा
६; सूता ६, ३; हंषो २१; सोहम्-
सोहम् योशि १, १३२.

सोहं-हंस-साय व ४६३:

१७.

३स^४ व ५, ५, १.

४स^४-सम् रार २, ६९.

५स^४ २समान-द्र.

६स^४ २सह द्र.

७स^४-

स-रि-ग-म-प-ध-नि-स-सं(ज्ञा>)-
ज्ञ-ज्ञैः नाप १^४.

स^४-ऋच्-ऋचा सर १, २.

सं/यत्(यतने), संयतिरे छां १, २, १.

सं-यत्त-त्ता: २प्र ३३: २३; शौ
५१: १.

सं-यत्-समि द्र.

सं/यम्(यमने), संयमेत् त्रिवा २,
१४७.

संयम्यते निरु १, ८.

सं-यत्-तः कुं ७; -तौ योशि १,
७१.

संयते(त-इ)न्द्रिय-यः नाप ५,
२५; गी ४, ३९.

सं-यम-मः भव ५, ८; योसू ३, ४;
-मात् शां १, ७, ५२^{१५}; योसू ३,
२७; ५३.

संयमा(म-अ)मि-मिषु गी ४,
२६.

संयमा(म-अ)संयम-माभ्याम्
महा ४, ८७.

संयमिन्-मी नाद ४०; यो १,
५७; या २, २२; गी २, ६९.

सं-यमत्-मताम् गी १०, २९^५.

सं-यमन-ने ब्रसू ३, १, १३.

सं-यम्य त्रिवि ५, १३; कुं १४; १८;
यो १, २६; ३२; गी २, ६१; ३,
६; ६, १४; ८, १२.

सं/या, संयाति इ १८: १३; भव २,
३८; गी २, २२; १५, ८.

सं/यु(मिश्रणे)

सं-युत्, ता-तः रापू ४, ३४; ३५;
-तम् सर ३, १९; सार २२५:

९; शि ६, १०८; श्या ९; ना
रापू ४, ५८; -ता: रुजा १, ११;

-तानाम् इ १८: १०; -तैः शि ६,
१०८.

सं/युज्, > योजि, संयुनक्तु ३,
४१^५; ४, १; १२१^५; मना २, १२,
३१^५; यु ५६; संयुजाताम् सार
२८९: १२.

संयुयुजे इ १०: ४.

संयुज्यते प्र १, १३^३; वृपू २, ४;
सुभा ४^१; सार २८०: १०; सं-

युज्यन्ते सार २९०: ४.

संयोजयति सार २३९: ११.

सं-युक्त, क्ता-क्तः गर्भ ३; शां १,
३, १२; रार २, ७७; ७९; ८०;
८८^४; शारी ५; योशि १, ८९;

a) °शाश्र° इति अच्ञ. । b) विप. नाप. च वैपश् यद्र. । c) तैश्चा १०, १, १० । d) 'स्वपिषि' इत्यस्य गुह्यजपार्थो विपर्यासः । e) 'पुरुषी->०षि' इत्यस्य गुह्यजपार्थो विपर्यासः । f) व्यु? =देवीविशेष- । g) 'उत्तिष्ठ' इत्यस्य गुह्यजपार्थो विपर्यासः । h) =वर्ण- वा बीजमन्त्रविशेष- वा । i) =बीजमन्त्रविशेष- । j) अर्थः? । k) तु. गपू. पृ२३३८ । l) बीजमन्त्रविशेषो वा 'हंसः' इत्यस्याऽऽन्तिमाक्षरं वा । m) 'हंसः' इत्यस्य गुह्यजपार्थो विपर्यासः । n) 'सत्यम्' इत्यस्याऽऽद्यांशः । o) 'सकल-' इत्यस्याऽऽद्यांशः । p) २समान- इत्यस्याऽऽदेशः [पा ६, ३, ८४उउ. (तु. स-दृश- प्रमृ. यस्था.)] । q) २सह इत्यस्याऽऽदेशः [पा ६, ३, ७८उउ. (तु. स-ऋच्- प्रमृ. यस्था.)] । r) =संगीतस्वराऽऽद्यक्षर- । s) °निसंज्ञैः इति अच्ञा. । t) =६स । u) 'संयच्छताम्' इति RAJ. (BHC. ३३५) । v) तैश्चा १०, १०, ३ । w) °क्ता इति अच्ञा. ।

अन्न ५, १००; दे १३^१; १४;
जाद ६, १७; -क्तम् श्वे १, ८; ध्या
९०; नाप ९, ७; योचू ६४; १आ
२४; लि ३११ : ९; भव २, ५;
-क्ताः भा ५; सार २४२ : ८;
-क्ताभ्याम् सार २५१ : ११;
-क्ताम् शि ६, १६१.

संयुक्त-चे(ष्टा>)ष्ट-ष्टः श्वे २,
९; भव ३, २६.

संयुज्यमान-नः सार २९० : ८.
संयोक्ष्यमाण, णा-णा सार २४० :

१३; १४; २५७ : २; २६७ : १९;
२८७ : ८; २८९ : १; -णाः सार
२४६ : १८; २७९ : ४; २८० : २;
५; -णानि सार २६२ : १७.

संयोक्ष्यमाण-कामरस-सुख-
संपत्ति-योग्यता-ताम् सार
२२८ : ११.

संयोक्ष्यमाण-रति-ती सार
२८९ : ५.

संयोक्ष्यमाण-सुख-खम् सार
२२८ : ११.

संयोग-गः श्वे १, २; नाप ९, १;
त्रित्रा २, २५; योशि १, ६९;
१संन्या २, ११; २प्र ३४ : ८; पा
४, ६^१; भव ३, १२; १३; सांका
२१; योसू २, १७; २३; -गम् इ
१० : ४; भव १, ४; -गाः अक्षि
२३; सांसू ५, ८०; -गात् सार
२३९ : २१; -गे सांका ६६; -गेन
अक्षि २५.

संयोग-दीक्षा-क्षा निर्वा
२९७ : ४.

संयोग-निमित्त-हेतु-तुः श्वे ६, ५

संयोग-हेतु-तुः श्वे ५, १२.
संयोगा(ग-अ)भाव-वः योसू
२, २५.

सं-योजन-नम् रार ५, १३.

सं-योजि(त>)ता-ता सार २४४ :
११.

सं-योज्य वृजा ३, २७; वृज ४, ५;
६, ५; शां १, ७, १७; पै १, २०;
३, १; त्रिता २, ४४; शि ३, ४;
वज ६, २२.

सं/रङ्

१सं-रक्षण^b-गाय पा ३, ३.

२सं-रक्ष(ण^c)णी-णी गोच ६७ :
१^१; २.

सं-रक्ष्य नाप ४, ३८^२.

सं/रभ्, >म्, संरभावहै वृ ६, ४,
२०.

सं-रब्ध-ब्धाः छां १, १२, ४.

सं-रम्भ-

संरम्भ-वर्जित-तः महा ६, ६८.

सं/राज्, संराजते सार २४५ : १२;

२६५ : ३; संराजन्ते सार २३३ :

१५; २३७ : ६; १५; २५८ : २१;

२६२ : १५; २६६ : १५; २८५ :

१९.

सं-राज-

संराज-वत्-वन्तम् पा ८, ४.

सं-राजमान, ना-नम् सार २४५ :

१७; २७१ : ११; -ना सार २७१ :

१३; २३; -नाः सार २२२ : १२;

२३२ : १६; २३७ : २; २६६ :

१४; २६७ : ५; २७१ : ३; -नानि

सार २२२ : ७; २३३ : १४; २४४ :

२३; २८८ : १; -नौ सार २४५ :

१; २.

संराजमान-जघनस्थल-

वासि-मोहन-गृह-हम् सार
२४५ : ५.

संराजमान-स्व-स्वम् सार

२४५ : १३.

संराजमान-धर्मा(र्म-अ)धर्म-
-र्मान् सार २९० : २०.

सं/राध्

१सं-राधन^b-ने व्रसू ३, २, २४.

२सं-राध(न^c)नी-नीम् वृ ६,
३, १.

सं/रुच्, संरोचते सार २८५ : ७.

सं-रोचमान-नाव् सार २४५ :

१८; -नानि सार २७० : २२.

सं/रुध्, >रोधि

सं-रुद्ध-द्धम् शि ६, २८२.

सं-रोध्य सौ २, १२.

सं/लग्

सं-लग्न-ग्नाः सार २२३ : १७;

२६६ : १९; -ग्नानि सार २५८ :

२०.

संलग्न-स्व-स्वात् त्रिता ४,

११; १२^०.

सं/लभ्, संलभ्यते यो २, ११.

सं/लिख्, संलिखेत् राप् ४, ४८.

सं/ली, संलयेत् त्रिता ५, ७^१.

संलीयते अन्न ४, ६९.

सं-लय-याय वृ ४, ३, १९.

सं/वच्, समुच्यते अन्न १, १३.

संवत्सर^d-रः प्र १, ९; सुं २, १, ६;

वृ १, १, १; २, ४^१; ७, ५, १४; १५;

४, ४, १६; ६, २, १०; मैत्रि ६,

१५^१; ३३; मना १, २५^b; १४^c;

२, ७९^d; गार ४०८ : ११; -रम्

प्र १, २; छां २, १९, २; ४, १५,

५; ५, १, ८-११; ६, १-३; वृ १,

५, २; ६, १, ८-१२; नाप ६, २६;

ज्ञाग २४ : १७; १८; शि ५, २३;

-रस्य छां ३, १९, १; वृ १, २, ७;

३, ९, ५; कौ १, ६; नाप ६, २८;

-राः वृ ३, ८, ९; मना २, ८०^e;

-राणाम् यो २, ३४; -राव् छां ४,

a) °युताः इति निसा, अख्या. पा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. °काः इति अख्या. संटि.) । b) भावे कृत् । c) कर्तृरि कृत् । d) कर्मणि कृत् । e) सुल^० इति अख्या. संटि. । f) सल्ल^० इति अख्या., सल्लयो^० इति अख्या. संटि. । g) = १ वर्ष - । वैश १ यद. । h) तैआ १०, १, २ । i) ऋ १०, १९०, २ । j) तैआ १०, ६३, १^१ । k) तैआ १०, ६४, १ ।

संसृति-पात्र- -शात् म २, १४; २०.
 संसृति-बन्ध-मोक्ष- -क्षयोः मवा ३.
 संसृति-विभ्रम- -मम् महा ६, २२.
 संसृति-व्रतति- -तेः अन्न ४, ३९.
 संसृति-सुख- -खम् कुं ७.
 सं/सृज्, संसृजति अशि ४, १६^b; २३; ५, ८^c; वट्ट ३१६: ८; १६.
 संसृज्यते छां १, १, ६; वृ ४, ३, ८; संसृज्येत नाप ५, १९.
 सं-सर्ग- -र्गः भव ३, २२; वपू २, २; -र्गात् सार २९२: ४; -र्गान् अना ८.
 सं-सृज्- -सृजि व ४६१: २१^d.
 सं-सृज्य श्वे ३, २; अशि ५, ४; काला ८; जाबा १६; वट्ट ३१७: ४.
 सं-सृष्ट- -ष्टम् ब्र १; व ४५९: १७; ४६१: ३१^e; ४६४: २०^f; भव २, ५९.
 सं/सेव्, संसेवन्ते सार २२४: १७.
 संसेव्यन्ते सार २२६: २.
 सं-सेवमान, ना- -नः सार २२५: २३; २६९: १३; -नाः सार २२९: १४; २३४: १४.
 सं-सेव्य- -व्यम् नाप ४, २५.
 सं-सृ/कृ, संसृरोति छां ४, १६, २; ३; कौ २, ६; संसृकुर्वन्ति छां ४, १६, ४; ८, ८, ५.
 संसृक्रियते सांस् १, ३३^g.
 सं-स्कार- -रः २ संन्या १५: १^h; २आ ३; सांस् ५, १२०; योस्

१, ५०; -रात् योस् ३, १०; -रेभ्यः योस् ४, २६.
 संस्कार-परामर्श- -शात् ब्रस् १, ३, ३६.
 संस्कार-भेद- -दाः सांस् ५, १२०.
 संस्कार-लेश-
 संस्कारलेश-तस(>) सांस् ३, ८३.
 संस्कार-वश- -शात् सांका ६७.
 संस्कार-शेष- -षः योस् १, १८.
 संस्कार-सहित- -तम् बृजा ३, १ⁱ.
 संस्कार-साक्षात्करण- -णात् योस् ३, १८.
 सं-स्कृत, ता- -तम् बृजा ३, ३४^j; भव ४, १४; -ताम् सुमु ९.
 संस्कृता(त-अ)न्न- -न्नम् सुमु ८.
 सं-स्कृत्य वृ ६, ३, १; स ३७९: २.
 सं/स्तम्भ्
 सं-स्तम्भ्य वृ ४, ५; गी ३, ४३.
 सं/स्तु, संस्तुयते योच् १०७.
 सं-स्ताव^k- -वः वृ ४, २, ३.
 सं-स्तुत- -तः वपू १, ५.
 सं-स्तुयमान- -नम् रार २, ४६.
 सं/स्तु>स्तिर
 सं-स्तीर्थे कौ २, १५.
 सं/स्था, >तिष्ठ, स्थापि, संतिष्ठस्व मना २, ७७^l; संतिष्ठेत् कर ५; लिं ३१०: १०; शि ७, १४; ५७; कश्चु ३, ५.
 संस्थापयेत् म १, ४; शि २, २६.
 सं-स्थ- -स्थः आवो ३^m.
 सं-स्था- -स्थासु वज ६, १०ⁿ.
 सं-स्थान- -नम् कौ १, ३; ५.

सं-स्थापक-
 संस्थापक-शय्योपकरण-गुण-रूपगान-रतिष्यानकीर्तन-लीलास्मरण-तद्भावापत्ति-रूप-सेवा- -वा सार २४९: ११.
 सं-स्थाप्य जु १४; शां १, ३, ५; १, ४; ७, ४३; शि ६, १४१; ७, ७६.
 सं-स्थित, ता- -तः नाद १९^o; ध्या ९८^p; ब्रवि ६९; ७१; ७२; द १८; शां १, ३, ४; ११; गोउ २८; कृ १८; जाद ३, ११; पं १६; -तम् गौ १, २८; ब्र ३, १३; ते १, १; नाप ५, १; योशि १, ५९; अन्न ५, ८७; गोउ ४६; ५५^q; शि २, ८; -तस्य इ १८: ९; -ता शां १, ७, ४२; यो १, ६८; जाद ४, १८; १९; -ताः त्रिब्रा २, १^r; ८२; योच् २१; जाद ४, ३०; वरा ५, २८; -तानि कर १; -ते पै ४, ९; महा ४, १३; अन्न ५, २२.
 सं-स्थिति- -तिः मैत्रि ५, १^s; ६, ३६; त्रिब्रा २, १६१.
 सं/स्ना>च्चापि
 सं-न्नाप्य अन्न ४.
 सं/स्पृश्
 सं-स्पृष्ट- -ष्टः कौ ४, ११^t.
 सं/स्पृश्, संस्पृशति गौ ४, २६; २७; संस्पृशन्ति कुं २३; संस्पृशेत् अशि ५, २२; वट्ट ३१७: १३.
 सं-स्पृश- -शः म २, ३; अन्न ५, ६१; -शेन छां ३, १३, ७.
 संस्पृश-ज- -जाः गी ५, २२.
 सं-स्पृशम् कौ २, ४.
 सं-स्पृश्य कौ २, १५.

a) 'कामान् संन्यसति' इति अज्या. । b) 'सृजति' इति अज्या. । c) 'संसृजन्ति' इत्यपि निसा. पाभे. ।

d) ऋ १०, ८४, ६ । e) ऋ १०, ८४, ७ । f) पा., पावा ६, १, १३७ । g) °थेत इति संदि. । h) °रोत्रो इति अज्या. संदि. । i) °ररहि इति अज्या. । j) 'कल्पितम्' इति अज्या. । k) तैत्रा ३, ७, ६, १९^३; २०^३ । l) °स्थितः इति अज्या. । m) सुस्थि° इति आन. । n) °ताः इति निसा. । o) °तः इति आन. । p) °तः इति अज्या. ? यनि. शोघः द. (उ. निसा.) । q) 'तिष्ठसि' इति मै ४, ४, १३ । r) °स्पृ° इति आन., शांआ ६, १ ।

सं-स्पृष्ट-ष्ठः गर्भ ४७.
 सं/स्फुर, संस्फुरति मैत्रि ६,२५;
 संस्फुरेत् यो १,६७.
 सं/स्मृ, संस्मरति अन्न २, २८; सं-
 स्मरन्ति सार २५९:७; संस्मरेत्
 त्रिता ५,२०; जाद ६,३; नापू
 ४,२७; शि ५,३६; गार ४०८:
 ५; सं...स्मरेत् रार ४,१२.
 सं-स्मरत्-रन् राज ४,१; जाद ६,४.
 सं-स्मृत-तः कृ १७^b; -तम् महा
 ५,१३१.
 सं-स्मृत्य जाद ६,४०; संस्मृत्य-
 संस्मृत्य गी १८,७६;७७.
 सं/स्रु, सं...स्रवन्ति मना २,४०९^o;
 संस्रवेत् योशि १,१२७.
 सं-स्रव^र-वम् वृ ६,३,२^o; ३^र.
 सं/हन् (*बधा.), संजघान श ४.
 समहन्यत वृ १,२,२.
 सं-हत-ताः सुं २,२,६.
 सांहत्य-ल्ये सांसू ३,२२;
 ५,१३०^o.
 संहत-परार्थत्व-त्वात् सांसू १,
 १४०.
 सं-हत्य वृ ४,३,१९.
 संहत्य-कारिन्-
 संहत्यकारि-त्व-त्वात्
 योसू ४,२३.
 सं-घात-तः गी १३,६; -तम् ते ६,
 ५६; -ताः गौ ३,१०; -ते १ संन्या
 २,१०३; -तैः गौ ३,३.
 संघात-परार्थत्व-त्वात् सांसू
 १,६६^d; सांका १७.
 संघात-योग-गात् सांसू ३,१३
 सं/हा(गतौ)
 १ सं-जिहान(न>)ना-नाः आर्षे ८:
 २३.

सं/हा(त्यागे)
 २ सं-जिहान-नः छां १,१०,६; ४,
 १,५; ५,११,५.
 सं-हित-सं/धा द्र.
 सं/हृ, >हारि, संहरते वृ ३१७:
 १९; गी २,५८; संहरति व्र ३,
 ११; वृपू ३, २; योशि ५, ५४;
 वपू २, २; संहरेत् वृ १, ३;
 योशि १,४४.
 संजहार श ३.
 संहार्यते अशि ६,१३.
 सं-हरण-
 संहरणा(ण-अ)न्तिक-कम्
 ध्या २३.
 सं-हरत्-रन् वृ ४, २.
 सं-हर्तुम् अन्न ३, ३.
 सं-हर्तु-र्ता वृ ३, ६३.
 सं-हार-रः नाप ८, १; तु ३; -रम्
 वृजा ७, ८; रुजा ३, १; वृ ३,
 ५४; -रे ते ५, ५२.
 संहार-कारक-कः वृ ३, ३४.
 संहार-काल-ले वृजा ७, ८;
 रुजा ३, १.
 संहार-तिरोधाना(न-अ)नु-
 संमत-तम् नापू १, १८.
 संहार-प्रणव^र-वः नाप ८, १^३;
 तु ५.
 संहार-रूप(प>)पा-पा नापू
 २, ८.
 संहारा(र-अ)क्ष-क्षम् वृजा ७,
 ८; रुजा ३, १.
 संहारा(र-अ)र्थ-र्थम् कृ १८.
 सं-हृत-तानि योशि १, ४०.
 सं-हृति-तौ गु ७२.
 सं-हृत्य वृ ३, १०^३; ४, १; तु ३;
 पै २, ४३; ४८; जाद ८, ८ पं

१७; शि ७, ६७.
 सं-कङ्कोल-लम् शि ६, ५०.
 सं-कमण्डलु-लुः नाप ३, ५५.
 सं-कल, ला-ल^३ रार २, ७५; -लः
 मैत्रि ६, १५; मैत्रे ३, ३; वृ ३,
 ८; व्रवि ३३; ३८^३; ३९; -लम्
 कै १, १४; १९; व्र ३, ५; ते ६,
 ४३; नाद ३९; ध्या ८; व्रवि ३७^३;
 ४०; नाप ३, ८५; मं ५, १, ९;
 श २३; ३०; त्रिवि २, १६; रार
 २, ६६; शां १, ७, ४७; ३, १७४;
 पै १, ९; महा ४, ६३; ६, ५८;
 योशि १, १९; २०; अन्न ३, २४;
 ४, ४७; पाशु २, ३८; ४१; पत्र ३,
 ११; यो १, ८०; २, ४९; जाद ६,
 २६; गोपू ५; २५; वरा ३, ५;
 शा १७; सु २, ७३; इ २०: २;
 पा १, ७^३; ८, १^३; ४; ७^३; ९; ९,
 ७; शि ६, ३८; २५४; स ३७९;
 १५; भव २, ४२; -लस्य मैत्रि
 ६, १५; पा ८, ३; हे ११; -ला
 महा २, ५३; ५, १०१; दे ९;
 त्रि ८; -लाः श १५; महा २, ५८;
 अन्न ४, ३०; र्ह ४०; पा २, १०;
 भव २, ५०; -लात् महा २, ७१;
 -लान् महा ५, १६१; त्रिता ३,
 २०^b; कृ ११; -लानि १ आ ९;
 -लाम् त्रिता १, ७८; -ले कै १,
 १३; ध्या ८; व्रवि ३९; जाद ४,
 २७; वरा २, ६२.
 सकल-कला-कोविद-दाय सार
 २६१: ९.
 सकल-कला-व्यापि(न>)नी-
 नीम् त्रिता १, ७७.
 सकल-काम-दा(तु>)त्री-त्रीम्
 सार २३२: ९.

a) 'संस्पृश्य' इति आन., 'संस्पृश्यते' इति अज्या. । b) 'स स्मृतः' इति अज्या. । c) 'सम्यक् स्रवन्ति' इति ऋ ४, ५८, ६ । d) संहतं इत्यपि पाभे. । e) = ६स । f) 'सकलजनवश्यकर-> राय' इत्यस्याऽऽद्यांशस्यानु-करणम् । g) सकृत् 'लनिष्क' इति निसा., अज्या. संटि. पा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । h) 'ललो' इति अज्या. संटि. ।

सकल-कामिनी-मुख-भ्रम(र>)-
री-०रि व ४३२ : ६.
सकल-कारण-कार्य-क(र>)री-
री सौ ३७.
सकल-कौल-लम् त्रिता २, ५८^a.
सकल-जगत्-परिपालक-कः
त्रिवि ८, १९.
सकल-जगन्-मोहि(न्>)नी-
०नि व ४५७ : २२.
सकल-जन-चिन्तित-तम् व
४५७ : ३.
सकल-तीर्थ-थानि कृपु ६.
सकल-दुःख-सह-हाः जावा
१२.
सकल-दुरित-निवारि(न्>)णी-
०णि व ४३७ : २.
सकल-देवता-मुख-भ्रम(र>)-
री-०रि व ४३२ : ६.
सकल-देश-मुख-भ्रम(र>)री-
०रि व ४३२ : ९.
सकल-धन-धान्य-सत्पुत्र-कलत्र-
हय-भू-गज-पशु-महिषी-दासी-
दास-योग-ज्ञान-
सकलधनधान्यसत्पुत्रकलत्र-
हयभूगजपशुमहिषीदासीदास-
योगज्ञान-वत्-वान् सौ ३, १.
सकल-नर-मुख-भ्रम(र>)री-
०रि व ४३२ : ५.
सकल-निष्कल-लम् शां ३, १^b;
स ३७९ : १५.
सकल-बन्ध-न्धान् त्रिवि २, १७.
सकल-ब्रह्माण्ड-मण्डल-लम्
भा १.
सकल-भुवन-मातृ-०तः व
४५५ : १४; -ता सौ १, १.
सकल-भुवन-हृद्य-द्यः आबो ८.
सकल-भोग-नाम् काला २०.

सकलभोग-भुज्-भुक् त्रिवि
८, १९; स ३८० : १.
सकल-मनो(नग्-उ)न्मादि(न्>)-
नी-०नि व ४३२ : १४.
सकल-मन्त्र-जप-नि(ष्ठा>)ष्ट-
ष्टः त्रिवि ८, १९.
सकल-माया-शक्ति-क्तिः त्रिता
१, ६९.
सकल-योग-विद्-वित् त्रिवि ८,
१९.
सकल-राज-मुख-भ्रम(र>)री-
०रि व ४३२ : ५.
सकल-रुद्र-मन्त्र-जापिन्-पी
काला २०; जावा २८.
सकल-लोक-कम् त्रिता ३, २२;
कान् त्रिवि ८, १९.
सकललोक-मुख-भ्रम(र>)-
री-०रि व ४३२ : ५; ७.
सकललोक-रक्षण-चक्र-क्रम
वृष ८४ : ७; ८५ : ३.
सकललोक-रक्षा(क्षा-आत्मक>)-
त्मिका-०के अक्ष १५१^c.
सकललोको(क-उ)जी(वक>)-
विका-०के अक्ष १५.
सकललोको(क-उ)त्पा(दक>)-
दिका-०के अक्ष १५.
सकललोको(क-उ)दीपि(न्>)-
नी-०नि अक्ष १५.
सकल-विद्या-परिश्रम-ज्ञ-ज्ञः
पप ४१८ : १.
सकल-विभूति-द-दाय दत्ता २.
सकल-विलीन-तमोमया(य-अ)-
भिमान-नः अक्ष २, १६.
सकल-विषय-ज्ञान-नम् शां १,
७, ५२.
सकल-विष-विनाशना(न-अ)र्थ-
र्थे गरु २.

सकल-वेद-शास्त्र-सिद्धान्त-
रहस्य-
सकलवेदशास्त्रसिद्धान्तरहस्य-
जन्मजन्माभ्यस्तात्यन्तोत्कृष्ट-
सुकृत-परिपाक-वश-शात्
त्रिवि ५, ६.
सकल-वेदान्त-रहस्या(स्य-अ)-
धिगत-परमार्थ-ज्ञ-ज्ञः
त्रिवि ८, १९.
सकल-शक्त्यु(क्ति-उ)पबृंहित-
तम् नि १३.
सकल-शृङ्गार-भूषण-जैः सार
२६६ : १.
सकल-संचारक-कम् नाप४, ३८^d.
सकल-साम्राज्य-ज्येन ह ११.
सकल-सिद्ध-वस्तु-समन्वित-
तम् सार २३७ : १४.
सकल-सिद्धि-द-दे महा ४, ९८.
सकल-सुरा(र-अ)सुर-
सकलसुरासुर-सर्वमन्त्रयन्त्र-
तन्त्र-भ्रम(र>)री-०रि व
४३२ : १३.
सकला(ल-आ)कार-रम् शु३, २२.
सकला(ला-आ)गम-गोचर-
रः ते ३, ४०.
सकला(ल-अ)ण्डज-पिण्डज-
जान् व ४५७ : २२.
सकला(ल-आ)त्म-काय-०य लां
२१४ : ६.
सकला(ल-अ)मल-शान्त-वृत्ति-
त्तिः अक्ष १, १९^e.
सकली/कृ
सकली-करण-
सकलीकरणा(ण-अ)कृष्ट-
हृदया(य-अ)र्षि(न्>)नी-
(?गी^f>)-न्या(?ण्या^g) वउ
६, २०.

a) ०कु^o इति अश्या. संटि. । b) सकृत् 'सकलम्' इति निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. अश्या., वैतु. अश्या. संटि. ०लमक^o इति) । c) अश्या. निसा. च पा.१? यनि. शोधः द्र. (तु. अश्या. संटि.) । d) ०कः इति अश्या., ०लमू^o इति अश्या. संटि. । e) कस.>वस. । f) ०शान्तिवृ^o इति अश्या. संटि. । g) पा.१? यनि. शोधः द्र. ।

सकले(ल-इ)न्द्रिय-याणि के १, ५.
 सकलो(ल-उ)पनिषद्-
 सकलोपनिषन्-मय- -यः नाप
 ८, २.
 स^०-कलेवर- -रम् योशि १, १२३.
 स^०-कषाय- -यम् गौ ३, ४४.
 स^०-काञ्च(न>)ना- -नाम् शि ६,
 ७१.
 स^०-कानन- -नम् त्रिता १, २९.
 स^०-काम, मा- -मः गोउर; सार २६१;
 १९; -माः गोउ १; -मानाम् सौ
 १, ३.
 स^०-कामा(म-आ)द्या(दि-आ)क-
 विंणी-षोडशक- -कम् त्रिता
 २, ५१.
 स^०-कामेश्वर्या(री-आ)दि-त्रिक-
 -कम् त्रिता २, ६५.
 स^०-का(म्य>)म्या- -म्या गोउ २०;
 -म्याः गोउ १९.
 स-कार- २ स द.
 सकाश^०- -आत् नि १८; नाप ४, ३८;
 नापू ५, १३; सार २२० : ७;
 २८५ : १४.
 स^०-कुश- -शः बृजा ७, ८; म २, २.
 सकृत्^० के २, ५; अशि ७, ८; अ १; कौ
 ३, २९^d; मैत्रे ३, २५; नाप ४,
 २३; ९, १६^०; अता १९; जाद
 ६, ४८; मृ ७; शि १, १८.
 सकृच्च-वण-मात्र- -त्रेण मु १, १,
 ४४.
 सकृच्च-ज्ञान- -नेन ते २, ४३.
 सकृच्च-ज्योतिस्- -तिः गौ ३, ३७.
 सकृच्च-अभ्यास-मात्र- -त्रेण ते ६,
 १११.
 सकृच्च-उच्चारण- -णः द्र १६.
 सकृच्च-ग्रहण- -णात् सांस् ५, २८.

सकृच्च-दिवा छां ३, ११, ३; १संन्या
 १, १^६; कश्रु १, १.
 सकृच्च-विद्युत्, त्ता- -त्तम्, -त्ता वृ
 २, ३, ६.
 सकृच्च-विभात, ता- -तः छां ८, ४,
 २; गौ ४, ८१; ब्रवि १०५; -तम्
 गौ ३, ३६; वृउ ९, १८; सु २,
 २, ७३; -त्ता अक्ष ५, ५६.
 सकृच्च-विभात-सदा(दा-आ)-
 नन्दा(न्द-अ)नुभवै(व-ए)क-
 गोचर- -रः मं २, ३, ५.
 सकृच्च-वेदितव्य- -व्यम् नाप ९, १६
 स^०-केसर- -रम् श्या ८.
 सक्त- √सञ्ज द.
 सक्तु^{११b}- -क्तुम् नाप ४, ८९^१; शि ६,
 २३.
 सक्तु-प्राशन- -नम् नाप ४, ३८.
 स(क्थि>)क्थी^{११b}- -क्थ्यौ वृ १, २, ३
 स^०-क्रि(या>)य- -यम् सांस् १,
 १२४; सांका १०.
 सक्रिय-त्व- -त्वात् सांस् ५, ७०.
 स^०-क्षय^१- -यः नाप ४, ३८९^१.
 सखि, खी^१- -खा आरु ३९^१; ते २,
 १९; १संन्या २, ९९^१; नाप ४,
 ३८^१; ९^१; पप ४१८ : ३०९^१;
 ३१; शि ६, १६७; व ४३७ :
 १९९^m; गौ ४, ३; ११, ४१; ४४;
 -खायः छां ८, २, ५; नापू ४, ९९^१;
 १३९^p; सार २४९ : २; २५० :
 ११; -०खायः सार २४५ : ९; व
 ४३७ : ११९^०; -खायम् २संन्या
 १७ : १९^p; -९^pखाया सुं ३, १,
 १; खे ४, ६; नाउ १, ३; भव २,
 २; -खी सार २२३ : २०; २३८ :
 १; ३; ४^३; ५; ७; २४१ : २०^३;
 २४२ : १९; २६० : २२; २६४ :

९; २६५ : १६; २६८ : १९; २६९ :
 ११; २८४ : २३; -खीन् गौ १,
 २६; -खीनाम् सार २२३ : १७;
 १९; २०; २२४ : १; ३; २२५ :
 १२; १४; १७; २२८ : ५; १३;
 १६; २२९ : २२; २३२ : १२;
 २३३ : ११; १३; २३४ : १;
 २४५ : २३; २६१ : ११; २६३ :
 १२; १६; २६४ : ७; १७; २६६ :
 ३; ४; २६७ : २; २६९ : २३;
 २७० : २०; २७१ : ४; २७६ :
 २२; २८२ : १५; २८३ : १६;
 २८४ : ७; २८५ : १; ८; २८६ :
 १०; -खीभिः सार २३४ : २२;
 -०खे गौ ११, ४१; -ख्यः सार
 २२२ : ५; २३; २२३ : ५; २१;
 २२४ : २२; २२५ : ५; ६; १३;
 १६; १८; २२६ : ३; २२७ : २;
 २२८ : ३; २२; २२९ : ८;
 १३-१६; १९; २३० : १; ६;
 २३२ : ५; २३४ : ७; २३७ : ७;
 २३८ : ६; ११; १३; २३९ : ६;
 ८; २४० : ११; १९; २४२ : २२;
 २६२ : ८; २६३ : ११; २६४ : १८;
 २६७ : ४; ९; २३; २६८ : ५; ८;
 ११; १४; १५; २१; २३; २६९ :
 १; ९; १८; २७० : ५-१२; १४;
 १५^१; १७; १८; २७२ : ३; २८२ :
 ८; २३; २८४ : १७; -०ख्यः सार
 २३० : २३; २३१ : १९; २३२ :
 ७; -ख्या २संन्या १७ : १९^p;
 सार २२३ : ८; १०-१२; १९;
 २२५ : ४; १९; २०; २३७ : १५;
 १६; १८; -ख्युः गौ ११, ४४.
 सखि-प्रेमन्- -म्या सार २४६ : ५.
 सखि-लोका^१- -केन छां ८, २, ५.

a) =६स । b) व्यु. ? । c) अम्य. वैपश् यद्र. । d) 'तद्' इति शांभा ५, २ । e) 'अन्तकृत्' इति अख्या. ।
 f) गप. (पृ८५) 'अभ्यास-मात्र- > -त्रेण' इत्यत्र यनि. शोषः कर्तव्यः । g) 'कृदि' इति निसा. संदि. । h) वैपश्
 यद्र. । i) ऋ १०, ७१, २ । j) उप. =२क्षय- । k) तैत्रा २, ५, ८, ८ । l) बौध ३, २, ६ । m) ऋ ४, ३१, १ । n) ऋ
 १०, ७१, ७ । o) ऋ १०, १०१, १ । p) ऋ १०, १०, १ । q) ऋ १, १६४, २० ।

सखिलोक-काम- -मःञां ८, २, ५.
 सखि-स्थान- -ने सार २४५:१६.
 सखी-भाव- -वम् सार २८०:७;
 -वेन सार २३६:८.
 सखी-मण्डल- -ले सार २३४:१०.
 सखी-यूथ- -थानि सार २२२:८.
 सखी-रूप- -पम् सार २२३:२२;
 २२४:२; ५; ९; २३; २२९:१;
 २७२:१; १०; १४; २८०:१८;
 -पेण सार २२४:१२.
 सखी-संगमो(म-उ)पवेश-ताम्बूल-
 सुगन्ध-रस-सेवन-नाय सार
 २२८:७.
 सखी-समूह- -हे सार २४७:१९.
 सख्य^०- -क्यानि नापू ४, ९९^०.
 स^०-गण- -णः मना १, ११९^d; अरु
 ५९^०; -णम् शि ६, १५१.
 स^०-गद्गद्- -दम् गी ११, ३५.
 स^०-गुण^०- -णः नाप ८, १^०; तु ३;
 राधा १, १७; -णम् शां १, १०^३;
 गौड ६१; गोचद्वे ९:१५; -णभ्यः
 अच् १०.
 सगुण-ध्यान- -नम् १योत १०५^h.
 सगुण-निर्गुण-
 सगुणनिर्गुण-त्व- -त्वम् नाप ८,
 १; तु १४.
 सगुणनिर्गुण-स्वरूप- -पः त्रिवि
 २, १५; -पम् सं २, १, ४; त्रिवि
 १, ५.
 सगुण-परिच्छिन्ना(ज्ञ-आ)दि-
 प्रतीति- -तिः त्रिवि ३, ७.
 सगुण-ब्रह्मन्- -ह्य अद्वै २३.
 सगुणा(ण-आ)त्म-रूप- -पम् वि
 १५.
 स^०-गुप्त- -सम् त्रिता २, ५१.
 स^०-गुप्ततर- -रम् त्रिता २, ५३.

स^०-गोधूम- -माः शि ४, ४६.
 स^०-गो-सुर- -रः कृ ८.
 स^०-घृत- -तम् शि ६, २२५.
 सं-कट^१- -टे सु २, २, ४; -टेषु महा
 ६, ७३.
 सं/कल्>लि, संकलयन्ते सार
 २६७:१०.
 संकल्प- , संकल्पक- , संकल्पन- ,
 संकल्पनीय- , संकल्पित- , सं-
 कल्प्य सं/कल्प द्र.
 सं-कार- २स द्र.
 सं/कित्(ज्ञाने)
 सं-केत- -तः निर्वा २९७:१३.
 संकेत-(ज्ञ>)ज्ञा^१- -ज्ञा सार
 २६३:४.
 संकेत-रस-(ज्ञ>)ज्ञा^१- -ज्ञा
 सार २६३:५.
 संकेत-विहारिन्- -रिणे सार
 २४७:१२.
 संकेत-स्थान- -नम् सार २४६:
 ८; २५३:७; -नात् सार २५३:९.
 संकेतस्थान-(ज्ञ>)ज्ञा^१-
 -ज्ञा सार २६३:६.
 सं/कुच्, >कोचि, संसुकोच श्वे ३,
 २^h; अशि ५, ४; वट्ट ३१७:३.
 संकोचयेत् योशि ५, ३९.
 सं-कुच्य ब्रवि ७२.
 १सं-कोच^१-
 संकोच-विकासा(स-आ)त्मक-
 महामाया-विलासा(स-आ)-
 र्त्मक- -कः त्रिवि ३, २.
 २सं-कोच^m- -चः पा ३, ४.
 सं-कोचन- -नाय पा ३, ४.
 सं-कोचयित्वा पा ८, ७.
 सं-कोचित-
 संकोचित-पट-
 संकोचितपट-वत् पै १, १०.

संकुल^०- -लम् सि ३, ६.
 संकृति^०-
 सांकृति^१- -तिः अक्षि १^३; जाद १,
 २; १०, १३^०; -०ते अक्षि १;
 जाद १, ४; ४, २; ३; ३०; ३३;
 ५, २; ६, १; ३२; ४५.
 सांकृत्य^१-
 सांकृती-
 सांकृती-पुत्र- -त्रः, -त्रात् वृ
 ६, ५, २.
 सं/कृष्
 सं-कर्ष^१- -र्षः योशि ५, १४.
 सं-कर्षण^१- -णः ह ९; सं २; -णम्
 त्रित्रा २, १४४; -णाय शु २, ५;
 त्रिवि ७, ४१; ह ९.
 संकर्षणो(ण-उ)पनिषद्- -षत्
 सं १.
 सं-कृष्यमाण- -णः सार २८०:१०.
 सं/कृ>किर
 सं-कर- -रः योसू ३, १७; गी १,
 ४२; -रस्य गी ३, २४.
 सांकर्य^१- -र्यम् नाप ५, १.
 सं-कीर्ण,र्णा- -र्णा योसू १, ४२;
 -र्णाः सार २३३:१२.
 सं/कृत>कीर्ति
 सं-कीर्तन-
 संकीर्तनी(य>)या- -या शि १,
 ३४.
 सं-कीर्तयत्- -यन् सं २०.
 सं-कीर्तित- -त्ताः सु २, २, १२^०.
 सं-कीर्त्य सूता १, २५.
 सं/क्रन्द
 सं-क्रन्दन^m-
 संक्रन्दना(न-आ)द्य- -द्यैः गोपू
 २४.
 सं/क्रम, >क्राम, संक्रामति मै २, ७;

a) वैपश् यद्र. । b) ऋ १०, ७१, २ । c) = ६स । d) ऋ ३, ४७, २ । e) ऋ १०, १५७, ३ । f) वा.
 क्रिवि. द्र. । g) °णोत्प^० इति अख्या. । h) °णं ध्या^० इति निसा. । i) स्वघो^० इति अख्या., सघो^० इति अख्या.
 संदि. । j) पा ५, २, २९ । k) °कोप इति आन. । l) भावे कृत् । m) कर्तरि कृत् । n) तु. टि. आकृल- । o) व्युः^१
 =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । p) °तेः इति अख्या. संदि. । q) °कीर्ण^० इति अख्या. यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) ।

मैत्रि २,६; संक्रामन्ति त्रिता २,
६६.
सं-क्रम- -मः जाद ४, ४५; -मे
रुजा २, १८.
सं-क्रमण- -णम् जाद ४, ४०.
सं-क्रान्ति^{१२}- -न्तौ भ २, २४.
सं/क्रीड्, संक्रीडते सार २५५:१७;
संक्रीडति छाग-२५:१; सम्...
क्रीडेत् छाग २५: १^६.
सं-क्रीडत्- -डतः छाग २४:१९.
सं-क्रीडमान, ना- -नः सार २३८:
१८; २५२: १५; २७४: १४;
-ना सार २८३: २०; -नाः सार
२३८: २०; २५३, १७; २७४:
२०; -नानि सार २५७: १५.
सं-क्रीडा- -डाम् सार २७५: ५;
२७६: २२.
सं-क्रीडित- -ताः सार २७४: १९.
सं/किलिश्, >क्लेशि
सं-किलिष्ट-
संकिलिष्ट-देवा(व-आ)द्यु(दि-उ)-
जिहीर्षा- -र्षया मुद्र २१^४.
सं-क्लेश- शस्य गौ ४, २४.
सं-क्लेशयत्- -यन् पा १०, ४.
सं/कल्प(<कृप्) >कल्प, कल्पि, सं-
कल्पते छां ७, ४, २^५; संकल्पन्ते
छां ७, ४, २^३; समकल्पेताम्,
समकल्पन्त छां ७, ४, २.
समकल्पताम् छां ७, ४, २.
संकल्प्यते ते ५, ८५.
संकल्पयते छां १, २, ६; ७, ४-५,
१; गौ ३, ३२; संकल्पयति वृ१,
३, ६^३; गर्भे २; संकल्पय महा
५, १८२; संकल्पयेत् योशि ५,
५५; समकल्पयत् महा ५, १६३.
सं-कल्प- -ल्पः के ४, ५; ऐ ५, २;

छां ७, ४, १; २; २६, १; वृ१, ५, ३;
मैत्रि ६, ३०; ते २, ३४; ५, ९०^{२०};
११^६; १२^{२०}; १५; १६; १७^६;
१००; महा ४, ५२; ५, १८१;
१८३; करु ६; वरा १, १३; सु
२, २, ३७; लिं ३१०:९; कश्रु ३,
६; -ल्पम् छां ७, ४, २; ३^५; ते ५,
८९; १०५; महा ५, १८२; १८३;
-ल्पस्य छां ७, ४, ३; -ल्पाः अन्न
२, ७^०; भा ५; -ल्पात् छां ७, ४,
३^५; ५, १; ८, २, १-१०; महा ४,
१२४; १२५; अन्न ४, ४, ८; -ल्पा-
नाम् वृ २, ४, ११; ४, ५, १२;
अन्न ५, १०९; -ल्पे छां ७, ४, २;
-ल्पेन महा ४, १२४; ५, १८३;
-ल्पैः ते ५, ४५.
संकल्प-क-
संकल्पक-विकल्पक- -कम्
ते १, १३^१.
संकल्प-कलना(ना-आ)दिक-
-कम् ते ६, ७१.
संकल्प-जात- -ते महा ४, ५३.
संकल्प-तप्त(>:) महा ५, १६२.
संकल्प-ता- -ताम् महा ५, १८०.
संकल्प-स्व- -त्वम् अन्न ५,
१०२.
संकल्प-दशा- -शाः अन्न ५,
१०३.
संकल्प-नाश- -शः मं २, ३, ६.
संकल्प-नाशन- -ने महा ५,
१८२.
संकल्प-निश्चय-स्मरणा(ण-अ)-
भिमाना(न-अ)नुसंधान- -नाः
पै २, १४.
संकल्प-पादप- -पम् १ संन्या २,
५४.

संकल्प-प्रभव- -वान् गौ ६, २४.
संकल्प-मनस्- -नसी महा ४,
५३.
संकल्प-मात्र- -त्रम् वरा २, ४५;
-त्रेण ध्या ६४; योचू ३४.
संकल्पमात्र-कलन- -ने,
-नेन वरा २, ४५.
संकल्पमात्र-संभव- -वः नि
४०.
संकल्प-रहित- -तः मैत्रे ३, ७;
-तान् १ संन्या २, ६६.
संकल्प-वर्जन- -नात् महा ६,
३९.
संकल्प-वासना-रज्जु-वेष्टित-
-तः महा ५, १२७.
संकल्प-विकल्प- -ल्पे हं २१.
संकल्प-विकल्पा(ल्प-अ)ध्यव-
साया(थ-अ)भिमाना(न-अ)व-
धारणा-स्वरूप- -पाः शारी १.
संकल्प-विवर्जित- -तः ते ५, ६३.
संकल्प-संक्षय-वश- -शात्
महा ३, ५३.
संकल्प-सि(द्ध >)द्धा- -द्धा महा
४, १२३.
संकल्प-हरा(र-अ)र्थ- -र्थम्
महा ६, ७४^६.
संकल्पा(ल्प-अ)ङ्कुर- -रम् महा
५, १७८.
संकल्पा(ल्प-अ)त्मक- -कानि
छां ७, ४, २.
संकल्पा(ल्प-अ)त्मन्- -स्मा
सुवा ५.
संकल्पा(ल्प-अ)दि- -दीन् ते
३, ६७.
संकल्पा(ल्प-अ)दिक- -कम् मं
२, ४, ५.

अ) 'समेन क्रीडेत्' इति बे. । b) °वादिजि° इति निसा., °दिसंजि° इति अज्या. पा.१ यनि. शोचः द्र. ।

c) सङ्कत °ल्पम् इति अज्या. । d) °ल्पम् इति अज्या. । e) 'सकलाः' इति निसा. । f) °ल्पं वि° इति आन., °ल्पकौ इति अज्या. संटि. । g) 'यन्नोपद्विहरार्थम्(?)' इति निसा. संटि., 'यन्नोपनिहरार्थम्' इति अज्या., 'यत्नेन चिद्विहरार्थम्' इति अज्या. संटि. ।

संकल्पा(ल्प-अ)ध्यवसाया-
(य-अ)भिमान-लिङ्ग- -ङ्गः मै
२,५; ४,५; मैत्रि २,५; ५, २.
संकल्पा(ल्प-अ)शा(शा-अ)नु-
संधान-वर्जन- -नम् महा ४,६.
संकल्पा(ल्प-अ)हंकार-सम-
न्वित- -तः श्वे ५, ८.
संकल्पै(ल्प-ए)क-विनिर्मित-
-तान् अत्र ३, १४^०.
संकल्पै(ल्प-ए)का(क-अ)यन-
-नानि छां ७, ४, २.
संकल्पो(ल्प-उ)पशम- -मेन मु
२, २, ३७.
सं-क्लृपक- -कम् अना १६; सांका
२७.
सं-क्लृपन- -नम् महा ४, ५२; ५,
१८१.
संक्लृपन-स्पर्शन-दृष्टि-मोह-
-हैः श्वे ५, ११; भव २, २४.
संक्लृपनीय- -यम् छां १, २, ६.
संक्लृपनो(न-उ)न्मुख- -खः
अत्र २, ३९.
सं-क्लृपित- -ते सांसू ३, २८.
संक्लृपिता(त-आ)का(र>)रा-
-रा महा ५, १२५.
सं-क्लृप्य सी ३२; ३३; महा ४,
१२३; शि ७, ७२.
सं-क्लृप्ति- -प्यै छां ७, ४, २^०.
सं/क्षि(क्ष्ये),संक्षीयते अत्र १, २३;
सौ २, १५.
सं-क्षय- -ये निरु २, ९.
सं-क्षी(ण>)णा- -णा नाद ४९;
योशि ६, ७१.
सं/क्षिप्
सं-क्षिप्त- -सम् सांका ७१.
सं-क्षिप्य अना १६; नाप ४, ३८;
योशि १, ७७^b; जाद ३, ९.

सं-क्षेप- -पात् त्रिवि ५३; योशि २,
१३९; शि १, ५; -पेण शि ६, १२६.
संक्षेप-तत्स(>) गु २४.
सं/क्षुम्, संक्षुभ्यते योशि १, २९.
सं-क्षोभ-
संक्षोभ-कर- -०र अत्त ५.
सं/खिद्, समखिदत्, संखिदेत् छां
५, १, १२.
सं/ख्या
१सं-ख्य^०- -ख्यम् पाशु २, ५^d.
२सं-ख्य^०- -ख्ये गी १, ४७; २, ४.
सं-ख्या- -ख्यया शि ४, ३४; -ख्या
योचू ६७; शि ६, ११०^३; २५७;
२७४; भव १, ६; -ख्याम् अद्वैभा
१९.
१सांख्य^१- -ख्यम् गर्भे ४;
निरु १, २०; -ख्ये अत्र ५, ४९.
सांख्य-शास्त्रा(त्र-अ)-
भ्यास- -सः नाप ५, १; १संन्या
२, ५९.
सांख्या(ख्य-आ)दि-
तत्त्व-भेद- -दाः अत्त ११^f.
२सांख्य- -ख्यम् गी ५, ५;
-ख्ये गी २, ३९; १८, १३; -ख्येन
गी १३, २४; -ख्यैः सुवा ९;
वरा ४, ३५.
३सांख्य- -ख्यम् मन्त्रि
१४; चू १४; -ख्याः अत्र ५,
४९; -ख्यानाम् गी ३, ३; -ख्यैः
गी ५, ५.
सांख्य-दृष्टि- -ष्टीनाम्
अत्र ३, २०.
सांख्य-योग- -नेन प्रा
१, १^६; मु १, १, १६; -नौ गी
५, ४.
सांख्ययोग-समाधि-
-धिना वरा ४, ३७.

सांख्ययोग(ग-अ)-
धिगम्य- -म्यम् श्वे ६, १३; गु
७१; भव २, ४९.
संख्या(ख्या-अ)तीत- -ताः महा
५, १३६.
संख्या(ख्या-अ)न्वित- -तम्
ध्या ६३.
संख्या-रूप- -पेण सी ३३.
संख्यो(ख्या-उ)पसंग्रह- -हात्
ब्रसू १, ४, ११.
सं-ख्यात- -तः पा ५, ६.
सं-ख्यातुम् त्रिवा २, ७६.
सङ्ग- /सञ्ज्द्र.
सं/गच्छ्, गम्, संगच्छन्ते सार
२४५: १६; २४६: १०.
सं-गत- -तः योशि १, १४२; -तम्
क १, १, ८; योचू ६४; -ताः शा
११^h.
सं-गति- -तिम् नाप ५, ३०; योशि
१, ५०; शि ६, २०४.
सं-गर्भ^१- -श्वे व ४३७: ९९ⁱ.
सं-गम- -मम् १योत ६१; इ १३:
११; -मात् ध्या ८९; योचू ६२;
-मेन सार २२६: २०.
सं-गम(न>)नी^१- -नी दे ३९^k.
सं-गर्व^१-
सं-गर्व-वेला- -लायाम् छां २, ९, ४.
सं/गृह्(>म्),ग्रह्,संग्रहेत् योशि
१, १४७.
संगृभाय वपू १, ४९^l.
सं-गृहीत-
संगृहीत-त्व- -त्वात् योसू ४,
११.
सं-गृह्य वृजा ३, ३४; नाप ३, १७;
योशि १, ७१^m; ९५; यो १, ८३;
२, १५; भ १, ५; ६; २, २१; जावा
१६.

a) °विजृम्भितान् इति अश्याः. संटि. । b) °क्षेपात् इति आन. । c) भावे कृत् । d) सां° इति निसा. ।
e) अधिकरणे कृत् । f) संख्या° इति अश्याः. संटि. । g) 'सांख्येन' इति अश्याः. । h) 'अयन्तः' इति अश्याः. ।
i) वैपश् यद्र. । j) ऋ १, ९१, १६ । k) ऋ १०, १२५, ३ । l) ऋ ८, ८१, १ । m) 'संयम्य' इति आन. ।

सं-ग्रह- -हः १संन्या २, ८०^a; सांस् १, २६; -हेण क १, २, १५; मुद्र १, १; मु ३९; गी ८, ११.
 सं-ग्रहण-
 सांग्रह(ण्)णी^{१२}- -ण्या १अव ६.
 सं/गै, >गा, संगायामि सार २२७ : २०.
 संगीयन्ते सार २२८ : १८; २८१ : २.
 सं-गायत्- -यन्तः सार २३७ : १; २९२ : १९.
 संगायन्ती- -न्त्यः सार २३४ : १०; २६७ : २३.
 सं-गायमान, ना- -नः सार २२० : २०; -ना सार २८७ : २; -नाः सार २२८ : ६; २६८ : १; २६९ : २१; २७६ : ५.
 सं-गीत-
 संगीत-ज्ञ>ज्ञा^१- -ज्ञा सार २३४ : ८.
 संगीत-ताल-लय-वाद्य-वशा-
 -शम् वरा २, ८२.
 संगीत-रस- -सम् सार २२६ : १२.
 संगीत-रसि(क>)का- -काम् रा ४२४ : २३.
 संगीत-साहित्य-कला-कुश-
 (ल>)ला- -लाः सार २७० : १७.
 सं-गीयमान- -नः सार २३० : १९.
 सं-ग्राम^b- -सम् गी २, ३३.
 सं/घट्
 सं-घटन-
 संघट्ना(न-अ)धीश^c- -शः पारा ९.

सं-घात- सं/हृत्
 सं/घृष्, >घर्षि
 सं-घर्ष- -र्षात् महा ५, १४९.
 सं-घर्षण- -णात् यो २, ३३.
 सं-घर्षयित्वा^d त्रिता ३, ६.
 सं-घृष्य यो २, ४१.
 ✓सच्, सचते वृप् २, १०४^e; सचन्ते मवा १, १४४^f; सचत्>ता मना १, १३४^g; सचताम् मना २, ४५४.
 सचमान- -नः सु २९४ : ६४^f.
 सं-चरा(र-अ)चर- -रम् गौ ३, ३१; ध्या १६; गी ९, १०; ११, ७.
 सं-चरा(र-अ)चर-चेष्टित- -ताः महा ३, ४; भव १, २६.
 सं-चामर- -रम् राष्ट्र ४, ३३.
 सं-चारक-वि(धा>)घ- -धम् मैत्रि ६, १४^k.
 सं-चित्त- -त्तः महार, ६१; ६, ३५^l.
 सं-चेतन-
 सचेतन-निचेतन- -नः वउ २, १६.
 सं-चेतस्- -ताः गी ११, ५१.
 सं-जन- -ने वृ ३, २, १३.
 सं-जल-
 सजल-प्रावृषेण्य-घनराजि-नि-
 (भ>)भा- -भा तारा ८३ : १८.
 सं-जय- -यम् पा ७, २.
 सं-जाति-
 सजातीय- -यम् ते ३, ४७; ५, ८१.
 सजातीय-प्रवाह- -हः ते १, १८.
 सजातीय-विशेष-विशेषित-
 -तम् त्रिवि ७, १७.
 सं-जीव- -वः वरा ५, ७४.

सं-जोषस्- -षाः मना १, ११४^m; व ४६० : २४ⁿ; वउ ३, ६.
 ✓*सज्ज (<सस्ज), सज्जते १संन्या २, ९०; पित्र ३, ८; गी ३, २८; सज्जति नाप ३, ६३; सज्जन्ते गी ३, २९; सज्जत नाप ५, २१.
 सज्जमान- -नः पा २, ७.
 सं-चक्र- -क्राय त्रिवि ७, ४२^p.
 सं/चर्(*बधा.), >चारि, संचरति श्रे ५, ३; ७; मना २, ८०४^q; गर्भ २; सुवा ५^r; नाप ६, १; त्रिभा २, १७; शां १, ४^s; शारी १; भव २, २३; सम्...चरति ब्र २; संचरेत् नाप ४, ३८; ५, ३६; ६, २७; ७.
 संचारयेत् लु ९.
 सं-चर- -रः ज्ञां १, १३, ३.
 १सं-चरण-
 संचरणा(ण-अ)र्थ- -र्थाय १संन्या २, ५९.
 २सं-चरण>)णी- -णी वृ ४, २, ३.
 सं-चरत्- -रताम् निर १, २; -रन् वृ १, ५, २०; २१; सुवा ७^t; तुअ २१; अथ्या १^u; कुं ३^v; -रन्तः ज्ञां ८, ३, २; -रन्तम् २शिसं ११.
 सं-चरमाण- -णान् पा २, ८.
 सं-चार- -रः नाप ६, १; वरा २, ६१; सार २६४ : १८; २८३ : १६; -राः सार २२५ : १२; २८४ : १२; -रे सार २८२ : ३.
 संचार-चक्र- -कम् मैत्रि ६, २८.
 संचार-धर्म-रहित- -न्ते वरा २, ६१.
 संचार-शील- -लः तुअ २०.

a) अन्यपरि^o इति अख्या. । b) वैपश् यद्. । c) वा. ? । d) पा ७, १, ३८ । e) मा ८, ३६ । f) *न्त इति ऋ १, १६४, ५० । g) ऋ १०, ७५, ५ । h) तैत्रि ३, ७, १४, ५ । i) ऋ ९, ९६, १९ । j) =६स । k) स चा^o इति सात. । l) 'सचित्तः' इति नि.सा.३ यनि. शोधः द. (तु. अख्या.) । m) =५स । n) ऋ ३, ४७, २ । o) ऋ १०, ८३, २ । p) सच्च^o इति अख्या. संटि. । q) तैत्रि १०, ६४, १ । r) भवे कृत् । s) करणे कृत् । t) 'चरेत्' इति अख्या. ।

सं-चारि(न>)णी- णीनाम् सार
२२४: ४.
सं/चल्>चालि,संचालयेत् यो १,
७; १७.
सं-चालन- नेन यो १, १०^a.
सं/चि(बधा.)संचिनुते योशि ५,
२५; संचिनोति राउ ५, १५;
योशि ५, २४.
सं-चय- -यः १संन्या २, ७९;
८२.
सं-चित,ता- -तम् अशि ५, ६; १९;
राउ ५, १२; १७; पै २, ७; अध्या
५०; वट्ट ३१७: ७; -ताः पै ३,
१; अध्या ३७.
संचित-कर्मन्- -मैणि शां १, ७,
५२.
सं/चिन्त्>न्ति, संचिन्त्यामि
मै ५, ७^b.
सं-चिन्त्य नृउ ४, ३; त्रिवि ५, १२;
पी ४२१: ६; वउ ४, ४५.
संचिन्त्याध्यायिन्- -यिनः २प्र
३५: १८५^c.
सञ्ज्, असक्त वृ १, ३, ८.
सज्यते वृ ३, ९, २६; ४, २, ४^d;
४, २२^d; ५, १५^d.
सक्त- -क्तः वृ ४, ४, ६; मैत्रि ४, २^e;
मैत्रे १, ४, १; गी ५, १२; -क्तम्
अज १, ५६; २, ८; गी १८, २२;
-क्तस्य मैत्रि ६, २८; -क्ताः गी ३,
२५.
सङ्ग- -ङ्गः योचू १०७; त्रिवि ५, ६;
अज २, १, २; ५, ५^f; सार २२७:
१०; २३५: १४; २४९: २३;
२५०: ६; २७८: १०; भव ५,
२१; गी २, ४७; ६२; -ङ्गम् १योत
६१; ६२; अज ५, ४; सार २५०:

७; २७९: १२; २८१: १५; १६;
गी २, ४८; ५, १०; ११; १८, ६;
९; -ङ्गात् गी २, ६२; -ङ्गान् नाप
३, ५२; -ङ्गे सार २३४: २०;
-ङ्गेन सार २२७: ९; २३५: २१;
२३६: २१; २४६: १०; २८९:
८; २९१: २.
सङ्ग-त्याग- -गम्, -गात् अज
५, ४.
सङ्ग-रहित- -तः गोपू २६; -तम्
गी १८, २३.
सङ्ग-वर्जित- -तम् गी ११, ५५.
सङ्ग-विवर्जित- -तः गी १२,
१८.
सङ्ग-स्मया(य-अ)करण- -णम्
योसू ३, ५२.
सङ्गा(ङ्-अ)तिरिक्त- -क्ताः सार
२७८: १५.
सङ्गा(ङ्-अ)पत्ति- -त्तिः सांसू
५, ८.
सङ्गिन्- -ङ्गी अज १, १४; १६.
सं/जन, >जा, जनि, संजायते श्वे २,
६; अशि ६, १२; सुवा १; त्रिब्रा
२, १९; वरा ५, ६४; सु२, २, २५;
गी २, ६२; १३, २६; १४, १७;
समजायत वृजा ६, ४; सम्...
अजायथाः व ४३७: २०५^g.
संजनयिष्यसे पा ३, ८.
सं-जनयत्- -यन् गी १, १२.
सं-जात- -तम् नाप ३, ११; पा १०,
८^h.
सं/जप्
सं-जपत्- -पन् जाद ६, ८.
सं/जि, संजयति गी १४, ९ⁱ.
सं-जय^l- -०य गी १, १; -यः गी १,
२; २४; ४७; २, १; ९; ११, ९;

३५; ५०; १८, ७४.
१सं-जिहान- सं/हा(गतौ) द्र.
२सं-जिहान- सं/हा(त्यागे) द्र.
सं/जीव्, संजीवसे पा २, २.
सं-जीव^m-
सांजीव्यⁿ-
सांजीवी-
सांजीवी-पुत्र^o- -त्रः,
-त्रात् वृ ६, ५, २; ४.
सं-जीवर्न-
संजीवन-पर्वतो(त-उ)त्पादन^p-
-०न तां २१४: १५.
सं/जुष
सं-जुषमाण- णः पा ४, १.
सं-जेनातिस्^q- -तिः पा १०, ५.
सं/ज्ञा
सं-ज्ञा- -ज्ञया योशि ६, ३३; -ज्ञा वृ
२, ४, १२; १३; ४, ५, १३; यो ३,
१; -ज्ञाः महा ४, ४५; ५७; -ज्ञाम्
भव २, ५५.
संज्ञा-तस(>:) ब्रसू ३, ३, ८.
संज्ञा-मात्र- -त्रम् सांसू १, ६८.
संज्ञा-मूर्ति-कल्सि- -सिः ब्रसू
२, ४, २०.
संज्ञा(ज्ञा-अ)र्थ- -र्थम् गी १, ७.
संज्ञा-संज्ञि-संबन्ध- -न्धः सांसू
५, ९६.
संज्ञित- -ताः सार २८२: ५; -ते
कर ११^r.
सं-ज्ञान- -नम् ऐपा, २; म४९: ११.
संज्ञान-फल- -लम् ऊ ६४:
१०^s.
संज्ञानसङ्गान^t तारा ८४: ६.
सं/ज्वल्>ज्वालि
सं-ज्वालय नृउ ३, १०; ७, १२.
स(ट>)टा^u- -टाभिः ऊ ६३: ४.

a) लने इति अख्या. संटि. । b) चिन्त्^o इति मैत्रि ६, ७ । c) पा. संस्थाना^o इति शोधः द्र. (तु. गोत्रा १, १, २७) । d) ज्जते इति निसा. । e) आस^o इति मै ४, २ । f) अस^o इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) । g) ऋ १, ६, ३ । h) वा. १ । i) =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिविशेष- । j) उप. कर्तारि कृत् । k) विप. =दीप्तिमत्- (वैतु. प्राटी.) । l) अतः प्राग् इति-कारो लुप्तः द्र. । m) ज्ञेन फ^o इति पा. यनि. शोधः द्र. । n) पा. १ । o) व्यु. १ ।

१सत्^a- √ अस्(भुवि) द्र.

सच्-चित्-

सच्चिन्-मय- -यः मैत्रे ३, १६;

-यम् ते ६, १^३; ९; महा ६, ११.सच्-चित्-परानन्द-ब्रह्मन्- -ह्य
महा २, ११.

सच्-चित्-सुख-परिपूर्ण-

सच्चिसुखपरिपूर्णता-

सच्चिसुखपरिपूर्णता-स्म-

रण- -णम् भा ३४^b.

सच्-चित्-सुखा(ख-आ)त्मक-

-कः मु २, २, १८.

सच्-चित्-सुखानन्द-ब्रह्मन्- -ह्य
शु ३, १०.सच्-चिद्-आत्मन्- -स्मानम् वरा
२, १८^c.

सच्चिदात्मा(त्म-अ)वलोकन-

-नात् ते १, १९.

१सच्-चिद्-आनन्द^d-

सच्चिदानन्द-पूर्णा(र्ण-आ)त्मन्-

-त्मसु वृउ ४, ३; -त्मा ब्रवि

१०८; -स्मानम् वृउ ४, ३.

सच्चिदानन्द-मय- -यम् वृपू १,

१३; नि ४९^e.

सच्चिदानन्द-मात्र- -त्रः वृउ ७,

३; ८; ते ६, ५८; ६३; १०७;

ब्रवि १०९; -त्रम् वृउ ५, ३; ते

६, २.

सच्चिदानन्द-मात्रक- -कः ते ४,

३९; रुह ५२^f; -कम् ते ६, ३०.

सच्चिदानन्द-मूर्ति- -र्तये नि १.

सच्चिदानन्द-रूप- -पः ते ५,

६७; ६, २; ७१; रार ५, ४; -पम्

वृउ ७, ५^g; ससा ५; शु २, ५;

३, ११; अन्न ४, २९; रापू ५, ८;

रुह २६; -पाः सि ४, ११; -पाय

गोपू १; नाउ २, २.

सच्चिदानन्दरूप-तस्(>):

सर ३, ११.

सच्चिदानन्द-रूपक- -कम्

१योत १७.

सच्चिदानन्द-लक्षण- -०ण शु

१, ९; -णः मैत्रे ३, १२; ते ३,

३१; पै ३, १; अन्न ५, ६८; मु १,

१, ४^h; -णम् शु ३, १७; योशि

२, १६; कृ १; वरा २, ६.

सच्चिदानन्द-लह(र>)री-

-री व ११.

सच्चिदानन्द-विग्रह- -हम् गोपू

३३.

सच्चिदानन्द-सुख-

सच्चिदानन्दसुखिन्- -खी

दत्ता १, ६.

सच्चिदानन्द-स्वरूप- -पः रार

१, ९; नाउ १, १; -पम् नि ३१;

अता १०; -पाय नाउ २, ९.

सच्चिदानन्दस्वरूप-पर-

वस्तु- -स्तु नापू १, ३.

सच्चिदानन्दस्वरूपा-

(प-अ)नन्ता(न्त-आ)नन्द-

पत्र- -त्रैः सि ६, १८.

सच्चिदानन्द-हीन- -नः ते

५, ८.

सच्चिदानन्दा(न्द-आ)त्मक-

-कः त्रिवि ८, ५; -कम् सार २८९;

१७; -काः नापू ५, ३०.

सच्चिदानन्दा(न्द-आ)त्मन्-

-स्मानम् राउ ३, ३.

सच्चिदानन्दात्मो(त्म-उ)-

पासक- -कः त्रिवि ८, ५.

२सच्-चिद्-आनन्द^h- -न्दः पं ३५;

मवा ६; सर ३, २७; सार २८९;

१९; -न्दम् वसू २९; ३०; ते ३,

२६; ६, १ⁱ-२^j; ३; ३८; ४९;

मं २, १, ७; वा १७; महा ४,

८०; अन्न ५, ७४; अध्या ३२;

जाद ९, ५; -न्दे योशि १, १२८;

वरा २, २३.

सच्चिदानन्द-क- -कः ते ६, ३.

सच्चिदानन्द-तःपर- -रः सर ३,

२४.

सच्चिदानन्द-तेज- -कूट-

रूप- -पम् मं १, २, ४; अता २.

सच्चिदानन्द-स्वप्रकाश- -शम्

त्रिवि १, ५.

सच्चिदानन्दा(न्द-आ)ख्य-

-ख्याः राउ १, २.

सच्चिदानन्दा(न्द-अ)द्वय-

चिद्धन- -नः पप ४२० : १६.

सच्चिदानन्दा(न्द-अ)द्वितीय-

-यः ग ५.

सच्चिदानन्दै(न्द-ए)करस- -से

गोउ ६३^k!

सच्-चिद्-आनन्दघन-उयोतिस-

-तिः वृउ ६, १; २.

सच्-चिद्-आनन्दा(न्द-अ)द्वैतै-

(त-ए)कचिद्-आत्मन्- -त्मा

राउ ५, १.

सच्-चिद्-एकरस- -सः नाप ८,

१६; १८.

सच्-छन्द- -न्दः गी १७, २६.

सच्छन्द-वाच्य- -च्यम् त्रिवा

१, २; त्रिवि २, १४.

सच्-छास्त्रै- -स्त्रैः भव १, ५०.

सज्-जन- -नान् अहि ८.

सज्जन-संपर्क-पूर्वक- -कैः महा

४, ४.

सत्-कथा-

सत्कथा(था-आ)क्षिस-मानस-

-साः सार २३५ : २०.

१सत्-कर्मन्^l- -मौणि भव ४, १०.

a) बप्र. द्र. । b) पाभे. कृते तु. निसा. संटि. । c) °दानन्दम् इति अच्ञ्या. । d) द्रस. । e) °यनि° इति अच्ञ्या. । f) °मातृ° इति निसा.१ यनि. शौभः द्र. (तु. अच्ञ्या.) । g) °न्दविग्रहः इति निसा. । h) विप. । i) आनन्द-सच्चि° इति निसा. । j) कस. ।

सत्कर्म-निरत- -तः भव ४, ९.
 सत्कर्म-परिपाक- -कात् यो ३,
 २८.
 सत्कर्मपरिपाक-तत्स(>:) पै
 २, ५०; ३, १.
 २सत्-कर्मन्- -र्मा पा ४, १०.
 सत्-कवाट- -टम् शि ४, ३.
 सत्कवाट-द्वयो(य-उ)पेत- -तम्
 शि ४, ४.
 सत्-कार्य-
 सत्कार्य-सिद्धान्त- -न्तः सांस्
 ५, ६०.
 सत्-कुल-
 सत्कुल-प्रसूत- -तः नाप २.
 सत्कुल-भव- -वम् नाप २; मु
 १, २, ६^b.
 सत्कुलभवो(व-उ)पनीत-
 -तः नाप १.
 सत्कुलीन- -नाय कालि ४०३:
 १८.
 सत्^०/कृ
 सत्-कार-
 सत्कार-मान-पूजा(जा-अ)-
 र्थ- -र्थम् गी १७, १८.
 सत्-कृत- -तः गोच ६७:२३.
 सत्-कृत्वा^a शि ६, २६९.
 सत्-कृत्य- -त्यम् भव १, ३६.
 सत्कृत्य-करण- -णम् भव ५,
 १९.
 सत्-कृष्टि^०- -ष्टिः सौ १, ३^f.
 सत्-तम- -०म वृजा ३, ३३; त्रिन्ना
 २, ३०; भव २, ५१; -मः २अव
 ३३७:७; -माः छां २, ९, ५.
 सत्-ता- -ता महा २, ५; ४, ४७;
 १२०; ५, ४७; १संन्या २, ५६;
 ५७; अन्न ४, २२; पाशु २, ४४^g;
 -ताम् महा ४, ५४; -तायाः अन्न

४, ६५.
 सत्ता(ता-अ)तिरेक- -केण पाशु
 २, ४४.
 सत्ता-मात्र- -त्रम् वृड ९, ९;
 गोड ४१; -त्रात् सांस् ५, ९; -त्रै
 महा ४, १३.
 सत्तामात्र-प्रकाश- -शः ते
 ५, ६९.
 सत्तामात्रप्रकाशै(श-ए)-
 क-प्रकाश- -शम् मैत्रे १, ४, ९^e.
 सत्तामात्र-स्वरूप- -पः ते
 ३, ३०.
 सत्तामात्रस्वरूपा(प-आ)-
 त्मन्- -त्मा ते ४, ४५.
 सत्तामात्रा(त्र-आ)त्मक-
 -कम् अन्न ३, १७.
 सत्ता(ता-अ)संभव- -वात्
 सांस् १, ४^h.
 सत्ता-सामान्य- -न्यम् अन्न ४,
 ६७.
 सत्तासामान्य-ता- -ता अन्न
 १, २३; २४.
 सत्तासामान्य-पर्यन्त- -न्ते
 अन्न ४, ६८.
 सत्तासामान्य-रूप- -पे अन्न
 ४, ७६.
 सत्तासामान्यरूप-त्व-
 -त्वात् अन्न ५, १५.
 सत्तासामान्यरूप-वत्-
 -वान् अन्न ५, १८.
 सत्तासामान्यरूपिन्-
 -पिणः महा ५, १७८.
 सत्ता-सामान्यक- -कःते ५, ६९.
 सत्ता-सामान्य-कोटि- -स्थ-
 -स्थे अन्न ४, ७४.
 सत्-पति- -तिः प्र २, ११.
 सत्-पथ- -थाय पा ५, १.

सत्-परानन्द-रूप- -पः ते ३, ८.
 सत्-पुण्डरीक-नयन- -नम् गोपू८.
 सत्-पुत्र- -त्रम् शि ६, २२२.
 सत्-पुरुष- -षाः ते १, ४४.
 सत्-पूजा- -जाम् शि ७, १७८.
 सत्-प्रति(छ>)ष्टा- -ष्टाः छां ६, ८,
 ४; ६.
 सत्-फल- -लम् शि ६, ४१.
 सत्-संसर्ग- -र्गः नि ३३.
 सत्-सङ्ग- -ङ्गः ते ५, ५३.
 सत्सङ्ग-माहात्म्य- -त्म्यम् सार
 २३४: १७.
 सत्-समागम- -मैः भव १, ५०.
 सत्-संप्रदाय- -स्थ- -स्थम् नाप २.
 सत्-स्वरूप-
 सत्स्वरूप-ता- -ताम् सार २४८:
 १४.
 सद्-अधीयान- -नः मैत्रि ६, ३०.
 सद्-अश्व- -श्वाः क १, ३, ६.
 सद्-असत्- -सत् सुं २, २, १; गौ४,
 २२; सुबा १; २^h; ११; १३-१५;
 पत्र २; महा २, ६७; -सती अन्न ५,
 १०७; -सतोः महा ५, ६९; १७२.
 सद्सती- -ती ससा १, ३९.
 सद्सत्-ख्याति- -तिः सांस् ५,
 ५६.
 सद्सत्-त्व- -त्वाभ्याम् १आ
 २७.
 सद्सत्-फल-
 सद्सत्फल-मय- -यैः मै ४,
 २; मैत्रि ४, २.
 सद्सद्-आत्मक- -कः त्रिनि १,
 १; -कम् भव २, १३.
 सद्सद्-आस्था- -स्थाम् महा
 ६, ५३.
 सद्सद्-भक्ति-वर्जित- -तः तु
 १७.

a) बस. । b) सुकु^० इति निसा. । c) गतिर्वं द्र. (पा १, ४, ६३) । d) पा ७, १, ३८ । e) =शक्ति-
 विशेष- । f) उत्कृ^० इति निसा. संटि., अज्या. । g) ^०कस्वभावम् इति अज्या. । h) सत्त्वा^०, अत्यन्ता^० इति च
 पाभे. । i) अस^० इति निसा. १ यनि. शोभः द्र. (तु. अज्या.) ।

सदसद्-भेद-हीन- -नः मैत्रे
३, ७.
सदसद्-योनि- -निम् मै ३, १;
२; मैत्रि ३, १; २^१.
सदसद्-योनि-जन्मन्-
-न्मसु भव २, ९; गी १३, २१.
सदसद्-विलक्षण, णा- -णः
त्रिवि १, १; -णा त्रिवि ३, ७.
सदसद्-विहीन- -नम् कै २, ५.
सद्-अस्त्र(क>)का- -काः पी४२२:
१४.
सद्-आचार- -रः पत्र ३, २; गोच
६८ : ९; -रात् त्रिवि ५, ६.
सदाचार-प्रवृत्ति- -त्तिः त्रिवि
५, ६; महा ५, २८; वरा ४, ४.
सदाचार-रत- -तः सु १, १, २२.
सद्-आचार्य-मूल- -लः द्र ३; लम्
अता १३.
सद्-आत्मक- -कः ते ३, २२.
सदात्मक-स्व-
सदात्मकत्व-विज्ञान-दग्धा-
(ग्ध-अ)विद्यादि-वर्त्मन्-
-वर्मणः १आ २५.
सद्-आत्मा(त्म-आ)सन-रू-
(प>)पा- -पाम् त्रिता २, २६.
सद्-आनन्द-व(न>)ना- -ना भा
२६.
सद्-आनन्द-चिन्-मात्र- -त्रम्
वृत् ९, १७.
सद्-आयत(न>)ना- -नाः छां ६,
८, ४; ६.
सद्-उपपत्ति- -त्तिः सांस् ६, ५३.
सद्-एक-रस- -सम् वृत् २, १; ३.
सद्-गणेश- -शः वृत् २, ९.
सद्-गति- -तिः अशि ४, १७; वृत्

३१६ : १०.
सद्-गन्ध-गु(टक>)टिका- -काम्
शि ४, ३३.
सद्-गुरु- -रुम् शु १, १८; नाप २;
पै २, ५१; पप ४१८ : ३३; सु १,
२, ६; -रोः महा ४, ७७; वरा २,
७६.
सद्गुरु-कटाक्ष- -क्षः त्रिवि ५,
८; -क्षम् त्रिवि ५, ७.
सद्गुरुकटाक्ष-लेश-विशेष-
-वेण त्रिवि ५, ७^१.
सद्गुरु-समीप- -पे पप४१८ : १
सद्-वन- -नः वृत् ८, १; -नम् त्रिवि
७, २०; अध्या ६१.
सद्-धे(<हे)तुक- -कम् गौ४, ४०.
सद्-ध्यायिन्- -यी मैत्रि ६, ३०.
सद्-ब्रह्मन्- -ह्यणि मैत्रि ६, ३०; वरा
४, ३१.
सद्ब्रह्म-ता- -ताम् ते १, ४५.
सद्-भाव- -वम् ते ५, ४७; ४८; -वे
गी १७, २६; -वेन गौ ४, ५७.
सद्भाव-भावना-दाढ्य- -ढ्यात्
अध्या १३.
सद्-यति- -तिः नाप ४, २.
सद्-याजिन्- -जी मैत्रि ६, ३०.
सद्-रस- -सम् वरा २, ७१.
सद्-रूप, पा- -पः अक्षि ३८; वरा
४, १७; सार २९० : ३; -पम् महा
४, ५१; करु २७; वरा ३, ४; सार
२९० : ९; -पया सार २९२ : ७.
सद्रूप-स्व- -स्वम् वरा ३, ९;
-स्वात् महा २, ८.
सद्-वस्तु- -स्तु सु २, २, ५९.
सद्-वादिन्- -दी मैत्रि ६, ३०.
सद्-विद्यो(द्या-उ)पासक- -काः

सार २७३ : १८.
सद्-वृत्त^१- -त्तम् त्रिवि ८, १८.
सद्-वृत्ति- -रथा ते १, ३६^b.
सन्-मय- -यः अत्र २, २०.
सन्-मात्र- -त्रः वृत् २, ११; ९, ८;
वृत् १, १७; -त्रम् वृत् ९, ९; ते
३, ५९; शां २, १; ३, १^३; अत्र ४,
६५; व १२; -त्रात् मैत्रे ३, ३३;
सार ३, ३०^०.
सन्मात्र-स्व- -स्वम् १आ २४.
सन्मात्र-रूप-
सन्मात्ररूप-स्व- -स्वात् ते
६, ३०.
सन्मात्रा(त्र-आ)नन्द-
सन्मात्रानन्द-वत्- -वान् ते
३, ४१.
सन्मात्रै(त्र-ए)क-पर- -रः अत्र
४, ६६.
सन्-मार्ग-गमन- -नाय अना २६^d.
सन्-मूल(ल>)ला- -लाः छां ६, ८,
४; ६.
२सत्^२ छां ८, ३, ५.
३सत्^३ कौ १, ६.
स^४-तण्डुल- -लैः भ २, २४.
सतत- सं/तम् द्र.
स^५-तत्त्व- -स्वम् काला ३.
स^६-तन्त्र- -न्त्रम् वपू ३, २.
स^७-तार^७- -रम् वपू ३, १.
स^८-तारक^८- -कः पित्र २, ६.
स^९-तीयम्^९ छां ८, ३, ५.
स^{१०}-तूर्(र्ध>)र्था- -र्थाः क १, १, २५.
सत्त्व^{१०}- -त्वः पा ४, ४; -त्वम् क
२, ३, ७; मै ४, ३; मैत्रि ४, ३;
५, २; ६, ३८; मैत्रे १, ४, २;

a) कस. । b) 'सद्गत्या' इति अज्या. । c) तु. गपू. पृ१४१२a. । d) यन्मा^० इति निसा., अज्या. ! यनि.
शोषः द्र. (तु. आन.) । e) 'सतीयम्' इत्यस्य तान्तोऽवयवः परामृष्टः द्र. । f) '१सत्त्व-> -स्वम्' इत्यस्य तान्तोऽवयवः
परामृष्टः द्र. । g) =६स । h) पा. ? 'संततं शिरामिस्तु' इति शोषः द्र. (तु. तैत्रा १०, ११, २) । i) उप. =१तार- ।
j) उप. =२तारक- । k) पा. ! पुनः प्रतिनिर्देशतः 'सत्तियम्' इत्येवं शोषः द्र. [*सत्तिय-> नैप्र. सत्य- इत्यभिसंधिः
(वैदु. शं. यनि. समाधायुकः)] । l) बप्रा. वैप१ यद्र. । इह =प्राणिन्-, बुद्धि-, गुणविशेष- प्रमृ. । मुपा. तत्र तत्र
तकारैकत्वद्वित्वसांकर्यादिह निर्देशसौकर्यार्थं सर्वत्र तकारद्वयं द्र. ।

जा४; काला १४; नृउ ९, ४; नाप
३, ७७; रापू ५, ४; पप ४१८:
१०; अन्न४, १९; भा२७; यो३,
८; गोउ ५५; या १, १; जावा
२३; पा २, १; ३, ९; ४, ८^५; ९^२;
५, १^१; २^३; १०, ६; वउ ३, १७;
५२; ५३; भव४, १८; सांका १३;
गी १०, ३६; ४१; १३, २६; १४,
५; ६; ९; १०^३; ११; १७, १; १८,
४०; -स्वस्य श्वे ३, १२; मै ४,
५^३; मैत्रि ५, २; भव४, ९; -स्वात्
क २, ३, ७; मै ४, ३; ५; मैत्रि
४, ३; मैत्रे १, ४, २; वसू २, १,
१६; गी १४, १७; -स्वानाम्
सुवा १३; पा४, ८; -स्वाय अत्ति
१; -स्वे गी १४, १४.

सात्त्व- -त्वम् पा ४, ८^१.

सात्त्विक- -०क वउ४, ४६; -कः
मै ४, ५; मैत्रि ५, २; मैत्रे ३, ६;
ध्या १३; योचू ७२; ७५; शारी
५; पाशु १, १०; वउ ४, ११;
२५; सांका २५; गी १७, ११;
१८, ९; २६; -कम् शारी ५; दत्ता
१, १; हे १; भव ४, ८; सांसू २,
१८; सांका २३; गी १४, १६;
१७, १७; २०; १८, २०; २३; ३७;
-कस्य शारी २; -काः गी ७, १२;
१७, ४; -काय मवा २.

सात्त्विकी- -की गोउ
६३; कृ ४; राधा २, ११; वउ
४, १२; गी १७, २; १८, ३०;
३३; -क्याः वउ ४, १६.

सात्त्विकत्व- -स्वात् सर ३,
१६.

सात्त्विक-प्रिय- -याः गी
१७, ८.

सात्त्विक-माया(या-आ)त्म-
क- -कः पाशु १, १०.

सात्त्विक-राजस-तामस-
-सान् सार २९० : २०.

सात्त्विकराजसतामस-
लक्षण- -णानि शारी १.

सात्त्विकां(क-अं)श- -शेन
भव ४, ७.

सत्त्व-क्षया(य-आ)त्मक- -के अन्न
४, २०.

सत्त्व-तमो-गुण-प्रधान- -नैः
त्रिवि ६, ७.

सत्त्व-तत्त्व(>) वरा ५, २^६.

सत्त्व-तुरीय-भाग- -गेन पै १, २४.

सत्त्व-दर्शन- -ने त्रिब्रा २, १२५^७.

सत्त्व-पुरुष- -षयोःयोसू३, ३६; ५६

सत्त्वपुरुषा(ष-अ)न्यता-ख्या-
ति-मात्र- -त्रस्य योसू३, ५०.

सत्त्व-प्रधा(न>)ना- -ना सर ३, १४

सत्त्व-बुद्धि- -द्धिः ससा १, ४१.

सत्त्व-मध्य- -ध्ये मैत्रि ६, ३८.

सत्त्व-युक्त- -कैः वरा ४, ३५^०.

सत्त्व-रजस-तमस- -मसाम् सांसू१,

६१; -मांसि दे १०; वरा १, ११.

सत्त्व-रजस्तमो-गुण-रहित-

-तम् अद्वै ११.

सत्त्व-रजस्तमो-गुणा(ण-आ)-

रिमिका- -का गार ४०७ : ३.

सत्त्व-राजस-तामसी- -सी कृ ४.

सत्त्व-रूप- -पः ते ३, ३; -पम् गोउ

५९^६; पा १०, ४.

सत्त्व-रूप-परिप्राप्त-चित्त- -त्ताः

अन्न ४, ५३.

सत्त्व-वत्- -वताम् गी १०, ३६.

सत्त्व-विशाल, ला- -लः सांका ५४;

-ला सांसू ३, ४८.

सत्त्व-बुद्धि- -द्धया भव ४, ९.

सत्त्व-शुद्धि- -द्धिः, -द्धौ ङां ७,

२६, २.

सत्त्व-शुद्धि-सौमनस्यै(स्य-ऐ)-

काश्ये (अ्य-इ)न्द्रियजया(य-आ)-
त्मदर्शनयोग्यत्व- -स्वानि योसू
२, ४१^०.

सत्त्व-संयान- -नाः पा ५, २१^१.

सत्त्व-संशुद्धि- -द्धिः गी १६, १.

सत्त्व-समष्टि-

सत्त्वसमष्टि-तत्त्व(>) पै १, २५.

सत्त्व-समाविष्ट- -ष्टः गी १८, १०.

सत्त्व-सार- -रम् लां २१४ : २.

सत्त्व-स्थ, स्था- -स्थः मैत्रि ६, ३०;

पाशु २, १२; -स्थम् चू २; -स्थया

यो १, ६; -स्थाः मन्त्रि २; महा

४, १७; गी १४, १८.

सत्त्व-स्वरूप-

सत्त्वस्वरूप-सन्मात्र-सिद्ध-

सर्वात्मक- -कः त्रिवि १०९.

सत्त्वां(त्व-अं)श- -शम् पै १, २३.

सत्त्वा(त्व-आ)त्मक- -कम् पा १०,

५; ६.

सत्त्वा(त्व-आ)त्मन्- -त्मनि महा ५,

३०; वरा ४, ६.

सत्त्वा(त्व-आ)दि- -दिः ससा १,

२१; -दीनाम् सांसू ६, ३९.

सत्त्वादि-गुण- -णान् मं १, २, ३.

सत्त्वादिगुण-साम्य-

सत्त्वादिगुणसाम्य-तत्त्व

(>) सर ३, १२.

सत्त्वा(त्व-आ)धार- -राः पा ५, ३.

सत्त्वा(त्व-आ)नुरु(प>)पा- -पा

गी १७, ३.

सत्त्वा(त्व-आ)न्तर-स्थ- -स्थम्

मैत्रि ६, ३८.

सत्त्वा(त्व-आ)न्तर-वर्तिन्- -र्तिनः

त्रिब्रा २, ७.

सत्त्वा(त्व-आ)पत्ति- -त्तिः महा ५,

२५; ३०; वरा ४, १; २; ६.

सत्त्वा(त्व-आ)वशेष- -षः अत्ति

३३^६; वरा ४, १३.

४) तु. गपू. पृ१२९f. । ५) तु द^० इति निसा. । ६) भक्तियु^० इति अश्या. । ७) स्वरू^० इति आन. ।

८) शुद्धौ सौ^० इत्यपि पाठे. । ९) स्वं सं^० इति पा. ? यनि. शोधः द. । १०) ता^० इति अश्या. ।

सत्त्वो(स्व-उ)द्वि(क>)क्ता-क्ता पै
१,६.

१ सत्य,त्या^a- स्यः मना २, १५९^b;
७९९^c; अशि १, ६; मैत्रि १, ४,
११; नृउ ९, ८; सुबा १३; ते५,
६१; ६, ६९; श २०; कृ १६^d;
पा ४, १०^e; ५, १; २^f; -स्यस् के
२, ५; ४, ८; प्र १, १५; २, ८; सुं
१, १, १; ८; २, १३; २, १, १; ७;
२, २; ३, १, ६; २, ११; तै श्रां^g;
१, ९, १^h; ११, १; १२, १९ⁱ; २,
१, १; ४, १; ऐ श्रां^j; ४, १; छां
१, २, ३; ४, १७, १^k; ६, १, ४-६;
४, १-४; ८, ७; ९, ४; १०-१५,
३; १६, २; ३; ७, २, १^l; ७, १;
१६, १^m; ८, १, ५; ३, ४; वृ १, ४,
१४ⁿ; ६, ३; २, १, २०^o; ३, ६^p;
५, १२; ३, ९, १२; २३^q; ४, १,
४^r; ५, ४, १^s; ५, १^t; २; १४, ४^u;
६, २, १५; गौ १, १२; ३, ४, ८; ४,
७१; मै ५, ३; ६^v; ८; मैत्रि ६, ३;
६^w; ८; ३२; ७, ७; १०^x; आह ३;
मना १, २९^y; १३^z; २, १०^{aa};
१५^{ab}; २३^{ac}; २९^{ad}; ३५^{ae};
३७^{af}; ६८^{ag}; ७८^{ah}; ७९^{ai};
अशि १, ११; २, २६; ६, १६; ७,
९; १०; अ३; कौ श्रां^{aj}; १, ६^{ak};
३, १; वृजा ३, १५; ७, ७; ८, ६;
नृपू १, १२; नृउ ९, ९; १७^{al}; काला
२२; ससा १, २९; ३१; नि४७; शु
१, १८^{am}; २, ५; ते १, ११; ३, ५०;

४, ४०; ५, २०; २८; ७७; ६, ५;
३५; ५८; ५९; ७६^{an}; ८६; नाद
श्रां^{ao}; २७; ब्रवि ६०; १ योत
१३६; आबो श्रां^{ap}; नाप ३, २१;
२४; ६३; ४, १०; त्रिवा २, ३२; सी
४; त्रिवि २, २; १०; १२; ३, २^{aq};
४, ३; ७^{ar}; ५, २; ७, ४४^{as}; ८, २;
निर्वा श्रां^{at}; वा४३; सुद्र श्रां^{au};
शां १, १९^{av}; ७, ४१; २, १; ३,
१^{aw}; पै ४, १७; महा १, १; २, १;
३५; ४, ४५; १३२; ५, ८४;
१०७; शारी १; योशि १, १९;
२, १६; अञ ५, ७२; पत्र १; २;
अक्ष श्रां^{ax}; १ अव ३३; भा ३९^{ay};
रूह ३४; ३७; ग ४; जाद १, ६;
७; ९; १०^{az}; २, ९; ४, २; ६०; ६,
३२; ९, १; ३; पं ३२; गोउ ३०;
म २, १६; वरा २, ३८^{ba}; ३, २;
५, १२; सौ श्रां^{bb}; सर श्रां^{bc};
३, १२; ब श्रां^{bd}; १४; सु २, २,
७७; इ ११; ७; १०; १६; १४;
१८; १९; बा २२; सूता १, ४३; ६,
१२; नापू २, १५; नाउ १, १२;
१४^{be}; नृष ८४; १; पा ३, १;
४, ९; १०^{bf}; ५, १^{bg}; ३^{bh}; ५; राधा
१, ३; लां २१३; १०; वि २१;
३३; मृ १४; १६; वड ३१४;
२२; रशिं ३०; शि १, २५; ५,
४४; ७, १००; स ३७९; २१;
सिशि ३८२; ९^{bi}; ३८३; १५;
कालि ४०३; १५; २०; गार
४०५; १३; १६; गा ११; १३;

गु ३०; व ४६१; २२९^{bj}; ४६४;
११९^{bk}; चक्र ११; १ कौल श्रां^{bl};
भव ३, ३२; ५, १२; पित्र १, ७;
गी १०, ४; १६, २; ७; १७, १५;
१८, ६५; -स्यस्-स्यस्वि २१; गु
७४; -स्यस्य ई १५; सुं ३, १,
६; वृ २, १, २०; ३, ६; ५, १२;
५, १५, १९^{bm}; मैत्रि ३, ३२; ३५^{bn};
कौ ४, १७; -त्या मना २, २८^{bo};
सुबा ६; १ संन्या २, ५७; सार
२५२; १४; व ४६६; १५^{bp};
-त्या: छां ८, ३, १; २; -स्यात् तै
१, ११, १; छां ४, ५, ५; वृ ५, १४,
४; कौ ३, १; सु २, २, १७; गा
१४^{bq}; -स्यान् छां ८, १, ६^{br};
-त्यानाम् छां ८, ३, १; -स्याम् गौ
४, ७८; सुबा ९^{bs}; -स्याथ पा ४,
९; १०; ५, ३; -स्ये वृ २, ५, १२;
३, ९, २३^{bt}; ५, १४, ४; मैत्रि ७,
७; मना २, ३१^{bv}; ७८^{bw}; ७९^{bx};
ते ५, २९; ६, ७५; ७६; योशि ४,
१६; गा ११^{by}; -स्येन सुं ३, १,
५; ६; छां ३, ११, २; ६, १६, २;
७, १६, १^{bz}; वृ १, ६, ३; ५, ५, १;
श्वे १, १५; मना २, ७८^{ca}; ७९^{cb};
ब्र ३, १०; अशि १, ११; कौ १,
२; सुबा ३; १३; ते ५, ५८; पाशु
२, ३२; इ १२; ५; १५; ८^{cc}; सूता
१, ४३; ६, १२; भव ३, १८.
सात्य- स्यः वृ २, ५, १२^{cd}.

१ सत्य-क^{b'}- कम् ते २, ३६.

१ सत्य-काम^{ca'}- ०म^{ca'} प्र ५, २;

a) वैपश् यद्र. । b) तैश्चा १०, १४, १ । c) तैश्चा १०, ६३, १ । d) उत्तरेण संधिरार्षः द्र. (तु. सस्य.
अक्षर-> -रः) । e) तैश्चा ७, १, १ । f) तैश्चा ७, १२, १ । g) ऐश्चा २, ७, १ । h) तैश्चा १०, १, २ । i) ऋ १०,
१९०, १ । j) तैश्चा १०, ८, १ । k) तैश्चा १०, १२, १ । l) तैश्चा १०, २२, १ । m) तैश्चा १०, २८, १ । n) तु. गपू.
पृ५४२० । o) तैश्चाश्चा १०, ६८ । p) तैश्चा १०, ६२, १ । q) तैश्चा १०, ६३, १^r । r) तैश्चा १०, २७, १ । s) 'सत्त्वस्'
इति श्रब्धा. । t) तैश्चा ८, १, ८ । u) मा ४०, १७ । v) तैश्चा १०, २१, १ । w) ऋ ९, ९४, ४ ।
x) °त्यादौ इति पा.१ यनि. शोचः द्र. (तु. वृ ५, १४, ४) । y) तैश्चा १०, २४, १ । z) सत्त्व इति पा.१ यनि. च
'एतत्' इति च शोचः द्र. (तु. वृ ५, १४, ४) । a') स इति निसा. । b') =१सत्य- । c') =ऋषिविशेष- ।
d') कविद्र सप्लुति भवति ।

छां ४, ५, १; ६-८, २; ९, १; मै ५, ५; मैत्रि ६, ५; ३८; -मः प्र १, १; ५, १; छां ४, ४, १; २; ४^३; ५, २, ३; वृ ४, १, ६; ६, ३, १२; -माय वृ ६, ३, ११; -मे छां ४, १०, १.
 २सत्य-काम^१-
 सत्यकाम-तस(>): मैत्रि ६, ३४^b.
 ३सत्य-काम^०- -मः छां ८, १, ५; ७, १; ३; मैत्रि ७, ७; -०माः सुं १, २, १; -मात् शां ३, १.
 सत्य-क्षेत्र^१- -त्रे दत्ता १, १.
 सत्य-गामिन्- -मिनः मै ४, ४, २^d; मैत्रे १, ४, ४.
 सत्य-चिद्-आत्मक- -कः ते ३, ५०^०.
 सत्य-चिद्-वन- -नम् महा ४, ७०; अन्न ४, ३५; करु ३४; रुह ४८; वरा २, २०; ३, ६.
 सत्य-जनन- -नम् वउ ४, ३३.
 सत्य-जीव- -वः ते ५, ९५.
 १सत्य-ज्ञान^१- -नम् शारी ५^६.
 २सत्य-ज्ञान^१-
 सत्यज्ञाना(न-आ)दि-लक्षण-
 -०ण वि ४.
 सत्य-ज्ञान-सुखा(ख-अ)द्वय- -यम् अन्न ४, २७; करु १०.
 सत्य-ज्ञाना(न-अ)द्वया(य-आ)-
 त्मक- -कम् करु २२.
 सत्य-ज्ञाना(न-आ)नन्द- -न्दम् पै १, ३ⁱ.
 सत्य-ज्ञाना(न-आ)नन्द-पूर्ण-
 लक्षण- -णम् वरा २, १६.
 सत्य-ज्ञाना(न-आ)नन्दा(न्द-आ)-
 दि-लक्षण- -णम् वरा २, १७.
 सत्य-ज्ञाना(न-आ)नन्दा(न्द-अ)-
 नन्त-स्वरूप- -पम् वसु २३.

सत्य-ता- -ता वृ ४, १, ४; १संन्या २, ४६; ५६.
 सत्य-त्व- -त्वम् ते ५, २२^३; अन्न १, १५; -त्वात् आबो ३०; -त्वेन १आ ४.
 सत्यत्व-भ्रम- -मः अन्न १, १६.
 १सत्य-धर्म^१-
 सत्यधर्म-रत- -तः शां १, ५.
 २सत्य-धर्म^०- -र्मः मैत्रि ६, ३५ⁱⁱ;
 -ऽ^kर्माय ई १५; वृ ५, १५, १;
 मैत्रि ६, ३५.
 सत्य-धृति- -तिः क १, २, ९.
 सत्य-पद- -दाय पा ४, ९.
 सत्य-प(र>)रा- -रा महा ६, ४.
 सत्य-परायण- -णः जाद ५, ३.
 सत्य-पूत, ता- -तः अशि ७, ३; वृपू ५, १२; महा ६, ८३; च २१: ९;
 वट्ट ३१८: ५; स ३७९: २२;
 -ताम् भव ५, १०.
 सत्य-प्रज्ञान-लक्षण- -णम् महा ४, ८१; वरा २, १९.
 सत्य-प्रति(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञः पिब्र १, ७.
 सत्य-प्रतिष्ठा- -ष्टायाम् योसू २, ३६.
 सत्य-प्रसव- -वाय वृ ६, ४, १९.
 सत्य-भा(म>)मा^१- -मा कृ १५.
 सत्य-भूय- -यम् वृ ५, ५, १.
 सत्य-मार्गा(र्ग-अ)नुरक्ति- -क्तिः मं १, १, ४.
 सत्य-यज्ञ^१- -ज्ञः छां ५, ११, १;
 -ज्ञम् छां ५, १३, १.
 सत्य-रूप- -पम् पा ५, ३.
 सत्य-लोक^३- -कः नाद ४; नाप ५, १; १संन्या २, ५९; गार ४०५: १६; -कम् वृपू ५, १६; वृजा ८, ४; नाप २; त्रिवि ५, १२; वउ ५, १२; -काः सुबा १०; -के राउ

४, १; -केषु सुबा १०.
 सत्यलोक-ज्ञान- -नम् शां १, ७, ५२.
 सत्यलोक-वासिन्- -सिभिः त्रिवि ५, १२.
 सत्यलोका(क-आ)धिपत्य-
 -त्यम् वपू १, ६.
 सत्य-वचन- -नम् छां ३, १७, ४.
 सत्य-वचस- -चाः तै १, ९, १.
 सत्य-वत् आबो १२; ३०.
 सत्य-व(त>)ती^१- -ती रुह ३४.
 सत्यवती-सुत- -तः शु ३, २२.
 सत्य-वसु^१-
 सत्यवसु-संज्ञक- -कान् नाप ४, ३८.
 सत्य-वाच्- -वाक् नाप ६, १; ७.
 सत्य-वादिन्- -दिनः रुजा २, १०.
 सत्य-वाह^१- -हाय सु १, १, २.
 सत्य-विज्ञान-मात्र- -त्रः ते ३, ४१.
 सत्य-व्रत^१- -तः पिब्र १, १; ६; १६.
 सत्य-शौच-परिभ्रष्ट- -ष्टम् १संन्या २, ५.
 सत्य-संकल्प- -ल्पः छां ३, १४, २; ८, १, ५; ७, १; ३; मै २, ९; मैत्रि २, ६; ७, ७; त्रिवि १, ११; -ल्पम् कौ ३, २९^m.
 सत्य-सत्य- -त्यम् अद्वै २१.
 सत्य-संधान-मानस- -सः वरा ५, ५६.
 सत्य-सिद्ध-योग- -गः निर्वा २९७: १३.
 सत्य-सुसंप्रदाय- -यः म ४९: १४.
 सत्य-स्वरूप- -पः वृउ ५, २.
 सत्या(त्य-आ)त्मक- -कः ते ३, ४९.
 सत्या(त्य-आ)त्मन्- -स्मा तै १, ६, २;
 वृष ८५: ४.

४) कस. । ५) ०त्यगामिनः इति मै ४, ४, २ । ६) उस. । ७) ०त्यकामतः इति मैत्रि ६, ३४ । ८) ०त्यकामिनः इति अज्या. । ९) ०त्यं चि० इति अज्या. । १०) षस. । ११) सत्यज्ज्ञा० इति अज्या. । १२) द्वस. । १३) ०न्दप० इति अज्या. । १४) सकृत् सवित्सत्य० इति आन. । १५) का ४०, १, १५ । १) =ऋषिविशेष- । २) ०ल्पः इति अज्या., ०त्यं सं० इति आन., शांआ ५, २ ।

सत्या(त्य-आ)दि- -दयः ब्रह्म ३, ३,
३९.

सत्यादि-रूप- -पम् सिशि
३८० : ९.

सत्यादि-वाक्य- -क्यैः तेषु, ६२.

सत्याद्या(दि-आ)त्मक- -कः
अध्या ३०.

सत्या(त्य-आ)नन्द- -न्दः ते ३, ९;
-न्दा राधा १, २, ५, १०.

सत्यानन्द-स्वरूप- -पः ते ३,
३९.

सत्या(त्य-आ)नन्द-चिद्-आत्मक-
-कः राउ ५, २; दत्ता १, १; ४.

सत्या(त्य-आ)नृत- -ते १संन्या २,
१२१.

सत्यानृतो(त-उ)पभोगा(ग-अ)-
र्थ- -र्थात् मैत्रि ७, १११°.

सत्या(त्य-आ)न्तरात्मन्- -त्मा पा
४, १०.

सत्या-प्रभा-पुञ्जिन्यु(नी-उ)षा-सं-
ध्या-प्रज्ञा- -ज्ञाभिः त्रिता ४,
२९.

सत्या(त्य-आ)भिसंघ- -घः छां ६,
१६, २.

सत्या(त्य-आ)सत्य- -त्यम् ते ६, ७१.

सत्यासत्या(त्य-आ)दि-हीन-
-नः मैत्रे ३, २३.

सत्या(त्य-आ)स्तेषा(य-अ)परिग्रह-
-हान् भव ३, १६.

सत्यो(त्य-उ)द्योग- -गः पा ४, १०.

सत्यो(त्य-उ)पाधि-रहित- -तः
त्रिवि १, ११.

२सत्य^{१६}-

२सत्य-क^१- -कः व ४४५ : ११.

३सत्य^{१०}-

३सत्य-क^१-

सात्यकि^१- -किः गी १, १७.

१सत्यक-, १-३सत्यकाम- १सत्य-द्र.

सत्यभामा- १सत्य-द्र.

?सत्यमानसान्^१ मुवा १.

सत्ययज्ञ-, सत्यवती-, सत्यवसु-,

सत्यवाह-, सत्यव्रत- १सत्य-द्र.

सत्रा^१

सत्रा-साह^१- -साहम् आर्षे ९ : १८.

स^१-त्वच्- -त्वचम् १संन्या २, ९.

सत्वन्^१- -त्वानः नी २, ५१^१.

स^१-त्वर- -रम्^१ १योत ११६; राउ ५,

२८; योशि १, १४३; यो १, ६५;

६८; वरा ५, ६३.

✓सद्, >सीद्, सादि, सीदति १योत

१०४; आबो १; सीदन्ति गी १,

२९; सीदतु मना १, १११^१.

१^१सस्मि मना २, १; व ४६१ : १६.

स(त्र>)त्र^{१६}- -त्रम् मना २,

८०^११^१; छाग २३ : १; ३; ९;

२४ : १२.

सत्र-मण्डप- -पम् शि २, १७.

सत्र-याग-पूर्व्य(ति-अ)नन्तर-

-रम्^१ नाप २.

सत्रा(त्र-अ)यण^{१५}- -णम् छां

८, ५, २.

१सदस्^{१६}- -दः नी २, १११^१; -दसि

कौ १, १.

सदस्य- -स्याः प्रा ३-४, १.

२सदस(पति)- -दसः मना १, ४५^१.

सद्यन्^{१६}- -द्य क १, २, १३.

सद्य-

सद्य-मुसल- -ले १संन्या २, ७३.

सादन^{१६}- -१^१नम् त्रिता ३, २८; व

४२९ : १०.

१^१सादन्य^१- -न्यम् व ४४१ :

२०; ४४७ : ४; ४५१ : १७;

४५४ : २३.

स^१-दक्षिण^१- -णम् नाप ४, ३८; शि

७, ११; -णाः गु २९.

सदम्^१ श्वे ४, २२१^१.

सदा^१ क १, ३, ५-८; श्वे ३, १३; गौ १,

१२; कै १, १; हं ४; आरु^१ ५; वृजा

६, ११; वृपू २, २१^१; मैत्रे २, ६^१;

शि ६, १३१; सदोम्^१ अ २.

सदा-काल- -लम् रुजा १, १९.

सदा-गति- -तिः अन्न ५, २५; २६.

सदा-चञ्चल-गात्र- -त्रः मं ३, १, ४.

सदा-चिन्मात्र-विग्रह- -हः ते ३,

७^१.

सदा-जात- -तौ यो १, ७५^१.

सदा-दीप्ति^१- -प्तिः मं २, २, ५;

आपू २.

१सदा(दा-आ)नन्द, न्दा^१- -न्दः

ससा ४; अध्या ११; -न्दम् वृपू ५,

२०; वृजा ८, ६; ते ३, ३२; वउ ५,

२९; -न्दा सार २८४ : १५^१;

-०न्दे तुल ७० : १५; -न्दे

अध्या ९.

२सदानन्द^{११}- -न्दः स ३७८ : १.

सदानन्दो(न्द-उ)पनिषद्-

-षदम् स ३७९ : २२.

a) कस. । b) =गोपीविशेष- । c) *र्थाः इति पा. ? यनि. शोषः द्र. (तु. राती., संटि.; वैतु. *र्थः इति सात.) । d) व्यु. ? =राक्षसविशेष- । e) व्यु. ? =यदुविशेष- । f) निसा. ? 'ससन्-> -स, मानस-> -सान्' इति द्विपदः शोषः द्र. (तु. अज्या.) । g) वैप १ यद्र. । h) =६स । i) मा १६, ८ । j) वा. क्विचि. द्र. । k) तैसं ३, ७, ११, १ । l) अ ८, ११, १० । m) तैआ १०, ६४, १^१ । n) ✓अस (भुवि) > १सत्-+त्रायण-(< ✓त्रायि < त्राय- < ✓त्रै) इति शं., रामा., गोपा. । o) मा १३, ८ । p) अ १, १८, ६ । q) अ २, २३, १ । r) अ १, ९१, २० । s) उप. =४दक्षिणा- । t) अ १, ११४, ८ । u) अ १, २२, २० । v) *दाका° इति अज्या. । w) तु. गपू. पृ १७३b । x) गपू. (पृ ३०५) सस्थ. 'चिन्मात्रविग्रह-> -हम्' इत्यत्र यनि. शोषः कर्तव्यः । y) सहजा° इति अज्या. (तु. उत्र.) । z) =सखीविशेष- । a') =ऋषिविशेष- ।

सदानन्द-मय- -ये वउ ५, ४५.
सदानन्द-रसा(स-आ)स्वादन-
-नम् अध्या २७.
सदानन्द-रूप- -पः काम १८;
-पेण अध्या ६७.
सदानन्द-स्वरूप-दर्शन- -नम्
निर्वा २९८ : २.

सदा-पुष्पित- -ताः सार २५४ : १.
सदा(दा-आ)भ्यास- -सेन नाद ४०.
सदा(दा-आ)मनस्क- -कम् आपू २.
सदा-मनोहारिन्- -रिणे सार
२६१ : २.

सदा-मुक्त- -कम् ते ६, ७०.
सदा-रासक्रीडा-प्रकर-गुण-गान-
कोवि(द>)दा^१- -दा सार
२६३ : १०.

सदा-वन-विहारिन्- -रिणे सार
२७७ : ३.

सदा-वृष^१- -धः व ४३७ : १९५^७.

सदा-शिव^१- -व हं २१; शु १,
११; -वः वृजा ७, ७, ८; मैत्रे ३,
६; काला १५; ते ३, ९; ५१; ६,
३७; ६४; त्रिभा २, १६; स्क ७^३;
रार २, ३१; योशि १, १७८; ५,
५६^९; अध्या ६९; त्रिता १, ३१;
३८; ४६; म १, ११^३; रुजा ३,
१; दत्ता १, २; ६; ३; वि १; शि
७, ४५; श्या ८; हंषो २; २२;
तारा ८३ : २५; अद्वैमा ३; -वम्
वृजा ८, ६; वृपू ५, २०; १योत
९९; जाद ६, ४७; ८, ६; वउ ५,
२९; -वाच व ४६३ : ९; वपू १, ३;
-वोम्^१ मना २, २१५^९; मर, १२.
सदाशिव-पुरुष- -षः गार
४०५ : २०.

सदाशिवे(व-ई)श्वर-रुद्र-विष्णु-
ब्रह्मन्- -ह्याणः योचू ७२.
सदा-शुभ- -भम् सार २२१ : १३.
सदा-संतोष- -षः आपू ६.
सदै(दा-ए)कता- -ता १संन्या २, ५७.
सदै(दा-ए)क-रस-रूप- -पः ते
३, ७.

सदो(दा-उ)ज्वल, ला- -लः वृउ २,
११; वउ १, १६; ५, ४२; -ला
विद्या ४.

सदो(दा-उ)दित, ता^१- -तम् नाद
१७; -ताम् त्रिता १, ७८; ८०;
२, २३; २५; -ते वउ ५, ४५.

स^१-दाम- -मम् वृ २, २, १.

स^१-दा(मन् >)स्त्री^१- -स्त्री व ४४३ :
२०५^१.

स^१-दासी-परिचारि(का>)क-
-कः शि ६, १६१.

स^१-दृश- -शाः ध्या ६४; योचू ३४;
राउ ५, २७; गी १६, १५; -शम्
ध्या ६५; योचू ३५; कुं २, २प्र
३५ : १०; गी ३, ३३; ४, ३८;
-शाः गौ २, ६; ४, ३१; इ १२ :
८; -शो गौ ४, ७९.
सदृशी- -शी ध्या ६४; योचू
३४; गी ११, १२.

सादृश्य- -श्यम् सांसू ५, ९४

?सादृश्यम्^१ नाद ५६.

स^१-देव- -वाः वृ ३, ९, १९^३.

स^१-देह- -हः अज ५, १८; -हाः महा
५, ४०.

सदेहा(ह-अ)देह- -हयोः अज १,
२५.

स^१-दोष- -षम् गी १८, ४८.

सद्वान्- $\sqrt{\text{सद}} \text{द्र.}$

सद्यस्(> :)^१ मना १, ४५^३; ते १, १९;
नाद ४०; महा २, ३७; अच १६;
दे २१; म १, ५^३; रुजा २, १८;
वरा २, १५; कलि ३^१.

सद्यः-कुमारिका-रूप- -पैः ते ६,
७९.

सद्यः-संयुक्त-चापल- -लः नाद
४३^३.

सद्यो-जात, ता^१- -तः महा ५,
१६०^१; नापू १, १०; सिशि ३८२ :
१०; -तम् मना २, १७५^९; म १,
५५^९; पं १^३; वपं ३११ : १५^९; -ता
ते ६, ९१; -तात् वृजा १, १; सिशि
३८१ : ७; -ताय मना २, १७५^९;
शु २, ५; -तेन वृजा ३, ३२; ४,
१; -तैः वउ ६, ४०^१.

सद्योजात-शिञ्जु-ज्ञान- -नम्
अज ३, १६.

सद्योजाता(त-आ)दि- -दिभिः
वि १०; -दीन् सिशि ३८१ : २४.

सद्योजातादि-पञ्च-ब्रह्म-
मन्त्र- -न्त्रैः वृजा ७, १; काला
६^१; जाबा १५.

सद्योजातादि-पूर्वक- -कम्^१
पं २१

सद्यो(यस्-उ)त्पन्न-पञ्च-महापातक-
-कात् सू ३०.

सद्यो-दर्शन- -नम् सार २४४ : ६;
२४८ : १०.

सद्यो-मुक्त- -क्ताः वरा ४, ३४.

सद्यो-मुक्ति-प्रद- -दः वरा ४, ४२.

सद्य^१-

सद्य-स्थ- -स्थम् नापू ४, ५५^९;
-ऽ^१स्थात् मना २, १; व ४६१ :
१४.

a) वैपश् यद्र. । b) ऋ ४, ३१, १। c) °दाच्युतः इति अज्या. । d) तु. गपू. पृ १७३ b । e) तैश्चा १०,
४७, १। f) लप. = १उदित- । g) = ६स । h) = अमितनूविशेष- । i) तैश्चा ४, २३, १। j) = ५स । k) पा. ? 'अपि
दृश्यम्' इति द्विपदः शोधः द्र. । l) अन्व. वैपश् यद्र. । m) मा ३२, १२ । n) °लम् इति अज्या. । o) विप. वा
नाप. (= शिव-) वा । p) °ताम° इति निसा. ? यनि. च अम° इति च द्विपदः शोधः द्र. । q) तैश्चा १०, ४३, १।
r) = सद्योजातादिमन्त्रैः । s) सद्यादिपञ्च° इति ज. c. । t) वा. क्रिवि. द्र. । u) ऋ १, १५४, १। v) शौ ७, ६५, १।

स^१-धनुश-शूलक-तर्जनी-
-नीः व ४२६ : १०.
स^१-धनुष-पाणि- -णिना रापू ४,
१०.
स^१-धर्म-
साधर्म्य- -र्म्यम् सांसू १, १२८;
गी १४,२; -र्म्यात् सांका २७.
स^१-धूम- -मे शि ४,४८.
✓सन्, सनेम्^० मना २,५०^१.
सनि- -नये वृ २, ५, १६^०; -निम्
मना १,४^१.
सनक^१-
सनक-सनन्दन-कपिल-नारदा-
(द-आ)दि-ब्रह्म-निष्ठ- -द्याः
म ४९ : ८.
सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-सनत्-
सुजात- -तान् नाप ४,२८^१.
सनक-सनन्दन-सनत्सुजात-सनत्-
कुमार-सनातन-नारद-सुम्बुरू-
समन्ता(न्त-आ)दि- -दयः नापू
६, ७.
सनका(क-आ)दि- -दयः तुल ७१ :
२२; सार २१९:१; २४९:२०;
-दिना सार २४३ : ६; -दिभिः
नापू ४,२५.
सनकादि-महायोगि-वेद-
विद्- -विक्रिः वपू १,५.
सनकादि-मुनी(नि-ई)डित-
-तम् सौ २,१०.
सनका(क-आ)घ- -द्याः ते १,४७;
रार १,२; २-५,१; छैः सु१,१,२.
सनग^१- -गाः, -गात् वृ २, ६,३; ४,
६,३.

सनत्^१ नाउ. औप. द्र.
सनत्-कुमार^१- -रः छां ७,२६,२;
हं २^१; अ १; वृजा ७,८; काला
३; ११; रुजा ३,१; जाबा १९;
सूता १,-२,१; ऊ ६३ : १; नापू
१,१; तारा ८४:७; -रम् छां ७,
१,१; गार ४०७ : १२.
सनत्-सुजात^१-
सनत्सुजाता(त-आ)दि-सना-
तना(न-आ)घ- -घैः श १९.
सनन्दन^१-
सनन्दना(न-आ)चार्य- -र्यः सांसू
६, ६९.
स^१-नवक- -कम् गर्भ ५^३.
सना^१
१सना-तन- -नः क२,३,१; मैत्रे ३,
११; ते ३,३५; ५,८; ६१; ६२;
ब्रवि १०५; रह १३; म १, ८;
गोउ ३५; नापू ५,२८; नाउ १,
२१; भव २,४०; गी २,२४; ८,
२०; ११, १८; १५,७; -नम् क
१,३,१६; २, २,६; मै ४,४,३;
मैत्रि ६,३४; मैत्रे १,४,५; कै १,
९; गर्भ ४^०; ते ३,३२; ६,३१;
नाप ३,१७; ५१; त्रिवि ५,१२;
शां ३, ४; पै १, ३; महा ४,
७१; ५, ५०; अन्न ४, २९; करु
२३; रह २६; ३७; शा ३; ५;
३०; ३३; गी ४, ३१; ७, १०;
-नाः शि १, ५; गी १, ४०; -नैः
भव २, ६१.
सनातनी- -नी सर ३, ११^०;
-नीम् अन्न १, ३^१; व ४३३:४.

स^१सनात्^१ मना २,२१; व ४६१:१६.
२सनातन^१- -नः, -नात् वृ २, ६,३.
स^१-नामधेय- -यः कुं ५.
सनाह^१- -रुः, -रोः वृ२, ६,३; ४, ६, ३.
स^१-नाल- -लम् त्रिवा २, ७.
स^१-निगर्भ- -भम् त्रिता २, ५९^१.
स^१-निधि- -धीनाम् वउ २, ७.
स^१-निमित्त-
सनिमित्त-त्व- -त्वम् गौ ४, २४; २५
स^१-निर्वाण- -णम् गौ ३, ४७.
?सनिष्ठा^१ द १५.
स^१-नी(ङ>)ल- -लाः व ४३७ :
११^१.
सं-तत- नाउ. द्र.
सं/तन्
स^१-तत- -तम् ब्रवि २०; नुउ ७,
९; काला२०; ते १, २३; ६, ६५;
६६; नाद २१; ध्या ५४; ७४;
नाप ५, ३४; त्रिवा २, २६; २९;
योचू २२; ४७; द ८; श ३६;
रार २, ३८; शां १, ७, ३८; ४५;
३, ४; महा ४, ५; १९; २६; २अव
३३७ : ४; योशि १, ७२; ११५;
६, ४७; अन्न ४, ४८; अक्षि ५;
६; सावि १०; पाशु २, २०; २१;
दे ३; यो १, ५०; जाद ६, २५;
कृ ७; गोपू २९^१; ३३^१; सु२, २,
२९; इ १५:११; सु २९४:२२;
शि १, २१; ३, १३; ६, १६२; ७,
२; १५; १३८; गी३, १९; ६, १०;
८, १४; ९, १४; १२, १४; १७,
२४; १८, ५७; मत्र ४, ३; पित्र
५, ४; अवि २०.

a) =६स । b) =५स । c) 'सनेयम्' इत्यत्र अमो मश् आदेशः इति भा. (तैत्रा.) । d) तैत्रा १, २, १,
१५ । e) ऋ १, ११६, १२ । f) ऋ १, १८, ६ । g) व्यु. ? =ऋषिविशेष- । h) °नसनातनसन° इति श्रव्या. ।
i) =सनात् । j) =ऋषिविशेष- । k) 'सनत्सुजातः' इति आन. । l) व्यु. ? =आचार्यविशेष- । m) 'नवस्नायुस्ततम्'
इति श्रव्या. । n) अव्य. वैप १ यद्र. । o) 'महेश्वरम्' इति आन., श्रव्या. । p) °ना इति श्रव्या. संटि. । q) °नाम्
इति श्रव्या. । r) ऋ ८, ११, १० । s) °निर्ग° इति श्रव्या. संटि. । t) निसा? 'सा निष्ठा' इति द्विपदः शोधः द्र.
(तु. श्रव्या.) । u) ऋ १०, १०१, १ । v) समो वा म-लोपः (पावा ६, १, १४४) । w) द्वि१. सत् वा. क्वि. द्र. ।
x) °तम° इति श्रव्या. संटि. ।

सतत-नन्न- -न्नः शि ७,६७.
 सतत-युक्त- -क्ताः गी १२,१;
 -कानाम् गी १०,१०.
 सं-तत,ता- -तम् मना २, १३,
 २९^b; कौ २,५; त्रिब्रा २,११९;
 त्रिवि ७,१९;५०; महा १,१९^०;
 योशि २,१०; जाद १,१६; सौ
 १,१; -न्ता प्र २,१२; -न्ताः ऐ ४,
 ३; मना २, १३,२९^०; -न्तानि सुं
 १,२,१.
 संतत-ज्वर- -रम् व ४३३:२१.
 संतत-भाव- -वः आवो ९^d.
 संतत-सौख्य-हेतु- -तुम् हे १४.
 संतता(त-अ)क्षि-कमण्डलु-
 -लुम्(श्लुः^०) निर्वा २९८:११.
 संतता(त-अ)भ्यास-योग-
 संतताभ्यासयोग-तस(>):
 १योत ७५;८०; योशि १,१२५.
 संतता(त-अ)मृत-पुष्प-वृष्टि-
 -ष्टिभिः त्रिवि ६,२३; सि ६,३४.
 सं-तति- -तिः भव ३, २९; -त्यै ऐ
 ४, ३.
 सं-तान- -नः तै १,२,१.
 संतान-ज- -जाः १संन्या २,८.
 सं/तप्, >तापि, संतापयति मना २,
 १३,२९^b; नि ४६.
 सं-तपत्- -पन् वृ २,११९^f.
 सं-न्त(त>)सा- -सा योशि १,८५;
 यो १,४५;६६.
 सं-ताप-
 संताप-वेदिन्- -दिभिः शि ७,
 ८५.
 सं-तापन^१-
 संतापन-बाण- -णाय व
 ४५७:२.

सं-तमस- -से पित्र १,४.
 सं/तुप्, >तोषि, संतुष्ट^h अल्ला २^f.
 सं-तुष्ट- -ष्टः महा ४,३६; ३७; वि
 २; गी ३,१७; १२,१४;१९.
 सं-तुष्टि- -ष्टिः त्रिब्रा २,३३.
 सं-तोष- -षः गर्भ ५¹; ते ५,७९; नाप
 ३,२१; शां १,२९¹; महा ४,२;
 शारी १; -षम् मैत्रि ६,२९; जाद
 २,१;५; ६; वरा ५,१३; शि ७,
 १००; -पाव योसू २,४२; -षैः
 शि १, २६¹.
 संतोषलाभसमस्तगुण^१- -णः
 अद्वै २५.
 संतोष-संयुत- -तः ब्रवि २८.
 संतोष-सुखा(ख-आ)सन- -नः
 ते ५,६४.
 संतोषा(ष-अ)मृत-पान- -नेन
 महा ४,३५.
 संतोषा(ष-आ)मोद-मञ्जु(र>)-
 रा- -रा अह्नि २७.
 सं-तोष्य तारा ८३: २३.
 सं/तृद्
 सं-तृष्ण, णा- -णा, -णानि छां २,
 २३,३.
 सं/तृप्, >तर्पि
 सं-तर्पयित्वा¹ शि ६,१९७.
 सं-तर्प्य सुसु ९; १६; १८; वउ ६,
 २२.
 सं-तृप्त- -प्तः अन्न ४,३; वरा ३,२८.
 सं-तृप्ति- -प्तिः १संन्या २,४६.
 सं/तृ, >तारि, संतरति नाप ६,२५;
 संतरेयम् कलि १.
 संतरिष्यसि गी ४,३६.
 संतारयति अ २; अता ३; राउ
 १,२.

सं/त्यज्, संत्यजसि महा ६, ३५;
 संत्यज ते ६, १०३; संत्यजेत् वृजा
 ३,२४; नाप ६,३५; यो ३,३;
 ४; शि ७,६२.
 संत्यज्यते अन्न १,४४.
 सं-त्यक्त,क्ता- -क्तम् अन्न १,४५;
 -क्त्या महा ५,९४; -क्ता महा २,
 ५३.
 संत्यक्त-वास(ना>)न- -नात् सु
 २,२,२१.
 सं-त्यक्त्वा¹ नाद ५४; कुं ७^m.
 सं-त्यजत्- -जतः महा ५,६२; -जन्
 अध्या १८.
 सं-त्यज्य महा ३,९; ५,९६; ६,२०;
 ५२; तुअ ९; अन्न १,४६; ४,
 ७४; ५,३४; ६९; शि ७,१२७.
 सं/त्रै, संत्रायते दे १८.
 सं/दंश्
 सं-दंश्य कुं १८^m.
 सं-दंश^१- -शम् शि ६,२३२.
 सं-दधान- सं/धा ६.
 सं-दर्पण- सं/दृप् ६.
 सं-दर्शन- सं/दृष्य ६.
 सं/दृह्, संदहति वृ ५,१४,८; गार ८.
 सं-दृग्ध्वा¹ सुवा २.
 सं/दा(दाने), संददातु मना २, ६३^{१०};
 ६४^{१०}.
 सं/दिह्
 सं-दिग्ध,ग्धा- -ग्धः नाप ४,३६;
 -ग्धायाम् सु २,२,९.
 १सं-देह^{१०}- -हः छां ५, १५, २^३;
 १८,२.
 २सं-देह^{१०}- -हः ते ६, ३९; १०७;
 महा ५,१८६; योशि ६,२६; अन्न
 ५,९०; -हम् ते ३,७४.

a) क्वचित् वा. क्वि. द्र. । b) तैत्र्या १०, ११, २ । c) °तस्यै इति निसा., अख्या. पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. तैत्र्या १०, ११, २) । d) °तः भा° इति अख्या. । e) पा.१ यनि. शोधः द्र. । f) तैत्र्या ३, १०, १, २ । g) तु. गप्. पृ४१०p । h) लोटि मपु३ । i) °षम् इति अख्या. । j) उपमानाध्यवसायनिष्पन्नं बहुत्वं द्र. । k) वा.१ । l) पा ७, १, ३८ । m) 'स्यक्त्वा' इति अख्या. । n) °दृश्य इति अख्या. । o) पा.१ (तु. तैत्र्या १०, ६३) यनि. शोधः द्र. । p) तैत्र्या १०, ६४ । q) =शरीर- । r) =संशय- ।

सं-देह^{१०}—-ह्ये वृ ४, ४, १३.
 सं/दीप्, संदीप्यन्ते सार २३७ : ७.
 सं-दीपन^०—
 संदीपन-बाण— -णाय व
 ४५७ : १.
 सं-दीप्त— -सम् वृ ६, ३, ४.
 सं/दृप्
 सं-दर्पण— -णाय पा ३, ३.
 सं/दृभ्
 सं-दृढ्य— -द्वानि वृ ३, ७, १; २^३.
 सं/दृश्, संदृश्यते त्रिवि १, ११^३; सार
 २५७ : १०; भव २, ५६; सं-
 दृश्यन्ते गी ११, २७.
 सं-दर्शन—
 संदर्शन(न-अ)भाव— -वात् महा
 ५, १७^०.
 १^०सं-दृश्— -दृशो क २, ३, ९; श्वे ४,
 २०; मना १, ३; त्रिवि ६, १४;
 पं १९; गु ६३.
 सं-दृश्य राप् ४, १९.
 १-२संदेह— सं/दिह् द्र.
 सं/धा, संधसे ब्र ३, १४; १संन्या १,
 १^३; कभ्रु १, १^३; संदधाति छां
 ४, १७, ४-६; संदधामि ऐ कौ
 नाद आबो निर्वा मुद्र अक्ष सौ सर
 व शां^{१०}; संधचाम् अ २; स-
 मधत्त पा८, ८; संदध्यात् छां४,
 १७, ७१^३; वृत् ३, ९; ४, ४; निरु
 १, ३.
 संधीयते तै १, ३, ४.
 सं-हि(त>)ता^{११}— -ता ग ८; -तायाः
 तै १, ३, १; -तायाम् इ १९ :
 १८; गु ५.
 संहिता(त-आ)त्मन्— -स्मनाम्
 कुं ६^६.

संहिता-मन्त्र-मन्त्रि(त>)ता—
 -ताम् वृजा ४, १.
 सं-इधान— -नः पा ३, ८; ९; ४, ६;
 ५, ५; -नाय पा ५, ३.
 सं-(ध>)धा— -धाः कौ ३, १.
 सं-धातृ— -ता मना २, ७९^{१०}.
 सं-धान— -नम् तै १, ३, २^३-३^३; ४;
 पत्र २; ग ८.
 सं-धाय वृ ६, ४, ९-११; २१; नाद
 ३१; रार २, ७२.
 सं-धि— -धिः तै १, ३, १; २; ३^३; ४;
 छां १, ३, ३; जा २^३; ते ६, २४^१;
 राउ ३, १^३; १संन्या २, ८७; ग
 ८; -धिमू क १, १, १७; जा २;
 आरु २; अना ३२; त्रिवि ६, २३;
 राउ ३, १; जाद ४, ४२; ६, ३९;
 -धौ मैत्रे २, १७; त्रिवि ६, १९;
 -धौ-धौ वि १७.
 √संधि, संधयति ब्र १^३; सं-
 धयीत मुं २, २, ३^६; संधयेत्
 ब्रवि ७; अवि ७.
 संधि(त्>)नी— -नी ब्र ३, १५;
 -नीम् वृजा ३, ११^{११}.
 संधि-शत— -तम् गर्भ ५; निरु
 २, १.
 संधि-संधि— -धिषु ध्या ९३,
 १०.
 १संध्य— -ध्यम् वृ ४, ३, ९; -ध्ये
 वृ ४, ३, ९; ब्रम् ३, २, १.
 संध्या^{१२}— -ध्ययोः नाप
 ४, १९; शां १, ७, ४६; जाद
 ६, २१; -ध्या पहं ५; ब्र ३, १५;
 -ध्याः १योत १३४; २योत १, ६;
 वपं ३१२ : २०; शि ७, ५९;
 -ध्यासु गोप् १८; -ध्ये गार

४०८ : ७.
 संध्या-काल— -लेषु
 त्रिभा २, १०९; शां १, ७, ४४.
 संध्या-त्रय— -ये शि
 ५, १७.
 संध्या-दिन-रात्रि—
 -त्रयः अक्ष ४, २२.
 संध्या-द्वय— -ये वृजा
 ४, ५.
 संध्य-वत् ब्रम् ४, ४, १३.
 संध्य(धि-अ)क्षर— -रम् २प्र३५ :
 १६.
 सं-धु— -धुः पा ४, ६.
 संधु-क्षण— -णानाम् पा ४, ६.
 सं-धुस्य— -धुषे पा ३, ७.
 १स^{१३}-हित, ता— -तः शु ३, २२; नाप
 ६, २२; राप् ४, ७; कुं ७१^०;
 गोल २८; शि २, ३१; -तायाः
 सार २३४ : १९.
 २स^{१४}-हित^{१४}— -तः शां १, ७, १४^३;
 योशि १, ८८; यो १, २०; -तम्
 शां १, ७, १४; यो १, २०.
 सहित-कुम्भक— -कः यो १,
 २१.
 सं/धृ>धादि, संधारयेत् तु ५^०;
 योशि ५, ५०; ६, ७.
 सं-धार्य— -र्यम् ब्र ३, ४^६.
 सं/ध्या>धम्, सम्^{१५}...धमति श्वे
 ३, ३१^६.
 सं/घ्यै>ध्या
 २सं-(व्य>)ध्या^{१६}— -ध्या ब्र ३, १४;
 ते ४, १२; पाशु २, २; गार ४०६;
 १५; १६; १९; २१; -ध्याम् जा २;
 वृजा ७, ८; मैत्रे २, १३; १४;
 राउ ३, १; भ २, २; शि ७, ९२.

a) =शरीर—। 'संदेहे' इति आन. संटि., Jc.। b) तु. गप्. वृ४१०p। c) चिरसं^० इति अख्या.।
 d) तैआ १०, १, ३। e) ऐआ २, ७, १। f) जैउ ३, ४, ३, ३। g) 'सहतेऽचिमान्' इति अख्या.। h) तैआ १०,
 ६३, १। i) पा.३ 'संध्या' इति शोधः द्र.। j) 'संधय' इति आन.। k) 'संधीयते' इति आन. संटि.। l) =वृषस्थन्ती—
 (=यो—)। m) =कालविज्ञेय—। n) समो वा म-लोपः (पावा ६, १, १४४)। o) 'आसक्तः' इति निसा.१ यनि. शोधः
 द्र. (तु. अख्या.)। p) =कुम्भकप्राणायाम-भेद—। q) संचा^० इति आन.। r) 'धार्यम्' इति निसा.। s) ऋ १०, ८१, २।

सं/ध्यै>

सांध्य- -ध्यम् भव १, ५८.
 संध्या-कर्मन्- -र्म्म वि ९.
 संध्या-क्रिया- -या पाशु १,
 १८.
 संध्या(ध्या-अ)भिवन्दन- -नम्
 ब्र ३, १४.
 संध्या-विद्या- -द्ये मना २,
 ३४^६.
 संध्यो(ध्या-उ)पासन-काल-
 संस्कार- -रैः सार २३१:१७.
 सं/नम्, ऽसम्...नमति मना १,
 ३; त्रिवि ६, १३; रु १३; २शिसं
 २६; संनमन्ते कौ २, ६.
 सं-नत-
 संनता(त-अ)ङ्ग- -ङ्गः म २, २७.
 सं-नति^{१६}- -तिः सौ १, ३.
 सं-नय^०- -यम् वृ १, ५, १७.
 सं-नि/कृष्
 संनि-कथं- -र्थात् नाप ३, ५८.
 संनि-कृष्य(तृ>)न्ती- -न्ती सार
 २६५:१८.
 सं-नि/गच्छ, संनिगच्छति वृ २,
 १, ९.
 सं-नि/घ्रा, संनिघत्ते प्र १, ६^३; ३, ४.
 संनि-घान- -नात् योशि २, १०;
 -नेन रा ४२४:१६.
 संनि-घाय सुं २, २, ७; ध्या ६९;
 योचू ४०; त्रिता १, ८०.
 संनि-धि-
 सांनिध्य- -ध्यम् वि २०;
 शि ७, ३^३; -ध्ये नाप ३, ६८.
 सांनिध्य-वश-
 सांनिध्यवश-तस
 (>:) विद्या १.
 संनिधि-मात्र-
 संनिधिमात्र-तस(>:) महा
 ४, १४.

संनि-हित- -तः राउ ३, ५; -तम्
 सुं २, २, १.
 सं-नि/पत्
 संनि-पात^{१६}-
 सांनिपातिक^{१६}- -कम् व ४३३:
 २०.
 सं-नि/यम्(यमने)
 संनि-यस्य नाप ३, ३६; गी १२, ४.
 सं-नि/युज्, संनियुङ्क्ते गु ७२.
 सं-नि/रुष्
 संनि-रुद्ध- -द्धः श्वे ४, ९; नाप ५,
 २७; गु ५४; -द्धम् ब्रविष्ठ; अविष्ठ.
 संनि-रुध्य श्वेता २, ८; योचू १०७;
 त्रिता ५, ४^१.
 सं-नि/विश्व, संनिविश्यताम् सर ३,
 ४^६.
 संनि-विष्ट, ष्टा- -ष्टः क २, ३, १७; श्वे
 ३, १३; ४, १७; ६, १५; मै ५,
 ७^{१६}; मैत्रि ६, ७; शां ३, १; गी
 १५, १५; -ष्टा गु ६०; -ष्टा: त्रि १.
 संनि-वेश- -शम् महा ५, १५५.
 संनि-वेश्य म २, २८; भव ३, २५.
 सं/नी, संनयति ब्र १.
 सं-नीय वृ ६, ३, १; ४, २४; २५.
 सं-न्य(नि/अ)स्(नेपयो), संन्यसति
 शा ३०; कश्रु १, १^३; संन्यसेव
 जा ५; मैत्रे २, १९; २०; नाप
 ३, ५; ९; ११; १४; १६; २३; पप
 ४१८:१७; भव १, १.
 संन्यस्यति नाप ५, १^३; १संन्या
 १, १^३; २, १३^३.
 संन्य(नि-अ)सन^{१०}- -नात् भव १,
 ५२; गी ३, ४.
 संन्य(नि-अ)स्त- -स्तः नाप ३, ३;
 ५, १; १संन्या १, १^३; २, १३;
 कुं ५^३; कश्रु १, १^३; -स्तम् आर
 ३^३; नाप ४, ३८^३; १संन्या २,

६; ७; पप ४१८:२५^३; २६; या
 १, १; शा ३२; -स्ता: नाप ३,
 १; १संन्या २, ३.
 संन्यस्त-पुष्प- -पशा: शा ११.
 संन्यस्त-सर्व-संकल्प- -ल्पः
 अत्र ५, ४७.
 संन्यस्त-सर्वे(र्व-इ)न्द्रिय-
 वर्ग- -र्गः मं ३, २, १.
 संन्य(नि-अ)स्तुम् नाप २; १संन्या
 २, १^३; ३; पत्र ३, १३^३.
 संन्य(नि-अ)स्य पहं १; नाप ३,
 ८६^३; ४, ३८; ५, १^३; तुभ ८;
 १संन्या २, १३; कुं ९; क १;
 कश्रु ३, १; गी ३, ३०; ५, १३;
 १२, ६; १८, ५७.
 संन्या(नि-अ)स^{१०}- -सः मैत्रे २,
 १७^३; नाप ३, १; ८; ५, १^३; ६, २०;
 १संन्या २, १३; पप ४१८:२९;
 क १; लिं ३१०:५; गुषो
 ४२१:८; पी ४२२:२०; कश्रु
 १, १; २, ३; गी ५, २; ६; १८, ७;
 -सम् जा ४; नाप ३, ४; १२;
 निर्वा २९८:१६; १संन्या २,
 २; ४-६; कुं ६; या १, १; गी
 ५, १; ६, २; १८, २; -सस्य गी
 १८, १; -सा: -सात् नाप ५, १;
 -से मैत्रे २, १८; नाप ३, ५;
 १संन्या २, १; -सेन जा ६; नाप
 ३, ८६; मि १६; पप ४१९:१९;
 या २, १; गी १८, ४९.
 संन्यास-काल- -ले नाप ५, १.
 संन्यास-ग्रहण- -णम् म ४८:
 ११; १६; २१; ४९:६; १२; २०.
 संन्यास-धर्म- -र्म्मात् सार,
 २३६:३.
 संन्यास-भेद- -दैः नाप ५, १.
 संन्यास-योग- -ऽगात् सुं ३, २,

a) वैतु. उत्र. पूष. <सं/घ्रा इति। b) तैत्र्याया १०, ३४। c) 'सुम्...धमति' इति ऋ १०, ८१, ३।
 d) =शक्तिविशेष-। e) बस. (वैतु. शं. प्रभृ. अन्यथाकल्पुकाः)। f) °रुद्धम् इति अख्या.। g) °वे° इति अख्या.।
 h) °निष्ठाः इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.)। i) तैत्र्या १०, १०, ३।

६; कै १,४; मना २,१२,३; भव
३, ३३; -गेन १संन्या २, ८९.
संन्यासयोग-युक्ता(क्त-आ)-
त्मन्- -स्मा अन्न ५, ४७; गी
९, २८.
संन्यास-लक्षण- -णम् नाप ३,
१६; या १, १.
संन्यास-विघ्न-कर्तृ- -र्ता
१संन्या २, २.
संन्यास-विधि- -धि: नाप ३, १;
५, १; -धिम् नाप २; ४, ३८.
संन्यासा(स-अ)धिकारिन्-
-रिणम्, -री नाप ३, १.
संन्यासा(स-अ)नन्तर- -रम्
मैत्रे २, ११.
संन्यासा(स-अ)र्ह- -र्हा: नाप
३, १; १संन्या २, ३.
संन्यासो(स-उ)पनिषद्-
-षदम् १संन्या १, १.
संन्या(नि-आ)सिन्- -सिन: १संन्या
२, ५९^६; या २, २; सार २९१:१८;
-सिनम् १संन्या २, ६; -सिनाम्
नाप ५, १; भव १, ५८; गी १८,
१२; -सी मैत्रि ६, १०^३; जा ५;
नि १; २; ५२; ५५; नाप १; मं
५, १, ९; या २, १; नाउ ३, १३;
सार २९०:१०; गुषो ४२१:४;
पी ४२२: १९; तारा ८३: ७;
गी ६, १.
संन्यासि-योगिन्- -गिनौ महा
६, ४८.
संन्यासाप्रसवैकम्: ^b अक्षि २८.
स^a-पङ्क्ति- -ङ्क्ति: इ १३: १३.
स^a-पत्तन- -न: रापू ५, ९०.
सपत्न^a- -न: वृ १, ५, १२^३; -न्या: तै
३, १०, ४; -न्यान् मना २, ७९^७;

सूता ३, १०^७; गी ११, ३४.
सपत्ना(न-अ)तिव्याधिन्- -धिनौ
वृ ३, ८, २.
√सपर>सपर्य^a
सपर्य>र्या^a- -र्या गु २५; ७९.
स^a-परशु-हरिण- -णम् द ५.
स^a-परा(ग>)गा- -नाम् त्रिता १,
७७.
स^a-परा(र-अ)पर-रहस्य- -स्यम्
त्रिता २, ६३.
स^a-परिवार, रा- -रव ४३८:१२;
४३९: ९; १९; ४४०: ६; १७;
४४१: ४; १५; ४४२: २; १३;
२३; ४४३: ११; -र: व४४४: २;
१२; २२; ४४५: ११; २०; ४४६:
९; १९; ४४७: ७; १८; ४४८:
६; १८; -रम् वृउ ३, ९; -राम् शि
६, १२२.
सपरिवार-क- -कस्य व ४३८:१३;
२३; ४३९: १०; २०; ४४०: ७;
१७; ४४१: ५, १५; ४४२: ३;
१४; ४४३: १; १०; ४४४: ५;
१५; ४४५: २; १३; २३; ४४६:
१२; २२; ४४७: १०; २१; ४४८:
९; २०; ४४९: १६; २३; ४५०:
७; १४; २१; ४५१: ७; १४; २१;
४५२: ६; १४; २१.
स^a-परिश्रय- -य: वृ ६, ४, २३.
स^a-पर्वत, ता- -तम् त्रिता १, २९;
-ताम् वृपू १, ३; वपू १, ६.
स^a-पात्र- -त्रम् कौ २, १५.
स^a-पाद-
सपाद-कोटि-योजन-प्रमाण-
-णम् त्रिवि ६, ४.
स^a-पार्ष्णिक्- -कम् वपू २, २.
स^a-पिष्ट- -ष्टान् मना २, ६३^७।

स^a-पुष्पा(ष्य-अ)क्षत-तोय-येन
शि ६, ७६.
सप्तन्^k- -स सुं १, २, ४; २, १, ८^५; वृ १,
५, १; २; २, २, १-३; गर्भ ५; मना
२, १२, १^७; २^७; वृपू ४, १५,
१५; वृजा ४, २६; सुबा १; नाप
४, २४; मुद्र १, ६^७; रापू ४, २३;
-स-स सुं २, १, ८; -सभि: शौ
५३: १९; २०; शि ७, १४०; सांसू
३, ७३; सांका ६३.
सप्त-ऋषि- -षय: अह्ला २, ८^३; ९^१.
सप्त-क- -कम् रुजा १, १८.
सप्त-कला-
सप्तकला-मय- -यम् चक्र ८.
सप्त-कोटि-परि-सहस्र-परिमित-
-ता: राधा १, ८.
सप्त-कोटि-महामन्त्र- -न्त्रम् ते ३,
७३.
सप्त-कोटि-योजन-विस्तीर्ण-
-र्ण: राधा १, ११.
सप्त-चक्र- -क्रे प्र १, ११.
सप्त-चत्वारिंशत्- -शक्ति: रार २,
९२.
सप्तचत्वारिंश- -शे अक्ष ५.
सप्तचत्वारिंशद्-चर्ण-गुणा-
(ण-अ)न्त- -न्त: रापू ४, ६४^०.
सप्तचत्वारिंशान्-मन्त्र- -न्त्रै:
राउ ५, १.
सप्त-जन्म-कृत- -ताव इ १८: २२.
सप्त-जन्मा(न्म-अ)जित- -तम्
त्रिभा २, १४८.
सप्तवि^k- -स्याम् सांका ७२.
सप्त-त्रिंशत्-
सप्तत्रिंश- -शे अक्ष ५.
सप्त-दशान्- -श सांका ४९; -शभि:
शारी ५.

a) ०न्यासे इति अख्या. । b) निसा! 'अन्यासां प्रसवैकम्->-भू:' इति शोध: द. (तु. अख्या.) ।

c) =५स । d) =६स । e) 'सप्तपत्तनज:' इति आन. । f) =शत्रु- । वैप १ यद्र. । g) तैत्र्या १०, ६३, १ । h) तैत्र्या ३,
७, ६, २१ । i) पा ३, १, २७ । j) तैत्र्या १०, ६३ । k) वैप १ यद्र. । l) तैत्र्या १०, १०, १^५ । m) ऋ ४, ५८, ३ ।
n) ऋ १०, ९०, १५ । o) ०शदर्श: गुणा ० इति आन. ।

सप्तदश- -शः मैत्रि ७, ३; छाग
२३: १३; २४: १५; -शम् २३
३२: १५; गार ४०७: ८; १४.
-शे अत् ५.

सप्तदशी- -शीम् त्रिता १,
८२.

सप्तदशा(श-अ)क्षर- -रः रार
२, ६२.

सप्तदशै(श-ए)क- -कम् सांसू
३, ९.

सप्त-दिन- -ने यो २, ३०.

सप्त-द्वारा(र-अ)वकी(र्षी>)र्णां-
-र्णांम् नाप ३, ४३.

१सप्त-द्वीप^a-

सप्तद्वीप-व(त्>)ती- -ती वृजा
६, १२; वृपू ५, १०; रुजा ३, १.

सप्तद्वीपा(प-अ)धिप- -पः वपू
१, ६.

२सप्त-द्वीप^b-

सप्तद्वीपा- -पाम् वृपू १, ३;
वपू १, ६.

सप्त-द्वीप-समु(द्र>)द्रा- -द्रायाः
शि ६, ९४.

सप्त-धा छां ७, २६, २; रार २, ३९;
योसू २, २७.

१सप्त-धातु^a-

सप्तधातु-क- -कम् गर्भे २.

सप्तधातु-मय- -यः योशि १,
४०; -यम् योशि १, ५६.

२सप्त-धातु^b- -तुम् गर्भे १.

सप्त-धामन्- -मभिः नापू ३, ५९^o.

सप्त-प(द>)दा- -दा महा ५, १^३;
-दाम् महा ५, २१.

सप्त-धुरी- -र्यैः गोड १९^३.

सप्त-प्रणव- -वेन वृजा ४, १.

सप्तप्रणव-मन्त्रित- -तम् वृजा
३, ३०.

१सप्त-भूमि^a- -मिषु वरा ४, १; सार
२७४: ८.

साप्तभूमिक- -कम् महा ५, २३.

२सप्त-भूमि^b- -मिः महा ५, ४३.

सप्त-म- -मः हं १६; तु ९^१; नापू
१, ६; ५, ७; -मम् वृपू २, ६; त्रिता
२, ६१; त्रि ९; यो १, ६०; दत्ता
१, ६; सौ ३, १; योरा १५; इ
१४: १९; ऊ ६४: ७; नापू ६, ४;
गार ४०७: ६; ११; -मात् सुं १,
२, ३^१; अशि ७, ७; महा ६,
८३^१; च २१: १३; शि ४, ३१;

-मे हं १९; गर्भे ३; अक्ष ५;
त्रिता १, ६६; निरु १, १३; म
४९: १८; सूता ५, १०; राधा
२, ५; -मेन पिं १३.

सप्तमी- -मी नाद १०; नाप
८, १; महा ५, २५; अन्न ५, ८५;
८६; ८९; अक्षि ४१; त्रिता ३,
१०; वरा ४, १^३; २; १६; -मीम्
महा ५, ३६^६; अक्षि ४०; गोड
२६; -म्याम् नाद १५; रा ४२५:
५; वड ६, ४३.

सप्तमी-रूप- -पः पारा
१८.

सप्तम-चक्रे(क-ई)श्वरी- -री
आथ ३९८: १५.

सप्तम-भूमि- -म्याम् वरा ४, १.

सप्तम-श्रेणि- -ण्याम् सार २७०:
१२.

सप्तमा(म-अ)क्षर- -रः ता २, १.

सप्तमा(म-आ)वरण- -णम् सार
२८४: ९.

सप्तमा(म-अ)क्षर- -रः ता २, १.

सप्तमा(म-आ)वरण- -णम् सार
२८४: ९.

सप्तमा(म-अ)क्षर- -रः ता २, १.

सप्तमा(म-आ)वरण- -णम् सार
२८४: ९.

सप्तमा(म-अ)क्षर- -रः ता २, १.

सप्तमा(म-आ)वरण- -णम् सार
२८४: ९.

सप्त-मातृ^h- -तरः सूता ५, १२.

सप्त-माला(ला-अ)धिदैवत- -तम्
रुजा २, ८.

सप्त-रात्र- -त्रम् पप ४१९: १३;
मि ६; -त्रात् निरु १, ९.

सप्तरात्रो(त्र-उ)धित- -तम् गर्भे
३.

सप्त-रात्रिⁱ- -त्रौ व ४५९: ५.

सप्त-रूप-विनिवृ(त>)त्ता- -त्ताम्
सांका ६५.

सप्त(स-अ)र्तु-सप्तदश-षड्-रुद्र-
सं(ख्या>)ख्य- -ख्यैः रार २,
९३.

सप्त(स-अ)र्षि- -र्षीणाम् गु १६.

सप्त-लोक- -कम् वड ५, १३.

सप्त-वक्त्र- -क्त्रम् रुजा २, ८.

सप्त-वार^j- -रम् वपं ३११: ३.

सप्त-वासर- -रम् यो २, २८.

सप्त-विंशति-

सप्तविंश- -शः शि १, १४; -शम्
मन्त्रि १४; चू १३; -शे अत् ५.

सप्तविंशति-तत्त्व-संबन्ध-
-न्धम् पत्र २.

सप्तविंशति-धा भा ३२.

सप्तविंशति-वर्णक- -कः रार
२, ७७.

सप्तविंशति-वर्णा(र्षी-आ)त्मन्-
-रमा अन्न १, ७.

सप्त-विध, धा- -धः महा ५, ९; -धम्
छां २, ८, १; ३; ९, १; ८; १०, १;
६; करु ३८; -धस्य छां २, ८, १;
-धा मैत्रि ६, २२; -धा: गर्भे १^३.

सप्त-वैध^k- -धैः मन्त्रि ९.

सप्त-व्याहृति- -तिभिः शा १३^m.

सप्त-शत- -तम् निरु २, २.

a) द्विस. । b) वस. । c) ऋ १, २२, १६ । d) तु. गपू. वृ४७३k । e) °मान् इति पा.१ यनि. शोधः द.

[एतदतु गपू. (वृ७२६) सत्य. 'लोक->-कान्' इत्यत्र 'लोकात्' इति शोधः कर्तव्यः] । f) °मान् इति निसा.१ यनि.

शोधः द. (तु. j.c.) । g) सां इति अख्या. । h) उप. =२मातृ- । i) समासान्तस्य विकल्पः डसं. (पा ५, ४, ८७) ।

j) बो. क्रिदि. द. । k) दक्षवि० इति निसा.१ यनि. शोधः द. (तु. अख्या.) । l) द्विस. उप. व्यु.१ °अ- इति अख्या. ।

m) °तीभिः इति अख्या. ।

सप्त-सं(ख्या>)ख्य- -ख्यम् शि ४,
१०.
सप्त-स्वर- -रा: योशि ३,८.
१°सप्त-होतृ- -ता १शिसं ४; २शिसं
१.
सप्ता(स-अ)क्षर^b- -र: रार २,२५;
नापू २,१०; -रम् नापू ३,८.
सप्ता(स-अ)क्षर^b- -रु: मां ३; ४; वृपू
४,४; ५; वृउ १,६; ७; राउ ३,
१; वउ १,५; ७; विद्या १; २.
सप्ता(स-अ)स्मन्^b- -त्मानम् वृउ
३,९.
सप्ता(स-अ)र्चिस^b- -र्चिष: प्र ३,५.
सप्ता(स-अ)वरणक- -कम् राधा १,
१४.
सप्ता(स-अ)श्व^b- -श्वम् सूता १,२६.
सप्ताश्व-रथ-
सप्ताश्वरथिन्- -थिनम् सू
४^१.
सप्ता(स-अ)ह-
सप्ताहिक- -कम् व ४३३: १८.
सप्तो(स-उ)त्तर- -रम् गर्भ ५^d.
स°-प्रकट- -टम् त्रिता २,४९.
स°-प्रकृति- -ति: रार ५,७.
स°-प्रणव,वा- -वम् वृपू २,४; भ २,
२८; -वया अव्य ४; -वा: महा
१,१; -वाम् अना ११.
स°-प्र(प्रण>)णा^f- -णा मना २,
३५.
स°-प्रतिष्ठा,घा- -घा रापू ४,६०^e; -घा:
वृ ३,९,१९^१; -घौ रार २,१०^e.
स°-प्रत्याधान- -नम् वृ २,२,१.
स°-प्रथस्- -था: मना १, १०^१.
स°-प्रथञ्जक- -कम् जाद १,३.

स°-प्रयोजन-
सप्रयोजन-ता- -ता गौर, ७; ४, ३२
स°-प्रसूतिक- -कम् वपू ३,२.
स°-प्रिय- -याणाम् वउ २,७.
स°-प्रेत-पिशाच- -चा: अव्य ७.
स°-फल- -लम् नार ६; -लानि राउ
५,४; का २.
साफल्य- -ल्यम् मु २,२,८.
स°-वाह्याभ्यन्तर- -र: सुं २, १, २;
-रम् महा ५, १७२; मं ४, १, ३;
-रान् अन्न ३, १३; -रे ध्या ७;
मं ४, १, ३^३; महा ३, ३१; ६, १०;
अन्न ५, २५; २६.
सवाह्याभ्यन्तर-व्यापिन्- -पी
१संन्या २, २१.
स°-बिन्दु- -न्दु: रार ५, ७.
सबिन्दु-सुख- -खम् सुमु ६.
स°-बिन्दुक- -क: सूता २, १५; -का:
वृपू ५, ८.
स°-बिल्व-रूप- -पम् वि १५.
स°-बीज- -ज: योसू १, ४६; -जान्
वृउ २, ५.
सबीज-स्व- -स्वम् सांसू ५, ११७.
स°-ब्रह्मन्- -ह्माणम् गोपू १८.
सभा^g- -भाम् छां ८, १४, १.
१सभा-ग- -गो छां ५, ३, ६^k.
सभा-प्रपादिन्- -दिने नी ३, ८.
सभा-स्थल- -लम् नाप ७; १संन्या
२, ७९.
१°सभेय- -यम् व ४४१: २१;
४४७: ४; ४५१: १७; ४५४:
२३.
२स°-भाग- -गम् पत्र २.
१सभाजयम्^m व ४३३: १६.

स°-भाव-
साभाव्य-
साभाव्या(व्य-आ)पत्ति- -त्ति:
ब्रसू ३, १, २२.
स°-भृत्य-परिचारक- -क: शि ६,
१७५.
सभ्यⁿ-
सभ्या(भ्य-आ)वसथ्य- -थ्ययो:
नाप १, १^१; कश्चु १, १.
सम्^p द २^१.
१सम,मा^o- -म: छां २, ९, १^१; वृ १, ३,
२२^१; जा ६^१; मैत्रे ३, ३; ते ५,
६२; नाप ३, ८६^१; ५, ११; ६, २५;
त्रिवि २, १६^१; रापू २, १^१; ४, ५;
१संन्या २, ३९; ७८; अन्न ३,
१२; ५, ४७; छाग २५: १; शि
६, १९७; गी २, ४८; ४, २२; ९,
२९; १२, १८^१; -मम् प्र ३, ५; ४,
४; छां २, १०, १; २; ३^१; ४; ४,
१, २; वृ १, ६, १-३; श्वे २, ८;
अना १७; मै २, ७; वृजा ८, ६^१;
१योत १११; नाप ४-५, ३८;
त्रिब्रा २, ५५; योचू १०७^१;
शां १, ४; ७, २२^१; महा २, ५४;
५९; योशि १, १४७; ६, ७५^१;
१संन्या २, ७५; अन्न ५, १०७;
अत्ति ३०; त्रिता ३, १२; यो १,
२१^१; ३, १४; वरा १, ५; ७^१; ५,
६१^१; सु २, २, ११^१; गोच ६८:
१२; राधा २, ९^१; शि ३, ७; ६,
१४५; ७, २३^१; वउ ५, २९;
भव ३, २५; गी ५, १९; ६,
१३; ३२; १३, २७; २८; -मया
महा २, ५७; १संन्या २, २६;

a) मा ३४, ४ । b) बस । c) ०थितम् इति निसा. १ यनि. शोध: द्र. (तु. अख्या.) । d) अष्टोत्तर ० इति
अख्या । e) = ६स । f) तु. गपू. पृ ५६३b । g) उप. = आकार-बीजात्तर- । h) 'सप्रथः' इति ऋ १, २२, १५ ।
i) सकृत् बाह्या ० इति निसा । j) वैपश् यद्र. । k) वैतु. शं., रामा. '२स-भाग->-गः' इत्यपि विकल्पमानौ । l) ऋ
१, ९१, २० । m) पा. १ 'सभाजय' इति शोध: द्र. । n) व्यु. १ = यज्ञामिशेष- । o) ०थ्यो: इति निसा. १ यनि. शोध: द्र. ।
p) = उपसर्गविशेष- । q) 'प्रम्' इति अख्या । r) बप्रा. वैपश् यद्र. । इह = युगपत्(१द)-, २समान- प्रसृ. ।
s) ०मौ इति अख्या । t) वैतु. उब्र. अन्यथाकल्पुकः । u) 'इदमौ' इति आन. । v) वा. क्रि. वि. द्र. ।

-मा गौ ३, २३; ४, ७७; ते १, ४५; योशि १, २३; अन्न १, २५; ५, ५५; ५६; -मा: वृ १, ५, १३; ते १, ४३; महा ४, १९; १संन्या २, २६; अन्न ५, २४; रुजा १, ११; सार २८७: १९; पी ४२२: १५; भव १, ३६; -मात्र रुजा १, १३; -०मे हंषो १७; -मे वृ ६, १, ३३; श्वे २, १०; ते १, २८; महा ५, ५५; त्रिता ३, १३; १४; शि ५, १८; भव ३, २३; गी २, ३८; -मेन निरु १, ७; -मौ ब्रवि २२; योशि १, ११६; लुअ १४; पप ४१९: ८; १४; त्रिता ३, १४; यो १, ७५; या २, १३; गी ५, २७. साम्य-म्यम् सुं ३, १, ३; गौ ४, ९३; १००; वरा २, ७५; सौ २, १४; स ३७९: १२; -म्यात् अन्न ४, १२; ब्रसू २, २, १३; -म्ये गौ ४, ९५; गी ५, १९; -म्येन गी ६, ३३.

साम्य-वैषम्य-म्याभ्याम् सांसू ६, ४२.

साम्य-श्रुति-ते: ब्रसू ३, ४, १९.

साम्या(म्य-अ)भि-भिना अन्न ५, ७०.

साम्या(म्य-अ)वस्था-स्था सांसू १, ६१.

सम-काय-शिरोधर-र: योचू ७१.

सम-काल-लम्^० अन्न ४, ८३; सु २, २, १०.

सम-ग्रीव-शिर-काय-य: यो १, ६; जाद ३, ३; ५, ५; वरा ५, ३२.

सम-ग्रीव-शिर-शरीर-र: कै १, ५.

सम-ग्रीव-शिरो-नासा(सा-अ)य-दृशू-दृक् शां १, ५.

सम-ग्रीवो(व-उ)दर-र: यो १, ३२.

सम-चित्त-ज्ञानाम् सार २३६: २०.

समचित्त-त्व-त्वम् गी १३, ९.

सम-चेतस्-ता: सार २६१: १७.

सम-ता-तया महा ६, ४४; -ता

नाप ३, ५४; महा ४, १६; ६, २-४; २९; १संन्या २, २७; अन्न ५, ८५; १०८; गी १०, ५; -ताम्

गौ ३, २; ३८; ते १, २८; महा ४, ३६; १संन्या २, ३०; -ताया:

अन्न ५, १११.

समता-वश-शात् अन्न १, ५४.

समता(ता-अ)वस्था-स्था १थोत २५; १०७.

सम-तेजस्-जसम् पा ९, ५.

सम-त्व-त्वम् नाप ४, २४; सौ २, १६; गी २, ४८; -स्वेन गौ २, ५.

सम-दर्शन-न: नाप ४, १३; ५, २५; १आ १३; गी ६, २९.

सम-दर्शिन-र्शिन: सार २८३: १०; गी ५, १८.

सम-दु:ख-सुख-ख: नाप ५, ३७; गी १२, १३; १४, २४; -खम् गी २, १५.

सम-दृशू-दृक् पा ८, ५.

सम-पर्वक-कम् १संन्या २, ९.

सम-प्रधान-नौ त्रि १४.

सम-प्राप्त-सम् गौ ३, ४४.

सम-बुद्धि-द्वय: गी १२, ४; -द्धि: गी ६, ९.

सम-भाव-व: अध्या ४७.

सम-रस-स: योशि १, ४६; -सम् योशि ६, ३७; -सा: महा ४, १९.

समरस-त्व-त्वम् सौ २, १५.

समरसा(स-अ)भास-स: अन्न ३, १२.

समरसी/भू समरसी-भाव-वम् ध्या ९१.

समरसै(स-ए)कत्व-त्वम् योचू ६४.

सम-रूप-प: मैत्रे ३, २४.

समरूपा(प-अ)श्मन्-स्मा ते ४, ३४.

सम-लोष्टा(ष्ट-अ)श्मन्-न: नाप ३, ३४; गी ६, ८; १४; २४; -ना: मि ११; आश्र ४.

सम-सत्त्वौ(त्व-ओ)जस्-जसौ त्रि १४^०.

सम-स्थ-स्था: पित्र १, ४.

सम-हस्त-युग-गम् वरा ५, ६१^१.

समा(म-अ)भिन्न-न्ना: गौ ४, ९३.

समा(म-अ)वस्था-स्थाम् सु २, २, ५२.

समी/कृ समी-करण-

समीकरणो(ण-उ)न्नयन-प्रहण-श्रवणो(ण-उ)च्छ्वास-

-सा: त्रिब्रा १, ६^{१६}.

समी-कृत-तम् त्रिब्रा २, ८३^h. समै(म-ऐ)काल्य-स्थम् या २, १९^१.

२सम-

समा^१-मा: ई २; वृ ५, १०, १; अव्य १; २^३; सार २७६: १७; २८६: ६; गी ६, ४१; माभ्य: ई ८.

समा-शत-तै: सु २, २, ११.

समत्^k-क्षम्^० गी ११, ४२.

समग्र^k-ग्र: पा ८, ५; -ग्रम् वरा २, ४५; शा ३०^१; पा ८, ५;

a) °म: इति अच्चा. । b) वा. क्रिवि द्र. । c) °ता इति अच्चा. । d) बस. । e) °त्वौ समो इति निसा. अच्चा. च पा. १ (तान्त्रि. अप्यन्यथा) यनि. शोध: द्र. । f) °ग: इति अच्चा. संटि. । g) °णश्रप° इति अच्चा. ? यनि. शोध: द्र. (तु. निसा.) । h) °तौ इति अच्चा. संटि. । i) सदैका° इति अच्चा. संटि. । j) = १वर्ष- । वैप१ यद्र. । k) वैप१ यद्र. । l) 'कुळानाम्' इति अच्चा. ।

शिद्, ७१; गी ४, २३; ७, १; ११, ३०; -प्राणि योशि ४, ६; -प्राञ् गी ११, ३०.

समग्र-शक्ति-खचित- -ते अन्न ५, ११३^६.

समप्रा(प्र-अ)प्रय-गुणा(ण-आ)- धार- -रम् अन्न ४, १९.

सम(म्/अ)ञ्

सम्-भाज^{११}- -जे सार २८६: ८.

सम(म्/अ)ञ्च्

सम्य(मि^{१०}-अ)च्, ञ्च्- -म्यक्^{१०} प्र ५, ६; सुं १, २, १३; श्वे ६, २१; मैत्रि ६, ३७; अना १९; २९; अ ३; ते १, ३७; ६, १०९; ध्या ९२; नाप १^१; ३, ३९; ६, २; त्रिवा २, ३२; ४७; ९०; ९७; मं ४, १, ५; त्रिवि ५, १२^१; ८, ६; १८; रार २, ३९; रापू ४, ५०; ६६; ५, ७; राउ ५, २८; वा ४०; शां १, ३, १; १०; महा ६, १६; योशि १, ८९; ६, २; १संन्या २, ४१; अन्न २, ३८; ४, ७२; यो १, ५३; २, १५; ३, ३२; ग १८; जाद ३, २; ५, १; ३; ८; ६, ३३; प्रा २, १; वरा ३, २५; ४, १६; ४०; शा ३४; सौ २, ३; सर २, ४; सुरि, १, २४; ५०; ५२^{१०}; २, २, १६; इ १९; १९; शि १, ७; ७, ९३; गुषो ४२१: ७; पी ४२२: २०; सांका ७१; गी ५, ४; ८, १०; ९, ३०; -म्यञ्चि वृ ५, १३, ३^१.

समीची- -ची व ४३७: १५^{१०}.

सम्यक्-प्र(ज्ञा>)ञ- -ज्ञस्य महा

४, ११२.

सम्यक्-संपन्न- -न्न: जा ६; नाप ३, ८६; पप ४१९: ३; -न्ना: या २, १^१; मि १५.

सम्यग्-अर्थ- -र्थ: रार ५, ३.

सम्यग्-अवेक्षण- -णम् शां १, ७, २४.

सम्यग्-आलोकन- -नात् सु २, २, १७^६.

सम्यग्-ज्ञान- -नम् नाप ५, ३३; अन्न २, ३५; ५, ३३; जाद ६, १९; म ४९: १८; -ने ते २, ४३; -नेन सुं ३, १, ५.

सम्यग्ज्ञान-समालोक- -क: अन्न ५, २.

सम्यग्ज्ञाना(न-अ)धिगम- -मात् सांका ६७.

सम्यग्ज्ञाना(न-अ)वरोध- -धेन अन्न ५, ४९.

सम्यग्ज्ञानिन्- -निन: पाशु २, ३८.

सम्यग्-बन्ध-त्रय-स्थ- -स्थ: वरा ५, ५६.

सम्यग्-बन्ध-समुद्भूत- -तम् योशि १, १००.

सम्यक्-नाद-लया(य-अ)- बधि- -धि ध्या २३.

समञ्जस^{११}- -सम् गौ ३, १३; ब्रसू ३, ३, ९.

सम(म्-अ)ति/सृञ्

समति-सृष्ट- -ष्टा: छां १, ११, ३.

सम(म्-अ)ती[ति/इ(गतौ)]

समती(ति-इ)त- -तानि महा ५, १६१; गी ७, २६.

समती(ति-इ)व्य गी १४, २६.

स^१-मद्- -दम् पा ८, ५.

सम्-अधि^१/गच्छ, समधिगच्छति भव १, ५२; गी ३, ४.

समधीयीत^१ गा २३.

स^१-मधु-झ- -झम् त्रिवा १, ४५^६.

सम(म्/अ)न्(प्राणने)

१सम्-आन^{११}- -न: प्र ३, ५; ८; ४, ४; तै १, ७, १; छां ३, १३, ४; ५, २२, १; वृ १, ५, ३; मै २, ६; ७^{११}; मैत्रि २, ६; ६, ३३; ७, ४; अना ३५; ३८; ध्या ५६;

ब्रवि ६६; त्रिवा २, ७७; ८१; ८६; योचू २४; शां १, ४; प्रा ४, १; जाद ४, २३; २९; ३१; -नम् मना २, ७०^{११}; सुबा ९^१; १५; ध्या ९७; नाय छां ५, २२, १७^{११}; मैत्रि ६, ९; मना २, ६९^{११}; प्रा १, ६;

-ने छां ५, २२, २; वृ ३, ९, २६; मना २, ६९^{११}; ७०^{११}; प्रा १, ६; -नेन सुबा ४; वरा ५, ३८^{११}.

समान-कर्मन्- -र्म शां १, ४.

समान-जय- -यात् योसू ३, ४१.

समान-प्राण- -ण: ध्या ९२.

समान-योग- -योगे त्रिवा १, ९.

समान-वायु- -यु: -युना शां १, ४.

समान-सं(ज्ञा>)ञ- -ञ: मैत्रि २, ६^{११}.

समाना(न-अ)स्मन्- -स्मने गोउ ६४^१.

समानो(न-उ)दान-व्याना(न-अ)- पान-प्राण- -णा: त्रिवा १, ५^{११}.

स^१-मनस्- -नस: व ४३७: ११^{११}.

a) समस्तत्रा^१ इति अत्र्या. । b) सम् > समि (पा ६, ३, ९३) । c) कचित् वा. क्विचि. द्र. । d) विध २९, १० । e) ऋ १, ६९, १ । f) °न्न: इति अत्र्या. । g) °लोच^१ इति निसा. । h) वैपश् यद्र. । i) =६स । j) पा. वा. १ । k) °मदु^१ इति निसा. संदि. । l) =वायुविशेष- । वैपश् यद्र. । m) तैत्रा १०, ३६, १ । n) तैत्रा १०, ३३, १ । o) तैत्रा १०, ६९ । p) तैत्रा १०, ६९^१ । q) °नोऽन्ने^१ इति निसा. यनि. शोध: द्र. (तु. अत्र्या.) । r) °ज्ञा इति पा १ यनि. शोध: द्र. (तु. सात.) । s) °दानो व्यान^१ इति अत्र्या. यनि. शोध: द्र. (तु. निसा.) । t) =५स । u) ऋ १०, १०१, १ ।

स-मनस्क-स्कः क १,३,८.
 सम्-अनु-प्र/विश्व
 समनुप्र-विष्ट-ष्टः मना १, १५०.
 सम्-अनु-प्रा(प्र/आ)प्
 समनुप्रा(प्र-आ)स-स्ते ते ६, १०१;
 रार ४, ११.
 समनुप्रा(प्र-आ)प्य गौ २, ३६.
 समन्त-न्तम्^d वृ १, ३, १८; ३,
 ३, २; न्तात्^d ग ४; ब ४; तुल
 ७७: ३; सि ६, ७६; ८१; १५२;
 सि ६, ३३; गी ११, १७; ३०.
 समन्त-तस(>) गौ ३, २; ३५;
 त्रिवि ६, ६; ७, १९; पै ४, १४; सि
 ४, १४; गी ६, २४.
 स-मन्त्र-न्त्रम्^d वज ६, ६.
 सम्-अन्वा(नु-आ)/रम्, >म्भ,
 समन्वारभेते वृ ४, ४, २; निरु
 २, ५.
 समन्वा-रम्भण-गात् ब्रसू ३, ४, ५
 सम्-अन्वा(नु-आ)/लम्, समन्वा-
 ऋभध्वम् शौ ५१: १०.
 सम्-अन्वि[नु/इ(गतौ)]
 समन्व(नु-अ)य-यात् सांसू १,
 १३१; सांका १५; ब्रसू १, १, ४.
 समन्वि(नु-इ)त-तः त्रिवि ६, २५;
 निरु १, १९; तम् १योत ८६;
 ८९; सु १, १, १; -तेषु त्रिवि ६,
 २३.
 सम्-अभि/धा
 समभि-हित-तम् २प्र ३६: ८.
 सम्-अभ्य(भि/अ)र्च
 समभ्य(भि-अ)र्च्यं त्रिवि ७, १; सर
 ३, ८; पी ४२२: १२.
 सम्-अभ्य(भि/अ)स् (क्षेपणे), स-
 मभ्यसेत् अना २३; ते १, ३८; ३,
 ७४; १योत ४३; ६७; १०४;
 ११४; त्रिवा २, १०१; योच्

८७; १०६; मं ५, १, ३; शां १,
 ७, २; ३७; योशि ६, ७; ७५; यो
 २, २; ३, १३^३; जाद ६, ६; १०;
 ११; २०; गोपू ३१; वरा २, ३;
 ५, ५५; शि ७, ६१.
 समभ्यस्ये निरु १, २०.
 समभ्य(भि-अ)सन-नेन सार
 २३२: ८.
 समभ्य(भि-अ)स्त-स्तैः अन्न ४,
 ८४.
 समभ्य(भि-अ)स्य १योत ११४; योच्
 ६७; सु १, १, २८.
 सम्-अभ्या(भि-आ)/दा(दाने)
 समभ्या-ददान-नः वृ ४, ४, १.
 १-२समय-समि द्र.
 स-मरुद्-गण-णः गोपू ३३.
 सम्-अर्ध-धम् इ १७: १.
 सम(म्/अ)र्च>र्चि, समर्चय वि ७.
 सम(म्/अ)र्थ
 सम्-अर्थ-र्थः गर्भ ३; नाप २; ३,
 ६८; महा ४, १०५; हंषो २;
 -र्थम् महा ४, १०५; -र्थानि करु
 ३३.
 सामर्थ्य-र्थ्यम् १योत ५५;
 ५६; गी २, ३६.
 सामर्थ्य-शक्ति-क्तिः सौ
 ३, १.
 सम(म्/अ)र्ध>धि
 सम्-अर्धयित्-ता छां १, १, ८.
 सम(म्/अ)र्ध>र्धि, समर्पयामि
 वज ६, ३०; समर्पयेत् वृजा ६,
 ७; सार २२७: १४.
 सम्-अर्पयत्-यन् सौ २, ११.
 सम्-अर्पित-तम् मुं २, २, १; छां
 ७, १५, १; वृजा ६, १; योशि १,
 ७५; -ताः छां ७, १५, १; वृ २,
 ५, १५^२.

समर्पितव्यजनसंयुक्त-क्तम्
 शां १, ४^६.
 सम्-अर्प्यं त्रिवि ६, २१; २५; सूता
 ५, १४.
 सम्-अव/नी, समवनीयन्ते वृ ३,
 २, ११.
 सम्-अव/ली, समवलीयन्ते वृ ५,
 १-३; सुवा ३.
 सम्-अव/लोक
 समव-लोकित-
 समवलोकित-सम्यग्-अर्थ-
 -र्थः अन्न २, ४४.
 समव-लोक्य त्रिवि ६, १; १०.
 सम्-अव/स्था
 समव-स्थित-तः ब्रवि ३३^b; तम्
 पै ४, २२; सौ २, १९; गी १३,
 २८; -ते वरा २, ६६.
 सम्-अव/ह
 समव-हारम् छां ६, ९, १.
 सम्-अवा(व/आ)प्, समवाप्नोति
 नाप ३, १; समवाप्नुयात् १योत
 १०६.
 समवाप हे १४.
 सम्-अवे[व/इ(गतौ)]
 समवा(व-अ)य-यः सांसू ५, १९;
 -यम् शारी १.
 समवाया(य-अ)भ्युपगम-
 मात् ब्रसू २, २, १३.
 समवे(व-इ)त-ताः सार २६२:
 १८; गी १, १; -तान् गी १, २५.
 सम(म्/अ)श्वा(व्याप्तौ), समश्नुते क
 २, ३, १४; तै २, ५-६, १; वृ ४,
 ४, ७; ध्या १०६; १योत १३४;
 २योत १, ५; त्रिता ४, २५; शा
 २५; गोच ६७: २१.
 समाशत सु २९३: १८^१.
 सम्-अष्टि-ष्टिः वृ ३, ३, २; नाप ८, १.

a) = ६स । b) तैश्चा १०, १, १ । c) वैपश् यद्र । d) वा. क्वि. द्र. । e) अभ्यं निसा., अख्या. संदि. ।

f) 'विसर्पति' इति आन. । g) निसा. ? ०तं व्यं इति शोभः द्र. (तु. अख्या.) । h) गपू. (पृ १०४) अव/स्था>
 अवस्थित-> -तः इत्यत्र यनि. शोभः कर्तव्यः । किमव इति अख्या. । i) ऋ ९, ८३, १ ।

समष्टि-स्व-स्वात् सर ३, १६.

समच्छ्व(ष्टि-अ)ण्ड-ण्डम् पै
१, २६.

सम(म्/अ)सु(त्सेपणे)

सम्-अस्त, स्ता-स्तः छां ८, ६, ३;

११, १; पा १०, २; -स्तम् अ १;

ध्या १००; ऋवि ३२; महा ६,

१२; वरा ३, १४; पा १, ७; ८; ८,

६; ७; ९, २; सिशि ३८२: १४;

-स्तस्य छां २, १, १; अक्ष ४, ३५;

रुह ४८; -स्ता अक्ष ४, ६२; -स्ता:

त्रिवि ६, १; अक्ष ४, ७१; पा ८,

८^१; १०; सिशि ३८२: ६; -स्तान्

अ ३; भव १, २४; -स्तानाम् वृजा

३, १; शि २, २७; -स्तेषु नाप ६,

२५; योशि २, १०; -स्तैः शि ५,

२५.

समस्त-कुल-ज-जैः शि ६, ६९

समस्त-कुल-संयुत-तः शि

६, १७५.

समस्त-दिव्य-मङ्गल-नि-

दान-नम् त्रिवि ७, ६.

समस्त-दुःख-दुरित-तम् व

४५६: १७.

समस्त-दुरित-क्षय-कर-रम्

त्रिवि ७, ५९.

समस्त-नष्ट-संकल्प-रूपः सौ

२, १६.

समस्त-नाम-रूप-कर्मा-

(र्म-अ)तिदूर-

समस्तनामरूपकर्मातिदूर-

ता-तया त्रिवि ८, ८^१.

समस्त-पातको(क-उ)पपातक-

महापातक-

समस्तपातकोपपातकमहा-

पातका(क-अ)गन्त्यागमन-नो-

हत्या-ब्रह्महत्या-अणूहत्या-वीर-

हत्या-पुरुषहत्या(त्या-आ)जन्म-

कृतहत्या-स्त्रीहत्या-गुरुहत्या-

पितृहत्या-प्राणहत्या-चराचर-

हत्या(त्या-अ)भक्ष्यभक्षण-प्रति-

ग्रह-स्वकर्मविच्छेदन-स्वाम्याति-

हीनकर्मकरण-परधनापहरण-

शूद्रान्नभोजन-शत्रुमारण-

चण्डालीगमना(न-आ)दि-

समस्तपाप-हरणा(ण-अ)र्थ-

-र्थम् गार ४०८: २.

समस्त-पाप-निर्मुक्त-क्तः शि

६, १६८; १७५.

समस्त-ब्रह्मतेजोराशि-

समष्टि-रूप-पम् त्रिवि ७,

२९.

समस्त-ब्रह्म-वाचक-वाच्य-

-च्यः त्रिवि १, ११.

समस्त-ब्रह्माण्ड-जाल-लानि

त्रिवि ६, १०.

समस्त-ब्रह्माण्ड-समष्टि-

जननी-नीम् त्रिवि ६, १०.

समस्त-ब्रह्माण्डा(ण्ड-अ)न्तर-

बहिस(>) त्रिवि ६, १०.

समस्त-भुवन-नस्य सी १९.

समस्त-भृत्य-संयुक्त-क्तः शि

६, ९२.

समस्त-महापातको(क-उ)पपा-

तक-कात् श ३६.

समस्त-मोक्ष-साम्राज्य-पट्टा-

(ट्ट-अ)भिवेक-कम् त्रिवि ६,

२५.

समस्त-याग-गानाम् पाशु १,

११.

समस्त-याता(त-आ)यात-

वर्ज्य-वर्ज्यम् भा ३७.

समस्त-विद्या-जाल-लानि

त्रिवि ६, १; वरा १, १.

समस्त-विप्रेय-याणाम् भा ३५

समस्त-वेद-वेदान्त-सार-

निर्माण-गम् म ४८: २.

समस्त-वेद-शास्त्रे(त्र-इ)-

तिहास-पुराण-णानि त्रिवि ६,

१; वरा १, १.

समस्त-व्यष्टि-मस्तक-कान्

पै १, २९^b.

समस्त-साक्षि^c-क्षिम् कै १, ७;

२, ५.

समस्त-साक्षिन्-क्षी ऋवि १०७

समस्त-स्वरूप-विरोध-कारि-

(न्)णी-णी त्रिवि ६, १६.

समस्ता(स्त-अ)घ-शासक^d-

-कम् म १, ५.

समस्ता(स्त-अ)रिष्ट-शान्ति-

-न्तये नि ३.

समस्ता(स्त-अ)र्थ-जाल-लेषु

महा २, ६२; वरा ४, २७.

समस्ता(स्त-अ)वयव-वेभ्यः

भव २, २९.

समस्ता(स्त-अ)विद्या(या-अ)-

ण्ड-व्यापक-क्तः त्रिवि २,

१५.

समस्ता(स्त-अ)विद्या(या-आ)-

पादक-क्तः त्रिवि ६, १२.

समस्ता(स्त-अ)विद्यो(या-उ)-

पाधि-धिः त्रिवि २, ४.

समस्ता(स्त-अ)साधारण-

चिह्न-चिह्नित-तः त्रिवि ५,

१२; ७, १५.

समस्ता(स्त-अ)साधारण-

दिव्य-भूषण-गैः त्रिवि ५,

१२.

सम्-आस-सः छां ६, ४, ७; -सेन

भ २, २^o; गी १३, ३; ६; १८,

५०.

सामासिक-कस्य गी १०,

३३.

समास-तस(>) १थोत् २१;

३) °स्तकर्मा° इति निसा. । b) व्यष्टि° इति अख्या. । c) उप. =साक्षिन्- । d) उप. <√/सख

(हिंसायाम्) । e) °मानेन इति अख्या. ।

योशि १,८९; यो १,१९; जाद
५,१;२; शि १,३७; ४,३२; द,
२८४; ७,१; १३६; सांका ५३;
गी १३,१८.

सम्-आसम् छां ७,१५,३.

समा- रसम- द.

सम्-आकुल- -लः सार २६०:१९;
-लम् सि ६, १३; २०; -ले शि
७,७०.

सम्-आ/कृ

समा-कृत- -तम् व ४६१:३;
४६४:२०.

सम्-आ/कृष्

समा-कर्ष- -र्षात् ब्रसू १,४,१५.
समा-कृष्य त्रिब्रा २, १३०; शां १,
७,१४; ४३; योशि १, ९१; यो
१,२४; जाद ६,२२; ४०; ७,६;
७; १३; वरा ५,६३.

सम्-आ/क्रम

समा-क्रम्य १योत ११६; सु २, २,
४२.

सम्-आ/ख्या

समा-ख्यात,ता- -तः नाप ३,५६;
रापू ४,५६; जाद ७,१४; -तम्
रापू ४,६७; यो ३,८; सांका ६९;
-ता वरा ६,२९.

सम्-आ/*गच्छ,गम्, समागच्छतः

छां १,१,६; अव्य ११°.

समा-गत,ता- -तः जाद ४, ४२;
४६; सार २३०:८; -ता: सार
२४२:४; गी १,२३.

समा-गत्य शु १,८^d.

समा-गम- -मः मैत्रि ७,११.

सम्-आ/*गृह(>म्), आ***सं-

गृभाय वपू १,४९°.

सम्-आ/चर,समाचर अत्र ४,८२;

सु २,२,९; गी ३,९; १९; समा-
चरेत् वृजा ४,२;७; काला १०;

त्रिब्रा २,५२; ५३; ९४; शां १,३,
१२; यो २, ३१; ४७; जाद ५,
१२; १३; जावा १९; इ १३:
११; सूता २, २२; गोच ६८:
११; शि ६,३६; भव ५,१०.

समा-चरत्- -रन् गी ३,२६.

समा-चार- -रात् गौ ४,४२; ४४^३;
-रे ब्रसू ३,२,३.

समाज- समज् द.

सम्-आ/ज्ञा

समा-ज्ञा- -ज्ञा: तै ३,१०,२.

स'-मा(त्रा>)त्र- -त्रान् रार १,७^e.

स'-मात्र(तृ-अ)ष्टक- -कम् त्रिता
२,४९.

सम्-आ/दा(दाने),समाददीत वृ ४,
२,१.

समा-दाय ब्रवि २१; वृजा ४,१; ब्रवि
५८; योशि ५,२५; यो २, २९;
शि ६,१६१; अवि २१.

सम्-आ/दिश्,समादिशेत् पित्र ६,
१०.

सम्-आ/धा, समाधत्स्व पित्र १,७;

समाधेहि अध्या २६; समा-
दध्यात् ध्या २३.

समा-दधान- -नाय पा ३, ९^h.

समा-धातुम् अध्या ५९; गी १२,९.

समा-धान- -नम् महा ४, ७९ⁱ.

समाधान-जाप्य- -प्याभ्याम्
सु २, २,२०ⁱ.

समा-धाय अत्र ४, २;५; त्रिता ३,
७; ५,२०; गी १७,११.

समा-धि^१- -धि: गौ ३,३७; मैत्रि
६,१८; अना ६:१७; तै १,१६;
३७९^१; श्या ४१; १योत २५९^१;
१०५; १०७९^१; त्रिब्रा २,
३२९^१; १६२९^१; योचू २;
११२९^१; मं १, १, १०९^१;

शां १,१; ११; पै ३, १९^१; महा
४,६१; ६२; अत्र १,२८९^१; ५,
७५९^१; अध्या ३५; १अव २१^१;
२अव ३३८:२; जाद १,५; १०,
१; ५; मवा ७; वरा २, ७५; ५,
१२; सौ २, १४-१८; सर ३, २५;
२७-३०; सु २, २, ५४-५६; भव
३, ३०९^१; योसू १, ४६; ५१;
३, ३९^१; ४, २८; -धिना नाद
५४; योशि ६, ७५; अध्या १७;
-धिभि: सर ३, ३१; -धिमू ब्रवि
६५; १योत १०६; पै ३, १; अध्या
३८; यो ३, १४; जाद १०, १;
सर ३, २५; सु २, २, १९; -धौ
आरु २; तै १, ४०; योचू १०;
११०; ११३; मं २, ३, ४; सार
२४३: ८; योसू ३, ३८; गी २,
४४; ५३.

समाधि-क- -कः योरा २.

समाधि-काल- -लात् अक्षि ५.

समाधि-द्वितय- -यम् तै ५, ३४.

समाधि-निर्धूत-मल- -लस्य मै

४, ४, ९^१; भव ३, ३१.

समाधि-निर्धूत-मल- -लस्य
मैत्रि ६, ३४^k.

समाधि-नि(ष्टा>)ष्ट- -ष्टः नाप २.

समाधिनिष्ट-ता- -ताम्

अध्या १६.

समाधि-परिणाम- -मः योसू

३, ११.

समाधि-भावना(न-अ)र्थ- -र्थः

योसू २, २.

समाधि-विरम- -मे सु १, १, ३.

समाधि-शब्द- -ब्देन महा ४,

१२; अत्र १, ४८-५०.

समाधि-शून्या(न्य-आ)त्मन्-

-स्मा ते ४, ७६.

a) तु. गपू. पृ ३०८। b) ऋ १०, ८४, ७। c) °मग° इति निसा. १ यनि. शोचः द्र. (तु. श्रब्धा.)।

d) °म्य इति श्रब्धा.। e) ऋ ८, ८१, १। f) =६स। g) 'मन्त्रान्' इति श्रब्धा.। h) वैतु. पाटी. सन्ते(म्,ते)
=सन्त->न्ते (सप्त१) इति १। i) ससाधा° इति निसा.। j) °निर्धौ° इति मैत्रि ६, ३४। k) °निर्धौ° इति मै ४, ४, ९।

समाधि-सिद्धि- -द्धिः योसू २, ४५.

समाधि-सुबुद्धि-मोक्ष- -क्षेषु सांसू ५, ११६.

समाधि-स्थ- -स्थः सुबा १३; अन्न ५, ८०; जाद १०, ११; -स्थस्य शि ७, ६; -स्थस्य अन्न १, २६; गी २, ५४.

समाधि-हानि- -निः सांसू ४, १४.

समाध्य(धि-अ)भाव- -वात् ब्रसू २, ३, ३९.

समाध्य(धि-अ)र्थ- -र्थम् महा २, ७५.

समाहित-ता- -तः वृ ४, ४, २३; वृजा ३, ५; ४, १७; सुबा ९; लु ६; ध्या ९९; ब्रवि २२; नाप ३, २३; ६, १८; त्रिब्रा २, ३८^०; १२; ११५; १२०^०; १४६; पै ३, १; योशि ५, ३९; अन्न १, ३७^{१५}; जाद ५, ४; ७, २; १३; गोउ २८; सार २७८ : १; शि ७, ४५; गी ६, ७; -तस्मृ छां ८, १, ३; ४; -ता अन्न १, ४८; -ताः छां ८, १, ५; मैत्रि ६, ३०; ३५; ३८; वृउ ६, ४; प्रा ४, १^०; -ते छां ८, १, ३.

समाहित-मनस्- -नाः योशि ५, १; जाद ६, ३२.

समाहिता(त-अ)त्मन्- -स्मा वृ ४, २, १.

१समान- समन् द्र.

२समान,ना^१- -नः मां १०; छां १, ३, २; वृ ४, ३, ७; वृउ २, ६; शा ५; सांसू १, ६९; ब्रसू ३, ३, १९; -नस्मृ सुं ३, १, १९^०; वृ ६, ५, ४; श्वे ४, ६९^०; नाउ १, ३९^०; भव २,

२९^०; सांसू ३, ५३; ५, २४; -ना तु २९^{११}; ब्रसू ४, २, ७; -नाः स्व ६१:९; -नानाम् अव्य ५^२; -ने सुं ३, १, २; श्वे ४, ७; ब्रसू ३, ३, ५.

सामान्य- -न्यः अक्षि २०; २४^६; -न्यम् गौ १, २२; सांका ११; -न्यस्य सांसू ५, ११; -न्यात् ब्रसू ३, २, ३२; ३, ५१; -न्यानि रुजा १, १४; -न्येन महा ४, ११८; सांसू १, १३८.

सामान्य-करण-वृत्ति- -त्तिः सांसू २, ३१; सांका २९.

सामान्य-तद्-भाव- -वाभ्याम् ब्रसू ३, ३, ३३.

सामान्य-तस्(>) सांसू १, १०३; सांका ६.

सामान्य-भक्ति- -क्तिः सार २५० : ३.

सामान्या(न्य-अ)सङ्ग-नाम-क- -कम् अक्षि २१.

समान-कर्म-योग- -नो सांसू २, ४७.

समान-गुण- -णाः सार २९१:२२.

समान-त्व- -त्वम् ते १, २८; सांसू १, ५५; ८६; ६, ६५.

समान-धर्मा(र्म-अ)पत्ति- -त्तौ सांसू १, ५०.

समान-नाम-रूप- -समाननामरूप-त्व- -त्वात् ब्रसू १, ३, ३०.

समान-न्याय- -यात् सांसू ५, ३६.

समान-फल-(द>)दा- -दा तारा ८३ : ८.

समान-लोक- -समानलोक-ता- -ताम् मना २, १५^{११}.

समान-सं(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञम् शि ७, २२
समाना(न-अ)भिहार- -राट् सांका ७.

स^१-मान(द>)दा^१- -दा राष्ट्र ४, ५८.

सम्-आ/नी,समानयति मैत्रि २, ६.

सम्-आप्, >आपि, आपिपयिष्, समामोति लु २५; नाप ५, १; वरा ४, ४१; समामोषि गी ११, ४०^६.

समाप्यते नाप ३, ६१; पित्र १, ८.

समापयति कौ २, १५.

समापिपयिषेत् वृ १, ५, २३.

सम्-आपयितव्य- -व्यः कौ २, १५^१.

सम्-आस- -सम् २ प्र ३६ : ६.

सम्-आप्य नाप ३, ११; ७७; ४, ३८^१; ५, १; १संन्या २, १३; पप ४१८ : ३; कुं ४^१; या १, १; सौ २, २१^३; वि ९.

सम्-आ/पद्- -समा-पत्ति- -त्तिः योसू १, ४१.

सम्-आ/बन्ध- -समा-बन्ध वरा ५, ३७.

समाभिन्न- १सम- द्र.

सम्-आ/ज्ञा>मन्, समामन्ति २ प्र ३५ : ८.

स^१-आ(या>)य- -यस्म रार ५, ६; पी ४२१ : ८; वपू ३, १; २; -यात् रार ५, ८.

सम्-आ/या, समायाति योशि १, १०४; समायान्ति त्रिवि ५, १९; १३.

समाययौ राष्ट्र ४, २५; २७; समाययुः राष्ट्र ४, ११.

समा-यात्,ता- -तः योशि १, २१; -ता सार २४३ : १८; -ताः सार २४३ : १५.

४) °सितः इति अच्ञा.संदि. । ५) °तस् इति अच्ञा.संदि. । ६) अचिसमा° इति अच्ञा.संदि. । ७) °सम- ।

वैश्व १ यद्र. । ८) ऋ १, १६४, २० । ९) °मात्राविशेष- । १०) समा° इति निसा. । ११) तैश्चा १०, १४, १ । १२) °स । १३) उप- = आकार-बीजाक्षर- । °युता इति निसा, अच्ञा.पा.१यनि.शोषः द्र.(तु.गपू.पृ४००h) । १४) °संख्याज्जोषि° इति SCHR. पाभे. [वैतु.वे. (NIA २, २३१)] । १५) °मारोपः इति अच्ञा. । १६) °पच्य इति निसा. अच्ञा. च पा.१यनि. शोषः द्र. ।

समा/युज्

सम्-आ/युज्

समा-युक्त- -क्तः त्रिन्ना २, १५२;
-क्तम् १थोत ११; योशि १, ९; पं
१०.

सम्-आ/रभ्, >म्, समाभवेत् शां
१, ५; वरा ५, ३९.

समा-रभ्य त्रिन्ना २, १४९; १५१; वरा
२, ४२.

समा-रभ- -म्भाः गी ४, १९.

सम्-आ/रम्

समा-रत- -ताः छां १, १०, ११.

सम्-आ/राध्

समा-राधन- -नम् सार २२० :
१५.

समा-राधन-त्वर- -रः सार
२२० : १५; २२१ : ९.

समा-राध्य त्रिन्ना ५, १४; ६, १९.

सम्-आ/रुह्, >रोषि, समारोपयेत्
आरु २^१; १संन्या १, १; २संन्या
१७ : ७; कश्रु १, १.

समा-रुह्य कौ ३, ६^०; योचू ७१; वरा
४, १४.

समा-रुड- -डः नाद ५.

समा-रोष्य नाप ८, ५; शां १, ७, ४३;
१संन्या १, १; २, १००; ५प४१८ :
१९; जाद ६, ३१; वरा ५, ५९^१;
सौ २, ११; कश्रु १, १.

सम्-आ/लिख्, समालिखत् रूप ४,
४९; सूता ५, ४; नापू ६, ४.

सम्-आ/लिङ्

समा-लिङ्ग्य मं ३, २, २.

सम्-आ/लिप् >म्, समालिभेत्
वृजा ४, ९.

सम्-आ/लोक् >लोकि, समा-
लोक्य महा ३, ४० : गा २, ६.

समावस्था- १सम- द्र.

सम्-आ/विश, >वेशि, समा-

वेशयति सार २३८ : ९.

समा-विष्ट- -ष्टम् सु २, २, ६.

समा-वेश्य शि ६, १३४; वड ५,
३२.

समाविशत्^१ नाप ५, १.

सम्-आ/वृ(आच्छादने)

समा-वृत- -तम् योशि १, १३७^०;
सि २, ७; ३, ३.

समा-वृत्य यो २, ३६,

सम्-आ/वृत् >वर्ति, समावर्तयति
छां ४, १०, १.

समा-वर्तयत्- -यन् छां ४, १०, १.

सम्-आ/वेष्ट्

समा-वेष्ट्य त्रिन्ना २, ६४; शां १,
४; जाद ४, १३^१.

सम्-आ/श्रि, समाश्रये सु २९३ : ८;

गु ७३; समाश्रय अक्ष ५, २३;
३०; ३१; सु २, २, १५; समा-
श्रयेत् लु ७; ९; योशि ६, २३;
यो २, ४; १३; २७; जाद ३, १२;
भव १, ३४.

समा-श्रित- -तः मैत्रि ६, ९; मना
२, ७१^०; ब्रवि ४१; -तम् शि
६, १४०; -ताः सार २९२ : १८;
-तानि महा १, १.

समा-श्रित्य नि २; योचू २१; भव
१, ५४.

सम्-आ/श्वस्

समा-श्वस-

समाश्वस-वत्- -वान् महा ५,
१६८.

समा(म्/आ)स्, समासते श्वे ४, ८^१;
वृजा ६, १२^१; वृपू ४, ९^१; ५,

९^१; वृज ७, १३; राज ५, २९^१;
व २४^१; गु ५३^१.

सम्-आसीन- -नः त्रिन्ना २, ५०,
शां १, ३, १; जाद ३, ६; -नम्
त्रिन्ना ५, १४; रार १, ७; २, ४५;
-नाः सि १, १५^१.

समास- समस् द्र.

सम्-आ/सञ्ज्

समा-सक्त- -क्तम् मै ४, ४, ५; मैत्रि
६, ३४; मैत्रे १, ४, ७; शा २;
भव ३, १५.

सम्-आ/सद् >सादि

समा-साद्य योशि १, ७७; शि ५, २६.

समासम् समस् द्र.

सम्-आ/स्था

समा-स्थाय महा ३, ५७; शि ७, ४;
भव ३, २४.

समाहित- समा/धा द्र.

सम्-आ/ह्, समाहरेत् अक्ष ४, ८५^१;
शि ७, २६.

समा-हर्तुम् गी ११, ३२.

समा-हार- -राव् ब्रसू ३, ३, ६३.

समा-हृत्य नाप ३, ७४; त्रिन्ना २,
११५; जाद ८, ९.

समि[म्/इ(गती)], समेति वृ ६, २,
२^१; सम्...एति श्वे ४, ११;

संयन्ति छां ४, १, ४; ६; अरु
३२^१; सम्(एमि) बा ९; समेतु
कौ २, ८^१; व ४३७ : ८^१;

सम्...यन्तु कौ २, ८^१; स-
मैताम् वृ १, ५, १२.

समेष्यामि १संन्या २, ५३.

समीयते नाद ४८^म.

सं-यत्^१-

संयद्-वाम- -मः छां ४, १५, २

a) सदारो^० इति अञ्ज्या. । b) पा.१^० विशेव इति अञ्ज्या. । c) ^०हितम् इति निसा. संटि. । d) सदावे^०
इति निमा. संटि., अञ्ज्या. । e) तैत्र्या १०, ३८, १ । f) अ १, १६४, ३९ । g) ^०सीनान^० इति पा.१^० यनि. च अन^०
इति च द्विपदः शोधः द्र. । h) ^०चरे^०, ^०रभे^० इति अञ्ज्या. संटि. । i) अ १०, ८८, १५ । j) तैत्र्या १, २७, ५ । k) अ
१, ९१, १६ । ^०मेसातु इति अञ्ज्या.१ । l) अ १, ९१, १८ । सस्वय^० इति अञ्ज्या. । m) 'समीर्यते' इति अञ्ज्या. ।
n) वैतु. MW. <सं/यत् वा सं/यम् वा ।

१सम्-भय^०- -यः सार २४२:११;

पा ८, ३; -याव पा ८, १०; -ये

रुजा ३, १; सार २३८:७;

२४०:१७; २५७:१४; २८५:

३; १६; २८६:१८.

समय-आन्ति-हरण- -णम्

निर्वा २९०:१३^०.

समयो(य-उ)चित- -ताः सार

२३७:२२; -तानि सार २२३:

१२.

२सम्-भय^०-

समया(य-आ)चार-संगति-

-तिः सी २९.

सम्-इति^{१३०}- -तिम् छां ५, ३, १.

समित्ति-गम- -मः बृह ४, १८.

समित्ति-जय- -यः गी १, ८.

१^०सम्-इथ^१- -था व ४६६:१५.

समि(म्/इ)ङ् > क्रि, समिङ्गयति बृह,

४, २३^६.

समि(म्/इ)ष्, न्ध, > निध, १^०स-

मिन्धते आरु५; बृजा ८, ६; वृषू

५, २१; सुबा ६; पै ४, २३; स्क

१५; राज ५, २९; ता ३, ९; वरा

५, ७७; मु २, ७७; सम्...

इन्ध्वम् व ४३७:१११^१.

समिन्धयेत् शि ४, ४९.

सम्-इद्ध- -द्धः बृह ४, ३; गी ४,

३७; -द्धे सुं १, २, २; बृह ४, ४,

१२^६.

सम्-इध्व^१- -इत् छां ५, ४-८, १; बृ

ह २, ९-१३; १४^६; शि ७, २६;

-इधः सुं २, १, ५; ८; मना २,

१२, ११^१; मुद्र १, ६१^६; शि ४, ३९;

४०; ४२; ४३; ६०; -इधम् छां

४, ४, ५; ६-८, १; मना २, ८०^१.

समित्-पाणि- -णयः प्र १, १;

छां ५, ११, ७; द १; -णिः सुं १,

२, १२; छां ८, ९, २; १०, ३; ११,

२; कौ १, १; ४, १८; -णी छां ८,

७, २.

समिद्-अग्नि-समुत्पन्न- -न्नम्

बृजा ५, ५.

समिद्-इन्धन- -नम् शि ६,

२८३^म.

सम्-इ(ध)धा^{१२}- -धाः त्रि ३^०.

समीकरण-समीकृत- १सम- द्र.

समी(म्/ई)ञ्, समीक्षामहे पित्र १,

१; समीक्षस्व पित्र ६, २.

सम्-ईक्ष्य पित्र ३, ८; गी १, २७.

समीची- समञ्च द्र.

समीप^०- -पे बृजा ४, ७; वरा २, ३९;

सार २६२: ८.

सामीप्य- -न्यात् सांका ७;

ब्रसू ४, ३, ९.

समीप-ता- -ताम् कलि ३.

समी(म्/ई)द्, > रि, समीरयेत् योशि

३, ६.

सम्-ईर- -रस्य यो १, २.

सम्-ईरण- -णः योशि १, १०४;

यो १, १; -णम् योचू ९८; शां १,

७, १; -णे मैत्रि ७, ११^१.

सम्-ईरित, ता- -तः ते १, ३२;

मुद्र १, ६; ७; -ता मुद्र १, ८; -ताः

मुद्र १, ६; वरा ५, २८; -तौ बृजा

४, २०.

सम्-ईरितुम् शां १, ४^०.

सम्-उ(द्)च्/चर्, > चारि,

समुच्चरेत् ध्या १००; ब्रवि ५९.

समुच्-चार्य रार २, ५३; ६५; ७८;

शि ७, ६३; सुसु ५.

सम्-उ(द्)च्/चि, समुच्चीयेत्

ब्रसू ३, ३, ६०.

समुच्-चय-

समुच्चय-विकल्प- -ल्पौ सांस्

३, २५.

सम्-उ(द्)च्/छिद्, समुच्-

छिनेत्^० यो २, २९; ३०.

सम्-उ(द्)च्/छि (<शिष्

समुच्-छिष्ट- -ष्टम् शि ६, २२०.

सम्-उ(द्)च्/छि (<शि)

समुच्-हय- -यः शि २, २.

समुच्-छित, ता- -तम् शि २, १४;

-ताम् शि ६, ११८.

सम्-उ(द्)च्/ज्वल्, समुच्-

ज्वलति त्रिवि ६, २३; ७, २२.

समुच्-ज्वल- -लम् शि ६, १३७.

समुच्-ज्वलित- -तम् सि ५, १०;

६, ८.

समु(म्/उ)ञ्च्

१^०सम्-उञ्जित- -तः अशि ६, ८.

सम्-उ(द्)त्/कृष्

समुत्-कृष्य यो २, २८.

सम्-उ(द्)त्/कम्

समुत्-क्रान्त- -न्तः नाद १३.

सम्-उ(द्)त्/क्षिप्

समुत्-क्षिप्य शि ६, १६३.

सम्-उ(द्)त्/तृ/तिर्

समुत्-तीर्ण- -र्णः महा ५, १७४.

सम्-उत्था(द्)त्/स्था > तिष्,

स्थापि, समुत्तिष्ठति छां ८, २, १०;

समुत्तिष्ठतः छां ८, २, ६-८; समु-

त्तिष्ठन्ति छां ८, २, १-५; ९.

a) =२काल- । वैपश् यद्र. । b) 'थं आ' इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. [एतदसु गप्. (पृ६२५) 'आन्ति-हरण->-णम्' इत्यत्र शोधः कर्तव्यः]. । c) =संप्रदाय- । d) =सभा । वैपश् यद्र. । e) ऋ ९, ९४, ४ । f) वैपश् यद्र. । g) 'मिज्ज', 'मेज्' इति आन. संटि. । h) ऋ १, २२, २१ । i) ऋ १०, १०१, १ । j) तैआ १०, १०, १ । k) ऋ १०, ९०, १५ । l) तैआ १०, ६४, १ । m) गप्. (पृ६६६) सस्थ. 'इन्धन->-नम्' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः । n) 'मिद्धाः' इति अब्या. संटि. । o) तु. वैपश्, २२३h । p) 'तम्' इति अब्या. । q) अं व झञ्चैति विकरणद्वयं (पा ३, १, ८५) । r) 'समुञ्जितः' इति शौ १०, २, २७; आन. ।

समुत्तस्थौ कौ २, १४; ४, १८.
 समुत्-थाप्य वरा ५, ३४.
 समुत्-थाय छां ८, ३, ४; १२, २; ३;
 वृ २, ४, १२; ४, ५, १३; ६, २, २;
 मै २, २; मैत्रि २, २; त्रिवि ८,
 १३; १७; शि ७, ७२; १३९.
 समुत्-थित, ता- -तः अन्न ५, ९५;
 -तम् योशि २, ५; -ता त्रिन्ना २,
 ७०; -ताः पै ३, १; अध्या ३६;
 -ते श्वे २, १२; त्रिन्ना २, ७२.
 सम्-उ(द्व)त्/पद्व>पादि, समुत्-
 पद्यते सार २२०:१; समुत्पद्यन्ते छां
 १, ९, १; ना१; त्रिवि २, १६; सं६.
 समुत्-पत्ति- -त्तिः मुद्र १, ५; -त्तिम्
 भव ४, १६.
 समुत्-पद्य सार २४९: ३.
 समुत्-पद्यमान, ना- -नाः सार
 २८०: १५; २२.
 समुत्-पद्म, स्ना- -स्नः कृ १७; -स्नम्
 सार २२४: १४; -स्ना सी ६;
 सार २२०: १६; -स्नाः ध्या ५१;
 योचू १५; योशि ५, २०; सार
 २१९: ६; २२०: ३; ८; २२४:
 १६; २२७: २; २३१: १; २४३:
 ५; ११; २५८: १२; २७२: ३;
 -स्ने ते ६, ८१.
 समुत्पद्म-सृष्टि- -ष्टयः सार
 २४५: १८.
 समुत्-पा(द्य)द्या- -द्या सार
 २२२: ३.
 सम्-उ(द्व)त्/पृ>पारि, समुद-
 पारयत् वृ ६, ४, २.
 सम्-उ(द्व)त्/सृज्, समुत्सृजेत्
 छु ५.
 समुत्-सृज्य ते ३, ७४; नाद ४१;

अन्न ५, ९५; जाद ४, ५०; ६१;
 वरा २, ४४.
 समुत्-स्रष्टुम् १योत १०८.
 सम्-उद(द्व)त्/अस्(क्षिपणे)
 समुद्-अस्त-
 समुदस्ता(स्त-आ)श्रम-
 समुदस्ताश्रमित- -तः
 आबो २.
 सम्-उद्-आ/हृ
 समुदा-हृत, ता- -तः १योत १२०;
 योशि १, १०७; यो १, ४८; वरा
 ५, ५८; -तम् महा २, ३२; -ता
 महा ५, २४.
 सम्-उदि[द्व/इ(गतौ)], समुदेति
 अन्न १, ५३.
 समुद्-अय- -यम् मैत्रि ३, २^b;
 -यात् सांका १६.
 समुद्-आय- -यः मै ३, २^०; -ये
 ब्रसू २, २, ८.
 समुदाय-गुरु- -रुम् सूता २, ६.
 समुद्-इत्- -तम् महा ५, ५२.
 समुद्-ईयमान- -नम् त्रिता १,
 ५२.
 समुद्-यत्-
 समुद्यद्-अर्क-नि(भ>)भा-
 -भास् त्रिता १, ८३.
 सम्-उदी(द्व/ई)र्
 समुद्-ईरित, ता- -तः मुद्र १, ७;
 -ता वरा ४, १; -ताः अरु ३३^१.
 सम्-उदी(द्व/ई)ष्, समुदीषति छां
 ६, ६, १-४.
 सम्-उद्-गम्
 समुद्-गम- -मे अन्न ५, १११.
 सम्-उद्-गृ(निगरणे)>गिर्
 समुद्-गीर्ण- -गीम् शि ५, २.

सम्-उद्/दिश
 समुद्-दिश्य योशि १, १५७; शि ६,
 १६८.
 सम्-उद्/घृ(<>ह), समुद्धरते
 शि ६, २१७; ७, ४१; समुद्धर
 महा ५, १३५; समुद्धरेत् द ४;
 वरा ५, ५६.
 समुद्-धर्तृ- -र्ता गी १२, ७.
 समुद्-धृत्य ऐ १, ३; वृजा ७, १;
 काला ८; सार २, ८६; ९८; १०१;
 १०३; जाबा १६; शि ३, २; ५,
 ५; ७, १३२; सुमु ५.
 सम्-उद्/भू, समुद्भवेत् सी ३२.
 समुद्-भव- -वम् ऊ ६४: १.
 समुद्-भूत, ता- -तः सार २२८: २;
 २८९: ३; -ता योचू ३५.
 समुद्र^०- -द्रः प्र ६, ५; छां २, ४, १;
 १७, १; ३, १९, २; ४, ६, ३; ६,
 १०, १; वृ १, २^१; २, ४, ११; ३,
 ३, २; ४, ५, १२; मना १, १३^१;
 १५^१; सुबा ११^१; २ शि ३३^१;
 -द्रम् प्र ६, ५; छां ६, १०, १;
 नाप ४, ३८; १अव ७; त्रिता ३,
 ३२; सु २९४; ६१^१; व ४३०:
 १२; गी २, ७०; ११, २८; -द्रस्य
 सुबा ११^१; व ४५९: १४; -द्राः
 मुं २, १, ९; श्वे ४, ४; मना २,
 १२, ११^१; वृजा ४, २४; योशि ६,
 ११; महा ३, ५०; गु ३१; वउ
 ४, ४२; -द्रात् छां ६, १०, १; मना
 १, १४^१; २, १२, २१^१; जाद
 १०, ६; -द्रान् इ १८: १३; वउ
 ३, २२; -द्रे मुं ३, २, ८; वृ १, १,
 २^१; मना १, ११^१; २, १३, २१^१;
 महा १, ११^१; दे ३१^१; जाद १०, ७;

a) 'उच्छ्रवसेत्' इति अच्चा.। b) °दायः इति मै ३, २। c) °दयम् इति मैत्रि ३, २। d) तैआ १,
 २७, ५। e) वैष १ यद्र.। f) ऋ १०, १९०, १। g) ऋ ९, ९७, ४०। h) °द्रः इत्यपि पाभे. (तु. उन्न.)। i) मा १७, २।
 j) ऋ ९, ९६, १९। k) °द्रस्य इत्यपि पाभे. (तु. उन्न.)। l) तैआ १०, १०, १। m) ऋ १०, १९०, २। n) ऋ ४,
 ५८, १। o) तैआ १०, १३। p) तैआ १०, ११, २। °द्वेवम् इति नादी.। q) तैआ १०, ११, १। °द्वेकम् इति
 अच्चा.। r) ऋ १०, १२५, ७।

च २० : १२९^०; गु ३८; -द्रेषु
गु ४३.
समुद्र-बेला- -ला मै ४, २; मैत्रि
४, २.
समुद्र-सलिल- -लस्य त्रिवि ८, २.
समुद्रा(इ-अ)य(ण>)णा- -णाः प्र
६, ५.
सम्-उ(इ>)न्/नम्
समुन्-नत-
समुन्नत-शिरः-पाद- -दः त्रिंशि
२, ४८^०; शां १, ३, ११; जाद ३,
११.
सम्-उन्मनस्-
समुन्मनी^०-
समुन्मनी/भू
समुन्मनी-भाव- -वः १आपू
२.
सम्-उप/गम्
समुप-गम्य योशि १, ९०.
सम्-उप/जन्>जा, समुपजायते मु
२, २, ४९.
सम्-उप/लभ्
समुप-लभ्य मवा ६.
सम्-उप/विश्, समुपविविष्टुः छां
१, ८, २.
समुप-विद्व्य छां १, १२, ४.
सम्-उप/स्था
समुप-स्थित- -तः शु १, ३; -तम्
वर्षं ३१२:१६; गी १, २८; २, २;
-ते योशि १, १०२; १संन्या २,
१०३; यो १, ४०.
सम्-उपा(प-आ)/गम्
समुपा-गत- -ते महा ४, ५५.
सम्-उपा(प-आ)/दिश्, समुपा-
दिश्वेत् सु १, १, २१.
सम्-उपा(प-आ)/अि, समुपाश्रय सु
१, १, ७.

समुपा-श्रित- -तः गी १८, ५२.
सम्-उपा(प/आ)स्, समुपास्महे
महा ६, १७-१९.
समुपा(प-आ)सित- -तः रापू ४,
३९.
सम्-उपा(प-आ)/स्था
समुपा-स्थाय अन्न ३, १.
सम्-उपे[प/इ(गतौ)], समुपैति गौ २,
२९.
सम्-उ(इ>)ल्/लङ्
समुल्-लङ्घ्य त्रिवि ६, १०.
सम्-उ(इ>)ल्/लस्
समुल्-लास- -सम् महा ४, ४३.
समूढ- सं/वह् द्र.
स^०-मूर्ति- -तैयः पा ९, १०.
स^०-मूल- -लः प्र ६, १; -लम् वृ ३,
९, २८, ६; महा ६, ७; अन्न ४,
५४; -लस्य अध्या ५९.
समूलो(ल-उ)न्मूलित- -ते पै ३,
१; अध्या ३९.
समू(म्/ज)ङ्(वहने), समूहताम् सूता
२, १३९^०; समूह ई १६; वृ ५,
१५, १९^०; समूहेव जु १५१^०.
सम्-ऊह- -हः ससा १, १२; -हाः
सार २२३: १७; २६३: १६;
२६४: ७; २६६: ३; २८४: ७;
-हेन सार २५३: १८.
समूह-मध्य-स्थ- -स्थे सार
२८६: १०.
सम्-ऊह पा १०, २.
समू(म्/ऋ)ध्, समूध्यते वृ ५, १४,
७; गा २४; समूध्यन्ति छां ७,
१४, २; समूध्येत छां १, ३, १२.
समूद्धि वृ ५, १४, ७^०.
सम्-ऋद्ध- -द्धः वृ ४, ३, ३३; मुद्र
४; -द्धम् छां ५, २, ८; मैत्रि ६,
३६^०; अध्या ६३^०; गी ११, ३३;

-द्धानाम् भव १, १२.
समूद्ध-काय- -यः मुद्र २.
समूद्ध-वेग- -गाः गी ११, २९^०.
सम्-ऋद्धि^१- -द्धयः सार २५३: १९;
-द्धिः छां १, १, ८; सौ १, ३९^०;
-द्धिम् छां ५, २, ९; -द्धयै मैत्रि ६,
३६.
समूद्धि-सुख- -खम् सार २५४:
१७.
समे[म्-आ/इ(गतौ)]
समे(मा-इ)त, ता- -ताः द १; शि
२, २०; ५, २४; पित्र १, ६;
-तानाम् सार २५३: १८.
समे(मा-इ)त्य छां ५, ११, १; खे ६,
३; कश्रु २, १.
समैकात्म्य- १सम- द्र.
स^०-मौक्तिक- -कम् शि ६, ९०.
सं/पत्
सं-पात^१- -तम् छां ५, २, ४; ५^०.
सं/पद्, >पादि, संपद्यते प्र ५, ४;
छां ६, ८, ६; १५, १; २; मैत्रि १,
१; त्रिवि ६: ८; गर्भं ३^०; वृपू ५,
३; त्रिवा २, १६२; मं २, ३, ४;
महा ४, ९१; ५, १४६; अन्न ५,
७८; ७९; त्रिता ३, ५; १६; ५,
६; ८; जाद १०, ९; १०; गोपू
१२^०; आर्षे ९: ९; निरु १, ११;
२, १; २प्र ३४: १६; ३५: ७;
अवि ६; ८; ब्रह् ४, १, १९; गी
१३, ३०; सम्-पद्यते वृ ६, १,
४^०; संपद्यति मैत्रि ६, २७;
संपद्यन्ते वृपू २, ३; शि ७, ४०;
सम्-पद्यन्ते छां ५, १, ४;
संपद्यामहे छां ६, ९, २.
संपेदुः छां ४, ४, ५; ८, ११, ३;
संपत्ये छां ६, १४, २.
संपाद्यन्ति अन्न २, ७.

a) तैश्चा १०, ११, २ । b) °दम् इति निसा., अख्या. संटि. । c) पा ५, ४, ५१ । d) =६स । e) तैश्चा ३,
७, ६, २३ । f) का ४०, १, १६ । g) °ह्व इति निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) । h) °मर्षि इति आन.
संटि. । i) 'ऋद्धम्' इति निसा. संटि. । j) =शक्तिविशेष- । k) 'कुचते' इति आन., अख्या. ।

संपत्ति^१ -त्तः १अव ३१; ब्रसू १, २, ३१.
 संपत्ति-मुख-(ज्ञ>)ज्ञा^१ -ज्ञा सार २६३: १०.
 संपद्^१ -पत् छां ५, १, ४; १४^३; वृ ४, ३, ३२; ६, १, ४; १४^३; गी १६, ५; -पदः वृ ३, १, ६; महा ३, ५३; अक्षि २३; भव १, १८; -पदम् छां ५, १, ४; वृ ६, १, ४; गी १६, ३-५; -पदा योशि ६, ६८^०; -पदे छां ५, २, ५; वृ ६, ३, २.
 संपत्-प्रद- -दः ध्या १७.
 संपत्-सारस्वत- -तौ ह ९.
 संपत्-सुत-स्त्री-प्रलय- -ये भव १, ५५.
 संपद्य छां ६, १, २; ब्रसू ४, ४, १.
 संपद्यमान- -नैः प्र ३, ९.
 संपद्य- -ञः प्र ५, ३; ५; छां ६, ८, १; ८, ३, १-१०; ६, ३; -ञम् महा २, ३८; १अव २९; आर्षे ८: ९; -ञस्य आबो १६; -ञाः मैत्रि ६, २२; -ञाय दत्ता २^३; व ४५६: १४^३.
 संपद्य-तम- -मः वृ ४, ३, ३३.
 *संपादया-
 *संपादयां/कृ, संपादयांचकार छां ५, ११, ३; संपादयांचक्रुः छां ५, ११, २.
 *संपादयाम(म्/ञ)स(भुवि), संपादयामासुः पित्र १, २.
 संपादित- -तम् सार २२३: १९; -ताः सार २२३: १०; -तानि सार २२३: ११; २५४: १६.
 संपाद्य वृ ३, १०; व ६, ५.
 संपाद्य- -द्याः १योत १२३^०.
 संपरि/गृह्
 संपरि-गृह् क १, २, १३.
 संपरि/त्यज्
 संपरि-त्यज्य महा ४, ८; ६, ८; अञ

१, ३२; ४, ६५; मु २, २, १८; ६८.
 संपरि/वृ(आच्छादने)
 संप(रि>)री-वृ(त>)ता- -ताम् अरु २४९^०.
 संपरि/ष्व(<स्व)ञ्ज्
 संपरि-ष्वक्त- -क्तः वृ ४, ३, २१^२; ब्रसू ३, १, १; -क्तौ वृ १, ४, ३.
 संपरी[रि/इ(गतौ)]
 संपरी(रि-इ)त्य क १, २, २.
 संपरे[रा/इ(गतौ)]
 संपरा(रा-अय)- -ये इ १२: १२.
 सांपराय- -यः क १, २, ६; -ये क १, १, २९; वृ २, १२; ब्रसू ३, ३, २७.
 सं/पशु, संपश्यति मु २, २, ५९;
 संपश्यध्वम् छाग २४: २०;
 संपश्यध्वै छाग २४: १; संपश्येत् ब्रवि ५४^०; जाद ५, १२.
 संपश्यत्- -श्यन् कै १, १०; नाप ५, ३६; गी ३, २०.
 सं/पा(रक्षणे), संपायाः पा ४, ५.
 सं/पा(पाने)
 संपीयमान-
 संपीयमान-सौष्ठव- -वम् सार २३८: २३.
 संपात- सं/पत् द.
 सं/पीड>डि
 सं-पीड्य वृ ७, १२; ध्या ७४;
 १योत १२०; त्रिब्रा २, ४९; योचू ४६; शां १, ३, ७; ९; ७, ४३; महा ५, ७५; योशि १, १०४; मु २, २, ४२.
 सं/पुद्
 संपुट- -टः वरा ५, ४५; -टम् त्रिता ३, १९; अद्वै ११; सिशि ३८२: १०.
 संपुटी/कृ
 संपुटी-कृत्य त्रिता ३, १८.

संपुटित- -तः वृजा २, ५^०; -ताः सूता १, ३३; -तौ ध्या ६९; योचू ४०.
 सं/पुष्>पोषि
 संपोष्यमाण- -णः सार २७४: १८.
 संपुष्पित- -तस्य मना २, ११९^१.
 सं/पूज>जि, संपूज्येत् रापु ५, ६; भ २, २०; शि ७, ७५.
 *संपूजया-
 *संपूजयाम(म्/ञ)स(भुवि), संपूजयामासुः सार २४२: २३.
 संपूजित- -तः त्रिवि ६, १७; शि ७, ७३.
 संपूज्य वृ ३, १०^३; शु १, १; त्रिवि ५, १३; शां १, ५; भ २, २४; २६; सर १, १; लं २१४: ३; शि १, २; २८; रया १५; सुमु ११; व ६, १८.
 सं/पृच्
 संपर्क- -र्कात् शि ६, १८४; ७, १०६.
 सं/पृ>पुट, परि, संपूर्यते छां ५, ३, ३; १०, ८; वृ ६, २, २.
 संपूरित, ता- -तम् सार २२४: १९; -ताः सार २२५: २; २६४: ७; -तानि सार २२३: ६.
 संपूर्ण- -र्णः महा २, २७; -र्णम् पाशु २, ३५; रूह ५१; वरा २, २१; शि ६, २२४; -र्णाः सार २२३: ८; २२४: २१; २३३: २१; २४२: ६; २६९: ५; ६; २८३: १०; -र्णं जाद ८, ९.
 संपूर्ण-कुम्भ-
 संपूर्णकुम्भ-वत् त्रिब्रा २, ९८; जाद ६, १३.
 संपूर्ण-केवल- -लः महा २, ७३^६.
 संपूर्ण-चन्द्र-वद(न>)ना-
 -नाम् रा ४२४: २२.

संपूर्ण-चन्द्र-संकाश- -शम् ह
६.
१संपूर्णचन्द्रसूर्य- -र्यःते६, ९३^३.
संपूर्ण-ता- -ताम् गोच६८:१४.
संपूर्ण-रूप-
संपूर्णरूपिन्- -पिणः पाशु२,
३४.
संपूर्ण-हृदय- -यः सौ २, ६.
संपूर्ण(र्ण-आ)नन्दे(न्द-ए)क-
बोध^०- -धः पप ४२० : १६.
सं-पूर्व शां १, ७, १.
सं-पूर्वमाण, णा- -णम् सार २८१ :
९; -णाः सार २३३ : १९; २१-२३.
सं-प्र/कट्
संप्र-कटित-
संप्रकटित-देह-संभव-
-वाभ्याम् सार २४७ : २१.
सं-प्र/काश
संप्र-काशित- -तः गौ ३, ११.
सं-प्र/कृ, संप्रकुर्यात् अद्वैभा १८.
सं-प्र/कृष्, संप्रकर्षति भव १, ४०.
संप्र-कर्षण- -णे महा ५, १२१^०.
सं-प्र/कृत् > कीर्ति
संप्र-कीर्तित, ता- -तः गी १८, ४;
-ताः शि ४, ६०.
सं-प्र/चक्ष, संप्रचक्षते ब्रवि १; १प्र
३० : ४.
सं/प्रच्छ, > पृच्छ, संपृच्छते शि ४,
२९; संपृच्छसि इ १८:१४; सम-
पृच्छत् इ १८ : १४; १५; १६^१.
सं-प्रश्न- -ञ्जे शि ७, ७.
सं-प्र/च्छद्
संप्र-च्छन्न- -न्नः कौ २, १५^०.
सं-प्र/ञ्हा
संप्र-ज्ञात^१- -तः योसू १, १७.

संप्रज्ञात-समाधि- -धिः मु २,
२, ५३.
संप्रज्ञातसमाधि-तस(>):
वरा ४, ३८^०.
सं-प्रति^१ छां २, ९, ५; ५, ११, २^६; ४^६;
६^६; ८, ११, १^६; २; रापू ४, १६;
महा ३, ५५; सांसू ३, ६.
सांप्रत-
सांप्रत-काल- -लम् सांका
३३.
संप्रत्य(ति-श्च)वसित^१- -तानाम्
१संन्या २, ४.
सं-प्रति/घ्रा (<स्था), > घ्रापि
संप्रति-घ्रा- -घ्रा गी १५, ३.
संप्रति-घ्राप्य छां ८, १५, १; अ ३^१.
संप्रति-छित- -ताः प्र ४, १; ब्र १;
सुवा १०.
सं-प्र/दा(दाने)
संप्र-त्ति- -त्तिः वृ १, ५, १७.
संप्र-दान- -नम् कौ २, १५.
सं-प्र/दु, संप्रद्रवते छाग २५ : २; ३.
सं-प्र/बुध्, संप्रबुध्यते यो १, ४५.
सं-प्र/मुच्
संप्र-मुच्य वृ ४, ३, ३६.
सं-प्र/यच्छ(दाने), संप्रयच्छति कौ
२, १५; संप्रयच्छन्ति छां २, २४,
६; १०; १६.
सं-प्र/युज्, संप्रयुज्यते जाद ६, ५१;
संप्रयुज्यन्ते गौ ३, ५.
संप्र-युक्त- -कम् मैत्रि ७, ११; ते
१, १२^१.
संप्र-योग- -गात् गर्भ ३^६.
सं-प्र/सी, संप्रसीयन्ते गौ ३, ४.
सं-प्र/वच्, संप्रवक्ष्यामि क्षु १; योशि
१, ७९; यो २, १; जाद ७-१०, १.

संप्रोच्यते योशि १, १५९.
संप्रो(प्र-उ)क- -क्तः ते १, १७; अक्ष
२, ४.
सं-प्र/विश
संप्र-विश्य शा ६.
संप्रवेश- -क्षे पप ४१८ : १६^१.
सं-प्र/वृत्
संप्र-वृत्त- -त्तानि गी १४, २२.
सं-प्र/वृष्
संप्र-वृद्धि- -द्धिः भव ५, १३.
सं-प्र/सद्, > सीद्, संप्रसीदति महा
५, ६६.
संप्र-सन्न- -न्नः छां ८, ६, ३; ११, १.
संप्र-साद- -दः छां ८, ३, ४; १२, ३;
मै २, २; मैत्रि २, २^३; ब्र १^३;
सुवा ४; -दात् वसू १, ३, ८; -दे
वृ ४, ३, १५.
सं-प्र/सू(प्रभवे), संप्रसूयन्ते अ ३.
संप्र-सूत- -ताः मुं २, १, ५; ७.
संप्रसूत-कलत्र- -त्राणि महा
३, ७.
सं-प्र/स्था > तिष्ठ, संप्रतिष्ठते प्र ४,
७; ९; संप्रतिष्ठन्ते प्र ४, ७;
संप्रतिष्ठन्ति प्र ४, ११.
सं-प्र/सृ, संप्रास्रवत् छां २, २३, २;
३; मैथ ५, १^०; मैत्रि ५, २; संप्रा-
स्रवन्त छां २, २३, २.
सं-प्रा(प्र/आ)प्, संप्राप्नुवन्ति योशि
१, १६१; सार २८०:६; ७.
संप्राप्यते मै ४, ३; मैत्रि ४, ३;
मैत्रे १, ४, ३; महा ३, १२; ५,
११०; योशि १, १३६; १४०.
संप्रा(प्र-आ)प्त, प्रा- -प्तः गर्भ ४^३.
ध्या ८५; योचू ५९; -सा महा
५, ७२; -से त्रिभा २, १११;

a) पा. ? ०न्द्रः सू^० इति शोधः द्र. । b) कस. + कस. > वस. । c) ०र्षति इति अख्या. । d) ०बम् इति अख्या. । e) असंप्रज्ञास^० इति अख्या. । f) अव्य. वैप १ यद्र. । g) वैतु. J.C. ०प्रत्यधी^० इति । h) वैतु. J.C. संप्रति/ज्ञा इति । i) प्रास. उप. अधिकरणे कः । j) तत्त्वयु^० इति आन. । k) ०योगतः इति अख्या., प्रयो^० इति आन. । l) निसा. ? 'अप्यं प्रवेक्षे' इति शोधः द्र. (तु. अख्या.) । m) ०साइदः इति सात. । n) ०रः इति आन. । o) सकृत् ०वति इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. मैत्रि ५, २) । p) ०से इति आन. ।

महा ४, ३६; यो १, ४३; भव १, ५७.
 संग्रा(प्र-अ)प्य सुं ३, २, ५; शां १, ४; महा ५, १४४; गोउ २७^०; शि ४, ५४.
 सं-ग्रा(प्र/अ)र्थ>र्थि
 संग्रा(प्र-अ)र्थित- -त्तः सार २३०: १७; २५८: ५.
 संग्रा(प्र-अ)र्थ्यमान- -नः सं ९.
 सं/ग्री
 सं-ग्रीयमाण-
 सं-ग्रीयमाण-मनस्- -नसः सार २४५: १६.
 सं-प्रे(प्र/ई)क्ष्, सं-प्रेक्षामहे सार २१९: ३.
 सं-प्रे(प्र-ई)क्ष्य गी ६, १३.
 सं-प्रोक्त- सं-प्र/वच् द्र.
 सं-प्रो(प्र/उ)न्
 सं-प्रो(प्र-उ)क्ष्य भ १, ४; ५.
 सं/प्लु, सं-प्लुवते छां २, ४, १; सं-प्लुवन्ते छां २, १५, १.
 सं-प्लुत-
 सं-प्लुतो(त-उ)दक- -के गी २, ४६.
 सं/प्ता
 सं-प्ताय वृ ५, १४, ८; गा २८^१ b.
 सं/बन्ध
 सं-बद्ध- -द्धम् योशि १, ५९.
 सं-बद्धा(द-आ)सन-मेद्- -द्धम् योचू ११४^०.
 सं-बध्य त्रिवा २, ४२.
 सं-बन्ध- -न्धः कुं १५; सार २३१: १३; सांसू ५, ९८; -न्धस्य ब्रसू ४, २, १९; -न्धात् ब्रसू ३, ३, २०; ४, ३, ३; -न्धे महा ५, ४८.
 सं-बन्ध-त्रय- -यम् ते ५, ३५.
 सं-बन्ध-नित्यता- -त्ता सांसू ५,

९७.
 सं-बन्ध-वर्जित- -त्तः जाद २, ११.
 सं-बन्ध-संयम- -मात् योसू ३, ४२; ४३;
 सं-बन्ध-सिद्ध- -द्धम् सांसू १, ८९^१.
 सं-बन्ध-सिद्धि- -द्धिः सांसू ५, २८; -द्धेः सांसू ५, ३८.
 सं-बन्धा(न्ध-अ)नुपपत्ति- -त्तेः ब्रसू २, २, ३८.
 सं-बन्धा(न्ध-अ)भाव- -वात् सांसू ५, ११.
 सं-बन्धा(न्ध-अ)र्थ- -र्थम् सांसू ५, १०७.
 सं-बन्धा(न्ध-अ)लाप-कीर्तन- गोष्ठी-मार्गा(र्ग-अ)नुभव- -वात् मार २२७: १३.
 सं-बन्धिन्- -न्धिन्ः शा ३०; गी १, ३४.

सं/बाध्

सं-बाध- -धम् इ १५: १०.
 सं/बुध्>बोधि, संबोधयेत् गौ ३, ४४.
 सं-बुद्ध- -द्धः गौ ४, १; ३५.
 सं-बुद्धि^१- -द्धिः दत्ता १, ५; ७.
 सं-बोद्धुम् यो २, १०.
 सं-बोधन^१-
 सं-बोधन-द्वय-पुटि(त>)ता- -ताम् गुपो ४२०: ९.
 सं-बोधयितृ- -त्ता मै ५, ४१^०; मैत्रि ६, ४.
 सं-बोध्य पी ४२१: ९.
 सं/भच्
 सं-भक्षण- -णेन अशि ४, १५; वट्ट ३१६: ८.
 सं-भक्ष्य अशि ४, १५^१; वृउ ४, ५; ७, १२; वट्ट ३१६: ८.

संभव- सं/भू द्र.

संभार- सं/भृ द्र.

संभावित-, संभाविन्-, संभाव्य सं/भू द्र.

सं/भाष्>षि, संभाषेते सार २६६: १७; संभाषेत् नाप ४, ३.

संभाष्येत् शि ७, १६.

संभाष्यते व १६.

संभाषयेत् २कौल १२.

सं-भाषण- -णम् ते २, ३०; नाप ५,

१; ६, ३२; सार २३१: २२;

२३५: ४-६; ८; १२; २७३: ७;

-णात् सार २८३: २.

सं-भापमाण,णा- -णः कौ २, ४;

-णाः, -णात् सार २७६: १; -णौ

सार २८९: १२.

सं-भाष्यमा(शा>)णा- -णा सार २८७: ६.

सं/भिद्

सं-भिद्य यो १, ६९.

सं/भुज्, संभुज्जते सार २३९: १५; २८०: १.

संभोक्ष्यते सार २५९: १८;

संभोक्ष्यन्ते सार २३९: १६.

सं-भुज्जमान- -नाः सार २८८: १४.

सं-भुज्जा(त>)ना- -नाः सार २७४: २१.

सं-भोक्ष्यमाण,णा- -णः सार २४०: ८; -णा सार २८४: ११;

२८६: २१; -णाः सार २६३:

१६; २७३: २१; २८१: १३;

२८३: २३; २८४: ८; २८८: २.

सं-भोग- -गः महा ५, १७१; -नौः शि ६, २६०.

संभोग- -चट्ट-चाट्ट-वचन-

-नाय सार २५१: २०.

संभोग-प्राप्ति- -सिः ब्रसू १, २, ८.

a) 'प्रथमाम्' इति आन. । b) तु. गपू. पृट् ३११। c) °द्व्वाऽऽस्° इति अज्या. । d) 'संबद्धं सत्' इत्यपि पाठे. । e) गपू. (पृ००६, ५८०) सस्थ. 'रस->-सम्' इत्यत्र 'बोधयित' इत्यत्र च यनि. शोधः कर्तव्यः (तु. नाउ.) । f) 'उद्गृह्णाति' इति आन. ।

संभोग-प्रिय- -याव सार २६०:
२१.

संभोग-लीला- -लायाम् सार
२८७: १८.

संभोग-व(त>)ती- -ती सार
२३४: ६.

संभोग-वश- -शात् गोच ६७:
१६.

संभोग-सुख- -खम् सार
२८०: ६.

संभोगसुख(व>)दा- -दा
सार २२३: ४.

संभोग-स्थान- -ने सार २८४: ७

संभोगिन्- -गिने सार २५१:
१५.

संभोगे(ग-इ)च्छा- -च्छाम् रा
४२४: २२.

सं-भोज(न>)नी- -नी इ १२:
१७.

सं-भोज्य- -ज्या: सार २३७: १८.

सं/भू(वधा.)>भावि, संभवति क
२, १, ७; सुं १, १, ७; छां ५, ४-८,
२; वृ १, ४, ४; ५, १४, ८; ६, २,
९-१४; महा ४, ४९; अक्ष १,
२५; ४, ७; त्रिता ४, २६; जाद
६, १५; निरु १, ३; ६; १३;
२प्र ३७: २; सार २३९: ८;
संभवन्ति सुं १, १, ७; शां १, ४;
महा ६, १३; सार २६०: ३;
२६३: १४; २६७: ३; २८८:
१०; गु २६; गी १४, ४; सं-
भवसि वृ ६, ४, ९९^b; कौ २, ११९^a;

संभवामि गी ४, ६; ८; समभवत्
ऐ ४, ६^१; ५, ४^१; छां ३, १९, १;
वृ १, २, ४; ७; ४, ३; ना ४; वृजा
१, १; वृपू १, १; सुवा १; वा १८;

आवो १^२; १कौल शां; वपू १, २;
सम्...अभवत् वृ १, ४, ४^३;
समभवन् गोच ६६: १८; सं-
भवेत् ते १, ३८; ५, २२; ६, ८५;
वरा ५, ५; सांसू २, ४४.

संबभूव सुं १, १, १; मना १, ४९^b;
नाप ४, ३८९^०; योचू ७२; अक्ष
३, १९; गु ७४; संबभूवतु: वृ १,
१, २; संबभूवु: सिशि ३८१: ७.

संभावयेत् त्रिता ५, ७.
संभावयिष्यसि पा २, ६.
संभाव्यते ते ५, ४९.

सं-भव- -व: वृ ३, ९, २८, ५; गौ ३,
२५; ४८; ४, ३८; ७१; सुवा ६; ते
५, ५३; पिं ७; १७; सार २९१:
१७; गी १४, ३; -वम् भव १, ५;
-वा: त्रिवा २, ६; -वाव ई १३;
ब्रसू १, ३, २६; ४, १, ७; -वे श्वे
३, १; गौ ३, ९; ४, १६^१; सांसू
१, ४.

संभव-व्यत्यय-क्रम- -माव सु
२, २, ५०.
सं-भावित, ता- -तस्य गी २, ३४;
-ता: सार २८२: ८.
संभावित-जित-रसिकशिरो-
मणि- -णये सार २५२: १.
संभावित-रस-(ज्ञ>)ज्ञा- -ज्ञा
सार २६३: ६.
सं-भाविन्-
संभावि-त्त्वा(त्व-अ)नुसं-
धान- -नम् अध्या ३३.
सं-भाव्य वृ ४, ३; राउ ३, १^d; विधा
४; वउ १, १८; ५, ४४; ६, १७.
सं-भूत- -त: तै २, १, १; छां ५, ९,
२; मैत्रि ६, १९; मना १, ३९^०;
कौ १, ६; योचू ७२; पै १, १६;

कठ १३; गोउ १३^१; ४४^{१b}; नाउ
१, १५^b; -तम् ऐ ४, १; गोउ
३९^१; -तै: कुं २१.
सं-भूति- -तिम् ई १४; -तै: गौ ३,
२५; -त्या ई १४; -त्याम् ई १२.

सं/भू
सं-भार- -रम् वउ ६, १३.
संभार-वत्- -वान् महा ६, ७०^१.
सं-भूत- -तम् मैत्रि ६, १४; गोच
६९: ४.
सं-भूति-
संभूति-सुव्यासि^k- -सि ब्रसू ३,
३, २३.
सं-भूत्य वृ ६, ३, १; २संन्या १५: ३.

सं/भृष(अस्त्ज)
सं-भृष्ट-
संभृष्ट-बीज-
संभृष्टबीज-वत् सु २, २,
६३.
संभोक्ष्यमाण- सं/भुज् द.
सं/भ्राज्, संभ्राजते सार २३९: ३.
सं/मज्ज्(<मज्ज्), सम्...
मज्जन्ति कौ १, ४^१.
सं/मन्, >मानि
सं-मत- -तम् महा ५, १३९; योरा ३.
सं-मान- -नात् नाप ३, ४०.
सं-मानन- -नम् नाप ४, ८१^m; ५,
२९.
सं/मन्त्रि(<मन्त्र-)
सं-मन्त्र्य गौ ४, ३५.
संमर्श-, संमर्शिन- सं/मृषा द.
सं/मा(माने)
सं-मित- -त: अक्ष ५, १३; -तम् मना
२, ३४९^m; वृपू ५, २-५; महा ५,
१४९; आर्षे ८: ९; इ ११: ३;
२शिनं २.

a) संभ्र° इति मंत्रा १, ५, १६ । b) 'सुविवेश' इति मा ३२, ११ । c) तैआ ७, ४, १ । d) °न्य: इति
अध्या. । e) तैआ १०, १, ३ । f) अंशभू° इति आन. । g) तु. गपू, ४८०७ । h) तैआ ८, १, १ । i) भू° इति आन. ।
j) संसार° इति अध्या. । k) समाहारे द्वस. । l) गपू. (४६२६) /मज्ज्>मज्जन्ति इत्यत्र सस्य. यनि. शोष:
कर्तव्य: । m) सन्मा° इति पा. १ यनि. शोष: द. । n) तैआआ १०, ३४ ।

सं/मिल्

सं-मेलक-

संमेलका(क-आ)दि- -दौ यो २,
२६.

सं/मील्

सं-मीलि(त>)ता- -ता सार
२६९: १.

सं-मुख- -खम् य ९; सु २९३: १०;

-खा: गोच ६८: ६; -खे सी ३७;
राधा १, १९; २, ३.संमुखो(ख-उ)न्मुख- -खाम्याम्
रार ३, १.

सं/मुह्, > मोहि, संमोहय-संमोहय

व ४५७: ६; २३.

सं-मूढ-

संमूढ-त्व- -त्वम् मै ३, २; मैत्रि
३, २; स्वाव मै ३, २१; मैत्रि ३, २सं-मोह- -ह: मै ३, ५; मैत्रि ३, ५;
गी २, ६३; हम् वृ ४, ४, १; मैत्रि
६, ३८; कौ ४, १२; गी ७, २७;
-हाव गी २, ६३.

संमोह-मौलि-

संमोहमौलिन्- -खी मैत्रि
६, २८.१सं-मोहन- -न: रार २, २०;
-नाय व ४५६: ९.संमोहन-बाण- -णाय व
४५७: २.

२सं-मोहन-

संमोहन-कर- -०र अच् ५.

सं-मोहयत्- -यन् नाप १.

सं-मोहित- -त: गौ २, १९.

सं-मोहि(न्>)नी- -०नि सार
२४४: ६.

सं/मृज्

सं-मार्जन- -नम् शि १, २५१^३; २६.

संमार्जनी- -न्या १योत ३४.

संमार्जना(न-अ)जन- -नम् शि
७, ३४.सं-मृज्य वृजा ७, १; भ १, ५; का ११;
नार १०.

सं-मृष्ट- -ष्टम् १योत ३४.

सं/मृश्

सं-मर्ष- -र्ष: भ २, २.

सं-मर्शिन- -र्शिन: तै १, ११, ४^३.

सम्यच्, ङच्- -समच्, ङच् द्र.

सम्/राज्

सम्-राज्- -राट् प्र ३, ४; वृ ४,
३, १; मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; मना
२, २९१^३; वृ १, ८; सुबा ४; ए
७; वपू २, १; -०राट् वृ ४, १, १;
३, २; ५; ३२; ३३; ४, २३; ५,
१४, ८.साम्राज्य- -ज्याय छां २,
२४, १३.

साम्राज्य-दायि(न्>)-

नी- -नी नापू २, १३.

साम्राट्-चक्र- -क्रम् चक्र ७.

सं-यत्न- -क्षा: अव्य ७.

सियत्नेन^६ स्व ६१: ३.

सं-यव- -वै: भ २, २४.

सं-युग्वन्- -ग्वा छां ४, १, ३; ५; ८;
-ग्वानम् छां ४, १, ३; ५.सं-युज्- -युजा मुं ३, १, १९^६; श्वे ४,६९^६; अरु १६९^६; नाड १, ३९^६;
भव २, २९^६.सायुज्य- -ज्यम् छां २, २०, २; वृ
१, ३, २२; ५, २३; ५, १३, १-४;मै ४, १; मैत्रि ४, १; ४; मना
२, १५^६; ८०^६; कौ १, ३^६;५^६; वृपू १, १४; नाद १५; ब्रवि
५७; त्रिवि १, १२; भ २, २४; सु
२९४: २; बि १४; स ३७९: २०.सायुज्य-ता- -ताम् कलि ३; कश्चु
२, १.

सायुज्य-त्व- -त्वम् मैत्रि ६, २२.

सायुज्य-पद- -दम् वि २२.

सायुज्य-मुक्ति^१- -क्ति: त्रिवि ५,
३; सु १, १, २५.सायुज्यमुक्ति-प्रद- -दम्
त्रिवि ७, ४९.सायुज्यमुक्तय(क्ति-अर्थ)-
-र्थे शु २, ५.सायुज्य-विनियोग- -गम् मना
२, ३३^६.

सं-योनि- -नि: सूता १, २२.

सर^०- -राणाम् रुजा १, १७; १८.

सं-रक्त- -क्त: नाप ३, १३.

सरण- -सरणि- /सु द्र.

सं-रति- -ति: सार २६१: १६;
२६४: ९.सं-रथ, था- -थम् व ४६०: १३^६;
-था: क १, १, २५.सरयू^०-सरयू-तीर-मन्दार-वेदिका-पञ्ज-
जा(ज-आ)सन- -ने रार २, ३.

a) असं^० इति पा.१ यनि. शोध: द्र. (तु. नाड). b) तु. गपू. पृ४१०p। c) भावे कृत्। d) अतु-
स्वाराडभाव: द्र. (पा ८, ३, २५)। e) तैत्र्या १०, २२, १। f) =६स। g) पा.१ 'सो(स-उ)ल्बा इव' इत्यस्य 'स लेन'
इत्येवं विपरिणाम्याऽनर्थकस्य सतः पुनःसार्थकताऽऽपादनार्थं मध्ये यकारोऽदायीति शोभाऽवसर: द्र. (तु. गी ३, ३८)।
h) ऋ १, १६४, २०। i) तु. गपू. पृ६०६ं यदतु यनि. पदविभागः; वैतु. भा., सा. (तैत्र्या १, २७, २) 'सयुजोषस->
-षसः' (पुं. प्र३) इत्येकं पदमिति (तु. वैप २, १०४ टि.)। j) तैत्र्या १०, १४, १^३। k) तैत्र्या १०, ६४, १^३। l) भूयसः
पामे. कृते आन. प्रमृ. द्र.। m) 'ज्यं वि०' इति निमा.१ (तु. तैत्र्या १०, ३३) यनि. शोध: द्र.। एतदतु गपू.
(पृ७७१) सस्थ. विनि/युज् > विनि-योग-> -नाम् इत्यत्र यनि. शोध: कर्तव्यः। n) =५स। o) व्यु.१ =वलय-।
p) ऋ १०, ८४, १। q) व्यु.१ =नदीविशेष-।

सर(ल>)ला^१- लासु त्रितादे, १०^b.
 १सरस्^२- -रः छां ८, ५, ३; महा ६,
 ७५; सार २८१: ८; २८६: १;
 -रसः बा १४; -रसाम् गी १०,
 २४; -रसि महा ५, ११९^d; अन्न
 २, ४४; ४, ७१; गोल २०; -रांसि
 सि ५, ३७.

सरसि

सरसि-(ज>)जा- -जाम् व
 ४५५: २०.

सरोज- -जे राप् ४, ४४.

सरोरुह-क(र>)रा- -राम् रा
 २, २४.

२सरस्^३-

सरस्-व(त>)ती^१- -०ति वृ ६, ४,
 २७^६; मना १, १३^{६b}; २, ३४^६;
 व ४३१: १०; ४३६: ७; २०;
 -ती मना २, ४२^६; वृप् ४, १५,
 ६; शां १, ४^६; ७, ४६; राउ
 ४, २२; योशि २, ११; ३, ८; ५,
 २३; ६, २२; अन्न ३; त्रिता ४,
 ३२; ३४; भा १४; यो १, ९;
 जाद ४, ७; १४; २१; वराप्, २५;
 सर २, १^६; २^६; ३^६; ४^६;
 ४^६; ५^६; ६^६; ९^६; १०^६; ११^६;
 ३, १; १०; व २२; म ४९:
 १; नाप् २, ७; ५, ३४; राधा ४,
 ३; सार २८५: १३; सिशि ३८३:
 ३; गार ४०५: ८; ४०६: १३^३;
 २१; ४०७: १८; व ४२७: ५;
 तारा ८३: ५; २४; -तीम् मना २,

३५^६; दे ६; यो १, १७; सर ३,
 ७; ८; -स्याः योशि ३, १०; यो १,
 ८; ९; १५^६; १६; २३; ५३; जाद
 ४, १६; १७; ३५; गार ४०५: ९;
 -स्याम् छागर ३: १; -स्यै व ४६२:
 २१.

सारस्वत- -तः सर ३, १०;
 पा ३, ७; -तम् वृष ८४: १५.

सारस्वत-प्राप्ति- -सि:
 सर १, ३.

सरस्वती-कुहू- -हू शां १, ४.

सरस्वती-दशश्लो(क>)की-
 -क्या सर १, २.

स^१-रस,सा- -सः पाप्, ७; -साः महा
 ३, ४४; पा २, १०; सार २५९:
 १०; २८३: २२; -सान् मना २,
 ६३^६; -से पा ७, ८; -सेन इ
 १८: १०.

स^१-रस-सु(ख>)खा^१- -खा सार
 २८२: १२.

स^१-रहस्य- -स्यम् अक्षि १४; त्रिता
 २, ६१; जाबा ७.

स^१-रहस्यो(स्य-उ)पनिषद्-अङ्ग-
 -ङ्गान् गोच ६९: १४.

स^१-राग- -गः ब्रवि ७५; नाप ३, १३.

स^१-राम- -मः राप् ४, २२.

सरित्^१- -रित् गोल २; -रितः मना २,
 ४०^६; व ३, २२; ४, ४२;
 -रिताम् व ३, ३१.

सरित्-नद-सुज- -जम् व ४, ३६.

सरित्^२- -रस्य वा १४.

१स्-रूप,पा- -पम् मना २, ४९^६;
 -पाः सुं २, १, १; श्रेष्ठ, ५^६; -पाम्
 मना २, १२, १^६; वृप् ३, ४;
 नाप् ५, २०^६; -पे सार २५६:
 १५; -पैः शि ६, १२१.

सारूप्य-

सारूप्य-सिद्धि- -द्धिः सूता
 १, ३.

सरूप-ता- -ताम् कलि ३; सूता १,
 २३.

२स^१-रूप- -पः अन्न ४, १४^६; १८; सु
 २, २, ३२^६; ३५.

सर्ग- /सृज् द.

सर्प-सर्पिणी-सर्पिस- /सृप् द.

सर्व,वी^१- -र्व^१ लां २१६: १९; -०र्व
 गी ११, ४०; -र्वैः प्र ४, ५; छां १,
 ६, ६; वृष्ठ, ३, २०; गौ २, २;
 मैत्रि ६, १६; मना २, २४^६;
 अशि १, ९; तै ५, ६८; त्रिवि ३,
 २; महा ४, ५६; -र्वैम् ई १; के
 शां: क १, १, २६; प्र १, १; सुं
 १, १, ३; मां १^६; तै १, ७, १; ऐ
 ५, ३; छां छां: वृ १, २, ५^६; श्रे ३,
 १५^६; सुबा १५^६; तै ६, ३०^६;
 नाप २, २०^६; मं २, ४, ६^६;
 -र्वस्मात् वृ १, ४, १; वृउ २, २; सुद
 २; महा ५, ९०; अन्न २, २५; शा
 २६; -र्वस्मिन् छां २, २१, १; २; मै
 ५, ६; मैत्रि ६, ६; सुबा ५^६; नाप
 ३, ५४; पिं ३, ३; -स्मै पिं ३,
 ७; -र्वस्य ई ५^६; मां ६; वृ १, २, ५;

a) व्यु? b) अक्षुलिष्विति शेषः । c) =तडाग- । वैप१ यद्र । d) 'सरति' इति अख्या । e) व्यु. अर्थश्च ।

f) वप्रा. वैप१ यद्र । इह =नदीविशेष-, देवीविशेष-, नाडीविशेष-, गोपीविशेष- प्रथ. । g) ऋ १, १६४, ४९ । h) ऋ १०, ७५, ५ । i) तैत्र्या १०, ३४ । j) तैत्र्या १०, ४१, १^३ । k) ऋ ६, ६१, ४ । l) ऋ ५, ४३, ११ । m) ऋ १, ३, १० । n) ऋ १, ३, ११ । o) ऋ १, ३, १२ । p) ऋ २, ४१, १६ । q) तैत्र्या १०, ३५ । r) °त्याम् इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. निसा. संति., अख्या.) । s) =६स । t) तैत्र्या १०, ६३, १ । u) वैप१ यद्र । v) ऋ ४, ५८, ६ । w) =सलिल- (तु. बाटी.) । x) =५स । y) तैत्र्या ३, १५, १ । z) °पाम् इति तैत्र्या १०, १०, १ । a') तैत्र्या १०, १०, १ । b') सना. । वैप१ यद्र । c') अविभक्तिको निर्देशः । d') तैत्र्या १०, १६, १^३ । e') तैत्र्या १०, १०, ३ । f') 'अनिन्ः' इति मां ३१, १२ । g') तु. गप्. पृ३०७d । h') सकृत् 'वांन्' इति अख्या. । i') सकृत् 'सर्वे' इति निसा. ।

श्वे ३, १७^३; गौ १, २७; मैत्रि
 ६, १४; मना २, ७१^३; वृषू ४,
 ६; वृत् २, २; -र्वस्यै कौ २, ६;
 ह १७^३; व ४४३: २३^३;
 -र्वा तै २, ८, १; छां २, २३, ३;
 ३, १२, ६९^३; वृ २, ४, २; ४, ५,
 ३; शौ ५२: ७; मार २२०: १;
 -र्वा: प्र २, ४^३; ४, २; मुं २, १, ९,
 छां २, २१, ४; वृ ४, २, ४; श्वे २;
 १६^३; मैत्रि ६, ९; जा ४^३; मना १,
 ३९^३; प्र १^३; प्रा ४, १^३; -र्वाणि ई
 ६; ७; के शां^३; क १, २, १५; तै १,
 ५, २; ऐ ५, २; छां शां^३; वृ १,
 ४, १६; श्वे २, ८; मै मैत्रे शां^३;
 -र्वान् क १, १, ८; प्र १, ६; मां
 २; तै २, १, १; ऐ ४, ६; छां २,
 २२, १; वृ १, ४, १; श्वे ३, १;
 जा २^३; मना २, ५७^३; कौ ३,
 ४९^३; -र्वाभि: प्रा १, ६; गु ८४;
 -र्वाम्य: जा ४; नाप ३, ७७; पप
 ४१८: १५; या १, १; -र्वाम् वृ
 ६, ३, ६; सूता २, २४^३; सार
 २८०: ११; शुषो ४२१: ६;
 -र्वाय वृ ६, ३, ३; -र्वसाम् वृ २,
 ४, ११^३; ४, ५, १२^३; वरा ५,
 ४२; सार २२३: २०; शि २,
 २८; ब्रसू ३, ३, ३१; -र्वसु छां
 २, ४, १; २; वृ २, ५, १८; योचू
 २६; शां १, ४^३; जाद ४, २४;
 २ प्र ३५: १०; -र्वे क १, २,
 १५; प्र २, ४^३; मुं २, १, ६९^३; ९;
 तै १, ५, २; छां २, २२, ३^३; वृ
 १, ४, ६; ७; गौ २, १४; कौ १, २;
 बृजा ६, ५^३; शु ३, २१; शां १,
 ३, १२^३; पदं ४^३; २ शिसं २०^३;

-र्वम्य: ऐ १४, १; छां १, ६, ७^३;
 वृ ३, ७, १५; मना २, १९^३;
 अशि १, ९^३; मुद्र ४; अथा ७०;
 गोउ ६६; ऊ ६४: ११; सं १९;
 व ४६२: २२^३। -र्वेषाम् वृ १,
 ४, १६; मना २, ६३^३; अशि
 ४, १७; कौ २, ६९^३; वृजा ३,
 १९; वृषू २, १३; सुवा १३^३;
 वस् १८: ते ४, ४४; ध्या ०, ३,
 १५; -र्वेषु क १, ३, १२; छां ४,
 १५, ४^३; वृ ३, ७, १५; हं ५; आह
 २; अना ३६; अशि ७, ४; वृजा
 ५, १७; वृत् ३, २-५; मैत्रे २,
 ९; -र्वै: प्र ४, ११; मुं २, २, ५;
 छां १, १०, ६; वृ १, ६, १-३;
 अशि ७, ३-५; कौ २, १४^३;
 वृषू १, ३; नाप ६, २२; त्रिवि
 ५, १२^३; रार २, ६१.
 सर्व- -र्वै: पा १, २; -र्वम् पा
 १, ३.
 सर्व-करण- -गानि अ ३.
 सर्वकरणो(ण-उ)पसंहार-
 सर्वकरणोपसंहार-स्व-
 -त्वात् अ ३.
 सर्व-कर्तृ- -र्ता योशि १, १५०; अव्य
 ४; सांसू ३, ५६.
 सर्वकर्तृ-त्व- -स्वम् महा ६, ५.
 १ सर्व-कर्मन्- -मैणाम् भव २, ६८;
 गी १८, १३; -मंसु जाद ४, ५१;
 -र्माणि पदं १; नाप ३, ८६; ६,
 ३५; २ प्र ३३: १७; गौ ३, २६;
 ४, ३७; ५, १३; १८, ५६; ५७.
 सर्वकर्म-कर्तृ- -र्ता नाउ ३, १०.
 सर्वकर्म-कारि(न्>)णी- -०णि
 व ४५८: १७.

सर्वकर्म-कृत्- -कृत् मैत्रे ३, १५;
 पप ४२०: ७.
 सर्वकर्म-निराकरण- -णम् सं २,
 २, ५; आपू १.
 सर्वकर्म-निर्मुक्त- -क्त: नाप ७.
 सर्वकर्म-निवर्तक- -क: नाप ४,
 ३८: ५, १.
 सर्वकर्म-परित्यक्त- -क्त: पप
 ४२०: ५.
 सर्वकर्म-परित्यागिन्- -गी अन्न
 ५, ९७.
 सर्वकर्म-फल-त्याग- -गम् गी
 १२, ११; १८, २.
 सर्वकर्म-फल-प्रद- -दम् पं ९.
 सर्वकर्म-फला(ल-आ)दि-
 -दीनाम् अन्न २, ६.
 सर्वकर्म-बहिष्कृत- -त: इ
 १६: १५.
 सर्वकर्म-लोप- -प: नाप ५, १.
 सर्वकर्म-विनिर्मुक्त- -क्त: अद्वै ८.
 सर्वकर्मा(र्म-अ)भाव- -व: सं २,
 २, ३.
 सर्वकर्मा(र्म-अ)र्ह- -र्ह: का १५.
 २ सर्व-कर्मन्- -र्मा छां ३, १४, २; ४.
 १ सर्व-काम- -मम् शि ४, ५२;
 -मेभ्य: गी ६, १८.
 सार्वकामिक- -कम् वृजा ६,
 १२; वृषू ५, १; ८; त्रिता २, ३५;
 शि ५, १६; -कान् शि ५, २६;
 -कै: शि ४, २७; ६, १७६; २०३;
 २०५; २१४; ७, ९८.
 सार्वकामिकी- -कीम्
 शि ६, १६०.
 सर्वकाम-द- -द: रार २, ५७;
 -दम् शि ३, १०.

a) तैत्र्या १०, ३८, १। b) 'जिह्वा मा' इति मंत्रा १, ७, १५। अत्र च. =ष.। c) 'विश्वा' इति ऋ १०,
 ९०, ३। d) मा ३२, ४। e) एत्रा २, १६। f) 'र्वाणि इति अथ्या। g) तैत्र्या ३, १०, ८, २। h) 'सर्वे' इति शांत्रा
 ५, ४। i) स्त्री. पुं. शोध: द्र.। j) तैत्र्या १०, १०, ३। k) 'र्वम् इति अथ्या। l) 'सर्वरोगाः' इति अथ्या।
 m) 'र्वान् इति अथ्या। n) पा. ?। o) 'र्वतः इति मैसं २, ९, १०। p) 'र्वे इति ग्रान., अथ्या। q) 'र्वतः इति
 तैत्र्या १०, ४५, १। r) तैत्र्या १०, ६३। s) 'र्वेषु इति शांत्रा ४, ६। t) कस.। u) बस.।

सर्वकाम-बुध->घा- -वा
मन्त्रि ५; सर २,८; चू ५.
सर्वकाम-प्रद,दा- -दम् रार ३,
१; सौ ३,१; -दा आथ ३९७:
६; -दाय व ४५६: ५.
सर्वकाम-फल-प्रद- -दः रार
२,२५; -दाय दत्ता २.
सर्वकाम-मय- -यः मैत्रि ६,३०.
सर्वकाम-युत- -तेन शि ६,
१२८; २०७; -तैः शि ६,१७९.
सर्वकाम-समन्वित- -तम् शि
६,२६१; -तैः शि ६,६४.
सर्वकाम-सिद्धि- -द्धिः आथ
३९९: १३; १६.
सर्वकामा(म-आ)द्य(दि-अ)न्तः-
करण-वृत्ति-साक्षिन्-
सर्वकामाद्यन्तःकरणवृत्ति-
साक्षि-ता- -तया त्रिवि ८,८.
२सर्व-काम- -मः छां ३,१४,२; ४.
सर्व-काम-सुखा(ख-आ)वह-
-हम् सार २२१: १४.
सर्व-कामा(म-अ)र्थ- (द->)दा-
-दाः रापू ५,१०.
सर्व-काम्य-रहस्यपूजा(जा-अ)-
न्त- -न्ते रा ४२५: २२.
सर्व-कारण- -०ण अक्ष ५; -णम् मं
३,१,३; शां १, ६; जाद ८, ९;
-णे त्रिवि २,१४.
सर्वकारण-कारण- -णम् १योत
१०१; पं १९.
सर्वकारण-भू(त->)ता- -ता
भा २^५.
सर्वकारण-मूल-विराट्-स्व-
रूप- -पः त्रिवि २,१५^०.
सर्वकारण-रूप- -पाभ्याम् सार
२४८: ४.
सर्वकारण-व्यष्टि- -ष्टिः त्रिवि
१, १.

सर्वकारण-समष्टि- -ष्टिः त्रिवि
१, १.
सर्वकारण-हेतु- -तुः त्रिवि १, १.
सर्व-कारण-कार्यो(र्य-आ)त्मन्-
-त्मा ते ५, १.
सर्व-कार्य- -र्यम् जाद ६, ४८;
-र्याणि लां २१५: १५; -र्येषु शि
७, ३०.
सर्वकार्य-विवर्जन- -नात् ते ५,
१६.
सर्वकार्यो(र्य-अ)र्थ-कर्तृ-(क->)-
का^१- -काम् शि ६, २३९.
सर्व-कार्यो(र्य-उ)पाधि-समन्वि-
(त->)ता- -ता त्रिवि ३, ७.
सर्व-काल- -लम् शां १, ४; पाशु
१, २६; गुषो ४२०: ३.
सार्वकाल- -लम् सिसि
३८३: १४.
सार्वकालिक-
सार्वकालिक-सर्व-भय-
प्रमोक्षण- -णः इ १०: १३.
सर्वकाल-त्व- -त्वम् हंषो १९.
सर्वकाल-व्यवस्थित- -तम् नाउ
१, २५.
सर्वकाल-सुख-समृद्धि-
संपूर्ण- -र्णम् सार २२७: २३.
सर्वकाल-सुखा(ख-आ)वह-
-हम् सार २३३: ६.
सर्वकाला(ल-अ)बाधित- -तम्
त्रिवि १, ५.
सर्व-किल्बिष- -बैः सूता २, २३;
गी ३, १३.
सर्व-कीर्ति-
सर्वकीर्ति-म(य->)यी- -यी सी
१०.
सर्व-कृटा(ट-आत्मक->)त्मिका-
-का विद्या १.
सर्व-कृत्- -कृत् महा ४, ५६.

सर्व-कृत्य- -त्यम् सार २५५: १०.
सर्व-कोटि-सर्व-विद्या-राज-
-जाय त्रिवि ७, ३५.
सर्व-क्रतु- -तुभिः राउ ५, ४; महा
६, ८३.
सर्वक्रतु-फल- -लम् नाउ ३,
१०; सं २२.
सर्व-क्रिया-कारक-निवर्तक- -कः
नाप ९, २०.
सर्व-क्रीडा-रस-पूरिन्- -रिणे
सार २५२: ६.
सर्व-क्लेदि(न->)नी- -०नि व ४३२:
१४.
सर्व-क्लेश-विनिर्मुक्त- -क्तः शि ६,
२३१.
सर्व-क्लेश-हानि- -निः शां १, ७,
४३.
सर्व-क्षिप्- -क्षिते मैत्रि ६, ३५.
सर्व-क्षुद्-भ्रमो(म-उ)पनाशि-
(न->)नी- -०नि सावि १०^१.
सर्व-क्षुद्रो(द्र-उ)पद्रव- -वम् व
४२८: ६.
सर्व-क्षेत्र- -त्रेषु ससा १, २८; गी
१३, २.
सर्व-क्षोभ-कर- -०र अक्ष ५.
सर्व-क्षोभि(न->)णी^१- -०णि व
४३२: १४.
सर्व-खग-रूप- -पाः नापू ५, २२.
सर्व-ग- -गः श्वे ६, १७; वृपू २, १२;
वृउ ९, ७; नाप ८, ८; महा २,
८; ५, ९९; १संन्या २, २१; १आ
१४; गोपू १९; शि १, १५; नाम्
सुं ३, २, ५; महा ४, ८०; ११८;
योशि ३, २०; ६, १०; १४; अज
३, २२; ५, २२; वरा२, १८; २१.
सर्व-गण- -णानाम् शि १, ५.
सर्व-गत,ता- -०त अक्ष ५; -तः
श्वे ३, ११; वृपू २, १२; वृउ ५, १३.

a) बस. । b) परमका^० इति निसा, संटि., अख्या. । c) ०लं वि^० इति निसा. । d) उप. =कर्तरिका- ।

e) उप. <√क्षि (निवासे) । f) ०क्षुच्छमोप^० इति अख्या. ।

नाप ८, १३; अन्न ५, ७५;
 रुह ३९; जाद १, ८; १०, २;
 मु२, २, ७५; भव २, ४०; गी २,
 २४; -तम् मुं १, १, ६; श्वे ३, २१;
 वृष ९, १०; महा ४, ८६; ११;
 पाशु २, २९; शां २-३, १; पै ४,
 १३; रुह ३२; ३९; मु २,
 २, ७३; भव ३, ४; गी ३, १५;
 १३, ३२; तस्य त्रिवि २, १२; -ता
 अन्न ४, ४३; अक्षि २९; मु२, २,
 ४९; गु ४७; -ते महा ४, ११५.
 सर्वगत-त्व- -त्वम् त्रस् ३, २,
 ३७.
 सर्व-गन्ध- -न्धः छां ३, १४, २; ४.
 सर्व-गात्र- -त्रेण रुजा १, १४;
 -त्रेषु त्रिवा २, ८१; शां १, ४;
 योशि १, १२२.
 सर्व-गामि(न् >)नी- -नी शां १, ४.
 सर्व-गुण- -णम् वि २०.
 सर्वगुण-संपन्न- -न्नाय मैत्रि ६,
 २९.
 सर्व-गुरु- -रुः श्या ६.
 सर्व-गुहातम- -मम् गौ १८, ६४.
 सर्व-गोचर- -रम् करु ३२.
 सर्व-गोप्य- -प्यम् ते ५, ४९.
 सर्व-ग्रन्थि- -न्थिनाम् छां ७, २६, २.
 १ सर्व-ग्रह^०- -०ह लां २१४: १६.
 २ सर्व-ग्रह^०- -हम् लां २१५: १४;
 २१६: २; -हात् व ४२८: ३.
 सर्वग्रह-निवार(ण >)णी- -णी
 व ४५८: १५.
 सर्व-प्रास- -सः ऋवि ११०; -सम्
 वृष ५, ३.
 सर्व-चक्र- -क्रम् त्रिता ३, १८.
 सर्व-चिन्ता- -न्ताम् नाद ४१; शां
 १, ७, २०; वरा २, ४४; ८३.
 सर्वचिन्ता(न्ता-अ)वधि- -धि:
 ते ५, १.

सर्वचिन्ता-विवर्जित- -तः नाद
 ५१.
 सर्वचिन्ता-समुत्थित- -तः गौ
 ३, ३७
 सर्व-चेतन- -नाः शि १, १०.
 सर्व-चेष्टा-विवर्जित- -तः नाद ४१.
 सर्व-चैतन्य-भोग- -श्रावक-
 -काम्याम् सार २४७: १७.
 सर्व-चैतन्यमात्रत्व- -त्वात् ते ६,
 ३०^०.
 सर्व-जगत्- -गतः शि ६, १५६.
 सर्वजगत्-पति- -तिः शि १,
 १४.
 सर्वजगद्-धि(<हि)त- -तम्
 अशि ३, ५१^०.
 सर्वजगत्-मोहन- -नाय त्रिवि
 ७, ४६.
 सर्व-जन- -नम् व ४२९: ८; १३;
 १७; २२; ४३०: ५; १०;
 ४५७: ६.
 सर्वजन-प्रिय- -याय व ४५७: ५
 सर्वजन-मनो-हारि(न् >)णी-
 -०णि व ४३५: ३.
 सर्वजन-वशं-क(र >)री- -०रि
 व ४३५: २.
 सर्वजन-विश्वजन-शत्रुजन-वश्य-
 जन-सर्वजन- -नस्य लां २१६:
 १७.
 सर्वजन-वैरि-मुख- -खम् लां
 २१६: १४.
 सर्वजन-हृदय- -यम् व ४३४:
 २२.
 सर्वजना(न्-अ)न्तर-स्थ-
 -स्थम् ध्या २४; योशि ६, २०.
 सर्व-जन्तु- -न्तुषु योचू ७४; -न्तुनाम्
 वरा ५, १९; शि ६, २२८.
 सर्वजन्तु-प्रकाशि(न् >)नी-
 -नी कृ २५.

सर्वजन्तु-रुत-ज्ञान- -नम् शां
 १, ७, ५२.
 सर्व-जन्म-कृत- -तम् अता १९.
 सर्व-जव- -वेन के ३, ६; १०.
 सर्व-जित्- -जितः कौ २, ७
 सर्व-जीव- -वेभ्यः करु १; कथु ३,
 १; -वेषु योचू ७३; योशि १, ५९.
 सर्वजीव-भय-प्र(द >)दा-
 -दा पै २, १४६.
 सर्वजीव-वध- -धात् म२, २२.
 सर्वजीवा(व-अ)न्तर-स्थित-
 -तः नाप ८, १२.
 सर्व-जुम्भिणी-शक्ति- -क्तिः आथ
 ३९६: १४.
 सर्व-ज्ञ- -०ज्ञ शु १, ९; -ज्ञः प्र ४,
 १०; ११; मुं १, १, ९; २, २, ७;
 मां ६; मैत्रि ७, १; वृष ४, ६;
 वृष १, ९; ९, १३; सुवा ५; शु १,
 ६; नाप २; ८, १४; ९, २०; त्रिवि
 १, १; राउ ३, १; शां २, १; पै
 १, ८; योशि १, १४८; अव्य ४;
 २ संन्या १५: ६; रुह ३३; शा
 ३०; जावा ९; १३; शि १, १५;
 ६, ११३; १३२; वज १, ११;
 -ज्ञम् गौ ३, ३६: ४७; वृष ५, ३;
 १ योत ९६; योशि ३, २०; हे १;
 -ज्ञस्य सर ३, १५; -ज्ञाः नाप १.
 सर्वज्ञ-ता- -ता गौ ४, ८१;
 १ संन्या २, ४६; भव २, ३३; ताख
 गौ ४, ८५.
 सर्वज्ञ-स्व- -स्वम् योशि ३, २५;
 सर ३, १५; गुषो ४२१: ४.
 सर्वज्ञत्व-संयुक्त- -कम् मैत्रि
 ६, ३८.
 सर्वज्ञत्वा(त्-आ)दि-
 -दिभिः सर ३, १७.
 सर्वज्ञत्वादि-लक्षण-
 -णः अध्या ३०; पै ३, १.

a) सकृत् ०तः इति पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. गणू, पृ६६४a) । b) उस. । c) कस. । d) ०सर्व चैत^०
 इति शब्धा. । e) सर्व ज^० इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या; वैतु. ज्ञान., नादी.) ।

सर्वज्ञ-बीज- -जम् योसू १, २५^a.
 सर्वज्ञ-शक्ति- -क्तिः आथ ३९७:
 १६.
 सर्वज्ञा(ज्ञ-आ)दि-दशक- -कम्
 आथ ३९७ : १५.
 सर्वज्ञा(ज्ञ-आ)द्य(दि-अ)न्तर-
 दशार-ग- -देवता- -ताः भा
 २११^b.
 सर्वज्ञे(ज्ञ-ई)श- -शः पै १, ३०.
 सर्व-ज्ञावृ-
 सर्वज्ञावृ-त्व- -त्वम् योसू ३, ५०.
 सर्व-ज्ञान- -नम् रुह १६; वपू १,
 ४; -नेषु योशि १, ६९.
 सर्वज्ञान-कारिन्- -री कालि
 ४०२ : २१.
 सर्वज्ञान-प्रकाश- -शः ते ६, ६८.
 सर्वज्ञान-प्रद- -दः नापू ४, २८.
 सर्वज्ञान-म(य>)यी- -यी आथ
 ३९७ : १८.
 सर्वज्ञान-विमूढ- -ढान् गी ३,
 ३२.
 सर्वज्ञानिन्- -निनाम् रु २२.
 सर्व-ज्यानि- -निम् वृ १, ५, १५.
 सर्व-ज्येष्ठ- -ष्ठः पप ४२० : ९.
 सर्व-ज्योतिस्- -तिः मवा ११.
 सर्वज्योति(ःती^o)-रस- -सः व
 ४६२ : २.
 सर्व-ज्वर-विनाश- -शाय वपं
 ३१२ : १३.
 सर्व-ज्वरो(र-उ)बाट(न>)नी-
 -नीम् व ४३३ : ३.
 सर्व-तत्त्व- -त्वम् ते ३, ५१; -त्वैः
 खे २, १५.
 सर्वतरवा(त्व-आत्मक>)-
 त्मिका- -के अक्ष १५.

सर्व-तन्त्र- -न्त्रम् ते ३, ६८; -न्त्रेषु
 मं १, ३, ५; शां १, ७, १४.
 सर्व-तत्स(>) क १, २, २१; सुं ३,
 २, ५; तै १, ४, ३; ४, १, १^c; वृ ६,
 ४, २३; मैत्रि ६, १७; नृपू २,
 १२^d; ५, ७; मन्त्रि १; ते ५, ६०;
 ऋवि ३३; नाप १; २^e; ७; त्रिवि
 ७, ३६; १संन्या २, १; अव्य २;
 अक्ष ५, ६३; अध्या १३; कुं २७;
 दे १०; त्रिता ४, ८; ग ४; १६;
 सु २, २, ७४; चा २; २प्र ३३ :
 १४; शि ६, १५४; ७, ७५; व
 ४३८: १३; ४३९: १; १०; २१;
 ४४०: ८; १८; ४४१: ६; १६;
 ४४२: ४; १५; ४४३: २; १२;
 ४४४: ५; १५; ४४५: २; १४;
 ४४६: १; १२; २२; ४४७: १०;
 २१; ४४८: ९; २१; ४४९: १६;
 २३; ४५०: ७; १४; २१; ४५१:
 ७; १४; २१; ४५२: ७; १४; २२;
 ४५३: ५; ११; १७; २३; ४५४:
 ६; १४; २०; ४५५: ४; १६; २२;
 ४५८: १२; ४६५: १६; वड
 ३, १५; गी २, ४६; ११, १६; १७;
 ४०.
 सर्वतः-पाणि-पाद- -दम् खे ३,
 १६; गी १३, १३.
 सर्वतःपाणिपादा-
 (द-अन्त>)न्ता- -न्ता गु ४८^f.
 सर्वतः-पृष्ठ- -ष्टेषु छां ३, १३, ७^g.
 सर्वतः-श्रुति-
 सर्वतःश्रुति-मत्- -मत् खे
 ३, १६; गी १३, १३.
 सर्वतःश्रुतिमती- -ती
 गु ४८.

सर्वतो(तस्-अ)क्षि-शिरो-मुख,
 खा- -खम् खे ३, १६; गी १३,
 १३; -खा गु ४८^f.
 सर्वतो-धी(र>)रा- -रा त्रिता
 २, ३३.
 सर्वतो-भद्र- -द्रः वपू १, ४.
 सर्वतो-मुख- -खः खे २, १६१^h;
 अशि ५, २^h; नृपू ४, ४; ५, १;
 २; वा २५; वड ३१६ : २३ⁱ;
 -खम् नृपू २, ६; १२ⁱ; नृपू ५, ३;
 ६, १; ऋवि ३४; त्रिवि ७, ४०;
 शां ३, १; योशि ६, ६०; अव्य २;
 अध्या ६१; वपं ३१२ : १०; व
 ४५७: १२; -खस्य त्रिता ४, १९.
 सर्वतोमुखी- -खी गार
 ४०७ : २०.
 सर्वतोमुख-त्व- -त्वात् नृपू
 ७, ९^j.
 सर्व-ताति¹- -तिम् सू २४^k.
 सर्व-तीर्थ- -थानि तुल ७१: ४; शि
 ५, ३६; -थेषु अव्य ७.
 सर्वतीर्थ-फल- -लम् भ ११;
 रुजा ३, १; क २६; सं २३.
 सर्वतीर्थ-स्वरूप- -रूपः मैत्रे ३,
 १२.
 सर्व-तेजः-प्रकाशा(श-आ)स्मन्-
 -स्मा ते ५, ३.
 सर्व-स्याग्निन्- -गी नाप ५, १;
 १संन्या २, १३.
 सर्व-त्र गौ ४, ८९; हं २१; ब्रजा ४,
 ३५; नृपू ४, ४^l; ते ३, ३८^l;
 ध्या ८; ऋवि ३८; १योत २०;
 नाप ३, ८६; पहं ४; १कौल ४:
 ११^m; २कौल ५; १०; गी ६, २९.

a) °ज्ञत्वबी° इति संटि. पाभे. । b) °र्वज्ञत्वाष्° इति निसा. अश्या. पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. °ज्ञायाः
 अन्तर्दशारदेवताः इति तान्त्रि.) । एतदनु गपू. (पृ ३९२) सस्थ. 'देवता-> -ताः' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः ।
 c) पा.१ यनि. शोधः द्र. । d) गपू. (पृ ५०३) सस्थ. 'पाणिपादान्ता-> -न्ता' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः । e) गपू.
 (पृ ५२४) सस्थ. 'पृष्ठ-> -ष्टेषु' इत्यत्र यनि. च 'विश्वतः-पृष्ठ-> -ष्टेषु' इति च शोधः कर्तव्यः । f) गपू. (पृ ७)
 सस्थ. 'अक्षिशिरोमुखा-> -खा' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः । g) मा ३२, ४ । h) विश्वतो° इति अश्या. ।
 i) वैप १ यद्र. । j) ऋ १०, ३६, १४ । k) सर्वे° इति पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. गपू. पृ ५८०) ।

सर्वत्र-ग- -गः गी ९, ६; -गम्
अत्र ५, ७८; जाद १०, ९; गी
१२, ३.

सर्वत्र-(स्थ>)स्था- -स्था गु
४७.

सर्व-था गौ ४, १९; ते ६, ९९; १योत
५८; नाप ३, ६५; रार ४, १३;
महा ५, १४; १संन्या २, ११^०;
शि ७, ३०; भव २, ६१; गी ६,
३१; १३, २३; योसू ४, २८.
सर्व-था-विषय- -यम् योसू ३,
५५.

सर्व-द- -दम् वउ ५, ६.

सर्व-दया-मूर्ति- -०ते सावि १०.

सर्व-दहन- -नः सुबा ९.

सर्व-दा तै १, ४, २; छां २, ९, १; वृ
१, ५, १; २; गौ २, २८; हं ६; कै
२, ५; अना ३६; बृजा ५, १२;
वृषू १, ७; वृउ २, ११; मैत्रे ३,
१५; पहं १^०.

सर्वदा(दा-अ)द्वैता(त-आ)-
नन्द-रूप(प>)पा- -पा विद्या४.

सर्वदा(दा-आ)नन्द-स्वानु-
भवै(व-ए)क-पूर्ण-हृदय- -यः
नाप ४, ३८.

सर्वदा-शान्ति- -न्तिः मं १, १, ३.

सर्व-दान- -नः शि ५, ३८.

सर्व-दारिद्र्य-शम(न>)नी- नी
व ४५८ : १६.

सर्व-दिव्य-देह- -मध्य- -ध्ये अद्वै
१३.

सर्व-दीक्षित- -तः हंपो १९.

सर्व-दुःख- -खम् ते ५, ९७;
-खानाम् गौ १, १०; गी २, ६५.

सर्वदुःख-प्रद- -दम् अत्र १, ३१.

सर्वदुःख-बहिष्कृत- -तः ब्रवि
५८.

सर्वदुःख-रञ्ज(न>)नी- -०नि
व ४३५ : ३.

सर्वदुःख-विनाशन- -नाय लां
२१४ : २१.

सर्वदुःख-विमोचि(न् >)नी-
-नी आथ ३९, ७ : ७.

सर्व-दुःखित- -तम् व ४६६ : २.

सर्व-दुर्गा- -गणि गी १८, ५८.

सर्व-दुर्गा-मनु^१- -नोः कालि४०३ :
२१.

सर्व-दुष्ट- -ष्टानाम् पी ४२१ : ९;
व ४३६ : १३.

सर्वदुष्ट-प्रशमन- -नम् पं ५.

सर्व-दुष्ट-दैत्य-दानव-संहरण-
-गाय नाउ २, ८.

सर्व-दुष्ट-प्रदुष्ट- -ष्टान् व ४४९ : ९.

सर्व-दुष्ट-मृग-वशं-क(र>)री-
-०रि व ४३५ : ४.

सर्व-दृश- -दृक् गौ १, १२; ४, ८४.

सर्व-दृश्य-रहित- -तम् वरा ३, ६.

सर्व-दृश्य-विहीन- -नः ते ३, १५.

सर्व-देव- -वस्य ब्रवि ६२; रुह १७;

-वाय वउ २, २; वेषु रुह २; वंः

नाप ९, १७; सी ३७; मः ४,

७१; सुमु १७^०; रा ४२३ : १४.

सर्वदेव-नमस्कृत- -तः रा

४२४ : १७.

सर्वदेव-नमस्यत्- -स्यन्तम्

सूता १, २८.

सर्वदेव-प्रकृष्ट- -ष्टम् सिशि

३८० : ३.

सर्वदेव-मय- -यः नाप ८, १; तु

१६; सूता १, १८; तारा ८३ : ८;

-यम् पं १५.

सर्वदेवमयी- -यी सी १०.

सर्वदेवा(व-आ)त्मक- -कः रुह

४; -कम् रुह २४.

सर्वदेवात्मिका- -०के अक्ष
१५.

सर्वदेवा(व-आ)त्मन्- -त्मा राउ
४, ५; वउ ४, ४८.

सर्वदेवा(व-आ)धिदैवत- -तम्
सूता १, २८.

सर्वदेवा(व-आ)धिपत्य- -त्यम्
वपू १, ६.

सर्वदेवा(व-आ)धिराज- -जे
सिशि ३८३ : ९.

सर्व-देवता- -त्ता व १३; -ताः योशि
६, २९; रुजा २, १९; सूता १,
३५; ६, १३.

सर्वदेवत्य, त्या- -त्यम् वृ १, २, ५;
-त्या अशि ९, १३; -त्याः आच १०.

सर्व-देवर्षि-संसद्- -सदि शु १, ७.

सर्व-देव-वेद- -योनि- -निः अ १.

सर्व-देश- -शेषु त्रिभा २, ११.

सर्व-देशिक-वाक्यो(क्य-उ)क्ति-

-क्तिः ते ५, ५४.

सर्व-देह- -हेषु जाद ४, २९; लि

३११ : ४.

सर्व-देहिन्- -हिनाम् सी ७; श

१९^०; राउ २, ३; योशि १, १६८;

५, ४; वरा २, २४; शि १, १२;

३०; ५, १५; ७, ११८; विद्या १;

भव ४, ९; गी १४, ८.

सर्व-दैवत- -नैः सी ३७^०?

सर्व-दैव(ल्य>)त्या- -त्या २३

३५ : १४^०.

सर्व-दोष- -षाः योशि १, १२८;

-षात् ते ६, ३०^०?; -षैः योशि १,

१६.

सर्वदोष-तस(>) व १२, १८.

सर्वदोष-प्रभेद- -दात् ते ५,

५०^१.

सर्वदोष-रहित- -तः वउ १, १७.

a) °दा इति अख्या. । b) 'सदा' इति निसा., आन. । c) उप. = १मनु- । d) तु. गपू. पृ ६४७d ।

e) °देवा° इति अख्या. । f) °दे° इति अख्या. ? यनि. शोभः द्र. (तु. निसा.) । g) °दे° इति गोभा. (१, १, २५, अशि.

(५, १३) । h) °षः इति निसा. अख्या. पा. ? यनि. शोभः द्र. । i) °दाः इति अख्या. ।

सर्वदोष-विनिर्मुक्त- -क्तम् शि
३, ११.
सर्वदोष-विवर्जित- -तः योशि
१, ४७; -ते अना १८.
सर्वदोष-समुद्भव- -वम् योशि
१, १३४.
सर्वदोष-हन्- -हा १योत ६४;
वरा ५, ७१.
सर्वदोष-हर- -०र अक्ष ५.
सर्वदोषा(ष-अ)पहारि(न् >)-
णी- -णी महा ५, ११०.
सर्व-द्रष्टृ- -ष्टा ब्रवि ११०; -ष्टारम्
वृत् ५, ३.
सर्व-द्वन्द्व- -द्वैः नाप ३, ५२.
सर्वद्वन्द्व-क्षयं-क(र >)री- -री
आथ ३२६ : २१.
सर्व-द्वार- -रम् क्षु४; -राणि गी८,
१२; -रेषु गी १४, ११.
सर्वद्वार-निरोधन- -नात् योशि
६, १५.
सर्व-धर्म- -र्माणाम् शा १०; -र्मान्
नि ५२; सार २८०:८; गी १८,
६६; -मैषु गी ४, ६०; हं २०.
सर्वधर्म-गुण-क्रम- -मात् महा
५, १६१.
सर्वधर्म-ज्ञ- -०ज्ञ हं १.
सर्वधर्म-स्याग- -गात् सार
२९० : ६.
सर्वधर्म-परित्याग-पाप- -पात्
कलि ३.
सर्वधर्म-म(य >)यी- -यी सी
१०.
सर्वधर्मा(र्म-अ)तिरिक्त- -क्तः
सार २८७ : १६; -क्ताः सार
२७८:१४; -क्ताय सार २४७:
११; १३.
सर्वधर्मो(र्म-उ)पपत्ति- -त्तेः ब्रसू
२, १, ३७.

*सर्व-धा-
सर्वधा-तम- -मम् छां५, २, ७७°.
सर्व-धातु-संयुक्त- -क्तम् शि ६,
६२.
सर्व-धान्य-शिखर- -रैः शि६, ६८.
सर्व-धी-वृत्ति-साक्षिन्- -क्षिणे
वसू १.
सर्व-धी-साक्षि-भूत- -तम् शु १,
१८.
सर्व-ध्यान-योग-ज्ञान- -नानाम्
अ ३.
सर्व-ध्यान-विवर्जित- -तः ते ५, ३.
सर्व-नमस्य- -स्यः श्या ६.
सर्व-नयन- -नः सुबा ५^d.
सर्व-नाडी- -डीनाम् वरा ५, ४४.
सर्व-नाद-
सर्वनाद-मय- -यः ते ५, २°.
सर्वनादा(द-अ)न्तर- -रः ते ५,
७१.
सर्व-नाद-कला(ला-अ)तीत- -तः
ते ५, ४.
सर्व-नामन्- -मानि योशि ४, ६.
सर्व-नाश- -शो नाप ३, ५०.
सर्व-निमित्ता(त-अ)नपेक्ष- -क्षम्
योसू ३, ३४.
सर्व-नियन्तृ- -न्ता त्रिवि १, १.
सर्व-निरामय-परिपूर्ण- -र्णः आपू८.
सर्व-निरोध- -धात् योसू १, ५१.
सर्व-निर्वर्तक- -कः त्रिता १, १.
सर्व-निर्वाण-दीक्षित- -तः कामे६.
सर्व-निवर्तक- -कः त्रिवि १, १.
सर्व-निवृत्ति- -त्तिः रा ४२४:१६.
सर्व-निवेदन- -नम् वत् ६, १३.
सर्व-निश्चय- -याः महा २, ५८.
सर्व-नि(ष्ठा >)ष्ट- -ष्टम् पा १, ८.
सर्व-निःस्पृह- -हः नाप ३, ३४.
सर्व-न्यास-कारिन्- -री हंषो २०.
सर्व-पदार्थ- -र्थानाम् महा ५, ४७.

सर्व-परित्यागिन्- -गी अत्र ५,
११६.
सर्व-परिपूर्ण- -र्णः त्रिवि ४, १४;
८, १५; -र्णम् त्रिवि १, ५; -र्णस्य
त्रिवि २, १३^३; ६, २३.
सर्वपरिपूर्ण-ज्ञान- -नेन मं २,
२, ४.
सर्वपरिपूर्ण-तुरीयातीत-ब्रह्म-
भूत- -तः मं २, ५, १.
सर्वपरिपूर्णा(र्ण-अ)द्वैत-परमा-
नन्द-लक्षण-पर-ब्रह्मन्-
ह्यणि त्रिवि ८, ५^d.
सर्वपरिपूर्णा(र्ण-अ)नन्त-चिन्म-
य-स्तम्भा(म्भ-अ)कार- -रम्
त्रिवि ४, १.
सर्व-पर्वन्- -र्वसु शि ७, ७५.
सर्व-पल्लव-स्वरूप- -पाय व४५६:
१४.
सर्व-पातक- -केभ्यः वा ३७; -कैः
वरा ४, ४३.
सर्व-पाप- -पम् कै १, १; ह १; वि
१; स ३७९:४; -पानाम् शि५,
१२; -पानि जाद ७, १०; वरा
५, ४९; -पेभ्यः द २१; शां ३,
४; योशि ६, ४४; गु ८४; गी
१८, ६६; -पैः १योत १; २०;
२योत १, १; त्रिवा२, १०२; योचु
३४; रुह १७; २५; रुजा२, १८;
वि २१; सूता २, २१; शि ६,
१९४; हे १४; कालि ४०३:९;
गु ५९; गी १०, ३.
सर्वपाप-क्षय-क(र >)री- -री
व ४३२ : २२.
सर्वपाप-नाशक- -कः म १, ८.
सर्वपाप-निर्मुक्त- -क्ताः शि ५,
२८.
सर्वपाप-निवृत्ति- -त्तिः मं १,
२, ६.

a) *रान् इति Jc. । b) *वंवेदे° इति निसा., खान. । c) ऋ ५, ८२, १ । d) *यनम्° इति अख्या. ।
e) सर्वानन्द° इति अख्या. । f) *क्षणे प° इति निसा. ।

सर्वपाप-नि(छा>)ष्ट-ष्टैः स्व
६१:८.
सर्वपाप-प्रणाशन-नम् शां १,
३, ११; यो १, ५; जाद ३, ११.
सर्वपाप-विनाश-द्वार-द्वारा
अता ५.
सर्वपाप-विनिर्मुक्त-क्तः शु ३,
२३; जाद ६, १९; शि ७, ४२.
सर्वपाप-विशुद्धि-द्धये जाद
८, ८.
सर्वपाप-विशोधि(न्>)नी-
नी जाद ८, ३.
सर्वपाप-हर, रा-रम् शि ५, १;
-रा आथ ३९७: २१.
सर्व-पाप्मन्-प्मानम् वपू २, २.
सर्व-पालक-कः त्रिवि १, १.
सर्व-पाहा-शैः श्वे १, ८; २, १५;
४, १६; ५-६, १३; नाप ९, ७;
१०; गु ७१; भव २, ५; ४९.
सर्वपाप्मा(श-अ)पहानि-निः
श्वे १, ११.
सर्व-पीठ-गता(त-अ)निल-लः
सौ २, ९.
सर्व-पुण्य-कारिन्-री कालि
४०२: ४.
सर्व-पुरुष-षः नाउ १, १७; गार
४०५: १९.
सर्व-पुरुषार्थ-सिद्धि-द्धिः अता
१९; द्व १६.
सर्व-पूजा-जाम् वउ ६, २४.
सर्व-पूत-तः वृजा ८, १^१; वृपू ५,
१२^१; महा ६, ८३; वटु ३ १८: ५.
सर्व-पूर्णे-स्वरूप-पः मेत्रे ३, १२.
सर्व-प्रकाश-रूप-पः मैत्रे ३, २१;
ते ३, ३०; ६, ६०.
सर्व-प्रतीत-तम् शां १, ७, २२.
सर्व-प्रपञ्च-ञ्चः योशि ४, ३; -ञ्चम्
तुअ ७.
सर्वप्रपञ्च-भ्रम-वर्जित-तः ते
५, ६३.

सर्वप्रपञ्चा(न-आ)धार-गर्भित-
-तः नाप ८, १; तु १६.
सर्व-प्रमाण-सिद्ध-
सर्वप्रमाणसिद्ध-स्व-न्वात्
सांका ४.
सर्व-प्रयत्न-त्नेन १योत ८१;
१संन्या २, ७६; पत्र ३, १४; यो
२, १४; योशि ६, २३; जाद १,
२५; ६, २०; इ १९: ६; वि १७:
१८.
सर्व-प्रवर्तक-कः त्रिवि १, १; -काः
त्रिवा २, ११.
सर्व-प्रवृत्ति-
सर्वप्रवृत्ति-सर्वहेतु-निमित्तक-
-कम् त्रिवि ६, २०.
सर्व-प्राणि-जीव-वान् मुद्र २.
सर्व-प्राणिन्-णिनाम् सि १८.
सर्वप्राणि-बुद्धि-द्धिषु ससा १,
२६.
सर्वप्राणिबुद्धि-स्थ-स्थः
ससा १, २६.
सर्व-प्राप्ति-प्तैः सांसू ५, १०४.
सर्व-प्रायश्चित्त-
सर्वप्रायश्चित्तीय-ये प्रा १, ६.
सर्व-प्रियं-क(र>)री-री आथ
३९७: ४.
सर्व-प्रि(य>)या-या सौ ३, १.
सर्व-प्रेमा(म-आ)स्पद-दः ब्रवि
१०८; -दम् वृउ ५, ३.
सर्व-फल-लम् त्रिता ३, ३.
सर्वफल-प्रद-दम् अक्ष ५.
सर्व-बन्ध-न्धाः त्रिवि १, २; ५,
७; ८, १८^१; -न्धैः कै १, १७;
वरा २, ३२.
सर्व-बल-प्रद-दम् अक्ष ५.
सर्व-बान्धव-न्धैः शि २, ३१.
सर्व-बीज-जम् नापू ४, १३;
-जानि १^१व ४३८: १९; ४३९:
६; १६; ४४०: ३; १३; ४४१: २;

११; २२; ४४२: १०; २१; ४४३:
७; १७; ४४४: ११; २१; ४४५:
९; १९; ४४६: ७; १८; ४४७:
५; १६; ४४८: ४; १५; ४४९:
३; १३; २०; ४५०; ४; ११; १८;
४५१: ४; ११; १९; ४५२: ३;
११; १९; ४५३: ३; ८; १४; २१;
४५४; ३; ११; १७; ४५५: १; ८.
सर्व-ब्रह्म-मात्रा(त्र-अ)वलोकन-
-नम् अध्या १३.
सर्व-भक्ष-क्षः १अव ६.
सर्व-भक्ष्या(द्वय-अ)ष्व-पाना-
(न-आ)द्य-द्यैः शि २, २८.
सर्व-भय-यात् व ४३४: ३.
सर्वभय-निर्मुक्त-क्तः वपं
३१३: ४.
सर्व-भवन-नम् ते ६, १०३.
सर्व-भस्मन्-स्म रु ८.
सर्व-भाव-वः ते ५, ५९; -वान्
अक्षि २४; -वानाम् गौ १, ६;
१०; २, १; -वेन भ २, २०; यो
२, ४; गी १५, १९; १८, ६२;
-वेभ्यः महा ६, ५६; अक्ष ५, ९५;
-वेषु महा ६, ४; ५२.
सर्वभाव-परित्याग-गः मैत्रि
६, २५.
सर्वभाव-स्वरूपक-कः ते ३,
३६.
सर्वभावा(व-आ)त्म-भावना-
-नाम् महा ४, ८; अक्ष १, ३२.
सर्वभावा(व-अ)धिष्ठातृ-
सर्वभावाधिष्ठातृ-स्व-स्वम्
योसू ३, ५०.
सर्वभावा(व-अ)न्तर-स्थ-
-स्थाय १संन्या २, २५.
सर्वभावा(व-अ)न्तर-स्थि-
(त>)ता-ता अक्ष १, ५२.
सर्व-भाव-पदा(द-अ)वीत-तम्
१योत ९; योशि १, ७.

सर्व-भुज्-भुक् मैत्रि ७, १.
 सर्व-भूत-तम् ते ३, ५१; ए १३;
 पा १०, ४; तानाम् गौ १, २२;
 मै ४, ५; मना १, १०^१; २, २१^१;
 २८^१; ऋ ३, १५; नृपू १, १२;
 ससा ४; शु २, ५; तै १, २४; ऋवि
 ११; नाप ४, ३६; शां ३, १; योशि
 ३, १८; अन्न ४, २७; ७०; कर् ८;
 गोड ६७; कृ १९; १प्र ३१:
 २०; सार २३०: १४; रशिसं
 ३६^१; शि ४, १७; ५, ५०; व
 ४६२: १३^१; वज ५, ३८; गी
 २, ६९; ५, २९; ७, १०; १०, ३९;
 १२, १३; १४, ३; १८, ६१; न्तानि
 छां ८, १५, १; मैत्रि ६, २; कै १,
 १०; मना २, ७९^१; नाप ४,
 २२; योशि ४, ५; अन्न १, ३८;
 आर्षे ८: १८^१; गी ६, २९; ७,
 २७; ९, ४; ७; १८, ६१; तेष्य:
 मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; आरु ३;
 मना २, ६७^१; नाप ४, ३८; ५,
 १६^१; ६, १६; पप ४१८: २७;
 ३०; प्रा १, ६; तेषु ई ६; श्वे ३,
 ७; ४, १५; १६; ६, ११; ऋ ३, ७;
 नाप ३, २२; शां १, १^१; १संन्या
 २, ३९; अन्न ५, ७९; जाद १,
 १५; १०, १०; गोड ६५; गु ५६;
 ५८; ५९; ६९; गी ३, १८; ७,
 ९; ९, २९; ११, ५५; १८, २०;
 तै: मुं ३, १, ४; लि ३१०: १६.
 सर्वभूत-गुहा-शय, या-य: श्वे
 ३, ११; ऋवि १०७; -या गु ४७.
 सर्वभूत-गुहा(हा-आ)श्र(य>)-
 या-या योशि ३, ८.
 सर्वभूत-दमन-नाय मना २,
 १८^१.
 सर्वभूत-निगूढ-ऋ: शां २, १.
 सर्वभूत-निवास-स: नाउ १, १०

सर्वभूत-बन्धन-नाय व
 ४५६: ६.
 सर्वभूत-सत-ज्ञान-तम् योसू
 ३, १७.
 सर्वभूत-वक्त्र-क(र>)री-रीम्
 व ४३२: २१.
 सर्वभूत-विनाश-शाय वपं
 ३१२: १४.
 सर्वभूत-स्थ-स्थम् कै १, १०;
 ना ४; आबो १; गी ६, २९.
 सर्वभूत-स्थित-तम् ऋवि ७७;
 गी ६, ३१.
 सर्वभूत-हित-त: नाप ३, ५५;
 -ते सु १, २, ६; गी ५, २५; १२, ४.
 सर्वभूतहिता(त-अ)र्थ-
 -र्थाय शि १, २.
 सर्वभूता(त-आ)त्मन्-स्मने
 त्रिवि ७, ४८; -स्मा गोड ६४;
 भव २, ३२.
 सर्वभूता(त-आ)स्म-भूता-
 (त-आ)स्मन्-स्मा गी ५, ७.
 सर्वभूता(त-आ)दि-दि ते १,
 २६.
 सर्वभूता(त-अ)धिवास, सा-
 -स: श्वे ६, ११; ऋ ३, ७; ऋवि
 १०६; शां २, १; गोड ६५; राधा
 ४, २३; -सम् ऋवि २२; त्रिता
 ५, २१; नापू ४, १४; अवि २२;
 -सा गु ६२.
 सर्वभूता(त-अ)न्तर-स्थ, स्था-
 -स्था गु ६९; -स्थाय वरा २,
 ३३.
 सर्वभूता(त-अ)न्तरात्मन्-
 -स्मनि योशि ६, १३; -स्मा क २,
 २, ९-१२; मुं २, १, ४; श्वे ६, ११;
 ऋ ३, ७; वृजा २, १; सुवा ७; ऋवि
 १०५; राउ ४, ८; शां २, १;
 अध्या १; गोड ६५; गु ४४.

सर्वभूता(त-अ)न्तर-याम्या-
 (मि-आ)त्मन्-स्मा नाउ १,
 १७.
 सर्वभूता(त-अ)न्तर-वर्तिन्-
 -र्तां निर्वा २९७: ७.
 सर्वभूता(त-अ)न्न-न्नम् मै ५, २.
 सर्वभूता(त-आ)शय-स्थित-
 -त: गी १०, २०.
 सर्व-भूमि-मिषु अन्ति ४१.
 सार्वभौम-म: नाद १२; -मा:
 योसू २, ३१.
 सार्वभौम-वत् पै २, ३८.
 सर्व-भूषण-भूषित-तम् १योत
 १०१.
 सर्व-भृत्-भृत् गी १३, १४.
 सर्व-भृत्य-समन्वित-त: शि ६,
 १११; १७८.
 सर्व-भोग-गात् सार २६८: १८.
 सर्वभोग-प्र(द>)दा-दा रा
 ४२५: २१.
 सर्वभोग-प्रभेद-
 सर्वभोगप्रभेद-क-कम् ते
 ५, ४९.
 सर्वभोगा(ग-आ)ब्ध-ब्धम्
 सार २६८: १६.
 सर्वभोगा(ग-अ)न्वित(त>)ता-
 -ताम् सार २६८: १९.
 १सर्व-मङ्गल-लम् रा ४२४:
 १६; -लानि त्रिवि ८, १८.
 सर्वमङ्गल-कारि(न>)णी-णी
 आथ ३९७: ५.
 सर्वमङ्गल-माङ्गल(ल्य>)ल्या-
 -ल्ये व ४३१: १; ४५८: ९.
 २सर्व-मङ्गल(त>)ला-ला हे १.
 सर्व-मन:-क्षोभण-गाय दत्ता २;
 व ४५६: ७.
 सर्व-मनो-वृत्ति-सि: त्रिवा २,
 १५६.

a) खि ५, ८७, ९। b) तैआ १०, ४७, १। c) तैआ १०, २१, १। d) तैआ १०, ६३, १। e) ०र्वा भू
 इति बे.। f) तैआआ १०, ६७। g) तैआ १०, ४४, १। h) कस.। i) वस.।

सर्व-मन्त्र-न्त्राणाम् योशि २,८;
 -न्त्रान् ते ३, ७४; -न्त्रेषु द ७;
 राउ ४,२; ता ३,८.
 सर्वमन्त्र-जापिन्-पी कालि
 ४०२: २०.
 सर्वमन्त्र-प्रमञ्ज(न>)नी-
 -नीम् व ४३३: ३.
 सर्वमन्त्र-फल-द-द: रार
 २,३८.
 सर्वमन्त्र-म(य>)यी-यी
 आथ ३९६: २०.
 सर्वमन्त्र-सर्वयन्त्र-सर्वतन्त्र-
 सर्वपल्लव-स्वरूप-पाय दत्ता
 २.
 सर्वमन्त्र-सिद्धि-द्धिम् कालि
 ४०३: १०.
 सर्वमन्त्रा(न्त्र-अ)र्था(र्थ-आ)-
 थर्वण-वेद-सिद्धि-द्धिम् लां
 २१६: १९.
 सर्वमन्त्रे(न्त्र-ई)श्वर-र: पी
 ४२२: ५.
 सर्वमन्त्रो(न्त्र-उ)त्तमो(म-उ)-
 -त्तम-म: द १३.
 सर्व-मन्त्र-योग-पारीण-ण:
 दत्ता ३.
 सर्व-मन्त्रा(न्त्र-आ)सन-ग(त>)-
 ता-त्ताम् त्रिता १, ७६; सौ
 १,१.
 सर्व-भय-य: वृ ४,४,५; त्रिवि ५,
 १०; -यम्, -या: वृउ ९,७; -ये
 नि ३०.
 सर्व-मांस-सस्य भव ४,१६.
 सर्व-माया(या-आ)दि-विद्या-
 -द्याम् कालि ४०२: १५.
 सर्व-मार्ग-गैण योशि ६,१५.
 सर्व-मुख्य-ख्यम् वरा ५,३५.
 सर्व-मुमुक्षु-क्षुभि: त्रिवि १,१.
 सर्व-मूर्धन्-धनि कृ २१.

सर्व-मूला(ल-अ)विद्या-निवर्तक-
 -क: त्रिवि १,१.
 सर्व-मृत्यु-प्रशम(न>)नी-नी
 आथ ३८७: ८.
 सर्व-मृत्यु(त्यु-उ)पघातक-क:
 शां १,७,४३.
 सर्व-मौन-फल-ल: मैत्रे ३,१६.
 सर्व-यज्ञ-ज्ञानाम् गी ९,२४.
 सर्वयज्ञ-याजिन्-जी कालि
 ४०२: ४.
 सर्वयज्ञो(ज्ञ-उ)त्तमो(म-उ)-
 -त्तम-म: शा १६.
 सर्व-यज्ञ-कर्म-कर-र: सार
 २७८: २०.
 सर्व-यत्न-त्नेन नाप ३,५०; महा
 ४,३; शि ७,२७.
 सर्व-युवति-तीनाम् काम २.
 सर्व-योग-नेपु योरा ३.
 सर्वयोग-प्रसिद्धि-द-दम् यो
 २,२१.
 सर्व-योगिन्-गिनाम् गौ ३,४०;
 -गिभि: गौ ३, ३९.
 सर्व-योनि-निषु गौ १४,४.
 सर्व-योनि-मुद्रा-द्रा आथ
 ३९४: १८.
 सर्व-रक्ष-क्ष: नृष ८५: १७.
 सर्व-रक्षा-कर-रम् त्रिता २,५९.
 सर्वरक्षाकरी-री त्रिता २,१५.
 सर्वरक्षाकरी-संवन्ध-न्धम्
 त्रिता २, १८.
 सर्व-रक्षा-समन्वित-तम् शां १,५
 सर्व-रक्षा-स्वरूप-
 सर्वरक्षास्वरूपि(न>)णी-णी
 आथ ३९७: २३.
 सर्व-रक्षो-क्ष-क्षाय वपं ३१२:
 १३.
 सर्व-रक्ष(न>)नी-नी आथ ३९६:
 १५.

सर्व-रत्नो(न-उ)पशोभित-त्तम्
 शि ६, १०७.
 सर्व-रत्नो(न-उ)पस्थान-नम् योसू
 २,३७.
 १सर्व-रस-सान् १अव ६.
 २सर्व-रस-स: छां ३,१४,२; ४.
 सर्व-रहस्य-स्यम् त्रिवि १,२.
 सर्वरहस्य-वरि(ष्ठ>)ष्ठा-ष्ठा
 वि १.
 सर्व-राज-वशं-क(र>)री-री
 व ४३५: ३; -री व ४५८:
 १६.
 सर्व-रात्रि-त्रिपु रा ४२३: २०,
 ४२४: ४; ७; ४२५: ११; १२.
 सर्व-रूप,पा-पा: गुषो ४२१: २;
 -पम् त्रिता २, ३५; शौ ५२: ६;
 वि ८; ११; -पा सौ १८; सर २,
 ५; -पा: सुं २,१,९; मना २,१२;
 १९^०; -पे अत्र २,२५.
 सर्वरूपा(प-आ)विर्भाव-
 -वाभ्याम् सार २४८: ५.
 सर्व-रोग-गा: जाद ६,४५^०; नै:
 त्रिवा २,११०.
 सर्वरोग-क्षय-य: योचू ११६.
 सर्वरोग-निवृत्ति-त्ति: शां १,
 ७,४७; जाद ६,२४.
 सर्वरोग-भया(य-अ)पह-हम्
 जाद ३,५.
 सर्वरोग-विनाश-श: शां १,
 ७, ४५.
 सर्वरोग-विनिर्मुक्त-क्त: शां १,
 ७,४४; जाद ६,२३.
 सर्वरोग-समुद्भव-व: योचू
 ११६.
 सर्वरोग-हर-रम् त्रिता २,११;
 यो १,२८.
 सर्व-लक्षण-ज्ञान-करण-संपूर्ण-
 -र्ण: गर्भ ३^१.

a) 'संबद्ध' इति श्रद्धा. संटि. । b) कस. । c) बस. । d) तैत्र्या १०,१०,१ । e) 'गाणि इति श्रद्धा. संटि. । f) 'क्षणसंपूर्णः इति श्रान., श्रद्धा. ।

सर्व-लक्षण-संयु(त>)ता- -ताम्
शि ६, ११६.
सर्व-लक्षण-संप(व>)न्ना- -न्नाम्
त्रिता १, ८४.
सर्व-लक्षण-संपूर्ण- -र्णः गर्भ ३^१.
सर्व-लक्ष्मी-
सर्वलक्ष्मी-म(य>)यी- -यीम्
त्रिता १, ८३.
सर्व-लिङ्ग- -ङ्गम् मना २, १६;
लि ३०२ : ५.
सर्व-लोक- -कः मैत्रे ३, १; -कम्
चू ५, १६^{१०}; ते २, २६; वउ
५, १३; -कस्य क २, २, ११;
शि ६, १७०; हे ८; -काः सुबा
१०; -कान् श ३; -कानाम् ते
१, २७; पै २, १; शि ६, १६४; व
४३३ : ७; -केषु १योत १०२;
-कैः गोच ६२ : १६.
सर्वलोक-गुरु- -रुः मैत्रे ३, १.
सर्वलोक-ज्ञान- -नम् शां १, ७,
५२.
सर्वलोक-पितामह- -हः महा
५, १५८.
सर्वलोक-मध्य- -ध्ये अद्वै २;
१७.
सर्वलोक-म(य>)यी- -यी सी
१०.
सर्वलोक-महेश्वर- -रम् गी ५,
२९.
सर्वलोक-रसलीला- -लायाम्
सार २७३ : २३.
सर्वलोक-वशं-क(र>)री-
-०रि व ४३५ : ४.
सर्वलोक-वश्य-क(र>)री-
-रीः सौ ३, १.
सर्वलोक-संचार- -रम् नाप १.

सर्वलोकसंचार-शील- -लः
मं २, ५, २^१.
सर्वलोक-स्तुति-पात्र- -त्रम् मं
२, ५, २^१.
सर्वलोक-हिता(त-अ)र्थ- -र्थाय
शि ६, १३३.
सर्वलोका(क-आ)त्मक- -कः
१अव १२.
सर्वलोका(क-अ)धिपति- -तये
त्रिवि ७, ४६.
सर्वलोकिन्- -की रापू ५, ९.
सर्वलोके(क-ई)श- -०श वि ४.
सर्वलोकै(क-ए)क-मोहि(न्>)-
नी- -नी नापू २, १२.
सर्वलोकै(क-ए)क-सौन्दर्य-
-यैम् गोच ६२ : १६३^१.
सर्वलोको(क-उ)पकार- -राय
शि २, १९; ६, १३०.
सर्वलोकोपकारा(र-अ)र्थ-
-र्थम् शि ७, १३६.
सर्व-वन्ध- -न्धः त्रिवि ८, १८.
सर्व-वर्जित-चिन्मात्र- -त्रः ते ५, २.
१सर्व-वर्ण-
सर्ववर्णा- -र्णा अ १; -०णं
मना २, ३४९^{११}.
१सर्ववर्णिक- -०क अत्त ५.
२सर्व-वर्णा- -०णेषु नाप ५, १; मि
११; १संन्या २, १३; ७४; लि
३१० : १९.
सर्ववर्ण-
सर्ववर्णै(र्ण-ए)क- -मैक्षा-
(क्ष-अ)टन-पर-
साववर्णैकमैक्षाटनपर-
ख- -खम् नाप ५, १^१.
२सर्ववर्णिक- -केषु नाप ५, १.
सर्व-वर्णा(र्ण-आ)श्रमा/म-आ-

चार- -रम् ते ५, ८२.
सर्व-वश-
सर्ववशिन्-
सर्ववशिन्या(नी-आ)द्य-
(दि-अ)ष्टक- -कम् त्रिता २, ६१^{१६}.
सर्व-वशं-कर- -रम् लि ३१० : १७.
सर्ववशंकर- -०रि अत्त १५;
-री आथ ३९६ : १६.
सर्ववशंकर-मुद्रा- -द्रा
आथ ३९४ : १४; ३९७ : १.
सर्व-वश्य-कर- -०र अत्त ५; -रः
रार २, ७६.
सर्व-वस्तु- -स्तुनि त्रिवा २, २९.
२अव ३३७ : ५; -स्तुषु नाप ३,
११.
सर्ववस्तु-परित्याग- -गे अत्त
१, ४५.
सर्व-वागीश्वरे(र-ई)श्वर- -०र ह
५; -राय त्रिवि ७, ४१.
सर्व-वाहूमय- -०य अत्त ५^१.
सर्व-वाच्- -वाचः ते ५, १.
सर्व-वाच्य- -च्यस्य रापू १, १२.
सर्ववाच्य-विवर्जित- -तः ते ४,
७८.
सर्व-वाच्य-वस्तु- -स्तु अ १.
सर्व-वात-स्तम्भ-कर्तृ- -र्तां पी
४२२ : ४.
सर्व-वासन-पङ्क्ति- -ङ्क्तयः महा
६, ८१^१.
सर्व-वासना-क्षय- -यात् मु२, १, १
सर्व-विघ्न- -घ्नान् रार २, ७८;
-घ्नानि या २, २३; -घ्नैः ग १६.
सर्वविघ्न-निवार(ण>)णी- -णी
आथ ३९७ : ९.
सर्वविघ्न-शमन- -०न अत्त ५.
सर्वविघ्न-हर- -रः १योत ६४;

a) ^{१०}संपूर्णः इति अख्या । b) तैश्चात्रा १०, १६ । c) 'सर्वान् लोकान्' इति निसा । d) ^{११}वदेशसं^{१०}
इति निसा । e) ^{१२}अः इति निसा । f) ^{१३}कैः कृष्णसौ^{१३} इति पा.३ यनि. शोधः द्र. । g) वस. उप. = २वर्ण- ।
h) तैश्चात्रा १०, ३४ । i) कस. उप. = ३वर्ण- । j) ^{१४}वर्णिकमि^{१४} इति अख्या । k) सवशि^{१५} इति अख्या । l) पा.३
^{१६}र्वाः, ^{१७}पङ्क्तिकाः इति शोधः द्र. ।

वरा ५, ७१.
 सर्व-विजय - -०य व ४५८ : १३.
 सर्व-विद् - -वित् सुं १, १, ९; २,
 २, ७; वृ ३, ७, १; श्वे ६, २; १६^०;
 ब्र २; २संन्या १५:६; रुह ३३;
 ग १९^१; आषे ९:१३; वटु ३१८:
 ७; मव २, ४७; सांस् ३, ५६;
 गी १५, १९.
 सर्ववित्-तम - -मः वा ३.
 सर्व-विद्या - -द्या त्रिता ५, १; द्यानाम्
 मना २, २१५^०; वृप् १, १२; व
 ४३२: २१; -द्याम् त्रिवि ७,
 ४१; वि १; -द्यासु नाप् ५, ३५.
 सर्वविद्या-ज्ञान-
 सर्वविद्याज्ञान-वत् - -वात्
 तारा ८३: ७.
 सर्वविद्या(द्या-आत्मक>)त्मि-
 का - -०के अक्ष १५.
 सर्वविद्या-पाण्डित्य-प्रपञ्च-
 -ञ्चम् तुअ १५.
 सर्वविद्या-प्रकाशक - -काय व
 ४५६: ५.
 सर्वविद्या-प्रकाशन-प्रद - -दाय
 व ४५६: ९.
 सर्वविद्या-प्रतिष्ठा - -ष्ठाम् सुं १,
 १, १.
 सर्वविद्या-प्रभेदि(न् >)नी-
 -नीम् व ४३३: ४.
 सर्वविद्या(द्या-अ)भ्यास - -सम्
 नाप १; २.
 सर्वविद्या-रहस्य-ज्ञ - -ज्ञः नाप
 २.
 सर्वविद्या(द्या-अ)र्थ-स्वरूप(>)-
 पा - -पाम् पप ४१८: २१.
 सर्वविद्ये(द्या-ई)श्वर - -रः पी
 ४२२: ५.
 सर्वविद्येश्वरी - -रीम् त्रिता
 २, ३०.

सर्व-विद्राविणी-मुद्रा - -द्रया
 त्रिता २, ५२; -द्रा आथ ३९५:
 १८.
 सर्व-विद्राविणी-शक्ति - -क्तिः
 आथ ३९६: १०.
 सर्व-विध - -धाः सार २८५:
 १३.
 सर्व-विभु - -भु २३ ३२: ५.
 सर्व-विलक्षण - -णम् सुद्र ४.
 सर्व-विशेष - -षम् अता ३.
 सर्व-विश्व - -श्वम् रु २०.
 सर्व-विष - -षम् गरु ६; लां २१६:
 ३; व ४३३: २२.
 सर्वविष-नाश-कर - -०र
 अक्ष ५.
 सर्वविष-हर - -०र अक्ष ५.
 सर्व-विष-भूत-रक्ष - -कृत्या(त्या-आ)
 दि-भेदन - -नाय त्रिवि ७, ३७.
 सर्व-विषय - -यम् योसू ३, ५५.
 सर्वविषय-पराङ्मुख -
 सर्वविषयपराङ्मुख-स्व-
 -त्वम् शां १, ८.
 सर्व-वृक्ष - -क्षाणाम् गी १०, २६.
 सर्व-वृत्ति - -त्तीनाम् ते १, ३१.
 सर्ववृत्ति-विवर्जित - -तः त्रिब्रा
 २, १६२.
 सर्ववृत्ति-विहीना(न-आ)त्मन्-
 -त्मा ते ४, ५४.
 सर्व-वेत्त - -त्ता ए ९.
 सर्व-वेद - -दम् नाउ ३, १०; -दाः
 योशि ६, २९; -देषु कलि २; गी
 ७, ८; -दैः २शिसं २०; श्या ७.
 सर्ववेद-चतुर्वर्ग-फल-प्रद -
 -दम् गोच ६९: २.
 सर्ववेद-पारायण-पुण्य - -ण्यम्
 ना ५^०; मवा १२.
 सर्ववेद-पारायण-फल - -लम् भ
 १, ११; हे १४.

सर्ववेद-मय - -०य ह ५; -यम्
 ध्या ३३^६; -याय त्रिवि ७, ४१.
 सर्ववेदमयी - -यी सी १०.
 सर्ववेद-स्वरूप -
 सर्ववेदस्वरूपि(न् >)णी-
 -णी नाप् २, १३.
 सर्ववेदा(द-अ)ध्यायिन् - -यी
 कालि ४०२: २०.
 सर्व-वेद-तपो - -निधि - -धिः शु
 १, १.
 सर्व-वेद-वेदान्त - -न्तानाम् नाप्
 ५, ४१.
 सर्व-वेद-व्रत-चर्या - -र्यासु पै
 ४, २३.
 सर्व-वेदस - -सम् क १, १, १; मना
 २, ८०^०; सूता १, २८.
 सर्व-वेदान्त-गोचर - -रः ते ४,
 ५६; नाप् २, १७; -रम् नाप् १,
 १७.
 सर्व-वेदान्त-नृस - -सः मैत्रे ३, १५.
 सर्व-वेदान्त-प्रत्यय - -यम् ब्रसू ३,
 ३, १.
 सर्व-वेदान्त-वेद्य - -द्यम् ससा ५.
 सर्व-वेदान्त-संलक्ष्य - -क्ष्यम् नाउ
 १, २७.
 सर्व-वेदान्त-सार - -रः ते ६, ६७.
 सर्व-वेदान्त-सिद्धान्त - -न्तम् ते
 ५, ८४.
 सर्ववेदान्तसिद्धान्त-सार - -रम्
 कर् ४२.
 सर्व-वेदा(द-अ)र्थ-वेदिन् -
 -दिभिः नाप ६, १३.
 सर्व-वेद्य - -द्याः नाप ९, २०; -द्यम्
 ते ५, ८२^६.
 सर्व-वैराग्य-प्रभाव - -वेन अद्वै
 २५^६.
 सर्व-व्याकृति-हेतु - -तवे सार
 २४७: ३.

a) ०विद्यः इति आन. संदि. । b) तैआ १०, ४७, १ । c) ०णं पुं इति Jc. । d) ०वदेचमया० इति आन., ०वदेव० इति अज्या. संदि. । e) तैआ १०, ६४, १ । f) ०वेदम् इति अज्या. । g) तु. गप्. पृ२६३ ।

सर्व-व्याधि- -धीन् ते ३, ६५.
 सर्वव्याधि-विनाशि(न्>)नी-
 नी आथ ३९७:१९.
 सर्वव्याधि-विषा(ष-अ)पह-
 -हम् त्रिजा २, ३९; शां १, ३, ८.
 सर्वव्याधि-हर- -०र अक्ष ५;
 -रम् रुजा २, १६.
 सर्व-व्यापक- -०क अक्ष ५; -क:
 त्रिवि २, १५; नापू १, १२; -कम्
 मं ४, १, ३.
 सर्व-व्यापार- -रम् ते ६, १०६;
 १योत ७९.
 सर्व-व्यापिन्- -पि २प्र ३२: ५;
 -पिनम् श्वे १, १६; गौ १, २८;
 ब्र ३, १७; -पी श्वे ३, ११; ६,
 ११; ब्र ३, ७; अशि ३, ११;
 ४, ४; ६१^५; ब्रवि ७८; १०६;
 त्रिजा २, ८१; योचू २६; शां १,
 ४; ३, १; पै४, ९; १आ १; २आ
 ३; गोउ ६५; वड्ड ३१५:११^३;
 १९; २११^५; २शिसं १९१^५.
 सर्व-व्रता(त-अ)तिरिक्त- -क्त: सार
 २८०:९.
 १सर्व-शक्ति^०-
 सर्वशक्ति-प्रसन- -०न लां
 २१४:११.
 सर्वशक्ति-देवी- -वी आथ
 ३९७:१६.
 सर्वशक्ति-धृष- -धृष् पं १२.
 सर्वशक्ति-प्रद- -०द अक्ष ५.
 सर्वशक्त्या(कि-आत्मक>)त्मि-
 का- -०के अक्ष १५.
 २सर्व-शक्ति^०- -क्ति: त्रिवि १, १;
 -क्त: महा ४, ८७.
 सर्वशक्ति-ता- -तया महा ५,
 १२०.
 सर्व-शत्रु- -श्रूत् लां २१४:१४.
 सर्वशत्रु-निबर्हण- -ण: रार २,

७०.
 सर्वशत्रु-निबर्हि(न>)णी- -णी
 कृ २३.
 सर्वशत्रु-निवार(ण>)णी-
 -णीम् व ४३२: २२.
 सर्व-शब्द- -ब्दम् रार २, ६५.
 सर्व-शरीर- -राणाम् वसूद;- रे योचू
 २४; -रेषु गौ ३, ९; मं १, १, ९.
 सर्वशरीर-स्थ-चैतन्य-ब्रह्म-
 प्रापक- -क: नि ४२
 सर्व-शरीरिन्- -रिण: कृ १७.
 सर्व-शास(>:) छां ७, २६, २; मैत्रि
 ७, ११; मना १, २१^१; नाप ३,
 ३२; ७४; ५, ७; ६, ३५; योशि
 ६, १२; रूह २; सूता १, १६;
 भव १, १३; ५, ४; गी १, १८;
 २, ५८; ६८; ३, २३; २७; ४, ११;
 १०, २; १३, २९.
 सर्व-शाक- -कानि शि ६, ८५.
 सर्व-शाखा- -खा स्त्री २९.
 सर्व-शास्तृ- -स्ता श ४; -स्तारम्
 जाद ८, ७.
 सर्व-शास्त्र- -क्षम् कालि ४०२:४;
 -खाणि मु २, २, ६५.
 सर्वशास्त्र-ज्ञ- -ज्ञा:स्वद १:१६.
 सर्वशास्त्र-मय- -यम् २शिसं
 २७.
 सर्वशास्त्र-विशारद- -०द हं १.
 सर्वशास्त्र-वेत्- -त्ता कालि
 ४०२:२१.
 सर्वशास्त्र-सिद्धान्त- -न्तम् अक्ष
 ३, २१; -न्तेषु त्रिवि २, ८.
 सर्वशास्त्र-सुनिश्चित- -त: ते
 ६, ६७.
 सर्वशास्त्रा(त्र-अ)र्थ-निर्णय-
 -यम् ते ५, ८४.
 सर्व-शु(क>)क्षा- -क्षा सर ३, १.
 सर्व-शून्य- -न्य: ते ३, २७; ५, ६५;

-न्यम् त्रिवि ३, ४-६; सौ २, १७.
 सर्वशून्य-स्वरूप- -प:ते ३, ४०.
 सर्व-शोक- -कम् ते ३, ६५.
 सर्व-शोभा-समन्वित- -तम् शि
 ६, १३८; -ते शि ७, ७६.
 सर्व-श्री- -श्रियम् २संन्या १६:४१^१.
 सर्व-श्रुति-रहस्य- -स्यम् कलि १.
 सर्व-श्रुत्य(ति-अ)र्थ-प्रतिपादन-
 -नम् नाप ५, १.
 सर्व-श्रुत्यु(ति-उ)त्तम- -म: नाप
 ८, २.
 सर्व-संशय- -या: सुं २, २, ८; महा
 ४, ८१; योशि ५, ४५; ६, ४०;
 अक्ष ४, ३१; सर ३, ३२; -न्याम्
 त्रिवि ८, १३.
 सर्व-संसार- -रम् नाप ५, ३९; ९,
 २०; -रेषु पप ४१८: ६.
 सर्वसंसार-भेषज- -जम् अक्ष
 ५, ७२; जाद ९, १.
 सर्वसंसार-भोचक- -क: श ३१,
 सर्वसंसारो(र-उ)परि नाप १.
 सर्व-संसार-दु:ख- -खानाम् महा
 ३, २५.
 सर्व-संसृति- -ते: यो २, ९.
 सर्व-सं(स्था>)स्थ- -स्थे श्वे १, ६;
 नाप ९, ५; भव २, ४.
 सर्व-संहर्तृ- -र्ता महा ४, २२.
 सर्व-संहार-क(र्तृ>)त्री- -त्रीम् गु
 ५९.
 सर्व-संहार-समर्थ- -र्थ: वृउ २, ११
 सर्व-संहारिन्- -री महा ३, ३८.
 सर्व-संहृत्- -हृति त्रिता ३, ११.
 सर्व-संकल्प-जाल- -लम् ते ५, ९७.
 सर्व-संकल्प-रहित, ता- -त: ते ५,
 २; -ता महा ५, १००.
 सर्व-संकल्प-शून्य-
 सर्वसंकल्पशून्य-स्व- -स्वात् ते
 ५, १६.

a) पा.१^० व्यापिम^० इत्येवं समस्तं द्र. । b) कस. । c) बस. । d) तैश्चा १०, १, २ । e) श^० इति अब्या.
 संटि. । f) छन्दोबद्ध्या 'सर्वा श्रियम्' इति श्लोकः द्र. ।

सर्व-संकल्प-संशान्त-न्तम् अञ्ज
६, ४८^a.
सर्व-संकल्प-संन्यास-सः महा
२, ९.
सर्व-संकल्प-संन्यासिन्-सी गी
६, ४.
सर्व-संकल्प-संभ्रम-मः ते ५, ४९.
सर्व-संकल्प-हीना(न-आ)त्मन्-
स्मा ते ४, ४४; ६८.
सर्व-संक्षोभण^b-णम् त्रिता २, ५३.
सर्व-संक्षोभि(न्>)णी-
सर्वसंक्षोभिणी-मुद्रा-द्रया
त्रिता २, ५०^c; -द्रा आथ ३९४:
११; २२.
सर्वसंक्षोभिणी-शक्ति-क्तिः
आथ ३९६: ९.
सर्वसंक्षोभिण्या(णी-आ)दि-
चतुर्दशक-कम् आथ ३९६: ८.
सर्वसंक्षोभिण्या(णी-आ)दि-
चतुर्दशा(श-अ)र-ग-देवता-
ताः भा १५^d.
सर्व-सङ्ग-ङ्गान् नाप ५, ३१.
सर्वसङ्ग-निवृत्ता(त-आ)त्मन्-
स्मा वरा २, ३६.
सर्वसङ्ग-रिक्त-क्तः सार २२७:
१५.
सर्वसङ्ग-विवर्जित-तः ते ४,
६; नाद १९; नाप ६, १९; शां
१, ५; शि १, २८.
सर्व-संजीवना(न-आ)द्य-द्वौ
सावि १०.
सर्व-संज्ञा-विवर्जित(त>)ता-ता
महा ५, १००.
सर्व-सख-वशं-क(र>)री-
-रि त्र ४३५: ४.
सर्व-सख-मुख-खः गौ ४, २.
सर्व-संतोष-षः सं २, २, ५.
सर्व-संवेह-नाञ्ज-न्तम् निर्वा

२९८: १७.
सर्व-संधि-स्थ-स्थः त्रिबा २,
८१; शां १, ४.
सर्व-संन्यासिन्-सी कालि ४०२:
१९.
सर्व-सम-मः नाप ५, १; १संन्या
२, १३; १कौल ७: ३; -मम्
नि २८; -माः आथ ४.
सर्व-समन्वित-तः ते ४, ५५.
सर्व-समाचार-रः महा ६, ६७.
सर्व-समाहित-तः शि ६, ९४.
सर्व-समृद्ध्या(द्धि-आ)नन्दा-
(न्द-अ)वधि-धि सार
२५३: १.
सर्व-संपत्-प्रद, दा-द अञ्ज ५;
-दा आथ ३९७: ४.
सर्वसंपद्-वृद्धि-कर-रः दत्ता
१, ३^e.
सर्व-संपत्ति-पूर(ण>)णी-णी
आथ ३९६: १९.
सर्व-संपत्ति-भूत-तम् त्रिता २, ६.
सर्व-संपूर्ण-शक्ति-
सर्वसंपूर्णशक्ति-ता-ता योशि
३, २५.
सर्व-संबन्ध-न्धः महा २, ८;
-न्धात् सांस् १, १२.
सर्वसंबन्ध-वर्जित-तः त्रिबा
२, ८९.
सर्व-संभवा(व-अ)भाव-वात्
सांका ९.
सर्व-संमोहन^b-नाय वं ४५७: ५.
सर्व-संमोहि(न्>)नी-शक्ति-
क्तिः आथ ३९६: १३.
सर्व-साक्षिन्-क्षिणम् नृत् ५, ३;
नाप ६, ९; शां ३, ३; अञ्ज ४, ३६;
रुह ४९; वरा २, १३; २९; ३२;
-क्षिभि नृत् ९, ९; -क्षी योचू

७२; श २०.
सर्वसाक्षि-स्व-स्वेन अञ्ज ३, ८.
सर्वसाक्षित्व-लक्षण-णः
ते ६, ६६.
सर्वसाक्षि-धृत-तम् म४८: ३.
सर्व-साधार(ण>)णी-णीम्
मन्त्रि ७; चू ७.
सर्व-सामान्य-न्यम् महा ४, १२१.
सर्व-सामोप्य-प्यम् जाद ४, ३१.
सर्व-साम्य-म्ये गौ ३, १०.
सर्व-सार-रम् सु १, १, ३३^f;
-राणाम् अञ्ज ४, ७०.
सर्व-सिद्ध-नमस्कृत(त>)ता-ता
योचू ५५.
सर्व-सिद्धान्त-संग्रह-हः महा
६, ७७.
सर्व-सिद्धि-द्धयः त्रिवि ५, ७; ८,
१२; -द्धये श ७; वि १६; -द्धिः
दे ७; -द्धिम् योशि ५, ५४; रा
४२५: १३; -द्धीनाम् योरा १०;
-द्धेः सांस् १, ८८.
सर्वसिद्धि-कर-रः त्रिबा २,
२७; -रम् योशि १, २.
सर्वसिद्धि-कर्तृ-र्ता पी ४२२:
१७.
सर्वसिद्धि-द-दः नाप ९, २०.
सर्वसिद्धि-प्रद, दा-द अञ्ज
५; -दम् त्रिता २, ६३; -दा सौ ३,
१; आथ ३९७: ३; -दाः भा १६.
सर्वसिद्धिप्रदा(द-आ)दि-
दशक-कम् आथ ३९७: २.
सर्वसिद्धि-प्रदायक-क्तः सुता
२, १९.
सर्वसिद्धि-विवर्जित-तः ते ५,
६९.
सर्वसिद्धि-समाश्रय-यम् सौ
२, ९.

a) ०न्वौ इति अब्या. । b) उप. कर्तरि कृत् । c) संसर्व इति पा. १ यनि. शोधः द्र. । d) तु. अब्या. ०न्वेवत् इति; वैतु. ०तुर्दशककयः इति तान्त्रि. । एतदनु गम्. (पृ३९२) सख. द्विषता->त्ता इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः (तु. गम्. पृ९०१b) । e) ०री इति अब्या. १ यनि. शोधः द्र. । f) =तदाख्योपनिषद्विशेष- ।

सर्वसिद्धी(द्वि-ई)धर- -रः काम
२०; कालि ४०१: ५; चक्र ९;
हंपो १; २१.
सर्वसिद्धया(द्वि-आ)दि-हेतु-
-त्वे यो २, ३८.
सर्व-सुख- -खम् कालि ४०२: १९;
-खात् वरा ३, १०.
सर्व-सुख-संपत्ति-पूर्णा(र्षा-आ)-
-नन्द- -न्दः सार २७५: १६.
सर्व-सुभ(ग>)गा- -गाम् त्रिता १,
८५.
सर्व-सृज्- -सृक् मैत्रि ७, १.
सर्व-सौख्य- -ख्यानि, -ख्यैः सुवा^५.
सर्व-सौभाग्य-द- -दम् पं ९.
सर्व-सौभाग्य-दायक- -कम् त्रिता
२, ५४.
सर्व-सौभाग्य-दायि(रु>)नी-
-नी आथ ३९७: ११.
सर्व-सौभाग्य-प्र(द>)दा- -दा
रा ४२५: २१.
सर्व-सौम्य- -म्य नाप ४, ३८;
१संन्या २, १२.
सर्व-स्तम्भ-क(र>)री- -रीम् पी
४२१: २.
सर्व-स्तम्भनी-शक्ति- -क्तिः आथ
३९६: १३.
सर्व-स्त्री-पुरुष-वशं-क(र>)री-
-रि व ४३५: ४.
सर्व-स्थूल-पालक- -कः वै १, १५.
सर्व-स्मृत्- -स्मृते मैत्रि ६, ३५.
सर्व-स्रष्टृ- -ष्टारम् भव १, ५६.
सर्व-स्व- -स्वम् १संन्या १, १; कश्रु
१, १.
सर्व-स्वजन-संयुत- -तः शि ६,
१११.
सर्व-स्वरूप- -पः त्रिविः १, १.
सर्व-स्वरूपिन्- -पिणम् सूता
१, ७.
सर्व-हत्या- -त्याम् वृजा ८, ३; वृप्

५, १३; राउ १, २; कालि ४०२:
१४.
सर्व-हर- -रः गी १०, ३४.
सर्व-हीन- -नः ते ५, ६८.
सर्वहीन-स्वरूप- -पः ते ३, ३.
सर्व-हृद्- -हृदि अक्ष १५.
सर्व-हृदया(य-अ)नुग- -गम् अक्ष
३, २१.
सर्वा(र्व-आ)कर्षिणी-मुदा- -द्वया
त्रिता २, ५४; -द्वा आथ ३९४:
१३; ३९६: ७.
सर्वा(र्व-आ)कर्षिणी-शक्ति- -क्तिः
आथ ३९६: ११.
सर्वा(र्व-आ)कार, रा- -रः भ २, ८;
वउ २, ११; -रा व १२^०.
सर्वा(र्व-अ)धर-
सर्वाधर-मय- -यः नाप ८, २;
तु १७.
सर्वा(र्व-आ)गम-
सर्वागम-मय- -यः नाप ८, २.
सर्वा(र्व-आ)गमा(म-अ)न्ता-
(न्त-अ)र्थ-विभावित- -तः
ते ५, ६३.
सर्वा(र्व-आ)गमान्ता(न्त-अ)र्थ-
विशेष-वेद्य- -द्यम् नाप ९,
१६.
सर्वा(र्व-अ)ग्नि- -ग्नीनाम् शि ४,
६५.
सर्वा(र्व-अ)ग्र-पाक-संयुक्त-
-कम् शि ४, १६.
सर्वा(र्व-अ)घ-भक्षण-सामर्थ्य-
-र्थम् वृजा ६, ५.
सर्वा(र्व-अ)घौ(घ-ओ)घ-निकृ-
न्तन- -नम् सु १, १, ४४.
सर्वा(र्व-अ)घौ(घ-ओ)घ-निवा-
रण- -नः राउ ५, ६.
सर्वा(र्व-अ)घौ(घ-ओ)घ-निकृ-
त्ति- -त्तिः सूता ४, ११.
सर्वा(र्व-अ)घौ(घ-ओ)घ-विना-

शन- -नम् पं ४.
सर्वा(र्व-अ)ङ्ग- -ङ्गम् वृजा ३, ३२^३;
४, १^१; वपं ३१२: २२; कालि
४०१: ८; व ४३६: १३; -ङ्गानि
के ४, ८; गु २२; -ङ्गे कालि ४०१:
८^०; हंपो १७; -ङ्गेण इया १५;
-ङ्गेषु त्रिवि ६, २३.
सार्वाङ्गिक- -कम् शि ५, २०.
सार्वाङ्गिक-प्रणाम- -मम्
शि ७, ८.
सर्वाङ्ग-का(म>)मा- -मा सार
२६३: २.
सर्वाङ्ग-मनोह(र>)रा- -राम्
सार २४३: १४.
सर्वाङ्ग-संपूर्ण- -र्णः निरु १, १४.
सर्वाङ्ग-सुन्दर- -रम् मे १, ४, १;
कृ १.
सर्वाङ्गसुन्दरी^१- -री आथ
३९७: १०.
सर्वाङ्ग-स्रवण- -णम् भा ३१.
सर्वाङ्ग-हीन- -नः ते ५, ६२.
सर्वाङ्गो(ज-उ)द्वूलन- -नम् वृजा
४, ४.
सर्वा(र्व-आ)चार-नय- -कम् -मैः
अक्ष ५, १००.
सर्वा(र्व-आ)चार(र-अ)नुवृत्ति-
सर्वाचारानुवृत्ति-मत्- -मान्
महा ६, ७०.
सर्वा(र्व-आ)जीव- -वे थे १, ६;
नाप ९, ५; भव २, ४.
सर्वा(र्व-अ)ज्ञान- -नम् ते ३, ५८;
वपं ३११: ५१^०.
सर्वा(र्व-अ)ण्ड- -ण्डेषु त्रिवि ८, ४.
सर्वा(र्व-अ)तीत- -तः ते ३, १२; कुं
२६; -सम् १योत ८; योशि १, ५.
सर्वातीत-पदा(द-आ)कम्बिन्-
-म्बी महा ६, ६३.
सर्वातीत-स्वभावा(व-आ)-
-स्वन्- -स्मा ते ५, ७.

सर्वा(र्व-अ)त्मक- -कः कुं २६; सं १८; -कम् वृत् ७,४; रा ३,१; राप् ४,६५; महा ४,६०; ५,५६; अन्न १,२२; -के वरा ४,२८; सु १,१,२३; -केन वृत् ७,४; आथ ३९९: १२.

सर्वात्मक-त्व- -स्वम् अच् १४; आप् ३; ७.

सर्वात्मक-पूजो(जा-उ)पचार- -रः आप् ७.

सर्वा(र्व-अ)त्मन्- -त्मना त्रिवि ५, १;२; १आ १२; कर् २५; सार २६०: ११; हे २; -त्मने वृजा ४,२२; -स्मा कै १,१६; वृत् ४, ४^१; ८,१^०; ते ३,२७^०; ४,३४^१; ४१; ब्रवि १०७; अन्न ४,२६; कर् ८; वृत् ४,४७; भव २,५४; -स्मानम् श्वे ३,२१.

सर्वात्मिक- -कस्य त्रिवि २,१२^०.

सर्वात्म्य- -स्यम् अध्या ४.

सर्वात्म-ता-

सर्वात्मता-सिद्धि- -द्धि:

१कौल २: ४.

सर्वात्म-भाव- -वेन सार २३१: ५; २८६: ३.

सर्वात्म-वेदन- -नम् महा ४, ४२.

सर्वात्म-संयोग-योग-पीठा-

(ठ-आ)त्मन्- -स्मने त्रिवि ७, ४८.

सर्वा(र्व-अ)दि- -दौ त्रिता १,६५.

सर्वा(र्व-अ)द्वैत- -तम् त्रिवि ८,२;

स्व ६२: ४.

सर्वाद्वैत-परमानन्द-लक्षणा-

(ण-अ)खण्डा(एड-अ)मित-

तेजोराइया(शि-आ)कार-

-रम् त्रिवि ८,५.

सर्वा(र्व-अ)धार- -रः नाप ८,१;

त्रिवि १,१; तु १५: -रम् त्रिवि ५,१२; भ २,१८.

सर्वाधार-कार्य-कारण-

सर्वाधारकार्यकारण-म-

(य>)यी- -यीं सां १०.

सर्वाधार-स्वरूप-

सर्वाधारस्वरूपि(न>)णी-

-णीम् आथ ३९७: २०.

सर्वा(र्व-अ)धिकारिन्- -री पारा १७.

सर्वा(र्व-अ)धिपति- -ति: सुवा ५;

ब्रवि १०६.

सर्वा(र्व-अ)धिपत्य- -त्यम् श्वे ५,३;

गु ६४.

सर्वा(र्व-अ)धि-न्याधि- -नाशि-

(न>)नी- -नीम् १योत १२२^१.

सर्वा(र्व-अ)धि-न्याधि- -भेषज-

-जम् पं १२.

सर्वा(र्व-अ)धिष्ठान- -नः वृत् १,७;

-नम् त्रिवि ७,२०; अन्न ४,२९;

रुह २६.

सर्वाधिष्ठान-रूप- -पः ते ३,१३.

सर्वाधिष्ठान-सन्-मात्र,त्रा-

-त्रः वृत् २, ११^०; ब्रवि ११०;

राउ ३,१^०; -त्रा विद्या ४; -त्रे

अन्न २,२७.

सर्वा(र्व-अ)ध्यास- -सम् ते ५,४९.

सर्वा(र्व-अ)नन-शिरो-ग्री(वा>)-

व,वा- -वः श्वे ३,१; -वा गु ४७.

सर्वा(र्व-अ)नन्द-

सर्वानन्द-मय- -यः ते ५,२;

-यम् त्रिता २,६५.

सर्वानन्दमयी- -यी आथ

३९७: २२.

सर्वानन्द-वर्धन- -नाथ व

४५६: ९.

सर्वा(र्व-अ)नन्य-बुद्धि- -दथा नाप

९,२०.

सर्वा(र्व-अ)नुग्रहा(ह-अ)र्थ- -थाव
रुजा १,१.

सर्वा(र्व-अ)नुग्राहक- -कः ब्रवि १०८.

सर्वानुग्राहक-त्व- -स्वेन ब्रवि

२२^१; अबि २२.

सर्वा(र्व-अ)नुभव-निर्मुक्त- -क्तः ते

५,३.

सर्वा(र्व-अ)नुभु- -भुम् इ १२: १२.

सर्वा(र्व-अ)नुभू- -भूः वृ २,५,११;

ब्रवि ११०.

सर्वा(र्व-अ)नुस्यूत- -ते नि ३०.

सर्वा(र्व-अ)न्तर- -रः वृ ३, ४, १^१;

२^१; ५, १^३; मैत्रि ७,६; वृत् ७,

४; ब्रवि १०६; -रेण कर् २२.

सर्वान्तर-स्थ- -स्थम् नि २८.

सर्वान्तरस्थ-स्व-संविद्-

रूप-विद्- -विस् नि ४४.

सर्वा(र्व-अ)न्तरात्मन्- -स्मा अद्वै

१११^०; पा ६,१.

सर्वा(र्व-अ)न्तर-भूत- -तम् त्रिता

१,२६.

सर्वा(र्व-अ)न्तर-धामिन्- -मी वृत्

५,३७.

सर्वान्तर्यामि-रूप- -पः ते ६,

६६.

सर्वान्तर्यामिरूपा(प-अ)-

त्मन्- -स्मा ते ४,६३.

सर्वा(र्व-अ)ञ्जा(ञ-अ)नुमति- -ति:

ब्रम् ३,४,२८.

सर्वा(र्व-अ)पद्- -पदाम् महा ३,

४; ३६.

सर्वा(र्व-अ)पर- -रम् मैत्रि ६,३८;

७,३.

सर्वापर-स्व- -स्वाय मैत्रि ६,२३.

सर्वा(र्व-अ)पङ्कव- -वः अन्न ५,

११२.

सर्वा(र्व-अ)पाश्र्व-निस्पृह- -हम्

भव ३,२८.

a) °स्मानम् इति निसा. । b) सदा° इति अज्या. संटि. । c) सर्वात्मक° इति निसा. । d) °र्वन्याधिर्वि° इति निसा. । e) °नः स° इति आन. । f) °र्वनु° इति काचित्कः निसा. ? । g) °रान्मा इति वा. ? यनि. शोधः द्र. ।

सर्वा(र्व-अ)पेशा- -क्षा ब्रसू ३, ४, २६.
 सर्वा(र्व-अ)सि- -सिः कौ ३, ४.
 सर्वा(र्व-अ)प्यायन-कर- -०र अक्ष ५.
 सर्वा(र्व-अ)भयं-कर- -रम् त्रिवि ७, ४९.
 सर्वा(र्व-अ)भरण-भूषित, ता- -तः रापू ४, ३०; -तम् रार २, ४७; सुता १, २७; -ता सर ३, ४.
 सर्वा(र्व-अ)भाव- -वे चक्र ५.
 सर्वाभाव-स्वरूपक- -कम् (३कः) ते ६, ६०.
 सर्वा(र्व-अ)भास-विवर्जित- -तम् अक्षि ४८.
 सर्वा(र्व-अ)भिधान- -नम् वृउ ७, ४.
 सर्वा(र्व-अ)भिलाप-विगत- -तः गौ ३, ३७.
 सर्वा(र्व-अ)भीष्ट- -ष्टान् त्रिवि ८, १२.
 सर्वाभीष्ट-पद- -दम् रार २, ६८.
 सर्वाभीष्ट-प्रद- -दः रार २, ७.
 सर्वाभीष्ट-संपादक- -कम् त्रिवि ७, ४९.
 सर्वा(र्व-अ)भीष्ट-फल-प्रद- -दः रार २, ८; ४१; ६७; -दम् पं २.
 सर्वा(र्व-अ)भीष्ट-सिद्धि- -द्धिम् त्रिवि ७, ३०.
 सर्वा(र्व-अ)भेद- -दात् ब्रसू ३, ३, १०.
 सर्वा(र्व-अ)मय-पति- -तिः व ४३४ : ५.
 सर्वा(र्व-अ)युष- -षैः १योत १०१.
 सर्वायुष-धर- -राय लां २१६ : ६.
 सर्वायुष-परिपूर्ण>र्णा- -०णं व ४३१ : १३.

सर्वा(र्व-अ)युष- -षम् ते २, ३, १.
 सर्वा(र्व-अ)युस- -युः मना २, ३५^{१०}; वटु ३१८ : ७.
 सर्वा(र्व-अ)रम्भ- -म्भाः गी १८, ४८.
 सर्वा(र्व-अ)परिस्वाग्नि- -नी गी १२, १६; १४, २५.
 सर्वा(र्व-अ)राध्य- -ध्यम् त्रिता २, ३५.
 सर्वा(र्व-अ)र्थ- -र्थम् शि ७, ५८; योसू ४, २२; -र्थान् गी १८, ३२; -र्थेषु मै ५, ६; मैत्रि ६, ६.
 सर्वार्थ-कारण- -णात् महा ५, ७९.
 सर्वार्थ-ता-
 सर्वार्थतै(ता-ए)काग्रता-
 -तयोः योसू ३, ११.
 सर्वार्थ-दर्शन- -नम् सी २१.
 सर्वार्थ-मय- -यम् अक्ष ५, ६६.
 सर्वार्थ-वासनो(ना-उ)न्मु-
 (क्त>)का- -का महा ६, ५०.
 सर्वार्थ-वेच- -त्त्रे सिशि ३८३ : ११.
 सर्वार्थ-साधक- -कः तुल ७१ : १९; -कम् दे ११; त्रिता २, ५७; शि ३, १२.
 सर्वार्थसाधिका- -०के व ४३१ : १; ४५८ : ९.
 सर्वार्थ-साध(क>)की- -की आथ ३९६ : १८.
 सर्वा(र्व-अ)लंकार-भूषित>ता-
 -ताम् रा ४२४ : १९.
 सर्वा(र्व-अ)लंकार-शोभि(त>)ता-
 -ता राधा ३, १५.
 सर्वा(र्व-अ)लंकृत(त>)ता- -तया रापू ४, ९.
 सर्वा(र्व-अ)र्वा-वद- -वतः वृष्ट, ३, ९.

सर्वा(र्व-अ)वभक्षण- -णात् वृजा १, १.
 सर्वा(र्व-अ)वयव-संपूर्ण>र्णा-
 -०णं तुल ७१ : ९.
 सर्वा(र्व-अ)वरण-मला(ल-अ)-
 पेत- -तस्य योसू ४, ३०.
 सर्वा(र्व-अ)वसान- -ने नाप ९, १६;
 त्रिता ३, १८.
 सर्वा(र्व-अ)व(स्था>)स्थ- -स्थाः त्रिवि ५०.
 सर्वा(र्व-अ)वस्था- -स्थासु वृउ ९, ७; नाप ६, १; मं २, ३, ७; त्रिवि ५, १०; ११; शां १, १.
 सर्वावस्था-विनिर्मुक्त- -क्तः नाद ५१.
 सर्वा(र्व-अ)शा-परिपूरक- -कम् त्रिता २, ५१.
 सर्वा(र्व-अ)शा-संक्षय- -वे अक्ष २, २३.
 सर्वा(र्व-अ)क्षिन्- -क्षी नाप ५, २; पृहं ३.
 सर्वा(र्व-अ)श्रय- -र्यम् ते २, ३२.
 सर्वाश्रय-मय- -यम् गी ११, ११.
 सर्वा(र्व-अ)श्रम- -मान् शा २८.
 सर्वा(र्व-अ)श्रय- -यः त्रिवि ८, १५;
 पित्र ४, ३; -यम् पित्र ४, ३.
 सर्वा(र्व-अ)संभव- -वात् सांसू १, ४; ११६.
 सर्वा(र्व-अ)सर्व- -र्वम् ते ३, ५५.
 सर्वासर्व-विवर्जित- -तः ते ४, ६७.
 सर्वासर्व-विहीन- -नः मैत्रे ३, ६.
 सर्वासर्व-स्वरूपा(प-आ)त्मन्-
 -स्मा ते ४, ६७.
 सर्वा(र्व-अ)संकृति-वर्जित- -तः महा ५, ९६.

a) निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । b) तैआथा १०, ३५ । c) वा. क्वि. द्र. । d) उप. √साध् + च्चुर् प्र. । e) वैतु. शं. सर्व- + भवत्- (<√अव्) इति वा सर्व- + वत् (=मत्पु) प्र. (तु. रामा.) इति वा । f) °वासु भव° इति निसा. । g) उप. <√अश (भक्षणे) ।

सर्वो(र्व-अ)हं-मानिन्- -न्ती- वृज
२, ७.

सर्वो(र्व-अ)हुति- -ती- वृजा ३,
१५.

सर्वो(र्व-अ)ह्लादिनी-शक्ति- -क्ति:
आथ ३९६: १२.

सर्वो(र्व-इ)च्छा- -च्छा: महा २, ५८.
सर्वेच्छा-कलना-शान्ति- -न्तौ

वरा ३, ३०.

सर्वेच्छा-सिद्धि-साधन- -नम्
सौ ३, १.

सर्वो(र्व-इ)च्छा-जाल-संशान्ति-
-न्तौ अज ४, ८.

सर्वो(र्व-इ)न्द्रिय- -याणाम् क १, १,
२६; १कौल ३: ४; २कौल ४;

-याणि सुं २, १, ३; छां ८, १५,
१; कै १, १५; ना १; अज ३, ३;

वपू १, २.

सर्वेन्द्रिय-गुणा(ण-आ)भास,
सा- -स: ब्रवि १०७; -सम् श्वे

३, १७; गी १३, १४; सा गु ४९.
सर्वेन्द्रिय-वर्ग- -र्गे मं ३, १, ५.

सर्वेन्द्रिय-विवर्जित, ता- -त:
ब्रवि १०७; -तम् श्वे ३, १७; गी

१३, १४; -सा गु ४९.

सर्वेन्द्रिय-विहीन- -न: मैत्रे ३,
१५.

सर्वेन्द्रिय-समाहृति- -ति: पिं
१५.

सर्वेन्द्रियो(य-उ)परम- -म:
तुअ १८.

सर्वो(र्व-ई)प्सित-फल-प्र(द->)-
दा- -दा आथ ३९८: १.

सर्वो(र्व-ई)श- -शम् ब्रवि ७७; मं
३, १, ३.

सर्वेश-स्व- -स्वम् कालि ४०२:
१५.

सर्वो(र्व-ई)श्वर- -र: मां ६; वृ ४, ४,
२२; अ ३; कौ ३, ९५^०; वपू ४,

६; वृज १, ९; सुबा ५; नाप ८,
१; १४; २, २०; त्रिवि १, १; राउ

३, १; शां २, १; जाबा ९; तु
१५; कालि ४०१: ६; पी ४२२:

३; १८; सुमु २०; वउ १, ११;
५, ३७; -रम् वृज ३, ९; सुबा ८:

नाप २, १७; वा १; महा ४, ७१;
गोउ १; गोच ६५: १; य ३;

सु २९३: ३.

सर्वेश्वरी- -नी आथ ३९८:
१३; ३९९: १२; विद्या ४.

सर्वेश्वरे(र-ई)श्वर- -र: भव ५,
१५.

सर्वो(र्व-इ)ष्ट-साधक- -काय त्रिवि
७, २७.

सर्वो(र्व-ई)हा- -हा: महा २, ५८.

सर्वो(र्व-ए)क-जननी- -नी नापू २,
५^०.

सर्वो(र्व-ए)नो-निवृत्ति- -त्ति: सूता
१, ३.

सर्वो(र्व-ऐ)श्वर्य- -र्यम् वपू १, १५;
सांस् ५, ९.

सर्वेश्वर्य-प्रदायि(न्->)नी- -नी
आथ ३९७: १७.

सर्वेश्वर्य-फल-प्रद- -दम् पं ५.
सर्वेश्वर्य-वत्- -वान् ह २.

सर्वेश्वर्य-समन्वित- -सम् शि ६,
२१८.

सर्वेश्वर्य-संपन्न- -न्न: अ ३; शां
३, १.

सर्वो(र्व-ए)षणा(णा-आ)दि- -दिपु
मैत्रे २, १८^{१०}.

सर्वो(र्व-ए)षणा-विनिर्मुक्त- -क्त:
तु २५^{१०}; नाप ३, १८.

सर्वो(र्व-उ)च्छित्ति- -त्ति: सांस् ५,

७८.

सर्वो(र्व-उ)त्क(उ>)टा- -टाम् त्रिता
१, ७६; सौ १, १.

सर्वो(र्व-उ)त्कर्ष-श्रुति- -ते: सांस्
१, ५.

सर्वो(र्व-उ)क्लृष्ट- -ष्ट: त्रिवि ८, १८.
सर्वोक्लृष्ट-स्व-

सर्वोक्लृष्टत्व-सर्वात्मकत्वा-

(त्व-अ)द्वैत- -तम् तुअ १६.

सर्वोक्लृष्ट-परम-द्युति-प्रद्योत-
मान- -नम् अता ७; मं १, २,

१३^{१०}.

सर्वो(र्व-उ)त्तम, मा- -म: नाप ६, ६;
सिशि ३८२: १४; -मम् त्रिता

४, १; -मा विद्या ४.

सर्वो(र्व-उ)न्मादि(न्->)नी- -नी
आथ ३९६: १७.

सर्वो(र्व-उ)न्मीलन- -नम् मं २,
१, ६.

सर्वो(र्व-उ)पकरणा(ण-अ)न्वित-
-सम् शि २, १५.

सर्वो(र्व-उ)पकारिन्- -री दत्ता १, ७.

सर्वो(र्व-उ)पचार- -रस्य वउ ६, २७.
सर्वोपचारो(र-उ)पयोग- -ग:

सूता ४, ११.

सर्वो(र्व-उ)पद्रव- -वान् वउ ५, ८.
सर्वो(र्व-उ)पनिषद्- -षत्सु त्रिवि २,

८; -षदाम् ते ५, ८९; सु १, १,
४४.

सर्वोपनिषत्-सार- -रम् प्रा १, १.
सर्वोपनिषद्-अभ्यास- -सम् ते

६, ११०.

सर्वोपनिषद्-अर्थ- -र्थम् पप
४१९: ५.

सर्वोपनिषद्-विद्या- -द्या मै २,
३; मैत्रि २, ३.

सर्वो(र्व-उ)परत- -त: पप २०: १६

क) श्वा: हति आन., 'लोकेशः' इति शांश्रम ५, ८: । b) गपू. (प्र २०३) सस्य. 'शुकजननी-> -नी' इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः । c) 'वै' इति निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । d) 'वै' इति निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. आन.) । e) 'माद्वितीयप्र' इति अज्या? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या. संटि.) ।

सर्वो(र्व-उ)परम- -मे द १.
 सर्वोपरम-बाधक- -कम् नाप
 ८, १५.
 सर्वो(र्व-उ)परिघाट् पा १०, ३.
 सर्वो(र्व-उ)पसंहार- -रेण तु ४.
 सर्वो(र्व-उ)पादान- -नम् सांस् १,
 ७६.
 सर्वो(र्व-उ)पाधि-विनिर्मुक्त- -कम्
 ससा १, २९^०; कर्ष ४१.
 सर्वो(र्व-उ)पाय- -यात् त्रिविट्, १२.
 सर्वो(र्व-उ)पे(त>)ता- -ता ब्रस् २,
 १, ३०.
 सर्वो(र्व-ऊ)र्ध्व, ध्वी- -ध्वीम् त्रिता
 २, ३९; -ध्वे त्रिता ३, १०.
 सर्वो(र्व-ओ)षध- -धम् तै २, २, १^१;
 वृ ६, ३, १; -धस्य छां ५, २, ४.
 सर्वो(र्व-ओ)षधि- -धीनाम् सी १८.
 सर्वज्ञानित्वरूप्यनादिवोधध्व-
 तन्त्रनित्यमलुप्तानन्तम्^b
 नाप् ६, ६.
 सर्वपाप^० लां २१४ : १६.
 सर्वप^० - -पम् १योत ४७; -पात् छां
 ३, १४, ३; -पेण भव २, ३३.
 सर्वपी-
 सर्वपी-कोण-कोटर- -रे
 महा ४, ६४.
 सर्वपे(प-इ)ङ्गुदि-काशा(श-आ)-
 अ-करञ्ज-मधुका(क-अ)क्ष-ज-
 -जम् शि ४, ५९.
 स^०-लक्ष्ण- -णम् नाप ४, ३८; पप
 ४१८ : ३२.
 स^०-ल(ज>)ज्जा^०- -जा सार २६३ : ३
 स^०-लक्षण- -णम् शि ६, ८८.
 स^०-लाङ्कुन- -नम् सार २६५ : ८.

सलिल^०- -लः वृ ४, ३, ३२; चू १३^६;
 -लम् वृजा १, १; दृपू १, १; सुवा
 ४; मन्त्रि १३^६; योशि ५, २४;
 भा २७; पं ३; वरा ५, ३७; शि
 १, २५; गार ४०५ : ५; -लस्व
 गु ५७; -लात् गार ४०५ : ५;
 -लानि महा ३, ५२; ह १६४^१;
 चक्र २४^१; -ले श्वे ६, १५; सुवा
 ४; शां १, ७, २१; योशि ५, ५०;
 वरा २, ७५; सौ २, १४.
 सलिल-कण- -णः महा २, ७७.
 सलिल-वत् सांका १६^१.
 सलिला(ल-अ)वस(न>)ञा- -ञाम्
 पा ६, ४.
 सलिलो(ल-उ)ह्व- -वः गोपू ३०.
 स^०-लील- -लम् गुणो ४२० : ८.
 स^०-लोक-
 सालोक्य-
 सालोक्य-ता- -ताम् कश्चु
 २, १.
 सालोक्य-मुक्ति- -क्तिम् मु
 १, १, १९.
 सालोक्य-सामीप्य-सारु-
 प्य-सायुज्य^०- -ज्यम् य १०;
 सु २९३ : १०.
 सालोक्य-सारूप्य-मुक्ति-
 -क्तिः मु १, १, २२.
 सालोक्य-सारूप्य-सामी-
 (प्य>)प्या- -प्या मु १, १, २३.
 सालोक्या(क्य-आ)दि-वि-
 भाग- -नेन मु १, १, १७.
 सलोक-ता- -ताम् छां २, २०, २;
 वृ १, ३, २२; ५, २३; ५, १३,
 १-४; मना २, १५४^१; ८०४^१;

वृपू १, १४; सावि १०; कलि ३;
 सूता १, २३; सु २९४ : २; स
 ३७९ : २०.
 सव- √सु (अभिषेव) द.
 सव- √सु (प्रेरणे) द.
 सवन- √सु (अभिषेव) द.
 सवर्चस्^०- -चसम् तै १, १०, १; नाप
 ४, ३८.
 स^०-वर्ण^०-
 सवर्ण-ता- -ताम् सार २७९ : २२.
 स^०-वर्तु(ल>)ला- -लाम् शि ३, ८.
 स^०-वस्तु- -स्तु गौ ४, ८७.
 स^०-वासन^०- -नम् अक्ष ५, ६२; नावि
 त्रिवि ५, १०.
 स^०-वासस्^०- -साः स्मर २३५ : ५;
 ७; ९.
 स^०-वाह(न>)ना- -नाः पी ४२२ :
 १३.
 स^०-विकल्प- -ल्पः सर ३, २५; २६.
 सविकल्प-विवर्जित- -तः तेषु ७५.
 स^०-विकल्पक- -कः सर ३, २७; २८.
 स^०-विकल्प-जाल- -लम् महा ५, ५२
 स^०-विकार- -रः त्रिवा २, १३; -रम्
 गी १३, ६.
 स^०-विचार(र>)रा- -रा योसू १, ४४.
 स^०-विज्ञान- -नः वृ ४, ४, ३; -नम्^०
 वृ ४, ४, २^०; गौ ७, २.
 स^०-वित(र्क>)र्का^०- -र्का योसू १, ४२.
 सवित्- √सु (प्रेरणे) द.
 स^०-विद्- -विद् मैत्रि ६, ३५^०.
 स^०-विला(स>)सा- -सा त्रिवि ४, ७^०
 सविलास-महामूला(ल-अ)विधो-
 (था-उ)दय-क्रम- -सः त्रिवि
 ३, १.

a) ०कः इति आन. । b) 'सर्वज्ञानित्वरूप्यनादिवोध(श्वा) स्वतन्त्र-नित्याङ्गुप्तानन्ताः' इति शोधः द. । c) पा. १ पाञ्च-> -ञः इति शोधः द. । d) =तन्तुभ- । व्यु. १ < √सु इति पाठ ३, १४१ । e) =६स । f) विप. वाञ्छापः वा । वैपश् यदः । g) ०कम् इति मन्त्रि १३ । h) ०कः इति चू १३ । i) ऋ १, १६४, ४१ । j) =५स । k) समाहारे द्वस. । l) तैआ १०, १४, १ । m) तैआ १०, ६४, १ । n) पा. १ सु^० इति शोधः द. (उ. तैआ ७, १०, १) । o) उप. =वर्ण- । p) उप. =रवास(न>)ना- । q) उप. =रवासस्- । r) ना. क्वि. द. । s) ०तम् इति निसा. । t) सकृत् =सवि- इति राती. । u) 'सविलासमूलाविद्याः' इति निसा. ।

सविलास-मूलात्रिणो(धा-उ)प-
 संहार-क्रम-मः त्रिवि ३,२.
 स^०-विषय- -यम् सं ५, १, १; त्रिता
 ५, १.
 स^०-विसर्ग- -गंम् सुमु ५.
 स^०-विसर्गक- -कम् द ४.
 स^०-विस्तीर्ण^०- -णै शि ६, १०५.
 स^०-वृत्त-तृण-पर्वत- -तम् १मंन्या
 २, १३.
 स^०-वृष- -षम् शि ६, १५१.
 स^०-सव्य^०- -व्यम् कौ २, १५; जाद ३, ९;
 -व्ये मैत्रि ७, ११; कौ ४, १७.
 स^०-सव्य^०- -व्यम् त्रिमा २, ३६; शां
 १, ३, २, ९; जाद ३, ४; -व्ये त्रिमा
 २, ३६; शां १, ३, २; जाद ३, ३;
 ४, १३; सु २९४ : १४; -व्येन
 वउ ६, २४.
 सव्य-तस(>) शां १, ३, ९;
 पत्र ३, १०.
 सव्य-साचिन्^०- -चिन् गी ११,
 ३३.
 सव्या(व्य-अ)पसव्य- -व्येन
 १संन्या २, ६३.
 सव्ये(व्य-इ)तर- -रे त्रिमा २,
 ७०.
 सव्य-कर्णा(र्ण-अ)न्त- -न्तम् जाद
 ४, २२.
 सव्य-गुल्फ- -ल्फेन शां १, ३, ५.
 सव्य-दक्षिण-नाडी-स्थ- -स्थः
 शां १, ७, ४०.
 सव्य-नाडी- -ड्या शां १, ७, १४.
 सव्य-नासा(सा-अ)न्त- -न्तम् जाद
 ४, १९.
 सव्य-नेत्रा(त्र-अन्त)>न्ता- -न्ता
 जाद ४, २२.
 सव्यनेत्रान्त-(ग)>गा- -गा

शां १, ४.
 सव्य-पादा(द-अ)ङ्गुष्ठा(ष्ट-अ)न्त-
 -न्तम् जाद ४, २१.
 सव्य-भाग- -गे शां १, ४.
 सव्य-स्कन्ध- -न्धे शि ५, ५१.
 सव्य-हस्त- -स्तः प्रा ४, १०.
 सव्यहस्ता(स्त-अ)क्षमाला-
 -लाम् शि ६, ११७.
 सव्ये(व्य-इ)तर- -रेण जाद ६,
 ३९.
 सव्येतर-श्रुत्य(ति-अ)वधि-
 -धि त्रिमा २, ७३.
 सव्यो(व्य-ऊ)रु- -रु वरा १, १७.
 स^०-व्याल- -लः द ८.
 स^०-व्याहृति- -तिम् अता ११.
 स^०-शक्तिक- -कम् वउ ३, ११.
 स^०-शब्द- -ब्दः नाद ४९; ध्या २१.
 स^०-शक्यो(ध्या-उ)पकरण- -णम्
 सार २८४ : १८; २८८ : ७.
 स^०-शर^०- -रम् गी १, ४७.
 स^०-शरीर- -रः छां ८, १२, १; -रम्
 नाप ८, ५; -रस्य छां ८, १२, १.
 स^०-शा(खा)>ख- -खाः वृषू १, ४;
 ४, १५, २३; राउ ४, ६.
 स^०-शान्ति- -न्तिम् सु १, १, २९.
 स^०-शि(खा)>ख- -खम् अ २; नाप
 ३, ७७; पत्र ३, १; खान् १संन्या
 १, १; करु १^३; कथु १, १; २,
 २; ३.
 स^०-शैल-वन-कान(न)>ना- -नाम्
 शि ७, २९.
 स^०-श्रीक- -कम् रार ३, १; पा ७, ९.
 स^०-श्व-मां(स)>सा- -सा नाप ३,
 ५०.
 स^०-षड्-अक्षर- -रम् वपू १, ५.
 स^०-षड्-अङ्ग- -ङ्गम् शु १, १३; ङ्गानि

शु १, १४; ३, १५.
 स^०-सखी-सम्(ह->)हा- -हाः सार
 २२२ : ५.
 स^०-सङ्ग-
 ससङ्ग-त्व- -त्वात् मांसू ३, ७२.
 स^०-सङ्गति- -ति चक्र ४.
 स^०-सप्त-द्वीप- -पम् त्रिता १, ३१.
 स^०-संप्रदाय- -यम् त्रिता २, ५५.
 स^०-संभ्रम- -मम् गा २६.
 ससर्परी^०- -रीः ह १८१^१.
 स^०-सर्वज्ञा(ज्ञ-आ)दि-दशक-
 -कम् त्रिता २, ५९^१.
 स^०-सर्व-संविन्-न्यास- -स्य
 निर्वा २९८ : १६.
 स^०-सर्व-संक्षोभिण्या(णी-आ)-
 दि-दशक- -कम् त्रिता २, ४५.
 स^०-सर्वसंक्षोभिण्या(णी-आ)दि-
 द्विसप्तक- -कम् त्रिता २,
 ५५.
 स^०-सर्वसिद्धिप्रदा(द-आ)दि-
 दशक- -कम् त्रिता २, ५७.
 स^०-सागर, रा- -रम् त्रिता १, २१;
 -राम् वृषू १, ३; वपू १, ६.
 स^०-सागरा(र-अ)म्भः-सप्त-द्वी-
 (प>)पा- -पा सी १७.
 स^०-साधन- -नेभ्यः वृउ ६, ४.
 स^०-साध्य- -ध्यम् सौ १, २; ३.
 स^०-सुख- -खौ पा ५, ९.
 स^०-सुग्रीव-विभीषण- -णम् रार
 २, १५; ८४.
 स^०-सुर- -रः मन्त्रि १२^६.
 स^०-सैन्यबल-वाहन- -नाः भव^१,
 २३.
 स^०-स्थूण- -णम् वृ २, २, १^१.
 स^०-स्पृह(ह)>ह- -हः मै ३, २; मैत्रि
 ३, २; ६, ३०.

a) = ६स । b) पा. ? सु^० इति शोधः द्र. । c) विप. वैपश् यद्र. । d) विशेषि. । e) 'सव्यः' इति अख्या ।
 १) °ब्दम् इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.; वैतु. सुवा^० इति आन.) । g) उप. = यशर- । h) वैपश् यद्र. ।
 २) 'ससर्परीः' इति अख्या. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अ. ३, ५३, १५) । j) °सर्वज्ञत्वा^० इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु.
 आथ ३९७; १५) । k) 'शरावान्' इति अख्या. । l) °स्थूल^० इति निसा. ।

न^०-स्मेर- -रौ पा ५,९.
 नस्य^०- -स्यम् क १,१,६^३; पित्र १,
 १५^३; ९^३.
 सस्य-संपत्ति- -त्तिः शि ६,१५८.
 न^०-स्वन- -नम् शं १,७,१४; यो
 १,२७; ३३.
 ✓सह^०(^०बधा.), >साहि, सहस्व व
 ४६०: १५^३; १७^३; साङ्गाम व
 ४५९: २२^३.
 साहय-साहय लां २१५: २२.
 १सह-
 स(ह>)हा-वत्- -वान् व ४६०:
 ६^३.
 सहन- -नम् शं १,१.
 सहमान, ना- -^०नम् मना २,१; व
 ४६१: १४; -ना छां ३,१५,२.
 सहस्र^०- -हः मना २, ३५^३; व
 ४५९: २१^३; ४६१: १^३; -हसा
 नाद ३९; योशि १,६२; २,१४;
 सूता २,१०^३; व ४५९: २२^३;
 गी १,१३.
 साहस- -सम् नाप ४,३०.
 सहस्र-कृत- -तेन व ४५९:
 २२^३.
 सहस्र-वत्- -वता व ४५९:
 २२^३.
 सहिष्णु- -ष्णुः पै ४,९^३.
 सहुरि^०- -रिः व ४६०: ६^३; -० रे
 व ४६०: १^३; १५^३; २२^३.
 सोढव्य- -व्यम् महा ४,२६.
 सोढुम् गी ५,२३; ११,४४.
 २सह^० ई ११; १४; क शां^३; २,३,

१०; प्र ३,१०; मुं २,२,५; तै
 शां^३; १,३,१^३; छां १,१०,१;
 वृ १,५,१७; श्वे शां^३; गौ ४,
 ३५; मना २,७२^३.
 सह-कारिन्- -रिणः सार २४८: २२;
 २४९: ३; ४; -री सार २२६:
 ११.
 सहकारि-स्व- -स्वेन ब्रसू ३,४,
 ३३.
 सहकार्य(रि-अ)न्तर-विधि-
 -धिः ब्रसू ३,४,४७.
 सह-चारिन्- -रि सार २८८: ६.
 सहचारिणी- -णी सार २८६:
 १२; २८८: ४.
 सह-ज, जा- -जः वरा ५,७५^३; -जम्
 ब्र २; नाप ४, ३८^३; महा ५,
 १८६; योशि १,१०७; त्रिता १,
 ७४; शि १,१२; गी १८, ४८;
 -जा गौ ४,९; शां ३,१; -जाः व
 ४६१: १^३.
 सहज-बल-
 सहजबल-क-
 सहजबलिका-
 सहजबली-
 सहजोली^०-
 -ली १योत २७.
 सहज-भाव- -वाः सार २८७:
 २०.
 सहज-संबलित- -तः सार २८३:
 १८.
 सहज-संज्ञा-
 सहजसंज्ञित- -तम् ते १,२२

सहजा(ज-अ)नन्द- -न्दे मं २,
 १,८.
 सहजा(ज-अ)वस्था- -स्था महा
 ४,७७; ७८; वरा २,७६; ७७.
 सह-भोजन- -नम् इ १३: १३.
 सह-य(ज्ञ>)ज्ञा- -ज्ञाः गी ३,
 १०.
 सह-वासिन्- -सिनम् पप ४१८: ७.
 सह-सूक्त-वाक- -कः रसंन्या १६:
 १३^३.
 सह-स्थित-त्रिकोणो(ए-ऊ)र्ध्व-
 गमन- -ने ध्या ९४^३.
 सहा(ह-अ)य, या- -या व ४६६: ८;
 -येन नाप ३, ४४; सार २४०:
 १९.
 सहाय-वत्- -वान् शां ३,१^३.
 सहदेव^०- -वः गी १,१६.
 सहस्र^०- -स्रम् छां ४,२,३; ४; ४,५;
 ५,१; वृ २-३, १,१; ४, १,२-७; ३,
 १४-१६; ३३; ४,७; ६,४,२४;
 मना २,५७^३; कौ ४,१; ब्रवि
 ७९; अव्य १; २^३; रुजा १,२०;
 गृह २५; इ १४: २२; २प्र ३३:
 १६^३; पा ४,७^३; ७,२; रशिसं
 १३^३; १४; चक्र ४; -स्रस्य मै
 १,१; मैत्रि १,२^३; मैत्रे १,१^३;
 -ञ्जा वृ ३,९, १^३; -ञ्जाणाम्
 योचू १५^३; इ १४: २२; -ञ्जाणि
 छां ७,२६,२; वृ २,५,१९; अना
 ३४; ध्या ५१; ६२; योचू ३२;
 वरा ५,३; च २१: ११; -ञ्जाव
 मना २,३८^३; ३९^३; ४०^३;

a) =६स । b) वैपश् यद्र. । c) वा. क्रिवि. द्र. । d) ऋ १०,८४,२ । e) ऋ १०,८४,३ । f) ऋ १०,
 ८३,१ । g) ऋ १०,८३,४ । h) शौ ७,६५,१ । i) तैत्राञ्जा १०,३५ । j) ऋ १०,८४,६ । k) ऋ १,५०,१३ ।
 l) ऋ १०,८३,६ । m) ऋ १०,८४,५ । n) अव्य. वैपश् यद्र. । o) तैत्र्या ८,१,१ । p) तैसं ५,५,९,३ । q) ञम्
 इति अञ्ज्या. संटि. । r) पापू २,२,११ । s) तु. गपू. पृ८७C । t) शौ ७, १०२, ६ । u) °णार्थं इति निसा.,
 °णार्थं इति अञ्ज्या. संटि. । v) सहज° इति अञ्ज्या., 'सहजया' इति निसा. संटि. । w) व्यु. ? =पाण्डवविशेष- ।
 x) तैत्र्या ३, १०, ८, २ । y) 'सहस्रकृत्वः' इति गोत्रा १,१,२२ । z) मा १७,२ । a') °ञ्जाहस्य इति संटि. ।
 b') °ञ्जाहस्य इति अञ्ज्या. । c') कठ ३५,६^३ । d') °ञ्जाणि इति अञ्ज्या. । e') तैत्र्या १०,४८,१ । f') तैत्र्या
 १०,४९,१ । g') तैत्र्या १०,५०,१ ।

वि २६: -स्त्राय पा ४, ७; -स्त्रेण मना १, ८^{१५}; शि ६, २०७; व ४६४: ६१^{१५}; ७१^{१५}; भव ३, १९; -स्त्रेण इ १५: १; गी ७, ३; -स्त्रैः सार २६९: २२.
 सहस्र-क- -कम् इ १९: ३.
 सहस्र-कमल- -ले यो १, ८६.
 सहस्र कला(ला-अ)वयव- कल्याण- -णम् मुद्र २.
 सहस्र-किरण- -णाय सू २२.
 सहस्र-कृत्वस(>) वपू १, ४; गी ११, ३९.
 सहस्र-कोटि-योजना(न-आ)यतो- (त-उ)न्नत-चिन्मय-प्रासाद- -दम् त्रिवि ७, २१.
 सहस्र-गायत्री- -त्रीम् नाप ४, ३८.
 सहस्रगायत्री-पूर्वक- -कम् नाप ४, ३८.
 सहस्र-गुण- -णम् शां १, २; जाद २, १५^१.
 सहस्रगुणित- -तम् शि ६, २९; ३१.
 सहस्र-चरण- -णम् भ २, ३.
 सहस्र-दल-पद्म- -मो राधा १, १६.
 सहस्र-दल-संख्यात- -तम् योचू६.
 सहस्र-दश- -दक् रापू ४, ३८.
 सहस्र-धा वृ ४, २, ३; ३, २०; कौ ४, १९; वृ ८, ५; सुवा ४; वा १९.
 सहस्र-धा(रा>)र- -रः, -रम् मना २, ६७^{१५}.
 सहस्र-नामन्- -मभिः रा४२५: ४; ६; ७; ९; १०; -मानि अद्वैमा ११.
 सहस्र-निकुञ्ज- -जाः सार २५३: ११; -जैः सार २६९: ४; १४.
 सहस्र-पङ्क्ति- -ङ्क्तयः सार २७४: ७.

सहस्र-पर(म>)मा- -मा मना १, ७; व ४६४: ३.
 सहस्र-पा(द>)द- -पात् श्रे ३, १४^{१५}; अशि ६, ११; सुवा ११^{१५}.
 सहस्र-पान- -नात् गार ४०८: १९.
 सहस्र-प्राकार- -रैः त्रिवि ६, २१.
 सहस्र-बाहु- -हवे व ४२८: ८; १०; १२; १४; १६; १८; १९; २१; २३; ४२९: २; ४: ६; -हुः सुवा १; -०हो गी ११, ४६.
 सहस्र-भानु- सहस्रभानु-मत- सहस्रभानुमच्छुरि(त>)- ता- -ना मवा ७.
 सहस्र-भुज- -जैः व ४३४: १९.
 सहस्र-युग-पर्यन्त- -न्तम् गी ८, १७.
 सहस्र-योजन- -नात् गार २५९: ७.
 सहस्रयोजन-परिणाह- सहस्रयोजनपरिणाह-वन्त- -वति सार २८१: २.
 सहस्रयोजना(न-आ)यत- -तम् सार २८४: ९.
 सहस्र-रश्मि- -श्मिः प्र १, ८; मै ५, ८; मैत्रि ६, १८; अक्षि १.
 सहस्ररश्मि-परिवृत- -तः प्रा २, १६.
 सहस्र-वर्ष- -र्वे त्रिवि १, १.
 सहस्र-शब्द- -ब्दः मुद्र १, ११^१.
 सहस्र-शस(>) मुं २, १, १; पै ३, १; अध्या ३८; सार २४९: १५; नी १, ९१^१; शि ६, १८३; चू १९; गी ११, ५.
 सहस्र-शा(खा>)ख- -खे तै १, ४, ३.
 सहस्र-शाखा- -खाः सी २५.

महस्रशाखा(खा-अ)ध्यायिन्- -यो सार २७८: १९.
 महस्र-शिवर-मेरु- -रोः सं ९.
 महस्र-शीर्ष- -र्षम् मना २, १३, ११^{१५}; महा १, ११^{१५}; भ २, ३; व २०: ९१^{१५}; नापू १, १६.
 सहस्र-शीर्षन्- -र्षां श्रे ३, १४; सुवा १; मुद्र १, १.
 सहस्र-संवत्सर- -रम् त्रिवि १, १.
 सहस्रसंवत्सरा(र-अ)न्त-क्रतु- -नुना मैत्रि ६, ३६^१.
 सहस्र-संख्या- -ख्यया मु १, १, १३; रा ४२३: १०; १९; २१; ४२४: ५: ८; ११.
 सहस्र-सं(स-अ)शु- -शुः सूता १, ६.
 सहस्र-सं(स-अ)क्ष- -०क्ष नी २, १०^{१५}; -क्षः श्रे ३, १४^{१५}; सुवा ११^{१५}; -क्षम् महा १, ११^{१५}; भ २, ३; च २०: ९१^{१५}; -क्षस्य मना १, ५१^{१५}; -क्षाय नी २, ४१^{१५}; व ४६३: ९; -क्षेण मै ५, ८; मैत्रि ६, ८.
 सहस्र-सं(स-अ)क्ष(र>)रा- -राह १६; चक्र ३.
 सहस्र-सं(स-अ)क्षुर-शाखा(खा-आ)- -म-फल-पल्लव-शालिन्- -लिनः मु २, २, ३६.
 सहस्र-सं(स-आ)दित्य-संकाश- -शम् सार २८०: १४.
 सहस्र-सं(स-आ)नन्द-प्राकार- -रैः त्रिवि ६, २३.
 सहस्र-सं(स-आ)नन्द-प्राकार-परिवेष्टित- -तम् त्रिवि ७, २.
 सहस्र-सं(स-अ)न्त- -न्ताः रापू १, ९.
 सहस्र-सं(स-अ)र- -०र त्रिवि ७, ३०^१; ३६; नाद २, १०; व ४२८: १०; १२; १३; १५; १७^१; १९; २१;

a) मा १३, २०; तैआ १०, १, ८। b) मा १३, २०। c) मा १३, २१। d) तैआआ १०, ६७। e) तैआ १०, १, ७। f) अ १०, ९०, १। g) °दिमभिः प° इति आन., jc.। h) उप. = १ वर्ष-। i) सश° इति पा.१ यनि. शोधः द्र.। j) मा १६, ६। k) तैआ १०, ११, १। l) °न्तः क्र° इति सात.। m) मा १६, १३। n) विश्वा° इति तैआ १०, ११, १। o) तैआ १०, १, ५। p) मा १६, ८। q) अ १, १६४, ४१। r) °रे इति अच्चा. सां.।

२३; ४२९; २; ४; ६; ४५७ : ७;
 ९; ४५८ : १३; ४५९ : १२;
 ४६४ : २३; -रः सु २९४ : १^२;
 -रे मं १, ४, १.
 सहस्रार-चक्र- -क्रम् त्रिवि७, ७.
 सहस्रार-ज्वलज्-ज्योतिस्-
 -तिः अता १३^०.
 सहस्रा(स-अ)र्ण- -र्णम् नाद ५^१b.
 सहस्रा(स-अ)वधि-मुखा(ख-अ)-
 न्त- -न्तैः त्रिवि ६, ७^०.
 सहस्रा(स-अ)वयवा(व-अ)न्वित-
 -तः नाप ८, १; तु २.
 सहस्रा(स-अ)वर्तन- -नात् ग १८.
 सहस्रो(स-उल्का>)रुक्- -रुकाय
 त्रिवि ७, ४२.
 सहस्वत्- ✓सह् द्र.
 सहाय- २सह द्र.
 सहावत्- ✓सह् द्र.
 स-हास^१- -सम् नाप ६, ३२.
 १-२सहित- सं/धा द्र.
 सहिष्णु-सहुरि- ✓सह् द्र.
 स^०-हृद(य>)या- -याम् त्रिता १,
 ७८.
 स^०-हेतुक- -के वरा २, ६८.
 स^०-हे(ला>)ल- -लम् गुषोष्ठ २०:८
 १सा(<१स-)- तद्- द्र.
 २सा^० छां १, ३, ४; ६, १; ७, १-४; वृ १,
 ३, २२.
 सां^१ व ४४५:१६; ४४७:१; सां-सां
 व ४३७ : २.
 सांवत्सरिक- संवत्सर- द्र.
 सांसारिक- सं/सु द्र.
 सांसिद्धिक- सं/सिध् द्र.
 सांस्कृतिक- सं/सु द्र.
 सांहृत्य- सं/हृत् द्र.
 साक^१- -क्रम् अशिष्ठ, १७; वट्ट ३१६:

१०.
 सा(स^०-आ)कार- -रः त्रिवि २, १^३; ४;
 ६; राधा १, १७; -रम् त्रिवि २,
 १; १३; -रस्य त्रिवि २, १२.
 साकार-निराकार- -रौ त्रिवि २, ११;
 १३.
 साकारनिराकार-भेद-विरोध-
 -धैः त्रिवि २, १२.
 सा(स^०-आ)कृत- -तम् पा १, ९; १०, ६
 १साक्ष^१- -क्षात् वृ ३, ४, १; २; ५, १;
 शु १, १३; ३, २३^३; वसू २५; ते
 ६, ६४; ऋवि ३१; १योत १७;
 त्रिआ २, १६०; श २७; त्रिवि
 ५, १२; ८, १५; पै ४, ३; महा
 ४, ८५; योशि १, २०; ४, २;
 १आ २०; पाशु २, २७; कर्
 २३; रुह ३६; ४४; जाद ४, ६२;
 ६, १६; ३७; ७, १४; ८, ९; १०,
 ८; ता २, ३; ग २; गोड १६;
 कृ १०; २३; राधा ४, ३; गोच
 ६८ : १०; नापू ४, ३०; ५, २९;
 नाड १, २३; सार २५५ : ४;
 २५७ : १७; २७७ : १; पारा
 १८; वपं ३१३:४; शि ७, ८०;
 वपू २, ५; ब्रसू १, २, २८; ४,
 २५; गी १८, ७५.
 रसाक्ष-
 साक्षिन्^१- -क्षिणः सर ३, १९;
 -क्षिणम् मैत्रे १, ४, ८; कुं २३;
 कर् १२; सु १, १, ३; -क्षिणा कर्
 २१; -क्षिणि सर ३, २०; -क्षिणे
 सार २४७ : १०; -क्षी श्वे ६, ११;
 मैत्रि ६, १६; कै १, १८; ऋ ३,
 ७; नृड २, ३^६; ५, १; ९, १०;
 ११; १३; ससा १, ३; २५; २; ४;
 ते २, १८; ऋवि ९६; २आ ३;

आबो ३; १९; नाप ६, १^३; महा
 २, ७३; ६, ८०; योशि ५, २९;
 अन्न ४, २६; पाशु २, ७; १अव
 २५; कर् ८; पं ३६; गोड १३;
 ६५; राधा ४, २४; हे ७; भव
 २, २७; वड ५, ५२; गी ९, १८.
 साक्षिणी- -णी गु ६९.
 साक्षि-चैतन्य- -न्यम् पै १,
 ६; -न्ये वरा २, ५.
 साक्षि-त्ता- -तया शु ३, ३.
 साक्षि-स्व- -स्वम् ते ३, ३४;
 सांसू १, १६ १; सांका १९; स्वात्
 वृड २, ५; ६; ७; सर ३, १६.
 साक्षि-भाग- -गः ३०:२१.
 साक्षि-भूत- -तः १आ १;
 -ते महा ५, ५५.
 साक्षि-रूप- -पेण अन्न ४,
 ३३; रुह ४२.
 साक्षिरूप-क- -कः ससा ३
 साक्षिरूप-ता- -तया
 पाशु २, ४५.
 साक्षि-वत् महा २, ५१;
 १संन्या २, ४०.
 साक्षि-स्वरूप-
 साक्षिस्वरूप-स्व- -स्वात्
 जाद १०, ५.
 साक्षि-हीन- -नः ते ५, ५९.
 साक्ष्य-
 साक्ष्य-धर्म- -मार्ः कुं २३
 साक्ष्य-वस्तु-विहीन-
 साक्ष्यवस्तुविहीन-
 स्व- -स्वात् ते ३, ३४^१m.
 साक्ष्य-साक्षिस्व-हीन-
 (न-आ)त्मन्- -स्मा ते ४, ५१.
 साक्ष्यं(क्षि-अं)श- -शे वरा
 ४, ४.

a) ^०रे जलज्यो^० इति निसा. । b) ^०र्णमती^० इति निसा., अख्या. पा.१ यनि. च '१इति' इति च शोषः
 द्र. (वैतु. ^०आह्वयम् इति J.C.) । c) सदस्रव^० इति काचित्कः निसा. पा.१ । d) मलो. कस. । e) =६स । f) वा.
 क्रिवि. द्र. । g) 'सामन्-' इत्यस्य पूर्वशः । h) =बीजमन्त्रविशेष- । i) तु. गपू. पृ २३३C । j) वैप१ यद्र. ।
 k) =प्रत्यक्ष- । वैप१ यद्र. । l) इनिः प्र. (पा ५, २, ९१) । m) साक्षिव^० इति निसा.१ यनि. शोषः द्र. (तु. अख्या.) ।

साक्ष्य(क्षि-अ)वस्था- -स्था अत्र ५, १०८.	-राणाम् वउ ३, ३१; -रे मन्त्रि १७; ते ६, ९६; आबो १४; योशि ६, ४१; चू १७.	सा(स ^d -आ)ज्य- -ज्यम् जा ४; नाप ३, ७७; पप ४१८: १५; म २, २४; या १, १ ^k ; -ज्यै: म १, ३.
साक्षात्	सागर-प्रतिभासित- -त: अद्वै १०. सागरो(र-उ)दर- -रम् वउ ४, ३७.	साज्य-समिध्- -मिद्भि: ग १८.
साक्षात्-छक्ति- -क्ति: सी ११; ३४ ¹ .	सा(स ^d -अ)ग्रि- -ग्रि गोपू १२ ¹ .	सा(स ^d -अ)ञ्जन- -नम् अञ्ज ३, २३.
साक्षात्-कृ	सा(स ^d -अ)ग्रिक- -क: इ १३: २२; -का: मार २३१: २०.	सांजीवी-, सांजीव्य- सं/जीव् द.
साक्षात्-कार- -र: वरा २, ४१.	सा(स ^d -अ)ग्र- -ग्रम् शि ६, ४; ३२: ३५; ६७; ६९; २०७; २१८; २६२.	सा(स ^d -अ)णिमाद्य(दि-अ)ष्टक- -कम् त्रिता २, ४८.
साक्षात्कारा(र-अ)नुभव- -व: नि २९ ^a .	सा(स ^d -अ)ग्रिम- -मौ त्रिता ३, ७.	सा(स ^d -अ)ति-रहस्य- -स्यम् त्रिता २, ६५.
साक्षात्कारा(र-अ)र्थ- -र्थे	सांकर्य- सं/कृ द.	सात्त्व-, सार्विक- सत्त्व- द.
म ४८: १०; १६; २१; ४९: ५; १२; २०.	सांकृति-, सांकृती-, सांकृत्य- संकृति- द.	सा(स ^d -आत्मक) > तिमिका- -का सी ६१ ¹ .
साक्षाद्-बुद्धि- -द्धि: सार २७९: १४.	१-३सांख्य- सं/ख्या द.	सात्य- १सत्य- द.
साक्षाद्-ब्रह्मन्- -ह्य ब्रवि २९; गोउ १९; वरा २, २१; राधा ४, १; -ह्यणि शु १, ४.	४साङ्ख्य ^{1b} - (<सङ्ख ¹¹ -)	सात्यकि- ३सत्य- द.
साक्षाद्-विज्ञानिन्- -नी महा ४, ७६; वरा २, ६३.	साङ्ख्यायन-	सात्वत् ¹¹¹ - -तान् भव ५, १७.
साक्षाद्-विधि-मुख- -ख: मु २, २, ५६.	साङ्ख्यायन-गो(त्र)आ- -आ गार ४०६: २.	सादन-, सादन्य- √सद् द.
साक्षान्-नारायण-, -ण: नाप ४, १४ ^b .	साङ्ख्यायन-स-गो(त्र)आ- -आ मना २, ३५ ¹ .	सा(स ^d -आ)दर- -रम् ¹ ते ६, ११०; ब्रवि २२; अञ्ज १, २; १७; यो १, ३; जाद ६, १; सु २, २, ३३.
साक्षान्-माया-	साङ्ग-भावना- -ना अञ्ज ५, ८२.	सा(द) > दा ^o -
साक्षान्माया-म(य) > यी- -यी सी ३ ^o .	सा(स ^d -अ)ङ्ग- -ङ्गम् तृपू १, ६; ११; १३; १४; रार ३, १; वपू ३, २; -ङ्गा: तृपू १, ४; ४, १५, १३; राउ ४, ६; म २, २६.	सादा(द-आख्य) > ख्या- -ख्याम् बृजा ४, १९.
साक्षान्-मोक्षै(क्षि-ए)क-सा- धन- -नम् नाप ६, २१.	साङ्गयोग-योग-	सा(स ^d -आ)दि-
सा(स ^d -अ)द्वार- -रम् त्रिता १, ४०.	साङ्गयोग-तस(>): त्रिता ३, १२.	सादि-त्व- -स्वम् सांसू ५, १९.
सान्नि- -साक्ष्य- १सात्त- द.	सा(स ^d -अ)ङ्गो(ङ्ग-उ)पाङ्ग-कले-	सादि-संसार-श्रुति- -ते: सांसू ५, १५.
सागर ^o - -र लां २१६: १९ ¹ ; -र: अद्वै १०; गी १०, २४; -रम् योशि १, ६३; -रा: भाष; कुपू ९;	वर- -रम् शां १, ४.	सादिविद्या- २स द.
	सा(स ^d -अ)ङ्गो(ङ्ग-उ)पाङ्ग-वेद- -देषु सर २, २.	साहस्य- सहस- द.
	सांग्रहणी- सं/गृह्, ग्रह् द.	√साध्, > धि, साधयति वृउ ९, ११; अञ्ज ४, ५; ७; शि ७, १२ ¹ ; स ३७८: २; सांका ३७; साध- यन्ति यो २, ४३; साधयामि त्रिवि ८, १३; साधय-साधय
	सा(स ^d -आ)चार- -र: इ १५: १२.	

a) ०वम् इति अञ्ज्या. । b) गपू. (पृ ४४१) सस्थ. 'नारायण-> -ण:' इत्यत्र यनि. शोध: कर्तव्य: । c) गपू. (पृ ६५९) सस्थ. 'मायामयी-> -यी' इत्यत्र यनि. शोध: कर्तव्य: । d) = ६स । e) व्यु. ? = समुद्र- । f) सस्थ. सर्व- इत्यनेन समस्तं द. । g) तु. गपू. पृ ३८८h । h) पा ४, १, १०५ । i) = ३शङ्ख- (= गोत्रप्रवर्तक-श्रुतिविशेष-) । j) तैआआ १०, ३५ । k) स्वा^o इति निसा. संटि. । l) 'उद्भ(व) > वा- > -वा', 'नरकात्मिका-> -का' [नर- = रमणा(ण-अ)कर्तृ- इति उत्र.] इति अञ्ज्या. ? यनि. व 'उद्भावन-क(र) > -री-> -री' इति च द्विपद: शोध: द. (तु. निसा.) । एतदनु गपू. (पृ १८२) 'उद्भवा-> -वा' इत्यत्र यनि. शोध: कर्तव्य: । m) व्यु. ? । n) वा. क्वि. द. । o) व्यु. ? = देवीविशेष- ।

लां २१५: १५; व ४५७: १८;
साधयेत् सुबा ३; ग १८; सूता
६, ११.

साधयिष्यति राउ ५, ११.

साध्यते योरा ४.

सीषधेम अरु १९^०; सीषधातु
अरु ४५^०.

साधक-कः गौ २, ३२; योशि १,
६६; १आ ३१; त्रिता ३, ३५;
५, १०; यो १, ८३; सूता ६, ५;
११; रा ४२५: २०; अवि १०;
-कम् योचू ११८; सार ३, १; रापू
४, ४१; शां १, ७, ६; -कस्य
१योत १२३; -कानाम् सार ५,
११; रापू ४, २; गु ५; -कै योशि
१, ६४; १२०; -कै: स्व ६२: २.

साधक-तम-

साधकतम-त्व-

साधकतमत्व-योग-

-गात् सांसू २, ३९.

साधका(क-अ)धम-मः १योत
२२.

साधका(क-अ)भाव-वात्
सांसू ६, ४८.

साधन-नम् नाप ६, ३३; वरा २,
३; सार २३०: २; ५; २३६: १;
२४८: २३; २७८: ७; गुषो ४२०:
२; सांसू १, १३८; -नानाम् ते
५, ८१; -नानि सार २५६: २२;
२९०: ४; -नेन योशि १, १५३;
सार २२६: १५; १७; २४३:
५; २४८: २३; २५७: ११; २८२:
१७; २८५: ११; १२; -नै: नाप
६, २२.

साधन-चतुष्टय-संपन्न-ञ्चः
नाप १; २; ५, १; मं २, ४, ४;
१संन्या २, १; १३; -ञ्चा: सु १,

२, ६.

साधन-निर्मुक्त-क्तः ते १, ३९.

साधन-रूप-पा: सार २९२:
३^१; ११.

साधन-वट^८-

साधनवट-भाण्डीरवट-

-टौ सार २२१: १५.

साधन-संसिद्ध-द्वा-द्वा: -द्वा:
सार २५०: २३.

साधन-सिद्ध-द्वा-द्वा: सार
२२६: ९; १२; २८८: २; -द्धम्
सार २२७: ६; १९; -द्वा सार
२२२: २; ३; २८५: १०; २८८:
५; -द्वा: सार २३०: १; २३८:
१३; २४१: १; २५०: १६: २२;
२५२: १३; २५३: १४; १५;
२५५: ५; २५९: ११; २६२:
१९; २७५: ९; २८०: १६; २८२:
१६; २८४: १७; २८८: ९.

साधनो(न-उ)द्वा(व>)वा-वा:
योशि १, १५३.

साधनो(न-उ)पकारक-का:
सार २८०: २१.

साधयत्-यन् ब्रवि ७५.

साधित-तः योरा ४; -तम् ते ६,
१०३; त्रिवि ७, ४९; -ते योशि
१, १३५.

साधु-धवः छां २, १, ४; ३, १९, ४;
इ १०: १९; सार २३०: १६;
२४३: १९; २५७: ५; -धु^० क
१, २, १^०; तै २, ९, १; छां २, १,
१^१; ३^१; ४; ४, १, ४; ६; ७, २, १^१;
७, १; वृ ५, १२, १; मना २,
७९^१; कौ ३, ९; ते १, ३८; नाप
५, २४; महा २, २; अन्न ४, ७५;
जाबा ३; कलि १; सु १, १, ७; इ
१०: २१; १५: ८; का ३; सि

१, २; -धु-धु शु १, १२; त्रिवि १,
२; ८, १८; -धु: वृ ४, ४, ५; गी
९, ३०; -धुना छां २, १, २; वृ ४,
४, २२; कौ ३, ९; महा ४, २, १;
-धुभि: अप्या ४७; -धुषु गी ६,
९; -धूनाम् सार २२७: ९; १०;
२३६: १९; २१; २९१: २; गी
४, ८; -०धो महा ६, ५४.

साध्वी-ध्वी महा ४, ३८.

साधिष्ठ-ष्टम् छां ४, ९, ३.

साधीयस्-यः छाग २५: ५^१.

साधु-कारिन्-री वृ ४, ४, ५.

साधु-कोण-णम् सूता ५, ४.

साधु-जीवित-ता: महा ३, १४.

साधु-स्व-स्वे नार २.

साधु-प्रशंसा-पूर्वक-कम्
त्रिवि १, २१^०; ८, १८.

साधु-भाव-वे गी १७, २६.

साधु-मति-योजित-तम् मृ३.

साधु-युवन्-वा तै २, ८, १.

साधु-वृत्त-त्तेषु आश्र ४.

साधु-वृत्ति-त्तय: महा ४, १९.

साधु-वेश-शम् भव १, ५४.

साधु-शास्त्र-शाणाम् अक्षि १८

साधु-संगति-ति: सु २, २, ४४.

साधु-संगम-म: महा ४, २.

साधु-सिद्धि-(द>)दा-दा:
अन्न ४, ६; वरा ३, २९.

साध्व(धु-अ)लंकृत-तः, -ते छां
८, ९, १; २; -तौ छां ८, ८, २^१; ३^१.

साध्व(धु-अ)साधु-कर्मन्-

-र्मन्याम् कर् ३५.

साध्य^१-ध्यम् सार ३, १; रापू ४,
४१; त्रिता ३, १९; -ध्यस्य गौ
४, २०; -ध्या: सुं २, १, ७; छां
३, १०, १; मैत्रि ७, ४; मवा
१०^१; गी ११, २२; -ध्यानाम्

४) °धाम इति ऋ १०, १५७, १ । ५) 'चीकृत्पाति' इति ऋ १०, १५७, १ । ६) कश्चित् वा. क्वि. द्र. ।

७) °धुः इति आन. ? यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) । ८) तैआ १०, ६३, १^१ । ९) सकृत् °याः इति वे. । १०) °प्रशंसा°
इति अज्या. ? यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) । ११) =भाप. वा गणदेवताविशेष- वा । १२) ऋ १, १६४, ५० ।

छां३, १०, ३; ४; -ध्येन वृजा ४, ४.
साध्य-गर्भित- -तम् त्रिवि ७,
३०.
साध्य-त्व- -त्वेन सांसू १, ८२.
साध्यत्वा(त्व-अ)विशेष-
-षात् सांसू १, ८५.
साध्य-नामन्- -मानि रार ३, १.
साध्य-सम- -मः गौ ४, २०.^३
साध्या(ध्य-आ)कर्षण- -णाय
दत्ता २; व ४५६ : ६.
साध्या(ध्य-आ)घा(दि-आ)कर्ष-
ण-बद्ध- -रेखा- -खाम् त्रिता
२, ४१.
साधर्म्य- सधर्म- द्र.
सा(स^०-आ)धान- -नम् वृ २, २, १०.
सा(स^०-आ)ध.र- -रः वृ ३, ८; पा
५, १०.
साधारण^०- -णः रापू ४, ५; -णम्
वृ १, ५, १; २; शि ५, १५.
साधारण-शब्द-विशेष- -षात् ब्रसू
१, २, २४.
साधारण-स्वरूप- -पः पाशु १, १०^d
साधित- √साध् द्र.
सा(स^०-आ)धिभूता(त-अ)धिदैव-
-वम् गी ७, ३०.
सा(स^०-आ)धि-यज्ञ- -ज्ञम् गी ७, ३०.
साधिष्ठ- √साध् द्र.
सा(स^०-आ)धिष्ठान- -नः पा ५, १०;
-नम् वपू ३, २.
साधीयस्-साधु-, साध्य- √साध् द्र.
सा(स^०-आ)नङ्ग-कुसुमा(म-आ)घ-
(दि-अ)ष्टक- -कम् त्रिता २,
५३.
सा(स^०-अ)नन्त^०- -न्तः रापू ४, ६१.
सा(स^०-आ)नन्द- -न्दः अज ३, १८;
-न्दम्, -न्दौ पा ५, ९.

सा(स^०-आ)नन्द-कला- -लाम् विधा
३.
सानु^०- -नो मना १, १५१^f.
सानु-मत्- -मन्तः पा ६, ५.
सा(स^०-अ)नुग- -गः रापू ५, ९^h; शि
६, २०३.
सा(स^०-अ)नुज- -जः रापू ५, ९^h;
-जम् गोउ ३४.
सा(स^०-अ)नुभव- -वः सार २, ५६: ४;
-वाः सार २२१ : २३; २२२ :
१७; १९.
सा(स^०-अ)न्तःकर(ण>)णा- -णा
सांका ३५.
सा(स^०-अ)न्तःपुर-परिच्छेद- -दः
शि ६, ९२.
सा(स^०-अ)न्तराल- -लानि त्रिवि ७,
४२; -लैः त्रिवि ७, ४३.
सान्द्र^१- -न्द्रम् पं ३.
सांध्य- सं√ध्यै द्र.
सान्धि- संनि/धा द्र.
सान्निपातिक- संनि/पत् द्र.
सा(स^०-अ)पेक्ष-
सापेक्ष-त्व- -त्वात् ब्रसू २, १, ३४.
साप्तभूमिक- सप्तन्- द्र.
साफल्य- सफल- द्र.
साभाव्य- सभाव- द्र.
सा(स^०-अ)भिप्राय- -येण सार २६१:
१८.
सा(स^०-अ)भिमान- -नाः स्व ६१:
१३.
सा(स^०-अ)भिलाष- -भौ सार २८९:
१०.
साम^१- -मैः ए १०.^३
सामन्^१- -म सुं २, १, ६; तै १, २,
१; २, ३, १; ३, १०, ५; छां १, १,
२; ४; ५; ३, ४; ८; ४, ४; ६, १^३;

२^०-४^०; ५^३; ६; ८; ७, १^०-४^०; ५;
७; ९^३; ८, ५^३; ६; ७^३; ८; २, १, १;
३; ४; २, १; ३; ३-७, १; २; ८, १;
३; ९, १^३; ८; १०, १; ६^३; २१, १;
२; २४, ३; ७; ११; वृ १, ३, २२^३;
२८; ६, १-३; ५, १३, ३^३; ६, ४,
२०; मै ५, ५; मैत्रि ६, ५; मना
२, ७९१^३; अशि १, ७; कौ २, ६;
बृजा ५, १^३; वृपू १, ६; ७; ९^३;
१०; ११^३; १२; १३^३; १४-१६;
मन्त्रि ९; मुद्र ३; अव्य ५; सू
११; त्रि १६; गरु १११^३; २प्र
३४: ३; १०; १शिसं ५१^३; २शिसं
६१^३; वपू १, ६^३; ७; २, १; ३,
१^३; गी ९, १७; -मनी कौ १,
५; -मभिः प्र ५, ५; ७; अ १;
वृपू २, २; वृउ ३, ४; -मभ्यः
छां ४, १७, ३; -मानि प्र २, ६;
तै १, ५, २; ८, १; छां ३, ३, १;
२; ४, १७, २; ६, ७, २; वृ १, ३,
५; ५, १४, २; मना २, १४१^३; कौ
१, ५; ३, ६१^३; बृजा ८, ५; वृपू
५, १८; सुवा ६; सी २२१^३; ए
७; इ ११: १३; छाग २३: ३; गा
३; गु २९; वड ५, १७; -अः छां
१, १, २; ४, ३; ८, ४; २, १, १; १,
२-८; २२, १; वृ १, ३, २२^३; २५^३;
२६^३; २७; ५, १३, ३; वृपू १, ३;
६^३; ८^३; २, २; सी २५; मु १,
१, १३; छाग २३: २; वपू १,
६^३; २, १^३; -आ छां १, ३, ८;
२, १, २; वृपू ४, १०; अव्य
३; -आम् छां १, १३, ४; ४,
१७, ६^३; मना २, १४१^३; २प्र
३६: २०; सूता ३, ४; गी १०,
३५; -अि छां १, ४, ३; २प्र ३४: ३.

a) = ६स । b) °धनम् इति काचित्कः निसा. पा. १ । c) वैपश् यद्र. । d) सर्वसा° इति निसा., अज्या.संदि. ।
e) = अकार-बीजाक्षर- । f) ऋ ९, १७, ४० । g) °नुजः इति आन. । h) °वृत्तः इति आन. । i) व्यु. ? = १घन- ।
j) = नाउ. । k) वैपश् यद्र. । l) तु. गपू. पृ ६८ । e) । l) तैत्रा १०, ६३, १ । m) °मम् इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.). ।
n) सा १२, ४ । o) सा ३४, ५ । p) तैत्रा १०, १३, १ । q) 'नामानि' इति शांआ ५, ६ । r) तैत्रा ३, १२, ८, १ ।

साम-ऋग्-यजुर्-आत्मक- -कम्
सी २३.

साम-ग^०- -गाः सार २९२ : १९.

साम-गान- -नम् सार २८२ : ५;

-नेत्र सार २८६ : १६.

साम-तस(>) छां ४, १७, ६.

साम-त्व- -त्वम् वृ १, ३, २२.

साम-मध्य-ग^०- -गम् वृपू १, १६.

साम-मय- -यम् कौ २, ६; वृजा
६, १२; वृपू ५, ८.

साम-वेद^०- -दः सुं १, १, ५; छां
१, ३, ७; ३, ३, १; ७, १, ४;

वृ १, ५, ५; २, ४, १०; ४, १,

२; ५, ११; मैत्रि ६, ३२; अ १;

वृपू २, २; वृउ ३, ४; काला १६;

सुवा २; ब्रवि ६; ध्या ११; महा

१, १; रुह २९; जाबा २५; आच

७; च २० : ७; १ प्र ३१ : ९;

नापू ५, ४०; सिशि ३८२ : १२;

गार ४०६ : ५; गी १०, २२;

-दम् छां ३, ३, २; १५, ७; ७, १,

२; २, १; ७, १; २ प्र ३२ : १५;

३६ : २२; -दे २ प्र ३४ : १८;

-देन सूता १, १५.

सामवेद-ग(त>)ता- -तानाम्

सु १, २, ४.

सामवेद-प्रपठन- -नम् म४८ : ९

सामवेद-शिरस्- -रः ना ३.

सामवेद-सहि(त>)ता- -ता

गार ४०६ : २३.

सामवेदा(द-आ)ख्य- -ख्यम्

पं ६.

साम-शिरस्- -राः कौ १, ७.

साम-श्रवस्- -वाः वृ ३, १, २.

साम-हंस-कृजित- -तैः त्रिवि ७, २१.

सामा(म-अ)ङ्ग- -ङ्गम् वृपू १, १६.

सामन्त^०- -न्तः महा ५, ७९.

सा(स^०-अ)म(र>)रा^०- -रा रापू ४,

६०.

सामर्थ्य- समर्थ द्र.

सामान्य- २समान- द्र.

सामासिक- समस् द्र.

सामीप्य- समीप- द्र.

सा(स^०-अ)मृ(त>)ता- -ताम् त्रिता
१, ७८.

सा(स^०-आ)मो(द>)दा- -दाम् त्रिता
१, ७७.

सांपराय- संपरे द्र.

सांप्रत- संप्रति द्र.

सा(स^०-अम्बा>)म्ब- -म्बः शु १, ७;

भ १, ११^१; व ४६३ : ९; -म्बम्

शु १, १; भ २, १; ३; सिशि

३८० : ३.

साम्ब-शिव- -वाय द ९.

सा(स^०-अ)म्बर- -राः भि १०; १ अव ६^६.

साम्य- १सम- द्र.

साम्राज्य- सम्/राज् द्र.

साय^०- -यम्^१ छां ४, ६-८, १; ना ५;

मना २, ७९^१; ८०^१; १योत

४३; ६७; त्रिभा २, १०१; शां १,

७, २; अक्ष १६; दे २२; त्रिता

४, ३५; रुजा ३, १; ग १६; मवा

१२; इ १० : १६; सार २२४ :

८; सिशि ३८३ : १३; गार ४०६ :

२१; कश्रु २, ३.

सायम्

सायं-संध्या-वन्दन- -नम् नाप

४, ३८.

सायं-होम- -मः क ११; कश्रु २, ३.

सायं-प्रातर(>) ना ५; दे २२;

रुजा ३, १; ग १६; मवा १२;
इ १० : १७; गोच ६७ : १८; गार
४०८ : १५.

साया(य-अ)हन्- -हनि छाग २५ : ६.

१सायक^१- -क व ४५९ : २१९^१;

४६१ : १९^१; -कम् सार २, १३.

२सायक^०-

सायकायन^०- -नः, -नात् ६४, ६, २.

सायुज्य- सयुज्- द्र.

सा(स^०-आ)युध- -धाः भ २, २८;

वपू २, ४.

सा(स^०-आ)युध-वतुष्टय- -यम्

त्रिता २, ६३.

सार^०- -रः अक्ष ४, ७०^१; -रम् अक्ष

२, १७; क २३; सु १, १, ४४;

शि १, ७; -राणाम् शि ६, २६६;

-रात् शि १, ८; गु ४.

सार-त(म>)मा- -माः गु ४.

सार-तर- -०र अक्ष ५.

सार-दिदक्षा- -क्षया नाप ३, १४;

भव १, १.

सार-भूत- -तम् पा ८, १.

सारा(र-आ)दान- -नम् सासू ४, १३.

सारङ्ग^०-

सारङ्ग-वत् नाप ७.

सार(ण>)शी^०- -णी मैत्रि ७, ११.

सारथि^०- -थिम् क १, ३, ३; अना २;

पै ४, १; भव २, १०; -थेः क

१, ३, ५; ६.

सारस्व^०- -साः सार २६४ : १०.

सारस्वत- २सरस्- द्र.

साराजि^०-

साराजि-मन्त^०- -न्तम् पा ७, २^१.

सारूप्य- १सरूप- द्र.

सा(स^०-अ)गोल- -लः वृ ६, ४, २३.

a) उप. <√गै। b) उप. <√गम्। c) सप्लुति निर्देशः (पा ८, २, ८४)। d) व्यु. ? = राजन्-।

e) = ६स। f) = उकार-बीजाक्षर-। g) °रः इति अज्या। h) वैप १ यद्र। i) वा. क्विन्. द्र.। j) तु. गपू.

पृ ६४८। k) तैआ १०, ६४, १^१। l) ऋ १०, ८३, १। m) ऋ १०, ८४, ६। n) व्यु. ? = गोत्रप्रवर्तक-

-ऋषिविशेष-। o) बप्रा. वैप १ यद्र। p) व्यु. ? = मृग-। q) व्यु. ?। r) व्यु. ? = जलचरविशेष-। s) व्यु. ?

= साम्राज्य- (तु. पाटी.)। t) उप. = मतुप् प्र.।

सा(स^०-अ)थैका(क-अ)ण-द्वय-
-यम् रार ५,३.

सा(स^०-अ)र्थ-चतसृ- -सः गर्भ^१५^०.

सा(स^०-अ)र्थ-त्रि-कोटि- -टीः कलि
३.

सार्धत्रिकोटि-तीर्थ- -थेषु महा ३,
२;३.

सार्धम्^० छां ८,९,२; गौ ४, ५; नाद
३८; रापू ४, १६; २७; २८; योशि
१, ८६; रुह २५; भ १, ३; इ
११ : ८; सार २६९; १२;
२७०:२; शि २, १३; ४, २७;
२८; ५३; ६, ६९.

सा(स^०-अ)र्धा(र्ध-अ)धिक- -कम्
धि ४, ४७.

सार्ध- /सृप् द्र.

सार्व-, सार्वकामिक-, सार्वकाल-,
सार्वकालिक-, सार्वभौम-, सार्व-
वर्ण-, १-२सार्ववर्णिक-, सार्व-
ङ्गिक-, सार्वस्मिक-, सार्वाल्म्य-
सर्व- द्र.

सा(स^०-अ)र्ष्टि-

सार्ष्टि-ता- -ताम् छां २, २०, २;
मना २, १५५^०; तृपू १, १४; कश्चु
२, १.

१साल^० - -लान् रापू ४, २२.

२साल(>)ला^०-

साला-वृक^० - -केभ्यः कौ ३, १; भ
१, ९.

सा(स^०-अ)लम्ब- -म्बः त्रिवि ८, ८५^०;
-म्बम् नि २.

सालम्ब-निरालम्ब-योग- -गौ
त्रिवि ८, ७.

सालम्ब-योग- -गः त्रिवि ८, ८.

सा(स^०-अ)लम्बन- -नम् योपू ३,
२०.

सालोक्य- सलोक- द्र.

सा(स^०-अ)वधान- -नः अक्ष^११, १०३;
-नाः भव १, ५५^०; ५८; -नेन
त्रिवि १, २; ५; ५, ४; ८, ५; पैर,
३; पप ४१८:२२; वरा २, ८३.

सावधान-ता- -तया अता ११.

सावधान-भा(व>)वा- -वा अक्ष^२१^०

सावधान-मनस- -नसः सौ १, १^०;
-नाः वरा १, २.

सा(स^०-अ)वयव- -०व लां २१६:
१२; -वः त्रिवि २, १; ४; -वम्
मैत्रे १, ४, १४^०; त्रिवि २, १;
सांका १०.

सावयव-त्व- -त्वात् त्रिवि २, ४.

सा(स^०-अ)वरण- -णम् त्रिवि ३, ५;
६, १; १९; -णस्य त्रिवि ३, ७;
-णानि त्रिवि ६, ६; ९; ८, ४.

सावरा^० - -राम् वृ ६, ४, २३.

सावित्र- /सू(प्रेरयो) द्र.

सा(स^०-अ)वेश-स्मर-यु(त>)-
ता- -ता तारा ८३: २१.

सा(स^०-अ)दान-

सादाना(न-अ)नदान- -ने त्रिवि ४,
९५^०.

सा(स^०-अ)शीतिक- -कम् गर्भ^१५^०.

सा(स^०-अ)श्रय- -यः पित्र ४, ३; ४;
-यम् पित्र ४, ६.

सा(स^०-अ)ष्ट-पत्र- -त्रम् रार ३, १;
रापू ४, ४४; सता ५, ३; ३या ८.

सा(स^०-अ)ष्ट-शूलाग्र- -ग्रम् रार
३, १.

सा(स^०-अ)ष्टा(ष्ट-अ)ङ्ग- -ङ्गः १योत

२५; नाप ८, ८; ङ्गम् जाद १, ३.

सा(स^०-अ)ष्टाङ्ग-दर्शन- -नम् जाद
१, ४.

सा(स^०-अ)ष्टा(ष्ट-अर्ण>)र्णा- -र्णा
त्रिता १, ६.

सा(स^०-अ)सि(क>)का^० - -काः पा
४, ७.

?सासिष्वसन्तम्^० पा ७, १; ८.

सा(स^०-अ)सुर- -रः मन्त्रि १२^०.

सा(स^०-अ)हंकार- -रेण गौ १८, २४.

साहस- /सह द्र.

√सि(०वधा.)

१सेतु^० - -तुः क १, ३, २; मुं २,
२, ५; छां ८, ४, १; वृ ४, ४, २२;
मैत्रि ७, ७; ते ५, ३५; वरा ५,
४१; -तुम् छां ८, ४, १; २^०;
श्वे ६, १९.

सेतु(तु-उ)न्मान-संबन्ध-भेद-

व्यपदेश- -शेभ्यः ऋसू ३, २, ३१.

२सेतु^० -

सैतव^० - -वः, -वात् वृ ४, ६, २.

सैतव-प्राचीनयोग्य- -ग्या-

भ्याम्, -भ्यौ वृ २, ६, २.

सिंह^० - -०ह तृपू २, ८५^०; -हः छां ६,
९, ३; १०, २; कौ १, २; तृपू २,
१३; ४, १३; ते ६, ९५; १योत
६०; ११०; योचू ११८; त्रिवि
७, ३९^०; महा ५, ८७; शां १,
७, ६; वृष ८४ : २०; -हम् वृष
४, ५; ६, ५; ७, २; ध्या ४३;
१योत २९; -हस्य भव १, ४३;
-हे सुबा १३; ते ६, ८६; -हे^०
वृष ४, ५; ते ६, ९२.

सिंह-नाद- -दम् गौ १, १२.

a) =६स। b) अर्ध^० इति आन.। c) व्यु? अव्य. =२सह। d) =५स। e) तैआ १०, १४, १। f) व्यु? =वृचविशेष-। g) वैप१ यद्र। h) तु. गपू. पृ३g। i) ०नाः इति अख्या.। j) ०वस्वरूपम् इति अख्या.। k) व्यु? पुं.। विप. =वरणसाधन-सहकृत-?। l) ऋ १०, ९०, ४। m) 'अशीतिसंधिशातम्' इति अख्या.। n) उप. <√आस(तु. पाटी.)। o) पा. ? एतदनु गपू. (पृ१२०) सस्थ. 'असत्->-सन्तम्' इत्यपि ?। p) ०धुरः इति अख्या.। q) धा. बन्धने वृत्तिः। वैप१ यद्र.। r) धा. अर्थः ? =गोत्रप्रवर्तक-ऋषिनिशेष-। s) वप्रा. वैप१ यद्र.। t) 'ह्र' इति ऋ २, ३३, ११; निसा.। u) वृसि^० इति निसा.।

सिंह-रूपक- -कम् त्रिबा २, ४४.
 सिंहा(ह-आ)रू(ढ>)ढा- -ढाम् व
 ४२७: १५.
 सिंहा(ह-आ)सन^०- -नम् शां १, ३,
 ६९^१; वरा ५, १६९^१; शि ६,
 ९१; -ने रार १, ७; २, ४५.
 सिंहासन-स्थ- -स्थ: रापू ४,
 ३०.
 सिंही/कृ
 सिंही-कृत्य नृउ ७, २.
 सिंहौ(ह-आ)घ- -घै: महा ४, ६४.
 सिक(त>)ता^{१b}- -ता: वृ १, १, १;
 अरु ३२९^०.
 सैकत^१- -तम् सि ३८२: २२.
 √सिच्, >ञ्, सेचि, सिञ्चति मुं २,
 १, ५; ऐ ४, १; छां ४, १५, १^०;
 ५, १०, ६; सिञ्चन्ते भ २, ३०;
 सिञ्चतु नाप ४, ३८^१.
 सिक- -कम् यो १, ७१; निरु १, ५.
 सिच्यमान(न्)>ना- -ना सार २६७:
 १९.
 सिञ्च(त्)>न्ती- -न्त्य: सार २२८:
 २०.
 सिञ्चमान- -ना: सार २६९: १५.
 सेचन-
 सेचनीय- -यम् त्रिता १, ४४^६.
 सेचय(त्)>न्ती- -न्त्य: सार
 २२८: १९.
 शसित^१-
 शसित, ता^१- -तया त्रि १३^१; भ २,
 २२; -ता मन्त्रि ५; -तेन भ २,
 ३; -तै: शि १, २६.
 सित-जल-कल्लोल- -लै: सार
 २२८: ३.
 सित-र(क)का- -का चू ५.
 सिता(त-आ)म्बर- -र: वृजा ३,
 २३.

सिता(त-आ)सित- -ता: मैत्रि
 ६, ३०; -तै: मै २, १०; ३, १; २;
 मैत्रि २, ७; ३, १; २.
 √सिध्, सिध्यति १योत ८०; त्रिबा
 २, २१; वा ३२; योशि १, ५२;
 अध्या ५६; यो २, ५; वरा २,
 ७८; ५, ३५; ४५; सु १, १, २६;
 सूता ४, ११; ६, ५; नृष ८५: ९^१;
 व ४५८: २३; सिध्यत: गौ १,
 ११; सिध्यन्ति त्रिवि ५, ७; ८,
 १२; योशि १, १५२; भा ४२;
 २प्र ३३: १७; सूता १, ३३;
 नृष ८५: १०^१; भव १, ४३;
 सिध्येत् कौ ३, ७; ९; १योत ५०;
 सिध्येयु: अव्य ७.
 सेस्यति गौ ४, ३०; सेस्यन्ति
 गौ ४, ४३.
 सिध्यते ब्रवि ४८; यो २, ४३.
 सिद्ध, द्वा- -द्ध: मैत्रे ३, २; नृउ ९,
 २; १०; ११; ते १, ३९; ३, २०;
 ५, ६१; ध्या ७२; योचू ४२;
 अता ५; महा ४, ११६; योशि
 १, ८०; १४२; अध्या ६४; नृष
 ८५: १७; सार २२७: १८;
 २५७: १२; गुषो ४२१: ७; गी
 १६, १४; -द्धम् नृउ ९, ९^१; ध्या
 ४३^६; १योत २९; त्रिवि २, ८;
 ३, २; अता १०; योशि १, १५९;
 १संन्या २, ७०; सार २५२: ८;
 शि ६, ३२; गार ४०५: १; सांका
 ६: १४; १८; १९; -द्धस्य योशि
 १, ५०; सांसू १, १४७; -द्धा राधा
 २, ११; आथ ३९८: १६; सांसू
 ३, ५७; -द्धा: ते १, २६; महा ३,
 ५०; योशि १, १५५; दे १०; भ
 २, २६; गोड २४; वरा ५, ४३;
 सार २४३: ६; २४८: २३; २५९:

११; -द्धानाम् नापू २, ५; गी ७,
 ३; १०, २६; -द्धानि शि ६, २२९;
 -द्धाम् पी ४२१: २; -द्धे ते ६,
 ७९; १योत ५०; शां १, ७, १४;
 भव २, २१; -द्धेन योशि १, ५०;
 -द्धै: १योत ११७.
 सिद्ध-काल्य(ली-आ)धिकारिन्-
 -री कामे ४.
 सिद्ध-क्षेत्र- -त्रे वपू १, ४.
 सिद्ध-गन्धर्व-यक्ष-रक्ष:-
 पिशाच- -चा: नापू ५, २६.
 सिद्ध-चामुण्डे(गडा-ई)श्वरी^१-
 -०रि व ४५३: १६.
 सिद्ध-चारण-पद्मग- -गा: तुल
 ७१: ३.
 सिद्ध-त्व-
 सिद्धत्वा(त्व-आ)सिद्धत्व-
 -त्वाभ्याम् नृउ ९, ४.
 सिद्ध-दर्शन- -नम् शां १, ७
 ५२; योसू ३, ३३.
 सिद्ध-धर्म- -र्मण सार २२७
 १८.
 सिद्ध-नमस्कृत(त>)ता- -ता
 ध्या ८३.
 सिद्ध-भाजन- -नम् ध्या ७३.
 सिद्ध-मनु^१- -नु: रार ४, ९.
 सिद्ध-मन्त्र- -न्त्र: ग १८.
 सिद्ध-मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र-
 भ्रम(र>)री- -०रि व ४३२
 १३.
 सिद्ध-रूप-बोद्ध-
 सिद्धरूपबोद्ध-त्व- -त्वा
 सांसू १, ९८.
 सिद्ध-लक्ष्मी^१- -०क्षिम् व ४३१
 १५; ४६६: १०; -क्ष्मी: ना
 २, ६; व ४२७: ५; -क्ष्म्यै
 ४५५: २१.

a) =योगसन- वा राजपीठिका- वा । b) व्यु: =वालुका- । c) तैश्चा १, २७, ५ । d) पा ५, २, १०४
 e) °म्बि इति निसा. । f) तैश्चा २, १८, १ । g) सेव° इति अज्या. । h) =वर्णविशेष- । वैप १ यद्र. । i) =वर्णविशेषवत्-
 j) =सरस्वती- (तु. उब्र.) । k) 'छिद्रम्' इति निसा. । l) उप. =१मनु- ।

सिद्ध-बन्दि(त>)वा- -ता ध्या
 ४५; योचू ८.
 सिद्ध-विद्या- -द्यानाम् तारा
 ८३ : ९; ८४ : ५.
 सिद्ध-संघ- -घाः गी ११, ३६.
 सिद्ध-साधन- -नम् सांसू ५, ६०.
 सिद्ध-सेवित- -तम् शां ३, ३.
 सिद्धा(द्ध-अ)न्त- -न्तः अन्न ५,
 ११२; सिसि ३८० : २; ३८३ :
 १०; -न्तम् सार २३५; ११; सांका
 ७१; -न्तैः सार २३१ : १३.
 सिद्धान्त-शिखा^{१३}- -खाम्
 सिसि ३८३ : १२.
 सिद्धान्त-श्रवण- -णम्
 १योत २७; शां १, २; जाद २,
 १; वरा ५, १४.
 सिद्धान्त-स्थान- -नम् सार
 २३४ : ९.
 सिद्धान्त-हानि- -निः सांसू
 १, २१.
 सिद्धा(द्ध-अ)ञ्ज- -ञ्जम् राधा ४,
 ७१^b.
 सिद्धाञ्ज-भोगा(ग-अ)पू-
 पायस-पक्वान्न-भाग- -गाः
 सार २२३ : ९.
 सिद्धा(द्ध-आ)भ- -भम् २७४ :
 १८.
 सिद्धा(द्ध-अ)रण्य- -ण्ये वपू
 १, ४.
 सिद्धा(द्ध-अ)र्थ-
 सिद्धार्थ-वत् सं ८.
 सिद्धा(द्ध-आ)सन^{१०}- -नम् ते
 १, २६; त्रिब्रा २, ५०९^{११}; योचू
 ३; शां १, ३, ७९^{१२}; -ने नाद ३१^d.
 सिद्धासन-(स्थ>)स्था-
 -स्थाम् त्रिता २, २७.
 रसिद्धा(द्ध-आ)सन^{१०}- -नः पिब्र

१, १; ४, १; १०.
 सिद्धे(द्ध-ई)श्वर^१- -रः म ४८:८.
 सिद्धो(द्ध-उ)पाय- -यम् योशि
 १, ६१.
 सिद्धौ(द्ध-ओ)दन- -नम् वपू
 २, ५.
 सिद्धि- -द्धयः रार २, ३५; योशि
 १, १४९; १५१-१५४; १५७;
 योरा १९; सार २२३ : २१;
 २४२:६; २६७:५; सांका ५१;
 योसू ३, ३८; ४, १; -द्धये ते १,
 २६; योशि १, १२; अन्न ५, १६;
 १अव ९; गी ७, ३; १८, १३;
 -द्धिः गौ ४, १८^३; कौ ३, ३;
 १योत ६४; योचू ४; यो २, ११;
 १२; २५; गोपू १९^१; लि ३१०:
 १२; ३११ : ४; काम ७; कालि
 ४०३ : २०; श्या १८; वपू २,
 ४; सांसू ३, ४०; ४४; ४, १९; ५,
 २४; सांका १४; ४७; ब्रसू २,
 २, २७; गी ४, १२; -द्धिभिः
 योशि १, १५९; १६०; गु ८४;
 -द्धिम् ते १, २६; नाप ३, ३६;
 ५३; योचू ११९; त्रिवि ८, ६^१;
 महा ५, ८१; शां १, ७, ७; योशि
 २, २१; ५, ४६; अन्न ४, ७; यो
 २, २७; भ २, २६; त्रि १२; गोड
 २४; ह ११; सर १, २; सु २,
 २, १२; शि ७, ७३; व ४३० :
 १२; भव १, ५२; गी ३, ४; ४,
 १२; १२, १०; १४, १; १६, २३;
 १८, ४५; ४६; ५०; -द्धीनाम्
 योशि ३, १; योरा १३; -द्धेः ते ३,
 ४६; सांका ५१; -द्धौ गौ ४, २०;
 योशि ५, ६२; गी ४, २२; -द्धया
 सु २, १, १; -द्धयै महा ५, ८३.
 सिद्धि-कर- -रः अ ३; अक्ष १६.

सिद्धि-कारि(र>)णी- -०णि
 व ४३६ : २०.
 सिद्धि-चामुण्डा^१- -०ण्डे व
 ४५८ : १२.
 सिद्धि-जाल- -लम् योशि १,
 १५८; -लानि अन्न ४, ५; ८; वरा
 ३, २६.
 सिद्धि-द,दा- -दम् योशि १,
 १६८; ५, ४; अन्न ५, १६; रुजा
 २, १५; शि ६, १९२; -दा काम ८.
 सिद्धि-द्वार- -राणि योशि २,
 १८.
 सिद्धि-बुद्धयु(द्धि-उ)भया-
 (य-आ)श्लिष्ट- -ष्टम् वपू २, २.
 सिद्धि-भाज्- -भाक् महा ५,
 ८८; यो २, २६.
 सिद्धि-भाजन- -नम् १योत
 १२६.
 सिद्धि-मत्- -मत् शि ७, ८४.
 सिद्धिमत्-ता^{१६}- -ता त्रिद^{१६}.
 सिद्धि-मार्ग- -र्गेण योशि १, ४.
 सिद्धिमार्ग-प्रकाशक- -कः
 वरा ५, ४०.
 सिद्धि-वाञ्छा- -ञ्छायाम् वरा
 ३, ३०.
 सिद्धि-वृद्धि-कर- -राः शि ७,
 १०१.
 सिद्धि-साधन- -नैः अन्न ४, ५.
 सिद्धी(द्धि-ई)श्वर- -रः सुसु १९;
 काम १०; चक्र १३; षो ११;
 २१.
 सिद्धय(द्धि-अ)र्थ- -र्थम् नाप ३
 ५३.
 सिद्धयर्थिन्- -र्थी नाप ६, ३
 सिद्धय(द्धि-अ)सिद्धि- -द्धयोः
 गी २, ४८; १८, २६.
 सिनीवाली^१- -०लि वृ ६, ४, २१९^१.

a) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । b) सिब्दा^० इति पा.१ यनि. शोषः द्र. । c) =आसनविशेष- । d) ^०नस्थितः इति अच्चा. । e) बस, =अभिविशेष- । f) 'सुखम्' इति आन. । g) =आवरणदेवताविशेष- । h) शुद्धम^० इति तान्त्रि. । i) वैपश् यद्र. । j) ऋ १०, १८४, २ ।

सिन्दूर^{१३a}-

सिन्दूर-वर्ण- -र्णः त्रिन्ना २, १३८;

हे ४; -र्णम् लिं ३१०: १४.

सिन्दूर-त्रात-संकाश- -शम् योच्
६१.१सिन्धु^b- -न्धवः मुं२, १, ९; वृ१, १,
१; ६, ३, ६९°; मना २, १२, १९^d;
२, ३, ९९°; सार२२४: १०; पिं३१,
११^३; ९९^३; -न्धुः ते६, ८३; आबो
१५; -न्धुम् मना २, १^३; त्रिता
१, ७९^३; व ४३०: ७९^३; ४६१:
७९^३; १२९^३.

सिन्धु-राज- -जः मैत्रि ६, १६.

२सिन्धु^{१h}-

१सैन्धव- -वः वृ ६, १, १३.

सि(र>)रा^{१u}-सिरा-बद्ध- -द्धम् यो २, ३१^१.

√सिच्, सीव्यतु पा ७, ४.

सीव(न>)नी^{१m}- -नीम् त्रिन्ना २,
४४; जाद ३, ८^k; -न्याः शां १,
३, ८; जाद ३, ७^k.
सीवनी-पार्श्व- -र्श्वम् त्रिन्ना २,
४६^१.सीवि(न>)नी^{१m}- -नी योशि ५,
२७; -नीम् शां १, २, ९; जाद ६,
३८.सीविन्धु(नी-उ)भय-पार्श्व-
-र्श्वयोः त्रिन्ना २, ४५^३.

स्यूत-

स्यूत-पुष्प-सुवर्ण-जटित-
मणि-मुक्ता-खचिता(त-अ)-
न्तर-ज्योत्स्ना-भाषित- -ताः
सार २६४: २३.

सिसृक्षत्, सिसृक्षमाण- √सृज् द्र.

सीत्

सीत्-कार-

सीत्कार-पूर्वक- -कम् शां १, ७,
१४.सीता^o- -तया रापू ४, ६; -ता सी १;
२^३; ३; ६; ८; रार २, ९५; ९६;
राउ २, ४; ता २, ४; ३, ७; ८;
मु १, १, ३४; -ताम् रार १, ७;
२, २४; ९४^३; रापू ४, १८; २६.

सीता-पति- -स्ये रार २, ५९.

सीता-पद- -दम् रार २, ८६.

सीता-पाणि-परिग्रह- -हः रार २,
४२.

सीता-भरत-सौमित्रि-शत्रुघ्ना-

(घ-आ)घ- -घैः सु १, १, १.

सीता-राम- -मौ रापू ३, १.

सीता-लक्ष्मण-संयुत- -तम् रार
२, ४.सीता(ता-अ)लंकृत-वामा(म-अ)-
ङ्ग- -ङ्गम् रार २, ४६.सीता-वल्लभ- -भाय त्रिवि ७, ४१;
रार २, ६८; व ४६३: ११.

सीता-विश्वस- -स लां २१४: ८.

सीता-स्तव- -वम् रार १, ९.

सीम्^o वा ७; १०.सीमन्^१- -मा अक्षि ४१; -मानम् ऐ
३, १२.९^३सीम-तस्(>) मना १, १०;
२संन्या १६: ६; २शिसं ३२.सीम^o(म-अ)न्त- -न्तः सार २६४:
२१.

सीमन्त-दण्ड- -ण्डः गु ९.

सीमन्तित्- -न्तित्ने सार २५१:
१४.

सीमा(म-अ)न्त- -न्तः महा ६, २६.

सीस^{१३i}- -सम्, -सेन छां ४, १७, ७९^१.सु^१ के २, १; २; आर्षे ९: १७; सार
२४४: २३; २५३: २१; २६२:
४; ९^३व ४४०: ११; ४४५: १७;
४५०: १७; ४५४: १.√सु(अभिषवे), ९^३सुनुत व ४४०: १;
४४५: ७; ४५०: १०; ४५३:
१९; ९^३सुनवाम मना २, १;
त्रिता १, ६; २, १; ३; ४; ७; १३;
१९; २२; २६; २८; व ४३०: ६;
४६१: ६.

१सव-

सव-वत् ब्रसू ३, ३, ३.

१सवन- -नम् छां २, २४, १; १०;
३, १६, २; ३^३; ४; काला १५;
शौ ५२: २२; -नस्य छां २,
२४, ७; शौ ५२: १३; ५३: १;
-नात् मै ५, ७; मैत्रि ६, ७; -नानि
मना २, ८०९^३; -ने पा ७, १.
सवन-त्रय- -यम् वि २३.१सुत- -तः वृ २, १, ३; -तम् छां
५, १२, १.सुन्वत्- -न्वते दे २९^३.सुवान- -नः मना १, १५९^३.

सूयमान- -नात् मैत्रि ६, ७.

सूयमान-त्व- -त्वात् मै ५, ७.

√सु(प्रसवे), सोष्यति, असोष्ट छां ३,
१७, ५.२सुत, ता- -तः मैत्रे २, १३; -तम्
वपू १, ५; -ता जाद ४, ५१; कृ
५; -तान् कुं ३; -ते शु १, ५.

सुत-दुहितृ-कलत्रो(त्र-उ)प-

द्रव- -घैः व ४५५: १२.

a) व्युः? < √स्यन्द इति अभा. प्रसृ. । b) बप्रा. वैपश् यद्र. । इह = नदी-, समुद्र- । c) ऋ १, ९०, ६ ।

d) तैआ १०, १०, १ । e) ऋ १, ९९, १; ५, ४, ९ । f) ऋ १, ९९, १ । g) ऋ ५, ४, ९ । h) व्युः? = देशविशेष- ।

i) वैपश् यद्र. । j) °बन्धम् इति अख्या. । k) °विं इति अख्या. । l) °विनीं गुं इति अख्या. संटि. । m) = सीवनी- ।

n) °बन्धुं इति निसा. । o) व्युः? = श्रीरामपत्नी-, देवीविशेष-, तदाख्योपनिषद्विशेष- । वैपश् अर्थान्तरे द्र. ।

p) °ता इति अख्या. । q) अव्य. वैपश् यद्र. । r) मा १३, ३ । s) पररूपं द्र. (पावा ६, १, ९४) । t) जैउ ३, ४, ३, ३ ।

u) ऋ १, ३४, ६ । v) ऋ १०, १४, १३ । w) तैआ १०, ६४, १ । x) ऋ १०, १२५, २ । y) ऋ ९, ९७, ४० ।

सुता(त-आ)दि- दौ महा ५,
१६७.
सोष्य(त>)न्ती- न्तीम् वृ ६,४,
२३.
सु-कर- -रम् का ४; नार ३; -रेण का
३; नार २.
सु-कल्पित- -तम् शि ६,२१२.
सु-कान्त- -न्तम् पा १,९.
सु-का(म>)मा- -मा सार २६८:
२१.
सु-कुट्टि(म>)मा- -मा शि ४,१३.
सु-कुमार-
सुकुमार-तर- -रम् सांका ६१.
सु-कृत,ता- -तः सुं १, २, ६; -तम् तै
२,७,१^१; ऐ २,३^१; छां ८,४,१;
वृ ६,४,३^१; ६; कौ १,४; नाप
३,५१; स्व ६१:७; पा १,३; ३,
६; शि ६,२३; २२५; २३३; ७,
११३; भव २,६५; गी ५,१५;
-तस्य क १,३,१; सुं १,२,१; शा
३०; नापू ४,१२५^१; गी १४,१६;
-ताम् शि ६, २३८; -ताय पा
६,४; -तेन^१ सुं १,२,१०.
सुकृत-दुकृत- -ते कौ १,४^१; ब्रह्म
३, १, ११; गी २, ५०; -तानि
पिं १,१४; १५.
सुकृतिन्- -तिनः गी ७, १६; -ती
त्रि १२१^१; कालि ४०२:७; सुमु
१०.
सु-केयूर-
सुकेयूरा(र-आ)न्वित-बाहु- -हुम्
गोउ ४८^१.
सु-केशन^१- -शा प्र १,१; ६,१.
सु-कोमल,ला- -ला सार २६३:२१;
-लानि सार २५५: १७; लै:
सार २२२: २०; २३३: १२;

२५४: १; २७२: ११.
सु-कतु^१- -रुम् व ४३९: १५;
४४४: २०; ४५०: ३; ४५३:
१३.
सु-कान्त- -न्तः महा ५,८२.
सु-क्षेत्र- -त्रेषु शि ६,४१.
सुख^१- -खम् क १,१,११; २,२,१२;
१४; प्र ४,१; ६; छां ७,२२,१^१;
२३,१^१; श्वे ६,१२; गौ ३,४५;
४७; ४,८२; मै ४,४,४; ९; मैत्रि
४,४; ६,२०; २४; ३०; ३४^१; मैत्रे
१,४,६; पहं २; नि ८; ३१; ३२;
ते १,१४^१; २,७; ४,२७; ३१^१;
५,४४; ६,५; ३५; ४५^१; ४८;
५४; ६२; १५^१; नाद ५३; १योत
१०२; नाप ३,२७^१; ४१^१; ८६;
रापू ४,१६; पै ४,९; महा २,
४९; ५६; ४,३१; ५,४६; ६,२६;
योशि १,९९; २,२१; ३,१५; ५,
३६; अन्न २,२२; ५,४४; ४५;
११७; अक्षि २२; १अव ३२^१;
त्रिन्ना २,५१; कर् २१; यो १,
३८; २,४५; ग१६; जाद ३,१२;
६,२६; १०,१३; गोपू२०^१; वरा
२,७^१; २१; ५७; ३,४; ५,४७;
योरा २१^१; राधा ३, ८; सार
२२५: १८; २२८: १३; २२९:
३; १५; २३४: १४; २३८: १४;
२३९: १०; ११; १६; १७; २४०:
२; ४; ५; ८; २५२: २३; २६८:
२३; २६९: ३; २१; २७१: २०;
२८३: १; २; २८४: १९; २२;
२८५: ६; २३; २९१: २१; शि
७,११८; १३०^१; गु ४४; व
४३४: ५; भव १,१०^१; २५; २७;
३०; ३,३१; ३२; पिं १,१५;

५,३; गी २,६६; ४,४०; ५,३;
१३; २१^१; ६,२१; २७; २८; ३२;
१०,४; १३,६; १६, २३; १८,
३६-३९; -खस्य भव १,१०; गी
१४,२७; -खात् ते ६,४५; शां
१,७,९; महा ५,४६; सां ५, ६;
६; -खानाम् महा ५,८५; ६,
२४; -खानि सार २५०: १६;
२८७: १४; शि ७,१११; गी १,
३२; ३३; -खाय महा ५,८६;
१८१; अन्न ४,१५; शि ६,३७;
-खे पहं ४; ते १,५१; ३,२५;
यो १,२३; वरा ४,२२; सार
२५६: ११; गी १४,९; -खेन
ते १,२५; त्रिन्ना २,१६०; तुष
१७; हे ४; सुमु १९; गी ६,२८;
-खेषु गी २,५६; -खै: १योत ४;
योशि १,१; अन्न ५,७.
सौख्य- -ख्यम् ते ६, ९१^१;
योशि १,१३६; बि १९; शि ७,
११८; व ४६५: १३.
सौख्य-तम- -मे मैत्रे १,४,
१४.
सुख-कर- -रः सार २८२: १.
सुख-केलि-कला(ला-अ)नुभाव-
-वेन सार २३८: ३.
सुख-कोट्या(टि-आ)नन्द- -न्दम्
सार २५४: १८.
सुख-चैतन्य-स्वरूप- -पः ससा
१,३५.
सुख-ता- -ता कर २३.
सुख-दा,दा- -दम् योशि १,२; अन्न
४, ४५; -दा सार २३८: ५४^१;
-दे यो १,२३.
सुख-दायक- -काय सार २६१:
११.

a) ऋ १०,७१,६। b) तु. गपू. पृ५४a। c) °कृते इति निसा., अज्या.१ यनि. शोधः द्र. (तु. तान्त्रि.)।
d) °तं बा° इति अज्या.१ यनि. शोधः द्र. (तु. आन.)। e) वैप१ यद्र.। f) ऋ १,१२,१। g) क्वचित् वा. क्विचि. द्र.।
h) °खदुःख° इति आन.। i) °खे इति अज्या.। j) °खे इति अज्या. संटि.। k) °खदुःख° इति अज्या.।
l) 'सिद्धिः' इति आन.। m) तु. गपू. पृ२७१f। n) =सखीविशेष-।

सुख-दायि(न>)नी- नीम् सार
२३२ : १२; न्यः सार २६४:
१८.

सुख-दुःख- स्वम् कौ ३, ७^१९^१;
-खयोः कौ ३, ८; महा ५, १६७;
-खानाम् भव २, ८; गी ३, २०:
-खाभ्याम् महा ४, १३१; कुं ११;
कठ ४; कथु ३, ४; -खे कौ १, ७;
२, १५^१; ३, ५; ६; ८; गी २, ३८;
-खेषु महा २, ४३; ६, ४७; -खैः
१योत ११: योशि १, ९.

सुखदुःख-दशा- -शाम् महा
६, ५३.

सुखदुःखदशा-धीर- -रम्
अन्न ४, १२.

सुखदुःख-बुद्ध्या(दि-आ)श्रय-
-यः ससा १, १८^१°.

सुखदुःख-भाजू- -भाक् मैत्रि
६, २१.

सुखदुःख-भोकृ- -का कै १, १३.

सुखदुःख-रस-स्थित- -ते महा
५, ३७.

सुखदुःख-संज्ञा(>)ज्ञ- -ज्ञैः गी
१५, ५.

सुखदुःख-हेतु- -तवः ससा १,
१९; -तोः खे १, २; नाप ९, १.

सुखदुःखा(ख-आ)तीत- -तः
नाप ९, २०.

सुखदुःखा(ख-आ)दिक- -कम्
योशि १, ३८.

सुखदुःखा(ख-आ)दि-मोह-
-हेषु, योशि १, २२.

सुखदुःखा(ख-आ)लया(य-अ)-
मेध्य- -ध्यम् मैत्रे २, ५.

सुखदुःखिन्- -खी सांसू ४, ५.

सुख-दुःख-पुण्या(ण्य-अ)पुण्य-
विष(श्र>)या- -याणाम् योसू
१, ३३.

सुख-दुःख-मोह-

सुखदुःखमोह-संज्ञा(>)ज्ञ-
-ज्ञम् मैत्रि ६, १०.

सुख-धारण- -णम् शां १, ३, १२.

सुख-निद्रा- -द्रा महा ४, २६.

सुख-बुद्धि- -द्धिः ससा १, १८; त्रिवि
५, ४.

सुख-भावना- -ना महा ३, ३०.

सुख-भोग- -गाः सार २६४: १६.

सुखभोग-रस-क्रीडा- -डाः
सार २८२ : १४.

सुख-अम- -मः पित्र ५, ५.

सुख-मण्डल- -लम् योशि ६, ७४;
यो ३, ९; -ले या ३, १२.

सुख-मात्रा- -त्राम् पित्र ५, ३;
-त्रायाम् अध्या २५.

सुख-रूप- -पः जाद ५, १३; -पम्
कै १, १३.

सुखरूप-स्व- -स्वम् वरा ३, १०.

सुखरूप-रति- -तिः सार
२५१ : ३.

सुखरूपिन्- -पिणे सार २७७:
१७.

सुख-लाभ- -भः योसू २, ४२.

सुखलाभा(भ-अ)भाव- -वात्
सांसू ६, ९.

सुख-वत्- -वान् ते ३, ३८.

सुख-विनाशन- -नम् ते १, २५.

सुख-विशिष्टा(ष्ट-अ)भिधान-
-नात् ब्रसू १, २, १५.

सुख-शृङ्गार-मति- -तिः ध्या
९३, ८.

सुख-श्र(म>)मा^१- -मा सार २८२:
१०.

सुख-संयोग्यता- -ताम् सार २५४:
१९.

सुख-संबलि(त>)ता^१- -ता सार
२३४ : ५.

सुख-संवित्ति- -त्तिः सांसू ५, २७.

सुख-संसेवित- -तम् योशि ५, ३६.

सुख-सङ्ग- -ङ्गेन गी १४, ६.

सुख-संतति-युत- -तम् सार २५३:
१९.

सुख-समाविष्ट-मनस्- -नाः सार
२८५ : २२.

सुख-संपत्ति- -त्तिः सार २२७:
१३; २५३ : २०.

सुखसंपत्ति-सुखा(ख-आ)र्थ-
-थम् सार २६३ : १२;

सुख-संपूरित- -तम् सार २३४: ३.

सुख-संभोग-स्थान- -नम् सार
२५९ : १८.

सुख-संभोग्य- -ग्याः सार २६७: ८.

सुख-संभोज्य- -दुग्धरस-घृतरस-
दधिरस-नवनीतरसा(स-आ)-
द्य- -द्यान् सार २७६ : २.

सुख-सिन्धु- -न्धोः राधा ३, १७.

सुख-सौष्टव- -वम् सार २५४: १३.

सुख-स्वरूप- -पः वृत् ९, १०.

सुखा(ख-आ)गत-वस्त्व(स्तु-अ)-
नुभव- -वः मं १, १, ४.

सुखा(ख-आ)त्मक- -कः ते ३, ३४;
४, ४९.

सुखा(ख-आ)त्मन्- -स्मानम् नाप
६, ९; वरा २, २९.

सुखा(ख-आ)दि- -दि ते ५, ३८;
-दिभिः गौ ३, ५.

सुखादी- -दीम् अठ ९९^१.

सुखादि-क- -कम् ते ५, २०.

सुखाद्य(दि-अ)नुभव- -वः
अध्या ४९.

सुखा(ख-अ)नुशय-

सुखानुशयिन्- -यी योसू २, ७^१°.

सुखा(ख-अ)भ्युदय-

सुखान्युदयिक- -कम् भव
५, ६.

अ) समाहारे द्वस. । b) °खे इति अख्या., °खं दु° इति शांआ ५, ७^१ । c) °द्वया ङे° इति निसा. ?
यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) । d) तैआ १, २७, १ । e) तु. गप्. पृ४०२२ ।

-दयः मै १,५^{१०}; मैत्रि १, ४१^०.
सु-धन्वन्- -न्वा वृ३,३, १९^{१०}; ए ३.
१सुधा^१- -धया त्रि ७^{१०}; तुल ७० :
 २^१; वरु६, २८ : -धाम् योशि ५,
 ३३; -धायै योशि ६,३.
सुधा-चन्द्र-मण्डल- -लम् मं २,
 १,५.
सुधा-देवी- -व्यै व ४६३ : १४.
सुधा-मय-
सुधामयी- -यीम् यो२, २५.
सुधामय-समुद्र- -द्रेण राधा १,
 १३.
२सुधा^{१३६}- -धया १योत ३३.
सुधा-प्रलिस- -सम् शि ४, १२.
१सुधात^१- -तम् श्वे २, १४.
९सु-धित(त>)ता- -ताम् त्रिवि ७,
 ५; सु २९३ : १७.
सु-धी- -धीः वृजा ३, १३; ब्रवि २१;
 १योत ३१; नाप ५, ३५; योशि
 १, ९३; कुं १४; पत्र ३, १०; यो
 १, ११; १३; ३०; ३२; क४ ४१;
 रुजा १, २२; २, ७; नापू ४, २७;
 राधा ३, १४; व ४६५ : १२.
सु-धुर- -धुः पा ६, ९.
सु-धूम्र-वर्ण(र्ण>)णी^१- -र्णां सुं १,
 २, ४.
१सु-नाद^१- -देन सार २२३ : २१.
सुनाद-गन्ध- -न्धेन नाद ४३.
२सु-ना(द>)दा^१- -दाः सार २२३ :
 २०.
सु-नारी- -रीम् वरा २, ३७.
सु-निपुण- -णः वरा ३, २५.

सु-निवद्ध- -द्धम् शि ६, १३५.
सु-निर्मल,ला- -लः शि ५, ४२; -लम्
 ब्रवि १५; -लाम् श्वे ३, १२.
सु-निर्वृत- -ताः गौ ४, ९३.
सु-निश्चय- -याः सार २३५ : २०.
सु-निश्चल- -लः जाद ५, ५; वरा ५,
 ३२; -लम् मै ४, ४, ७; मैत्रि ६,
 ३४; ब्रवि २९; शां १, ३, ८; जाद
 ३, ७; -लाः शि ७, १२५.
सु-निश्चित- -तः त्रिवि १, १; -तम्
 ते ५, ४७; वरा २, १०; शि ७,
 १३१; गौ ५, १; -ताः गौ ४, ९२;
 ९५.
१सुन्दर- -रम् अत्र ५, ५८; सार
 २५२ : ८; -राणि सार २७७ :
 १९.
१सुन्दरी- -रीम् त्रिता १, ८५;
 २, २९; -र्यैः शि ४, २६.
सौन्दर्य-
सौन्दर्य-सीमा- -माम् रार २,
 ३३.
२सुन्दर-
२सुन्दरी^{१०}- -री त्रि ६.
सुन्दरी-मनु- -नोः रया १८.
सुन्वत्- √सु(अभिषवे) द्र.
सु-पक्- -क्कानि शि ६, २०; -क्कैः शि
 ६, १४५.
सु-पच्यमान- -नाः सार २८३ : २२.
९सु-प(थ>)थ्- -पथा ई १८; वृ ५,
 १५, १.
सु-पयस्वि(न>)नी- -नी शि ६,
 १९९; २००.

सु-परिष्कृत- -तानि त्रि १२१^०.
सु-पर्ण,र्णा^१- -र्णः वृ ३, ३, २; ४, ३,
 १९; मना२, ४०९^१; ए६; १२; गरु
 ११^{१९}; -र्णम् वृ ८; -र्णां सुं ३,
 १, १; श्वे ४, ६; नाउ १, ३; भव
 २, २; -र्णाः मना २, ७३; चा
 २०; -र्णेन वि २८; -र्णौ अत्र
 ४, ३२^१; गोउ १३^१; रुह ४१.
सुपर्ण-रथ- -थम् अव्य २.
सुपर्णेय- -यः मना २, ७९९^१.
सु-पुण्य- -ण्यः पा ७, ७; -ण्यम् पा
 ६, ३; ७, ७; ८, १.
सु-पुष्टा(ष्ट-अङ्ग>)ङ्गी- -ङ्गीम् शि
 ६, २००.
सु-पुष्टि- -ष्टिम् पा ९, ९.
सु-पूजित- -तः त्रिवि ६, २१; -तम्
 ग १२; सि ६, २९.
सु-पूज्य- -ज्यम् सिशि ३८३ : १.
सु-पूर्ण-
सुपूर्ण-भूमन्- -मा सु २, २, ७४.
सुप्त- सुप्ति-, सुप्त्वा √स्वप् द्र.
सु-प्रति(ष्टा>)ष्ट- -ष्टः सु १, १, ७.
सुप्रतिष्टा(ष्ट-अक्षर)- -रम् श्वे १, ७;
 नाप ९, ६^१; भव २, ६.
सु-प्रतिष्ठित,ता- -तः पै ४, ३; सु १,
 १, ९; -ता त्रिजा २, ६८; योशि
 ६, ४७; जाद ४, १०; १६.
सु-प्रती(क>)का- -का मना २,
 ४३९^१.
सु-प्रदर्शन- -नैः पा १, १०.
सु-प्रबोधित- -तः महा ५, ८२.
सु-प्रशान्त- -न्तः गौ ३, ३७.

a) °नाश्वद्विया...तिः...दुर्ह...न्द्रोऽम्बरीषोननूक्तस्वयातिर्यथातिरनरण्योक्षसेनः इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. । b) °पतिः...दुर्ह...न्द्रोऽम्बरीषननक्तसर्वातिर्ये° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । c) =गन्धर्वविशेष- । d) व्यु. ? =अमृत- । e) °धिया इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या., तान्त्रि.) । f) अर्थः ? । g) व्यु. ? =नभा. कली । h) व्यु. ? =सु-धौत- इति शं., =सु-ध्मात- इति नादी. (तु. JC.), =सुधाऽन्त- इति शंदी. । i) तैत्रा ३, १२, ३, ४ । j) तु. गपू. पृ२२९g । k) प्रास. । l) बस. । m) =आवरणदेवताविशेष- । n) ऋ १, १८९, १ । o) °ताः इति निसा., अज्या. ? यनि. शोधः द्र. (तु. तान्त्रि.) । p) विप. वा नाप. वा । वैप१ यद्र. । q) तैसं ४, २, ९, ६. । r) मा १२, ४^१ । s) ऋ १, १६४, २० । t) ऋ १०, ७३, ११ । u) °र्णा इति अज्या. संटि. । v) °र्णा इति निसा. । w) तैत्रा १०, ६३, १ । x) स्वप्° इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. श्वे १, ७) । y) तैत्रा १०, ४२, १ ।

सु-प्रसन्न- -ञः नाप३, १९; -ञम् गौ
३, ४२; १योत ९३.
सु-प्रावी^१- -व्ये दे २९^१.
सु-प्रीत- -तः मै २, १; मैत्रि २, १; मैत्रे
१, ४, १; अक्षि १; सूता ५, १४.
सु-सवन-
सुसवन-व(त्)>ती^१- -ती सार
२६९ : ९.
सु-बद्ध- -द्धम् वृपू ५, ७.
सु-बहु- -हवः भव १, १२.
सु-बाल-
सौबाल-
सौबाल-बीज-ब्रह्मो(द्वा-उ)-
पनिषद्- -षत् सुबा १६.
सुबाल-क्षुरि-मन्त्रिका^१- -का सु
१, १, ३२.
सु-बी(ज)>जा- -जाः पा ८, १०.
सु-ब्रह्मचारिन्- -री ह १२.
सु-भक्त- -क्ताय श ३३.
सु-भक्ति-
सुभक्ति-मत्- -मान् शु १, ८.
सु-भग, गा^१- -०ग अक्ष^१; -गाः त्रिता
२, २१; -गम् सार २५२:८; -गा
त्रि ६; पा ७, ४; सार २२३:२;
२३४:६; २५३:१२; २६२:
२३; -गाः सार २३७:१९; २५३:
२१; -गाम् सार २६८:१९; कालि
४०१:१^१; २^०; पी ४२१:१;
श्या १.
सौभग- -गाम् मना २, १९^१;
३९९^१; व४६१:१७९^१; -गानाम्
त्रि १४; -गाय १संन्या २, ९४.

सौभाग्य- -ग्यम् रार २, ६५;
शि ६, ८८; व ४३५:१४.
सौभाग्य-कमनीया(य-आ)-
दि- -दयः नाप ४, २७^१.
सौभाग्य-द- -०द अक्ष ५.
सौभाग्य-परमै(म-ए)का-
(क-अ)क्ष(र)>री- -र्या सौ १, २.
सौभाग्य-लक्ष्मी-विद्या-
-द्याम् सौ १, १.
सौभाग्य-लक्ष्म्यु(क्ष्मी-उ)प-
निषद्^१- -षदम् सौ ३, १.
सौभाग्य-वर्धन- -नम् रजा
२, १३.
सौभाग्या(ग्य-आ)ब्ध- -ब्धः
सार २५९:१६; -ब्धम् सार
२४५:५
सौभाग्या(ग्य-अ)र्वन- -नेन
पी ४२२:२१.
सुभगा-त्रय- -यम् गुषो ४२०:१२.
१सु-भद्र^१- -द्रः वपू २, ४.
२सु-भ(द्र)>द्रा^१-
सौभद्र^१- -द्रः गौ १, १८.
सु-भस्म-रूप- -पम् सिशि ३८३:२.
सु-भाषण- -णम् ते ६, २४.
सु-भिक्ष, क्षा- -क्षा छां १, १०, ५;
-क्षात् शि ६, १५८.
सु-भूत, ता- -ता छां ३, १५, २; -तेन
मना २, ७७^१.
सु-भूत- -तः क २, १, ८^१.
सु-भोजन- -नः कृ २३.
सु-भो(जि)>जी^१- -ज्या सार २२५:
१९.

सु-भोज्य- -ज्याः सार २३७:२०; २२.
सु-मङ्गल- -लम् सि ३, ४; ६, १९; २६.
सु-मति- -तयः पितृ १, १३; -तीनाम
सर २, ४९^१.
सु-मथन- -नम् यो २, ४६.
सु-मधुर- -रैः काम १९.
सु-मध्यम- -मे जाद ७, ८.
सु-मनस्- -नाः क १, १, १०; वृजा
१, १^१; नी १, ६९^१.
सुमन-पवना(न-आ)रूढ^१- -ढः
ब्रवि ७५.
✓सुमनस्य
सुमनस्यमा(न)>ना- -ना मना
२, ४१९^१; -नाम् २संन्या १६:
४^१.
सुमन-स्थल- -ले अक्ष ४.
सुमन्त^१- -न्तः सार २८९:२.
सुमन्तु^१-
सौमन्त(व)>वी^१- -वी गु ४.
सु-मन्त्र^१- -न्त्रः रापू ४, ३७.
सु-महव-चारु-कुण्डल- -लम्
गह ५.
सु-मह(व)>ती- -ती योचू ६६.
सु-महोदधि- -धौ कृ १८^१.
१सु-मि(त्र)>त्रा- -त्राः मना १, ११९^१.
२सु-मि(त्र)>त्रा^१-
सौमित्रि^१- -त्रिः राउ २, १; सं
११.
सुमित्रा-तनय- -यम् रार २, १०४.
सु-मुख- -खः हे १०; -खम् शि ६
८४९^१.
सुमुखी^१- -खी सार २६२:
२३; -खीम् सुमु ४.

a) वैप१ यद्र. । b) ऋ १०, १२५, २ । c) =ऐश्वर्यवत्, आवरणदेवताविशेष-, सखीविशेष-, बीजाक्षर-
विशेष- प्रभृ. । d) =क्री-बीजाक्षर- । शु^१ इति तान्त्रि. । e) मुक्तासु^१ इति पा.१ उक्त्वा सु^१ इति शोधः द्र. । f) ऋ
८, ११, १० । g) तैत्रा १०, ४९, १ । h) सौरभ्यक^१ इति अज्या. । i) =पार्षदविशेष- । j) तैत्रा ३, ७, ६, २० ।
k) ऋ ३, २९, १ । l) ऋ १, ३, ११ । m) =गोविशेष- । n) मा १६, ४ । o) कस. । p) ऋ १०, ३९, १ ।
q) ^१ना इति पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. गपू. पृ२०९f; वैतु. J.C.) । 'अहृणीयमानम्' इति तैत्रा ३, १, २, ५ ।
r) व्यु.१ । s) व्यु.१ =ऋषिविशेष- । t) =आथर्वणशाखाविशेष- । u) =दाशरथिमन्त्रिविशेष- । v) समहो^१
इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. । w) ^१त्रियाः इति मा ६, २२; J.C. । x) =लक्ष्मणमातृ- । y) =सखीविशेष- वा
देवीविशेष- वा ।

सुमुखा(ख-आ)दि- -दयः वपू २,४.
 सु-मेघस्- -धः वृ ६, २,३; -घसः
 गोल ३४; -घसे सु १, १, ४९;
 -घाः तै १, १०, १; नाप ४, ३८१^०.
 सु-मेरु^१- -रुः पित्र १, १०; -रोः महा
 २, २०; अन्न ३, २.
 सुमेरु-दातृ- -तारः स्व ६१ : ७.
 सुमेरु-मठ- -ठः म ४९ : ७.
 सुमेरु-हेमाद्रि-मलया(य-आ)घ-
 -घाः सार २२३ : २२; २२४ : ११.
 सुमेरु(रु-उ)न्मूलन- -नात् महा ३,
 २०.

सु-यज्वन्- -ज्वभिः चू ७.

सु-यन्त- -न्त्रे पा ७, २.

सु-यन्त्रित- -तः यो २, २२.

सुयः^b अल्ला २^१.

सु-युक्त- -क्तः मैत्रि ४, ४^०.

१सु-योग^d- -गः का ३.

सुयोग-(ज>)जा^f- -जा सार
 २४२ : १९.

२सु-योग(ग>)गा^g- -गा सार २४१ :
 १९.

१सुर-

सुरा^h- -रया १संन्या २, ७५; -रा
 स्व ६१ : ९; -राम् छां ५, १०, ९;
 नाप ६, ३१.

सुरा-गन्ध- -न्धेन अध्या ५२.

सुरा-प^h- -पः शा २६.

१सुरा-पान^h- -नम् मना २,
 ६४१^०; -नात् कै २, ५; श ३६;
 रार ५, १७; मुद्र ४; १अव ३३;
 म १, ११; २, २२; वरा ५, ७६;
 नाड ३, ७.

२सुरा-पान^h- -नैः स्व ६१ : ८.

सुरा-पाथिन्- -थी वि ३३.

सुरा-भाण्ड- -ण्डम् जाद ४, ५४.

सुरा-मांस-रत- -ताः सार

२७३ : १२.

२सुर^h- -रः अद्वैभा ६; -राः नि ६;

२१; त्रिवि ६, १; पं १९; कृ ३;

२योत १, ६; वरा १, १; इ १५;

९; -राणाम् मै १, ७; मैत्रि १, ४;

६, ३५; मैत्रे १, २; कृ १२; पा

१०, २; गी २, ८; -रान् श ३०;

म १, २; -रैः १योत ७; कृ ११.

सुर-गण- -गाः गी १०, २.

सुर-द्रुम- -मः रार २, १.

सुरद्रुम-तला(ल-आ)श्रय-

-यम् गोपू ९^k.

सुर-पति- -तथे त्रिवि ७, ३७.

सुर-लोक^l- -के शि ६, ४५.

सुर-वृन्द-कर्तृ- -त्रै पा ७, १.

सुर-संसे(व्य>)व्या- -व्या तुल

७१ : १.

सुर-संघ- -घाः गी ११, २१; -वान्

श ११.

सुरा(र-अ)सुर- -राः ते ५, १३; ४४.

सुरे(र-इ)न्द्र- -न्द्रम् वपू १, ५१^१.

सुरेन्द्र-मुख्य- -ख्याः श १.

सुरेन्द्र-लोक^l- -कम् गी ९, २०.

सुरे(र-ई)प्सि(त>)ता- -ताः रार

२, ३५.

सुरे(र-ई)श- -शः पा ८, १; -शम्

श १३; -शाय पा ७-८, १.

सुरेश-पितृ- -त्रे पा ६, १०.

सुरे(र-ई)शान- -०न योशि ३, ४.

सुरे(र-ई)श्वर- -०र योशि १, १७४;

५, ४६; -राः श ५; -रैः गोच

६९ : ५.

सुर-रक्षित- -तः अव्य ६.

सुर-रक्षित,ता- -तम् सार २६८ : १६;

-ता सार २३८ : ७१^०; २६८ :

१९१^०; २७१ : १५; २८४ :

२३१^०.

सुरचित-मणि-वल्ली- -ल्ली सार
 २७१ : १६.

सुर-रच्यमान- -नानि सार २७१ : ५.

१सुर-रत^m-

सुरत-कला-

सुरतकला-काम-निद्रा-लज्जा-

प्रेम-सुरतोक्कण्ठा(रठा-आ)दि-

-दयः सार २५३ : २१.

सुरतकला-कोवि(द>)दा^o-

-दा सार २२३ : ४; २३८; १०;

२४२ : २२; २६८ : ११.

सुरतकला-व(त>)ती^o- -ती

सार २४२ : २१.

सुरत-केलि-ज्ञ- -ज्ञः सार २२९ : ९.

सुरत-म(म>)मा^o- -मा सार

२८४ : १५.

सुरत-रस-कोवि(द>)दा^o- -दा

सार २२६ : २.

सुरत-सु(ख>)खा^o- -खा सार

२८४ : १५.

सुरता(त-आ)गम-(ज्ञ>)ज्ञा^o-

-ज्ञा सार २६३ : ४.

१सुरता(त-आ)नन्द^m- -न्दम् सार

२२९ : २१; २८० : ५; -न्दे सार

२२५ : १८.

सुरतानन्द-प्रेमानन्द-म(म>)-

मा- -माः सार २६७ : ९.

सुरतानन्द-भोग- -गाः सार

२५२ : ६.

सुरतानन्द-रूप-

सुरतानन्दरूपा- -पाम्

सार २३२ : ११.

सुरतानन्दरूप-रस-दातृ-

-त्रे सार २७७ : १२.

सुरतानन्द-वशीकृत-स्वाधीन-

पतिका-शृङ्गारा(र-आ)रम-

सुख-दायिन्- -यिने सार

२५२ : १.

a) तैआ ७, १०, १। b) पा. वा. च ?। c) तु यु^० इति सात.। d) प्राप्त.। e) बस. =सखीविशेष-।

f) वैपश् चद्र.। g) उप. <√पा(पाने)। h) उप. भावे कृत्। i) तैआआ १०, ६४। j) उप. कर्तरि कृत्।

k) °लश्रितम् इति निसा.। l) 'हवामहे' इति ऋ २, १३, १। m) प्राप्त. उप. भाप. <√रम्। n) तस.।

सुरतानन्द-समग्र-वशीकृत- रसिकानन्द-न्दाय सार २५१: २२.	सुरतो(त-उ)पदे(श>)शा ^b - -शा सार २६८: ११	सुवर ¹ (>:) तै १,५,१ ^३ ; २ ^३ ; ३; ६,२; ३,१०,६ ^k ; मना १, २१ ^१ ; ४१ ^m ; १४ ^२ ; १५१ ^० ; २, ३ ^३ -५ ^३ १ ^० ; ८१ ^० ; १०१ ^२ ; २११ ^० ; ३५१ ^३ ; ३७१ ^५ ; ६८१ ^५ ; ७९१ ^५ ; सु १, १८; नाप ४, ३८ ^३ ; त्रिवि ७, ४४१ ^५ ; राउ ४, १; पप ४१८: २४१ ^m ; सू ६१ ^२ ; ता ३, १.
सुरतानन्द-सुख- -सुम् सार २६९: २०; २७१: २०; २७२: २; २७३: २०; २८२: २०; २८७: १८.	२सुर-रत ^a - -तम् पा ९, ७; -ता: पा ९, १०.	सुवर-इश- -इशम् वट ३१६: १४१ ^y .
सुरतानन्द-स्थान- -नम् सार २३४: ३.	सुरभि ^० - -भि छां १, २, २; ९; -भि: मना २, ४२१ ^d ; ४३१ ^० ; वृजा १, १; वपू १, १; -भीणि शिद्, ३४.	सुवर-यत्- -यत् श्वे २, ३१ ^३ .
२सुरता(त-आ)नन्द, न्दा ^a - -न्द: सार २६६: १७; २८७: १८; -१ ^३ न्दा सार २२६: २; २३४: ५; २३८: ४; २६८: २२; २८२: १०; २८४: १५; -न्दा: सार २४८: १४; -न्दाय सार २६१: ३; -न्देन सार २८१: १३.	सुरभि-विद्या ^१ - -द्या राधा २, १०; -द्या: गोपू २५.	सुवर-लोक ^१ - -क: नाद ३ ^a ; -कम् वृजा ८, ४; -का: -केषु सुवा १०.
सुरतानन्दा(न्द-आ)दि- -दय: सार २७०: १६.	सुररस- -स: पा १०, २; -साय पा ९, १.	सुवर्ग ^{३b} - -र्ग: -र्गस्य मना २, ७९१ ^y ; -र्गात् मना २, ७८१ ^० .
सुरता(त-अ)न्त-निद्रा- सुरतान्तनिद्रि(त>)ता- -ता: सार २२३: ५.	सुररागिन्- -गिण: ते १, ४६.	सुवर्गीय- -याय श्वे २, २१ ^a .
सुरतो(त-उ)क्कण्डा- -ण्डा सार २८२: १०१ ^b ; -ण्डाम् सार २८४: १९.	सुरराष्ट्र ^१ - -ष्ट्र: रापू ४, ३७.	सुवर्ग्य- -र्व्येण ते १, ३, ४.
सुरतोक्कण्डिन्- -ण्डिने सार २५१: १७.	१ ^३ सुर-रुच्- -रुच: मना १, १०; २संन्या १६: ६; २शिसं ३२.	सुवर्चस्- -र्चस: सुं १, २, ६; -र्चा: वउ ३, ६.
सुरतो(त-उ)त्थि(त>)ता- -ताम् सार २८६: १८.	सुररूप, पा- -पा शां ३, १; -पान् छां २, १५, २.	सुवर्ण ^० - -र्ण: छां १, ६, ६; -र्णम् छां ३, १९, १; २; ४, १७, ७१ ^० ; वृ १, ३, २६ ^१ ; मन्त्रि ८; नाप ७; महा ३, ३८; १संन्या २, ७९; सार २८७: २; शि ६, ९०; व ४५५: २११ ^१ ; -र्णस्य शि ६, २०२; -र्णात् योशि ४, ७; -र्णाय मना २, १६१ ^१ ; -र्णेन छां ४, १७, ७१ ^० ; सार २३९: १३.
सुरतो(त-उ)स्सा(ह>)हा ^b - -हा सार २८४: १९.	सुररेखा ^b - -खे तारा ८३: २३.	सौवर्ण- -र्णम् अक्ष २ ^३ ; -र्णानि सार २३७: ३; -र्णे वृजा ३, ६.
सुरतो(त-उ)इम(म>)मा ^b - -मा सार २६८: २२; २८४: २०.	सुररेतस्- -ता: गोपू १५.	सौवर्ण-मण्डप- -ये रार २, ४४.
	सुररोचमा(न>)ना- -ना सार २८७: ११.	
	सु-लक्षण- -णम् गोच ६९: ८.	
	सु-लक्ष्य- -क्ष्यम् पित्र ६, १६.	
	सु-लक्षण- -म: योशि ६, ३९.	
	सु-ल(ज>)जा ^b - -जा सार २६९: २.	
	सु-लभ- -भ: मैत्रे ३, १५; १संन्या २, ३४; पित्र ५, ५; गी ८, १४; -भम् रार १, ८; का ४; नार ३ ^३ ; शि ३, १३.	
	सौलभ- -भम् रार १, ८.	
	सुलहरी ^b - -री सार २६९: ९.	
	सु-लोहि(त>)ता ^१ - -ता सुं १, २, ४.	

a) बस. । b) =सखीविशेष- । c) बप्रा. वैप१ यद्र. । d) तैआ १०, ४१, १ । e) तैआ १०, ४२, १ ।
f) =दाशरथिमन्त्रिविशेष- । g) मा १३, ३ । h) =बीजमन्त्रविशेष- । i) तु. गपू. पृ२२९८ । j) वैप१ यद्र. ।
इह =व्याहृतिविशेष-, लोकविशेष- । k) सुवर्ण^० इति Jc. । l) तैआ १०, १, २ । m) 'स्वः' इति मा ३२, १२ ।
n) 'स्वः' इति ऋ १०, १९०, ३ । o) तैआ १०, १, १५ । p) तैआ १०, २-४, १^३ । q) तैआ १०, ६, १ । r) तैआ १०,
८, १ । s) तैआ १०, २२, १ । t) तैआआ १०, ३५ । u) तैआ १०, १५, १ । v) तैआ १०, ६३, १ । w) तैआ १०,
३७, १ । x) तैआ १०, २८, १ । y) 'स्वर्दुशम्' इति ऋ ७, ३२, २२ । z) 'स्वर्धतुः' इति मा ११, ३ । a') स्वर्लो^०
इति आन. । b') वैप१ यद्र. । c') तैआ १०, ६२, १ । d') 'स्वर्गीय' इति मा ११, २ । e') जैउ ३, ४, ३, ३ ।
f') तैआ ३, ११, १ । g') तैआआ १०, १६ ।

सौवर्ण-सौवर्ण-ताम्र- -त्रैः
 शि ७, ५६.
 सौवर्णा(र्षी-आ)दि-
 -दीनाम् पदं ४^५.
 सौवर्णा(र्षी-आ)म्बुज-मध्य-
 (ग>)गा- -गाम् व ४२७ :
 ११.
 सुवर्ण-गन्ध- -न्धेन सार २८७ : १.
 सुवर्ण-जटि(त>)ता- -ताः सार
 २८७ : २.
 सुवर्णजटित-मणि- -णिभिः
 सार २८४ : ४.
 सुवर्ण-जाम्बूनद-प्राकार>)रा-
 -राः सार २५३ : ३.
 सुवर्ण-ज्योतिस्- -तिः नृपू २, १८.
 सुवर्ण-तार-गुम्फित- -तम् सार
 २४५ : ६.
 सुवर्ण-स्व- -स्वम् योशि ४, ७.
 सुवर्ण-निचित- -तम् शि ६, १०७.
 सुवर्ण-पक्ष- -क्षाय मना १, ६;
 व ४६३ : २.
 सुवर्ण-पात्र- -त्रम् नाप ४, ३८.
 सुवर्ण-भित्ति- -त्तिषु सार २२२ :
 ११.
 सुवर्ण-भूमि-जटित- -खचित-
 -तम् सार २६८ : ३.
 सुवर्ण-भूषण- -णानि सार २४४ :
 २३.
 सुवर्ण-यू(थक>)थिका- -काः सार
 २७० : २३.
 सुवर्णयूथिका-प्रवाल- -लैः
 सार २५३ : ६.
 सुवर्ण-लता- -ताः सार २२५ : ६;
 २४२ : ५; -ताभिः सार २३७ :
 १२.
 सुवर्णलता-ग्रथि(त>)ता-
 -ताः सार २३३ : १०.

सुवर्ण-लिङ्ग- -ङ्गाय मना २, १६९^०.
 सुवर्ण-व(र्षी>)र्णा- -र्णाः सार
 २८३ : १५; -र्णासु सार २८८ : ७.
 सुवर्ण-सदृश-प्र(भा>)भ- -भम्
 गरु ५.
 सुवर्ण-संपुट- -टौ सार २४४ : १६.
 सुवर्ण-सुगन्ध-लता-ग्रथि(त>)-
 ता- -ताः सार २३९ : ४.
 सुवर्ण-सुगन्ध-संवलित- -ताः सार
 २२२ : ७.
 सुवर्ण-सुगन्ध-सुक्रोमल- -लानि
 सार २८७ : १०.
 सुवर्ण-स्तेय- -यात् कै २, ५.
 सुवर्णस्तेयिन्- -यी सृ ६.
 सुवर्णा(र्षी-आ)क्ष- -क्षे शि ६, १९०.
 सुवर्णा(र्षी-आ)दि- -दीन् नाप ३,
 ८६.
 सुवर्णा(र्षी-आ)भ- -भम् गरु ५.
 सुवर्णा(र्षी-आ)लवाल-श्रेणि-
 -णयः सार २६७ : १६.
 सु-वसन^१- -नः, -ने छां ८, ९, १; २;
 -नौ छां ८, ८, २; ३.^१
 सुवान- √सु(अभिषवे) द.
 सु-वासस्^२- -साः सर २, ९९^०; अरु
 १७९^१.
 सु-वासित^३- -ताः सार २५३ : १३;
 -तैः सार २६९ : ५.
 सु-विज्ञेय- -यः क १, २, ८; राउ ५,
 २; ३.
 सु-विदित- -ते रुह २७.
 सु-विद्या-पाद- -दः त्रिवि १, ७.
 सु-विभात- -तः वृउ ८, ४; -तम् वृउ
 २, ३; ६, ३; ९, १६; १८^१.
 सु-विरूढ-मूल- -लम् गी १५, ३.
 सु-विशुद्ध- -द्धः शि ५, ४१.
 सु-विस्तर- -राः सु १, १, ९.
 सु-विस्ती(र्षी>)र्णा- -र्णाम् शि ६,

११९.
 सु-विस्फुट- -टः वृउ ९, ११^५.
 सु-विहार-
 सुविहार-व(त>)ती^४- -ती
 सार २४२ : २२.
 सु-विह्वल- -लम् शि ४, २८.
 सु-वीजित- -तम् गरु ५.
 सु-वीर- -रम् २शिसं ७; -राः मना
 २, ४१९^१.
 सु-वीर्य^५- -र्यैः २संन्या १६ : १४९^१.
 सु-वृत्त- -त्तम् नाप ४, ३४; -त्ताय श
 ३३.
 सुवृत्त-नासा-युगल- -लः राधा
 ३, १२.
 सु-वृष्टि- -ष्टिः छां ७, १०, १^१.
 सु-व(ष>)षा- -षाम् कालि ४०३ :
 १८.
 सु-व्यग्र- -ग्रम् महा ३, १८.
 सु-व्रत- -व्रतं च २१; ३५; योशि ३,
 १२; अन्न ५, २९; ७४; जाद १,
 २२; ४, १०; २५; २७; ६, १६;
 २१; २३; ७, १०; ८, १; ९, ५;
 सर १, ३; -ताय श ३३.
 सु-शिक्षित- -तः गौ २, ८; जाद ५, ३.
 सु-शीतल- -लेन सार २३३ : २३.
 सु-शील^६-
 सुशीलिन्- -लिन्ः शा ११; -लिने
 श ३३.
 सु-शील, ला^७- -ला वृजा १, १^०;
 -लाय सु १, १, ४९.
 सु-शुद्ध- -द्धः त्रिवि १, ४.
 सु-शेव^८- -वम् बा २.
 सु-शेवधि- -धये पा ७, २.
 सु-शोभन, ना- -नः सार २५७ : १७;
 -नम् १योत ३२; शि २, १०;
 ४, ६; ६, ९९; २६० : ७, ६४; -ना
 शि ४, १५; -नाम् शि ३, ५.

a) हाटकदी^० इति श्रद्ध्या. | b) तैश्चा १०, १, ६ | c) तैश्चाश्चा १०, १, ६ | d) उप. = २वासस्- e) अ
 १०, ७१, ४ | f) तैश्चा १, २७, २ | g) उप. = २वासित- | h) °टतमः इति नि.सा. | i) =सखीविशेष- | j) तैश्चा १०,
 ३९, १ | k) वैप १ यद. | l) शौ ७, १०२, ६ | m) प्रास. | n) वस. | o) =गोविशेष- |

सुशोभन-मठ- -ठम् शां १,५.
 सु-शोभमान- -नम् सार २६८:५.
 सु-शोभा(भा-ञ्चा)ढ्य,ढ्या- -ढ्यम्
 सार २३२: १५; -ढ्या सार
 २७१: १४; -ढ्या: सार २३२:
 १५; २३३: १५; २८८:८; -ढ्ये
 सार २३४: १.
 सु-शोभायमान- -नम् सार २५८:
 १५; -ना: सार २३७: ८.
 सु-शोभित- -नम् त्रिवि ७,१९; सि
 २,१०; ४,४; ९; ५-६,९; ३३.
 सु-श्रो(शि>)शी^१- -णी सार २६८:७
 १ सु-श्लोक^१-
 सुश्लोक-मौल(श्लि^b)- -ले(श्ले: ^b)
 सु २९४: १.
 २ सु-श्लोक^१-
 सुश्लोक-देवप्रस्थ-वरुथप-कृष्ण-
 बलराम-देवहार-कुमुद-रोचि-
 ष्मद्-रमणा(ण-ञ्चा)घ- -घा:
 सार २४९: ५.
 ३ सु-वारथि- -थि: १शिसं ६;
 २शिसं ५.
 सुषि^d- -षि: छां ३, १३, १-५; -षौ
 मैत्रि ७,११.
 सुषिर,रा^e- -र: शां १,७,३९^f; -रम्^g
 गर्भ १; मना २,१३,२४^h; ब्र २;
 ३,१२; अना २७; ध्या ९३;
 शारी १; योशि ६,९; अक्ष ३;
 -रा: योशि ६,१५ⁱ.
 सुषिरा(र-आत्मक>)त्सिका- -का:
 योशि ६,१५^j.
 सु-षुप्त- -स: वृ २,१,१९; मना २,
 ५९^k; -सम् मां ५; ब्र २; ३,
 १३; वृ ४,६; वृ १,८; १०;
 ११; सुबा १५; ससा १, १०;
 नाप ५,१; ६,१^l; ८, ११; १५;

१७; त्रिब्रा २,१०; १५०; राउ
 ३,१; अक्ष ५,१६; विद्या ३; वउ
 १,९; ५,३६; पिब्र १,१४; ६,८;
 १०; -सस्य मै २,५; अक्ष १,५२;
 -से गौ ३,३४; ३५; ब्र २^k; वउ
 २, १; नाप ६,१; शां १,७,२९.
 सुषुप्त-ता- -ता अक्ष २,१२.
 सुषुप्त-तुरीय- -य: पप ४१९: ३१.
 सुषुप्त-तैजस- -स: पप ४१९: ३१.
 सुषुप्त-पद- -दम् अक्ष ३,१७.
 सुषुप्तपद-ना(मक>)मिका-
 -काम् अक्षि ३४.
 सुषुप्त-प्राज्ञ- -ज्ञ: पप ४१९: ३१.
 सुषुप्त-भाव- -व: अक्ष ५,१०९.
 सुषुप्त-भूत- -ते ब्र १^l.
 सुषुप्त-मनस्- -न:(शना: ^m) अक्षि
 ३५.
 सुषुप्त-वत् महा ६, ४९; २अव
 ३३८: ८.
 सुषुप्त-विश्व- -श्व: पप ४१९: ३०;
 वरा ४,१.
 सुषुप्त-सद(श>)शी- -शी अक्ष ५,
 ८४.
 सुषुप्त-स्थ- -स्थ: नाप ८,१२; अक्ष
 ५, ११६.
 सुषुप्त-स्थान- -न: मां ५; ११; वृ ५,
 ४,६; वृ १,८; २,७; राउ ३,१.
 सुषुप्त-स्थैर्य- -र्यम् अक्ष ३,१८.
 सुषुप्ता(प्त-आ)ख्या- -ख्या अक्ष ५,
 ८८.
 सु-षुप्तिⁿ- -प्ति: हं ८; अ ३; शारी ५;
 यो २,४७; वउ ३,१०; -प्तिम् या
 २,२२; -सौ ध्या ९३, १३; महा
 ४,४४; पप ४१९: २२; अद्या
 २५; पत्र २; यो ३,२९; राधा
 १,१; -प्या पा १,८.

सौषुप्त-
 सौषुप्ती- -प्ती महा ५,
 १९^o; -प्तीम् अक्ष २,१९.
 सौषुप्त-स्थिति- -न्ति: अक्ष
 २,१३.
 सुषुप्ति-क- -कम् महा ५,८.
 सुषुप्ति-काल- -ले कै १,१३; नाप
 ५,१; वरा २,६२.
 सुषुप्ति-पद-ना(मक>)मिका-
 -काम् वरा ४,१४.
 सुषुप्ति-मात्रा-चतुष्टय- -यम् पप
 ४२०: २.
 सुषुप्ति-वत् त्रिब्रा २,१६५; महा २,
 ४६.
 सुषुप्ति-समाधि- -ध्या: मं २,३,३.
 सुषुप्ति-स्थ,स्था- -स्थ: अक्ष ३,
 १२^p; वरा ४,२३; -स्था १संन्या
 २,४४.
 सुषुप्ति-स्थान- -न: विद्या ३; वउ १,९
 सुषुप्ति-स्वरूप-
 सुषुप्तिस्वरूप-वत्- -वान् ते
 ३,४५.
 सुषुप्त्य(प्ति-आ)भिमामिन्- -नी पै
 २,३०.
 सुषुप्त्य(प्ति-आ)वस्था- -स्था ध्या
 ९३, १३; पै २,४२; -स्थायाम्
 मं २,४,४; पप ४१९: २६.
 सुषुप्त्यवस्था(स्था-आ)पक्ष- -क्षे
 नाप ५,१.
 सुषुप्त्या(प्ति-आ)दि-चतस्र- -क्ष:
 नाप ६,१; पप ४१९: २२.
 सुषुप्त्या(प्ति-आ)द्य(दि-आ)साक्षिन्-
 सुषुप्त्याद्यसाक्षि-स्व- -स्वम्
 सांस् १,१४८.
 सुषुप्त्यु(प्ति-उ)कान्ति- -न्त्यो: ब्रस्
 १,३,४२.

a) विप. । b) पा. यनि. शोध: द्र. । c) मा ३४,६ । d) व्यु: = छिद्र- । e) व्यु: बप्रा. वैप१ यद्र. ।
 f) = १सक्ष- । g) = छिद्र- । h) तैआ १०,११,२ । i) पा. 'सु-षिरा->-रा:' इति शोध: द्र. । j) निसा. (तु.
 तैआआ १०, ५९) 'सा: इति शोध: द्र. । k) 'सौ इति निसा. । l) 'स: इति आन. । m) निसा. यनि. शोध: द्र. ।
 'सघन: इति अख्या. । n) 'प्ति: इति पा. यनि. शोध: द्र. ।

सु-सु(सु)षु(म्ण,त्र)म्णा,म्ना^{११६}-
 -म्णा वरा ५, २३^b; -म्णायाः^c
 वरा ५, २३; २४; -म्नाया ६७;
 त्रिन्ना २, ६७; योचू १२; ३९;
 योशि ६, ३४; जाद ६, ४२; -म्ना
 लु ८; १६; १८; ध्या ५२; ५६;
 १०१; त्रिन्ना २, ६८; योचू १६;
 १९; मं १, २, ६; अता ५; शां
 १, ४^३; योशि १, ११९; ५, १७;
 ६, ५; ९; १८; २२; ४५^४; भा १४;
 यो १, ६२; जाद ४, ५; ७; १०;
 वरा ५, ३०; योरा १२; पा ८,
 ३; -म्नाम् १यत् ८३; योशि ६,
 १६; यो १, १३; १४; ३, ७^b; सी
 ३, १; -म्नायाःशां १, ४; यो १, १४;
 जाद ४, १३; १८; ३५; वरा ५,
 २६; -म्नायाम् १यत् ८२; ११९;
 योशि १, १०६; ११५; ११९;
 १३१; ६, ३५^५; ३६^६; ३७; ३८^७;
 ३९^८; ४४; ए १^d; यो १, ४७;
 -म्नायै योशि ६, ३.
 सुषुम्णा(म्ना-आख्य)म्ना- -ख्या
 मैत्रि ६, २१.
 सुषुम्णा-द्वार- -रम् योशि १, ७५.
 सुषुम्णा-ध्यान-योग- -गस्य योशि
 ६, ४३.
 सुषुम्णा-ध्यान-लेख- -शस्य योशि
 ६, ४६^e.
 सुषुम्णा-नाडि-मण्डल- -ले वरा ५,
 ६७.
 सुषुम्णा-नाडी-स्थ-मरु-शोषा-
 (ष-आर्थ)- -थम् शां १, ७, १.
 सुषुम्णा(म्ना-अ)न्तर-गत- -तम्
 योशि ६, १३.

सुषुम्णा-पश्चिम- -मे वरा ५, २५^f.
 सुषुम्णा-पार्श्व- -श्वयोः जाद ४, १४.
 सुषुम्णा-पूर्वभाग- -ने शां १, ४.
 सुषुम्णा-पृष्ठ-पार्श्व- -श्वयोः शां १, ४.
 सुषुम्णा-मार्ग- -र्गेण शां १, ७, ३७.
 सुषुम्णा-वज्र-नाल- -लेन योशि १,
 ११८.
 सुषुम्णा-वदन- -नम् शां १, ७, ९;
 -ने यो १, ६७.
 सुषुम्णावदना(न-अ)न्तर- -रे
 योशि १, ८६; यो १, ६६.
 सुषो(म)मा^{११७}- -मया मना १,
 १३^g.
 सु-सु-ष्टु(<स्तुत)ता- -ता दे ५;
 सर २, ८.
 सु-सु-ष्टु(<स्तु)ति- -ती^१ पा ७, ४.
 सु-सु-ष्टु^k महा २, ५३; स्व ६१; १२;
 सार २८७; ३.
 सौष्ठव- -वम् सार २३८; २३; -वेन
 सार २६६; १६.
 सु-ष्वप^१- -पे ब्र १.
 सु-संयत- -तः त्रिन्ना २, ५३; शि
 १, २.
 सु-संयुत- -तम् शि ६, १३५.
 सु-संयोज्य अता ११.
 सु-संलग्न- -गम् सि ६, १९.
 सु-संवेद्य- -द्यम् योशि ३, २०.
 सु-संसिद्ध- -द्धः सार २३९; १०.
 सु-संस्कृत- -तम् शि ६, ३२.
 सु-संस्थाप्य त्रिन्ना २, ४०; ४१; त्रिवि
 ६, २५.
 सु-संगत- -ताः वरा ५, ४३.
 सु-संत्यक्त- -क्तम् महा २, ५६.
 सु-सम^m- -मः महा २, २७; अक्ष २, ५.

सु-समाहित- -तः १यत् ४२; नाप
 ६, १८; शां १, ३, ६; जाद ५, ६;
 वरा ५, ३३; -तम् वृ ४, ३, ३५.
 सु-समिद्ध- -द्धस्य मैत्रि ६, २८.
 सु-समुद्रिका- -कया महा ३, ४७;
 या २, १३ⁿ.
 सु-संपाद्य वृजा ३, ३०.
 सु-संपूज्य त्रिवि ५, १३; ६, २५.
 सु-संपूर्ण- -र्णः शि १, १५; -र्णे शां
 १, ५.
 सु-संवद्ध- -द्धः योशि १, ५९.
 सु-सार(>)रा- -राः पित्र ५, २.
 सु-सिद्ध- -द्धः हे १२.
 सु-सी(म)मा- -मे कौ २, ८^११०;
 १०^११०.
 सु-सुख^१- -खम्^r अध्या ६४; गौ
 ९, २^१.
 सु-सु(ख)खा^१- -खा सार
 २६९; २.
 सु-सुगन्धा(न्ध-आ)ढ्य- -ढ्यम्
 सार २३९; ४.
 सु-सूक्ष्म- -क्ष्मः पा १, २; -क्ष्मम् सुं
 १, १, ६; शारी ५^५; महा ४, ८६;
 शां २-३, १; पाञ्च २, २९; रुह
 ३२.
 सु-सेवमान,ना- -नः सार २३६;
 २१; -नाः सार २३६; १९^१;
 २६८; २१; २६९; ३.
 सु-सेवित- -तम् त्रिवि ७, ५०.
 सु-सेव्य-
 सुसेव्य-ता- -ताम् सार २२०; १७.
 सु-सेव्यमा(न)ना- -नाः सार
 २३८; १३.
 सु-स्थ- -स्थः सांका ६५.

a) वैपश् यद्र. । इह =नाडीविशेष- । b) °म्ना इति अख्या. । c) °म्नायाः इति अख्या. । d) °म्नया इति अख्या. । e) °नयोगस्य इति अख्या. । f) गप्. (पृ५०१) सस्थ. 'पश्चिम-> -मे' इत्यत्र यनि. शोषः कर्तव्यः । g) वैपश् यद्र. । h) ऋ १७, ७५, ५ । i) ऋ ८, १००, ११ । j) तु. गप्. पृ७२७m । k) अव्य. वैपश् यद्र. । l) =सुषुप्ति- । m) उप. =१सम- । n) °सुसुखतया इति अख्या. संटि. । o) °मम् इति निसा., आन. ? [तु. 'समिद्ध इति शांआ.(४, ८), स्वसी^१ इति अख्या.] यनि. शोषः द्र. । p) तु. मंत्रा १, ५, १०; वैतु. °वी^१ इति शांआ ४, १०; स्वसी^१ इति अख्या. । q) प्रास. । r) वा. क्रिदि. द्र. । s) उप. विप. । 'सुसुखं कर्तुम्' इति वा. ? । t) वस. =सखीविशेष- । u) सू^१ इति अख्या. ।

सु-स्थित- -तम् शि ७, २१.

सु-स्थिर- -रः महा ६, २८; -रम् वरा ५, ६०; ७३.

सु-स्निग्ध-

सुस्निग्ध-मधुरा(र-आ)हार- -रः योचू ४३; यो १, ३.

सु-स्नेह(>)हा- -हा सार २८२:९.

सु-स्वर- -रेण सार २८२:५.

२सु-स्वर-

सुस्वर-कण्ठ- -ण्ठेन सार २८५:३.

सु-स्वाद- -दाः सार २३८:२.

सु-हय- -यः छां ५, १, १२.

सु-ह(व>)वा- -वाम् पा ७, ४.

सु-हित-

सौहित्य-

सौहित्य-कारण- -णम् भार ७६^d.

सु-हुत- -तम् वृ ६, ४, २४; मना २, ७९^०.

सु-हृद्- -हृत् सुबा ६; ते २, १८;

महा ५, ८०; गुध ९; गी ९, १८;

-हृदः नाप ४, ७; महा ३, ३५;

शा ३०; निरु १, १८; कश्रु १, १;

गी १, २७; -हृदम् गी ५, २९;

-हृद्भिः शि ६, १७८.

सुहृत्-प्राप्ति- -प्तिः सांका ५१.

सुहृत्-मित्रा(त्र-अ)र्यु(रि-उ)दासीन-

मध्यस्थ-द्वेष्य-बन्धु- -न्धुषु गी ६, ९.

सु-हृष्ट- -ष्टः महा ५, ८२^६.

सुहृष- -हृषाः आर्षे ८: १४.

√सू(प्ररणे), सुवत्सु २३५^१.

सावीः मना २, ३९५^१.

२सव- -वे श्व २, २५^१.

सवितृ- -०तःमना२, ३९^३म; -ता

छां १, १२, ५; श्वे २, १५^०; ३५^०;

मै ५, ७^३; ८^३; मैत्रि ६, ७^३; ८; मना

१, १२५^०; २, ३५५^०; वृपू २, ११५^०;

वृउ २, ८; ए १२; सू २१: २२;

२३^३; २४; सावि १^३-२^३; त्रिता १,

१९; २प्र ३६: १९५^०; शि ५,

४२^१; गार ४०५: १७; वृ ३३७:

७५^०; -तुः छां ५, २, ७५^०; वृ ६,

३, ६५^०; श्वे २, २५^१; ४५^३; ४,

१८; मै ५, ७५^०; मैत्रि ६, ७५^०;

९; ३४५^०; मना २, ३५५^०; त्रिवि

७, ३९५^०; ४४५^०; सू ६५^०; सावि

१०^३; ५^०; ५^०त्रिता १, ५; १९;

३७; ४०; ४४; ५१; ५२; पारा

२; ५५^०; शि ४, १८; गार ४०५:

१३; १७; गुद १; वृ २२: १८५^०;

४५७: ९५^०; वपू १, १५^०; -त्रा

श्वे २, ७; -त्रे वृ ६, ४, १९; पा

७, १; वपू १, ३.

सावित्र- -त्रः सूता ३, ६;

-त्रम् वृपू ४, १०; सूता ३, ५^३;

६; ९; पा ७, ७; गार ४०५: १७;

४०७: ७; -त्रस्य वृपू १, ६; ४,

८; सूता ३, २.

सावित्री- -०त्रि व

४३१: १०; ४३६: ७; -त्री

मना २, २८५^०; अशि १, ७;

६, १५; वृपू ४, ८; शां १, ६;

सावि १^३-२^३; त्रिता ४, ३२; ३४;

सौ १, ३; व२२; सु१, १, ३७५^१;

वटु ३१७: २२; गार ४०५: ८;

४०६: १२; १३; १९; -त्रीम् वृ

५, १४, ४०^१; ५^१०^१; ६, ३, ६;

मना २, ३५५^०; वृपू १, ७^३; ४, २;

नाप ४, ३८; सू ३०^०; सावि १०;

गा १६; -श्या मै ५, २; मैत्रि ६,

२; अशि ६, १६; सावि १०; वटु

३१७: २२; गार ४०५: ८; -श्र्यै

व ४६२: २१.

सावित्री-प्रवेश-

पूर्वक- -कम्^d पप ४१८: २०.

सावित्र-रूप- -पम् पा

७, ७.

सवित्रा(तु-आ)ख्य- -ख्यः मैत्रि

६, १६१^०.

१सूत^१-

सूत-ग्रामणी- -व्यः वृ ४, ३,

३७; ३८.

सूत-पुत्र- -त्रः गी ११, २६.

√सू(प्रसवे), सूते त्रिता १, २०^१.

सूयते मन्त्रि ४; गी ९, १०;

सूयन्ते मैत्रि ६, १६.

सुवे दे ३५^०.

सुसुवे पा ८, ६.

सू- सूः बां १३.

२सूत-

सूत-क- -कम् ते ६, २९; सिशि

३८१: १७; -के मैत्रे २, ७.

सूतिका^१- -कानाम् शि

५, ३.

सूतक-द्वय-संप्राप्ति- -सौ

मैत्रे २, १३.

a) प्राप्त. । b) बस. । c) बस. उप. <√हे । d) लौ° इति निसा. ? यनि. शोधः द. (तुं. निसा. संदि., अज्या.) । e) तैत्र्या १०, ६३, १ । f) पा ५, ४, १५० । g) °दु° इति अज्या. । h) तु. गपू. पृ ५७३ । i) ऋ १०, ३६, १४ । j) ऋ ५, ८२, ४ । k) वैप१ यद. । l) मा ११, २ । m) ऋ ५, ८२, ४; ५ । n) मां ११, १ । o) मा ११, ३ । p) तैत्र्या १०, १, १२ । q) तैत्र्या १०, ३५ । r) तैत्र्या ३, १०, १, २ । s) मा १, १ । t) पां. ? यनि. शोधः द. । u) ऋ १, ३५, २ । v) ऋ ५, ८२, १ । w) ऋ ३, ६२, १० । x) ऋ ५, ८१, १ । y) 'षदवीः' इति ऋ ९, ९६, ६ । z) =देवीविशेष-, विद्याविशेष-, तदाख्योपनिषद्विशेष- । a') तैत्र्या १०, २१, १ । b') विप. । c') °त्री इति अज्या. । d') का. क्वि. द. । e') °विता° इति पा. ? (तु. सात.) यनि. शोधः द. । f') =सारथि- । g') ऋ १०, १२५, ७ । h') पावा ७, ३, ४५ ।

सूतका(क-अ)ञ- -ञम् भव
 ४, १२.
 सूक्ति- -त्ये वृ ६, ४, २२५^६.
 सूतु^b- -तुः प्रा २, १.
 सूकर^{१०}- -रः इ १६ : १०.
 सूकरी-
 सूकरी-विष्ठा-स(म>)मा-
 -मा नाम ५, ३.
 सौकर- -रम् राष्ट्र ४, ५६.
 सूकर-मूत्र- -त्रम् १संन्या २, ७५.
 सूकर-योनि- -निम् छां ५, १०, ७.
 सू(सु-उ)क्त- -क्तस्य वृजा ३, १२^d;
 व ४५९:१६५^{११}.
 सूक्त-वाक- -कः प्रा ३-४, १.
 सूक्ष्म, क्ष्मा^१- -क्ष्मः गौ २, २३; मै २,
 ५; मैत्रि २, ५; मैत्रे १, ४, ११;
 अशि ३, ५; ४, ११; ते ३, २९;
 आबो ४; योक् ७५; १आ १;
 २आ ३; पा ८, १; वटु ३१५:५;
 ३१६ : २; अट्टेमा १३; -क्ष्मम्
 हं १११^१; मना २, १३, २५^६; अना
 ४; अशि २, २३; ३, ६; ७; ११;
 १२; ४, ११; १२५^{११}; वृज २, १७;
 ससा १, ३८^b; ते १, १; २, ११;
 नाद ३६; ३७; त्रिबा २, १५९;
 योशि १, ६७; २, १४; १५^१; १७;
 ५, २८; ३४; ६, ९; अञ ५,
 ६५; अध्या ६२; करु ३२; यो
 ३, १७; जाद ३, ८^१; वरा २, ६८;
 च २१:२०, २१; पा ७, ७; सार
 २५५:२; वटु ३१४: १८;
 ३१५: ५; ६; १२^१; ३१६: २;
 ३५^{११}; सि ६, ४१; स३७९:१५;
 १६; भव ३, ५; पित्र ६, १२;
 सांका ३७; ऋम् १, ४, २; ४, २,

९; -क्ष्मया क १, ३, १२; महा
 २, १२; -क्ष्मा ते १, ५^१; ब्रवि
 १०; राष्ट्र ४, ५९१^{११}; शां १, ४;
 १प्र ३१:१७; -क्ष्माः त्रिबा २,
 ७५^{११}; ७६; सार २६६: ११;
 व ४३४: १; सांका ३९^१; योसू
 २, १०; -क्ष्माणि श्वे ५, १२; पै
 १, २७; करु १५; सार २६६:
 १४; -क्ष्मात् मुं ३, १, ७; कै १, १६;
 त्रिवि ७, १७; योशि १, ४२;
 २शिसं १२; गु ३६; -क्ष्मान् पा
 २, ८; -क्ष्माम् शां १, ३, ९;
 -क्ष्मे नाद ३७; स ३७९:१६;
 -क्ष्मेण अशि ३, ७; पै ३, १; च
 २१: २१; वटु ३१५:६; -क्ष्मै:
 श्वे ६, ३; पा १, १०; गु ५५.
 सौक्ष्म्य- -क्ष्म्यात् मैत्रि २, ७;
 महा ५, ९९; सूना १, ८; सांसू
 १, १०९; ३, २२; सांका ७, ८;
 गौ १३, ३२.
 सौक्ष्म्य-त्व- -त्वात् मैत्रि ६,
 १४.
 सूक्ष्म-क- -कः महा २, ३.
 सूक्ष्म-तन्मात्र- -त्राणि पै १, १८.
 सूक्ष्म-तम- -माः त्रिबा १, ७.
 सूक्ष्म-तर- -रः योशि १, ४२; -रम्
 मुं ३, १, ७; कै १, १६; नाद ३६;
 त्रिवि ७, १७; २शिसं १२; गु
 ३६; -राः सार २२५:१२; -रान्
 अञ ३, १३.
 सूक्ष्मतर-तेजस्- -जसा सार
 २६४: १४.
 सूक्ष्मतर-मणि-घटिका-
 -काभ्याम् सार २४४: २२.
 सूक्ष्मतर-मार्ग- -र्गः सार २३५:

१५.
 सूक्ष्म-तस(>:) वृजा ३, २८.
 सूक्ष्म-त्व- -त्वात् मै २, १०; वृज
 १, ४; २, ५-७; नाप ८, ६;
 योशि २, ९; गौ १३, १५.
 सूक्ष्म-दर्शिन- -र्शिभिः क १, ३, १२.
 सूक्ष्म-देह-विवर्जित- -तः ते ४,
 ७३.
 सूक्ष्म-द्वार- -रम् १योत ३२.
 सूक्ष्म-नाडि- -डिषु वरा २, ६१.
 सूक्ष्म-प्र(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञः वृज १, ७;
 नाप ८, ९; -ञम् वृज १, १२; नाप
 ८, १९.
 सूक्ष्म-बीज- -जात् योशि ३, ३.
 सूक्ष्म-भावन- -नः नाप ८, १४.
 सूक्ष्म-भुज- -भुक् वृज १, ७; नाप
 ८, ६^०; १०.
 सूक्ष्मभुक्-त्व- -त्वात् वृज १, ४.
 सूक्ष्म-मार्ग- -र्गम् मं १, २, ३.
 सूक्ष्म-युत^१- -तः राष्ट्र ४, ६१.
 सूक्ष्म-रूप- -पम् सार २७२:१६;
 सिशि ३८३ : २; -पेण योशि २,
 १९; ६, ४९.
 सूक्ष्मरूपा(प-आ)त्मन्- -त्मा ते
 ४, ४३.
 सूक्ष्म-लता- -ताः सार २७१ : ४.
 सूक्ष्म-लता(ता-अ)न्तर- -रे सार
 २८३:१७; -रैः सार २३४:२.
 सूक्ष्म-विद्- -विदः गौ २, २३.
 सूक्ष्म-विष(य>)या- -या योसू १,
 ४४.
 सूक्ष्मविषय-त्व- -त्वम् योसू १,
 ४५.
 सूक्ष्म-व्यवहित-विप्रकृष्ट-ज्ञान-
 -नम् योसू ३, २६.

१) 'सूक्ष्मे' इति ऋ १०, १८४, ३ । b) = १पुत्र- । वैप १ यद्र । c) = वराह- । वैप १ यद्र । d) सूत्र^० इति
 अच्चा. संदि. । e) व्यु. १ । f) पा. १^० क्ष्मम् इति शोषः द्र. । g) तैश्चा १०, ११, २ । h) °क्ष्मः इति आन. । i) तु. गपू.
 पृष्ठ ८३ । j) हिरण्यगर्भसु^० इति अच्चा. । k) °क्ष्माम् इति अच्चा. । l) 'कलासूक्ष्मम्' इति आन. । m) सुसू^०
 इति निसा., अच्चा. १ यनि. शोषः द्र. (तु. आन.) । = इकार-बीजाक्षर- । n) सङ्घत् स्थूलसू^० इति निसा. । o) °क्ष्मभोगतः
 इति अच्चा. । p) पप. = इकार-बीजाक्षर- ।

१ सूक्ष्म-शरीर^a- -रम् त्रिवि^b, १३;
वउ ४, १८.
२ सूक्ष्म-शरीर^b- -रः पै ४, १२.
सूक्ष्म-श्रवण^c- -णाय सुद्र २.
सूक्ष्म-सूक्ष्म- -क्षमाय पा १०, ५.
सूक्ष्मसूक्ष्म-तस(>) नाद ३३;
३५.
सूक्ष्मसूक्ष्म-रूप- -पम् सार
२८० : १८.
सूक्ष्म-स्थ- -स्थः योचू ७२.
सूक्ष्म-स्वर- -रम् सार २८५ : ३.
सूक्ष्म-स्वरूप-किरण- -णैः सार
२६४ : १२.
सूक्ष्मां(क्षम-अं)श- -शे वरा ४, १३.
१ सूक्ष्मा(क्षम-अ)ङ्ग^b- -ङ्गम् पै ३, १;
-ज्ञानि मं १, १, ११.
२ सूक्ष्मा(क्षम-अङ्ग^b)ङ्गी- -ङ्गी
अता ५.
सूक्ष्मा(क्षम-अ)तिसूक्ष्म- -क्षमम् श्वे
४, १४; गु ५७.
सूक्ष्मा(क्षम-आभ >)भा- -भा
योशि २, १२.
सूक्ष्मा(म-अ)वयव(व >)वा- -वा
गार ४०७ : १९.
सूक्ष्मा(क्षम-अ)ष्टा(ष्ट-अ)क्षर- -रम्
ता २, १.
✓ सूच, > चि, सूचयसि मै ३, १; मैत्रि
३, १.
सूचयते ब्रसू १, ३, ३४.
सूचक- -कः ब्रसू ३, २, ४.
सूचक-स्व- -स्वात् योशि २, ११.
सूचन- -नात् ब्र २; नाप ३, ७८;
पत्र ३, २.
सूचि, ची^{१३}- -चीभिः आषे ७ : ६;

-चीम् शि ६, २३६; -च्या पा ७, ४
सूचि-क^{१३}- -कम् शि ६, २३७.
सूचिका^{१३}-
सूचिका-गृह-
सूचिकागृहे-तर^{१३}- -रम्
सौ ३, १.
सूचि-वत् ध्या ६७.
सूची-वत् योचू ३८.
१ सूत- ✓ सू(पेरयो) द्र.
२ सूत-, सूतक-, सूति-, सूतिका-
✓ सू(प्रसवे) द्र.
सूति(श्चि^१)काग्राम(श्म^१)- -म(श्म^१)म्
योरा १६.
सूत्र^d- -त्रम् वृ ३, ७, १३; २; आरु ३;
ससा १, २८; ब्र ३, १, ४; ते २,
१४; ६, २८; नाप ३, ७७; ७८^१;
७९-८०; ८४; योशि २, ११; अक्ष
३; पत्र ३, १; २^१; ३-५; ८; रुजा
१, १९; २ प्र ३४: ३९^१; म ४९:
१८; शि ५, ५१; ६, २८३;
-अस्य ब्र २; नाप ३, ८०; पत्र ३,
४; -आणि वृ २, ४, १०; ४, १, २;
५, ११; मैत्रि ६, ३२; अक्ष १; लिं
३१० : ११; गु २६; १ कौल ८ :
१; -त्रे ब्र २; ध्या ६; नाप ३,
७९; योशि १, ११९; पत्र ३, ३;
२ प्र ३४: ३९^१; गी ७, ७; -त्रेण
छां ६, ८, २; वृ ३, ७, २^१.
सूत्र-त्रय- -यम् अक्ष २.
सूत्र-दामन्- -ज्ञा शि ६, १३७.
सूत्र-यन्त्र- -न्त्रेण मैत्रि ६, २६.
सूत्र-वल्कल-वाल- -कैः शि ६,
२७५.
सूत्र-विद्- -विदः ब्र ३, १; नाप ३,

८१; पत्र ३, ५.
सूत्र-संयुत- -तम् शि ६, २३७.
सूत्रा(क्ष-आ)त्मन्- -त्मा पै २, २७;
योशि ३, १६.
✓ सूद्र^{१३}(^१सूद्रकर्मणि)
सूद्र^{१३}-
सूद्र-वत् सांसू ३, ६३.
सू(सु-उ)द्यम- -मम् महा ५, ८८.
सूनु- ✓ सू(प्रसवे) द्र.
सूनुत, ता^b- -तानाम् सर २, ४९^१;
-ताम् क १, १, ८.
सूप^{१३}- -पम् १ संन्या २, ७५.
सूप-कार^{१३}-
सूपकार-वत् सांसू ३, १६.
सूयमान- ✓ सू(अभिषेवे) द्र.
सूर^d- -राः श्वे २, ५९^१.
सूरि^d- -रयः आरु ५९^१; वृजा ८, ६९^१;
वृष ५, २१९^१; मैत्रे २, २५; सुबा
६९^१; स्क १४९^१; राउ ७, २९९^१;
पै ४, २३९^१; त्रिता ४, १८९^१;
२१९^१; ता ३, ९९^१; गोपू २७९^१;
वरा ५, ७६९^१; सु २, ७७९^१; पा
१, १०; सं शां ९^१; भव ३, ४; -रिः
पा १०, २^१; -रिभिः योशि ६, ९.
१ सूर्य, र्या^d- -र्य ई १६; वृ ५, १५,
१९^१; सूता २, ७९^१; ८९^१; -र्यः क
२, १, ९; २, ११; १५; ३, ३; प्र १,
८; २, ५; ९; सुं २, १, ५; ६; २,
१०; तै २, ८, १; छां ४, ३, १; ७,
३; वृ १, १, १; ४, १०; ५, २३;
६, ३, ६९^१; श्वे ६, १४; मै ५, ५;
७; ८; मैत्रि ६, ५; ७; ८; १२; १४;
३७; मना १, २९^१; २, १२,
३९^१; २, ३९^१; ३९९^१; ४४९^१;

a) कस. । b) बस. । c) उप. = २श्रवण- । d) वैपश् यद्र. । e) पूष. सप्तम्या अलुक् । उप. कर्तरि < ✓ वृ ।
f) पा. ? यनि. शोषः द्र. । g) बप्रा. वैपश् यद्र. । इह = १ब्रह्मन्-, तन्तु-, यज्ञोपवीत-, ग्रन्थविशेष-, रचनाविशेष-
प्रसू. । h) व्यु. ? वैपश् यद्र. । i) अ १, ३, ११ । j) व्यु. ? = २व्यजन- । k) तैसं ४, १, १, २ । °रेः इति अ १०,
१३, १; आन. । l) अ १, २२, २० । m) सकृत् सुरिसु^१ इति पा. ? यनि. च 'उक्कः' इति च शोषः द्र. । n) का ४०,
१, १६ । o) खि १, ५०, २ । p) अ १, ५०, ११ । q) अ १, ९०, ८ । r) 'आदित्युः' इति मा ३२, १ । s) अ ४,
५८, ४ । t) तैआ १०, २५, १ । u) तैसं ३, ३, १, २ ।

अशि २, ७; वृजा ८, ६; वृषू १, ८; २, १४^०; ४, ८; १५, २८; ५, २०; सुबा १९^०; नि ६; २१; ध्या ११; आबो २६; नाप ९, २०; त्रिवि ७, ४४^०; राउ ४, २७; महा १, १^०; योशि १, १३३; ५, ३३; अञ्ज ५, २९; सू ७९^०; २०; २२; २५; अन्ति १; दे १३; रुह १९; म २, १०^०; ग ६; प्रा २, १^०; च २०: ३; चा ३; १८; सूता १, ६; १५; ३०; ३१; ३, २; ६, १३; नापू १, ६; ८९^०; नाउ २, १०; पा ५, ५; सार २७२: १०; २८०: १७; वट्ट ३१३: ९; गु ४५; ५२; व ४३७: १७^०; ४६१: २१^०; ४६४: १७^०; २३; वपू २, १; वउ २, २; २७; ३, ४१; ४९; ४, ४; १६; गी १५, ६; -र्यम् छां ३, १७, ७९^०; ब्रवि १०; रार १, ७; योशि १, ७५; इ १८: ११; १प्र ३१: १८; सूता १, ६; १९; शि ५, ५२; व ४६२: ३; वउ ५, ७; -र्यस्य मुं १, २, ५; ६; मना २, १६^०; ७९^०; ब्रवि ५७; सू २५; म २, ५; सूता ६, १४; पा २, ९; नी २, २०^०; -र्या यो १, २१^०; सुबा ६; सौ १, ३९^०; -र्या: सूता १, ८; -र्यात् मैत्रि ६, २६; ३१; सू ७; ८; १९; -र्यान् वउ ३, २४; -र्याम् सुबा ९^०; -र्याय हं ११; मना २, ६७^०; गोउ ६६; चा ९^०; सूता ४, ३; शि ५, ५२; व ४३७: ७; -र्ये प्र ५, ५; मना २, ३२^०; शां १,

७, ५२; सू २०; गोउ १५; इ १८: २३; योस् ३, २७; -र्येण नाप ५, २०; योचू ६४^०; २५; शां १, ७, १^०; योशि १, ९७; सू २०; यो १, १६; ३५; इ १२: ८; अह १६^०.
सौर--र: मै ५, २; मैत्रि ६, २; अद्वैभा ५; -रम् मैत्रि ६, ३०; त्रिता ४, ३०; -रान् त्रिता ४, १५; -रे त्रिता ४, ३१; -रेण त्रिता ४, २९.
सौर-क-कै: वृजा ३, १०.
सौर-मनु--न्नि सूता ३, १.
सौर-सौम्या(म्य-आ)शेष-सात्त्विक-कानि मैत्रि ६, ३८.
सूर्य-क-सूर्यका(क-आ)दि-सूर्यकादि-वत् ब्रसू ३, २, १८.
सूर्य-कान्त-मणि-णिना सार २३७: ४.
सूर्य-कोटि-धृति-धर-रम् त्रिबा २, १५३^०.
सूर्य-कोटि-सम-प्रभ-भम् त्रिबा २, १५५.
सूर्य-ग्रहण-णम् जाद ४, ४७; -गे ग १८^०.
सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-आणि सार २८०: २१.
सूर्य-चन्द्र-मण्डल-दर्शन-नम् अता ९.
सूर्य-चन्द्रा(न्द्र-आ)ग्नि-देवता-ता: सार २७१: २३.
सूर्य-चन्द्रा(न्द्र-आ)ग्नि-वर्चस-वर्चस: ध्या ३५^०.

सूर्य-चन्द्रो(न्द्र-उ)पराग-कालो-(ल-उ)चित-तै: सार २३१: १६.
सूर्य-द्वार-रेण मुं १, २, ११.
सूर्य-नाडी--डी सौ ३, १; -ज्या योशि ४, ९१.
सूर्य-नारायण-ण: त्रिवि १, ११.
सूर्य-निभ-भम् मं ४, १, ३.
सूर्य-पूत-त: अशि ७, ३; च २१: ९; वट्ट ३१८: ५.
सूर्य-भक्त-क्त: सूता २, ५.
सूर्य-भेद-दम् योशि १, ८८; १२^०; यो १, २६.
सूर्य-मण्डल--लम् मैत्रि ६, ३०; मं २, १, ५; १प्र ३१: ११; -ले सार २३५: ३.
सूर्यमण्डल-मध्य-ध्ये ब्रवि ७^०.
सूर्यमण्डल-मुष्टिक--क ग ४७.
सूर्यमण्डला(ल-आ)कृति-ति: प्रा २, १.
सूर्यमण्डला(ल-आ)न्तर-गत-त: त्रिवि १, ११.
सूर्यमण्डलान्तर्गता(त-आ)-नन्त-दिश्य-चरणारविन्दा-(न्द-आ)ङ्गुष्ठ-निर्गत-निरतिश-यानन्दमयामृतनदी-प्रवाह-हम् त्रिवि ५, १२^०.
सूर्य-मरीचि-सूर्यमरीचि-वत् २योत २, २.
सूर्य-रश्मि-रश्मि: २शिसं ११.
सूर्यरश्मि-वत् शि ५, ४१.
सूर्य-राज्य-ज्यम् मैत्रि ६, ३६.
सूर्य-रूप-प: योशि ५, ३२; सार २६४: १२.

a) तैआ ८, ८, १। b) ऋ १०, ९०, १३। c) तैआ १०, १५, १। d) ऋ १, ११५, १। e) ०र्याग्नि: इति अज्या। f) ऋ ८, १८, ९। g) तैआ ४, ३९, १। h) मा २०, २१। i) तैआआ १०, १६। j) तैआ १०, ६३, १। k) मा १३, ८। l) =कुम्भकप्रणायामभेद-। m) =देवीविशेष-। n) तैआआ १०, ६७। o) तैआ १०, २५, १। p) ०र्यसम इति अज्या। q) तैआ १, २७, २। r) उप. =१मनु-। s) ०तिरथम् इति निसा। t) ०हे इति निसा। u) 'बोधचन्द्राग्निसूर्यकम्' इति निसा., 'बोद्धं चन्द्राग्निसूर्ययोः' इति आन.। v) ०लम् इति आन.। w) ०मयापर इति निसा., ०लानन्त इति अज्या. संटि.।

सूर्यरूपि(न>)णी-णी अता
५; योशि ६,९.
सूर्य-लोक^क- -कम् भ २,२५
सूर्यलोक-काम-मः भ २,२५.
सूर्यो(र्य-आ)लोक-परिस्पन्द-
शान्ति-न्तौ शां १,७,२६.
सूर्य-वंश-
सूर्यवंशिन्-
सूर्यवंशी(१शि^१)-कमल-
-लानि सार २६७ : २०.
सूर्य-वर्चस्- -र्चसि अव्य ६.
सूर्यवर्चस्-विन्- -वी ग १८.
सूर्य-संसद्- -सदम् सूता ६, १४;
१५.
सूर्य-संका(श>)शा- -शा प्रवि १०;
१प्र ३१ : १८१^b.
सूर्य-सम^०- -मः वउ ५,२२.
सूर्य-समन्वित- -तम् ध्या ९०.
सूर्य-सहस्र- -स्रस्य गी ११,१२.
सूर्य-सोम-मण्डल- -ले त्रिवि ५,
१२.
सूर्य-सोमा(म-अ)ग्नि-परमेश्वर- -राः
योशि ६,१०.
सूर्यो(र्य-अं)श- -शेन योचू ६७.
सूर्यो(र्य-आ)काश- -शम् मं १, २,
१३; ४,१,२; ३; अता ७.
सूर्यो(र्य-अ)क्षय(क्षि-अ)ध्यात्म-
कुण्डिका^१- -का सु १, १, ३६.
सूर्यो(र्य-अ)ग्नि-वाक्-चन्द्र-तेजस्-
-जसा गोउ ५४.
सूर्यो-चन्द्रमस्- -मसोः मना २,
८०^१; योचू ९८; शां १,७,१;
योशि १,६८; १३३; त्रिता १,४२;
-मसौ छां ७,१२,१; ८,१,३; वृ
३,८,९; मना १,१४^१; वृजा ६,
१२; वृपू ५, ८; त्रिता २, ६८;

गोपू १२; पित्र १,१३^३; १^१.
१सूर्योचन्द्रमस्-क- -केन त्रिता
१,६६.
२सूर्यो-चन्द्रम(स्क>)स्का- -स्काम्
त्रिता २,२४.
सूर्यो(र्य-आ)त्मक-
सूर्यात्मक-त्व- -त्वम् आपू ४.
सूर्यो(र्य-आ)त्मन्- -स्मा वृजा २, २;
योशि ५, १९.
सूर्यो(र्य-अ)थर्वाङ्गिरस्- -रसम् सू१.
सूर्यो(र्य-आ)दि- -दयः ह ९; सूता
५, ६^१.
सूर्यादि-सकल-भुवन-प्रका-
शि(न>)नी- -नी सी १४.
सूर्यो(र्य-अ)धस्(>:) त्रिता १, ४०.
सूर्यो(र्य-अ)न्त- -न्ताः १संन्या २, २२
सूर्यो(र्य-आभ>)भा- -भा मं १,
२, ६.
सूर्यो(र्य-अ)भिमुख- -खः सू २७;
२९.
सूर्यो(र्य-अ)युत-प्रभा-दीस- -सैः
शि ६, २१४.
सूर्ये(र्य-इ)न्दु-गुरु-दीपादि-गो-ब्रा-
ह्मण-समीप-
सूर्येन्दुगुरुदीपादिगोब्राह्मण-
समीप-तस्(>:) रार ४, ४.
सूर्ये(र्य-इ)न्दु-वह्नि-मण्डल-
-लानि त्रिवि ७, १३; २७.
सूर्ये(र्य-इ)न्दु(न्दु-अ)ग्नि-कला-
स्वरूप-
सूर्येन्द्रशिकलास्वरूप-त्व- -त्वेन
पत्र २.
सूर्यो(र्य-उ)पस्थान^१- -नम् नाप ४,
३८.
२सूर्य^१-
सौर्य^१-
सौर्याय(शि^१>)णी^b- -णी प्र

१,१; ४,१.
√सृ
सरण- -णम् छां १, ३, ५.
सरणि- -ण्या सार २५० : १७.
सृति- -तिः वृ ४, २, ३; -ती वृ ६,
२, २९^१; वरा ४, ३६; गी ८, २७;
-तीः भव १, ५; -स्ये गोपू २९.
सृत्यु(ति-उ)पक्रम- -माव् ब्रसू
४, २, ७.
सृङ्गा^१- -ङ्गाम् क १, १, १६; २, ३.
√सृज् > सिसृञ्, सृजते सुं १, १, ७;
छां ७, ११, १^१; वृ १, ४, १५; ४, ३,
१०^१; श्वे ४, ९; ब्र ३, ११; त्रिता १,
१७; इ १२: १९; गु ५४; सृजति
ब्र १; वृपू २, ८; ९; ३, २; ते ५,
८८; शां २, १; त्रिता ४, ९;
गु २६; वपू २, २; गी ५, १४;
सृजन्ति ब्र १^१; सृजसि वउ ३,
६०; सृजामि गी ४, ७; सृजत
त्रिता ३, २; सृजे ऐ १, १; ३;
३, १; सृजानि पाशु १, १; अ-
सृजत प्र ६, ४; ऐ १, २; तै २, ६,
१; छां ६, २, ३^१; वृ १, २, ४; ५^१;
४, ४; ६^१; १२; १३; मैत्रि २, ६^१;
वृपू १, २; वपू १, २, ४; असृजत्
मै २, ६; मैत्रि ७, ९; सुबा १^१;
२^१; पै १, २१-२४; २५^१; २, ९;
१२; १३; १६; व १; गोच ६९;
१२^१; असृजन्त छां ६, २, ४; वृ
५, ५, १; मना २, ७९^१; वृपू
१, १४^१; असृजन् सुबा १; अ-
सृजम् गोपू २, ५^१; सृजेव वृजा ३,
५; सर ३, १८; सृजेय ना १; सं
२; सृजेयम् वृजा १, १; वृपू १,
१; अव्य ६; गोच ६९: १०;
सृजेम त्रिता ३, १०.

a) पा.१ यनि. शोधः द्र. । b) पा.१ °शः इति शोधः द्र. । c) उप. = १सम- । d) तैआ १०, ६४, १ ।

e) ऋ १०, १९०, ३ । f) °योदये इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । g) व्यु! = गोत्रप्रवर्तकऋषिविशेष- । h) छान्दसो दीर्घः (उ. शं.) । i) 'सृती' इति ऋ १०, ८८, १५ । j) व्यु! = माला- । k) 'सृज्यन्ते' इति निसा. । l) 'असृजत्' इति सात. । m) तैआ १०, ६३, १ । n) 'अजस्रम्' इति निसा. । o) °जेयम् इति अख्या. ।

ससृजे वृ १, ५, २१; ६, ४, २;
 २प्र ३२:१; असृक्षि वृ १, ४, ५.
 सर्गादि- -र्गः सांका २१; २४;
 ५२-५४; गी ५, १९; -र्गस्य सांका
 ६६; -र्गाणाम् गी १०, ३२; -र्गे
 सर ३, २३; गी ७, २७; १४, २;
 -र्गेषु क २, ३, ४.
 सर्गा-कारण- -णम् त्रिता २, ६.
 सर्गा-परंपरा- -रा: वरा ३, २२.
 सर्गा-ब्रह्मन्- -ब्रह्मणो: सर ३, २१.
 सर्गा-बुन्द- -न्दानि महा ५,
 १६१.
 सर्गा-सामर्थ्य- -र्थ्यम् द २०.
 सर्गा-स्वर्गा(र्ग-अ)पवर्गा-हेतु-
 -तु: मैत्रि ६, ३०.
 सर्गा(र्ग-आ)दि- -दौ महा ४,
 ५५; गु ३१; ७८.
 सर्गादि-रक्षण- -णाय पा ३, ४.
 सर्गा(र्ग-आ)दि-काल- -ले द
 २०.
 सिसृक्षत्- -क्षत: गोपू २५^१.
 सिसृक्षमाण- -ण: अव्य ५.
 सृजमा(न>)ना- -नाम् श्वे ४, ५९^१.
 सृ(ज>)जा- -जानाम् वपू १, १.
 सृज्यमान- -ने गौ ३, २३.
 सृष्ट, ष्टा- -ष्ट: २प्र ३२: १; सार
 २४६: ५; -ष्टम् ऐ ३, ३; नृपू २,
 ३; ७; सर ३, १२; पा ६, २; गु
 ४३: वपू २, ३; भव २, ३; गी ४,
 १३; -ष्टा: ऐ २, १; अव्य ६; वपू
 १, २; -ष्टानि वृ १, ५, २१; पै १,
 २५.
 सृष्टवत्- -वान् वड ४, ११.
 सृष्टि^१- -ष्टये गोपू २५; -ष्टि: वृ १,
 ४, ५^३; गौ १, ७-९; २, २८; ३,
 १५; महा ४, ७३; योशि ६, २^३;
 वरा २, ५४; सौ १, ३; नापू १,

१८; सार २२०: १; १६; २२१:
 २३^३; २२२: १; २४५: १८; २१;
 २५७: ६; २६०: ११; २७८:
 १६; २८३: ४; २८९: १४; वड
 ३, ४७; सांसू २, ९^१; ३, ४७; ६,
 ४०; ४३; ब्रसू ३, २, १; -ष्टिम्
 मुद्र २; सार २२०: १८; २२१:
 २२; २२४: १०; वड ३, १९;
 २१; २५; ४५^१; -ष्टे: शु ३, ५; ते
 ५, ५१; मुद्र १, ९; पै १, १८;
 अव्य ३; सार २८९: २; सांसू २,
 ११; -ष्टौ गौ १, ८; योचू ७२; सार
 २८२: १८; -ष्टयाम् वृ १, ४, ५.
 सृष्टि-कर्तृ- -र्तृभि: सार २३५:
 १६.
 सृष्टि-कर्मन्- -र्म मुद्र २.
 सृष्टि-काल- -लात् सिशि
 ३८२: ६.
 सृष्टि-चिन्तक- -का: गौ १, ७.
 सृष्टि-निमित्त- -त्ताय पा १०, ४.
 सृष्टि-निवृत्ति- -त्ति: सांसू ३,
 ६३^१.
 सृष्टि-पर्यन्त- -न्तम् गोड ३०^०.
 सृष्टि-प्रणव- -व: नाप ८, १.
 सृष्टि-यज्ञ- -ज्ञ: मुद्र १, ६; ७;
 -ज्ञम् मुद्र २.
 सृष्टि-योग- -गेन त्रिता २, ४७.
 सृष्टि-रूप-गुण- -दायिन्-
 -यिने सार २७७: ११.
 सृष्टि-रू(प>)पा- -पा नापू २, ७.
 सृष्टि-लय- -यौ वरा ५, ७५.
 सृष्टि-लिङ्गक- -कम् वड ४, ३७.
 सृष्टि-विद्- -विद: गौ २, २८.
 सृष्टि-वैविध्य- -व्यम् सांसू ६,
 ४१.
 सृष्टि-समुत्पन्न- -न्नाभ्याम् सार
 २४७: १७.

सृष्टि-स्थिति-लय^१- -यस्य रापू
 २, १^१; -यान् सार २५८: १४;
 -यानाम् पै १, ८.
 सृष्टिस्थितिलय-कारण-
 -णम् वि १.
 सृष्टिस्थितिलया(य-आ)दि-
 -दीनाम् पं १२.
 सृष्टि-स्थिति-संहार-कर्तृ- -र्ता
 गी ४२२: १७.
 सृष्टि-स्थित्य(ति-अ)न्त-करण-
 -णात् भव २, ५५.
 सृष्टि-स्थित्य(ति-अ)न्त-कृत्-
 -कृत् पै २, १.
 सृष्ट्य(ष्टि-अ)तिरि(क>)का-
 -क्ता सार २७८: १६.
 सृष्ट्या(ष्टि-आ)दि- -दौ ग १३;
 सार २५५: २०; २५७: १४;
 २८५: १३; २८९: १५.
 सृष्ट्यु(ष्टि-उ)त्पन्न- -न्ना: सार
 २५१: ४.
 सृष्ट्वा ते २, ६, १; वृ ६, ४, २; श्वे
 ५, ३; नृउ ९, ८; नि १५; श ८;
 त्रिभा १, २^१; मुद्र २; गु ६४; गी
 ३, १०.
 सृति- ✓सृ द्र.
 ✓सृप्, सर्पति सांसू ५, १०७; सर्पन्ति
 छां १, १२, ४; सर्पेत् सि ७, ३६.
 सर्प^१- -र्प: आबो २९; मुद्र ३; वरा
 २, ६७; -र्पम् नाद २६; -र्पा: छां
 २, २१, १; मुद्र ३; गृह २५;
 -र्पाणाम् गी १०, २८; -र्पां गृह
 २५; -र्पेभ्य: नी २, १८९^१; १९९^१;
 २१९^१; ९^१व ४४३: ५; ६; ४४८:
 १३; १४; ४५२: १७, १८.
 सार्प^१-
 सार्पा(र्प-आ)द्य- -द्यम्
 मैत्रि ६, १४.

a) °क्षा इति आन. । b) 'जनयन्तीम्' इति तैआ १०, १०, १ । c) °ष्टे: इत्यपि पाभे. । d) °निर्द्धं
 इत्यपि पाभे. । e) आसृ° इति आन. । f) द्वसं. । g) वां.३ [वैतु उन्न.(अब्जा.) बसं. इति] । h) 'दृष्ट्वा' इति निसां.,
 अब्जा. संटि. । i) घा. अर्थ: वैपश् यद्र. । j) मां १३, ६ । k) मां १३, ८ । l) =आश्रेषान-सूत्रं- ।

सर्प-कुटिला(ल-आ)कार- रम्
सौ ३, १.

सर्प-ग्रह- -हः योशि ४, १.

सर्प-जन्मन्- -न्मनाम् त्रिब्रा
२, ५७^०.

सर्प-स्व- -स्वेन योशि ४, २२.

सर्प-देव-जन-विद्या- -द्या छां
७, १, ४^b; -द्याम् छां ७, १, २; २,
१; ७, १.

सर्प-धारा(रा-आ)दि- -दिभिः
गौ २, १७.

सर्प-निर्मोक- -कः वरा २, ६७.

सर्प-भ्रान्ति- -न्तिः नि २९.

सर्प-राक्षस-गन्धर्व- -र्वे सुबा
१३.

सर्प-राज-चोर-दुष्ट-मृगा-
(ग-आ)दि-सकल-भय-
-यम् व ४२८ : ३.

सर्प-रूप- -पम् नाद २७.

सर्प-वत् शां १, ७, ३७; सांसू ४,
१२.

सर्प-विद्- -विदः मुद्र ३.

सर्पा(प-आ)दि- -दौ आबो १२

सर्पा(र्ष-आ)भास-विनिर्गम-
-सौ १आ २७^d.

सर्पा(र्ष-उ)ल्लूक-काक-कपोतादि-
वृश्चिकाभिज्वालामण्डलाग्र-
-ग्रेण व ४३३ : १४^०.

सर्पा(र्ष-उ)ल्लूक-काक-कपोत-
वृश्चिक-दंष्ट्रा(ष्ट्र-आ)भि-विष-
-षम् व ४६५ : ७.

सर्पिं-

सर्पि-वत् २योत १, ८.

सर्पि(न्>)णी^०- -णी योशि ४, २.

सर्पिस्^०- -र्पिः छां ४, १५, १; ६;
६, १; श्वे १, १५; १६; मैत्रि ६,

२६; व्र ३, १०; १७; व्रवि १७;
इ १५ : ६; -र्पिषः इ १८ : ९;

-र्पिषा वृ ६, ४, १२.

सर्पिष्-पायस-कर्त्रे(म>)मा-
-माः इ १० : १०.

सर्पिष्-मत्- -मन्तम् वृ ६, ४,
१४-१८.

सृप्त,सा- -सः छां ८, ६, ३; वृ ३, ९,
२२; -साः छां ८, ६, २^१.

सुमर^०- -रः वा २१.

सृष्ट- , सृष्टवत्- , सृष्टि- , सृष्ट्वा
√सृज् द्र.

सेचन- , सेचयत्- √सिच् द्र.

से(स^१-इ)तिहास- -साः वृपू ४, १५,
१३; म २, २६.

से(स^१-इ)तिहास-पुराण- -णाः राज
४, ६.

१-२सेतु- √सि द्र.

सेदि^०- -दिः व ४४३ : २०५^१.

से(न>)ना^b- -नयोः गी १, २१; २४;
२७; २, १०; -ना वृ २, १, ६; कौ
४, ७; -नाः वृपू २, ८५^m.

सैन्य- -न्यस्य गौ १, ७.

सेना(ना-आ)दि-कल्पना- -ना रापू
१, १०.

सेना-नी- -नीः व ४६० : १५५ⁿ;
-नीनाम् गी १०, २४; -न्यः शौ
५१; १०१^०; ५२; १६; ५३; ६.

सेना-स्तम्भ- -म्भम् पी ४२२ : ३.

से(स^१-इ)न्द्र- -न्द्राः इ १३ : २.

से(स^१-इ)न्द्रि(य>)या- -याम् त्रिता
१, ७८.

√सेव्, >वि, सेवते १योत २२;
अच्छि ५; ६; जाद ४, ५८; शा
२७; सार २२४ : ७; ९; २२५;
२१; २५३ : २१; २६४ : ११;

२६९ : ४; गी १४, २६; सेवन्ते
त्रिवि ८, १८^१; सार २२४ : १;

२५६ : १; २६६ : २०; २६९ :
१८; २७३ : २२; २८३ : १२;

सेवे सार २७८ : ३; सेवामहे
त्रिता ४, ६; सेवेत व ४६५ : १२;
भव ३, १६.

सेवयेत योशि १, ८०.

सेवक- -काः सार २३१ : १२;
२५९ : १६; -कानाम् रापू ४,
६५.

सेवन- -नात् तुल ७० : ६.

सेवमान, ना- -नः नाप ४, ७; १संन्या
२, ८१; सार २२४ : ६; २२७ : ८;
२२८ : ९; २३१ : ६; २६४ :

१२; २८० : १९; २८३ : ८; -नम्
सार २२४ : १९; -ना सार २२४ :

२; २८६ : ६; -नाः सार २२३ :
२२; २२४ : ३; १०-१२; १५;
१८; २२; २२८ : २; २२९ : १७;

२३३ : ७; २३४ : ७; ९; २१;
२३८ : १२; २४२ : २३; २४३ :
१२; २६४ : १४; २६८ : २२;
२६९ : १; १७; २८२ : १३.

सेवा- -वर्वा गौ ४, ३४; -वा ते ४,
१३; शा १४; भव ५, १९; -वाः
सार २३६ : १५; १६; -वाभिः नाप

६, १८; -वायाम् सार २३६ : १४;
शि ७, ११९.

सेवा-कथा- -थायाम् सार
२२७ : १२; २३१ : ९.

सेवा-पर- -राय सु १, १, ४९.
सेवा(वा-क)थ- -थे सार २६३ :
२३.
सेवा-विधि- -धिम् सार २३६ :
५१^p.

a) °वैजं इति अख्या. संटि. । b) °वैदे° इति निसा. ? । c) समाहारे द्वस. । d) संवा° इति निसा. संटि. ।

e) वा. ? । f) =सर्पिस्- । g) धा. अर्थः ? । h) वैप१ यद्र. । i) व्यु. ? =पशुविशेष- (तुं. बांटी.) । j) =स । k) व्यु. ?
=अभितनूविशेष- । वैप१ यद्र. । l) तैश्चा ४, २३, १ । m) ऋ २, ३३, ११ । n) ऋ १०, ८४, २ । o) °न्याः इति
पा. ? यति. शौचः द्र. । p) °बाव° इति पा. ? यति. शौचः द्र. ।

सेवित- -तः योचू ११८; महा ५,
७१; शां १,७,६; -तम् वृषू १,
३; योचू १; गोउ ५१; सार
२२५: १९; २२८: १; २३०:
२१; २३८: ८; २७०: २; वपू
१,६.
सेवितव्य- -व्यः भव ५, ११;
-व्यानि तै १,११,२.
सेव्य- -व्यः ते १, २७; सु २९४:
१६; -व्यम् द१०; पं१३; -व्या:
स्व ६२: ३; सार २३६: १७;
२५०: ८.
सेव्य-रूप- -पाः सार २५३:
२३.
सेव्यमान,ना- -नः द ८^६; सार
२६९: ५; -नम् गरु ५; सार
२२९: १८; -ना सार २२८: ५;
२६९: ८^६^b; -नाः सार २२३:
१०; २२५: १; २; २३७: ३;
२८३: २३; २८५: २१; -नाम् कै
१, १.
सैकत- सिकता- द्र.
सैतव- √सि द्र.
सैन्धव- रसिन्धु- द्र.
सैन्धव^०- -वः मैत्रिदि, ३५; -वम् कौ
२, १४; शां १, ७, २१; योशि १,
१६३; वरा २, ७५; शि ६, ७६.
सैन्धव-खिल्य- -स्यः वृ २, ४, १२.
सैन्धव-वन- -नः वृ ४, ५, १३.
सैन्धव-प(थ्य>)ध्या^०- -ध्याभ्याम्
यो २, ३०.
सैन्धव-पिण्ड-
सैन्धवपिण्ड-वत् त्रिब्रा२, १६४;

२अव ३३८: ६.
सैन्य- सेना- द्र.
सो(स^०-ञो)कार- -रेण अक्ष ४.
सोढव्य-सोढम् √सह द्र.
सो(स^०-उ)त्क(ण्ठ>)ण्ठा^{१b}- -ण्ठा
सार २८२: ८.
सो(स^०-उ)त्साह,हा- -हम् सार
२७८: १७; -^१हा सार २६३:
४; २७२: ३; २८२: ८; -हा:
सार २६९: १७.
सो(स^०-उ)दक- -कैः बि २०.
सो(स^०-उ)दया(यञ)स्तमय- -येषु
महा २, ५९.
सो(स^०-उ)पकरण- -णम् शिदि, २०४
सो(स^०-उ)पक्रम- -मम् योसू ३, २२.
सो(स^०-उ)पनयन- -नात् आरु ५.
सो(स^०-उ)पनिषद्- -षदः भ २, २६.
सो(स^०-उ)पलम्भ- -म्भम् गौध, ८७^३.
सो(स^०-उ)पवी(त>)ता- -ताम् नाप
३, १७.
सो(स^०-उ)पाधिक- -कः त्रिवि२, २; ३
सोपाधिक-साकार- -रः त्रिवि
२, ३^३; ५.
सोपान^०-
सोपान-परंपरा- -रा सार २७१:
१३-१५; २२; २७२: ५; ६.
सो(स^०-उ)पानत्क- -त्कः शि ७, ८७.
सोभरि^{१b}-
सोभर- -रः, -रात् वृ २, ६, ३; ४,
६, ३.
सोम,मा^१- -म वृ २, १, १५; मना
२, ३८^३^१; कौ ४, १८; ए ११^६;
५^१; लि ३०९: ८^१; व ४३७:

८^१^m; -मः सु २, १, ६; छां ५,
४, २; १०, ४; वृ १, ४, ६^३; ११;
२, १, ३; ३, ९, २३; ६, २, ९; श्वे
२, ६; मैत्रि ६, १०; ३५; ३८;
७, २; मैत्रे ३, ३; मना १, ९^१^०;
१५^१^०; २, १२, १^१^०; २, ४०^१^०;
अशि२, ७; कौ २, ९; ४, ३; बृजा
२, १; ५^१^०; ८; ४, १६^१^०; वृषू १,
८; ४, १५, २९; सी ४; राउ ४,
२८; महा १, १; रुह ५; १९;
भ २, ५^१^०; ६; ११; २प्र ३६: ६;
११; वृह ३१३: १०; व ४४१:
२०^३^०; ४४२: २०^१^०; ४४७:
३^३^०; ४४८: ३^१^०; ४५१: १६^१^०;
१७^३^०; ४५२: १०^१^०; ४५४:
२२^३^०; वपू २, १; वउ ३, ४१;
गी १५, १३; -मम् छां ५, ५, २;
बृह, २, १०; १६; मना १, ११^१^०;
२, १^१^०; ३८^१^०; ३९^१^०; ४०^१^०;
अशि ३, ४^१^०; बृजा ८, २; वृषू
५, १४; ^१त्रिता २, १; ३; ५^१^०;
७; १९; २०; २२; २६; २८; दे
१^१^०; १११: ८; च २१: १८^१^०;
वृह ३१५: ३^१^०; व ४३०: ६^१^०;
४४०: १^१^०; ४४५: ७^१^०;
४५०: १०^१^०; ४४३: १९^१^०;
४६१: ६^१^०; -मस्य छां २, २२,
१; मना २, १६^१^०; पाए, १; अरु
१६^१^०; -मा सी५; -मात् सुं२, १,
५; -माय बृह, ३, ३; हं११; त्रिवि
७, ४७; भ १, ३; ६; व ४३७:
९; -मे मैत्रि ६, २४; -मेन छां
३, ९, १; ३; बृजा २, १२.

a) ०वितः इति निसा. संदि. । b) =सखीविशेष- । c) व्यु. ? =१लवण- । d) उप. =हरीतकी- ।
e) =६स । f) ०कः सा^० इति निसा. । g) व्यु. ? =निश्रेणि- । h) व्यु. ? =गोत्रप्रवर्तकः ऋषिविशेष- । i) ब्रपा. (=विप.
वा नाप. वा) वैप१ यद्र. । j) तैआ १०, ४८, १^१ । k) ०मे इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या. संदि., वैतु. उन्न. स१
इति) । l) ऋ १०, ५७, ६ । m) ऋ १, ९१, १६ । n) ऋ १०, ८९, ५ । o) ऋ ९, ९७, ४० । p) ऋ ९, ९६, ६ ।
q) ०म इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. । r) =वसुविशेष- । s) ऋ १, ९१, २०^३ । t) ऋ १, ९१, २० । u) ऋ ३, ४७, २ ।
v) ऋ १, ९९, १ । w) तैआ १०, ४८, १ । x) तैआ १०, ४९, १ । y) तैआ १०, ५०, १ । z) ऋ ८, ४८, ३ ।
a') ऋ १०, १२५, २ । b') ऋ १०, १४, १३ । c') तैआआ १०, १६ । d') तैआ १, २७, २ ।

१सोम्य,म्या- -म्यम् मैत्रि ६,
१४; अशि ३,६; ७; वृजा २,६^६;
च २१:२०; २१; वट्ट ३१५:६^६;
गार ४०७ : ५; -म्या शां १,
४४^{१०}; -म्याम् सुवा ९^{१०}; -म्ये
हं ८; त्रिब्रा २, ११९; सूता ४,
४; -म्येन अशि ३,७; च २१:
२१; वट्ट ३१५: ६.

सोम-ग्रहण- -णम् जाद ४,४६.

सोम-दत्त^१-

सौमदत्ति^१- -त्ति: गी १,८.

सोम-देवत- -त: वृ ३,९, २३.

सोम-प^०- -पा: दे १०; गी९, २०.

सोम-पान^०- -नम् मना २,८०^{१०}.

सोम-पूत- -त: अशि७, ३; वृपू ५,
१२; राउ ५,४; महा ६,८३; च
२१: ९; वट्ट ३१८: ५.

सोम-मध्य- -ध्ये मैत्रि ६,३८.

सोम-याजिन्- -जी हंषो १८.

सोम-रा(जन्>)र्ही- -ही: प्रा १,
१^१; १^०.

सोम-राज्य- -ज्यम् मैत्रि ६,३६.

सोम-रूप-कला- -ला ते १, ५^१.

सोम-लोक^१- -क: अ १^६; वृपू २,
२; वृउ ३,५; -कम् प्र ५,४; -के
प्र ५,४; नाद १४.

सोमलोक-ज्ञान- -नम् शां १,
७,५२.

सोम-वंश-

सोमवंशिन्-

सोमवंशी(शि^१)-कमल-

-लानि सार २६७: २०.

सोम-संज्ञ- -ज्ञ: मैत्रि ६,१०.

सोम-सवन- -न: छां ८,५, ३.

सोम-सूर्य-द्वि- -द्वयो:शां १,७,४२.

सोम-सूर्या(र्य-अग्नि-

सोमसूर्याग्नि-तेजस- -जस: १३

३१: १४.

सोमसूर्याग्नि-देव(त>)ता-

-ता: ध्या ५४; योचू २२; ८५.

सोमसूर्याग्नि-नयन- -नम् भ
१,१; २,२९.

सोमसूर्याग्नि-नेत्र- -त्र: वा १२.

सोमसूर्याग्नि-रू(प>)पा- -पा
सी १२.

सोमसूर्याग्निरूपिन्- -पिण:
ब्रवि ८^१.

सोमसूर्याग्नि-संबन्ध- -न्धात्
वरा ५,६३^१.

सोम-सूर्या(र्य-अग्नि-वायु- -यव:
योशि ३,११.

सोमा(म-अं)श्न-नवक^१- -कम् यो
२,१८.

सोमा(म-अं)शु- -शव: कौ १,५.

सोमा(म-अ)त्मक- -क: योशि ५,
२९.

सोमात्मिका- -का सी १३.

सोमा(म-अ)धमन्- -न्मा वृजा२, २.

सोमा-पूषन्- -०षणा लि ३१०: २१^१.

सोमा-रुद्र- -०द्रा लि ३१०: ११^१.

सोमा(म-अ)र्का(र्क-अग्नि-नेत्र-
-त्रम् वउ ४,३३.

सोमा(म-अ)र्ध-धारिन्- -रिणम्
रार २,३३.

सोमा(म-अ)वर्त(सक>)सिका-

-काम् रार २,३२.

सोमे(म-इ)न-कण्ठ- -ण्ठम् वउ ४,
३५^१.

सोमै(म-ए)क-पायिन्- -यिनाम्
गु १५.

सोम्य- -०म्य प्र ४,७; १०; ११; ६,
२; मुं २,१,१; १०; २,२; ३; छां
४,४,४; ५^१; ५,१; २; ६-८, ३^१;

९,२; १४,१; २^१; ३; ६,१,१; २;

४; ५; ६^१; ७; २, १; २^१; ३,४;

४,७; ५,४^१; ६,१-४; ५^१; ७,१;

२; ३^१; ५; ६^१; ८,१^१; ३^१; ५; ६^१;

७; ९,१; २; ४; १०,१-३; ११,

१-३; १२, २^१; ३^१; १३, २; ३;

१४-१५,१; ३; १६,१; वृ ३,१,

२; २, १३; तै ५, ९७; पै १, २;

शा १८; २६; पित्र १,७; ८; २, २;

४, २; ५; ५, २; ८; ६, १-३; २०.

२सौम्य,म्या- -०म्य अव्य १;

शा ११; ३०; ३३; सु २, २, १५;

-म्य: निरु १, ८^०; १योत १००;

नाप ४, ३८; १संन्या २, ९; गी

११, ५१; -म्या अन्न ५, ८५;

-म्या: मना २, ६४^{१०}; -०म्या:

झाग २४: २१; २५: १०; -म्याम्

दे १५; शि ६, ११६; -म्येन रुजा

१, १४^१.

सौम्य-गुण-

सौम्यगुण-त्व- -स्वात्

गर्भ २^१.

सौम्य-तनु- -नुम् गोउ ४२.

सौम्य-ता- -ता महा ६, २९.

सौम्य-स्व- -स्वम् गी १७,

१६.

सौम्य-भैरव-रूप- -पाणि

शि ६, १२४.

सौम्य-व(क्त्र>)क्त्रा-

-क्त्राम् शि ६, ११९.

सौम्य-वपुस- -पु: गी ११,

५०.

सौम्य-समाचार- -र: महा

४, ३७.

२सो(स^१-उमा>)म- -मम् शि ६,

१५१.

१) =नाडीविशेष- । २) अर्थ: १ । ३) उप. <√पा(पाने) । ४) तैत्रि १०, ६४, १ । ५) शौ ६, ९६, १ ।

६) 'व्योमरूपम्' इति श्रान. । ७) 'लुप्तमकारः' इति श्रान. । ८) पा. १ यनि. शोध: द. । ९) ० निनतेजस: इति श्रान. ।

१०) हेम...न्धम् इति श्रव्या. संटि. । ११) =मं-बीजाक्षर- । १२) ऋ २, ४०, १ । १३) ऋ ६, ७४, ३ । १४) नचण्ट^०

इति संटि. । १५) वा. १ । १६) तैत्रि १०, ६४ । १७) सा^० इति श्रव्या. संटि. । १८) परस्पररसोऽगु^० इति श्रव्या. । १९) =६स ।

सोमदत्त- १सोम- द्र.
 सोमन्- -मानम् मना १, ११४^b.
 !सोमसूर्यपुरस्तात्^o अशि ३, ५;
 वट्ट ३१५: ५.
 !सोमसूर्यपूर्वजगदधीतम्^d च
 २१: २०.
 सोम्य- १सोम- द्र.
 सोल्व- !सयत्नेन टि. द्र.
 सो(स^o-उ)ष्णी(ष>)षा- -षाम् शि
 ६, १६२.
 सोष्यत्- √सु(प्रसवे) द्र.
 सोहम् रस द्र.
 सौ¹ अञ १, ८^६; लां २१३: ३; व
 ४३२: ५.
 सौ¹ शु २, ५; त्रिता ४, ३४; दत्ता
 १, ६^३; सर २, ५^३; नापू ५, १०;
 पारा ५; आथ ३९५: १६; व
 ४२८: ७; सौ: सौ: ह ८.
 सौकर- सूकर- द्र.
 सौकरायण^{१b}- -णः, -णात् वृ४, ६, २.
 सौक्ष्म्य- सूक्ष्म- द्र.
 सौख्य- सुख- द्र.
 सौदामि(!म)नी- २सुदामन्- द्र.
 सौन्दर्य- १सुन्दर- द्र.
 सौबाल- सुबाल- द्र.
 सौभग- सुभग- द्र.
 सौभद्र- २सुभद्रा- द्र.
 सौभर- सोभरि- द्र.
 सौभाग्य- सुभग- द्र.
 सोमदत्ति- १सोम- द्र.
 सोमन्तवी- सुमन्तु- द्र.
 सौमित्रि- २सुमित्रा- द्र.
 १-२सौम्य- १सोम- द्र.

सौर- १सूर्य- द्र.
 १सौर्य- २सूर्य- द्र.
 २सौ(र्य>)र्या^{१a}- -र्याम् गोउ ३; ४.
 सौर्यायणी- २सूर्य- द्र.
 सौलभ- सुलभ- द्र.
 सौवर- √स्व द्र.
 सौवर्ण- सुवर्ण- द्र.
 सौषुप्त- सुषुप्ति- द्र.
 सौष्ठव- सुष्ठु द्र.
 सौहित्य- सुहित- द्र.
 √स्कन्द, स्कन्दति वृ ६, ४, ४.
 अस्कान्स्तीत् वृ ६, ४, ५४¹.
 स्कन्द^{१b}- -न्दः छां ७, २६, २^२;
 अशि २, ३; शि २, ५; सिशि
 ३८०: २; ३८३: १२; सि १,
 २; वपू २, ४; गी १०, २४; -न्दम्
 सुबा ४; सु १, १, ३४४¹; -न्दाय
 वृजा ४, २९; शि ६, २०९.
 स्कन्द-नन्दि- -न्दिभ्याम् शि
 १, ७.
 स्कन्द-मातृ- -तरम् दे ६.
 स्कन्दा(न्द-अ)भ्रगण्य- -व्यः हे
 १२.
 स्कन्ध^{१a}- -न्धम्, -न्धात् मैत्रि ७,
 ११; -न्धे रुजा १, १६.
 स्कन्ध-पार्श्व^१- -श्वेषु श्रां १, ४^{१m}.
 √स्कम्भ, स्म्भ, अस्कभायत् नापू ४,
 ५४^१.
 स्कम्भ- -म्भः चू ११^०.
 √स्खल, स्खलन्ति आप् ७: १८.
 √स्तन्>नि, स्तनयति छां २, ३, १;
 १५, १; ७, ११, १; वृ १, १, १;
 मै ५, ५; स्तनयन्ति आप् ७: ३.

स्तनयित्नु^{१a}- -स्तुः छां ८, १२, २; वृ
 २, ५, ९; ३, ९, ६^३; ४^१; ५, २, ३;
 मावि ५^३; ४^१; -न्नोः वृ २, ५, ९;
 -न्नो वृ २, ५, ९; कौ ४, ५.
 स्तन^{१a}- -नः तै १, ६, १; वृ ६, ४,
 २७४^१; ब्र १; १योत १३१; -नम्
 वृ १, ५, २; ६, ४, २७; -नयोः रापू
 ४, ४; योशि १, ९६; -नाः वृ ५,
 ८, १; गर्भ ४; निरु १, १७; -ने
 या २, ७^१; -नौ वृ ५, ८, १; ६, ४,
 ५; त्रि १११^१; गार ४०८: ८.
 स्तन्य- -न्यम् २योत १, ३.
 स्तम्ब^{१a}- -म्बम् महा ३, ३७.
 स्तम्ब-शाखा- -खा मैत्रि ४, ३^१.
 स्तम्बा(म्ब-अ)न्त- -न्ताः कठ २९.
 √स्तम्भ्, >म्भि, स्तम्भयति वृजा
 ८, २^१; वृपू ५, १४^१; त्रिता ३,
 ४; २०; २१; २५; वट ५, ६^३;
 ७^३; ८^३; स्तम्भय पी४२२: १; व
 ४३६: १४; स्तम्भय-स्तम्भय
 त्रिता ३, ३२; दत्ता २; लां२१६:
 १३; १८; व ४३०: १३; ४३४:
 २२; ४४९: ८; ४५६: ११;
 स्तम्भयेत् यो १, ५७.
 स्तब्ध, ष्था- -ब्धः छां ६, १, २^३; षे
 ३, ९४^१; मना २, १२, ३४^१; गी
 १८, २८; -ब्धा यु ४६; -ब्धा:
 गी १६, १७.
 स्तब्धी- √भू
 स्तब्धी-भाव- -वः सर ३, ३०
 स्तब्धा अ ३.
 स्तम्भ^{१a}- -म्भः मन्त्रि ११^१; -म्भा:
 सार २३३: ८.

a) वैपश् यद्र. । b) ऋ १, १८, १ । c) पा. ? 'सोमः, सूर्यः, पुरस्तात्' इति शोधः द्र. । d) पा. ? 'सोमः, सूर्यः, पूर्वम्, जयद्-द्विष्य' इत्याकारकः शोधः द्र. । e) = ६स । f) = बीजमन्त्रविशेष- । g) 'सौः' इति श्रव्या । h) व्यु. ? = ऋषिविशेष- । i) व्यु. ? = यमुना- । j) 'अस्कान्' इति तैच्चा १, ३०, १ । k) धा. अर्थः ? = सनत्कुमार-, कार्तिकेय-, १शिव-, तदाख्योपनिषद्विशेष- । l) वस. । m) °न्धः पा° इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. । n) ऋ १, १५४, १ । o) स्त्वं इति मन्त्रि ११ । p) ऋ १, १६४, ४९ । q) 'सुने' इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. श्रव्या.) । r) तु. गपू. ४५७८p । s) = स्तम्भ- । वैपश् यद्र. । t) °म्भः इति मै ४, ३ । u) तैच्चा १०, १०, ३ । v) स्क्° इति चू ११ ।

स्तम्भ-पङ्क्ति- -ङ्कयः शि ६,
११५.

स्तम्भ-शाखा- -खा मै ४, ३^०.

स्तम्भन-

स्तम्भन-कर- -०र अक्ष ५.

स्तम्भित- -ते ब्रवि ७२.

स्तम्भित-स्थिति- -तिः अक्ष
३, १३.

स्तम्भित (>) नी^१- -०नि व ४२७:
२१; -नी पी ४२२: ८; -नीम्
व ४३३: २.

स्तम्भनी-मोहिनी-वसीकरि-
णी-तन्त्र- -०न्त्र लां२१६:१२

√स्तिम्

स्तिमित- -तम् आप् ८: १३.

स्तिमित-गम्भीर- -रम् मैत्रे १,
४, १०; महा २, ६५; यो ३, २४.

√स्तु, >स्तावि, स्तौति वृ ४, १६;

रार १, ९; राउ ५, १; त्रिता ४,
३८; वरा ३, १३; सर ३, ७;
सार २५७: २३; २७८: १;
२८६: १६; वड ३१८: ९; व
४६५: १८; वड ३, ४०; स्तुवते कृ
७^०; स्तुवन्ति मैत्रि ७, १-६; अशि
१, १३; मं २, ५, १; रापू ४, १७;
ए १०; भ २, २६; च २१: १६;
२प्र ३५: २२; सार २५७: १९;
वड ४, ४०; गी ११, २१; स्तौमि
अक्ष ५, ५९; स्तुमहे त्रिता ४,
६; स्तुवताम् छां १, ११, ३;
स्तुहि वृ २, ८१^०; स्तुध्वम् वृ ४,
१५, ३३^०; अस्तौत् अव्य २;
स्तुवीत छां १, ३, १२^१; २, २२, २.
स्तुवन्ति प्र २, ४.
स्तुध्वम् राउ ५, १^०; अस्तुवत

वपू १, ३; अस्तुवत् अक्षि १.
तुष्टाव राउ ४, १; वपू १, ४; वड
३, ३०; ५९; स्तोष्यति वृ ३, १,
१०; स्तोष्यामि गोपू ३३^१.

स्तुयते मन्त्रि १३; चू ४; १३.
१^० तुष्टुवत्- -वांसः प्र मुं मां अशि
अ वृजा शां^१; वृपू शां^१; २, १५;
श नाप त्रिवि शां पत्र सी रार रापू
पप अक्ष सू १आ पाशु त्रिता दे
भ ग भा मवा गोपू कृ ह दत्ता गरु
अवि पहं शां^१; सि पित्र शां.

स्तव- -वः अद्वैभा १०; -वेन सार
२६१: १८; २७८: १.

स्तवन- -नात् वड ३, ६१; ४, ४३.

स्तवान- -नः वृपू २, ८१^०.

स्तवितृ- -ता सार २६१: १९.

स्तावित- -तौ सार २४८: १०.

स्तुत, ता- -तः वृपू ४, १४; राउ
४, १; अक्षि १; गोपू २५; सार
२५२: ९; २५७: ९; -तम्
मैत्रि ६, ९; -ता मना २, ३६^१;
त्रिता ४, १४; -ताम् व ४२७:
१३.

स्तुत-शस्त्र- -स्त्रैः छां ३, १७, ३^१.

स्तुति- -तये ब्रसू ३, ४, १४; -तिः
मै ४, ४, १२^१; मैत्रि ५, १; मं
२, २, ५; -तिभिः गोपू ४६; गी
११, २१; -तिम् रापू ४, १२;
गोउ ६७; सार २३४: १५; २६०:
२०; २७७: २२; २८७: ४;
-त्या गोपू ३३; राधा १, २८;
३, १८; ४, २५; सार २४६: १३;
२४८: १०; २६१: १८.

स्तुति-मात्र- -त्रम् ब्रसू ३, ४,
२१.

स्तुत्य^२ रापू ४, १६.

स्तुत्य- -त्यम् श १६.

स्तुत्वा नाप २; श १६; त्रिवि ६,
२१; सर १, २; सूता १, २३; सार
२६१: १५; १७; वड ३, ३६.

स्तुन्वान- -नः मैत्रि ६, ३८.

स्तुवत्- -वतः सर ३, ८; -वत् सु
१, १, ४.

स्तुयमान, ना- -नः कुं १२; करु ४;
कश्रु ३, ४; -नम् नापू ४, २५;
-ना सी ३७^१.

स्तोतव्य- -व्यः मैत्रि ६, ३४^१.

स्तोत्र^१- -त्रम् ते ६, २३; सार
२७७: २; -त्राणि वृ १, ३, २८.

स्तोत्र-विशेष- -वैः त्रिवि ६,
२१; २३; २५.

स्तोत्रि (>) या^१- -याः वृ ३, १,
१०.

स्तोम^१- -मः गरु १११^१; -मम् क
१, २, ११; छां १, ३, १०; मना
१, १३१^०; २प्र ३२: ११; १३;
३३: १; ३; -माः व ४४९: १२१^०;
-मेन छां १, ३, १०.

स्तोष्यत्- -ष्यन् छां १, ३, ८; १०.

स्तोष्यमाण- -णः छां १, ३, १०;
-णाः छां १, १२, ४; -णात् छां
१, १०, ८.

√स्तुभ

स्तोभ^१- -भः छां १, १३, ३.

√स्तु, स्तु, स्तुष्णीयाताम् कौ २, १३१^०.
तुस्तुष्माण- -णो कौ २, १३१^०.

स्तौत्वा वृ ६, ४, १२.

स्तेन^१- -नः छां ५, १०, ९; ११, ५;
वृ ४, ३, २२; मना १, १५१^०;
सुवा ४; शा २६^१; गी ३, १२.

a) 'म्ब' इति मैत्रि ४, ३। b) 'स्तुवन्ति' इति अश्या.। c) श्र २, ३३, ११। d) 'स्तुध्वम्' इति निसा.।

e) 'स्तुवत्' इति आन.। f) 'तोषयामि' इति आन.। g) श्र १, ८९, ८। h) पा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. शौ १९, ७१, १)। i) 'शस्त्रा' इति निसा.। j) तु. गपू. वृ २३५८। k) पा ७, १, ३८। l) मा १२, ४। m) श्र १०, ७५, ५। n) श्र ८, ६४, १। o) त्रीणि वी^० इति अश्या., सृष्णी^० इति शांआ ४, १३। p) 'णः' इति निसा. १ [तु. 'तस्त्व (तौ त्व) षमाणौ' इति अश्या.] यनि. शोधः द्र. (तु. आन., शांआ ४, १३)। q) वैप १ यद्र.। r) तैआ १०, १, १५।

स्तेय^a- -यम् छां ६, १६, १; -येन कौ ३, १.

स्तोक^b- -कम् वरा ५, ९; -कान् शौ ५१: ४; -केन महा ३, २६^c.

स्तोतव्य-, स्तोत्र-, स्तोत्रिया-
√स्तु द्र.

स्तोभ- √स्तुभ द्र.

स्तोम-, स्तोष्यत्-, स्तोष्यमाण-
√स्तु द्र.

स्त्रां^b सार २३२: १२.

स्त्री^a- स्त्रियः छां ८, २, ९; वृ ३, ९, ११; ६, ४, ३; गर्भ ३: अशि १, ५; नि ७; २१; महा ३, ३५; ३९; ४४; कृ १३^c; या २, ५^c; १०; कृपु ३; सार २४१: १३; २४२: १५; २५०: २३; शि ४, २६; व ४५९: २; अद्वैभा १४; गी ९, ३२; स्त्रियम् के ३, १२; छां ५, २, ७; ८; वृ ४, १, ६; ६, ४, २^c; वृजा ४, ६; नाप ४, ३; ७; महा ३, ४८; १संन्या २, ७९; या २, १४; कालि ४०३: १८; २कौल १३; स्त्रिया छां २, १३, १; वृ १, ४, ३; ४, ३, २१; महा ३, ४७; या २, १३; स्त्रियाः ऐ ४, २; तारा ८४: १२; स्त्रियाम् ऐ ४, १; १योतद २^d; स्त्री ऐ ४, ३; श्वे ४, ३१^e; ५, १०; गर्भ ३; सुबार; ते ६, २८; महा ३, ४८; ए ११; सावि ९^f; १०; या २, १४; निरु १, ६; य २; सार २५२: १०; यु ५२; ६५; अद्वैभा ३; भव २, २५; स्त्रीः कृ १; स्त्रीणाम् वृ ६, ४, ३; ६; नाप ४, ४; २९; राउ ५,

२५; जाद १, १३; स्त्रीभिः छां ८, १२, ३; वृ ४, ३, १३; नाप ६, ३२; गोउ २८; स्त्रीम् छां २, १३, १; स्त्रीषु १संन्या २, ९०; अव्य ६; सार २४५: १३; २५२: १४; तारा ८४: १२; गी १, ४१. स्त्रैण- -णः नाप ३, १; १संन्या २, ३.

स्त्रिय(स्त्री-अ)न्न-पाना(न-आ)दि-
विचित्र-भोग- -नैः कै १, १२^f.

स्त्री-कथा- -था नाप ३, ७१.

स्त्री-नामन्- -मानि कौ १, ७.

स्त्री-पुंस- -पुंसोः यो १, ८०.

स्त्री-पुंस^g- -सयोः नृपू १, १५.

स्त्रीपुंस-रूप- -पः अव्य ६.

स्त्री-पुं-नपुंसक- -कम् गौ २, २७; मै ५, ५; मैत्रि ६, ५^h.

स्त्री-पुमस्- -मांसौ वृ १, ४, ३.

स्त्री-पुम्-आदि-भेद- -दम् गोपू २५ⁱ.

स्त्री-प्रज्ञा- -ज्ञा वृ ४, ५, १.

स्त्री-रूप- -पम् अव्य ६.

स्त्री-लिङ्ग- -ङ्गम् रुह ९.

स्त्री-लोक^j- -केन छां ८, २, ९.

स्त्रीलोक-काम- -मः छां ८, २, ९.

स्त्री-शूद्र- -द्रः, -द्राय नृपू १, ७^k; -द्रैः सु २९३: २.

स्त्री-शूद्र-बालिशा(श-आ)दि-
-दिभ्यः इ १४: १.

स्त्री-शूद्र-विडाला(ल-आ)दि- -दि
ते ६, १४.

स्त्री-सङ्ग- -ङ्गम् नाप ७; १संन्या २, ७९.

स्त्री-सुख- -खम् ते ६, ९०.

स्त्री-हत्या- -त्यायाः तुल ७१: २३.
स्त्री^b त्रिना ३, १७.

स्थं-स्थं^k व ४३६: २३.

स्थण्डिल^l- -ले छां ५, २, ८.

स्थण्डिला(ल-अ)र्ध- -र्धे शि ३, ८.

√स्थल्

स्थल्- -लम् अशि ५, २०; काला ७; ते ४, १२; म १, ५; सार २५९: ८; रु १०; वट्ट ३१७: ११; -ले कुं २४; सार २२७: ३; २५५: १४.

स्थल्-जला(ल-अ)ग्नि-मर्म-
भेदिन्- -दिन् लां २१४: १३.

स्थल्-त्रि-वेदी- -दि व ४३६: २३.

स्थल्-दुर्गा^m- -र्गे व ४३६: २३.

स्थल्(ल-ई)श्वर- -रे शि ६, १९०.

स्थविरⁿ- -रस्य नापू ४, ७१^m.

स्थविष्ट, घ्राⁿ- -ष्टः छां ६, ५, १-३; मैत्रि २, ६; -ष्टम् मै २, ७; -घ्रा मै ५, ६; मैत्रि ६, ६.

स्थवीयस्ⁿ- -वीयः त्रिभा २, १५८.

√स्था(*बधा.), > तिष्ठ, स्थापि,
तिष्ठास्, तिष्ठते सुं २, १, ९; नाद ५२; शां १, ७, ३९; ४०^o; तिष्ठति क २, १, १२; ३, ९१^p; छां ६, ११, १; १२, २; ७, ८, १^q; श्वे २, १६१^r; ३, २; ९१^s; १६; ४, २०; मै १, १; मैत्रि १, २; मैत्रे १, १; ब्रवि १५; मना १, ३^t; ब्र २; अना ३६; तिष्ठतः वृ ३, ८, ९^u; महा ५, १७३; गोउ १३; तिष्ठन्ते कौ

अ) वैपश् यद्र. । b) =बीजमन्त्रविशेष- । c) 'स्त्रियाः' इति अज्या. । d) 'स्त्रियाः' इति अज्या.१ यनि.

शोधः द्र. (तु. निसा.) । e) शौ १०, ८, २७ । f) स्थ्यन्न इति अज्या. । g) समासान्तोऽच् प्र. (पा ५, ४, ७७) । h) °का इति पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. नापू.; सात.) । i) °पुंसादि° इति निसा. । j) समाहारे द्वस. पुं. च उच्चं. (पा २, ४, ६; १७) । k) तु. गपू. वृ २३३८ । l) व्यु.१ । m) ऋ ७, १००, ३ । n) वैपश् यद्र. । <स्थूल- (पा ६, ४, १५६) । o) 'तिष्ठतः' इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । p) तैत्र्या १०, १, ३ । q) मा ३२, ४ । r) तैत्र्या १०, १०, ३ । s) तैत्र्या १०, १, ३ ।

४, १९४^a; योचू २१; वरा २, ७४^b;
 तिष्ठन्ति प्र २, १०; छां ८, ६, १;
 वृ ३, ८, ९; ४, ३, २०; वृजा ७,
 ४; ते १, ४७^c; त्रिवा १, ९; योचू
 ८५; त्रिवि १, ९; शां १, ४; महा
 ६, ३०; गोउ ६२^d; अर्षे ८: १८^d;
 तिष्ठस्ते मै ४, ४, १३; तिष्ठसि महा
 ४, ८; अन्न ४, ७७; वउ ३, ६१;
 गी १०, १६; तिष्ठामि १संन्या
 २, ३६; अन्न ३, १२; तिष्ठतु सर
 ३, ३; िं ३१०: ७; तिष्ठ नाप
 ४, ७; महा ४, ८; अन्न २, १९;
 अध्या ६४^e; तिष्ठ-तिष्ठ नाप ४,
 ३८; अतिष्ठत् मै २, ६; मैत्रि
 २, ६^f; महा २, २७; अतिष्ठन् पै
 १, २६; २प्र ३६: ९; तिष्ठेत् मैत्रि
 ६, १९; कौ २, ४; ते १, ५१; नाप
 ३, ५९; योचू ७३; महा ४, ८५;
 योशि १, २३; अध्या १८; १आ
 १९; यो २, ३६.
 तस्थौ श्वे ३, २१५^g; अशि ५,
 ३१५^h; अन्न ३, १७; स्थास्यति
 गौ ३, २२; ४, ८; गी २, ५३;
 स्थास्ये ते ३, २५.
 स्थायते शां ३, १; योशि १,
 १२७; अन्न ४, ४७; ६०.
 स्थापयति मै २, ७; मना २,
 १६५ⁱ; दे २०; लिं ३०९: ५५^j;
 स्थापय गी १, २१; स्थापयत्
 रापू ४, २४^k; स्थापयेत् १योत
 ११८; शां १, ३, १०; योशि १,
 ११०; शि २, ३०.
 स्थाप्यते त्रिवा २, ११७.
 तिष्ठासेत् वृ ३, ५, १; सुबा १३^l;

अन्न ४, ३८; शा १८.
 १तस्थिवस्-स्थुषः अशि ४, २१५^m;
 सू ७५ⁿ; वडु ३१६, १४५^o;
 -स्थुषाम् पा १, २.
 २तस्थिवस्(पति)-स्थुषः ५^{pp}व
 ४४२: ८; ४४७: १४; ४५२: १;
 ४५५: ६.
 तस्थु-स्थुः पा १, २.
 तिष्ठत्-ष्ठत् ई ४; -ष्ठत्: नाप ३,
 ६६; महा ४, १३२; योशि १,
 ९५; अन्न ५, १; अध्या ५५; यो
 १, २९; -ष्ठन् वृ ३, ७, ३-२३;
 ४, ३, ९; मना २, १३, २५ⁿ; मै २,
 ९; १योत २३; नाप ५, ९; शां
 १, ७, १४; महा ६, ३४; १संन्या
 २, ३३; अन्न ३, ४; ४, ६३; अक्षि
 ३६; कुं २८; आच ५; शि ७,
 १६; १२४; सिशि ३८१: ११;
 भव २, ६२; -ष्ठन्तम् क २, १, ६;
 रार २, ७२; गी १३, २७; -ष्ठन्तौ
 सार २८९: १०.
 तिष्ठन्ती-न्ती शां १, ७, ४१;
 -न्तीम् क २, १, ७^o.
 तिष्ठमान, ना-नम् मैत्रि ६, २८;
 ३८; नस्य वृ ३, ९, २८, ७; ना:
 मै २, ६; मैत्रि २, ६.
 स्थाणु^p-णवे छां ५, २, ३; -णुः मै
 २, ६; मैत्रि २, ६; ससा ४; गोउ
 १५; भव २, ४०; गी २, २४;
 -णुम् क २, २, ७; -णौ वृ ६, ३,
 ७-१२; योशि ४, १५.
 स्थाणु-त्व-त्वम् योचू ८९.
 स्थाणु-दक्ष-कर्दम-प्रियव्रतो-
 (त-उ)त्तानपादा(द-आ)दि-

-दयः सं ४.
 स्थाणु-पूत-तः ता ३, ९.
 स्थाणु-भूत-तेन त्रिता १, ३१.
 स्थाण्वा(णु-आ)दि-दिभ्यः
 सांका ४१.
 स्थातव्य-व्यम् म २, १.
 स्थातुम् वृपू १, १५.
 स्थातु-ता छां ३, ११, १; अना ३^q.
 स्थान-नम् प्र ३, १२; छां ५, १०,
 ८; वृ ४, ३, ११; ना २; अना ३^r;
 वृपू २, ६^r; मैत्रे १, २^q; सुबा
 ११; १५; ह्यु १७; काला ४; ते
 १, ६; ७; ध्या ४०; ब्रवि २; ५२;
 १योत ८८; त्रिवा २, ८८; १३०;
 १३६; योचू १०५; द १; १५;
 राउ ३, १; पै २, १५; महा ३, १२;
 योशि १, १६९; ५, ५; ६, ६;
 १संन्या २, ८०; यो १, ७४;
 म २, १७^s; जाद ४, ११; ७, ५;
 गोउ १६; वरा ५, २९; ५०; ५३;
 सर २, ९; २प्र ३४: ११; ३५:
 १५^t; ३६: १६; १९; २१; २३;
 ऊ ६३: २; राधा १, ६; १२; १४;
 सार २२१: ६; २२४: ६; १२;
 १३; १५; २२५: ८; २२७: ५^t;
 २२९: १८; २३०: २; २०;
 २३; २३१: ३; २३४: ७; २३७:
 १; २३८: २१^t; २३९: ३; २४०:
 १८; २४१: ७; २४२: ५; २४३:
 ५; ७; २४६: ७; २४८: १५;
 २५०: २१; २५७: ६; २५९:
 १८; २६८: ५; २८२: १७; २८५:
 ११; २८८: २३; शि २, १८;
 ७, १२८; विवा १; पित्र ६, ८;

a) °छन्ति इति आन., शांआ ६, १९ । b) °ष्टवे इति निसा., अख्या.१ यनि. श्लोचः द्र. । c) °छति इति आन. ।
 d) °छति इति वे. । e) °छन् इति अख्या. । f) °छन् इति सात. । g) 'तस्थुः' इति पा.१ यनि. श्लोचः द्र. (तु. 'तस्थे'
 इति तैसं १, ८, ६, १) । h) 'तस्थे' इति पा.१ यनि. श्लोचः द्र. (तु. 'तस्थे' इति तैसं १, ८, ६, १) । i) तैआआ १०, १६ ।
 j) °पयेत् इति आन., अख्या. । k) ऋ ७, ३२, २२ । l) ऋ १, ११५, १ । m) ऋ १, ८९, ५ । n) तैआ १०, ११, २ ।
 o) °न्ती इति निसा. । p) वैप१ यद्र. । इह १शिव-, १ध्रुव-, वृत्त-प्रत्य. । q) 'स्थित्वा' इति आन., 'स्थात्वा' इति
 अख्या. । r) तु. गपू. पृ७०२e । s) निसा.१ 'ब्रश्न->-नम्' इति श्लोचः द्र. (तु. गपू. पृ८०८b) ।

गी ५,५; ८, २८; ९, १८; १८, ६२; -नयोः गौ २, ११; -नस्य सार २२७: ५; २५९: २०; -नात् वृ २, ४, १; छ, ५, २; मै १, ७; मैत्रि १, ४; मैत्रे १, २; त्रिवा २, १८; १३०; १संन्या २, ६; जाद ७, ५; सार २२७: २; २५३: ४; २८०: २२; शि २, १७; -नानाम् वृजा ७, ८; रुजा ३, १; -नानि गर्भ ५; वृजा ४, २७; ब्र २; सुबा ५; योशि ५, १२; शां १, ४; ८; पै २, ११^६; पत्र २; भ १, १; २, १८^३; सार २२४: २०; २४०: ९; २५२: २२; २६३: १५; २६७: २; २८५: १९; -ने वृ ४, ३, ९^३; मैत्रि ६, २३; अना ३५; वृजा ३, १; ध्या ३१; ९३, १; १योत ९६; १३७; २योत १, ९; नापछ, २१; त्रिवा २, ९; शां १, ७, ४०; जाद ४, ५५; पि ४; सार २२३: २०; २२४: १६; २२५: ५; २२७: २२; २२८: २; १८; २२९: १९; २३८: १; २३९: १३; २५३: १६; २५५: २; २५६: ७; २५७: ७; २६०: १२; १४; २६२: २१; २६६: २३; २६८: ४; २७६: १; २८०: १६; २०; २८१: १; १०; १४; १८; २०; २८३: १७; शि ७, ७०; ७६; गी ११, ३६; -ने-ने सार २४६: २; २८४: २; -नेषु श्वे ५, ११; कौ १, २; त्रिता २, २; सार २५३: ९; २६७: ९; २८३: २३; भव २, २४.
स्थान-क- कम् ध्या ९५.
स्थान-काल-त्रय- -यम् १प्र ३१: २.
स्थान-तस(>) ब्रसू ३, २, ११.

स्थान-त्रय- -यात् ब्रवि ११.
स्थानत्रय-व्यतीत- -तः ब्रवि १०८; -तस्य त्रिता ५, ११; अवि ११.
स्थान-नियम- -मः सांसू ६, ३१.
स्थान-भेद- -दात् मं २, ४, ४.
स्थान-विशेष- -षात् ब्रसू ३, २, ३४.
स्थान-शुद्धि-न्यास- -सम् षो ३
स्थाना(न-आ)दि-व्यपदेश- -शात् ब्रसू १, २, १४.
स्थाना(न-अ)नुप्रदान-करण^७- -णम् २प्र ३४: ८.
स्थाना(न-अ)न्तर- -रम् त्रिवा २, १८.
स्थानिन्- -निभ्यः सुबा ५.
स्थानि-धर्म- -मैः गौ २, ८.
स्थान्यु(नि-उ)पनिमन्त्रण- -णे योसू ३, ५२^९.
स्थापक- -कः शि १-२, २५.
स्थापन- -ने त्रिवा २, ११४.
*स्थापया-
*स्थापयाम(म्/अ)स(भुवि),
स्थापयामास गोच ६२: १४.
स्थापयित्वा अशि ५, ७; १९; त्रिवा २, ४७; वटु ३१७: ७; गी १, २४.
स्थापित- -तः महा ४, ६५; -तस्य अध्या ३४.
स्थाप्य^८ श्वे २, ८; रापू ४, २९; शां १, ४; ७, ४३; कुं १९; सार २३६: २१; वि ३२; शि २, १; २६; ६, ७२; ७८; ७९; ८३^३; ८४; १४७; १४९; १५०; ७, ३५; चक्र ४; वज ६, ८; १०; भव ३, २५.
स्थाप्य- -प्यम् शि ४, २.

स्थावर- -रम् ऐ ५, ३; नि ७, २२; १संन्या २, ११; २शिसं १६; -रस्य श्वे ३, १८; गु५०; -राणाम् वज ३, ३१; गी १०, २५; -राणि त्रिवि २, १६^९.
स्थावर-जङ्गम^१- -माः गु ३१; -मानाम् गृह २३.
स्थावरजङ्गम-नामक- -कैः नाप १.
स्थावरजङ्गमा(म-आ)त्मक- -कः नाप ५, २४.
स्थावरजङ्गमा(म-आ)त्मन्- -त्मा राउ ४, १८.
स्थावर-जङ्गम^१- -मः २प्र ३७: १; -मम् मन्त्रि १७; महा ४, ४४; ब६; भव १, १९; चू १७; कालि ४०२: १७; गी १३, २६; -माः रुह १०; शि ४, ५७; -मानि २प्र ३२: ४; ८.
स्थावर-त्व- -त्वम् रुजा १, ३.
स्थावर-स्वरूप-
स्थावरस्वरूप-वत्- -वान् वज २, १५.
स्थावरा(र-अ)न्त- -न्तम् मन्त्रि १६; चू १६.
स्थित, ता- -तः मैत्रि ६, ३०^३; ३८^३; मना २, १३, २१^५; अना ३; १९; शु १, ७; ते ४, ३१; ४०; ६१; ५, ६२; ६५; ६, ८५; ध्या ६; ७^३; ३८; ८४; नाद ३१^३; ब्रवि १८; २१; ४१; ४९; ६०; ६८; ७०; १०५; १योत १०२; नाप ४, १; ६, १२; १३; त्रिवा २, १९^५; ६०; ८४^३; -योचू २३; ५८; ९०; ९१; पै २, ३४; महा २, १२; ४, १२६; ५, २७; योशि ३, १३; ५, ३३; १संन्या २, ५१;

a) ०नम् इति अख्या. । b) समाहारे द्वस. । c) स्वाम्यु^० इत्यपि पाठे. । d) पा ७, १, ३८ । e) ०रणानि इति निसा., अख्या. संटि. । f) द्वस. । g) वस. । h) तैत्र्या १०, ११, २ । i) ०तम् इति आन. । j) तु. गपू. पृ९२६d । k) ०सस्थि^० इति अख्या. संटि. । l) ०तम् इति निसा., अख्या. संटि. ।

५२; अव्य २; अन्न १, ५५; २, २९; ४२; ३, ८; २२; २३; २४; ५, २५; २६; अक्षि ३९; १आ १२; १अव २; कठ १८; पं १७; ३६; या २, ३; वरा ४, ३; सौ २, १३; इ १५; ११; नापू १, १५; सार २५५; ९; २५७; १६; शि २, ५; ४, ६५; ५, ३५; ६, २७१; ७, २; १८; २१; ६३; गी ५, २०; ६, १०; १४; २१; २२; १०, ४२; १८, ७३; -त्तम् छां १, ३, ६; वृ २, ३, १; २; ४; मैत्रि ६, ३८; वृजा ३, १; ६, ७; शु ३, १४; ते १, ९; १०; ५, ३१; ३७; ध्या २; ४५; ८७; ब्रवि १५; १योत १३७; १३८; २योत १, ९; योचू ८; ९७; रापू ४, १२; शां १, ५; ७, ४३; महा २, ६६; योशि १, १७२; ३, २०; ५, ९; २१; अन्न १, २१; ३६; ५, १०७; ११०; अध्या १९; रुजा १, १; जाद ५, ७; ६, ३; ३१; गोळ ५६; वरा ४, २१; सु २, २, ३६; योरा ९; सार २८२; २३; शि २, ३; ६; ६, १३४; २५२; ७, ८३; भव ३, ९; पिब्र ६, ५; गी ५, १९; १३, १६; १५, १०; -त्तस्य वृ २, ३, २; ४; का ८; अता ६; नार ७; -ता ध्या ५५; ब्रवि ९; १योत १२७; त्रिब्रा २, ६४; ६८; १५८; योचू १८; मं २, ३, ६; महा ३, ८; ५, २६; १२१; ६, २४; योशि ३, ४; यो २, ११; गोळ ५७; जाद ४, १२; १३; १५; १७; १८; वरा ५, २५; २७; योरा १२; १८; १प्र ३१; १६; शि २, ५; भव २, १४; -ता: मै ४, २; मैत्रे १, ४, १; वृजा ४, २४; १योत १३५; २योत १, ६; रापू ४, १६;

महा ५, ४२; १३९; योशि १, ११९; ६, ५७; अन्न ४, ४; ११; सार २३० : १२; २४२ : १; ३; ७; १४; १५; २५५ : ५; शि ६, ७५; गी ५, १९; -तान् गौ ४, ६३; ६५; सार २४२ : २; गी १, २६; -तानि त्रिवि ६, ६; रापू ३, १; अन्न ४, ८१; -ताम् जाद ६, ३९; सार २७७; २१; -ते त्रिब्रा २, ७०; ७१; अता ५; मं १, २, ७; महा ५, ३०; जाद ४, १४; वरा २, २३; ४, ६; ५, २६; शि ६, १५५; सिशि ३८३ : ८; ९; वउ ३, ३८; ब्रसू २, ४, ६; -तेषु वरा ३, १६; -तौ मैत्रि ६, ३६; अन्न २, ३६; ४, ३२; रुह ४१; गी १, १४. स्थित-ता- -ता वृ ४, १, ७. स्थित-धी- -धी: गी २, ५४; ५६. स्थित-प्र(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञ: अध्या ४२; गी २, ५५; -ज्ञस्य गी २, ५४. स्थितवत्- -वान् महा २, २१. स्थिति- -ति: वृ ४, १, ७; गौ २, २८; ४, ८०; कौ २, ९; पृहं १; नि ३२; ते १, ३६; २, १२; ५, ११; नाद २५; नाप ३, ४९; त्रिब्रा २, १२४; १२७; त्रिवि ३, ४-७; ४, १२; पै ४, १; महा ५, ५; १८; १६४; ६, ४; ७३; योशि १, २२; ११७; तुअ १; अन्न १, ४९; २, १२; ५, ८४; अध्या ५६; १अव १; पं ४; भा २५; गोळ ३१; वरा २, २१; सु २, २, ६३; स्व ६०: २; नापू १, १८; सार २५०: १७; २९०: ४; भव २, ५८; गी २, ७२; १७, २७; -त्तिम् ते ४, १; योशि १, १२८; १संन्या २, ४२; ६७; ७१; ७७; अन्न २, १४; १९; ४, ७५; ७६; ब्रसू ४, ४, १९; गी ६, ३३;

-तौ गौ ३, ९; योचू ७२; महा ५, १८२; योसू १, १३; -त्वा अध्या ४. स्थिति-कारण- -णम् त्रिता २, ६. स्थिति-निबन्धि(न्>)नी- -नी योसू १, ३५. स्थिति-प्रलय- -यौ त्रिवि ३, ५; ६. स्थिति-रूप(प>)पा- -पा नापू २, ८. स्थिति-विद्- -विद: गौ २, २८. स्थित्य(ति-अ)दन- -नाभ्याम् ब्रसू १, ३, ७. स्थित्य(ति-अ)न्त- -न्ते त्रिवि ३, ४-७; वि २९. स्थित्यु(ति-उ)त्पत्ति-प्रलय- -या: सांका ६९. स्थित्वा मै ४, ४; मैत्रि ६, २०; मैत्रे १, ४, ६; शु ३, ३; ते ३, २५; नाप ४, ३८; रार ४, ५; शां १, ५; महा २, ७६; अक्षि ४०. स्थिर, रा- -र: मै २, ४; ११; मैत्रि २, ४; ७; ६, २८; नाद ५६; महा ४, १५; १०४; ५, ५१; ६, ५; ३३; ३८; योशि ६, ३६; १संन्या २, ५०; अन्न ४, ९०; ५, ३५; वरा ४, ३१; ५, ७४; चा ४; सांस् १, ३३; गी ६, १३; -रम् वृ ३, ९, २८, ३; मैत्रि ६, २३; ७, ३; ते ६, २१; नाद ५६; योचू १०७; ११४; महा ५, ९८; योशि १, १२७; अन्न १, २९; ४, ६०; ५, ११०; जाद ६, ३८; गी ६, ११; १२, ९; -रा नाद ५६; सी ३७; मं १, २, ९; अता ६; -रा: गी १७, ८; -राम् क २, ३, ११; अन्न २, १९; गी ६, ३३; -रे वरा ४, ३१; -रुं रै: प्र मुं मां अशि अ वृजा शां; वृषू शां; २, १५; नाप सी

a) भवस्थि० इति आन. । b) 'गतौ' इति अज्या. । c) तु. गपू. पृष्ठ ९४b । d) 'रम्' इति अज्या. संदि. । e) पा. ? 'रम्' इति शोष: द्र. । f) 'त्तम्' इति अज्या. । g) 'राम्' इति अज्या. । h) ऋ १, ८९, ८ ।

श त्रिवि रार रापू शां पप अन्न
सू १आ पाशु पत्र त्रिता दे भा ब्र
भ ग मवा गोपू कृ ह दत्ता गर
अवि पदं शां^३; सि पिब्र शां; -रौ
योशि ६, ३२^०.

स्थैर्य- -र्यम् ते ४, २६; नाप
४, ११; शां १, ७, ५२; महा ३,
२८; ३२; योशि १, १३५; अन्न
३, ५; अक्षि ३१; वरा ४, १२;
शि ६, १५९; योसू ३, ३२; गी
१३, ७; -येण मा ३५.

स्थिर-कार्यार्थ-असिद्धि- -द्धेः
सांसू १, ३४.

स्थिर-जङ्गम-मध्य- -ध्ये
अद्वै १.

स्थिर-त्त(र>)रा- -रा अन्न १,
४९.

स्थिर-न्ता- -ताम् अन्न १, ५१;
भव १, १८.

स्थिरता-योग- -गात् सांसू
५, ९१.

स्थिर-दीप-निभा(भ-आ)-
कृति- -तिम् ध्या १९.

स्थिर-बुद्धि- -द्धिः ध्या ६; गी
५, २०.

स्थिर-मति- -तिः नाप ३, ८६;
७; पप ४१९; १३; गी १२, १९.

स्थिर-मनस- -नाः शां १, ७,
१६.

स्थिरमात्रादृढ^०- -ढम् ह्यु ६.

स्थिर-सुख- -सुम् सांसू ३, ३३;
६, २४; योसू २, ४६.

स्थिर-स्थायिन्- -थी अना
२३^०.

स्थिरी/कृ, स्थिरीकृत्यात् योशि
६, ५८; यो ३, २.

स्थिरी/भू

स्थिरी-भूत- -ते शां १, ७, ५.

स्थिरी-भूत्वा^d नाद ३८.

स्थिर(र>)रा^०-

स्थिरा(रा-आ)दि-वेदा(द-आ)-

(य>)घा- -घाः पी ४२२; १३.

स्थिरा-मु(ख>)खी- -खि पी
४२१; ९.

स्थू(ण>)णा^३- -णा वृ २, २, १.

स्थेय- -यम् अन्न ५, ११८.

स्था(लि>)ली^३-

स्थाली-पाक^३- -कस्य वृ ६, ४,
१९.

स्थालीपाका(क-आ)वृत्- -वृता
वृ ६, ४, १९.

स्थाल्या(ली-आ)दि- -दीन् शि ६,
५६.

स्थावर- √स्था द्र.

स्थिरातपा^० रापू ४, ६२.

स्थूल, ला^०- -लः गौ २, २३; नि १७;
ध्या ९३, १; नाप ८, ७; १०;

योचू ७५; योशि १, ४२; अन्न
२, २०^१; अद्वैमा १३; -लम् गौ

१, ४; अशि २, २२; अ १; ते
१, १; २, ११; ४, २२; नाप ९,
२०; योशि २, १४; १५; ५,

२८^३; वरा २, ६८; वट्ट ३१४;
१९; स ३७९; १५; १६; पिब्र
६, १२; सांसू ३, ७; ५, १०३;

-लया इ १०; ११; -लाः त्रिब्रा
२, ७५^३; ७६; रुजा १, ११; -लात्

आबो २३; योशि १, ४२^६; सांसू
१, ६२; -लान् ससा १, ७; अन्न
३, १३; रुजा १, १३; -लानि

खे ५, १२; पै १, २७; -ले स
३७९; १६.

स्थूल-कल्पित- -तैः योचू ७२.

स्थूल-ता- -ताम् महा ५, १५४.

स्थूल-त्व- -त्वात् वृत् १, ४; २,
५-७; नाप ८, ६.

स्थूल-देह-गत- -ताः आबो २३.

स्थूल-देह-विसर्ज(न>)नी- -नी
पै २, ४७.

स्थूल-देह-विहीना(न-आ)त्मन्-
-त्मा ते ४, ७३.

स्थूल-देहा(ह-अ)भिमामिन्- -नी
पै २, २६.

स्थूल-प्रकृति- -तिः योचू ७२.

स्थूल-प्र(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञः वृत् १, ६;
नाप ८, ७; -ज्ञम् वृत् १, १२;
नाप ८, १८.

स्थूल-भुज्- -भुक् मां ३, गौ १, ३;
नृपू ४, ४; वृत् १, ६; नाप ८, ८;

योचू ७२; राउ ३, १; विद्या १;
वउ १, ५.

स्थूलभुक्-त्व- -त्वात् वृत् १,
४; नाप ८, ६.

स्थूल-भूत- -तानि सांसू १, ६१.

स्थूल-मूल(ल>)ला- -लाः त्रिब्रा २,
७६.

स्थूल-रूप- -पेण योशि ६, ५०.

स्थूल-विराट्-स्वरूप- -पः त्रिवि
२, १५.

स्थूल-शक्ति- -क्तिः पै १, १३.

स्थूल-शरीर- -रम् पै २, ८; २०;
-रैः वउ ४, २४.

स्थूल-सूक्ष्म- -क्ष्मम् अना २२;
-क्ष्मेषु वृजा २, १.

स्थूलसूक्ष्म-कम- -मात् अदि
४५.

स्थूलसूक्ष्म-तरङ्ग-फेन-बुद्बुद्-
करक-लवण-पाषाणा(ण-आ)-

a) °तौ इति निसा. संटि. । b) पा.१ 'स्थिरम् आत्मदृढम्' इति श्लोचः द्र. (तु. अज्या.) । c) °रः स्था° इति आन. । d) प्रा ७, १, ३८ । e) =बगलामुखी-देवी- । f) व्यु.१ =पात्रविशेष- । वैप१ यद्र. । g) निसा., अज्या.१ 'स्थिरा, स, ए' इति श्लोचः द्र. (तु. आन.) । h) वैप१ यद्र. । i) अस्थू° इति अज्या. । j) सकृत् °लसू° इति निसा., अज्या. संटि. । k) °लास्थू° इति अज्या. ।

द्वादि-अ)नन्त-वस्तु-भेद-
-दः त्रिवि ८, २.
स्थूल-सूक्ष्म-कारण- -गानि वरा
१, ६.
स्थूलसूक्ष्मकारण-देहो(ह-उ)-
द्भव-पूर्वक- -कम्^a पै २, २.
स्थूल-सूक्ष्म-कारण-तुर्य-रूप- -पैः
नाप ६, १^b.
स्थूल-सूक्ष्म-बीज-साक्षि-
-क्षिभिः नृउ २, ५-७; ३, २-५.
स्थूलसूक्ष्मबीजसाक्षि-भेद-
-देन वरा ४, १.
स्थूल-स्वरूप-सूक्ष्मा(क्ष्म-अ)न्वया-
(य-अ)र्थवस्व-संयम- -मात्
योस् ३, ४५.
स्थूला(ल-आ)दि- -दि अना २२.
स्थूली/कृ
स्थूली-कर्तुम् पै १, १८.
स्थूलो(ल-ऊ)रु- -रुम् वपू २, २.
स्थेय-, स्थैर्य- √स्था द.
√स्ना, > स्नापि, स्नापि, स्नाति अव्य ७;
-स्नायात् भ २, २.
स्नपन- -नम् भ २, २०.
स्नपयित्वा अच् ४.
स्नात- -तः अशि ७, ४; वृजा ७, ७;
काला १९; वा ३९; पै ४, २३;
महा ६, ८३; जाबा २८; च २१;
१०; ऊ ६४; १२; नृष ८५;
१६; नट्ट ३१८; ७; शि ५, ४१;
४३^c; गार ४०८; १७; श्या ७;
-तम् शि ७, ३२; -तस्य शि ५,
३७.
स्नात-क^d -कः जा ४; नाप ३,
७७; पप ४१८; ५; या १, १.
स्नातका(क-अ)ध्वयु- -यैवः
मन्त्रि ८; चू ८.

स्नात्वा वृजा ३, २३; नाप ४, ३८^e;
त्रिवि ५, १२; महा ३, २; योशि ६,
३०; जाद ४, ५५; गोउ ३; राधार,
६; बि ९.
स्नान^f - -नम् आर २; मैत्रे २, २;
५-८; ते ४, १२; ५, ५२; नाप ४,
२३; ५, ४; ६, ३३; मं२, २, ५; स्क
११; कुं १२; करु ३; भा ३२;
शा १२; आपू ३; शि ५, १५;
१७; २०^g; २३; २९; ३२;
३४-३६; ६, १४१; २१९; सिशि
३८१; १५; १७; कश्रु ३, ३; -नेन
वृजा ७, ७; -नेपु वउ ६, २९.
स्नान-दान-यजना(न-आ)दि-
(क>)का- -काः वरा २, ७४.
स्नान-द्रव्य- -व्यम् कुं १३.
स्नान-ध्याना(न-आ)दि-
स्नानध्यानादि-क- -कम् ते
५, ४२.
स्नान-पुण्य-प्रभाव-
स्नानपुण्यप्रभाव-तस(>)
महा ३, ३.
स्नान-पूजा-जप-ध्यान-होम-
तर्पण-तत्पर- -रः रार ४, ३.
स्नान-भोजन- -ने शि ७, ७.
स्नान-भोजन-पाना(न-आ)र्थ-
-र्थम् शि ६, २६७.
स्नान-शाटी- -टीम् कुं १०; क
२; कश्रु ३, २.
स्नान-शौच- -चे १अव १४.
स्नान-सन्नो(त्र-उ)पभोग-
-गाय शि ६, २५२.
स्नाना(न-आ)दि- -दिभिः सी
३६; -देः नाप ४, २५.
स्नाना(न-आ)भिषेचन- -नम् शि
५, ४८.

स्नाना(न-आ)र्थ- -र्थम् शि ५, ३०.
स्नापि(त>)ता- -०ते त्रितार, ७०.
स्नायु^h - -यवः गर्भ २^d; -युभ्यः गर्भ
२^o.
स्नायु-बद्ध- -द्धम् नाप ३, ४६.
स्नायु-शत- -तम् गर्भ ५; -तानि
निरु २, २.
स्नायव(यु-अ)स्थि-ग्रन्थि-शालि-
(न>)नी- -न्याः महा ३, ३९;
या २, ५१^f.
स्नावन्^h - -व तै १, ७, १; वृ ३, ९, २८,
३; निरु १, ४१^g; -न्नः निरु १, ५१^h.
√स्निह्
स्निग्ध- -ग्धम् भव ४, १९; -ग्धाः
रुजा १, ११; गी १७, ८; -ग्धान्
रुजा १, १३.
स्निग्ध-निर्मल- -लम् यो २, २९.
स्निग्ध-ललना- -ना महा ५,
८०.
स्निह्ⁱ - स्निक् व ४४३; १९४ⁱ.
स्निहिति^j - -तिः व ४४३; १९४^j.
स्नीहिति^k - -तिः व ४४३; १९४^k.
स्नेह^l - -हः मै ३, ५; मैत्रि ३, ५;
अशि ४, ५^l; त्रिता ४, १९; नृपू
२, १०; सार २५२; १९; २८८;
१२; वट्ट ३१५; २०; -हम् सार
२५०; १४; २८८; २३; -हान्
२प्र ३२; ९^m; -हेन सार २८८;
१२.
स्नेह-पाश- -शीन शि ७, १०३.
स्नेह-पैशुन्य-मात्सर्यⁿ - -यैम्
नाप ३, ५८.
स्नेह-प्रणय-गर्भ- -र्भाणि अच्
७.
स्नेह-भाव- -वेन सार २३६;
१२.

a) वा.क्रिवि. द. । b) °रणरू° इति निसा. यनि. शोधः द. (तु. अच्चा.) । c) व्यु. ? वैपश् यद्र. । d) 'स्नावा' इति स्नान. ।
e) 'स्नावन्ः' इति स्नान. । f) °न्यः इति पा. ? यनि. शोधः द. । g) °वा इति पा. ? यनि. शोधः द. । h) °वः इति पा. ?
यनि. शोधः द. । i) धा. अर्थ. ? = अमितनूविशेष- । j) तैश्चा ४, २३, १ । k) = प्रीति-, घृत- प्रसृ. । l) °हेन इति
स्नान. । m) °हः (प्र १) इति पा. ? यनि. शोधः द. (तु. सकृन्ने सत्युत्तरे वाक्ये 'ज्योतीषि' इति) । n) समाहारे दस. ।

स्नेह-मार्ग- -र्गः सार २२०:३;
-र्गे सार २३०:३^१; २९१:१७.

स्नेहमार्गीय- -याः सार
२२०:७.

स्नेह-व(त्>)ती- -ती सार
२३४:४.

स्नेह-वर्जित- -तः पप४१९:६.

स्नेह-वैर-विष- -षाणाम् अञ
५,१७१^०.

स्नेहा(ह-आ)धिक्य- -क्यम्
सार २५६:१६.

स्नेहा(ह-आ)सक्त- -क्ताः सार
२५५:१३.

√स्तुह्

स्तुहि^६-

स्तुहि-पत्र-निभ- -भम् यो २,
२९.

√स्पन्द्, स्पन्दते गौ ३, २९^३; महा ५,
१७४^०; छाग २५:९.

स्पन्द- -न्दात् १,४५.

स्पन्द-मात्र- -त्रेण अञ ५,
४३.

स्पन्द-शक्ति- -क्तिः अञ ५,
२५; २६; महा ४,१००; -क्तिम्
अञ ३,१६.

स्पन्दमान- -ने गौ ४,४९; ५१.

स्पन्दितात् पै १,२८.

√स्पर्ध्, स्पर्धते वृ १, ५, २१; अ-
स्पर्धन्त वृ १, ३, १; ५, २१.

१स्पर्श(श>)शार्^{१०}- -शां गार ४०७:
१८.

√स्पृश्

स्पृष्ट,ष्टा- -ष्टः ऋ४,२,१३; -ष्टम्^०
१अव २७; त्रिता १, ३५; ४५;
४७; ५३; २, १४; -ष्टाः त्रिता ३,
१५.

स्पृष्ट-वपुस्- -पुः पै १, १४.

स्पृष्टा(ष्ट-अ)स्पृष्ट-वपुस्- -पुः
पै १, १२.

स्पृष्टी/कृ, स्पृष्टीकुर्यात् त्रिता
२, ३२.

स्पृष्टी-कृत- -तम् त्रिता १,
५५.

स्पृष्टी-कृत्वा^१ त्रिता १, ७८;

२, ७; १३; १५; १८; २२; २५;
२८; ३०.

√स्पृ, स्पृणुते तै २, ९, १^३; स्पृणोति
तै १, ७, १; स्पृणोतु तै १, ४, १;
नाप ४, ३८^६.

√स्पृश्, >स्पर्शि, स्पृशते प्र४, २; वरा

२, ५८^४; स्पृशति छां ८, ६,
३; वृ ४, ३, २९^३; ४, २; ५, १५;

मैत्रि ६, ७; १०; वृपू ५, २; ते ४,
४०; त्रिता ३, २९; गु ३३;

स्पृशतः छां ८, १२, १; १आ
१५; स्पृशन्ति मैत्रि ६, १०; वरा

३, ३^३; सार २७२: २३; २७३:
५; स्पृशामि आबो २७; स्पृशेत्

वृ ४, ३, २९; ३१; ५, १५; गौ ४,
४१; १योत ७१; अञ १४; वरा

२, ९; तुल ७०: ९; शि २, २४;
७, ५५; ९२; वउ ६, ४१.

पस्पर्श के ४, ३; पस्पृशुः के ४,
२; अस्पृशत् वा ३.

स्पर्शयति मै ५, ७; मैत्रि ६, ७.

२स्पर्श^{११}- -र्शः शारी ८; १संन्या
२, १६; कर् १४; भव २, १७;

-शौम् ते ३, ५७; ५, १०३; सार
२३१: २२; -शां छां २, २२,

३; ५; अञ ३; -शां क २, १,
३; वृ ३, २, ९; अञ ३, ४; गी ५,

२७; -शानाम् वृ २, ४, ११;
४, ५, १२; सुबा १३; -शौं गर्भ

१; -शौं वृ ३, २, ९; -शौषु छां

२, २२, ४.

स्पर्श-गुण- -णः त्रिबा १, ९.

स्पर्श-ग्रहण- -णम् नाप ६, १.

स्पर्श-दोष- -षेण १संन्या २,
७२.

स्पर्श-बीज-रसो(स-उ)न्मुख-
-खम् महा ५, १४८.

स्पर्श-वत्- -वान् गोउ ७.

स्पर्श-वायु- -युभ्याम् गोउ ७.

स्पर्श-विद्या- -द्यया कामे १२.

स्पर्शा(श-आ)कर्षि(र्न्>)णी^१-
-णी आथ ३९५: ५.

स्पर्शन^{१२}- -नम् करु ५; सार २३५:

५; ६; ८; १२; भव २, १६; कश्रु
३, ५; गी १५, ९; -नात् तुल ७०:

५; सार २३४: १८.

स्पर्शन- -नम् त्रिता ५, २१.

स्पर्शयितव्य- -व्यम् प्र ४, ८; सुबा

५; ६; ९^३; -व्ये सुबा ५.

स्पर्शयितृ- -ता मै ५, ७; कृ १.

स्पृशत्- -शक् वृ ४, ३, २९; अञ
४, ६३; पा ३, ५; गी ५, ८.

स्पृष्ट- -ष्टः वृ ४, ४, ८; नाप ६, १^३;
निर्ह १, २१; -ष्टम् ऐ ३, ११;

पहं ४^३; -ष्टानाम् गरु ६.

स्पृष्ट-करण-स्थित्- -तः २प्र
३५: १७.

स्पृष्टि- -ष्टेः वृ ४, ३, २९.

स्पृष्ट्वा ऐ ३, ७; मैत्रे २, ५-८; वृजा
४, ७; वृउ ४, ६; नाप ३, ३८;

महा ४, ३२; अव्य ७; रुजा ३,
१; कालि ४०३: १८.

स्पृष्ट(व्य>)व्या- -व्या नाप ३,
५०.

स्पृष्टुम् वरा २, १३^६.

स्पृष्टु- -ष्टा प्र ४, ९; मैत्रि ६, ११;
त्रिता ५, १; -ष्टुः वृ ४, ३, २९.

a) °शौभर्म° इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । b) °णम् इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. । c) 'स्वदन्ते' इति
अव्या. । d) =शक्तिविशेष- । e) क्वचित् वा. क्वि. द्र. । f) पा ७, १, ३८ । g) तैश्चा ७, ४, १ । h) °इयते इति
अव्या. । i) =गुणविशेष-, कादि-मान्त-वर्ण- । j) =स्पर्शेन्द्रिय- । k) 'वृष्टुम्' इति अव्या. संदि. ।

√स्पृह्, > हि, स्पृहयन्ति नापठ, ३७.
स्पृह् (>) हा-हा गौ १, ९; महा
३, ३६; पहं ४^६; गी४, १४; १४,
१२; -हाम् नाप ७; १संन्या
२, ७९.

√स्फट् (*बधा.)
स्फटिक^{१३} -कः अन्न ५, ९८.

स्फाटिक-कम् शि ३, १०;
सिंशि ३८२ : २०; -कानाम् शि
६, २६३.

स्फटिक-कमल-भद्राक्ष-मणि-
मुक्ता-प्रवाल-रुद्राक्ष-कुस-
प्रन्थि- -न्थिषु वउ ६, ३७.

स्फटिक-धूत्र-बिन्दु-नाद-कला-
नक्षत्र-खद्योत-दीप-नेत्र-सुवर्ण-
नवरत्ना(ल-आ)दि-प्र(भ>)-
भा- -भाः मं २, २, १.

स्फटिक-प्रभ- -भम् ध्या ९७.

स्फटिक-रजत-वर्ण- -र्णम् द३.

स्फटिक-लोहित-दर्शन- -नेन
अन्न १, १६.

स्फटिक-वर्ण- -र्णम् ध्या ९३, ६.

स्फटिक-संनि(भ>)भा- -भा
अशि ५, १३.

√स्फाय्
स्फार- -रम् अन्न २, ३४; ४, २३;
५, १३; -रे अन्न ४, ७१; वरा ४,
३१०.

स्फिक्^{१४} -स्फिक्चः गु २२.
स्फिक्-बिम्ब-जानु- -जुनी वृजा
४, १४.

√स्फुट्
स्फुट- -टम् गौ १, २०; ते ५, ९६;
१योत ६८; नाप ८, ११; त्रिज्रा
२, १००; महा ५, १३; अन्न ३,
५; पाशु २, ३७; त्रिता ५, १^६;

सी२, ४; वि१०; -टाः गौ २, १५.

स्फुट-तर- -रम् वरा ३, ५.

स्फुट-ता- -ताम् महा ५, १५७.

स्फुट-प्रकाश- -शः अन्न १, ५४^६.

स्फुटी/भू, स्फुटी भवति वरा
५, ४२; स्फुटी भवेत् यो ३, १७.

स्फुटो(ट-उ)क्त- -क्तैः शु ३, ९^६.

स्फोट-
स्फोटा(ट-आ)त्मक- -कः सांसू
५, ५७.

√स्फुर, स्फुरति १योत ११६; शां १,
७, १५; महा ५, ११७; ११९;
१२०; योशि ४, १७; अन्न १,
१५; २, ४१; त्रिता १, ५१^६; वरा
४, ३०; ५, ६३; स्फुरन्ति महा
३, ५६; १संन्या २, २३; स्फुरसि
अन्न १५; स्फुर-स्फुर वपं ३१२;
४; व ४५७ : २३.

स्फुरण- -णम् त्रिज्रा २, १२२; १२३.

स्फुरणा(ण-अ)नुपलम्भन- -ने
त्रिज्रा २, १२५.

स्फुरत्- -रत् अन्न ४, २६; कर् ७;
-रति शां १, ४; -रन् शु ३, ३;
-रन्तम् मैत्रि ६, २४.

स्फुरन्ती- -न्तीम् नृउ ४, ५.

स्फुरत्-साहशा(श-अ)धिष्ठायि-
(न्>)नी- -नीम् विद्या ४.

स्फुरत्-प्रज्वल-संज्वाला-
पृज्य- -ज्यम् योचू ९७^६.

स्फुरन्-मकर-कुण्डल- -लम्
गोउ ४८.

स्फुरित, ता- -तम् १योत १०; महा
५, १५२; १५५; योशि १, ८; -ता
त्रिज्रा २, ६५.

स्फूर्ति-
स्फूर्ति-रूप- -येण योशि १, २०.

स्फुलिङ्ग^६ -ङ्गाः गु २८.

स्फुलिङ्गि(न्>)नी^६ -नी मुं १, २, ४.

स्म^१ मुं १, १, ४; तै १, ५, १; छां १,
२, १३; ३, १४, ४; १६, ७; ४,
१०, १^६; ६, ४, ५; वृ ४, ४, २२^६;
५, १, १; १२, १^६; ६, २, ७; ४, ४^६;
कौ २, १; शा ३३; इ १० : २^६;
छाग २४ : २; बा२; अरु १४९^६.

१-२स्मर- , स्मरण- , स्मरत्- , स्म-
तन्व्य- , स्मर्यमाण- , स्मार- ,
स्मार्त- √स्मृ द्र.

√स्मि
स्मयमान- -नः छाग २३ : १४.
स्मयमान-मुखा(ख-अ)म्बु-
(ज>)जा- -जा अन्न १, ९.

स्मित-
स्मित-मु(ख>)खी- -खीम्
त्रिता १, ८४.

स्मित-संपूर्ण-पञ्च-विध-पञ्चा-
(स-आ)नन- -नम् म १, १.

स्मियान- -नः वा ७.

स्मेर-
√स्मेराय्
स्मेरायित- -सौ पा ५, ९.

√स्मृ (*बधा.), स्मरति गर्भे ३; ४;
सुवा ११; महा ५, १६१; निरु १,
२१; व ४६५ : ११; गी ८, १४;
स्मरन्ति कौ २, ४९^६; ब्रह् २, ३,
४७; ३, १, १४; ४, १, १०; स्मर
ई १७^६; वृ ५, १५, १५^६; स्मरेत्
मैत्रि ४, २; स्मरेत् मै ४, २;
मैत्रे १, ४, १; नाप ३, २५; ४, ३;
त्रिज्रा २, १४४; रार २, ४९; ४,
११; योशि ६, ६३; पत्र ३, १;
जाद ६, ७; काम ७; १६; कालि
४०३ : २; गु ८; व ४६२ : ४;

a) 'निःस्पृहः' इति निसा., अज्ञ. संटि., 'नस्पृहः' इति अख्या. । b) घा. अर्थः? । c) 'स्थाने' इति अख्या. संटि. । d) व्यु. १ । e) वा. क्विचि. भवति । f) 'सर्वम्' इति अख्या. संटि. । g) परमस्फु^० इति अख्या. । h) 'केः' इति काचित्कः निसा. पाभे. । i) 'ते' इति अख्या. । j) 'कसज्ज्वा^०' इति अख्या. । k) वृ. गप. ४१२९f. । l) व्यु. १ =अव्य. । m) तैत्रा १, २७, २ । n) 'न्ते' इति कांआ ४, ४ । o) का ४०, १, १७^६ ।

स्मेरयुः छां ७, १३, १.
 सस्मार वज ३, २९.
 स्मर्यते सी २६; सार २५१:४;
 २५५: १२; ब्रसू १, ३, २३; २,
 ३, ४५; ३, १, १९; २, १७; ४, ३०;
 ३७; ४, २, १४; २१.
 १स्मर^० -रः छां ७, १३-१४, १;
 २६, १; -रम् छां ७, १३, १; २^३;
 -रस्य छां ७, १३, २; -रात् छां ७,
 १३, २^३; १४, १; -रेण छां ७,
 १३, १^३.
 २स्मर^० -
 स्मरा(र-अ)रि- -रेः वपं ३१२:
 २०.
 स्मरण- -णम् सु २९४: ७; -णस्य
 ते ५, ३०; -णात् पै ३, १; अध्या
 ३६; सार २५९:४; गुणो ४२०:
 ९; ४२१: ७.
 स्मरण-मात्र- -त्रेण वि २१.
 स्मरणमात्र-रूपा(प-आ)-
 विर्भावप्रादुर्भावा(व-आ)-
 लिङ्गा- -का सी ३४.
 स्मरणमात्र-संतुष्ट- -ष्टाय
 दत्ता २; व ४५६: ५.
 स्मरत्- -रन् छां ८, १२, ३; वृजा ४,
 २९; १योत ८९; नाप ४, ३८;
 ५, १; ३९; अन्न ५, १३; जाद
 ६, ९; गी ३, ६; ८, ५; ६; -रन्तः
 छां ७, १३, १.
 स्मर्तव्य, व्या- -व्यः त्रिब्रा २, १४०;
 भ २, १; -व्यम् ते ४, २१; त्रिब्रा
 २, १३७; -व्या त्रिब्रा २, १३६;
 १३९०.
 स्मर्यमाण- -णम् ब्रसू १, २, २५.
 स्मार- -रम्, -रेण मना २, ७९९^d.
 स्मृत, ता- -तः छां ७, २६, २; गौ
 १, १; १०; २६; ३, १; ४, ९०; मैत्रि

६, २५; अना २४; वृजा ५, १८;
 १९; वृपू २, १६; ते १, २३; ४,
 ३२; नाद १; २^०; ब्रवि ५१;
 १योत २०; योशि १, १३७; २,
 ९; नाप ३, ८; ५, ५; ६, ६; ८;
 त्रिब्रा २, २९; सी ४; २अव ३३७:
 ४; रार २, २७; ४८; ८०; राउ
 ५, १; अक्षि १०; ४४; अन्न २,
 ५; ६; दे २०; यो १, १९; जाद
 २, ११; ६, १३; ता २, २; इ १३:
 २२; १६: २३; नाउ १, २१; २३;
 शि १, १०; १९; २, ७; २५; भव
 २, ५४; गी १७, २३; -तम् गौ
 २, ४; ४, ८८; मै ४, ४, ११; मैत्रि
 ६, १३^३; ३४; ब्रवि २; २२; ब्र ३,
 ४; वृजा ३, २१; ते ४, ५५; ५,
 ८९; ९१; १०४; ब्रवि ५७; नाप
 ३, ५६; ८४; महा २, ६९; ५,
 १३०; १३२; १संन्या २, ६५; ६६;
 अन्न ५, १६; यो १, ६०; त्रिता
 ४, १६; पं २२; गोउ ५२; ५९;
 वरा ४, ११; ५, ५८; शा १; ऊ
 ६४: २; शि १, २५; २६; २, ७;
 ४, ४५; ५, १३; ३३; ६, २४८;
 २५१; २६३; ७, १०९; १४०; गु
 २२; भव १, ४८; ५, ५; अवि २;
 २१; गी १७, २०; २१; १८, ३८:
 -ता अ १^३; वृपू २, २; वृउ ३,
 ५; ध्या ५३; सी २; योचू १७;
 महा ५, २५; योशि ५, १७; ६,
 ५; वरा ४, २; शि २, ९; सु
 २९४: ८; गी ६, १९; -ता: गौ
 २, ७; ४, ३२; ४६; ९४; लु १५^६;
 ध्या ५२; ५६; योचू १६; योशि १,
 २५; १५४; अन्न ४, ५२; ५, ५०;
 इ १५: १५; ऊ ६४: ५; शि
 ४, २२; ७, १०१; भव ५, २२;

सांका ३८; -तेन इ १२:४; -तौ
 रार ५, ८.
 १स्मृति^{१२b} -तयः वृजा ३, ३; -ति:
 नाप ३, १^३; कृपु ३; -तिभिः वसू
 ३; -तिषु रार १, ३; -ते: सांसू
 ५, १२३; ब्रसू १, २, ६; ३, ३०;
 ३८; ३, ४, ४३; ४, ३, ११.
 स्मार्त^१ - -र्तः भव ४, १; -र्तम्
 ब्रसू १, २, १९; ४, २, २१; -र्तै
 जाद २, ६.
 स्मृत्य(ति-अ)नवकाश-दोष-
 प्रसङ्ग- -ङ्गः ब्रसू २, १, १.
 २स्मृति^१ - -ति: ऐ ५, २; छां ७, २६,
 २; मैत्रि ६, ३१; मना २, ७९९^d;
 प्रा ४, १; योसू १, ११; गी १०,
 ३४; १५, १५; १८, ७३; -तिम्
 गौ २, ३६; -त्या मना २, १२, ३९^d;
 २, ७९९^d; अन्न ५, १३; सांसू २,
 ४३.
 स्मृति-परिशुद्धि- -द्धौ योसू १,
 ४३.
 स्मृति-अंश- -शात् गी २, ६३.
 स्मृति-लम्भ- -म्भे छां ७, २६, २
 स्मृति-लिङ्ग- -ङ्गः १आ १^३;
 २आ २.
 स्मृति-विभ्रम- -मः गी २, ६३.
 स्मृति-संस्कार- -रयोः योसू
 ४, ९.
 स्मृति-संकर- -रः योसू ४, २०.
 स्मृत्या(ति-आ)कर्षि(न>)णी^१-
 -णी आथ ३९५: १०.
 ३स्मृति^१ - -ति: रापू ४, ५७.
 स्मृत्वा नाप ३, ८६; योशि ६,
 ६९^m; त्रिता २, १९; जाद ६,
 ३९; गोउ २^३; वउ ३, ५९; ६, १४.
 स्मेर- √स्मेराय्, स्मेरायित-
 √स्मि द्र.

a) भाप. । b) धा. अर्थः? =कामदेव- । c) °व्यः इति निसा. । d) तैत्रा १०, ६३, १ । e) °तम् इति
 आन. । f) 'स्त्रभा' इति आन. । g) 'स्थिराः' इति अज्या. । h) धा. अर्थः? =ग्रन्थ- । i) °तः इति अज्या. ।
 j) तैत्रा १०, १०, ३ । k) तु. गपू. पृ५२४a । l) धा. अर्थः? =यकार-बीजाक्षर- । m) 'स्मृत्या' इति अज्या. ।

१स्मै^१ इ १०: २.
 स्य- त्यद्- द्र.
 √स्यन्द, स्यन्दन्ते मुं २, १, ९; छां २,
 ४, १; ६, १०, १; वृ ३, ८, ९;
 मना २, १२, १५^०.
 स्यन्दन^{१०}- -ने गी १, १४.
 स्यन्दमान, ना- -ना: प्र ६, ५; सुं
 ३, २, ८; गु २०; ३८.
 स्यूत- √सिव् द्र.
 स्योन, ना^१- -ना मना १, १०^०; -ना:
 त्रि २; -नेन मना २, ७७^१.
 स्त्रं^१ रार ३, १^१; रापू ४, ५०^१.
 √स्त्रस्, स्त्रसते गी १, ३०.
 स्त्रक्ति^१- -क्तय: छां ३, १५, १.
 स्त्रज्^{११}- स्त्रजम् शि ७, ९०.
 स्त्रक्-चन्दन-ताम्बूला(ल-अ)गुरु-
 रस-सृगमद-कर्पूर-केसर-संव-
 लित- -तानि सार २८६: २१.
 स्त्रङ्-मनु- -नु: रापू ४, ६४^१.
 स्त्रष्टुम्, स्त्रष्टृ- √सृज्(परि.) द्र.
 स्त्राम^१- -म: छां ८, ९, १; २; १०, २;
 ४; -मम् छां ८, १०, १; ३; -मे
 छां ८, ९, १; २.
 स्त्राम्य- -म्येण छां ८, १०, २; ४.
 √स्त्रु, स्त्रवते हं १९^१; स्त्रवति योशि
 ५, ३३; शा ३६; पित्र २, ५; ४,
 ८; स्त्रवन्ति मैत्रि ६, १४; मना
 २, ४०^१; अस्त्रवत् मैत्रि ६, ३७;
 स्त्रवेत् छां ६, ११, १^१.
 स्त्रवत्- -वन्तम् योशि ५, ४४; जाद
 ५, ६; वरा ५, ३३.

स्त्रवन्ती- -न्ती: वृ ४, ३, १०;
 -न्त्य: वृ ४, ३, १०; मन्त्रि १७.
 स्त्रुव^{१२}- -व: वृ ६, ३, १३; प्रा ३-४,
 १; -वेण कौ २, ३.
 स्त्रुवा(व-आ)द्या(दि-आ)वार-
 हेतु- -तुना शि ४, २.
 स्त्रोतस्- -तसा १आ १८; -तसाम्
 गी १०, ३१; -त: सु ब्र ३, १०;
 -तस्सु श्व १, १५; इ १५: ६१^१.
 -तांसि श्वे २, ८; भव ३, २५.
 स्त्रुं^{१३} सार २३०: १०.
 स्त्रुघ्न^{१०}
 स्त्रुघ्न-स्थ-
 स्त्रुघ्नस्थ-पाटलीपुत्रस्थ- -स्थयो:
 सांस् १, २८.
 स्त्रुच्^{१२}- स्त्रुचा शि ४, ५१.
 स्त्रुक-स्त्रुव-कमण्डलव(लु-अ)क्ष-
 सूत्र-हस्त^१- -स्ताभ्याम् व
 ४५२: ६.
 स्त्रुक-स्त्रुवा(व-आ)दि-पात्र-
 -त्राणि शि ६, ६१.
 स्त्रौ^{१४} त्रिता ३, १७^१.
 स्व, स्वा^१- स्व: वृ १, ४, ३; ४, ३, ५; मना
 २, ४६^१; स्वम् ऐ ४, २; छां ६,
 ८, १^१; वृ १, ३, २५^१; ४, १५; ३,
 १, २; श्वे ६, १०; मैत्रि ६, २७; वृजा
 ३, ३३; ६, ५; ते १, ३९^१; ४, ८०;
 ८१^१; ५, ७३; नाप ७; त्रिवि ५,
 १२; महा ६, १७; ३७; पप ४ १८:
 २४^१; अध्या २; १९; ५१; ६४;
 कुं १९; २७^१; वरा २, ४२; २प्र

३३: २; गोच ६६: १९; २१;
 पा ४, १; भव २, ४८; ३, ९; गी
 ६, १३; स्वम्-स्वम् पाशु २,
 १०; सार २६८: १३; हे ४;
 स्वया महा २, १२; गी ७, २०;
 स्वस्मात् ते ५, ७३; ६, ३९;
 ५२; अध्या २०; स्वस्मिन् नाप ५,
 १; ९, २०; पै १, ८; योशि १, ८;
 षो ३; स्वस्य ते ३, २४; रापू १,
 ५; ४, ३२; अन्न ४, ९२; १अव
 २८; भ २, २८; जाद १, १३^१; सु
 २, २, ३८; पित्र ६, २; स्वस्या:
 गी ३, ३३; स्वा व ४६०: ८५^१;
 स्वा: वृ १, ३, १८; ५, ३, १^१; कौ
 ४, २०^१; स्वात् क २, ३, १७;
 मैत्रि ६, ८^१; स्वान्-स्वान् सार
 २८३: १२; स्वानाम् छां ५, १,
 २; ५; वृ १, ३, १८; ६, १, १^१; २^१;
 ५^१; स्वानि मै २, ९^१; स्वानि-
 स्वानि सार २५४: ७; स्वाम् क
 १, २, २३; मुं ३, २, ३; वृ १, ४,
 ११^१; पप ४ १८: १२; नाप ३,
 ७७; ४, ३८^१; २संन्या १६:
 १२^१; पार १, १; अरु १०^१; व
 ४६१: १७^१; सांका ३१; गी ४,
 ६; ९, ८; स्वाय वृ १, ४, १६; स्वे
 छां ७, २४, १; वृ २, १, १८^१; ६,
 ४, २४; मै २, ४; मैत्रि २, ४; ६,
 २८^१; ३८; वृ ७, १३; ब्रवि
 १०५; स्वे-स्वे जाद ८, ८; हे ५;
 गी १८, ४५; स्वेन छां ८, ३, ४;

- a) पा. १ 'स्म (अव्य.), एव' इति शोध: द्र. । b) तैत्र्या १०, १०, १ । c) =रथ- । d) वैपश् यद्र. ।
 e) ऋ १, २२, १५ । f) तैत्र्या ३, ७, ६, १९ । g) =बीजमन्त्रविशेष- । h) 'स्त्र' इति अख्या. । i) 'स्त्र' इति आन. ।
 j) 'सगुणः' इति आन. । एतदनु गपू. (पृ ६३८) सस्थ. '१मनु-> -नुः' इत्यत्र यनि. शोध: कर्तव्यः । k) व्यु. ? ।
 l) 'ती' इति अख्या. ? यनि. शोध: द्र. (तु. निसा., आन.) । m) ऋ ४, ५८, ६ । n) 'तस्स' इति पा. ? यनि. शोध:
 द्र. । o) व्यु. ? =देशविशेष- । p) व्यु. ? =यज्ञपात्रविशेष- । q) द्रस. > मलो. कस. । r) 'सौः' इति निसा. संदि.,
 'सौ' इति अख्या. संदि. । s) वैपश् यद्र. । इह =आत्मन्-, आत्मीय-, धन-, बीजाक्षरविशेष- प्रभू. । t) ऋ १०,
 १८, १ । u) स्वरू^१ इति अख्या. । v) 'तस्य' इति अख्या. संदि. । w) ऋ १०, ८३, ५ । x) 'स्वान्' इति पा. ?
 यनि. शोध: द्र. (तु. राती., सात.) । y) पा. १ 'स्त्र->स्वानि' इति शोध: द्र. (तु. मैत्रि २, ६) । z) तैत्र्या २, ५, ८ ।
 a') शौ ७, १०२, ५ । b') तैत्र्या १, २७, १ । c') ऋ ८, ११, १० ।

१२,२,३; वृ ४,३,९^२; गौ २,
३४; मै २,२; मैत्रि २,२; अशि
१,१२; ३,७; १योत ५३; नाप
९, १८; त्रिब्रा १,२; रापू २,१;
प्रा १,१; शौ ५३:९; १०; सं१०;
वट्ट ३१५:७; शि ७, १०८; भव
१,२०; गी १८,६०; स्वेषु वृ १,
३,१८; नाप ३,५१; वरा ३,२५;
स्वै: कौ ४,२०^१.

स्वेन

स्वेन-शब्द- -ढदात् ब्रसू ४,
४,१.

स्व-ऋ(व>)चा- -चाभि: सार
२२४: १६.

स्व-क,का- -कम् ते ४,८०; रार५,
६; महा ५,७५; सु २,२,४२;
गी ११,५०; -कया महा २,१७;
-कै: मैत्रि ६,३१; श २२.

स्वक-तमस- -तमस: वरा ३,१२.

स्व-कर्मन्- -र्म सांसू ३,३५; -र्मणा
गी १८, ४६; -र्मभि: श्वे ५, ७;
भव २,२३; -र्मसु सु २९४:
१६; -र्मणि पै १,३०.

स्वकर्म-निरत- -त: गी १८,
४५.

स्वकर्म-लिप्सु- -प्सु: शा २०.

स्वकर्मो(र्म-उ)पार्जित- -तम्
सार २३५: २.

स्व-कल्पित- -चतुर्विंशति-तस्व-
-स्वम् सं १,४,३.

स्व^१-काम^२-शक्ति^३-वाग्^४-लक्ष्मी^५-
तारा(र^१-आ)द्य- -द्या: रार २,
१६१^१.

स्व-काय- -यम् योशि ६, ७८५^१;
यो ३, १६५^१.

स्व-कारण- -णम् त्रिवि ३,४^१.

स्वकारणा(श-अ)ज्ञान- -ने ससा
१,१६.

स्व-कार्य- -र्यान् सुह २.

स्व-कुला(ल-अ)नुरु(प>)पा- |
-पाम् नाप २.

स्व-कृत-कर्म-कृत- -कृत भ २,
२१.

स्व-क्रिया- -यया भव २,६५.

स्व-क्रीडा- -डया सार २८५: ९.

स्व-गण- -णम् सार २४१: ८.

स्व-गत- -तम् ते ३, ४७; वरा ५,
५८.

स्व-गमन-निरोध-ग्रहण- -णम्
नाप ७.

स्व-गुण- -णेन महा५, ८२; -णै: श्वे
१,३; ५, १२; नाप ९, २; पा २, ५.

स्व-गुप्ति- -सये पा ४, १.

स्व-गुरु- -रु: शि ७, २३^१; -रुम् कै
१, ५; रुह ३५; शि ७, ७७; -रो:
करु ३५.

स्वगुरु(र-उ)क्त-प्रकार- -रेण
यो २, २८.

स्व-गृह- -हे तारा ८३: १३.

स्व-गृहा(ह-आ)श्रम-बल्ली-
-ल्लीभ्य: शि ५, ७.

स्व-गृह्यो(द्य-उ)क्त-मार्ग- -गोंण
भ १, ३.

स्व-गृह्यो(द्य-उ)क्त-विधान-
-नेन वृजा ३, ११.

स्व-गोह- -हात् भव १, ५५.

स्व-हे(हे-अन्त>)न्ता- -न्तया
रापू ४, ११.

स्व-चक्षुस- -क्षुषा गी ११, ८.

स्व-चतुर्दश-करण-प्रवृत्ति-
-त्तिम् पप ४१८: १८.

स्व-चातुर्य- -र्येण सार २२६: ८.

स्व-चित्त-बिल-संस्थ- -स्थेन
महा ३, ३४.

स्व-चित्त-स्थ- -स्थम् श्वे ६, ५.

स्व-चिह्न- -ह्नै: त्रिवि ६, २५.

स्व-चेष्टित- -तम् वृजा ६, १.

स्व-चैतन्य- -न्ये ते ३, २५.

स्व-च्छन्द- -न्द: मन्त्रि ६; -न्देन
चू ६.

स्वच्छन्द-गमना(न-आ)लय-
-यै: शि ६, १७९.

स्वच्छन्दो(न्द-उ)पात्त-देह-
-हाय सार २६१: १२.

स्व-जन- -नम् गी १, २८; ३, १; ३, ७;
४, ५; -नस्य शि ६, १७३; -नान्
नी ३, १^२; -नै: शि ६, १७८.

स्व-तन्त्र- -न्त्र: मै २, ४; मैत्रि २,
४; ६, २८; ७, २; नि ५५; नाप
३, ७७; योशि १, ४३; १५०;
-न्त्रम् मैत्रि ६, ३८; श ८; -न्त्रा:
अत्र ४, ११.

स्वातन्त्र्य- -न्त्र्यम् मैत्रि ६,
२२; -न्त्र्यात् योशि १, १५४;
सांसू ३, १२.

स्वतन्त्र-वाद- -देन ध्या ३, १.

स्वतन्त्रा(त्र-अ)स्वतन्त्र-

स्वतन्त्रास्वतन्त्र-स्व- -स्वेन
नृउ ९, ४.

स्व-तस(>) गौ ४, २२; मैत्रे २,
११; नृउ ८, ३; योशि १, १५३;
अत्र ४, २६; पाशु २, ७; २३^१;
३६; ४३; अध्या २९; करु ७;
१८; रुह ४४; यो १, १४; वरा
२, २६; ह ९; सु२, २, २२; सांसू
२, ४४; ३, ५८; सिन्धि ३८१: २;
सांसू ५, ५१.

स्वत:-पूर्ण- -र्ण: शु ३, ४.

स्वत:-प्रिय- -यम् वरा २, ७.

स्वत:-सिद्ध- -द्धम् अष्वा ६३;
भा ३१.

स्व-तेजस्- -ज: शि ५, २; -जसा
नृपू २, ११; पा ६, ५; षठ ३,
१३; गी ११, १९.

a) =सं१ b) =ह्रीं१ c) =ह्रीं१ d) =ऐं१ e) =श्रीं१ f) =उं१ g) °क्षमीस्तवा° इति निसा.१ यनि.

शोध: द. (तु. अज्या.)। h) 'कारणम्' इति निसा.। i) 'तसः' इति निसा.।

स्व-दार-निरत- -तः आश्र १.
 स्व-दीर्घा(र्घ-अ)ङ्ग- -ङ्गैः राष्ट्र ४,
 ३४.
 स्व-दृष्ट्य(ष्टि-अ)मृत- -तेन सार
 २८१:९.
 स्व-देश- -शम् मैत्रे २, ११; नाप ७.
 स्व-देह- -हम् श्वे १, १४; १योत
 १०७; शि ७, १२४; -हस्य कुं
 २२; -हे योचू ४; पै ३, ३; महा
 २, ६३; यो ३, ३४; या २, १९;
 मु २, २, ७६.
 स्वदेह-मल-निर्माक्ष- -क्षः
 जाद १, २०.
 स्वदेहा(ह-अ)वयव- -वेषु या
 २, १९.
 स्वदेहा(ह-अ)शुचि-गन्ध-
 -न्धेन मु २, २, ६६^१.
 स्व-धर्म- -र्मैः मै ४, ३१^०; मैत्रि ४,
 ३; नाप ४, १३; गी ३, ३५;
 १८, ४७; -र्मम् नाप ४, १८; गी
 २, ३१; ३३; -र्मस्य मैत्रि ४, ३^०;
 -र्मात् नाप ३, ५७; -र्मै मै ४, ३;
 नाप ६, ७; शा २९; गार ४०५:
 २१; भव ३, २२; गी ३, ३५.
 स्वधर्म-निरत- -तः जाद ६,
 ११.
 स्वधर्मनिरत-ब्रह्मवित्-
 समावृत्त- -त्ते श्रां १, ५.
 स्वधर्म-हीन- -नाः भव २, ६५.
 स्वधर्मा(र्म-अ)चरण- -णम्
 भव ५, १८.
 स्वधर्मा(र्म-अ)तिक्रम- -मेण मै
 ४, ३; मैत्रि ४, ३.
 स्व-धामन्- -मानि मैत्रि ६, ३०.
 स्व-जाडी- -डीभिः वरा ५, १८.
 स्व-नास- -स्नेन महा ५, १११.

स्व-निवृत्त्य(त्ति-अ)र्थ- -र्थम् राष्ट्र
 ४, १७.
 स्व-पक्ष-दोष- -षात् ब्रसू २, १,
 १०; २९.
 स्व-पद- -दे गोड ६३.
 स्वपदा(द-अ)नु(ग>)गा-
 -गा गोड २६^१; -गाः गोड ६२^०.
 स्व-परिस्पन्द- -न्दैः महा ५, ११७.
 स्व-पाणि-पादा(द-अ)दि- -दि
 १योत १४०.
 स्व-पितृ- -तरम् पप ४१७:१.
 स्व-पीठ- -ठम् त्रि ७.
 स्व-पुत्र-गृह- -हेषु आश्र ४.
 स्व-पुत्र-मित्र-कलत्र-बन्धवा-
 (न्धु-अ)दि- -दीन् पहं १;
 -दीनि नाप ३, ८६.
 स्व-पुर- -रम् राष्ट्र ४, २९.
 स्व-पूर्ण-धी- -धीः नाप ६, ३६.
 स्व-पूर्णा(र्षा-अ)त्मा(त्म-अ)ति-
 रेक- -केण वरा २, ११.
 स्व-पूर्वा(र्व-अ)पन्ना(ज-अ)श्रमा-
 (म-अ)चार-विद्या-धर्म-प्र-
 भाव- -वम् तुअ १९.
 स्व-पौरुष- -षम् भव १, ४९.
 स्वपौरुषै(ष-ए)क-साध्य-
 -ध्येन महा ४, ९०.
 स्व-प्रकाश- -क्षः वृत् २, ८; ५, २;
 ३; ९, ३; १०^१; ब्रवि १०९; सी
 ३१; राड ५, १; वड ५, ५०;
 -शम् वृत् ६, ३^३; ८, ५; अध्या
 ८; मा १; म २, १९; वरा २, ९;
 सार २५३:२; -क्षाः वृत् ९,
 १५; १६; -शो वृत् ९, ९; १३;
 आबो २५; वड ५, ४५.
 स्वप्रकाश-चिदात्मन्- -त्मनोः
 यो १, ८१.

स्वप्रकाश-चिद्-आनन्द-
 -न्दम् ब्रवि २१.
 स्वप्रकाश-पद- -दै १संन्या २,
 ५२.
 स्वप्रकाश-ब्रह्मतत्त्व- -स्वे निर्वा
 २९८:८.
 स्वप्रकाश-मय- -यः त्रिवि २,
 १६.
 स्वप्रकाश-सद्-आ(त्मक>)-
 त्तिका- -का अक्ष ५, ८९.
 स्वप्रकाशा(श-अ)त्म-रूपक-
 -कम् शु ३, ८.
 स्वप्रकाशा(श-अ)नन्ता-
 (न्त-अ)नन्द-तेजो-ज्वाला-
 जाल- -लैः सि ५, १७.
 स्वप्रकाशा(श-अ)परोक्षत्व-
 -त्वम् शु ३, ७.
 स्वप्रकाशै(श-ए)क-संसिद्ध-
 -द्धे पाशु २, १८.
 स्व-प्र(भा>)भ- -भः सर ३, २७;
 -भम् वा २७.
 स्व-प्रसङ्ग- -ङ्गात् महा ६, १६.
 स्व-फल- -लम् अध्या ५३.
 स्व-बल- -लम् पा ८, १०.
 स्व-बान्धव- -वान् गी १, ३७.
 स्व-बीज- -जम् रार २, ६७; ३, १;
 -जेव रार २, १००.
 स्वबीज-संयुक्त- -क्तः रार २,
 ८०.
 स्व-बुद्धि- -द्धया नाप ६, १; महा
 ५, ८१.
 स्वबुद्धि-संवेदन- -नम् योसू ४,
 २१.
 स्व-बोध- -धम् राधा १, १.
 स्व-भक्त- -क्तानाम् वृपू २, १६;
 -क्ताय या ३५; गोड ४९.

४) तन्मोहाद्भु^० इति निसा. संटि. । b) °र्माभि^० इति निसा. ? यनि. च अभि/धा>अभि-हित-> -तः
 (अस्व.) इति च शोधः द्र. (द्र. अख्या.) । c) सकृत् 'धर्मस्य' इति मै ४, ३ । d) 'अन्तरिक्षं यत्ना' इति आन. । e) सप^०
 इति निसा., अख्या. ? यनि. शोधः द्र. (द्र. अख्या. संटि.; वैतु. 'अन्तरिक्षप्रदं गता' इति आन.) । f) उप. = २पुर- ।
 ४) °श इति अख्या. ? यनि. शोधः द्र. (द्र. निसा.) ।

स्वभक्त-कर्म-स्वभाव-दुःख-
नाश-हेतु-तवे सार २७७:३
स्व-भक्ति-
स्वभक्ति-तस(>) शि७, १३८.
स्व-भवन- -नम् इ १९: ९.
स्व-भार्या- -र्याम् वृजा ६, १.
स्व-भाव- -व: श्वे १, २; गौ १, ९;
नाप ९, १; महा ५, ६६; ११२;
सार २४३: २०; २९०: १६;
गौ ५, १४; ८, ३; -वम् श्वे ५, ५;
६, १; गौ ४, ९; ते १, ७^०; -वस्य
सांसू १, ८; -वात् अन्न १, ३८;
सांसू ३, ६१; -वनेन गौ ३, २२; ४,
८; सार २५६: २३; सांका ५५.
स्वाभाविक- -के मै ४, ४,
१३; मैत्रि ५, १.
स्वाभाविकी- -की श्वे ६,
८; गौ ४, ९; युं ६७; भव २, ४५.
स्वभाव-चिन्मय- -यै: सि २, ३;
४, ३.
स्वभाव-ज, जा- -जम् मैत्रि २,
६; गौ १८, ४२; ४३; ४४^३; -जा
गौ १७, २; महा ६, ४०; -जाम्
महा ६, ४०; -जेन गौ १८, ६०.
स्वभाव-तस(>) श्वे ६, १०;
गौ ४, १०; २३; महा ४, ५७;
पाशु २, १०; कर २०; जाद ७,
१; पं ३१; वरा २, ७८; सु २, २,
७४; शि १, १५; भव २, ४८;
सांसू १, ७.
स्वभाव-नियत- -तम् गौ १८,
४७.
स्वभाव-परिनिश्चल- -ल: त्रिब्रा
२, १६५; २अव ३३८: ८^१.
स्वभाव-पञ्च- -शव: नाप ९, १०.
स्वभाव-प्रभव- -जै: गौ १८, ४१.
स्वभाव-संसिद्ध, द्वा- -द्वा: सार

२२६: ९; २७९: ३; -द्वा: सार
२२५: १६.
स्वभाव-सिद्ध- -द्वौ त्रिवि २, १३.
स्वभावा(व-आ)त्मक- -कम् स्व
६१: ६.
स्वभावा(व-अ)भिमत- -तम्
महा ४, १२३.
स्वभावै(व-ए)क-नि(छा)>ष्ट-
स्वभावैकनिष्ठ-त्व- -त्वम्
महा ५, ३४; वरा ४, १०.
स्व-भास्- -भासा पै २, ४१; यो ३,
२९.
स्व-भूति- -त्यै पा ९, ६.
स्व-भेद-
स्वभेद-क- -कम् ते ४, ४१.
स्व-मध्यमा(मा-अ)नामिका-
(का-अ)न्तर- -रे त्रिता ३, ११.
स्व-मनस्- -न: महा ४, १०६; भव
३, १६; -नस: अन्न ३, ५; -नसा
१अव २६.
स्व-मर्यादा- -दा: सार २६८: ८.
स्व-महिमन्- -न्ना नृपू २, ८-१२; १६
स्वमहिम-स्थ- -स्थ: नृउ ९, १०.
स्व-माया- -यया गौ २, १२; कै १,
१३; त्रिब्रा २, ६०; -या कृ २३.
स्वमाया-वैभव- -वान् पं १७.
स्व-मुख- -खेन जाद ४, १३.
स्व-मूल- -ले वउ ६, ४१.
स्व-यूथ- -थम् सार २८६: १८;
-थेन सार २२४: १७; -थै: सार
२४२: २३.
स्व-योग-(ज>)जा- -जा: योशि
१, १५५.
स्व-योनि- -नौ मै ४, १^३; २; मैत्रि
६, ३४^३; मैत्रे १, ४, ३^३; ४.
स्व-रजो-रेतस- -तसो: शोशि १,
६८^१.

स्व-रति- -ति: सार २५०: १७.
स्व-रमणा(ण-अ)र्थ- -र्थम् सार
२२०: १२.
स्व-रस- -सम् सार २४०: ११.
स्वरस-भोग-सुख- -खम् सार
२३९: १५.
स्वरस-वाहिन्- -ही योसू २, ९.
स्व-राजू- -राट् छां ७, २५, २; कै १,
८^१; मना २, १३, २^१; २, २९^१;
नृपू १, ८^३; १^१; नृउ २, ८; ७, ३;
८; १४; ब्रवि १०६; त्रिवि २,
१६; महा १, १; १४^१; अव्य
६^३; शा ३०; च २१: ६; कृपु
२५; कालि ४०३: ७^१; सूता
१, ६; नापू ३, ६^१; वपू २, १.
स्वराज्य- -ज्यम् तै १, ६,
२; छां ३, ६-१०, ४; मैत्रि ६,
३६; कौ ४, २०^३; -ज्याय छां २,
२४, १२; -ज्ये या २, ३.
स्वराट्-चक्र^१- -क्रम् चक ७.
स्वराट्-विराट्-वषट्-ब्रह्म-
रु(प>)पा- -पा गार ४०७: ५.
१स्व-रूप^१- -पम् वृजा ६, ५;
मैत्रे १, ४, १४^१; ब्रवि ५९;
नाप ७^३; ९, १२; द १५;
त्रिवि ३, ५; ४; ११; पै २, ५३;
महा ४, ५३; ५, ७; तुअ १५;
अन्न १, ४१; अध्या ११; पाशु
२, ३८; त्रिता ४, २२; दे १७;
रुजा २, १; गोउ ५३; ६१; वरा
२, ६२; सु २, २, ६०; लिं ३१०:
१०; १६; भव ३, ८; -पात् महा
५, ३; योशि १, १७; -पे महा २,
७२; योशि १, १२८; अन्न १,
५४; योसू १, ३; -पेण त्रिवि ६,
२५; सार २२४: १०; २५३:
२०.

a) °वभावनाप्राप्तम् इति श्रान. । b) °वपरनि° इति पा.१ यनि. श्लोघ: द्र. (तु. संटि.) । c) °वंपश्या:
इति अश्या. । d) 'रजसः, रेतसः' इति अश्या. । e) तैआ १०, ११, २ । f) तैआ १०, २२, १ । g) तस. । h) तु.
गपू. पृ९२४j ।

स्वरूप-ज्ञ- -ज्ञः नाप ५, १.
 स्वरूप-ज्ञान- -नेन त्रिवि २,
 १२.
 स्वरूप-तत्त्व(>:) अन्न ५, ७६;
 जाद १०, २; सांसू ५, ४२; योसू
 ४, १२.
 स्वरूप-तेजोमय-शाश्वत- -तम्
 नाप ९, १८; महा ४, ७१.
 स्वरूप-ध्यान- -नेन तुअ २२.
 स्वरूपध्यान-निरत- -तम्
 मु १, १, ३.
 स्वरूप-परिभ्रंश- -शः महा ५, ४.
 स्वरूप-प्रतिष्ठा- -ष्ठा योसू ४,
 ३३.
 स्वरूप-बोध(ध-अ)नुभव-
 -वः वरा २, ३१.
 स्वरूप-ब्रह्मचारिन्- -री म
 ४८ : ९.
 स्वरूप-भूत- -तः कर ३०.
 स्वरूप-लाभ-हेतु- -तुः ससा
 १, २७.
 स्वरूप-विज्ञान- -नम् पाशु २,
 ३४; गु २५.
 स्वरूप-व्यास-रूप- -पस्य
 त्रिवा २, १४८.
 स्वरूप-शक्ति-नियम- -मः
 सांसू ५, ३३.
 स्वरूप-शून्य, न्या- -न्यम् योसू
 ३, ३; न्या योसू १, ४३.
 स्वरूप-संधान- -नम् नाप ५, १
 स्वरूप-सिद्धि- -द्धिः कालि
 ४०३ : २१.
 स्वरूप-सूर्य- -र्यं शु ३, ९.
 स्वरूप-स्थिति- -तिः मैत्रे २,
 ३०; महा ५, ५; ६; -तिम् १ संन्या
 २, ५८.
 स्वरूप-स्वामिन्या(नी-आ)-
 वेश- -शः सार २४६ : ९.

स्वरूपा(प-अ)ज्ञान- -नम् पै २,
 २२.
 स्वरूपा(प-आ)नन्द-तत्पर-
 -रः महा २, १.
 स्वरूपा(प-आ)नन्द-दायि-
 (न>)नी- -नी महा ४, ३८.
 स्वरूपा(प-अ)नुसंधान- -नम्
 नाप १; ५, १; ९, २०; -नेन नाप
 ५, १; ३९; ७; तुअ ७; १ संन्या
 २, १३; ५९.
 स्वरूपानुसंधान-पर- -रः
 नाप ५, १; १ संन्या २, १३.
 स्वरूपानुसंधान-पूर्वक-
 -कम्^a नाप ४, ३८.
 स्वरूपानुसंधान-ब्रह्मप्रणव-
 ध्यान-मार्ग- -र्गेण पप ४१९;
 १८.
 स्वरूपानुसंधान-व्यतिरिक्ता-
 (क-अ)न्य-शास्त्रा(त्र-अ)-
 भ्यास- -सः १ संन्या २, ५९;
 नाप ५, ११^b.
 स्वरूपा(प-अ)वस्थ-
 स्वरूपावस्थ-ता- -ताम् नाद
 ५५.
 स्वरूपा(प-अ)वस्थिति- -तिः
 महा ५, २.
 स्वरूपो(प-उ)पलब्धि-हेतु-
 -तुः योसू २, २३.
 २स्व-रूप^c- -पः पा ८, ५.
 स्व-लक्षण- -णः अध्या ६७.
 स्वालक्षण्य- -ण्यम् सांसू २,
 ३०; सांका २९.
 स्व-लीला- -लया कृ २४; -लाम्
 सार २४१ : ९.
 स्वलीला(ला-अ)र्थ- -र्थम् सार
 २४९ : ६.
 स्व-लोक-दर्शन- -नम् सार २४६;
 १९.

स्व-लोचन- -ने ब्रवि ६९.
 स्व-वंश-वृद्धि-काम- -मः नाप२.
 स्व-वचो-व्याघात- -तात् सांसू
 ५, ५५.
 स्व-वपुस्- -पुः पंहं २; नाप ३,
 ८६; तुअ १३.
 स्व-वर्णा(र्ण-आ)श्रम- -धर्म- -र्मेण
 वरा २, २.
 स्व-वश- -शम् त्रिवा २, ११६; -शे
 त्रिवा २, ११७.
 स्ववशो(श-उ)पाधि- -धिः सर
 ३, १५.
 स्व-वाग्-अग्नि- -ग्नी आर २?^d.
 स्व-वाञ्छा-विनियोग-
 स्ववाञ्छाविनियोग-वत्- -वान्
 रापू ४, ४.
 स्व-विकार- -रम् यो ३, २८.
 स्व-विचार-
 स्वविचार-तत्त्व(>:) महा ४,
 ८४; वरा २, ७२.
 स्व-विध्यु(धि-उ)क्त- -क्रम- -मेण
 पप ४१८ : १३.
 स्व-विध्यु(धि-उ)क्त- -क्रिया-
 (था-आ)दिक- -कम् तुअ ८.
 स्व-विनाश- -शेन अन्न ५, ५३.
 स्व-विवेक- -केन महा २, २.
 स्व-विष्ठा^e- -ष्ठां वा ७.
 स्व-व्यतिरिक्त- -क्तम् नाप ३, ८६;
 ६, १; ७; १ संन्या २, ५९.
 स्वव्यतिरिक्त-वस्तु- -सङ्ग-
 रहित-स्मरण- -णम् भा ३३.
 स्व-व्यतिरेक- -केण नाप ६, १; पप
 ४२० : १४.
 स्व-शक्ति- -क्तिम् नि १५; -क्त्या
 यो १, १२.
 स्वशक्ति-तत्त्व(>:) महा ५, १४४.
 स्व-शब्द- -ब्दात् ब्रसू १, ३, १;
 -ब्देन घ्या ४७; योचू ११.

a) वा. क्वि. द्र. । b) °सैः इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । c) बस. । d) °वाचा° इति
 निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । e) = १विष्ठा- ।

स्वशब्दो(ब्द-उ)न्मान-
 -नाम्याम् ब्रस् २,३,२२.
 स्व-शरीर- -रम् १योत १०८; नाप
 ७; यो १,६६^०; -रात् मै ५,८;
 -रे अज ४,३६; कुं ४; पाशु २,
 ३३; रुह ४९; प्रा २,१^०.
 स्वशरीर-व्यतिरिक्त- -कम् नाप
 ९,२०.
 स्वशरीर-स्थ- -स्थम् यो १,३५.
 स्वशरीरा(र-अ)भिमान-वेश-
 विस्मरण- -णम् नाप ७.
 स्वशरीरो(र-उ)पभोगा(ग-अ)-
 र्थ- -र्थाय पृहं १^०.
 स्व-शाखा(खा-अ)ध्ययन-पूर्वक-
 -कम्^d नाप १.
 स्व-शाखा(खा-अ)नुगत-मन्त्र-
 -न्त्रैः नाप ४,३८.
 स्व-शाखो(खा-उ)पसंहरण- -णम्
 नाप ४,३८.
 स्व-शिरस्- -रसा वि १.
 स्व-शिरश्-छेद- -दः महा ४,२६.
 स्व-संत्रिक्ति- -त्तौ १संन्या २,५१.
 स्व-संविद्- -वित् निर्वा २९८:१.
 स्व-सखी- -स्त्रीभिः सार २७०:२.
 स्व-संकल्प- -स्ये महा ६,३.
 स्वसंकल्प-वशा- -शात् महा २,
 ७०.
 स्व-समाना(न-अ)धिकरण-
 शून्य- -न्यः त्रिवि १,११.
 स्व-सामर्थ्य- -र्थ्यम् १योत ७६;
 -र्थ्यस्य १योत ७७.
 स्व-सिंहासन- -ने त्रिवि ६,२५.
 स्व-सिद्धान्त-न्यवस्था- -स्थामु
 गौ ३,१७.
 स्व-सुखा(स्व-अ)र्थ- -र्थम् सार

२८५: १७.
 स्व-सुत^०- -तात् वृ ४,५.
 स्व-सृष्टि-लीला(ला-अ)र्थ- -र्थम्
 सार २५४: २०.
 स्व-स्थ- -स्थः मै २,११^१; मैत्रि २,
 ७; ते ३,२२; ४,८०; महा ५,
 १२^६; १०९; ६, ६६; ८२;
 १संन्या २,३६; रुह ५२; यो १,
 ७३^b; ८३; वरा २,४४; २संन्या
 १५: २; सांसू २,३४; गी १४,
 २४; -स्थम् गौ ३, ४७; शि ६,
 ४०; -स्थे महा २,६^१; ७४.
 स्वास्थ्य- -स्थ्यम् अज ४,
 ४५.
 स्वस्थ-क्रम- -मेण पप ४१८ :
 १७^१.
 स्वस्थ-चित्त- -त्तः त्रिवा २,९३.
 स्व-स्थान- -नम् त्रिवि ८,२४; सार
 २८६:१४; शि ६,१४३; -नात्
 यो १,७.
 स्व-स्व-कर्मन्- -र्मणि ह ९.
 स्व-स्व-कार्ब- -र्बेषु १योत ७८.
 स्व-स्व-तेजस्- -जसा पं १७.
 स्व-स्वभाव- -वः निर्वा २९८ :
 १४^k; -वम् महा ५,१२१.
 स्वस्वभाव-तस(>) महा ५,
 १५५.
 १स्व-स्वरूप^१- -पः नापू ४,२९^m;
 -पम् ते ५,७२; त्रिवि ३,७^३; पाशु
 २, ४३; वरा २, २४; २६; सार
 २२०: १२; २३४:१६; २७६:
 २३; -पात् ते ५,७४^३; सार २२२:
 २; -पे ते ४, ३२; ५२^१; -पेण
 ते ५, ७४; द १८; जाद १०,
 १३; सार २२४:६; २४८:१२.

स्वस्वरूप-चिन्तन- -नम् त्रिवि
 ४,१२^१.
 स्वस्वरूप-ज्ञ- -ज्ञः नाप ९,२०.
 स्वस्वरूप-तस(>) अध्या २७.
 स्वस्वरूप-ता- -तया वरा २,
 ३०.
 स्वस्वरूप-व्यतिरिक्त-माया-
 मय-बुद्धिनिद्रय-गोचर-जगत्-
 सत्यत्व-चिन्तन- -नम् नि ५१.
 स्वस्वरूपा(प-अ)नुसंधान-
 -नम् अज १, १८; -नात् वरा
 २, ३२.
 स्वस्वरूपा(प-अ)वशेष- -षः ते
 ५, ७२.
 स्वस्वरूपिन्- -पिणा गौ ५४;
 -पिणे गौ ६७.
 २स्व-स्वरूप, पा^१- -पः ते ५, ६०;
 -पा यो १, ७९.
 स्व-स्व-विषय-संप्रयोगा(ग-अ)-
 भाव- -वे योसू २, ५४^०.
 स्व-स्व-वेद-प्रपठन- -नम् म
 ४९:१०^१०.
 स्व-स्व-स्थान- -ने सि ६, ३३.
 स्व-स्वामि-बध्यमान- -नाः जावा
 १३.
 स्व-स्वामि-भाव- -वः सांसू ६,
 ६७.
 स्व-स्वामि-शक्ति- -क्तयोः योसू २,
 २३.
 स्व-स्वे(स्व-इ)तर-द्वितीयां-
 (य-अं)ज्ञ- -ज्ञैः पै १, १९^०.
 स्व-स्वो(स्व-उ)पाधि- -ल्य-
 -यात् पै ३, १; यो ३, २३.
 स्व-हस्त- -स्तेन सार २५०: १९;
 २१; २७१:९; २८८: ३; ४.

a) °रस्य इति निसा. संटि. । b) स्वे ज्ञ° इति ज्ञान., अज्या. । c) °रस्योप° इति अज्या. । d) वा. क्रिवि. द्र. । e) उप. =रसुत- । f) 'स्वस्य' इति पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. नाउ.) । g) 'स्वच्छः' इति अज्या. । h) °स्थस्य इति अज्या. । i) 'स्वच्छे' इति अज्या. । j) °स्थः क्र° इति अज्या. । k) स्वेच्छाचारस्व° इति निसा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । l) तस. । m) °पम् इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । n) बस. । o) 'स्वविषयासंप्रयोगे' इत्यपि पा.मे. । p) सुसंबे° इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । q) स्वेस्वे° इति अज्या. ।

स्वहस्ता(स्त-अ)चित्त-लिङ्ग-
-ङ्गम् स ३७९ : ११.
स्व-हृद्- -हृदि वृजा ६, ७.
स्व-हृदय- -ये सुमु ३; १८.
स्वहृदया(य-अ)र्चन- -नम् मैत्रे
२, २६.
स्वां(स्व-अं)श- -शम् त्रिवि ३,
४-६^१.
स्वांश-भूत- -तैः श २२.
स्वा(स्व-अ)ङ्ग- -ङ्गात् सार २८२ : ८.
स्वाङ्ग-जुगुप्सा- -प्सा योसू २,
४०.
स्वा(स्व-अ)ङ्गुलि, ली- -लिभिः
त्रिब्रा २, ५४; -लीः शां १, ३, ५.
स्वा(स्व-अ)ङ्गुष्ठा(ष्ठ-आ)द्य-
(दि-अ)ङ्गुली- -लीभिः सौ २, ३.
स्वा(स्व-अ)ती[१नी^१(क>)]का^०-
-काः पा ४, ८.
स्वा(स्व-आ)त्मन्- -स्मनः ते ३,
२५; महा ४, ७०; योशि २, २०;
पाशु २, ४६; वरा २, २०; २५;
२७; ४, ३८; ब्रसू ३, ३, ३५;
-स्मना महा ४, ११३; अज ५,
९६; ११५; अध्या ६७; १आ
१२; पाशु २, १५; ४२; ब्रसू २,
३, २०; -स्मनि ते ३, २४^१; नाप
५, १; ६, १२; महा २, ६; ५,
११७; १२०; १८४; योशि ३,
१०; १संन्या २, ५९; ५५ ४१८ :
१९; अज ३, १०; ५, ७९; अध्या
४; २१; १आ २६; पाशु २, १२;
३१; जाद १, १६; ५, ३; १०, १०;
पं १६; १७; २३; शि ६, ११३;
-स्मा काला १३; ते ४, १४; महा ५,
१००; जाबा २१; -स्मानम् वृपू
४, १४; १६; वृउ २, ८^३; ७, १२;
८, ३; ध्या १०५; राउ ४, १; ५,
१; वा २०; २६^१; शां १, ७, ४३;

पे ४, ९; अव्य ३; १अव २६;
त्रिता २, ७२; ४, १४; करु ४१;
जाद ४, ६०; ता३, १; गोउ ६०^०;
वरा ५, ३४; ३९; आथ ३९९ : १९.
स्वात्म-ज्ञान- -नम् योशि १, ६५.
स्वात्म-ज्योतिस्-
स्वात्मज्योतिर्मय-
स्वात्मज्योतिर्मय-चिद्-रूप-
वेदिका-स्थान-विशेष- -वम्
सि ६, २७.
स्वात्म-दर्शन- -नात् नाप ६, १२.
स्वात्म-नाश- -शः महा ४, ११५.
स्वात्म-निश्चय- -यम् महा २, २.
स्वात्म-निष्ठा(ष्ठा-अ)नुकूल-
-लेन तुअ २२^१.
स्वात्म-परिज्ञान-
स्वात्मपरिज्ञानिन्- -नी सह
५१.
स्वात्म-प्रकाश-रूप- -पम्
१योत ७; योशि १, ५.
स्वात्म-प्रत्यय-कारण- -णात्
जाद ४, ५२.
स्वात्म-बन्ध-रहित- -तः वउ
१, १६; ५, ४२.
स्वात्म-बन्ध-हर, रा- -रः वृउ
२, ११; ब्रवि ११०^१; राउ ३, १;
-रा विद्या ४.
स्वात्म-भाव- -वाः सार २५७ : १
स्वात्म-भूत- -ते करु २४.
स्वात्म-भोग-भृत्य(ति-अ)र्थ-
-र्थम् शि ६, २४५.
स्वात्म-मति- -तिम् जाद ७,
१३^१.
स्वात्म-मन्त्र- -न्त्रम् ते ३, ५९^१.
स्वात्म-मात्र-
स्वात्ममात्र-ता- -तया वरा
२, २५.
स्वात्ममात्रा(त्र-अ)वशेषक-
-कः ते ३, २४.

स्वात्म-मात्रक- -कः ते ४, ३४.
स्वात्म-योगै(ग-ए)क-निष्ठ-
-ष्टेषु योशि १, १५४.
स्वात्म-रत- -तः यो १, ७३^१.
स्वात्म-रति-क्रि(या>)य- -यः
अज २, १०.
स्वात्म-राज्य- -ज्ये ते ३, २५;
४, ३१; ५, ७३.
स्वात्म-रूप- -पम् योशि १, १७;
-पेण करु ३४.
स्वात्म-लाभ-परायण- -णाः
महा ५, ४२.
स्वात्म-लिङ्गा(ङ्ग-अ)र्चक- -काः
सि ५, २०.
स्वात्म-वत् जाद १, १५.
स्वात्म-शुद्धि- -द्धिम् जाद ५,
१३.
स्वात्म-सिंहासन- -ने ते ३,
२५.
स्वात्म-सुख- -खः अज ५, ९.
स्वात्म-स्थ- -स्थम् वृउ ९, ९.
स्वात्मा(त्म-अ)भि- -भौ शि ४,
६५.
स्वात्मा(त्म-अ)तिरेक- -केण
पाशु २, २६.
स्वात्मा(त्म-आ)नन्द- -न्दम् ते
४, ३२; योशि १, १३६.
स्वात्मानन्द-सुख- -खे द १,
स्वात्मानन्दा(न्द-अ)नुभव-
-तरङ्गिणी- -ण्याः सि ४, ४.
स्वात्मानन्दा(न्द-अ)नुभव-
-विज्ञान-धन-हृद्राक्ष-कल्प-
-तर्क-वन- -नैः सि ६, ९.
स्वात्मानन्दा(न्द-अ)नुभवा-
(व-अ)मृत-कलोल-रस-
-प्रवाह- -हैः सि ५, १७.
स्वात्मा(त्म-आ)राम- -मः ते ४,
४७^१.

१) शमा^० इति आन. । b) पा. १ यनि. श्लोभः द्र. । c) वस. । d) 'स्वम्, आत्मानम्' इति अज्या. । e) आ^० इति आन. । f) 'व्येन इति अज्या. । g) सर्वैव' इति अज्या. । h) आ^० इति अज्या. । i) तु. गप्. पृ३०७e ।

स्वात्माराम-ता- -तया महा
५, ३२; वरा ४, ८.
स्वात्मी ✓कृ
स्वात्मी-कृत- -ते त्रि १२^a.
स्वा(स्व-आ)त्म-कर्तृता- -तया
महा ६, ३.
स्वा(स्व-आ)धा(र>)रा- -रा योशि
३, २.
स्वा(स्व-अ)धिक- -कम् त्रिवि २, ८.
स्वा(स्व-अ)धिष्ठान- -नम् हं ६; ध्या
४३; ४७; ४८; योचू ४; ६; ११;
यो ३, ९; १०; योरा ७.
स्वाधिष्ठान-गत- -तः यो १, ८४.
स्वाधिष्ठान-चक्र^१- -क्रम् सौ
३, १.
स्वाधिष्ठाना(न-आ)श्रय- -यात्
योचू १२.
स्वाधिष्ठाना(न-आ)ह्वय- -यम्
योशि १, १७२; ५, ८.
स्वा(स्व-अ)धीन-मा(या>)य-
-यः पै १, ७.
स्वा(स्व-अ)धीना(न-अ)ग्नि-
-ग्निम् नाप ४, ३८.
स्वा(स्व-अ)ध्यासा(स-अ)पनय-
-यम् अक्षि ४२; अध्या ३.
१स्वा(स्व-आ)नन्द^b- -न्दम् पै २,
४४; कुं २७.
स्वानन्द-तृप्त- -सा; मैत्रे १, ४, १३
स्वानन्द-मय-
स्वानन्दमया(य-अ)नन्ता-
(त-अ)चिन्त्य-विभव- -वः
त्रिवि १, ११.
स्वानन्दा(न्द-अ)नुभव- -वात्
अध्या २८.
स्वानन्दा(न्द-अ)ब्धि- -ब्धौ ते
५, ७२.
स्वानन्दा(न्द-अ)विर्भाव-

-वम् सार २५२ : ९; -वाय सार
२४० : १.
२स्वा(स्व-आ)नन्द^c- -न्दः कुं २६.
१स्वा(स्व-अ)नुभव^d- -वः मैत्रे ३,
२४; -वेन वरा २, ३०.
२स्वा(स्व-अ)नुभव^e- -वम् महा
५, ५४.
स्वा(स्व-अ)नुभाव-
स्वानुभाव-तस(>) महा ५,
८१^a.
स्वा(स्व-अ)नुभूति- -तिः रु २२;
-तेः महा ४, ५; -स्या महा ४, २५;
अध्या ४; ६४; पाशु २, १७.
स्वानुभूति-रसा(स-आ)वेश-
-शात् सर ३, २८.
स्वानुभूत्ये(ति-ए)क-चित्-
स्वानुभूत्येकचिन्-मय- -यः
राउ ५, १^०.
स्वानुभूत्ये(ति-ए)क-मान-
-नम् अन्न ३, २३^०.
स्वा(स्व-अ)न्तर(>))
स्वान्तर-आत्मन्-
स्वान्तरात्म-क- -कः योशि
५, ३२.
स्वान्तर-विजृम्भित-भानु-म-
ण्डल-ध्यान-तदाकाराकारित-
परब्रह्मा(ह्य-आ)कार-
स्वान्तर्विजृम्भितभानु-
मण्डलध्यानतदाकाराकारित-
परब्रह्माकारित-मुक्तिमार्ग-
-र्गम् मं २, ४, ४^१.
स्वान्तः-सूत्र- -त्रम् पत्र ३, १४.
स्वान्तः-स्थित- -तः नाप ९, २०^b.
स्वा(स्व-अ)न्तर-इन्द्रिय-निग्रह-
-हः निर्वा २९८ : ७.
स्वा(स्व-अ)न्तर-धि- -धिम् पं २७.
स्वा(स्व-अ)न्यत्र अध्या २.

स्वा(स्व-अ)प्यय- -यात् ब्रसू १, १, ९.
स्वाप्यय-संपत्ति- -स्योः ब्रसू ४,
४, १६.
स्वा(स्व-आ)भास- -सम् योसू ४,
१८.
स्वा(स्व-अ)भिमत्- -तम् महा ४,
८८; पप ४१९ : ३; नाप २.
स्वाभिमत्(त-ए)क-गुरु-
समीप- -पे नाप १.
स्वा(स्व-अ)भ्यास- -से १योत ७८.
स्वामिन्^d- -मिन् मं ३, १, १; त्रिता
५, १; वरा २, ७०^१; -मिनः ब्रसू
३, ४, ४४; -मिनम् त्रिता ४, ५;
-मी गोउ १५९^१.
स्वामिनी- -नी सार २२५ :
१५; -न्याः सार २३९ : २०;
२६० : ५; २८२ : २; २८३ : १४.
स्वामि-भाव- -वेन सार २३९ :
१७.
स्वाम्य- -म्यम् भव २, ५८^१.
स्वाम्य(मि-अ)धिष्ठिति- -तिः
सांसू ५, ११५.
स्वा(स्व-आ)यत्त- -त्तम् महा ४,
८९.
स्वा(स्व-अ)र्वा- -र्वाम् भव १, ५५.
स्वा(स्व-अ)र्थ- -र्थः सांका ५६;
-र्थम् सांसू २, १; -र्थे मै ४, ४, १३;
मैत्रि ५, १; सु २, २, २२.
स्वार्थ-नाशो(श-उ)घमा-
(म-अर्थ>)र्था- -र्थया महा
५, १०९.
स्वार्थ-संयम- -मात् शां १, ७,
५२.
स्वा(स्व-अ)र्ध-भाग- -गान् त्रिवा
२, १^१.
स्वा(स्व-आ)लया(य-अ)न्तिक-
-कम् गोउ ६८.

a) °कृत्य इति तान्त्रि. । b) तस. । c) बस. । d) °भावितः इति अख्या. । e) °स्यै° इति निसा. ? यनि.
शोधः द्र. (तु. अख्या.) । f) °परं° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । g) °तम् इति अख्या. । h) प्र. ? मिन् (तु. MW.)
वा अमिन् (पा ५, २, १२६) वा ? । i) 'स्वस्मिन्' इति अख्या. । j) स्वार्थं° इति निसा. ।

स्व-आ)लोक-
 बालोक-तस(>:) महा ५,
 : १^a.
 स्व-अ)वगम्य- -म्यः वरा २,

 स्व-अ)विद्या- -द्याया श २०.
 स्व-आ)विभाव- -वेन सार
 १७८ : ४.
 स्व-आ)वेश- -शेन सार २३९ :
 १०; १४; २४०:४; २५४:१८;
 २८१ : १३.
 वावेश-प्रकटा(ट-अ)नुभाव-
 वः सार २६२ : ७.
 स्व-अ)व्यतिरिक्त- -क्तान्,
 ने नृउ ९, ५.
 स्व-आ)श्रम- -मम् शा २७;
 शं६, १५४; -मान् नाप६, १३^b;
 मे शि ३, १; -मेष्टु मै ४, ३; मैत्रि
 ३, ३.
 वाश्रम-विहित-कर्मा(र्म-अ)-
 ष्टान- -नम् सांसू ३, ३५.
 स्वाश्रमा(म-आ)चार^०-
 स्वाश्रमाचार-पर- -रः नाप
 ३, ३८; ५, १.
 स्वाश्रमा(म-आ)चार^d- -रः
 मञ्ज १, ८.
 स्वाश्रमो(म-उ)क्त-विधि-
 धिम् रार ४, २.
 स्वाश्रमो(म-उ)क्त-सदाचार-
 वेद्वच्-छिक्षित- -तःशां १, ५^०
 ा(स्व-आ)श्रय^०-
 स्वाश्रय-ज्वालिनू- -ल्लिने या
 २, २१.
 ा(स्व-आ)श्रय^d- -यम् पित्र ४,
 १०.
 (स्व-आ)सना(न-अ)धस(>:)

रापू ५, २.
 स्वी/कृ, स्वीकुर्यात् २कौल १२.
 स्वी-करण- -णम् भा ३५.
 स्वी-कृत-
 स्वीकृत-वैराग्य- -ग्यात् मं
 २, ४, ३.
 स्वी-कृत्य मं ३, १, ४.
 स्वीय-
 स्वीय-स्व- -स्वेन त्रिवि २, १३.
 स्वे(स्व-इ)च्छा- -च्छया १योत
 १०९; ११०^३; त्रिवि ४, १४;
 महा ५, १२८; योशि १, ४४;
 सर ३, ९; शि ६, १८४; २कौल
 ११.
 स्वेच्छा(च्छा-आ)चार- -रः
 निर्वा २९८:१४^१.
 स्वेच्छाचार-पर- -रः १अव
 ३३.
 स्वेच्छा(च्छा-अ)नुसार- -रेण
 त्रिवि २, १४.
 स्वे(स्व-ई)प्सित-त्याग-रूप-
 स्वेप्सितत्यागरूपिन्- -पिणा
 महा ४, ९०.
 स्वे(स्व-ई)प्सित-त्याग-वेदन-
 -नम् महा ४, ८९.
 स्वे(स्व-इ)ष्ट^०- -ष्टम् सार २५०:१०;
 २९२ : १७; -ष्टस्य सार २५० :
 १०; -ष्टे सार २५० : १२.
 स्वेष्ट-देवता- -ताम् शां १, ५.
 स्वेष्ट-बन्धु-वियोग- -गे शां
 १, १.
 स्वै(स्व-ई)र^d- -रम् १अव ६^३.
 स्वैर-विहरण- -णम् १अव ६.
 स्वै(स्व-ई)रिन्^d- -री छां ५, ११, ५.
 स्वैरिणी- -णी छां ५, ११, ५.
 स्वो(स्व-उ)च्छिष्ट- -ष्टम् सार २४६:

२०.
 स्वो(स्व-उ)द्रेक-
 स्वोद्रेक-तस(>:) रापू १, २.
 स्वो(स्व-उ)पकार- -रात् सांसू
 ५, ३.
 स्वौ(स्व-ओ)जस- -जसा पा ६, ३.
 स्व(सु-अ)च्छु, च्छ्या- -च्छः नाप ६,
 ३६; महा २, २७; ८२; योशि १,
 ४७; अञ्ज ५, ११५; -च्छम् महा
 ५, ५३^१; अञ्ज ५, ६६; १०७; भा
 ३१; शि ६, १००; -च्छया महा
 २, ५७; -च्छा महा ६, ७३; अञ्ज
 ५, १०८; -च्छा: महा ६, ५९;
 १संन्या २, २६^१; -च्छाभ्याम् बृजा
 ४, ३१; -च्छाम् अञ्ज ३, १५;
 -च्छे महा ५, ५५; अञ्ज ५, ११३.
 स्वच्छ-ता- -ता १संन्या २, ५६;
 अञ्ज ५, ८५; -ताम् अञ्ज ३, १२.
 स्वच्छ-रूप- -पः ते ४, ३३.
 ✓स्वद्
 स्वदन- -नम् महा ६, ३८.
 स्वदन-मात्र- -त्रम् महा ४, ९.
 स्वादु- -दु सुं ३, १, १४^k; ऐ ५, १;
 श्वे ४, ६४^k; शु ३, १; नाउ १,
 ४४^k; भव २, २४^k; -दूनि मैत्रि
 ६, १०^३; शि ६, ३४.
 स्वादु-तम- -मः इ १४ : १८.
 स्वादु-परिग्रह- -हः मैत्रि ६,
 १०.
 स्वाद्य-
 स्वाद्य-स्वादक-मध्य-ग-
 -गम् महा ६, ३७.
 स्वाद्य-स्वादक-संस्पर्क- -क्तम्
 महा ६, ३७.
 स्वधाम^m- -धया मना २, १२, ३४^m; -धा
 प्र २, ८; मना २, ३४^०; ४४^०; ५४^०;

a) °किं इति अज्या. । b) त्वा° इति अज्या. । c) तस. । d) बस. । e) °विच्छि° इति अज्या. संटि. ।
 ारस्व° इति निसा. ? यनि. शोषः द्र. (तु. अज्या.) । g) उप. = १३ष्ट- । h) पावा ६, १, ८९ । i) वा. क्विवि.
 j) °च्छस्व° इति अज्या. । k) ऋ १, १६४, २० । l) °दु° इति पा. ३ यनि. शोषः द्र. (तु. सात.) ।
 १२ यद्र. । m) ऋ ४, ५८, ४ । o) तैआ १०, ३, १ । p) तैआ १०, २, १ । q) तैआ १०, ४, १ ।

८१^a; ६७^b; सुद्र ३; ए ५; करु
१^c; इ १०; ११; सूता ३, ४; कश्रु
२, २^d; गी ९, १६; -धाम् छां २,
२२, २; मना २, ४०^e; -धायाम्
इ १४: १८.

स्वधा/कृ

स्वधा-कार- -रः, -रम् वृ ५, ८, १

स्वधिति^d - १^eति: मना २, १२, १;
२, ४०; व ४४२: १९; ४४८:
३; ४५२: १०.

√स्वन

स्वन-

स्वन-व(त्>)ती- -ती मैत्रि
६, ५.

स्वनत्- -न्तम् पा ६, १०; ८, ६.

स्वनन्ती- -न्तीम् पा ६, ४.

स्व(सु-अ)नुष्ठित- -तात् गी ३, ३५;
१८, ४७.

√स्वप्, स्वपति कै १, १४^f; स्वपेत् कर
३; कश्रु ३, ३.

स्वपिति प्र ४, २; छां ४, ३, ३;

६, ८, १^g; वृ २, १, १७; सुवा ४^h;

स्वपन्ति प्र ४, १; स्वपिषि वपं

३१२: १६; स्वस अरु १५ⁱ.

स्वपिता वा ५.

सुस,सा- -स: मां ५; छां ८, ६, ३;

११, १; वृ २, १, १६; १७; ४, ३,

१४; १९; गौ १, १६; मैत्रि ७,

११; कौ ३, ३; ४, १५^j; १९;

नृपू ४, ६; नृउ १, ८; सुवा ४;

नाप ८, ११; राउ ३, १; अन्न १,

३४; शा २०; विद्या ३; वउ १,

८; ५, ३५; -सम् वृ २, १, १५;

कौ ४, १८; शि ७, ८४; -सत्य वृ

६, ४, ४; मैत्रि २, ५; महा ५, ६४;

१शिसं १^k; २शिसं ८^l; भव १,

४३; -सा शां १, ७, ३७; यो १, ४५;

-सा: या २, २२; श्या १८; -सात्

मैत्रि ७, ११; -सान् वृ ४, ३, ११;

-से रुजा १, १९; -सेषु कर २, ८.

सुस-बुद्ध-

सुसबुद्ध-वत् महा ५, ३८.

सुस-वत् नाप ३, ६८.

सुस-हस्त-स्थ-पुष्प-

सुसहस्तस्थपुष्प-वत् ते ६,

१०४.

सुसि- -सि: यो १, ५६; -से: पै ३,

२; यो ३, ३३; वरा २, ६४; -सौ

वरा ३, १०.

सुसि-तस(>) योचू ७४.

सुप्स्य(सि-अ)न्त- -न्तम् वरा २,

६४.

सुप्स्वा वृजा ४, ६.

स्वपत्- -पत: अन्न ५, १; २७; -पन्

कौ २, ५^m; १योत २३; महा ६,

३४; सिशि ३८१: ११; गी ५,

८; -पन्त: मना २, ५९ⁿ.

स्वम^o- -म: वृ ४, ७; गौ १, १५;

४, ३७; मै ४, २; मैत्रि ४, २; ६,

२५; महा ४, ४४; ५, ८; १५;

१६-१७^o; शारी ५; योशि ४,

१०; अन्न ५, ८७; १०९; अत्ति

३२; वरा २, ६१^p; वउ ३, १०;

-मम् मां ५; छां ८, ६, ३; ११, १; वृ

४, ३, १९; गौ १, १४; हंट; ब्र २;

३, १३; अ३; कौ ३, ३; ४, १५^q;

१९; नृपू ४, ६; नृउ १, ८; १०;

११; योशि ५, ३६; सुवा ४; १५;

ससा १, ९; ते ४, १०; नाप ५, १^r;

६, १^s; ८, ११; १५; १७; त्रिब्रा

२, १०^t; राउ ३, १; वउ १, ९, ५,

३५; पिब्र ६, ८; १०; गी १८, ३५;

-मा: ऐ ३, १२; -मान् प्र ४, १; ६;

-माय वृ ४, ३, १५; ब्र १; -भे कर,

३, ५; प्र ४, ५; छां ८, १०, १; वृ ४,

३, १६; गौ २, १; ३; ४; ७; ३, २९;

३०; ४, ३२; ३३; ३६; ३९^u; ४१;

६१-६३; कै १, १३; ब्र १;

२; नृउ २, १; नाद २३^v; योचू

७४; नाप ४, ९; ५, ५; ६, १; योशि

४, ११; पप ४१९: २२; पत्र २;

यो २, २२; वरा १, १; स्व ६१:

१७; सार २४९: २३; २७८:

२०; २१; शि ७, ७; -भेन वृ ४,

३, ११; -भेषु छां ५, २, ८.

स्वम-कर्मन्-

स्वमकर्म-वत् अध्या ५०.

स्वम-कल्पित- -त: पै २, २८.

स्वम-काल- -ले नाप ५, १.

स्वम-चारिन्- -ती मैत्रि ७, ११.

स्वम-जगत्- -गतं निर्वा २९७:

११.

स्वम-जागर- -राभ्याम् सांसू ३,

२६.

स्वम-जागरित-स्थान- -ने गौ

२, ५.

स्वम-जाग्रत्^r- -ग्रत् महा ५, ८;

१८^s.

स्वम-ता- -ता योशि ४, ११.

स्वम-तुरीय^t- -य: पप ४१९: ३०

स्वम-तुल्य- -त्यान् त्रिवि ५, ४.

स्वम-तैजस^u- -स: पप ४१९:

२९.

स्वम-दृश्- -दृक् गौ ४, ६३.

स्वमदृक्-चित्त- -त्तम् गौ

४, ६४.

स्वमदृक्चित्त-दृश्य-

-दृश्या: गौ ४, ६४.

a) तैश्चा १०, ६, १। b) तैश्चात्रा १०, ६७। c) तैसं ४, २, ९, ६। d) वैपश् यद्र.। e) ऋ ९, ९६, ६।

f) ०पिति इति आन., अज्या.। g) तैश्चा १, २७, २। h) 'पुरुषः' इति श्चांया ६, १५। i) मा ३७, १। j) 'स्वरूपम्'

इति अज्या.। k) तैश्चात्रा १०, ५९। l) 'स्वप्न्यया' इति आन., अज्या., श्चांया ६, १५। m) न. प्रयोगः द्र.।

n) ०मजा इति अज्या. संति.। o) ०मः इति अज्या.।

स्वप्न-दृष्ट- -ष्टम् ते ६, ८८.
 स्वप्न-देह- -हः नाद २४.
 स्वप्न-धी-गम्य- -म्यम् भव २,
 ४३.
 स्वप्न-निदर्शन- -ने छां५, २, ८.^१
 स्वप्न-निद्रा-ज्ञाना(न-आ)-
 लम्बन- -नम् योसू १, ३८.
 स्वप्न-निद्रा-युत- -तौ गौ १,
 १४.
 स्वप्न-प्राज्ञ^१- -ज्ञः पप ४१९:
 ३०.
 स्वप्न-मय- -यः गौ ४, ६८.
 स्वप्न-मात्रा-चतुष्टय- -यम्
 पप ४२० : २.
 स्वप्न-माया- -ये गौ २, ३१.
 स्वप्नमाया-सरूप(प>)पा-
 -पा गौ १, ७.
 स्वप्न-वत् गौ ३, १०; त्रिब्रा २,
 १६५; स्क ३; अस्ति ३१; वरा
 ४, १२; २अव ३३८ : ७.
 स्वप्न-वर्तन- -नम् त्रिब्रा २,
 १५०.
 स्वप्न-विश्व^१- -श्वः पप ४१९:
 २९; वरा ४, १.
 स्वप्न-वृत्ति- -तौ गौ २, ९.
 स्वप्न-संगम-संनिभ- -भम्
 भव १, १९.
 स्वप्न-स्थ-राज्य-भिक्षा-
 -क्षाभ्याम् वरा २, ५८.
 १स्वप्न-स्थान^१- -नम् बृ४, ३, ९.
 स्वप्नस्थान-गत- -तः नाप
 ८, ९.
 २स्वप्न-स्थान^१- -नःमां४; १०;
 वृ४, ५; वृ४ १, ७; २, ६; रा४
 ३, १; विद्या २१^०; व४ १, ६.
 स्वप्ना(प्र-आ)दि-
 स्वप्नादि-चतसृ- -स्रः पप

४१९ : २२; नाप ६, १.
 स्वप्नादि-वत् वसू २, २, २९.
 स्वप्ना(प्र-आ)न्त- -न्तम् क २,
 १, ४; छां ६, ८, १; बृ४, ३, १८;
 -न्ताय बृ४, ३, १७; -न्ते बृ४,
 ३, १३; ३४.
 स्वप्ना(प्र-आ)भ- -भम् अक्ष५,
 ८७.
 स्वप्ना(प्र-आ)वस्था- -स्था ध्या
 ९३, १२; पै २, ४०; -स्थायाम्
 नाप ५, १; पप ४१९ : २४.
 स्वप्नावस्था-मध्य- -ध्ये
 ध्या ९३, १२.
 स्वप्ना(प्र-आ)वस्थान-
 स्वप्नावस्थान-सुषुप्तिदशा-
 (शा-आ)धिष्ठायि(न् >)नी-
 -नीम् विद्या ३.
 स्वप्नावस्थान-स्थिति-रू-
 (प>)पा- -पाम् विद्या २.
 स्व(प्य>)प्या- -प्यया बृ
 २, १, १८.
 स्वप्स्य^१-
 √स्वप्स्य, स्वप्स्येत् ते४, ३२^०.
 स्वाप-
 स्वापा(प-आ)व्याकृत- -तयोः
 यो १, ८१.
 १स्वमान^१ आबो १.
 स्व(सु-आ)मृत- -तम् तै १, १०, १;
 नाप ४, ३८५^६.
 स्वयम्^१ क १, १, २३; प्र ३, ५; सुं ३,
 २, १०; तै २, ७, १; बृ४, ३, ९^१;
 गौ २, १९; ४, ८१; ८९; मै
 ४, ४, ९; मैत्रि ६, ३४; अना
 २९; अ ३; स्वयम्-स्वयम् सार
 २४० : १.
 स्वयं-रति- -तिः ते ४, ५२.
 स्वयं-वर-कक्ष्याणी^१- -णी व २०.

स्वयं-कल्पित-तन्मात्रा-जाला-
 (ल-आ)भ्यन्तर-वर्तिन्- -तिं
 महा ५, १२९^१.
 स्वयं-जेनातिस- -तिषे पा ४, १.
 स्वयं-ज्योतिस- -तिः बृ४, ३, ९^१;
 १४^१; हं २१; ससा १, २५; ते
 ३, २३; ४, ५२; ब्रवि १०६; नाप
 ८, २०; त्रिवि १, ११; ना४ १,
 १८.
 स्वयंज्योतिः-प्रकाश- -शः नाप
 ९, २०.
 स्वयंज्योतिर-ब्रह्मा(द्वा-आ)-
 कार- -रः नाप ८, २०^१.
 स्वयंज्योतिः-स्वभाव- -वे पाशु
 २, १५.
 स्वयंज्योतिः-स्वरूप- -पम्
 अक्ष ४, ३६; पाशु २, ३३; रुह
 ४९.
 स्वयं-धीर- -राः क १, २, ५^१; सुं १,
 २, ८; मैत्रि ७, ९.
 स्वयम्-अधि(क>)का- -का ससा
 १, ४०.
 स्वयम्-आत्मन्- -स्मा ते ४, ३५.
 स्वयम्-ईश्वर- -रः वृ४ २, ८.
 स्वयं-प्रकाश- -शः अ ३; -शाम्
 त्रिवि ७, १७; वरा २, १२; सि
 ६, ११.
 स्वयंप्रकाश-मय- -यः त्रिवि १,
 ११.
 स्वयं-प्र(भा>)भ- -भः अध्या ११;
 जाद ५, १३; सु २, २, ७५; -भम्
 ते ६, ३५; नाप ६, ९; वरा २,
 २९.
 स्वयं-भाव-रहित- -तम् ससा १,
 ११^१.
 स्वयं-भाव-विवर्जित- -तः ते ५,
 ७३.

अ) तसः । b) वसः । c) ०ने इति पा.१ यनि. शोषः द्र. । d) तु. गपू. वृ६११d । e) ०प्ये इति अश्रद्धा. । f) पा.१
 √प>पवमान-> -०न इति शोषः द्र. (तु. ऋ ९, ११३, ७) । g) तैआ ७, १०, १ । h) अव्य. वैप१ यद्र. । i) स्वक^०
 इति अश्रद्धा. । j) वैकु. शं. पदद्वयमिति । k) ०ह्याकाशः इति निसा.१ यनि. शोषः द्र.(तु.अश्रद्धा.) । l) भावाभाव^० इति आन. ।

स्वयम्/भू
 स्वयं-भु- -भु वृ २, ६, ३; ४, ६, ३; ६, ५, ४; मना २, १५५^६.
 स्वयं-भू- -भुवः पित्र २, ८;
 -भुवम् पाशु १, २; २३; गार ४०५:२; ३; -भुवा लु २; महा ४, ५०; गु १; -भू: ई ८; क २, १, १; मना २, ७९५^७; ए १३; पाशु १, १; ३; ३३; गार ४०५: ४; व ४६०: ५५^८.
 स्वायंभुव- -वा: अरु ११९^९.
 स्वयं-भूय अध्या ८.
 स्वर^०(>) छां २, २३, २; वृ ५, ५, ३; ४; मै ५, ५; मैत्रि ६, ५; कौ २, १४^१; अशि ६, १८९^१; वृपू ४, ११; ते ६, २०; ध्या ११; योचू ८५; ए ३१^२; अरु ३१९^३.
 स्व:पति-
 स्व:पति-स्व- -त्वम् वपू १, ६.
 स्वर-गति- -तिम् गी ९, २०.
 स्वर-दृश- -दृशम् अशि ४, २१५^४.
 स्वर-निर्गत(>)ता- -ता पाशु १, २४^५.
 स्वर-यात- -तम् शि ७, ८२.
 स्वर-लोक^३- -क: गु १३; -कम् वृपू ५, १६; वड ५, १२.
 स्वर्लोक-ज्ञान- -नम् शां १, ७, ५२.
 स्वर-, स्वरत्- /स्वृ द्र.
 !स्वरशम्यनानातन्त्रीस्वरनृत्य-
 गीतवादित्राणि^६ २ प्र ३३:६.
 !स्वरोन्द्रियै: १ ते ५, ८६.
 स्वर्ग^७- -र्ग: नि ९; ३३^७; ९^८; ते ६, १९^९; अरु २१९^९; पित्र १, १५^९; ९^९; गर्गम् छां १, ८, ५^९; २,

२२, २; ३, १३, ६; ८, ३, ३; ५; वृ ३, १, ६; ४, ४, ८; ५, ३, १; अशि १, १; ते २, २३^{१०}; सु २, १, १; इ १६:२१; च २१: १५; शि ४, ५६; ६, २८०; रा ४२३: १८^{११}; गी २, ३७; -र्गस्य छां ३, १३, ६^{१२}; मैत्रि ७, ८; कौ १, २; -र्गात् इ १२: १०; -र्गान् कौ २, १५; -र्गे के ४, ९; क १, १, १२; ऐ ४, ६; ५, ४; कौ ३, २; १योत १०९: आबो १; अद्वै १३; शि ६, ८७; भव १, ७.
 स्वर्ग-काम- -म: मैत्रि ६, ३६.
 स्वर्ग-द्वार- -रम् गी २, ३२.
 स्वर्ग-निवासिन्- -सिनाम् गौ २, ८.
 स्वर्ग-पर- -रा: गी २, ४३.
 स्वर्ग-भू-पाताल- -लानि त्रिता १, २.
 स्वर्ग-भोग- -गम् रा ४२४: १८.
 स्वर्ग-मोक्ष-जिगीषा- -षया शि ५, ३९.
 १स्वर्ग-लोक^{१३}- -क: नाप ५, १; १संन्या २, ५९; गार ४०५: १५; -कम् भ २, २५; गी ९, २१; -के क १, १, १२; १८.
 स्वर्गलोक-काम- -म: भ २, २५.
 स्वर्गलोक-व्यवस्थि(>)ता- -ता गार ४०६: २३.
 २स्वर्ग-लोक^{१४}- -का: क १, १, १३.
 स्वर्ग-वासिन्- -सिनाम् कृ २५.
 स्वर्ग-संस्वाव- -वम् छां १, ८, ५.
 स्वर्गा(र्ग-आ)द्य- -द्यम् राउ ५, ११.
 स्वर्गा(र्ग-आ)नन्द- -न्दात् सार २४९: ६.
 स्वर्गा(र्ग-आ)पवर्ग- -र्गयो: शि ७, १२०.

स्वर्गापवर्गा(ग-आ)र्थ- -र्थम् महा ५, १६३; -र्थे शि ७, १.
 स्वर्ग्य- -र्ग्य: क १, १, १९; कृ १; इ १०: १३; भव ४, १५; कश्रु २, २; -र्ग्यम् क १, १, १३; १४.
 स्वर्ण^{१५}- -र्णम् ससा १, ३३^{१६}.
 स्वर्ण-कार^{१७}- -रै: योशि १, १५९.
 स्वर्ण-चक्र^{१८}- -क्रे रा ४२६: १.
 स्वर्ण-(ज>)जा- -जाम् यो २, ४४.
 स्वर्ण-ता- -ता १योत ७४.
 स्वर्ण-प्र(भ>)भा^{१९}- -भा सौ १, ३.
 स्वर्ण-प्राका(र>)रा^{२०}- -रा सौ १, ३.
 स्वर्ण-मण्डप- -पे राधा २, ३.
 स्वर्ण-माला^{२१}-
 स्वर्णमालि(न् >)नी^{२२}- -नी सौ १, ३.
 स्वर्ण-रुचिर-तनु- -नुम् रार २, १००.
 स्वर्ण-वर्णा(र्ण-आ)भ- -भम् रार २, १०४; १०६.
 स्वर्ण-विकार- -रेषु ससा १, ३३^{२३}.
 स्वर्ण-सिंहासन-मध्य-कमल-
 सं(स्थ>)स्था- -स्थाम् पी ४२१: ५.
 स्वर्ण-स्तेय- -यात् श ३६; रार ५, १७; मुद्र ४; १अव ३३; भ १, ११^{२४}; २, २२; कलि ३; वरा ५, ७६; नाउ ३, ७; स ३८०: १.
 स्वर्णस्तेय-सुरापान-गुरुतल्पा-
 (ल्प-आ)युत- -तानि राउ ५, ८.
 स्वर्णस्तेयिन्- -यी बि ३३.
 स्वर्ण-स्फाटिक-वैद्रुम- -मम् स ३७८: ४.
 स्वर्णा(र्ण-आ)ण्ड- -ण्डम् राधा १, ४.

a) तैआ १०, १४, १। b) तैआ १०, ६३, १। c) ऋ १०, ८३, ४। d) तैआ १, २७, २। e) तु. टि. सुवर। f) तैआ १०, १५, १। g) पा. ? /अस(भुवि) > असि इति शोध: द्र.। h) तैआ १, २७, ५। i) ऋ ७, ३२, २२। सुव^० इति अख्या.। j) वैतु. उज. वा. ?। k) पा. ? 'तन्त्री: स्वर^० इति शोध: द्र. (तु. गोत्रा १, १, २१)। l) पा. ? सर्वेन्द्र^० इति शोध: द्र. (तु. पत्ते अख्या. संटि.)। m) वैप१ यद्र.। n) 'र्गम् इति अख्या.। o) शौ १०, २, ३१। p) 'र्ग: इति अख्या.। q) कस.। r) नस.। s) =सुवर्ण-। t) सुव^० इति ग्रान.। u) सुवर्ण^० इति ग्रान.।

स्वर्णा(यो-आभ>)भा- -भाम् रार
२,९७.
स्व(सु-अ)ल्प,ल्पा- -ल्पः आबो २८;
अन्न ५,१७; -ल्पम् मैत्रे ३,१७;
१योत ५६; योशि ४,८; गी२,
४०; -ल्पा आबो २८.
स्वल्प-नि(द्रा>)द्र- -द्रः १योत
५७; त्रिब्रा २,१०३.
स्वल्प-स्यन्द- -न्दः १संन्या २,१७.
स्वल्पा(ल्प-आ)नन्द- -न्दाः मं २,
५,४.
स्वसृ^१- -सा छां ७,१५,१; ते ६,१६;
-सारः छां ८, २,४; -सारम् छां
७,१५,२.
स्वसृ-लोक^१- -केन छां ८,२,४.
स्वसृलोक-काम- -मः छां ८,
२,४.
स्वसृ-हृन्- -हा छां ७,१५,२; ३.
स्वस्ति^१- -स्तये ऽ^१व ४४२ : ९;
४४७:१६; ४५२:२; ४५५:७;
-स्तिक १, १, ९; प्रशां^१ऽ^१; सुं
शां^१ऽ^१; २,२,६; मां शां^१ऽ^१; मना
१, ९^१ऽ^१; ११^१ऽ^१; अशि अबृजा
तृपु नाप सी श शां^१ऽ^१; स्क १३;
त्रिवि रार रापू शां पप शां^१ऽ^१;
१संन्या २, ८६; अन्न सू १आ
पाशु पत्र त्रिता दे शां^१ऽ^१; करु १;
भा भ ग मवा गोपू कृ ह दत्ता गरु
अबि पहं शां^१ऽ^१; सि शां^१ऽ^१; गार
४०५ : १; ऽ^१रा ४२३ : १^१;
२^१; पित्र शां^१ऽ^१; कश्रु ३, १;
गी ११, २१; -स्तिकः स्क ९;
-^१स्तिकभिः मना २,१; व ४६१:
१०.

*१स्वस्ति-क^१-
२स्वस्तिक^१- -कः गरु^१; -कम्
अना १९; त्रिब्रा २, ३५; शां १,
३, १^१; जाद ३, १; ३; वरा ५, १६.
स्वस्तिक-गोमुख-पद्म-वीर-
सिंह-भद्र-मुक्त-मयूरा(र-आ)-
ख्य- -ख्यानि शां १, ३, १.
स्वस्तिका(क-आ)दि- -दि
त्रिब्रा २, ९१; -दीनि त्रिब्रा २, ३४.
स्वस्तिकाद्या(दि-आ)सन-
क्रम- -मात् रार ४, ५.
१स्वस्तिका(क-आ)सन^१-
-नम् जाद ६, ३२.
२स्वस्तिका(क-आ)सन^१-
-नः जाद ७, १०.
स्वस्ति-ज्योतिष- -षम् १संन्या २,
८६^१क.
स्वस्ति-दा- -दाः मना १, ९^१; ऽ^१; २,
५५^१ऽ^१; ऽ^१व ४६४ : १; २.
स्वस्थ- स्व- द्र.
स्वा(सु-आ)गत- -तम् नाप ४, ७.
स्वातन्त्र्य- स्व- द्र.
स्वादु-, स्वाद्य- $\sqrt{\text{स्वद}} \text{द्र.}$
स्वाध्याय^१- -यः ते ५, ५२; शा
१५; भव ३, ७; गी १६, १; -यम्
छां १, १२, १; ८, १५, १; आरु १;
पहं १; कौ १, १; नाप ३, ८६;
-यस्य ब्रसू ३, ३, ३; -यात् तै १,
११, १; योसू २, ४४; -यैः इ १४:
१६.
स्वाध्याय-काल- -ले सी ६.
स्वाध्याय-ज्ञान-यज्ञ- -ज्ञाः गी ४,
२८.
स्वाध्याय-ध्यान- -नम् शि ७, १२७.

स्वाध्याय-प्रवचन- -नाभ्याम् तै १,
११, १; -ने तै १, ९, १^१.
स्वाध्याय-युक्त- -क्ताः पाशु १, ३०.
स्वाध्याय-शौच-संतोष-तपस-
-पांसि भव ३, १७.
स्वाध्याय-संयम- -माभ्याम् भव
३, ६.
स्वाध्याया(य-आ)भ्यसन- -नम् गी
१७, १५.
स्वान्त^१- -न्ते वउ ६, २०.
स्वान्ता(त-अ)म्भोज- -जात् वउ
६, १९.
स्वाप- $\sqrt{\text{स्वप}} \text{द्र.}$
स्वाप्यय-, स्वाभाविक-, स्वामिन्-,
स्वाम्य-, स्वायत्त- स्व- द्र.
स्वायंभुव- स्वयम् द्र.
स्वाराज्य-, स्वालक्षण्य- स्व- द्र.
स्वा(सु-आ)वरण- -णानि त्रिवि २,
१६^१.
स्वावेश-, स्वास्थ- स्व- द्र.
स्वाहा^१ तै १, ४, १; २^१; छां २, २४,
६; १०; १५; ५, १९, १^१ऽ^१; वृ ६,
३, १^१; जा ४^१; मना १, १५^१ऽ^१;
कौ २, ३^१; वृपू २, ४; शु १, १८^१;
नाप ३, ७७^१; त्रिवि ७, ३०.
स्वाहा $\sqrt{\text{क}}$
स्वाहा-कार- -रः, -रम् वृ ५, ८, १
स्वाहा-कृत- -तम् मना २, १२,
२^१ऽ^१.
१स्वाहा(हा-अ)न्त^१- -न्ते वृजा ३,
१३.
२स्वाहा(हा-अ)न्त^१- -न्तः रार २,
१९; ७९; ९४.
स्वाहा-पद-द्वय- -यम् हंपो १४.

- a) वैपश् यद्र. । b) ऋ १, ८९, ५ । c) ऋ १, ८९, ६^१ । d) तैसं १, ४, ४१, १ । e) ऋ १, १८९, २ ।
f) स्वस्तिं करोतीति कृत्वा कर्मकारणप्रसिद्ध-तदाख्यचिह्नविशेष- । उप. नैप्र. <क< $\sqrt{\text{क}}$ । g) =स्वस्तिक-
चिह्नकाराऽऽसनविशेष- । h) *कम् इति अञ्ज्या. संटि. । i) कस. । j) बस. । k) *दित्तज्योतिश्च इति निसा. १ यनि.
शोधः द्र. (द्र. अञ्ज्या.) । l) 'सोमपाः' इति ऋ १०, १५२, २ । m) ऋ १०, १५२, २^१ । n) व्यु. १ । o) व्यु. १ < $\sqrt{\text{स्वन्}}$
इति पा ७, २, १८ । =हृदय- । p) स्थाव^१ इति निसा., अञ्ज्या. संटि. । q) मा २२, २३ । r) तैत्र्या १०, १, १५ ।
s) ऋ २, ३, ११ । t) तस. ।

स्वाहा(हा-आ)श्रित^a- -तःगोपू१५.
 स्वाहा-स्वधा- -धाम्याम् सी ३७.
 स्विद्^b ई १; क १,१,५; छां १, १०,
 ४; वृ ३,१,१; २, १०; ५, १२,
 १; ह १,५^c; सर २, ७^d; वपू
 २, ३.
 ✓स्विद्, स्वेदते छां ६, २, ३.
 स्वेद^e- -दः तै १, ४१; शां १, ७, ३;
 महा १, १; च २० : ३; -दम् ते
 ६, ७.
 स्वेद-ज^f- -जम् व ५; -जाः नापू
 ५, २२; -जान् गौ ४, ६३; ६५;
 -जानि ऐ ५, ३; -जानाम् त्रित्रा
 २, ५७.
 स्वेद-जनन- -नम् योचू १०५.
 स्वेद-दुर्गन्धता- -ता १योत
 ५७.
 स्वेद-बिन्दु(न्दु-उ)ल्लसन्-मु-
 (ख>)खी- -खीम् रा ४२४ :
 २१.
 स्वेद-मूत्र-जल-रक्त-वीर्य-रूप-
 रस-पुरीषा(ष-आ)दिक- -कम्
 शां १, ४.
 स्वि(सु-इ)ष्ट^g- -ष्टम् वृ ६, ४, २४; मना
 २, ७९^h.
 स्विष्ट-कृत- -कृत वृ ६, ४, २४; म
 १, ३; -कृतम् वृजा ३, १६; -कृते
 मना २, ६७ⁱ; २संन्या १६:९.
 स्वीकरण-, स्वीकृत-, स्वीकृत्य,
 स्वीय- स्व- द्र.
 ✓स्वृ, >स्वारि, स्वर-स्वर व ४३५:८.
 स्वारयन्ति शौ ५३ : २०.
 स्वर^j- -रः तै १, २, १; छां १, ३, २^k;
 ४, ४; ८, ४; १३, २; वृ १, ३, २६;
 मना २, १२, ३^l; शु ३, १८^m;

रार ५, ४; पं १; २प्र ३४:६; नाउ
 १, ५ⁿ; गार ४०६:१०; -रम् छां
 १, ४, ३; ५; वृ १, ३, २५; मैत्रि
 ७, ११; त्रिता ५, ७; पं ३; -रस्य
 छां १, ८, ४; -राः छां २, २२, ३;
 ५; वृपू ५, ८; ध्या १६; १योत
 १३४; त्रिवि ७, ३६; योचू ७४;
 रार ३, १; योशि ६, ५७; अक्ष ३;
 पं २; गोच ६६ : १५; वपू ३, १;
 -राणि सार २२३:२१; -रात् पं
 १५; सूता २, १८; -रान् रार ३,
 १^o; रापू ४, ४४; वपू ३, १; -रेण
 ब्रवि ७; त्रिता ५, ७; अवि ७;
 -रेषु छां २, २२, ३.
 सौवर- -रः वृ २, ५, ९.
 स्वर-बीज- -जैः व ४३५ : १.
 स्वर-मध्य- -ध्यम् त्रि १०.
 स्वर-मन्त्र-पुराण- -णानि योशि
 ६, १२.
 स्वर-मात्रा- -त्रया २प्र ३२ :
 १०; १२; १५.
 स्वर-वत्- -वन्तम् वृ १, ३, २५.
 स्वर-विशेष- -षैः नाप १.
 स्वर-वेदा(द-अ)ग्नि-गुण- -णान्
 रार १, ७.
 स्वर-व्यञ्जन-भेद- -देन ह १४.
 स्वर-संयोग- -गम् रार ५, ५.
 स्वर-संप(ञ>)ञा- -ञया वृ
 १, ३, २५.
 स्वर-सौष्टव- -वम् श्वे २, १३.
 स्वरा(र-आ)ख्य- -ख्येन योशि
 ३, ५.
 स्वरा(र-आ)घ- -घम् द ४.
 स्वरत्- -रत् छां १, ५, १; ३.
 स्वेच्छा-, स्वेष्ट-, स्वैर-, स्वैरिन्-,

स्वोच्छिष्ट-, स्वोद्रेक-, स्वोप-
 कार-, स्वौजस- स्व- द्र.

ह

ह^h

ह-कार- -रः योचू ८३ⁱ; -रम्
 ध्या ९७; ब्रवि १६; -रेण ध्या
 ६१; योचू ३१; योशि १, १३०;
 १३३; ६, ५३.
 हकारा(र-अ)क्षर- -रम् त्रिता
 १, ३८.
 हकाराक्षर-भासुर- -रम्
 १योत ९८.
 हकारो(र-उ)परि १योत ९९.
 ह-य-व-र-ल-
 हयवरल-कार-
 हयवरलकारा(र-आ)-
 ख्य- -ख्यम् जाद ८, ३^k.
 ह-स-क-ल-र- -डां आथ ३९९:८
 ह-स-क-ल-र- -डै आथ ३९९:
 ८^l.
 ?हसकलरी वपं ३११ : ४.
 ह-स-ख्- -खं त्रिता ३, १५^m.
 ह-स-ल- -ल्युं आथ ३९८:१२.
 ह-सौं त्रिता ३, १६ⁿ.
 हा(ह-आ)दि-विद्या- -द्या ब ७.
 हं^o शु १, १८; आथ ३९६:३; व
 ४२८ : १^p; हंषो ५.
 हं-कार- -०र अक्ष ५.
 रह^q के १, २; क १, १, १^r; ४^s; प्र १,
 १^t; मुं १, १, ३; मां ९; ऐ ३,
 ३^u-९^v; वृ १, २, १; श्वे २, १६^w;
 गा २४^x.

a) पूष. =माया- इति उग्र. । b) अव्य. वैप१ यद्र. । c) ऋ ८, १००, १० । d) उप. =२इष्ट- । e) तैआ १०, ६३, १ । f) तैआआ १०, ६७ । g) बप्रा. वैप१ यद्र. । इह =उदात्तादि-, अवर्णादि-, कण्ठशब्द-, प्राण- प्रम् । h) तैआ १०, १०, ३ । i) 'सर्वान्' इति अच्चा. संटि. । j) =१वर्ण- वा बीजमन्त्रविशेष- वा । k) 'यराव' इति अच्चा. । l) 'ख्रं' इति अच्चा. । m) 'सौः' इति निषा. संटि., 'सौं' इति अच्चा. । n) =बीजमन्त्रविशेष- । o) तैआ ३, ११, ८, १ । p) मा ३२, ४^o । q) वृ. गपू. पृ६३०e ।

हंस^१-स-स^१ हं ४; ध्यादर; ब्रवि २३;
 ३४; ७८; योचू ३१; योशि १,
 १३१; ६, ५४; -सः कर, २, २९°;
 छां ४, १, २; ७, १; २; श्वे १, ६; ३,
 १८; ६, १५; मै ५, ८; मैत्रि ६, ८;
 ३४; ७, ७; हं १०; मना २, १२,
 २९°; २, ४०९°; ब्र १^१; वृपू ३, ६;
 वृउए, १८; शु १, १८; लु २२;
 ते १, ४; ४, ३१; ब्रवि २१; ३४;
 ६०°; ६१°; ६२; ६३; ७९; नाप
 ४, १४; ५, १^३; ६, १; ९, ५; निर्वा
 २९७: ७; योचू ८२; २३; त्रिवि
 ७, ३९; ४१; ४५; योशि १, १७१;
 ५, ७; ६, ३५; तुअ ७; १संन्या
 २, १३; पप ४१९: ११; अत्ति
 १°; पाशु १, १२^३; १३^३;
 १५; १७^३; २१; २५; ३२; २, ३^३;
 ५; पत्र २^३; त्रिता १, ४२; ४;
 २६; २८; ३५; मवा ६; वरा ५,
 ५२; ५५; शा ११^३; दत्ता १, २;
 सु १, १, ३१^३; चा १२; पि ४;
 बा २४; म ४९: १५; सूता ६,
 ३; गु ८१; व ४६३: १८; हंषो
 ४; ६; ८; ९; ११; १२; १५; १७;
 २१; वपू २, ३९°; भव २, ४;
 -सम् छां ४, १, २; मैत्रि ६, ३५;
 हं १३^६; मन्त्रि १; ८; ब्रवि २०;
 ६६; योशि ६, २०; पाशु १,
 २६; योरा ११; चू १; ८; -सस्य
 हं ३; नाप ५, १^३; ७^३; पाशु १,
 २०; वरा ५, ५४; -सा: छां ४,
 १, २; मि ५; आश्र ४^३; -से हं
 ८^५; नाप ४, २३; -सेन हंषो ३.
 हंसी-सी गु ५०; -सीनाम्
 सार २६६; २१; २८२: ३.
 हंसी-हंस-सा: सार २६४:
 १०.

हंस:
 हंस-सोहम् सू २.
 हंस:सोहं-मन्त्र-न्त्रौ त्रिवि
 ७, ४५.
 हंस-कला-ला सौ ३, १.
 हंस-काली^१-लीम् कामे ५.
 हंस-क्षीर-
 हंसक्षीर-वत् सांसू ४, २३.
 हंस-गम(न>)ना^१-ना सार २४२:
 २१; २६३: १.
 हंस-ज्योतिस-ति: ब्रवि ६४; पाशु
 १, ३२.
 हंस-त्व-त्वम् तुअ ६.
 हंस-दीक्षित-त: कामे १४.
 हंस-न्यास-स: सूता ३, १२.
 हंस-परमहंस-सयो: नाप ७^६.
 हंसपरमहंस-निर्णय-यम् हं ४.
 हंस-प्रणव-वयो: पाशु १, १९.
 हंस-मन्त्र-न्त्रम् ब्रवि ५९; ६५;
 त्रिवि ५, १२.
 हंस-म(य>)यी-यी वपू २, ३.
 हंस-मयूरा(र-आ)दि-दय: सार
 २५३: १६.
 हंस-युग्म-ग्मानि सार २२२: १६.
 हंस-यूथ-थानि सार २२८: ४.
 हंस-योग-विचक्षण-ण: नाद ५.
 हंस-रूप-
 हंसरूपि(न्>)णी-णि व
 ४३७: २.
 हंस-वत् ते ६, ९२.
 हंस-व(र्ण>)र्णा-र्णै का १२; नार
 १०.
 हंस-वश-शाव हं १५.
 हंस-वाह-
 हंसवाहि(न्>)नी-नी शां १,
 ६; गार ४०६: १५.
 हंस-विद्-विद: म ४९: १६.
 हंस-विद्या-द्याम् ब्रवि २६; २८.

हंस-षोढा-न्यासिन्-सी हंषो १.
 हंस-सारस-यूथ-थानि सार
 २२१: १८.
 हंस-सूत्र-त्राणि पाशु १, २३.
 हंससूत्र-चर्य-र्या: पाशु १, १९.
 हंस-हंस-साय व ४६३: १७.
 हंसा(स-आ)ख्य, ख्या-ख्य: पाशु
 २, २; -ख्याम् ब्रवि २६.
 हंसा(स-आ)चार-र: निर्वा २९७: ७
 हंसा(स-आ)त्मक-कम् ध्या २४.
 हंसा(स-आ)त्मन्-
 हंसात्म-मालिका-वर्ण-ब्रह्म-
 काल-प्रचोदित्-ता पाशु २,
 १.
 हंसा(स-आ)रूढ, ढा-ढ: व ४४२:
 १२; ढा गार ४०६: १८.
 हंसा(स-आ)र्क-प्रणव-ध्यान-
 नम् पाशु २, ६.
 हंसि(न्>)नी^१-नि व ४३५:
 १२; -नी व ४२६: ५.
 हंसे(स-इ)ति-वर्ण-द्वय-येन पत्र २.
 हकार-, हंकार- १ह द्र.
 ✓हट्(दीप्ती)
 हाटक^{१३}-के नापू ५, ३१.
 हाटक-कोटि-टय: सार २८१:
 २२.
 हाटक-जटित-मणि-ज्योत्स्ना-
 स्त्राभि: सार २८४: १२.
 हाटक-भूमि-मिषु सार २८१:
 २२.
 हाटक-मणि-
 हाटकमणि-खचित-तानि
 सार २७०: २२.
 हाटकमणि-जटित-तानि
 सार २८४: ६.
 हाटकमणि-ज्योत्स्ना-
 स्त्राभि: सार २६५: ९.

अ) ब्रा. वैप१ यद्र. । इह =मराल-, सूर्य-, संन्यासिविशेष-, उपनिषद्विशेष-, बीजमन्त्रविशेष- प्रमृ. ।

ब) बीजमन्त्रानुकरणम् । ०) ऋ ४, ४०, ५ । d) 'हिंसा' इति आन. । e) 'उष्णः' इति निसा. संटि. । f) 'सप्रत्ययरो' इति अज्या. संटि. । g) तु. गपू. पृ१३६० । h) 'सः' इति निसा, अज्या. संटि. ।

हाटकमणि-मय- -यानि
सार २७४ : ७.

हाटकमणिमयी- -व्यः
सार २४६ : २.

हाटक-मय- -यानि सार २७० :
११; २८४ : ३.

हाटकमयी- -व्यः सार २३७ :
११^{१६}.

हाटक-सुगन्ध-कोम(ल>)ला-
-ला सार २८४ : ११.

हाटको(क-उ)पघटित-नील-
मणि-राजि^{१६}- -जिः सार
२४५ : ३.

हट्-हट् लां २१६ : १७.

√हट्

१हट^{१६}- -ठात् ध्या ६७; ८६; सु २,
२, ४६; ४७; सार २५० : ६;
२७८ : १०.

२हट^{१६}- -ठः १योत १९; योशि
१, १२९; १३३^{१६}; योरा १;
-ठम् वरा ५, १०; -ठेन योशि १,
४५; १३४.

हठ-योग- -गम् १योत २४.

हठयोग-क्रम- -मात्
योशि १, १४५.

√हन् (*बधा.), > घाति, जिघांस,
जङ्घन्, हन मना १, ८९^१; य७९^१;
व ४५८ : २०; हन-हन त्रिता ३,
३१; गरु ६; लां २१६ : ३; व
४३० : १०; ४३३ : १०; ४५७ :
५; ९; १७; २०; ४५९ : ११^१.
हन्ति क १, २, १९; वृ ५, ५, ३;
४; मै ४, ४, ४; मैत्रि ६, २०;

२८; ३४; मैत्रि १, ४, ६; योचू
१०९; ११८; शां १, ७, ६; योशि
१, ९६; इ १६ : १०; कालि ४०१ :
१३^६; व ४५९ : १५; भव ४, २;
गी २, १९; २१; १८, १७; झन्ति
छां ८, १०, २; ४; वृ ४, ३, २०; ६,
३, १; मना २, ३८^{११}; ३९^१;
४०^१; हन्मि महा ५, ११५;
हन्तु मना १, ११९^१; झन्तु व
४३४ : २; जहि मना १, ११९^१;
महा ४, १३०; सूता ३, १०९^{१३}; नी
३, ७; व ४५८ : १९; ४६४ : १८;
गी ३, ४३; ११, ३४; जहि-जहि
व ४३३ : २२; हन्धि > न्धी व
४६४ : १८; हनाव व ४६० :
१०९^१; अहनम् कौ ३, १९^१;
हन्यात् पै ४, २२; महा ६, २१;
२कौल १३; हन्युः गी १, ४६.
जघान श ९; हनिष्यति २प्र
३३ : १९; हनिष्ये गी १६, १४;
हनिष्याम(१मः^{१६}) शौ ५१ : ३.
हन्यते क १, २, १८; १९; छां ६,
१६, १; ८, १, ५; १०, २; ४;
महा ५, १११; योशि १, १६३;
भव २, ३७; गी २, १९; २०;
हन्यताम् आबो २०.
घातयति गी २, २१^१; घातयन्ति
कश्चु ३, ७; घातय-घातय वपं
३१२ : ६.
जिघांसन् शौ ५२ : १५.
जङ्घनाव व ४६० : ११.
झत्- झतः गी १, ३५.
जङ्घन्यमान- -नाः मुं १, २, ८.

हत,ता- -तः क १, २, १९; नी ३,
५; गी २, ३७; १६, १४; -तम्
क १, २, १९; महा ३, ५४; गरु
९^१; १२^१-२३^१; २४^१; गी २,
१९; -ताः महा ३, ५४; ५, १४३;
-तान् गी ११, ३४; -ते ते ६,
८६; -तेन मना १, ९९^१.
हत्वा कौ ४, २०; मैत्रि ६, २८; वृ ४,
५; रार २, ८५; राष्ट्र ४, १९;
राज ५, १५; गी १, ३१; २, ५^१.
हत्वाय व ४६० : १६^१.
हन^१
हन-हन्द्- -हन्द्म् रार २, ६९.
हन-ह्य- -यम् रार २, ५९.
हन्तुम् क १, २, १९; वज ३, २८;
गी १, ३५; ३७; ४५.
हन्तु- -न्ता क १, २, १९; -न्तारम्
गी २, १९; -न्त्रे म १, ६.
हन्यमान- -नः मै ३, ३^१; मैत्रि ३,
३^१; -नस्व वृ २, ४, ७; ४, ५, ८;
-ने क १, २, १८; मै ३, ३; मैत्रि
३, ३; भव २, ३७; गी २, २०.
हनु^{११}- -नुः तै १, ३, ४^१.
ह(नु, >) न्-मत्^{११}- -मन् लां
२१४ : १९; २१६ : १५; सु १, १,
८; -मन्तम् रार १, २; ७^१; २-५,
१; राष्ट्र ४, ३२; -मान् रार १, ५;
७; २, १; १०५; ३-५, १; राष्ट्र
४, २५; ता २, २; ३, ३; ८.
हनुमद्-आदि- -दि रार ३, १.
हनुमदादि-बल- -लम् शां
१, ७, ५२.
हनुमत्-प्रोक्त- -कम् रार १, ९.

a) ०याः इति पा.१ यनि. शोधः द्र. 1 एतदनु गप्. (पृ३६२) सस्थ. 'तेजोमय-> -थाः' इत्यत्रापि शोधः कर्तव्यः। b) उप. =२राजि-। c) तु. गप्. पृ२६३m। d) भाप. =१बल-स्थैर्य-। e) =योगविशेष-। f) तैत्रि १०, १, ८। g) 'तरति' इति तान्नि.। h) तैत्रि १०, ४८, १। i) तैत्रि १०, ४९, १। j) तैत्रि १०, ५०, १। k) मा २६, १०। l) ऋ ३, ४७, २। m) तैत्रि ३, ७, ६, २१। n) ऋ १०, ८३, ६। o) 'अहनत्' इति शांत्रि ५, १। p) पा.१ यनि. शोधः द्र.। q) 'हन्यते' इति SCHR. पाभे. [वैतु. बे. (NIA २, २३१)]। r) तैत्रि १०, १, ९। s) 'न ह्नु' इति SCHR. पाभे. [वैतु. बे. (NIA २, २३१)]। t) ऋ १०, ८४, २। u) तु. गप्. पृ२४६b। v) वैप१ यद्र.। w) मनुषि दीर्घः (पा ६, ३, १२०)।

हनूमद्-आदि-दि रार ३, १.
हन्त^a क २, २, ६; छां १, ८, १; वृ
१, ३, १; कौ १, १; वृज ६, १;
मना २, ६७^b; अन्न ३, ८; वरा
३, २१; सार २५६: १४; गी
१०, १९.

हन्त^c√कृ

हन्त-कार-र:-,रम् वृ५, ८, १.

हन्तुम्, हन्तु-हन्त्यमान-√हृत् द्र.

हंभी^d नृपु १, ११.

हय^e-य: वृ १, १, २; पा ३, ७; -या:
मै २, ९; मैत्रि २, ६; -यान् क
१, ३, ४; पै ४, २; भव २, ११;
वज ३, २३; -यै: गी १, १४.

हय-ग्रीव(वा>)व^f-०व त्रिवि ७,

४१; ह ३; -व: ह ६; विद्या १;

-वम् ह ६; मु१, १, ३९^g; विद्या

१; -वस्य ह ७; -वाय त्रिवि ७,

३२; ३९; ४१; ह ७; ८.

हयग्रीव-दैवत्य-स्यान् ह २.

हयग्रीव-प्रभाव-वेण ह १९.

हयग्रीव-षट्त्रिंशदक्षर-मन्त्र-

-न्त्र: त्रिवि ७, ४१.

हयग्रीव-स्वरूप-प: ह ९.

हयग्रीवै(व-ए)काक्षर-रेण ह ९.

हयग्रीवैकाक्षर-जप-शीला-

(ल-आ)ज्ञा^h-ज्ञया ह ९.

हयग्रीवैकाक्षर-बीज-जम्

ह ९.

हयग्रीवैकाक्षर-युक्त-कम्

त्रिवि ७, ४०.

१हयत्ⁱ चू ८.

हर-हरण-हरत्-हरि-√हृ द्र.

१हरिण^j-णम् प्र १, ८; मै ५, ८;

मैत्रि ६, ८.

हरिणी-णीम् अरु २४^k.

२हरिण^l-

हरिणा(ण-अन्न>)क्षी^m-क्षी सार

२६३: १.

१हरितⁿ-

२हरित^o-त: श्रे ४, ४; -तम्

वृ ४, ४, ९; अव्य^p; -तस्य वृ ४,

३, २०; सुबा ४; तै: शि ४, ६१.

हरित-तृण-णाभ्याम् कौ २,

८^q.

१^rहरित-पिङ्गल-लोहिता-

(त-अ)क्ष-०क्ष मना २, ६५;

वपं ३१२: १५.

हरित-पीत-च्छाया-याभि:

सार २२५: ९.

हरित-पीत-नील-श्वेत-शुभ्र-

-आ: सार २५३: १२.

हरित-पीत-शुभ्र-श्वेत-ता:

सार २२२: २२.

हरित-पीत-श्वेत-शुभ्र-धूम्रा-

(अ-आ)वाङ्ग-आणि सार

२७४: १५.

हरित-पीत-श्वेता(त-आ)रक्त-

पुष्प-गुच्छ-च्छै: सार

२७१: ९.

हरित-पीता(त-आ)रक्त-लता-

-ता: सार २७१: २.

हरित-शाद्वल-लै: सार २६९:

१५.

हरित-हय-बद्ध-बहुकठोरो-

(र-उ)त्तमाङ्ग-नवरत्न-निधि-

को(श>)शा-०शे वृ ३१: १९

३हरित^s-त: -तात् वृ ६, ५, ३.

हरिद्रा-हरिमन्-√हृ द्र.

हरीताल^t-लम् शि ६, ६५.

*हर्ण-√कृप्>कोपिष्ठ-टि. द्र.

हर्तुम्, हर्तु-√हृ द्र.

हर्ष-हर्षमाण-हर्षित-√हृष् द्र.

√हल्, हल-हल व ४३०: ११.

हल^u-

हल-भजन-०न त्रिता ३, ३१.

हला(ल-अ)प्र-अे सी ६.

हव-√ह्वे द्र.

हवन-हविष्य-हविस-हव्य-

√हु(दानादनयो:) द्र.

√हृस्, हसति छां ३, १७, ३; योशि ६,

६७; हसन्ति महा ३, ३५; सूता

१, ३९; हस-हसलां २१५: २१.

हसत्-सन् योशि ६, ६८; आच ५.

हास्य-स्यम् ते ४, २७.

हास्य-निष्ठीवना(न-आ)स्फोट^v-

-उम् शि ७, १३.

हास्य-व(त्>)ती^w-ती सार

२८२: ९.

हास्य-विनोद-दौ वि १०.

१हस्त^x-

हस्तिन्-स्तिन: ऐ ५, ३; -स्तिनि

सुबा १३; गी ५, १८; -स्ती वृ ४,

३, २०.

हस्ति-जिह्वा^y-ह्ला ध्या ५३;

त्रिना २, ७१; योचू १७; १९; शां

१, ४; योशि ५, २१; भा १३; जाद

४, ७; १४; २१; वरा ५, २७;

-ह्लाया: जाद ४, १५.

हस्तिजिह्वा(ह्ला-अ)भि(ध>)-

धा-धाया: जाद ४, ३६.

हस्ति-बला(ल-आ)दि-दीनि

a) अव्य. वैप१ यद्र. । b) तैआआ १०, ६७ । c) तु. गपू. पृ ३३८ । d) वैप१ यद्र. । e) =तदाख्यो-
पनिषद्विशेष- । f) तस.>बस.>तस. । g) पा.!(√हु वा √ह्वे वा>) 'हव-> -वै:' इति वा 'ह ये' इत्येवं वा श्लोघः
द्र. (भूयसस्तु पाभे. कृते तु. नादी., मन्त्रि ८) । h) विप. । अर्थः? वैप१ यद्र. । i) तैआ १, २७, ३ । j) =कुरङ्ग- ।
वैप१ यद्र. । k) =वर्णविशेष- । वैप१ यद्र. । l) =वर्णविशेषवत्- । m) °तृणे इति शांआ ४, ८ । n) °क्षि इति
तैआ १०, ६०, १ । o) व्यु.? =ऋषिविशेष- । p) व्यु.? =धातुविशेष- । q) समाहारे द्रस. । r) व्यु.? =१कर-(परि.) ।
s) =नाडीविशेष- ।

योसू ३, २५.
हस्ति-हिरण्य- ग्यम् क १, १,
२३; छां ७, २४, २.
हस्ती/भू
हस्ती-भूत- -तः वृ ५, १४,
८; गा २६१^१.
हस्त्यृ(स्ति-ऋ)षभ- -भम् वृ ४,
१, २-७.
रहस्त^{११b}- -स्तः लिं ३०९:६; -स्तम्
वृ ३, २, १३; सुबा ९^२; महा ५,
७५; सु २, २, ४२; -स्तयोः तै
३, १०, २; त्रिब्रा २, ४७; ८१; शां
१, ३, १०; जाद ४, २९; -स्ताः
रापू १, ९; -स्तात् गी १, ३०;
-स्ताभ्याम् वृ १, ४, ६; ३, २, ८;
मना २, ३ ११^०; ३ २१^०; कौ १, ७;
३, ६; ध्या ९३; १योत ११२;
नाप ५, १; ७; त्रिब्रा २, ४०;
४५; योचू ६६; शां १, ३, ३; यो
१, १२; जाद ३, ४; ६, ३३;
-स्तासः मना २, १२, २; शौ
५३: १५; -स्ते वृ ३, ८, २;
श्वे ३, ६१^०; सुबा ५; आच २;
सार २२२: ८; २७३: १६; नी
१, ५१^०; २, ११^०; १६१^०; शि ६,
११४; सिशि ३८१: १३; -स्तेन
त्रिब्रा २, ९५; महा ५, ७५;
१४३; सु २, २, ४२; ऊ ६३: ६;
-स्तैः ग ११; सार २२८: १९;
-स्तौ प्र ४, ८; वृ २, ४, ११; ३,
२, ८; ४, ५, १२; कौ ३, ५-७;
सुबा ५; ६; त्रिब्रा २, ४४; ९४;
शां १, ३, ५; सार २४४: २२;
व ४३६: १०; भव २, १८.
हस्त-गृहीत- -तम् छां ६, १६, १.
हस्त-ताडित- -ताः १योत ६०.

हस्त-पल्लव(>)वा^१- -वा सार
२६९: ९.
हस्त-पाद- -दौ योशि १, ७१.
हस्तपाद-चलन- -नम् ते ६, ८.
हस्तपादा(द-आ)दि-
हस्तपादादि-मत्- -मान्
महा ४, १२५.
हस्त-प्रमाण-
हस्तप्रमाण-तस(>) शि ४, ८.
हस्त-प्राप्त- -सम् नाप ५, ३७.
हस्त-मात्र-प्रमाण- -णम् शि ३, ४.
हस्त-संस्थान- -नम् महा ५, १५६.
हस्त-स्थ- -स्थम् जाद ४, ५८.
हस्ता(स्त-अ)ङ्गुलि(>)ली- -ल्यः पिं
११.
हस्ताङ्गुलि-मुद्रिका-जटित-
मणि-तेजस- -जासि सार
२६५: १०.
हस्ता(स्त-आ)दि- -दयः ब्रसू २, ४, ६.
हस्ता(स्त-अ)भाव- -वात् ते ५, १९.
हस्ता(स्त-अ)म्बुज- -जम् रार २,
२४.
हस्ता(स्त-आ)रोप्य- -प्येण शि ६,
८९.
हस्ता(स्त-अ)र्ध- -र्धम् शि ३, ६.
३हस्त^{११a}- -स्ताय व ४३८: ४.
हस्ता(स्त-आ)दित्य^१- -त्ये सू ३२.
हा^{११k}
हा-इ^k
हाइ/कृ
हाइ-कार- -रः छां १, १३, १.
हा-उ^k
हाउ/कृ
हाउ-कार- -रः छां १, १३, १.
हाइ^{११h} तै ३, १०, ५^१.
√हा(त्यागे), जहाति क १, २, १२;
छां ६, ११, २^१; वृ २, १, १०;

३, २, १२; ४, १, २-७; ५, ५, ३;
४; श्वे ४, ५१^१; गौ ४, ९; मना २,
१२, ११^१; नाप ३, ५३; योचू
२६; महा ६, ४४; पाशु २, २७;
यो १, १४; वरा २, ८२; सु २,
२, ६०; नापू ५, २ ११^१; सांसू ३,
६४; गी २, ५०; जहामि वा ७.
जहौ अत्र ३, १५; १६; जहुः श्वे
५, १४.
हीयते क १, २, १; प्र ३, ११;
छां ४, १६, ३; ४; नाप ३, ५३;
महा ३, ५१; सिशि ३८०: १०.
जहत्- -हत् महा ५, १५२.
हान- -नम् सांसू १, ५७; योसू २,
२५; ४, २७.
हानो(न-उ)पादान- -नाभ्याम्
सांसू १, १०८.
हानो(न-उ)पादान-चेष्टा-
(ष्टा-आ)दि- -दि शां १, ४.
हानो(न-उ)पाय- -यः योसू २,
२६.
हानि^m- -निः गी २, ६५; -निम् नाप
५, २९; -नौ ब्रसू ३, ३; २६.
१हित्वा ते २, ५, १; मैत्रि ४, १; पंहं
१; अशि ५, ६; १८ⁿ; शु ३, ११;
पप ४१९: ४; त्रिता १, ६५; सु २,
२, ६४; वटु ३ १७: ६; गी २, ३३.
हीन, ना- -नः ३, ५; १७; ते ४,
१६; ६, २६; -नम् महा ५, १३३;
रुजा १, ११; सिशि ३८०: ५;
-नायाः १संन्या २, २७.
हीन-तर- -रम् सुं १, २, १०.
हीन-मध्यमो(म-उ)क्वृष्ट-दृष्टि-
-ष्टयः गौ ३, १६.
हीना(न-अ)तिरिक्ता(क्व-अ)ङ्ग-
-ङ्गः इ १७: ६.

a) हलीभू^० इति पा. १ यनि. शोषः द्र. (तु. नापू.) । b) =२कर- । वैप१ यद्र. । c) तैश्चा १०, २४, १ ।
d) तैश्चा १०, २५, १ । e) ऋ ४, ५८, ३ । f) मा १६, ३ । g) मा १६, ९ । h) मा १६, ११ । i) व्यु. १ =नचत्र-
विशेष- । j) उप. =रविवार- । k) =साम-स्तोभ- । l) तैश्चा १०, १०, १ । m) <√हन इत्यपि पक्षः (तु. MW.) ।
n) 'छित्त्वा' इति आन. संटि. ।

हीना(न-अ)न्न-पान-वस्त्र- -स्त्रः
 शि ७, १४.
 हेय- -यः सांसू १, ४; ३, ५२; -यम्
 नाप ५, १; ७; महा ५, ६२;
 १संन्या २, १३; पप ४१८: ३;
 अध्या ६६; पत्र २, १; योसू २,
 १६; -येषु महा ६, २८; -यैः भव
 २, ५३.
 हेय-ज्ञेया(य-आ)प्य-पाक्य-
 -क्यानि गौ ४, ९०.
 हेय-त्व-
 हेयत्वा(त्व-अ)वचन- -नात्
 ब्रसू १, १, ८.
 हेय-हान- -नम् सांसू ४, २३.
 हेय-हेतु- -तुः योसू २, १७.
 हेया(य-आ)देय-दृश्- -दृशौ
 महा ६, २८.
 हेयै(य-ए)कान्त-विसर्जन- -नम्
 महा ४, २४.
 हेयो(य-उ)पादेय- -यम् १संन्या
 २, ४१.
 हेयोपादेय-निर्मुक्त- -क्ते
 महा ६, ३०.
 हेयोपादेय-रूप-
 हेयोपादेयरूपिन्- -पि
 अन्न ४, ४७.
 हेयोपादेय-वर्जित, ता- -तः
 १संन्या २, ५१; -ता अन्न १, ५०.
 हाइकार-, हाउकार- हा द्र.
 हाक-
 हाकि(न्)नी- -नी पी ४२२: १२.
 हाटक- √हट् द्र.
 हान-, हानि- √हा (त्यागे) द्र.
 हार^{१३}- -रः गरु ५.
 हार-भ्रैवेय-भू(ष)षा- -षाम् व
 ४२७: ३.
 हारा(र-आ)वली- -लीम् सार

२७१: ९.
 हारे(र-इ)त्वन्- -त्वा छां ४,
 २, ३.
 हारिद्रव^{१०}- -वेषु सूता २, १०४°.
 हार्द- १हट्- द्र.
 हालहल^{११}- -लम् श ९°.
 हाव^{१२}-
 हाव-भाव-केलि-कौतुक- -कानि
 सार २२९: ११.
 हाइवु हा द्र.
 हास्य- √हस् द्र.
 हा-हा^{१३}
 हाहा-भूत- -तम् शि ६, १९६.
 हि^{१४} के ४, २; क १, १, २१; प्र ३, ५;
 सुं १, २, २; मां २; तै २, २, १;
 ऐ ३, १४; छां १, १, १; वृ १,
 २, १; मना १, १४; आर्षे ७:
 २१; १.
 √हि(*बधा.)
 रहित^{१५}- -तम् यो ३, ४; हे ४; भव
 ५, १४; गी १८, ६४; -ताय सार
 २३०: १४; -ते नाप ६, २६;
 सार २३०: १५; शि ६, १५७.
 हित-काम्या- -म्यया १योत १;
 २योत १, १; योचू १; शि
 ७, १४०; भव ५, १७; गी
 १०, १.
 हित-कारिन्- -रि सार २४०:
 १६.
 हित-तम- -मम् कौ ३, १.
 हित-पुत्र- -त्राय सु १, १, ४९.
 हिता(त-अ)करणा(ण-आ)दि-
 दोष- -प्रसक्ति- -क्तिः ब्रसू २,
 १, २१.
 हिता(त-अ)हित- -तम् नाप ३,
 ६७.
 इहित(त)ता^{१६}- -ताः वृ२, १, १९;

४, २, ३; ३, २०; कौ ४, १९;
 सुवा ४.
 रहित्वा^{१७} यो २, ३०; गोउ ३.
 १हेतु^{१८}- -तवः गी १८, १५; -तवे
 सार २७७: १०; -तुः श्वे ६, १७;
 गौ ४, १४; १५; १७; २०; २३;
 ५३; पहं २; त्रिन्ना २, ११४;
 अन्न ४, ७०; भव २, ८; सांका
 ३१; योसू २, २४; ३, १५; गी
 १३, २०; -तुना गौ २, १; ५;
 ३, २६; कै १, १०; सी २२; महा
 २, ४२; भव १, १५; गी ९, १०;
 -तुम् गौ ४, ७८; -तुन् गौ ४,
 ७६; -तोः छां १, ३, ५; गौ ४,
 १४; १५; १८; गी १, ३५; -तौ
 सांका १.
 हैतुक- -काय सूता ६, ७.
 हेतु-जाल- -लस्य अशि ५, ६;
 १८; वटु ३१७: ६.
 हेतु-तस() गौ ४, १८.
 हेतु-दृष्टान्त-वर्जित- -तम् ब्रवि
 ९; त्रिता ५, ९; अवि ९.
 हेतु-द्वय- -यम् यो १, १.
 हेतु-फल- -लयोः गौ ४, १६.
 हेतुफल(ल-अ)जाति^{१९}-
 -तिम् गौ ४, ५४.
 हेतुफल(ल-आ)वेश- -शः,
 -शे गौ ४, ५५; ५६.
 हेतुफलो(ल-उ)भव- -वः गौ
 ४, ५५.
 हेतु-फला(ल-आ)श्रया(य-आ)-
 लम्बन- -नैः योसू ४, ११.
 हेतु-मव- -मव सांसू १, १२४;
 सांका १०; -मन्निः गी १३, ४.
 हेतु-न्यपदेश- -शात् ब्रसू १,
 १, १४; ३, २, ४१.
 हेत्व(तु-अ)भाव- -वे गौ ४, ७६.

a) व्यु. ? =माला- । b) वैपश् यद्र. । c) ऋ १, ५०, १२ । d) व्यु. ? =विष- । e) °लाह° इति अज्या. ।
 f) व्यु. ? । g) अज्य. । h) अज्य. वैपश् यद्र. । i) तैआ १०, १, १ । j) तु. गपू. पृ७३६। k) भाप. =कल्याण- (वैतु.
 MW. <√धा) । l) धा. अर्थः ? =नाडीजालविशेष- । m) धा. वृद्धौ वृत्तिः । n) धा. अर्थः ? । o) उप. तस. =अजन्मन्- ।

रहेतु^a-
हेतु-क^b- -कम् व ४३०:१५.
१हिं^c
हिं/कृ, हिंकुर्वन्ति छां २, ९, २;
शौ ५२ : ६.
हिंचक्रुः छां १, १२, ४^d.
हिं-कार^e- -रः छां १, १३,
२; २, २, १; २; ३-८, १; ९, २;
१०-२१, १; -रेण कौ २, ११.
हिंकार-भाजिन्- -जिनः छां
२, ९, २.
हिं-कृत- -तम् वृ ६, ३, ४.
हिं-क्रियमाण- -णम् वृ ६, ३, ४.
२हिं^f व ४३५ : १७.
√हिंस्, हिनस्ति मुं १, २, ३; ऐ४, २; वृ
१, ४, ११; ५, ५, १; पित्र ३, ६;
गी १३, २८; हिंसन्ति गरु २५.
आहिंसीत् पा६, १०; हिंसीत् मना
१, ५९^g; हिंसीः श्वे ३, ६९^h; मना
२, ७२ⁱ; नी १, ५९^j; व ४३७:
४; ४६४ : १९.
हिंसक- -काय अव्य ७; -केषु पित्र
३, ६.
हिं(स>)सा- -सा मै ३, ५; मैत्रि
३, ५; जाद १, ७^k; भव ५, ५;
-साम् १संन्या २, ८८^l; भव ४,
१५; गी १८, २५.
हिंसा(सा-आ)त्मक- -कः गी
१८, २७.
हिंसा(सा-आ)दि- -दयः योस्
२, ३४.
हिंसादि-तरङ्ग- -ङ्गम् सं १,

२, ३.
हिंसादि-रहित- -तम् जाद
२, ८.
हिंसा-पैशुन्य-वर्जित- -तः नाप
३, ३५.
हिंसा-युक्त- -कानि नाप ५, २०.
हिंसित्वा वृ १, ४, ११.
√हिकक्
हि(क>)का^m- -का योचू ११७.
हिङ्कुⁿ- -ङ्कुम् शि ६, ७३.
हिङ्कुल^o- -लम् शि ६, ६५.
१हित- √धा द्र.
२-३हित- √हि द्र.
१हित्वा √हा(त्यागे) द्र.
२हित्वा √हि द्र.
हिम^p-
हिम-सेचन- -नम् महा ४, २६.
हिमा(म-अ)द्रि^q-
हिमाद्रि-कैलास^r- -सौ गु १३.
हिमा(म-आ)लय^s- -यः गी १०,
२५.
?हिमांशुप्रभाभिः^t प्रा २, १.
हिरण्य, ण्या^u- -ण्यम् मना २,
६३^v; पहं४^w; कौ २, ११; य१;
सु २९३ : १; -ण्यस्य छां ५, १०,
९; वृ ६, २, ७; -ण्या सौ १, १;
-ण्याय मना २, १६^x; -ण्ये वज
६, ३१.
हैरण्य-
हैरण्या(एय-अ)ष्ट-पलाश-
-शाम् गोपू १८.
हिरण्-मय^y- -यः तै १, ६, १; छां १,

६, ६; वृ ४, ३, ११; १२; मै ५, १;
मैत्रि ६, १; मना २, १४^z; कै
२, १; वृपू १, ८; गोउ ५२; आषे
८ : १६; बि १५; अरु २०^{aa};
वपू २, १; -यम् मना १, १४^{ab};
१योत ८६; महा १, १; अत्ति १;
ए ८; १०; १३; १४; गोउ ४९;
चा १६^{ac}; -या(श्री^{ad}) सौ १, १;
-ये मुं २, २, ९; -येन ई १५; वृ
५, १५, १९^{ae}; मै ५, ८; मैत्रि ६,
८; ३५^{af}.
हिरण्यमी- -मी वृ ६, ४, २२^{ag};
अरु २५^{ah}.
हिरण्य-केश- -शः छां १, ६, ६.
हिरण्य-गर्भ^{ai}- -०भं योशि ६, २;
-र्भः मै ५, ८; मैत्रि ६, ८; ७, ७;
मना १, ३९^{aj}; वृउ १, ७; २, ६;
९, ७; नाप ८, १०; योचू ७५;
त्रिवि २, १६; ३, ४^{ak}; राउउ, ३७;
पै १, २७; महा ६, ८३; योशि १,
३; ए४; यो ३, २२; कलि २; च
२१:१४; सं ३; वपू ३, १; -र्भम्
श्वे ३, ४९^{al}; ४, १२९^{am}; मना २,
१२, ३९^{an}; त्रिवि ३, ४; योशि २,
१५^{ao}; गु ५६; -र्भ^{ap} मना १,
६; व ४६३ : ३.
हैरण्यगर्भ- -र्भः गोपू
४६^{aq}.
हिरण्यगर्भ-चैतन्य- -न्यम् पै
१, १२.
हिरण्यगर्भा(र्भ-आ)दि- -दीन्
भ २, ७.

a) धा. अर्थः?। b) =शिवपार्षदविशेष-। c) वैतु. Pw. प्रष्ट. हिङ् इति। d) गपू. (पृ २४०) सस्थ.
√कृ>चक्रुः इत्यत्र यनि. शोधः कर्तव्यः। e) =स्तोभविशेष-। f) =बीजमन्त्रविशेष-। g) तैआ १०, १, ५।
h) मा १६, ३। i) तैसं ५, ५, ९, ३। j) ०सा इति अच्चा.। k) व्यु? =रामठ-। l) व्यु? =धातुविशेष-।
m) व्यु? =तुहिन-वैप१ यद्र.। n) निसा. अच्चा. च पा. ? 'हिमांशु-प्र(अ>)भा-> -भाः, आभिः' इति शोधः
द्र. (तु. आन.)। o) वैप१ यद्र.। p) तैआ १०, ६३, १। q) तैआआ १०, १६। r) तैआ १०, १३, १। s) शौ १०,
२, ३१। t) तैआ १०, १, १४। u) पा. ? यनि. शोधः द्र.। ण्यस्रजा इति निसा. संदि.। v) मा ४०, १७।
w) ण्यवी ऋ १०, १८४, ३। x) तैआ १, २७, ३। y) =१महान्-। z) तैआ १०, १, ३। a') ०भस्य इति निसा.।
b') तैआ १०, १०, ३। c') तु. गपू. पृ २४०j। d') तैआ १०, १, ६। e') 'हैरण्यः' इति आन.।

हिरण्यगर्भा(भे-अ)धिष्ठित-विक्षेप-शक्ति-

हिरण्यगर्भाधिष्ठितविक्षेप-शक्ति-तत्स(>) वै १, १३.

हिरण्य-ज्योतिस्- -ति: सुबा २.

हिरण्य-दंष्ट्र- -ष्ट्र: छां ४, ३, ७.

हिरण्य-दातृ- -तार: वसू २१.

हिरण्य-नाभ- -भ: प्र ६, १.

हिरण्य-निधि- -धिम् छां ८, ३, ३; भ १, १.

हिरण्य-पति- -तये मना २, २२९^a.

हिरण्य-ब्राह्म- -हवे मना २, २२९^a; वृजा ३, १४; -हुम् भ १, १; २, ३.

हिरण्य-मय- -यम् च २० : ४.

हिरण्यय^b- -य: मना २, ४०९^c; -येन व ४३७ : ७९^d.

हिरण्य-रूप, पा- -पम् भ १, १; २, ३; -पा सौ १, ३; -पाय मना २, २२९^a.

हिरण्य-रेतस्- -ता: ए २.

हिरण्य-लिङ्ग- -ङ्गाय मना २, १६९^e.

हिरण्य-वर्ण, र्णा- -र्ण: मैत्रि ६, ३४; आर्षे ८ : १७; -र्णम् भ १, १; २, ३; सू ४; -र्णा मना २, ४३९^f; सौ १, १; -र्णाम् सौ १, १^g; -र्णाय मना २, २२९^a.

हिरण्यवर्णा(र्णा-आ)द्या(दि-आ)-द्य-त्रय- -यस्य सौ १, १^h.

हिरण्य-श्रद्ध- -द्धम् मना १, १२९^b.

हिरण्य-इमश्रु- -श्रु: छां १, ६, ६; आर्षे ८ : १७.

हिरण्यवस्थात्ⁱ मैत्रि ६, १.

हिलि-हिलि^j व ४३५ : ११.

हि(लि>)ली^k- -लि व ४३५ : १८.

ही^l लां २१६ : १९; हीं-हीं लां २१६ : १९^r.

√ही(ङ्>)ळ्, जिहीळ व ४६० : ८९^m.

हीन- √हा(न्यागे) द्र.

हीरकⁿ-

हीरका(क-आ)वली-वटित-मुक्ता-फल-ज्योत्स्ना- -स्नाभि: सार २६५ : ७.

√हु(दानादनयोः), जुहोति छां २, २४, ५; ९, १४; ५, २४, १-३; वृ १, ४, १६; ५, २; ३, ८, १०; ६, ३, १; १३; ४, १९; २४; मैत्रि ६, २६^r; मना २, ८०९^c; कौ २, ३; वृजा ३, १४; प्रा १, ६^q; शा १५; पा १, ४; व ६, ४६; जुह्वते सुं ३, २, १०; जुह्वति छां ५, ४, १; ५-८, २; वृ १, ५, २; ६, २, ९-१४; गी ४, २६^s; जुहोषि गी ९, २७; जुहोमि वृ ६, ३, १; ४, २४; जा ४; मना १, १५९^u; कौ २, ४^t; नाप ३, ७७; त्रिवि ८, ५; पप ४१८ : १५; प्रा १, ६^q; २, १^v; या १, १; व ४६० : १२९^u; जुहुमः मना २, ५४९^u; पा ६, ८९^u; ९^vजुहुत>ता व ४४० : २; ४४५ : ७; ४५० : १०; ४५३ : १९; जुहुयात् छां ४, १७, ४-६; ५, १९-२३, १^v; २४, १; वृ ६, ४, १२; मैत्रि ६, ३६; जा ४; वृजा

३, १३; नाप ३, ७७; रार ४, ८; १संन्या २, १००; पप ४१८ : १४; अव्य ४.

जुहुवुः छाग २३ : ६; होष्यति वृ ३, १, ८; अहौषीः वृ ६, ४, १२^v.

हूयते मैत्रि ६, ३७; श २५; इ १४ : २१; हूयन्ते वृ ६, २, १६.

*जुहवा-

*जुहवां/कृ(करणे), जुहवांचक्रुः कौ २, ५.

जुहू^b- -हू: छां ३, १५, २; भ १, ३९^z.

जुह्व- -ह्व वृ १, ५, २; वपु २, ५^z; -ह्वतः अन्न ५, १२.

जुह्वान- -न: मैत्रि ६, ३८.

हवन- -नम् सौ १, ३.

हविस(>र, ष्)^z- -वि: ऐ २, ५; मैत्रि ६, १६; ३४; ३६; मना २, ८०९^c; अशि १, ११^z; वृजा २, ४; ते २, २२; ६, २३; श २६; नाप ३, ७७; सुद्र २; पप ४१८ : १५; अव्य ३; ४; या १, १; भा ८; भ २, १५; २८; प्रा २, १; इ ११:४; १८:४; १२; १५; १७; ९^vव ४४० : २; ४४५:७; ४५०:१०; ४५३ : १९; गी ४, २४; -९^vविभिः व ४४० : २३; ४४६:६; ४५१:२; ४५४:९; -विष: इ १३ : ३; -विषा श्वे ४, १३९^z; मना १, ८९^z; २, ५१९^z; अशि १, ११; वृपु २, १६९^z;

- a) तैत्र्या १०, १८, १। b) वैपश् यद्र.। c) ऋ ४, ५८, ५। d) ऋ १, ३५, २। e) तैत्र्या १०, १६। f) तैत्र्या १०, ३४। g) °र्णामित्याद्यृक्त्र° इति अज्या.। h) तैत्र्या १०, १, १२। i) पा. 'हिरण्य-वस्त्र->स्त्रः' इति स्वरसंकेतितः (तु. सात.) शोधः द्र. (वैतु. राती. यनि. एव कथमपि व्याचक्षाणः, निसा. सात. च °वस्त्र- इति)। j) अदा. लोटि मपु१ इति कृत्वा =*हि-हि। k) व्यु.१ =देवीविशेष-। l) =बीजमन्त्रविशेष-। m) ऋ १०, ८३, ५। n) व्यु.१। o) तैत्र्या १०, ६४, १। p) सकृत् 'जुहोमि' इति आन.। q) तैत्र्या १०, १, १५। r) 'होमि' इति अज्या.। s) °होति इति अज्या.। t) ऋ १०, ८३, ७। u) ऋ १०, १२१, १०। v) ऋ १०, १४, १३। w) =यज्ञपात्रविशेष-। x) °वीषि इति आन., अज्या.। y) ऋ १, २४, ११। z) ऋ १०, १२१, ३। a') सा १३, २१। b') तैत्र्या ३, १५, १। c') ऋ १०, १२१, २।

नाप ३, ३७; त्रिता ३, २३;
रशिसं ३, ३९^०; ३४९^०; व ४६४:
८९^०; -नीषि गर्भ ५; प्रा ३-४,
१; इ १६ : २०.

हविर-गुण- -णा: इ १८: २; ३.

हविर-भुज्- -भुजम् सुद्र २.

हविष्-मत्- -मते दे २९^०; -मन्नि:
क २, १, ८९^०; -९^०मन्तः श्वे ४,
२२; मना २, ५३; रशिसं २९.

हविव्य-

हविष्या(ष्य-अ)ञ्जा(ञ-अ)-

द- -दः रार ४, १.

हव्य^१- -व्यम् इ १५ : ९.

हव्य-दाति- -तये २प्र ३६ :
२२^०.

हव्य-वाहन- -नः इ ११ : ४;
-नाय वृजा ४, २९^०; -ने सुं १,
२, २.

हुत, ता- -तम् प्र ३, ५; सुं १, २, ३;
छां ५, २४, २; ४; वृ १, ५, २; ४,
१, २; ५, ११; मैत्रि ६, ३७; मना
२, ७०^०; अशि ३, २; श २६;
योशि ५, ३५; च २१ : १७; पा
२, ३; वटु ३१५: २; शि ४, ३६;
४१; गी ४, २४; ९, १६; १७,
२८; -ता शि ४, ३४; -ता: वृ ३,
१, ८^१; -तायाम् वृ ६, २, २.

हुत-भुज्- -भुक् ए७; रुजा २, ३.

हुत-बह-निलय- -ये सौ २, ३.

हुत-संवित्क- -त्कः वृ ३, ७.

हुता(त-अ)शन- -नः मैत्रि ६,
३८; १अव ६; रुह ८; -नम्
योचू ५९; व ४६५ : ९.

हुताशन-प्रति(ग्रा >)-

-ष्टम् म २, २८.

हुत्वा छां ५, २, ४; ५^१; वृ ६, ३, २^०;
३^१; ४, १९; जा ४; वृजा ३, १५;
नाप ३, ७७; सुद्र २; ५५१८: १५;
त्रिता ३, २४^१-२६^१; शि २, २४.

हुन^१-

√हुन्, हुनेत् वृजा ३, १६; रार
२, ३४; वपू २, ५.

होतव्य- -व्या: वृजा ३, १५.

होमा^१- -मः ते २, २३; ५, ५२; ६,
२४; नाप ६, ३३; भा ४०; वउ
६, ४७; -मम् वृपू ५, १०; रुजा
३, १; इ १४ : ६; शि ४, ६३;
-मस्य शि ४, ३८; ४७; -मा: सुं
२, १, ८; भव १, १६; -मे इ १४:
१६.

होम-कर्मन्- -र्म शि ४, ४८.

होम-शेष- -षम् वृजा ३, १७^०.

होमा(म-अ)र्थ- -र्थम् शि ६, ६१.

√होमि, होमयति प्रा २, १;

होमयीत शि ४, ३९; होमयेत्

शि ४, ४९; ५८; ६१; ६३-६५;

६, ३; कालि ४०२ : ९.

होमीय- -यम् छां ५, १९, १.

होम्य- -म्यम् प्रा १, ६१^१.

√हु(आहाने) √हे द्र.

१हुं^१ वृपू २, ४; शु १, १८^१; त्रिवि ७,

३०; रार २, ६१; सावि १०;

म १, १; दत्ता २; गरु ३; नापू

५, ९; नाउ २, १०; लां २१३: ९.

१हुं-कार- -रम् रापू ४, ५७.

हुम्-आदिक- -कम् रार २, ४.

हुं-फट्-कुर्वाण- -णम् भ १, १.

हुं-फट्-नति-सहित- राम-द्वाद-

शा(श-अ)क्षर- -रम् रार ३, १.

हुं-फट्-अन्त- -न्तः रार २, १९.

रहुं^१ छां २, ८, १.

३हुं^०

हुं/क

रहुं-कार- -रः छां १, १३, ३.

√हृ, हृत- √हृ द्र.

हृ^१ वृ ५, ३, १.

√हृ, > हरि, हारि, जिहीर्ष, हरति वरा

२, ७९; गी २, ६७; हरन्ति प्र

२, ७; छां २, २१, ४; ५, ९, २;

वृ ५, ११, १; ६, २, १४; कौ २,

१^१; २^१; इ १६ : ६; गी २, ६०;

हरसि वउ ३, ६०; हरामि मना

२, ६७^१; हरामहे कौ १, १;

१^१हरतु मना १, ७; व ४६४: ४;

हर क १, १, ७; दे १९; व ४६६:

२; वउ ४, ४६; हर-हर गरु ७;

व ४६५ : १३; हृषो १०; हरेत्

वृ ४, १, २-७; हरेत् वृजा ३,

२२; ते ३, ७१; ७२; १योत

१२४; योचू १२१; रुजा १, ४;

शि २, २९; ४, १६.

जहार श १४; बा १; पा ६, ४;

जहे सार २४१ : २१.

हियते गी ६, ४४.

हरय-हरय दत्ता २.

हारय-हारय लां २१४ : १८.

जिहीर्ष > षां- -र्षा मै ३, ५.

हर^१- -०२ वउ ३, ५४; ६३; -रः

श्वे १, १०; वृजा ६, ७^१; नाप ९,

९; चक १२; वउ ३, १८; ४१;

५५^१; ५६; ५७; ४, २६; -रम् व

४३५ : १९^१; वउ ३, ५४; ५७.

हरा^१- -राम् सुमु ४.

हर-माया(या-आ)त्मक- -केन

त्रिता १, ३.

- a) ऋ १०, १२१, ३ । b) ऋ १०, १२१, २ । c) मा १३, २१ । d) ऋ १०, १२५, २ । e) ऋ ३, २९, २ ।
f) ऋ १, ११४, ८ । g) ऋ ६, १६, १० । h) 'प्रभञ्जनाय' इत्यपि निसा. पाभे. । i) तैश्चा १०, ३६, १^१ । j) कृवा.
शः प्र. उरं. (पा ३, १, १३७) । k) इधमशो इति अञ्ज्या. । l) तु. गपू पृ१५६ । m) =बीजमन्त्रविशेष- । n) व्यु. १
=ध्वनिविशेष- । o) व्यु. १ =स्तोभ- । p) 'हृदय-' इत्यस्यैकदेशः परामृष्टो भवति । q) तैश्चा १०, ६७ । r) तैश्चा
१०, १, ७ । s) धा. अर्थः १ = १ शिव- । t) =हकार-बीजाक्षर- ।

हर-शिरोरुह- -हम् वज ४, ३५.

हरण- -णम् वज ३, ६३.

हरत्- -रते पा ९, १०; -रन् पा ९,
८; -रन्तम् मना २, ४९९^५; श
५; वा ५.

हरि^b- -रयः वृ२, ५, १९^१; ९^०; मना
२, ४०९^५; -रये वृजा ४, २९;
त्रिवि ७, ४१; नापू ३, १५; पा
३, २; -रिः मना २, १३, २९^०;
वृजा ६, ७; वृपू १, ८९^०; ते २,
५; २७; ५, ८०; ६, १७; ६४;
ब्रवि ३१; ३४; योचू ७६; ७७;
श १; २७; २९; स्क २; महा ३,
५१; ४, ७६; ६, २१; अथ्या ६८;
जाद ४, ३५; कृ १०; वरा २,
६३; सूता १, ५; तुल ७० : १९;
नापू ३, ६९^०; ४, ३०; कृपु २;
नी ३, १; रशिसं १८; स ३७८:
९; हे ७; चक्र १२; वपू २, १;
गी ११, ९; -रिभिः रार २, ४५;
-रिम् मना २, १३, १९^१; २, ४९९^५;
वृजा ६, ७^३; १योत २५; त्रिब्रा
२, १४३; शा ५; वा २५^१; ३०;
महा १, १९^१; रूह ६; सु १, १,
३; च २० : १०९^१; का १०;
सार २२६ : १८; -रीन् रापू ४,
२४; -० रे दत्ता १, ७^३; कलि
२८; सु १, १, १३; नाड ३, १९;
-रेः त्रिब्रा २, ३३; सी २०; सुद्र
१, ३; ५; ८; शा १४; नापू ५,
३; सार २४३ : २२; सु २९४:
७; भव १, ३५^१; २, ६०; ५, २०;
पिब्र ६, १८; गी १८, ७७; -रौ
रापू १, १.

हरि-कथा(था-आ)लाप- -वैः

नाप १.

हरि-दिन-कृत्-प्रभा- -भया
वरा ३, ११.

हरि-(द्व>)द्रा^c- -द्रा का १०९^१;
-द्राम् नार ९.

हरिद्रा-गणपति- -तये व
४३४ : २२.

हरि-नामन्- -मानि नाड ३, १८.

हरि-नायक- -कः ता २, १; ३,
२; ८.

हरि-पद्मा(द्वा-आ)दि- -दयः
सिशि ३८२ : १७.

हरि-प्रि(य>)या- -या राधा १,
२०.

हरिमन्- -माण् सूता २, ८९^५;
९-१०९^५.

हरि-मन्दिर- -रम् कृपु २१.

हरि-वल्लभ, भा- -भम् गरु ५;
-०भे सार २९२ : २१.

हरि-शंकर- -रयोः वृजा ६, ७.

हरि-श्रीकृष्ण-सुकुन्द-कुमुदाक्ष-
पुण्डरीकाक्ष-धामक-शङ्खवर्ण-

सर्वनेत्र-सुमुख-सुप्रतीक- -काः
नापू ६, १३.

हरि-संस्कार- -राः भव २, ६८.

हरिसंस्कार-सेवन- -नम्
भव ५, १८.

हरि-हर-हिरण्यगर्भ-स्रष्टृ-
-ष्टारम् भ २, ३^१.

हर्तुम् वज ३, ५७.

हर्तु- -र्ता ग २; त्रि १५.

हृत- -तः महा ६, २७; -तम् कृ१२;
बा ५; शि ६, २४९.

हृत-ज्ञान- -नाः गी ७, २०.

हृं रार २, १०५^६.

१हृद्^१- हृदा क २, ३, ९९^५; ९^५श्च ३,

१३; ४, १७; २०; मना १,
३९^५; २, ४०९^५; ७९९^०; त्रिवि

६, १४९^५; गोपू २५; गु ६०;
६३९^५; व ४२७ : १५; हृदि क

२, ३, १४; प्र ३, ६; छां ८, ३, ३^३;
वृ २, ५, १०; ४, ३-४, ७; श्वे २,

८; गौ १, २; २८; मै ४, ४, ८;
मंत्रि ६, २७; ३०; ३४^१; ७, ११;

गर्भ २; ५^१; ब्रवि ४; ५; ब्र२^१;
अना ३५; अशि ३, ८; ९; वृजा

१, १९^१; ४, ३; ६, ७; वृपू १, १९^१;
सुबा ४; ५^१; क्षु ३; ते १, १०^१;

ध्या ३१; ९३, १; ब्रवि १८; ६९;
७०; १योत ११३; १३७; २योत

१, ९; योचू २३; ७४; ९७; श
१९; रार २, ११; ४३; ८३; ८५;

शां १, ७, ५२; पै ४, ९; महा ३,
३६; ५, ७८; ८२; १७४; ६, ६८;

१संन्या २, ४३; अन्न ४, ९१; ५,
७; पत्र २^१; यो १, ६८; त्रिता १, ३४;

५, ४; ५; जाद ४, २६; ६, ४६; पं
३६; वरा २, ४५; शा २५; सर ३,

२५; २९; सु २, ४०; ५१; सार
२२७ : १०; २३६ : ८; १५;

२१; २५६; १२; २५७; ९; २७६;
१०; २९२ : १७; वट्ट ३१५ :

८; ९; शि १, २४; ५, २१; गु ६०;
व ४२६; ५; वज ४, ४५; ५, ३१;

भव ३, २५; अवि ४; ५; ब्रसू १,
३, २५; २, ३, २४; गी ८, १२;

१३, १७; १५, १५; ९^१हृदे मना
२, २५; रशिसं ३१.

हार्द-

हार्दा(र्द-अ)सुगृहीत- -तः

- a) तैआ ३, १५, १। b) धा. अर्थः? वप्रा. वैपश् यद्र.। इह = विष्णु-, सूर्य-, तत्किरण-, वर्णविशेष-
प्रसृ.। c) ऋ ६, ४७, १८। d) तैसं ४, २, ९, ६। e) तैआ १०, ११, २। f) तैआ १०, ११, १। g) ऋ १, ५०, ११।
h) ऋ १, ५०, १२। i) 'रिहिर' इति अश्या. संटि। j) = वीजमन्त्रविशेष-। k) 'हं' इति अश्या.। l) वैपश् यद्र.।
m) तैआ १०, १, ३। n) ऋ ४, ५८, ६। o) तैआ १०, ६३, १। p) 'हृदये' इति आन., अश्या.। q) ऋ १०,
१२९, ४। r) 'भवस्थितम्' इति आन.। s) 'स्वहृदि' इति निसा.। t) ऋ १, ४३, १।

ब्रसू ४,२,१७.
 हृत्-कण्ठ- -ण्ठम् पिं १२.
 हृत्^१/कृ
 हृत्-कृत्वा^b योशि १,७२.
 हृत्-पङ्कज- -जे वा २५.
 हृत्-पद्म- -द्मम् ध्या २६; गोड ४६;
 शि १,२४; -च्चात् गोड १७.
 हृत्पद्म-कणिका-मध्य- -ध्ये
 ध्या १२.
 हृत्पद्म-मध्य- -ध्ये आबो १.
 हृत्पद्म-षट्प(द>)दी- -दी
 महा ३,२४.
 हृत्पद्मा(श्च-श्च)वधि- -धि यो १,
 ३३.
 हृत्-पार्श्व- -र्श्वे वृजा ५,२.
 हृत्-पुण्डरीक- -कम् कै १,६.
 हृत्पुण्डरीक-मध्य- -ध्ये मैत्रे १,
 ४,८.
 हृत्पुण्डरीकमध्य-स्थ,स्था-
 -स्थम् त्रिभा २,१५६; -स्थाम् दे
 १५.
 हृत्-पुष्कर- -रे म ५,१,२; मैत्रि
 ६,१,२.
 १^१हृत्-प्रतिष्ठ- -ष्टम् १शिसं ६;
 २शिसं ५.
 हृत्-सरोरुह- -हे जाद ४,४९.
 हृत्सरोरुह-कोटर- -रे ध्या १००.
 हृत्-स्थ- -स्थम् गोड ४७; गी ४,
 ४२.
 हृद्-अन्तर- -रात् मैत्रि २, ६; -रे
 मै २,९.
 हृद्-अम्बर- -रे अत्र ४,४९.
 हृद्-आकाश- -शा: ते ३,२८^d; श्रो
 मैत्रे २,१४; महा २,४८; अत्र

४,५९.
 हृद्-आदित्य-मरीचि- -चीनाम्
 पाशु १,२४^०.
 हृद्-आसन-नाभि-कण्ठ-सर्वाङ्ग-
 -ज्ञानि पै २,१०^१.
 हृदि
 हृदि-स्थ,स्था- -स्थम् श्वे ४,२०;
 -स्था: ब्र २; अशि ३,८; वटु
 ३१५: ८.
 हृद्-एकान्त-व्योम- -संवेदन-
 -नात् शां १,७,३५.
 हृद्-गत- -तम् ब्रवि २०.
 हृद्-गुहे(हा-ई)शान- -नम् महा ६,
 २०.
 हृद्-ग्रन्थि- -न्थि: ससा १,२३.
 हृद्-देश- -शे नाद ४^६; त्रिभा २,
 १४५; वड ४,३०; गी १८,६१.
 हृद्-द्वार- -रम् अना २७.
 हृद्-बाहु- -हो: शि ५,२२.
 हृद्य- -द्य: महा ५,८२; -द्यम् पिं
 ५,९; -द्या: गी १७,८.
 हृद्य-ता- -ता १संन्या २,५६.
 हृद्-रोग- -गम् सूता २,८.
 हृन्-नाभि-नासिका-कण्ठ-पादा-
 (द-श्च)ङ्गुष्ठादि-संस्थित- -त:
 ध्या २७^५.
 हृन्-नाभ्यु(भि-ऊ)रु- -रुपु रार २,
 २३.
 हृन्-मध्य- -ध्यम् त्रिभा २,६६; शां
 १,४; -ध्ये जाद ४,४९; ७,१२;
 वरा ५,३२.
 १हृल्-लेख- -खे योशि ६,१८^१.
 २हृद्^१- हृत् रार २,१०; ३०; ५४.
 हृद्-अन्त- -न्त: रार २,६३; ६८;

१०५.
 हृद्-आदि- -दिभि: रापू ४,४३.
 हृद्-बीज- -जम् ध्या ३५.
 २हृल्-ले(ख>)खा^१- -खा सू २;
 त्रिता १,३५; -खाम् श्या ९.
 हृल्लेखा(ख-आख्य>)ख्या-
 -ख्या त्रिता १,३.
 हृद्य^{११}- -यम् सुं २, १,४; २,७; ऐ
 १-२,४; ५, २; छां ३, १२,४;
 ५,१८,२; ८,३,३; वृ २,४,११;
 ३,९,११; १४; १६; १७; ४,१,
 ७^६; ४,१; ५,१२; ५,३,१^२; कौ
 २,८; १०; मना २,१३,२१^५; २,
 ३५^{१५}; ८०^{१०}; गर्भ २,५^{१०}; अशि
 ६,७; ब्र २; ३, १२; वृजा ४,
 २५; २६; लु ४; सुबा १३^१; ते
 ६,९६; त्रिभा २,७; ७९; १३१;
 स्क ८^३; पै ४,९; शारी १; महा
 १,११^५; ५,५१; कुं २१; पाशु
 २,३६; त्रिता ४,१; रुह १; जाद
 २,८; पं ३६१^{११}; प्रा १,६; सु १,
 १,३७; इ १०:२०; १८: ७^{१५};
 च २१:२१^{१५}; निरु २,३; २शिसं
 ११; गार ४०८: ८; गु १८;
 व ४५८: ६; -यस्य क २, ३,
 १५; १६; छां ३, १३, १;
 ८, ६, १; ६; वृ ४, ३, २२;
 ४, २; अशि ५, १६; कौ ४,
 १९१^{१०}; सुबा ४^१; ११; योशि ६,
 ४; गोच ६६: २१; वटु ३१३:
 १; -यात् ऐ १,४; वृ २,१,१९;
 ३,९,२२^२; ४,३,३; ६,४,९१^१;
 मैत्रि ७,११; कौ २, १११^१; ४,
 १९; सुबा ११^१; १योत २५;

a) गतित्वम् उसं. (पा १,४,७४) । b) पा ७,१,३८ । c) मा ३४,६ । d) °शे इति अच्चा. । e) °घादि° इति निसा. । f) °ङ्गम् इति अच्चा. । g) 'हृदये' इति आन. । h) °नासाकर्णं च पा° इति निसा. । i) °खि° इति निसा. संटि. । j) व्यु.१ = १नमस्, अकार-बीजाक्षर- । k) = हीं-बीजाक्षर- । l) वप्रा. वैपश् यद्र. । इह = १हृद्-, बीजाक्षरविशेष- । m) तैआ १०,११,२ । n) तैआआ १०,३५ । o) तैआ १०,६४,१ । p) 'हृदयपलानि' इति अच्चा. । q) पा. ? °येन इति शोध: द्र. । r) °ये इति पा. ? यनि. शोध: द्र. (तु. तैआ १०,११,२) । s) 'पुरुषस्य' इति शांआ ६,१९ । t) मंत्रा १,५,२६ । u) 'मुखात्' इति ऋ १०,९०,१३ ।

महा ६, ८; -यानि पै ४, २; गी १, १९; -याय वृपू २, ४; शु १, १८; लां २१३ : ६; वपू २, २; -ये क २, ३, १७; तै १, ६, १; छां ३, १२, ९; १४, ३३; ४; ८, १, ३; वृ २, १, १७; ३, ९, २०-२३; २४; ४, १, ७; ३, ९, २२; ५, ६, १; खे ३, १३; ४, १७; मैत्रि ६, १७; ७, ७; गर्भ २; हं १३; कौ २, १०९; वृजा ४, १४; १८; २१; २८; २९; वृज ३, ९; १योट ११८; योचू ५^b; मं १, २, ७; अता ५; राउ ५, ३; वा ३०; शां १, ७, ४३; ३, १; पै ४, ३; योशि १, ११०; १७३; ३, ४; २०; ५, ९; ६, ५०; त्रिता १, ७८; ८४; ४, २, १; यो १, ४९; २, ४५; भ १, ६; रुजा १, २१; प्रा २, १; दत्ता १, ५-७; सर ३, २५; योरा १०; च २१ : २; वृष ८५ : ६; वपं ३१२ : २; ७; सुमु ५; सिशि ३८१ : १४; व ४५९ : ८; योसू ३, ३५; -येन वृ ३, ९, २०; २१; २३; सु २, २, १९; -^९येषु व ४६१ : ४; ४६४ : २१.

हृदय-कमल- -ले त्रिवि ५, १२.

हृदयकमल-कर्णिका- -कायाम् त्रिता १, ८०.

हृदयकमल-मध्य- -ध्ये मं २, ४, ४; वा २१.

हृदय-गोचर- -रम् त्रिब्रा २, १४९.

हृदय-ग्रन्थि- -न्थयः अन्न ४, ८४;

सु २, २, १३; -न्थिः सुं २, २,

८; तै ५, ९२; ६, १०१; महा ४,

८२; योशि ५, ४५; अन्न ४, ३१;

सर ३, ३२; -न्थौ महा ५, ६५.

हृदयग्रन्थि-हीन- -नः मैत्रे ३,

१७.

हृदय-चक्र^१- -कम् सौ ३, १.

हृदय-ज्ञ- -ज्ञः छां ७, २, १; -ज्ञम् छां ७, २, १; ७, १.

हृदय-दौर्बल्य- -ल्यम् गी २, ३.

हृदय-नन्दन- -नम् भव ४, १९.

हृदय-पङ्कज- -जे त्रिब्रा २, १५९.

हृदय-पुण्डरीक- -केषु वा २४

हृदयपुण्डरीक-कर्णिका-

-कायाम् त्रिवि ५, ८.

हृदय-स्थ- -स्थम् ब्र ३, १३; नाप ५, १; यो ३, ११; पिब्र ६, १०.

हृदय-स्थान- -नम् ब्रवि ४१.

हृदय-स्थित- -ताः त्रिवि ५, ८.

हृदयस्थिता(त-अ)नादि-दुर्वा-
सना-ग्रन्थि-विनाश^d- -शः
त्रिवि ५, ८.

हृदयां(य-अं)श- -शः जाद ८, ४^e.

हृदया(य-आ)काश- -शे त्रिब्रा २,
६५; शां १, ४^f; महा ४, ९३.

हृदया(य-अ)गार-वासि(वृ>)-
नी- -नी त्रिता १, ३५.

हृदया(य-अ)जलि- -लिः त्रिब्रा २,
१४५.

हृदया(य-आ)दि-कण्ठ-पर्यन्त-
-न्तम् शां १, ७, १४.

हृदया(य-आ)दि-न्यास- -सः शु
२, ५^g; गरु ३.

हृदया(य-आ)दि-मन्त्र- -न्त्राः रार
३, १.

हृदया(य-आ)द्य(दि-अ)ङ्ग-न्यास-
कर-न्यास- -सौ हं १२.

हृदया(य-अ)न्त- -न्तम् १योट ९१.

हृदया(य-अ)न्तर-गत- -ते मैत्रि
७, ११.

हृदया(य-अ)म्बुरुहा(ह-आ)सीन-
-नम् त्रिब्रा २, १५३.

हृदया(य-अ)म्भोज- -जे वउ ६,
१८.

हृदयाम्भोज-मध्य-ग- -गः
मैत्रे ३, १७^h.

हृदया(य-अ)म्भोरुह- -हम् त्रिब्रा
२, १००.

हृदया(य-अ)वधि- -धि यो १, २७.

हृदये(य-ई)श- -शः वृजा ४, २३.

हृदयो(य-ऊ)र्ध्वभाग- -नो शां १,
७, ५२.

हृद्य- १हृद्- द.

√हृष> हर्षि, हृष्यति नाप ३, ३८;
महा २, ४३; ४, ३२; ६, ४९;

गी १२, १७; हृष्यन्ति सार

२५४ : ७; हृष्यसि अन्न ५, ७;

हृष्यामि गी १८, ७६; ७७.

हर्षयेत् नाप ५, ६.

हर्ष- -र्षः १योट १३; नाप ५, १९;

योशि १, ११; -र्षम् गी १, १२;

-र्षेण त्रिवि १, ५.

हर्ष-द>दा- -दा महा ५,
१११.

हर्ष-विषाद- -दाभ्याम् अन्न ५,
६.

हर्ष-शोक- -काभ्याम् अन्न १,
३७; -कौ क १, २, १२.

हर्षशोका(क-अ)न्वित- -तः
गी १८, २७.

हर्ष-स्थान-शत- -तानि भव
१, ९.

हर्षा(र्ष-अ)मर्ष-भय-क्रोध-काम-
कार्पण्य-दृष्टि- -दृष्टिभिः महा २,
४४; ६, ४९.

हर्षा(र्ष-अ)मर्ष-भयो(य-उ)द्वेग-
-नैः गी १२, १५.

हर्षा(र्ष-अ)मर्ष-भयो(य-उ)-
न्मुक्त- -क्तः वरा ४, २६.

a) ^१यम् इति मंत्रा. (१, ५, १०), शांभा. (४, १०), ^२यः इति अज्या. । b) ^३यम् इति अज्या. । c) ऋ १०, ८४, ७ । d) कस.>कस.>तस. । e) ^४यान्तः इति अज्या. संटि. । f) ^५शम् इति निसा., अज्या. संटि. । g) ^६म्बु इति अज्या. ।

हर्षा(ष-अ)मर्ष-विकार—
 (ह्)वा- दा अत्र ५, ५.
 हर्षा(र्ष-अ)मर्ष-संविद्- विदः
 अत्र ४, २२.
 हर्षमाण- णासः व ४६०:१३९^a.
 हर्षित- -तः शि ७, ७२.
 हर्षित- -तः गी ११, ४५.
 हृष्ट- -ष्टः श १०: रापू ४, २२.
 हृष्ट-पु(ष्ट)ष्टा- -ष्टाः शि ६,
 १५९.
 हृष्ट-रोमन्- -मा गी ११, १४.
हृषीक^{11b}-
 हृषीके(क-ई)श¹¹- -०श नापू ३, १७;
 गी ११, ३६; १८, १; -शः १योत
 ४; गी १, १५; २४; २, १०; -शम्
 गी १, २१; २, ९; -शाय त्रिवि ७,
 ४१
हृष्टसुपणौ¹⁰ निरु २, ३.
 हृ¹¹ आरु ३; श १; वरा ४, १३; सौ १,
 १; सि १, ३; गार ४०५: २; गी
 ११, ४१^३.
हृद्
 हृदस- -डः नी १, ९९^०.
 हेति¹¹- -तिः नी २, १४९^५; १६९^५.
 हेति-राज- -जाय त्रिवि ७, ३९.
 १-२हेतु-, हेतुक- √हि द्र.
हेमन्¹¹- -म महा ४, ४६; योशि १,
 १५९; अत्र १, ३९; -स्रः शि ६,
 १२०; -आ शि ६, १०२; -स्त्रि
 शि ६, १०३; १३९.
 १हैम¹- -मम् अव्य१; भ२, २९;
 सिशि ३८२:१९; ३८३: ३; -मे
 म १, ४.
 २हैम^२-
 हैम-व(त्)ती- -तीम् के

३, १२.
 हेम-तोय- -यम् शि ६, ६६.
 हेम-प्र(ख्य)ख्या- -ख्याम् व
 ४२६: १२.
 हेम-मुरली- -लीम् राधा २, ९.
 हेम-रत्न-चित- -तम् शि ७, ६४.
 हेम-रत्न-विभूषित- -तम् शि ६,
 १०९.
 हेम-रूप- -पेण योशि ५, १९.
 हेम-रौप्य-कृत- -तानि शि ६,
 १२५.
 हेम-रेखा(खा-आभ)भा- -भा
 रुजा १, १४.
 हेम-वर्ण,र्णा- -र्णाः व ४३८: २२;
 -र्णाः शि ४, २६.
 हेम-वस्त्र- -स्त्राः भ २, २७.
 हेम-स्तम्भ-सहस्र-पोडश-युत-
 -ते रार २, ३७.
 हेम-स्वरूप(प)पा- -पाम् राधा
 २, ९.
 हेमा(म-अ)ङ्ग-विभूषण- -णाः भ
 २, २७.
 हेमा(म-अ)ब्ज- (स्थ)स्था-
 -स्थाम् व ४२६: १३.
 हेमा(म-आ)भ, भा- -भया रापू ४,
 ९; -भेन रापू ४, १०.
 हेमा(म-अ)म्बुज- -जम् महा ४,
 १८.
हेमन्त¹¹- -न्तः छां २, ५, १; १६, १;
 मैत्रि ६, ३३; -न्ते महा ५, ७७;
 सु २, २, ४१; शि ६, २१३.
 हेमन्त-काल- -ले रा ४२४: ७.
 हेमन्त-शिशिर- -रौ मैत्रि ७, ५;
 २प्र ३३: ८.
 हेय- √हा(त्यागे) द्र.

हेरम्ब¹¹
 हेरम्ब-गुरु- -रोः हे ४.
 हेरम्ब-तत्त्व- -त्त्वे हे ३.
 हेरम्बो(म्ब-उ)पनिषद्¹¹- -षद्म् हे
 १; १४.
हे(ल)ला¹¹-
 हेला-निर्मित- -धूम्र-लोचन-व-
 (ध)धा- -०धे व ४६५: २३.
 हेला-त्रिचलिता(त-अ)शेष-चतुरा-
 (र-आ)चार- -चञ्चुर- -रः भव
 १, १७.
हैतुक- √हि द्र.
हेरण्य- हिरण्य- द्र.
हो¹¹ वृ ५, १४, ८; हो-हो छां ४, १, २.
होतर¹⁰ गा २५.
होतव्य- √हु(दानादनयोः) द्र.
होतृ-, होत्रा- √ह्वे द्र.
होम-, होमीय-, होम्य- √हु(दाना-
 दनयोः) द्र.
हौ¹⁰ व ४५९: ९; १०.
हौ¹¹ रार ३, १; रापू ४, ५०^१.
हः¹¹ लां २१५: १७; व ४२६: ८.
हृद्¹¹- -दः कौ १, ३; -दम् कौ १, ४.
ह्रस्व
 ह्रस्व, स्वा- -स्वः ध्या १७; वरा ५,
 ६८; -स्वम् ते ४, २३; योशि ३,
 १९; वरा ५, ७०; इ ११: ११;
 -स्वा वृपू ३, ३^३; वपू २, २^३.
 ह्रस्व-दीर्घ-प्लुत- -तः(१तम्¹)
 अ १.
 ह्रस्व-परिमण्डल- -लाभयाम्
 ब्रसू २, २, ११.
 ह्रस्वो(स्व-उ)दात्त- -त्तः २प्र
 ३४: १८.
ह्रां¹¹ लां २१४: १९; सार २४७: १७;
 पारा ७; वपं ३१२: १; व ४२६: ५.

a) अ १०, ८४, १। b) =ज्ञानन्द्रिय-। व्यु. ? < √हृष् इति पाठ ४, १७। c) पा. ? 'हि, अष्ट-सुपर्वन्-
 > -वर्णौ' इति शोधः द्र.। d) अन्वय.। e) मा १६, ६। f) वैपश् यद्र.। g) मा १६, १२। h) मा १६, ११।
 i) व्यु. ? =सुवर्ण-। वैपश् यद्र.। j) विप.। k) भाप.। l) =ऋतुविशेष-। वैपश् यद्र.। m) व्यु. ? =गणेश-।
 n) व्यु. ?। o) पा. ? 'हो तद्' इति शोधः द्र. (तु. वृ ५, १४, ८)। p) =बीजमन्त्रविशेष-। q) 'ह्वे' इति आन.।
 r) निसा. यनि. शोधः द्र. (तु. अन्वया.)।

√हाद्

हादुनि-नयः छां ५, ५, १^{१०}; वृ ६, २, १०.

√ही

ही- हिया तै १, ११, ३; हीः वृ १, ५, ३; मैत्रि ६, ३०; नाप ४, १२; त्रिवा २, ३४; शां १, २१^{१५}; जाद २, १; १०^{१५}; वरा ५, १४; गी १६, २.

रही^१- हियम् रूप ४, ४८.

हीं^१ त्रिवि ७, ३०; रार २, ५२; अक्ष १, ८; सावि १०^३; त्रिता ३, १७; यो ३, १; ह ८; दत्ता १, ३; सर २, २^३; नापू ३, ९; सार २३२: ९; हीं-हीं पारा ७^१.

हींकार- रेण त्रिता १, ३.

हीं/कृ

रहींकार(र>)री- री व ४२७: १०.

हीं^१ दत्ता १, ६; लां २१४: १९; वपं ३१२: १; कालि ४०३: १२; व ४२६: ६; हूं-हूं पारा ६; ७.

हीं^१ लां २१५: १७; व ४२६: ७.

हीं^१ लां २१५: १७; पारा ६; व ४२६: ७.

हीं^१ लां २१६: ७; १६.

√हाद्, > दि, हादयिष्यसे पा ३, १.

हाद-

हाद-परिताप-फल- -लाः योसू २, १४.

हादयत्- -यन् पा ३, २.

हादि(र>)नी-नी रूप ४, ५८^d; ६०^d; नापू ५, ३१^{१०}.

हादिनी-मय- -याभ्याम् सी ३७^f.

ही^१-

हीक-काः इ १५: १५.

हीं^१ लां २१६: ७; १६.

हूं^१ ह ६; लां २१६: ७; आथ ३९८: १०.

हूं^१ ह ६.

हूं^१ रूप- -पेण ह ९.

√हृ

हृ^१ जुहुराणं- -णम् ई १८; वृ ५, १५, १.

हृ^१, > हृ, हृ, हवामहे वृ ६, ४, २२१^f; श्वे ४, २२१^k; त्रिता ३, २७१^f; व ४२९: ११^f; ४३९: ५१^m; ४४४: ९१^m; ४४९: १९१^m; ४५३: ७१^m; ४६१: १४^f १^m.

हवामि अक्षा १.

हृ^१ ह्वामहे व ४४२: ८; ४४७: १५; ४५२: १; ४५५: ६.

हृवे पा ७, ४; हृवेम मना २, ११^d.

हव- -वम् सर २, २१^g; १^g व ४४०:

२२; ४४६: ५; ४५१: १; ४५४: ८.

हृत- -तः व ४६०: १५१^g.

होतृ^१- -ता क २, २, २१^f; छां ४, १६, २; वृ ३, १, २^३; ३^३; ७; मैत्रि ६, १६; मना २, १२, २१^f; २, ४०^f; ८०^f; कौर, ६^v; वृपू ३, ६१^f; नाप ५, ११^f; पाशु १, ११; त्रिता ४, २७^f; भा ८; प्रा ३, १; २प्र ३६: २२१^g; व ४६०: ११^f; ४६१: १६^g; वपू २, ३१^f; -तारम् २प्र ३६: १७^g; अक्षा २^f; १^g व ४३९: १५; ४४४: १९; ४५०: ३; ४५३: १३; -त्रा वृ ३, १, ३; य ८; सु २९३: ८.

होतृ-षदन- -नात् छां १, ५, ५. हो(त्र>)त्रा^१- -त्राः श्वे २, ४१^d.

ह्सौ^१ आथ ३९७: १२.

ह्सौ^१ त्रिवि ७, ३२^g; ४०^d; ४१^g; आथ ३९४: १७.

ह्सौ^१ वपं ३११: ४; आथ ३९७: १२.

ह्स्र्वफ्रं^१ आथ ३९४: १६; व ४३२: ९.

ह्स्र्वह्स्र्वौ^१ व ४३२: ११.

ह्स्र्वयो^१ आथ ३९८: १३.

ह्स्र्वै^१ व ४५७: ७.

ह्स्र्वै^१ वपं ३११: ३.

ह्स्र्वौ^१ आथ ३९७: १२.

इति वैदिकपदानुक्रमकोषे औपनिषदे तृतीये विभागे

द्वितीयः खण्डः समाप्तः ।

a) °द इति आन.१ यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.; वृ ६, २, १०) । b) व्यु.१ =बीजमन्त्रविशेष- । c) =बीजमन्त्रविशेष- । d) =दकार-बीजाक्षर- । e) =हरिकलाविशेष- । f) वा.१ °नीमा इति निसा. । g) =ही- । h) ऋ १, १८९, १ । i) वैप१ यद्र. । j) ऋ १०, १८४, ३ । k) ऋ १, ११४, ८ । l) ऋ २, २३, १ । m) ऋ १, ७, १० । n) 'हुवेव' इति पा.१ यनि. शोधः द्र. (तु. शौ ७, ६५, १) । o) ऋ १, ८९, ५ । p) 'हवामहे' इति शौ ७, ६५, १ । q) ऋ ५, ४३, ११ । r) ऋ १, २५, १९ । s) ऋ १०, ८४, २ । t) ऋ ४, ४०, ५ । u) तैआ १०, ६४, १ । v) °तः इति अक्षा. । w) ऋ ६, १६, १० । x) ऋ १०, ८३, २ । y) ऋ ८, ११, १० । z) ऋ १, १, १ । a') ऋ १, १२, १ । b') ऋ ५, ८१, १ । c') 'हौं (हसौं)' इति निसा. । d') 'हौं (हसौं)' इति निसा. । e') 'हौं (हौं)' इति निसा. ।

अथ परिशिष्टम्

५अ

+अकात्स्न्य-

अ

५अ > अ-कार- -रः^a नृपूर, २; नृउ २,
५^b; ३, २. [°र- प्रणवस्थ°]
अकार-तुरीयां(य-अंश >)शा°-
-शाः वरा ४, १^d.
अकारा(र-अ)र्ध- -धेन नृउ ७, १४°.
अकारो(र-उ)कार-मकारा(र-अ)र्ध-
मात्रा(त्रा-आत्मक >)त्मिका-
-का वरा ४, १^f.
✓*अंश > अंश- अकार°, अग्नि°,
अद्वि...विद्°, अमिल°, अप्°,
अपर°, अर्धमात्रा°, अविद्या°, अ-
हंता°, आकाश°, उकार°, एक°,
चतुर्थ°, चन्द्र°, १चित्°, चित्-
प्रकाश°, चिन्निष्पन्द°, २चैत्य°,

तद्दशार°, तुरीय°, तेजस्°, तोय°,
दशन्°, ध्यानापाद°, नारायण°,
निर्°, पूर्ण°, पृथिवी°, प्रत्यय°,
१बीज°, मकार°, माहात्म्यलेश°,
मूर्धन्°, रजस्°, लब्ध°, वायु°,
विकल्प°, विच्छिन्नशरदभ्र°, वि-
द्या...य°, विशेष°, व्योमन्°, शर-
दभ्र°, १शेष°, सत्त्व°, साक्षिन्°,
सात्त्विक°, सूक्ष्म°, १सूर्य°, १सो-
म°, स्थूल°, स्व°, स्वस्वे...य°,
हृदय°
अंश(क^h)- त्रि°, नवन्°, प्रणव°
अंशु- -शुना मना २, १२, २४^h.
[°शु- उप°, चेतस्°, धातु°°,
शीत°, सहस्र°]
+अंशु-क- ३पीत°

अंशु-नाभि- -भिः ए ८ⁱ.
✓*अंस् > अंस- कुलगोत्र°, २वाम°
अंस-क- °
अंसक-द्वय- -ये वृजा ४, १८ⁱ.
अः > अः-स्वर- नवरेखा°
+अ-क^k- पर°
अकबर्हⁱ- -र्हः-र्हः-र्हः अल्ला ३^h.
१अ-करण- सङ्गस्मय°, २हित°
अ-कर्तु- > अकर्तु-ता- कर्तुता°
अ-कल- -लः मैत्रि ६, १५^m.
अ-कल्पित- कल्पित°
अ-काकपृष्ठ- -ष्ठम् नाप ४, ३८ⁿ.
?अकामम्° मैत्रि ३, ५.
+अ-काम्य- काम्य°
२अ-कारण- -गम् अद्वै ७?°.
+अ-कात्स्न्य- आत्मन्°

अत्र तावद् द्विविधाः शब्दाः समावेशं लभमानाः द्र. । मूत्र. पठितपूर्वाः सन्तः पुनरपीह पठ्यन्तेऽन्ये । अन्ये चेहैव प्रथमं पठ्यन्त इति । अथ ये मूत्र. पठितपूर्वाः सन्त इह पुनरपि पठ्यन्ते, तेषां पुनःपाठे सप्तैतानि निमित्तानि द्र. । तद् यथा— १. यत्र मूत्र. स्थलविशेष-संकेतः कथमप्यलब्धसमावेशः स्यात्, २. यत्र कोप्यप्रदर्शितपूर्वः पामे. प्रदर्श्यः स्यात्, ३. यत्र कोप्यसंकेतितपूर्वो मूलान्तरोद्धारः संकेत्यः स्यात्, ४. यत्र कोपि प्रदर्शितपूर्वः स्थलविशेष-संकेतः शोध्यः स्यात्, ५. यत्र कस्यचित् प्राति. स. अनाद्यावयवीयः प्रयोगः प्रदर्श्यः स्यात्, ६. यत्राऽऽधारग्रन्थसंस्करणविशेषाऽतिरिक्तापाठेयस्थलसंकेतः समावेश्यः स्यात्, ७. यत्र कश्चित् पठितपूर्वः शब्दः शोध्यः स्यादिति । अथापि य इहैव प्रथमं पठ्यन्ते, तेषां वामतोऽध्यग्रे + इत्येतच्चिह्नयुजां सतां चत्वार इमे वर्गाः द्र. । तद् यथा— १. ये मूत्र. संभावितसमावेशा अपि सन्तः कथमपि तत्राऽलब्धसमावेशाः स्युः, २. ये मूत्र. समाविष्टानां सतां स्थाने शोधस्वरूपाः स्युः, ३. ये मूत्र. समाविष्टानां स. अनाद्यावयवस्वरूपाः स्युः, ४. य आधारग्रन्थसंस्करणविशेषीयाऽतिरिक्तापाठघटकस्वरूपाः स्युरिति ।



a) गपू. (पृ३) मुद्रितस्थलेषु यनि. शोधः द्र. । b) सकृत् ओं° इति निसा. । c) गपू. (पृ३) यनि. शोधः द्र. । d) °रादि° इति अज्या. । e) °धेन इति निसा. । f) °श्म° इति अज्या. । g) अयं बस. कपः प्र. सामान्यो निर्देश-प्रकारः द्र. । h) ऋ ४, ५८, १ । i) सुना° इति अज्या. । j) 'अंसे द्वये' इति अज्या. । k) उप. =३क- । l) अकबरस्य मुगलसम्राजो नामपदस्य संस्कृताऽऽपत्या विकारितमिव रूपं द्र. । m) अका° इति सात. । गपू. (पृ५) सस्य. 'अ-काल- > -लः' इत्यत्र सकृत् यनि. शोधः द्र. । n) °कालपृ° इति काचित्कः निसा. पामे. । o) पा. ? '१काम- > -मः' इति शोधः द्र. (वैतु. राती. यनि. वा आकामम् इति वा) । p) 'कारणम्' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. ।

अ-कार्य- कार्य°
 अ-काल- लः मैत्रि ६, १५^३.
 +अ-कुल- १कुल°
 अ-कृत- कृत°
 +अ-कृत्य- कृत्य°
 अ-कृष्ण- अशुक्ल°
 §^१अ-क्रतु- तुम् नाप ९, १३; श १८;
 मना २, १२, १.
 अ-कूर- -रः कृ १६°.
 अकूरयु(त>)ता^१- -ता रापू ४,
 ५८.
 अ-क्लिष्ट- क्लिष्ट°
 ✓अज्> २अक्ष-एकोन...त्, केन°°,
 तुलसी°, पञ्चाशन्°, पत्र°, १६३°
 अक्ष-माला- ज्ञानमुद्रा°, पाशा°°,
 पुस्तक°, सव्यहस्त°
 अक्षमा(लक>)लिका- ऐत-
 रेय°°, तुरीय...ज°
 अक्ष-सूत्र- अङ्गुलीय°, पात्र°,
 सुचू°°
 ३अक्ष(<अक्षि-)-अधस्°, अधि°,
 अभिनद°, इन्द्र°, २कट°,
 १कपिल°, कमलपत्र°, १काम°,
 किञ्चि...त°, कुमुद°, गो°, चञ्चल°,
 त्रि°, देह°, निमीलित°, १पद्म°,
 परस्°, २पिङ्ग°, २पिङ्गल°,
 पुण्डरीक°, पुष्कर°, प्रति°, १भद्र°,
 भङ्ग°, २लोहित°, विरूप°,
 विशाल°, १त्रिख°, शर्करा°, शुभ°,
 संहार°, सहस्र°, सुवर्ण°, २हरिण°,
 हरित...हित°, हिरण्य°
 ४अक्ष- -सर्षप°
 अक्षन्- -ऽक्षभिः
 अक्षर- -रः नृपू १, ८९^६; महा १,
 १९^६; कालि ४०३:७९^६. वड २,

३०; -रम् नृपू २, ५^६; भव २,
 ६; वपू १, २; -राणि रापू ४,
 ४६^१; काम ३; ४; १५; ह ७^५;
 ८^५; -रे मना १, १^९। [°र-
 अकार°, अधि°, अन्°, अनुज्ञा°,
 अनेक°, अमृत°, अर्धपञ्चन्°,
 अष्टन्°, अष्टत्रिंशत्°, अष्टम°,
 अष्टाचत्वारिंशत्°, अष्टादशन्°,
 १आदि°, आधार...त्मन्°, ईकार°
 उकार°, उद्गीथ°, एक°, एकार°,
 एकोनत्रिंशत्°, एतद्°, २कति°,
 १कूट°, क्षर°, चतुर्°, चतुर्थ°,
 चतुर्थकूट°, २चतुर्विंश°, चतुर्विं-
 शति°, चतुश्चत्वारिंशत्°, १चित्°,
 जीव°, तुरीय°, तृतीय°, तृतीय-
 कूट°, त्रय°, २त्रयोविंश°, त्रि°,
 त्रिंशत्°, दशन्°, दुर्°, द्वात्रिंशत्°,
 द्वादशन्°, द्वाविंशत्°, द्वि°, द्वि-
 तीय°, द्वितीयकूट°, नवन्°, निरु°,
 पञ्चदशन्°, पञ्चन्°, पञ्चम°, पञ्चम-
 कूट°, पञ्चविंशति°, परम°, प्रति°,
 प्रथम°, प्रथमकूट°, १बीज°,
 मकार°, १यकार°, यथा°, रेफ°,
 १ललित°, १वर्ण°, २वेद°,
 शक्त्यात्मन्°, शत°, शब्द°,
 शाल°°, षट्त्रिंशत्°, षड्विंशत्°,
 षष्°, षष्ठ°, षष्ठकूट°, षोडशन्°,
 ६स°, संधि°, सप्तदशन्°, सप्तन्°,
 सप्तम°, सर्व°, सहस्र°, हकार°]
 अक्षर-पद-अष्ट- -ष्टम् सार
 २९२:२०.
 अक्षि, क्षी- -क्षि महा ५, ७०^६. [°क्षि-
 अन्तःकरण°, कठवल्ली°,
 १कर्ण°, १त्वच्°, १दक्षिण°,
 पत्राच्°. पाद°, १पार्श्व°, पृष्ठ-

वंश°°, मुख°°, २वाम°, शिरस्°°,
 श्रोत्र°, संतत°, १सूय°]
 +अक्षि-पाणि-पाद- अनन्त°
 अक्षि-शिरो-मुख- सर्वतस्°
 +अक्षि-शूल^१- अङ्गशूल°, शिरः-
 शूल°
 +अक्षी-पाश-बन्ध- -न्धम् तां
 २१५:१३.
 अक्ष्यु(क्षि-उ)न्मेष-निमेष- प्र-
 चारण°°
 अ-क्षत- -ते आबो १^१९^१; -तेषु वड
 ६, २९. [°त- कुङ्कुम°, गन्ध°,
 पत्र°, पुष्प°, पूजित°, लाज°]
 +अक्षत-प्रक्षेप- २कर°
 अ-क्षमा- -माम् अशि ५, १८^३.
 अ-क्षय- -यम् मैत्रे १, ४, ६^३; त्रि १६°.
 [°य- कर्मन्°]
 अ-क्षुब्ध- परानन्दरस°
 अ-खण्ड- अखण्डलक्षण°, अद्वि-
 तीय°, अद्वैत°, अप्रमेय°, १केवल°,
 चित्रादिवर्ण°, रूनिरतिशयानन्द°
 अखण्ड-तेजो-मण्डल-विशेष-
 -पम् त्रिवि ६, २३^३.
 अखण्ड-मण्डल- परमाकाश°
 अखण्ड-विग्रह- ब्रह्माण्ड°
 +अखण्डा(एड-आ)कार-वृत्ति-
 तदाकाराकारिता°
 +अखण्डा(एड-आ)नन्द-पद-
 शुद्धाद्वै...दा°
 अखण्डा(ण्ड-आ)नन्द-पीयूष-
 पूर्ण-ब्रह्म-महा(हा-अ)र्णव-
 -वे अध्या ६६°.
 +अखण्डा(एड-अ)मित-सर्वाद्वै...ण°
 +अखण्डा(एड-अ)मिततेजो-राशि-
 अलौकिक...क्षण°

a) सकृत् 'कालः' इति सात. । b) तैत्र्या १०, १०, १। c) तु. गपू. पृ८७१d। d) पूष. =अनुस्वार- ।
 e) =विभीतक- (=वृक्षविशेष-)। f) ऋ १, ८९, ८ (गपू. पृ ६ यनि. शोषः दः)। g) तैत्र्या १०, ११, २। h) गपू. (पृ६)
 यनि. शोषः दः। i) 'राच्' इति आन. । j) तैत्र्या १०, १, १^१। k) तु. गपू. पृ४०७a। l) पा. १^१क्षिते इति शोषः
 दः (तु. ऋ ९, ११३, ७)। m) 'वृष्णाम्' इति आन. । n) 'अव्ययम्' इति अज्या. । o) 'अक्षरम्' इति तान्त्रि. ।
 p) अखण्डलविज्ञे° इति निसा. । q) गपू. (पृ८) सस्थ. यनि. शोषः दः ।

अखण्डै(गड-ए)करस- सम् ते
 २, १०.
 अ-खिल- -लम् शा ३२३ : ३^b; -लैः
 शा २६°. [°ल-अनन्त°, चिद-
 चैत्य°]
 +अखिल-कर्मन्- अर्पित°
 +अखिल-कारण- अनादि°
 अखिल-कार्यकारण-जाल- उदय-
 ...दि°
 +अखिल-कौतुक- विगत°
 +अखिल-क्रिया- कृषि...दि°
 +अखिल-भूत-भीति- प्रशान्त°
 +अखिल-मनोरथ- प्राप्त°
 +अखिल-मन्त्र- प्रणावादि°
 अखिल-लोक- व्याप्त°
 अखिल-वर्त्मन्- -स्मिना सर २, ९^d.
 अ-खेद्- खेद°
 +अ-गमन- गम्य°
 अ-ग(म्य>)म्या-गमन- समस्त-
 पातको***क°
 अग(s)स्ति->अगस्त्य^१- २वसिष्ठ°
 आगस्त्य->+आगस्त्य-से(ज्ञ>)-
 ज्ञा-ज्ञा त्रिता १, ६६.
 +अगार^२- -रम् कौ २, १५. [°र-
 अग्नि°, १देव°, देवाग्नि°, शून्य°,
 श्रोत्रिय°, हृदय°]
 १अ-गुण- गुण°
 २अ-गुण- -णः ते २, १८.
 अगुरु^३-केसर°, चम्पक°, मृगमद°,
 सज्ज°
 अगुरु-रस- अन्तःसुगन्धतैल°
 अ-गोचर- अखिलप्रमाणा°, नामरूप-

ज्ञान°, मनोवाच्°, वाङ्मनस्°,
 १वाच्°, वाचाच्°
 अग्नि- -अयः नृपू ४, १५, १४; -अये
 मना १, १२९^b; २, ३-५९^b; -भिः
 क २, १, ८९^१; मना १, ७९^१; कौ
 ४, १६९^१; वृजा ३, २६^१; नृपू २,
 १४९^१; नाप ४, ३८९^१; भा ८°;
 नाउ १, १५९^१; व ४६३:७९^१;
 अरु २९९^१; वपू १, २; २, १;
 वउ २, २; १९; ३, ७; ४९; ४,
 ५; १७; ४१; ५, २८; -भिना महा
 ४, २६^१; -भिम् ९^१२संन्या १७:
 ६; ७; अरु १५९^१; ३२९^१; वउ
 ५, ६; -मीन् वउ ३, २४; -०मे
 ९^१मना २, ६; ७; व ४४३:२१९^१;
 -मेः श्वे २, १९^१; मना २, ७९^१९^१;
 नाउ १, १५९^१; -मौ वपू २, ५.
 [°भि-अन्तर°, अपरोक्षज्ञान°,
 अर्क°, आकाश°, आत्मसंयम-
 योग°, आर्द्रैध°, आहवनीय...
 ण°, आहवनीय...सभ्य°, आहि-
 त°, इन्द्र>न्द्रा°, इन्द्रिय°, उत्सन्न°
 उदर°, ३कल्प°, काय°, २काल°,
 कोष्ठ°, २ख°, खज°, चन्द्रसूर्य°,
 १चित्°, जठर°, जमत्°, २जल°,
 जाठर°, ज्ञान°, ज्वाला°, तद्°,
 तुष°, त्रयी°, त्रेता°, २दक्षिण°,
 २दर्शन°, दाव°, दुष्कृत°, १देव°,
 धृत°, १ध्रुव°, १नरक°, निर्°,
 निशाकर°, पचन°, पञ्चन्°, पटु°,
 १पुरुष°, प्रशान्त°, प्राणा°, प्रैष°,
 ब्रह्मज्ञान°, १ब्रह्मन्°, भस्मन्°,

महान्धकार°, १मूल°, २योग°,
 राजन्°, १रुद्र°, १रूप°, लौकिक°
 २वड्वा°, १वाच्°, वायु°, विधुम्°,
 शक°, शरीर°, २शब्द°, १शिव°,
 शीत°, श्मशान°, श्री°, ६स°,
 संयम°, समिध्°, सर्प°, सर्व°,
 साम्य°, १सूर्य°, १सूर्य°,
 १सोम°, स्थल°, स्वर°, स्वा-
 त्मन्°, स्वाधीन°]
 आग्नेय- सौर°
 आग्नेयी- -थीम् पप
 ४१८ : ९१^१; या १, ११^१.
 +आग्नेय-दिश- -दिशम् व
 ४२८ : १०.
 १अग्नि-क- गपू. पृ १२ द.
 +२अग्नि(-क°)-अन्°, उत्सन्न°, ६स°
 +अग्नि-चित्- अन्°
 +अग्नि-ज्वाला- व्याघ्र°
 +अग्नि-दिग्-अन्तर- शून्यागार°
 +अग्नि-नेत्र- तीक्ष्णदंष्ट्र°
 +अग्नि-प्रभा- चम्पक°
 अग्नि-बीज- प्रणवसंपुटित°
 +अग्नि-रक्षा- -क्षा व ४३४:
 १५१^१.
 अग्नि-वर्ण, णी- -र्णम् कुं ६^b;
 -९^१र्णाम् मना २, १; दे ४; व
 ४६५ : २०.
 अग्नि-द्योम^१- -मेन वउ ५, १३.
 [°म- अति°]
 अग्नि-संयु(क>)का^१- -का रापू
 ४, ६०.
 अग्नि-सम- -मः वउ ५, २२.

a) सकृत् °सः इति अज्या. (गपू. पृ ८ सस्थ. यनि. शोधः द्र.) । b) अज्या. सं. अपा. (गपू. पृ ९ सस्थ. यनि. शोधः द्र.) । c) °लेन इति अज्या. । d) °नाम् इति अज्या. संटि. । e) व्यु. १=आगार- । f) आ° इति अज्या. । g) तैश्चा १०, १, १२ । h) तैश्चा १०, २-४, १ । i) ऋ ३, २९, २ । j) तैश्चा १०, १, ७ । k) °नेः इति अज्या., शांथा ६, १७ । l) सकृत् °नेः इति अज्या. । m) तैश्चा ८, १, १ । n) तैश्चा २, १८, १ । o) 'अर्च्यम्' इति अज्या., तान्त्रि. । p) तैश्चा १, २७, ४ । q) °गिनदाहः इति अज्या. । r) शौ ७, ८७, २ । s) तैश्चा १, २७, २ । t) तैश्चा १, २७, ५ । u) तैश्चा १०, ५, १ । v) तैश्चा ४, २३, १ । w) मा ११, १ । x) 'अग्निः' (तु.सस्थ. गपू. पृ १०) इति निसा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. तैश्चा १०, ६३, १) । y) निसा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । z) तु. गपू. पृ ९८७ । a') तु. गपू. पृ १३८ e । b') 'अग्निः, वनम्' इति अज्या. । c') खि १०, १२७, १२ । d') पूष. =रेफ-बीजाक्षर- ।

+अग्नि-सेविच्- अन्°
 अग्नि-होत्र^१- अतिरात्र°, निरशन°°,
 प्राण°, १शिव°
 +अग्निहोत्र-क^{१५}- तारसार°°,
 पञ्चवह्मन्°
 +अग्निहोत्र-गृह- शून्यागार°°
 +अग्निहोत्र-शाला- शून्यागार°°
 अग्निहोत्रिन्- अन्°
 अग्नी(मि-इ)ध्->आग्नीध्र^२->
 आग्नीध्रीय- -याः(इयात्^b) २प्र
 ३३: २३.
 +अग्न्य(मि-अ)गार- गुद्°°
 अग्न्या(मि-आ)नन- -ने त्रिता २,
 ३१°.
 अग्र- -ग्रम् ध्या १८^a; ३७°; -अग्ने वृजा
 १, १९^f; वृपू १, १९^f; २संन्या
 १७: ६९^g; वपू २, ४; वउ ३,
 २९. [°ग्र- अङ्गुलि°, अङ्गुष्ठ°,
 अन्तस्त्रिकोण°, अष्टार...कोण°,
 ३शारा°, उद्°, एक°, १ओंकार°,
 २कर°, करतल°, १कुश°, कूर्पर°,
 कोण°, जिह्वा°, तद्°, तदभ्य-
 न्तर...प्रासाद°, तर्जनी°, तुरी-
 योंकार°, तृण°, त्रिकोण°, दशन-
 नख°, दृष्टि°, नख°, नासा°,
 नासिका°, पर्वत°, पल्लवकोण°,
 २पुर°, पूर्वयोनि°, फण°, भक्-
 जिह्वा°, यद्°, रसना°, लक्ष्मी°,
 वाल°, वि°, वृक्ष°, शाखा°, शूल°,
 ६स°, हल°]
 +अग्र-कोण- रेखाचतुष्टय°
 अग्र गण्य- स्कन्द°
 +अग्र-ज- १भरत°, १शिव°
 +अग्र-ज्वलन- तदोकस्°
 अग्र-तस्(>:) १शिव°

+अग्र-देश- जिह्वा°
 +अग्र-नासिका-वक्त्र- १नील°
 +अग्र-पाक- सर्व°
 +अग्र-भाव- ललाट°
 +अग्र(ऽ)य(न>)ण->आग्रयण-
 अन्°
 +अग्रिम- ६स°
 अग्र्य- -ग्र्यम् नाप ४, ३८९^h.
 [°ग्र्य- अनेक°]
 +अग्र्य-गुण- समग्र°
 अ-ग्राह्य- -ह्यम् वउ १, १४; ५, ३९.
 √अघ्>अघ- -घम् कौ २, १०९ⁱ.
 [°घ- अन्°, उत्तरपूर्व°, तन्द्नी°°,
 पूर्वतर°, समस्त°, सर्व°]
 अघ-मर्षण- -णः मना १, १३९^j;
 १४^k; १५९^l.
 +अघौ(घ-ओ)घ- सर्व°
 अ-घोर, रा- -रा श्वे ३, ५९^m; -रेभ्यः
 मना २, १९९ⁿ [°र- तत्पुरुष°°]
 ९ⁿ+अघोर-घोरतर- -रेभ्यः मना
 २, १९; व ४६२: २२.
 +अघोर-मूल-मन्त्र- वीरहनुमत्-
 साध्यसाधन°
 +अघोरा(र-अ)स्त्र- पाशुपतास्त्र°°
 √अङ्क>अङ्क- अङ्कित°, कलङ्क°,
 त्रिपुरङ्क°, ३भग°, १राम°,
 १वरुण°, वर्णाक्षरपद°, शश°
 अङ्कित- अष्टयोनि°, अष्टशूल°,
 ऊर्ध्वसंपुटयोनि°, कस्तूरीतिलक°,
 १चक्र°, तन्नामन्°, तुलसीकाष्ठ°,
 दशयोनि°, मात्सर्य°, शङ्खचक्र°,
 श्रीराधा...मन्°, श्रीवत्स...माला°
 अङ्कुर- कोमल°, दूर्वा°, पत्र°,
 पलाश°, पुनर्जन्मन्°, २प्रवाल°,
 बहु°, १बीज°, भूयोजन्मन्°, २

महत°, लोकैकदीप°, शत°,
 संकल्प°
 +अङ्कुर-क- अन्तरमृत°, अमृत°
 +अङ्कुर-रूप- जगत्°
 +अङ्कुर-शाखा- सहस्र°
 अङ्कुरी/भू>अङ्कुरी-भूय यो
 ३, १८°.
 १अङ्कुर- अक्षसूत्र°, अनङ्ग°, गदा°,
 निर्°, निशित°, पाश°, महत्°,
 १वज्र°, १वज्र°°
 +अङ्कुर-बीज- प्रणवसंपुटित°
 +२अङ्कुर(श>)शा^{१५}- -शा त्रिता
 ३, १५.
 अं-कार- ५अ द.
 √अङ्ग>१अङ्ग- -ङ्गात्-ङ्गात्^v वृ ६,
 ४, ९; कौ २, ११; -ङ्गानि के छां
 आरु मै मैत्रे शां^{१६}; शु १, ११;
 सी २७; योक्त्वा शां^{१७}; रार
 २, ९६; १००; ३, १; महा अव्य
 १संन्या कुं सावि रुजा जाद जावा
 शां^{१८}; गरु ११९^६; तारा ८३:
 १६; वपू १, ५; २, २; वउ ५, ४.
 [°ङ्ग- अन्°, २अनाहत°, अन्तर°,
 अप°, अमृज°, अष्टन्°, २असित°,
 उत्तम°, उत्तङ्ग...हर°, उदार°,
 उद्दधूलित°, उप°, १काम°, कृश°,
 १कृष्ण°, क्रिया°, खट्वा°, गोपी-
 चन्दनलिप्त°, जप°, तद्°,
 तृतीय°, २दक्ष°, दीर्घ°, १दढ°,
 पञ्चन्°, पुम्°°, पूजा°, पृथ्वीमण्ड-
 लमुद्रा°, प्रति°, प्राणिन्°, फल-
 विशुद्ध°, बहिस्>२°, १ब्रह्मन्°,
 भस्मदिग्ध°, भस्मव्यापाण्डुर°,
 मद्°, मुकुटाङ्ग...ल°, यज्ञ°,
 २योग°, ३रक्त°, रक्तगन्धानुलिप्त°, २

a) =तदाख्योपनिषद्विशेष-। b) पा.इ यनि. शोधः द्र. (तु. गोत्रा १, १, २३)। c) °ग्न्यासने इति अङ्ग्या. संदि.। d) °अग्ने इति आन.। e) °अग्ने इति निसा., आन.। f) ऋ १०, १२९, ४। g) शौ ७, ८७, २। h) गपू. (पृ १३८) पाण् २, २, ११ इत्येवं शोधः द्र.। i) मंत्रा १, ५, १०। j) तैत्र्या १०, १, १३। k) तैत्र्या १०, १, १४। l) तैत्र्या १०, १, १५। m) मा १६, २। n) मैत्रे २, ९, १०। o) °रीभावम् इति अङ्ग्या. संदि.। p) गपू. (पृ १४) यनि. शोधः द्र.। q) =मुद्राविशेष-। r) गपू. (पृ १४) सस्थ. यनि. शोधः द्र.। s) पाण् ३, १५, २३। t) मा १२, ४।

रहस्य°, राधा°, राम°, रत्न°,
लालितकङ्कण° १वज्र°, २वाम°,
३वाम°, विकट°, विष°, रवेद°,
शुभ°, श्रीचन्दनविलिप्त°, १श्वेत°,
षष्°, ६स°, संनत°, सप्तन्°, सर्व°,
साधारण°, सामन्°, रसुगन्ध°,
सुपुष्ट°, सूक्ष्म°, स्व°, हीनाति-
रिक्त°, हृदयादि°

१अङ्ग-द- गपू. पृ १४ द.
+२अङ्ग-द-^२ कटक°, केयूर°,
प्रेवेय°, मुकुट°, १शङ्ख°°
+अङ्ग-दशक- यन्त्र°

+अङ्ग-भूत- महामायादेवी°
+अङ्गमे(म्-ए)जय- > अङ्गमे-
जय-त्व- दुःख°°

अङ्ग-राग- तद्°, दिव्य°, नाना°,
नानासुगन्ध°, पङ्क°, भस्मन्°
+अङ्ग-रूप- कम्प°

अङ्ग-वासुदेवादि-रुक्मिण्यया-
दि- गोपू १८°.
+अङ्ग-विभूषण- हेमन्°

अङ्ग-शोभा- धातु...त्रित°
अङ्ग-संस्पर्श- शंः अक्ष ५,
२८°°.

अङ्ग-सङ्ग- लिङ्ग°
अङ्गी ✓ > +अङ्गी-कार-
तद्°
+अङ्गी(ङ्ग-उ)पाङ्ग- ६स°

अङ्गण- गृह°
+अङ्गना- १देव°
अङ्गार- अमेध्य°, वि°

अङ्गिरस- रसम् वज ५, १८.
[°रस- अथर्वन्°, ४घोर°, भृगु°]
आङ्गिरस- रवसिष्ठ°°

अङ्ग->अङ्ग-ष्ट- अनामा°, अना-
मिका°, कनिष्ठिका°, २कर°,

१त्वच्°, पाद°, प्रपद°, मध्यमा-
नखामिलित°, २वाम°, ३श्रवण°,
६स°, सकलीकरण°, सव्यपाद°,
सूर्यमण्डला...विन्द°

+अङ्गगुष्ठ(-क^०)- २काल°
+अङ्गगुष्ठ-द्वय- -यम् त्रित्रा २,
४०. [°य- पाद°]

अङ्गगुष्ठ-मात्र- -त्रः श्वे ३, १३५°.
[°त्र- शरीरप्रदेश°]
+अङ्गगुष्ठ-व्यापक-स्वान्ता-

(न्त-अ)ष्टाङ्ग-दण्डिमुण्डि-
न्यासा(स-आ)दि- -दि वज
६, १५.

+अङ्गगुष्ठा(ष्ट-आ)दि- १हृद्°
अङ्गगुष्ठादि-स्वावयवा-
(व-अ)स्फुरणा(ण-अ)दर्शन-

-नैः त्रित्रा २, १२१°.
+अङ्गगुष्ठाद्य(दि-अ)ङ्गुली-
स्व°

अङ्गुल- एक°, चतुर्°, दशन°, द्वा-
दशन्°, द्वि°, नवति°, नवन्°,
१षण्णवति°, षष्°, षोडशन्°

अङ्गुलि, ली- -लिभिः योचू ११४.
[°लि, ली- अङ्गुष्ठादि°, अना-
मिका°, कनिष्ठिका°, चतुर्षड...द्वा-

दशन्°, २चरण°, १त्वच्°, द्वाद-
शन्°, द्विकर°, पाद°, मध्य°, १म-
ध्यम°, यावक...त°, षड्विंशत्°,
सार्ध°, स्व°, २हस्त°]

+अङ्गुलि(-क^०)- उरग°
२अङ्ग पा ६, ९.
३अङ्ग- ✓अञ्ज द.

✓अङ्ग् > अङ्ग्-अन्त्य°, २दक्ष°,
१वाच्°, २वाम°
+अङ्ग्-पञ्च- २कृष्ण°

✓अच् अञ्च् द.
अ-चर- चर°

अ-चल- -लः आबो ३°. [°ल- अज°,
अमितबोधानन्द°, अमितानन्द°,
अमितानन्दचिद्रूप°, आनन्द°,
कल्याण°, १कुल°, चल°, १चिदा-
नन्द°, निरुपम...न्द°, परमा-
नन्द°, बोध°, बोधानन्द°]

+अचल-श्रेणि- परममङ्गल°
अ-चिन्त्य- -न्त्यम् ते १, ९°; वज १,
१४; ५, ३९. [°न्त्य- स्वानन्द-
मय°°]

अ-चिर- -रात् कै १, १; ह १.
!अ-चीर- -रम् व ४६६: ११५°.
अ-चेतन- चेतन°, १त्रिगुण°

+अ-चेतयितव्य- -व्यम् नुउ १, १८.
+अ-चैत्य- १चित°
✓*अच्छ > १अच्छ, च्छा- अति°,
आकाशशतभाग°, तुषारकर-
बिम्ब°, सु°

अ-च्युत- -तम् ते १, ८°. [°त-
१शिव°]

✓अज् उद्°, वि°, सम्°
अज- -जः अशि ४, १५°; वपू २,
३. [°ज- अन्°]

१आज- गपू. पृ १७ द.
अज-गर- कोप°
अजा(ज-अ)ण्ड- अनन्ताखिल°

+अजन- वि°
अजिन- कन्धा°, १कृष्ण°, चित्र-
मृगन्याग्र°, चीर°, चेल°, चैल°,
वलकल°

अजिर- अन्तःपुर°
+२आज- सम्°

अ-जड- जड°
अजनयन् मना १, १५५°।
+अ-जन्य->अजन्य-मण्डल- गदा-
...शब्द°

a) =भूषणविशेष- । b) गपू. (पृ १५) °रुक्म- > यनि. शोघः द्र. । c) तु. गपू. पृ ५६१a । d) तु. गपू. पृ ९८७g । e) तैत्र्या १०, ३८, १ । f) °दशनेः इति निसा. । g) गपू. (पृ १६) सस्थ. यनि. शोघः द्र. । h) 'अचित्त-चित्तम्' इति आन. । i) तैत्र्या ७, ४, २ । j) 'अव्ययम्' इति आन., 'अक्रियः' इति अच्चा. संटि. । k) °जस्रम् इति अच्चा. । l) निसा. ! 'जनयत्-> -यन्' इति शोघः द्र. (तु. ऋ ९, ९७, ४०; JC.) ।

+अ-जय- २जय°
 अ-जर- -रः मना २, १३, २५^a; -रम्
 श्वे ३, २१; सुबा ५^{1b}.
 +अ-जरत्- -रन्तम् पा ६, १०.
 अ-जस्त्र- -स्त्रम् आबो १५°.
 +अ-जाग्रत्- -ग्रतम् वृउ २, १^३.
 +अ-जाड्य->अजाड्य-निद्रा-
 अल्पमूत्रपुरीष°°
 +अजाड्य-सहजा(ज-अ)मनस्क-
 योगनिद्रा- शुद्धद्वैत°
 १अ-जाति- हेतुफल°
 अ-जित- जित°
 +अ-जीर्ण- १क्षय°°
 अ-जे(य<)>या- -या कृ ५^d.
 अ-ज्ञ- अनभिहोत्रिन°°, ज्ञ°
 अ-ज्ञात- ज्ञात°
 +अज्ञात-सुख- अल्पमू...न°
 १अ-ज्ञान- -नम् १कौ ११^b; ३: २.
 [°न- अधर्मकारण°, अव्यक्त-
 लेश°, आत्मन्°, १काम°, ज्ञान°,
 दुःख°, धर्म°, १भय°, रज्जु°,
 सर्व°, स्वकारण°, १स्वरूप°]
 +अज्ञान-तत्-कार्य- विमुक्त°,
 विलीन°
 अ-ज्ञेय- -यम् वउ ३, ११^२.
 अ-ज्या->अज्या-म(य<)>यी- -यी
 अरु २६५°.
 +अ-ज्येष्ठ- १ज्येष्ठ°
 +√अञ्च्, च् अव°, आ°, उद्°,
 तिरस्°, परा°, प्र°, प्रति°, वि°,
 विषु°, सम°
 अच्, च्च्- १अधर°, अर्वा°, अव°,
 उद्°, घृत°, तिरस्°, २दक्षिण°, १दधि°, परा°, पुरु°, प्रति°,
 १विश्व°, सम°
 °अच्य आ°
 अञ्चित- कुरवरस°, तोरण°, मृदु-
 रोमन्°
 √अञ्ज् अभि°, अभि-वि°, आ°,
 उप°, वि°
 अक्त- अभि-वि°, २आज्य°, वि°
 +अक्ति- अभि-वि°, वि°
 +३अङ्ग- अभि°
 +°अज्य आ°
 +अज्यमान- वि°
 +अञ्जक- वि°
 १अञ्जन- अभि°, आ°, उप°,
 गोमय°, वि°
 +२अञ्जन^{१३}-निर°, ६स°, संमार्जन°
 +अञ्जन-ता- तद्°
 अञ्जलि- उदक°, कृत°, तिल°,
 पुष्प°, पूर्ण°, प्र°, बद्ध°, मूर्धन्°,
 हृदय°
 +अञ्जलि-पुट- कृत°
 √अद् परि°
 अटत्- परि°
 अटन- भिच्चा°, भैच्च्°
 +अटवी- विन्ध्य°
 √अट्>अट्->अट्-हास- महत्°
 √अरा>+अण्->अण्-व- -वः
 मना २, ७९^{१५}.
 १अणु- -णुः वउ २, १२; १७; -णोः
 क १, २, २०^{१६}; श १८^{१६}. [°णु-
 अन्°, १चित्°, परम°]
 आणव- -वस् ते १, १^१.
 अणिमन्- -मना कौष्ठ, १९^{१६}.
 अणिमा(म-आ)दि-सिद्धि-
 -द्वयः वपू २, ४.
 +अणिमा(म-आ)द्य(दि-अ)-
 एक- ६स°
 अणीयस्- -यः श्वे ३, ९५^१;
 -यसम् मना १, १५^{१३}; -ऽ^{१५}यान
 क १, २, २०; श १८.
 ऽ^{१५}अणीयो(यस्-ऊर्ध्व->)-
 धर्वा- -धर्वा ममा २, १३, २;
 महा १, १; वा २१; च २१:४.
 अणु(-क°)- त्रि°, द्वि°
 अणु-कोटर-विस्तीर्ण- -णै ते
 ६, ८७°.
 +अणु-र(क<)>क्ता^१- -क्ताः लुट°.
 अणु-वाते(त-ई)रित- -तः मैत्रि
 ६, ३५^१.
 ऽ^{१५}अणू(णु-उ)प(म<)>मा- -मा
 मना २, १३, २; नाउ १, १९;
 कालि ४०३: ५.
 अण्व्य- -ण्व्यम् मैत्रि ६, ३८^१.
 आणि- -णी ऐ कौ नाद आबो निवा
 मुद्र अच् सौ सर व शां^{१५}ऽ^{१५}.
 अण्ड- अखिल°, अज°, अन्तर्य°, अवि-
 द्या°, कुक्कुट°, २खग°, जगत°,
 तत्तद्°, पिरड°, १ब्रह्मन्°, मूला-
 विद्या°, लोक°, समष्टि°, सर्व°,
 स्वर्ण°
 आण्ड->आण्डी/भू, आण्डी-
 भव अरु ८५°.
 +अण्ड(-क°)- चतुर°, पञ्चन्°, शाला^१
 अण्ड-कोश- -शाः आर्षे ७, १७°.
 +अण्ड-ज- ऊष्मज°, जरायुज°
 अण्डज-पिण्डज- सकल°

१दधि°, परा°, पुरु°, प्रति°,
 १विश्व°, सम°
 °अच्य आ°
 अञ्चित- कुरवरस°, तोरण°, मृदु-
 रोमन्°
 √अञ्ज् अभि°, अभि-वि°, आ°,
 उप°, वि°
 अक्त- अभि-वि°, २आज्य°, वि°
 +अक्ति- अभि-वि°, वि°
 +३अङ्ग- अभि°
 +°अज्य आ°
 +अज्यमान- वि°
 +अञ्जक- वि°
 १अञ्जन- अभि°, आ°, उप°,
 गोमय°, वि°
 +२अञ्जन^{१३}-निर°, ६स°, संमार्जन°
 +अञ्जन-ता- तद्°
 अञ्जलि- उदक°, कृत°, तिल°,
 पुष्प°, पूर्ण°, प्र°, बद्ध°, मूर्धन्°,
 हृदय°
 +अञ्जलि-पुट- कृत°
 √अद् परि°
 अटत्- परि°
 अटन- भिच्चा°, भैच्च्°
 +अटवी- विन्ध्य°
 √अट्>अट्->अट्-हास- महत्°
 √अरा>+अण्->अण्-व- -वः
 मना २, ७९^{१५}.
 १अणु- -णुः वउ २, १२; १७; -णोः
 क १, २, २०^{१६}; श १८^{१६}. [°णु-
 अन्°, १चित्°, परम°]
 आणव- -वस् ते १, १^१.
 अणिमन्- -मना कौष्ठ, १९^{१६}.
 अणिमा(म-आ)दि-सिद्धि-
 -द्वयः वपू २, ४.
 +अणिमा(म-आ)द्य(दि-अ)-
 एक- ६स°
 अणीयस्- -यः श्वे ३, ९५^१;
 -यसम् मना १, १५^{१३}; -ऽ^{१५}यान
 क १, २, २०; श १८.
 ऽ^{१५}अणीयो(यस्-ऊर्ध्व->)-
 धर्वा- -धर्वा ममा २, १३, २;
 महा १, १; वा २१; च २१:४.
 अणु(-क°)- त्रि°, द्वि°
 अणु-कोटर-विस्तीर्ण- -णै ते
 ६, ८७°.
 +अणु-र(क<)>क्ता^१- -क्ताः लुट°.
 अणु-वाते(त-ई)रित- -तः मैत्रि
 ६, ३५^१.
 ऽ^{१५}अणू(णु-उ)प(म<)>मा- -मा
 मना २, १३, २; नाउ १, १९;
 कालि ४०३: ५.
 अण्व्य- -ण्व्यम् मैत्रि ६, ३८^१.
 आणि- -णी ऐ कौ नाद आबो निवा
 मुद्र अच् सौ सर व शां^{१५}ऽ^{१५}.
 अण्ड- अखिल°, अज°, अन्तर्य°, अवि-
 द्या°, कुक्कुट°, २खग°, जगत°,
 तत्तद्°, पिरड°, १ब्रह्मन्°, मूला-
 विद्या°, लोक°, समष्टि°, सर्व°,
 स्वर्ण°
 आण्ड->आण्डी/भू, आण्डी-
 भव अरु ८५°.
 +अण्ड(-क°)- चतुर°, पञ्चन्°, शाला^१
 अण्ड-कोश- -शाः आर्षे ७, १७°.
 +अण्ड-ज- ऊष्मज°, जरायुज°
 अण्डज-पिण्डज- सकल°

१दधि°, परा°, पुरु°, प्रति°,
 १विश्व°, सम°
 °अच्य आ°
 अञ्चित- कुरवरस°, तोरण°, मृदु-
 रोमन्°
 √अञ्ज् अभि°, अभि-वि°, आ°,
 उप°, वि°
 अक्त- अभि-वि°, २आज्य°, वि°
 +अक्ति- अभि-वि°, वि°
 +३अङ्ग- अभि°
 +°अज्य आ°
 +अज्यमान- वि°
 +अञ्जक- वि°
 १अञ्जन- अभि°, आ°, उप°,
 गोमय°, वि°
 +२अञ्जन^{१३}-निर°, ६स°, संमार्जन°
 +अञ्जन-ता- तद्°
 अञ्जलि- उदक°, कृत°, तिल°,
 पुष्प°, पूर्ण°, प्र°, बद्ध°, मूर्धन्°,
 हृदय°
 +अञ्जलि-पुट- कृत°
 √अद् परि°
 अटत्- परि°
 अटन- भिच्चा°, भैच्च्°
 +अटवी- विन्ध्य°
 √अट्>अट्->अट्-हास- महत्°
 √अरा>+अण्->अण्-व- -वः
 मना २, ७९^{१५}.
 १अणु- -णुः वउ २, १२; १७; -णोः
 क १, २, २०^{१६}; श १८^{१६}. [°णु-
 अन्°, १चित्°, परम°]
 आणव- -वस् ते १, १^१.
 अणिमन्- -मना कौष्ठ, १९^{१६}.
 अणिमा(म-आ)दि-सिद्धि-
 -द्वयः वपू २, ४.
 +अणिमा(म-आ)द्य(दि-अ)-
 एक- ६स°
 अणीयस्- -यः श्वे ३, ९५^१;
 -यसम् मना १, १५^{१३}; -ऽ^{१५}यान
 क १, २, २०; श १८.
 ऽ^{१५}अणीयो(यस्-ऊर्ध्व->)-
 धर्वा- -धर्वा ममा २, १३, २;
 महा १, १; वा २१; च २१:४.
 अणु(-क°)- त्रि°, द्वि°
 अणु-कोटर-विस्तीर्ण- -णै ते
 ६, ८७°.
 +अणु-र(क<)>क्ता^१- -क्ताः लुट°.
 अणु-वाते(त-ई)रित- -तः मैत्रि
 ६, ३५^१.
 ऽ^{१५}अणू(णु-उ)प(म<)>मा- -मा
 मना २, १३, २; नाउ १, १९;
 कालि ४०३: ५.
 अण्व्य- -ण्व्यम् मैत्रि ६, ३८^१.
 आणि- -णी ऐ कौ नाद आबो निवा
 मुद्र अच् सौ सर व शां^{१५}ऽ^{१५}.
 अण्ड- अखिल°, अज°, अन्तर्य°, अवि-
 द्या°, कुक्कुट°, २खग°, जगत°,
 तत्तद्°, पिरड°, १ब्रह्मन्°, मूला-
 विद्या°, लोक°, समष्टि°, सर्व°,
 स्वर्ण°
 आण्ड->आण्डी/भू, आण्डी-
 भव अरु ८५°.
 +अण्ड(-क°)- चतुर°, पञ्चन्°, शाला^१
 अण्ड-कोश- -शाः आर्षे ७, १७°.
 +अण्ड-ज- ऊष्मज°, जरायुज°
 अण्डज-पिण्डज- सकल°

- a) तैत्र्या १०, ११, २। °क्षयः इति JC. । b) गपू. (पृ १८) सस्थ. वनि. शोचः द्र. । c) ऋ ९, ११३, ७।
 d) 'अजया' इति अख्या. । e) तैत्र्या १, २७, ४। f) भाप. । g) व्यु. ? √अद्+णिवत् प्र. इति पाउभो.
 (२, १, २३६), प्रघा. +अविः प्र. इति शक., अभा. ? । h) वृ. गपू. पृ ७५५h । i) तैत्र्या १०, १०, १।
 j) 'अणुवम्' इति अख्या. । k) °णिसन्धः इति शांत्र्या ६, १९। l) तैत्र्या १०, १०, ३। m) तैत्र्या १०, ११।
 n) तैत्र्या १०, ११, २। o) वृ. गपू. पृ. ९८७g । p) °णम् इति अख्या. संटि. । q) उप. =३रक- । r) 'तत्र
 रक्त' इति अख्या. । s) °णुः वा° इति सात. । t) 'अणुम्' इति सात. । u) ऐत्र्या २, ७, १। v) तैत्र्या १, २७, १।
 w) °शाव इति वे. ।

+अत्यन्त-भावन- अभाव°
 +अत्यन्तो(न्त-उ)कृष्ट- जन्मजन्मा-
 भ्यस्त°
 +अत्यन्तो(न्त-उ)न्नत-बोध-
 (ध-आ)नन्द-प्रासाद- तदभ्य-
 न्तरस्थित°
 अत्यन्तो(त-उ)न्नता(त-अ)नन्त-
 शिखर- वाचामगोचर...दी-
 पित°
 अत्या(ति-आ)शन- -नात् मना १,
 १३१^६.
 +अत्यु(ति-उ)च्च-नीच- ५न°
 +अत्यु(ति-उ)च्च-नीचा(च-आ)यत-
 ५न°
 अत्यु(ति-उ)च्छिन्न- ५न°
 अत्यु(ति-उ)ष्ण- कटु°°
 अथ वृ ५, १५, १९^६; गर्भ ४°; अशि
 ७०^६; कौ १, २९^६; अना २७^६;
 योशि १, ६९^६; १कौल २ : १^६;
 २कौल १; वपू १, १.
 अथो(ध-उ) के छां आरु मै मैत्रे योचू
 वा महा अव्य १संन्या कुं सावि
 रुजा जाद जाबा शां^६; अशि
 ७०^६.
 ✓*अथर्→*अथर्→अथर्व(र-व)-
 -र्वः वपू १, ७^१. [°र्व- ऋच्°°]
 अथर्वन्- -र्वणः अशि ६, ७^१; -र्वणम्
 अ १^६; वउ ५, १७. [°र्वन्-
 ऋच्°°, १ब्रह्मन्°°]
 आथर्वण- ऋच्°°
 +आथर्वण-महानारायण-

परम...ख्य°
 +आथर्वण-वेद- सर्व-
 मन्त्रार्थ°
 +आथर्वण-शाखा-
 देवदर्शीत्याख्या°
 +अथर्व-पुत्र- -त्राय वपू १, १^१.
 अथर्व-वेद- -दे वउ ६, ५५.
 +अथर्व-शिखा^{११}- २प्रश्न°°
 अथर्व-शिरः-शिखा(ख-अ)-
 ध्यापक-सम- -मम् वउ ५,
 २४.
 +अथर्व-शिरः-शिखा(खा-अ)-
 ध्यापकै(क-ए)का(क-अ)धिक-
 शत- -तम् वउ ५, २५.
 अथर्व-शिरस्^{११}- २प्रश्न°°
 अथर्व-शीर्ष- पञ्चन्°
 अथर्वा(र्व-अ)ङ्गिरस्- ऋच्°°,
 १सूर्य°

✓अद्, अत्ति सुं ३, १, १९^{११}; अत्ति
 कौ २, ९^{११}; अशि प्रा १, ५°.
 अत्ति- -त्तिः वृ २, २, ४^१.
 अत्रि^१- १ब्रह्मन्°, २वसिष्ठ°°
 आत्रेय- -य^१ [°य- ऋषि°,
 चन्द्र°, ३दत्त°, सुनीन्द्र°]
 +अत्रि-युत°-
 +अद्- क्रव्य°
 +अद्- अन्न°, क्रव्य°, तृण°,
 पिप्पल°, ब्रह्मानन्दरसान्न°,
 १मधु°, हविष्यान्न°
 +अदन- अन्न°, स्थिति°
 +अद्य- अन्न°

अद्यमान- अन्°
 अन्न- -न्नः मैत्रि ५, १^१; -न्नम् मना
 २, ३^१; अशि ७०^६; कुं २३ :
 १^१; नाउ १, १६^१; वउ २, ३४;
 -न्नात् कुं २३ : १^१; नाउ १, १६^१;
 वउ २, ३४; -न्नाय वपू १, ३.
 [°न्न- अन्°, अभक्ष्य°, असंक्ल-
 तमाधुकर°, असृष्ट°, एक°,
 १काम°, २जल°, तिल°, दग्ध°,
 पक्व°, पर°, पायस°, ब्रह्मानन्द-
 रस°, भक्ष्य°, भैक्ष°, मीनादि°,
 १वमन°, वि°, व्योमन्°, शालि°,
 शुष्कस्निग्ध°, शुद्ध°, शुद्ध°, श्रो-
 त्रिय°, संस्कृत°, सर्व°, सर्वभूत°,
 सिद्ध°, सूतक°, स्त्री°, हविष्य°]
 +अन्न-द- -दः वपू १, ६; ७.
 अन्न-पति- -तये वपू १, ३.
 अन्न-पान-पर- -रः १संन्या २,
 ९५^१.
 अन्न-पान-वस्त्र- हीन°
 अन्न-पू(र्ण)णां^१- -०णै अन्न
 १, ६^१. [°णां^{११}- २प्रश्न°°]
 अन्न-मथ-→अन्नमथ-कोश-
 -शे ससा १, १३^१.
 +अन्नमथ-त्व- तद्°
 अन्नमथ-प्राणमथ-मनोमथ-
 विज्ञानमथा(य-आ)नन्दमथ-
 कोश- -शाः ससा १, २^१.
 +अन्नमथ-रस- नाना°
 अन्न-रस-विज्ञातृ- -तारम् कौ
 ३, ८९^१.

a) तैआ १०, १, १३ । b) मा ४०, १५ । c) 'जन्तुः' इति आन., अख्या. । d) अख्याः शै. अपा. ।
 e) 'तान्' इति शांआ ३, २ । f) 'अतः' इति आन. । g) 'उ' इति आन. । h) गपू. (पृ२८) कौल७→यनि.
 शोधः द्र. । i) पाण्ड ३, १५, २३ । j) 'र्वशिरः' इति अख्या. । k) 'र्वणम्' इति आन., अख्या. । l) =तदाख्योपनि-
 षद्विशेष- । m) ऋ १, १६४, २० । n) 'उत्थितेन' इति अख्या. । o) गपू. (पृ१०) सस्थ. 'अनिन-→-निनः' इत्यत्र
 यनि. शोधः द्र. (द्र. आन.) । p) गपू. (पृ२९) यनि. शोधः द्र. । q) गपू. (पृ२७) यनि. शोधः द्र. । r) 'मनः' इति
 सात. । s) तैआ १०, ३, १^१ । t) अख्याः शै. अपा. । u) अख्याः सं. अपा. (गपू. पृ२९ सस्थ. १४ इति परिहर्तव्यम्) ।
 v) तैआ ८, १, १ । w) 'न्नदान' इति अख्या. । x) उत्तरेण संधिरार्षः । गपू. (पृ३०) सस्थ. °णां→यनि. शोधः द्र. ।
 y) 'ये को' इति आन. । z) 'अन्नमथः प्राणमथो मनोमथो विज्ञानमथ आनन्दमथः' इति आन. । a') 'रसस्य वि°
 इति आन., शांआ ५, ८ ।

+अन्न-रसा(स-आ)दिक- भुक्त°
 अन्ना(ज-अ)द- -दम् कौ २,
 ९^५.
 +अन्ना(ज-अ)दन- एकत्र°, एक-
 रात्र°
 १ अन्ना(ज-अ)घ- गप्, पृ ३० द्र.
 +२अन्ना(ज-अ)घ^५- -घाः वपू
 १,२; ४; ५.
 अ-दर्शन- अस्फुरण°, जिह्वाप्र°,
 २दर्शन°
 अदस्- > अमी- मी रापू १, ११°.
 अमु- -मुष्मात् कौ २, ३^५; -मुष्य
 मना २, ९९°.
 अमुक- -कस्मै गोउ १^१.
 अमुत्र अरु २७९^६. [°त्र इह°]
 अमुष्मिन् > आमुष्मिक-
 ऐहिक°
 असौ- सौ वृ ५, १५, ११^५.
 अ-दिति- > आदित्य- -त्यः ९^१मना
 १, १; ७; कौ २, १२^१; त्रिवि ७,
 ४४^६; व ४६३: ६९^१; वपू १,
 ६; -त्यस्य मैत्रि ६, ३५^१; -स्याः
 कौ २, ८^५; वृउ ३, ४; वपू १, ६;
 ३, १; -स्याय मैत्रि ६, ३५^५;
 ९^५मना २, ३-५; मउ ३, १०; -त्ये
 मैत्रि ६, ३५^९; वपू २, १; -त्यैः
 अरु ४९^५; ५९^१. [°त्य- अपान°,
 चन्द्र°, १चित्°, चिद्रूप°, जगत°,
 तरुण°, द्वादशन्°, प्राण°,
 १ब्रह्मन्°, मार्तण्डादि°°, १मित्र°°
 १रुद्र°, वसु°, वसु°°, वायु°°,
 वीरभद्र°, सहस्र°, ३हस्त°]
 आदित्य-मरीचि- १हृद्°

आदित्य-लोक^३- -कम् वपू ३, १.
 +अ-दुःख- दुःख°
 +अ-दृक्- -दृक् मवा ३१^६.
 अ-दृश्य- अन्य°, दृश्य°
 अ-दृष्ट- -ष्टम् वउ १, १३. [°ष्ट- दृष्ट°]
 +अ-दृष्टि- १अन्ध°, प्रत्येक°
 अ-देह- सदेह°
 अद्-भुत^६- अति°, अनेक°
 अद्रि- उदय°, काञ्चन°, गुग्गुलु°,
 गोवर्धन°, हिम°, हेम°
 अद्रि-जा- -जाः वपू २, ३९^५.
 अ-द्वय- -यम् ते ६, १^५. [°य- १नि-
 त्य°°, महानारायण°, २सच्चिदा-
 नन्द°, १सत्य°°]
 अद्वय-तारक^{१४}- ईशावास्य°°
 अ-द्वितीय- अनन्त°°ज्य°, १चित्°°,
 २निरतिशयानन्द°, २सच्चिदा-
 नन्द°
 अ-द्वैत- -तः वउ २, १५; -तम् त्रिवि
 १, ५^४; वउ १, १५; ४, ६; ५,
 ४०. [°त- अखण्ड°, अमित°°,
 कर्मन्°, १द्वैत°, निरतिशय°,
 निस्तरङ्ग°, परम°, १ब्रह्मन्°,
 १भाव°, १शिव°, शुद्ध°, १सत्°°,
 सर्व°, सर्वपरिपूरण°, सर्वौक्य-
 त्व°°]
 अद्वैता(त-आ)नन्द-रूप- सर्वदा°
 √*अध् > अध्वन्- वीर°, षष्°
 अध्व-ग- अन्°
 अध्वर- अध्वन्°, एक°, महत्°
 √अध्वर्यु > अध्वर्यु- स्नातक°
 अ-धर्म- -र्मः १कौ ३: २^४. [°र्म-
 जरा°°, धर्म°, धर्म°°, व्रत°°]

अधर्म-कारणा(ण-अ)ज्ञान- -नम्
 १कौ ३: १^४.
 अधस्- -धः ऐ ४, ५९^६; जाद ३, ६,
 १^५. [°धस्- ऊर्ध्व°, २कन्द°,
 कल्पद्रुम°, १काम°, कूर्पर°,
 गोवर्धनादि°, तद्°, तिर्यच्°°,
 १भरत°, मदन°, वट°, शत्रुघ्न°,
 १सूर्य°, स्वासन°]
 +अध-ऊर्ध्व-भाग- कुरङ्गली°
 +अधः-प्रदेश- -शो वउ ४, २८.
 अधस्तात् १शिव°
 अधः-स्थित- २पार्ष्व°
 अधो(धस्-अ)क्ष-ज^१- व्यक्त°
 अधो-भाग- तद्°, पाद°
 अधम- अधम°, उत्तम°, द्विज°,
 नर°, स्वपच°, साधक°
 १अधर- -रे छां ४, १, ४; ६.
 अधरो(र-ऊ)र्ध्व-पाश- पीठ°
 अधरो(र-ओ)ष्ट- बिम्ब°, लोमन्°
 २अधर- बिम्ब°, श्रीराधा°
 अधि मना १, १५९^५; नाप ४,
 ३८९^१.
 अधि-क- -कः त्रिवि २, १६; वउ ४,
 ४. [°क- अभि°, एक°, एक
 सप्तति°, कौटिकोडिगुण°, तपस्°,
 दशन्°, द्वादशाङ्गुल°, नवन्°,
 १फल°, १ब्राह्मण°, १विश्व°,
 शत°, सार्ध°, स्व°, स्वयम्°]
 आधिक्य- प्रसिद्ध°, प्रेमन्°,
 भस्मन्°, स्नेह°
 अधि/कृ > अधि-करण- न्यास°,
 पञ्चन्°, पूजा°, मन्त्रजप°,
 मैथुन°, १समान°, स्तोत्र°

a) 'अन्ववाद्म' इति अज्या. । b) बस. । c) पा. ? 'अपि' इति शोधः द्र. । d) 'तस्मात्' इति अज्या. ।
 e) तैश्चा १०, ७, १ । f) 'मनुः कस्मै' इति अान. । g) तैश्चा १, २७, ४ । h) का ४०, १, १६ । i) तैश्चा १०, १, १; ७ ।
 j) 'मर्त्यः' इति अज्या. । k) तैश्चा १०, १५, १ । l) तैश्चा १०, १, ७ । m) 'आत्याः' इति अज्या. ? । n) 'सूर्याय'
 इति तैसं ७, ५, २४, १ (तु. टि. परि. वैपश् यस्था.) । o) तैश्चा १०, २-४, १ । p) मा ४०, १७ । q) ऋ १०, १५७, २ ।
 r) ऋ १०, १५७, ३ । s) बस. । उप. भाप. द्र. (तु. गप्. पृ १०६) । t) तु. वैपश्, १२५८ । u) ऋ ४, ४०, ५ ।
 v) 'अन्वयम्' इति अज्या. । w) = तदाख्योपनिषद्विशेष- । x) सदैव इति निसा. । y) गप्. (पृ ३६) सस्थ. यनि.
 शोधः द्र. । z) ऋ ४, २७, १ । a') अज्याः यो. अपा. । b') ऋ ९, ९७, ४० । c') तैश्चा ७, ४, १ ।

अधि-कार- अन्°, अन्य°, १इतर°, उपदेश°, ध्यान°, प्रणव°, मनु-
ष्य°, मन्त्रजप°, महावाक्यो-
पदेश°, यथा°, यावत्°, २षडक्षर°
अधिकार-रूप-शब्दान्तर-
-रेभ्यः ब्रह्म २, ३, १२.
अधिकारिन्- अन्°, १ओंकार°,
कर्मन्°, कामकला°, १चरणा°,
चिन्तामणिविद्या°, तद्°, तुर्या-
षोढा°, ५न°, निरालम्बयोग°,
परमहंस°, परिव्रजन°, विद्या°,
विद्याराज्ञी°, षोढान्यास°, संन्या-
स°, सर्व°, सिद्धकाली°
अधि/गम् > अधि-गत- सकल...
स्य°
अधि-गम- अध्यात्मयोग°, अध्या-
त्मविद्या°, तद्°, प्रत्यक्चेतन°,
वेदविद्या°, सम्यग्ज्ञान°
+अधि-गम्य- सांख्ययोग°
अधि/दश* (दाने), अधि...ददश्रे
वा १११°
अधि-देव->आधिदैविक- -केन
सार २५३:२. [°क- आध्या-
त्मिक°°]
अधि-देवता- -ता भा २६१°. [°ता-
५अक्ष°^a, अपार...ज्य°, चैत-
न्य°, निरति...प्य°, प्रति°]
अधि-दैव- अधिभूत°, विनायक°
अधि-दैवत- अनन्त...ज्य°, अपर-
...ज्य°, अष्टमात्रा°, कार्तिकेय°,
१नवशक्ति°, सप्तमाला°, सर्वदेव°,
अधि-नाथ- रक्षस्°
अधि-पति- अन्य°, १खेचर°, २तारा°
पृथिवी°, १ब्रह्मन्°, २भुवन°, ३

भूत°, भूमन्°, माघादि...मास°,
२यज्ञ°, रक्षस्°, लोक°, सर्व°,
सर्वलोक°
अधिपत्य- गण°, १देव°, १ब्रह्मन्°,
भूमण्डल°, विष्णुलोक°, सत्य-
लोक°, सर्व°, सर्वदेव°
अधि/पा(रक्षणे) > अधि-प, पा-
अभीष्टगण°, १करणा°, करणा-
धिप°, कारणाकारणा°, गण°,
१जन°, नर°, प्राणा°, १विश्व°,
१सप्तद्वीप°
अधि-भूत->अधिभूता(त-अ)धि-
देव- ६स°
आधिभौतिक- आध्यात्मिक°
अधि-मात्र- मृदु°°
अधि-यज्ञ- ६स°
+अधि-राज- सर्वदेव°
अधि/रुह > अधि-रुह- ज्ञानज्ञव°,
प्राण°, शव°
अधि/वच्, अध्युच्यते कुं २०:७१°.
अधि/वस्(निवासे) > अधि-वास-
सर्वभूत°
अधि/घ्रा(<स्था) > अधि-घ्रात्-
चतुर्युग°, सर्वभाव°
अधि-घ्नान- -नम् वपु २, ४. [°न-
उपनन्दादि°, कन्दुकलीला°,
क्रीडा°, ज्योतिरादि°, तद्°, त्रि°,
२दधि°, दधिविक्रय°, दान...
लीला°, ५न°, परम°, पुरुषोत्तम°,
पुरुषोत्तम...रमणा°, प्रेमानन्द-
...म°, मद्°, रमणालीला°,
२लीला°, १विश्व°, वृषभाजपुर...
र°, ६स°, सर्व°, स्व°]
अधि-घ्रायिन्- जाग्रददशा°, स्फुर-
तादृश°, स्वप्नाव...दशा°

अधि-ष्टित- -तम् त्रिता २, ६४°
[°त- अन्°, अन्य°, ईश्वर°,
ईश्वर°, उपस्थ°, क्षेत्रज्ञ°, गुद°,
गुह्यकाली°, नवनाथ°, पाणि°,
पाद°, लोक°, १वाच्°, हिरण्य-
गर्भ°]
+अधि-ष्टिति- स्वामिन्°
अधी[धि/इ(अध्ययने)] > १आपि,
अधीते वज ५, ५; ९; १६;
१७^३-१९^३; २०; ६, ५०^३; अधी-
यन्ते २प्र ३६: १११^६; अधीमहि
२प्र ३५: २३१^६.
अधी(धि-इ)त- -तः जाबा २२°
[°त- अन्°]
+अधीत-गति- अन्°
अधीत-वेद- अन्°
अधी(धि-इ)यान- -नः भ १, १११°;
सं२२; रुजा ४९^१. [°न- १सत्°]
• अध्य(धि-अ)यन- अनध्याय°, भार°,
२वेद°, व्याख्या°, २श्रवण°,
स्वशाखा°
अध्या(धि-आ)पक- अथर्वशिरः-
शिखा°, गणेश...षद्°, तापनी-
योपनिषद्°, बृहज्जाबलोपनि-
षद्°, मृतक°, मन्त्रराज°
अध्या(धि-आ)पित- -ताः आ ३५१^६.
अध्या(धि-आ)य- अन्°, दृष्ट°,
१रुद्र°, शिक्षा°
+अध्यायिक- -काः इ १५: २१°.
+अध्या(धि-आ)यिन्- २रुद्र°,
२वेद°, सर्ववेद°, सहस्रशाखा°
+अ-धी^m- -धियाम् अक्षि २३.
अधी(धि-इ)न- अहंकारकर्तृ°, ईश्वर°,
एकैककरण°, तद्°, दैव°, पर°,
मनश्चक्षुस्°, माया°, स्व°

a) भवा. आत्म. पावा. उसं. । b) कर्तरि लिटि प्रपु १ रुडागमः (पा ७, १, ८) । 'विष्वग् उत्तीर्दाशुषो मेऽवः
कोऽधि(=°ति)ददश्रे' इति वा. [वैतु. बाटी. अधि कप्र. इति च 'ददश्रे' (क्रिप.) इति च कृत्वा वा. ?] । c) धीः दे°
इति निसा. ? यनि. शोषः द्र. (तु. अज्या.) । d) गप्. (पृ ६) ५अक्ष-(=इन्द्रिय-)>अक्षा(क्ष-अ)धिदेवता-रूप->
-पैः इत्येवं शोषः द्र. । e) अज्याः सं. अपा. (शौ ११, ८, ३४) । f) सकृत् 'जुष्टम्' इति अज्या. गप्. (पृ ३९) यनि.
शोषः द्र. । g) पा. अधी° इति गोब्रा १, १, २८ । h) 'महे इति गोब्रा १, १, २७ । i) अज्याः शै. अपा. । j) 'यमानः
इति अज्या. संति. । k) वाध २, ११ । l) 'ध्यायिके' इति पा. ? यनि. शोषः द्र. । m) बस. ।

अधी(धि-ई)श- क्षेत्र°, तद्°, संघट्टन°
+अ-धुर-रम् पा ४, २.

अ-धूमक- -कः क २, १, १३^b.

अध्य(धि-अ)क्ष- अकारादिस्वर°,
°५अक्ष°, अभिमान°, कर्मन्°,
कोटिकोटिगण°, क्षेत्र°, तद्°,
लोक°

अध्य(धि-अ)व/सो>सा>अध्य-
व-साय- निर°, प्रतिविषय°,
संकल्प°, संकल्प°

अध्य(धि-अ)स् (क्षेपरो)>अध्या-
(धि-आ)स- इतरेतर°, मिथ्या°,
विरुद्धधर्म°, सर्व°, स्व°

अध्या(धि-आ)त्म- -रम् १ कौल ७:
१; २ कौल ४^d; ९. [°त्म-
ईशावास्य°, नादबिन्दुकला°,
१सूर्य°]

अध्या(धि-अ)स्>अध्या(धि-आ)-
सित- वीरासन°

√अन्(गतौ)>अन- नौ प्रा २, १°.

अनल- -लः राष्ट्र ४, ६२^f. [°ल-
आशापाश°, उदय...म्ब°, करठो-
स्थित°, २काल°, गृह°, चिन्ता°,
तृण°, दाव°, दीर्घ°, देह°, घातृ°,
नीहार°, २चडवा°, विरज°,
व्योमन्°, शीषोदित°]

अनल-वर्चस्- -चैसा लु १८^g.

+अनला(ल-अ)र्क- दौप्त°

+अनला(ल-अ)क्ष-युग- तद-
न्तरालिक°

अनिल- -लः राष्ट्र ४, ६२^h; -लम्
वृ ५, १५, १५ⁱ. [°ल- २ख°,
द्वादशन्°, घातृ°, निगृहीत°,
नीहार°, ४पिङ्गल°, पृथ्वी°,

प्राणादि°, बाह्य°, मन्द°, महान्ध-
कार°, व्योमन्°, सर्वपीठगत°]

+अनिल-ज^l- १अङ्ग°

+अनिला(ल-आ)याम^m- पूर-
कादि°

+√अन्(प्रारणे)>आनि अनुप्र°,
अप°, अभिप्र°, अभ्यप°, उद्°,
उदा°, वि°, न्या°, सम्°

+अन्- ज°

+अनन्- प्र°

+अनन- प्र°

+अनित- अभिप्र°, अभ्यप°

+अनितुम् प्र°

+अनित्वा प्र°

+°अन्य अभिप्र°

+आन- अनुसंदिता°, अप°, उद्°,
वि°, सम्°

+आनयितव्य- वि°

+अन(न्-अ)श्चिन्त्- अनभिहोत्रिन्°
१अनघ- गप्. पृ४१ द्र.

२अनघ^l- १नन्द°

अन(न्-अ)ङ्ग- चन्द्र°, १तार°

+अनङ्ग-कुसुमा(म-आ)द्य(दि-अ)-
ष्टक- ६स°

अनङ्ग-गायत्री- -त्रीम् गोपू १८^k.

अनङ्ग-माला->अनङ्गमालि(न्->)-
नी°-

+अन(न्-अ)ध्याय->अनध्याया-
(य-अ)ध्ययन- -नेन २प्र ३३:
१०.

+अन(न्-अ)नुसारि(न्->)णी-
विधिनियमार्ग°

अन(न्-अ)नूचान- नाय मुद्र ४^l.
अन(न्-अ)न्त^m- -न्तः मैत्रि६, २८ⁿⁿ;

वउ २, ३०; -न्तम् नाउ १, १४^{oo};

-न्तान् त्रिवि ४, १४^{pp}. [°न्त-
अत्यन्तोन्नत°, अहृष्ट°, अनादि°

अपरिच्छिन्न°, अमित°, आधार-
शक्ति°, आह्लाद°, इन्दु°, कौ-
स्तुभ°, गणेश...दि°, दैत्य°,

धर्म°, १नित्य°, निरतिशय°,
निरतिशयनिर...दि°, निरतिशया-

नन्दमय°, पर°, १फल°, बोधा-
नन्दमय°, ब्रह्मतेजोमय°, ब्रह्म-

विद्या°, ब्रह्मानन्दमय°, वाचामगो-
चर°, विविध°, १शङ्ख°, शुद्धा-

मन्द...विशेष°, ६स°, १सत्य°,
सर्वपरिपूर्ण°, स्थूलस्...दि°,
स्वानन्दमय°]

+१अनन्त-कर^q- -रैः वउ ३, १३.

+२अनन्त-कर^r- -रम् वउ ४, ३१.
अनन्त-कोटि- अतिनिर्मल°

+अनन्तकोटि-रवि- युगपदुदित°

+अनन्त-गण- परस...प°

+अनन्त-गुच्छ-फल- निरन्तर...
न्द°

+अनन्त-घोर-प्रलय-ज्वालाभि-
रौद्र- श्री°

+अनन्त-चिव-सागर- २चिदा-
नन्द°

+अनन्त-जठर- -रैः वउ ३, १३.

+अनन्त-जन्मा(न्म-अ)भ्यस्त-
कुत्सित°

+अनन्त-तडिस्-पर्वत- २निरति-
शयानन्द°

+अनन्त-दिव्य- सूर्यमण्डलान्तर्गत°
अनन्त-दिव्य-तीर्थ- पुरतःस्थित°

+अनन्त-दिव्य-तेजस्- परममङ्गल°

a) वा. क्वि. द्र. । b) गप्. (पृ४०) सस्थ. यनि. शोधः द्र. । c) गप्. (पृ६) '५अक्ष->इन्द्रिय->अक्षो-
(क्ष-अ)ध्यक्ष-> -क्षः' इत्येवं शोधः द्र. । d) °त्मः इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । e) गप्. (पृ४१) यनि. शोधः द्र. ।
f) =रेफ-बीजाक्षर- । g) अमलव° इति आन. । h) =यकार-बीजाक्षर- । 'अनलः' इति आन. । i) मा ४०, १५ ।
j) =गोपविशेष- । k) °ङ्गं गा° इति आन. । l) अनूचा° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । m) विप. वा नाप. वेति बंप्रा.
द्र. । n) सकृत् 'आनन्दः' इति सात. । o) तैत्रि ८, १, १ । p) °तानि इति अज्या. ? यनि. शोधः द्र. (तु. निसा.) ।
q) कस. । उप. =२कर- । r) बस. उप. =२कर- ।

अनन्त-दिव्या(व्य-आ)राम-
चिदानन्दमय°
+अनन्त-देह- विविध...ष्ट°
+अनन्त-धूप-दीपा(प-आ)वलि-
बोधानन्दमय°
+अनन्त-नाना-गण- शिवानन्द...
दि°
+अनन्त-परम-च्छत्र-ध्वज-चामर-
वितान-तोरण- बोधानन्दमय°
+अनन्त-परम-विलासविभूति-
विशेष- बोधानन्दमय...२°
अनन्त-परमानन्दा(न्द-अ)श्रुत-
रसा(स-अ)दिध-कल्लोल-
तरङ्गा(ङ्ग-आ)वलि°-
+अनन्त-परिपालक-नन्द्यादि-
गणप- -पा: सि १, १५.
+अनन्त-पर्वत- क्रीडा°
+अनन्त-पाद- -दै: वउ ३, १३.
+अनन्त-पुष्प- आनन्दा...कल्लोल°
+अनन्त-पुष्प-माल्य- चिदानन्द-
मय°
अनन्त-प्राकार- दिव्य°, सारतर°
+अनन्त-प्राकार-प्रासाद-तोरण-
विमानो(न-उ)पवना(न-आ)-
वलि- ब्रह्मानन्दमय°
+अनन्त-प्राकार-विशेष- चिदा-
नन्दमय°
+अनन्त-प्रासाद- शुद्धबोधमय°
अनन्त-फल- दु:खाज्ञान°
अनन्त-बोधा(ध-आ)नन्द-न्यूह-
-है: त्रिवि ६, २०^b.
+अनन्त-भव-प्रपञ्च- पञ्चीकृत°
+अनन्त-मकरन्द- निरतिशया...
सागर°
+अनन्त-मण्डप- क्रीडा°

२अनन्त-रूप- -पम् मना १, १९^०;
वउ ४, २.
+अनन्त-वस्तु- पर्वत...दि°, वि-
रुद्ध...दि°
अनन्त-विभूति- भगवत्°
+अनन्तविभूति-समष्टि- अत्या-
श्चर्य°
+अनन्त-विमान- आनन्दमय°
+अनन्तविमाना(न-आ)वलि-
परमा...य°
+अनन्त-वीर्य(र्य-अ)मित-विक्रम-
-म: गी ११, ४०^d.
अनन्त-वैकुण्ठ- -पठान् त्रिवि ६,
२०.
१अनन्त-शक्ति- महामण्डलादि°
+अनन्त-शाखा- महावा...प°
+अनन्त-शिखर- आनन्दमय°,
परम...प°
+अनन्त-शीर्ष- -षै: वउ ३, १२.
+अनन्त-संघ- महाजलौ...बुद°
+अनन्त-सं(ज्ञा>)ज्ञ- -ज्ञ: विद्या
२^१°.
+अनन्त-समापत्ति- प्रयत्नशैथिल्य°
अनन्त-समुद्र- परमानन्द...य°
+अनन्त-सोपान- विज्ञानानन्द...प°
+अनन्त-स्कन्ध- वेदान्त...न्त°
+अनन्ता(न्त-आ)कार- इत्यादि°
अनन्ता(न्त-आ)नन्द- आत्मस...
ष°, शिवानन्द...ण°, स्वप्रकाश°
+अनन्तानन्द-विमान-जाला-
(ल-आ)वलि- निरुपम...ष°
+अनन्ता(न्त-आ)नन्द-पत्र- सच्चि-
दानन्दस्वरूप°
+अनन्तो(न्त-उ)न्नत- शिवधर्म°
अन(न्-अ)न्तर- उपनयन°, चित्त-

तोषण°, तद्°, पय:लाव°, सत्र-
यागपूर्ति°, संन्यास°
अ-नन्द- -न्दा: क १, १, ३^f.
अन(न्-अ)न्य- सर्व°
अनन्य-चित्त->+अनन्यचित्त-
त्व- -त्वेन भा ३०^g.
अनन्य-त्व- तद्°
अनन्य-धी- -धी: वपू २, ५.
अन(न्-अ)पेक्ष, क्षा- अमीन्धनादि°,
अन्य°, सर्वनिमित्त°
+अन(न्-अ)भिघात- तदर्भ°, द्वन्द्व°
+अन(न्-अ)भिध्यायिन्- अनग्निहो-
त्रिन्°°
+अन(न्-अ)भिलाष- १फल°
+अनररय°- सुधम्र°°
अन(न्-अ)र्थ- जन्मन्°
अन(न्-अ)र्थक->आनर्थक्य- विशे-
षण°
अन(न्-अ)वकाश- अन्यस्मृति°,
१स्मृति°
अन(न्-अ)वच्छिन्न- जाति...समय°
दिकालादि°
+अन(न्-अ)वच्छेद- अन्यता°
+अन(न्-अ)वधारण- उभय°
अन(न्-अ)वस्थ- -स्थ: मैत्रि ४, ३^b
+अन(न्-अ)वस्थान- १मनस्°
+अन(न्-अ)वस्थित- -तम् अशि ४^१
अनवस्थित-त्व- व्याधि°
अन(न्-अ)वस्थिति- व्यतिरेक°
अन(न्-अ)शन- साशन°
९^१अन(न्-अ)श्रुत्- -अन् मुं ३, १, १
भव २, २.
अन(न्-अ)श्रुवत्- -वत् आर्षे ७: ३^h
+अनस(<अनस्-)- महत्°
अन(न्-अ)सूरि- -रि: छां ४, ३, ७.

a) गपू. (पृ ४३) तरङ्गा(ङ्ग-अ)वलि- इत्यत्र यनि. शोध: द्र. । b) °धान्तरबोधा° इति निसा. । c) तैआ १०, १, १ । d) गपू. (पृ ४४) 'अनन्त-वीर्य-> -०र्य' इत्यत्र यनि. शोध: द्र. (वैतु. गोर. पदद्वयमिति) । e) अनन्त:- संज्ञा° इति पा. ? यनि. शोध: द्र. (तु. मां ४ 'अन्त:प्रज्ञ:' इति) । f) पाभे. कृते तु. टि. 'असुर्य-> -र्या:' (तु. टि. परि. वैपश् यस्था.) । g) तान्त्रि. अपा. । h) 'अवस्थ:' इति सात. । i) अख्या: शै. अपा. । j) ऋ १, १६४, २० । k) °न(श्च)श्रुवत् इति बे. । l) 'न सूनु:' इति जैउ ३, २, ४ (तु. टि. वैप २ यस्था.) ।

अन(न्-अ)हंभाव- अहंभाव°
 +अना(न्-आ)कार- -रः हं ६°.
 अना(न्-आ)गत- अतीत°
 अना(न्-आ)त्मन्- -त्मनः ससा
 १, ४!°b. [°न्- अनित्य°°,
 आत्मन्°]
 +अनाथ- विधवा°
 अनाथ-नाथ- -थम् वपू १, ५.
 अना(न्-आ)द्र- तद्°
 अना(न्-आ)दि- १आदि°
 +अनादि-दुर्वासना-ग्रन्थि- हृदय-
 स्थित°
 +अनादि-भूत- -तम् वउ ४, २.
 +अनादि-मूल- क्षणशून्य°
 अना(न्-आ)द्यन्तव(त्<)>ती- -ती°
 मन्त्रि ५°.
 अना(न्-आ)धार- -रः वउ ३, ६०.
 अना(न्-आ)धेय- -यः वउ ३, ६०.
 अना(न्-आ)नन्द- आनन्द°
 अ-जाना-नन्दना(न्-अ)तीत-
 -तम् ते १, ८°.
 अ-नामक->अनामिका-अन्योन्य°,
 तर्जनी°, मध्यमा°
 अना(न्-आ)रम्भ- -म्भम् आर्षे ७:
 १६°.
 +अना(न्-आ)विक- -कम् १संन्या २,
 ९५.
 २अ-नाशक->अनाशक-क->
 अनाशकिका->अनाशकी-
 -की अरु २६५°.
 २अना(न्-आ)हत- विचित्रघोषसंयुक्त°
 अ-निकेत-निवासिन्- -सी या २,
 १°.
 अ-निकेत-स्थिति- -तिः पहं ४°.

अनि(न्-इ)च्छा- -च्छायाः २कौ १२.
 अ-नित्य- -त्यम् १कौल ३:१! [°त्य-
 १नित्य°]
 +अनित्य-कर्म-लोप- -पः २कौल
 १०.
 +अनित्य-ज्ञान- -नम् २कौल ३.
 अनित्य-त्व- उभय°, नित्यत्व°
 +अ-निन्दा- -न्दा २कौल ५. [°न्दा-
 निन्दा°]
 अनि(न्-इ)न्धन- -नः शा २१°.
 अ-नियम- अदृष्ट°, तन्निर्धारण°,
 नियम°, मुक्तिफल°
 अनि(न्-इर<)>रा- -रा वउ ४४३:२०५°.
 अ-निराकरण- -णम् ह २०५°.
 अ-निराश- -शः मैत्रि ६, ३०°.
 अ-निरुक्त- -क्तम् अ १°.
 अ-निरुद्ध- १राम°, वासुदेव°
 अ-निर्देश्य- -श्यः मैत्रि ७, १°; वउ
 ३, ६१.
 अ-निर्वचनी(य<)>या- -या वउ ४, ८
 अ-निर्वाच्य, च्या- -च्यम् वउ २,
 २९; -च्या पै १, ५.
 अ-निश- -शम् त्रिवि ६, २०°.
 अनि(न्-इ)ष्ट- १इष्ट°
 +अनिष्ट-संप्रयोग- १काम°
 अनीक- पारुडव°, प्रति°, स्व°
 +अनी(न्-ई)प्सित- ईप्सित°
 अनी(न्-ई)श- ईश°
 +अनी(न्-ई)हा- ईहा°
 अनी(न्-ई)हित- ईहित°
 अनु श्वे २, १६५° [°नु तद्°]
 अनु/कम्प>अनु-कम्पा->अनु-
 कम्पा-सिन्धु- महत्°
 +अनु-कम्पिन्- २भक्त°

अनु-कूल- तद्°, १मनस्°, स्वात्म-
 निष्ठा°
 अनु/कृ>+अनु-करण- प्रति°
 +अनु-कार- चित्तस्वरूप°
 +अनु-कारिन्- चित्त°
 +अनु/कृत>न्त>अनु-कृन्तन-
 मर्मजङ्घा°
 अनु/कृत>कीर्ति>अनु-कीर्तन-
 राममन्त्र°
 अनु-क्रम- आकाशादि°, केशवादि...
 ति°, व्युत्क्रम°
 अनु/गम्>+अनु-ग, गा- आशा-
 वश°, कर्मन्°, कर्मवश°, मनोना-
 शवश°, वश°, ६स°, सर्वहृदय°,
 स्वपद°
 अनु-गत- अष्टदल°, क्रम°, ध्यान-
 योग°, बगलादिषोडशान्°, स्व-
 शाखा°
 +अनु-गति- विशेष°
 अनु-गम- वितर्क...त°
 अनु-गामिन्- तृष्णाभाया°
 +अनु-गुण- तद्विपाक°
 आनुगुण्य- भगवत्संकल्प°, २योग°
 अनु/*गृह, ग्रह>अनु-गृहीत-
 आदित्यादि°, ईश्वर°, हार्द°
 अनु-ग्रह- गुरु°, ततद्देवता°, तद्°,
 १देव°, निग्रह°, निमेष°,
 २भक्त°, मद्°, रेफ°, लोक°,
 विशेष°, सर्व°
 +अनु-ग्रहण- ४मित्र°
 +अनु-ग्राहक- अनुग्राह्य°, सर्व°
 अनु/चिन्त>अनु-चिन्तन- असा-
 धन°
 अनु/जन्>अनु-ज- १राम°, ६स°

a) गपू. (पृ४७) 'अनागार->-रः' इति निसा. पाभे. । b) °त्मनाम् इति निसा. १ यनि. शोधः द्र.(तु. आन.) ।
 c) गपू. (पृ४८) °तीः इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । d) आद्यन्त° इति अज्या. । e) आनन्दं, नन्द° इति आन. । f) °म्भम्
 इति वे. । g) तैश्चा १, २७, ४ । h) °तवा° इति अज्या. । i) गपू. (पृ४९) सस्यः 'अनिकेत->-तः' इत्यत्र यनि.
 शोधः द्र. । j) गपू. (पृ४९) सस्य. कौल १० इत्यत्र यनि. स्थलसंकेतः द्र. । k) °नम् इति अज्या. । l) तैश्चा ४, २३, १ ।
 m) तैश्चा १०, ७, १ । n) 'निराशः' इति आन., सात. । o) निरु° इति अज्या. । p) °देशः इति सात. । q) 'अनी-
 कम्' इति निसा. । r) मा ३२, ४ ।

अनु/ज्ञा, > जा, अनुजानीहि जाद
४, ३^a.

अनु-ज्ञा- ओत^०, गुरु^०, तद्^०,
लब्ध^०

अनु-ज्ञात- तद्^०

अनु-ज्ञातृ- ओत^०

अनु(न्-उ)त्तम- -मम् ब्रवि १^b.

+अनुत्तम-विश्रान्ति- प्राप्त^०

+अनु(न्-उ)दय- २वासना^०

अनु(न्-उ)दात्त- आख्यात^०, उदात्त^०

+अनु-दास- दासदास^०

+अनु(न्-उ)दित- १उदित^०

अनु/दृश> +अनु-दर्शन- जन्म-
व्याधि...दोष^०

+अनु(न्-उ)द्भव- उद्भव^०

अनु/नी, अनुनीयसे मु २, २, ३^c.

+अनु/पत्(गती)>अनु-पतन-
उपादेय^०

+अनु-पात- २चैत्य^०

+अनु-पातिन्- अन्^०, शब्दज्ञान^०,
शान्तोदि...धर्म^०, १शुद्धसत्त्व^०,

अनु(न्-उ)पपत्ति- अङ्गित्व^०, अधि-
ष्ठान^०, तद्^०, भेद^०, रचना^०, विचि-
त्रभोग^०, संबन्ध^०

+अनु(न्-उ)परोध- प्रतिज्ञा...न्त^०

अनु(न्-उ)पलब्धि- उपलब्धि^०, तद्^०,
प्रत्येक^०

अनु(न्-उ)पलम्भन- स्फुरण^०

अनु/पश> +अनु-पश्य- प्रत्यय^०

+अनु-पुङ्ग- पुङ्ग^०

अनु(न्-उ)पेत्य इ १८ : १७^d.

+अनु-प्र/दा(दाने)>अनुप्र-दान^१-
स्थान^०

अनु-फल- विस्मृतजा...ना^०

अनु/बन्ध>अनु-बन्ध- १तनु^०
+अनु-बन्धिन्- कर्मन्^०

अनु/बुध> +अनु-बोध- आत्मसत्य^०

अनु/भज, अनुभजन्ति गोपू २०^e.

+अनु/भिद्>अनु-भेद- दृश्य-
शब्द^०

अनु/भू>अनु-भव- अपरोक्ष^०,
आत्मन्^०, आनन्द^०, इत्यादि...र्थ^०,
तद्भस्तु^०, तल्लीला^०, २दर्शन^०,
पापपुराय...क^०, प्रपञ्च^०, ब्रह्मा-
नन्द^०, १मनोन्मनी^०, यथाप्राप्त^०,
२योग^०, शृङ्गार^०, ६स^०, संबन्ध...
मार्ग^०, सर्व^०, साक्षात्कार^०, सुखा-
गतवस्तु^०, सुखादि^०, स्व^०, स्वरूप-
बोध^०, स्वात्मानन्द^०, १स्वानन्द^०

+अनुभव-रूप- १नित्य^०

+अनुभव-विशेष- ब्रह्मसाक्षात्कार^०

अनुभवा(व-श्चा)त्मन्- त्मनि नृउ
९, ९^f.

अनु-भाव- तद्^०, महत्^०, शिष्टानु...
सेवा^०, संसिद्धप्रकट^०, सुखकेलिक-
ला^०, स्व^०, स्वावेशप्रकट^०

+अनु-भावक- १ब्रह्मानन्द^०

+१अनु-भावन- १ओंकार...त्व^०,
शुद्धसत्त्व^०

+२अनु-भावन(>)ना- ध्यान^०

+अनु-भु- सर्व^०

+अनु-भू- सर्व^०

अनु-भूत- अन्^०

+अनु-भूति- स्व^०

अनु/मन्>अनु-मति- सर्वाज्ञ^०

+अनु/मन्त्र(<मन्त्र-), अनुमन्त्र-
यते कौ २, १५^g.

+अनु/मा(माने)>अनु-मान-
कारण^०, पतन^०, प्रत्यक्ष^०, प्राणा-
याम...ग^०, शब्द^०, श्रुत^०

+अनु-मिति- अन्यथा^०

अनु/मुद्>मोदि> +अनु-मोदित-
कृत^०

अनु/रञ्ज>अनु-रक्त, क्ता- उमा^०,
नित्यलीला^०, रासक्रीडा^०

अनु-रक्ति- सत्यमार्ग^०

+अनु-रञ्ज(न>)ना- १राग^०

अनु-रूप- तद्^०, १भाव^०, वेदवचन^०,
श्रद्धा^०, सत्त्व^०, स्वकुल^०

अनु/लिप्>अनु-लिप्त- रङ्गगन्ध^०
+अनु-लेपन- गन्ध^०, दिव्यगन्ध^०,
माल्य^०

अनु-लोम- प्रतिलोम^०

अनुलोम-विलोम- अष्टोत्तरशत^०

अनु/वच्> +अनु-वचन- २वेद^०

अनु-वाक- प्रातर^०, २रुद्र^०

अनु-वा(क्य)>क्या^१- पुरस्^०

अनु(नु-उ)क्त- अन्^०

अनु(नु-उ)चान- अन्^०

अनु(नु-उ)च्य अन्^०

अनु/विद्(लाभे)>अनु-विद्य अन्^०

अनु/वि(<व्य)घ्, अनुवेधति अरु
२९^h.

+अनु-विद्- दृश्य^०

अनु/वृत्> +अनु-वर्तन- देह^०,
लोक^०, शास्त्र^०

+अनु-वर्तिन्- ४युग^०

अनु-वृत्ति- चिरकाल^०, प्रधान^०, वा-
धित^०, शुद्धा...पद^०, सर्वाचार^०

अनु/शास्>अनु-शासन- उक्त^०,
निर्वाण^०, १ब्रह्मन्^०, यथा^०, २योग^०,
२वेद^०

अनु-शिष्ट- कुशल^०, १शिष्ट^०
+अनु-शिष्य अन्^०

अनु/शी>अनु-शय- दुःख^०, सुख^०

अनु/शुच्(शोके)
अनु/श्रु>अनु-श्रव->आनुश्र-
विक- दृष्ट^०

अनु/ष्टु(<स्तु)म्>अनु-ष्टुम्-
-ष्टुप् वपू १, ४ⁱ; ६; २, ३ⁱ; ३, १;
-ष्टुभम् वपू १, ४; -ष्टुभा वपू
१, ४ⁱ; २, २ⁱ. [०म्-
गायत्री^०, वृसिंह^०]

a) विज्ञा^० इति श्रद्धा. । b) आन. अपा. । c) अनुली^० इति श्रद्धा. संति. । d) गपू. (पृ५३) सस्य.
वनि. श्लोचः ३. । e) ०नुप^० इति आन. । f) ०त्मा इति निसा. । g) 'मन्त्रयति' इति श्रद्धा. । h) तैआ
१, २७, ४ ।

आनुष्टुभ- -भम् वपू १,४^२; ५; ६^३;
२, १; ३, २. [°भ- आदिब्रह्मन्°,
वृसिंहमन्त्रराज°, वृसिंहहयमीव°,
१त्रह्वन्°]

+आनुष्टुभ-मन्त्र- रामकृष्ण°

अनु/ष्ठा(<स्था)>अनु-धान-
अन्°, कर्मन्°, तद्°, प्रणव°,
मन्त्र°, योगाङ्ग°, वेदोक्त...ध°,
१श्रुति°, स्वाश्रम...कर्मन्°
+अनुष्ठान-विधि- -धिम् वउ
६, २.

अनु-ष्ठित- सु°

अनु-ष्ठेय- अवश्यम्°

अनु-सं/धा>अनुसं-धान- अका-
र°, अर्थ°, आत्मन्°, ज्ञान°,
तत्त्वमस्यादि...प°, त्रेतामि°,
त्रेतामन्या...स°, ध्यान°, नाद°,
निरन्तर°, निस्त्रैगुण्यस्वरूप°,
परमतत्त्व...व°, प्रणव°, ब्रह्म-
प्रणव°, लक्ष्यत्रय°, श्रवणार्थ°,
संकल्प°, संभावितत्त्व°, १स्व-
रूप°, १स्वस्वरूप°

+अनु-सं/पू>अनुसं-पर- -राय
पा १०, ३^३.

+अनु-सं/मन्>अनुसं-मत-
संहारतिरोधान°

अनु/सिच्>अनु-स्यूत- सर्व°

अनु/सृ>अनु-सार- आश्रमकर्म°,
एकैकत्व°, कर्मन्°, तत्कर्मन्°,
वृन्दाव...मार्ग°, वित्त°, स्वेच्छा°

+अनु-सारिन्- अन्°, तत्संकल्प°,
पुराय...मैन्°, रश्मि°

अनु/स्मृ>+अनु-स्मरण- पदव्यो-
मन्°, मद्°, श्रीमन्नारायणाष्टाक्षर°

अनु-स्मरत्- अन्°

अनु-स्मृति- कर्मन्°, तच्छेषगति°

अनु-स्मृत्य कुं ८^b.

अनु(नु-उ)प/चर्>अनूप-चार-
-रः भा २८°.

?अनूपम- -मम् नाद १८^d.

अनु(न्-ञ्)जु- -जवे शा ३३^९°.

अनु(न्-ञ्)त- १ञ्जत°, १सत्य°

अने(न्-ए)क- -कैः(ःकै) भा ५. [°क-
खाद्य...स°, दिव्य°, लक्ष्मी...
कान्ति°, विविध°]

+अनेक-देह- अतीतानागत°

+अनेक-पुण्य-लोक- पार्श्वद्वय-
स्थित°

+अनेक-प्राकार-विशेष- चिदा-
नन्दमय°

+अनेक-प्रासाद- अमोघ...य°

+अनेक-भोग- दुग्धफेन°

+अनेक-लोक- कुक्षिस्थ°

अनेक-विहार-देह- धारिन्-

अनेक-शय्या- -य्यासु सार २८६:
२२^१।

अनेक-शस(>):>अनेकश:-

कोटि-ब्रह्माण्डक- -कानि सार
२८०: २३^१.

अनेका(क-अ)भ्य-

अनेशन् √नश्(अदर्शने) द्र.

+अनेहस्^k- -हःसु वउ ३, ३७.

+अनै(न्-ऐ)श्वर्य- धर्म°.

अन्त- -न्तम् गौड ५६^१; -न्ते
१कौल ४: १; -न्तेन वृजा ४, ४^m.

[°न्त- अङ्गुल°, १अणु°, अति°,
अन्°, अपर°, अपाङ्ग°, अम्बर°,
अङ्ग°, आ°, आगम°, प्रसृ.]

+१अन्त(क)- १नमस्°

+अन्त-त्रितय- शमित°

अन्त-व(त्>)ती- -ती ससा १,
३९^m. [°वत्- अन्°]

+अन्त(ान्त-अ)र्ध- चतुर्थ°, तृतीय°,
द्वितीय°, प्रथम°

√अन्ति>२अन्तक°- १असुर°,
२त्रिपुर°, दशास्य°, २नरक°,
५पद्म°, २पुर°, १यम°, विद्र°

अन्ते-वासिन्- अन्°

+अन्तै(न्त-ए)कान्त-संवित्ति- -त्या
अन्न ५, ४४.

अन्त्य- -न्त्यम् जाद ४, ४५; वपू
२, १. [°न्त्य- आद्यार्ध°, चतुर्थ°,
तद्°, तृतीय°, द्वितीय°, प्रथम°]

+अन्त्य-बिन्दु- तद्°

+अन्त्या(न्त्य-आ)श्रम-स्थ-

-स्थः कै १, ५^p.

अन्त(न्-तै)र(>):स्* श्वे २, १६^९;
मन्त्रि २^२; १कौल ६: २;

२कौल ७; वपू २, १. [°न्तर्-
अनन्त...शि°, अनवकाश°, अ-

मिततेजोराशि°, अमितपरि...
शि°, अशेषभूत°, अस्थि°,
काय°, १चक्र°, चक्रतीर्थ°, चतुष्-

पाद्°, जठर°, जागरित°, ज्यो-
तिसु°, तद्°, तालु°, त्रिकोण...
वृत्त°, त्रैलोक्य°, दर्पण°, द्वादश-

नाडि°, ध्यान°, नाद°, प्रकार°, प्र-
णव°, प्रणवहंस°, प्रधान°, बहिस्°

बीजादि°, बुद्धि°, ब्रह्मनाडीमुख°,
ब्रह्माण्ड°, भूपुर°, लता°, वाचा...
राशि°, शरीर°, शीर्ष°, सत्त्व°,
सर्व°, सर्वभूत°, सुदर्शन...जसु°

a) वैतु. पाटी. अनु सं° इति । b) 'समुद्दिश्य' इति अड्या. । c) 'उपचारः' इति अड्या. । d) 'नौपम्यम् इति आन. । e) वाध २, ८ । f) पा. ? यनि. शोधः द्र. । g) गपू. (पृ५९) यनि. शोधः द्र. । h) 'व्यायाः सु' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (एतदनु गपू. पृ५९ 'अनेक-शय्या->-व्यायाः' इत्यत्र शोधः द्र.) । i) गपू. (पृ५९) सस्थ. 'अनेक-शस(>):' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । j) गपू. (पृ५९) 'अने(न्-ए)काभ्य-' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । k) व्यु. ? = १समय- । l) 'अत्यन्तम्' इति आन., अड्या. संटि. । m) 'अङ्गेन' इति अड्या. । n) 'अन्तर्वत्नी' इति आन. । o) गपू. (पृ६०) यनि. संख्याननिर्देशः द्र. । p) अत्याश्र° इति आन., अड्या. । q) मा ३२, ४ । r) 'अतः' इति अड्या. ।

सुपुत्रा°, सूर्यमण्डल°, स्व°, हृदय°]

अन्तः-करण-आकाशकार्य°, आशी-तल°, गुरु...शुद्ध°, तत्कर्म...वासित°, प्राण°, शुद्ध°, ६स°
अन्तःकरण-चतुष्टय-ज्ञाने...य°
+अन्तःकरण-मालिन्य-विशेष-अत्यन्त°

+अन्तःकरण-वृत्ति-सर्वकामादि°
+अन्तः-पुर-परिच्छद- ६स°
अन्तः-प्र(ज्ञा)ज्ञ- -ज्ञः वउ १, ६; १२; ५, ३८.

अन्तः-प्रणव-नादा(द-आ)ख्य-
-ख्यः पाशु २, ३१.

अन्तर-अङ्ग- १आदि°

अन्तर-अमृता(त-अ)ङ्कुरक- भूमि-
प्रोदितमात्र°

अन्तर-आत्मन्- -त्मा मना २,
६६१^b. [°न्- जीव°, परम°,
प्रव्यथित°, २वेद°, १सस्य°,
सर्व°, सर्वभूत°]

अन्तर-आल- गुदमेढ्र°, तद्°,
तद्गीज°, शिवादिशक्ति°, ६स°
अन्तरालिक- तद्°

आन्तरालिक- १ओंकार°

अन्तरि[र/इ(गतौ)]>अन्तर-
आय- तद्°, निर°

अन्तर-इन्द्रिय- स्व°

अन्तर/गम्>अन्तर-ग- -गः
मैत्रि ६, ३५°.

अन्तर-गत- -तम् योशि ६,
२१^c; पत्र ३, ५^d. [°त- अख-
ण्डानन्दतेजोराशि°, अखण्डा-
मितवै...शि°

अन्तर्गत-प्रमा-गूढ- -ढम्

पाशु २, ३°.
+अन्तर-गूढ- -हम् भ २, १८^f;
-हे भ २, ३०^f.

+अन्तर-दशा(श-अ)र- सर्वज्ञादि°
अन्तर/धा>अन्तर-धान-
-नेषु गोउ ६३^g.

+अन्तर-धि- स्व°

अन्तर-हित- -तः वउ ४,
४७; -ते वउ ३, ३६. [°त-
अन्°]

+अन्तर-धारण- -णे स ३७८:५.
अन्तर-बहिस(>:;श्) प्राकार°,
समस्तब्रह्माण्ड°

अन्तर्बहि-प्रपञ्च- अरुहान्तर°
+अन्तर्बहिश्-चि(त>)ता-
-ताम् शि ७, १२७.

+अन्तर-मातृक- शुद्धि°°
अन्तर/यम्(यमने)>अन्तर-या-
मिन्- -मी वउ १, ११. [°मिन्-
तद्गोवाविर्भाव°, सर्व°, सर्वभूत°]

अन्तर-याग- शुद्धि°°

अन्तर-लक्ष्य- भगव...त्र°

+अन्तः-शिखोपवीत- अलक्षित°

+अन्तस्-तारा- अक्षि°

अन्तस्-वृष्णा- -ष्णा मैत्रि ३, ५^h.

अन्तस्-त्रिकोणा(श-अ)ग्र-
(ग>)गा- -गाः भा २४ⁱ.

अन्त(न्त)र- -रम् अशि १, ३^j;
[°र- अण्ड°, अन्°, अनेकरङ्ग-
रञ्जित°, अनेकलता°, अन्तर°,
अभि°, अर्थ°, अव°, अष्टपत्र°,
आद्ययोनि°, आवर्त°, आसन°,
इन्द्रिय°, उपदेश°, उपाय°,

एकैकरोमकूप°, करण°, कलश°,
३कल्प°, कामकेलिरस°, २काल°,
कुञ्ज°, कोणाग्र°, क्रीडा°, गगन°,
गुल्फ°, गृह°, ग्राम°, चित°,
जन्मन्°, २जाति°, तत्त्व°,
तद्°, त्रैलोक्य°, दशन°, दिश°,
१देव°, देश°, देशदिश°, देह°,
द्रष्टृदृश्यदशा°, धर्म°, निर्°,
निरति...राशि°, पद°, परिपूर्ण°,
पात्र°, प्र°, प्रकरणा°, प्रकार°,
प्रज्ञा°, प्रत्यय°, प्रधानपुरुष°,
प्रमाण°, १बीज°, ब्रह्मतार°, ब्रह्म-
नाडि°, ब्रह्मविल°, २भव°, भुज°,
मणिलता°, मत°, ४मनु°, मन्त्र°,
लता°, लोक°, वन°, १वर°,
३वर्ण°, वस्तु°, २वासित°, विशा°
विषय°, व्योमन्°, शब्द°, शाखा°
शाला°, शोक°, सत्त्व°, सर्व°, सर्व-
जन°, सर्वजीव°, सर्वनाद°, सर्व-
भाव°, सर्वभूत°, सहकारिन्°, सुषु-
म्नावदन°, स्थान°, स्वमध्य-
मानामिका°, १हृद्°]

आन्तर->+आन्तर-इष्टि-
मनोयुक्त°

+अन्तर-ज्योत्स्ना- स्यूतपुष्प...त°

+अन्तर-तम- अप°

अन्तर-स्थित- अखण्ड...राशि°

अन्तरा(र-अ)ग्नि- -ग्निः गर्भ २^k.

अन्तरा(र-अ)न्तर- बुद्धिसार°

+अन्तरीय- बाह्य°

अन्तरा तद्°

अन्तरि-क्ष-क्षम् मना १, २१^l; वपू
१, ६; -क्षाय मना २, ३-५^m;
६७ⁿ; -क्षे मना १, १४^o; नी २,
१९^p. [°क्ष- तद्विहीन°]

a) अतः प्र° इति अञ्ज्या. संटि. । b) तैश्चात्रा १०, ६६ (गपू. पृ६२२ यनि. शोधः द्र.) । c) गंतः इति सात. ।

d) गपू. (पृ६२) पत्र ६, २१ इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । e) °मारुढम् इति अञ्ज्या. संटिः । f) गपू. (पृ६०) सस्थ. 'अन्तर(>:)' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । g) °ने इति अत्रान. । h) अथ त्° इति सात. । i) °णगाः इति तान्त्रि. । j) सकृत् व्यन्त° इति अत्रान. । k) अभ्यन्त° इति अञ्ज्या. । l) गपू. (पृ६४) मना १, २, १४^o; इत्यत्र मना १, २; १४^o; इति शोधः द्र. । m) तैश्चा १०, १, २ । n) तैश्चा १०, २-४, १ । o) तैश्चात्रा १०, ६७ । p) तैश्चा १०, १, १४ । q) मा १३, ६ ।

अन्तरिक्ष-सद् -सत् वपू २, ३९^a.
 ✓अन्ति अन्त-द्र.
 अन्ति->अन्ति-क- निधनपति°,
 भस्मन्°, मरण°, संहरण°,
 स्वालय°
 अन्त्य- अन्त-द्र
 ?अन्त्यर्धर्चशः^b सूता २, १२.
 +अन्त्र- कपाल°°
 *?१अन्/घा>१अन्ध- न्धेन वृ
 ४, ४, ११९^d. [°न्ध- अन्°,
 १जाति°, तिमिर°, दीन°, पङ्क्तु°,
 मूक°, १राग°]
 आन्ध्य- १नुधु°°
 अन्ध-कार- मणिज्योत्सनापाकृत°,
 महत्°, मोह°
 अन्ध-तमस- अज्ञान°
 अन्धो(न्ध-उ)द-पान-स्थ- स्थः
 मै १, ७°.
 १-२अन्नाद्य- ✓अद् द्र.
 अन्य- न्यः सुं ३, १, १^{१९}^f; मउ
 ९, ४९^g; भव २, २^{१९}^h; -न्यत्
 अध्या२०ⁱ; -न्यम् कौ १, १ⁱ; तेद्,
 ५१^k; -न्यानि गोउ २३^l. [°न्य-
 अन्°, अन्यस्->न्यो°, तद्°,
 त्वद्°, परार्थ°]
 +अन्य-गामिन्- ५न°
 अन्य-तर- उक्त°
 अन्य-तस(>:) कौ ४, ७^m.
 अन्य-ता->अन्यता-ख्याति-
 सत्त्वपुरुष°

अन्य-त्र स्व°
 अन्य-स्व- अन्°, उभय°, क्रम°,
 परिणाम°
 अन्यदीय- -यः २३ ३५:६१९ⁿ.
 +अन्य-प्रोक्त- अन्°
 +अन्य-शास्त्रा(स्त्र-अ)भ्यास-
 स्वरूपातु...क°
 +अन्या(न्य-अ)धिपति- अन्°
 अन्या(न्य-आ)रोपित-संसार-धर्म-
 -मान् १अव १५१°.
 +अन्यो(न्य-उ)द्वेग-कारिन्- अन्°
 अन्यो(न्यस्-अ)न्य->अन्योन्य-
 वायु-परिपीडित-शुक्र-
 द्वैविध्य- -ध्यात् गर्भ ३^p.
 अ-न्याय- -यः १कौल ५ : १^q;
 २कौल ६.
 अन्व(नु-अ)व/सो, अन्ववस्यन्ति
 कौ ४, २०९^r.
 +अन्वा(नु-आ)/गम्>अन्वा-गत-
 अन्°
 अन्वा(नु-आ)/वृत्, >वर्ति, अन्वा-
 वर्तन्ते कौ २, ९^s.
 अन्वावर्तयति कौ २, ८१^t.
 अन्वि[नु/इ(गतौ)], अन्वेति अरु
 २७९^u.
 अन्व(नु-अ)य- गुण°, ग्रहण°,
 १चित्°, निरोधक्षणाचित्°,
 वाक्य°, षष्°, स्थूल°
 अन्वि(नु-इ)त, ता- अणिमादिगु-
 ण°, अनन्तावयव°, अनेकवदन°,

अयुतावयव°, इच्छाक्रिया°,
 एतस्संख्या°, कापिलाज्य°, काम-
 कर्मन्°, कामरागवत्°, गुण°,
 तत्तद्देवतानुग्रह°, तामस°,
 त्वरा°, दम्भमानमद°, दर्पण°,
 द्वात्रिंशत्केसर°, धनमानमद°,
 प्रभा°, फलमूलोदक°, भव्य-
 वृक्षजल°, महारत्न°, मुदा°,
 २वरीक°, विकल्पकलन°,
 विनय°, शङ्खच***दा°, शता-
 वयव°, शम°, शांभवीमुद्रा°,
 शिवादिचिह्न°, षोडशमात्रा°,
 संख्या°, सर्वभोग°, सर्वोपकरण°,
 सहस्रावयव°, सुकेयूर°, सुगन्ध-
 मणिमयभोग°, हर्षशोक°
 अन्वि(नु/इ)ष्(गतौ)>अन्वे(नु-ए)-
 षण- संसारातिनिवृत्ति°
 अन्वे(नु-ए)षिन्- ब्रह्मलोकपद°
 ✓*अप्
 अप्->*अध्>द्-, आप्-
 *अध्>द्- अङ्गयः नाउ १,
 १६९^v; १कौल शां^w.
 अप्- अपः कौ २, ७९^x; अपाम् सु
 २९४:६९^y; अन्सु नी २, २१९^z.
 आप्- आपः अशि १, ८^a. [°प्-
 पृथिवी°, पृथ्वी°, महत्°, °,
 रस°, शुभा...कुम्भ°]
 अब्-ज- अष्टन्°, गदा°,
 गदा°, पृथिवी°, २प्रवाल°, °,
 हेमन्°

a) ऋ ४, ४०, ५ । b) पा. वा. च १ । c) व्युः =पुरीतत्- । d) मा ४०, ३ । e) °न्धूद् इति अख्या. ।
 f) ऋ १, १६४, २०^r । g) मा ८, ३६ । h) ऋ १, १६४, २०^r (गपू. पृ६५ भव २, १^r इत्यत्र यनि. शोधः द्र.) ।
 i) 'अन्यत्र' इति निसा. । j) °न्यतमः इति शांआ ३, १; बे. । k) 'अन्यत्' इति अख्या. । l) 'आद्यानि' इति आन. ।
 m) तु. गपू. पृ३३५ । n) पा. ? 'नेदीयस्->-यः' इति शोधः द्र. (तु. गपू. पृ७१७e) । o) °र्मा वै इति
 निसा. ? यनि. शोधः द्र. [तु. अख्या. (गपू. पृ६८ यनि. शोधः द्र.)] । p) °कद्रैध्यात् इति आन., °तानां शुक्रद्वैधे
 इति अख्या. । q) गपू. (पृ६८) सस्य. कौल १७ इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । r) °न्वपश्यं इति अख्या., °न्ते इति
 शांआ ६, २० । s) निसा., अख्या. ? 'अन्वावर्ते' इति शोधः द्र. (तु. आन., शांआ ४, ९) । t) निसा. अख्या. ?
 'अन्वावर्ते' इति शोधः द्र. (तु. आन., शांआ ४, ८) । u) तैआ १, २७, ४ । v) तैआ ८, १, १ । w) गपू. (पृ६९)
 कौल ३ इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । x) 'उदकम्' इति शांआ ४, ७ । y) ऋ ९, ९६, १९ । z) मा १३, ८ (गपू. पृ६९ सस्य.
 यनि. शोधः द्र.) । a') 'आमः' इति आन. ।

+अब्ज(-क)- षोडशन्°
 +अब्ज-कर्णिका- विप्र-
 कीर्ण°
 अब्ज-पत्र- -त्रम् ध्या
 ३३^३.
 अब्द- द्वादशन्°, शत°
 अब्-धि- अनन्तप...रस°,
 आनन्द°, १काम°, स्त्रीर°, महत्°,
 महापाप°, १स्वानन्द°
 अब्ज- छिन्न°, वि°, शरद्°,
 शुभ्र°
 ?अप^b आषै ९ : ५.
 अप√कृ(करणे)>+अप-करण-१मान°
 अप√क्रम्>+अप-क्रम्य त्रिन्ना २,
 १०४°.
 अप√गम्>+अप-ग- अन्°
 अप√चि(चयने)>+अप-चय- उप-
 चय°
 अप√जि>+अप-जय्य- अन्°
 +अप-पत्य^d- अन्°, आरूढपतित°,
 दार°, पितृ°, २मातृ°
 अप√नी>+अप-नय- स्वाध्यास°
 अप√नुद्>+अप-नुत्ति- केशकेशा°
 +अप-नुद- श्रम°
 +अप-नोद- श्रम°
 +अप-प्रे(प्र√ई)र्>अपप्रे(प्र-ई)रक-
 गोपीजन...ला°
 +अप√वृ>अप-वृव- अन्°
 +अप√मन्>अप-मान- १मान°
 अपर- -रम् अना २७°; नाद २१°;
 गोउ ६४^६; त्र १°; -राणि मैत्रि
 ४, ३^३. [°र- अन्°, दशन्°,
 पर°, पर°°, पूर्व°, शत°, सर्व°]
 +अपर-ना(मन्)>झी- २वासना°

अपर-पक्ष- -क्षे कौ १, २^१. [°क्ष-
 पूर्वपक्ष°]
 +१अपरा(र-अ)न्त- परिणाम°
 अपरा(र-अ)ह- -ह्ने १संन्या २, ७३^१.
 +आपराहिक- -कम् भव १,
 ३८.
 अ-पराजि(त>)ता- -ता अरु २५९^१.
 २अ-परा(र-अ)न्त- गपू. पृ ७२ द्र.
 अ-परिग्रह- अस्तेय°°, अहिंसा°°,
 ब्रह्मचर्य°, १शिष्ट°, १सत्य°°
 अ-परिच्छिन्न- अद्वितीय°°, अमित°,
 तद्विलक्षण°, परमकौतुक°
 +अपरिच्छिन्ना(ज-अ)नन्त-ज्यो-
 तिस- परमा...ण°
 +अपरिच्छिन्ना(ज-अ)नन्त-पर-
 ज्योतिस- परमा...ण°
 अ-परिज्ञान- पूर्वापर°
 अ-परोक्ष- -क्षम् वरा २, ६९^१.
 +अपरोक्ष-त्व- स्वप्रकाश°
 +अपरोक्ष-साक्षात्कार- अप्रतिबद्ध°
 अप√लप्>अप-लाप- तद्°, धर्म°
 +अप-लापक- ज्येष्ठा...त्व°
 अप√वद्>अप-वाद^१- अध्या-
 रोप°, निन्दा°, पर°
 +अप√वृ(आच्छादने)>अप-वरक-
 षडाधार°
 अप√वृज्>अप-वर्ग- अखिल°,
 १भोग°, सर्ग°, स्वर्ग°
 अ-पश्यत्- -श्यन्तः नृउ ९, १७.
 +अप√सद्>अप-सद- कुतर्क°
 +अप-सव्य- २सव्य°
 +अप√सृप्>अप-सर्पण- तेजस्°
 अप√स्था>तिष्ठ, अपतिष्ठति २प्र
 ३६ : १२९^३.

अप√स्मृ>अप-स्मार^१- भूत°,
 महत्°, श्रमिक°
 अप√हन्>+अप-घातक- तद्°
 +अप-ह, हा- अज्ञान°, दुरित°,
 नाडीजल°, निशुम्भ°, सर्वरोग-
 भय°, सर्वव्याधिविष°
 अप-हति- -स्यै म २, २^३.
 अप√हा(त्यागे)>+अप-हानि-
 १पाप°, सर्वपाश°
 अप√हृ>+अप-हरण- परधन°
 अप-हार- महिषप्राण°
 +अप-हारिन्, णी- द्रव्य°, तमस्°,
 ताप°, सर्वदोष°
 अप-हृत- नष्ट°
 अप√ह्वु>+अप-ह्वव- सर्व°
 +अपा(प-आ)√कृ(करणे)>अपा-
 कृत- मणिज्योत्सना°
 अपा(प√अ)न्(प्राणने)>आनि>
 अपा(प-आ)न^१- -नः गर्भ १°;
 त्रवि ६६^३. [°न- प्राण°,
 बहु°, वह्नि°, वृषण°, व्यान°,
 १समान°°]
 +अपा(प-अ)नत्- अन्°
 +अपा(प-आ)नयितव्य- अन्°
 अ-पाप-काशि(न्>)नी- नी शां
 ३, १.
 +अ-पाप-कृत्- -कृत् इ ११ : २०^१.
 अ-पार- अनन्त°, निस्तरङ्ग°
 +अपा(प√अ)र्ज्>अपा(प-अ)र्जन-
 दुःख°
 अपा(प-आ)√वृ(आच्छादने), अपा-
 वृणु वृ ५, १५, १९^३.
 अपा-वृत्त- अन्°
 +अपा(प-आ)√अि>अपा-अय-सर्व°

a) अष्टप° इति आन. । b) पा. ? 'अथ' इति शोधः द्र. । c) अतिक्र° इति निसा. (गपू. पृ २२ सस्य. यनि. शोधः द्र.) । d) तु. वैप १, २७६C । e) 'परम्' इति आन. । f) 'परः' इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. 'उत्तरम्' इति आन.) । g) 'परम्' इति निसा. । h) इतरा° इति सात. । i) °क्षेण इति शांथा ३, २; बे. । j) °ह्नुम् इति अर्ध्या. । k) तैआ १, २७, ४ । l) °क्ष्यात् इति अर्ध्या. । m) 'तिष्ठति' इति गोत्रा १, १, २८ । n) °ह्वै इति निसा. । o) °नम् इति आन. । p) °पान° इति अर्ध्या. । q) पाप° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । r) का ४०, १, १५ ।

अपि मना १, १४१९^६; गोच ६७ : ४^१ b.
[°पि यदि°]

+अपि-कक्ष->अपिकक्ष्य-क्ष्यम् वृ
२, ५, १७९^०.

अपि/घा>अपि-धान- अनृत°,
अमृत°, ओष्ठ°

अपि-हित- -तः नाप ४, ३८९^d;
-तम् वृ ५, १५, १९^०.

?अपिवत्सविना^१ शि ५, ४२.

+अपि/सृ, अप्यसरत् वृ ६, ४, ५९^६.

अपी[पि/इ(गतौ)]>+अप्य(पि-अ)-
य- प्रभव°, रभव°, स्व°

अ-पुण्य- १पुराय°, सुख°

अ-पुत्र- -त्राणाम् रापू ४, ६६^b.

अ-पुनर्-भ(व>)वा^१- -वा सुबा
११.

अ-पूर्णा- पूर्णा°

१अ-पूर्व- गपू. पृ ७५ द्र.

?२अ-पूर्व- गपू. पृ ५२० j द्र.

अपे[प/इ(गतौ)]>+अपा(प-अ)य-
आगम°, आपोगण°, उत्पत्ति°,
निर्°, पूर्व°, मेघ°

+अपायिन्- अन्°

अपे(प-ई)त- चक्षुस्°, जीव°,
प्रज्ञा°, रागादि°, १वाच्°, श्रोत्र°,
सर्वावरणमल°

अपे(प/ई)क्ष्, अपेक्षन्ते अरु ३१९^१;

अपे(प-ई)क्ष, क्षा- अन्°, अनु-
मान°, अन्यतर°, ऐहिकामुष्मिक°
कृतप्रयत्न°, केवलमोक्ष°, तद्°,
देशकालादि°, निर्°, पुत्रादि°;

६स°, सर्व°,

+अपे(प-ई)क्षक- निर्°

+अपे(प-ई)क्षित- अत्युप्र...दि°

+अपे(प-ई)क्षिन्- तदुपराग°,
१मोक्ष°

अपे(प-ई)क्ष्य सर ३, २४^k. [°क्ष्य
अन्°]

अपो(प/ऊ)ह् (वितर्कें)> +अपो-
(प-ऊ)ह- ऊह°

अ-प्रकाशि(न्)>नी- नी गोउद६३!

+अ-प्रचार- १मनस्°

+अ-प्रतिपेद्य- तद्°

+अ-प्रतिष्ठान- तर्क°

+अ-प्रतिसंख्या- प्रतिसंख्या°

+अ-प्रतीति- तादृक्पदार्थ°, प्रतीति°

अ-प्रवु(द्ध>)द्धा- -द्धाः मैत्रि २, ६^m.

९^१अ-प्रमत्त- -त्तम् शा ३४; सु १,
१, ५२.

अ-प्रमाण- प्रमाण°

अ-प्रमाद्->+अप्रमाद्-ता- १निः-
संक्षप°

अ-प्राण- -णः मैत्रि २, ४°; ब्रवि
८१^p.

अ-प्राप्ति- तद्°, प्रतिसंख्या...ध°,
प्रियशिरस्त्वादि°

अ-प्राप्य श १७९^१.

अ-प्रिय- प्रिय°

+अ-प्रीति- प्रीति°

?अप्-सर->अप्सरा- -रासु मना
२, ४२९^r.

?अप्-सरस्- गन्धर्व°, जयादि°;

नर°, पिशाच°, २यत्त्°

अ-फल- १फल°

अ-बल- १बल°

अ-बाध- बाध°

अ-वाधित- कालत्रय°, सर्वकाल°

+अ-बोध- बोध°

अ-ब्रह्मन्- १ब्रह्मन्°

अ-भक्ष्य-भक्षण- समस्त...तक°

+अभद्रिका- गपू. पृ १२८ d द्र.

अ-भय- चक्र°, पद्मद्वय°, १भय°,
१वर°, वरद°, १शङ्ख°

अभयं-कर- सर्व°

+अभय-दायक- वरद°

अभय-वर-द-क(र>)रा- रा सौ
१, २.

+अ-भव्य- भव्य°

+अ-भान- भान°

अ-भाव- अन्त°, अन्तराय°, अन्य°,
अन्यतर°, अन्योन्य°, अर्थ°,
अहंभावोदय°, २आज्य°, आद्य-
न्त°, आश्रय°, इन्द्रिय°, इष्टप्राण°
उत्तरोत्तर°, उदयास्तमय°, एक°,
एकान्तात्यन्ततस्°, कार्य°, कार्य-
कारणता°, गति°, गोपीचन्दन°,
ग्राह्य°, घृत°, चलस्थिरोभय°,
चित्त°, १जन°, जन्मर्°, जन्मा-
न्तर°, जीवत्रयगुण°, तत्स्वरूप-
ज्ञान°, तद्°, तद्योग°, तद्विपर्यय°,
२तनु°, तर्तव्य°, तुष°, दुष्टमदन°,
दृग्वायुचलन°, दृश्य°, देह°, द्रव्य-
त्व°, द्वय°, द्वितीयकारण°, द्वैत°

अ) 'वि' (तु. तैआ १०, १, १४) इति पा.१ यनि. शोधः द्र. [=यत् पृथिव्यां रजस्वं(यत्) आ रोदसी (व्यातते) अन्तरिक्षेऽपि (रजस्वम्) इति वा. (वैतु. सा. [तैआ.] 'आ' इति 'वि' इति च स्वाश्र. सती यत्. अन्तरिक्षे, रोदसी इत्येतत्भ्यामन्विते इति, नादी. रजः स्वं [=द्वे पदे] आ [श्रितम्=इति कृत्वा क्रिउ.] ब्यं [आश्रितम् =इति कृत्वा पुनर्योगः] इति [तु. सस्थ. टिटि. आ, *रजस्व->स्वम्, इदम्->इम->इमाः]] । b) 'अनि' इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । c) ऋ १, ११७, २२ [गपू. पृ १२२ 'कक्ष्य->क्ष्यम्' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. (तु. वैप १, २१९a)] । d) तैआ ७, ४, १ । e) मा ४०, १७ । f) पा.१ 'आपिबन् सविता' इति शोधः द्र. । g) तैआ १, ३०, १ । h) 'पुत्रि' इति आन. । i) =नाडीविशेष- । j) तैआ १, २७, ५ । k) उपे° इति अख्या. । l) 'प्रकाशने' इति आन. । m) आत्म-म् इति सात. । n) 'वाध २, ९ । o) 'प्राणः' इति सात. । p) 'अन्नणः' इति अख्या. । q) तैआ ८, ४, १ । r) °रस्सु इति खि ३०, १५१, ३ ।

नास्तित्वसाधन°, निमित्त°,
नियम°, नियम°, पाद°, पूर्वहेतु°,
प्रत्यय°, प्रपञ्चत्वादि°, प्रमाण°,
प्रयोजन°, १बन्ध°, बाधक°,
बुद्धि°, भङ्गि...वासना°, १भाव°,
भेद°, मुक्तिहेतुत्व°, मूर्छानिद्रा...
स°, १मूल°, योग्यत्व°, लिङ्ग°,
वस्तु°, विचार°, विवाद°, विशेष-
विज्ञान°, वेद्य°, वैराग्य°, शब्दादि°
संयोग°, सद्भाव°, संदर्शन°,
समाधि°, संबन्ध°, सर्व°, १सर्व-
कर्मन्°, सर्वसंभव°, साधक°, सुख-
लाभ°, स्वस्वविषयसंप्रयोग°,
२हस्त°, १हेतु°

अभाव-मात्र- भावना°

अ-भावन- तद्°

अभि>अभि-तस(>:)>+अभितस-
सर- -रौ नी ३, ९.

+अभि/क्री>अभि-क्रयण- राजन्°

अभि/गच्छ, गम्, अभिगच्छन्ति
वृ ४, ४, ११९^६.

+अभि-गमन- तीर्थयात्रा°, दुहितृ-
स्तुषा°

+अभि-गम्यमान- अन्°

+अभि-गामिन्- ऋतुकाल°, गुरु-
दार°

अभि/घ्रा>जिघ्र, अभिजिघ्रामि कौ
२, ११^७.

अभि/चर>अभि-चार^{११}- परकृत°

+अभि/जुष>अभि-जुषाण-
आत्मन्°

अभि/ज्ञा>अभि-ज्ञ, ज्ञा- अज्ञ-
योग्यभेद°, आसनभेद°, केका°,
२जल°, २ताल°, नृत्यकला°,
पक्षि...न्ध°, १भाव°, भाषा°,
१भोग°, रतिकला°, रसकला°,

रसदातृभोग°, रसदान°, शृङ्गार-
यथायोग्यकाल°

अभि/घा, अभिधीयते गोपू १°.

अभि-घ, घा- असंसर्ग°, अहंकार°,
आत्मलाभोदय°, इत्यादिकृत°,
कलित°, कामकला°, १कुराडल°,
जालंधर°, जीव°, तत्पद°, १तुर्य°
तुर्यपद°, तुर्यातीतपद°, ३त्रिपुर°
त्वंपद°, बृहज्जाबाल°, १ब्रह्मन्°,
विश्वेश्वर°, विश्वोदर°, शाश्वता-
शाश्वत°, हस्तिजिह्वा°

अभि-धान- २चरण°, चारुतर°,
चित्तनाश°, १छन्दस्°, बुद्धी-
न्द्रिय°, शत°, श्रुतोपनिषत्कगति°,
सर्व°, सुखविशिष्ट°

+अभि-धेय- प्रकृति°, १ब्रह्मन्°

अभि-हित- -तम् मैत्रि ६, ३५^६.

अभि/धाव्(गतौ), अभिधावत कौ
१, ३°.

अभि/धै>ध्या>अभि-ध्यान-
तद्°, देवता°, पर°, वेदादि...
धर्म°

+अभि-ध्यायिन्- अन्°

अभि-नव- निरन्तर°

अभि-नि/घा>+अभिनि-हित-
अन्°

अभि-नि/पद्, अभिनिपद्यते कौ
२, १५^६.

अभि-नि/विश>अभिनि-वेश-
अभूत°, वितथ°

अभि-नि(स्)>ष्/पद्>+अभि-
निष्-पत्ति- परतन्त्र°

अ-भिन्न- -न्नम् पत्र २४. [°न्न-
अद्वितीय°, कारण°, ज्ञेय°,
तद्°, त्वद्°, प्रत्यच्°, भिन्न°,
१मनस्°, सुद्°, १सम°]

अभि-प्र/वृत्, अभिप्रवर्तेयाताम्
कौ २, १३^६.

अभि-प्रे[प्र/इ(गतौ)]>अभिप्रा-

(प्र-आ)य- १पुत्र°, ६स°

+अभि-प्रे(प्र/ई)र्>अभिप्रे(प्र-ई)-
रित- कर्मन्°

अभि/भाप्>+अभि-भाषण- हि-
तयथार्थ°

अभि/भू>अभि-भव- अधर्म°,
अन्°

अभिभवा(व-आ)श्रय-जनन-

मिथुन-वृत्ति- अन्योन्य°

अभि-भूत- अन्°, तमस्°

अभि/मन्>अभि-मत- परिवार°,
मद्°, यथा°, स्व°, स्वभाव°

अभि-मान- अध्यवसाय°, अध्या-
त्म°, अहंकार°, क्रोध°, क्षेत्र°,
गृह°, जीव°, ज्ञान°, तद्°, तमो-
मय°, देह°, धृत°, निर°, बाल्याद्यव-
स्था°, मद्°, महत्तत्त्व°, शरीर°,
संकल्प°, ६स°, स्वशरीर°

अभिमान-मय- अन्°

अभिमान-शून्य- -न्यम् मैत्रे १,
४, १४^६.

अभि-मानिन्- सुष्ठुप्ति°, स्थूलदेह°

अभि/मन्त्र(<मन्त्र-)>अभि-
मन्त्रण- भूमि°

अभि-मन्त्रित- आनुष्टुभ°

अभि-मुख- आदित्य°, उत्तर°,
२दक्षिण°, ६दक्षिणा°, नीड°,
पश्चिम°, पूर्व°, प्रपञ्च°, विमुक्ति°,
१सूर्य°

अभिमुख-ग(त>)ता- -ताम् कालि
४०१:३^६.

अभिमुख-तस(>:) कौ २,
१५९^६.

a) अपिग° इति मा ४०, ३; का ४०, १, ३ (गपू. पृ७८१ सस्थ. मा ४०, ३; इत्यत्र यनि. शोधः द्र.)।

b) अवजि° इति श्रान.। c) श्रान. श्रपा.। d) अपिहि° इति सात.। e) °वति इति बे.। f) °निष्पद्येत इति
श्रब्धा.। g) गपू. (पृ८०) सस्थ. यनि. शोधः द्र.। h) °र्तयाताम् इति श्रब्धा.। i) °न्यः इति श्रब्धा.।

j) °मुख्यता इति तान्त्रि. (गपू. पृ८१ सस्थ. यनि. शोधः द्र.)। k) °खाय इति शांआ ४, १५।

अभि/मृश, अभिमृशति कौ २,
११९^०.
+अभि-मर्शन- २कर^०
अभि-मृशमान- -नः मैत्रि १, २^b.
+अभि/म्लै>म्ला>अभि-म्लात-
अन्^०
अभि/गुज्>अभि-युक्त- १नित्य^०,
भक्तिश्रद्धा^०, २योग^०
अभि/रन्, अभिरक्षति अशिदि, ८^०.
+अभि-रक्षित- २भीम^०, भीष्म^०
अभि/रम्>अभि-राम- बर्हापीड^०,
योगपट्ट^०, १राम^०
+अभि-रूप- जटा^०
अभि/लप्>अभि-लाप- तदभा-
व^०, तद्धर्म^०, सर्व^०
अभि/लष्>अभि-लषित- १म-
नस्^०
अभि-लाष- अन्^०, १मनस्^०, ६स^०
अभि-लाषिन्- दारपुत्र^०
अभि/षद्>वादि>+अभि-
वादन- नमस्कार^०
१अभ्यु(भि-उ)दित- अन्^०
अभि/चन्द>अभि-चन्दन- २सं-
ध्या^०
अभि/वाञ्छ>+अभि-वाञ्छन-
अन्^०
+अभि-वाञ्छित- यथा^०
अभि-वि/सृज्, अभिविसृजते कौ
३, ४^{१९६}.
अभि/वृध्>+अभि-वर्धन-१अङ्ग^०
+अभि-वर्धित- पूर्ण^०
अभि/वृष्>+अभि-वर्षण- अमृत^०
अभि-व्य(वि/अ)ञ्ज्>अभिव्य-
(वि-अ)क- अन्^०
अभिव्य(वि-अ)क्ति- आनन्द^०,
तद्^०, नाद^०, निजधर्म^०, निज-

शक्ति^०
अभि/शंस्>+अभि-शंसिन्-
अनृत^०
अभि-शस्त- पतित^०
+अभि/शङ्क>अभि-शङ्कित-
अन्^०
अभि/षि(<सि)च्>ञ्च्>
अभि-षिक्त- योगपट्ट^०, राज्य^०
अभि-षेक- २जल^०, पट्ट^०, पूर्ण^०, लिङ्ग^०
+अभि-षेचन- स्नान^०
+अभि/ष्व(<स्व)ञ्ज्>अभि-
ष्वञ्ज- अन्^०
+अभि-सं/वृ(वरणे)>अभिसं-
वृति- परतन्त्र^०
अभि-सं/स्तु>अभिसं-स्त्य कौ
२, १४^{१९९}.
अभि-सं/धा>+अभिसं-(ध)-
धा- अनृत^०, १सत्य^०
+अभिसं-धान- अन्^०, १फल^०
अभिसं-धाय अन्^०
अभिसं-धि- प्रतिपत्ति^०
+अभि-सं/मा(माने)>अभिसं-
मित- कामकलाचातुर्य^०
+अभि/स्निह्>अभि-स्नेह- अन्^०
अभि/हन्>अभि-घात- दुःखत्रय^०
+अभि-घातिन्- १तय^०
अभि-हत- कालवात^०
अभि/ह्>+अभि-हार- २समान^०
अ-भीक, का- -कः बा १२^१; -काम्
त्रि १३^६.
+अ-भीति- १इष्ट^०, १शङ्क^०
अभी(भि/ई)र्>रि, अभ्यैरयन्त
मना १, ४^{९१}.
अभी(भि/इ)ष्(इच्छायाम्)>अभी-
(भि-इ)ष्ट- विगत^०, सर्व^०
अभीष्ट-फल- १काम^०, सर्व^०

अभोष्ट-सिद्धि- सर्व^०
अ-भूत- -तम् पा ४, ५.
अ-भेद- -दः पाशु २, २६. [०द-
अर्थ^०, आत्मन्^०, तद्^०, भेद^०,
वाच्यवाचकता^०, सर्व^०]
+अभेद-भाव(न)>ना- -ना भा
३३^१.
+अभेद-रूप- व्यक्ताव्यक्त^०द^०
अ-भोक्तु- भोक्तु^०
अभ्य(भि/अ)ञ्ज्>अभ्य(भि-अ)-
ञ्ज- क्षौर^०, दन्तधावन^०, पाद^०
+अभ्य(भि-अ)ञ्जन-क्षौर^०, ताम्बूल^०
+अभ्य(भि-अ)न्तर(>ः) बाह्य^०
अभ्य(भि-अ)न्तर- अन्तर^०, अर्ध-
मास^०, तद्^०, द्विमास^०, नासा^०,
निरतिश^०राशि^०, बाह्य^०, ब्रह्म-
तेजोराशि^०, मास^०, षण्मास^०,
स्वयं^०जाल^०
+अभ्यन्तर-प्रपञ्च- अण्ड^०
अभ्य(भि/अ)र्च्>+अभ्य(भि-अ)-
र्चन- बाह्यदेव^०
अभ्य(भि-अ)र्च्य अन्^०
अभ्य(भि/अ)र्ह्>अभ्य(भि-अ)-
र्हित- -तम् आबो १९^१.
अभ्य(भि/अ)स्(क्षेपणे), अभ्यसे गर्भ
४^६.
अभ्यस्यते अना २९^१.
अभ्य(भि-अ)सन- एकार्थ^०,
१मरुत्^०, स्वाध्याय^०
अभ्य(भि-अ)स्त- अनन्तजन्मन्^०,
चिर^०, जन्मजन्मन्^०, जन्मान्तर-
शत^०, १हठ^०
अभ्या(भि-अ)स- अधिकतर^०, अने-
कजन्मन्^०, अन्यशास्त्र^०, अम-
नस्क^०, एकतत्त्व^०, चिर^०, ज्ञान^०,
ज्ञाननिर्मथन^०, तत्त्व^०, तद्^०, दशा-

अ) ०शेत् इति आन., ०भिजिघ्रेत् इति शांआ ४, ११। b) ०मृश्यं इति सात.। c) ०क्षतु इति अश्या.।
d) ०सृज्यन्ते इति शांआ ५, ४^१। e) ०संभूय इति आन., शांआ ४, १४^१। f) ०के इति बे.। g) ०कान् इति अश्या.,
तान्त्रि.। h) ०अध्वै इति मा ३२, १० (तु. टि. परि. वैपश् यस्था.)। i) तान्त्रि. अपा.। j) ०स्वर्हितुम् इति ऋ ९,
११३, ७। k) ०सेत् इति आन., ०समाश्रये इति अश्या.। l) ०अभ्यसतः इति आन.।

चतुष्टय^०, १६६^०, ध्यान^०, ध्यान^{००},
 ध्याननिर्मथन^०, नानोपनिषद्^०,
 निज^०, २पवन^०, पूर्णिमा^०, पूर्व^०,
 पूर्वजन्मकृत^०, प्रथम^०, प्राण^०,
 भूमिकात्रितय^०, भूमिकापञ्चक^०,
 मन्त्र^०, यमाद्यासन...ठ^०,
 २योग^०, रस^०, विद्या^०,
 विधि...न्त्र^०, विरामप्रत्यय^०,
 २वेद^०, वेदान्त^०, वैराग्य^०, शास्त्र...
 कं^०, षण्मास^०, सकृत्^०, सदा^०,
 सर्वविद्या^०, सर्वोपनिषद्^०, सांख्य-
 शास्त्र^०, स्व^०
 अभ्यास-प्रयोग- तद्^०
 अभ्यास-योग- -गेन लु १४^०.
 [०ग- संतत^०]
 +अभ्यास-वत्- अन्^०
 ?अभ्यस्त्य २प्र ३४ : १४^०.
 अभ्या(भि/आ)प् > ईप् > +अभी-
 (भि-ई)प्सित- विद्या^०
 +अभी(भि-ई)प्सित- विद्या^०
 अभ्यु(भि/उ)ञ् > +अभ्यु(भि-उ)-
 क्षण- २जल^०
 अभ्युदि[भि-उद्/इ(गतौ)] > अभ्यु-
 द्-अय- सुख^०
 १अभ्युदित- अभि/वद् द्र.
 २अभ्युदित- गप्. पृ८६ द्र.
 अभ्यु(भि-उ)प/गम् > अभ्युप-
 गम- समवाय^०
 ?१अम->असा>अमा-वास्या^१-
 -स्या यो ३, २^०; -स्यायाम् कौ
 २, ३^०; गह १२^०.
 अ-मनस्क- अजाज्य^०, सदा^०
 अ-मर- -रः कृ २७. [०र- अखिल^०,
 अजर^०, अशेष^०, नर^{००}, ६स^०]
 +अमर-वर- ब्रह्मविष्णुपुरन्दरादि^०

अमर-विभूषि(त>)ता^१- -ता राप्
 ४, ५८.
 +अ-मर्ष- १काम^{००}, निन्दा^०, निन्दा^{००},
 हर्ष^०
 अ-मल- -लम् महा ६, ७५^१.
 +अमल-दर्शन- १त्रिकाल^०
 +अमल-रूप- १केवल^०
 +अमल-शान्त-वृत्ति- सकल^०
 अमल-संसार-स्वरूप(प>)पा- -पा
 महा ५, १०१.
 +अमला(ल-अ)त्म-दृश्- -दृक्
 महा ५, १६०.
 +अमला(ल-अ)म्भस्- ज्ञान^०
 +अ-मात्रा- मात्रा^०
 +अ-मायिक- मायिक^०
 +अ-मार्जन- तद्^०
 अ-मित- अखण्ड^०, अखण्डानन्द^०
 +अमित-तरङ्गिणी- -पथाः त्रिवि
 ६, १८^०.
 अमित-विक्रम- अनन्तवीर्य^०
 अ-मित्र- ४मित्र^०
 +अ-मीव- अन्^०
 अ-मुक्त- १मुक्त^०
 +अ-मुग्ध- मुग्ध^०
 अ-मूर्त- मूर्त^०
 अ-मृत^१- -तः मैत्रि ३, २^१; प्रा २,
 १^१; -तम् मना १, २^१;
 अशि ६, १७^१; सुबा ५^१.
 [०त- अखण्डानन्द^०, अखण्डै-
 करस^०, अति^०, अन्तर^०, अपार^०,
 आनन्द^०, २कुलाकुल^०, ज्ञान^०,
 तद्^०, दृष्टि^०, धर्म^०, धर्म्य^०, पञ्चन्^०,
 पर^०, परम^०, परमानन्द^०, परिपू-
 र्योच्चन्द्र^०, १ब्रह्मन्^०, १ब्रह्मानन्द^०,
 मस्तकस्थ^०, मुद^०, यज्ञशिष्ट^०,

यद्^०, विद्यानन्दमय^०, विराजा^{००},
 १विध^०, शक्ति^०, शक्तिसोम^०, १शि-
 व^०, शिवशक्ति^०, शुद्धज्ञान^०, शुद्धबो-
 धानन्दमय^०, ६स^०, संतोष^०, सु^०]
 +अमृत-कलश- अमृत^०
 +अमृत-कल्लोल- स्वात्मानन्दा-
 नुभव^०
 +अमृत-दृष्टि- विलसत्^०
 +अमृत-नदी- निरतिशयानन्दमय^०
 +अमृत-नाद^१- कठवल्ली^{००}
 +अमृत-निधि- निरञ्जनाव्यक्त^०
 +अमृत-पुष्प- ब्रह्मकल्पवन्^०
 +अमृतपुष्प-वृष्टि- संतत^०
 +अमृत-फल- अमृतवल्ली^०
 +अमृत-बिन्दु^१- कठवल्ली^{००}
 +अमृत-बीज-द्वय- प्रणव...त^०
 अमृत-भाग- विन्यस्त^०
 अमृत-मय- मिष्ट^०
 अमृत-रस- परमानन्द^०, १ब्रह्मा-
 नन्द^०, मिष्ट^०
 +अमृत-सार- २निरतिशयानन्द^०
 +अमृत-सागर- अत्याश्चर्य^०,
 २निरतिशयानन्द^०
 +अमृता(त-अ)ङ्करक- अन्तर^०
 +अमृता(त-अ)विध- निखिल...र्ण^०
 +अमृता(त-अ)मृत-कलश- दुग्धो-
 दधिमध्यस्थित^०
 अमृतो(त-उ)दक- यमुना^०
 अ-मृत्यु- -त्यवे कौ १, २. [०त्यु-
 १विश्व^०]
 अ-मेध्य- मेध्य^०, सुखदुःखालय^०
 अमेध्य-क- अमेध्य^०
 अ-मो(घ>)घा^१- -घा राप् ४, ५९.
 [०घा- विराजा^{००}]

a) 'अभ्यस्त्य यो' इति अज्या. । b) 'अभिसूय' इति गोत्रा १, १, २५ । c) 'स्याम्' इति अज्या. संदि. ।
 d) 'स्याम्' इति अज्या. । e) 'स्याम्' इति निसा. । f) पूष. =उकार-बीजाक्षर- । g) पा. 'मल-> -लैः' इति
 शोधः द्र. । h) अभितः तं इति निसा. । i) ब्रा. द्र. । j) 'आश्रितः' इति सात. । k) विश्वा' इति निसा. संदि. ।
 l) अपा. इति कृत्वा गप्. पृ८९८ नापेक्षितम् । m) तैआ १०, १, ३ (एतदनु गप्. पृ८९८ शोधः द्र.). । n) गप्. (पृ८९)
 सस्थ. यनि. शोधः द्र. । o) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । p) ब्रा. द्र. । इह =चकार-बीजाक्षर-, नाडीविशेष- ।

१अम्बक^क- त्रि^०
 अम्बर^ब- अमल^०, २आशा^०, कुम्भ^०,
 चर्मन्^०, १चित्^०, दिव्य^०, दिश^०,
 ३पीत^०, माल्य^०, रुक्म^०, विचि-
 त्र^०, विमल^०, वेष्टन^०, वैद्यत^०,
 व्याघ्रचर्मन्^०, ६स^०, २सित^०,
 १हृद्^०
 †अम्बरीष^०- सुद्युन्न^{००}
 अम्बा- जगत्^०, ३त्रिपुरा^०, १ब्रह्म-
 न्^{००}, २भ्रमर^०, राजश्यामला^०,
 श्रीराजश्यामला^०, ६स^०
 अम्बिका- औपल^०
 १अम्बु- आमघट^०, ग्रास^०, २दुग्ध^०,
 पञ्चलोटस्^०, पयस्^०, वाप्प^०,
 महाकल्प^०, मृगतृष्णा^०, १लवण^०,
 २वासना^०
 †अम्बु-कण- पल्लव...लम्ब^०
 अम्बु-ज^०- पाद^०, मुख^०, युग्म^०,
 ३रक्त^०, वदन^०, व्योमन्^०,
 सौवर्ण^०, २हस्त^०, हेमन्^०
 अम्बु-धि- आनन्द^०, दुःख^०
 †अम्बु-निधि- संसार^०
 अम्बु-मण्डल-भूषित^०- -तम् यो
 २, १७.
 †अम्बु-राशि- ज्ञानामृत^०
 अम्बु-रुह^०- हृदय^०
 अम्भस्^१- ऋभः राप् ४, ६३^०.
 [०स्- अकृत^०, अमल^०, कुसुम^०,
 २दधि^०, भूमि^०, सागर^०]
 †अम्भो-ज^०- मुख^०, वदन^०,
 स्वान्त^०, हृदय^०
 †अम्भो-घर- १काल^०
 अम्भो-धि- अखण्डसुख^०
 †अम्भो-निधि- ब्रह्मानन्दामृतसर^०
 †अम्भो-रुह^०- पाद^०, हृदय^०

†अम्भोरुह-गर्भ-भू^१- १शिव^{००}
 अम्ल- कटु^०, मधुर^०
 ✓अय् प(रा>)ला^०, वि^०
 †अय^१- अतु^०, अभ्युद्^०, अव^०,
 अस्तम्^०, उद्^०, उप^०, कृत^०, प्रति^०,
 प्रत्यव^०, विपरि^०, सम्^०, समनु^०,
 समव^०, समुद्^०, संपरा^०, २सह^०
 अयत्- अभ्युद्^०, उद्^०
 अयन्ती- -न्तीम् पा ९, ६.
 १अयन^१- १अनाशक^०, अरण्य^०,
 उत्तर^०, उदचू^०, उप^०, ऋतु^०,
 एक^०, चन्द्र^०, ज्योतिषाम्^०, २दक्षि-
 ण^०, पक्ष^{००}, पर^०, पार^०, १पुरुष^०,
 प्र^०, प्रत्या^०, ब्रह्मामृतसर^०, १बा-
 ह्यण^०, माध्यंदिन^०, रस^०, १राम^०,
 विधुव^०, संकल्पक^०, सत्र^०, समुद्^०
 †अयमान- वि^०
 अयस^१->अयः-पिण्ड- तप्त^०
 †अयस- १कृष्ण^०
 †अयस-कार^{१०}- अग्नि^०
 †अयित- प(रा>)ला^०
 †१आय- अन्तर्^०, अभिप्र^०, परि^०
 †आयिन्- आतत^०
 अ-यज्ञोपवीतिन्- -ती या २, १^१.
 १अयन^१- ✓अय् द्र.
 २अयन- ✓इ(अध्ययने) द्र.
 अ-याचित- याचित^०
 अ-युत्^१- अब्द^०, अयुत^०, अष्टन्^०,
 ३कल्प^०, कल्पकोटि^०, द्वि^०,
 १सूर्य^०, स्वर्णस्तेयसु...प^०
 †अयुत-कोटि- प्रणव^०
 †अयुत-फण- ३शेष^०
 अ-योग- उत्तर^०, उपादान^०, एककाल^०,
 जडप्रकाश^०, तद्^०, बन्ध^०
 अ-योग्य- योग्य^०

✓*अर् आ^०, पर्या^०, प्र^०
 *१अर्->अरम् मना २, ६३^१.
 †१अरण^क- पर्या^०
 †अर्त- आ^०
 †अर्ति- आ^०
 २अर्- अयुत^०, अष्टन्^०, १चक्र^०, चतुर्^०,
 चतुर्दशन्^०, ज्वलत्^०, तदन्तर^०,
 त्रिंशत्^०, १दक्षिण^०, दशन्^०,
 २द्वात्रिंश^०, द्वात्रिंशत्^०, द्वादशन्^०,
 पञ्चन्^०, प्रति^०, शत^०, शतार्थ^०,
 १शृङ्ग^०, षट्शत^०, षष्^०, षष्टि^०,
 षोडशन्^०, सहस्र^०
 †अर्(-क)- द्वादशन्^०
 †अर्-युग्म- अनन्तर^०
 *२अरण->अरण्य- नैमिष^०,
 ३वृन्दा^०, वन^०, सिद्ध^०
 आरण्य- ग्राम्य^०, १वृहत्^०
 आरण्य-क- १वृहत्^०
 अरणि^१- -णिम् ध्या १८^१; -णी वृ ६,
 ४, २२^१. [०णि- उत्तर^०]
 अरमा^१- -मा सुबा ११^१.
 †अरचिन्द^१- २चरण^०
 अरि^१- इन्द्रिय^०, गदा^०, २भव^०, ४मित्र^०
 सुर^०, सुहृद्^{००}, २स्मर^०
 †अरिपु^१- -पुः १संन्या २, ३७.
 अ-रिष्ट^१- पदन्यास^०, योगिनीकालाश-
 निकृत^०, १शङ्ख^०, समस्त^०
 †आरिष्ट- पलाशाङ्कुरज^०
 अरुण^१- कुङ्कुम^०, १वृक्^०
 †आरुणि^१- केन^{००}, २संवर्तक^०
 अ-रोग->आरोग्य- अन्^०, आयुस्^{००},
 १बल^०
 अर्गल^१- अन्^०, कफादि^०, १ब्रह्मन्^०,
 ६स^०
 ✓*अर्घ>अर्घ- महत्^०, सम्^०

a) =नेत्र- (तु. अभा.) । b) बप्रा. द्र. । इह =व्योमन्-, २वासस्- । c) पूष. =अनुस्वार- ।
 d) बप्रा. द्र. । इह =२जल-, वकारबीजाक्षर- । e) ०अभः इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. ज्ञान., अज्या.) ।
 f) भावे कर्तरि वा कृत् । g) बप्रा. द्र. । h) यज्ञो इति निसा. । i) गपू. (पृ९२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । j) तु. गपू.
 पृ२६९; j) k) कर्तरि कृत् । l) आन. अपा. । m) ऋ १०, १८४, ३ । n) व्यु. ? =नाडीविशेष- । o) गपू. (पृ९३)
 यनि. शोधः द्र. । p) व्यु. ? =१कमल- । q) तस. । r) व्यु. ? ।

अर्घ्य- अष्टदिक्पालक°, पाद्य°, महत्°
 ✓अर्च् अभि°, सम°, समभि°
 अर्क- अनल°, चन्द्र°, तरुण°, दिशु°, द्वादशन्°, निशाकर°, नौहार°, १वाल°, मध्याह्°, १मित्र°, १रुद्र°, संसारदुःख°, समुद्यत्°, १सोम°, हस°
 +अर्चक- स्वात्मलिङ्ग°
 अर्चन- ईश°, ३कुमारी°, जप°, १देव°, देवता°, पीठाध°+पार्श्व°, पुरायलिङ्ग°, बाह्य°, बाह्यदेव°, ब्रह्मानन्दशिव°, भैरव°, मद्°, मध्यपद्म°, मानस°, विश्वेश्वर°, वैकुण्ठ°, शिवलिङ्ग°, सौभाग्य°, स्वहृदय°
 +अर्चन-विधान- गृह°
 +अर्चस्- शत°
 अर्च(वे)र्चा- स्व°
 +अर्चा-पूजा- भगवद्द्विप्रह°
 अर्चित- अभि°, बिल्वपत्र°, वाम-पाद°, स्वहस्त°
 अर्चिस- अग्नि°, अञ्ज°, उद्°, धूम°, १विश्व°, सप्तम्°
 +अर्च्य अभि°, समभि°
 +अर्च्यमान- अभि°
 ✓अर्ज अन्वव°, उप°
 +अर्जन- उप°
 +अर्जित- अनेकजन्मन्°, उप°, कर्मन्°, कल्पकोटिशत°, कोटि-जन्मन्°, जन्मकोटि°, जन्मशत°, जन्मान्तर°, तत्कर्मन्°, १न्याय°, पूर्व°, पूर्वजन्मन्°, प्रारब्ध°, सप्तजन्मन्°
 अर्जुन- कार्तवीर्य°, केशव°, २भीम°
 अर्ण- अर्क°, अष्टन्°, अष्टादशन्°, १आदि°, एक°, १क°, त्रयोदश-न्°, दशन्°, द्वादशन्°, द्वि°, नवन्°, पञ्चदशन्°, पञ्चन्°, प्रथ-म°, मन्त्र°, मन्त्रराज°, वरुणाङ्क-गुण°, वसु°, शब्द°, षष्°, सहस्र°
 +अर्ण(-क)- २एकविंश°, नवन्°, २विंश°
 +अर्ण-द्वय- सार्थक°
 अर्णव- उद°, ३कल्प°, १चित्°, चिन्मय°, २भव°, महत्°, मोह°, संसार°
 ✓अर्थ>र्थि प्र°, प्रति°, सम्°, संप्र°
 अर्थ- अखण्ड°, अति°, अन्°, अन-न्तोपनिषद्°, अनु°, अनुकम्पा°, अनुग्रह°, अज्ञ°, अज्ञवत्°, अन्य° प्रभृ.
 +अर्थ(-क)- अन्°, अप°, निर्°, ६स°
 +अर्थ-जाल- समस्त°
 अर्थ-वत्->अर्थवत्-त्व-ग्रहण°, शास्त्र°, स्थूल°
 अर्थिन्- प्रति°
 +१अर्थन- प्र°
 +२अर्थ(न>)ना- प्र°
 +अर्थयित्वा प्र°
 +अर्थित- प्र°, संप्र°
 +अर्थ्य प्र°
 +अर्थ्यमान- प्र°, संप्र°
 +✓अर्द>अर्दन- १जन°
 अर्दि(न्>)नी- चण्डमुराड°
 ✓*अर्ध>र्धि अधि°, सम्°
 अर्ध- अकार°, अधि°, अन्त°, अर्ध°, २आद्य°, उत्तर°, कदली°, ३कल्प°, कुङ्कुम°, क्षण°, चन्द्र°, जघन°, तद्°, तदर्थ°, निमिष°, पयस्°, पर°, पूर्व°, प्रासाद°, १फल°, ब्रह्माण्ड°, भाग°, मकार°, यष्टि°, लक्ष°, वंशज°, वाच्य°, १शङ्ख°, शत°, १शृङ्ग°, श्रविष्ठा°, षण्मास°, ६स°, १सोम°, स्थण्डिल°, २हस्त°
 अर्ध-चन्द्र-विभूषित- -तम् रार २, १.
 +अर्ध-च्छिन्न- १मूल°
 +अर्ध-देह- उमा°
 +अर्ध-फल- शमी°
 +अर्ध-भाग- स्व°
 +अर्ध-मात्रा- अकार°
 अर्ध-मास->अर्धमासिक->अर्धमासिक-ज्वर- - अति-भयंकरज्वर°
 +अर्ध-शरीर- महालक्ष्म्यालि-ङ्गित°
 +अर्धा(र्ध-अ)र्ध(र्ध-अ)र्च्-श्रीसूक्तगत°
 +*अर्धिक- गणू. पृ १३४d. d.
 +अर्ध(र्ध-इ)न्दु- दीर्घ°
 +अर्धयित्- सम्°
 ✓*अर्ष>र्षि सम्°
 अर्षण- अङ्गचेष्टा°, चेतस्°, मद्°
 +अर्षयत्- सम्°
 अर्षित- अन्°, निर्गुणब्रह्मन्°, मद्°, लिपिकर्मन्°, सम्°
 +अर्षिन्- सकलीकरणाङ्गुष्ठहृदय°
 +अर्ष्य सम्°
 ✓अर्ष्य>अर्ष्य- कद्°
 अर्ष्य-मन्- -मा तै १, १, १°. [°न्-धातु°]
 *अर्वा>अर्वा(र्वा-अ)र्च्- उदच्°
 ✓अर्ह अति°, अभि°
 अर्ह- कर्मन्°, तद्°, पूजा°, ब्रह्मध्यान°, १ब्रह्मन्°, राज्य°, संन्यास°, १सर्वकर्मन्°
 +अर्हित- अभि°
 ✓अल्>अल्->अलम्>अलं/हु°
 +अलं-करण- दिव्य°, वक्ष°
 अलं-कार- नाना°, ३पीत°, १ब्रह्म-न्°, २मुक्ता°, रक्तवस्त्र°, वस्त्र°, अ) बप्रा. द्र. । b) व्यु. ? = १वर्ण- । c) =समुद्र- । d) पूष. =बिन्दु- (=मकारबीज-) । e) गणू. (पृ ९७) यनि. अनपेक्षितं द्र. ।

नवन्°, पञ्चदशन्°, पञ्चन्°, प्रथ-म°, मन्त्र°, मन्त्रराज°, वरुणाङ्क-गुण°, वसु°, शब्द°, षष्°, सहस्र°
 +अर्ण(-क)- २एकविंश°, नवन्°, २विंश°
 +अर्ण-द्वय- सार्थक°
 अर्णव- उद°, ३कल्प°, १चित्°, चिन्मय°, २भव°, महत्°, मोह°, संसार°
 ✓अर्थ>र्थि प्र°, प्रति°, सम्°, संप्र°
 अर्थ- अखण्ड°, अति°, अन्°, अन-न्तोपनिषद्°, अनु°, अनुकम्पा°, अनुग्रह°, अज्ञ°, अज्ञवत्°, अन्य° प्रभृ.
 +अर्थ(-क)- अन्°, अप°, निर्°, ६स°
 +अर्थ-जाल- समस्त°
 अर्थ-वत्->अर्थवत्-त्व-ग्रहण°, शास्त्र°, स्थूल°
 अर्थिन्- प्रति°
 +१अर्थन- प्र°
 +२अर्थ(न>)ना- प्र°
 +अर्थयित्वा प्र°
 +अर्थित- प्र°, संप्र°
 +अर्थ्य प्र°
 +अर्थ्यमान- प्र°, संप्र°
 +✓अर्द>अर्दन- १जन°
 अर्दि(न्>)नी- चण्डमुराड°
 ✓*अर्ध>र्धि अधि°, सम्°
 अर्ध- अकार°, अधि°, अन्त°, अर्ध°, २आद्य°, उत्तर°, कदली°, ३कल्प°, कुङ्कुम°, क्षण°, चन्द्र°, जघन°, तद्°, तदर्थ°, निमिष°, पयस्°, पर°, पूर्व°, प्रासाद°, १फल°, ब्रह्माण्ड°, भाग°, मकार°, यष्टि°, लक्ष°, वंशज°, वाच्य°, १शङ्ख°, शत°, १शृङ्ग°, श्रविष्ठा°, षण्मास°, ६स°, १सोम°, स्थण्डिल°, २हस्त°
 अर्ध-चन्द्र-विभूषित- -तम् रार २, १.
 +अर्ध-च्छिन्न- १मूल°
 +अर्ध-देह- उमा°
 +अर्ध-फल- शमी°
 +अर्ध-भाग- स्व°
 +अर्ध-मात्रा- अकार°
 अर्ध-मास->अर्धमासिक->अर्धमासिक-ज्वर- - अति-भयंकरज्वर°
 +अर्ध-शरीर- महालक्ष्म्यालि-ङ्गित°
 +अर्धा(र्ध-अ)र्ध(र्ध-अ)र्च्-श्रीसूक्तगत°
 +*अर्धिक- गणू. पृ १३४d. d.
 +अर्ध(र्ध-इ)न्दु- दीर्घ°
 +अर्धयित्- सम्°
 ✓*अर्ष>र्षि सम्°
 अर्षण- अङ्गचेष्टा°, चेतस्°, मद्°
 +अर्षयत्- सम्°
 अर्षित- अन्°, निर्गुणब्रह्मन्°, मद्°, लिपिकर्मन्°, सम्°
 +अर्षिन्- सकलीकरणाङ्गुष्ठहृदय°
 +अर्ष्य सम्°
 ✓अर्ष्य>अर्ष्य- कद्°
 अर्ष्य-मन्- -मा तै १, १, १°. [°न्-धातु°]
 *अर्वा>अर्वा(र्वा-अ)र्च्- उदच्°
 ✓अर्ह अति°, अभि°
 अर्ह- कर्मन्°, तद्°, पूजा°, ब्रह्मध्यान°, १ब्रह्मन्°, राज्य°, संन्यास°, १सर्वकर्मन्°
 +अर्हित- अभि°
 ✓अल्>अल्->अलम्>अलं/हु°
 +अलं-करण- दिव्य°, वक्ष°
 अलं-कार- नाना°, ३पीत°, १ब्रह्म-न्°, २मुक्ता°, रक्तवस्त्र°, वस्त्र°, अ) बप्रा. द्र. । b) व्यु. ? = १वर्ण- । c) =समुद्र- । d) पूष. =बिन्दु- (=मकारबीज-) । e) गणू. (पृ ९७) यनि. अनपेक्षितं द्र. ।

नवन्°, पञ्चदशन्°, पञ्चन्°, प्रथ-म°, मन्त्र°, मन्त्रराज°, वरुणाङ्क-गुण°, वसु°, शब्द°, षष्°, सहस्र°
 +अर्ण(-क)- २एकविंश°, नवन्°, २विंश°
 +अर्ण-द्वय- सार्थक°
 अर्णव- उद°, ३कल्प°, १चित्°, चिन्मय°, २भव°, महत्°, मोह°, संसार°
 ✓अर्थ>र्थि प्र°, प्रति°, सम्°, संप्र°
 अर्थ- अखण्ड°, अति°, अन्°, अन-न्तोपनिषद्°, अनु°, अनुकम्पा°, अनुग्रह°, अज्ञ°, अज्ञवत्°, अन्य° प्रभृ.
 +अर्थ(-क)- अन्°, अप°, निर्°, ६स°
 +अर्थ-जाल- समस्त°
 अर्थ-वत्->अर्थवत्-त्व-ग्रहण°, शास्त्र°, स्थूल°
 अर्थिन्- प्रति°
 +१अर्थन- प्र°
 +२अर्थ(न>)ना- प्र°
 +अर्थयित्वा प्र°
 +अर्थित- प्र°, संप्र°
 +अर्थ्य प्र°
 +अर्थ्यमान- प्र°, संप्र°
 +✓अर्द>अर्दन- १जन°
 अर्दि(न्>)नी- चण्डमुराड°
 ✓*अर्ध>र्धि अधि°, सम्°
 अर्ध- अकार°, अधि°, अन्त°, अर्ध°, २आद्य°, उत्तर°, कदली°, ३कल्प°, कुङ्कुम°, क्षण°, चन्द्र°, जघन°, तद्°, तदर्थ°, निमिष°, पयस्°, पर°, पूर्व°, प्रासाद°, १फल°, ब्रह्माण्ड°, भाग°, मकार°, यष्टि°, लक्ष°, वंशज°, वाच्य°, १शङ्ख°, शत°, १शृङ्ग°, श्रविष्ठा°, षण्मास°, ६स°, १सोम°, स्थण्डिल°, २हस्त°
 अर्ध-चन्द्र-विभूषित- -तम् रार २, १.
 +अर्ध-च्छिन्न- १मूल°
 +अर्ध-देह- उमा°
 +अर्ध-फल- शमी°
 +अर्ध-भाग- स्व°
 +अर्ध-मात्रा- अकार°
 अर्ध-मास->अर्धमासिक->अर्धमासिक-ज्वर- - अति-भयंकरज्वर°
 +अर्ध-शरीर- महालक्ष्म्यालि-ङ्गित°
 +अर्धा(र्ध-अ)र्ध(र्ध-अ)र्च्-श्रीसूक्तगत°
 +*अर्धिक- गणू. पृ १३४d. d.
 +अर्ध(र्ध-इ)न्दु- दीर्घ°
 +अर्धयित्- सम्°
 ✓*अर्ष>र्षि सम्°
 अर्षण- अङ्गचेष्टा°, चेतस्°, मद्°
 +अर्षयत्- सम्°
 अर्षित- अन्°, निर्गुणब्रह्मन्°, मद्°, लिपिकर्मन्°, सम्°
 +अर्षिन्- सकलीकरणाङ्गुष्ठहृदय°
 +अर्ष्य सम्°
 ✓अर्ष्य>अर्ष्य- कद्°
 अर्ष्य-मन्- -मा तै १, १, १°. [°न्-धातु°]
 *अर्वा>अर्वा(र्वा-अ)र्च्- उदच्°
 ✓अर्ह अति°, अभि°
 अर्ह- कर्मन्°, तद्°, पूजा°, ब्रह्मध्यान°, १ब्रह्मन्°, राज्य°, संन्यास°, १सर्वकर्मन्°
 +अर्हित- अभि°
 ✓अल्>अल्->अलम्>अलं/हु°
 +अलं-करण- दिव्य°, वक्ष°
 अलं-कार- नाना°, ३पीत°, १ब्रह्म-न्°, २मुक्ता°, रक्तवस्त्र°, वस्त्र°, अ) बप्रा. द्र. । b) व्यु. ? = १वर्ण- । c) =समुद्र- । d) पूष. =बिन्दु- (=मकारबीज-) । e) गणू. (पृ ९७) यनि. अनपेक्षितं द्र. ।

शव°, सर्व°, स्त्री°
 अलंकार(र-आ)द्य- माल्य°°
 अलं-कृत- अलंकार...रण°, कन-
 क...मुक्ता°, चैतन्यशक्ति°,
 मौक्तिकाद्याभरण°, यामिनीनाथ-
 लेखा°, वज्रतुण्डवज्रपक्ष°, वज्र-
 पक्ष°, सर्व°, साधु°, सीता°, सुख°
 अ-लक्ष्मी- क्षमीम् मना २, ६६!§°.
 अ-लक्ष्य- लक्ष्य°
 अ-लज्जा- १काम°°
 अ-लब्ध->+अलब्ध-भूमिक->अ-
 लब्धभूमिक-त्व- व्याधि°°
 अ-लस- निद्रा°
 आलस्य- १लुध्°°, निद्रा°, प्रमाद°,
 रतिभररस°, व्याधि°°
 अलावु- मृद°°, १वंश°
 +अलाव्वा(वु-आ)दि-पात्र- उक्त°
 अ-लाभ- लाभ°
 अ-लिङ्ग- ङ्गः नाप ४, ३५. [°ङ्ग-
 विशेष°°]
 अ-लोक- लोक°
 √*अल्प>अल्प- अति°, अन्°, सु°
 √अव्(रक्षणे), अवतु १प्र ३० : १.
 अवनि- वन°
 अवित्- मनआदि°
 ओम->√ओम्>ओम्->
 ओम् अशि ७०°.
 ओं/कू>१ओं-कार°-आद्यन्त-
 निहित°, चतुर्मात्रात्मक°, तुरीय°,
 त्रेतापन्यास्माकृतिवर्ण°, त्रयायुष°,
 प्रणव°, प्राण°, ६स°
 ओं-कृत- अन्°
 √अब्(हिंसायाम्) गप्, पृ२११b द्र.
 अव/काश्>अव-काश- अन्°,
 प्रमाणन्तर°, वृत्त°
 अव/कुण्द>+अव-कुण्ठ- अमृत°
 +अव-कुण्ठन- अस्मद्°

अव/कू>किर>अव-कीर्ण- मेदो-
 मांसहृद°, सप्तद्वार°
 अव/क्षि(क्षये)>+अव-क्षयण-
 अङ्गार°
 अव/गम्>+अव-गति- तद्°
 +अव-गम- प्रत्यक्ष°, १फल°
 +अव-गम्य- स्व°
 अव/गाह्>+अव-गाहिन्- १एक-
 भाव°
 +अवच^१- उच°
 अ-वचन- ज्ञेयत्व°, हेयत्व°
 +अव/च्छिद्>अव-च्छिन्न- अन्°,
 एकभिन्न°, २पवन°, प्रकृति°
 अव-च्छेद- अन्°
 अवट->अवट-कृत्- कृत् मैत्रि ६,
 २८°.
 +अव/तंसु>अव-तंस^१- २वेद°
 अवतंस(क)- १सोम°
 अव/तू>+अव-तरण- २जल°
 अव-तार- ईश्वर°, एकादशरुद°,
 कला°, कल्कि°, १कूर्म°, २कृष्ण°,
 दशन्°, नारायण°, वृत्सिंह°, परशु-
 राम°, २बुद्ध°, मत्स्यकूर्मादि°,
 रङ्ग°, रामकृष्णादि°, वराह°,
 २वामन°, वीरभद्र°
 अ-वद्य,द्या- अन्°, निर्°
 अव/धा>+अव-धान- ६स°
 अव-धि- -धिः इ ११:१६. [°धि-
 अङ्गुष्ठ°, कण्ठविल°, कर्णविल°,
 तद्°, दक्षनासापुट°, निर्°, परम°,
 पादाङ्गुष्ठ°, ब्रह्मविल°, भ्रूमध्य°,
 मास°, मेढ्रान्त°, मोचन°, वामना-
 सापुट°, शाखा°, ३श्रवण°, षणमा-
 स°, सम्यङ्नादलय°, सर्वचिन्ता°,
 सर्वसमृद्धयानन्द°, सव्येतरश्रुति°,
 सहस्र°, हृत्पद्म°, हृदय°]
 अव-हित- -तः कौ ४, १९!°.

अव/धू>अव-धूत- कठवल्ली°°,
 कुटीचक°°, तुरीयातीत°, परम-
 हंस°°
 अव/धृ>धारि>१अव-धारण-
 अन्°
 २अव-धार(ण)णा- संकल्प°°
 +अव-धृति- तद्वस्था°
 +अव/नम्>अव-नत- प्रश्रय°
 अव/नह्>अव-नह- चर्मन्°
 अव/वन्धु>अव-बद्ध- १अङ्ग°,
 इन्दुखण्ड°
 अव/बुध्>अव-बोध- तत्त्व°, स्वप्न°
 +अव/ब्रू>अव-ब्रव- अन्°
 +अव/भक्ष्>अव-भक्षण- सर्व°
 अव/भास्>+अव-भास- अना-
 द्यन्त°
 अव-भासक- २कृष्ण°, २घट°,
 चित्तवृत्ति°, तत्पदार्थ°, देह°
 +अव-भासित- परोक्ष°
 अव/मन्>२अव-मान- १मान°,
 शीत°°
 अव/यु(मिश्रणे)>अव-यव- अ-
 नन्त°, अमृत°, अयुत°, निर्°,
 पञ्चन्°, विकार°, शत°, ६स°,
 समग्र°, समस्त°, सर्व°, सहस्र°,
 सहस्रकला°, सूक्ष्म°, स्व°, स्वदेह°
 अवर- पर°
 +अवर-गल-शूल^१- शिरःशूल°°
 +अव/रम्>अव-रत- अन्°
 अव/रुध्>+अव-रुध्य अन्°
 अव-रोध- तृतीयशब्द°, सम्यग्ज्ञान°
 +अव-रोधन- एकधन°
 अव/रुह्>+अव-रोह- आरोह°
 +अ-वर्ज्य- वर्ज्य°
 +१अ-वर्ण^१- ऋषि°°
 २अ-वर्ण^१- गप्, पृ१०३ द्र.
 +अ-वर्तिन्- विकार°

ब) गप्, (पृ१८) सस्थ. °क्ष्मीः इति पा.१ यनि. शोषः द्र. (तु. तैश्चात्रा १०, ६६)। b) अज्याः शै. अपा.।
 c) गप्, (पृ१००) यनि. संख्याननिर्देशः द्र.। d) व्यु.१। e) °वदृक् इति सप्त.। f) =भूषण-। g) 'हित->-तः' इति
 निसा.१ यनि. शोषः (तु. 'उपहितः' इति शांशा ६, १९; सधु. आन.)। h) उप. =१वर्ण-। i) उप. =३वर्ण-।

अव/लम्बु>अव-लम्ब- परिग्रह°
 +अव-लम्बन- अस्मत्प्रत्यय°
 +अव-लम्बित- प्रफुल्लित...त्°
 +अव-लम्बित्- २चैत्य°, निरति-
 शयाकार°, राजदन्त°
 अव/लोक>कि>अव-लोक-
 आत्मन्°, १ब्रह्मन्°, २लीला°
 +अव-लोकन- आत्मन्°, द्वादशा-
 दित्य°, परिणाम°, १ब्रह्मन्°,
 ब्रह्ममात्र°, लक्ष्यत्रय°, सच्चि-
 दात्मन्°
 अव-लोकयत्- अन्°
 +अव-लोकित्- नासाग्र°, युगमात्रा°
 +अव-शिरस्क- अर्ध°
 अव/शिष्>अव-शिष्ट- देहमात्र°,
 विद्याध्वस्तप्रपञ्चावगाहितज्ञान°,
 विशिष्टदेह°
 +अव-शेष- सत्त्व°, १खस्वरूप°
 +अव-शेषक- आत्मन्°, चतुर्थांश°,
 स्वात्ममात्र°
 अव/ष्ट(<स्त)म्भु>अव-ष्टम्भन-
 बाह्य°
 अव/सद्>+अव-सन्न- सलिल°
 अव/सु>अव-सर- प्रति°, वार्ता°
 अव/सो>सा>अव-सान-
 १आदि°, २आद्य°, १चित्°,
 तद्°, त्रिकूट°, देह°, पूर्व°, सर्व°
 +अव-सित- तुरीय°, संप्रति°
 अव/स्था>१अव-स्थ- १स्वरूप°
 २अव-स्थ>स्था- अन्°, अन्य°,
 १उन्मनी°, एक°, कुम्भक°,
 १घट°, चतुर्°, जरा°, २जाग्रत्°,
 जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति°, जाग्रत्स्वप्न-
 सुषुप्तिपुरीय°, जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति-
 मूर्छा°, जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्छा-
 मरणादि°, जीवत्°, जीवात्म...
 क्य°, जूयां°, तद्°, तुरीय°,
 तुरीयातीत°, तुरीयातीतपद°

१तुयं°, धर्म°, ध्यान°, नव°,
 निद्रा°, निर्गुण°, पञ्चन्°, परिचय°,
 प्रलय°, बहुभय°, बाल्य°, बा-
 ल्यादि°, १भोग°, मथन°, मनो-
 न्मनी°, मरण°, यौवन°, रासादि-
 लीलाध्यान°, षष्°, १सम°,
 समता°, सर्व°, सहज°, साक्षिन्°,
 साम्य°, सुषुप्ति°, स्वप्न°
 अवस्था-त्रय- पूर्व°
 अव-स्थान- अन्°, ऋषिच्छन्दो...
 र्ण°, दृक्स्वरूप°, स्वप्न°
 अव-स्थित- -तम् अशि ४^५. [°त-
 अन्°, ज्ञान°, यथा°]
 अव-स्थिति- अन्°, अन्य°,
 प्रारब्ध°, स्वरूप°
 अवा(व/अ)च्>अवा(व-अ)च्->
 अवाक्>अवाङ्-मुख- प्रपञ्च°
 अवा(व/आ)प्>अवा(व-आ)स-
 अन्°
 +अवा(व-आ)सि- नित्यानन्द°
 +अवार^b- पार°
 २अवि^c- अज°
 आविक- -कम् वृ २, ३, ६. [°क-
 अन्°]
 अ-विकल्प- ओत°°
 अ-विचार- तत्त्व°
 अ-विज्ञान- १विज्ञान°
 अ-विदित- विदित°
 अ-विद्या^d- अनादि°, अनादिमूल°,
 अन्तःक्षीण°, क्षण...ल°, क्षीण°,
 त्यक्त°, धर्म°, महामूल°, माया°,
 १मूल°, विद्या°, समस्त°, स्व°
 +अविद्या-कला- गोपीजन°
 +अविद्या(द्या-अ)ण्ड- समस्त°
 +अविद्या-तमो-मोह- निरस्त°
 +अविद्या-तमो-मोहा(ह-अ)हंकार-
 प्रधान- निरस्त°
 +अविद्या(द्या-आ)दि-वर्षमन्-

सदात्मकत्वविज्ञानदग्ध°
 +अविद्यो(द्या-उ)पाधि- समस्त°
 अ-विभाग- कर्मन्°
 +अ-विभेद्- आत्मन्°
 +अ-विरति- व्याधि°°
 अ-विरुद्ध- धर्म°, २वेद°
 अ-विरोध- उभय°
 १अ-विवेक- अन्य°, प्रधान°
 अ-विवेकिन- -किनः महा ३, १५.
 अ-विशिष्ट- दृश°
 अ-विशेष- चोदनादि°, प्रलय°, मनो-
 लय°, विशेष°, साध्यत्व°
 १अ-विषय- अकर्तु°
 +अ-विष्टम्भन- उच्छ्वास°
 +अ-विहित- विहित°
 अवे(व/ई)च्>+अवे(व-ई)क्षण-
 सम्यक्°
 अवे(व-ई)क्षमाण- अन्°
 +अवे(व-ई)क्षयमाण- अन्°
 अ-वैयर्थ्य- विहितप्रतिषिद्ध°
 +अ-वैराग्य- धर्म°°
 अ-व्यक्त- केन°, निरञ्जन°, मूल-
 कारण°, व्यक्त°
 +अ-व्यतिरिक्त- स्व°
 अ-व्यपदेश्य- शान्तोदित°
 अ-व्यभिचार- प्रकाश°
 अ-व्यय- -यम् श्वे ६, १०°.
 अ-व्ययमान- -नः मैत्रि २, २^d.
 +अ-व्यवहार- व्यवहार°
 अ-व्याकृत- कारण°, स्वाप°
 +अ-व्यावृत्ति- तत्परान्°
 अ-व्याहृत- -तम् मैत्रि ६, ६°.
 अशु(व्याप्तौ) अभि°, परि°, वि°,
 सम्°
 अशनि- योगिनी°°
 +अशुवत्- अन्°
 अशुवान- वि°
 अश्मन्- १पुरुष°, लोष्ट°

a) अन्त्याः शै. अफा. । b) व्यु. ? । c) अप्य° इति आन. (तु. शं.). । d) अभ्यथ° इति मै २, २; सात. ।
 e) न्या° इति सात. ।

अश्व^१- अश्वतर^०, गज^०, गो^०, दिव्य^०, दुष्ट^०, द्विज^{००}, मनुष्य^०, श्याव^०, १सत्^०, सप्त^०
 अश्व-तर- रश्चेत^०
 अश्वतरा(र-अ)श्व^१->आश्व-तराश्व^१- -श्विम् गा २५^१.
 अश्व-पति^१- सुद्युम्न^०
 अश्व-मेघ^१- अक^०, ब्रह्महत्या^०
 +अश्व-शिरस्- महत्^०
 अश्विन^१- -श्विनौ वृ ६, ४, २१५^b; २२५^०. [०न्- दिश^{००}, निशा-कर^{००}]
 आश्विन(न>)नी^१- २भौम^०
 +अष्टि- वि^०, सम्^०
 +१आश- अभि^०
 +आष्टि->आष्टि-ह- -हाः कौ १, ३१^d; -हान् कौ १, ४१^d.
 √अश्(भोजने)>आशि अति^०, प्र^०
 +अश^१- हुत^०
 +१अशन^१- पिप्पल^०, हुत^०
 २अशन^१- अति^० अन्^०, आसन^०, दूर्वा^०, निर्^०, भैक्ष^०, महत्^०, मित^०, मितहित^०, मृष्ट^०, लघु^०, वहि^०, ६स^०
 √अशनाय>अशनाया-अन्^०
 अशित- १पीत^०
 अशित-पीत-लीढ-स्वादित-
 -तानि प्रा २, १६.
 +अशितुम् अन्^०
 अश्नत्- अति^०, अन्^०
 +अश्र्य प्र^०
 +आशक- अन्^०
 +आशयित्वा प्र^०
 +आशिन- अल्प^०, अष्टकवल^०, असंकल्पमाधुकराज^०, आनन्द-भिन्ना^०, एकत्र^०, एकाक्ष^०, १कुण्ड^०, चारलवण^०, तृण^०,

दूर्वा^०, भिक्षा^०, यज्ञशिष्ट^०, लघु^०, सर्व^०
 +आशवस्- अन्^०
 √अश्(वलने) गपू. पृ११३f द.
 अ-शक्ति- विपर्यय^०
 अ-शान्त- शान्त^०
 अ-शाश्वत- शाश्वत^०
 अशीति- ३कल्प^०, चतुर^०, नवन्^०, षडङ्गुलदशन^०
 +अशीति(-क)- ६स^०
 अ-शुचि- अनित्य^०
 +अशुचि-गन्ध- स्वदेह^०
 अ-शुद्ध- शुद्ध^०
 अ-शुभ- शुभ^०
 +अ-शु(अ)>भ्रा^१- कपिला^०
 +अ-शुश्रूषा- -षया २प्र ३३:१०^h.
 अ-शून्य- शून्य^०
 अ-शेष->+अशेष-किल्बिष- सं-शान्त^०
 +अशेष-कौतुक- विगत^०
 +अशेष-चतुर- हेलाविचलित^०
 +अशेष-चेष्टित- निःशेष^०
 +अशेष-परिग्रह- त्यक्त^०
 +अशेष-पापौ(प-अ)घ- निर्धूत^०
 +अशेष-विधि-निषेध- विध्वस्त^०
 +अशेष-विशेषा(ष-अ)श- शान्त^०
 +अशेष-संरम्भ- विगत^०
 +अशेष-संकल्प-कल(न>)ना-प्रोज्जित^०
 +अशेषा(ष-आ)भास-वस्तु- आ-रोपित^०
 अ-शोक^१- आम्र^{००}
 +अशोक-वन^१- मथुरावन^{००}
 अश्नुवत्- √अश्(व्याप्तौ) द.
 अश्र- अष्टन्^०, चतुर^०, द्वि^०, षष्^०
 अश्रु- आनन्द^०
 +अश्रु-दू(षक>)षिका^१- अस्थि^{००}

अ-श्रुत- अष्ट^०
 अ-श्रुति^१- तत्सहभाव^०
 अ-श्रौत- श्रौत^०
 अश्वत्थ^१- वट^०
 +अषा(ढ>)ढा^१- उत्तर^०, पूर्व^०
 अष्टन्- चतुर^{००}, द्वि^०, ब्राह्म्यादि^०
 अष्ट-क- अशिमामादि^०, अनङ्गकुसुम^०, अनङ्गकुसुमादि^०, अष्टन्^०, कपाल^० १कोटि^०, त्रैपुर^०, २शृष्टि^०, ध्वज^०, नगेन्द्र^०, पुरी^०, प्रकृति^०, ब्राह्मी^०, २मातृ^०, १वर्ग^०, वशिन्यादि^०, वसु^०, विद्या^०, सर्ववशिन्यादि^०
 अष्ट-दल- चतुरल^०
 अष्टदल-मूल- द्वितीय^०
 अष्ट-पत्र- ६स^०
 +अष्ट-पर्ण- १कमल^०
 +अष्ट-पलाश- हैरण्य^०
 +अष्ट-मन्त्र- अष्टमूर्ति^०
 +अष्ट-महाशक्ति->अष्टमहाशक्त्य-(हि-अ)ष्टाङ्गधर- -०२ लां २१६:१०.
 अष्ट-(म>)मी- -मी त्रिता ३, १६. [०मी- चतुर्दशी^०]
 +अष्ट-मुख- चतुर्मुख^{००}
 +अष्ट-याम- घटिका^०
 +अष्ट-विद्या- अष्टमूर्ति^०
 अष्ट-विध- अकार...ध्यान^०
 +अष्ट-विनायक- वक्रतुण्डादि^०
 +अष्ट-शूला(ल-अ)ग्र- ६स^०
 +अष्ट-शौच- देश^{००}
 अष्ट-श्राद्ध- देवर्षिदिव्य...मेति^०
 +अष्ट-हस्त- पूर्वापर^०
 १अष्टा(ष्ट-अ)क्षर^१- नारायण^०, श्रीमन्नारायण^०, सूक्ष्म^०
 +अष्टाक्षर-मन्त्र- नारायण^०, नारायणवृसिंह^०, रामकृष्णश्री-कर^०, श्रीकृष्णवामन^०

३) गपू. (पृ१११) यनि. शोधः द्र. । b) ऋ १०, १८४, २ । c) ऋ १०, १८४, ३ । d) तु. गपू. पृ६८४t । e) कर्तरि क्तु । f) भावे क्तु । g) ०तम् इति अज्या. । h) ०षान् इति पा. ? (तु. गोत्रा १, १, २२) यनि. शोधः द्र. । i) तस. उप. = १श्रुति- । j) तु. वैप १, ५०१b । = नक्षत्रविशेष- । k) बस. (गपू. पृ११५) यनि. संख्याननिर्देशः द्र. ।

२अष्टा(ष्ट-अ)क्ष(र>)री^a- सूर्य^०
 १अष्टा(ष्ट-अ)ङ्ग- अष्टमहाशक्ति^०,
 यमनियमासन^० वि^०, यमादि^०,
 ६स^०
 +अष्टाङ्ग-दर्शन- ६स^०
 अष्टा-दशन्->अष्टादशा(श-अ)-
 क्षर->+अष्टादशाक्षर-मन्त्र-
 श्रीकृष्णवामन^०
 +अष्टा-पद^{a,b}- २प्रवाल^०
 अष्टा(ष्ट-अ)युत- तावत्^०
 अष्टा(ष्ट-अ)र्ण^०- नारायण^०, ६स^०
 +अष्टै(ष्ट-ऐ)श्वर्य^०- अणिमादि^०
 ✓अस्(भुवि), अस्ति मउ९, ४९^a; असि
 श्वे४, ३९^०; अस्मि वृ५, १५, १९^०;
 एधि नाप ४, ३८^०; स्यात् मैत्रि
 ५, २^b. [अप^०, *अभिसमीक्षाम्^०,
 *भाराधयाम्^०, आविस्^०, *आ-
 श्वत्सयाम्^०, *उपसंपादयाम्^०,
 *कथयाम्^०, *कल्पयाम्^०, *क्षमा-
 पयाम्^०, *जनयाम्^०, *जिज्ञास-
 याम्^०, *जीवयाम्^०, तिरस्^०,
 *दर्शयाम्^०, *निवेदयाम्^०, *पूज-
 याम्^०, प्र^०, *प्रवेशयाम्^०,
 प्राद्भुस्^०, *प्रार्थयाम्^०, *प्रेषयाम्^०,
 *भक्षयाम्^०; *लालयाम्^०, *संपा-
 दयाम्^०, *संपूजयाम्^०, *स्थाप-
 याम्^०]
 अस्ति ५न^०
 आस्तिक->आस्तिक्य-
 तपस्^०
 अस्तित्वा- परतन्त्र^०
 अस्तित्व- किञ्चित्^०
 अस्मि>अस्मि-ता- ग्रहण^०,
 वितर्क^०
 १सत्- सन् १आ ११^०?। [०त्-
 ४अ^०, १चित्^०, १नित्य^०]

सती- -ती(तीम्^०) इ १८:७.
 ✓अस्(क्षेपणे) अधि^०, अभि^०,
 अभिप्र^०, उद्^०, उपनि^०, नि^०,
 निर्^०, परि^०, प्र^०, प्रति^०, वि^०,
 विनि^०, विपरि^०, व्युद्^०, संनि^०,
 सम्^०, समभि^०, समुद्^०
 +१असत्- अभि^०
 +असन- अभि^०, नि^०, निर्^०, वि^०,
 संनि^०, समभि^०
 +४असित- अभि^०
 १अस्त- अधि^०, अभि^०, नि^०, निर्^०,
 प्र^०, प्रति^०, विनि^०, विपरि^०,
 संनि^०, सम्^०, समभि^०, समुद्^०
 +अस्तवत्- अभि^०
 +अस्तव्य- निर्^०
 +अस्तुम् संनि^०
 +अस्य अभि^०, अभिप्र^०, नि^०, निर्^०,
 विनि^०, व्युद्^०, संनि^०, समभि^०
 अस्यत्- अभि^०, निर्^०, परि^०
 +अस्यमान- अभि^०, उद्^०
 +आस- अधि^०, अभि^०, इषु^०,
 उपनि^०, २जल^०, नि^०, परि^०,
 विनि^०, विपरि^०, संनि^०, सम्^०
 +आसम् सम्^०
 +आसिन्- संनि^०
 +अ-संयम- संयम^०
 +अ-संयुत- पाणिपादादि^०
 +अ-संयोग- चक्षुःप्रकाश^०
 +अ-संकीर्ण- अत्यन्त^०
 १अ-सङ्ग- सामान्य^०
 १असत्- ✓अस(क्षेपणे) द्र.
 २अ-सत्^b- १सत्^०
 अ-सत्य- १सत्य^०
 +अ-संप्रमोप- अनुभूतविषय^०
 अ-संभव- उत्पत्ति^०, तद्^०, दृश्य^०,
 प्रकारान्तर^०, रागादि^०, सत्ता^०,

सर्व^०
 अ-सर्व- सर्व^०
 +अ-सह- परिभव^०
 +अ-साहिष्णु- विकल्प^०, शरीरक्लेश^०
 +अ-साक्षिन्- सुपुष्पादि^०
 अ-साधारण- समस्त^०
 +असाधारण-चिह्न- समस्त^०
 अ-साध्य- भक्ति^०
 असि^१- ज्ञान^०, निशित^०, सुदर्शन^०
 १असित- गपू. पृ १२१ द्र.
 २असित- रसित^०
 ३असित^१- गपू. पृ १२१ द्र.
 ४असित- ✓अस(क्षेपणे) द्र.
 अ-सिद्ध->+असिद्ध-त्व- सिद्धत्व^०
 अ-सिद्धि- आश्रय^०, ईश्वर^०, तद्^०,
 दृष्टान्त^०, सिद्धि^०, स्थिरकार्य^०
 +असी^३- ३वरणा^०
 +अ-सीम-गुण- चातुर्य^०
 असु- आहित^०, गत^०, तृणावर्त^०,
 त्यक्त^०
 १असुर- अग्नि^०, अघ^०, अनात्मा-
 ख्य^०, ईश^०, गन्धर्व^०, गन्धर्व^०,
 १देव^०, २लवण^०, ६स^०, २सुर^०
 *असूय->✓असूय अभि^०
 असूयक- अभि^०
 +असूयत्- अन्^०, अभि^०
 असूया- अन्^०, १आशा^०, १काम^०,
 क्रोध^०, जरा^०, निन्दा^०, मद्^०
 +असूयु- अन्^०
 +असूरा^{१२}- विराजा^०
 +अ-सूरि- अन्^०
 असूज^{११}- मांस^०, रस^०
 १अस्त- ✓असू(क्षेपणे) द्र.
 २अस्त->अस्तम्>अस्तमि[म्/इ
 (गतौ)]>अस्तम(म्-अ)य-
 उदय^०

४) द्विस. (गपू. पृ ११५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) =सुवर्ण- । c) द्विस. । d) मा ८, ३६ । e) शौ १०, ८, २७ ।
 f) का ४०, १, १६ । g) 'एहि' इति श्रद्धा. । h) 'अस्यात्' इति सात. ? यनि. शोधः द्र. । i) संच^० इति निसा. ?
 यनि. च 'चरति' इति च शोधः द्र. (द्र. श्रद्धा.) । j) पा. ? यनि. शोधः द्र. । k) गपू. (पृ ११९) यनि. संख्यानिर्देशः
 द्र. । l) =खड्ग-(द्र. वैप १, ५३, ११) । m) व्यु. ? =नदीविशेष- । n) व्यु. ? =नाडीविशेष- । o) =४रक्त- ।

अस्तमि(म्-इ)त- अन्°, प्रथम°
अस्तवत्-, अस्तव्य-, अस्तुम् ✓अस्
(क्षेपणो) द्र.

अस्त्र- अघोर°, अनल°, कवच°, काल-
शक्तिका°, १कोड°, तद्°,
दराडक°, नारायण°, पाशुपत°,
पुम्°, त्रैल(१वैष्ण)व°, १ब्रह्मन्°,
महत्°, वर्मन्°, षट्त्रिंशत्°

+१अस्त्र(क)- १सत्°

२अस्त्र-क- गपू. पृ १२२ द्र.

+अस्त्र-वह्निजाया- तदन्त°

+अस्त्रा(स्त्र-अन्त)न्ता- न्ता
तारा ८३:६.

अस्थि^१- कपाल°, कार्पास°, केश°,
केश°, १स्वच्°, १त्वच्°,
दन्त°, दीर्घ°, मांस°, मेदस्°,
रस°, स्नायु°

+अस्थ्य(स्थि-अ)न्तर्-गत-

ज्वर^१- अतिभयंकरज्वर°

अ-स्पन्द- १केवल°

+अ-स्पष्ट- स्पष्ट°

✓*अस्पृ*अपुर्-→*अपुव-→

अपूप- सिद्धान्त°

अपूप-कूल(ल)ला°-

+अ-स्फुरण- कूर्पर°

+अस्फुरणा(ण-अ)दर्शन- अङ्गुष्ठा-
दिस्वावयव°

अस्मद्-

१अहम् अति°, १चित्°, जगत्°,
त्वम्°, निर्°, प्रकृति°, स-
(<तद्)°, सर्व°

अहं/हृ/अहं-कर्तु-→

+✓अहंकर्ति>अहंकर्तयित-

व्य- अन्°

अहं-कार- अन्°, अन्तःकर-
ण°, अविया°, अव्यक्त°, १आ-
शा°, एषणात्रय°, कर्तु°, कर्तु-
त्वभोक्तृत्व°, कर्तुत्वभोक्तृत्वादि°,
कर्तुत्वादि°, १काम°, क्रोध°,
१घन°, चित्त°, त्यक्त°, दम्भ°,
निन्दा°, निन्दा°, निर्°,
पाद°, पृथिवी°, प्राणादि-
पञ्चवायु°, १मनस्°, महत्°,
माया°, २शिष्ट°, ६स°, संकल्प°
+अहंकार-भाव- कर्तु-
त्वादि°

अहं-कृति-अन्°, त्यक्त°, दुर्°
निर्°, १मनस्°, महत्°, सर्व°
अहं-ता- अस्तमित°

अहं-भाव- अन्°, निर्°

+अहं-वादिन्- अन्°

+अहं-श्रेयस्- -यसे वृ ६, १, ७.

मद्-→मद्-अर्थ- ४अ°

*१ममर्-मम अहम्°, ५न°, निर्°

मम-ता- अनित्य...त्र°, पितु-
...त्र°, माया°

मम-स्व- एषणात्रय°, १काम°

१मा- माम् क १, १, ४९^१.

अस्य, अस्यत्-, अस्यमान- ✓अस्
(क्षेपणो) द्र.

+अस्त्र- चतुर्°, त्रि°, दशन्°,
महान्धकार°, षष्°

+अस्त्र(क)- षष्°, षोडशन्°

+अ-स्वतन्त्र- स्वतन्त्र°

अ-स्वातन्त्र्य- -न्त्यम् मै ४, २°.

१अह^१

अहन्-→+२अह- अतु°, अष्टन्°,
एक°, एकादशन्°, त्रयोदशन्°,

त्रि°, दशन्°, द्वादशन्°, द्वि°,
नवन्°, पञ्चन्°, २पुरय°, प्रति°,
१विश्व°, षष्ठ°, सप्त°

+अह- अपर°, पूर्व°, मध्य°, साय°
+अह्य- देवरथ°

१अहम् अस्मद्- द्र.

+२अहम् वृ ५, ५, ४.

१अहर्^१-

+२अहर्^१- -हः वृ ५, ५, ३.

१अहि- गपू. पृ १२८ द्र.

२अहि->अहिर(प्र१)>अहिर-बु-
ध्न्य- वीरभद्र°

अ-हिंसा- ब्रह्मचर्य°

१अ-हित^१- अपथ्य°, २हित°

२अ-हित^१-

अहो(१थो^१) सूता ३, ४.

आ

१आ गपू. पृ १२८ द्र.

२आ यो ३, ३३^१.

आ-कार्पिन्- आ/हृष् द्र.

+आ/कल्>आ-कलन- कलना°

आ-कल्प- आ/कल्प द्र.

आ/काङ्क्ष>+आ-काङ्क्ष, क्क्षा-
तल्लोकदर्शन°, निर्°, १भोग°,
महालीलादर्शन°, लोकदर्शन°

+आ-काङ्क्षिन्- १फल°, विषय°

आ/काश्>आ-काश- अखण्ड°,
अन्°, अन्तर्°, अन्तर्हृदय°,
आत्मन्°, काय°, गुणरहित°,
२घट°, घटमठ°, १चित्°, चित्त°,
तत्त्व°, दंष्ट्राव्याप्त°, दहर°, पर°,
परमहंस°, पिराडारड...स्थ°

- a) पू. = बीजविशेष- । b) गपू. (पृ १२३) यनि. शोधः । c) गपू. (पृ १२६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) तैत्ति ३, ११, ८, १ । e) °स्वतन्त्रम् इति श्रव्या । f) = अन्वय. (गपू. पृ १२७ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । g) व्यसं. = अक्षिपुरुष- । व्यु. ? अस्मद्- इत्यस्यैव विशिष्टः प्रयोगः स्यात् [तु. J.C.; वैतु. यस्थ. मूलं च शं. प्रसू. च <✓हन् च ✓हा (त्यागे) चेति युगपदेव व्यु. द्वैविध्यम् ?] । h) गपू. (पृ १२७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) व्यसं. = आदित्यपुरुष- । व्यु. ? अहन्- इत्यस्यैव विशिष्टः प्रयोगः स्यात् [तु. J.C.; वैतु. यस्थ. मूलं च शं. प्रसू. च <✓हन् च ✓हा (त्यागे) चेति युगपदेव व्यु. द्वैविध्यम् ?] । j) तस. । k) वस. (गपू. पृ १२८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । l) पा. ? यनि. शोधः द्र. । m) गपू. (पृ १२८) यो ३, ३ इत्यत्र यनि. शोधः द्र. ।

पृथिवी^{००}, पृथ्वी^{००}, बाह्य^०,
१ब्रह्मन्^०, भूमन्^०, मठ^०, महत्^०,
महत्^०, रुक्माम्बरनिभ^०, श-
ब्द^०, शुद्ध^०, श्येन^०, श्रोत्र^०,
१सूर्य^०, १हृद्^०, हृदय^०

+आकाश-देह- पवना^०ल्का^०

आकाशा(श-आ)त्मन्- वायुप्रतिष्ठ^०

आ/कुञ्च>आ-कुञ्चन- ऊर्ध्व^०

आकुल- अश्रुपूर्ण^०, ज्वालमाला^०,
तद्दर्शन^०व^०, निर्^०, मणिरुत्त-
म्भ^०, मल^०, वि^०, सम्^०

+आ/कू>आ-कूत- परस्पर^०

+आ-कूति- १वाच^०

आ/कृ(करणे)>२आ-कार- अख-

ण्ड^०, अखण्डमण्डल^०, अङ्गीकृत^०,
अज्ञानसुघन^०, अण्ड^०, अत्याश्च-
र्या^०ष्टि^०, अद्भुत^०ष^०, अन्^०,
अनन्त^०, अनन्तचित्^०र^०,
अनन्तचिदा^०ष्टि^०, अनन्तचि-
द्वि^०ष्टि^०, अनन्तदिव्य^०ष्टि^०,
अनन्तपरिपूर्णा^०य^०, अनन्त-
ब्रह्मगन्ध^०, अनन्तब्रह्मते^०
ष्टि^०, अनन्तमहा^०समष्टि^०,
अनन्तानन्दविभूति^०ष्टि^०,
अनन्तानन्दसमुद्रसमष्टि^०, अ-
नेक^०, अपरिच्छिन्नतिरस्करि-
णी^०, अपरिच्छिन्नानन्तदि^०
शि^०, अपरिच्छिन्नानन्दसागर^०,
अमल^०, अमिततेजःप्रवाह^०,
अमिततेजोराशि^०, अयुतारस-
मष्टि^०, अर्धचन्द्रसम^०, आदित्य-
मण्डल^०, आनन्दैकघन^०, उदिता-
सुदित^०, एतद्^०, एवम्^०, कद-
म्बगोलक^०, कमठ^०, कल्पित^०,
कुक्कुटाण्ड^०, कुक्कुटाण्डसम^०,
कुटिल^०, कुराप^०, १केवल^०,
गगन^०, गज^०, गणाना^०, १चक्र^०,
चतुर्भुज^०, १चित^०, चिदानन्द-
तरङ्ग^०, चिन्मनःकलना^०, चै-
तन्य^०लित्^०, जगदीश्वर^०,

२जल^०, ज्ञान^०, ज्योतिर्मयलिङ्ग^०,
तद्^०, तदाकार^०, तन्मध्य^०ट^०,
तप्तचामीकर^०, २तारा^०, दि-
व्यमङ्गल^०, दीप^०, दीपशिखा^०,
दुःख^०, द्विविध^०, धूम^०, धूम-
शिखा^०, धृत^०, ध्वस्तमनन^०,
नकिञ्चिद्वाचना^०, निजमूर्ति^०,
नियत^०, निर्^०, निरतिशय^०,
०निरतिशयदिव्यतेजोमण्डल^०,
निरतिशयदिव्यतेजोमण्डलवृन्द^०,
निरतिशयनिर^०ण^०, निरति-
शयानन्दपरम^०ष्टि^०, निरति-
शयानन्दपारावार^०, निरतिशया-
नन्दब्रह्मगन्धविशेष^०, निरतिश-
यानन्दाखण्ड^०र्ति^०, निरतिश-
यानन्दानन्त^०त^०, निरतिशया-
नन्दामृत^०न्द^०, निर्मलस्फ-
र^०, परमचिद्वि^०ष्टि^०, परम-
मङ्गल^०, परमाधि^०ष^०, २पा-
वक^०, पुच्छ^०, प्रणवात्मकध्वनि^०,
बृंहित^०, ब्रह्मतेजोविशेष^०, १ब्र-
ह्मन्^०, ब्रह्मानन्दमय^०गर^०,
भगमण्डल^०, भास्कर^०, २भुवन^०,
मण्डल^०, महादादिसमष्टि^०,
लक्ष्मील^०व^०, वह्निकण^०, वा-
चामगोचरम^०र^०, वाचामगो-
चरानन्त^०शि^०, वाचामगोचरा-
नन्दतेजोराशि^०, वाचामगोचरा-
नन्दब्रह्मतेजोराशि^०, विकल्पक-
लित^०, विभु^०, विविध^०, विविध-
वि^०गत^०, १विद्व^०, विस्फुरत्ता-
रक^०, वृत्त^०, वेदिका^०, व्योमन्^०,
शव^०, शशमृद्धि^०त^०, शिवध-
र्मा^०द्वार^०, शिवविज्ञान^०र्थ^०,
शुद्धबोधपरमानन्द^०, शुद्धबोधा-
नन्दमया^०शि^०, शुद्धबोधानन्द
विशेष^०, षोडशसमासमा^०, ६स^०,
सकल^०, संकल्पित^०, सर्व^०, सर्व-
परि^०म्भ^०, सर्वाद्वैत^०शि^०,

स्वयंज्योतिर्ब्रह्मन्^०, स्वान्त^०द्वन्^०
आकार-तस्(>:) अत्र ४, २३.

+आ-कृत- ६स^०

आ-कृति- अङ्कुश^०, अण्ड^०, अद्रय-
कुञ्जर^०, अर्धचन्द्रसम^०, अष्टोत्तर-
...म^०, कालकाल^०, १कुराडल^०,
गोकर्ण^०, गोष्पद^०, चतुर^०,
चरणद्वय^०, द्रव^०, द्वादशान^०,
निर्^०, पूर्णतर^०, ३भग^०, मकर^०,
मत्पाद^०, २वर्ण^०, विद्युत्^०, विमल^०,
वृत्त^०, वृषभ^०, शून्य^०, श्रीवत्स^०,
सूर्यमण्डल^०, स्थिरदीपनिभ^०

+आकृति-वर्ण- त्रेतातन्यात्मन्^०

आ/कृष्ण>१आ-कर्षण- जगत्^०,

१मारण^०, साध्यादि^०

२आ-कर्षण- साध्य^०

+आ-कर्षिन्- अमृत^०, अहंकार^०,
आत्मन्^०, १काम^०, चित्त^०, धैर्य^०,
नामन्^०, १बीज^०, बुद्धि^० रस^०,
१रूप^०, शब्द^०, शरीर^०, सर्व^०,
२स्पर्श^०, २स्मृति^०

+आ-कृष्ट- आकर्षक^०

+आ-कृष्टि- कर्मन्^०

आ/कृ(विक्षेपे)>आ-कर- अनन्ता-

वयव^०, करणा^०, कुसुम^०, मणि-
गण^०, विकार^०

आ-कीर्ण- अतिशीतजल^०, अनेक-
नयन^०, अनेकशिखर^०, चित्तघृ-
त्यजन^०, हुम^०

+आ/कल्प(<कृप्)>कल्प^०

आ-कल्प- विविध^०, शुभ^०

+आकल्प-जाल- -लैः सौ १, १.

आ/क्रम>आ-क्रम- यथा^०

आ-क्रान्त, न्ता- अधार्मिकनृप^०,
कनकमय^०ल^०, जिह्वामर्कटिका^०,
तर्जनी^०, १नित्य^०

+आ-क्रान्ति- इन्द्रिय^०

+आ/क्षाल>क्षालि>आ-क्षालन-
१नित्य^०

आ/क्षिप्>आ-क्षिप्त- सत्कथा^०

+आ-क्षेपिन्- बाह्याभ्यन्तरविषय°
आ/ख्या> +आ-ख्य, ख्या- अन्°,
 अनात्मन्°, २अनाहत°, अनीड°,
 अनेकानन्°, अन्तःप्रणवनाद°,
 अपान°, अमल°, अमृत°, अ-
 विद्या°, अव्यक्त°, आत्मन्°, २आ-
 चार°, आलस्य°, इडा°, इतिहास-
 पुराण°, उज्जयी°, उड्डीयण°,
 उज्ज्याण°, १काम°, कामरूप°,
 २काल°, कौस्तुभ°, गन्ध°, गाढ-
 सुप्ति°, १घट°, चक्षु...त्वच्°,
 चित°, ६चित्र°, जालंधर°, जीव°,
 जीवेश°, तद्°, १तुर्य°, त्रिकूट°,
 २दर्शन°, देवदर्शीति°, २द्वान्त्रिंश°,
 नवत्रहान्°, नियम°, निर्°, ५नील°,
 पञ्चकोश°, पञ्चाश...र्ष°, परम-
 तत्त्व...स्य°, परमेश्वर°, परहंस°,
 पुच्छ°, पुरयपाप°, पूर्णागिरि°,
 प्रकृति...भ्य°, प्रणव°, प्राण°,
 प्राणापानसमान°, बीजाङ्कुर°,
 १ब्रह्मन्°, मर्ग°, २भस्त्री°, १भाव°,
 भूतात्मन्°, मन्त्रयन्त्र°, महत्°,
 मित्र...र°, मुदितामुदित°, मूल-
 कन्द°, मृत्युलाङ्गल°, १मोक्ष°,
 २यम°, १राम°, रेचक°, १ललित°,
 लिङ्ग°, २लोहित°, चक्रपाणि...
 स्थ°, वासुदेव°, विद्या°, विद्या-
 नन्दतुरीय°, विपरीत°, विप-
 र्यय...द्धि°, विरूप°, विवेक°, २वि-
 शुद्ध°, १विश्व°, विषय°, विष्णु-
 महेश्वर°, व्यान°, शक्ति°, शङ्खिनी°,
 २शरभ°, शिवशक्ति°, शुभेच्छा°,
 श्रीकृष्ण°, संशय°, संसार°,
 २सच्चिदानन्द°, सवितृ°, सादा°,
 सामवेद°, सुषुप्त°, सुषुम्ना°, स्वर°,
 स्वस्तिक...र°, हंस°, २हृद्वेखा°
 +आख्य(-क)- २अध्वार°

आ-ख्यात- नामन्°, निर्°
 +आ-ख्यान- कार्य°, तत्त्व°
 +आ-ख्येय- अन्°
आ/गच्छ गम्, आगच्छति कौ १,
 ३^{१६}; आगच्छन्ति मै ५, ७^{१०}.
आ-गत- अन्°, गत°, तद्°,
 तीर्थयात्रा°, पूर्वा...म°, यथा°,
 शरण°, सु°, सुख°
 +आ-गति- उत्कान्ति°, प्रवासग-
 मन°
आ-गम- अखिल°, अगम्य°, अल्प°,
 अशुभ°, १अहर्°, आप्त°, गम°,
 गमन°, गुरु°, ज्योतिष°, तत्त्व°,
 तर्क°, दूर°, प्रत्यक्ष°, रात्रि°,
 रास°, १शिव°, शैव°, सकल°,
 सर्व°, १सुरत°
आगमा(म-अ)न्त- सर्व°
 +आगमान्ता(न्त-अ)र्थ- सर्व°
आ-गमन- गति°, गमन°, पुनर्°
 +आ-गामिन्- प्रारब्ध°°
 +**भागस्** - पूर्व...त°
 +आगस्(-क)- अन्°
आगार- कारा°, कोष्ठ°, १देव°, निर्°,
 १शिव°
आग्नीध्र- अग्नि- इ.
आ/चम्> आ-चमन- पाद्य°,
 पुनर्°, ब्रह्मादि°, शुद्धि°
आ-चान्त- अन्°
आ/चर्> आ-चरण- उक्त°, तद्°,
 परमहंस°, भैक्ष°, १मङ्गल°, शमद-
 मा...क्ति°, स्वधर्म°
आ-चरित- वेदोक्त°
आ-चार- अन्यथा°, अव्यक्त°,
 आश्रम°, आहार°, ऊर्ध्वाम्नाय-
 ...सिद्ध°, कर्मन्°, किम्°, ३कुल°,
 तद्°, तदनुकूल°, दम्भ°, दुर°,
 पूर्व°, पेशल°, मिथ्या°, लोक°,
 वर्णाश्रम°, १शिव°, १शिष्ट°,
 ६स°, १सन्°, २समय°, सर्व°,
 स्वाश्रम°, स्वेच्छा°, हंस°, हेल-
 वि...र°
 +आचार-नय- सर्व°
 +आचार-समारम्भ- नाना°
 ***आ-चारिक-**> आ-चार्य- ईश्वर°,
 त्रोटक°, पृथ्वीधर°, ब्रह्मस्वरूप°,
 भद्रपद्मपाद°, १सन्°, सनन्दन°
आ/च्छुद्> छादि> +आ-च्छाद-
 भिक्षापात्रसुख°
 +आ-च्छादक- १गुह्य°
आ-च्छादन- कौपीन°, दरड°,
 भोजन°
आ-च्छादित- अव्यक्तलेशाज्ञान°,
 शेषफल°
१-२ आज- √अजू द्र.
आ/जन्, ?आजायेरन् वउ ३, २७;
 ४, २४.
 +**आ-जन्मन्**> आजन्म-कृत-
 हत्या- समस्त...क°°
 +**आ/जीव्**> आ-जीव- सर्व°
 +**आ-जीवद्-अवस्थ**> -स्थम् नाप
 ६, १^{१६}.
आ/ज्ञा> आ-ज्ञा- ईश°, गुरु°, तद्°,
 १शिव°, ह्यग्री...ल°
 +**आ-ज्ञात-** अन्°
?१ आज्य- गपू. पृ १३४ द्र.
आ(आ/अ)ञ्ज्> २आ(आ-अ)ज्य-
 कापिल°, क्षीर°, तिल°, पृषत्°,
 मन्त्र°, ६स°
आ(आ-अ)ञ्जन- भिज°
 +**आडम्बर**> जगत्°, संसार°
 +**आढ**^{११}- मरिच°
आढक^{११}- १लवण°
आढ्य- अङ्कुरा°, अनन्यमार्ग°, आर्त-
 वालेपन°, अविष्टसुख°, आशा-

वर्णाश्रम°, १शिव°, १शिष्ट°,
 ६स°, १सन्°, २समय°, सर्व°,
 स्वाश्रम°, स्वेच्छा°, हंस°, हेल-
 वि...र°
 +आचार-नय- सर्व°
 +आचार-समारम्भ- नाना°
 ***आ-चारिक-**> आ-चार्य- ईश्वर°,
 त्रोटक°, पृथ्वीधर°, ब्रह्मस्वरूप°,
 भद्रपद्मपाद°, १सन्°, सनन्दन°
आ/च्छुद्> छादि> +आ-च्छाद-
 भिक्षापात्रसुख°
 +आ-च्छादक- १गुह्य°
आ-च्छादन- कौपीन°, दरड°,
 भोजन°
आ-च्छादित- अव्यक्तलेशाज्ञान°,
 शेषफल°
१-२ आज- √अजू द्र.
आ/जन्, ?आजायेरन् वउ ३, २७;
 ४, २४.
 +**आ-जन्मन्**> आजन्म-कृत-
 हत्या- समस्त...क°°
 +**आ/जीव्**> आ-जीव- सर्व°
 +**आ-जीवद्-अवस्थ**> -स्थम् नाप
 ६, १^{१६}.
आ/ज्ञा> आ-ज्ञा- ईश°, गुरु°, तद्°,
 १शिव°, ह्यग्री...ल°
 +**आ-ज्ञात-** अन्°
?१ आज्य- गपू. पृ १३४ द्र.
आ(आ/अ)ञ्ज्> २आ(आ-अ)ज्य-
 कापिल°, क्षीर°, तिल°, पृषत्°,
 मन्त्र°, ६स°
आ(आ-अ)ञ्जन- भिज°
 +**आडम्बर**> जगत्°, संसार°
 +**आढ**^{११}- मरिच°
आढक^{११}- १लवण°
आढ्य- अङ्कुरा°, अनन्यमार्ग°, आर्त-
 वालेपन°, अविष्टसुख°, आशा-

a) सञ्जन्° इति अञ्ज्या. । b) °ति इति निसा.? (तु. गपू. पृ १३१ सस्थ.) यनि. शोधः द्र. (तु. मैत्रि ६, ७) । c) बप्रा. द्र. । d) वैप१ यद्र. । e) व्यु.? =अगार- । f) अ° इति पा.? यनि. शोधः द्र. । g) अस्. । h) °स्थाम् इति निसा. °स्थाः इति अञ्ज्या. च पा.? यनि. शोधः द्र. । i) व्यु.? । j) व्यु.? =परिमाणविशेष- ।

शरशलाका°, काठिन्य°, गन्ध°, गुण°, गुणगन्ध°, गोकुल°, ज्ञान-सुद्रा°, दुःख°, दहीभू...म°, धन° धातु...भा°, पाशाङ्कुश°, १वाज°, भविष्य...ध°, मणि-लतासुगन्ध°, रतिगुण°, रस°, रसगुण°, वज्रशूल°, ३वर°, विचित्राम्बर°, शङ्खच...क°, शत-घ्न°, सर्वभोग°, सर्वसंजीवन°, १सुगन्ध°, सुशोभा°, सुसुगन्ध°, सौभाग्य°

*आ/तङ्क> आ-तङ्क- निर्°

आ/तन्> आ-तन्- तम् सं शान्ति°
[°त- अन्°]

*आ-तान- प्राचीन°

*आ-तनु- तु हं ११°^b.

आ/तप्> आ-तप- १छाया°

आतप-त्र... ध्वज°

*आ-ताप्त्र- रहित°

आ-तुर- २: भव १, २° [°र- अनङ्ग-मदन°, १काम°, २क्षुत्पिपासा°, द्वैतभय°

*आतुर-ता- अतिमान°

१आत्म-क- गपू. पृ १३४ द्र.

२°आत्म-क- गपू. पृ १३७ द्र.

३आत्म-क- नाउ. द्र.

आत्मन्- स्मना छाग २५ : ११°^d;

-स्मनि भा ३२°; -स्मा तु १०°^f; पहं

४°; गी ६, ७; -स्मानम् ध्या २२°^h.

[°न्- अक्षय°, अक्षर°, अखरडैक-

रस°, अखिल°, अज°, अत्यन्त...

क°, अद्भुत°, अद्वैत°, अधि°,

अन्°, अनाद्य...स°, अनीश°,

अनुभव°, अन्तःकरणचतुष्टय°,

अन्तर्°, अन्तर्यामिन्°, अन्न...न°,

अन्यता°, अन्यहीनस्वभाव°, अप्°,

अपरिच्छिन्नरूप°, अपान°, अभ्य-

...ल°, अमल°, अमान°, अमृत°, अमेय°, अवस्थात्रयहीन°, अवि-च्छिन्नचित्°, अविनाश°, अव्यक्त-...चित्°, अव्यपदेश°, अव्यय°, असंयत°, असक्त°, अहंकारवि-मूढ°, आकाश°, आत्म...न°, आदित्य°, आदिद्रा...र°, आदिहीन°, आनन्द°, आनन्द-कोशहीन°, आनन्दादिविहीन°, इन्द्रिय°, उदान°, उभय°, एक°, एकादशन्°, एतद्°, एषणा°, ओंका...न°, कपोल°, कल-रा...र°, १काम°, कामके-...क°, कारणा...न°, २काल°, कालत्रयस्वरूप°, कुञ्जान्तर...र°, कृत°, केलिकौतुक°, १केवल°, केवला...द्ध°, कैवल्य°, क्रम-लीला°, क्रियाज्ञान°, क्षर°, गुण°, गुणगुण...न° ग्राहक°, ग्राह्य-भाव°, चतुर्°, चतुःसप्तन्°, चरा-चर°, १चित्°, चित्त°, चित्र...ब्ध°, चिदचैत्याखिल°, १चिदा-नन्द°, चिन्मय°, जगज्जा...र्थ°, जगत्त्व...र्ग°, जड°, जडहीन°, जित°, जीव°, जीवेश्वर°, ज्ञान°, ज्ञानमुद्रा°, ज्ञानवि...प्त°, ज्यो-तिस्°, तत्त्वम...न°, तद्°, तुरीय°, तुरीयातीतरूप°, १तुर्ये°, तुष्ट°, त्रिमूर्ति°, १त्रिवर्णा°, त्रि-वृत्°, त्रिवेद°, त्रेतामि°, दरड°, दशन्°, दुःख...त°, दुर्°, दुष्ट°, दृग्विशिष्ट°, दृश्यानुविद्धहीन°, १देव°, १देव°, देवहीन°, देह°, द्वैताद्वै...प°, धर्म°, नष्ट°, नाना°, नामरूप°, नामरूपविहीन°, नारा-यण°, १नित्य°, नित्यक्रीडा°, नित्यनिर्मलरूप°, नित्यप्रत्यक्ष-

रूप°, नित्यानन्दस्वरूप°, नित्या-नित्यविहीन°, निद्रा...न्द°, नि-यत°, निर्°, निरवयव°, निर्मल°, निर्विकल्प°, १निर्विकल्पस्वरूप°, निर्विकारस्वरूप°, निष्कल°, पञ्चन्°, पञ्चब्रह्मन्°, पर°, परम°, परमात्म-न्°, पीठ...स्°, पूर्ण°, पूर्णरूप°, पूर्वजन्माजित°, प्रकाश°, प्रज्ञा°, प्रज्ञान...न°, प्रणाव°, प्रत्यगा-नन्द...प°, प्रत्यच्°, प्रथमसङ्ग...त°, प्रधान°, प्रयत°, प्रशान्त°, प्रसन्न°, प्राणा°, प्रिय°, प्रीत°, बन्धमोक्षस्वरूप°, बहिस्°, बाह्य°, १सुद्ध°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्मभूत°, ब्रह्मयोगयुक्त°, ब्रह्मस्थावर°, १ब्र-ह्मानन्द°, भस्मस्नानविशुद्ध°, भानाभानविहीन°, १भाव°, भूत°, १भोग°, मनःको...न°, १मरुत्°, महत्°, माया°, मायापरिमोहित°, १सुक्त°, मुक्तासुक्तस्वरूप°, सुदित°, मूढ°, मृदु...शी°, मेय°, १मोक्ष°, मोदप्र...प°, यत°, यमुना...र°, यावत्°, युक्त°, २योग°, योगयुक्त°, योजित°, यौवन°, रतिके...क°, रतिसं...त°, रस°, रससंभोग°, रागद्वेषवियुक्त°, रास...डा°, लक्ष्य°, लब्ध°, लय°, १ललित°, लिङ्गसूत्र°, १वश्य°, वहि°, विजित°, १विज्ञान°, विज्ञानचि-...व°, विदित°, विद्या°, विद्या-विद्यादिभेय°, विधेय°, विमूढ°, विलीन°, १विशुद्ध°, १विश्व°, १विश्व°, व्यान°, शक्ति°, शम-सम°, शमादि...न्य°, शान्त°, शान्ताशान्तस्वरूप°, शान्ता-शान्तादिहीन°, शाश्वत...स°, १शिव°, शिवज्ञान°, शुद्ध°,

a) ऋ १, २२, २० । b) अ° इति अच्चा. ? यनि. शोधः द्र. (वैतु. 'तनु' इति निसा.) । c) °रे इति पा. ?

(तु. गपू. पृ १३४) यनि. शोधः द्र. । d) 'आत्मा नः' इति पा. ? यनि. शोधः [एतदनु गपू. (पृ १३६) -स्मा इत्यत्र शोधः द्र.] । e) तान्नि. अपा. । f) पा. ? स्मना इति शोधः द्र. । g) अच्चाः सं. अपा. । h) 'स्वदेहम्' इति आन. ।

शुद्धचैतन्यरूप°, शून्य°, श्रीराधा-
 ...ह°, षोडशा...न°, संशय°,
 संहित°, सकल°, सगुण°, संक-
 ल्य°, सच्चित्°, १सच्चिदानन्द°,
 सच्चिदानन्दपूर्ण°, सच्चिदानन्दा-
 द्वैतैकचित्°, सत्तामात्रस्वरूप°,
 सत्त्व°, १सत्य°, संन्यास...
 क्क°, सप्तम्°, सप्तविंशतिवर्णी°,
 समरूप°, समाधिशून्य°, १समान°,
 समाहित°, सर्व°, सर्वकारणकार्य°,
 सर्वतेजःप्रकाश°, सर्वदेव°, सर्व-
 भूत°, सर्वभूतात्मभूत°, सर्व-
 भूतान्तर्यामिन्°, सर्ववृत्तिविहीन°,
 सर्वसंकल्पहीन°, सर्वसङ्गनिवृत्त°,
 सर्वातीतस्वभाव°, सर्वात्म... ठ°,
 सर्वान्तर्यामिरूप°, सर्वासर्वस्व-
 रूप°, सहस्रा...खा°, साध्य...
 न°, सुख°, सूक्ष्मरूप°, सूत्र°,
 १सूर्य°, १सोम°, १स्थावरजङ्गम°,
 स्थूलदे...न°, स्व°, स्वप्रकाश°,
 स्वयम्°, स्वान्तर्...हंस°]

३ आत्म(क)- अकारोकारमकारप्र-
 णव°, अकारोकारमकारार्थमात्रा°,
 अक्षय°, अखण्ड...स°, अग्नि°,
 अधीषोम°, अच्युत°, अजड°,
 अन्°, अनल°, अन्तर°, अमल°,
 अमृत°, अर्धनारीश्वर°, अर्ध-
 मात्रा°, अविक्रिया°, अष्टन्°,
 २असत्°, १आकर्षण°, आकाश°,
 आत्मन्°, आनन्द°, आविर्भा-
 ...न°, इच्छाज्ञानक्रिया°, इच्छा-
 शक्ति°, उदक°, उदात्त...र°,
 उभय°, उमारुद्ध°, ऋच्°, एक°,
 २एकत्रिंश°, एकादशेन्द्रिय°, औष-
 धभेषज°, कला°, कल्पवृक्ष...ल्म°,
 १काम°, कारण°, कारणगुण°,
 कार्य°, कालकर्मन्°, किम्°,
 २कृष्ण°, क्रीडा°, क्रोध...न°,
 कुतुष्णा°, गद्यपद्य°, गमनागमन°,
 गरुड°, गर्भ...य°, गुण°, गुह-

संभव°, घृत°, चतुर्थखण्ड°, चतु-
 र्मात्रा°, चतुर्विंशतितत्त्व°, चतुष्क-
 ट°, चराचर°, १चित्°, चिन्मय°,
 चेतनाचेतन°, जगदाडम्बर°, जड°
 जरा...या°, जलाकार°, ज्ञेय°,
 ज्योतिर्मय°, ज्योतिस्°, तत्त्वमन्त्र-
 ...ष्टि°, तद्°, तदाका...त्ति°,
 तन्मय°, तमोमाया°, तामसरा-
 जस°, तैजस°, त्रि°, त्रिशद्वर्णा°,
 त्रिकूटत्रय°, १त्रिगुण°, त्रिविध°,
 त्रेता°, दशकला°, दशावरण°,
 दारैष...णा°, द्वादशन्°, ध्वनि°,
 नमस्तार°, नवन्°, नादानन्दमय°,
 नामरूप°, नारायण°, नित्यान-
 ...स°, निर्°, निर्गुण°, निश्चय°,
 निष्कल°, पञ्चक्रियावृत्ति°, पञ्च-
 दशऋच्°, पञ्चन्°, पञ्चब्रह्मन्°,
 पञ्चभूत°, पञ्चवि...त्त्व°, पञ्चवृत्ति°,
 पर°, परिचर्या° पादचतुष्टय°,
 पादत्रय°, २पावक°, १पुराय°,
 १पुरुष°, प्रकाश°, प्रकृतिपुरुष°,
 प्रचोदयात्°, प्रणव°, प्रणवमयो-
 ...य°, प्रणवशिरस्क°, प्रणवा-
 दि...न्त्र°, २प्रश्न°, २प्राज्ञ°,
 प्राण°, प्रतद्...न°, प्रीत्य-
 ...द°, बिन्दुनाद°, १बीज°,
 बीजत्रय°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्मविष्णु-
 महेश्वर°, ब्रह्मविष्णुशिव°, भक्ष्य-
 भो...य°, भूतेन्द्रिय°, १भोग°,
 भ्रम°, मद्°, मन्त्रराज°, माता-
 पितृमल°, मृगतृष्णा...त्र°, मोह°,
 यज्ञकर्मवासना°, यत्किञ्चिदिदम्°,
 २योग°, रस°, १राग°, राजस-
 माया°, रासकेलिकला°, रुद्रवर्ण°,
 लिङ्ग°, लिङ्गशरीर°, वरद°, १वर्णा°
 वर्णात्रय°, वह्निसोमकला°, वाक्य°
 २वासना°, वासनाविलय°, १वि-
 जय°, विरिञ्चि...र°, विष्णु°, २वेद°,
 वैश्वानर°, व्यवसाय°, व्यष्टिसम-
 ष्टि°, शक्ति°, शक्तित्रय°, शशिसू-

न°, शाश्वत°, १शिव°, शिवशक्ति°
 २शुक्ल°, शुद्धचैतन्य°, शुद्धश्लेष्म-
 द्रव°, शैव°, श्रीभूमिनील°, षण्ण-
 वत्यङ्गुल°, षष्ठीशनाथ°, षोडश-
 मात्रा°, ६स°, संसार°, सकललो-
 करक्षा°, संकल्प°, संकोचविकास°
 संकोचविक्रसात्मक...स°, सच्चि-
 त्सुख°, १सच्चिदानन्द°, १सत्°,
 सत्तामात्र°, सत्त्व°, सत्त्वक्षय°,
 सत्त्वर...ण°, १सत्य°, सत्य-
 चित्°, सत्यज्ञानाद्वय°, सत्या-
 दि°, सत्यानन्दचित्°, सदसत्°,
 सर्व°, सर्वकूट°, सर्वतत्त्व°, सर्व-
 देव°, सर्वलोक°, सर्वविद्या°,
 १सर्वशक्ति°, सात्त्विकमाया°,
 सामन्त्रग्यजुस्°, सुख°, सुषिर°,
 सूत्र°, १सूर्ण°, १सोम°, १स्थावर-
 जङ्गम°, स्फोट°, स्मरणमात्र...व°,
 स्वभाव°, हंस°, हरमाया°,
 हिंसा°

†आत्म-कर्तृता- स्व°
 आत्म-गुण- आज्ञाभयसंशय°
 आत्म-चिन्तक- प्राणायाम...न°
 †आत्म-चैतन्य- अद्वितीय°
 आत्म-ज- कोशलज्वा°, रजनक°,
 २पवन°, १ब्रह्मन्°, मास्त°,
 चृपल°
 आत्म-तेजस्- मोहराहुमुषित°
 †आत्म-दर्शन-योग्यत्व- सत्त्व-
 शुद्धि°
 †आत्म-पितामह- विस्मृत°
 †आत्म-पुण्य- परम°
 आत्म-प्रकाश- अन्°
 †आत्म-प्रबोध^{१२}- ऐतरेय°
 †आत्म-बन्ध- अध्यवसाय°
 †आत्म-बोधक^{१२}- तेजस्°
 †आत्म-भावना- सर्वभाव°
 आत्म-भूत- सर्वभूत°
 †आत्म-भेद- नाना°

+आत्म-मल-च्युति- -तिम् अना
२१^{१५}.
आत्म-विज्ञान- ने नाद २२^{१०}.
[°न- धृत्युत्पन्न°]
आत्म-विद्- अन्°
+आत्म-विलापन- १नित्य°
+आत्म-विवेक- अप्रौढ°
+आत्म-विषय- अन्°
+आत्म-संरक्षण- निन्दा°°
+आत्म-संस्तुति- निन्दा°
+आत्म-सिद्धि- अधरोक्ष°
+आत्म-स्वभाव- तूष्णीम्°
आत्मा(त्म-आ)द्या(दि-आ)वरण°-
+आत्मा(त्म-आ)सन- १सत्°
+आत्मै(त्म-ऐ)क्य- देवता°
+आत्म्य- अन्°
+आत्मन^१- २वेद°
आ/दा(दाने)>+आ-द- दाय°
आ-दातव्य- अन्°
आ-दान- -नात् मै ५,७. [°न-
त्याग°,द्रव्य°,निःश्रेयस°,भाषा°
वचन°, सार°]
१आ-दि- ५अ°,अकथा°,अकार°,
अक्षि°,अग्नि°,अग्निकार्य°,अग्नि-
ष्टोम°,अग्निहोत्र°,अग्नीन्धन°,
अग्न्ययस्कार° प्रभृ.
+आदि(-क)- अखण्डैकरस°,अग्नि-
देश°,अग्निमन्°,अन्तर्लक्ष्य°,अ-
न्नपानफल°,अन्नरस°,अहोरात्र°,
आकाशगमन°,आत्मन्°,आवस्य-
क°,आसनशयन°,२°इति°,इत्येव-
म्°,इन्द्रिय°,उन्नयन°,ऋजुवक्र°
ऋजुवचन°,एषणात्र°र°,कलत्र°
न°,कामक्रोध°,कामक्रोधलो°र्य°
काष्ठा°य°,क्रिया°,क्षौर°रङ्ग°,
गुरुशिष्य°,गुल्मप्लीहन्°,गृहधर्म°
गो°,चन्द्रसूर्य°,जपदान°,जरा°,

छेदखात°, १तार°,दहर°,देह°,
धर्म°,धर्माधर्म°,२शृष्टि°,नभो-
विहरण°,नामसंख्या°,निन्दानि°
रा°,न्यासध्यान°,पर°न°,
पशुपुत्र°,पाद°,पुत्रमित्र°,पूर्व°,
प्रकाशतिमिर°,प्रचारण°स°,
प्रणव°,प्रलय°,प्राण°,बन्धमोक्ष°,
१बीज°,बीजध्यान°,ब्रह्मविष्णु°,
भूत°,महाभेरि°,मायाकार्य°,
१मूल°,२योग°,रक्तमू°द°,
वाराणसी°,विष्णु°,वृष्टि°,शम°,
शरीरपोषण°,शौच°,संकल्प°,
संकल्पकलना°,सुखदुःख°,स्नान-
दानयजन°,स्वेदमू°ष°,हुं°
+आदि-काल- सर्ग°
आदि-देव- १देव°
+आदि-नि(त्व)>त्या- -त्याः
त्रि १०^{१०}.
+आदि-निधन- अन्°
आदि-ब्रह्मन्->+आदिब्रह्मा-
(ह्य-आ)नुष्टुभ-राधव- -वाः रार
२,६३.
आदि-म- ब्रुह्णिण°
आदि-मत्- अन्°
+आदि-मध्य- अन्°
+आदि-मध्य-पर्यन्त- अन्°
आदि-मध्या(ध्य-अ)न्त- अन्°,
अनापन्न°
आदि-वराह^१- २मत्स्य°
+आदि-विष्णु- -ष्णुम् श १३.
आदि-शक्ति- १शिव°
२आद्य- -द्येन रार २, ९६.
[°द्य- अकार°, अक्रोध°, अगुरु-
च°र°, अङ्गव्यू°ज°, अन्°,
अनन्त°, अन्नपूर्णा°, अहिंसा°,
आखण्डल°,आदित्य°,२°इति°,
इत्येवम्°,ईशान°,उप्रसेनवसुदेव°

एलापत्रकनाग°,कदम्ब°,कल-
त्रपुत्रमित्र°,कलल°, १काम°,
कामक्रोध°क°,कुङ्कुम°,
कुठार°,कृष्णद्वैपायन°,२क्षार°,
क्षुत्तृष्णोष्ण°न°,२क्षुत्तिपासा°,
गोधूमचर्याक°,चन्दन°,चन्द्रा-
वली°सुभगा°,चम्पकतैल°,
१चित्°,जयन्त°ड°,तप्त-
राक°,ताम्बूल°,दधिदुग्धत°त°,
दधिदुग्धनवनीत°,दशार्ण°,दीर्घ°
दुग्धर°स°,१देव°,देह°,द्वादश-
मन्त्र°,धर्म°,ध्वजच्छ्°न°,
२नाग°,वृत्सिंह°,पत्र°,पशु°,
पशुकीट°,पशुपत्तिन्°,पाद°,
पूर्व°,प्रकृतिमहदहम्°,प्रह्लाद°,
प्राण°,प्रीत्य°द°,१बीज°,
१ब्रह्मन्°,ब्रह्मविष्णुमहेश्वर°,ब्रह्म-
हत्याश्वमेध°,भक्त्यान्नपान°,
भूतत्रे°च°,भूर्भु°ष°,
मणिगुणालय°,मदनकला°,
मघा°,मधुष्ट°त°,मयूरको°ग°
महत°,मांस°,२मातृका°,मार्जा-
रमूषिक°,४मित्र°,सुदरदण्ड°,
सुसलोलूखल°,सृष्टो°ङ्ग°,शशो-
दा°,१राग°,१राम°,रुक्मिणी°,
रत्नलिता°,१लोह°,२वसिष्ठ°,
वस्त्रसूत्र°,वाग्भव°,वासुदेव°,
२वेद°,राक्षशिषव°,१शिव°,शी-
तो°ख°,२शुक°,शुटी°,संक-
न्दन°,सनक°,सनातन°,सार्प°,
सीताभ°घ्न°,सुदर्शनपाद्म°
घ°,सुमेरुहे°य°,सुशोकदेव-
°रा°,स्तम्भपट्ट°,स्वकामश°
र°,स्वर°,स्वर्ग°]
आद्य-त्रय- हिरण्यवर्षादि°
आद्य(दि-अ)न्त- अन्°,अष्टार-
चक्र°

a) 'आमलमुक्तये' इति निसा. 'मलविमुक्तये' इति अख्या. च पा. ? यनि. शोधः द्र.। b) तत्त्ववि° इति निसा.। c) गप्. (पृ १३६) 'आत्मादि-> -दि, आवरण-> -णम्' इत्येवं शोधः द्र.। d) =आत्मन्-। e) 'च नित्याः' इति निसा., अख्या. ? यनि. शोधः द्र. (सु. तान्त्रि.)।

आद्यन्त-वत्- अन्°
 †आद्य(दि-ञ)र्ण- तत्तद्°
 आ-देय- हेय°
 आ-दाहि^a-
 √आदाहि^b, भादाद्येत° छां ६,
 १६,३.
 आदिक- आ/दा(दाने) द्र.
 आ/दिश्>आ-दिष्ट- पूर्व°
 आ-देश- अहंकार°, आत्मन्°
 आ/हृ>आ-दर- अन्°, ६स°
 †आदर-पूर्वक- अति°
 †आ-दृत्य अन्°
 आ/हृश्>आ-दर्श- चित्त°, प्राति-
 भ°°
 †आ/द्युत्>द्योति>आ-द्योतित-
 बर्ह°
 आ/द्गु>†आ-द्रवण- तद्°
 आ/धा,आधत्ताम् वृ ६,४,२१५^d.
 आ-धान- गर्भ°, ६स°
 आ-धि- दुर°, निरु°
 †आधि-व्याधि- सर्व°
 आ-धेय,या- अन्°, २आधार°
 आ-हित- एक°
 आहिता(त-ञ)धि- अन्°
 †आधानकरणि° २प्र ३५:१५.
 †आधा(र>)रा^f-
 आ/धृ> २आ-धार,रा^f- अखिल°,
 अन्°, अशेषकल्प°, अशेषसं-
 स्कार°, आकाश°, आत्मन्°,
 इन्द्रता^g...न्द्र°, २कुल°, कौपीन°,
 चूर्ण°, जगत्°, तोय°, १त्रिगुणा°,
 नाद°, निरु°, पुष्प°, प्रणव°,
 प्रपञ्च°, ब्राह्मण्य°, भिच्चा°, २भुव-
 न°, भोजन°, मुख्य°, १मूल°,
 वार्ति°, १विश्व°, षष्°, षोडशन्°,
 ६स°, सत्त्व°, समग्राम्यगुण°,
 सर्व°, सर्वप्रपञ्च°, स्व°

†आधार-भूत- जगत्°, जीवन°
 †आ-धारिन्- अखिल°
 आन- √अन्(प्राणने) द्र.
 †आनक^h- परणव°
 आननⁱ- अभि°, अनेक°, १कमल°,
 कुन्देन्दुधवल°, घोरघोर°, चतुर°,
 चन्द्र°, ज्योत्स्नाराजमान°, ३ना-
 ग°, पञ्चन्°, प्रसन्न°, ३वर°,
 व्यात्त°, शतचन्द्रनिभ°, शशि-
 निभ°, षष्°, स्मितसं...ञ्चन्°
 †आनन-कर- बहु°
 †आनन-शिरो-श्रीव- सर्व°
 आ/नन्द>न्दि>आ-नन्द- नन्दम्
 पाशु २, ३०ⁱ; वरा २, १७.
 [°न्द- अकृत्रिम°, अखण्ड°,
 अखण्डैकरस°, अगणित°, अति°,
 अद्वैत°, अद्भुत°, अद्वय°,
 अद्वितीय°, अन्°, अनन्त°,
 अनसूया°, अन्य°, अपरिच्छि-
 न्न...ध°, अमित°, आत्मन्°,
 आत्मसमान°, आमोद°, १उदित°,
 उद्वेग°, कैवल्य°, १कोटि°, गलित°
 १चित्°, १चित्°°, २चित्°,
 चित्त°, चिद्धन्°, चिन्मय°, ज्ञान°,
 तन्मण्डललोक°, दिव्य°, नाद°,
 नानालीला...त°, निज°, १नि-
 ल्य°, १नित्य°, नित्यली...न°,
 निरु°, निरतिशय°, निरन्तरनि-
 र...न°, निरन्तरातितु...र्य°,
 निश्शङ्क°, पर°, परब्रह्मन्°, परम°,
 परमकैवल्य°, परा°, परिपूर्णा°,
 पूर्णा°, प्रत्यच्°, प्रत्यय°, प्राप्त°,
 प्रेमन्°, बोध°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्मा-
 नन्दशिव°, २भक्त°, भजन°,
 भजनप्रेमन्°, भूमन्°, मनन°,
 १मनस्°, महत्°, मुख्य°, १मोक्ष°,
 २योग°, रतिदायकसुरत°, रति-

प्रेमन्°, रतिससुरत°, रमण°,
 रस°, रसरमण°, रसिक°, रौद्र°,
 लक्ष्मणप्राणप्रतिष्ठा°, वचन°,
 वाचामनोचर°, १विज्ञान°, वि-
 तर्क°, विद्या°, विषय°, शाश्वत°,
 १शिव°, शुद्ध°, शुद्ध°, शुद्धचि-
 ...स°, शुद्धबोध°, शुद्धसंविन्मय°,
 ६स°, १सत्°, १सत्°°, १सत्य°,
 १सत्य°, सदा°, सन्मात्र°, १स-
 म°, समृद्धि°, संपूर्णा°, सर्व°, सर्व-
 सु...र्णा°, सहज°, मुखकोटि°,
 १सुरत°, स्व°, स्वप्रकाश°, १स्व-
 रूप°, स्वर्ग°, स्वल्प°, स्वात्मन्°
 †आनन्द-कला- किंशोर...र°,
 ६स°
 आनन्द-क्रिया- अमृतकल्लोल°
 आनन्द-धन- १सत्°
 †आनन्द-चित्-सागर- अनन्त°
 †आनन्द-तुलसी-माल्य-
 अनन्त°
 आनन्द-दायक- अति°
 आनन्द-दायिन्- जगत्°
 †आनन्द-पन्न- अनन्त°
 †आनन्द-पर्वत- अनन्त°,
 क्रीडा°
 †आनन्दपर्वत-शिखर- अ-
 नन्त°
 †आनन्द-पुष्प- १दिव्यगन्ध°
 †आनन्द-प्रवाह- अनन्त°
 †आनन्द-प्राकार- अनन्तसहस्र°
 सहस्र°
 †आनन्द-ब्रह्मन्- वाचामगो-
 चर°
 आनन्द-मग्न- अत्यन्त°
 आनन्द-मय- अन्नमय°, १नि-
 त्य°, निरतिशय°
 †आनन्द-मूर्ति- शिवधर्म°

a) बस. (=दाहयुक्त-). b) नाधा. c) 'दाद्येत' इति पाभे. (तु: रामा.) d) ऋ १०, १८४, २।

e) पां. ३ 'नादानुप्रदानकरणौ' इति श्लोचः द्र. (तु. गोब्रा १, १, २७)। f) गपु. (पृ १४३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.।

g) व्यु. ?।

+आनन्द-योग्य- अतिरसरमण°
 आनन्द-रस- पारावार°, ब्रह्म-
 तेजोमय°
 आनन्द-रूप- अति°, आनन्द-
 रमण°, चिन्मय°
 +आनन्द-लक्षण- आश्चर्य-
 सागर°
 आनन्द-वन- मथुरावन°, वा-
 चामगो...य°
 आनन्द-विग्रह- चित्...भूत°
 +आनन्द-विभूति- दिव्य-ते-
 जः-पर्वत- अनन्त°
 +आनन्द-विमान- अनन्त°
 +आनन्द-विशेष- अपरिमित°
 आनन्द-समुद्र- अनन्त°, अप-
 रिमित°, असंख्याक°
 +आनन्द-संभोग- अनन्त°
 +आनन्द-सागर- अपरिच्छिन्न°
 परम...न°
 +आनन्द-सौदामि(म)नी-
 अनन्त°
 +आनन्द-स्वानुभव(व-ए)क-
 पूर्ण-हृदय- सर्वदा°
 +आनन्दा(न्द-अ)चल-श्रेणि-
 अनन्त...ल°
 +आनन्दा(न्द-अ)नुभव- सदा°
 +आनन्दा(न्द-अ)मृत-दिव्य-
 मङ्गल-विमान- अनन्तप्रकार°
 +आनन्दा(न्द-अ)शुधि- वाचा-
 मगो...न°
 +आनन्दा(न्द-अ)श्चर्य-सागर-
 अनन्त°
 +आनन्दा(न्द-अ)शु- १ब्रह्मन्°
 आनन्दिन्- १नित्य°, नृसिंह°

आ-नन्दयितव्य- अन्°

आनयितव्य- √अन्(प्राणने) द्र.

!आनीय° ऊ ६३ : ४.

+आनुगुण्य- गपू. पृ९९९ द्र.

+आन्तरालिक- गपू. पृ१००२ द्र.

√आप्, > २आपि, ईप्स् अनुप्र°, अनु-
 वि°, अभि°, अभिप्र°, अभिवि°,
 अव°, उप°, परि°, परिप्र°, परि-
 सम्°, प्र°, वि°, संवि°, सम्°,
 समनुप्र°, समव°, संप्र°
 +आप- दुष्प्र°
 +१आपक- प्र°, वि°
 आपन- प्र°, वि°
 +१आपयत्- वि°
 +आपयितव्य- सम्°
 +आपयित्वा प्र°
 +१आपित- प्र°
 +आपिन्- वि°
 आस- अनुप्र°, अनुवि°, अभिवि°,
 अव°, परि°, परिप्र°, परिसम्°,
 १पुत्र°, प्र°, वि°, संवि°, सम्°,
 समनुप्र°, संप्र°
 आस-तम- -मम् नृउ१९६:१४^b
 आसवत्- अव°, प्र°
 आसव्य- अव°, प्र°
 २आसि- अनन्तलोक°, अभीष्ट°,
 अव°, गर्भ°, १चित्°, तद्°, प्र°,
 वि°, संप्र°, सर्व°
 आप्तुम् अव°, प्र°
 +आप्तुवत्- अन्°, प्र°, वि°
 आप्य अनुप्र°, अभिवि°, अव°,
 परिसम्°, प्र°, वि°, संवि°, सम्°,
 समनुप्र°, संप्र°
 आप्य- प्र°, हेय°°
 +आप्यमान- वि°
 +ईप्स्- देशकाल...व°
 ईप्सित- अन्°, अभि°, निर°,
 १मनस्°, यथा°, २सुर°, स्व°
 +ईप्सित-फल- सर्व°
 +ईप्सिन्- अभि°
 +ईप्सु- अभि°, अभिप्र°, १काम°
 १आपक- √आप् द्र.
 २आपक- √इ (अध्ययने) द्र.
 आ/पद् > +आ-पत्ति- अविशेष°,

आत्मन्°, तदाकार°, तद्भाव°,
 त्रिविधविरोध°, भोक्तृ°, लोक°,
 विजातीयद्वैत°, सङ्ग°, सत्त्व°,
 समानधर्म°, साभाव्य°
 आ-पद्- अन्°, उग्र°, परम°, महत्°
 सर्व°
 आ-पद्, न्ना- अन्°, १एकभाव°,
 तद्द्व्यान°, तद्भाव°, ध्यान°, पूर्व°,
 प्रतिविम्बभाव°, प्रत्यय°, १भाव°,
 भोज्य°, मनोभाव°, रतिरस...न°,
 विनयभाव°, विस्मय°, ब्रजध्यान°,
 श्रीराधाध्यान°, संशय°, सुपुत्र-
 वस्था°
 +आ-पाद- ध्यान°
 +आ-पादक- समस्ताविद्या°
 +आ-पादन- चतुर्विंशतितत्त्व°
 १आपयत्- √आप् द्र.
 २आपयत्- √इ (अध्ययने) द्र.
 आपराह्निक- अपर- द्र.
 +आ/पा(पाने) > आ-पान- आहार°
 +आ-पाण्डुर- वि°
 १आपित- √आप् द्र.
 २आपित- √इ (अध्ययने) द्र.
 आ/पीड > +आ-पीड- कुवलय°,
 बर्ह°
 आ/पृ > पुर > +आ-पूर- प्रकृति°
 आ-पूरित- दिश°
 +आपूरित-दिग्-भर- -रः अक्ष
 ४, ६७.
 आ/प्यै, > प्यायि, आप्यायत्व कौ
 २, ५°.
 +आ-प्याय- अमृत°
 २आ-प्यायन- सर्व°
 आ/बन्ध > आ-बद्ध- रत्नौष°
 आ/भा > +आ-भ, भा-अन्न°, अर्धसुप्त-
 प्रबुद्ध°, इन्द्रनीलवर्णी°, उद्यत्को...र°
 उद्यद्भास्वत्सम°, तडित्°, तडित्क-
 ट°, तप्तकार्तस्वर°, तस्पादिवाकर्°,
 नीरद°, नीहार...र, पूरीचन्द्र°

मर्दलशब्द°, मूलार्थच्छिन्नवश°,
मेघ°, मूषास्थद्रुतहेमन्°, यन्म-
...त°, रत्नगौर°, रुक्म°, विमला-
म्बर°, शङ्खकु...र्ण°, शिखा°,
शिरन°, २शुक्ल°, शुभ्राभ्र°, सिद्ध°
सुवर्ण°, सूक्ष्म°, १सूर्य°, स्वप्न°,
स्वर्ण°, स्वर्णवर्ण°, हेमन्°, हेम-
रेखा°

आ/भास्>आ-भास- अन्°, अर्थ°,
अशेष°, ऋजुवक्रादिक°, १केवल°
प्रहरणप्राहक°, १चल°, १चित्°,
जगत्°, १जाति°, तप्तचामीकर°,
दर्शनप्रत्यय°, दर्शनप्रथम°, द्वय°,
निद्र°, निर्विकल्पचित्°, १ब्राह्मण°,
रत्नोत्पल°, वस्तु°, विद्युत्°, शम-
सम°, शरीर°, समरस°, सर्व°,
सर्वेन्द्रियगुण°, स्व°

+आभास-विनिर्गम- सर्प°
+आ-भास्य- १चित्°
+आ/भुज्>आ-भोग- १भोग°,
शमसम°

आ/भृ>आ-भरण- अलंकार...
दि°, किरीट°, तप्तहाटक°, दिव्य°,
१नाग°, नाना°, नासा°, परि-
त्राजक°, मकुट°, मौक्तिकादि°,
रुद्राक्ष°, वस्त्र°, सर्व°

+आ/मद्>आ-मद- मद°
आ/मन्>+आ-मनन- इयत्°,
तद्°, विकल्प°

आमय- अन्°, तृष्णादोष°, दुःख°,
निद्र°, विगत°, सर्व°

आमलक- रकर°, करतल°
+आमलक-वृन्द- क्रीडा...ल°
+आमिष°- मन्त्र°°

आ/मुद्>आ-मोद- मदिरा°, ६स°,
संतोष°

आ/ज्ञा>+आ-ज्ञान- अन्°, उभय°
आ-ज्ञाय- आत्मन्°, उत्तर°, ऊर्ध्व°,
चतुर्°, रदक्षिण°, पश्चिम°, पूर्व°

आभ्र- किञ्चुक°, सर्षप°°
+आ/भ्रेड्>आ-भ्रेडन- मन्त्र°
आय° राप् ४, १.

१आय- √अय् (परि.) द्र.
२आय-आयक- √इ(अध्ययने) द्र.

आ/यत्>आ-यतन- तीर्थ°, १देव°,
द्युभ्वादि°, २पुराय°, १पुरुष°,
१ब्रह्मन्°, भोक्तृभोग°, १भोग°,
यथा°, रोग°, १शिव°, शिवाग्नि°,
१सत्°

आ-यत्त- चक्षुस्°, निग्रह°, पर...
न्त्र°, स्व°

आ/यम्(दैव्ये)>१आ-यत- उच्च°,
उत्सेध°, चतुर्योजन°, द्विगुण°,
पञ्चयोजन°, पञ्चविंशतियोजन°,
पञ्चविंशद्योजन°, २योजन°, लोक°,
शतयोजन°, षण्णवत्यङ्गुल°,
सहस्रयोजन°

+आयतो(त-उ)न्नत- सहस्रकोटि-
योजन°

आ-यति- प्रजा°
आ-याम- अनिल°, प्राण°
आयाम-विस्तार- १त्रिहस्त°

आ/यम्(यमने)>२आ-यत->
आयत-प्राण- णः लु ५?°

आ/यस्>आ-यास- अन्°, १बन्ध°
बहुल°, यमाद्यासनज°, शोक°°

आ/बा>आ...याति वध ३७:७९^d.
आ-यात- यात°

आयिन्- √अय् (परि.) द्र.
+१आयु- दीर्घ°

२आयु- √इ(गतौ) द्र.
आ/युष्>आ-युध- अनेक°, उद्°,

गदादि°, तद्°, दिव्य°, दिव्याने-
कोद्यत°, धनुःखड्ग°, भस्मन्°,
विषम°, ६स°, सर्व°

+आयुध-चतुष्टय- ६स°
आयुस्- अध°, अल्प°, २जाति°, दीर्घ°,
वर्षसहस्र°, १विश्व°, शत°, सर्व°

+आयुः-प्रमाण- परम°
+आयुष- त्रि°, यावत्°

१आयुष्य- ष्यम् नाप ४, ३८^९.
[°व्य- चिर°, दीर्घ°]

२आ(आ/अ)र(हिंसायाम्)>आ-
(आ-अ)र्त्त,र्ता- अन्°, कलत्र-
चिन्ता°, १नुधा°, रोग°, शोक°

आ(आ-अ)र्ति- २भक्त°, संसार°,
स्वामिन्°

+आर्ति-ह- हम् सु २, २, ७२.
१-२आर- गप्. पृ १५१ द्र.

३आर- द्विषष्°
आ-रक्त- २हरित°°

आरण्यक- *२अरण्य- (परि.) द्र.
आ/रभ्, रम्(आरम्भे)>आ-रब्ध-

अन्°, यथा°
आ-रम्भ- अन्°, ३कल्प°, निद्र°,
वाद्य°, विशेष°, शिवधर्मव्रत°, सर्व°

आ-रम्भक- देह°
१आ-रम्भण- अन्°
+आ/रभ्, रम्(शब्दे)^b > २आ-

रम्भण- वाचा°
आ/रम्>+आ-रत- अन्°
आ-राम- अनन्त...र्थ°, अन्तर्°,
आत्मन्°, इन्द्रिय°, एक°, तद्°,
दिव्य°, पितृ°, पुष्प°, प्राण°,
स्वात्मन्°

आ/राघ>आ-राघन- एतद्-
यन्त्र°, तदीय°, पितृ...र°, १ब्र-
ह्मन्°, १राम°, १रुद्र°

a) व्यु.? =मांस- । b) '१राम->राम्य' इत्यस्योत्तरांशः द्र. (वैतु. निसा. 'माया->-या' इति) ।

c) 'गतः प्राणः' इति पा. ? (तु. निसा., ज्ञान.) यनि. शोधः द्र. (तु. अर्ध्या.) । d) ऋ १, ३५, २ । e) वैप १ यद्र. ।
=आयुस्- । f) गप्. (पृ १५१२) पाय २, २, ११ इत्येवं शोधः द्र. । g) गप्. (पृ १५२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।
h) तु. टि. वाचारम्भण- [वैतु. शं. प्रष्ट. <आ/रम्भ(आरम्भे) इति] । i) भाप. वा नाप. वा ।

आ-राधित- २भुवन°
 आ-राध्य- सर्व°
 आरिष्ट- अरिष्ट- (परि.) द्र.
 आरुणि- अरुण- (परि.) द्र.
 आ/रुह्, >रोपि> आ-रुह, ढा-
 अश्व°, ऐरावत°, कर्तृत्व...व°,
 १कूर्म°, गरुड°, गोत्रा°, तन्मुद्रा°,
 नर°, १पद्म°, पद्मासन°, २पवन°,
 प्राया°, ब्रह्मानन्दरस°, मकर°,
 २महिष°, मृग°, १मेष°, यन्त्र°,
 २योग°, रथ°, रेफ°, वीरासन°,
 वृषभ°, षट्स्वर°, १षोडशमात्रा°,
 सिंह°, हंस°
 +आ-रोपण- पुनर्°
 आ-रोपित- अन्य°
 +आ-रोप्य- २हस्त°
 आ-रोहण- वृत्त°
 आर्द्र- अन्°
 +आर्द्र-तस्व- पञ्चन्°
 +आर्द्रक- गुड°
 आर्य- अन्°
 +आ/लक्ष्> आ-लक्षित- वज्रपक्ष°
 आ/लप्, >लापि> आ-लाप-
 १कथा°, तद्°, २दर्शन°, २दर्श-
 न°, दुर्°, वृथा°, संबन्ध°
 +आ-लापन- तद्धर्म°
 आ/लभ्> +आ-लभन- २रोचना°
 आ/लम्ब्> १आ-लम्ब- लम्बम् मै
 ४, ११^b. [°म्ब- निर्°, वस्तु-
 दशा°, ६स°]
 २आ-लम्ब- गपू. पृ१५३ द्र.
 आ-लम्बन- अभावप्रत्यय°, तद्°,
 निर्°, प्रतीक°, मण्डलादि°, ६स°,
 स्वप्ननिद्राज्ञान°, १हेतु°
 +आ-लम्बिन्- सर्वातीतपद°
 आलवाल- रत्न°, सुवर्ण°
 आ/ला> +आ-ल- अन्तर्°
 +आलि, ली- द्रुहिणादि...द°, द्विज°
 आ/लिङ्> आ-लिङ्गन- परकी°,

प्रेमन्°
 आ-लिङ्गित- २महालक्ष्मी°, लक्ष्मी°
 आ/लिप्> +आ-लेप- चन्दन°
 +आ-लेपन- आर्तव°
 आ/ली> आ-लय- १कमल°, काम-
 कला°, कामपीठ°, कुलाल°,
 १कृपा°, चन्द्र...मन्°, जालंधरपीठ°
 तिमिर°, दुःख°, १देव°, देवता°,
 १पद्म°, परम°, १मङ्गल°, महन्°,
 १वरुण°, विष्णु°, १शिव°, मुख-
 दुःख°, स्व°, स्वच्छन्दगमन°,
 हिम°
 आ/लोक> आ-लोक- ज्ञान°,
 २तारक°, निर्°, पर°, प्रज्ञा°,
 प्रवृत्ति°, विद्या°, १सूर्य°, स्व°
 आ-लोकन- १राम°, १शिव°, सम्यक्°
 +आ-लोकित- -ते अत्र २, ३८.
 +आ/वद्> ओ(आ-उ)दित- तद्°
 आ/वल्> आ-वलित- पञ्चरा...रा°
 +आवलि, ली- अनन्तधूपदीप°,
 अनन्तपर...तरङ्ग°, आनन्दम...
 न°, एक°, चन्द्र°, जगत्°, १जाल°,
 ज्वाला°, पुष्पहार°, प्राकार...न°,
 २मुक्ता°, रत्न°, रद°, विमान°, वीर°,
 शिवध...भ°, शुद्धबोधविमान°,
 शुद्धबोधसौध°, हार°, हीरक°
 आवली(क)- २मुक्ता°
 आ/वस्(निवासे)> आ-वसथ-
 १खेचर°, योगीन्द्र°
 +आवसथ्यर- सम्य°
 +आ-वास- कैलासशिखर°, भूत°
 आ/वद्(वहने), >वाहि> +आ-
 वह- धर्म°, १भय°, शोक°,
 संसारदुःख°, सर्वकामसुख°, सर्व-
 कालसुख°
 आ-वाहन- ध्यान°
 आ/विद्, >वेदि, आविवेश मउ
 ९, ४५°; अशि ६, ३५°.
 आ-विष्ट, ष्टा- अहंकार°, ईश्वर°,

कुम्भक°, १कृपा°, कौतुक°,
 तमस्°, नानाकौतुक°, निकुञ्ज-
 केलिकौतुक°, मद्°, १रति°, रस°,
 विस्मय°, संशय°, स्नेह°
 आ-वेश- आनन्द°, १काम°, क्रोम-
 लाङ्कुर°, जीव...वासना°, तद्°,
 परशरीर°, १पुरुष°, पुष्प°, १फल°
 मदन°, रस°, २वासना°, ६स°,
 स्व°, स्वरूपस्वामिनी°, स्वानुभू-
 तिरस°, हेतुफल°
 आ-वेशित- तत्सुगन्ध°
 आविस्-> आविर्/भू> +आविर्-
 भव- आनन्द°
 आविर्-भाव- अतिशय°, आ-
 त्मन्°, आनन्द°, १ओंकार°, तद्°
 तद्भोग°, नानाली...न्द°, नि-
 त्यवि...ला°, १निरतिशयानन्द°,
 परमात्मन्°, बुद्धिविज्ञान°, भक्त-
 वात्सल्य°, १मूल°, मूलका...क्त°,
 मूलाविद्या°, विद्या°, २ब्रज°, सर्व-
 रूप°, स्व°
 आविर्भाव-तिरोभाव-
 जगत्°
 +आविर्भाव-प्रादुर्भाव-
 १रूप°
 आविर्-भूत- चित्सार°, चिन्म-
 थन°, जलयन्त्रमुख°
 आविष्/कृ> +आविष्-कुर्वत्-
 अन्°
 आ/वृ(आच्छादने)> आ-वरण-
 णम् रार ३, १^१. [°ण-
 अलब्ध°, अविद्या°, अष्टन्°,
 अष्टाक्षरसंज्ञ°, एकैक°, चतुर्थ°,
 तृतीय°, दशन्°, द्वितीय°, नैवेद्य-
 पीठ°, पञ्चम°, प्रकाश°, प्रथम°,
 ब्रह्माण्ड°, मण्डल°, ६स°, संसा-
 र°, सप्तम°, सु°]
 +आवरण(क)- सप्तन्°
 +आवरण-पूजा- यन्त्र°

a) व्यु. ! b) तु. गपू. पृ५९०f। c) =अभि विशेष-। d) कर्तरि कृत्। e) मा ८, ३६। f) शौ ७, ९३, १।

+आवरण-मल- सर्व°
 आवरण-शक्ति- ईशाधिष्ठित°,
 विक्षेपशक्ति°
 +आ-वार- लुवादि°
 आ-वृत्- -त्तः अरु २१५°. [°त-
 अज्ञान°, अन्°, उल्ब°, त्रिस्°,
 दंशमशक°, पुरयजल°, मुनि-
 गण°, व्याघ्रत्वच्°, शब्दमाया°,
 षोडशकला°]
 आ-वृत्ति- -तिः सौ १, ३. [°ति-
 विक्षेप°]
 आ/वृत्, ओ...वृत्त्याम् २संन्या
 १७: १५^b.
 आ-वर्त- कान्तिविशेष°, गुद्°, तृण°,
 तृष्णा°, नासाग्रगमन°, पञ्चन्°,
 १ब्रह्मन्°, २वाम°
 आ-वर्तन- अङ्गार°, पुनर्°, प्रणव°,
 सहस्र°
 +आवर्तन-क्रम- -मेण अच् २.
 †आ-वर्तमान°-
 +आ-वर्तिन्- असकृत्°, पुनर्°
 आ-वृत्- २दक्षिणा°, स्थालीपाक°
 आ-वृत्त- त्रिस्°
 आ-वृत्ति- अन्°, द्विस्°, पञ्चक्रिया°,
 १पुरय° पुनर्°, मन्त्र°, विध्युक्-
 मन्त्र°
 आ/वे>ओ(आ-उ)त- -तः मना १,
 ३५^a.
 आ/वेष्ट>आ-वेष्टित- कुच°
 +आ/व्ये>वी>आ-वीत- अङ्ग-
 वा...धि°, गोप...व°, प्राचीन°
 *√आश्(इच्छायाम्) गप्. पृ१५६० द.
 आश- √अश् (व्याप्तौ) द.
 आशक-, आशयित्वा √अश्
 (भोजने) द.
 १आशा- अणिमाद्यष्टैश्वर्य°, दारिद्र्य°,
 उर्°, निर्°, ब्रह्माद्यैश्वर्य°, १भाव°

१भोग°, १मोघ°, विषय°, संकल्प°
 सर्व°
 +आशा-दशा- विषय°
 २आशा- अष्टन्°, चतुर्°, वि°
 +आशा(शा-ञ्च)न्त- आ°
 आ/शास्>शिस>+आ-शिष-
 निर्°
 आ-शिस- निर्°, मन्त्र°, १वज्र°
 आशिन्- √अश् (भोजने) द.
 आशिष्ट- आशु- द्र.
 आ/शी>आ-शय- अन्°, अपगत°,
 अविद्यमा...ख°, उत्तम°, कर्मन्°,
 क्लेश°, २जल°, देवसंदूषित°,
 रस°, विगत°, विशद°, शीतल°,
 सर्वभूत°
 +आशीविष- विषय°
 आश्चर्य- अति°, अद्भुत°, आनन्द°,
 सर्व°
 +आश्चर्य-जाल- कल्पित°
 +आश्चर्य-सागर- अनन्त°
 आ/श्रम्>आ-श्रम- अति°, अन्°,
 अन्य°, २कुल°, कैवल्य°, गृह°,
 चतुर्थ°, तापस°, तीर्थ°, तुरीय°,
 १देव°, परम°, परमहंस°, परहंस°,
 पुष्प°, बदरिका°, ब्रह्मचर्य°,
 १मोक्ष°, ३वर्षा°, वानप्रस्थ°,
 वृद्ध°, १शिव°, शिवगृह°, समु-
 दस्त°, सर्व°, स्व°
 +आश्रमा(म-आ)चार-विद्या-धर्म-
 पूर्वापन्न°
 आ/श्रि>आ-श्रय- अन्°, अनन्य°,
 अन्न्योन्न्य°, अभिभव°, अल्प°,
 अविद्या°, आश्रयिन्°, क्रियाफल°,
 गुणत्रय°, १चित्°, तद्°, १तद-
 धिष्ठान°, तीर्थायतन°, नाना°,
 निर्°, निरुद्धकरण°, प्रकाश°,
 प्रतिप्रतिगुण°, बहुदोष°, बिन्दु-

नादकला°, ब्रह्माण्ड°, मद्°,
 मन्त्र°, यथा°, शब्द°, १शिव°,
 षष्°, ६स°, सर्वभूतगुहा°, सुख-
 दुःखबुद्धि°, सुरदुःखतल°, स्वा-
 धिष्ठान°, १हेतु°
 आश्रयिन्- आत्मन्°, १करण°,
 कार्य°, २सह°
 +आ-श्रयण- गुहानिवात्°
 आ-श्रित, ता- अन्°, अप्°, २उपा-
 सना°, कल्पद्रुम°, गूढधर्म°, जीव°,
 बुद्धिज्ञान°, १भाव°, वीणादण्ड°,
 वैकुण्ठ°, स्वाहा°
 आ/श्रु>श्रु, +आ...श्रुणुहि मना १,
 १३५^f.
 आ/श्लिष्>+आ-श्लिष्ट- सिद्धि-
 बुद्धयुभय°
 +आ-श्व-चण्डाल-गो-खर-
 आश्वस्- √अश् (भोजने) द.
 आष्टि-, आष्टि-ह- √अश् (व्याप्तौ) द.
 √आस् अधि°, उद्°, उप°, पर्युप°,
 सम्°, समुप°
 +आसक- उप°
 +आसन्- उप°
 १आसन- -नम् शि ६, २१२. [°न-
 अनन्त°, आत्मन्°, आमोदा-
 नन्द°, उप°, १कथा°, १कमल°,
 कुक्कुट°, १चक्र°, चिन्मय°,
 चिन्मयानन्द°, जित°, १त्रिद-
 ण्ड°, दर्भ°, दिव्य°, १दठ°,
 धनुस्°, २धारणा°, पङ्कज°, १पद्म°
 पद्मादि°, परममङ्गल°, पाय°,
 पुष्पलता°, पूर्वोक्त°, २भद्र°,
 मङ्गल°, मन्त्र°, २मयूर°, मात्रोप-
 करण°, १मुक्त°, मृदु°, २यम°,
 यमादि°, २योग°, रत्न°, १वज्र°,
 वस्त्र°, विषम°, विहार°, वीर°,
 व्याघ्रचर्मन्°, शय्या°, शव°,

a) शौ १०, २, ३१ । b) ऋ १०, १०, १ । c) गप्. (पृ१५५) प्राति. यनि. शोषः द. । d) मा ३२, < ।
 e) व्यु. ? =सर्प- । f) ऋ १०, ७५, ५ । g) गप्. (पृ१११) अश्वचण्डाल° इत्यत्र यनि. शोषः द. । h) भावे करणे वा
 व्युद् । गप्. (पृ१५८) यनि. संख्यानिर्देशः द. । i) 'सक्तः' इति मैत्रि ४, २ ।

शेषभोग°, संतोषमुख°, सिंह°, सिद्ध°, सुख°, स्व°, रस्वस्तिक°, स्वस्तिकादि°]

+आसन-मेढू- संबद्ध°

+२आस(न>)ना- उप°

+आसमान- उप°

आसा- उप°

+आ(सक>)सिका- ६स°

+आसित- अधि°, उप°, समुप°

+आसितव्य- उप°

+आसित्वा उप°

आसीन- उद्°, उप°, कैलासशिखर°, पद्मार्सि...न°, पद्मासन°, वृन्दावन...ल°, वीरासन°, शिलाशय्यासन°, समु°, मुख°, हृदयाम्बुसुह°

+आसित- उप°

+आस्य उप°

+आस्य- उप°

+आस्यमान- उप°

आस- √अस् (क्षेपणे) द्र.

आ/सञ्ज>आ-सक्त-क्तः मैधु, २^a.

[°क्त- अति°, अत्यन्त°, अन्य°, अन्यधर्म°, अव्यक्त°, कथाकीर्तन°, क्रीडा°, जानु°, १दृढ°, नाद°, निरन्तरासक्रीडा°, १पुरुष°, प्रवृत्ति-मार्ग°, प्रेमन्°, ब्रह्माभूतरस°, योषित°, वनलीला°, विषय°, शाखा°, स्नेह°]

आ-सक्ति- अग्न्य°, मण्डल°, १रूप°

+आ-सङ्ग- उत्तर°, कर्मफल°, विषय°, विषयाशीविष°, श्रेष्ठ°

आ/सद्>सीद्, सादि, आ...सीद वपू १, ५, ११^b.

आ-सन्न- गृह°, १शिव°

+आसन्न-काल- उत्क्रमण°

+आ-सादन- पात्र°

आसन^१- -सन् वा ८; -सि मैत्रि ६, ३६°.

१-२आसन- √आस् द्र.

+३आसन^२- १हृद्°

आसम् √अस् (क्षेपणे) द्र.

आ/सिच्, ञच्, आसिषिक कौ १, २^१°.

आसिञ्चते इ १२ : २०; आसिञ्चतु वृ ६, ४, २१^१°.

आसिन्- √अस् (क्षेपणे) द्र.

आस्तिक्य- √अस् (भुवि) द्र.

आ/स्तु स्तु>स्तर>+आ-स्तर-पत्र°

आ-स्तरण- नाना°

+आ-स्तृत- भस्मन्°

आ/स्था>आ-स्थ, स्था- अन्°, अन्तर°, कृत°, १बन्ध°, १भोक्ष°, सदसत्°

आस्पद्- देश...या°, निर्°, परप्रेमन्°, बाल्या...न°, मनन°, मनःषष्ठेन्द्रिय°, शिवशक्तिपद°, सर्वप्रेमन्°

आ/स्फ(र्)>ल्>स्फालि>+आ-स्फालन- कालद्वय°

+आ/स्फुद्>आ-स्फोट- हास्य°

आस्य- कराल°, कुड°, ६दक्षिणा°, दशन°, २पद्मा°, लीन°, संवृत°

आ/स्वद्, >स्वादि>आ-स्वाद- अनेकरस°, खाद्य...स°, प्रातिभ°, ब्रह्माभूतरस°, मस्तक...त°, रस°

+आ-स्वादन- प्रतिबि...ल°, रस°, सदानन्दरस°

आ-स्वादित- राधा°

√आह् अनु°, प्र°, प्रति°

आ/हन्>+आ-घात- १ज्वलन°, दुन्दुभि°, २पवन°, वायु°

आ-हत- अन्°, दरुड°

आ/हु>आ-हवन->आहवनी- य^११६- गार्हपत्य°

आहुति- -तीः नाप ४, ३८. [°ति- अमृत°, २आज्य°, चन्दन°, पूर्य°, सर्व°]

आ/हृ>आ-हरण- रवेद°

आ-हार- अति°, अन्°, अल्प°, चतुर्थ...र°, चतुर्विध°, जित°, त्रिदश°, नियत°, निर्°, पान°, पायस°, प्रविचिक्त°, १फल°, फल-पत्रोदक°, मित°, यत°, याचित°, योगविघ्नकर°, लघु°, १वमन°, शीतोष्ण°, मुस्निग्धमधुर°

+आहार-पात्र- भैषज्य°

+आहार-विहार- युक्त°

+आ-हारिन्- अन्न°, गोमूत्रगोमय°

आ-हत- अन्°, तद्°

आ/ह्लाद्>आ-ह्लाद- अतिशय°, कोटिचन्द्र°, खेद°

+आह्लादा(द-अ)नन्त-प्रवाह-अखरडानन्द°

+आ-ह्लादक- षमित्र°

+आ-ह्लादि(न्>)नी- सर्व°

आ/ह्वे>आ-ह्व- शत°

+आ-ह्वय- ३राका°, स्वाधिष्ठान°

इ

√इ (गतौ) अति°, अनु°, अनुसम्°, अनूद्°, अन्तर°, अन्वव°, अप°, अपि°, अभि°, अभिपरि°, अभि-प्र°, अभिसम्°, अभिसमा°, अभ्या°, अभ्युद्°, अव°, अस्तम्°, आ°, उद्°, उदा°, उप°, उपप्र°, उपसम्°, उपसमा°, उपा°, नि°, निर्°, न्या°, परा°, परि°, परिसमा° पर्यव°, पर्या°, प(रि)>लि°, प्र°, प्रति°, प्रत्यव°, प्रत्या°, प्रा°, प्रोद्°, वि°, विपरि°, विप(रि)>

a) 'सक्तः' इति मैत्रि ४, २ । b) 'सा...सीद' इति पा. १ यनि. शोधः द्र. (तु. ऋ २, २३, १) । c) 'आस्ये' इति सात. । d) =आसन । e) 'सिषिकः' इति निसा. १ यनि. शोधः द्र. [तु. जैत्रा १, ५०; वैतु. 'निषिकः' इति आन., अज्या., 'निषिञ्च' इति शांत्रा. (३, २), 'निषिञ्चल' इति बे.] । f) ऋ १०, १८४, १ g) =अग्निविशेष- ।

लि° , व्यति° , व्यप° , व्या° , संवि° ,
सम्° , समति° , समनु° , समव° ,
समा° , समुद्° , समुप° , समोप° ,
संपरा° , संपरि°
+२आयु- उप°
+इत्- पाद्°
+१इत्- अति° , अनु° , अन्तर्° ,
अपि° , अभिसमा° , अभ्युद्° ,
अस्तम्° , आ° , उद्° , उप° , दुर्° ,
परा° , प्र° , प्रति° , वि° , विपरि° ,
व्यति° , व्यप° , समति° , समनु° ,
समव° , समुद्° , समोप°
+३इति- अपि° , प्रति° , सम्°
१इत्य अति° , अभिपरि° , अभिस-
मा° , अभ्या° , आ° , उदा° , उप° ,
उपसमा° , न्या° , परा° , परि° , परि-
समा° , पर्या° , प्र° , प्रति° , समति° ,
समा° , संपरि°
+इत्वन्- हार°
+इत्वा उद्°
+इथ- सम्°
+१ईयमान- प्रति° , समुद्°
+ईयिवस्- उप°
१एतृ- अस्तम्° , उद्° , परि° , पुरस्°
+एय- उप°
यन्- यतः वृ २, ३, ३; ५; यन्तः
अरु ३१९^a. [°त्- अन्द्° ,
अव° , अस्तम्° , आ° , उद्° ,
प्र° , प्रोद्° , सम्° , समुद्° , सुवर्°
+√इ(अध्ययने) > १आपि अधि°
+२अयन- अधि°
+२आपक- अधि°
+आपयत्- अधि°
+२आपित- अधि°
२आय- अधि°
+आयक- अधि°

+२इत्- अधि°
+२इत्य अधि°
+इयान- अधि°
+एतव्य- अधि°
+२एतृ- अधि°
इत्तृ- चीर° , मोदक°
इक्षु-रस- एला°
इद्वत्कु- > ऐक्ष्वाक- -०क मैत्रि
१, २^b.
+√इङ्क् प्र°
+इङ्कितवत्- प्र°
√इङ्क् सम्°
+इङ्गन- अन्°
+इङ्गुदि- -०- सर्षप°
√इच्छ्, इष् (इच्छायाम्), इच्छति
मैत्रि ६, ३४^d. [अनु° , अभि°]
इच्छ, च्छा°- अन्° , आत्मावलोक° ,
किम्° , १काम° , गृह° ,
तत्तल्लोक° , तद्° , देहत्याग° ,
धन° , ध्यान° , निन्दा° , निर्° ,
पर° , पृथिवी° , १भोग° , १मोक्ष°
यथा° , शीत° , शुभ° , संभोग° ,
सर्व° , स्व°
+इच्छा-जाल- सर्व°
+इच्छा-भय-क्रोध- विगत°
इच्छत्- अन्° , अनु°
+इच्छु- निर्°
१इष्ट- -ष्टम् सार २८७ : ८. [°ष्ट-
अन्° , अभि° , मद्° , यथा° , सर्व° ,
स्व°]
इष्ट-तम- -मम् गोल ३^f.
+इष्ट-विद्योग- १काम°
+इष्टा(ष्ट-अ)निष्ट-कलन- नष्ट°
+इष्टा(ष्ट-अ)भीति-युग्माब्धु-
(ज >)जा- करकमलधृत°
१एष(रा) > णा^e- त्यक्त° , दार° ,

धन° , १पुत्र° , लोक° , २वासना° ,
वित° , सकल° , सर्व°
+एषणा(णा-आ)त्मन्- अन्°
इज्- इज्जान- /यज्(परि.) द्र.
३इतर- १इतर° , जीव° , १दक्षिण° ,
२वाम° , २सव्य° , सुख° , स्व°
इतर-लक्षण-शु(न्य) > न्या- न्या
ससा १, ४०^b.
+इतर-वासना- विगत°
१-२इति- इदम्- द्र.
३इति- /इ(गतौ) द्र.
इतिहास- आगम° , २वेद° , १शु-
ति° , ६स°
इतिहास-पुराण- ६स°
इद्^c श्वे ४, २२९[!].
इदम्- यत्किंचिद्°
१इति गपू. पृ १६४ द्र.
२°इति अस्मि° , अहम्° , चिच्चन्द्र-
मयी° , जीवा° , त्मन्° , जीवेश्वर° ,
देवदर्शिन° , देवर्षि° , त्मन्° , भू-
भुवःस्वर्° , हंस°
+इति-संज्ञक- -कः ता २, १.
+इति-संज्ञा- > इतिसंज्ञि-
(त >)ता- -ता ता २, ४.
इत्या(ति-आ)दि- जगत्त्वमहम्° ,
रामषडक्षरी° , षड्भिषड्भाव°
ईदृश- अन्°
√इध्, न्ध् अभि° , सम्°
इध्- -द्धम् मैत्रि ६, ३५^g; मन्त्रि
१^h! [°द्ध- अभि° , १आशा°]
+इध्- अभि°
+इध- सम्°
इन्धन- अभि° , अन्° , दग्ध° , निर्°
पत्र° , पलाश° , पातक° , शमी° ,
समिध्°
+एध- आर्द्र°

a) तैआ १, २७, ५। b) ए° इति सात.। c) व्यु?। d) 'इच्छन्ति' इति सात.। e) बप्रा. द्र.। इह = अभिलाष- , नाडीविशेष-। f) °मः इति आन.। g) गपू. (पृ १६२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। h) लक्ष् इति आन.। i) गपू. (पृ १६३e) इत् इत्यत्र यनि. शोधः द्र.। j) ऋ १, ११४, ८। k) पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. चू१)। l) 'अहम्' इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. चू१)।

इन- अधि°, १सोम°

√इन्दु > †इन्दि(र)रा°- १काम°, व्योमन्°

†इन्दिरा-कला- व्योमन्°

†इन्दिरा-सुत- आनन्द°

इन्दु- अर्के°, अर्ध°, कुन्द°, चम्पक°, २जल°, दीपज्वाला°, पूर्ण°, १बाल°, विन्दु°, मौलि°, रवि°, रेफ°, १शङ्ख°, १शिव°, १सूर्य°

ऐन्दव-वेन त्रिता ३, १९^b.

†इन्दु-चक्र- यात°

†इन्दु-रवि- अनन्त°

इन्द्र- न्द्रः ऐ ५, ३; मड २०, ३५°; वृषू २, १४५^d; न्द्रम् मड २०, ३५°। [°न्द्र- अरुण°, उप°, १कपि°, गज°, चतुर्मुख°, दिवाकर°, दिश°, १देव°, नग°, नर°, ३नाग°, निशाकर°, वृष°, पक्षिन्°, प्रजापति°, १ब्रह्मन्°, १ब्रह्मन्°, २भव°, भुजग°, महत्°, मुनि°, मृग°, २योगिन°, राजन्°, विप्र°, शैल°, ६स°, सिंह°, २सुर°]

इन्द्र-जाल- जगत्°, तर्क°

इन्द्र-सुध्म°- सुयुत्र°

इन्द्र-नील°- चम्पक°, महच्छैल°, १वज्र°

इन्द्रा(न्त्र-आ)दि- -दि रार ३, ११^f। [°दि- १अङ्ग°]

इन्द्रिय- -यैः नि २४^g। [°य- अखिल°, अति°, अन्°, अन्तर्°, अन्तर्बाह्य°, अन्तर्हित°, अवि- कल°, आत्मन्°, एकादशन्°, कर्मज्ञान°, कर्मन्°, काय°, १केव- ल°, चक्षुरादि°, चित्त°, जित°,

ज्ञान°, ज्ञानकर्मन्°, तृप्त°, दशन°, देह°, निर्°, पञ्चन्°, पटु°, बुद्धि°, भूत°, मनःषष्ट°, १मनस्°, यत°, विकल°, विजित°, विषय°, शरीर°, ६स°, संयत°, सकल°, सर्व°]

इन्द्रिय-जय- सत्त्वशुद्धि°

†इन्द्रिय-द्विष्- निगृहीत°

†इन्द्रिय-पशु- पङ्क्तिबद्ध°

†इन्द्रिय-मनो-बुद्धि- यत°

†इन्द्रिय-मनो-वृत्ति-

क्षीरा°

इन्द्रिय-वृत्ति- विचित्र°

इन्द्रिया(यन्त्रा)दि- प्राणा°

इभ°- शनि°

†इभ-युग्म- शुभ्राभ्राम°

इयान- √इ(अभ्ययने) द्र.

इर, रा- अन्°, तन्त्री°, योगधी°

१इला- गपू. पृ १६९ द्र.

२इला- २इला°

√इष्(इच्छायाम्) √*इच्छ् द्र.

√इष्(गतौ) > एषि अनु°, परि°, प्र°, प्रति°

इषित- प्र°

†इष्य अनु°, प्र°, प्रति°

†१एष- प्र°

†२एषण- अनु°

†एषणीय- अनु°

†३एष(या)णा- अनु°

†एषमाण- अनु°

†एषयित्वा प्र°

†२एष्य- अनु°

†एष्य- अनु°

†२एष्यत्- प्र°

इषु°- तिग्म°

इषु-धि°- शत°

†इष्वा(षु-आ)स°- परम°, महत्°
इष्टक, का- अमिचित्या°, पञ्चन्°

ई

१ई > ई-कार- वियत्°

√ई अव°, उपसम्°, प्रति°

†ईय प्रति°

२ई- गपू. पृ १६९ द्र.

√ईक्ष् > क्षि अनु°, अनुवि°, अन्वव°, अप°, अभि°, अभिप्र°, अभिवि°, अभिसम्°, अव°, उद्°, उप°, निर्°, परि°, पर्यव°, प्र°, प्रति°, प्रसम्°, वि°, सम्°, संप्र°

†ईक्षक- उप°, परि°, प्र°

१ईक्षण°- अन्तर°, अभि°, तद्°, परदोष°, पुष्पा...य°, प्र°

†ईक्षणीय- जाग्रच्चित°

२ईक्षणा°- अमल°, अश्रुपूर्णा- कुल°, १कमल°, नासाप्रदत्त°, पद्म- निभ°, पुष्कर°, प्रफुल्लकमल°

†ईक्षत्- प्रति°

ईक्षमाण- अव°, उद्°, वि°

†ईक्षयत्- अभिवि°, वि°

ई(क्ष)क्षा- अप°, अभिसम्°, अव°, उप°

†ईक्षित- अप°, परि°, मन्त्र°

†ईक्षितृ- उप°

†ईक्ष्य अनु°, अनुवि°, अप°, अव°, उद्°, निर्°, परि°, प्रसम्°, वि°, सम्°, संप्र°

†ईक्ष्य- दुर्निर°, दुष्प्र°, निर्°, प्र°

†ईक्ष्यमाण- अव°, वि°

+ √ईक्ष्य अभिवि°

√ईक्ष्, ईक्ष्ते वपू २, ३५^j.

ईडित- सनकादिमुनि°

ईय √ई द्र.

a) बप्रा. द्र. । इह =इकारबीजाक्षर-, लक्ष्मी- । b) 'ऐद्वयेन' इति अत्र्या, द्वमद्वै इति अत्र्या. संति. । c) ऋ ६, ४७, ११ । d) तैत्र्या ८, ८, १ । e) ऋ ६, ४७, ११ । f) गपू. (पृ १६७) इन्द्राद्या° इत्यत्र यनि. च भाव° इति च शोधः द्र. । g) तु. गपू. पृ २४७h । h) भाप. । गपू. (पृ १६९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) करणे ल्युट् =नेत्र- । j) 'ईयते' इति ऋ ६, ४७, १८ ।

१ईयमान- √इ(गतौ) परि. द्र.

२ईयमान-^०

ईयिवस्- √इ(गतौ) द्र.

√ईर्, > रि अभिप्र^०, उद्^०, प्र^०, प्रति^०,
सम्^०, समुद्^०ईर्- सम्^०, स्व^०+ईरक- प्र^०+ईरण- सम्^०+ईरयित्- प्र^०+ईरयित्वा अन्^०ईरित- -तः मैत्रि २, ६^b. [०त-
अणुवात^०, अभिप्र^०, उद्^०, त्वं-
पद^०, प्र^०, सम्^०, समुद्^०+ईरितुम् सम्^०+ईरित्- प्र^०+ईरिन्- स्व^०+ईर्यमाण- प्र^०√ईर्ष्य>ईर्ष्य>र्ष्या- १आशा^{००},
१काम^{००}, क्रोध^०, जरा^{००}, तृष्णा^०,
निन्दा^{००}√ईशु अभि^०१ईश- अभि^०, अधि^०, अन्^०, अन्त्या-
ङ्घ्रि^०, अर्धनारी^०, अष्ट...द्या^०,
इन्दु^०, गण^०, गिरि^०, गुडाका^०,
गुण^०, चरड^०, जगत्^०, जीव^०,
३त्रिपुर^०, दरड^०, १देव^०, पर^०,
परम^०, पर्वत^०, पार्वती^०, प्रजा^०,
१ब्रह्मन्^{००}, २भग^०, २भुवन^०,
भूत^०, महत्^०, ५योग^०, रुद्रलोक^०,
लोक^०, १वाच्^०, विप्र^०, विप्र^{००},
वित्त^०, विश्व^०, विष्टप^०, विष्णु^{००},
शकामि...ग^०, षष्ठी^०, सर्व^०,
सर्वज्ञ^०, सर्वलोक^०, २सुर^०, हृदय^०,
हृषीक^०+ईशा(श-ञ्च)र्षेण- अन्^०+२ई(श)>शा^०- अन्^०ईवान- -नः श्वे ३, १५९^f. [०न-
अघोर^{००}, इन्द्र^{००}, तत्पुरुष^०,परम^०, १ब्रह्मन्^{००}, १ब्रह्मन्^{००},
महत्^०, विमला^{००}, शक^{००}, २सुर^०,
हृद्गुहा^०ईशान-दल- गौरवर्या^०+ईशु- अभि^०ईश्वर, री- अन्^०, अन्नपूर्णा^०, अ-
म्बिका^०, अर्धनारी^०, अवस्था^०,
आत्मन्^०, आनन्द^०, ईदृश^०,
ईश्वर^०, ऋद्धि^०, १कपि^०, १काम^०,
कैलाश^०, गण^०, गोपाल^०, चासु-
रुडा^०, जगत्^०, जगत्^{००}, जल्प^०,
जीव^०, ज्ञ^०, तर्कागम...च्^०, तृती-
यचक्र^०, ३त्रिपुर^०, दिश^०, १देव^०,
द्वितीयचक्र^०, धन^०, नन्दि^०, नारी^०,
निकुञ्ज^०, निर्^०, नीलकण्ठ^०, पञ्च-
मचक्र^०, परम^०, प्रथमचक्र^०, प्रपञ्च^०
वृन्दावन^०, १ब्रह्मन्^{००}, १भद्र^०,
३भीम^०, २भुवन^०, मण्डल^०,
महत्^०, महाविद्या^०, महास्तम्भ^०,
मुनि^०, मूर्ति^०, यज्ञ^०, ५योग^०,
२योगिन्^०, रङ्गधामन्^०, राजराज^०,
१राम^०, १रुद्र^०, लौकिक^०, १वज्र^०
वटुक^०, १वाच्^०, विराज^{००}, १वि-
श्व^०, १विश्व^{००}, वीर^०, २वज्र^०,
षट्त्रिंशदल^०, षष्टिसिद्धि^०, सदा-
शिव^०, सप्तमचक्र^०, सर्व^०, सर्व-
मन्त्र^०, सर्ववागीश्वर^०, सर्वविद्या^०,
सर्वसिद्धि^०, सर्वेश्वर^०, सिद्धि^०,
२सुर^०, स्थल^०, स्वयम्^०ऐश्वर्य- अन्^०, अष्टन्^०, आ-
युस्^{००}, ज्ञान^{००}, देवेन्द्र^०, धर्म^{००},
हुद्धि^{००}, ब्रह्मादि^०, १भोग^०, महत्^०
२योग^०, १विश्व^०, सर्व^०
ईश्वर-पूजन- तपस्^०ईश्वर-प्रणिधान- तपस्^०, शौच^०√ईष्(गतौ) समुद्^०√ईष्(उञ्छे) गप्. पृ १७२^f द्र.√ईद् > ईह, हा- अन्^०, निद्^०, सम-स्त^०, सर्व^०
ईहित- अन्^०

उ

१उ>उ-कार- अकार^०

२उ गप्. पृ १७३ द्र.

√उञ् अभि^०, परि^०, प्र^०, संप्र^०.+उक्ष- महत्^०+उक्ष-सेन- सुयुज्^{००}+उक्षण- अभि^०उक्षित- प्र^०+उक्ष्य अभि^०, परि^०, प्र^०, संप्र^०उ(प्र>)प्रा- -मा व ४४३ : २०९^g.[०प्र- अति^०, अन्^०, २पिङ्ग^०,
२पिङ्गल^०, महत्^०]+उप्र-जटा- एक^०+उप्र-भक्षित- महाप्रविष^०+उप्र-भङ्ग- १नन्द^{००}+उप्र-भैरवा(व-ञ्चा)दि- दिग्भ-
वादि^०+उप्र-रूप-वदन- प्रकटितदंष्ट्रा^०+उप्र-वक्र- पञ्चयोनि^०√उच्>उचित- गार्हस्थ्य^०, गृहस्थ्य^०,
तत्तदण्ड^०, तत्तद्भुवन^०, तद्^०,
यथा^०, वर्णाश्रम^०, १समय^०,
सूर्यच...ल^०उच्च->+उच्च-नीच- अति^०+उच्च-नीचा(च-ञ्चा)यत- अति^०उच्चैः अति^०उ(द्>)च्/चद्>चाटि>१उच्-
चाटन- ग्रहमण्डल...र्व^०, चि-
न्ता^०, १मारण^०, सर्वज्वर^०उच्-चाटि(न>)नी- दुष्टग्रह^{००}

उ(द्>)च्/चर,>चारि>उच्-

चार- नामन्^०उच्-चारण- अकार^०, १ओंकार^०,त्रिगुणीकृतप्रेष^०, त्रिविध^०, नामन्^०प्रेष^०, सकृत्^०

a) गप्. (पृ १६९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) ०तम् इति मै २, ९; सात. । c) कर्तरि कृत् (गप्. पृ १७० यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । d) भावे कृत् । e) बप्रा. द्र. । f) ऋ १०, ९०, २ (तु. टि. वैपश् यस्था.) । g) तैत्र्या ४, २३, १ ।

उच्-चार्यं द २.
 उ(द्)>च्/चल्, उच्चलति योच्
 २७?°.
 १-२ उच्चाटन- उच्चाटिनी- उच्-
 ✓चद् द्र.
 +✓उच्छल् वि°
 उ(द्)>च्/च्छिद् > +उच्-छित्ति-
 अन्°, आकारोपराग°, तद्°,
 विशेषगुण°, सर्व°
 उच्-छेद- अत्यन्त°
 +उच्-छेदन- संसार°
 उ(द्)>च्/छि(शिष्) > उच्-
 छिष्ट- अन्°, उच्छिष्ट°, तद्°,
 देह°, भोजन°, २रोहित°, २लो-
 हित°, स्व°
 उ(द्)>च्/छि(शि) > उच्-छित-
 अति°, नद्वय°, १पुरुष°
 उच्छ्व(द्)✓श्वस्, > श्वासि > उच्-
 श्वास- १निश्वास°, १निश्वा-
 स°°, निःश्वास°, समीकरण°°
 +उच्-श्वासन- निःश्वास°
 +उच्-श्वासिन्- ऊर्ध्व°
 उच्य, उच्यमान- ✓वच्(परि.) द्र.
 उज्जायी- > उज्जाय्या(य्यी-आ)ख्य-
 ख्यम् यो १, २९!°.
 उ(द्)>ज्/जीव् > +उज्-जीवक-
 सकललोक°
 उ(द्)>ज्/जुम्भ् > +उज्-जुम्भण-
 णम् त्रिता २, १?°.
 उ(द्)>ज्/ज्वल् > उज्-ज्वल-
 अनन्तशिखर°, एक°, कीरीट-
 मुकुट°, परमा...य°, महत्°, मुकु-
 टा...ल्प°, शशिक...ट°, शुद्धा-
 ...त°, सदा°
 +उज्ज्वल-ज्वाला-सहस्र-
 नयन°

+उज्-ज्वलित- तद्°
 ✓उज्म् अप°, प्र°, सम्°
 उज्झित- अप°, प्र°, लोभादिदोष°,
 विषय...शा°, सम्°
 ✓उज्ज् > उज्ज- आहत°
 उज्जु- २ग्रह°
 उज्जु-प- १त्रह्मण°
 उ(द्)>ङ्/ङी > *उङ्-ङि- > उ-
 ङ्गि(न)ण- -णः १योत२६^d.
 उङ्गीय(न)ण- > +उङ्गीयणा-
 (ण-अ)भिध- -घः योशि १,
 १०३^d; यो १, ४१^d.
 +उत्क°- १कष°
 उ(द्)>त्-कट- निरन्तर°°, मद°,
 सर्व°
 +उत्कट-जलद- अनन्त°
 +उत्कट-ज्वलद्-अर- अनन्त°
 उ(द्)>त्-कण्ठ-
 +उत्कण्ठ-ग्री(व)वा- -वा सार
 २४४ : १९.
 ✓उत्कण्ठ > उत्कण्ठ, ण्ठा- ६स°,
 १सुरत°
 उत्कण्ठ(त)ता- विरह°
 उ(द्)>त्/कृष् > उत्-कर्ष- सर्व°
 +उत्-कर्षि(न्)गी- विमला°
 उत्-कृष्ट- अत्यन्त°, कुत्सित°°,
 विविध°°, सर्व°, हीन°°
 उत्कृष्ट-तम- -मम् नृउ १२६ :
 १४^f.
 +उत्कृष्ट-बुद्धि- ईश्वर°
 उ(द्)>त्/क्रम् > +उत्-क्रान्त-
 अन्°
 उत्-क्रान्ति- सुधुति°
 +उ(द्)>त्/खन् > उत्-खात-
 खुरपुट°
 उ(द्)>त्/तन् > उत्-तान- >

+उत्तान-पाद- स्थाणु°°
 उ(द्)>त्/तप् > +उत्-तप्त-
 अन्तस्तृष्णा°
 उ(द्)>त्-तम- -मम् छां ३, १७,
 ७^२; १^६. [°म- अन्°, उत्तम°,
 जीव°, तापस°, द्विज°, नृप°,
 परिडत°, पुराणपुरुष°, १पुरुष°,
 पुरुषोत्तम°, प्रथम°, ब्रह्मविद्°,
 १ब्राह्मण°, सृष्टि°, मन्त्र°, रथ°,
 सर्व°, सर्वश्रुति°]
 उत्तमा(म-अ)ङ्ग- नत°, बहुकठोर°,
 २महिष°
 उत्तमो(म-उ)त्तम- सर्वमन्त्र°, सर्व-
 यज्ञ°
 उ(द्)>त्-तर- अधर°, अष्टन्°, अ-
 ष्टाविंशति°, उत्तर°, एक°, क्षीर°,
 चेलाजिनकुश°, चैलाजिनकुश°,
 तद्°, २दक्षिण°, नाभि°, निष्पन्द-
 भाव°, पूर्व°, प्रति°, लोक°, वचन-
 प्रतिवचन°, सप्तन्°
 उत्तर-दल- पीतवर्ण°
 +उत्तरीय^२- गजानन°
 उ(द्)>त्/तृ > तारि, तिर, +उत्-
 तरण- नदी°
 +उत्-तार- संसारसागर°
 +उत्-तारण- प्रचारण°, संसार°
 +उत्-तीर्ण- १विश्व°
 उत्था(उद्)✓स्था, > तिष्ठ, उत्तिष्ठ
 वृ ६, ४, १९^१.
 +उत्-थ- अपञ्चीकृतभूत°, आत्म-
 तत्त्व°, जाग्रत्संस्कार°, निद्रा...
 द°, १पद्म°, मनन°, महाभूत°
 उत्-थित- अब्दसलिल°, कण्ठ°,
 १सुरत°
 उ(द्)>त्/पट् > पाटि > +उत्-
 पाटन- संजीवनपर्वत°

a) 'चलति' इति निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । b) °जाया° इति निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । c) जुम्भ° इति निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । d) पूर्वेण संधिरार्षः । e) व्यु? । f) निसा. अपा. । g) ऋ १, ५०, १० । h) गपू. (पृ१७७) यनि. शोधः द्र. । i) 'उदीर्घ्व' इति ऋ १०, ८५, २२ (तु. दि. वैष१ यस्या.) ।

उ(द्)>त्/पत्>+उत्-पात-
शय्या°

उ(द्)>त्/पद्>उत्-पत्ति- -त्तिम्
कुं२३:२°;ब्रवि१°.[°त्ति-अन्°,
अनन्याश्रयधर्म°, अभिमान°,
अम्बर°, गर्भ°, तद्°, पूर्व°, प्रप-
ञ्च°, ब्रह्मज्ञान°, रुद्राक्ष°, श्रीमद्ब्र-
ह्मसंहिता°, संविद्°, संसार°, स्थिति°]
उत्पत्ति-प्रणव- उभयात्मक°
+उत्पत्त्य(त्ति-अ)पायो(य-उ)-
न्मेष-निमेष- जगत्°

उत्-पन्न- अज्ञान...क°, अन्°,
अभक्ष्यभक्षण°, उपासककुल°,
तत्सृष्टि°, तद्°, पितृ...ध°, पूर्व°,
१श्रुति°, सद्यस्°, सृष्टि°

उत्-पाद- २असत्°, उत्तर°
+उत्-पादक- १उच्चाटन°, प्रेमन्°,
सकललोक°

+उत्-पादन- पुनर्°, शक्तिहर्ष°
+उत्-पाद्य- तन्तु°

उत्पल- कपाल°, १नील°, ३रक्त°,
लता°

+उ(द्)>त्/*पशु>उत्-पश्यत्-
-इयन्तः छां ३, १७, ७°.

उ(द्)>त्/सह>उत्-साह-
१श्रुति°, बुद्धि°, १भाव°,
१मनस्°, ६स°, १सुरत°

उ(द्)>त्/सू(प्रेरणे)>उत्-सव-
कृष्णापक्षक्षय°, गृह°, १देव°, देव-
यात्रा°, पर्वन्°, मरण°, महत्°
उत्सव-दर्शन- देवपूजन°

उ(द्)>त्/सु>सारि>+उत्-
सारण- त्रिविधविघ्न°, भूत°

उ(द्)>त्/सृज्>उत्-सर्ग- आ-
नन्द°, वचन°, २शुक्ल°

+उ(द्)>त्/स्मि>उत्-स्मित-
कांस°

१उद् गपू. पृ१७९ द्र.

२उद् वृ १, २, २३, §१५.

√उद्>उत्स->√*उत्स्>उत्सु-
क- कलह°

+उत्सुक-वन- मथुरावन°

उद्- १अच्छ°, अमृत°, उद्भूत°

१उद्-धि- अमृत°, २क्षार°, दी-
क्षित°, दुःख°, २दुग्ध°, २भव°,
महत्°

उद्-पान- १अन्ध°

+उदा(द्-अ)र्णव- क्षीर°

उ(ऊ)दक- अमृत°, अर्घ्य°, आ-
काश°, उष्ण°, कमण्डलु°,
केदार°, गन्ध°, तृण°, नाभिदध्न्°,
निर्°, पिरळ°, १पीत°, पूर्णपात्र°,
१फल°, बहु°, २भग°, महार्घ्य°,
महेश्वरपाद°, १वज्र°, शीत°,
६स°, संस्तुत°

उदक्या- शूद्र°

२उदधि^१- १नन्द°

उद(द्/अ)न्(प्रायणे)>आनि>

उद्-आन- प्राण°, व्यान°, व्या-
न°, १समान°

+उद्-आनयितव्य- अन्°

उद्-र^१- अन्तरिक्ष°, गुद°, ग्रीवा°,
२जल°, जिह्वा°, १त्वक्°,
दामन्°, पाणि°, पाद°, पृष्ठवंश°
बहु°, बाहु°, ब्रह्माण्डभारण°,
महत्°, यजुस्°, लम्ब°, १विदग्ध°
१विश्व°, २वृक°, शिरस्°, शिश्र°,
२सह°, सागर°

+उद्-र-शूल^१- अङ्गशूल°

+उद्(द्-अ)र्चिस्->उद्-र्चि-मणि-
तत्फणामण्डल°

उदा(द्-आ)√दा(दाने)>उदा-त्त^१-
अन्°, अनुदात्त°, नैस्वर्थ°, दीर्घ°,
ह्रस्व°

उदार- परम°, प्रसुप्त°

+औदार्य->औदार्य-सौन्दर्य-वैरा-
ग्य-रस- १उदित°

उदा(द्/आ)स्>उद्-आसीन-
सुहृद्°

उदि[उद्/इ(गतौ)]>उद्-अय-

अपान°, अहंभाव°, आत्मलाभ°,
१क्षय°, चन्द्र°, ज्ञान°, तत्त्वज्ञान°,
१नित्य°, पितृवध°, प्रलय°,
१फल°, भाग्य°, महत्°, महाभा-
ग्य°, रूपग्रहणकार्य°, लययोग°,
लिङ्गशरीर°, २वासना° वितत°,
विश्वाहसंतत°, सविला...या°

उदय-स्थिति-लय- मूलविद्या°

उदया(य-अ)स्तमय- ६स°

उद्-अयत्- पुनर्°

१उद्-इत्(त>)ता- -तागौ३, १५.

[°त- जन्मान्तर°, १त्रिकाल°,
१नित्य°, पूर्व°, प्रथम°, १बल°,
युगपद्°, शम°, शान्त°, शान्त°,
शीर्ष°]

उद्-यत्->+उद्यत्-सूर्य- चम्पक°

उदुम्बर- आम्र°, पालाश°

औदुम्बर- चतुर्°

+उदुम्बर-बदर-नीवार-श्यामक-
तदाहृत°

उद्/गम्>+उद्-गम- १सुरत°

उद्/गृ(निगारणे)>उद्-गार- अ-
पान°

उद्/गै,>गा>+उद्-गायत्- -यन्
अव्य ६.

उद्-गीथ- दुर्°, प्रणव°

उद्/दिश>उद्-देश- चेतन°

उद्/दीप्>+उद्-दीप्ति- सकल-
लोक°

+उद्/धुत्>उद्-द्योत- उद्यदिवा-
क°

a) अड्याः सं. अया. । b) आन. अया. । c) तु. मा., सा. (तैत्रि २, ४, ४, ६; ६, ६, ४), GW.;

वैतु. स्क., उ., म., PW. प्रभ., शं., j.c. उद्/गम्>उद्...अगन्म इति । एतदुत्तु गम्. (पृ१८२)सस्थ. यनि.

शोधः द्र. । d) व्यु. ? =गोपविशेष- ।

उद्/ध(ह)न् > उद्-धत- >

+औद्धत्य- अन्°

उद्धव^१- -वः कृ १६०°

उद्/धू > उद्-धूत- पराग°, २पवन°, पुष्पपराग°

उद्-धूलि- > / उद्धूलि > उद्धूलन-

त्रिपुराद्°, भस्मन्°, सर्वाङ्ग°

उद्धूलित- भस्मन्°

१ उद्धृ गपू. पृ १८३ द्र.

२ उद्धृ(द्/धृ < > ह) > उद्-धरण-
-गम् मैत्रि ६, ३०°.

उद्-धार- आत्मन्°, १बीज°, षट्-
चक्रमण्डल°, सुदर्शनादियन्त्र°

उद्-ध(त)ता- -ता सु २९३:
५९^d.

+३ उद्धृ(द्/ह) > जिहीर्षु > उज्-
जिहीर्ष(र्षु)र्षा- संक्षिप्त...र्षा°

+ उद्/भास् > उद्-भासित- कौस्तु-
भ°

उद्/भिद् > उद्-भिद्- > उद्भिज्-
ज- अराहज°, ऊष्मज°,
जरायुज°

उद्/भू, > भावि > उद्-भव- अन-
ल°, अमृत°, अमृतकलश°, करठ-
कूप°, १करण°, कामक्रोध°, चन्द्र°,
जगत°, तत्स्थान°, तद्°, तद्बृ-
न्दावन°, तन्मण्डल°, दाह°,
देह°, निजशक्ति°, नियमातिक्रम°,
नूतन...त°, बृन्दावन°, १ब्रह्मन्°
२भव°, भूतभाव°, महाकल्पा-
न्तर°, मांसत्वक्छोणित°, १वस-
न्त°, विभव°, वैकुण्ठस्थान°,
श्रीराधा...णी°, सलिल°, साध-
न°, स्थूलसू...ह°, हेतुफल°

+ उद्भवा(व-अ)नुद्भव- शक्ति°

+ उद्-भावन- > उद्भावन-क(र) >
री- -री सी ६°.

उद्-भूत- अनन्त...न°, कृष्णागोपी-
रत°, गृह...क°, तदङ्गराग°,

बाह्यार्थवासना°, मल°, मूल...ल°

+ उद्-भूति- अदृष्ट°

उद्य- / वद्(परि.) द्र.

उद्/यम्(यमेन) > उद्-यत- क्रिया-
शक्तिबल°, ज्ञान...बल°, दिव्य°,
नाडीसंस्पर्शन°

उद्-यम- महिष...र°, सु°, स्वार्थ-
नाश°

उद्/या > + उद्-यान- कल्पक°,
विषय°

उद्/युज् > उद्-युक्त- कलना°,
१नित्य°

उद्-योग- १सत्य°

उद्/रिच् > + उद्-रिक्त- तमस्°,
रजस्°, सत्त्व°

उद्-रेक- स्व°

उद्/वस्(निवासे) > वासि > + उद्-
वासन- गायत्री°, १ब्रह्मन्°

उद्/वह् > + उद्-वाह- अन्°, कृत°,
ब्रह्मानन्दरस°

+ उद्-वासस्- मल°

उद्/विज् > उद्-विग्न- अन्°, निर°
उद्-वेग- अन्°, अन्य°, गत°,
शोक°, हर्ष°

+ उद्देग-कर- अन्°

उद्देगिन्- -गी महा ६, ६३.

उद्/वृत् > + उद्-वर्तन^१- अभ्यङ्ग°
उद्वर्तन-क्रिया- आयाम°

उ(द्)न्/नम् > उन्-नत- अति°,
अत्यन्त°, अनन्त°, त्रिस्°, दृढी-
भूत°, निम्न°, पीन°, शुद्धा...द°

उ(द्)न्/नी > उन्-नयन- समी-
करण°

उ(द्)न्/मद् > मादि > उन्-मत्त-
अन्°, अनुन्मत्त°, आमोदमदिरा°,
क्रोध°, बधिर°, १वाल°, मदिरा°,
मोहमदिरा°, औष्वन°

+ उन्-माद- पराग°

+ उन्-मादन- मदन°

उन्-मादिन्- मन्मथमनस्°, महत्°,
सकलमनस्°, सर्व°

उ(द्)न्/मन् > + उन्-मन-
१मनस्°

+३ उन्-म(नि) > नी- १मनस्°

१ उन्-मनस्- सम्°

१ उन्-मनी- > उन्मन्य(नी-अ)-
वस्था- प्राप्त°

२ उन्मनी- गपू. पृ १८५ द्र.

+ उ(द्)न्/मा(माने) > उन्-मान-
१सेतु°, स्वशब्द°

उ(द्)न्/मिप् > उन्-मेष- अन्°,
जगत°, निमेष°, निमेषण°

उन्मेष-निमेष- अक्षि°, उत्पत्त्युपा-
य°, चित्त°, प्राण°, मौख्य°

उ(द्)न्/मील् > उन्-मीलन-
सर्व°

उन्-मीलित- अर्ध°, किञ्चित्°,
तर्जन्यग्र°

उ(द्)न्/मुख- आत्मन्°, १आशा°,
कलनाकलन°, २चैत्य°, रावण°,
शब्दबीजरस°, संकल्पन°, संमुख°,
स्पर्शबीजरस°

+ उ(द्)न्/मुच् > उन्-मुक्त-
सर्वाथवासना°, हर्षामर्षभय°

+ उ(द्)न्/मूल् > उन्-मूलन-
सुमेरु°

+ उन्-मूलित- समूल°

उप/कृ > उप-करण- क्रीडा°, गृह°,
जलक्रीडा°, तद्°, ताम्र°, भगव...
जा°, मात्रा°, १लोह°, शय्या°,
२श्रवण°, ६स°, सर्व°

उप-कार- प्रकृति°, सर्वलोक°, स्व°

+ उप-कारक- उपकार्य°, साधन°

उप-कारिन्- अन्°, सर्व°

उप/क्रम् > उप-क्रम- ज्योतिस्°,
२दक्षिण°, निर°, ६स°, स्रति°

उप/गम् > + उप-गत- मेषभूय°,
वेदान्त°

+उप-गमन- १मोक्ष°

उप/गै>गा>उप-गान- २कुश°

+उप/घट्>उप-घटित- हाटक°

उपघातक-°घातिन्- उप/हन् द्र.

उप/चर्>उप-चार- -रः भा ३६°.

[°र- दिव्य°, पञ्चन्°, मानस°, राजन्°, वस्त्राभरणादि°, वाद्या-
रम्भ°, विविध°, षोडशन्°, सर्वे°,
सर्वात्मकपूजा°]

उप-चारिन्- यथावत्°

उप/चि(चयने)>उप-चय- भावना°

उप/जन्>+उप-जनित- कर्मन्°

उप/जीव्>+उप-जीविन्- यथा-
लब्ध°, २शिल्प°

उप/तप्>उप-ताप->उपता-
पिन्- अन्°

उप/दिश्>उप-दिष्ट- गुरु°, यथा°

उप-देश- अधिक°, अन्°, अन्य°,
अन्यार्थ°, अभिध्या°, अज्ञक्य°,
असङ्कत्°, आत्मन्°, भास°, ऊर्ध्वा-
न्नायगुरु°, रकल्पना°, गुरु°,
गुरु°, ज्ञान°, तत्तन्मन्त्र°, तत्त्व°,
तथाहाष्टि°, तद्°, तद्धर्म°, १तार°,
१तारक°, पर°, परमगुरु°, पृथक्°,
प्रणव...क्य°, प्रत्यक्ष°, १ब्रह्मन्°,
महावाक्य°, १मोक्ष°, मोक्ष-
साधन°, वाक्यार्थ°, वियोग°,
विहार°, १सुरत°

उप-देश- उपदेश्य°, तद्°, दिव्य-
ज्ञान°

उप/द्वु>उप-द्रव- लुद्र°, निर्°,

पर°, राजञ्चो...दि°, सर्वे°, सुतदु-
...त्र°

उप/धा>उप-हित- कूटस्थ°

उप-नन्द- १नन्द°

उप/नम्>+उप-नत्त- अयत्न°

+उप/नश्(अदरीने)>उप-नाशिन्-
सर्वलुद्धक्षम°

उप/नह्>उ(प)>पानह्->+उपा-

नत्(-क)- ६स°

+उप/निद्(संनिकर्षे), उपनिद व
४३२: ४.

+उप-नि/मन्त्रि(<मन्त्र-)>उप-
नि-मन्त्रण- स्थानिन्°

उप-नि/प(<स)द्>उपनि-षद्-

अद्वयतारक°, अनन्त°, अक्षपूर्णा°
अपरोक्षा...र°, अमृत°, अष्टो-
त्तरशत°, असिताङ्गी°, आत्म-
प्रबोध°, इत्यादि°, उत्तर°, एतद्°,
कालाग्निरुद्र°, गणेशतापनीय°,
१गुह्य°, तद्ब्रह्मन्°, तुलसी°,
तापनीय°, तेजोविन्दु°, त्रिसुपर्णा°,
दशन्°, द्वात्रिंशाख्य°, नाना°,
निरालम्ब°, निर्वाण°, परमतत्त्व-
रहस्य°, परमतत्त्वग्रहस्याख्य...ण°,
पुरुषसूक्त°, बृहज्जाबाल°, १ब्रह्मन्°
मन्त्र°, महत्°, २मुद्रल°, रहस्य°,
राजश्यामलारहस्य°, रुद्राक्षजा-
बाल°, वटुक°, २वेद°, शाखान्तर°
१शिव°, श्रीराजश्यामलारहस्य°,
६स°, सकल°, संकर्षण°, २सदा-
नन्द°, संन्यास°, सर्वे°, सौभाग्य-
लक्ष्मी°, हेरम्ब°

+उपनिषत्(-क)- उक्त°, श्रुत°

उप/नी>उप-नयन्-° पञ्चशीर्ष°,
६स°

+उपनयना(न-अ)नन्तर- अनु-
पनीत°

उप-नीत- अन्°, सत्कुलभव°

उप-नीय अन्°

उप-न्य(नि/अ)स्(क्षेपणे)>उपन्या-
(नि-आ)स- १रूप°

उप/पद्>उप-पत्ति- अन्°, इष्टा-

निष्ट°, गति°, धर्म°, भूतादि...

श°, यथा°, विवक्षितगुण°, १सत्°

सर्वधर्म°

उप-पञ्च- देशकाल°, ब्रह्मचर्य°,
यथा°, यथाकाल°

उप-पातक- पातक°, महापातक°

+उप-पीठ- पीठ°

+उप/प्लु>उप-प्लव- -वम् त्रिता
४, २४°.

+उप/बन्ध्>उप-बन्ध- एकवा-
क्यता°

+उप/बृंह्>उप-बृंहित- सकल-
शक्ति°

उप/भुज्>+उप-भुक्ति- २काल°

उप-भोग- अन्°, कर्मन्°, १काम°,
कालान्तर°, निर्°, प्रति°, १फल°,
१मुक्त°, शिवयज्ञ°, शिवाश्रम°,
सत्यावृत°, स्नानसत्र°, स्वशरीर°
+उपभोग-देह- कर्मदेह°

उप/मा(माने)>उप-म, मा-१अगु°

अन्°, अमृत°, गगन°, गन्धर्व-
नगर°, गाढतम°, गान्धर्वनगर°,
गोक्षीरधवल°, २घट°, घनविद्युत्°
दीप°, दीप्यमानगाढतम°, नभस्°
मृष्टबीज°, मजा°, महारथ°, मा-
या°, मूकका...र°, मेरुशृ...य°,
लिपिकर्मापित°, विद्युता°, विपिन°
वैश्रवण°, शिला°

औपम्य- अन्°, आत्मन्°

उप/यम्(दाने)>१उप-याम->

उपयाम-गृहीत- -तः मउ
२०, ८१°.

उप/युज्>+उप-युक्त- क्रीडा°

+उप-योग- अन्तर्यामिण°, न्यास°,
यथा°, शिवगोष्ठ°, सर्वोपचार°

+उप-योगिन्- तत्तल्लीला°

+उप-योग्य-या- तल्लीला°, मज्जन-
क्रिया°, रलीला°

उप/रज्ज्>+उप-रक्त- द्रष्टृदृश्य°

+उप-रक्तक- उपरज्य°

उप-राग- २आकार°, उपशान्त°,
एकदेशलब्ध°, तद्°, महत्°,
विषय°, सूर्यचन्द्र°, सृष्टि°

उप/रम्>उप-रत- चक्षु...श्च°,

प्रपञ्च^०, सर्व^०
 +उप-रम- १करणा^०, चतुर्दशकरणा^०,
 प्रयासप्रवाह^०, विषय^०, सर्व^०, सर्व-
 न्द्रिय^०
 उपरि^० अनामिका^०, अमितबो...ल^०,
 अमितानन्दाचल^०, उदर^०, ऊरु^०,
 करण^०, कल्याणाचल^०, कारणा-
 जल^०, १कृष्णाजिन^०, २जल^०,
 जानु^०, तद्^०, तदन्त^०, तदभ्य-
 न्त^०, परमान...ल^०, पुष्पक^०,
 बोधानन्दाचल^०, महाज्वा...ष^०,
 मेय^०, वामोरु^०, वासनैषणा^०,
 शीर्ष^०, षट्को...ङ्क^०, षोड...ल^०,
 सर्वसंसार^०, हकार^०
 उपरिष्ठात् सर्व^०
 उप/रुध् > +उप-रोध- अन^०,
 प्रतिज्ञा^०
 +उप-रेखा- रेखा^०
 +उपल^० वैराग्य^०
 उप/लक्ष् > उप-लक्षित- अमानि...
 रा^०, अयुतकुक्षि^०, चतुर्विधसृष्टि^०,
 पृथक्चिह्न^०
 उप/लभ्, > लभ्, उपलभ्यते मैत्रि
 ४, ४^b.
 उप-लब्ध- चित्प्रसाद^०
 उप-लब्धि- अन^०, तद्^०, तल्लक्षणा-
 र्थ^०, प्रत्यक्ष^०, १मोक्ष^०, शब्द^०,
 १स्वरूप^०
 +उपलब्ध्य(ब्धि-अ)नुपलब्धि-
 प्रसङ्ग- १नित्य^०
 उप-लभ्य अन^०
 उप-लभ- अन^०, ६स^०
 उप-लभन- अन^०
 +उप-वन- प्राकार^०, वन^०
 उप/वस्(अशने) > उप-वास- एका-
 दशी^०, कर्मन्^०, प्रातःस्नान^०, व्रत^०
 +उपो(प-उ)षित- त्रिरात्र^०

१उपो(प-उ)ष्य^०
 उप/विश् > +उप-विश्य अन^०
 उप-विष्ट > धा- रत्नपीठ^०
 +उप-वेश- संगम^०
 उप/व्ये > वी > उप-वीत^{१२}- अग्नि^०
 अन्तर^०, कार्पा...त^०, ज्ञान^०,
 यज्ञ^०, शिखा^०, शुक्लवस्त्र^०, ६स^०
 उपवीतिन्- तिनः शा ११.
 उप/शम् > उप-शम- पर^०, परम^०,
 प्रपञ्च^०, संकल्प^०
 +उप-शम(न)नी- प्रपञ्च^०
 उप-शान्त > न्ता- न्ता अत्र ५,
 ८५.
 उप-शान्ति- मनःस्पन्द^०
 उप/शुभ्, > शोभि > +उप-शोभ-
 तद्गण्डक^०
 उप-शोभित- ज्ञानसुद्रा^०, सर्वरत्न^०
 उप-सं/शिल्प > उपसं-शिल्प >
 उपसंशिल्प-स्व- त्वात् मैत्रि
 ३, ३^d.
 उप-सं/ह > +उपसं-हरण- स्वशा-
 खा^०
 उपसं-हार- अजपा^०, पञ्चब्रह्मन्^०,
 प्लुति^०, सर्व^०, सर्वकरणा^०, सवि-
 ला...धा^०
 +उप-सं/ग्रह > उपसं-ग्रह- संख्या^०
 उप/सद् > उप-सन्न- अन^०
 +उप-सं/नश् (व्याप्तौ), उप...सम्-
 ...आनद् मना २, १२, २५^f.
 उप/सृज् > उप-सर्ग- आख्यात^०,
 ज्ञान^०, महत्^०
 उप/सृप् > उप-सर्पण- अन्य^०,
 प्रयाति^०, बलिवैश्वदेव^०
 +उप-सृष्य- १मुक्त^०
 उप/सेक् > +उप-से(व) > वा-
 परदार^०, २लीला^०
 उप-सेव्यमान- महालीला^०

उप/स्तु > उप-स्तरण- अमृत^०
 उप/स्था > +उप-तस्थि^{१६}- अन^०
 उप-स्थ^{१६}- कक्ष^०, जिह्वा^०, पाद^०,
 १पायु^०, पृथिवी^०, रथ^०,
 १वाच^०, शिरस्^०
 उप-स्थान- १मृत्यु^०, सर्वरत्न^०,
 १सूर्य^०
 उप-स्थित- द्वादश...याग^०, महा-
 नित्य^०
 उप/हन् > +उप-घातक- सर्वमृत्यु^०
 +उप-घातिन्- शीत^०
 +उप-हत- अज्ञान^०, अत्यन्त^०,
 उच्छिष्ट^०, उच्छिष्टोच्छिष्ट^०, कर्प-
 रयदोष^०, दारिद्र्य^०, पाखण्ड^०,
 १राग^०, लोभ^०
 +उप-हति- १राग^०
 उप/हस् > उप-हास- अधस्^०
 उप/ह् > उप-हार- महत्^०, मुख्य^०
 +उप-हत- २भक्ति^०
 उपां(प-अं)शु- शुव ४६० : १२५^f.
 [°शु- उच्चैः°]
 उपा(प-आ)/ख्या > +उपा-ख्या-
 निर^०
 उपा(प-आ)/गम् > +उपा-गम-
 तद्^०
 उपा(प-अ)ङ्ग- १अङ्ग^०
 उपा(प-आ)/दा(दाने) > +उपा-त्त-
 स्वच्छन्द^०
 उपा-दान- अन्य^०, २आद्य^०, उपा-
 देय^०, प्रकृति^०, सर्व^०, हान^०
 उपादान-कारण- जगत्^०
 उपा-देय- अन^०, हेय^०
 उपा(प-आ)/धा > उपा-धि-
 अखिल^०, अन^०, अविद्या^०, आत्म-
 न्^०, एतद्...र्ग^०, कटकमुकुटादि^०,
 कारण^०, कार्य^०, कार्यकारण^०,
 तद्^०, देवति...क्ष^०, देह^०, निर^०,

a) व्यु. ? । b) °लभते इति सात. । c) गपू. (पृ १८९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) °संचष्ट इति सात. ।
 e) गपू. (पृ १९१) सस्थ. 'उपांशु- > -शुना' इत्यत्र यनि. च 'अंशु- > -शुना' (तु. गपू. पृ ९८७) इति च शोधः द्र. ।
 f) ऋ ४, ५८, १ । g) कर्तरि क्तिः प्र. (प्र ३, २, १७१) । h) ब्रा. द्र. । i) ऋ १०, ८३, ७ ।

परजीव°, माया°, शरीर°, सर्व°,
स्ववश°, स्वस्व°
+उपाधि(क)- अन्तःकरण°, निर्द°,
महाभू...ङ्ग°, माया°, ६स°
उपाधि-रहित- १सत्य°
उपा(प/अ)र्ज्>+उपा(प-अ)र्जन-
अर्थ°, वृत्ति°
उपा(प-अ)र्जित- पूर्वजन्मन्°, स्व-
कर्मन्°
उपा(प-अ)र्त्रि>+उपा-श्रय- निर्°
उपा-श्रित- आश्रित°
उपा(प/अ)स्>उपा(प-अ)सक-
-कानाम् तु ८३. [क- अभि°,
अनन्य°, अन्य°, अन्यविद्या°,
अल्प°, कर्मकारण°, कर्मध...त्°,
कर्मन्°, २काल°, तन्मण्डल°,
तल्लीला°, धर्म°, नारायण°, वृन्दा-
वन°, वृन्दावनलीला°, ब्रह्मवर्चस°
भगवत्°, भजनानन्द°, मत्स्य-
क...म°, मद्°, मदीय°, मन्त्र°,
मन्त्रतन्त्र°, २यज्ञ°, यज्ञ°, याजुष-
मन्त्र°, रसमार्ग°, रसिकानन्द°,
रासमण्डल°, १रुद्र°, व्रजमण्डल°
१शिव°, शिवात्मैक्य°, शिवाद्वैत°
सन्धि...त्मन्°, सद्विद्या°
१उपा(प-अ)सन- अध्यस्तरूप°,
आचार्य°, कर्मन्°, तद्°, तन्मन्त्र°
बहुशास्त्रगुरु°, शुद्धचिद्रूप°, सद्-
गुरु°
२उपा(प-अ)स(न>)ना- कर्मन्°,
तदीय°, देवमनुष्य...दि°, मद्°,
मदीय°, यद्°, २संख्या°
उपासना-मात्र- यद्°
उपा(प-अ)सितव्य- -व्यम् भा३२°.
उपा(प-अ)सञ्ज>उपा-सञ्ज-
निर्°
१उपे[प/इ(गौ)]>उपा(प-अ)य-

आत्मदर्शन°, कैवल्यप्राप्ति°,
२जय°, तदाप्ति°, तन्निवृत्ति°,
परतर°, प्राणजय°, मनःप्रशमन°,
मुक्ति°, १मोक्ष°, विविध°, संसार°,
सर्व°, सिद्ध°, सुख°, हान°
+उपाय-भूत- आत्मलाभ°
उपे(प-इ)त- अभिन्नयकला°, आत्म-
ज्ञानगुण°, एकविंशकुल°, कस्तू-
रीतिलक°, कुलैकविंशक°, चतुः-
प्रेगीवक°, १त्रिगुण°, दिव्यालं-
करण°, दुर्मल°, द्वार°, नव...रा°,
पीतवर्णद्वय°, पुष्पारामजल°,
महापुरुष°, वन°, शतावयव°,
शमदमादि°, संवृद्धि°, सत्कवाट-
द्वय°, सर्व°
उपे(प-इ)त्थ अन्°
उपे(प-ए)य-
उपे(प-ई)क्ष>उपे(प-ई)क्षा- मैत्री°,
हान°°
उपे(प-ई)क्षितृ- तुः सर ३, २८?°.
उपे(प-इ)न्द्र- दिश°, निशाकर°°
उपेयिवस्- गपू. पृ१९३ द्र.
उपो(प/उ)ष(दाहे)>२उपो(प-उ)-
व्य अन्°
१उपोष्य उप/वस् (अशने) द्र.
/उब्ज नि°
उब्ज- नि°°
उभ- -भयोः मैत्रि ७, ११°.
उभय- -यम् मैत्रि ७, ९°. [य-
चलास्थिर°, ज्ञानाज्ञान°, तद्°,
सिद्धिबुद्धि°]
+उभय-क्रोटिक- अष्ट°
+उभय-तट- बद्ध°, रत्नबद्ध°
+उभय-देह- कर्मदेह°°
+उभय-पार्श्व- सीविनी°
+उभय-रूप- विरुद्ध°, व्यावृत्त°
उभया(य-आ)त्मक- विरुद्ध°

उमा- १शिव°, ६स°
उर-ग- गन्धर्व°, महत्°, यज्ञ...रा°,
शनि°
उरस्- कौस्तुभोद्भासित°, पद्मनाभ°
+उरस(क)- श्रीवत्सकौस्तुभ°
उरु->उर्वी- शक्ति°°
उलूक- सर्प°
उलूखल- मुसल°
उ(क)>लका- ज्ञान°, कुद्ध°, ज्वलत्°,
१पृथु°, महत्°, महान्धकार°,
विद्या°, विद्युत्°, वीर°, वीर्य°,
वृद्ध°, सन्धिद्°, सहस्र°
उ(इ)>ल/लस्>+उल्लसत्-
लालापट्ट°, स्वेदबिन्दु°
उल्लस- अष्ट°, खेद°, ६स°
उल्लसिन्- मेरुशृङ्गतट°
उ(इ)>ल/लिस्>+उल्लेखिन्-
तदाकार°
+उशिज्->औशिज्- -जः मना
१, ११?°.
/उष्(दाहे) उप°
उष्ण, ष्णा- -ष्णः अक्षि १^h; -ष्णा
व ४४३ : २०?° [°ष्ण- अति°,
अन्°, १का°, १क्षुध°, शीत°,
शीत°°]
औष्ण्य->+औष्ण्य-स्थान-
प्रकाशप्रक्षेपक°
३उष्य उप°
उषण- /वस्(अशने) परि. द्र.
उषा- १सत्या°°
१उषित- /वस्(निवासे) परि. द्र.
२उषित- /वस् (अशने) परि. द्र.
उष्णि- /वस्(बधा.) परि. द्र.
+उष्णीष^{१३}क- ६स°
+उष्णीष-रश्मि- १नन्द°°
१उष्य /वस्(निवासे) परि. द्र.
२उष्य /वस् (अशने) परि. द्र.

a) तान्त्रि. श्रपा. । b) गपू. (पृ१९३) यनि. शोषः द्र. । c) तु. गपू. पृ४०७C । d) °भयः इति सात. ।

e) अभ° इति सात. । f) वैप१ यद्र. । g) °जम् इति निसा. ? (तु. तैआ १०, १, ११) यनि. शोषः द्र. (तु. ऋ १,
१८, १) । h) अज्याः सा. श्रपा. । i) तैआ ४, २३, १ । j) गपू. (पृ१९६) यनि. संब्यानिर्देशः द्र. । k) व्यु. ? ।

उस- कालामिसूर्य°
उह्-, उह्/वह् (*वधा.) परि. द्र.

उ

ऊचान- √वच् (परि.) द्र.
ऊढ- √वह् (*वधा.) परि. द्र.
ऊदक- √उद् (परि.) द्र.
+ऊधस्- २ घट°
ऊन- एक°, तद्°, नि°
+√ऊय् प्र°
+ऊवृ- प्र°
ऊरु^१- गुद°°, जानु°, तद्°, १त्वच°°,
१दक्षिण°, नाभि°, पर्वतेश°, पा-
द°°, पृष्ठवंश°°, बाहु°, मस्तक°°,
राजरम्भा°, २वाम°, शिरस्°,
श्रोत्र°, १सव्य°, स्थूल°, १हृद्°
+ऊरु-कटि-बन्धन- तद्°
+ऊरु-शूल^२- शिरःशूल°°
√ऊर्णु अप°
ऊर्ध्व- अशीयस्°, अघर°, अधस्°,
२कन्द°, तद्°, तिर्यच्°, पृष्ठ°,
लम्बिका°, शक्ति°, सर्व°, सहस्थि-
...रा°
+ऊर्ध्व-कुण्डल- राजदन्त°
ऊर्ध्व-ग- -गः योशि ६, १६^b;
[°ग- फाल°]
+ऊर्ध्व-ज्वलन- पवना...ञ°
१ऊर्ध्व-पुण्ड- क्षौर°, त्रिपुरद्°,
प्रणवमय°, लसत्°, १शङ्ख°°
ऊर्ध्व-भाग- कण्ठ°, तालुमूल°,
१बीज°, हृदय°
+ऊर्ध्व-स्कन्ध- तद्°
+ऊर्ध्वा(र्ध्व-अ)धस्- *ऊर्ध्वाधः-
संस्थित- तौ योच् ३१.

ऊर्मि- पञ्चपारा°, षष्°
√ऊष् (दाहे) > २ऊष्मन्- २ आज्य°,
उभय°
√ऊह् (प्रापणे) अप°, निर्°, प्रति°,
वि°, व्यप°, सम्°
+१ऊह- सम्°
+१ऊहन- वि°
+१ऊह्य अप°, निर्°, प्रति°, व्यप°,
सम्°
√ऊह् (वितर्के) अप°
२ऊह°-
२ऊहन°- अप°
२ऊह्य°
ऊह्य- अन°

ऋ

√*ऋ, ऋच्छ् आ°, उद्°
ऋ(च्छ्) > ऋच्छा- यद्°
१ऋत- अन°
ऋत-भुज्- -भुक् मे २, ११^१.
ऋति- निर्°
ऋतु- -०तवः कौ १, २^{३०}. [°तु-
ग्रीष्म°, पक्ष°, वर्षा°, १वसन्त°,
शरद्°, षष्°, सप्त°°]
आर्तव-> +आर्तवा(व-आ)-
लेपना(न-आढ्य) > ढया- ढया
सौ १, २.
ऋत्वि(तु-इ)ञ्- महत्°
ऋत्- चन्द्र°
+ऋक्षर- अन°
√ऋच् > ऋच्- अन°, अर्धाधि°;
आनुष्टुभ°, तत्त्व°, पञ्चदशन्°,
२वेद°, ६स°, सामन्°
+ऋच- अर्ध°, एक°, कलि°°

चतुदर्शन°, त्रि°, द्वि°, बहु°, स्व°
+ऋह-त्रिक-निरुक्ति- -कथा गोच
६७:३१^१.

+ऋग्-आत्मक- -कस्य सौ १, १.

√ऋज् > ऋजु- अन°
आर्जव- अहिंसा°°
ऋजीप-> ऋजीपिन्- शक्र°
ऋण- अन°
+ऋण्य- अन°
√ऋष् सम्°
ऋद्धि- २योग°, सम्°
ऋभु^१- श्वेतकेतु°, २संवर्तक°°
√ऋष् (*वधा.) > ऋषभ- १पुरुष°,
३भरत°, श्वेतकेतु°°, षड्ज°,
हस्तिन्°
ऋषि- -षिः मना २, १२, १९^१.
[°षि- अन°, आनन्दादि°, एक°,
क्षत्रिय°, २ग्रह°, १छन्दस्°,
१देव°, १देव°, नाना°, परम°,
१ब्रह्मन्°, २मतज्ञ°, मनुष्य°,
महत्°, राजन्°, १विश्व°, १वैखा-
नस°, सप्तन्°]
+ऋषि-च्छन्दो-देवता-तत्तद्वर्णा-
(र्षि-अ)वर्णा(र्षि-अ)वस्थान^१-
-नस्^१ रार १, ७.
ऋषि-च्छन्दो-दैवत- १यथोक्त°
+ऋष्टि- ५स°

ए

ए[आ/इ(गतौ)], एहि वृ ६, ४, १९^१.
ए(आ-इ)त्- यथा°
एक- -०क तां २१६: १२; -कः श्वे
२, ४^१; ३, २^१; अशि ५, २^१; ३^१;
-कम् वपू १, ५^१. [°क-

a) वैपश् यद्र. । b) तु. गपू. पृ३२६। c) गपू. (पृ१९८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) चरित°
इति पा. यनि. शोषः द्र. (तु. मैत्रि २, ७) । e) गपू. (पृ१९९) सस्थ. °तवः (प्र३) इत्यत्र यनि. शोषः द्र. । f) वप्रा.
द्र. । =भालु-, रतारा- । g) गपू. (पृ२८३) सस्थ. 'गोपीचन्दनमृत्तिकानिरुक्ति- > -क्त्या' इत्यत्र यनि.
शोषः द्र. । h) 'कषिः' इति मैसं छ, १२, ६ (तु. टि. वैपश् यस्था.) । i) द्रस. > षस. । j) वा. क्रिवि. द्र. ।
k) 'इष्ट' इति शौ १४, २, ७१ (तु. टि. वैपश् यस्था.) । l) ऋ ५, ८१, १ (तु. टि. वैपश् यस्था.) । m) तैसं १, ८, ६, १।
n) विशिष्ट इह ऋ. (२, २३, १) पामे. (तु. टि. वैपश् यस्था.) ।

अक्षर°, अन्°, अनुभव°, अवगतविगत°, अव्यक्त°...न्द°, असंकल्पनमात्र°, आनन्दस्वानुभव°, एक°, २काल°, क्षण°, ज्ञान°, ज्ञेय°, देह°, द्विनिमित्त°, ध्येय°, ५न°, नाश°, १नित्य°, नित्यानन्द°, पदार्थ°, परब्र°...न्द°, परमानन्द°, परमार्थ°, परिज्ञान°, परिपूर्णा°, २पिङ्ग°, २पिङ्गल°, १पूर्यानिन्द°, प्रकाश°, प्रणव°, प्रति°, प्राणायाम°, बोधानन्द°, १ब्रह्मानन्द°, १भाव°, भूपुर°, १भोग°, मद्°, १मोक्ष°, १मोक्षमार्ग°, मोक्षानन्द°, २योग°, लक्ष्य°, लव°, लोक°, विद्यामन्त्र°, विभाग°, वेदा°...त्व°, संकल्प°, सत्तामा°...श°, सदान°...व°, सन्मात्र°, सप्तदशन्°, संपूर्यानिन्द°, सार्ववर्ण°, १सोम°, स्वप्रकाश°, स्वभाव°, स्वानुभूति°]

ऐक्य- -क्यम् गोपू १^६. [°क्य- आत्मन्°, उभय°, जीवब्रह्मन्°, जीवा°...त्मन्°, तत्त्वंपद°, तद्°, परावर°, परिपूर्णा°...त्मन्°, १ब्रह्मन्°, लिङ्ग°, शिवात्मन्°]

+ ऐक्य-भक्त- नित्यशुद्ध°...व°

+ एक-करण- चित्त°

+ एक-कल-पुरत- रसिकानन्द°

+ एक-कारण- १मोक्ष°

+ एक-गुरु- स्वाभिमत°

+ एक-घन- आनन्द°

+ एक-चिद्- सन्धिदानन्दाद्वैत°

एक-जननी- सर्व°

एक-ता- चन्द्रसूर्य°, परजीव°, १ब्रह्मन्°, सदा°

+ एकता-बुद्धि°- -द्धिः १कौलधः १

एक-तान- चेतन°, २चैतन्य°

+ एकतान-ता- तद्°, प्रत्यय°

एक-त्व- आत्मन्°, १चित्°, परिणा- म°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्मात्मन्°, समरस°

एक-देश- अखण्ड°...ञ्च°

एक-धा- ५न°

एक-निष्ठ- स्वात्मयोग°

एक-पा(द>)द्- वीरभद्र°

एक-पाद- १ब्रह्मन्°

+ एक-पाश- २विश्वरूप°

+ एक-मात्रक- एकभाग°

+ एक-मार्ग- ५न°

एक-मूर्धन्- -धर्मा अशि ६, ११°.

+ एक-मोहिन्- सर्वलोक°

एक-रस- -सम् नृउ १२६ : १४^६. [°स- अखण्ड°, अखण्डानन्द°, अनुज्ञा°, अवबोध°, एकान्त°, १चित्°, १चिदानन्द°, चिद्धन°, प्रत्यचू°, २सच्चिदानन्द°, १सत्°, १सत्°, सदा°]

२ एक-रूप- आनन्द°, तद्°, ५न°

एक(क-त्र)र्षि- -०र्वे वृ५, १५, १५°.

+ एक-वक्त्रक- -कम् शि ६, १२३.

+ एक-विंशत्- २कुल°

+ एक-विंशक- २कुल°

+ एक-सौन्दर्य- सर्वलोक°

+ एक-स्फुलिङ्ग- अतिनि°...श°

एक-स्वरूप- चिन्मात्र°

२एका(क-त्र)क्षर- अव्यक्त°, कठ- वल्ली°, वृसिंह, सौभाग्यपरम°, हयग्रीव°

एका(क-त्र)ग्र-> एकाग्र-ता- सर्वार्थता°

एकाग्र- चित्त°, सत्त्वशुद्धि°

एका(क-त्र)त्मन्- चिन्मात्र°

+ एकात्म्य- १सम°

+ एकात्म-दर्शि(न्)नी- -नी महा ५, १०१.

ए(क>)का-दशन्- १रुद्र°

एकादश-रुद्र- अष्टवसु°

एकाद(श>)शी- -शी तु १०^६.

+ एकादशि-(क>)का- १शिव°

एका(क-त्र)धिक-शत- अथर्वशि- ...क°, उपनीत°, गृहस्थ°, रुद्रजा- पक°, वानप्रस्थ°

एका(क-त्र)न्त- परम°

+ एकान्त-विसर्जन- हेय°

+ एकान्त-व्योमन्- १हृद्°

एकान्त-शील- आनन्द°

+ एकान्त-संविधि- अन्त°

एका(क-त्र)यन- चित्त°

+ एका(क-त्र)हन्-> एकाहिक-> एकाहिक-ज्वर°- अतिभयंकर- ज्वर°

एकी/क> एकी-करण- परिपूर्णा- ...स°, रक्तशुक्लपद°

एकै(क-ए)क- श्रीमायामन्मथ°

+ एको(क-उ)ज्ज्वल- अतिनि°...श°

✓ एजू, एजतु वृ ६, ४, २३^६h.

एजत्- अन्°

एतद्> एत, ता- -ताभिः नार ५^१?

एता-वत्-> + एतावत्-त्व- प्रकृत°.

एतव्य- ✓ इ (अध्ययने) द्र.

एध- ✓ इध्, न्ध् द्र.

एनस्- -नः मना २, ५९^६§; -नसः मना २, ५९^६§. [°स्- प्रति°, विगत°, सर्व°]

एय- ✓ इ (गतौ) द्र.

एला- आश्र°

एव, > वा वृ ६, ४, २३^६h; श्वे ३, ८^६§; ६, १५^६§; गी ३, २^६.

a) आन. अया. । b) तु. गपू. पृ२०१k । c) °र्धा इति आन. । d) निसा. अया. । e) गपू. (पृ२०५c) 'का ४, १०, १६' इत्यत्र 'का ४०, १, १६' इति शोषः द्र. । f) विप. वा तदाख्योपनिषद्विशेष- वा । g) °ज्ञः इति पा. ? यनि. शोषः द्र. । h) ऋ ५, ७८, ७ । i) पा. ? °ताम् इति शोषः द्र. । j) तैआआ १०, ५९^६ । k) तैआआ १०, ५९^६ । l) मा ३१, १८ (तु. टि. वैपश् यस्था.) । m) 'इव' इति SCHR. पाभे. [वैतु. वे. (NIA २, २३१)] ।

एवम् अन्°, २°इति°

एवं-विद्- अन्°

एवं-वि(ध)धा- धा त्रिता ३, ५^a.

१एष- ✓इष् (गतौ) द्र.

२एष^b- एतद्- द्र.

३एषण- ✓*इच्छ, इष्(इच्छायाम्) द्र.

२-३एषण- ✓इष्(गतौ) द्र.

१एष्टय- ✓*इच्छ, इष्(इच्छायाम्) द्र.

२एष्टय- ✓इष् (गतौ) द्र.

१एष्यत्^b- ✓इ (गतौ) द्र.

२एष्यत्- ✓इष् (गतौ) द्र.

ए

एकात्म्य- एक- (परि.) द्र.

ओ

+ओ(क)>का^d- २जल°ओघ- अघ°, १कण°, गुण°, २जल°, तन्नु...^cचमन्°, दुःख°, दुष्कृत°, पञ्चदुःख°, पातक°, १पाप°, भूत-पदार्थ°, रत्न°, २वासना°, विघ्न°, व्यसन°, व्यापार°, सिंह°

ओजस्- अभिभूति°, अमित°, उत्तम°, सत्त्व°, स्व°

ओदन- उद°, क्षीर°, तिल°, २दधि°, मांस°, सिद्ध°

+ओ(आ, उ)य् > ओ(आं-ऊ)वृ-
-ता ए ९.ओषधि, धी- -धयः, -धीभ्यः कुं २३ :
१°. [°धि, धी- अन्न°, आ-
गम°, २जल°, जन्मन्°, तृण°,
तृण°, १फल°, रस°, लता°,
वन°, वृक्ष°, सर्व°]

ओषध- मन्त्र°, १रति°, सर्व°

ओषधि-वनस्पति- अकृष्टपच्य°

ओष्ट्र^१- अधर°, दन्त°, पुरयापुरय°,
विम्ब°, लम्ब°, सुताम्र°
+ओष्ठ-शूल^१- शिरःशूल°

औ

औदार्य- उदार- (परि.) द्र.

औद्धत्य- उद्ध(द्/ह)न् (परि.) द्र.

औपम्य- उप/मा(माने) परि. द्र.

औशिज^१- उशिज्- द्र.

क

१-२क- गपू. पृ२१२ द्र.

३क- ४अ°

२कंस->कांस्य^१- ताम्र°

कक्ष- अपि°, उप°, प्रति°, ४वाम°

+कक्ष-शूल^१- शिरःशूल°कक्ष्य- उरग°, फणीन्द्र°, भुजग...^d✓कङ्क्(*बधा.)>कङ्कण^१- २कर°,

केयूर°, लालित°

कङ्काल>ली- अरिष्टकारिणी°

+कङ्काल^१- ६स°

✓कच् वि°

+कच^b- वि°, विलसत्°कच्छ->१कच्छ-प^१->+२कच्छ-प^१- २मत्स्य°+कज्जल^१- केश°+कज्जल(क)>लिका^k- कपिला°+कञ्चुक^१- मोह°

✓कट्(*बधा.) प्र°, संप्र°

१कट^m- जीर्ण°, प्र°

२कट->कटा(ट-अ)क्ष- उत्तर°,

१काम°, १कृपा°, १दक्षिण°,

मन्द°, सद्गुरु°, हाव°

कटक^१- केयूर°, पर°, मरिण°, २वाम°कटि, टी^१- उरन्°, ऊरु°, गुद°°,

गुल्फ°, जानु°, १त्वच्°, २दक्ष°,

१दक्षिण°, देहमध्य°, पृष्ठवंश°,

प्रोन्नमत्°, श्रोत्र°°

+कटि-देश- मही°

+कटि-शूल^१- अङ्गशूल°°,

शिरःशूल°°

कटि-सूत्र^१- दराड°, दराड°°

+कटित- प्र°, संप्र°

+कटितवत्- प्र°

कटु- मधुर°°

+कटाह^१- अराड°, कुम्भ°+क(व्य)>ट्या^१- रथ°✓कट्(*बधा.)>कठ^१- ईश°°+कठ(रुद्र?)^१- कठवल्ली°°

+कठोर- बहु°

✓कण्(*बधा.)>१कण^१- अग्नि°,

अम्बु°, वह्नि°, सलिल°

क(एक)>णिका- जलयन्त्रशी-

कर°, दीप°, वट°

२?क(ण)>णा^१-

✓कण्ट(*बधा.)>कण्टक- २असि°,

२जल°, दुःख°

कण्टकिन्- आम्र°°

✓कण्ट्(*बधा.)>कण्ट^१- आ°,

आस्य°, उद्°, कपोल°, कम्बु°,

३कल°, कलहलपिङ्गल°, ४काल°,

नाभि°, १नील°, मस्तक°,°

ललाट°, ललाट°°, श्री°,

२सुस्वर°, सोमेन°, १हृद्°

कण्ट-कूप- पाद°°

+कण्ट-पर्यन्त- हृदयादि°

+कण्ट-शूल^१- शिरःशूल°°

✓कराड्>क(राड्)>ण्ड्->✓क-

ण्ड्यु^१+कण्डूयन- देह°

a) °धाय इति अच्चा. संटि. । b) गपू. (पृ२१०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) गपू. (पृ१६२, २१०) यनि.

संख्यानिर्देशः द्र. । d) व्यु. ? । e) अच्चा : सं. अपा. । f) गपू. (पृ२१२) यनि. अनपेक्षितं द्र. । g) व्यु. ? =फलविशेष- ।

h) =भाप. वा केश- वा । i) गपू. (पृ२१३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । j) =अवतारविशेष- । k) =गोविशेष- ।

l) व्यु. ? =वस्त्र- । m) =भाप. वा किलिञ्जक- वा । n) व्यु. ? =कृत्या- (=कर्मन्-) । o) =तदाख्योपनिषद्-

विशेष- ।

✓*कत् > रक्त^१ -> कात्य^१ -> का-
त्यायन^१ - रनिदाघ^{००}

१-२कति^१ - किम् - द्र.

✓कथ्, कथ्यते पंहं ४.

कथन- अध्यात्म^०, पादभेदादि^०,
ब्रह्मस्वरूप^०, मद्^०

१कथा- ४अ^०, अनुभव^०, जीवेश^०...

कल्प^०, तद्^०, तल्लीला^०, २दर्शन^०,

ध्यान^०, बहुशास्त्र^०, भगवत्^०,

महायज्ञ^०, रतिसेवा^०, रलीला^०,

१सत्^०, सेवा^०, स्त्री^०

+कथा-धर्म-दान-व्रत-तीर्थ-
अन्य^०

+कथा(था-आ)लाप- हरि^०

+कथा-सेवा- गृहच्छा^०

कथित- -तः नाप ५, १^b.

कथ्य- ४अ^०

✓कद् > *कद् -> कदम्ब^१ - आम्र^०

कद(ल>)ली^१ - आम्र^०, पलाश^०

कन्तुक- नारायणक्रीडा^०

✓कन्थू(आवरणो) > कन्थ > न्था^१ -

कौपीन^०, कौपीन^०, धैर्य^०, बहु-

शास्त्रकथा^०, शिखादि^०

+कन्था-वेश- -शः नाप ५, १^०.

✓कन्द > १कन्द- अनन्तब्र^० छि^०,

कपाल^०, १कमल^०, नाभि^०, पत्र^०,

पीठ^०, ब्रह्मानन्दसमष्टि^०, १मूल^०

२कन्द- > कन्दा(न्द-अ)घस् (>:)

यो १, ६^१।

+कन्दर- गिरि^०, २धरणीधर^०,

शून्यागार^०

१-२कन्य- गपू. पृ २१७ द्र.

१कन्यका^१ - २कन्य- द्र.

३क(न्य>)न्या > कन्य-कुमारी-

-०रि मना १, ७^६.

४क(न्य>)न्या- गपू. पृ २१७ द्र.

५क(न्य>)न्या- अभिमत्^०, गन्धर्व^०,

गोप^०, १देव^०, १नाग^०

+२कन्य-(क>)का- ऋषि^०, कैवर्त^०,

क्षीरसागर^०

कपाट^१ - महावज्र^०

कपाल^१ - अष्टन्^०, अन्न^०, आरु^०,

गुरु^०, चरु^०, चतुर^०, त्रि^०, द्वाद-

शन्^०, शक्ति^०, शीर्ष^०

कपालिन्- चन्द्रक्रोधोन्मत्त^०

१कपि- दुष्टक्रीड^०, महत्^०

२कपि->कपि-श- कनक^०

३कपि->कपिला- अश्वत्थ^०

१कपिल- गपू. पृ २१७ द्र.

२कपिल^१ - २वसिष्ठ^०, २निदाघ^०,

सनक^०

+कपोत^१ सर्प^०

कपोल^१ - तद्^०, तदल^०, १त्वच्^०,

पृष्ठवंश^०, प्रति^०, १षट्कोण^०

+कपोल-वाणी- मृदु^०

+कपोल-शूल^१ - शिर शूल^०

कफ^१ - अस्थि^०, विष्^०

+कफा(फ-आ)द्य(दि-अ)र्गल- ब्रह्म-

नाडी...स्थ^०

+कवरी^१ - अगुरुवासित^०

✓कम्, > कामि अभि^०, प्र^०

+कमन->+कमनीय- अङ्गशो-

भा^०, सौभाग्य^०

कान्त- उमा^०, कालाम्भोधरकान्ति^०,

चन्द्र^०, परम^०, मञ्जु^०, रुक्मिणी^०,

लक्ष्मी^०, शशिन्^०, सु^०, १सूर्य^०

कान्ति- कालाम्भोधर^०, तडित्को...

न^०, तदङ्ग^०, २तारा^०, लक्ष्मी^०,

विदुम^०, २श्याम^०

+कान्ति-विशेषा(ष-आ)वर्त-

निरतिशयानन्द^०

१काम^१ - -मः गा २४. [०म- अ^०,

अन्न^०, अन्नपानलोक^०, अन्नाद्य^०,

अन्यत्^०, अभि^०, अर्थ^०, आत्मन्^०,

आप्त^०, आयुस्^०, आरोग्य^०, १इष्ट^०

१काम^०, १कोटि^०, १जुष्ट^०, गन्ध-

माल्यलोक^०, गीतवादितलोक^०,

गो^०, श्राम्य^०, चन्द्रलोक^०, चोदित^०,

जल...संपात^०, जित^०, जीर्ण^०,

जीवत्^०, जीवितुम् > तु^०, ज्योतिस्^०

तुष्टि^०, तेजस्^०, त्यक्तुम् > तु^०,

१देव^०, देवमनु...ना^०, धर्म^०,

धर्म^०, धातु^०, निन्दा^०, निस्^०,

नेत्र...त^०, पर्याप्त^०, पितृलोक^०,

१पुत्र^० पुष्टि^०, पृथिवी^०, प्र^०,

प्रजा^०, प्रज्ञा^०, प्रशंसा^०, प्रस्तुति^०,

ब्रह्मलोक^०, २भक्त^०, १भूति^०, आतृ-

लोक^०, मनुष्य^०, मल्लोक्त^०, मातृ-

लोक^०, मुक्ति^०, मुख्यवृत्ति^०, १मे-

धा^०, यद्^०, यथा^०, योक्तुम् > क्तु^०,

लब्ध^०, वरुणलोक^०, वश^०, वायु-

लोक^०, विज्ञप्त^०, विनिवृत्त^०, शान्ति^०

१शिव^०, शिवाद्य^०, शुश्रूषा^०,

श्री^०, श्रेयस्^०, श्रोतुम् > तु^०, ६स^०,

सकल^०, सखिलोक^०, १सत्य^०,

सर्व^०, सर्वाङ्ग^०, सु^०, सुरतकला^०,

सूर्यलोक^०, सष्टुम् > ष्टु^०, स्त्री-

लोक^०, स्व^०, स्वर्ग^०, १स्वर्गलोक^०,

स्ववंशवृद्धि^०, स्वसलोक^०, हर्ष^०]

+काम-कटाक्ष- श्रीमत्^०

काम-कला- उपकरण^०

कामकला(ला-आ)लय-

शक्ति^०

काम-कार- ४अ^०

+काम-कार्मुक- १विजय^०

+काम-कैलि-कौतुक-रति-रास-

विनोद- आनन्दमय^०

+काम-क्रोध-लोभ-मोह-भय-

सुख-दुःख-लज्जा(जा-अ)लज्जा-

(जा-अ)ज्ञान-मोह-मस्सरा-

(र-आ)दि- देहजनित^०

४) गपू. (पृ २१४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) अज्याः सं. अपा. । c) ०न्थाले इति अज्या. । d) तु.

गपू. पृ ७५१j । e) व्यु. ? =गुहा- । f) गपू. (पृ २१७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) ०मायै इति मउ ३, १२ ।

h) व्यु. ? =केशवेश- । i) गपू. (पृ २१८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

काम-चार- ४अ°
 काम-धेनु- कल्पवृक्ष°, पार्श्वार्वा-
 धःस्थित°
 +काम-मनोरथ- अति°
 +काम-माला->काममालि-
 (न्>)नी- न्यै मउ ३, १४.
 +काम-रस- संयोक्ष्यमाण°
 काम-राज- श्री°
 काम-रेफे(फ-इ)न्दिरा-समष्टि-
 रूप->कामरेफेन्दिरासमष्टिरू-
 पि(न्>)णी- णीम् श्या १.
 +१काम-सुख- सर्व°
 २काम-सु(ख>)खा^{१०}-
 +काम-हत- ४अ°
 +कामा(म-आ)कर्षिण्या-
 (णी-आ)दि-षोडश-शक्ति-
 -क्तयः भा १४.
 +कामा(म-अ)ङ्ग- दग्ध°
 +कामा(म-आ)द्या(दि-आ)क-
 र्षिणी-षोडशक- ६स°
 +कामा(म-अ)र्थ- सर्व°
 १कामिक^{१०}-
 कामे(म-ई)श्वर- -रः भा २७°.
 कामेश्वरी^१->+कामेश्वर्या-
 (री-आ)दि-त्रिक- ६स°
 काम(न>)ना- ४अ°, ऐश्वर्य°
 कामयमान- ४अ°
 *कामि->२कामि-(क>)का^{१०}-
 -का नापू ५, २^१.
 कामिन्- ४अ°, १काम°
 कामिनी- दैत्य°, भूत°, सकल°
 १काम्य^{१०}- ४अ°, निस्, ३भद्र°, ६स°
 +काम्य-रहस्य-पूजा- सर्व°
 +२का(म्य>)म्या- लोकानुग्रह°
 कमण्डलु^{१२}- -लुम् पहं १५०:८°.
 [०लु- उदकस्थल°, जलस्थल°,
 १त्रिदण्ड°, दण्ड°, पत्रां...त्ति°,

पाश°, शिष्य°, ६स°, संतता-
 च्छि°, सुव्°°]
 +कमण्डलु-धर- -राय मउ ३, १८.
 १कमल- अरुण°, २कर°, २चरण°,
 नाभि°, पद°, प्रफुल्ल°, २षोडश-
 दल°, सहस्र°, सूर्यवंशिन्°, सोमवं-
 शिन्°, स्फटिक°, स्वर्णासिंहासन-
 मध्य°, हृदय°
 ✓कम्प^१>म्पि अनु°, आ°, प्र°, वि°,
 विनिस्°
 १कम्प- गात्र°, वि°, विनिस्°
 +२क(म्प>)म्पा- अनु°
 +कम्पित- प्र°, वार्धक°
 +कम्पितुम् वि°
 कम्बल^{१३}- कौसुम्भ...रक्त°
 १कर^{१४}->१करिन्-री योशि १, ११७
 २कर^{१५}-
 ३-४कर- ✓कृ(करणे) परि. द्र.
 ५कर- ✓कृ(विक्षेपे) परि. द्र.
 १करक^{१६}-
 २करक^{१७}- तरङ्ग°°
 +करञ्ज^{१८}- आपद्°, सर्षप°
 १-२करण- गप्, पृ२२२ द्र.
 ३करण- ✓कृ(विक्षेपे) परि. द्र.
 +करण्डक^{१९}- पुष्पाधार°
 कराल- दंष्ट्रा°, बहुदंष्ट्रा°
 १करिन्^{२०}-
 २करिन्- ✓कृ(करणे) परि. द्र.
 करुणा- निस्, मैत्री°, वि°
 +कारुणिक- परम°
 कारुण्य- महत्°
 कार्कोट^{२१}-
 कार्कोट^{२२}->+कार्कोट-क-
 दैत्य°
 कार्कोट-क- अनन्त°
 १कर्ण- -र्णयोः ह २०९^क. [र्ण- ४अ°,
 गो°, जतु>त्, तालु°, १दक्षिण°

२बभ्रु°, १भद्र°, मणि°, १याम्य°,
 लसत्°, २वाम°, विश्वतस्°,
 शङ्कु°, शिरस्°, १सव्य°]
 +कर्ण-भूषण- रत्न°
 +कर्ण-रन्ध्र-द्वय- तर्ज...लित°
 +कर्ण-शूल^{२३}- अङ्गशूल°, शिरः-
 शूल°°
 +✓कर्णि आ°
 +कर्ण्य आ°
 २कर्ण->२कर्(र्णक>)र्णिका- अब्ज°
 तत्पद्म°, तत्पीठ°, तद्°, तन्मध्य°,
 पीठ°, प्रणव°, षोडशान्°, हृत्पद्म°,
 हृदयकमल°, हृदयपुराणरीक°
 कर्तन- ✓कृत् (परि.) द्र.
 ?कर्तव्याकरणादिकर्ता^{२४} हंषो २०.
 कर्तिका- ✓कृत् (परि.) द्र.
 कर्दम- आन. द°, चित्त, सर्षिण्यास°,
 स्थाणु°°
 +कर्पट^{२५}- गोमय°, मृत°
 कर्पास->कर्पास->+कर्पास-
 तन्तु-कृतो(त-उ)पवीत-
 केशसमूह...त्त°
 कर्पूर^{२६}- अगुरु°, अन्तःसुगन्धतैल°,
 केसर°, दग्ध°, लवङ्ग°, सज्°°
 +कर्पूर-रस- मृगमद°
 +कर्पूर^{२७}->+कर्पूरित- अभ्रच्छाया°,
 शुभ्र°°
 ✓कल्>लि सम्°
 ३कल- १कोमल°
 +कल-रव- वेणुवादन°
 कल-शब्द- नाना°
 +१कलन- इतरकला°, इष्टानिष्ट°,
 कला°, कुक्षिस्थानेकलोक°, भेद°,
 वि°, विकल्प°, विश्वभेद°, संसार°,
 संकल्पमात्र°, सम्°
 २कल(न>)ना°- अन्य°, अशेष-

४) तस. । ५) गप्. (पृ२२१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । ६) तान्त्रि. अपा. । ७) =हरिकलाविशेष- ।
 ८) निसा. अपा. । ९) गप्. (पृ२२२) यनि. शोधः द्र. । १०) व्यु. ? =शुण्डादण्ड- । ११) व्यु. ? =वर्षोपल- । १२) व्यु. ?
 =वृद्धविशेष- । १३) व्यु. ? । १४) तैत्र्या १०, ७, १ । १५) पा. ?-तर्कव्या° इति शोधः द्र. । १६) व्यु. ? =वन्न- । १७) व्यु. ?
 =वर्षोविशेष- । १८) गप्. (पृ२२४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

संकल्प°, २काल°, चिन्मनस्°,
दृश्य°, प्रशान्त°, बन्धमोक्ष°,
१भाव°, १रति°, विभाग°, शान्त°
संकल्प°, सर्वेच्छा°
+कलना-कलङ्क- व्यपगत°
कलित- चिच्चैत्य°, दिक्काल°, मोह-
गुणजाल°, विकल्प°, वेणु...प°
कलङ्क- २कलना°, कला°, निस्°
+कलङ्क-मथ- निस्°
+कलङ्का(ङ्क-अ)ङ्क- अग्रहीत°
+कलङ्कित- चित्तादर्श°, बहुपङ्क°
कलत्र- गोत्र°, धन°, १पुत्र°, श्रद्धा°,
संप्रसूत°, २सुत°
कलश^१- अमृत°, आनन्द°, त्रि°,
१द्रोण°, वितान°
कला^१- -लाः.नापू ५, ३. [°ला- ४अ°,
अंश°, अकार°, अग्नित्रय°,
अनेक°, अभिनव°, अवतार°,
अविद्या°, असंसर्ग°, अहंकार°,
१आदि°, आनन्द°, १इतर°,
इन्दिरा°, १काम°, कामकेलि°,
केलि°, १कोमल°, क्रीडा°,
गूढकेलि°, चतुर्°, चतुर्थी°, चन्द्र°,
१चित्°, जीव°, तत्त्व°, तृतीय°,
तेजोविद्या°, दशन्°, नाद°, नाद°,
निस्°, वृत्य°, पञ्चन्°, पञ्चमी°,
प्रति°, बिन्दु°, १ब्रह्मानन्द°,
भावाभाव°, मदन°, मन्मथ°, यम-
नियम...हार°, १रति°, रतिकेलि°,
रस°, रासकेलि°, वसु°, वह्नि°,
वहिसोम°, वागर्थ°, वि°, विद्या°,
विपरीतसुरतवृत्य°, विविध°, वै-
ष्णव°, शशिन°, शास्त्र°, शृङ्गार°
श्री°, षष्°, षष्ठी°, षोडशन्°, ६स°,
सकल°, संगीत°, सप्तन्°, संहस्र°,
२सुगन्ध°, १सुरत°, सूर्येन्द्रभि°

सोमरूप°, स्फटिक°, हंस°]
+कला-निमेष- २काल°
+कला-भाव- १रति°
+कलाप^b- चन्द्रकला°, जटा°, वेणु...
रव°
कलि- निर्धूत°
+कलि-संतारण^१- कठवल्ली°
कलिल- १पाप°, मोह°
कलेवर- ग्रन्थि°, ६स°, साज्ञोपाङ्क°
+कल्क^b- ४अ°
कल्कि- २मत्स्य°
१-६कल्प- ✓कल्प (परि.) द्र.
+७कल्प^१- अध्यात्मब्रह्मन्°, आकाश°
+कल्मष^१- ४अ°, कलि°, क्षीण°,
ज्ञाननिर्धूत°, त्यक्त°, नाना°, निर्धू-
त°, निस्°, यज्ञक्षपित°, विंगत°,
१वीत°
कल्याण- ४अ°, अत्यन्त°, परम°,
सहस्रकलावयव°
कल्याणी- स्वयंवर°
+कल्याण-गुण- निरतिशय...द्यन्त°
कल्याण-तम- मन् वृ ५, १५,
१९^f.
कल्लोल- अनन्तचित्सागर°, अमृत°,
आनन्दामृत°, कामाब्धि°, कालि-
न्दीजल°, २जल°, तरङ्ग°, यमुना-
जल°, १रति°, रस°, लावण्यवा-
हिनी°, सितजल°, १सुजल°
+कल्लोल-कर्मन्- जलकेलि°
+कल्लोल-तरङ्ग- अनन्त...ब्धि°
कवच- महावज्र°
+कवच-दिग्बन्धन-मन्त्र- मूल-
मन्त्र°
+कवल^१- अष्टन्°
कवाट- यन्त्र°, १सत्°
कवि-

काव्य- तर्क°
कवि-त्व- धन°, १पुत्र°
कश्मल- क्लेश°
कश्मीर-> १काश्मीर^{१b}-> +२का-
श्मीर^{१३}- चन्द्र°
कश्यप- २वसिष्ठ°, २वसिष्ठ°
✓कष् नि°
१कष- नि°
कषाय- १अङ्ग°, अपक्व°, कटु°,
पक्व°, मधुर°, मृदित°, ६स°
काषाय->काषाय-वस्त्र- १त्रि-
दण्ड°
+काषाय-वेष- १त्रिदण्ड°
कषाय-कुण्डल- वृथा°
+✓कस् वि°
+कस-, +कसित- वि°
कस्तूरी- चम्पक°
+कस्तूरि-(क>)का^१- लता°
१काक^२- सर्प°
+काक-पृष्ठ- ४अ°
२काक->काकि(न्>)नी^१- भूत°
✓काङ्क् आ°
+१काङ्क्^१- २दर्शन°
+२का(ङ्क्)>ङ्क्- १मोक्ष°
+काङ्किन्- २काल°, २दर्शन°,
महावनवि...न°, १मोक्ष°
काञ्चन- तप्त°, लोष्ट°, ६स°
+का(ङ्कि)>ङ्की^{१३k}- १पद्म°
काण्ड- ४अ°, अब्ज°, कदली°, कर्मन्°
क्रिया°, तृतीय°
+कातर^१- पुत्रविश्लेष°
+कात्येयमति^{१m}- १नन्द°
+कानन^b- शैल°, ६स°
१-२कामिक- ✓कम् (परि.) द्र.
काय- ४अ°, अग्नि°, ऊर्ध्व°, ऋजु°,
२जाति°, तेजस्°, पर°, १मनस्°

- a) ब्रमा. द्र. । b) व्यु. ? । c) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । d) पाप्र. प्रत्यय-विशेष- (पा ५, ३, ६७) ।
e) व्यु. ? =१पाप- । f) गप्. (पृ२२५) 'का ४, १०, १६' इत्यत्र 'का ४०, १, १६' इति श्लेषः द्र. । g) व्यु. ? ।
=आस- । h) गप्. (पृ२२५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) =केसर- । j) कर्तरि क्त । k) व्यु. ? =कटिमेखला- ।
l) व्यु. ? =अधीर- । m) व्यु. ? =गोपविशेष- ।

महत्°, १वज्र°, १वाच्°, शिरस्°°,
सकलाम्स्न°, समृद्ध°, स्व°
+काय-क्लेश- प्रातःस्नानोपवासादि°
+काय-मनस- पर°
+काय-शिरोघ(रा)>र- १सम°
+काय-सर्वा(र्व-अ)ङ्ग- १वाच्°

१कार°-

२कार°- नव°

३-४कार- ,कारित- ,कारिन्- ,कारु- ,
कारुक्- √कृ(करणे) परि. द्र.

कारुणिक- करुणा- (परि.) द्र.

कार्कोटक- कर्कोट- (परि.) द्र.

+कार्तस्वर^{१३०}- तप्त°

+कार्मुक^{१४}- १काम°

१काल- गपू. पृ२२७ द्र.

२काल- -लः हं १३२:९°. [०ल-
४अ°, अनानन्द°, अन्त°,
अभ्यास°, अर्क°, अल्प°, आतुर°,
१आदि°, आपद्°, आसन्न°,
उत्क्रमण°, उन्मेष°, उपनयन°,
ऋतु°, एक°, कर्मन्°, कलाकाष्ठा-
दि°, कलि°, २काल°, क्रियत्°,
गृह°, ग्रीष्म°, चतुर्थ°, चित्त°,
चिर°, २जाग्रत्°, २जाति°,°
तज्जनन°, तद्°, तावत्°, तृतीय°,
त्रि°, दिश°, दिशु°, दीर्घ°, देश°,
द्रव्य°, द्वय°, निमेष°, निमेषा-
दि°, निर्वाण°, परान्त°, प्रकृति°,
प्रकृति°, प्रथमाभ्यास°, प्रयाण°,
प्रलय°, प्रातर्°, प्रावृष्°, वहु°,
ब्रह्मोपदेश°, ब्राह्म°, भिक्षा°, भिषग्-
ग्रहण°, भूतभविष्यद्वर्तमान°, १भो-
ग°, मध्याह्न°, महत्°, महोत्सव°,
१मृत्यु°, यथा°, १यथायोग्य°,
१यथोक्त°, २योग°, योगिनी°,
१वसन्त°, विषुवाख्यन्°, वृद्ध°, शत-

कोटिवत्सर°, शब्द°, शरद्°,
१श्राद्ध°, श्रीगौतमविवाह°, संव-
त्सरादि°, संहार°, सदा°, संधि°,
१संख्या°, संख्योपासन°, संन्यास°,
१सम°, समाधि°, सर्व°, सांप्रत°,
सुपुति°, सूर्यचन्द्रोपराग°, सृष्टि°,
स्थल°, स्वप्न°, स्वाध्याय°, हंसा-
त्म...ह्वन्°, हेमन्त°]

+काल(-क)- पूर्वाह्न°

+काल-मृत्यु- अन्न°

+काल-विषय- अज्ञात°

+काल-शक्तिका(का-अ)स्त्र- पाशु-
पतास्त्र°

काला(ल-अ)ग्नि- अथर्वणवे***र°,
दावानल°

कालाग्नि-रुद्र- कठवल्ली°°, श्री°

+काला(ल-अ)ग्नि-सूर्यो(र्य-उ)स-
-क्षैः नृउ २, ८^१.

+काला(ल-अ)नल- उग्रभयंकर°

+कालिक^{१५}- ३पौरुड्°

३का(ल>)ली^{१६}- कामकला°, २गुह्य°,
चिन्तामणि°, १ब्रह्मन्°, ६भद्र°,
मत्°, महत्°, मेधास्पर्शमणि°,
सिद्ध°, हंस°

२कालि(-क)>का- ५दक्षिणा°

√काश्>शि, चाकश् अमि°, अव°,
आ°, प्र°, संनि°, सम°, संप्र°

+३काश- अव°, आ°, प्र°, संनि°, सम°

+काशक-, +काशन-, +काशमान-
+काशयत्- प्र°

+काशित- प्र°, संप्र°

+काशि(त्)>नी- १पाप°

+काशिष्यमाण-, +काश्य, +काश्य-
प्र°

चाकशान- अभि°

१काश- सर्वप°

२काश- गपू. पृ२२९ द्र.

१-२काश्मीर- कश्मीर- (परि.) द्र.

काष्ठ^{१७}- तुलसी°, तृण°, पद्माक्ष°,
मृद्°, लोष्ट°

+काष्ठा(ष्ठ-आ)दि- दाह°

+का(ष्ठक)>ष्ठिका- १मङ्गल°

काष्ठा- कला°, परा°

+काष्ठा-पति- धनदादि°

+काष्ठा-सह-जीव-लया(य-आ)-
दिक- -कम् योशि १, १४५.

+काष्ठीक^{१३h}- १वंश°

+√कास्>सि वि°

+कासयत्- वि°

कास- १निश्वास°, निःश्वास°

+काहल^{१i}- २घश्टा°

+√कि नि°

√कित्(ज्ञाने), >चिकित्स् वि°, सम°
+केत- सम°

१केतु- -उम् वपू १, ५५^१. [०तु-
४अ°, घृष्ट°, नमि°, २श्वेत°.]

+१चिकित्सा-, +१चिकित्सित-,
+१चिकित्स्य- वि°

√कित्(°वोतने) >चिकित्स>२चि-
कित्सा^k-, २चिकित्सित^k-,
२चिकित्स्य^k-

+√कित्(निवासं) नि°

+केतन- नि°

कितव- दारा°

किम्-

२क->+कस्मात् ४अ°

कथम्>+कथं-ता- जन्मन्°

किम्->किं-कर- शिष्य°

+किं-चन ४अ°

किं-चित् ५न°, यद्°

+किंचिद्-विनिमय-पर-

-रः नाप ५, १.

a) गपू. (पृ२२७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) तु. गपू. पृ४३४। c) व्यु. ? =सुवर्ण- । d) व्यु. ? =धनुस्- । e) निसा. अपा. । f) °मिः सू° इति अज्या. ? यनि. शोधः द्र. (एतदनु गपू. पृ२२८ सस्थ. 'कालाग्नि-> -मिः' इत्यत्रापि शोधः द्र.) । g) व्यु. ? =नागविशेष- । h) व्यु. ? । i) व्यु. ? =वायविशेष- । j) विशिष्ट इह ऋ. (२, २३, १) पाप्ते. (तु. टि. वैप१ यस्था.) । k) गपू. (पृ२३०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

किं-नर- नर^०, पितृ^०, रयत्न^०,
रयत्न^०
+किं-पुरुष- नर^०
की-दृश्->कीदृग्-विध- -धम् सार
२८० : १३^a.
किर- √कृ(विक्षेपे) परि. द्र.
किरण- चन्द्र^०, दिनकर^०, सहस्र^०, सूक्ष्म-
स्वरूप^०
किरीट- चन्द्र^०, द्युमत^०, १शङ्ख^०,
शशिकलाभास्वत्^०
किल कौ^b ३, १.
किल्बिष- अशेष^०, मन्त्रयन्त्रादि^०,
१मुक्त^०, संशुद्ध^०, सकल^०, सर्व^०
१किशोर->+किशोरी- नव^०
+कैशोर->कैशोर-कृष्ण- श्री^०
√कीट>कीट- आवर्तान्तर^०, कृमि^०,
केश^०, दुष्ट^०, १पशु^०, १ध्रमर^०
+कीट-क- १पशु^०, १पुरुष^०
+कीट-पतङ्ग-पिपीलिका- आ^०
+कीट-पर्यन्त- ब्रह्मादि^०
कीर्ण- √कृ (विक्षेपे) परि. द्र.
कीर्तिमुख-, कीर्त्य √कृत (परि.) द्र.
कीर्य √कृ (विक्षेपे) परि. द्र.
√कील>कील- चर्मन्^०
कीलित- निस्^०
कुक्कुट^c- १पशु^०
कुक्षि- अज^०, अयुत^०, आत्मन्^०, षष्^०
+कुक्षि-शूल^१- अङ्गशूल^०, शिरः-
शूल^०
कुङ्कुम- कृष्णगो...डा^०, केलि^०,
चन्द्र^०, चम्पक^०
+कुङ्कुम-भार- उष्ट्र^०
+कुङ्कुम-वहन- उष्ट्र^०
+√कुच् प्रसम्^०, व्या^०, सम्^०
+कुच्य सम्^०
+कोच- प्रसम्^०, व्या^०, सम्^०

+कोचन-, °चयिष्वा, °चित-
सम्^०
कुच->कुच-कुम्भ- उच्चुङ्गीन^०
+कुच-भार- कुङ्कुमलित^०
√कुञ्च् आ^०, नि^०
कुञ्चन- आ^०, नि^०
कुञ्चित-, +कुञ्च्य आ^०
कुञ्ज- आनन्दमय...द^०, कदम्ब^०, दिश^०,
नि^०, प्रति^०, मणि^०, वानीर^०,
शत^०, शतसहस्र^०
+कुञ्जर^१- अद्वय^०, कामदेव^०
√कुट्(*बधा.)>+कोटि आ^०
कुटिल- ४अ^०
कुटिला(ल-आ)कार- सर्प^०
+कोट्य आ^०
कु(टि>)टी- त्रि^०, रल^०
कुटी-चक्र^१- आतुर^०
कुटुम्ब- त्रैलोक्य^०, १पुत्र^०
+२कुटुम्ब(क)- १ब्रह्मानन्द^०
१कुटुम्बक^d-
√+कुट्>+कुट्->+कुट्टिम^{१e}- सु^०
+कुडव^{१f}- शुक्र^०
+कुडमल^{१g}- मल्लिका^०
कुड्य^{१h}- दक्षिणोत्तर^०, पद्मराग^०,
रल^०, रत्नमय^०
कुराप- त्यक्त^०
+√कुरप् अव^०
+कुरण- ४अ^०, अव^०
+कुरण- भस्मन्^०
२कुराड^१- अमृत^०, गार्हपत्य^०, गोविन्द^०
ज्वलन^०, भगाङ्क^०, रसातलपा...
णी^०, राधा^०, बहि^०, शक्ति^०,
शिवाभिहोत्र^०
कुरडी->कुरिड(क>)का^{१i}-
केन^०, सूर्याद्यध्यात्मन्^०
१कुराडल- १अहि^०, ऊर्ध्व^०, १कर्ण^०,

कषाय^०, किरीट^०, प्रैवेय^०, तृण्यो-
र्ष्यी^०, मकर^०, मकराकृति^०, मणि^०,
रत्नकर्ण...त^०, लसत्^०, लोल^०,
विविधम्...त्^०, १शङ्ख^०, सुमह-
चार^०
+कुण्डल-द्वय- तप्तकार्तस्वर^०
१कुण्डलि(न>)नी^d- महत्^०
२कुराडल- गप्, पु२३४ द्र.
३कुराडल- नाभि^०
कुण्डली->कुण्डली-शक्ति-
कन्दोर्ध्व^०
+कुण्डल्य(ली-अ)ध-ऊर्ध्व-
भाग- आस्य^०
२कुण्डलि(न>)नी^{१e}- तत्त्व^०,
मध्यस्थ^०
कुतुक->कौतुक- अखिल^०, अति^०,
अशेष^०, १काम^०, कामकेलि^०,
केलि^०, नाना^०, परम^०, परस्पर...
कला^०, १रति^०, १रति^०, रति-
कला^०, रतिकेलिकला^०, रास-
केलि^०, हाव^०
+कौतुक-क्रीडा- नाना^०
+कौतुक-विभ्रम- गत^०
कुतूहल- रासक्रीडा^०
कौतूहल- लोक^०
√कुत्स्>कुत्सित->+कुत्सित-
कर्मन्- वेदलौकिकमार्ग^०
+कुन्तल^{१i}- यामिनीनाथलेखालंकृत^०
कुन्द- चम्पक^०, १शङ्ख^०
√कुप् प्र^०
कोप- क्रम^०, द्वेष^०, निरवयवत्व-
शब्द^०, प्र^०
२कुबेर- इन्द्र^०
कुब्ज- १कन्य^०
१कुमार- अभि^०, गरुडेश^०, नपुंसक^०,
वन्ध्या^०, सनत्^०, सु^०

a) गप्. (पृ २३२) सस्य. 'कीदृश्->-दृक्' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । b) गप्. (पृ २३२) सस्य. 'क्री' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । c) व्यु. ? =हस्तिन्- । d) गप्. (पृ २३४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) पावा ४, ४, २० (तु. पाका.) । f) व्यु. ? =परिमाणविशेष- । g) व्यु. ? =कलिका- । h) व्यु. ? =भित्ति- । i) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । j) व्यु. ? =कुटिलकेश- ।

कुमारी- ३कन्या°, ३कुल°, वृषभातु°
 कुमारि-(क>)का- सद्यस्°
 २कुमार(र>)रा- विराजा°°
 १कुमुद- ३भद्र°°
 कुमुदा(द-अ)क्ष^{1b}- हरि°
 २कुमुद- गपू. पृ२३६ द्र.
 +३कुमुद^{1b}- ३जयन्त°, २सुश्लोक°°
 +४कुमुद^{1c}- दैत्य°°
 +५कुमुद^{1d}-> +कुमुदा(द-अ)जन^{1e}-
 ऐरावत°°
 कुम्भ^{1f}- उद°, कुच°, पूर्ण°, मृद°,
 मौलिस्थ°, १वज्र°, शुभ्राश्रा°°
 धृत°, शून्य°, संपूर्ण°
 कुम्भ-रु- ईषत्°, २केवल°
 चतुष्टय°, धृत°, २पूरक°, रेच°,
 रेचक°, २सहित°
 +कुम्भ-कटाहा(ह-आ)द्य- ताम्र°
 १कुल- ४अ°
 २कुल- अस्मद्°, आचार्य°, उपासक°,
 २एकविंश°, एकविंशति°, ३कु-
 ला°, गुरु°, गो°, २जाति°,
 २जाति°, तत्प्रसूति°, तद्°, द्वाद-
 शन्°, पितृमातृ°, १ब्रह्मन्°, १ब्राह्म-
 णा°, महत्°, म्लेच्छ°, वृषादर्वि°,
 २शिबि°, १सत्°, समस्त°, स्व°
 कुल-ज- अशेष°, समस्त°
 कुल-धर्म- उत्सव°
 +कुल-शील- अपरिज्ञात°
 १कुल्य- प्र°
 ३कु(ल>)ला-> २कौल- सकल°
 कुलाय- विश्वंभर°
 कुलाल-> +कुलाल-शाला- शून्या-
 गार°°
 कुलुम्भ^{1g}-
 कुल्ला- २कुरु°

+कुवल्याश्व^{1d}- सुगुम्न°°
 +कुविद्^{1e} मउ ९, ५.
 १कुश- १काश°, चैल°, चैल°°, दर्भ°,
 शमीन्धन°, ६स°, स्फटिक°°
 कुशल- ४अ°, करुणा°, प्रमाण°, संगीत-
 साहित्यकला°
 १कुशिक-> कौशिक- धृत°
 कुशीतक-> कौषीतिकि^{1h}- ऐतरेय°
 कुष्ठ- १क्षय°
 कुसीद- ४अ°
 कुसुम- अनङ्ग°, चम्पक°, जटा°, जपा°,
 जवन्ती°, जाजी°, पत्र°, पाटल°,
 मधूक°
 +कुसुम-शुद्धि- जल°°°न°
 कुसुम्भ-> +१कौसुम्भ-> +कौसु-
 म्भ-माञ्जिष्ठ-रक्त-कम्बल-
 -लम् वउ ६, ३५¹ⁱ.
 २कौसु(म्भ>)म्भा^{1j}-
 कुहक- तर्क°°, नैरात्म्यवाद°
 +कुहर^{1k}- कपाल°, नाभिहृद्°, शरीर-
 पत्र°, शून्यागार°°
 कुहू- २यशस्विनी°, सरस्वती°
 +√कू आ°
 +कूत-, +कूति- आ°
 +√कूञ् प्रति°
 +कूजित- सामहंस°
 १कूट- १काम°, कामराज°, २काल°,
 चतुर्°, चतुर्थ°, तृतीय°, त्रि°, दारु°
 द्वितीय°, पञ्चम°, प्रथम°, सर्व°,
 षष्ठ°
 २कूट- २आर°, १चित्र°, तडित°, तृण°
 तेजस्°, वाग्भव°, शक्ति°
 कूप- करठ°, रोमन्°
 कूबर- एतद्°
 १कूर्च-> +कूर्च-द्वय- -यम् कालि

८१: ३¹.
 २कूर्च- गपू. पृ२३८ द्र.
 +३कूर्च^{1m}- पत्र°
 कूर्पर- गल°
 +कूर्पर-शूल¹ⁿ- शिरःशूल°°
 १कूर्म- १आदि°, आधारशक्ति°°
 उत्तान°, २मत्स्य°
 २कूर्म- गपू. पृ२३९ द्र.
 ३कूर्म- २नाग°, प्राण°°
 कूल- अनु°, अपूप°, कालिन्दी°, १द-
 क्षिण°, नौ°, प्रति°
 +कूप्माण्ड^{1o}- भूत°°
 √क(करणे), > कारि, चिकीर्ष, कुर्वीत-
 (वेन्ति)शिष्टे, १८६; कुर्यात् नाप
 १९९: ३¹; ४¹. [अङ्गी°, अधि°,
 अनु°, अप°, अपरोक्षी°, *अभि-
 प्रस्थापयाम्°, अभिहिम्°, अरम्°,
 *अवेक्षाम्°, अहम्°, आ°, *आ-
 ज्ञापयाम्°, आत्मसात्°, *आम-
 न्त्रयाम्°, आविस्°, *आसाम्°,
 *आहारयाम्°, ईक्षाम्°, उदा°,
 उदुद्°, उन्मनी°, उप°, *उपमन्त्र-
 याम्°, उपा°, *उपासाम्°, एकी°,
 ओम्°, *कथयाम्°, क्लुषी°,
 *कारयाम्°, कालसात्°, कुण्ड-
 ली°, कुम्भी°, क्रोडी°, क्षणी°,
 खिली°, *गमयाम्°, *ग्राहयाम्°,
 चतुर्गुणी°, चमत्°, चित्रा°,
 चूर्णा°, चेतनी°, तिरस्°, तीर्थी°,
 त्रिगुणी°, दही°, द्विदली°,
 धवली°, १नमस्°, नि°, निरा°,
 निश्चयी°, निश्शेषी°, निस्°,
 पञ्ची°, *परिदेवयाम्°, परिधी°,
 परिमली°, परिस्°, पुरस्°, प्र°,
 प्रकटी°, प्रति°, *प्रतिपालयाम्°,

a) व्यु. ? =रक्तकमल- । b) व्यु. ? =विष्णुपार्षदविशेष- । c) व्यु. ? =नागविशेष- । d) व्यु. ? । e) =दिग्गज-
 विशेष- । f) शीर्षरथं संख्या-चिह्नं परिहृतं द्र. । g) अव्य. वैपश् यद्. । h) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । i) °लचि°
 इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । j) गपू. (पृ२३८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । k) व्यु. ? =विवर- । l) तान्त्रि. अपा. ।
 m) अर्थः ? । n) बप्रा. द्र. । =कच्छप-, अवतारविशेष- । o) व्यु. ? =२कूरमाण्ड- । p) पा. ? यनि. शोधः द्र. ।
 q) अख्याः सं. अपा. ।

प्रत्युप°, प्रदक्षिणी°, *प्रवासाम्°,
 प्राञ्जली°, प्रादुस्°, बहू°, *विभ-
 याम्°, *बोधयाम्°, भस्मसात्°,
 भस्मसात्-सम्°, भस्मी°, *भूष-
 याम्°, *मन्त्रयाम्°, *मापयाम्°,
 मुकुली°, मूकी°, यन्त्री°, *रमयाम्°
 *रसयाम्°, वशी°, वि°, विकसी°,
 विघटी°, *विदाम्°, विवशी°, व्या°
 शृङ्खली°, षरमुखी°, सकली°,
 संस्°, १सत्°, समा°, समी°,
 *संपादयाम्°, संपुटी°, संप्र°,
 साक्षात्°, सिंही°, स्थिरी°, स्थली°
 स्पष्टी°, स्वधा°, स्वात्नी°, स्वाहा°,
 स्वी°, हाइ°, हाउ°, हिं°, ३हुं°]
 २कर^{१६}- अनन्त°, अभयवर°,
 वाभयवरद°, अम्बुज°, अनिन°,
 तालवृन्त°, तुषार°, १दक्षिण°,
 द्वय°, द्वि°, १भीम°, २वाम°
 +कर-कङ्कण- भुजलता°
 +कर-कमल- विराजत्°
 कर-तल- क्रीडा...क°, ३वर°
 +करतला(ल-अ)प्र- अमृत°
 कर-न्यास- हृदयाद्यङ्गन्यास°
 +कर-पृष्ठ- करतल°, तद्°
 +करपृष्ठ-शूल^{१७}- शिरःशू-
 ल°°
 +कर-युग- १दक्षिण°, २वाम°
 +कर-शूल^{१८}- शिरःशूल°°
 +करा(र-अ)क्षत-प्रक्षेप- जल-
 ...न°
 करा(र-अ)प्र- यद्°
 +करा(र-अ)ङ्गुली-शूल^{१९}-
 शिरःशूल°°
 +३कर,री^{२०}- अकीर्ति°, अक्षोभ°,
 अनादि...प्रलय°, अभयम्°,
 अभिव्यक्ति°, २असत्°, आत्म-
 रक्षा°, आहरण...श°, १३ञ्चा-
 टन°, उद्गावन°, उद्वेग°, उपा-

यन°, कलासर्ग°, किम्°, कुल-
 गोत्र°, कृत्यादिनाश°, १चय°,
 १क्षुध्°, क्षेमम्°, गङ्गाप्रीति°,
 गजादिवश्य°, चित्तशुद्धि°, १चि-
 त्र°, जगत्सृष्टि°, तिरोधान°, दाह°,
 दिन°, दिवा°, देवताप्रीति°, धर्मप्रा-
 ति°, निशा°, निःश्रेयस°, १पद्म°,
 परमन्त्र...च्छेदन°, पुनर्जननभो-
 ग°, पुनर्जन्मन°, पुष्टिवृद्धि°, पूर्वा-
 बोध°, प्रभा°, प्राणिबाधा°, प्राप्त-
 कर्मन°, प्रीति°, १चन्ध°, ब्रह्मप्राप्ति°
 ब्रह्मानन्द°, भयम्°, भावाभाव°,
 भास्°, भूतनाश°, भूतप्रशान्ति°,
 भूतभावोद्भव°, १भूति°, १मधु°,
 महद्द्युति°, महासिद्धि°, मुक्ति°,
 मृत्युनाशन°, १मोक्ष°, मोह°,
 यो.विघ्न°, योगवृद्धि°, योषित-
 प्रिय°, २रक्षा°, लक्ष्मणप्रा...
 द°, वयस्थैर्य°, वर्णसंज्ञा°,
 वशम्°, १वश्य°, वाक्प्रसाद°,
 विघ्न°, विद्या...शस्°, २विद्वे-
 षण°, विद्वेषिमोहन°, विष्णु-
 प्रीति°, वैराग्यबोध°, शक्ति°,
 शम्°, १शिवम्°, शीतवा...
 रा°, शुभ°, श्री°, सकलकारण-
 कार्य°, संचोभ°, समस्तदुरित-
 क्षय°, २संमोहन°, सरोरुह°, सर्व-
 क्षोभ°, सर्वजनवशम्°, सर्वद्व-
 क्षयम्°, सर्वपापक्षय°, सर्वयज्ञ-
 कर्मन°, सर्वरक्षा°, सर्वविषनाश°,
 सर्वसंपदवृद्धि°, सर्वसिद्धि°, सर्व-
 स्तम्भ°, सर्वाप्यायन°, सिद्धि°,
 सिद्धिवृद्धि°, सुख°, स्तम्भन°
 +४कर°- तत्तात्कर्मन°, दुस्°, व्यति, सु°
 १करण,णी- ४अ°, अदृश्य°, अधि°
 अन्तर°, उप°, उपा°, एकी°,
 एकैक°, कर्णादि°, कार्य°, कुम्भी°,
 कुलधर्म°, १क्षुध्°, चक्षुरादि°, २

चतुर्दशन्°, जन्मन्°, जल...
 कर्मन्°, ज्ञान°, तनू°, तुष्टि°, निरा°,
 निरुद्ध°, पञ्ची°, पिराडी°, प्र°,
 बाह्याभ्यन्तर°, मूकी°, वशी°,
 वि°, विराम्त्र°, विवृत°, व्या°,
 शक्य°, शीतली°, शरमुखी°,
 सकली°, सत्कृत्य°, समी°, सर्व°,
 सुप्रीवसख्य°, सृष्टिस्थित्यन्त°,
 स्थान°°, मृष्ट°, स्वी°, हीनकर्मन्°
 +करण-वृत्ति- सामान्य°
 २करि(न् >)णी- तिरस्°
 करिष्यत्- उपा°
 कर्तव्य- ४अ°, अहम्°, प्र°
 कर्तुम् ४अ°, आत्मसात्°, चेतनी°,
 निश्चयी°, स्थूली°
 कर्तृ- र्ता पाशु १, ११^{१६}. [°र्तृ-
 ४अ°, अगम्यागम°, अनर्थ°,
 अभिमत्°, अशुभक्षय°, अहंकार°,
 १आदि°, उत्पत्तिस्थितिक्षय°,
 उदुद्°, कर्मन्°, कार्यकरण°,
 ?कृषिभ्र...क्रिया°, क्रियाकर्मेज्य°,
 खङ्ग°, जगत्°, तद्°, प्रत्यच्°,
 फलकर्मन्°, भेद°, महत्°, वि°,
 १विश्व°, विवस्वद्भृतिस्तम्भ°,
 १श्राद्ध°, संन्यासविघ्न°, सर्व°,
 १सर्वकर्मन्°, सर्ववातस्तम्भ°,
 सर्वसंहार°, सर्वसिद्धि°, सुरवृन्द°,
 सृष्टि°, सृष्टिस्थितिसंहार°, स्थिति-
 संहार°]
 +कर्तृ(क)- ४अ°, सर्वकार्यार्थ°
 कर्तृ-ता- आत्मन्°
 कर्तृ-स्व- गुण°, चेतस्°, पारमा-
 र्थिक°
 कर्तृत्वा(त्व-आ)दि-दुःख-
 निवृत्ति-द्वार^{२१}- -द्वारा सुं २,
 १, १.
 कर्त्रा(र्तृ-आ)दि- अज्ञानजन्य°
 कर्मन्- र्म गर्भे ३; मंगा शा ३५९^{१६}.

a) =२हस्त- । b) कर्तरि कृत् । c) भावे कर्मणि वा कृत् । d) तु. गप्. पृ५०१। e) गप्. (पृ२४१)
 °द्वार-> -द्वारा इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । f) ज्ञान., अज्याः सा. अपा. । g) वाध २, ११ ।

[^०न्- ४अ^०, अखिल^०, अज्ञान-
...ञ^०, अतिविदूर^०, अद्भुत^०,
अनन्त^०, अनित्य^०, अपानवायु^०,
अशुभ^०, आरब्ध^०, आश्रम^०,
आह्वान^०, इन्द्रिय^०, ईक्षति^०,
उग्र^०, उदान^०, उपनायन^०, क्लो-
ल^०, कर्तृ^०, १काम^०, कार्य^०,
२काल^०, कुत्सित^०, ३कर्म^०,
कृकर^०, कृत^०, कृत्स्न^०, कृषि^०,
कृष्यादि^०, क्रिया^०, क्लेश^०, क्षत्र^०,
क्षौर^०, गर्भाधानादि^०, गुण^०, गुरु^०,
गृहस्थोचित^०, ग्रहमारण^०, जग-
त्सर्जन^०, जन्मन्^०, जन्मान्तर^०,
ज्ञान^०, ज्ञानाभिदग्ध^०, ज्योतिषा-
गम^०, तत्तद्^०, तद्^०, तदुक^०,
तन्द्री^०, त्रि^०, त्रिजगत्सृष्टिस्थिति-
प्रलय^०, त्रिजगत्सृष्टिस्थितिव्यस-
न^०, दहन^०, दुस्^०, ३देवदत्^०,
देवपितृ^०, देश^०, देहोपाधि^०,
३धनंजय^०, धर्म^०, २नाग^०, नाना^०,
निग्रह^०, नित्यनैमित्तिक^०, निद्रादि^०,
निःशेष^०, निस्^०, पञ्चीकृ...सं-
भव^०, १पाप^०, १पुराय^०, पुराय-
पाप^०, १पुत्र^०, पूर्व^०, प्रजनन^०,
प्राच्^०, प्राण^०, प्राणिन्^०, प्राप्त^०,
प्रारब्ध^०, प्रारब्धसंचितगामिन्^०,
१फल^०, बाधिन्^०, बाह्य^०, १ब्रह्मन्^०
भाविन्^०, ३भीम^०, मद्^०, मद-
पित^०, १मनोवाक्काय^०, मृदु^०,
१मोघ^०, १मोक्ष^०, यज्ञ^०, यज्ञदान-
तपस्^०, यथा^०, योगसंन्यस्त^०,
शुजन्^०, लिपि^०, १वाच्^०, वाङ्मनः-
काय^०, वि^०, विद्या^०, विध्युक्त^०,
१विश्व^०, विहित^०, वेदमार्ग^०,
वेदसंस्कार^०, वेदाहरण^०, वैश्य^०,
व्यान^०, १शिव^०, शुभ^०, शुभा-
शुभ^०, १शेष^०, १श्राद्ध^०, श्रुति-
सृष्टि...ध्यान^०, षष्^०, सकाम^०,
संचिद्व^०, १सत्^०, २संख्या^०, १समा-

न^०, सर्व^०, साध्वसाधु^०, सृष्टि^०,
स्व^०, स्वप्न^०, स्वस्व^०, स्वाश्रम-
विहित^०, हीन^०, होम^०]
+कर्म-कृत्- ४अ^०
§^१कर्म-फल- लेषु दे ४; व
४६५: २०. [^०ल- जन्मन्^०]
कर्म-मार्ग- वेदविहित^०, वेदोक्त^०
कर्म-विशेष- पुराण...कर्षण^०
+कर्म-व्रतो(त-उ)पवासा(स-आ)
दि- नाना^०
+कर्म-शिखा-ज्ञानो(न-उ)पवी-
त- बहिर्लक्षित^०
+कर्म-स्वभाव-दुःख- स्वभक्त^०
कर्म(र्म-इ)न्द्रिय- ज्ञानेन्द्रिय^०,
पञ्चन्^०, पृथिवीकार्य^०, बुद्धि^०,
श्रोत्रत्वगक्षयादि^०
+३कार^०- अन्ध^०, अयस्^०, इपु^०,
२काल^०, कोश^०, चर्मन्^०, १लोह^०,
वाती^०, सूप^०, स्वर्ण^०
+४कार^०- अङ्गी^०, अधि^०, अनु^०,
अप^०, अलम्^०, अहम्^०, आ^०,
इह^०, उप^०, १काम^०, चमत्^०,
१नमस्^०, निरवधि^०, १पुरुष^०,
प्र^०, प्रति > ती^०, प्रत्युप^०, प्र > प्रा^०
वशी^०, वि^०, संस्^०, १सत्^०, सा-
क्षात्^०, स्वधा^०, स्वाहा^०, हि^०, ३हुं^०
+कारक- अज्ञान...दि^०, अमृताप्या-
य^०, २उन्मनी^०, उप^०, केवलप्राप्ति^०
क्रिया^०, वर्षासंकर^०, संहार^०
कारण- ४अ^०, अखिल^०, अधर्म^०,
अनाद्यखिलकारण^०, आत्मन्^०,
२आद्य^०, आयास^०, आयुःक्षर^०,
इत्याद्युपनिषद्^०, उत्पात्तिस्थिति^०,
उपादान^०, एक^०, ऐश्वर्य^०,
कारण^०, कार्य^०, जगत्^०, जन्म-
न्^०, जन्मादि^०, जरा...मरण^०,
तत्प्राप्ति^०, तन्तु^०, त्रिकालज्ञान^०,
दुष्ट^०, दूरश्रवण^०, द्वितीय^०,
चियत्^०, निवृत्ति^०, पञ्चभूत^०,

परम^०, पूर्णानन्दैक^०, प्रतिनियत^०,
१च. ध^०, १ब्रह्मानन्द^०, भक्तानुग्रह^०
२भव^०, भ्रान्ति^०, मनोलय^०, मह-
त्^०, मिथ्यात्व^०, १मूल^०, १मोक्ष^०,
लक्ष्यलक्षण^०, वासनामात्र^०, विरा-
ग^०, विलय^०, व्यक्ताव्यक्त^०, शरीर-
द्वय^०, श्रोत्रादि^०, संसारसागरो-
त्तार^०, सर्ग^०, सर्व^०, सर्वकारण^०,
सर्वार्थ^०, सृष्टिस्थितिलय^०, सौहि-
ल्य^०, स्थिति^०, स्थूल^०, स्व^०, स्वात्म-
प्रत्यय^०
+कारण-कार्य- सकल^०, सर्व^०
+कारण-जल- अनन्तकोटि^०
+कारण-भूत- जगत्^०, १विध^०
कारण-रूप- जगत्^०
कारण-शरीर- १व्यष्टि^०
+कारित- कृत^०
+कारिन्, णी- अकार्य^०, अनन्त-
रसंपाद^०, अनु^०, अन्योद्वेग^०,
अप^०, अपुनर्जन्मन्^०, अप्रत्यय^०,
अरिष्ट^०, आदेश^०, इष्टादि^०, उत्प-
त्तिस्थितिसंहार^०, उप^०, १क्षय^०,
जगत्...न्त^०, जगदाधार^०,
तद्^०, १दृढ^०, धर्म^०, नानाविभ्रम^०,
निर्वृति^०, परोपद्रव^०, १पाप^०, पुरी-
ष^०, पेशस्^०, प्रत्यय^०, ब्रह्मसंपत्ति^०,
मद्^०, मदनोन्मादन^०, मोहसं-
क्षय^०, यथा^०, व्रत^०, शुक्लमोचन^०,
संहत्य^०, समस्तस्वरूपविरोध^०,
१सर्वकर्मन्^०, सर्वज्ञान^०, सर्वन्या-
स^०, सर्वपुराय^०, १सर्वमङ्गल^०,
२सह^०, साधु^०, सिद्धि^०, २हित^०
+कारु- जरत्^०
+कारु- रजाति^०
कार्य- -यम् सांका ६०^०. [^०र्थ-
४अ^०, अभि^०, अभिकार्यादि^०,
अज्ञान^०, अनारब्ध^०, अञ्^०,
अविद्या^०, आकाश^०, उप^०, एक^०,
कर्तृ^०, कारण^०, कृत^०, चिन्तित^०,

जगत्, तद्, देवपितृ, १नमस्, पितृ, पृथिवी, प्रकृति, प्रधान, १ब्रह्मन्, भ्रमरकीट, माया, १राम, १रूप, रूपग्रहण, वायु, वि, विशेष, शत्रु, १सत्, सर्व, १स्थिर, स्व, स्वस्व
 कार्य-कारण- अखिल, तद्, सर्वाधार
 कार्य-रूप- ब्रह्मादि
 कार्य(र्य-अ)कार्य- पितृ
 कार्यो(र्य-उ)पाधि- सर्व
 कुर्वत्- ४अ, त्रिवृत्, तीर्थ, हृदी, प्र, वि
 कुर्वाण- ४अ, प्र, हुंफट्
 १कृत्^{१४}-
 १२कृत्- अन्योपदेश, अवट, कर्मन्, कल्याण, कृत्कर्मन्, जगदुन्मेषचित्र, त्रिकर्मन्, त्रि-जगत्...न्, दिन, निद्रादिकर्मन्, परकाय प्रवेश, १पाप, १पुराय, प्रसाद, प्रिय, १ब्रह्मन्, मत्कर्मन्, १मधु, मन्त्र, लोकक्षय, विजेष, विनाद, १विश्व, १वि-श्वकर्मन्, वेदान्त, श्लोक, सर्व, १सर्वकर्मन्, सृष्टिस्थित्यन्त, स्वकृतकर्मन्, खिष्ट
 कृत- -तम् वृ ५, १५, १^{१५}b. [०त- ४अ, अङ्गी, अज्ञानिन्, अधि, अनेकजन्मन्, अन्य, अपरोक्षी, अरम्, अलम्, अविचार, अस्मद्, अहम्, अहोरात्र, आजन्म, आत्मन्, आविस्, इत्यादि, इन्द्रिय, ईशता, उपा, भोम्, कर्षारोगा-दि, क्लृषी, कार्पासतन्तु, कालसात, कुराडली, कुल-क्षय, खिली, गुद, गोमय,

चित्री, चिरकालात्यन्त, जन्मन्, जन्मान्तर, जरामरण, ज्ञानाज्ञान, तद्, तिरस्, त्रिगु-या, दिवस, दिवारात्रि, दुम्, १देव, द्विदली, धवली, १न-मस्, नानात्रयिषि, नि, पञ्ची, पद्माक्ष...क्ष, पर, परिधि > धी, परिमली, परिस, पितृ, पुरस्, पुरा, पूर्वजन्मन्, प्र, प्रकटी, प्रकारा, प्रकृति, प्राञ्जली, बहिस्, बाहु, भस्मसात्, भेषज मनुष्य, मनु्यु, मही, यन्त्री, योगाभ्यास, योगिनीकालाशनि, रहस्य, रात्रि, रासलीला, वटा-धस्, वशी, वि, विकसी, विहुम, विवशी, व्या, शख-बाणक्षत...त्राण, शिश्व, शृङ्ख-ली, षड्जन्मन्, षण्मास, संस्, १सत्, सप्तजन्मन्, समा, समी, सर्वजन्मन्, सहस्, सु, स्पष्टी, स्व, स्वात्मी, स्वाहा, स्त्री, हि, हेमरौप्य]
 कृत-झ- ४अ
 १कृत-पाप- अनेक
 कृत-बुद्धि-> १कृतबुद्धि-स्व- ४अ
 १कृत-वत्^{१०}- १नन्द
 कृता(त-अ)कृत- -तम् गर्भ ३^d
 कृता(त-अ)स्मन्- ४अ
 कृता(त-अ)न्त- दशग्रीव
 कृता(त-अ)र्थ- ४अ
 १कृतो(त-उ)द्वाह- ४अ
 २कृतवत्-
 कृति- अनु, अहम्, आ, आत्मन्, निस्, पृथक्, प्र, प्रति, वि
 १कृति-श्रुति- -ते: सांसू ३, १४.
 १कृत्य अङ्गी, अपरोक्षी,

अलम्, आविस्, एकी, क्रो-डी, चतुर्युगी, चूरी, त्रिगु-या, निरा, पञ्ची, पिराडी, पुरस्, प्रकटी, प्रदक्षिणी, भस्मी, सुकुली, वशी, विघटी, संस्, १सत्, संपुटी, सिंही, स्त्री
 कृत्य- ४अ, २असत्, कृत, तन्तु, पञ्चन्, बहु, सर्व
 कृत्या(त्य-अ)कृत्य- विधूत
 कृत्या- १पाप, प्रत्यर्थिन्, महत्, विष
 कृत्रिम- ४अ
 १कृत्वस् ४ष, शत, सहस्र
 कृत्वा ध्या १^८b. [०त्वा ४अ, १नमस्, १सत्, स्पष्टी, १हृद्]
 क्रियमाण- प्र, हि
 क्रि(य)था- -या भा ३ १^१. [०य, या- ४अ, अखिल, १अङ्ग, आन-न्द, इच्छा, इच्छा, इष्टापूर्त, उच्चारदि, उदक, उद्गारादि, उद्वर्तन, चित्तेन्द्रिय, जगत्, २जाति, ज्ञानबल, दधिमथन, १दान, देश, द्रव्य, च्यान, निस्, पञ्चन्, पञ्चमहायज्ञ, पिराडोदक, प्र, प्रकाश, प्रति, ब्रह्मयज्ञ, २भक्त, मज्जन, मनः-प्राणेन्द्रिय, यज्ञतपस्, यज्ञदान-तपस्, १रति, वायु, वि, विम-ला, २वेद, ६स, २संख्या, सर्व, स्व]
 १क्रिया-कारक- सर्व
 १क्रिया-जाल- रस
 क्रिया(या-अ)दिक- स्वविच्युक्त
 १चिकीर्षत्- निरा
 चिकीर्षु- प्रिय
 ✓कृ(हिंसायाम्) गपू. पृ. १२५९ द्र.
 कृकर- २नाग, प्राण

a) गपू. (पृ २४६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) का ४०, १, १७ (एतदनु गपू. पृ २४६h शोधः द्र.) ।
 c) =गोपविशेष- । d) आन., अत्र्याः सा. अपा. । e) बप्रा द्र. । =यस- , सिद्धान्त- । f) गपू. (पृ २४७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) वैप१ यद्र. । h) आन. अपा. । i) तान्त्रि. अपा. ।

कृच्छ्र- अति°, एकरात्र°
 कृच्छ्र-चान्द्रायणा(रा-आ)दि-
 विध्युक्त°
 √कृत्>न्त् अतु°, नि°, निस्°
 +कर्तन->+कर्तन-पूजन- देह°
 +क(र्तक>)र्तिका- कपाल°
 +कृत्->+कृत्-रुच्- ४अ°
 कृन्तन- अतु°
 +२कृत्य निस्°
 १-२कृत्-, १-२कृतवत्- √कृ(करयो)
 परि. द्र.
 ?कृतेन्द्रियार्थान् मै ५, ८^१.
 १कृत्य √कृ(करयो) परि. द्र.
 कृत्स्न- ४अ°, २काश°
 कात्स्न्य- ४अ°
 कृत्स्न-विद्- ४अ°
 √कृप्(वधा.)>कृपण- दीन°
 कार्पण्य- ४अ°, हर्ष°
 १कृपा- ईश्वर°, गुरु°, दानादि°,
 भोजनोच्छिष्ट°
 +कृपा-कटाक्ष- नेत्र°
 +कृपा-शालिन्- अति°
 +कृपाण- अरि°
 √कृष् अप°, आ°, उद्°, उदुद्°, नि°,
 निस्°, प्र°, संनि°, सम्°, समा°,
 समुद्°, संप्र°
 +कर्ष- उद्°, नि°, निस्°, प्र°, संनि°
 सम्°, समा°
 +कर्षक- आ°
 कर्षण- आ°, १पाप°, लिङ्गा°,
 सम्°, संप्र°
 +कर्षिन्- २काल°
 कृषि- -षिः गोप् १^१.
 +कृष्ट- ४अ°, अप°, उद्°, उदुद्°,
 प्र°, संनि°
 +कृष्टि- १सत्°
 +कृष्य आ°, उद्°, निस्°, समा°,

समुद्°
 +कृष्यत्- संनि°
 +कृष्यमाण- आ°, सम्°
 १कृष्ण- ४अ°, १लोहित°, २लोहित°
 २शुक्ल°
 +कृष्ण-वास->कृष्णवासि(न्>)-
 नी°- नी गार ४०६ : २२.
 १कृष्णा(ष्ण-अ)जिन- दर्भ°
 २कृष्ण- -ष्णः^१, -ष्णाय गोप् १;
 -ष्णेन सु २९३ : ५९^१. [°ष्ण-
 ईश्वर°, कैशोर°, जल...मादि°,
 २प्रश्न°, ३भद्र°, २मत्स्य°,
 महाविष्णु°, राधा°, १राम°,
 श्री°, २सुश्लोक°°]
 +कृष्ण-राधा- श्री°
 +कृष्ण-वामन- श्री°
 +कृष्ण-सुदर्शन- श्री°
 +√कृ(शब्दे) आ°
 +√कृ(विद्येपे) अव°, उपसं°, नि°, प्र°,
 वि°, विप्र°, सम्°
 +५कर- आ°, नि°, प्र°, सम्°
 +३करण- प्र°
 +किर- प्र°, वि°
 +कीर्ण- अव°, आ°, उपसं°, प्र°, वि°,
 विप्र°, सम्°, समा°
 +कीर्ण अव°
 √कृत्>कीर्त्, कीर्ति अभि°, परि°,
 प्र°, सम्°, संप्र°
 कीर्तन- १कथा°, तद्°, ध्यान°,
 १पुराय°, प्रणव°, २श्रवण°, सम्°,
 संबन्ध°
 कीर्तयत्- सम्°
 १कीर्ति- ४अ°, आयुस्°, उपायन°,
 धर्म°, प्र°, श्री°, सत्व°
 +कीर्ति-मुख- गरोश°
 कीर्तित- परि°, प्र°, सम्°, संप्र°
 +कीर्त्य सम्°

√कल्प् (<कृप्) > कल्प, कल्पि,
 कल्पयतु वृ ६, ४, २१९^१.
 [अप°, अभि°, अव°, आ°, उद्°,
 उप°, उपोप°, परि°, प्र°, प्रति°,
 वि°, सम्°]
 १कल्प- वैदिक°
 २कल्प- मन्त्र°, यथा°
 ३कल्प- -ल्पान् शि ६, २७०.
 [°ल्प- तावत्°, पुरा°, महत्°]
 कल्पा(ल्प-अ)न्त- आ°
 +कल्पा(ल्प-अ)न्तर- महत्°
 ४कल्प->१कल्प-क^१- आम्न°
 +कल्पक-तरु- मुक्ति°
 कल्प-तरु- ३.मृत°, आनन्द°,
 १पद्म°, बोध°, ब्रह्मतेजोमयवित्त्व°,
 १ब्रह्मन्° ब्रह्मविद्या°, मुक्ति°, यज्ञ°,
 २योग°, विद्या°, विभूति°, २वेद°,
 वैकुण्ठ°, स्वात्मान...त्°
 +कल्प-वन- १ब्रह्मन्°
 ५कल्प- गप्, पृ२५८ द्र.
 ६कल्प^१- ४अ°, अतु°, अशेष°,
 २असत्°, आ°, उप°, उपोप°,
 छिन्न°, पीठ°, प्रताप°, प्रदीप°,
 प्रयोग°, भस्मन्°, वि°, शत°, सम्°
 +२कल्प(-क)- ४अ°
 ३कल्पक^१- वि°, सम्°
 १कल्पन^१- अन्य°, १मनस्°, सम्°
 २कल्प(न>)न^१,^१-
 ३कल्प(न>)न^१- १अङ्ग°, इत्यादि°,
 पुंस्त्र्य...दि°, प्रारब्ध°, बहु°,
 १मनस्°, यन्त्र°, १रूप°, वज्र्या-
 वज्र्य°, वर्षावाहन°, वस्तु°, शक्ति-
 सेना°, १शतायुस्°, सेनादि°
 कल्पना-जाल- निरस्त°
 कल्पित- ४अ°, चित्प्रकाशांश°,
 जीव°, देवतिर्यङ्...भेद°, नानासं-
 कल्प°, परि°, पुरा°, प्र°, १मनस्°,

a) 'कृत्वा, इन्द्रियार्थ->-र्थान्' इति शोधः द्र. (तु. मैत्रि ६, ८) । b) =सङ्ग- । c) भावे कर्तरि वा कृत् । d) आन. अपा. । e) गप्. (पृ२४९) कृष्ण-वासि(न्>)नी- इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । f) तैत्र्या १०, १, ८ । g) ऋ १०, १८४, १ । h) गप्. (पृ२५८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) भावे कृत् ।

युक्तिं, वस्त्रपर्यादि, वालाग्रशतं, वि, शालितरङ्गल, १षडङ्ग, सम्, सु, स्थूल, स्व, स्वप्न, स्वयम्
 +कल्पिता(१तः)-रज्जु-सर्प-कल्पितरज्जुसर्प-वन् अत्र ४, १०.
 +कल्प्य परि, प्र, सम्
 कल्प(स>)सा-साः कौ २, १२?; १३? [स-अभि, जिज्ञास, माया, सम्]
 +कल्पसि-भाग, युग्म, संज्ञामूर्ति, सम्
 केत-✓कित्(ज्ञाने) परि. द्र.
 केतक->+केतक-वन-मथुरावन
 केतन-✓कित्(निवासे) द्र.
 २केतु-शनि
 केन-ईश
 केयूर-धर्मार्थकाम, १शङ्ख, सु
 केलि-कन्दुक, १काम, कुञ्ज, गुण, गूढ, २जल, यमुना, १रति, रास, १सुरत, हाव
 +केलि-कला-नित्यविहारहस्य, सुख
 +केलि-कौतुक-निकुञ्ज
 +केलि-क्रीडा-१बाल
 १केवल-एकान्त, धर्म...हित, निस्, संपूर्ण
 कैवल्य-असङ्गविराज, ईशान, कठवल्ली, परम, परमरहस्य, १ब्रह्मन्, २लीला, १विदेह, शुद्धबोधानन्दलक्षण
 +कैवल्य-ज्योतिस्-अचल...न
 +कैवल्य-फल-अनेकजन्मा...क

+कैवल्य(ल्य-आ)नन्द-अनन्तसहस्र
 कैवला(ल-आ)त्मन्-विगलितगुण-जाल
 केश-आ, कीट, नख, १मुक्त, हिरण्य
 +केश-पर्यन्त-नासादि
 +केश-पाश-गुम्भित
 केशा(श-अ)न्त-नासादि
 +केशन्-सु
 केशव-१शिव
 १केसर-अगुरु, अन्तर्, अष्टदल, तद्, द्वात्रिंशत्, ४नाग, पीठ, ६स, सज्
 केसर-मृगमद-कर्पूर-चन्दन-नाना-रेखा-संयोजित-ललाट->-टा-
 +केसर-रस-अन्तःसुगन्धतैल
 +केसर-संख्यान-यावत्
 +२केसर->+केसरि-वृ
 +केसरिन्-नर, मृत्युमातङ्ग
 +कैटभ-२मधु
 कैलास-परमतत्त्व, हिमाद्रि
 +कैलासे(स-ई)श्वर-चैतन्य...न्य
 कैशोर-१किशोर-(परि.) द्र.
 को->को-विद-अनेककला, कला, कामकला, तत्त्व, नय, मणिपरीक्षा, रतिकलिकला, लतापरीक्षा, विपरीतसु...ला, १शस्त्र, सकलकला, सदारास...न, सुरतकला, सुरतरस
 कोकिल-१भयूर
 +कोकिल-भ्रमर-उन्मद
 कोच-, चन-, चयित्वा, चित-
 ✓कुच द्र.
 +कोटर-१अगु, वृत्, शून्यागार

सर्षपीकोश, हृत्सरोरुह
 १कोटि-अनन्त, अनेक, अब्द, अ-युत, अयुतद्वय, अयुतायुत, अष्टादशन्, अष्टाविंशति, एकस-सत्यधिक, कर्मन्, ३कल्प, १को-टि, ग्रन्थ, चन्द्र, जन्मन्, जप, तडित्, तावत्, तुला, त्रि, दशन्, पञ्चाशत्, पार्वशाचन्द्र, बालार्क, ब्रह्मानन्दमयविमान, भातु, रवि, लक्ष, १वर्ष, शत, शतसहस्र, १षण्णवति, संपाद, सप्तन्, सहस्र, १सूर्य, हाटक
 +कोटि-काम-रतिरमण
 +कोटि-दिवाकर-उद्यत्
 +कोटि-द्वय-१वर्ष
 +कोटि-ब्रह्माण्ड-अखिलारण्ड
 कोटि-शत-जन्मन्, १पाप, विन्दु, ४युग
 +कोटि-सहस्र-जन्मन्, नाद, योनि
 +कोट्य(टि-अ)ष्टक-१वर्ष
 २कोटि-गपू, पृ२५३ द्र.
 +३कोटि-अपानोदय, प्र, मुकुट, सामान्य, सर्व, सुख
 +कोटि(-क)-उभय
 कोट्य ✓कुट्(परि.) द्र.
 कोण-अप्र, चतुर, त्रि, नवन, पञ्च-दशन्, पञ्चन्, पञ्चव, विदिश, षष्, सर्षपी, साधु
 +कोण(-क)-त्रि, षष्
 +कोण-चतुष्टय-१चक्र
 कोदण्ड-मोहन
 १कोमल-तृणजलौ...त्र, रतिकला, लघु, सु, हाटकसुगन्ध
 +कोमल-कला-अनेक
 +कोमल-मुक्ता(क-आ)वलीक-घटित

a) पा? यनि शोधः द्र. । b) गपू. (पृ२५८) 'कल्पित, ता->-ता' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. ।

c) 'ससाः' इति निसा? यनि. शोधः द्र. (तु. आन., अख्या., शां ४, १२; १३) । d) व्यु? =केश- । e) गपू. (पृ२५२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) गपू. (पृ२५३) 'योजिल' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । g) व्यु? =सिंहच्छट्ट- । h) व्यु? =असुरविशेष- । i) व्यु? =वृत्तरन्ध्र- । j) बप्रा. द्र. । =अप्रभाग-, अश्र-प्रसृ. ।

१कोल-

+२कोल^b- लौ पित्र १, १२१^१.+कोलाहल^c- दैत्य^o

कोश- अण्ड^o, अन्न^o, अन्नमय^o, अन्न-
मय^o...मय^o, आ^o, आकाश^o,
आण्ड^o, आनन्द^o, आनन्दमय^o,
१देव^o, नवरत्ननिधि^o, पञ्चन्^o,
१पद्म^o, पुनद्^o, प्राण^o, प्राणमय^o,
१ब्रह्मन्^o, भावाभावदशा^o, १म-
नस्^o, मनोमय^o, विज्ञानमय^o,
विषय^o, षष्^o

+कौशेय^{३d}- ३पीत^o

+कोश-चतुष्टय- कोश-त्रय-, +को-
श-द्वय- एतद्^o

कोष्ट- प्र^o१कोसल- उप^o

कौपीन- उदासीन^o, एक^o, कन्या^o,
जीर्ण^o, १त्रिदण्ड^o, दण्ड^o,
१दण्ड^o, मौडी^o

+कौपीन-वस्त्र- कटिसूत्र^o

१-२कौसुम्भ- कुसुम्भ- (परि.) द्र.

कौस्तुभ- १शङ्ख^o, श्रीवत्स^o, हस्तस्थ^o

१कतु^o- ४अ^o, तद्^o, यज्ञ^o, यथा^o,
यद्^o, शत^o, सर्व^o, सहस्रसंवत्सरा-
न्त^o, सु^o

२कतु^o- तुम् मैत्रि २, ३.+√क्रन्द आ^o, सम्^o+क्रन्दन- सम्^o

√कम्, >चिक्रमिष् अति^o, अनु^o,
अनूद्^o, अन्वव^o, अप^o, अभि^o,
अव^o, आ^o, उद्^o, उप^o, उपनिस्^o,
उपसम्^o, निस्^o, परि^o, परिसम्^o,
प्र^o, प्रति^o, प्रतिसम्^o, वि^o, विनिस्^o
व्युद्^o, सम्^o, समा^o, समुद्^o

कम^o- ४अ^o, अध्यात्मकथन^o, अनु^o,
अभि^o, अष्टोत्तरशता^o...ति^o,
आ^o, आरोहावरोह^o, आश्रम^o,

उक्त^o, उद्^o, उप^o, उर^o, कम^o,
घनस्पन्द^o, चतुर्मुख^o...ख्या^o,
तद्^o, तारतम्य^o, तारमा^o...शी^o,
द्वित्रि^o, नभस्^o, पद^o, परम^o...
षद्^o, परि^o, परिणाम^o, पवनव्य-
त्यय^o, पारिव्राज्यस्वरूप^o, पूर्व^o,
पूर्वाचार^o, पूर्वोक्त^o, पूर्वोक्तब्रह्मयज्ञ^o
प्रतिसम्^o, प्रदक्षिण^o, प्रपञ्चोत्प-
त्ति^o, प्राणायाम^o, मर्कट^o, महदा-
दि^o, मुक्ति^o, १मोक्ष^o, मोक्षपथ^o,
वीजाङ्कुर^o, यथा^o, वर्णाश्रमधर्म^o
वि^o, वितत^o, विमल^o, व्युद्^o, सम्^o
संभवव्यत्यय^o, सर्वधर्मगुण^o, सर्वा-
चारनय^o, सविलासमहा^o...य^o,
सविलासमूला^o...र^o, स्थूलसूक्ष्म^o,
स्वविध्युक्त^o, स्वस्तिकाद्यासन^o,
स्वस्थ^o, हठयोग^o
कम-योग- वेधक^o

+क्रमण- अनु^o, उद्^o, वि^o, सम्^oक्रमत्- आ^o+क्रममाण-, +क्रमिष्यत्- उद्^o

+क्रम्य अति^o, अभि^o, आ^o, उद्^o,
उप^o, उपसम्^o, निस्^o, प्र^o, विनि-
स्^o, समा^o

+क्राम^o- १दधि^o

+क्रान्त- अति^o, अप^o, अश्व^o, आ^o,
उद्^o, रथ^o, वि^o, विनिस्^o, विष्णु^o
समुद्^o, सु^o

+क्रान्ति- आ^o, उद्^o, निस्^o, सम्^o+क्रामत्- अति^o, अनूद्^o, उद्^o+चक्रमाण- वि^o+चिक्रमिष्यत्- उद्^o+क्रमुक^१- आश्रम^o+क्रिमि^१- कोशकार^o√क्री अभि^o, अव^o, परि^o, वि^oक्रय- वि^o+क्रयग- अभि^o+क्रयिन्- वि^o√कीड् सम्^oकीडत्- सम्^oकीडन-> +कीडन-क^{१३}- १बाल^oकीडमान- सम्^o

कीडा- शतिरस^o, अत्यन्त^o, आ-
त्मन्^o, आनन्द^o, केलि^o, कौतुक^o,
२जल^o, तद्^o, नारायण^o, १नित्य^o
निरन्तर^o, नृत्य^o, परस्पर^o, १बाल^o
महत्^o, १रति^o, रस^o, रसिकानन्द^o
रहस्य^o, रास^o, विष्णु^o, विहार^o,
सम्^o, स्व^o

कीडा-पर- अति^o, निरन्तर^oकीडा-रति- १विश्व^o+कीडा-रस- सर्व^o

+कीडा-वन- ब्रह्मानन्दरस^o,
मथुरावन^o

कीडा-स्थल- गुप्त^oकीडित- सम्^o√कुध् प्रति^o

क्रोध- ४अ^o, इच्छा^o, १काम^o,
१चुध्^o, जरा^o, जित^o, निन्दा^o,
१भय^o, १राग^o, लोभ^o, हर्ष^o
+क्रोध-मस्सर- ४अ^o
+क्रोधो(ध-उ)न्मत्त- चन्द्र^o

+√कुश् आ^o+कुष्ट- आ^oक्रूर- ४अ^o√कुम्भ> +कुम्भ- ४अ^o, गत^o√क्लिद्>क्लिन्न- जालकित^oक्लेद्- मेदोमांस^oक्लेदिन्- सर्व^o+क्लेद्य- ४अ^o√क्लिश्, >क्लेशि परि^o, सम्^oक्लिष्ट- ४अ^o, परि^o, सम्^o

क्लेश- काय^o, केश^o, रागादि^o
वाक्काय^o, शरीर^o, सम्^o, सर्व^o

४) गप्. (पृ२५३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) व्यु. ? = इव- । c) व्यु. ? = कलकल- । d) पा ४, ३, ४२ ।

e) गप्. (पृ२५४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) व्यु. ? = प्रजापतिविशेष- । g) भावे कर्तरि वा कृत् । h) पा ३,
२, ६७ । i) व्यु. ? = वृक्षविशेष- । j) व्यु. ? = कौट- ।

+क्लेश-कश्मल- सर्व°
 +क्लेश-जनन- ४अ°
 +क्लेशयत्- सम्°
 कर्ली> कर्ली-कार-> +कर्लीकारिन्-
 ऐंकारिन्°
 +क्ष°> +क्ष-कार-> +क्षकारा(र-अ)-
 न्त- अकारादि°
 + १क्षा(क्ष-अ)न्त- आ(अ-आ)दि°
 ✓क्षण> क्षण- अनु°, उत्तर°, तद्°,
 निरोध°, प्रति°, यथा°, यावत्°,
 वाञ्छा°, संधु°
 १क्षणिक°-
 +२क्षणिक(क)> का°- कौसुम्भा°
 +क्षण- अभि>भी°
 क्षत- ४अ°, त्रिशूल°, शस्त्रबाण°
 क्षति- ४अ°
 ✓क्षत्> क्ष(त्त्र)>त्र°- १ब्रह्मन्°,
 २विश्°
 क्षत्रिय°- १ब्रह्मन्°, १ब्राह्मण°
 +क्षत्रिय(य-अ)र्षि- देवर्षि°
 ✓क्षप्> +क्षपित- यज्ञ°
 ✓क्षम् अति°
 १क्षम°- कार्य°, प्राणसंग्रहण°, भर°,
 व्यवहार°
 +क्षममान- ४अ°
 २क्ष(म)>मा°- ४अ°, अहिंसा°,°
 १निःसंकल्प°
 ३क्ष(म)>मा°-
 २क्षान्त°-
 ✓क्षर (*बधा.) अभि°, वि°
 क्षर- आयुस्°
 १क्षार- अन्यगो°
 २क्षार-> +क्षार-लवणा(ण-आ)-
 क्षिन्- ४अ°
 ✓क्षाल> क्षालि आ°, प्र°
 क्षालन- आ°, प्र°, शुद्धि°
 +क्षालित-, +क्षाल्य प्र°

✓क्षि(क्षये)अप°, अव°, परि°, प्र°, सम्°
 १क्षय- ४अ°, अखिलदुरित°, अक्षि-
 लेन्द्रिय°, अनित्य°...न्ध°, अवि-
 द्या°, अशुद्धि°, अशुभ°, अहंकार°
 कर्मन्°, ३कल्प°, २कुल°, कृत्स्न°,
 कृष्णपक्ष°, चित्त°, चेतस्°, जीवि-
 तव्य°, तद्°, तेजस्°, दुःख°,
 दोष°, दोषबीज°, परि°, प्र°, प्रका-
 शावरण°, प्राण°, प्राणिकर्मन्°,
 प्रारब्ध°, प्रियत्व°, विन्दु°, भूत°,
 १मनस्°, मारुत°, रागद्वेष°,
 लोक°, २वासना°, वासनारजनी°,
 वृत्ति°, शत्रु°, सरव°, सम्°, समस्त-
 दुरित°, सर्वद्वन्द्व°, सर्वपाप°, सर्व-
 रोग°, सर्ववासना°
 +क्षया(य-अ)तिशय- अविशुद्धि°
 +क्षयण- अव°
 क्षय्य-, +क्षित-, +१क्षिति- ४अ°
 क्षीण- अन्तर°, तपस्°, परि°, प्र°,
 सम्°
 +क्षीयमाण- अप°
 ✓क्षि(निवासे) अधि°, परि°
 २क्षय- १यम°, ६स°
 +क्षित्- अन्तरिक्ष°, दिवि°, परि°,
 पृथिवी°, मही°, लोक°, सर्व°
 २क्षिति°- अच्युत°, १ध्रुव°
 क्षेत्र°- कक्षत्र°, १कुरु°, कैलास°,
 तीर्थ°, दार°, द्वारका°, धर्म°,
 नाभिकुरुडलिन°, पितृ°, २पु-
 राय°, बदरिकाश्रम°, महत्°, रामे-
 श्वर°, विष्णु°, १शिव°, १सत्य°,
 समस्त°, सर्व°, सिद्ध°, सु°
 क्षेत्र-ज्ञ- ४अ°, क्षेत्र°, प्रधान°
 क्षेत्र-पाल- गणेश°, दरडेश°
 मन्मथ°
 ✓क्षिप्, क्षिपेत् जाद ३, ६, १६. [अधि°
 अभि°, आ°, उद्°, नि°, परि°,

प्र°, वि°, विनि°, सम्°, समा°,
 समुद्°]
 +क्षिपत्- अभि°
 क्षिप्त- अधि°, आ°, उद्°, नि°, परि°,
 वि°, सम्°, समा°
 +क्षिप्त्वा उद्°
 +क्षिप्य उद्°, नि°, प्र°, सम्°, समुद्°
 क्षिप्र- चिर°
 +क्षेप- इपु°, प्र°, वि°, सम्°
 +क्षेपक- प्र°
 क्षीर- गो°, २दधि°, धेनुस्तन°, पुष्प°,
 बहु°, हंस°
 +क्षीर-गौर- चन्द्र°...जटा°
 ✓क्षुद्र> क्षुद्र-> +क्षुद्र-वण्टिका-
 कटिमखला°
 +क्षुद्रो(द्र-उ)पद्रव- सर्व°
 ✓क्षुब्ध> १क्षुब्ध- १काम°, जरा°,°
 प्रात्यहिक°
 +क्षुब्ध-तृट्-पिपासा-मोह-भय-
 दुःख- देहोपाधिकर्मन्°
 क्षुब्ध-भ्रम- सर्व°
 १क्षुधा- १गुल्म°
 ✓क्षुभ, > क्षोभि सम्°
 क्षुब्ध- ४अ°
 क्षोभ- ४अ°, बुद्धि°, १मनस्°,
 महत्°, सम्°, सर्व°
 +क्षोभण°- सर्वमनस्°
 +क्षोभिन्- सर्व°
 +क्षोभ्य- ४अ°
 ✓क्षुर> क्षुर-> क्षौर- अयन°,
 ऋतु°, ऋतुद्वय°
 +क्षुरि°- सुबाल°
 क्षुरि(क)>का°- कठवल्ली°
 क्षेम- ४अ°, उभयपक्षसमान°, महत्°,
 १योग°
 क्षण- ✓क्षण द्र.

a) =संयुक्तवर्णविशेष- । b) गपू. (पृ२५९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) =सखीविशेष- । d) गपू. (पृ२६०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) गपू. (पृ२६१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) बप्रा. द्र. । g) अर्ध्याः यो. अया. । h) कर्त्तरि कृत् । i) =तदाख्योपनिषद्विशेष- ।

ख

१ख ख-ख दत्ता २^a.

√*खच्>खचित,ता- अनेकाकार^०,
आरह्मणिया^०, कनक^०, चामीकर^०,
जाम्बूनदसुवर्णा^०, नानामणिया^०...
रौ^०, पद्मरा^०...रौ^०, मणिया^०, मणिया-
घटितहाटक^०, २मुक्ता^०, रत्न^०, रत्ना-
वली^०, समप्रशक्ति^०, सुवर्णाभूमिज-
टित^०, स्यूतपु^०...क्ता^०, हाटकमणिया^०

√*खञ्जु>खञ्जन्- चित्त^०

*खट्वा^{३b}->*खट्वा(ट्वा-अ)क्त्वा-
अल्ल^०

√*खड्>खड्ग- अल्ल^०, धनुस्^०,
१वज्र^०, १वर^०, १शङ्ख^०

+√*खण आ^०
+खण- आ^०

√*खण्ड आ^०

खण्ड- ४अ^०, आ^०, इन्दु^०, कौपीन^०,
क्षीर^०, गोपीचन्दन^०, चतुर्थ^०,
चन्द्र^०, चर्मन्^०, त्रि^०, द्वादशराशि^०,
रज्जु^०, १वंश^०, विजयकामकार्मुक^०
२सैन्धव^०

+खण्डित- ४अ^०खण्डित्- २काल^०खदिर- आम्र^०, ३भद्र^०

+खादिर->खादिर-वन- मथुरा-
वन^०

√*खन् उद्^०, नि^०२ख- पृथ्वी^०

ख-गा- आदित्य^०, महत्^०,
१मित्र^०, रक्षस्^०, सर्व^०

ख-द्योत- दीपज्वाला^०, रफ-
टिक^०

+खा(ख-आ)दि- श्रोत्रत्वग-
क्षयादि^०

२खे-च(र>)री- श्री^०+खनित्र^३- पिठर^०+खात- उद्^०, छेद^०, २जल^०

√*खर्(भेदने)>१खर्- -रे मन्त्रि२.
[०र- नि^०]

+२खर्^{३d}- महत्^०, रवन्^०√*खर्जु>खर्जूर- १ताल^०√*खल्(वधा.)>*खल- महत्^०

*खाराडव^३->खाण्डव-वन^३- मथुरा-
वन^०

√*खाद्>खादत्- ४अ^०√*खिद् परि^०, सम्^०खेद- ४अ^०+खेदा(द-अ)खेद- अट्ट^०√*खिल्>खिल- ४अ^०, नि^०+खिल्य- २सैन्धव^०√*खुर>खुर- सु^०+*खेट^०- नवन्^०+२खेट^३- अरि^०

√*ख्या,>ख्यापि अनुव्या^०, अभ्या^०,
आ^०, उपव्या^०, उपा^०, परि^०, परि-
सम्^०, प्रत्या^०, प्रसम्^०, वि^०, व्या^०,
सम्^०, समा^०

+ख्य- सम्^०ख्या- आ^०, व्या^०

ख्यात- अभ्या^०, आ^०, वि^०, व्या^०,
सम्^०, समा^०

+ख्याति- अन्यता^०, अन्यथा^०, नित्य-
शुचि^०...त्मन्^०, १पुरुष^०, रजत^०,
विवेक^०, सदसत्^०

+ख्यातुम् प्रत्या^०, सम्^०

ख्यान- अनुव्या^०, उपव्या^०, उपा^०,
प्रसम्^०, व्या^०

+ख्यापन- अनर्थ^०+ख्यायक-, +ख्येय- आ^०

ग

१-२ग- गप्, पृ२६५ द्र.

३ग- √*गच्छ, गम् (परि.) द्र.

४ग- √गै (परि.) द्र.

गगन- परमात्मन्^०, २पाण्डर^०

गङ्गा- मेरुश्च^०...सिन्^०, रसातल^०
गङ्गा-धर^३- १ब्रह्मन्^०

√*गच्छ, गम्, गच्छ व ४४३:

२१५^a. [अधि^०, अनु^०, अन्तर^०,
अन्वा^०, अप^०, अपि^०, अभि^०,
अभ्या^०, अभ्युप^०, अव^०, अस्तम्^०,
आ^०, उद्^०, उप^०, उपसम्^०,
उपा^०, नि^०, निर्^०, वि^०, विनिर्^०,
व्यप^०, रानि^०, सम्^०, समधि^०,
समा^०, समुद्^०, समुप^०, समुपा^०]

+३ग- अधोर्ध्व^०, अध्वन्^०,

अनन्त^०, अनु^०, अन्तर^०, अन्त-
स्त्रिकोणाग्र^०, अन्य^०, अप^०,
अपानोदयकोटि^०, अम्बर^०, २अ-
स्त^०, आकाश^०, उपवीतल^०...
ह्वन्^०, उर^०, ऊर्ध्व^०, करण-
मध्य^०, कन्दमध्य^०, कल्पविदूर^०,
कारणदेह^०, २ख^०, गुस्तल्प^०,
चतुष्पथ^०...द्वार^०, चन्द्रमण्डल-
मध्य^०, चन्द्रमध्य^०, चित्त^०, जाति-
...दूर^०, तद्रूपवश^०, तन्मध्य^०,
तल्प^०, तुन्दमध्य^०, तुरीय^०, १तुर्थ^०,
तृतीय^०, २त्रिकोण^०, त्रिशूल^०,
दुर^०, दूर^०, देह^०, देहमुक्ति^०,
द्वादशान्त^०, १नवकोण^०, नाना-
नाडीप्रसव^०, निम्न^०, पञ्चदश-
कोण^०, १पद्म^०, पन्न^०, परदार^०,
पार^०, पीठ^०, पुरस्^०, प्रज्वलद्-
वह्नि^०, २प्लव^०, ब्रह्मनाडि^०,
ब्रह्मलोक^०, ३भ^०, भुज^०, भुजम्^०,
मध्य^०, मानसमध्य^०, मूलादिब्रह्म-
रन्ध्र^० रत्नपङ्कजमध्य^०, रस^०, वश^०,
वायु^०, विपणा^०, विपरीत^०, विह^०,
विहम्^०, वैदेहीमुक्ति^०, व्योमन्^०,
शङ्खमध्य^०, शरीर^०, शीर्षान्तद्^०...
मध्य^०, १षट्कोण^०, समा^०, समुद्^०

a) 'खेखे' इति अख्या. संति. (एतदनु गप्, पृ२६३] शोध: द्र.) । b) व्यु? =पर्यङ्क- । c) विप. गप्.

pृ२६४) यनि. संख्यातनिर्देश: द्र. । d) =गर्दभ- । e) =नक्षत्र- । f) व्यु? । g) तैत्र्या ४, २३, १ ।

सर्वे°, सर्वज्ञाद्य...र°, सर्वत्र°, सर्वसंचोभि...र°, सव्यनेत्रान्त°, साममध्य°, सौवर्णाम्बुजमध्य°, स्वाद्यस्वादकमध्य°, हृदयाम्भोज-मध्य°

गच्छत्- अव°, अस्तम्°

गत- -तम् योशि ६, ३३; -ते मं २, ३, ५. [त- अथवेवेद°, अदूर°, अधस्°, अधि°, अनन्त-तेजोराश्यन्तर°, अनु°, अन्त°, अन्तर°, अन्तरिक्ष°, अन्य°, अन्वा°, अप°, अभिमुख°, अभ्या°, अमिततेजोराश्यन्तर°, अमितापरि...न्तर°, अव°, अस्तम्°, अस्थ्यन्तर°, आ°, आदित्य°, आलयमध्य°, उद्°, उप°, उपा°, ऊर्ध्व°, ऋग्वेद°, कनीयसीमध्य°, ऋक्या°, कला-मध्य°, कुराडली°, कृच्छ्र°, कृष्णयजुर्वेद°, कोष्ठमध्य°, खे°, ग्रहणी°, घटमध्य°, चक्रमध्य°, चक्रासन°, चक्षुर्मध्य°, चिज्जगत°, चित्त°, जगत°, रजल°, जिता-सन°, जीवन्मुक्तिदशा°, जीवम-ध्य°, ज्योतिरन्तर°, तद्°, तद-न्तर°, तद्भाव°, तादृग्युण°, तालुमूल°, तुन्दमध्य°, दिव्ययान°, दीप्तिमध्य°, देशान्तर°, देहमध्य°, द्युतिमध्य°, द्वादशान्त°, धातु°, नाडीसूत्र°, नादमध्य°, निर्°, पङ्क°, १पथिन्°, पद्मासन°, २पा-श्वे°, प्रणवान्तर°, प्रतिबिम्ब°, प्रतिमात्रा°, प्रभामध्य°, बिन्दु°, बिन्दुमध्य°, बीजाद्यन्तर°, ब्रह्म-रन्ध्र°, ब्रह्माण्डान्तर°, भानुम-ध्य°, मणि°, मद्°, मध्य°, १म-नस्°, मनोमध्य°, मन्त्रासन°, मू-लाधार°, मृत्युचक्र°, मेरुमध्य°, योनि°, लिङ्गदेह°, लोकान्तर°, वज्रासन°, वन°, १वयस्°, वह्नि-मध्य°, वाचामगो...न्तर°, वात-नाडी°, वि°, विनिर्°, व्यप°, व्योमरन्ध्र°, शरीरान्तर°, शशि-मध्य°, शिरोमध्य°, शीर्षान्तर°, शुक्लयजुर्वेद°, श्रीसूक्त°, सम्°, समा°, समुपा°, सर्वे°, सर्वर्षाठ°, सर्वमन्त्रासन°, सामवेद°, सुद-र्शन...न्तर°, सुषुन्नान्तर°, सूर्य-मण्डलान्तर°, स्थूलदेह°, स्व°, १स्वप्रस्थान°, स्वाधिष्ठान°, १हृद्°, हृदयान्तर°]

गता(त-श्च)सु- ४अ°

गति- अग्न्यादि°, अधीत°, अरि°, अहंममस्वप्न°, उत्क्रान्ति°, ऊर्ध्व°, १ओंकार°, कर्मन्°, क्षत्रियत्व°, चराचर°, गज°, तच्छेष°, तद्°, तद्भ्रम°, दुर्, दुष्ट°, नाडी°, प्राण°, प्राणोपान°, भोगैश्वर्य°, १मनस्°, महत्°, १रति°, लक्ष्यालक्ष्य°, वायु°, विशेष°, शत्रु°, श्रुतोपनि-षत्क°, १सत्°, सदा°, सम्°, स्वर्°, १गत्य अव°, आ°, उप°, निर्°, विनिर्°, समा°

१गथ- सम्°
गन्तव्य- ४अ°, अव°
गन्तु- उद्°
गम- अधि°, अनु°, अभ्युप°, आ°, दुर्, दूरम्°, नि°, पुरस्°, भुजम्°, विहम्°, सम्°, समा°, समितिम्°, समुद्°
गमन- ४अ°, अगम्या°, आ°, आ-काश°, ऊर्ध्व°, गुरुतल्प°, गुरु-दार°, चारुडाली°, दृष्टिशूल...वारम्°, नासाग्र°, नि°, निर्°, परदार°, पाताल°, प्रवास°, मद्°, २मातृ°, वचन°, वृषली°, सन्मार्ग°, सम्°, सहस्थि...र्ध्व°, स्व°, स्वच्छन्द°, हंस°

१गम्य अधि°, आ°, उप°, उपसम्°, ससुप°

गम्य- ४अ°, आप्तोपदेश°, ज्ञान°, २भक्ति°, योगैक°, स्वप्नर्धी°

१गम्य-ता- ४अ°

१गम्यमान- अभि°

१गामिक- आ°

१गामिन्, नी- ४अ°, आदित्यपथ°, अधस्°, अनु°, अन्य°, ऊर्ध्व°, गुरुतल्प°, गुरुवधू°, ब्रह्मरन्ध्र°, वायुपुर°, १सत्य°, सर्व°

जङ्गम- स्थावर°, १स्थिर°

√गज्> गज- अभ्र°, दिशू°, धन°, वनगत°, वृष°

गजे(ज-इ)न्द्र- मत्त°

√गण्> गण- अनन्त°, अनेक°, अने-कायुध°, अभीष्ट°, अशेष°, अहन्°

आपस्°, इन्द्रिय°, ऋग्यजु...रस्°, ऋतु°, कोटिकोटि°, गुण°, गो°, गोपगोपी°, जगत°, दैत्य°, नक्षत्र°, नरमृग...रस्°, नाडि°, नाना°, पक्षिन्°, पद्मरागमणि°, पशुपक्षिन्°, पुलिन्द°, ब्रह्मवि-ष्णवादि°, ब्राह्मणभूपा...र्, भ-स्मन्°, भूत°, मणि°, १मरुत्°, महत्°, २मातृ°, सुनि°, यक्षगन्ध-र्वाप्सरस्°, यक्षराक्षसभूत°, योगि-नी°, रज्जु°, रुद्राक्ष°, १वर्ष°, २वासना°, वृष°, १शिव°, षट्क°, ६स°, सर्व°, २सुर°, स्व°

गण-प- नन्द्यादि°, नाना°

गण-पति- क्षिप्रप्रसाद°, दरुडे-श°, २प्रश्न°, महत्°, श्री°, हरिद्रा°

गणे(ण-ई)श- -शः वउ २, ९; ३, ५. [°श- १आदि°, १सत्°]

गणे(ण-ई)श्वर- भूत°

१गणत, ना- अनन्यभाव...गुण°, गुण°, रूपशो...गुण°

+गणित- ४अ°
 +गण्य- अप्र°, नियमानन्दविशेष°
 √गण्ड् (*बधा.) > १गण्ड- कनक-
 मय...न्त°, ब्रह्माण्ड°
 +गण्ड-शूल^१- शिरःशूल°°
 गत्य, गथ- √*गच्छ्, गम् (परि.) द्र.
 √गद् नि°
 +गद्- ४अ°, जरा°°
 गदा- कौस्तुभ°, १वज्र°, १शङ्ख°,
 सुदर्शन°°
 +गद्गद्^२- ६स°
 √गन्ध् > गन्ध- ४अ°, अशुचि°,
 आमोद°, गुण°, जिह्वा°, तद्°,
 दिव्य°, दुर्°, धूम°, नाना°, पुष्प°,
 पुष्प°, पृथिवी°, प्रपञ्च°,
 १ब्रह्मन्°, मिदा°, २रक्त°, विष°,
 शब्द°, १सत्°, सर्व°, सु°,
 १सुनाद°, सुरा°, सुवर्ण°
 +गन्ध-क- सु°
 +गन्ध-मादन-वन^१- मथुरावन°°
 +गन्ध-माल्या(ल्य-ञ्)नुलेपन-
 १कृष्ण°, २रक्त°, २श्वेत°
 गन्ध-वत्- ४अ°
 +गन्ध-सार-धूप- कापिलाज्या-
 न्वित°
 +गन्धा(न्ध-ञ्)ह्य- परस्पर°
 +गन्धि- दुर°, सु°
 गन्धर्व^१- किन्नर°, १देव°, मनुष्य°,
 २यक्ष°, सर्प°, सिद्ध°
 +गभस्ति- अरुण°, आदित्य°°
 गम्भीर- अति°, स्तिमित°
 +गम्य, गम्यता-, गम्यमान-√*गच्छ्,
 गम् (परि.) द्र.
 १गर- √गृ (शब्दे) परि. द्र.
 २गर- √गृ (निगरणो) परि. द्र.
 गरुड- इम् त्रिवि ७, १. [°ड-
 अनन्त°, कौस्तुभ°, ३जयन्त°,

पाताल°, प्रणव°, महत्°,
 महाप्रणव°, १शङ्ख°°]
 गरुड^१द- २प्रश्न°
 +गरुड-पञ्चा(ञ्च-ञ्)क्षर- प्रणवसं-
 पुटित°
 +गरुडपञ्चाक्षरी- नालकगठ-
 च्यक्षरी°
 √गर्ज् > +गर्जित- उदात्त°°
 १गर्त- असच्छास्त्र°
 गर्दभ- जरठ°, धूम°, श्वान°
 गर्भ- -भः वृ ६, ४, २३१; -भम्
 वृ ६, ४, २२; १६. [°भ-अग्नि°,
 अजना°, अम्भोरुह°, उदितौ-
 दार्य...स°, कठवल्ली°, कदली°,
 जगदुद्भव°, तडित°, तृण°, त्रि°,
 दूर्वा°, पट°, वि°, शब्द°, षड्-
 योनि°, स्नेहप्रणय°, हिरण्य°]
 +√गर्भि > गर्भित- २वेद°, सर्व-
 प्रपञ्चाधार°, साध्य°
 +गर्भो(र्भ-उ)त्पत्ति- जरा°°
 √गर्व > गर्व- १काम°, निन्दा°
 √गर्ह > गर्हित- ४अ°
 √गल् (*बधा.) नि°, निर्°, परि°,
 प्र°, वि°
 गल- अभ्राभ°, गुल्फ°, नि°, १विष°,
 श्रोत्र°
 +गलत्- वि°
 गलित- निर्°, परि°, प्र°, वि°
 गव-, गवी- गो- (परि.) द्र.
 गह्वर- गिरि°, गुण°, गृह°°
 √गा अति°, अधि°, अनु°, अप°,
 अभि°, आ°, उप°, परा°, परि°
 +गा- पुरस्°
 गात्र- ४अ°, चञ्चल°, चिञ्चिणी°,
 निर्मल°, मस्तक°, मृत°, सर्व°
 √गाध् > गाध- ४अ°
 गान्धार^१- षड्ज°°

गामिक-, गामिन्- √*गच्छ्, गम्
 (परि.) द्र.
 गाय- √गै (परि.) द्र.
 गार- √गृ (निगरणो) परि. द्र.
 √गाह् अव°
 गाढ- > +गाढ-तम- दीप्यमान°
 गाढतमो(म-उ)पम- वि-
 स्फुरत्तारकाकार°
 गाढ-प्रेमन्- अत्यन्त°
 +गाह्य अव°
 गिरि- अनात्माख्य°, गृह°, गोवर्धन°,
 पातकौष°, पूर्ण°, शून्यागार°°
 गिरि-श^१- वीरभद्र°
 १गीर्ण- √गृ (शब्दे) परि. द्र.
 २गीर्ण- √गृ (निगरणो) परि. द्र.
 १गु^१-
 २गु- गो- (परि.) द्र.
 +गुच्छ^१- पुष्प°, २सुक्ता°, हरितपी...
 प्प°
 +गुच्छ-फल- अनन्त°
 +गुच्छ-पुष्प-पराग- निगूढ°
 +गुटक^१- सद्गन्ध°
 +गुटिका- यावत्सद्गन्ध°
 गुड- > +गुडा(ड-ञ्)दि- अपथ्या-
 हित°
 गुण- ४अ°, अग्नि°, अथ्य°, अङ्गरस-
 भेद°, अणिमादि°, अन यभा...
 त°, अभिमान°, अलौकिक°,
 अव°, असीम°, आत्मज्ञान°, आ-
 त्मन्°, १आत्मरति°, उद्गारादि°,
 एक°, एकादशन्°, कटाक्ष°,
 कर्तृ°, कल्याण°, कारण°, १को-
 टि°, कोटिकोटि°, क्रिया°, गन्ध°,
 गीतगान°, चतुर्°, चातुर्थ°, जघ-
 न्य°, जन्मन्°, २जाति°, जीव-
 न्य°, तद्°, तमस्°, तादृश°,
 तितित्ताज्ञा...दि°, त्रि°, द्वि°,

a) व्यु. ? =रोग- । b) व्यु. ? =करठावरोध- । c) वैपश् यद्र. =रिम- । d) =तदाख्योपनिषद्विशेष- ।
 e) =तदाख्योपनिषद्-प्रश्न. । f) ऋ ५, ७८, ७ । g) ऋ १०, १८४, ३ । h) नाधा. द्र. । i) बप्रा. द्र. । j) गप्.
 (पृ२७२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । k) व्यु. ? =स्तवक- । l) व्यु. ? ।

नवन्, निर्, पञ्चन्, पृथिवी,
प्र, २प्रतिप्रति, प्राचू, प्राणे-
...करणा, बहु, भाग, मणि,
महत्, महत्वादि, मैत्र्यादि,
मोह, २योग, रजस्, रजःसत्त्व-
तमस्, १रति, रस, १रूप,
लोहितशुक्लकृष्ण, वरुणाङ्क,
वायु, वि, विद्या, विवक्षित,
विशेष, शत, शब्द, शमादि,
शीतोष्ण...मस्, षष्, ६स्,
संवादिन्, सत्त्वतमस्, सत्त्वरज-
स्तमस्, सत्त्वादि, सप्तत्वा-
रिंशदर्पा, २समान, सर्व, सर्व-
धर्म, सर्वेन्द्रिय, सहस्र, २सौम्य
२स्पर्श, स्व, स्वर, हविस्

+गुण-(क)- अदृश्यत्वादि

गुण-गणना- अति

+गुण-गान- सदारासक्रीडाप्रकार

+गुण-गण-योग्य- प्रत्यय...दातृ

+गुण-जाल- विगलित

गुण-त्रय- निर्गत

गुण-मग्न- अति

+गुण-रूप-गान- संस्थापक

गुण-वत् -वन्तम् सु १, २, ६.

[°त्- अतिसेवापर]

+गुण-संबलित- अति

+गुण-सागर- अपार

+गुणा(ण-अ)गुण- विधूत

गुणा(ण-अ)तीत- मायातीत

गुद- उपस्थ, पाणि

+गुद-शूल^१- अङ्गशूल, शिरः-
शूल

+गुदा(द-आ)वर्त- १क्षय

गुदा- गुद

✓गुप्, >अगुप् अनु, वि

गुप्त- आत्मन्, प्राकार, प्राणस्था-
पन, ६स्, सु

+गुप्त-तर- ६स्

गुप्ति- कर्मन्, १ब्रह्मन्, स्व

गोप्त्- अनु, शाश्वतधर्म

१गोप्य- सर्व, सु

+गोप्यमान- सु

अगु(प्स) >प्सा- स्वाङ्ग

+✓गुम्फ् >+गुम्फित- मरकत, २सु-
क्ता, सुवर्णतार

गुरु- -रुभ्यः १कौल शान्. [°रु- उक्ता-
चरण, ऊर्ध्वान्नाय, एक, जगत
तद्, १देव, पर, परम, पितृ,
प्र, मातापितृ, १विश्व, शास्त्र,
१शिव, श्री, १सत्, ससुदाय,
सर्व, सर्वलोक, १सूर्य, स्व,
हेरम्ब]

+गुरु-कपाल- महाचीन

+गुरु-चैतन्य- श्री

+गुरु-तल्प- स्वर्णस्तेय

गुरुतल्प-गमन- ब्रह्महत्या

गुरु-दार-गमन- ब्रह्महत्या

+गुरु-देव-प्रसाद- अनेकजन्मसं-
स्कार

+गुरु-षट्क-गण- -णात् वरा २,
६५.

+गुरु-हत्या- समस्तपा...तक

+गुरु(र-उ)पदिष्ट- विधिवत्

गुलिक- अनन्त

+गौलिक- गृह

गुल्फ- -ल्फौ जाद ३, ६, १. [°ल्फ-

गूढ, १त्वच्, १दक्षिण, दक्षि-

रोतर, पाद, पृष्ठवंश, श्रोत्र

१सव्य]

+गुल्फ-शूल^१- अङ्गशूल, शिरः-
शूल

१गुल्म^१- १क्षय

+२गुल्म^१- तरु, पर्वत, पुष्प, वृक्ष

+३गुल्म^१- >+गुल्म-शूल^१- अङ्ग-

शूल

✓गृह् नि

१गृहा- एकान्त, पुनर्, बुद्धि,
सर्वभूत, १हृद्

१गृह्य- ज्ञान, १देव, मस्तक,
महत्, राजन्

गृह्य-तम- सर्व

+गृह्य-प्रकार- १ब्रह्मन्

+गृह्य-शूल^१- शिरःशूल

+गृह्यो(ह्य-उ)पनिषद्^१- २वेद

गृह- अति, अन्तर्, अन्तर्गतप्रमा,
नि, सु

✓*गृह्, ग्रह, >जिघृक्ष अनु, अनुसं
अपि, अभि, आ, उद्, उप,
उपवि, उपसम्, उपोद्, नि,
निर्, परि, प्र, प्रति, वि, विनि
सम्, समनु, समा, संपरि

गृह- -हे नाप १२२ : ३^५. [°ह-

अभिहोत्र, अन्तर, अष्टन्,

अहंकार, कलत्र, कारा, १देव

देह, २धारा, १नन्द, निकुञ्ज,

पञ्चन्, पञ्चसप्तन्, पर, पितृ,

पितृ, १पुत्र, ब्रह्मर्षि, १भू,

महत्, मोहन, वपुस्, वृषभानु,

वृषभानुनन्द, शय्या, शान्ति,

१शिव, शून्य, शून्यागार,

श्वपच, सूचिका, स्व, स्वपुत्र]

+गृह-द्वय- शान्ति

गृह-पति->गार्हपत्य- आह-

वनीय

+गृह-याग- त्यक्त

गृह-स्थ- वानप्रस्थ

+गृहा(ह-अ)ङ्गण^१- तृष्णा

गृहा(ह-अ)श्रम- स्व

गृहिन^१- ब्रह्मचारिन्

१गृह्य^१- स्व

२गृ(ह्य)ह्या^१-

a) बस. >कस. । b) गप्. (पृ२७४) 'गुरु->-रु' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । यच्च तत्र टि. तथैव द्र. । c) अज्या :
यो. अपा. । d) गप्. (पृ२७६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) व्यु. ? =लुप- । f) व्यु. ? =अङ्गविशेष- । g) बप्रा. द्र. ।
h) अज्या : सं. अपा. । i) =सूत्रग्रन्थ- । j) गप्. (पृ२७९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

गृहीत,ता- ४अ°, अनु°, १उप-
याम°, गन्धर्व°, तृष्णाग्राह°,
१धृति°, नि°, परि°, प्रति°, रली-
ला°, समु°, समनु°, रहस्त°
+गृहीति- आत्मन्°, शरीररूपक-
विन्यस्त°
गृह्णन्- उपोद्°, प्रति°
+गृह्णान- अनु°
गृह्य अनुसं°, अपि°, आ°, उप°, नि°,
परि°, प्र°, प्रति°, समु°, संपरि°
+३गृह्य- ४अ°, इन्धनयोनि°
१ग्रह- ४अ°, अति°, अनु°, आद्य-
न्त°, उप°, उपवि°, उपसमु°,
गम्भीर°, तद्°, रदधि°, दुर्नि°,
नि°, नियम°, परि°, प्र°, प्रति°,
वि°, विनि°, संधि°, समु°, सर्प°,
सर्व°
२ग्रह- अहंकार°, अष्टादश...नी°,
उप°, १कुमार°, गन्धर्व°, चन्द्र°,
दुष्ट°, नवन°, यक्षरा...ण°, रवि°°
+ग्रह(ह-त्र्य)र्षि-मण्डल- -लानि
त्रिवि ५, १२°
ग्रहण- ४अ°, आनन्द°, उद्°, कल्प-
ना...रूप°, गन्ध°, गोमय°, गृही-
तृ°, चराचर°, ज्ञानसंन्यास°, देव-
ताप्रसाद°, नाद°, नासन्°, प्रण-
वमहावाक्य°, भिषज्°, १रूप°,
विषय°, शब्द°, शब्दाद्यर्थविषय°,
सकृत्°, संन्यास°, समु°, समीक-
रण°, १सूर्य°, १सोम°, २रुपशी°,
स्वगमननिरोध°
ग्राह- अति°, २असत्°, तृष्णा°, मूढ°
ग्राहक- अनु°, ग्रहण°, ग्राह्य°,
धर्मिन्°
+ग्राहम् नामन्°
ग्राह्य- ४अ°, अनु°, गृहीतृ°, निर्°,
प्रति°, बुद्धि°, १भाव°
+ग्राह्य-शक्ति- तद्°

+जिघृक्षमाण- अभि°
√गृ (शब्दे) प्रति°
+१गर- प्रति°, मन्त्र°
गिर्- आदिम°, व्यक्ताव्यक्त°
१गोर्ण°
√गृ(निगरयो) उद्°, नि°, समुद्°
+२गर- अज°
+गार- उद्°
+२गोर्ण- नि°, समुद्°
गोह^{१३}- १शिव°, स्व°
+गोहि(न्->)नी- मुक्ति°
√गौ->गा अभि°, आ°, उद्°, उप°,
परि°, वि°, समु°
+४ग- १छन्दस्°, सामन्°
गात्- आ°, उद्°
गाथा- वाकोवाक्य°
गान- उप°, १काम°, गीत°, गुण°,
गुणरूप°, सामन्°, सु°
+गाय- पुरस्°
गायत्- उद्°, समु°
३गायत्र- १ब्रह्मन्°
गायत्री- अनङ्ग°, अव्यक्त°,
१आदि°, नारायणहयग्रीव°, नि-
चृत्°, नारसिंह°, नृसिंह°, नृसिंह-
सुदर्शनब्रह्मन्°, यजुस्°, विष्णु°,
२वेद°, वैष्णव°, १शिव°, सहस्र°
+गायत्री-जप- षट्सह...त्त°
+गायत्री-द्वय- रामकृष्ण°
+गायत्री-प्राण-स्थापन-
मन्त्रयन्त्राख्य°
गायमान- आ°, समु°
गीत- उद्°, उदात्त°, ३कल°,
नृत्य°, वि°, शास्त्र°, समु°
गीथ- उद्°
गीयमान- उद्°, समु°
गो- अन्य°, एकादशसहस्र°, १कपिला°
१कोटि°, दशन्°, द्विज°, द्विसहस्र°
मनुष्य°, श्वन्°, १सूर्य°°

+गव- गोपगोपी°, समु°
+गवी- १ब्रह्मन्°
गवा(व-त्र)क्ष->गवाक्ष-क-
१जाल°
गव्य- पशन्°
+२गु- अनुष्ण°, रचित्र°
गो-कुल- १शिव°
गो-चर- ४अ°, अतीत°, अव-
स्थाच...य°, आत्मन्°, इन्द्रिय°,
चित°, तच्छब्द°, तद्दृष्टि°,
दृशि°, दृष्ट°, व्यैकैक°, परमप्रेमन्°,
ब्रह्मविद्दृष्टि°, भावनामात्र°,
भावाभाव°, वाग्रसन°, वाङ्मनस°
वायु°, विषय°, सकलागम°,
सदानन्दा...क°, सर्व°, सर्ववेदा-
न्त°, स्वस्वरूप...न्द्रिय°, हृदय°
गो-तम->गौतम- २वसिष्ठ°, श्री°
गो-त्र- ४अ°, किम्°, २कुल°, कौ-
शिक°, २जाति°, नामन्°, यद्°,
५स°, सांख्यायन°
गो-धूम- ६स°
गो-प- इन्द्र°
गोपी- २कृष्ण°, गोप°
गोपि-(क->)का- गोप°
+गोपी-चन्दन-चर्चन-
-नम् कृपु २१?°
+गोप-कन्या- २व्रज°
गो-पा- द्वार°
गो-पाल- लक्ष्मीनारायण°, श्री°,
गोपाल-तपन^{१२}- २प्रश्न°
गो-पुर- श्रीमत्°
+गोपुर-द्वार- शिवधर्मा...त्°
+गो-म(त्->)ती^{१३}- गङ्गा°
गो-मय- गोमूत्र°, तद्°, तृण°, प्रश-
स्त°, मृद्°, शुष्क°
१गो-मुख- गपू. पृ२८३ द्र.
२गो-मुख^{१४}- रस्वस्तिक°
+३गो-मुख^{१५}- पराव°°

a) कर्मणि क्यप् । b) महर्षि° इति निसा । c) =शब्द- । d) गपू. (पृ२८०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।
e) पा १,२,४८ । f) द्र. गपू. पृ५७०q । g) =नदीविशेष- । h) व्यु. ? =वाद्यविशेष- ।

+गो-रक्ष-,>+गौरक्ष्य- कृषि°
 गो-रोचन^१- चम्पक°°
 गो-वधेन^१- श्री°
 गो-(स्थ>)घृ- १शिव°
 गोष्ठी- देवाभिगुरु°, धूर्त°, पर-
 स्पर°, मुक्तासनसुख°, वृथा°, सं-
 बन्ध°°
 +गो-सुर^१- ६स°
 +गो-हत्या- समस्तपात...क°°
 +गोधा^२->गो(धक>)धिकार्- गृह°
 गोप्यमान- √गुप् (परि.) द्र.
 गोमती-, १-३गोमुख- गो- (परि.) द्र.
 १गोल^१- १भू°
 गोलक- कदम्ब°, तप्तद्भुवनो-
 चित°, ब्रह्माण्ड°
 +२गोल^१- १कुराण्ड°
 गौर- क्षीर°, चम्पक°, रत्न°
 १गौरी- सी मउ ३, १४.
 गौलिक- गुलिक- (परि.) द्र.
 √ग्रथ्, न्थ् अभि°, उद्°
 ग्रथित- २अक्ष°, अनेकपु...ता°,
 अनेकलता°, उद्°, कुञ्जविद्रुम-
 लता°, नानामणिसुक्ता°, पट्टडोरि°,
 पद्मरा...ता°, पुष्पलता°, प्रफु-
 ल्लितलता°, मणिया°, मणिलता°,
 मणिविद्रुमलता°, मुक्कालता°,
 लता°, विद्रुमल...ता°, वृक्षाप्र°,
 सुवर्णलता°, सुवर्णसु...ता°
 ग्रन्थ- अल्प°, निर्°
 ग्रन्थि- अद्वैत°, अनादिदुर्वासना°,
 अविद्या°, इच्छा...हान्°, १गुहा°
 १चित्°, निकुञ्जनानालता°, निर्°,
 पर्वन्°, १ब्रह्मन्°, महत्°, १रुद्र°,
 विच्छिन्न°, विष्णु°, सर्व°, ज्ञायु°°
 स्फटिक...श°, १हृद्°, हृदय°
 +ग्रन्थि-त्रय- सुणत्रयसमुद्भूत°
 +ग्रन्थि-संचय- मुक्ति°

√ग्रस् उदुद्°
 +ग्रसन- १सर्वशक्ति°
 ग्रस्त- ४अ°, मृत्युव्या...रा°
 ग्राल- ईश्वर°, उदुद्°, महत्°,
 सर्व°
 +ग्रालक- उदय...ल°
 ग्राम- इन्द्रिय°, रदधि°, १नन्द°,
 २पुर°, भूत°, मन्त्र°, लिङ्ग°,
 सम°
 +ग्राम-णी- १सूत°
 ग्रावन्- युक्त°
 ग्राहम् √*ग्रह्, ग्रह् (परि.) द्र.
 ग्रीव, वा- आनन°, उत्करठ°, उ-
 रस्°, काय°, दशन्°, १नील°,
 ३पीत°, सु°, हय°
 ग्रीवेय- हार°
 +ग्रीव-शिरः-काय-, +ग्रीव-शिरः-
 शरीर-, +ग्रीव-शिरस्-, +ग्री-
 वो(व-उ)दर- १सम°
 √ग्लै>ग्लापि,>+ग्लापन- वि°
 —
 घ
 +घ- √हन(परि.) द्र.
 √घट्(*वधा.)>घाटि- उद्°, उप°,
 वि°
 १घट- वि°
 २घट^१- आम°, कूपचक्र°, २घट°,
 रत्न°
 +घट-मालिका- जलयन्त्रस्थ°
 घटा(ट-आ)काश- उपाधिविनि-
 मुक्त°
 घटित- उप°, केशच्छटा...रि°,
 मणिया°, मणिकुञ्ज°, हीरकावली°
 १घ(टि>)टी>+१घटि-(क>)का-
 मणिया°, सुवर्ण°
 २घ(टि>)टी>२घटि-(क>)का°-

+घाटन-, +घाट्य उद्°
 +√घट् सम°
 +घट्टन- ताल्वादिस्थान°, सम°
 +घट्टित- सम°
 १घ(रट>)ण्टा->१घण्टिकार्-
 २घ(रट>)ण्टा- कांस्य°, चन्द्र°
 +घण्टा-निनाद- दीर्घ°
 +२घ(रटक>)ण्टिका- जुद्र°
 १घन- अद्वयानन्दविज्ञान°, आनन्द°,
 आनन्दचित्°, एक°, एकीभूत-
 प्रज्ञान°, १चित्°, २चैतन्य°,
 जीव°, १ज्ञानानन्द°, परमानन्द°,
 परानन्द°, पीन°, प्रज्ञा°,
 प्रज्ञान°, १ब्रह्मन्°, रस°, १विज्ञान-
 न°, विज्ञानानन्द°, शिवविज्ञाना-
 नन्द°, शुद्धबोध°, १सत्°, सत्य-
 चित्°, १सदानन्द°, सु°, सुवर्ण°,
 २सैन्धव°
 घन-वास(ना>)- प्रशान्त°
 +घन-सार- चम्पक°, नीहार°°
 २घन->+घन-राजि- प्रावृषेय्य°
 घर्ष- वर्षण-, वर्षयित्वा √घृष्(परि.) द्र.
 √घस्,>जिघत्स् अनु°, प्र°, वि°
 +घस- वि°
 जग्ध- प्र°
 +जिघत्स- वि°
 घात-, घातक-, घातम्, घातिन्-
 √हन(परि.) द्र.
 घार- √घृ (परि.) द्र.
 √घुष् आ°
 घोष- ४अ°, कल्पस्तवनादि°,°
 दधिमन्थन°, १ब्रह्मन्°, मेघ°,
 विचित्र°, सु°
 घोषि(न्>)णी^१६- -णी नाद
 ९.
 +घोष्- आ°
 √घृ(*वधा) आ°

- a) द्रस.। उप. =२सुर-। b) व्यु. ?। c) गपू. (पृ२८४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। d) व्यु. ? =जारज-।
 e) गपू. (पृ२८६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। f) गपू. (पृ२८७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। g) =मात्राविशेष-।
 h) गपू. (पृ२८७) यनि. शोधः द्र.।

+घार- आ°
 घृत- तम् वा २९. [°त- क्षीर°, गो°, तिल°, रदधि°, पुष्प°, १मधु°, ६स°]
 घृत-रस- गोरस°, दुग्धरस°
 √घृण् (दीप्तौ) > घृणि- णिः त्रिवि ७, ४४५°.
 √घृष् > घर्षि सम्°
 +घर्ष- उदल्लाङ्गूल°, सम्°
 +घर्षण- +घर्षयिस्वा सम्°
 +घृष्ट- वैराग्योपल°
 +घृष्य सम्°
 १घोर- अनन्त°, १घोर°
 २घोर- ४अ°
 घोष्ट- √घुष् (परि.) द्र.
 घ्न- √हन् (परि.) द्र.
 √घ्ना अभि°, आ°, उप°, व्या°
 +घ्न- व्या°
 घ्राण- गन्ध°, चक्षुस्°, रत्वच्°, पाद°, पृथिवी°, मस्तक°, शक°, ३श्रवण°, श्रोत्र°, श्रोत्र°
 घ्रातृ- ४अ°

ड

डे > डे(डे-अ)न्त- स्व°

च

च^b व ४३५ : १६.
 +√चक् > चक- कुटी°
 १चक्र- अलात°, अष्टन्°, अष्टार°, असुरान्तक°, आ°, आकाश°, आज्ञा°, आधार°, आवृत्त°, इन्दु°, एक°, करण°, रकाल°, कुलाल°, कूप°, १चित°, चिन्तानिचय°, जगत°, जगन्मोहन°, ज्वाला°, तद्°, तालु°, तालुका°, तृतीय°, त्रिशातार°, दशार°, शृत°, द्वितीय°, नवन्°, नाडी°, नाभि°, नारसिंह°, निर्वोण°, १धी°, घृत°, पञ्चम°, परब्रह्मन्°, प्रथम°, १ब्रह्मन्°, १भू°, भूगोल°, भ्रू°, मरिणपूरक°, महत्°, १मूल°, १मृत्यु°, रथ°, वि°, विराज्°, विराज्य°, रविश्वरूप°, वैरिविदारिन्°, व्योमन्°, शक्ति°, १शङ्ख°, शतार°, शत्रुजित्°, शिशुमार°, श्री°, रघट्कोण°, षट्छतार°, षष्°, षष्ट्यर°, संसार°, सकल... रा°, संचार°, सप्तन्°, सप्तम°, सम्°, सप्राज्°, सर्व°, सहस्रार°, सु°, सुदर्शन°, १सूर्य°, स्वराज्°, स्वयो°, स्वाधिष्ठान°, हृदय°
 +चक्र(-क)- कांस्य°
 चक्रमाण- √कम् (परि.) द्र.
 √चच् (*बधा.) अभि°, आ°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, व्या°, संप्र°
 +चक्षण- प्रति°, वि°
 +चक्षत्- वि°
 चक्षस- तृ°
 +चक्षाण- व्या°
 चक्षुस- क्षुः मैत्रि ६, ६°. [°स- ४अ°, आत्मन्°, आत्मन्°, आवृत्त°, जगत°, ज्ञान°, जिह्वा°, पाणि°, पाद°, पृथिवी°, १मनस्°, मनःसहकारिन्°, मांस°, १वाच्°, २वाम°, १विश्व°, विश्वतस्°, श्रोत्र°, सु°, स्व°]
 चाक्षुष- ४अ°
 चक्षुः-श्रोत्र- ४अ°
 +चक्षुष्(-क)- ४अ°
 √चञ्च (*भक्षरो) > चञ्चु- नासा°
 +चञ्चु-क- पक्ष°

+चञ्चु-पुट- २रक्त°
 +चञ्चुर- हेलावि...र°
 √चट् (*बधा.) > चाटि उद्°, प्र°
 +चटु- > +चटु-चाटु-वचन-संभोग°
 +चाटन- +चाटि(न)नी- उद्°
 +चाटु- चटु°
 √चरा (*भक्षरो) > चण- > +चण-क- गोधूम°
 √चराड् > चण्ड- पञ्चाल°, प्र°, २मधु°
 चण्डाल°- उप°, खन्°
 +चण्डाली- > +चण्डाली-गमन-समस्तपा...क°
 चाण्डाल- -लः ब्र२°. [°ल- ४अ°, ५न°, शिवभक्त°]
 +चाण्डाली- उच्छिष्ट°
 +चाण्डाला(ल-आ)दि- आ°
 +चारिडरिदि^१- गरोश°
 +√चत् अप°
 चतुर- त्रि°, द्वि°
 चतस्र- अर्ध°, जाप्रदादि°, तुरीयादि°, सार्ध°, सुषुप्त्यादि°, स्वप्नादि°
 चतुर्थ- अर्ध°
 चतुर्थी- -र्थी तु ८^६.
 चातुर्थिक- > +चातुर्थिक-ज्वर^१- अतिभयंकरज्वर°
 चतुर-दशन्- > चतुर्दश- > चतुर्दशी- -शी तु १०^५.
 +चतुर्दश-क- सर्वसंज्ञोभिरयादि°
 चतुर्दश-करण- मन आदि°, स्व°
 चतुर्दश-भुवन- तत्तदरजोचित° भूरादि°
 +चतुर्दश-वायु-भेद- प्राणादि°
 चतुर्दशा(श-अ)र- सर्वसंज्ञोभिरयादि°
 २चतुर-द्वार^१-

a) तैश्चा १०, १५, १। b) तु. गप्. पृ२३३b। c) °क्षुषा इति सात्.। d) व्यु?। e) विप. वानाप. वा। f) गप्. (पृ २९१) यनि. शोषः द्र.। g) °शैः इति पा.? यनि. शोषः द्र.। h) °शः इति पा.? यनि. शोषः द्र.। i) गप्. (पृ २९३) संख्यारहिते चतुर-द्वार- इत्यत्र यनि. संख्यानिर्देशः द्र.।

चतुर-मास->चातुर्मास्य- ४अ°

+चातुर्मास्य-व्रत-नियम-युक्त°

चतुर-मुख-खाय मउ ३, १८.

[°ख- निशाकर°]

चतुर-वर्ग-फल- सर्ववेद°

१चतुर-वर्ण->चातुर्वर्ण्य->

+चातुर्वर्ण्य-भैक्ष-चर्च- यथो-पपन्न°

चतुर-विंशति- केशवादि°

चतुर्विंशति-तरु- स्वकल्पित°

+चतुर्विंशति-मन्त्र- केशवादि°

चतुर-विध->चातुर्विध्य- एकैक-

मात्रा°, परिमाण°

चतुर-व्यूह- वासुदेवादि°

+चतुश्-चत्वारिंशद्-वर्ष- वर्षाणि

छां ३, १६, ३.

चतुष्-क-अनुबन्ध°, ऊर्ध्व°, मास°

चतुष्-टय- अन्तःकरण°, अवस्था°,

अवस्थाचतुष्टय°, आयुध°, ऊर्ध्वग-

रेखा°, कोण°, कोश°, त्रिकोणाग्र°

दशा°, ४पट्ट°, पाद°, पुरुषार्थ°,

भूपुर°, मात्रा°, २योग°, रेखा°,

लक्ष्°, २वर्ण°, वस्तु°, वैराग्यादि°

साधन°

+चतुष्-षष्टि- षोडशन्°

चत्वारिन्->चत्वारिंशत्- अष्टन्°

एक°, चतुर°, त्रि°, द्वि°, पञ्चन्°,

षष्°, सप्तन्°

तुरीय-चमू काम ३. [°य- अति°,

२जाग्रत्°, २जाग्रत्°, तद्°, तैज-

स°, तुरीय°, १तुर्य°, २प्राज्ञ°, वि-

द्या°, १विश्व°, षोडशान्तस्थ°,

सुषुप्त°, स्वप्न°]

+तुरीय-भाग- आकाशा...रा°,

भूतसत्त्व°, सत्त्व°

+तुरीया(य-अं)श्- अकार°, अ-

र्धमात्रा°, उकार°, मकार°

तुरीया(य-अ)तीत°- ईशावा-

स्य°, कुटीचक°, २जाग्रत्°,

परमहंस°, सर्वपरिपूर्णा°

+तुरीया(य-अ)श्रम- ब्रह्मचर्या-

श्रमादि°

१तुर्य- ४अ°, १तुर्य°, २प्राज्ञ°, स्थ-

ल°°

१चतुर- अशेष°

चातुर्य- कामकला°, चित्तखञ्जनमी-

न°, १भ्रमर°, स्व°

+चातुर्या(र्य-अ)सीम-गुण-

ज्ञ- अत्यन्तमनोहर°

चन किम्°

√चन्द्र(°बधा.)>चन्दन- अगुरु°,

केसर°, गोपी°, चम्पक°, २प्र-

बाल°, विष्णु°, शीतल°, श्री°,

सज्°

चन्दन-वृक्ष- प्रफुल्लित...न°

चन्द्र-अत्रच्छा...त°, अर्क°, अर्ध°,

१कोटि°, २कृष्ण°, २जल°, द्वि°,

नख°, परिपूर्णा°, पार्वणा°, पूर्णा°,

प्रातरिच...र्य°, रवि°, १राम°,

१वज्र°, शत°, राम्भु°, १शिव°,

संपूर्णा°, १सूर्य°, १सूर्य°, हरि°

चन्द्र-ऋक्ष-ग्रह-संवत्सरा-

(र-आ)दि-द्वयः मैत्रि ६, १६^b.

+चन्द्र-कान्त^१- पद्माराग°

+चन्द्रकान्त-मणि-जल-

यन्त्र- तटभू...टी°

+चन्द्र-भद्र- १राम°

+चन्द्र-भा(ग>)गा^१- चन्द्रा-

वली°

चन्द्र-मण्डल- १सुधा°

+चन्द्र-म(य>)यी- १चित्°

चन्द्र-मस- बोध°, १सूर्य°

चन्द्रा(न्द्र-अ)यण->चान्द्रा-

यण- एकरात्र°, कृच्छ्र°, नाना°

+चन्द्रा(न्द्र-अ)र्ध- ३पीत°

चपल- १अङ्ग°, नेत्र°, पाणिपाद°,

१वाच्°

चापल- ४अ°, प्रशान्त°, विषय°,

सद्यःसंत्यक्त°

√चम्(°बधा.) आ°

चमत्->चमत्√कृ(करणे)>

चमत्-कार- सत्त्व°

+चमन^d-, +चम्य^d-, चान्त^d- आ°

चमस- महत्°

चम्पक- आम्र°, कनक°

√चर(°बधा.)>चारि, चरति° १आ

११; चरेत् शा३२३:४^१. [अनु°,

अनुसम्°, अनूप°, अभि°, अभ्युद्°

आ°, उद्°, उप°, निस्°, परि°,

प्र°, प्रावि°, प्रोद्°, वि°, विनिस्°,

व्युद्°, सम्°, समा°, समुद्°]

चर^e- ४अ°, अमृतम्°, एक°, १का-

म°, कुटी°, २ख°, खे°, १गुहा°,

गो°, दुस्°, पत्नीय°, १भू°,

शनैस्°, सम्°

चरा(र-अ)चर- ६स°

+चराचर-चेष्टित- ६स°

+चराचर-हत्या- समस्त-

पा...क°°

१चरण- अनु°, आ°, कपूय°, गो-

त्रादि°, परि°, परेच्छा°, पुरस्°

भिक्षा°, रमणीय°, सम्°

२चरण- २कर°, १दक्षिण°, मुनि°,

श्रीमन्नारायण°, सहस्र°

+चरण-समप्रावयव-मुख-

व्यङ्गाव्यङ्गकारण°

+चरणा(ण-अ)ङ्ग(लि)>ली-

विशद°

+चरणा(ण-अ)रविन्द- त्रिदश-

...त°, सूर्यमण्ड...व्य°

चरत्- -रत् शां १, ४. [°त्-

a) बप्रा. द्र. । =अवस्थाविशेष-, उपनिषद्विशेष-, संन्यासिविशेष- प्रभृ. । b) °न्द्रक्षे° इति सात. ।

c) धा. चाकचक्ये वृत्तिः द्र. । d) धा. अशने वृत्तिः द्र. । e) तु. गपू. पृ१०१४i । f) अज्या : सं. अपा. । g) कर्तरी भावे वा कृत् ।

अनुसं°, आ°, उद्°, निस्°, परि°, प्र°, वि°, सम्°, समा°]
 +चरमाण- सम्°
 चरित- अज्ञात°, आ°, उदार°, दुस्°, १रुद्र°, सम्°, सु°
 +चरितवत्- आ°
 +चरितृ- परि°
 चरित्र- अनन्त°, नानाली...व°
 +चारित्र- अत्यद्भुत°
 +चर्य, र्या- अज्ञात°, २कु°, गो°, परि°, पुरस्°, १ब्रह्मन्°, भिक्षा°, भैक्ष°, भैक्ष्य°, वेदमत°, हंससूत्र°
 +चर्यमाण- परि°
 चार- अनूप°, अभि°, आ°, उद्°, उप°, कर्मन्°, १काम°, प्र°, प्रवि°, १मनस्°, १यथाकाम°, २योग°, वि°, १विश्व°, व्यभि°, सम्°, समा°
 +चारक->+चारक-विधा- ६स°
 +१चारण- उद्° प्र°, वि°, सिद्ध°
 +२चार(ण)>णा- वि°
 +चारयत्- प्रोद्°
 +चारयमाण- परि°
 +चारिक- आ°
 +चारित- उद्°
 +चारितवत्- वि°
 +चारिन्- अप्सु°, १काम°, क्रम°, चित्तकर्दम°, त्रिकूटादि°, नासा-भ्यन्तर°, परि°, पुरथायतन°, १ब्रह्मन्°, यथा°, विषयोद्यान°, सम्°, २सह°, स्वप्न°
 +चार्य उद्°, प्रवि°, प्रोद्°, वि°, समुद्°
 +चार्य- प्रवि°
 +चार्यमाण- उद्°
 +✓चर्च परि°
 +चर्चन- गोपीचन्दन°
 +च(र्च)>र्चा- चन्दन°

+चर्चित- परि°
 चर्मन- अस्थि°, कपाल°, चीर°, १त्वच्°, द्वीपिन्°, १व्याघ्र°
 +✓चर्च>चर्वित- कोपाजगर°
 चर्षण^b- वि°, १विरव°
 चर्षणि^b- १विश्व°
 ✓चल्>चालि, चञ्चल् उद्°, परि-निस्°, प्र°, वि°, विनिस्°, सम्°
 चञ्चल- ४अ°, अति°
 +चाञ्चल्य- खञ्जनमीन°, चेतस्°
 +चञ्चल-गात्र- सदा°
 १चल- ४अ°, निस्°, परिनिस्°, विनिस्°
 चलन- दृग्वायु°, प्र°, हस्तपाद°
 +चलाचल- ४अ°
 चलित- उद्°, वि°
 +चाल- शक्ति°
 चालन- गमन°, छेदन°, मेरु°, वि°, शक्ति°, सम्°
 २च(ल)>ला- ला पी ४२२: ८°
 चाटन-, चाटिनी-, चाटु- ✓चट्
 (*बधा.) परि. द्र.
 चाणूर- केशिन्°
 चातुहोत्र^d-
 चान्त- ✓चम्(*बधा.) परि. द्र.
 चाप- ४शर°
 चामर- २घण्टा°, छत्र°, दीप°, २निरतिशयानन्द°, महाच्छत्र°, ६स°
 चामीकर- तप्त°
 चामु(रुड)>राडा- सिद्धि°
 चामुण्डी^e- २रक्त°, वीर°
 +चामुण्डे(रुड-ई)शरी- सिद्ध°
 +✓चायु, >+चाय्य, +चाय्य-नि°
 चारु- सुमहत्°
 +चारु-दारुण- -णम् महा ३, ४४;

या २, १०.
 चार्वाक¹⁰- जैन°°
 ✓चि(*बधा.) अप°, आ°, उप°, नि°, निस्°, परि°, वि°, विनिस्°, सम्°, समुद्°
 +चय- उप°, नि°, निस्°, परमा...नी°, परि°, महत्°, विनिस्°, सम्°, समुद्°
 +३चित्- १पुरय°
 चित- अन्तर्बहिम्°, कर्मन्°, निस्°, परि°, विनिस्°, सम्°, हेमरत्न°
 +चितवत्- निस्°
 +१चित्- अप°, प्रत्यच्°, वि°
 +चित्य निस्°, वि°
 चि(त्य)>न्या- अग्नि°
 +चिन्वत्-, +चिन्वमान- वि°
 १-२चिकित्सा-, १-२चिकित्सित-, १-२चिकित्स्य- गपू. पृ १०४२२.
 +चिकृण->+चिकृण-सुगन्ध-केशच्छटा°
 चिक्रमिषत्- ✓कम् (परि.) द्र.
 +चिक्रीत¹⁰- आनन्द°
 ✓चित् प्र°
 १चित्- अमितानन्द°, अविच्छिन्न°, अव्यक्त...क°, आनन्द°, एका-न्त°, २चैतन्य°, १नित्य°, निर्विकल्प°, बहिस्°, महत्°, शुद्ध°, १सत्°, १सत्°, १सत्य°, १सत्य°, स्वप्रकाश°, स्वात्म-ज्योतिर्मय°, स्वानुभूत्येक°
 २चैत्य- ४अ°, १चित्°
 +चैत्य-चिह्न- ४अ°
 +चिज्-ज्योतिस- बुद्धिगुहा-निहित°
 चित्-पर- १ब्रह्मन्°°
 +चित्-प्रकाश- १घन°
 +चित्-सागर- अनन्त°, चिन्म-थनाविर्भूत°

a) ब्रपा. द्र. । b) वैपश् यद्र. । c) गपू. (पृ ३०१) स्थलनिर्देशे यनि. शोषः द्र. । d) गपू. (पृ ३०१) °हौत्र-इत्यत्र यनि. शोषः द्र. । e) व्यु. ? ।

+चित्त-सार- चिन्मथनाविर्भूत°
चिद्-आत्मन्- चैत्यमुक्त°, नित्य-
मुक्त°, स्वप्रकाश°
चिद्-आदिश्य- अनन्त°
१चिद्-आनन्द->चिदानन्द-
मय- अमोधनि...त्त°
चिद्-धन- १नित्य°, परमानन्द°,
ब्रह्मानन्दैक°, शान्त°, २सच्चिदा-
नन्द°°

+चिद्धना(न-आ)नन्द- अ-
खण्ड°
चिद्-रूप- चैत्यनिर्मुक्त°, भूतार्थ°
+चिद्-विलास- अनन्त°, नि-
त्यानन्द°, परम°, विविध...न्त°
चिन्-मय- परिपूर्णैक°, वाचाम-
गोचर°°, स्वभाव°

+चिन्मय-प्रासाद- अनन्त°
सहस्रको...त°
+चिन्मय-लक्षण- चित्सूत्र-
त्रय°

+चिन्मय-स्तम्भ- सर्व...
न्त°

चिन्मया(य-आ)सन- अन-
न्त°, चिद्रूपवि...भ°

चिन्-मात्र- अखण्डैकरस°, चै-
त्यवर्जित°, १नित्य°, भववर्जित°,
१विज्ञान°, सर्ववर्जित°

चिन्मात्र-विग्रह- सदा°
+चिन्मात्र-स्वरूप- देशका-
...त्य°

२चित्- गपू. पृ३०५ द्र.

२चिति°-

चित्त- ४अ°, अक्षुब्ध°, अनन्य°,
अनेक°, अन्तःकरण°, अन्तर°,
अभ्यास°, आविष्ट°, ईश्वराविष्ट°,
एक°, एकाग्र°, क्षीण°, प्रस्त°,
२जाग्रत्°, तद्°, तपोविजित°,
त्रैलोक्य°, दिग्भवा...च°, दुस्°,
१दृढ°, नित्यप्रबुद्ध°, निर्माणा°,

निस्°, पक्क°, पर°, परमपरिपक्क°,
पाद°, पृथिवी°, प्रणव...न°,
प्रतिष्ठित°, प्रपञ्चमुक्त°, प्रशान्त°,
प्राणा...यु°, प्रायस्°, बहिस्°,
भेदानिष्पन्द°, भ्रान्त°, मद्°,
१मनस्°, यत्°, यद्°, रत्याविष्ट°,
रसाविष्ट°, वि°, विभ्रान्त°, शुद्ध°,
६स°, सत्त्वरु...त्त°, १सम°, स्व°,
स्वप्रदृशु°, स्वस्थ°

+चित्त(-क)- ४अ°, निरोधक्षणा°
+चित्त-जीवा(व-आ)दि- भवि-
ष्यत्°

+चित्त-द्वय- प्रक्षीणा°

+चित्त-पवन- अन्तर्लक्ष्यवि-
लीन°

+चित्त-लव- गलित°

चित्त-वृत्ति- अशेष°

चित्ता(त-आ)धन- यत्°

+चित्ते(त-इ)न्द्रिय-क्रिया-
यत्°

+चित्ति- प्रायस्°, विप्र°

चेतन- ४अ°, अखण्ड°, कर्तृ°, कूट-
स्थ°, प्रत्यच्°, वि°, शुद्ध°, ६स°,
सर्व°

२चैतन्य- अन्तःकरणा...त°,
आत्मन्°, १आदि°, ईश्वर°,
गुरु°, जीव°, प्रत्यच्°, बुद्धिप्रति-
बिम्बित°, १ब्रह्मन्°, भूत°, महत्°,
किराजु°, व्यक्त°, शुद्ध°, सर्व°,
सर्वशरीरस्थ°, साक्षिन्°, सुख°,
स्व°, स्वात्मन्°, षोडशा...य°,
हिरण्यगर्भ°

+चैतन्य-निज-मूर्ति- अख-
ण्डशुद्ध°

+चैतन्य-प्रासाद- बोधा...ष°
चैतन्य-मात्र->चैतन्यमा-
त्र-स्व- सर्व°

+चैतन्या(न्य-अ)धिदेवता-
अखण्ड...ह्यन्°

चेतयितव्य- ४अ°

चेतस- ४अ°, अघ्यात्म°, अन-
न्य°, अनिर्विराणा°, अन्तर्°, अप-
हृत°, अवक°, अव्यक्तासक्त°, अ-
संस्पृष्ट°, आवेशित°, उदार°,
ऋजु°, क्षीणा°, ज्ञानावस्थित°,
धर्मसंमूढ°, निःस्पृह°, नीराग°,
२नील°, पूर्णा°, प्र°, प्रसन्न°,
प्राणा°, मदाविष्ट°, मलिन°, मुग्ध°
मोहित°, यत्°, युक्त°, रस°, लज्जु°,
लोभोपहत°, वि°, विगलद्भृति°,
विह्वल°, विषय...र°, शान्त°,
शुद्ध°, ६स°, संशयाविष्ट°, संसार-
दुःखा...त°, १सम°

+चेतो-गृहीत- -तम् गौ २, ९;
१०.

१-२चित्- √चित् (परि.) द्र.

३चित्-, चित-, चितवत्-, १चिति-
√चि (*बधा.) परि. द्र.

२चिति- √चित् (परि.) द्र.

चित्य, चित्या- √चि (*बधा.) परि. द्र.

१चित्र- रत्न°, वि°

+चित्रा(त्र-आ)दि-वर्ण-सूर्य-
प्रातर्°

+चित्रा(त्र-आ)दि-वर्णा(र्ण-अ)-
खण्ड-सूर्य-चक्र- प्रातर्°

२चित्र- गपू. पृ३०८ द्र.

३चित्र- जगदुन्मेष°, शिवानन्दम...त°
+चित्र-शाला- तद्°

+√चित्रि>चित्रित-मशिंगण°

+चित्री/कृ>चित्री-कृत- शिवा-
नन्दमय...त्र°

४-६चित्र- गपू. पृ३०८ द्र.

+७चित्र^{२b}-

चित्र-मृग-श्याघ्रा(घ्र-अ)जिन-
-जिनम् वउ ६, ३५.

चिद् किम्°

√चिन्त, >न्ति अङु°, परि°, प्रवि°,
वि°, सम्°

चिन्तक-आत्मन्, २काल, तत्त्व, सृष्टि°
 चिन्तन-अनिष्ट°, अनु°, निस्°, प्राण°, १ब्रह्मन्, मद्, मन्त्रार्थ°, शास्त्र°, १स्वरूप°, स्वरूपव्य-...त्व°
 चिन्तयत्-अनु°, परि°
 चि(न्त)न्ता-अन्य°, आत्मन्, आन्तर°, कलत्र°, तत्त्व°, तद्, निस्°, बाह्य°, मन्त्र°, सर्व°
 चिन्ता-मणि-कल्पवृक्ष°, सा-प्राज्य°
 +चिन्ता-सर्वस्व-जीवात्म...ति°
 चिन्तित-सकलजन°
 +चिन्त्य वि°, सम°
 चिन्त्य-४अ°
 चिन्वत्, चिन्वमान-√चि(*वधा.) परि. द्र.
 चिबुक-मध्य°
 चिर-४अ°, अति°, ५न°, सु°
 +चिर-काला(ल-अ)त्यन्त-कृत-रहस्यकृत°
 +चिरा(र-अ)भ्यास-भूमिषट्क°, षड्भूमिका°
 √चिल् > चेल^१-२कु°, केश°
 चिह्न-असाधारण°, २चैत्य°, तद्, तदभिव्यक्ति°, नाना°, पृथक्, स्व°
 चिह्नित-व्यज्वजादि°, समस्ता...ह°
 +चीन-महत्°
 √चुद् > चोदि प्र°
 +चोद-पुत्रदारपशु°
 चोद(न)ना-४अ°, कर्मन्°
 +चोदयत्, चोदयित्, चोदित-, +चोदित्-प्र°
 +√चुम्ब > चुम्बन-आलिङ्गन°
 √चुर् > चोर-अनात्मरूप°, कारागा-...क°, महान्धकार°, राजन्, सर्प°

+√चुप् > चोष्य-अशित°, खाद्य°, भक्ष्य°
 चू(ड)डा-चन्द्र°
 +चूडा-मणि-गोपाल°, २योग°
 √चूर्ण वि°
 चूर्ण-१शङ्ख°, श्री°
 +चूर्ण्य वि°
 +√चृत् नि°, वि°
 +चृत्-नि°
 +चृत्य वि°
 √चृ(*समात्तौ) > चीर्ण- > +चीर्ण-व्रत-४अ°
 √चेष्ट अभि°, वि°
 +चेष्टन-इत्यादि°, तत्प्रतीकार°
 चे(ष्ट)ष्टा-१अङ्ग°, अभि°, ईदृश°
 कष्ट°, गमागम°, जड°, पृथक्, प्रधान°, प्राणापानादि°, निस्°, मानुष°, युक्त°, वायु°, संयुक्त°, सर्व°, हान°
 चेष्टित-अशेष°, चराचर°, तद्, वि°, विधि°, स्व°
 √च्यु > च्यव-प्र°
 +च्युत-४अ°, आरूढ°, प्र°, वृत्त°
 +च्युति-आत्ममल°, आवरण°

छ

+छ(ट)टा-केश°
 √छद् > छादि आ°, उप°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°, संप्र°
 छत्र-उपानद्, एक°, कनक°, धृत°, ध्वज°, पार्वण...श°, महत्, वि-पुल°, विमान°, २श्वेत°
 +छत्र-चामर-ध्वज-पताका-विता-न-तोरणा(ण-आ)दि-दिव्यते-जोमय°
 +छत्र-ध्वज-चामर-वितान-तो-रण-अनन्तपरम°
 +छद्-परि°

छन्न-४अ°, अध°, तृण°, प्रति°, भस्मन्, संप्र°
 छादन-, छादित-आ°
 +छाद्य आ°, प्र°
 १छन्द-स्व°
 २छन्द-ऋषि°
 १छन्दस्-न्दः २, ९३. [°स्-अति°, ऋषि°, एतद्, २कुश°, मायत्रीत्रिष्टुबनुष्टम्, गायत्री-त्रिष्टुम्, तत्त्व°°]
 छन्दो-ग->छान्दोग्य-केन°
 १छाय, या-४अ°, अन्न°, १चित्, त्वद्, विमुक्तिपादप°, हरितपीत°
 +छाया-वासि(न्)नी-अरिष्टकारि-णी°
 +√छि आ°
 √छिद् अव°, आ°, उद्, परि°, वि°, व्यव°, समुद्°
 +छित्ति-उद्°
 +छिद्य आ°
 छिद्र-ईषत्, तद्, मध्य°
 +छिद्रित-४अ°
 छिन्न-४अ°, अव°, उद्, ऊर्, तत्फल°, परि°, बाहु°, वि°, व्यव°
 छेद-अव°, उद्, पर°, परि°, पाश°, बिस°, १मूल°, वि°, स्वशिरस्°
 छेदन-नख°, निगल°, पर...र°, शिवश...ञ्च°
 +छेदिन्-उद्°
 +छेदिनी-अरिष्टकारिणी°
 +छेद्य-४अ°, परि°
 +√छुर् > छुरित-सहस्रभानुमत्°
 √छृद् > +छर्दन-प्र°
 √छो वि°

ज

ज-√जन् द्र.
 जगत्-गत् मं ५, १^d. [°त्-कृत्स्न°

१चित्°, विद्वित्°, त्रि°,
नानाविचित्र°, भविष्यत्°, भिन्न°,
महस्°, विविधवि°न्त°, १वि-
श्व°, सकल°, सर्व°, स्वप्न°, स्वस्व-
रूपव्य°...२°]

३जगती- गायत्री°

+जगच्-चक्षुस्- आदित्य°, धातृ°

+जगत्-कार्य- निःशेषित°

जगत्-त्रय- धवलीकृत°

जगत्-स्थावर-जङ्गम- -माः शु ३,
२१°.

+जगद्-ईक्ष- > +जगदीश-जीव-
भेद- प्रगलित°

जगद्-भाव- जीवभाव°

जगन्-मोहन-चक्र- भार्या°

जघन-> +जघन-स्थल-वासि-मो-
हन-गृह- संराजमान°

जघ्निवस्- √हन्(परि.) द्र.

जङ्ग, जङ्ग- गुद°, पाद°, पीन°, मर्म-
न्°, मस्तक°, शिरस्°

+जङ्ग(क)- पाताल°

जङ्गा-शूल°- अङ्गशूल°, शिरः-
शूल°

√जट्>जट, टा- उग्र°, उद्°, एक°,
चन्द्र°, चन्द्र°...टित°, चाट°, पि-
ङ्गलो°...क°, पिङ्गो°...क°, १रुद्र°

+जटा-कलाप- उद्ग्रथित°

जटित- आरक्त°...क°, कनकखचि-
त°, कुटिल°, मणि°, रत्न°, सुवर्ण°
सुवर्णभूमि°, स्यूत°...र्य°, हस्ता°...
का°, हाटक°, हाटकमणि°

+जटिल- पद्मरागम रा°, रत्न°

जठर- अनन्त°, गुल्फ°

जड- ४अ°, कर्मन्°, गन्ध°, १चित्°

जाढ्य- ४अ°

जाढ्य-संविन्-मनन- ४अ°

+जड-भरत- रनिदाघ°, २संवर्त-
क°

+जडा(ड-आ)स्मन्- कर्म°...ना°

जतु^१-> +जतु-समुद्भव- -वम् शि
७, ११^१°.

√जन्, >जा, जनि अतु°, अभि°,
आ°, उप°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°,
वि°, सम्°, समुप°

ज, जा- अखेद°, अग्निहोत्र°, अग्र°,

१अङ्ग°, १अज्ञात°, अरुड°, अधो-

क्ष°, अनिल°, अनु°, अन्त्य°,

अप्°, अम्बु°, अम्भस्°, आका-

श°, आजान°, आत्मन्°, आत्म-

बुद्धिप्रसाद°, ईर°, उद्भिद्°, उप-

पातक°, रऊष्मन्°, एक°,

४कम्°, २कर°, कर्मन्°, क्राष्टपाषा-

णा°, २कुल°, २कोसल°, क्रोध°,

क्षीरवृक्ष°, २ख°, घण्टाकाहल°,

चित्°, जन्म°...माधि°, जरा-

मरणादि°, जरायु°, जात्यन्तर°,

जार°, जीव°, तद्°, तल्प°, ताम्र-

मृच्छैलदारु°, २ताल°, दारु°,

देह°, द्रव्य°, द्वि°, धन°, धर्म°,

ध्यान°, पक्ष°...र्ष°, पङ्क°, १पद्म°,

पलाशाङ्कुर°, पलाशेन्धन°,

पित्°, प्र°, प्रकृति°, प्रथम°,

प्रधान°, बोध°, १त्रहान्°, भातु°,

मणि°, १मतङ्ग°, मनसि°, २मनु°,

मातापितृ°, मृकरुड°, मृतसूतक°,

मृदारु°, मृद्वन्नतरु°, यमाद्या-

सन°, रौप्य°, ललाट°, १लोह°,

१वंश°, वक्षस्°, वसिष्ठवंश°,

वात°, वारि°, विरजानल°, विवेक°

विषवृक्ष°, वेदान्तवाक्य°, शरीर°,

शूद्र°, शैल°, षष्°, संशोक°,

संस्पर्श°, संकल्प°, संतान°, १स-

रस्°, सरसि°, सर्षपे°...क्ष°,

२सह°, १सुयोग°, स्वभाव°, स्व-

योग°, खेद°

+ज-ला(ल-अ)न्- -लान् छांदि,

१४, १.

१जन- -नान् मना १, ३ऽऽ^१°;

सूता १, १२ऽऽ^१°. [°न- २अ-

ज्ञान°, अति°, अभि°, उप°,

गोपी°, तद्°, दुर्°, दुष्ट°, १देव°,

निर्°, परि°, पञ्चन्°, प्र°, ब्रह्मा-

नन्द°, भुक्तवत्°, भृत्य°, महत्°,

मुनि°, २योगिन्°, रक्षोदेव°, वि°,

विषय°, ६स°, सकल°, १सत्°,

सर्प°, सर्व°, सु°, स्त्री°, स्वन°]

१जनक- ज्ञान°, पञ्चभूत°, प्रतीति°,
प्रखेद°, विभेद°, वैराग्य°, शा-
न्ति°

१जनन- अभिभव°, ज्ञेश°, पुनर्°,
प्र°, प्रस्वेद°, प्रियत्व°, १सत्य°,
स्वेद°

+जनन-मन्दिर- अनन्तमहामा-
याजाल°

२जन(न>)नी- १त्रिपुर°, मूलप्र-
कृति°, विकार°, समस्तम्...ष्टि°

जनयत्- सम्°

जनस्->जनी-लोक- भूलोक°

जनित- उप°, कर्मवेद°, चिरसमाधि°
देह°, नानासंसार°, पुरुषप्र°...दि°

जन्तु- अखिल°, २अज्ञान°, जा-
त्यन्तर°, जीव°, तत्तद्°, मृत°,
सर्व°

जन्मन्- ४अ°, अनन्त°, अनेक°,
अब्रह्मन्°, असंख्य°, आ°, एक°,
कर्मफल°, १कोटि°, जन्मन्°,

दुःख°, दृष्टादृष्ट°, द्वि°, पुनर्°,
पूर्व°, प्रथम°, बहु°, मरणा°,

भूयस्°, १मृत्यु°, योनि°, वेदि°,
षष्°, सदसद्योनि°, सप्तन्°,
समस्त°, सर्प°, सर्व°

+जन्म-जन्मा(न्म-अ)भ्यस्ता-
(स्त-अ)भ्यन्तो(न्त-उ)त्कृष्ट-

सकलवेद°...स्य°

a) °मम् इति अब्या. । b) नतु इति पा.। यनि. शोधः द्र. । c) तु. गप्. पृ३२b । d) 'सुखाः' इति पा.। यनि. शोधः द्र. (तु. गप्. पृ३१५q) ।

+जन्म-मृत्यु-जरा(रा-आ)दि-
तापत्रयसमुद्भूत°

जन्मा(न्म-अ)न्तर- जन्मन्°,
बहु°

जन्य- ४अ°, १अज्ञान°, दाहन°,
दुष्टकारण°, १विश्व°

जा- अद्रि°, अप्°, १ऋत°, गो°, प्रथम°
जात- -तः मउ ९, ४९^१. [°त-

४अ°, अद्य°, अभि°, १ऋत°,
गणवंश°, तत्त्व°, दृश्य°, १देव°,
द्वन्द्व°, १नित्य°, प्र°, यथा°, रेफ°,
२शाक°, शिरस्°, श्रम°, संकल्प°,
सदा°, सद्यस्°, समु°, सु°]

१जाति- ४अ°, द्वि°, पूर्व°, प्र°,
१भद्र°

२जाति- अनेक°, अष्टन्°, एक°,
२कुल°, जीव°, तद्°, देह°, ना-
मन्°, १बीज°, भूत°, वि°, ५स°

+जातुम् प्र°

+१जान- आ°

जायमान- ४अ°, आ°, उप°, प्र°,
युगपत्(ईद्)°, वि°

जा(य>)या- अग्नि°, अनल°, आ-
चार्य°, नव°, बृहद्भ्रातृ°, २मातृ°
वहि°

+जावर^b- अनु°

+जावरी- २शिमि°

जन्धन°- उप°

√जप्>जापि अनु°, परि°, प्र°, समु°

जप- -पे सू १^१. [°प- ४अ°,
अयुतकोटि°, एकवार°, १कोटि°,
गायत्री°, तद्°, तपस्°, द्वादश-

लक्ष°, नवलक्ष°, निरशन°, पञ्चा-
क्षर°, पञ्चाथर्वशीर्षि°, बृहज्जा...

षद्°, मन्त्र°, महावाक्य°, यद्°,
लक्ष°, षोडशसहस्र°, सकलमन्त्र°,
लान°, ह्यग्रीवैकाक्षर°]

जपा(प-अ)न्त- न्ते वउ ६,
१५°

जपत्- समु°

जप्त- प्रणव...टि°, शिवैकादशिका°

जप्त्वा प्र°

+जप्य परि°

+जापक- तद्°, मन्त्रराज°, २रुद्र°

जापिन्- अग्नि°, अनु°, कालिका-
मनु°, तद्°, १मनु°, मन्त्र°,
महार...स°, १शिव°, सकल-

रुद्रमन्त्र°, सर्वमन्त्र°

जाप्य- समाधान°

जपा^c- नव°

जवाल->जाबाल^f- ईशावास्य°,
२प्रश्न°, १बृहत्°, १ब्रह्मन्°,
रुद्राक्ष°

+जाबाल-दर्शन- केन°

जाबालि^f- कलि°, केन°, २वसिष्ठ°

जमद्-अग्नि- २वसिष्ठ°, विश्वामित्र°

जम्बीर- कदम्ब°

+जम्बुक^g- दुष्टकीट°

२ज(म्बु>)म्बु->+जम्बू-वृक्ष-
आम्र°

१-७जय-, १-२जयिन्- √जि
(परि.) द्र.

जरायु- युणा वृ ६, ४, २३^१.

जरायु-ज- अरुडज°, ऊष्मज°

जर्जर-, जर्ज- √जू (परि.) द्र.

२जल- अगाध°, अतिशीत°, अमृत°,
उच्छिष्ट°, कारण°, कालिन्दी°,
२ख°, तद्°, तृण°, त्रिदण्ड°,
नभस्°, नाडी°, २पुराय°, पुष्पा-

राम°, माषमन्त्र°, मृगतृष्णा°,
मृद्°, मृद्°, यमुना°, वृक्ष°,
व्योमन्°, २शरत्त°, शीत°,
शीतल°, शुद्ध°, ६स°, २सित°

सु°, २सुगन्ध°, सुगन्धशीत°,
स्थल°, खेद°

स्थल°, खेद°

+जल-केलि- नाना°
जल-क्रीडा- कृष्णगोपी°, रासमान°
+जलक्रीडा(डा-उ)पकरण- अ-
नेक°

+जल-द- अभिनव°, उत्कट°

जल-धि- संसार°

+जल-निधि- उद्यत्...ल°

जल-यन्त्र- चन्द्रकान्तमणि°

+जल-रथ- मेरुशृ...ङ्गा°

+जल-राशि- क्षीरघृतेक्षु°

+जला(ल-अ)भ्युक्षण- जलशुद्धि-
...न°

+जलौ(ल-ओ)घ- महत्°

+जलायुका^h- तृण°

√जल्प>जल्प- वृथा°

जल्पे(ल्प-ई)श्वर^h-

+जसⁱ- ४अ°

√जागृ>जागर- अति°, स्वप्न°

जागरित- निद्रा°, स्वप्न°

+जागर्ति- षट्चक्र°

२जाग्रत्- १बीज°, महत्°, स्वप्न°

+जाग्रत्-स्वप्न-निद्रा- ४अ°

+जाग्रद्-वासना- विस्मृत°

जाती- आम्र°

+जात्य- मणि°

जाती-फल- एला°

२जान- √ज्ञा द्र.

जानु^l- -नौ जाद ३, ६, २^१. [°तु-
गुद°, गूढ°, नाभि°, पाद°,
मस्तक°, स्फिफिबम्ब°

+जानु(-क)- दक्ष°

+जानु-कटि- आ°

+जानु-पर्यन्त- पादादि°

+जानु-पाद- आ°

+जानु-मण्डल- अवनिक्क(ईधृ)त°

+जानु-शूल^m- अङ्गशूल°, शिरः-
शूल°

a) मा ८, ३६। b) तु. वैप १, १९८। c) व्यु. १। d) अर्ध्याः सा. अया। e) गपू. (पृ ३१९)

सकृत् 'जप-> -पः' इत्यत्र यनि. शोधः द्र.। f) बपा. द्र.। =व्यसं., तदाख्योपनिषद्विशेष-। g) 'दशमास्यः'
इति ऋ ५, ७८, ७ (तु. टि. वैप १ यस्या.)। h) =चेत्रविशेष-। i) वैप १ यद्र.। j) अर्ध्याः यो. अया।

जान्(नु-ञ्)न्त- नाभ्यादि°, पादा-दि°

जापक- √जप् द्र.

जाम्बूनद- तप्त°, सुवर्ण°

जाम्बूनद-सुवर्ण- नानामणि...त°

१जाल- अखिल...रा°, अनन्तचित्सा-

...ल°, अनन्तचिन्मयप्रासाद°,

अनन्तशु...न°, अनन्ता...न°,

अनन्तोप...म°, आकल्प°, आ-

नन्दम...न°, आश्चर्य°, इच्छा°,

इन्द्र°, इन्द्रियतन्मात्र°, इकल्पना°

कार्यकारण°, किङ्किणी°, क्रिया°,

खग°, गुण°, चतुर°, जगत्°, जल-

...लिका°, ज्योत्स्ना°, ज्वाला°,

तन्मात्रा°, रतार°, रतारका°,

दिव्यतेजोज्वाला°, दोष°, दुःख°,

द्वन्द्व°, नाडि°, निरतिशयान...र°

पाश°, ब्रह्माण्ड°, मल°, महान-

रक°, महामाया°, महेन्द्र°, माया°,

मोह°, मोहगुण°, रोग°, लोभ°,

रवासना°, विकल्प°, विद्या°,

शब्द°, शास्त्र°, शेषायुतफणा°,

संसारवासना°, संकल्प°, सिद्धि°,

स्वप्रकाशा...ला°, १हेतु°

१जाल-(क)- क्रीडासक°

२जाल-क°-

+जाला(ल-ञ्)वलि- अनन्तानन्द-विमान°

जावर-, °री- √जन् (परि.) द्र.

√जि, > जिगीष् अप°, अपपरा°, अभि°, निर्°, परा°, वि°, सम्°

१जय- गपू. पृ३२४ द्र.

२जय- ४अ°, आत्मलोक°, आदि-त्य° इन्द्रिय°, उदान°, चित्त°, तद्°, दुर°, परा°, मुख्यपाप°, पृथिवी°, प्रधान°, प्राण°, प्राण-

स्पर्श°, मूल°, मनोमात्र°, १मरु-

त°, १सृत्यु°, वायु°, वि°, ६स°,

सम्°, १समान°, समितिम्°

+जय-राम- -०म रार २, ५६.

१जयि(न् >)नी°-

३-५जय- गपू. पृ३२५ द्र.

+६जय°- ३जयन्त°

+७जय- धनम्°, समितिम्°

+२जयिन्- वि°, १विश्व°

स्पर्श°, मूल°, मनोमात्र°, १मरु-

त°, १सृत्यु°, वायु°, वि°, ६स°,

सम्°, १समान°, समितिम्°

+जय-राम- -०म रार २, ५६.

१जयि(न् >)नी°-

३-५जय- गपू. पृ३२५ द्र.

+६जय°- ३जयन्त°

+७जय- धनम्°, समितिम्°

+२जयिन्- वि°, १विश्व°

+जायिन्- अन्यतस्त्य°

जिगी(ष >)षा- मै ३, ५°. [°षा-

भोगमोक्ष°, स्वर्गमोक्ष°]

+जित°- कर्मन्°, २काल°, पुरु°,

लोक°, पृतना°, वायु°, १विश्व°,

शत्रु°, सर्व°, सहस्राक्ष°

१जित°- ४अ°, अपपरा°, वि°,

संभावित°

२जित > ता°- विराजा°

जिति- अभि°, वि°

+जित्वि निर्°, वि°

जित्वा, +जेय- ४अ°

+जेष- वि°

जिघत्स- √घस् (परि.) द्र.

जिघांसु- √हन् (परि.) द्र.

जिघृक्षमाण- √*गृह्, ग्रह् (परि.) द्र.

जिज्ञास्य- √ज्ञा (परि.) द्र.

√जिन्व > +जिन्व°- धियम्°

१जिहान- √हा (गतौ) परि. द्र.

२जिहान- √हा (त्यागे) परि. द्र.

जिह्व- ४अ°

जिह्व, ह्वा- ४अ°, ऊर्ध्व°, गति°,

२त्वच्°, पाद°, पृथिवी°,

२भक्त°, १भारती°, २योग°,

१वाच्°, विद्युज्ज्वाला°, शत्रु°,

श्रोत्र°, हस्तिन्°

+जिह्व(क)- १यम्°

+जिह्वा-पाणि-पाद-शब्द-स्पर्श-

रूप-रस-गन्ध-चक्षुस्- बहु°

+जिह्वा-मुख- -खानि लां२१६:१३

+जिह्वा-शूल°- शिरःशूल°

+जीमूत°- जलधि°, १नील°

जीरक- १कृष्ण°

√जीव, > वि, जीवेत् पृ३५०:१९।

[आ°, उद्°, उप°, परि°, प्र°, सम्°]

जीव- अनेक°, आ°, ईश्वर°, उप-

हित°, एक°, १केवल°, जगत्°,

जगदीश°, चित्त°, तत्तद्°, तद-

न्तर्गत°, निर्°, पर°, पारमार्थिक°,

प्राणिन्°, बहु°, शरीरत्रयसंयुक्त°,

६स°, १सत्य°, सर्व°, २सह°

+जीव-परमात्मन्- उन्मीलि-

त...स्थ°

जीव-श्लोक- कल्पित°

१जीवा(व-ञ्)त्मन्- परमात्मन्°

जीवत्- ४अ°, उप°

+जीवद्-भवस्थ- आ°

जीवन्-मुक्त- जनक...देव°,

शुकदेववामदेवादि°

जीवन- अध्रुव°, जगत्°, प्र°, प्राण-

स्थापन°, सम्°

+जीवम् यावत्°

+जीवयत्- उद्°

जी(वक >)विका- चिर°

जीवित- २जय°, ल्यक्°, पूतना°,

साधु°

जीविन्- उप°, चिरम्°

√जु > जव- आर्जवम्°, १मनस्°, सर्व°

जुय- √जू (परि.) द्र.

√जुष् अभि°, सम्°

+जुष्- त्रिशूलक्षतमहिष°

+जुषन्त- -न्तः पा ९, ५.

जुषमाण- सम्°

a) गपू. (पृ३२४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) तु. गपू. पृ३२५h । c) कर्तरि कृत् । d) 'अन्यतरस्य ज्यायान्' इति निसा. ? लैवि. इति कृत्वा यनि. शोधः द्र. [तु. गपू. पृ६६h (एतदनु गपू. पृ३३५) शोधः सुपरिहरः] । e) 'जिहीर्षा' इति सात. । f) गपू. (पृ३२५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) =नाडीविशेष- । h) वैपश् यद्र. । i) निसा.अपा. । j) झ > अन्तः प्र. डसं. [पाउ ३, १३० (वैतु.पाटी. अजुषन्तः) एतदनु गपू. (पृ१८) 'अजुषत्- > -अन्तः' इत्यत्र शोधः द्र.] ।

जुषाण- अभि°
जुष्ट- अनार्य°, ऋषिसङ्घ°, १सुगन्ध°
+जोषस्- ६स°
*जुहवा- √हु(दाना[?दा]नयोः) द्र.
+जूट- जटा°
√जूम्भ्, >म्भि उद्°, वि°, प्रवि°
+जूम्भण- अन्तःकरण°, उद्°, १मारण°, वि°
+जूम्भयत्- वि°
जूम्भि(न् >)णी- सर्व°
+जूम्भित- वि°
√जू उद्°, परि°
जर, रा- ४अ°, अशनाया°, १अ-
हर°, १काम°, २कालम्°,
गर्भ°, जन्मन्°, दुर्°, निर्°,
१मृत्यु°, वि°
जरत्- ४अ°
+जर्जर- परि°
+जर्य- ४अ°
जीर्ण- ४अ°, विवरण°, सु°
जीर्यत्- +जुर्य- ४अ°
जेनातिस्- स्वयम्°
जेष- √जि (परि.) द्र.
√ज्ञप् प्र° वि°
+ज्ञप्त- वि°
ज्ञप्ति- प्र°
√ज्ञा, >जा, ज्ञापि, जिज्ञास्, जानाति
कुं २३ : २° [अनु°, अभि°,
अभिप्र°, अभ्यनु°, अव°, आ°,
निर्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्यभि°,
वि°, विनिर्°, सम्°, समा°, संप्र°
२जान- वि°
जानत्- ४अ°, प्र°, वि°
जिज्ञा(स>)सा- धर्म°, १ब्रह्मन्°,
वि°
जिज्ञासितव्य- वि°
जिज्ञासु- तत्त्व°
+जिज्ञास्य- वि°
ज्ञ- ४अ°, अङ्ग-रा°, अतिसंधि°,

अभि°, अर्थ°, आत्मन्°, आ-
शय°, किञ्चित्°, क्षेत्र°, खाद्य°
द°, गीत°, गीतरसभेद°, गुण°,
चतुर्वेद°, चातुर्या°
तत्त्व°, तत्त्वयोग°, तत्स्वरूप°, तद्°,
तद्गतविशेष°, तन्तु°
नानासुग°
१निर्विकल्प-
स्वरूप°, पदार्थ°
तत्त्व°, परःश°
१पुराण°, १पुरुष°, प्र°, बहु°, ब्रह्मज°,
१ब्रह्मन्°, भूषण°, १भोग°, मद्°,
१मनस्°, मन्त्र°, मार्ग°, २योग°,
लतावृक्ष°, लोक°, १रति°, १रम-
णानन्द°, रसभाव°, रससु°
२राग°, १रूप°, वनस्थान°,
वस्त्रसु°
व्यक्ताव्यक्त°, शास्त्रगीत°, शिव-
ज्ञा°
सकलवि°
संकेत°, संकेतरस°, संकेतस्थान°,
संगीत°, सम्°, संपत्तिसुख°, संभा-
वितरस°, सर्व°, सर्वधर्म°, सर्ववि-
द्यारहस्य°, सर्वशास्त्र°, १सुगन्ध°,
सुगन्धनृत्यभेद°, सुरतकेलि°,
सुरतागम°, १स्वरूप°, स्वर्ण°,
१स्वस्वरूप°, हृदय°
+ज्ञा- अनु°, अव°, आ°, प्र°, प्रति°,
प्रत्यभि°, सम्°, समा°
ज्ञात- ४अ°, अनु°, अभि°, अभ्य-
नु°, अव°, आ°, निर्°, परि°, प्र°,
प्रति°, यथा°, वि°, संप्र°, सु°
ज्ञातवत्- अनु°, वि°
ज्ञातव्य- प्र°, वि°
ज्ञाति-, ज्ञातुम्- वि°
ज्ञातृ- अनु°, आविर्भा°
प्र°, वि°, सर्व°
ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेय- कर्तृकर्मकार्य°
ज्ञात्वा ४अ°, परि°
१ज्ञान- नम् भव १, ३२^d; -ने

पहं ४^b. [°न- ४अ°, अखण्ड°,
अभिलोक°, १अङ्ग°, अरुड°
अतललोक°, अतीतानागत°, अ-
तीन्द्रिय°, अद्वैत°, अध्यात्म°,
अनित्य°, अपरान्त°, अपरोक्ष°,
अपहत°, अव°, अविच्छिन्न°,
अविद्याप्रपञ्च°, आ°, आत्मन्°,
आयुस्°, इच्छा°, इत्यादि°
इन्द्रलोक°, उत्पत्ति°
त्व°, कर्मन्°, कर्मन्°, कायव्यूह°,
२काल°, क्रिया°, खण्ड°, गन्ध-
रसादि°, गोपीजनवह्मण°, जनो-
लोक°, ज्ञातृ°, तत्त्व°, तत्स्वरूप°,
तद्°, तद्गति°, तपोलोक°, तला-
तललोक°, ताराव्यूह°, तितिक्षा°,
१त्रिकाल°, त्वद्रूप°, दिव्य°, १देव°
१देहात्मन्°, २देहात्मन्°, धन°,
धर्म°, ध्यान°, नष्ट°, नामन्°,
नितललोक°, निरञ्जन°, निरन्तर-
°
निर्ऋतिलोक°, निश्चय°,
निश्चल°, निष्कवल°, परचित्°,
परम°, परि°, परोक्ष°, पाद°, १पु-
रुष°, पुरुषार्थ°, पूर्वजाति°, पूर्वो-
क्त°, पृथिव्यप्ते°
प्रति°, प्रति°, प्रत्य-
भि°, प्रपञ्चावगाहित°, बुद्धि°,
१ब्रह्मन्°, ब्रह्मलोक°, ब्रह्मशरीर°,
२भक्ति°, भगवत्°, २भुवन°, भुव-
लोक°, भूतभवि°
१मधु°, महत्°, महलोक°,
महातललोक°, माया°, मिथ्या°,
मोक्षप्रपञ्च°, १मोक्ष°, यत्स्वरूप°,
यथावस्थित°, यद्°, यमलोक°,
यागत्र°
२योग°, रसातललो-
क°, रास°, १रूप°, वरुणलोक°,
वायुलोक°, वि°, वितललोक°,
विवेक°, विषय°, वृत्ति°, वेदान्त°,
शब्द°, शब्दाद्य°
शास्त्र°, १शिव°, शिवतत्त्व°,

शिवलोक°, शुद्ध°, षोडशान्त-
स्थित°, संशय...ध्या°, संसार°,
सकलविषय°, सङ्कृत°, १सत्य°,
सत्यलोक°, सद्योजातशिशु°, सम्प°
सम्यक्°, सर्व°, सर्वजन्तुरत°, सर्व-
परिपूर्णा°, सर्वभूतरत°, सर्वलोक°,
सर्वविद्या°, सु°, सुतललोक°,
सूक्ष्म...ष्ट°, सोमलोक°, स्वप्न-
निद्रा°, १स्वरूप°, स्वलोक°, स्वा-
त्मन्°, स्वाध्याय°, हृत°]

+ज्ञान-करण- सर्वलक्षण°

१ज्ञान-चक्षुस्- ४अ°

ज्ञान-मय- मनोमय°

ज्ञान-विज्ञान- १ब्रह्मन्°

१ज्ञाना(न-आ)नन्द->+ज्ञा-

नानन्द-रूप- १नित्य°

ज्ञानिन्- -नी पहं ४^१. [०न्-

४अ°, तन्मुद्रारूढ°]

ज्ञाने(न-इ)न्द्रिय- अग्रिकार्य°,

पञ्चन्°, श्रोत्रादि°

+ज्ञानो(न-उ)पवीत- कर्मशिखा°

+२ज्ञान(>)नार- विमला°

+ज्ञापक- परापरतरव°

+*ज्ञापया- आ°

+ज्ञापयितुम् प्र°

+ज्ञाप्य वि°

+ज्ञाप्य- अनु°

ज्ञाय परि°, वि°

ज्ञेय- ४अ°, ज्ञातृ°, १ज्ञान°, दुर°,

परि°, १ब्रह्मन्°, महत्°, वि°, सु°,

हेय°

+ज्ञेया(य-आ)दि- आत्मन्°

ज्ञातानुज्ञात्रनुज्ञातृविकल्पज्ञान-

साधन- -नम् नाप ८, १७^१।

√ज्या>ज्यानि- सर्व°

ज्या- ४अ°, अधि°, उद्°, क्रोध°,

प्रव्रज्या°, वि°

१ज्येष्ठ- ४अ°, सर्व°

ज्योतिस्- -तिः नाप १५१:८^१; -तीषि

मउ ९, ४९^१. [०स्- अखण्ड...

र°, अधूम°, अनिर्वचनीय°,

अन्तर°, अपरिच्छिन्नानन्त°,

अर्क°, अहंशेषांश°, आत्मन्°,

आदित्य°, आवरण°, किम्°,

कैवल्य°, २ग्रह°, १चित्°, चि-

न्मात्र°, २चैतन्य°, १जल°, जेना-

तिस्°, ज्वलत्°, पर°, पूर्णा°,

प्रत्यक्°, बिन्दु°, तिल°, त्रि°,

द्वादशाहुलिमान°, नादान्तर°,

१नील°, १ब्रह्मन्°, भस्मन्°,

मूर्धन्°, व्योमन्°, सकृत्°, सच्चिदा-

नन्दघन°, सर्व°, सुवर्ण°, स्वयम्°,

स्वात्मन्°, हंस°, हिरण्य°]

+ज्यौतिष^१- व्याकरण°

ज्योतिर्-मयूख- तप्तका...श°

+ज्योतिष्-शास्त्र- २ग्रह°

ज्योतिष- अधि°, आगम°,

स्वस्ति°

ज्योतिः-स्थान- बिन्दुपूर्णा°

ज्यो(त्न)>रस्ना- अनेकम...र°,

अन्तर°, कर्णकुण्डल°, कुटिल-

जटित°, खचित°, चन्द्र°, तिलक-

हा...शि°, नाना°, नासाभ...
शि°, परस्पर°, भुजल...त°,
मशि°, हाटकजटितमशि°, हाट-

कमशि°, हीरका...ल°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

+ज्योरस्ना-जाल- शशभृद्विम्ब°

सर्व°, सांवत्सरिक°

√ज्वल्, >ज्वलि अति°, अभिवि°,

उद्°, प्र°, प्रा°, सम°, समुद्°

ज्वल^१- उद्°, ऊर्ध्व°, दैत्य°, प्र°,

समुद्°

ज्वलत्- ४अ°, अति°, अभिवि°,

अयुतार°, उद्°, प्र°, वि°

+ज्वलज्-ज्योतिस्- अन्तर्लक्ष्य°

सहस्रार°

+ज्वलद्-अर- उत्कट°

१ज्वलन->+ज्वलन-कुण्ड- ज्व-

लत्°

२ज्वलन- अग्नि°, अग्र°, ऊर्ध्व°,

प्र°, बहिरन्तर°, व्योमन्°

ज्वलित- उद्°, प्र°, रत्नकर्णभू-

षण्°, समुद्°

ज्वा(ल>)ला- अग्नि°, उज्ज्वल°,

तेजस्°, दिव्यतेजस्°, दीप°, दुष्ट-

ग्रह°, महत्°, रश्मि°, विद्युत्°,

१विष°

ज्वाला(ला-आ)ग्नि- प्रलय°

+ज्वाला-जाल- अनन्त°, दिव्य-

तेजोमय°

+ज्वाला(ला-आ)वली- वह्नि°

+ज्वालिन- १स्वाश्रय°

+ज्वालय प्र°, सम°

ज्वलं टपू १, ९.

ट

ट^१>ट-तृतीयक- -कः दे १३^१.

ठ

१ठ- द्वि°

ड

+डमरु^१- अस्त्र°, त्रिशूल°

a) अञ्घ्याः सं. अपा. । b) निसा. † ओतानुज्ञात्रनुज्ञानावि° इति शोधः द्र. (तु. अञ्घ्या.) । c) मा ८, ३६ ।

d) कर्तरि भावे वा कृत । e) तु. गपू. पृ ३३८ । f) =वर्षाविशेष- । g) =ड-कार- । h) °कम् इति अञ्घ्या. । i) न्यु. † ।

डाक->डाकि(रु>)नी- अरिष्टका-
रिणी०, भूत०
+√डी,>+डि-+डीय उद्
डोरि- २५०

त

तक्र- २दधि०
√तक्ष् निस्
तक्ष- >तक्ष-क- अनन्त०, दैत्य०
√तङ्क->+तङ्क- आ०
√तद्(बधा.)>तट- उभय०, नदी०,
२भवानी०, भूधर०, मेरुशृङ्ग०
+तट-स्थ- ४अ०, १विश्व०
तटित्^b- लावण्यवाहिनीकल्लोल०
√तड्(बधा.)>ताडि>तडित्->
तडित्-पर्वत- अनन्त०
ताडन- उत्पल०, वल्मीक०
+तडाग- नदी०
तरडुल- शालि०, ६स०, श्यामाक०
ततान- तति- √तन् (परि.) द्र.
तत्त्व- अंश०, अज्ञात०, अद्वितीयब्रह्मन्
अन्तर्, आत्मन्, आर्द्र०, एक०,
ओंकार...ब्द०, कलापार०, गण-
नाथ०, चतुर्विंशति०, १चित्, १
ज्ञानविज्ञान०, देवी०, द्वात्रिंशत्, १
नवन्, निरवधिनिःसीम०, पञ्चन्, १
पञ्चब्रह्मात्मन्, पञ्चविंशति०, पर०,
परम०, परमात्मन्, परमार्थ०, परा-
पर०, १ब्रह्मन्, महत्, १योग०,
२योग०, रज्जु, वस्तु, विज्ञात०,
विशेष०, वेदान्तार्थ०, १शिव०,
शिवज्ञानार्थ०, षट्त्रिंशत्, १ष-
रणवार्ति०, ६स०, संविद्, सप्तविं-
शति०, संभाविन्, सर्व०, हेरम्ब०
तत्त्व-जात- पूर्वोक्त०
तत्त्व-ज्ञ- २वेद०
+तत्त्व-भेद- सांख्यादि०

+तत्त्व-मय- आनन्दमय०
+तत्त्व-योग-ज्ञ- निःसङ्ग०
तत्त्व-विद्- भस्मन्
+तत्त्व-सेवन- १निःसङ्कल्प०
+तत्त्वा(त्त्व-अर्थ)- २वेद०
+तत्त्वार्थ-वत्- ४अ०

तद्-

२त->तथा- जाद ३, ६, १०.
[०था- यथा०, वि०]
तद्- अवगतविगतैक०, गुण०, तद्
तच्-छन्द- , +तच्-छृति- ४अ०
तत्-कार्य १अज्ञान०, अविद्या०,
माया०
तत्-क्रम- क्षण०
+तत्-तच्-छान्ति- विहित०
+तत्-तद्-वर्ण- ऋषि०
+तत्-तल्-लीलो(ला-उ)पयो-
गि-लीला-प्राप्ति- -सिः सार
२४९ : १६.
+तत्-त्वं-पद- भूभुव...न०
+तत्-पत्र-कुसुम-कन्द-मूल-
फल- यावत्
+तत्-पत्र-संख्यान- यावत्
तत्-पद- अज्ञात०, अवष्टब्ध०
२तत्-पर- जप०, जपतर्पण०,
१ज्ञान०, ज्ञानविज्ञान०, धर्म०, ध्यान०
परिज्ञानैक०, पवनाभ्यास०, पुङ्गा-
...क्षणा०, पुरुषोत्तम०, रामाराध-
न०, रामालोकन०, रुद्राराधन०,
वीणावादन०, २सच्चिदानन्द०, स-
माराधन०, स्नानपू...ण०, स्वरु-
पानन्द०
+तत्-परंपरा- तेजःप्रवाहतरङ्ग०
तत्-पुरुष- अधोर०
तत्-प्राप्ति-हेतु- तु भव १,
३२^d.
१तत्-संयोग०->+तत्संयो-
गिन्- ब्रह्महत्यासुरा...न०

+२तत्-संयोग- ब्रह्महत्यासुरा-
...न०
तत्-स्थान- अधि०
+तद्-अञ्जना- तत्स्थ०
तद्-अ-भिन्न- तद्विलक्षण०
तद्-आकारा(र-आ)कार->
+तदाकाराकारित->+तदाका-
राकारित-पर-ब्रह्मन्- स्वान्तावि-
...ध्यान०
तद्-आत्मन्->+तादात्म्य-
निरुपाधि०, शरीरत्रय०
+तद्-आविर्भाव- तदङ्गरागो-
द्भूत०
+तद्-गत-लोक- ब्रह्मण्ड०
तद्-धर्म- ४अ०
तद्दर्मा(र्म-अ)भिलाप- ४अ०
+तद्-ध(<ह)स्त- वामोरुन्य-
स्त०
१तद्-भाव- ४अ०, तत्सेवा,
सामान्य०
+तद्-भावा(व-आ)पत्ति-
संस्थापक०
तद्-भोग- -गः सार२५९:१७.
१तद्-रूप- , तद्-वचन- ४अ०
तद्-वाक्य- -क्यम् गोल ३^d.
तद्-वृत्ति- बुद्धि०
+तद्-व्यावृत्ति- ४अ०
तन्-नाल- -लम् रुजा २, १९.
तन्-मण्डल- अधि०
तन्-मय->तन्मय-ता- जगत्
२तन्-मात्र- इन्द्रिय०, गन्ध०,
२चित्, जैव०, पञ्चन्, प्राण०,
भूत०, रस०, १रूप०, सूक्ष्म०
+तन्-मात्रा- अक्षर०, पञ्चन्
+तन्मात्रा-जाल- स्वयं-
कल्पित०
ता->ता-दश- स्फुरत्
ता-वत्- द्विस०

४) व्युः! । ५) धा. अर्थः? =तडित्- । ६) अर्थ्याः यो. अपा. । ७) गपू. (पृ३४४) तुज्ञान->-नम् इत्यत्र यनि.
च '१ज्ञान->-नम्' इति च शोधः द्र. । ८) तस. [गपू. (पृ३४५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.] । ९) बस. । १०) वाचम् इति आन. ।

तावत्-काल- -लम् योच्
९१.
तावद्-वर्ष-सहस्र- -स्त्राणि
शि ६, ८६; १९८; २०१; २५८;
२७५.
√तन् अनुसं°, अभिप्र°, अव°, आ°,
उद्°, प्र°, प्रवि°, वि°, सम्°
२तत्- अनुसं°, आ°, प्र°, प्रवि°,
वि°, ८सं°, सम्°
+ततान- आ°
+तति- सम्°
+तत्व अव°, वि°
१तनु- आकाशकोश°, प्रसुप्त°
+तानव- रागद्वेषादि°, २वा-
सना°
+तनु√कृ(करणे)>तनु-करण-
ह्लेश°
+तन्व(तु-श्च)नुबन्ध- -न्धः
योस् २, ९^६.
तन्नु- कार्पास°, चिन्ता°, तत्त्व°,
दीर्घनिःस्वन°, नालस्थ°, पूत°,
प्रजा°, बहिस्°, भूतमुक्तावली°,
भृग्याल°, विस°, रस°, ६वर°,
वस्त्र°, २वासना°, वि°, षरणवति-
तत्त्व°
+तन्नु-कृत्य- चतुर्विंशति...°
तन्वत्-, तन्वान- वि°
तान- उद्°, एक°, पश्चिम°, प्र°,
लक्ष्यैक°, वि°, सम्°
तानय- कैकेयी°, चीरसमुद्रराज°, २रो-
हिणी°, शिवोमा°, २सुमित्रा°
२तनु, नू- ४अ°, अतप्त°, आ°, जी-
वन्मुक्त°, तप्त°, नम्°, मात्सर्या-
ङ्कित°, २सौम्य°, स्वर्णरुचिर°
१तन्त्र^१-
२तन्त्र^२- आगम°, २कालिका°, दुष्ट-
ग्रह°, दुष्टग्रह°, पर°, मन्त्र°,
मन्त्र°, महत्°, मायालक्ष्मी°

यन्त्र°, षष्टि°, ६सं°, सर्वे°, स्त-
म्भिनीमो...शी°, स्व°
त(न्द्र>)न्द्रा- ४अ°, १अस्त°
+तन्द्रित- ४अ°
√तप्(*बधा.), >तापि अभि°, आ°,
उद्°, उप°, नि°, परि°, प्र°, वि°,
सम्°
+तप- आ°, परम्°
तपत्- उप°, प्र°, वि°, सम्°
१तपन- गोपाल°, ३त्रिपुरा°, १राम°
२तपन- मार्ताण्डादि°
तपस्- ४अ°, अत्युग्रतीव्र°, आत्म-
विद्या°, जन्मन्°, १ज्ञान°, तीर्थ°,
दीर्घ°, महत्°, यज्ञ°, यज्ञ°,
याग°, विद्या°, २वेद°, व्रत°,
शौच°, स्वाध्याय°
तपस्-विन्- पूज्य°
तपो-लोक- भूलोक°
१तापस- ४अ°, ५न°
तस- ४अ°, अभि°, प्र°, सम्°
ताप- उप°, परि°, परिणाम°, प्र°,
बहिस्°, शुद्ध°, संसारदुःखार्क°,
सम्°
ताप-त्रय- गर्भ°
+तापक- ताप्य°
+१तापन, नी^१- बृहज्जाबाल°
+तापनीय- गणेश°
+२तापन- प्र°, सम्°
तापित- संसारदुःखार्कताप°
√तम्>तमस- ४अ°, १अज्ञान°,
१अन्ध°, अमिता...न्त°, अविद्या°
१काम°, गाढ°, धर्म°, पीठ°,
महत्°, रजस्°, रजस्°, शीत°,
सत्त्व°, सत्त्व°, सम्°, स्वक°
+तमस(क)- ४अ°, अपहत°
+तमा(मस्-श्च)विष्ट- ४अ°
तमिन्->तामिन्- १अन्ध°, गाढ°
+तमो-मय->तमोमया(य-श्च)-

भिमान- सकलविलीन°
+तमो-विकार- सृष्टि°
तामस- १कृष्ण°, सत्त्व°, सात्त्विक°
+तमालक^६- कदम्ब°
*तय- युष्मद्- द्र.
१तर^१-
२तर- √तृ (परि.) द्र.
तरङ्ग- अन्तरङ्ग°, कल्लोल°, १चिदान-
न्द°, तेजःप्रवाह°, निस्°, परमते-
...२°, पीतरङ्ग°, फेन°, हिंसादि°
+तरङ्ग-फेन-बुद्बुद्-करक-लवण-
पाषाणा(य-श्च)दि- स्थूल-
सूक्ष्म°
तरङ्गि(न्>)णी- अमितविज्ञान°,
आनन्द°, १चिदानन्द°, परमा-
नन्द°, बोध°, ब्रह्मविद्या°, ब्रह्मान-
न्दा...धि°, स्वात्मा...व°
तरण- √तृ (परि.) द्र.
तरु- अविद्या°, ४कल्प°, १कल्पक°,
पाद°, दुस्°, सृद्°
√तर्क(*बधा.) वि°
तर्क- २कु°, १मारण°, मिथ्या°, वि°
+तर्क-दृष्टान्त-कुहके(क-इ)न्द्र-
जाल- वृथा°
+तर्क्य- ४अ°
√तर्ज>तर्ज(न>)नी^१- अङ्गुष्ठ°,
सधनुश्शूलक°
तर्दन- √तृद् (परि.) द्र.
तर्पयित्वा, तर्प्य √तृप् (परि.) द्र.
√तल्>तल- ४अ°, अङ्गुष्ठ°, २कर°,
चूलि°, २जगती°, निरालम्ब°,
पाणि°, पाद°, बृन्दाव...ह°,
१भू°, महत्°, मही°, वसुधा°,
वामपाणि°, सुरद्रुम°
+तल-स्पर्श-रहित- अगाध°
तला(ल-श्च)तल- अतल°
तल्प- गुरु°
+तल्प(ग>)गा- वहि°

अ) तु. गपू. पृ३४१d', ४०२a । b) गपू. (पृ३५४, ३५५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) कर्तारि कृत. ।
d) = १तपन- । e) व्यु. ? = वृत्तविशेष- । f) गपू. (पृ३५८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

*तवर्- गुष्मद्- द्र.
 तस्कर- विभूषण°
 तस्थि- √स्था (परि.) द्र.
 तादात्म्य- तद्- (परि.) द्र.
 तानव- √तन् (परि.) द्र.
 तापक-, १-२तापन- √तप्(परि.) द्र.
 ताम्बूल- ४दक्षिणा°, दन्तधावन°,
 नैवेद्य°, संगम°, स्रज्°
 †ताम्बूल-पत्र- पूग°, यावत्°
 ताम्बूल(ल-आ)घ- १भोग°
 ताम्र- आ°, सु°, सौवर्ण्य°
 १तार- गपू. पृ३५९ द्र.
 २तार, रा- २ग्रह°, राशि°
 २तार-क- चन्द्र°, चम्पक°, ४धुव°,
 विस्फुरत्°, ६स°
 †तारा-जाल- मणियाद्यदिहाटकख-
 चित°
 ३तार- अन्तर्°, निश्चल°
 ४-७तार- गपू. पृ३५९ द्र.
 ८तार- सुवर्ण°
 ९तार- २मन्त्र°
 १तारक- गपू. पृ३५९ द्र.
 २-३तारक- २-३तार- द्र.
 ४तारक- अमूर्ति°, पूर्व°, मूर्ति°
 †तारक-योग- पूर्व°
 तारिन्- √तृ (परि.) द्र.
 तार्ह्य- सु°
 तार्थ- √तृ (परि.) द्र.
 १ताल- आम्र°, कदम्ब°, खर्जूर°,
 महत्°, १वंश°
 २ताल- संगीत°
 ३ताल- गपू. पृ३६० द्र.
 †४ताल- > †ताल-ज- २मन्त्र°
 †?तालीबन- आम्र°
 तालु- पाद°
 †१तालु(-क)- चिद्वयोमन्°
 २तालु-क- २गराड°

†तालु-शूल- शिरःशूल°
 √तिज्(*बधा.), > तितिक्ष् > तिक्त-
 कटु°, मधुर°
 तिति(क्ष) > क्षा- द्रन्द्र°
 तितिक्षा-ज्ञान-वैराग्य-शमा-
 (म-आ)दि-गुण-वर्जित- -तः
 पदं १५० : १८।
 तीक्ष्ण- कटु°, सु°
 †तीक्ष्ण-शृङ्ग- ज्ञाय मउ३, ११
 तेजस- ४अ°, अक्षि°, अखराड-
 ब्रह्मन्°, अति°, अधिक°, अपक्वा-
 न्त°, अमित°, अमिते...त°,
 अर्कविश्वमि°, आत्मन्°, उग्र°,
 उपशान्त°, ऊर्ध्वस्थित°, चक्षुस्°,
 चन्द्र...ह°, १ज्ञान°, तिग्म°,
 तेजस्°, दिव्य°, द्वादशार्क°, नख-
 चन्द्र°, २निरतिशयानन्द°, परम°,
 पृथिवी°, पृथ्वी°, १ब्रह्मन्°,
 ब्रह्मविष्णुरुद्र°, महत्°, महत्°,°
 रवि°, रस°, शान्ति°, २शुक्ल°,
 शुद्धब्रह्मन्°, १सम°, सु°, सूक्ष्म-
 तर°, सूर्या...न्द्र°, सोमसूर्यामि°,
 स्व°, स्वस्व°, हस्ताङ्गु...णि°
 तेजस- २जाग्रत्°, तद्°,
 तुरीय°, तैजस°, २प्राज्ञ°, १विश्व°,
 सुषुप्त°, स्वप्न°
 †तेजः-कूट- २सच्चिदानन्द°
 †तेजः-पर्वत-राजि- अनन्त°
 †तेजः-पुञ्ज- शतस...टि°
 †तेजः-प्रकाश- सर्व°
 †तेजस(-क)- ४अ°
 †तेजो-ज्वाला- स्वप्रका...न्द°
 †तेजोज्वाला-राशि- निर-
 तिश...न्द°
 तेजो-बिन्दु- कठवल्ली°
 तेजो-मण्डल- अखराड°, अ-
 खराडदिव्य°, अखराडानन्द°

†तेजोमण्डल-विध- -धम्
 त्रिवि ३२० : १९।
 तेजो-मय- आनन्दमय°, १स्व-
 रूप°
 तेजो-राशि- अखराडानन्द°, अ-
 खराडामित°, अनन्त°, अमिता-
 ...ण°, दिव्य°, निरुपम...क°,
 वाचामगोचरानन्त°, वाचामगो-
 चरानन्द°, वाचामगोचरानन्द-
 ब्रह्मन्°, सर्वादि...त°
 †तेजोराशि-विशेष- बोधा-
 नन्द...व्य°
 तेजो-रूप- अति°
 तित्तीर्षु- √तृ (परि.) द्र.
 तित्तिरि- ईश°
 तैत्तिरीय- > तैत्तिरीयक- कठवल्ली°
 तिथि- पञ्चदशन्°, १बृहत्°
 तिमिर- अविद्या°, प्रकाश°
 तिरस्- > तिरस्/कृ > तिरस्-क-
 रि(न्)णी- अपरिच्छिन्न°
 तिरस्-कृत- अति°, निद्रासं...व°
 †तिरस्-कृति- विजातीय°
 तिरो(रस्/अ)ञ्च् > तिर्थ(रि-अ)च्-
 १देव°
 तिरो/घा > †तिरो-धान- आवि-
 भाव°, निमेष°, संहार°
 तिरो/भू > †तिरो-भाव- आवि-
 भाव°
 √तिल् > तिल- पालाश°
 तैल- अतसी°, अन्तःसुगन्ध°,
 एरण्ड°, क्षीर°, घृत°, चम्पक°,
 तिल°, वैराग्य°
 तिलक- कस्तूरी°, गोरोजना°, चन्दन°,
 मणि°
 तीर- २जल°, नदी°, ब्रह्मविद्या°,
 सरयु°
 तीर्थ- धम् म४९ : १९. [°र्थ- अग्नि°,

a) व्यु. ? = सूत्र- । b) व्यु. ? = उच्च- । c) गपू. (पृ३५९) ३, ४तार- इत्यत्र यनि. शोषः द्र. । d) गपू. (पृ३६०) संख्याचिह्नं परिहृतं द्र. । e) गपू. (पृ३६०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) निसा. अया. । g) = तदाव्योपनिषद्- विशेष- । h) बप्रा. द्र. । = आचार्यविशेष-, उपनिषद्विशेष-

अन्तर्, अभिषेक°, अलकानन्दा°
आत्मन्°, १कथा°, गङ्गागोमती°
गुरु°, १चक्र°, तुङ्गभद्रा°, दिव्य°,
१देव°, २पुराय°, प्रयागादि°, ब-
हिस्°, १ब्रह्मन्°, १भाव°, महत्°,
महोदधि°, १शिव°, शिवोमा°,
सकल°, सर्व°, सागर°, सार्धत्रि-
कोटि°]

+तीर्थ-क्षेत्र- गङ्गादि°

तीव्र- अत्युग्र°

तुङ्ग- उद्°

+तुण्ड- कौपीनखण्ड°, १चक्र°, चन्द्र°
वक्र°, १वज्र°, १विष°

+तुण्ड-इं(ष्ट्रा)ष्ट- १विष°

√तुद्- उद्°, प्र°, वि°

+तोद- प्र°

तुम्बी- क्षीर°

+तुम्बुरू- सनक°°

√तुल्>तु(ल>)ला- ४अ°

तुल्य- ४अ°, अभ्रगजादि°, आत्मन्°

एतद्°, २गया°, तद्°, तिल°,

१बीज°, मृत°, रवि°, दशन्°,

१शङ्ख°, शिरस्°, १शिव°, स्वन्°

तुलसी- आनन्द°, पद्माक्ष°

+तुलसी-नखिना(न-अ)क्ष-मा-

(ला>)ल- करठलग्न°

√तुष्, >तोषि परि°, प्र°, सम्°

तुष्ट- ४अ°, सम्°

तुष्टि- ४अ°, १मनस्°, विपर्यय°°

+तुष्ट्वा प्र°

+तोष- अन्तर्, सम्°

+तोषण- गुरु°, चित°

+तोष्य परि°, सम्°

तुष- कार्पासास्थि°

+तुष्य- ६स°

तुल- इषीका°, लघु°, शाल्मलि°

+तू(लक>)लिका- सु°

√तृण>तृण- जग्ध°, १त्रिजगत्°,

पर्वत°, १फल°, शमीन्धन°,

२वासना°, वृक्ष°, वृक्ष°, २हरित°

+तृण-कूट- शून्यागार°°

तृण-वनस्पति- -तयः मै १, ४१°.

+तृणा(ण-अ)द- ४अ°

+√तृद्- अभि°, आ°, प्र°, वि°, सम्°

+तर्दन- प्र°

+तृण- आ°, सम्°

√तृप्, >तर्पि परि°, सम्°

तर्पण- -गम् भा ३३^d. [°ण-

प्राण°, जप°, पितृ°, प्राणस्थाप-

न°, १श्राद्ध°, स्नान°°]

+तर्पयित्वा, +तर्प्यं सम्°

तृप्त- ४अ°, अग्नि°, आत्मन्°,

१ज्ञान°, ज्ञानविज्ञान°, ज्ञानामृत°,

१नित्य°, सम्°, सर्ववेदान्त°,

१स्वानन्द°

+तृप्ते(त-इ)न्द्रिय- ४अ°

तृप्ति- द्विज°, १नित्य°, परि°, १शिव°

सम्°

√तृष्>तृष्, तृ(ष>)षा- १चुध°

तृष्ण, ष्णा- अन्तर्, १चुध°, निस्°,

१भाव°, १भोग°, मृग°, वि°,

शुद्ध°

+तृष्णा-गृहा(ह-अ)ङ्गण-वल्गत्°

√तृ, >तर्, तिर, तारि, तिलीषूं अति°,

अभिप्र°, अव°, उद्°, उदुद्°,

निस्°, प्र°, व्यति°, सम्°, समुद्°

+तर- दुस्°, सूचिकाष्टह°

+तरण- संसार°

१तार- अव°, १नमस्°, १ब्रह्मन्°,

मद्°, ६स°, स्व°°

तार-सार- ईशावास्य°°

१तारक- -कम् तृप् १, १५^d. [°क-

अद्वय°, मन्त्र°, मुक्ति°, १मृत्यु°,
वैरोचन°, श्रीराम°, संसार°]

तारण- गर्भादि°, संसार°

२तारित- उद्°

+तारिन्- अभिप्र°, संसारार्थव°

+तार्यं, +तिलीषुं- उद्°

तीर्ण- अव°, उदुद्°, समुद्°

+तीर्थ उद्°, निस्°

तेजस्क- √तिज् (*बधा.) परि. द्र.

तोय- गोष्पद°, १ज्ञान°, तृण°, पञ्चसं-

...नी°, मृद्°, १शङ्ख°, शान्ति°,

सपुष्पाक्षत°, हेमन्°

+तोय-द- १नील°

तोरण- छत्र°, पताका°, आकार°°

+त्त-, +त्ति- √दा (दाने) परि. द्र.

√त्यज् परि°, सम्°, संपरि°

त्यक्त- परि°, मद्°, सम्°

त्यक्त्वा सम्°

त्यजत्- परि°, सम्°

त्यज्य परि°, सम्°, संपरि°

त्याग- -गः ते १, १९^d. [°ग- अ-

न्यकलना°, अहंकारकला°, कर्मन्°

कर्मफल°, चित्त°, चिन्ता°, ज्ञेय°,

तद्°, देह°, ध्येय°, नित्यवि...ल°,

१पद्म°, परि°, भयमो...ध°,

भूमि°, मनोमल°, मैथुन°, विषय°,

वैर°, २वासना°, सङ्ग°, सम्°, सं-

परि°, सर्वकर्मफल°, सर्वधर्म°,

स्वेप्सित°]

त्यागिन्- ४अ°, कट्वन्मललवण°,

कर्मफल°, परि°, महत्°, मातापितृ-

गुरु°, सम्°, सर्व°

+त्याजिन्- श्रम°

त्याज्य- परि°

त्र- √त्रै (परि.) द्र.

+√त्रप्>त्र(प>)पा- गत्°

a) व्यु. ? बप्रा. द्र. । b) व्यु. ? =वाद्यविशेष- । c) °वञ्ज° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. [तु. मैत्रि १, ४

(एतदनु गपू. [पृ३६५] 'तृणवत्' इत्यत्र यनि. शोधः द्र.) । d) तान्त्रि. अपा. । e) कर्तरी कर्मणि वा कृत ।

f) बप्रा. द्र. । =भाप., ओम्- , १तारक- । g) =तदाख्योपनिषद्-विशेष- (गपू. पृ३६५e यनि. शोधः द्र.) । h) वैतु,

उन्न. ब्रह्मता° इति (गपू. पृ३६७d यनि. शोधः द्र.) । i) अञ्ज्याः यो. अपा. ।

+त्रपुस^{१३}- वालुका^०
 ✓त्रस् > +त्रस्त- १भय^०
 त्रि->त्रि- द्वि^०, द्वि^{००}
 तृतीय- -यः तु ८^१०; -ये मना १,
 ४५^०. [०य- प्रथम^{००}, प्रातर^{००}]
 +१तृतीय(-क)- ट^०
 २तृतीय-क^१-
 तृतीय-भाग- लिङ्ग^०
 त्रय- अकारादि^०, अक्षर^०, अग्नि^०,
 अनाज्ञात^०, अवस्था^०, २आद्य^०,
 आश्रम^०, इषुत्तेप^०, ऋतु^०, १एष-
 णा^०, ओष^०, कारण^०, कर्मन्^०, का-
 मे...ता^०, २काल^०, कोणा^०, कोश^०,
 गुणा^०, गुणालोक^०, गृह^०, ग्रन्थि^०,
 जगत^०, जिह्वा^०, जीव^०, ठान्त^०,
 तत्त्व^०, ताप^०, २ताल^०, तेजस्^०,
 त्रिकूट^०, दिन^०, दुःख^०, देह^०, देहा-
 दि^०, नेत्र^०, धामन्^०, धूपादि^०,
 परमहंसादि^०, परिणाम^०, परिधि^०,
 पाद^०, २पुर^०, पूर्णाहुति^०, प्रण-
 व...रुद्र^०, प्रदक्षिण^०, २बन्ध^०,
 बिम्ब^०, १बीज^०, भाग^०, ३भा-
 वना^०, २भुवन^०, भूमि^०, भेद^०,
 महावाक्य^०, मार्ग^०, मास^०, मुख^०,
 मुनि^०, १मुहूर्त^०, मूर्ति^०, मेखला^०,
 रेखा^०, रेचकादि^०, लक्षणा^०,
 लक्ष्य^०, लिङ्ग^०, लोक^०, वक्त्र^०,
 १वर्ण^०, १वर्ष^०, वह्नि^०, वाक्य^०,
 २वार^०, २वासना^०, विकल्प^०,
 वृक्ष^०, व्यापक^०, व्याहृति^०, शक्ति^०,
 शत^०, शरीर^०, शाम्बरी^०, शुभे-
 च्छादि^०, संवत्सर^०, १संध्या^०,
 संबन्ध^०, १सवन^०, सुभगा^०, सूत्र^०,
 स्थान^०, स्थानकाल^०
 त्रयस->त्रयस-त्रिंशत्->त्रय-
 क्षिंश- त्रिणव^०

त्रयो-दशन्- द्वादशन्^०
 त्रयोदश->त्रयोदशी-
 -शी तु १०^१०.
 १त्रि-क- ऋच्^०, कामेश्वर्यादि^०,
 १मूल^०
 त्रि-कूट- तन्मध्यकर्णिका^०
 +त्रि-कोटि- सार्ध^०
 २त्रि-कोण- अन्तर्^०, चतुरस्र^{००},
 पूर्वोक्त^०, मूलाधार^०, सहस्थित^०
 +त्रिकोण-देवता- विज्ञेपशक्त्या-
 ...क्ति^०
 त्रिकोण-यन्त्र- दुष्ट^०
 +त्रिकोणा(ण-त्र)प्र-चतुष्टय-
 मध्य^०
 १त्रि-गुण- भूत^०
 त्रैगुण्य- निस्^०
 त्रि-चतुर- त्रिचतुर^०, त्रिचतुर^{००}
 +त्रि-तय- अगर^०, अन्त^०, अवस्था^०
 भूमिका^०, लिङ्गादि^०
 त्रि-धा- द्विधा^०
 *त्रिन्->त्रिं-शत्- अष्टन्^०, ऊन^०,
 एक^०, एकोन^०, चतुर^०, त्रयस्^०,
 द्वि^०, पञ्चन्^०, षष्^०, सप्तन्^०
 +त्रिंशक- २कुल^०
 +त्रिं-शति^१- द्वि^०
 १त्रि-नेत्र^१- अरुण^०
 २त्रि-नेत्र^१-
 त्रि-पुण्ड- उद्गलन^०, भस्मन्^०
 +त्रैपुण्ड->+त्रैपुण्डित-
 दग्धकामा...ति^०
 +१त्रिपुण्ड(-क)- भस्मदीप्त^०
 २त्रिपुण्ड-क^१-
 +त्रिपुण्ड-रेखा- तिर्यच्^०
 +त्रिपुण्ड(रुद्र-ध)ङ्क- तिर्यच्^०
 ३त्रि-पुर, रा- महत्^०, ऐतरेय^{००}
 त्रिपुरा-तपन^१- २प्रश्न^{००}
 त्रि-लोक->त्रैलोक्य->+त्रैलो-

क्य-रक्षण- कृत^०
 त्रि-विध->त्रैविध्य- अधिका-
 रिन्^०, उपासा^०
 +त्रिविध-विज्ञो(म-उ)स्सारण-
 जलशुद्धि...न^०
 १त्रि-वृत्->त्रिवृत्-सूत्र- -त्रम्
 नाप १५१ : ८^१.
 त्रि-शिखा->त्रिशिखिन्->+त्रि-
 शिखि-ब्राह्मण^{११}- ईशावास्य^०
 त्रि-शूल- अक्ष^०, १वज्र^{००}
 त्रि-ष्टुम्- गायत्री^०
 त्रिस्(>र)>त्रिर्-अवृत्त- नव-
 तत्त्व^०
 १व्य(त्रि-त्र)क्षर^१-
 २व्य(त्रि-त्र)क्ष(र)>री^१- नीलकण्ठ^०
 व्य(त्रि-त्र)ह->+त्रैहिक->त्रै-
 हिक-उवर^१- अतिभयंकरज्वर^{००}
 +त्रिवेदी^१- २जल^०, वन^०, स्थल^०
 ✓त्रै->त्रा परि^०, सम्^०
 +त्र, त्रा- ४अ^०, अमितभर^०, आतप^०,
 ककुद्^०, गिरि^०, गो^०, रथिमत्सुर^०
 त्राण- परि^०, २भक्त^०, शीतवातोष्ण^०
 त्रात्- -तारम् मउ २०, ३५^१.
 ✓त्वच्->१स्वच्- मांस^०, १व्याघ्र^०
 +त्वग्-दोष- १क्षय^{००}
 +त्वग्-रोग- गरुड...दि^०
 २त्वच्- चक्षुस्^०, पाद^{००}, पृथिवी^{००}
 श्रोत्र^०
 ३स्वच्- आम्र^{००}
 ४स्वच्- गपू. पृ ३७८ द.
 ५स्वच्^१m- पुष्प^{००}, फल^{००}, १मूल^०,
 ६स्^०
 त्वद्-, त्वम्, त्वय्-, युष्मद्- द.
 ✓त्वर्->त्वर- ६स्^०
 १-२त्वा- युष्मद्- द.
 ✓त्विष्->+त्विष्- चन्द्रसूर्य^०

a) व्यु. ? b) पा. ? स्त्रीत्वपरः शोधः द्र. । c) 'समाने' इति शौ २, १, ५ (तु. टि. वैपश् यस्था.) । d) गपू. (पृ ३७०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) गपू. (पृ ३७०) 'त्रयोदशन्-> -श' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. । f) =त्रिंशत्- । g) द्विख. । h) गपू. (पृ ३७३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) अत्र्याः सं. अपा. । j) =तदाख्योपनिषद्-विशेष- । k) गपू. (पृ ३७३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । l) ऋ ६, ४७, ११ । m) व्यु. ? =बल्लक- ।

द

१-२६ गपू. पृ३७८ द्र.

३६- √दम् (परि.) द्र.

४६- √दा (दाने) परि. द्र.

५६- √दो (अवखरगडने) परि. द्र.

√दंश, >दंश- सम्°

दंष्ट्र, दंष्ट्रा- कराल°, कुटिल°, ती-
क्ष्ण°, तुरण्ड°, प्रकटित°, बहु°,
३भीम°, महोत्तम° त°, १वज्र°,
१विष°, सर्प°, हिरण्य°

+दश्य सम्°

दष्ट- कृमि°, महोरग°, विषय°

√दञ् (*वधा.) > १दक्ष- सु°

२दक्ष- ३वाम°

+दक्ष-कव्य(टि-अ)न्त-वामांस°

दक्ष-पाश्च- तद्°

३दक्ष- स्थाणु°

१दक्षिण- ३वाम°, १सव्य°

+दक्षिण-कटि- वामबाहु°

+दक्षिणकव्य(टि-अ)न्त-
वामांसादि°+दक्षिण-कर-युग- खड्ग-
कर्तृ°

१दक्षिणतस् (>:)

२दक्षिण- आहवनीय°, उत्तर°,
उदच्°, नामि°

२दक्षिणतस् (>:) १शिव°

दक्षिणा(स-अ)ग्नि- गार्ह-
पत्य°३दक्षिण- -गम्, -णेन जाद ३,
६, १^b.३दक्षिणतस् (>:) व४६०:
११९^d.४दक्षिण, गण- ४अ°, उत्तम°, बहु°,
१भव्यम्°, ६स°

५दक्षिण- गपू. पृ३८० द्र.

६दक्षिण(स)णा->दक्षिणा-

मूर्ति- कठवल्ली°

+दक्षिणामूर्ति-मन्त्र- १मेधा°

७दक्षि(स)णा-°

दण्ड- अमि°, इक्षु°, इन्द्र°, उत्सृष्टि°,
ऊर्ध्व°, एक°, कर्मन्° काय°,
१काल°, काष्ठ°, रक्तुबेर°, क्षीर°,
१ज्ञान°, त्रि°, दोस्°, १धृति°,
निर्ऋति°, पात्र°, प्रचण्ड°, प्रलो-
भ°, १ब्रह्मन्°, भुज°, १मनस्°,
मुद्गर°, १यम°, १रुद्र°, १वज्र°,
१वरुण°, १वाचु°, वायु°, विकार°,
विचार° विवेक°, विष्णु°, वीणा°

सीमन्त°

दण्ड-क- तद्°

+दण्डका(क-अ)स्त्र- पाशुपता-
स्त्र°

+दण्ड-धर- ५न°

दत्र- सु°

ददान- √दा (दाने) परि. द्र.

*दध- दधातु-, दधिवामन- √धा
(परि.) द्र.

दनु-

दानव- १देव°, दैत्य°

+दनु-ज- रक्तबीज°

दन्त- एक°, ३नाग°, १पार्श्व°, मणि°,
राजन्°, १वज्र°, १विष°, २शुक्ल°,
१शृङ्ग°

+दत्->+दत्-(क)- ४अ°

+दन्त-(क)- स्याव°

+दन्त-शूल- अङ्गशूल°

+दन्ता(न्त-अ)स्थि-शाकल- दृष्ट°

दन्तिन्- न्वी मना १, ५९^d.

+दम्भ, म्भ->+दम्भ- ४अ°

दम्भ- ४अ°, १काम°, निन्दा°,
राग°

+दम्भिन्->दम्भिन्-स्व- ४अ°

√दम्->+३द- विधु°

दम- तपस्°, शम°

दमन- सर्वभूत°

दान्त- ४अ°

+दान्त-स्व- प्रकृति°

+दान्ति- शान्ति°

√दय->द(य)या-अहिंसा°, सर्व°

दर- √द (परि.) द्र.

दरिद्र->दारिद्र्य- सर्व°

दरुव्य- √द (परि.) द्र.

दर्वि- कनक°

१दर्श- ४अ°

२दर्श- दर्शक-, दर्शिन्-, दर्शिवस्-

√दृश् (परि.) द्र.

√दल्->दल- अमि°, आम्रेय°, अध्व-

त्य°, अघ्नन्°, अष्टादशन्°, इन्दी-

वर°, ईशान°, उत्तर°, चतुर्°,
चतुर्दशन्°, चतुर्विंशति°, चत्वा-रिंशत्°, तत्पथ°, तद्°, त्रि°,
२दक्षिण°, दशन्°, द्वात्रिंशत्°,
द्वादशन्°, द्वि°, नवन्°, नीलो-त्पल°, २नैर्ऋत°, पञ्चाशत्°,
पश्चिम°, पूर्व°, प्रति°, प्राच्°,
बिल्व°, मध्य°, वसु°, वायव्य°,
वायु°, शत°, श्रीफल°, षट्त्रिं-

शत्°, षष्°, षोडशन्°, सहस्र°

दल-सं(स्थ)स्था- -स्था:मै५, २^१।

+√दश (दाने) अधि°

दशन्- शसु अशि ४^१. [०न्- अ-घ्नन्°, एक°, चतुर्°, चतुर्°,
त्रयस्°, त्रि°, द्वि°, पञ्चन्°, षडङ्गु-

ल°, षष्°, सप्तन्°]

दश-क- १अङ्ग°, अग्निमासिद्ध्यादि°

१मुद्रा°, वायु°, विप्र°, सर्वज्ञादि°,
सर्वसंज्ञोभिरयादि°, सर्वसिद्धि-

प्रदादि°

३) गपू. (पृ३७९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । ४) अच्चाः यो. अपा. । ५) गपू. (पृ३८०) यनि. संख्या-

निर्देशः द्र. । ६) अ १०, ८३, ७ (गपू. पृ३८०f यनि. श्लोचः द्र.) । ७) बप्रा. द्र. । ८) =व्यसं., उपनिषद्विशेष- ।

९) वैपश् यद्र. । १०) मैसं २, ९, १ (तु. टि. वैपश् यस्था.) । ११) गपू. (पृ ३८२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । १२) पा. ? यनि.

श्लोचः द्र. (तु. मैत्रि ६, २) । १३) अच्चाः शौ. अपा. ।

दश-म- आ^०
 दश-श्लो(क>)की- श्रीसरस्वती^०,
 सरस्वती^०
 दशां(श-अं)श- तद्^०
 †दशा(श-अ)क्षर-मन्त्र- रामकृष्ण^०
 दशा(श-अ)र- अन्तर^०, तद्^०
 दशा- १आशा^०, २चैत्य^०, २जाग्रत्^०,
 जीवन्मुक्ति^०, १ज्ञान^०, द्रष्टृदृश्य^०,
 नैरात्म्यसिद्धान्त^०, भावाभाव^०,
 वस्तु^०, संकल्प^०, सुखदुःख^०,
 सुषुप्ति^०
 दृश्य ✓दंश(परि.) द्र.
 ✓दृह आ^०, नि^०, निर^०, परि^०, प्र^०,
 प्रति^०, वि^०, व्यतिसम्^०, सम्^०
 दग्ध- ४अ^०, चिन्तानलशिखा^०,
 ज्ञानाग्नि^०, दोषदावाग्नि^०, निर^०,
 मन्त्रसंस्कार^०, वि^०, सदात्म...न^०
 दग्ध्वा सम्^०
 दहत्- निर^०
 दहन- आ^०, कामादिवृत्ति^०, पित्रा-
 दिशरीर^०, भावाभाव^०, मायाम...
 र^०, सर्व^०
 †दाघ- नि^०
 दाह^०- अयस्^०, आ^०, छेदन^०,
 ज्वर^०, दाव^०, प्र^०, श्रम^०
 †दाहक- रेचक^०
 दाह्य- ४अ^०
 दहर- भू^०
 ✓दा(दाने) अपा^०, अभिव्या^०, अभ्यव^०,
 अभ्या^०, आ^०, उदा^०, उपा^०, परा^०,
 परि^०, प्र^०, प्रप्र^०, व्या^०, सम्^०,
 समभ्या^०, समा^०, संप्र^०
 †त्त- अपा^०, अभ्या^०, आ^०, उदा^०,
 उपा^०, व्या^०
 †त्ति- संप्र^०
 †४द- अनन्तरसभोग^०, अनाहतसि-
 द्धि^०, अन्न^०, अभीष्ट^०, अभीष्टफ-
 ल^०, अम्बु^०, असुम्^०, आ^०, १इष्ट^०,
 कल्याण^०, १काम^०, कामितार्थ^०,

केलि^०, कैवल्यसिद्धि^०, जगदा...
 दि^०, २जल^०, १ज्ञान^०, ज्ञानवैराग्य^०
 दीर्घदुःख^०, दुःख^०, धन^०, धर्म^०,
 धर्मार्थकाम^०, नवस्^०, नीर^०, पद्म-
 द्वय^०, परमसुख^०, पारमै...दि^०,
 १पुराय^०, १पुत्र^०, पुष्टि^०, प्र^०,
 १फल^०, १भोग^०, १महाविभूति^०,
 मारम्^०, मुक्ति^०, १मोक्ष^०, मोक्ष-
 फल^०, मोक्षसिद्धि^०, यथोक्तफल^०,
 यशस्^०, २योग^०, १रति^०, रयि^०,
 रयिम्^०, रस^०, १वर^०, वाक्सिद्धि^०,
 विपरीतसुख^०, विसुक्ति^०, विरक्ति^०,
 शर्मन्^०, १शिव^०, शीतो...ख^०,
 शुभ^०, सकलविभूति^०, सकलसि-
 द्धि^०, समानफल^०, संभोगसुख^०,
 सर्व^०, १सर्वकाम^०, सर्वकामार्थ^०,
 सर्वमन्त्रफल^०, सर्वयोगप्राप्ति^०,
 सर्वसिद्धि^०, सर्वसौभाग्य^०, साधु-
 सिद्धि^०, सिद्धि^०, सुख^०, सौभाग्य^०
 हर्ष^०, हर्षमर्षविकार^०
 १दत्त- ४अ^०, गुरु^०, जमदग्नि^०,
 १देव^०, नासाप्र^०, प्र^०, १ब्रह्मन्^०,
 मद्^०, १सोम^०
 २दत्त- १देव^०
 ३दत्त->दत्ता(त-त्र्या)त्रेय^०-
 २निदाघ^०, २प्रश्न^०, श्वेतकेतु^०
 २संवर्तक^०
 दत्त्वा ४अ^०
 †ददान- ४अ^०, आ^०, समभ्या^०
 †दा- आत्मन्^०, तेजस्^०, बुध्मस्^०,
 १नित्य^०, १बल^०, वर्चस्^०, स्वस्ति^०
 दातव्य- आ^०, प्र^०
 †दाति- हव्य^०
 दातुम् आ^०
 दात्- अष्टसिद्धि^०, आसनभे...ख^०,
 १काम^०, कामसं...ह^०, गो^०,
 चक्षुस्तेजस्^०, ज्ञाननिर्वाण^०, तद्^०,
 तद्रस्तु^०, दानधर्म^०, निधि^०, पुष्प-
 शय्या...ख^०, प्र^०, प्रप्र^०, भक्ति-

रति^०, भद्रार्थ^०, १भोग^०, १रति^०,
 रस^०, रसलम्प...ह^०, रसिकान-
 ...स^०, वाञ्छितफल^०, १विज्ञान^०,
 शास्त्र^०, सकलकाम^०, सुख^०, सुमे-
 र^०, सुरतान...स^०, हिरण्य^०
 १दान- अभ्यव^०, अर्थ्य^०, अशेष-
 फल^०, अशेषरस^०, आ^०, आत्मतु-
 ...दि^०, आमोदा...न^०, उपा^०,
 १कथा^०, १कन्या^०, गो^०, गोपी-
 चन्दन^०, चतुःस...भू^०, जप^०, तद्^०
 तपस्^०, तीर्थ^०, तुलापुरुष^०, नि-
 यम^०, पिरण्ड^०, प्र^०, बलि^०, १मधु^०
 महत्^०, यज्ञ^०, याग^०, रस^०, १वर^०,
 वसु^०, विया^०, व्रत^०, १शिव^०,
 संप्र^०, सर्व^०, ज्ञान^०
 †दान-रूप- अत्यन्त^०
 दान-लीला- दानश्रेणि^०
 †१दाय आ^०, उपा^०, प्र^०, समा^०
 †१दाय- संप्र^०
 †२दाय->दाया(य-त्र्या)द- कर्मन्^०
 †३दाय- शत^०
 †दायक- अभय^०, आनन्द^०, परमा-
 नन्द^०, १महदानन्द^०, महाबोध^०,
 १मोक्ष^०, १रति^०, सर्वसौभाग्य^०,
 सुख^०
 दायिन्- अगणितानन्द^०, अङ्ग-
 सुख^०, अनन्तचरित्र^०, अभय^०,
 आनन्द^०, आनन्दरस^०, गुणरति^०,
 दानलीलासुख^०, दुःख^०, बहु^०,
 १भोग^०, महासौभाग्य^०, १मोक्ष^०,
 मोक्षसाम्राज्य^०, मोद^०, वचनसुख^०
 वैराग्य^०, शमादिगुण^०, सर्वसौभा-
 ग्य^०, साम्राज्य^०, सुख^०, सुरतान...
 ख^०, सृष्टिरूपगुण^०, स्वरूपानन्द^०
 †दि- दीयमान- आ^०
 †दु- पुनर्^०
 दैय- ४अ^०, उपा^०, प्र^०, १बल^०,
 श्रद्धा^०
 दात- ✓द्वै (शोधने) परि. द्र.

a) भावे कर्तरि वा कृत् । b) बप्रा. द्र. । =व्यसं, उपनिषद्विशेष- । c) धा. अर्थः? । d) कर्मणि कृत् । e) कर्तरि कृत् ।

दाति-, १दान- √दा (दाने) परि. द्र.
 २दान- √द्वै (शोधने) द्र.
 ३दान- √दो (अवखरण्डने) परि. द्र.
 दान्ति- √दम्(परि.) द्र.
 दामन्- उद्, कनकचम्पक°, पुष्प°,
 मालती°, विचित्रपुष्पसज्°, ६स°,
 सु°, सूत्र°
 १दाय √दा (दाने) परि. द्र.
 २दाय°
 १-३दाय-, दायक°- √दा(दाने)परि.द्र.
 दार- गुरु°, धन°, पर°, पितृ°, १पुत्र°,
 स्व°
 +दार-पुत्रा(त्र-अ)भिलाषिन्- ५न°
 दारु^१- काष्ठ°, ताम्र°, तुलसी°,
 १मूल°, मृद्°
 दारुण°- दारुण° √दृ (परि.) द्र.
 √दास् अभि°
 दास- अन्तु°, गर्भ°, दास°, दिवस्°,
 धन°, १महि°
 दासी- माया°
 +दासी-परिचा(रक>)-
 रिचा- ६स°
 दास्य- २श्रवण°°
 दाहक- √दह (परि.) द्र.
 दि- √दा (दाने) परि. द्र.
 दित- √दो(अवखरण्डने) परि. द्र.
 दिदृत्ता- √दृश् (परि.) द्र.
 *दिध- √धा (परि.) द्र.
 दिध्यास-, दिध्यासन-, दिध्यासि-
 तस्य- √ध्वै (परि.) द्र.
 दिन- अल्प°, अष्टन्°, एक°, त्रि°, द्वि°,
 पञ्चदशन्°, प्रति°, प्रतिपद्°, बहु°,
 मध्यम्°, महालक्ष्मीव्रत°, सप्तन्°,
 १संध्या°
 +दिन-कृत्- हरि°
 √दिब्, >देवि परि°
 दिब्->दिव्य- अखरण्ड°, अनन्त°,
 १देव°, बोधानन्दमय°, विद्या-

नन्दमय°, शिवानन्दमय°,
 समस्त°°
 +दिव्य-तीर्थ- अनन्त°
 दिव्य-तेजस्- अनन्त°,
 अपरि...न्त°, अमितते...त°,
 तदन्तर्गत°, निरतिशय°, २निर-
 तिशयानन्द°, सुदर्शन°
 +दिव्यतेजः-पर्वत- अ-
 नन्त°
 +दिव्यतेजो-ज्वाला-
 जाल- अनन्त°
 दिव्यतेजो-मय- केवल-
 मन्त्रमय°
 +दिव्यतेजोमय-
 ज्वाला-जाल- वाचामगो...धि°
 +दिव्य-तेजो-राशि- वाचा-
 मगो...न्त°, वैष्णव°
 १दिव्य-देह- सर्व°
 +दिव्य-मङ्गल- आनन्द°,
 समस्त°
 +दिव्यमङ्गला(ल-आ)-
 कार- अति°
 दिव्य-मङ्गला(ल-आ)सन-
 अनन्त°
 +दिव्य-विमान- तदन्तर्गत°
 +दिव्य-विमान-च्छत्र-ध्व-
 ज- चिन्मयानन्द°
 +दिव्य-शक्ति- दिव्यायुध°,
 शमदमादि°
 +दिव्य-सुगन्ध- अखरण्ड-
 ...ह°
 +दिव्य-सौदामनी- परिपू-
 र्णानन्द°
 +दिव्या(व्य-आ)नन्द- निर-
 तिशयानन्त°
 +दिव्या(व्य-आ)भरण- अ-
 नेक°
 +दिव्या(व्य-आ)युध->दि-

व्यायुध-दिव्यशक्ति- अनन्त°
 +दिव्या(व्य-आ)राम- अ-
 नन्त°
 सु- परे°, पूर्वे°
 १दिव- त्रि°
 १देव--० व मउ९, ७९°; -वौ वृद्, ४,
 २१९^१ [°व, वी- ४अ°, अति°,
 अतिथि°, अधि°, अमृतावयव°,
 आचार्य°, आजान°, १आदि°,
 कर्मन्°, कर्मन्°°, १काम°, २कीर्ति°
 १कौल°, गुरु°, चतुर्मुख°, ति-
 र्यक्°, ३त्रिपुरा°, ३दुराराध्य°, नि-
 कुञ्ज°, १देव°, दैवत°, ५न°, पितृ°,
 २पुराय°, २प्रश्न°, बाह्य°, १भू°,
 महत्°, महामाया°, महावायु°,
 २मातृ°, माया°, याग°, रक्षस्°,
 वरसुनि°, १वरुण°, ४वर्ण°, वसु°,
 १वाच्°, ४वाम°, वायु°, १विश्व°,
 विष्णु°, २शुक°, ३शेष°, श्री°,
 ६स°, सर्प°, १सर्वशक्ति°, १सुधा°]
 दैव- अधि°
 देव-गृह- १शिव°, शून्यागार°
 देव-ता- -ता: नाप १५१:७°.
 [°ता- अग्नि°, अधि°, अन्य°,
 अष्टाक्ष...ण°, आदित्य°, उपास्य°
 ओंकारपीठ°, १इष्ट°, ईशान°,
 ऋषि°, कर्मेन्द्रिय°, कामेश्वर्या-
 दि°, किम्°, गुरु°, चतुरश्र°, चन्द्र°
 चन्द्रसूर्याभि°, ज्ञानेन्द्रिय°, तत्तद्°,
 तत्त्व°, तद्विलक्ष...र°, २त्रिकोण°
 नाना°, पर°, पीठोपपीठ°, पञ्चन्°,
 प्रति°, प्राण°, बलि°, १ब्रह्मन्°,
 मन्त्र°, १यम°, १वरुण°, १वाच्°,
 वायु°, विषय°, विष्णु°, विष्णु...
 श°, सकल°, सर्व°, सर्वज्ञा...ग°,
 सर्वसंज्ञो...ग°, सूर्यचन्द्राभि°,
 १सोम°, सोमसूर्याभि°, स्वेष्ट°]
 दैवत- अक्षर°, अधि°,

a) गपू. (पृ३८६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) गपू. (पृ३८६) प्रकाशितचरं परिहृतं द्र. । c) ऋ ५, ८२, ५ ।

d) ऋ १०, १८४, २ (उ. टि. वैप १ यस्था.) । e) अत्र्याः सं. अपा. ।

१ईशान°, ऋषि°, क्रोध°, १छन्दस°
२त्रिकोण°, पञ्चन°, प्रत्यक्ष°,
प्रत्यक्षर°, १ब्रह्मन्°, २भग°,
यथा°, खड्गैकादश°, वह्नि°, सर्व°
दैवस्य- आत्मपरमात्मन°
ईशान°, त्रि°, पञ्चन°, १पुरुष°,
१ब्रह्मन्°, महद्ब्रह्मन्°, १यम°,
१रुद्र°, लक्ष्मीनारायण°, विष्णु°,
सर्व°, हयग्रीव°

देवता-प्रसाद-ग्रहण- -णम्
नाप १९९ : ३°.

देवता(ता-आ)लय- पर्वत°°
३देव-दत्त- २नाग°, प्राण°°
+देव-प्रस्थ- २सुश्लोक°
देव(व-ऋ)र्षि- सर्व°
+देव-वनि(त>)ता- समस्त°
+देव-वेद- सर्व°
+देव-हार- २सुश्लोक°°

देवा(व-आ)गार- निर्जन°
देवा(व-आ)दि- संक्लिष्ट°
देवे(व-ई)श- हुहियादिम°
२देव(रविश्व-)- -वाः(-श्वे) छां १,
१३, २; २, २४, १६^b.

+देव(न>)ना- +देवया- परि°
२दिव->दिवा>दिवा-कर- -राय
मउ ३, ८; ९. [°र- अरुण°°,
उद्यत्°, १कोटि°, तरुण°, मार्ता-
ण्डादि°°]

+दिवा-रात्रि-विभाग- ५न°
दिवस- अर्ध°, घटिका°°, प्रति°
√दिश्(*बधा.), >देशि अति°, आ°,
उद्°, उप°, नि°, निर्°, प्र°, प्रति-
सम्°, विनिर्°, व्यप°, व्या°,
समा°, समुद्°, समुपा°

दिश- दिक्षु अशि ४°; दिशः मना
१, ४^१। [°श्-अन्तरा°, अवा-
न्तर°, अष्टन्°, आ°, आकाश°,
आमेय°, ईशान°, उप°, २कुबेर°,

चतुर्°, तद्°, दक्षिणोत्तर°,
दशन्°, देश°, द्वादशन्°, निर्ऋ-
ति°, निशाकर°°, पाताल°, पूर्व°,
पूर्वादि°, प्रति°, प्राच्यादि°, १या-
म्य°, १वरुण°, वायव्य°, वि°
दिक्-काल- प्रसृति°

दिक्-पाल- अष्टन्°, भून्°
+दिक्-पालक- अष्टन्°
+दिग्-अन्तर- अग्नि°, महाट्टहा-
...त°, सकल°
+दिग्-देश-काल- ४अ°
दिग्-बन्धन- कवच°
+दिग्-भर- आपूरित°
+दिग्-अम- विनष्ट°

+दिशा- अवान्तर°, चतुर्°
+दिश्य उद्°, उप°, समुद्°
दिष्ट- आ°, उद्°, उप°, चक्षुम्°,
निर्°, प्र°, व्यप°

देश°- अग्नि°, अग्र°, अति°, अरुणि°
अवाच्य°, आ°, उद्°, उप°,
उरस्°, ऊरु°, एक°, कक्ष°, कटी°,
करठ°, कान्यकुब्ज°, कुरडली°,
१गरुड°, गन्तव्य°, गुल्फ°, १गु-
ह्य°, जागरित°, २जाति°°, ज्ञात-
चर°, दिशु°, द्रव्य°, नाभि°, नि°,
निर्°, १पायु°, पृष्ठ°, प्र°, प्रा(<प्र°
बाह्य°, १भोग°, मध्य°, मेदु°,
यथा°, रम्य°, लिङ्ग°, वि°, विविक्र°
व्यप°, व्या°, शरीर°, शिरस्°,
शुद्ध°, सकल°, सर्व°, रिफच्°,
स्व°, स्वशरीराभिमान°, १हृद्°
देश-काल- ४अ°

+देशकाल-वस्तु- १आदि°
देशिक- नाना°, परमज्ञान°, वेद-
विधात्रतज्ञात°, सर्व°
+देशिक-विकल्प- जीवेश°
+देशयत्- आ°
+देशिन्- प्र°

+देश्य उप°, निर्°
+देष्टव्य- उप°
+देष्टुम् उप°, निर्°
+देष्टु- आ°, उप°

√दिह् प्र°, सम्°

दिग्ध- प्र°, भस्मन्°, सम्°
देह- ४अ°, अत्यन्तसुख°, अनन्त°,
अनेक°, अर्ध°, आकाश°, आत्म-
पर°, आधिभौतिक°, उपभोग°,
उभय°, कर्मन्°, कामसंवलित°, का-
रण°, काली°, चरडाल°, १जित°,
जानकी°, ज्ञानाभिदग्ध°, तत्तद्°,
तद्°, तुलसीकाष्ठाङ्कित°, दिव्य°,
निकुञ्जके...ष्ट°, परस्पर...त°,
पुत्रादि°, पूर्व°, प्राकट्य°, भास्करा-
कार°, मद्°, १मनस्°°, महत्°,
१मुक्त°, यावत्°, २योगिन्°, रस-
ल...र्ण°, लघु°, ललितादिसंस्तु-
त्य°, लिङ्ग°, १वज्र°, वस्तु°, वि°,
विशिष्ट°, विष्णु°, विहार°, १व्य-
ष्टि°, शक्ति°, शुद्ध°, श्रीराधा...
श°, ६स°, सम्°, संप्रकटित°, सर्व°
सूक्ष्म°, स्थूल°, स्थूलसूक्ष्मकार-
ण°, स्व°, स्वच्छन्दोपात्त°, स्वप्न°
+१देह(क)- चिद्रूप°

२देह-क-
+देह-मध्य-कटि- आ°
देह-वासना- दारैषणा...क°
+देहा(ह-आ)त्म-अम- दृढतर°
देहा(ह-आ)न्त- अहंकारादि°
देहा(ह-आ)भिमान- त्यक्त°
देहिन्- एक°, २कु°, देह°
+देह्य- सम्°

√दी(गतौ) निर्°
√दी(दीप्तौ) गप्, पृ३९९ द्र.
√दी(क्षये)>दीन- ४अ°, शरणा-
गत°

√दीन्>दी(क्ष>)क्षा- १चरण°,

a) अख्याः सं. अपा. । b) गप्. (पृ३९५) स्थलनिर्देशे यनि. शोचः द्र. । c) अख्याः शै. अपा. ।
d) मा ३२, ११; १२ । e) बप्रा. द्र. । f) गप्. (पृ३९७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

जन्मान्त°, पूर्ण°, १मेधा°, शा-
म्भवी°, संयोग°

दीक्षित- ४अ°, १मेधा°, योगसा-
म्राज्य°, शाम्भवी°, सर्व°, सर्वनि-
र्वाण°, हंस°

√दीप् आ°, उद्°, परि°, प्र°, सम्°

दीप- अस्नेह°, कलशान्तर°, गन्ध°
घटस्थ°, ३चित्र°, चित्रस्थ°,
चिद्रूप°, १ज्ञान°, तद्°, धूप°, नि-
वात°, निवातस्थित°, प्र°, मन-
प्र...त°, मूर्ति°, लोकैक°, १स्थि-
र°, स्फटिक°

+दीप-वन- मथुरावन°

+दीपा(प-आ)दि- १सूर्य°

दीपक- चतुरान्नाय°, परि°

दीपन- प्र°, सम्°

दीपित- १ज्ञान°, परि°, वाचामगो-
...ल°

१दीप्त- अग्नि°, आ°, २चैतन्य°, प्र°,
भस्मन्°, रविकोटि°, सम्°, सु°,
सूर्यायुतप्रभा°

दीप्ति- १ज्ञान°, यद्°, लघु°, सदा°

+दीप्ति-मत्- -मन्तम् गी ११,
१७.

दीप्यमान- प्र°

+दीप्यमान-गाढतमो(म-उ)-

पम- विस्फुरत्तारकाकार°

दीर्घ- ४अ°, अति°, उदात्त°, द्विगुण°

महत्°, षष्°, ह्रस्व°

दैर्घ्य- द्वादशाङ्गल°

+दीर्घ-निःस्वन-तन्तु- प्रणवपर्य-
न्त°

+दीर्घा(र्ध-आ)ङ्ग- स्व°

√दु(उपतापे)>दाव->+दावा-

(व-आ)ङ्गि- दोष°

दु- √दा (दाने) परि. द्र.

+दुकूल^{11a}- विमलतर°

दुःख- अति°, अनित्य°, अनेक°,
कर्तृत्व°, कर्तृत्वादि°, कर्मन्°,

१काम°, गर्भजन्म...त्मक°,

१क्षुब्ध°, १घोर°, चिन्ता°, जन्म-
न्°, त्रिविध°, दीर्घ°, १द्वैत°, नि-
न्दा°, निःशेष°, पञ्चन्°, परिग्राम-
...र°, १पुत्र°, पृथिवी°, भवि-
ष्यत्°, महत्°, लोक°, शीत°, शो-
क°, संशान्त°, संसार°, सकल°,
सर्व°, सु°, सुख°

+दुःख-दुरित- समस्त°

दुःख-निवृत्ति- अत्यन्त°

+दुःख-सुख- १सम°

+दुःखा(ख-आ)कार- अत्यन्त°

दुःखौ(ख-आ)घ- कण्ठ°

दुघ- √दुह् (परि.) द्र.

दुन्दुभि- कामदेव°, १शङ्ख°

२दुर्-आचार- सु°

दुर्-आत्मन्->+दौरात्म्य- २संदेह°

दुर्-इत- -तानि मउ २, ७५^b. [°त-
अखिल°, दुःख°, सकल°, समस्त°,
सर्व°]

१दुर्-ग- गप्. पृ४०२ द्र.

२दुर्-ग- महत्°, सर्व°

३दुर्-ग->दुर्गा- अग्नि°, अमर°,
गणपति°, चण्ड°, २जल°, द-
रुढेश°, भूत°, लक्ष्मी°, वडवा-
नल°, वन°, सर्व°, स्थल°

+१दुर्-गन्ध->+दुर्गन्ध-ता- खेद°

२दुर्-गन्ध^d-

दुर्गि- -र्गिः मना १, ७°.

+दुर्-ज्ञेय- अति°

दुर्-दर्श- सु°

+दुर्-निर-ईक्ष- सु°

+दुर्-बल->+दौर्बल्य- हृदय°

दुर्-बोध- सु°

+दुर्-मनस्->दौर्मनस्य- दुःख°

दुर्-लभ- अति°, अत्यन्त°, मुनि°, सु°

दुर्-वासना- अज्ञादि°

दुर्-वासस्- २संवर्तक°, श्वेतकेतु°

√दुल्ल>दो(ल)>ला- रत्नजटित°

+दुश्-चर- अति°, सु°

√दुष्>दूषि प्र°, सम्°

दुष्ट- ४अ°, अनेकदोष°, जाति°
स्थान°, सर्प°, सर्व°

+दुष्ट-कारण-जन्य->दुष्ट-
कारणजन्य-स्व- ४अ°

दुष्ट-ग्रह->+दुष्टग्रह-मन्त्र-
यन्त्र-तन्त्रो(न्त्र-उ)च्चाटिनी-
प्रेरित- परकृत°

+दुष्ट-दैत्य-दानव- सर्व°

+दुष्ट-नाग- अनन्तादि°

+दुष्ट-प्रदुष्ट-, +दुष्ट-मृग- सर्व°

+दुष्ट-वाच्- वश्य...दि°

+दूषयत्- ४अ°

दू(षक)>षिका- अश्रु°

+दूषित- कीटकेशादि°, रागादिक्लेश°
रोगादि°, विषसंसर्ग°, सम्°

+दूषिन्- ५कन्या°, १विष°

दोष- ४अ°, अनेक°, अज्ञ°, अन्यस्मृ-
...श°, अब्रह्मजन्मन्°, १अस्त°,
उद्गीथ°, कफादि°, कर्मन्°, काम-
क्रोध°, कामरागादि°, कार्परय°,
कृमि°, १कोटि°, क्षणिकत्वादि°,
क्षीण°, गुण°, जड°, जन्म...
दुःख°, १जाति°, तद्°, तपःक्षीण°
तुन्द°, वृष्णा°, १त्वच्°, देह°,
दैत्य°, घातुगत°, निर्°, पङ्क्ति°,
पञ्चन्°, पर°, पुरुषार्थत्वादि°,
बहु°, बाह्य°, १बीज°, ब्रह्महत्या-
दि°, महत्°, लोभादि°, वक्त्र°,
वात°, १विष°, विषमासन°, ६स°
सङ्ग°, सर्व°, २स्पर्श°, स्मृत्यनव-
काश°, स्वपत्न°

+दोष-दृष्टि- संसार°

दु(सु)>ष्-कर- अति°, सु°

+दु(सु)>ष्-कर्मन्- कुत्सित...न्त°

दु(सु)>ष्-कृत- चक्षुःप्रतिरोधक°,
वि°, सुकृत°

+दुष्कृत-वारण- मत्°

दुस्-तर- महापापाब्धि°

+दुस्-तर- संसार°

दु(स्)>:-स्वप्न- संसाररात्रि°

√दृह प्र°

१दृग्- ४अ°

२दृग्- २दधि°, १मधु°

+दृग्-दोहिन्- ४अ°

+दृग्-रस- गोरस°

दृग्धरस-धृतरस-दधि-
रस-नवनीतरसा(स-आ)द्य- सु-
खसंभोज्य°+दृग्,वा- १काम°, भक्तकाम°,
१सर्वकाम°

+दृह- इष्टकाम°, १काम°

दोह- गो°, १दृग्°

+दोहिन्- २दृग्°

दुहितृ- ३दक्ष°, २सुत°

+√दृ प्र°

दूत- अग्नि°, अनन्तक°, कर्कोटक°,
गुलिक°, तक्षक°, नागक°, २पद्मक°
पर°, १पौरुड्कालिक°, महापद्म-
क°, वासुकि°, राङ्गक°, १शिव°दूर- ४अ°, अति°, आचारविद्या°,
कर्माचारविद्या°, जाति...गोत्र°,
दारापत्य...दि°, वि°, सु°

दूर-दृष्टि- भूतभवि...ज्ञान°

+दूर-स्थ-श्रवण- भूतभवि...न°

दूर्(र्व)>र्वा- नव°

दूषयत्-, दूषित-, दूषिन्- √दृष्
(परि.) द्र.

+√दृ,>दर-,दरुव्य- आ°

१-२दृढ^b-

दृति- √दृ (परि.) द्र.

√दृप् सम्°

दृप- १काम°, चित्त°, निन्दा°,
ब्रह्मकुल°दर्पण- १चित्त°, चित्त°, दीप°,
मलिन°, १वज्र°, सम्°

+√दृभ्,>दृब्ध- सम्°

√दृश्,>दर्शि, दिदृक्ष् अनु°, आ°,
उदुद्°, उप°, नि°, परि°, प्र°, सम्°

+२दर्श- आ°, दुर°

+दर्शक- महेन्द्रजाल°

२दर्शन^d- ४अ°, अद्वैतात्मन्°, अने-काद्भुत°, अनु°, अनुवृत्ति°,
अन्तर्लक्ष्य°, अन्त्यज°, अभेद°,
अमल°, अवकाश°, अष्टाङ्ग°,
आचार°, आत्मन्°, आनन्द°,
उत्सव°, उपसंहार°, क्लकुरुचक°,
कार्य°, घटमठाकाश°, चन्द्र°,
जगद्वैचित्र्य°, जराम...म्य°, जा-बाल°, तत्तल्लक्ष्य°, तत्त्व°, तत्त्व-
ज्ञानार्थ°, तद्°, तदूर्ध्वस्थसत्त्व°,
तद्गति°, तद्भूप°, तल्लीला°, तल्लोक°,
दूर°, दृश्°, दृश्य°, देवता°, देवो-त्सव°, देहान्तर°, दोष°, द्रव्य°,
द्रष्टृ°, नाना°, नासाय°, नि°, नि-मीलित°, निर्वाण°, प्रत्यक्ष°,
प्रारब्धसं...म्य°, प्रिय°, २फल°,
बाध°, विम्बप्रतिविम्ब°, १ब्रह्मन्°भस्मन्°, भस्मरुद्राक्षरण°, भूत°,
भूयस्°, भ्रान्ति°, महालीला°,
महावनवि...ला°, मिथ्या°, युक्ति°रज्जुसर्प°, २रमणानन्द°, रुद्राक्ष°
लोक°, विनाश°, वृश्चिक°, व्यक्त°,
शरीराभास°, श्रीराम...प°, श्रीशै-ल°, सत्त्व°, सदान...प°, सद्यस्°,
सम्°, १सम्°, सर्वार्थ°, सिद्ध°,
सु°, सूर्यच...ल°, स्फटिकलोहि-त°, स्वप्न°, स्वलोक°, स्वात्मन्°
दर्शनीय- ४अ°

दर्शयत्- उप°

दर्शित- गुरु°, प्र°

+दर्शिन्- एकात्मन्°, तत्त्व°, तद्°,
१देव°, पार°, १भय°, यथाभूतार्थ°यथावस्तु°, विशेष°, शरीरनाश°,
दृशयत्- उप°

दर्शित- गुरु°, प्र°

+दर्शिन्- एकात्मन्°, तत्त्व°, तद्°,
१देव°, पार°, १भय°, यथाभूतार्थ°यथावस्तु°, विशेष°, शरीरनाश°,
दृशयत्- उप°

दर्शित- गुरु°, प्र°

+दर्शिन्- एकात्मन्°, तत्त्व°, तद्°,
१देव°, पार°, १भय°, यथाभूतार्थ°यथावस्तु°, विशेष°, शरीरनाश°,
दृशयत्- उप°

दर्शित- गुरु°, प्र°

१सम्°, सूक्ष्म°

+दर्शिवस्- तत्त्व°

+दिदृक्ष>क्षा- सार°

दृश्- ४अ°, अक्षि°, आत्ममात्र°,
इदम्>ई°, जडाजड°, तमस°,
तद्>ता°, त्रि°, १त्वा°, नासाय°प्रतिबन्ध°, १मा°, यद्>या°,
वमितर°, शत्रुमित्रसमान°, शा-ख°, संविद्°, सम्°, १सम्°, सर्व°,
सहस्र°, गुर्व°, स्वप्न°, स्व्°,
हेयादेय°+दृग्-वायु-चलना(न-आ)-
भाव- अल्पमूत्रपुरीष°+दृश- अन्य>न्या°, इदम्>ई°,
तद्>ता°, भगवत्°, भवा

(<१भवत्-), यद्>या°, ५स°

दृशि->+दृशि-रूप-वस्तु- नि-
स्तुल°

+दृश्य सम्°

दृश्य- ४अ°, अक्षिदृश्°, अग्न्यो-

न्य°, अशेष°, चित्त°, चित्तान्तर°,
तद्°, दृश्°, द्रष्टृ°, १मनस्°,
सर्व°, स्वप्नद्रक्चित्त°

दृश्यमान- ४अ°

दृष्ट- ४अ°, परि°, पूर्व°, प्रमाण°,
विधि°, स्वप्न°+दृष्ट-गोचर-, दृष्ट-पूर्व-, +दृष्ट-
वाह्या(ह्य-आ)त्मन्- ४अ°+दृष्टा(ष्ट-अ)क(ईक)- -क(ईक)म्
पारा १७.दृष्टा(ष्ट-अ)न्त- तर्क°, प्रतिज्ञा°,
सु°, १हेतु°

+दृष्टान्त-हेतु- मिथ्या°

दृष्टि- ४अ°, अखिल°, अनात्मन्°,
अन्तर्°, अन्तर्वर्तिन्°, अमा°, अ-मृत°, आगतर°, उभयैक्य°, एक°,
एकतर°, १काम°, २कु°, कृत°,
१कृपा°, १चल°, १ज्ञान°, तत्त्व°,
दृष्टि- ४अ°, अखिल°, अनात्मन्°,
अन्तर्°, अन्तर्वर्तिन्°, अमा°, अ-मृत°, आगतर°, उभयैक्य°, एक°,
एकतर°, १काम°, २कु°, कृत°,
१कृपा°, १चल°, १ज्ञान°, तत्त्व°,
दृष्टि- ४अ°, अखिल°, अनात्मन्°,
अन्तर्°, अन्तर्वर्तिन्°, अमा°, अ-मृत°, आगतर°, उभयैक्य°, एक°,
एकतर°, १काम°, २कु°, कृत°,
१कृपा°, १चल°, १ज्ञान°, तत्त्व°,
दृष्टि- ४अ°, अखिल°, अनात्मन्°,
अन्तर्°, अन्तर्वर्तिन्°, अमा°, अ-मृत°, आगतर°, उभयैक्य°, एक°,
एकतर°, १काम°, २कु°, कृत°,
१कृपा°, १चल°, १ज्ञान°, तत्त्व°,
दृष्टि- ४अ°, अखिल°, अनात्मन्°,
अन्तर्°, अन्तर्वर्तिन्°, अमा°, अ-

a) भावे कर्मणि वा कृत् । b) गप्. (पृ ४०५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) भावे करणे वा कृत् । d) भावे करणे कर्तरि वा कृत् । e) कर्तरि करणे वा कृत् । f) गप्. (पृ ४०७) यनि. शोधः द्र. ।

तथा°, तद्°, तादृशलीला°, तिर्य-
गूर्ध्वमधस्°, उरु°, दूर°, दोष°,
नासाग्र°, परमात्मन्°, परमार्थ°,
पराच्°, प्रत्यच्°, बहिस्°, बाह्य°,
१ब्रह्मन्°, ब्रह्मविद्°, भेद°, भूम-
ध्य°, वस्तु°, व्यावहारिक°, शास्त्र°
शुद्धात्मन्°, संसार°, संकल्पन°°,
२सांख्य°, हर्षामर्ष°°°°°°°°°°
म°°°°°°°°°°

दृष्टि-गो-चर- रदर्शन°

+दृष्टय(धि-अ)मृत-स्व°

दृष्ट्वा ४अ°

दृष्टय-अनु°

दृष्टृ- ४अ°, अन्य°, उदुद्°, उप°,
तद्°, सर्व°

√दृह> १दृढ- ४अ°, आसन°, सु°

दाढ्य-सङ्गावभावना°

+दृढ-कारिन्-तद्धर्म°

+दृढ-कौपीन-काठिन्य°

दृढ-भावना-नासाग्रदर्शन°

दृढ-व्रत-पाशच्छेद°

दृढा(द-अ)ङ्ग-अल्पमूत्रपुरीष°°

दृढा(द-अ)भ्यास-एकतत्त्व°, प्रा-
णायाम°

+दृढा(द-अ)सक्त-अन्यधर्म°

√दृ, > दारि वि°

+दारुण-चार°, सु°

+दार्य, +दृति-वि°

देवना-, देवप्रस्थ-, *देवया-, देव-
हार-√दिव् (*बधा.) परि. द्र.

देशयत्-, देशिन्-, देश्य-, देश्य-
देष्टुम्-, देष्टृ-√दिश्(परि.)द्र.

देहा-√दिह्(परि.)द्र.

√द्वे>दा(शोधने), >+दात-अव°

√द्वौ>दा(अवखरडने) अनुसम्°,
अव°, वि°

+५द-१अङ्ग°, १वर°°

+३दान-वि°

+दित-अनुसम्°

दिति- ४अ°

+दैतेय-१देव°

दैत्य-दुष्ट°, मयुकै°°°°°°

दोस्(>र)->+दोद्-दण्ड-प्रचण्ड-

दण्ड°, शरभसा°°°°°°

+दोद्-युग्म-प्राञ्जलीकृत°

दोहिन्-√दुइ(परि.)द्र.

दौरात्म्य-दुरात्मन्-(परि.)द्र.

दौर्यल्य-दुर्वेल-(परि.)द्र.

दौर्मनस्य-दुर्मनस्-(परि.)द्र.

√द्युत्, >द्योति आ°, प्र°, वि°

+द्युत्-, +द्यु(त>)वा-वि°

द्युति-अपरिमित°, अमित°, दीप्ता-
नलार्क°, १नील°, परम°, प्रति-
बिम्बसम°, वन्धूकपुष्प°, महत्°,
मुख°, सूर्यकोटि°

+द्योत*-२ख°, प्र°, वि°

द्योतमान-कालानलसम°, प्र°, वि°

+द्योतयितव्य-वि°

द्योतित-आ°, तत्प्रणाम°°°°°°
प्र°, मणि°

द्युम्भ-इन्द्र°, वृष्ट°, भूरि°, घु°

द्रव्य-गन्ध°, गोमय°, दृश्°, १देव°,
पर°, योगाङ्ग°, स्नान°

+√द्रा नि°, प्र°

+द्र-इदम्°

+द्रा-नि°, हरि°

+द्राण-प्र°

√दु अनु°, अप°, अभि°, आ°, उप°,
प्र°, वि°, संप्र°

द्रव-उप°, शुद्धश्लेष्मन्°

+द्रवण-आ°

+दु-मित°

दुत->+दुत-हेमन्-मूषास्थ°

+दुव्य-अभि°

दु->दु-म- ४कल्प°, तट°, महत्°,
विदुम्°, २दुर°

+दुम-वन-मथुरावन°°

√द्रह>+दुह- ४मित्र°

द्रोह- ४अ°, जरा°, ४मित्र°

द्रोहिन्- ४अ°

+√*द्रेष्(=√दृश)>द्रेश्य- ४अ°

२द्रोण-भीष्म°

द्रार-अदृष्ट°, कर्तृत्व°°°°°°ति°, प्राण°,
चक्षुस्°, जिह्वा, १त्वच्°, नामरूप°

मृत्यु°, श्रोत्र°, सर्वपापविनाश°

द्रार-अग्नि°, अधस्°, अल्प°, ईशान°,
ऊर्ध्व°, एकादशन्°, कर्णाक्षिना-

सापुट°, २कु°, २कुबेर°, कृत°,
गन्ध°, गृह°, गोपुर°, चतुर्°,
जन्मन्°, तत्कथा°, तत्प्रकाशित°,
तद्°, तमस्°, दशन्°, दशम°,
द्वादशन्°, नवन्°, नाडी°, निर्ऋति°

पर°, पश्चिम°, पाताल°, पूर्व°,
१ब्रह्मन्°, १मध्यम°, १मनस्°,
महत्°, सुख्य°, मूत्र°, १मोक्ष°,
१यम°, योनि°, लोक°, वदन°,
१वरुण°, वायु°, सप्तन्°, सप्तम°

सर्व°, सिद्धि°, सुषुम्ना°, सूक्ष्म°,
१सूर्य°, स्वर्ग°, १हृद्°

+द्वार-भित्ति-तद्°

द्वि-अनुदात्त°, सोमसूर्य°

द्वन्द्व- ४अ°, कटि°, १जित°, नष्ट°,
निर्°, नेत्र°, पाणितल°, पादाम्भो-

रुह°, भावाभावादि°, सर्व°, हन°

द्वय- ४अ°, अंस°, अंसक°, अक्षर°,
अह्युष्ट°, अनुष्टुम्°, अमृतबीज°,
अयन°, अयुत°, अर्ण°, ऊर्ण°, ऋ-

तु°, १कर्ण°, कार्य°, २काल°, १कु-

राडल°, २कुर°, १कूर्च°, कूर्चबीज°

कूल°, १कोटि°, कोदण्ड°, कोश°,
खरड°, गवाक्षक°, १गुह्य°, गृह°,
२चरणा°, जङ्घा°, ३जय°, जातु°,
तद्°, १तार°, ४तार°, दण्ड°,
दिन°, दोष°, नर°, नामन्°,
निर्°, नेत्र°, पक्ष°, पट°, ४पट्ट°,
पद°, १पद्म°, २पल°, पाणि°, पा-

द°, पादतल°, १पार्श्व°, २पार्श्व°,
पीतवर्णा°, पुट°, बाहु°, बिन्दु°

भुज° , भुवनेशी° , भूमिका° , मन्त्र°
मानयष्टि° , माया° , मार्ग° , मास° ,
सुक्रायु°... स्त्री° , १ सुहृत्° , मूलमन्त्र°
रन्ध° , १ वर्ण° , शक्ति° , शक्तिका° ,
शरीर° , शाटी° , श्रीमद्° , श्रोत्र° ,
सत्कवाट° , १ सन्ध्या° , संबोधन° ,
सूतक° , स्वाहापद° , हन° , १ हेतु°
+ द्वय-कर- शुभ्राभ्रा... म्म°

द्वा-त्रिंशत्- षोडशन्°

१ द्वात्रिंशद्-अक्षर- इत्यादि°

द्वात्रिंशदक्षर(र-अ)न्त-

दशाक्षरादि°

द्वा-दशन्->द्वादश->द्वादशी-
-शी तु १०?° . [°न्- चतुर°° ,
मात्रा°]

द्वादश-क- दिन° , ध्यान°

द्वादशक-स्थान- -ने ऊ
६४ : ६ .

+द्वादश-नामन्- केशवादि°

द्वादश-प(ल>)ला°

+द्वादश-मास- माघादि°

+द्वादश-वन- १ आदि°

द्वादश-श्रेणि- श्रीरसिकशिरो-
मणि°

+द्वादश-स्थल- ललाटादि°

+द्वादश-स्थान- अवशिष्ट°

२द्वादशा(श-अ)क्षर- राम° ,
वासुदेव°

द्वादशाक्षर-मन्त्र- नारायण-

वासुदेव° , महाविष्णुरामकृष्ण°

+द्वादशा(श-आ)दित्य- अष्ट-
वसु°°

द्वि-ज- १ देव° , मृग°

द्वि-तथ- रवीन्दुमण्डल° , समाधि°

द्वि-ता->१ द्वैत- ४अ° , विजातीय°

+द्वैत-निर्भास- गलित°

द्वि-तीय- -यः तु ७?° ; -याय अशि
५ , ३९^d . [°य- ४अ° , प्रथम° ,
स्वस्वेतर°]

+१ द्वितीय(-क)- ४अ° , २ वेद°

२ द्वितीय-क°-

+द्वि-त्व- अस्तमित°

द्वि-धा^२>+द्वैध- छिन्न°

+द्विधा-त्रिधा-शान्ति- -न्तिः

च २१ : १७^f .

+द्वि-प- गन्ध°

द्वि-रात्र- एकरात्र°

+द्वि-र-आवृत्ति- पदद्वय°

१ द्वि-वर्ण-> द्विवर्ण-मा(?मि-

[त>])ता^२-

द्वि-विध->द्वैविध्य- अन्योन्य...

क्र° , प्रकृतिपुरुष°

+द्वि-षट्क- प्रत्याहार° , प्राणायाम°

+द्वि-सप्तक- सर्वसंचोभिरप्यादि°

द्वीप- १ जम्बू° , नवरत्न° , रत्न° , २ श्वे-
त° , सप्तन्°

+द्वीप-समुद्र- सप्तन्°

+द्वीपा(प-अ)यन->द्वैपायन^१-

३ कृष्ण°

+द्वय(द्वि-अ)णुक- अप° , आकाश° ,
तेजस्° , पृथिव्यते... श° , पृथ्वी° ,
वायु°

+द्वय(द्वि-अ)र्ण- अति°

+द्वय(द्वि-अ)हन्->द्व्याहिक->
द्व्याहिक-ज्वर^२- . अतिभयंकर-
ज्वर°°

√द्विष् प्र° , वि°

द्विष्- इन्द्रिय° , ऋण°° , प्रत्यक्ष° ,
१ ब्रह्मन्°

द्विषत्- प्र°

द्वेष- इच्छा° , १ काम°° , त्रिपुराङ्गो-
दूलन° , निन्दा°° , पृथिवी°° ,

१ राग° , वि°

+१ द्वेषण^१- , +२ द्वेषण^१- , +द्वेषिन्-
वि°

+द्वेषट्- ४अ°

द्वेष्य- सुहृद्°°

द्वैपायन^१- द्वि- (परि.) द्र.

ध

१ ध^१

२ ध- √धा (परि.) द्र.

१ धन^१- एक° , कलत्र°° , तपस्° , देव-
गुह्यादि° , निर्° , न्यायार्जित° , पर°
पशु° , महत्° , विद्या°

धन-द^२- शक°°

+धन-धान्य-सत्पुत्र-कलत्र-हय-

भू-गज-पशु-महिषी-दासी-

दास-योग-ज्ञान- सकल°

धनिक- निर्°

+धनै(न-ए)षणा- दारैषया°

धन्य- ४अ°

२ धन- √धा (परि.) द्र.

३ धनं-जय- २ नाग° , प्राण°°

धनुस्- इक्षु° , पाश°° , मणि°° , ६ स°

धनुर्-धर- महत्°

+धनुश-शूलक- ६ स°

धन्वन्- अति° , सु°

+धन्विन्- -न्विने वपू १ , १^k .

धमनिका- √ध्मा (परि.) द्र.

+धमिल्ल^१- पुष्पदामयुक्त°

१ धरण- √धृ (परि.) द्र.

२ धरण- √धृ (<>ह) परि. द्र.

१-२ धरा- √धृ (परि.) द्र.

धर्तुम् √धृ (<>ह) परि. द्र.

१ धर्तु- √धृ (परि.) द्र.

२ धर्तु- √धृ (<>ह) परि. द्र.

a) °श इति पा.१ यनि. शोधः द्र. । b) गपू. (पृ ४१२) पदद्वयात्मकः शोधः द्र. । c) पा.१ स्त्रीत्वपरः शोधः द्र. । d) तैसं १, ८, ६, १ । e) गपू. (पृ ४१५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) गपू. (पृ ४१६) द्विधा- इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । g) गपू. (पृ ४१६) 'द्विवर्णमात्' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । h) भावे कृत् । i) कर्तरि कृत् । j) गपू. (पृ ४१७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । k) गपू. (पृ ४१८) 'धन्वन्-> -न्वने' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । l) व्यु. ? ।

धर्ष- √धृ (परि.) द्र.

१ धवल्- कुन्देदु°, गोक्षीर°

धवली √कृ(करणे) > धवली-कृत-
महादृहास°

धस्- नाउ. द्र.

√धा(*बधा), > धापि, धातु मउ २०,
३९°; धेहि मैत्रि ६, ३५°^५।
[अधिवि°, *अन्°, अनुवि°, अनु-
सम्°, अन्तर्°, अपि°, अभि°,
अभिनि°, अभिसम्°, अभ्या°,
अव°, आ°, उप°, उपनि°, उपस-
मा°, उपा°, तिरस्°, नि°, परि°,
पि°, पुरस्°, प्र°, प्रशि°, प्रति°,
प्रतिवि°, प्रत्या°, वि°, विनि°,
व्यव°, व्या°, श्रध्°, संनि°, सम्°,
समभि°, समा°]

+*दध- आ°

दधत्- अनुसम्°, वि°, श्रध्°

+दधातृ- आ°

दधान- आ°, श्रध्°, सम्°, समा°

१ दधि-> दधि-वामन°- लक्ष्मीना-
रायण°

२ दधि- २दुग्ध°, पुष्प°°, १मधु°°

+दधि-रस- गोरस°, दुग्धरस°°

दधि-वन°- मथुरावन°°

+*दिध- आ°

+२ध- अभिसम्°, सम्°

+२धन- नि°

+धस्- पुरस्°

+धा°- अद्°, अभि°, क्षुत्°, रत्न°,
वसु°, श्रध्°, सर्व°

+धातव्य- आ°

धातु- अन्न°, त्रि°, १त्वच्°, पर्वत°,
प्रत्यच्°, रत्न°, सप्तन्°, सर्व°

धातु-मय- निरस्त°

+धातुम् समा°

धातृ- इन्दु°°, जगत°, वि°, सम्°

१ धान, नी°- अनुसम्°, अन्तर्°, अभि°

अभिसम्°, अभ्या°, आ°, क्षुर°,

तिरस्°, १धन°, नि°, परि°, प्र°,

प्रशि°, प्रत्या°, यातु°, राजन्°,

वसु°, वि°, व्यव°, संनि°, सम्°,

समा°, हविस°

२ धान > ना°- वट°

धान्य- १धन°, पशु°, विद्या°,

सर्व°

+धापयित्वा नि°

धामन्- -मनि मना १, ४९° [न्-

त्रि°, निष्क्रिय°, परम°, परि°,

१ब्रह्मन्°, रङ्ग°, वागीश्वरी°, १वि-

श्व°, सप्तन्°, स्व°]

+धाय अधिवि°, अनुसम्°, अन्तर्°,

अपि°, अभि°, अभिसम्°, अव°,

आ°, उपनि°, उपसमा°, नि°,

परि°, पुरस्°, प्रशि°, वि°, संनि°,

सम्°, समा°

+धायस्- १विश्व°

+धालु- श्रध्°

+धि- अनुसम्°, अन्तर्°, अप°,

अभिसम्°, अम्बु°, अम्भस्°,

अव°, आ°, इष्टु°, उद°, उपा°,

२जल°, नि°, परि°, प्र°, प्रतिवि°,

वाद्°, वि°, व्या°, शोव°, संनि°,

सम्°, समा°

+धित- सु°

+धु-, +धुस्- सम्°

+धेय- अनुसम्°, आ°, वि°

१ हित- अन्तर्°, अपि°, अभि°,

अभिनि°, अभ्या°, अव°, आ°,

उप°, उपनि°, उपसमा°, १शुहा°,

तिरस्°, १देव°, नि°, पि°, पुरस्°,

प्रतिवि°, वि°, विनि°, व्या°, ८स°,

संनि°, सम्°, समभि°, समा°

+धामक°- हरि°

१ धार°-

धारा- अमृत°, अमृतमधु°, असि°,

चिचक्र°, २जल°, तैल°, धर्मामृत°

निशित°, मात्रा°, योगनिर्मल°,

४रक्त°, शत°, सर्प°, सहस्र°

+धारा-गृह-शीकर-वर्षण- नि-

दाघविनोदन°

२ धार- √धृ (परि.) द्र.

३ धार- √धृ (<>ह) परि. द्र.

धारक-, धारय-, धारयितव्य-, धा-

रिन्-, धार्ये √धृ (परि.) द्र.

√धाव्(गतौ), धावति वृप् २, १४९^५।

[अनु°, अनुवि°, अभि°, उप°,

परि°, प्र°, प्रति°, वि°

धावत्- उप°

१ धावन°-

√धाव् (शुद्धौ) निर्°

+२ धावन- पाद°, दन्त°

धौत- निर्°

धीर- धर्म°, सर्वतस्°, सुखदुःखदशा°,

स्वयम्°

धैर्ये- १मनस्°

√धु व्या°

धुर- धुरम्°, सु°

धुरं-धर- रामकार्य°

धुर- ४अ°, वि°

√धू(*बधा.) अव°, उद्°, निर्°, वि°,

विनिर्°

+धव°- ६मा°, वि°

धूत°- अव°, उद्°, निर्°, वि°

+धूय वि°, विनिर्°

+√धूप > धूप- गन्ध°, गन्धसार°,

पुष्प°, वक्त्र°°

धूप-दीप- अनन्त°

धूपित- अपानोद्धार°

धूम- ४अ°, गो°, नीहार°, रजस्°, वि°,

शिवाभि°, ६स°

a) ऋ ६, ४७, ११। b) 'देहि' इति तैसं ७, ५, २४, १। c) भावे कर्तरि वा कृत्। d) भावेऽधिकरणे कर्तरि वा कृत्। e) गप्. (पृ४२०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। f) 'योनौ' इति शौ २, १, ५ (तु. टि. वैप१ यस्था.)। g) व्यु.। h) तैत्रि ८, ८, १। i) धा. प्रीयने वृत्तिः। j) धा. कम्पने वृत्तिः।

+धूम-(क)- ४अ°

धूम- सु°, स्फटिक°, २हरित°

+धूम-लोचन- २मधु°

+धूमलोचन-वध- हेला-
निर्मित°

धूय √धृ (बधा.) परि. द्र.

+धूर्जटि- चद्र°

+धूलि- उद्°

√धृ.> धारि अनु°, अभि°, अव°,
आ°, उद्°, उप°, निर्°, प्र°,
प्रोद्°, वि°, सम्°

धर- अक्षसूत्राङ्कुश°, अभय-

वरदपद्म°, अम्भस्°, अष्टमहा...

ङ्ग°, अस्त्रि...ङ्ग°, आशाम्बर°,

एकदण्ड°, एकशाटी°, किरात-

रूप°, किराटकुण्डल°, कौपीन-

कन्या°, कौपीनशा...न्या°, गङ्गा°,

गजरूप°, गदा...ञ्ज°, गोवर्धन°,

प्रैवेय...ल°, १चक्र°, चतुर्भूति°,

चापबाण°, जटा°, जटाजूट°,

जलम्°, १जातरूप°, जालम्°

त्रिभुवनधरा°, दरङ्ग°, दरङ्ग-

कमण्डलु°, दुर्, दिव्यमा...र°,

दिव्याम्बर°, धनुर्बाण°, धनुस्°,

धरणी°, धुरम्°, १नानारूप°,

१नानावर्ण°, १नानाशक्ति°, पयस्°

पाशाङ्कुश°, पाशाङ्कुशधनुर्वो-

ण°, पृथ्वी°, १भू°, मूर्ति°,

यथाजातरूप°, ४रमा°, विद्या°,

विराजत्करकमल°, १विश्वरूप°,

वेणुशृङ्ग°, व्याघ्रचर्माम्बर°, व्रत°,

शङ्खचक्र°, शङ्खचक्रगदा°, शङ्ख-

चक्रगदाप...ला°, शशिशकल°,

शिखादिकन्या°, शिवलिङ्ग°, शि-

वव्रत°, शिवाच्यु...भू°, शुभ्रवन्न°,

श्यामवपुस्°, श्री°, सर्वायुध°,

सूर्यकोटियुति°

१धरा- त्रिभुवन°, वसुम्°

+१धरण- जगत्°, वि°

धर(शि)>णी- चतुरस्र°, १तार°

१धर्तु- वि°

धर्म- ४अ°, अनन्य°, अन्तःकरण°,

अन्य°, अरण्य°, अहंकार°, आ-

त्मन्°, आश्रम°, आहाराचार°,

उदर°, १कथा°, कर्मन्°, २काल°,

२कुल°, २कुल°, कैवल्य°, गूढ°,

गृह°, गृहादि°, २घट°, चातुर्वर्ण्य°

चित्त°, जडत्व...त्व°, जरा°,

जाग्रत्स्व...रा°, २जाति°, जाति-

कुल°, तद्°, तमस्°, तीर्थ°,

त्रयी°, १दान°, देह°, नाशैक°,

निज°, पर°, परस्परविरुद्ध°,

पृथक्°, प्रसव°, १मनस्°, १मोक्ष°

यत्किञ्चिद्°, लघ्वादि°, वर्णादि°,

वर्णाश्रम°, वर्णाश्रमोचित°, व-

स्तु°, वानप्रस्थ°, वि°, विरुद्ध°,

वृत्त°, वैष्णव°, व्रत°, शरीरो-

पाधि°, शान्तोदि...श्य°, शाश्वत°

१शिव°, शैव°, ५स°, १सत्य°,

संन्यास°, २समान°, सर्व°, साक्ष्य°

सिद्ध°, स्थानिन्°, स्व°, स्वकृत°,

स्ववर्णाश्रम°, हिंसक°

धार्मिक- ४अ°

+धर्म(-क)- निर्°

धर्म-कर्मन्- वर्णाश्रम°

+धर्मकर्म-रहित-केवल-

मनस्- नसा सार २३०:३!.

धर्म-विहित- -ता: २कौल ४१६.

धर्म-शास्त्र- आगम°, २पुराण°

धर्म-शील- ४अ°

+धर्म-साहित्य- नियत°

धर्मा(र्म-अ)धर्म- वेदोक्त°, संरा-

जमान°

धर्मिन्- -र्मी ससा १, २२!b.

[°न्- धर्म°]

धर्मन्- अनुच्छित्ति°, १चित्°, वि°,

संसार°, संचार°

+२धार- अव°, आ°, १कर्ण°,

जटाभस्मन्°

+धारक- अभिप्रत°, अविद्या°

१धारण- गपू. पृ४२४ द्र.

२धारण- अन्तर्°, अभि°, अव°,

आकाश°, आहरण°, गोपीचन्दन°

जडत्व°, तद्°, तद्भस्मन्°, तिर्य-

क्त्रिपुराङ्ग°, त्रिपुराङ्ग°, दरङ्ग°,

धार्थ°, नासाप्र°, निर्°, पञ्चमूर्ति°,

पादाङ्गुष्ठ°, प्राण°, बहिल...वीत°

बाह्याकाश°, विन्दु°, भस्मत्रि-

पुराङ्ग°, भस्मन्°, भूत°, १मनस्°,

मायाविग्रह°, यथेष्ट°, रुद्राक्ष°,

लिङ्ग°, वायु°, वि°, विभूति°, व्रत°,

शङ्खच...दि°, शिखोपवीत°, सम्°,

सुख°

३धार(रा)>णा- अव°, अवकाश°,

इन्द्रिय°, देह°, ध्यान°, निश्चली-

भाव°, प्राणायाम°, २यम°, २योग°, १श्रुति°

+धारय- अंशु°

धारयत्- अनु°, अव°

+धारयितव्य- वि°

धारित- अन्तर्बाहिस्°

+धारिन्, पी- अङ्कुश°, अनेक-

विहारदेह°, असिकण्टक°, एककौ-

पीन° १कमल°, केश°, केशकज्ज-

ल°, कौपीन...रङ्ग°, जटा°,

त्रिदण्डकमण्डलुशिवयवेष°, त्रि-

दण्डकमण्डलुशिखा...वस्त्र°,

त्रिपुराङ्ग°, त्रिपुराङ्गोर्ध्वपुराङ्ग°, त्रि-

शूल°, धनुर्बाण°, धृतचक्र°,

a) व्यु. ? । b) कर्तार कर्मणि वा कृत् । c) भावे कर्तारि वा कृत् । d) बप्रा. द्र. । =भूमि-, अकारबीजाक्षर- ।

e) गपू. (पृ४२२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) तु. गपू. पृ९५६a । g) अघ° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. १कौल ३:५) । h) °र्मी इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (एतद्वत्तु गपू. पृ४२४b 'धर्मिभूत->-तम्' इति शोधः सुपरिहरः द्र.) । i) गपू. (पृ४२४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

नानाशस्त्र°, पाशपुस्तक°, पुस्त-
काक्षमाला°, प्राण°, ब्रह्माण्डभा-
...प°, भस्मन्°, २भुवन°, महा-
मुण्डमाला°, यज्ञोपवीत°, लिङ्ग°,
लोक°, लोलकुण्डल°, १विश्व°,
वृत्तिप्रतति°, शङ्खचक्रगदाखड्ग°,
श्वेतोर्ध्वपुरङ्ग°, सोमार्ध°

+ धार्यं अव°

धार्य- देवता°, शिरस्°, सम्°

+ धृत्- १विध्व°

१धृत- अव°, अवनि°, करकमल°,
त्रिपुरङ्ग°, पराग°, वि°, शुभ्राभ्रा-
भे...र°, सर्वसाक्षिन्°

१धृति- ४अ°, अम्बरान्त°, अहिं-
सा°, लक्ष्मी°, वि°, विवस्वत्°,
१सत्य°

√धृ(<>ह) उद्°, समुद्°

+२धरण-, +धर्तुम् उद्°

+२धर्तु- समुद्°

+३धार-, +२धृत- उद्°

+धृत्य उद्°, समुद्°

√धृष्> +धर्ष- दुर°, दुरा°

+धृष्- ब्रह्मरूप°, १सर्वशक्ति°

√धे अनु°

धेनु- ४अ°, १काम°, घृत°, तिल°,
दशन°

धेय- √धा परि. द्र.

+धैवत^{१b}- षड्ज°

√ध्मा, > धम् आ°, प्र°, सम्°

धमनि^{१c}- > +धमनि-(क>)का^{१d}-

१पार्ष्व°

+धम- १शङ्ख°

+ध्मात- आ°

ध्माय- आ°, प्र°

√ध्वै> ध्या, धी, ध्यायि, दिध्यास, धी-

महि मउ ३, ६; ८; १०; ११; १३;

१४; १८; त्रिता ३, ३५. [अनु°, अ-

न्तर्°, अभि°, आ, नि°, प्र°, सम्°]

+दिध्यास-, +दिध्यासन-, +दि-

ध्यासितव्य- नि°

१धी- अक्षर°, अनन्य°, १अहम्°,
उदप्र°, एक°, देहादि°, धीर°,
पदार्थ°, पूर्ण°, प्रपूर्णा°, प्रशान्त°,
ब्रह्मकर्मोक्त°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्माव-
लोकन°, महत्°, मूढ°, मौलिस्थ-
...ण°, २योग°, शान्त°, शुद्ध°,
सर्व°, सु°, सुदुःख°, स्थित°, स्वप्न°
+धी-वृत्ति- सर्व°

+ध्या- अभि°

ध्यात- अनु°

ध्यातव्य-, ध्यातृ-, ध्यात्वा अभि°

ध्यान- अकार°, अभि°, अवासन-

मनस्°, अस्खलित...प°, आ°,
आत्मन्°, आनन्द°, एकान्त°,
ऋषि°, ऋध्यादि°, कृत°, रकृ-

ष्ण°, जप°, १ज्ञान°, तत्स्वरूप°,
तद्°, तन्मन्त्र°, तेजस्°, देवान्त-

र°, ध्यातृ°, निरंश°, निर्गुण°,
न्यास°, परमात्मन्°, परिपूर्णा°,
पादाम्बुज°, प्रणवहंसान्तर°,
प्रणवैक°, प्राणायाम°, बहुविध°

१बीज°, १ब्रह्मन्°, भगवत्°,
मकारमूर्ति°, मनन°, १मनस्°,
महत्°, मूर्ति°, यथाभिमत्°, यथा-

भिवाञ्छित°, यद्°, २यम°, २यम°,
२योग°, रतिर...द°, रासादिली-

ला°, विद्या°, विराजू°, २व्रज°,
२शुक्ल°, श्रद्धा°, २श्रवण°, श्री-

राधा°, १श्रुति°, सगुण°, सर्व°,
स्नान°, स्नान°, १स्वरूप°, स्वरू-

पानुसंधान°, स्वाध्याय°, स्वान्त-

र्वि...ल°, हंसार्कप्रणव°

+ध्यान-कथा-सेवा- शिष्टा...ष्ट°

+ध्यान-कीर्तन- १रति°

+ध्यान-बिन्दु^{१d}- कठवल्ली°

ध्यान-योग- महत्°, सुषुम्ना°

+ध्यान-योग-ज्ञान- सर्व°

+ध्यान-लेश- सुषुम्ना°

+ध्याना(न-अ)नुसंधान- ब्रह्म-
प्रणव°

ध्यायत्- अनु°, अभि°

ध्यायमान- अन्तर°, अभि°

ध्यायितव्य- प्र°

ध्यायिन्- अभि°, १सत्°

ध्येय- अभि°, ध्यान°, २योगिन्°

१ध्रुव- ४अ°

२ध्रुव- गपू. पृ४२८ द्र.

३ध्रुव^{१e}- धातृ°

४ध्रुव-> +ध्रुव-तारक- बिन्दु°

५-६ध्रुव- गपू. पृ४२८ द्र.

√ध्वंस अप°, प्र°, वि°

ध्वंस- १बन्ध°

ध्वंसन- प्र°

+ध्वंसमान- वि°

+ध्वंसिन्- प्र°, शुम्भ°

ध्वस्त- अप°, प्रत्यग्ज्ञानशिखिन्°,
वि°, विद्या°

+ध्वस्ति- अन्तराय°

√ध्वज्> ध्वज^{१f}- इक्ष्वाकुवंश°, कद-

त्यर्ध°, १कपि°, कौस्तुभ°, चन्द्र°

छत्र°, पलाका°, महत्°, मूषक°,
वादित्र°, विमान°, वृष°, वृषभ°

+ध्वजा(ज-आ)तपत्र- दिव्य°

√ध्वन् अप°

ध्वनि- २अनाहत°, १ओकार° तत्त-

जन्तु°, प्रणवात्मक°, प्रणवादि°,
मन्द्रमध्यमतार°, मन्द्रमध्यमता-

लज°, मर्दल°, महाभेर्यादिक°,
मेघ°, १शङ्ख°, शब्द°

+१ध्वान्त- अप°

+ध्वाङ्क्त^{१g}- धूम°

२ध्वान्त^{१h}-

न

१-४न गपू. पृ४२९ द्र.

a) भाप. वा नाप. वा । b) व्यु. ? =संगीतस्वरविशेष- । c) भाप. वोपनिषद्विशेष- वा । d) =तदाख्योपनिषद्-
विशेष- । e) व्यु. ? =१काक- । f) गपू. (पृ ४२८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

५न- मउ ९, ४१^५.

न-पुनर-भव- -वाय जावा १९.

ना(न-अ)स्ति नास्ति^०

नास्तिक->नास्तिक्य- ४अ^०

नः^b गोपू १^०.

नक्त^५ -कम् नाप १५४ : ३^d. [°क्त-
दिवा^०]

नक्षत्र- -त्राणि छां ८, १, ३. [°त्र-
२ग्रह^०, चन्द्र^०, दीपज्वाला^{००},
२पुराय^०, १सूर्य^{००}, स्फटिक^{००}]

नख^{१५} - ऋक्ष^०, कपाल^{००}, २कु^०, केश^{००}
१त्वच्^०, दशन^०, पृष्ठवंश^०, प्र^०,
मध्यम^०, १वज्र^०

नखा(ख-अ)प्र- आ^०

नगर, री- अयोध्या^०, इन्द्र^०, गान्धर्व^०,
२विदेह^०

नग्न- ४अ^०

नचि-केत->नाचिकेत- त्रि^०

√नट>नट- चाट^{००}

+नट-वेष- धातुप्रवाल^०

+नाट्य- नट^०

√नद^५ (*बधा.), >नादि नि^०, प्रति^०,
वि^०, व्यनु^०

नद^० - नि^०, सरित्^०

नदी- अमृत^०, अमृतकल्लोल^०,
धृततैल^०, महत्^०, विरजा^०, शून्या-
गार^०, १सुधा^०

+नदी-तट- शून्यागार^{००}

+नद्य वि^०

नाट- अकार^{००}, अन्तःप्रणव^०, अ-
भिव्यक्त^०, अमृत^०, ओंकार-वनि^०,
२घण्टा^०, तद्^०, तन्त्री^०, ३ताला^०,
तेजस्^०, नाता^०, नि^०, बिन्दु^०, ब्रह्म-
तारान्तर^०, ब्रह्मप्रणवसंलम^०, ब्रह्म-
प्रणवसंधान^०, भेरी^०, मृदङ्ग^०, मेघ^०

रेफ^{००}, वि^०, विथत्^{००}, वेणु^०, १श-
ङ्ख^०, शङ्खदुन्दुभि^०, सर्व^०, सिंह^०,
सु^०, स्फटिक^{००}

+नाद(-क)- ब्रह्मप्रणव^०

+नाद-कला- सर्व^०

१नाद-बिन्दु^१-

+२नाद-बिन्दु^{१५}- ऐतरेय^{००}

+नाद-लय- सम्यच्^०

+नाद-वत्- ४अ^०

नादा(द-अ)भिव्यक्ति- लघु^{००}

+नादयत्- व्यनु^०

नद्ध- , नद्धि- √नह्(परि.) द्र.

√नन्द, >न्दि अभि^०, आ^०, समा^०

१नन्द, न्दा^b - अभि^०, अलक^०, उप^०,
२योग^०, वृषभानु^०, श्री^०, समा^०,
सु^०

+नन्द-पुर^५- वृषभानुपुर^०

+नन्द-वन^१- मथुरावन^{००}

२नन्द- गू. पृ४३२ द्र.

+३नन्द^१- ४अ^०

नन्दक- कौस्तुभ^{००}, १शङ्ख^{००}

+१नन्दन^१- आ^०, १कुरु^०, गौरी^०,
१ज्ञान^०, देवकी^०, नाना^०, नृप^०,
२पवन^०, २रघु^०, वायु^०, हृदय^०

२नन्दन^१-

+नन्दयितव्य- , +नन्दयितृ- आ^०

नन्दि^१- गणेश^{००}, शोभ^०, स्कन्द^०

+नन्दि-सेन^१- गणेश^{००}

+नन्दिसेन-बाण-रावण-

२शिवानन्द^०

नन्दी(न्दि-ई)श्वर->+नन्दी-
श्वर-वत्^१- मथुरावन^{००}

+नन्धा(न्दि-आ)दि-गण-प-

अनन्तपरिपालक^०

+नन्दि-त- आ^०

नन्दिन्- चित्त^०

+नपात्^१- २वत्स^०

नपुंसक- स्त्री^{००}

नभस्->+नभः-क्रम- अन्तःकर^{०००}यु^०

नभो-जल- अधोगामिन्^०

√नम्, >मि अभि^०, आ^०, उद्^०,
उप^०, उपोप^०, परि^०, प्र^०, प्रोद्^०,
वि^०, सम्^०, समुद्^०

नत, ता- आ^०, उद्^०, उप^०, परि^०,
प्र^०, प्रोद्^०, वि^०, सम्^०, समुद्^०

नति^m- उद्^०, प्र^०, वर्मन्^{००}, सम्^०,
१हुं^{००}

नमत्- प्रोद्^०

+नमन-, +नममान- परि^०

+नमयत्- उद्^०

१नमस्^{१५} -मः नी३^{१५}. [°स्- उप^०]

नमस् √कृ(करयो) > नमस्-

कार- गुरु^०, ५न^०, निर^०, प्रदक्षिण^०

नमस्-कृत- सर्वदेव^०, सर्व-

सिद्ध^०, सिद्ध^०

√नमस्य>नमस्य- -स्यस् वे

६, २४^{१०}. [°स्य- सर्व^०]

नमस्यत्- सर्वदेव^०

+नमो(मस्-अ)न्त- प्रणवादि^०

नमामि अ^०, अति^०

+नमित- आलिङ्गनचुम्बन^०

+नम्य अभि^०, प्र^०

नम्र- पक्क^{०००}ष्प^०, पुष्प^०, सतत^०.

+नाम- परि^०, प्र^०

२नमस्^{१५}-

नर- किम्^०, १देव^{००}, १विश्व>श्व^०,
शनि^{००}, सकल^०

नारी- अर्ध^०, सु^०

नर-सिंह->नारसिंह- -हः मना

१, ७^१. [°ह- २मत्स्य^{००}]

a) मा ८, ३६ । b) 'रकृष्ण->ष्णः' इत्यस्योत्तरांशः । c) आन. अपा. । d) अज्याः सं. अपा. ।

e) बप्रा. द्र. । f) गपू. (पृ ४३१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) =तदाख्योपनिषद्-विशेष- । h) बप्रा. द्र. । =कर्तरी

कृत्, व्यसं. । i) भाप. । j) भावे कर्तरी वा कृत् । k) गपू. (पृ ४३२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । l) वैपश् यद्र. ।

m) भाप. वा १नमस्^१ वा । n) आन. अपा. । o) मन^० इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अज्या.) । p) तु. गपू.

पृ ४३५ k । q) 'नृसिंहाय' इति मउ ३, १७ ।

१नरक- महत्°

+नरका(क-आ)दि- पापफल°

२नरक->नरका(क-आ)न्तक- पद्मा-
न्तक°°नरा-शंस->नाराशंस->नारा-
शंसी- वाकोवाक्य°°

+√नर्द, >नर्द- वि°

+नल्लिन^a- तुलसी°, श्रीमद्रमारमरा°१नव^b- अभि°

+नव-जपा- विधृत°

+नव-नीत^c- २दधि°°, १मधु°°+नवनीत-रस- गोरस°°, दुग्ध-
रस°°

+नव-नूतन-नवीयस- १किशोर°

+नवीन- घनवियु...प°

+नवीयस- १नव°°

२नव- √नु(परि.) द्र.

नवन्- त्रि°

+नव(क)-आधार°, ६स°, सोमांश°

+नव-गुण- नवब्रह्माख्य°

नव-ग्रह- भूत°°

नवति- पञ्चन्°, षष्°

+नव-निधि- अष्टसिद्धि°, शङ्खप...दि°

नव-ब्रह्मन्- अष्टमहाभैरव°

नव(म->)मी- महत्°

+नव-रत्न- रफटिक°

+नवरत्न-निधि-कोश- हरित-
ह...ङ्ग°

+नव-रात्रि- १वसन्त°

१नव-शक्ति- वामादि°

+१नवा(व-आ)क्षर°->+नवाक्षरा-
(र-आ)न्त- एकाक्षरादि°२नवा(व-आ)क्षर^d->+नवाक्षर-
मन्त्र- दक्षिणामूर्ति°, रामकृष्ण-
हृयग्रीव°

+√नश(व्याप्तौ) अनुवि°, उपसम्°

√नश(अदशने), >नाशि, >नाशयति
रुजा ४९°. [उप°, परि°, प्र°,

प्रवि°, वि°]

नश्यत्- वि°

नश्यर- ४अ°, वि°

नष्ट- ४अ°, परि°, प्र°, वि°, समस्त°

+नष्टि- वि°

नाश- अन्तःकरण°, अभिक्रम°,

अरूप°, अविद्या°, असत्य°, आवृ-

ति°, उपाधि°, कर्मन्°, १कृतकर्म-

न्°, कृत्यादि°, क्रिया°, रघट°,

चित्त°, चिन्ता°, तद्°, तिमिरान्ध°

देह°, दौर्भाग्य°, द्रव्य°, द्रय°, पाप-

रोग...धि°, २पुर°, प्र°, प्रतिभा-

न°, प्रारब्ध°, प्रारब्धप्रतिभास°,

प्रियत्व°, १बन्ध°, बुद्धि°, भूत°,

१मनस्°, लिङ्ग°, वलीपलित°,

२वासना°, वि°, विघ्नौघ°, शरीर°,

शोकमो...स°, संकल्प°, सर्व°,

सर्वविष°, सुदुःख°, स्व°, स्वभ...°

ख°, स्वात्मन्°, स्वार्थ°

+१नाश(क)- ४अ°

+२नाशक- अर्थ°, ब्रह्महत्यादिपाप°,

भूतपि...क°, सर्वपाप°

नाशन^e- अलक्ष्मीमल°, कण्ठदुःखौ-

घ°, कलिकल्मष°, जन्म...व्या-

धि°, ज्ञानविज्ञान°, १पाप°, ब्रह्म-

नाडीमु...ल°, २भव°, भावना-

त्रय°, महापातक°, १मृत्यु°, वास-

नात्रय°, वि°, विषविघ्न°, संकल्प°,

संसार°, संसारार्णव°, सर्वसंदेह°

+नाशिन- ४अ°, अन्तर्मल°, उप°,

दारिद्र्य°, दुष्टग्रह°, दुःस्वप्न°,

पातक°, १पाप°, १मृत्यु°, रोग°,

वि°, १विष°, सर्वाधिव्याधि°

+नाश्य- प्रतिनियतकारण°

√नह् अभि°, अव°, आ°, उप°, परि°

+नह- अभि° अव°, आ°

+नह्ति- वि°

+नह- उप>पा°

+महन- अभि°

+नाह- उप°, परि°

+नहुष^f- सुद्युम्न°°

१नाग- इन्द्र°, दुष्ट°, दैत्य°, नर°,

२पौरुङ्कालिक°, महत्°, १मुद्रा°,

३शेष°

नाग-क- अनन्त°°

२नाग- २कूर्म°, प्राण°°

३नाग- अष्टन्°

४नाग- एलापत्रक°

नाचि->नाचि(क)- त्रि°

नाट्य- √नट्(परि.) द्र.

नाडि, डी^g- अस्थि°, १कूर्म°, चन्द्र°,

तद्°, २दक्ष°, दशन्°, द्वादशन्°,

नाना°, ४पिङ्गल°, पूषायशस्वि-

नी°, प्रति°, प्रतिशाखा°, १ब्रह्मन्°,

१मधु°, मध्य°, महत्°, वात°, सर्व°

१सव्य°, सव्यदक्षिण°, सुधुम्ना°,

सूक्ष्म°, १सूर्य°, स्व°

नाडि(क>)का^h- दशन्°

+नाडी-व्रण- क्लिप्त°

नाडी-सहस्र- शाखा°

√नाथ>नाथ- ४अ°, अधि°, अना-

थ°, गण°, गोपी°, जगत्°, नवन्°,

भूत°, १मनस्°, यामिनी°, २रघु°,

षष्ठीश°

नादयत्- √नद्(परि.) द्र.

नाना*->+नाना-गण- अनन्त°

+नाना-गण-प- गणेशकुमा...न्त°

+नाना-उयोस्न- पीतरङ्गतरङ्गित°

+नाना(ना-आ)स्म-भेद- देवतिर्य-

...पाधि°

नाना-स्व- ४अ°

+नाना-नन्दमा(न-आ)तीत- ४अ°

+नाना-पुर(>)री- इत्यादि°

+नाना-मङ्गल-वाद्यं- दिव्य°

+नाना-रेखा- केसरमृग...न°

नाना-लता- निकुञ्ज°

a) व्युः। b) गपू. (पृ४३४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। c) द्विस.। d) बस. (गपू. पृ४३५ यनि. संख्या-
निर्देशः द्र.)। e) अख्याः शै. अपा.। f) भावे कर्तरि वा क्तु। g) वैपश् यद्र.। h) वप्रा. द्र.। =धमनि-, २घटिका-।

+नाना-लीला-विग्रह-विलास-वि-
लासिता(त-आ)नन्दा(न्द-आ)-
विर्भाव-चरित्र- शिवानन्द-
मयदिव्य°

नाना-सखी- इत्यादि°

नाना-स्वरूप- २काल°

नाभि- अंशु°, आस्य°°, ऊर्ग°, गल°°
गुद°°, १त्वच्°°, निम्न°, पाद°°,
पृष्ठवंश°°, मस्तक°°, मूलाधार°,
रथ°, १हृद्°, १हृद्°°

+नाभ- १कमल°, तन्तु°, १पद्म°,
हिरण्य°

+नाभि(-क)- आकाश°

+नाभि-कमल- गम्भीर°

+नाभि-शूल^१- शिरःशूल°°

+नाभि-हृद्- गम्भीर°

+नाभ्य(भि-अ)न्त- जान्वादि°

नाम- √नम् (परि.) द्र.

नामन्, मनी- ४अ°, अदस् > असौ°,
अपर°, अश्वत्थ°, अहंकार°, १अह-
म्°, आत्मन्°, ओषत्रय°, कर्मन्°,
१काम°, कृष्णादि°, केशवादि°, रघ-
ट°, जगत्°, तद्°, त्वद्°, द्वादशन्°

२धरा°, नपुंसक°, नवनाथ°, नाडी°

नारसिंहचक्र°, पञ्चन्°, पट°, परमा-

शृत°, परि°, बीजयन्त्र°, २वृन्दा°,
भविष्यच्चि...दि°, मद्°, १म-

नस्°, २मरुत्°, मैत्र्यादिवासना°,
१मोक्ष°, रहस्य°, रहस्योपनि-

षद्°, १राम°, वज्रपञ्जर°, वसु°,
विचार°, शान्त°, १शिव°, शिवो-

मास्कन्द°, श्रीराधाकृष्ण°, धरणा-

वतिकोटि°, संप्रज्ञात°, सर्वे°,
सहस्र°, साध्य°, स्त्री°, हरि°

+नाम(-क)- ४अ°, अचलुःश्रोत्र°,
असंसक्ति°, १शङ्ख°, सामान्या-

सङ्ग°, सुषुप्तपद°, सुषुप्तिपद°,
१स्थावस्त्रङ्गम्°

नाम-गोत्र- ४अ°

नाम-धेय- ६स°

नाम-रूप- २समान°

+नाम-रूप-कर्मन्- समस्त°

नाय-, नायन-, नाय्य- √नी(परि.) द्र.

नारङ्ग- मणि > र्णी°

नारद- तुम्बुरु°, सनक°°

+नारद-परिव्राजक^१°- २प्रश्न°°

+नाराच^२-

+नाराच-निकर-पात- निरर्वाध°

नारायण- अग्नि°, अण्डपरिपालक°,
अनिरुद्ध°, १आदि°, कठवल्ली°°,
कीलक°, त्रिपाद्विभूति°, नर°,
पाद°, पादवि...रठ°, महत्°,
मायोपाधिक°, लक्ष्मी°, विरिञ्चि°,
शरणागत°, श्री°, श्रीमत्°, सा-
क्षात्°, १सूय°

नारायण-बीज- प्रणव...टित°

+नारायण-धन्त्र- महायन्त्रमय...
रठ°

+नारायणा(ण-अ)वतार- एकैक°

+नारायणा(ण-अ)ख^१- पाशुपताख^२°°

+नारि > रीकेल^१- मोदक°°

नाल- उत्पल°, ऊर्ध्व°, १ज्ञान°, तद्°,
पीठ°, प्र°, १ब्रह्मन्°, लिङ्ग°,
१वज्र°, ६स°

+नाल(-क)- विद्युदाभास°

+नालिकेर^१- आम्र°°, एला°°,
प्रियङ्गु°

१-२नाशक-, नाशिन-, नाश्य-

√नश्(अदर्शने) परि. द्र.

ना(स >)सा- पाद°°, १याम्य°, १शु-

क°, ३श्रवण°°, १सव्य°

नासिक, का- ४अ°, अग्र°, आ-

स्य°, मुख°, लम्ब°, १हृद्°

+नासिका-शूल^१- शिरःशूल°°

नासा(सा-अ)प्र- अग्रम् जाद ३,
६, २°.

+नासाग्र-दृश- समग्रीवाशिरस्°

नासा-पुट- १कर्ण°°, २दक्ष°, २वाम°

+नासा-युगल- सुवृत्त°

नासी(र >)रा- विराजा°°

नाह- √नह(परि.) द्र.

नि(?) गोच ६७ : ४.

+निकट^१- गुरु°

+निकाय^१- १देव°, यथा°

नि/कित्(निवासे) > +नि-केत-

४अ°, चलाचल°, वृक्षमूल°

+निकेत-निवासिन्-, +निकेत-

वासिन्-, +निकेत-स्थिति-४अ°

निकेतन- ४अ°, अवाधकरहःस्थ-

ल°, विष्णुलक्ष्मी°, शिवशक्ति°

नि-कुञ्ज- ग्रथित°, मन्दार°, वानीर-

श्रेणि°, १शारद°, सहस्र°

+निकुञ्ज-गृह- निभृत°

निकुञ्ज-लीला- संसिद्ध°

नि/कृत् > न्त > +नि-कृन्त(क >)-

का- मधुकै...त्य°

+नि-कृन्तन- नख°, नखकेश°, मा-

याजाल°, सर्वाधौघ°

नि/कृष् > +नि-कृष्ट- विविध°°

+नि/कृ > नि-कर- २कर°, नाराच°°

मुनिवर°

नि-खिल- > +निखिल-परमानन्द-

पूर्णा(शी-अ)मृता(त-अ)न्विध-

प्रोद्यत्°

नि/गद् > +नि-गद्- चेतोऽर्पण°

नि/गम् > नि-गम- निखिल°

नि-गर्भ^१- ६स°

नि/गुह > नि-गूढ- ढः शा ३२३:

४^१. [ढ- सर्वभूत°]

+निगूढ-भाव-संमोहित- अत्यन्त°

नि/ग्रह > नि-ग्रह- अरि°, इन्द्रिय°,
चित्त°, १दृढ°, देहेन्द्रिय°, विषये-

न्द्रिय°, स्वान्तरिन्द्रिय°

नि-घ्न- नि/हर् (परि.) द्र.

a) = तदाख्योपनिषद्-विशेष- । b) व्यु. ? = १बाण- । c) बप्रा. द्र. । = व्यसं., तदाख्योपनिषद्विशेष- । d) व्यु. ?

= नास्ति केन्त- । e) अज्याः यो. अया. । f) पा. ? '१नित्य- > -स्यम्' इति शोधः द्र. । g) व्यु. ? । h) अज्याः सं. अया. ।

+नि/चि(चयने) > +नि-चय- क-
ल्यान्त°, चिन्ता°, पदार्थ°, परमा-
...नी°, परिपूर्णा°...नी°
+नि-चित- सुवर्ण°
नि/चृत् > नि-चृत्- > नि-चृद्-
गायत्री- मृगु°
नि-चेतन- सचेतन°
+नि/ज् > निज्य निर्°
रनिज- ५न°
+निज-बोध- निरवधि°
+निज-मन्द-कटाक्ष- अमोघ°
+निज-माया- प्रगलित°
+निज-मूर्ति- रचैतन्य°, निरतिशया-
...न्द°
+निजमूर्त्या(ति-आ)कार- तद्वि-
लक्षण°
निज-स्वरूप- कालत्रयाबाधित°
+नितम्ब(१६)- १पृथु°
१नित्य- ४अ°, अध्यात्म°, १आदि°,
२काल°, तपस्°, निरुाम°, निरु-
पम°, निरुपाधिक°, पञ्चदशन्°,
महत्°
नित्य-क्रीडा- वृन्दावनेश्वरी°
नित्य-ता- १अणु°, संबन्ध°
नित्य-नृप्त- आनन्दसागर°
नित्य-त्व- अध्यात्मज्ञान°, उभय°,
बुद्ध्यादि°, शब्द°
+नित्य-परिजन- अनन्त°
नित्य-मुक्त- अनन्त°, परानन्त°
नित्य-वैकुण्ठ- अविद्यासा...त°
+नित्या(त्य-आ)त्म-विलापन-
औदासीन्य°
नित्या(त्य-आ)नन्द-रूप- संवलित°
+नि/द् अति°, उप°
रनिदाघ- श्वेतकेतु°, २संवर्तक°
नि-दान- समस्तदिव्यमङ्गल°
नि/दृश् > नि-दृशन- स्वप्न°
नि/द्रा > नि-द्रा- ४अ°, अजाज्य°
अविवेक°, अस्वप्न°, आधारश-

क्ति°, उद्°, १काम°, १चुध°,
२जाग्रत्°, २जाग्रत्°, प्रमाण°,
१बीज°, मूर्च्छा°, २योग°, विगत°,
शिवयोग°, शीतोष्णाहार°, सुख°,
सुरतकला°, सुरतान्त°, स्वप्न°,
स्वल्प°
नि/धा > नि-धन- ४अ°, अव्यक्त°,
१आदि°, दुःख°
नि-धाय गर्भे २०°
नि-धि- अङ्गवासु...दि°, अमृत°,
१कच्छप°, करुणा°, कल्याण°,
किशोर...ला°, केवलरस°, गरुड°
१ज्ञान°, ज्ञानयोग°, तपस्°, दया°,
नवन्°, नवरत्न°, नानासुरतानन्द°
१पद्म°, परमानन्द°, १ब्रह्मन्°,
मकर°, ३महापद्म°, सुकुन्द°,
१मोक्ष°, लक्ष्मी°, विद्या°, १शङ्ख°
शङ्खपद्म°, ६स°, सर्ववेदतपस्°,
हिरण्य°
नि-हित- आद्यन्त°, बुद्धियुहा°
नि/ध्यै > दिध्यास > नि-दिध्या-
सन- देहन्दि...ह°, २श्रवण°°
नि/नद् > नि-नाद- कांस्यघराटा°,
२घराटा°
√निन्द् वि°
निन्द, न्दा- ४अ°, ५न°
निन्दा(न्दा-आ)त्म-संस्तुति-
तुल्य°
निन्दा-स्तुति- तुल्य°, ५न°
+निन्दक- रवेद°
निन्दित-, निन्द- ४अ°
नि/पत्(गतौ) > नि-पात- -ताव वरा
२, ६५. [त- ऊर्ध्वशक्ति°]
नि/पीड् > +नि-पीडन- रसनाप्र°
नि/पुण् > नि-पुण- सु°
नि/बन्ध् > नि-बद्ध- सु°
नि-बन्धन- अभिव्यक्ति°, चन्द्रसूर्य°,
प्रकृति°, १रूप°
+नि-बन्धि(न्)नी- स्थिति°

+नि/वर्ह > नि-बर्हण, णी°- मृत्यु-
जन्मन्°, सर्वशत्रु°
+नि-बर्हि(न्) > णी- सर्वशत्रु°
+नि/भा > नि-भ- अपरिमितद्युति°,
इन्द्रनील°, ईश्वर°, चन्द्रो-
दय°, चिद्रूपविलास°, तुलाकोटि°,
१पद्म°, पद्मसूत्र°, पयःफेन°, विस-
तन्तु°, रुक्माम्बर°, विद्युत्°,
शङ्खध्वनि°, शतचन्द्र°, शशिन्°,
सजलप्रा...जि°, समुद्यदके°,
१सूर्य°, स्थिरदीप°, स्तुहिपत्र°
नि/मज्ज् > नि-मज्ज- अज्ञानपङ्क°,
आनन्दरस°
नि-मज्जन- तत्पादुका°, देहशू...ता°
निमित्त- ४अ°, अनादिवि...ग°,
उत्पत्तिमात्र°, देश°, कर्मन्°, द्वि°
निर°, पुरुषविमोक्ष°, प्राणयात्रा°
वत्सविद्युद्धि°, ६स°, संयोग°,
सर्व°, सृष्टि°
नैमित्तिक- १नित्य°, निमित्त°
+निमित्त(-क)- अविवेक°, लिङ्ग-
शरीर°, सर्वप्रवृत्तिसर्वहेतु°
नि/मिष् > नि-मेष- उन्मेष°, कला°
नि/मील् > नि-मीलन- अक्ष्यादि°
नि-मीलित- उन्मीलित°
निस्र- भेद°, विवेक°
+नि/यन्त्रि (<यन्त्र-) > नि-यन्त्रि-
त- पुरयपाप°
नि/यम्(यमने) > नि-यत- ४अ°,
प्रति°, स्वभाव°
+नैयस्य- वेदोक्तवि...ष्ठान°
नि-यन्तृ- धामत्रय°, पञ्चकृत्य°,
बुद्धीन्द्रिय°, सर्व°
नि-यम- मेन नापर. [म- ४अ°,
अन्यतर°, असु°, आसन°, उपा-
दान°, एकादशी...त° २काल°,
चातुर्मास्यव्रत°, जपपूजादि°, तद्°
प्रकाश°, प्रत्यक्षत्व°, बाह्यबुद्धि°,
२यम°, व्रत°, षट्पदार्थ°, सु°,

स्थान°, स्वरूपशक्ति°
 +नि-यामक- ४अ°, मन्त्रशक्ति°
 निर्-अङ्कुश- निरतिशय°
 निर्-अतिशय- निरन्तर°, निरुपम°
 निस्तरङ्ग°
 +निरतिशय-परमानन्द- अद्वैत°
 +निरतिशया(य-अ)द्वैत-परमानन्द-
 लक्षण-पर-ब्रह्मन्- अधिष्ठान-
 विशेष°
 १निरतिशया(य-अ)नन्द- ब्रह्मा-
 नन्दमय°, लीलाग्रहीत°
 +निरतिशयानन्द-मय- केवल-
 मन्त्रमय°, पुराकल्पितमन्त्रमय°
 +निरतिशयानन्द-समुद्र- अन-
 न्त°
 +निरतिशया(य-अ)नन्दमया-
 (य-अ)मृत-नदी- सूर्यमण्डला-
 न्त...निर्गत°
 निर्-अन्तर- १ब्रह्मानन्द°
 नैरन्तर्य- दीर्घकाल°
 नि/रम्>नि-रत- अभ्यासमात्र°,
 गुरुशुश्रूषा°, मदेकपूजा°, वेदान्ता-
 भ्यास°, व्याख्यान°, १सत्कर्मन्°,
 स्वकर्मन्°, स्वदार°, स्वधर्म°,
 स्वरूपध्यान°
 निर्-अवद्य- निरुपम°
 +निर्-अवधिक- निरुपम°
 निर्-अवयव- निर्गुण°
 +निर्(इ/अ)स्(क्षेपण) > निर्-अस-
 न- अरिष्ट°, क्षुधादि°, १शिव°
 निर्-अस्त- ४अ°, अनेकलोभादि°
 +निरस्त-सर्व-क्लेश-कश्मल-
 अखण्डानन्द°
 +निर्-भास- आरोपिताशे...स्तु°,
 तद्°
 निर्-आकार- ४अ°, १केवल°, वाचा-
 मगोचर°, साकार°
 निर्-आ/कृ(करणे) > +निरा-करण-
 ४अ°, १सर्वकर्मन्°

निर्-आमय- सर्व°
 निर्-आलम्ब- ईशावास्य°, साल-
 म्ब°
 निर्-आश- ४अ°
 निर्-आशा-> +नैराश- उपाधि°
 +निर्-आ/हृ > +निरा-हारक- अ-
 थर्वण...भि°
 निर्/ईक्ष, निरीक्षेत जाद ३, ६, २५.
 +निर्-ईक्ष- दुर्°
 +निर्-ईक्ष्य- ४अ°
 नि/रुध् > नि-रुद्ध- ४अ°
 नि-रोध- ४अ°, उपराग°, चित्तवृत्ति°
 जन्मन्°, तद्°, दृष्टि°, पूर्व°, प्रति-
 संख्या...ख्या°, प्राणस्पन्द°,
 वृत्ति°, व्युत्थान°, सर्व°, स्वगमन°
 नि-रोधक- तद्°, मार्गत्रय°, वायु-
 मार्ग°
 नि-रोधन- तद्°, पादाङ्गुष्ठ°, प्राण°,
 प्राणस्पन्द°, १मनस्°, वाङ्मनः-
 प्राण°, वायु°, श्रवणमुख...सा°,
 श्रोत्र°, सर्वद्वार°
 +नि-रोधिन्- अन्धकार°, १मनस्°
 निर्-उप(मा)म- निरन्तर°
 निर्-उपाधिक-> +निरुपाधिक-
 संविद्- वित् भा २७^b.
 नि/रूप् > पि > +नि-रूपण- ४अ°,
 १प्रश्न°
 +नि-रूप्य- ४अ°
 निर्-ऋति- इन्द्र°, शक°
 निर्/गम् > निर्-गत- सूर्यमण्ड-
 ला...ष्ठ°, स्वर्°
 +निर्-गमन- धूम°
 निर्-गुण- सगुण°
 +निर्/ग्रह > निर्-ग्राह- परिणा-
 मापरान्त°
 +निर्/घुष् > निर्-घोष- महावा-
 वादित्र°
 +निर्-घृ(णा)ण-> नैर्घृण्य- वैषम्य°
 निर्-जन- चिरशून्य°

निर्भर- चिदानन्दरस°, जलाधि°,
 तदङ्कारान्त°, शून्यागार°
 निर्/णी(<नी) > निर्-णय- आ-
 त्मन्°, एकजीवादि°, परमात्तर°,
 पुरुषसूक्तार्थ°, प्रत्यक्ष°, सर्वशा-
 स्त्रार्थ°, हंमपरमहंस°
 निर्/दिश् > निर्-देश- भेद°
 +निर्-देश्य- ४अ°
 +निर्/धाच्(शुद्धौ) > निर्-धौत-
 समाधि°
 निर्/धू > निर्-धृत- १ज्ञान°, मोह-
 जालक°, समाधि°
 +निर्धृत-कलमष- तीर्थ°
 निर्/धृ > धारि > निर्-धारण-
 तद्°, तदभाव°
 निर्-भय- अति°
 निर्-भर- आनन्दरस°, परमानन्द°,
 पारावारानन्दरस°, ब्रह्मानन्दरस°
 निर्-भाग-> निर्भाग-त्व- तद्°
 +निर्/भास् > +निर्-भास- अर्थ-
 मात्र°, १द्वैत°
 निर्/भिद् > +निर्-भिण्ण- ४अ°
 +निर्/मथ् > निर्-मथन- १ज्ञान°,
 ध्यान°, १मनस्°
 निर्-म(ल) > ला' - ला सार २८३:
 १६. [°ळ- अति°, अत्यन्त°,
 अनियामकत्व°, १नित्य°, प्रकृति°
 बुद्धि°, २योग°, सु°, स्निग्ध°]
 निर्/मा(माने) > निर्-माण- जगत्°
 नानाविचित्रजगत्°, भोगायतन°,
 यन्त्र°, समस्तवे...र°
 निर्-मित- काष्ठादि°, तन्तु°, १देव°,
 प्राकर्म°, १शिव°, हेला°
 निर्-माल्य- १अज्ञान°, १शिव°
 निर्/मुच् > मोक्ष > निर्-मुक्त- अ-
 शेषपाप°, कार्यकारण°, कार्यकार-
 णकर्मन्°, क्षयातिशय°, २चैत्य°,
 जन्तुशैवाल°, जरामरण°, दम्भा-
 हंकार°, दृश्यदर्शन°, द्वन्द्वमोह°

पापमल°, १भय°, शर्करापांसु°,
संसक्ति°, समस्तपाप°, १सर्व-
कर्मन्°, सर्वपाप°, सर्वाशुभव°,
साधन°, हेयोपादेय°
+निर्-मोक- १अहि°, सर्प°
निर्-मोक्ष- स्वदेहमल°
निर्-मूल-> निर्मूलि > +निर्मू-
लन- अशुभकर्मन्°, कर्मन्°,
शुभाशुभकर्मन्°
निर्/यस्> निर्-यास- १मूल°°
+निर्/या > पि > निर्-यापण-
२काल°
+निर्-लिप्त- अन्तर्°
निर्/वच्> निर्-उक्त- ४अ°
+निर्-उक्ति- ऋक्त्रिक°
+ १निर्-वचन-, > +निर्वचनीय-,
+निर्-वाच्य- ४अ°
+निर्/वर्ण> णि> निर्-वर्ण-
४अ°
निर्/वा, > वापि > निर्-वाण-
४अ°, ऐतरेय°, १ज्ञान°, निर्म-
ल°, १ब्रह्मन्°, रक्तशुक्लमिश्र°,
६स°, सर्व°
+निर्-वापण- भवसंताप°
निर्-वास(ना>)न-> +निर्वास-
नी/भू > निर्वासनी-भाव-
१मनस्°
निर्-विचिकित्स- श्रवणमनन°
निर्/विद्(लाभे)> निर्-विण्ण-
४अ°, ५न°
निर्-विशेष- परम°
निर्/वृ(वरणे)> निर्-वृत्त- सु°
निर्-वृत्ति > +निर्वृत्ति-वाचक- कः
गोपू १°
निर्/वृत्त > +निर्-वर्तक- क्रिया°
+निर्-वृत्ति- ४अ°, क्रिया°, निर्वा-
ण°, १भाव°
+निर्/हृ> निर्-हरण- श्रम°

नि/ली> नि-लय- ४अ°, द्वारका°,
ब्रह्माण्ड°, भूमध्य°, हुतवह°
नि-लयन- ४अ°
+नि-लीन- पुलिन°
नि/वस् (निवासे), निवसेत् नाप
१९९ : ३°.
नि-वास- २कु°, जगत°, तन्मुद्रा-
...निन्°, सर्वभूत°
+नि-वासिन्, नी- निकेत°, न्यग्रो-
धान्त°, वृन्दावन°, ब्रह्मरन्त्र°,
भद्रकृष्ण°, महावृत्त°, स्वर्ग°
नि-वात- १गुहा°, मनःप्रवा...प°
नि/विद्(ज्ञाने)> नि-वेदन- ग्रहण°,
१पाच्य°, फलपात्र°, महादान°,
सर्व°
नि-वेद्य ४अ°
नि-वेद्य-> नैवेद्य- २पल°, मूर्ति°
+नैवेद्य-पीठा(ठ-आ)वरण- म-
हत्°
नि/विश> वेशि > नि-वेशि(त>)-
ता- नारायण°
नि/वृ(प्रतिघातने)> वारि > +नि-
वारण- आपद्°, परविद्या°,
पाशुपत...ख°, महाभय°, २सर्व-
ग्रह°, सर्वविघ्न°, सर्वशत्रु°, सर्वा-
घोष°
+नि-वारिन्- सकलदुरित°
नि/वृत्त > नि-वर्तक- ४अ°, लक्ष्या-
लक्ष्य°, सर्व°, १सर्वकर्मन्°, सर्व-
क्रियाकारक°, सर्वमूलाविद्या°
+नि-वर्तिन्- नग्न°
नि-वृत्त- १आशा°, १नित्य°, प्राणि-
हिंसा°, सर्वसङ्ग°
नि-वृत्ति- अत्यन्त°, अन्य°, आत्म-
भावभावना°, औत्सुक्य°, कर्तृत्वा-
दिदुःख°, क्लेशकर्मन्°, २जुत्पिपा-
सा°, चक्षुरोग°, तद्°, तदुभय°,
तमस्°, दुःख°, दौर्भाग्य°, निः-

शेषदुःख°, पञ्चभ्रम°, पुनर्जन्मन्°,
बुद्धिज्ञोभ°, १मनस्°, विश्वमाया°
संसार°, संसारार्ति°, सर्व°, सर्वपा-
प°, सर्वरोग°, सर्वाघोष°, सर्वैतन्°,
सृष्टि°, स्व°
+निवृत्ति-मार्ग- विमुक्त्यभिमुख°
निशा-> निश- ४अ°, १अहर्°, दिवा°
निशा-कर- दिवाकर°
निशुम्भ- २मधु°°
नि/शो > शि > नि-शित- उपासा°
नि(स्)> श्-चल- अभ्यन्तर°, परि°, सु°
+नैश्चल्य- तद्दृष्टि°
नि(स्)> श्/चि(ज्ञाने)> निश्-चय-
अन्तर्°, आसुर°, एक°, कृत°,
१ज्ञान°, ग्रह...स्त्र°, १दड°,
प्रत्ययानन्द°, १ब्रह्मन्°, वेदान्त°,
संकल्प°, सर्व°, सु°, स्वात्मन्°
निश्-चित- तम् गोउ१५° [त-
४अ°, सु°]
१नि/श्वस् > १नि-श्वास- उ-
च्छ्वास°, १काम°°
निश्वासो(स-उ)च्छ्वास- मूर्छानिद्रा-
मय°
२नि/श्वस्
नि(स्)> श्-शेष-> +निःशेष-कर्मन्-
त्यक्त°
+निःशेष-संकल्प- निरस्त°
नि-पाद्- षड्ज°°
नि/षि(<सि)घ् > नि-षिद्ध- ४अ°
नि-षेध- विधि°
+नि/षू(<सू)द्(हिंसायाम्)> दि >
नि-षूदन- केशिन्°
नि/षे(<से)ष् > +नि-षेवण- अभ-
क्ष्यान्न°, अमृत°
+नि-षेवित- ऋषि°
नि(स्)> ष्-कल- सकल°
नि(स्)> ष्/कृष् > +निष्-कर्ष- द्वा-
त्रिंशत्तत्त्व°

a) बप्रा. द्र. । =भाप., उपनिषद्विशेष- । b) आन. अपा. । c) अज्या : सं. अपा. । d) भावे कर्तरि वा कृत् । e) विसर्गलोप उसं. (पावा ८, ३, ३६) । f) बप्रा. द्र. । =पञ्चमवर्णोपचरित-, संगीतस्वरविशेष- ।

नि(स्<>)ष्-क्रिय- वि°
 +नि-ष्टि- -ष्ट्याः मना २, १३, २९^a.
 नि/ष्टा(<स्था) > नि-ष्ट, ष्टा- अद्वैत°
 अध्यात्म°, आत्मन्°, एक°, गुरु-
 कर्मतीर्थ°, गुरुपाप°, १ज्ञान°, तत्त्व°
 तद्°, तपस्°, द्रव्य°, धर्म°, ध्यान°,
 प्राणायामैक°, १ब्रह्मन्°, २भक्ति°,
 भस्मन्°, मद्भक्ति°, २योग°, सक-
 लमन्त्रजप°, समाधि°, सर्व°, सर्व-
 पाप°, स्वभावैक°, स्वात्मन्°
 नि/ष्टि (>ष्टी) व् > +नि-ष्टीवन-
 हास्य°
 नि(स्<>)ष्/पद्, > निष्-पत्ति- अ-
 मृत°, तज्ज्ञान°, १विज्ञान°
 निष्-पन्न- पूर्व°
 +निष्-पाद्य- ध्यान°
 +नि/ष्प(<स्व) न्द् > १नि-ष्पन्द-
 ४अ°
 २नि-ष्पन्द^b - १चित्°
 नि-स्पृह- अन्य°, सर्वापाश्रय°
 +नि/स्वन् > नि-स्वन- महावा-
 दित्र°
 +नि(स्<>):-सीम- निरवधि°
 निस्/स्था > तिष्ठ > निस्-तिष्ठत्-
 ४अ°
 +नि(स्<>):-स्पृह- सर्व°
 +नि(स्<>):-स्वन् > निःस्वन-
 किङ्किणी...र°, दीर्घ°
 नि/हन् > +नि-घ्न- विषज्वर°
 नि/ह्नु > +नि-ह्नुति- संसार°
 ✓नी > नायि अति°, अनु°, अप°,
 अभ्या°, अव°, आ°, उद्°, उप°,
 उपा°, उपाव°, निर्°, प्र°, वि°,
 विनिर्°, सम्°, समव°, समा°
 नय^d- आचार°, निर्°, प्र°, वि°,
 सम्°
 नयत्- उप°

नयन°- अनेक°, उद्°, उप°, तद्°,
 त्रि°, नासाग्रन्यस्त°, १पद्म°, प्र°,
 रतिभर...लित°, वक्त्र°, ३श्रव-
 णा°, सत्पुराढरीक°, सर्व°, सोम-
 सूर्याग्नि°
 +नयन-त्रय- शशिसू...क°
 +नाय- अश्व°, गो°, १पुरुष°
 नायक- अखिल...रड°, १चक्र°,
 ब्रह्मारड°, मन्त्र°, महाचक्र°, वि°,
 २व्रज°, हरि°
 +नायन- उप°
 +नाय- प्र°
 +नी- १भाम°, १वाम°, सेना°
 नीत- अनु°, आ°, उप°, १नव°,
 निर्°, प्र°, विनिर्°
 नीति- २जाति°, २पुराण°
 +नीय अप°, आ°, उप°, सम्°
 नेतृ- उप°, प्र°, प्राणशरीर°, यज्ञ°,
 विनिर्°
 नेत्र- अग्नि°, १कमल°, चम्पक°,
 १ज्ञान°, त्रि°, २त्वच्°, दीप्त-
 विशाल°, २पिङ्ग°, प्रज्ञा°, बाहु°,
 १यारय°, १रुद्र°, वक्त्र°, १वज्र°,
 विष्णु°, शशिसूर्य°, सर्व°, १सव्य°
 सोमसूर्याग्नि°, सोमार्काग्नि°, रफ-
 टिक°
 नेत्र-द्रव्य- २जाग्रत्°
 +नेत्र-शूल १२- अङ्गशूल°°
 नी[नि/इ (गतौ)], न्येति कौ ३, ३.
 १न्या(नि-आ)य- ४अ°, कुलालच-
 क्र°, निर्देशभृतक°, प्रति°, अमर-
 क्रीट°, २समान°
 २न्याय- जैन°, २पुराण°,
 मीमांसा°, १श्रुति°
 नीच- अति°, उच्च°
 नीड(ळ)- ४अ°, एक°, १ब्रह्मन्°,
 वटाघःकृत°, ५स°

+नीप^१- आम्न°
 नीर- क्षीर°
 +नीरवट^२- आम्न°
 १नील^१- अभिनवजलद°, आरक्त°,
 इन्द्र°, १कद्रु°, श्री°, २हरित°°
 नील-कण्ठ- महत्°
 +नील-ज्योतिस्- चक्षुर्मध्य°
 +नीलज्योतिः-स्थल- चक्षुर्मध्य-
 गत°
 +नील-पीत-रक्त-मणि- नासाभरण°
 नील-मणि- पद्मरा...ल°, हाटकपो-
 घटित°
 नीलो(ल-उ)पल- चम्पक°°
 नी-वार- उदुम्बर°°
 ✓नु अभिप्र°, उप°, निर्°, प्र°
 +२नव- प्र°
 +नु(त)ता- नारद°
 नुत्य अभिप्र°
 ✓नुद् > नोदि अप°, उपसम्°, निर्°,
 प्र°, वि°
 +नुद्- १पाप°
 +नुद- अप°, १पाप°
 +नोद- वि°
 +नोद्य प्र°
 +नोद्य- अप°
 नूत्न- १नव°
 +नूत्न-भाव- १नित्य°
 नृ-> नृ-चक्षस्- -क्षसम् मउ ९, ५९^१.
 नृ-प- अधार्मिक°
 नृ-शंस- ४अ°
 नृ-सिंह- हाथ मउ ३, १७. [ह-
 ४अ°, अति°, नारायण°, २मत्स्य°
 विष्णु°]
 +नृसिंह-ताप(न)नी^१-
 २प्रश्न°°
 ✓नृत् > नृत्थ- उदात्त°, १सुगन्ध°,
 १सुरत°

a) तैत्र्या १०, ११, २ (तु. टि. वैप २, ५६७) । b) गप्. (पृ४६४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) विसर्गलोपः उसं. (पावा ८, ३, ३६) । d) ब्रा. द्र. । e) भावे करणे वा कृत । f) व्यु. ? <नि + अप्- इति MW. = वृत्तविशेष- । g) व्यु. ? = वृत्तविशेष- । h) = वर्षाविशेष- वा तद्वत्- वा । i) तैत्र्या १०, १०, २ । j) = तदाख्योपनिषद्-विशेष- ।

नेमि- अरिष्ट°, एक°, रथ°
 नैयत्य- नि/यम् (यमने) परि. द्र.
 नैराइय- निराशा- (परि.) द्र.
 नैर्घृण्य- निर्घृण- (परि.) द्र.
 नैश्चल्य- निश्चल- (परि.) द्र.
 नोद्- नोध, नोद्य- /नुद् (परि.) द्र.
 नौ- प्रज्ञा°
 न्यग्रोध- आप्र°°, महत्°
 न्य(नि/अ)स्/त्तेपयो>न्य(नि-अ)-
 सन- ४अ°
 न्य(नि-अ)स्त- नासाप्र°, वक्षस्°,
 वामोर°
 न्या(नि-आ)स- १अङ्ग°, अर्धच°,
 २कर°, तुच°, नवाशीति°, पद°,
 पाद°, प्रवृत्त्यालोक°, १बीज°,
 ब्रह्मर्षि°, विद्या°, विद्याराज्ञी°, श्री-
 चक्र°, १षडङ्ग°, षोढा°, सर्व°, सर्व-
 संविद्°, सुदर्शनादि°, स्थानशुद्धि°
 हंस°, हृदयादि°, हृदयाद्यङ्ग°
 +न्यासा(स-अ)धिकरण- मन्त्र-
 जपाधिकरण°
 +न्या(नि-आ)सिन्- षोढा°, हंस-
 षोढा°
 न्यू(नि-ऊ)न- ४अ°
 न्ये(नि-आ/इ)>न्ये(न्या-इ)त्य कौ
 ३, ३.

प

१प>+प-कार- १आकार°
 २प- /पा (पाने) परि. द्र.
 ३प- /पा (रक्षणे) परि. द्र.
 ४प- /पा (*बधा.) परि. द्र.
 पक्ष- अपक्षीयमाणा°, अपर°, अष्टाध्वर°
 आपूर्यमाणा°, उभय°, एकाध्वर°,
 कीट°, १कृष्णा°, चञ्चु°, १त्रिद-
 रष्ट°, दिन°, दुःख°, दैत्य°,
 पुच्छ°, पूर्व°, प्रति°, मित्रारि°,
 १वज्र°, १वार°, वि°, २शुक्र°,
 शुद्ध°, सुवर्ण°, स्व°
 +पक्ष(-क)- २दर्शना°
 पक्ष-चञ्चुक°-
 पक्ष-पात- ४अ°
 पक्षिन्- निरहंकार°, पशु°, मृग°
 +पक्षस्^a- शिरस्°
 पद्मन्- तन्तुकारण°
 पङ्क- १अज्ञान°, अज्ञानमल°, अति°,
 गोपीचन्दन°, २जल°, दार°, बहु°,
 मोह°
 पङ्क-ज- रत्न°, १हृद्°, हृदय°
 +पङ्कजा(ज-आ)सन- सरयू...
 दिका°
 पङ्क्ति- अभिकरण°, गुरु°, प्रति°, प्रस्ता-
 र°, २वासना°, ५स°, सहस्र°, स्तम्भ°,
 /पच् अतु°, परि°, वि°
 पक्क- ४अ°, अत्यन्त°, अनेकज...
 ज°, घृत°, परि°, सु°
 +पक्क-रस- खाद्यपे...विध°
 पक्का(क-अ)ञ- सिद्धाञ°°
 +पच- मृद्°, खवन्°
 पचन- अन्वाहार्य°
 +पचना(न-अ)भि- श्रोत्रियागार°
 +पच्य- अकृष्ट°
 +पच्यमान- सु°
 पाक- अग्र°, कुम्भी°, परि°, प्राकर्म-
 फल°, वि°, खवन्°, स्थाली°
 +पाक्य- बहु°, हेय°°
 +/पञ्च्>+पञ्च-, +पञ्चमान- प्र°
 १पञ्चजन->पाञ्चजन्य- सुदर्शन°
 पञ्चन्- अर्ध°, त्वक्छो...प्राण°, द्वि°,
 स्मितसंपूर्णपञ्चविध°
 पञ्च-क- अंश°, अक्षर°, कर्मेन्द्रिय°,
 २गय°, गुण°, ज्ञानेन्द्रिय°, २त-
 न्मात्र°, नामन्°, पञ्चन्°, प्राणादि°
 भूत°, भूमिका°, १म°, योनि°, वच-

ना...नन्द°, वियदादि°, व्योमन्°
 पञ्च-तन्-मात्र- अहंकारादि°
 पञ्च-दशन्->पञ्चदश- शात् कौ
 १, २°.
 +पञ्च-नामन्- कृष्णादि°
 पञ्च-ब्रह्मन्^a- कठवल्ली°, तार-
 सार°°
 पञ्च-ब्रह्म-मन्त्र°- -न्त्रः(ःन्त्रैः)वपं
 ३११ : २. [°न्त्र- इत्यादि°,
 सद्योजातादि°]
 पञ्च-भूत- ४अ°
 पञ्च-म- -मस् त्रिता २, ५७. [°म-
 ऐन्द्र°, कामिका°]
 +पञ्च-महा-पातक- सद्योत्पन्न°
 पञ्च-महा-भूत- पृथिव्यादि°, पृ-
 थ्व्य...श°
 पञ्च-मुख- चतुर्मुख°
 +पञ्च-मुद्रा- महाचीन°°
 पञ्च-वर्ण->पञ्चवर्ण-रु- पृथिव्या-
 दि°, पृथ्व्य...श°
 १पञ्च-वायु- प्राणादि°
 पञ्च-विंशति->पञ्चविंशक°-
 पञ्चविंशति-वत्सर- गार्हस्थ्यो-
 चित°
 पञ्च-वि(धा>)ध- स्मितसंपूर्ण°
 १पञ्चा(ञ्च-अ)क्षर>री- गरुड°
 २पञ्चा(ञ्च-अ)क्षर- १शिव°
 +पञ्चाक्षर-जप- त्यङ्ग°
 +पञ्चाक्षर-मन्त्र- गरुड°, १शिव°
 +पञ्चा(ञ्च-आ)नन्- पार्ष्वस्थ°
 +१पञ्चा(ञ्च-अ)र्ण^b- १तार°
 २पञ्चा(ञ्च-अ)र्ण^c-
 पञ्चाशत्- एकोन°
 +पञ्चाशद्-अक्षर- २मालुका°
 +पञ्चाशन्- पञ्चन्°
 पञ्ची/कृ(करणे)>पञ्ची-करण-,
 पञ्ची-कृत- ४अ°

a) गपू. (पृ ४७१) यनि. शोधः द्र. । b) वैप१ यद्र. । =पक्ष- । c) 'अर्धमास्यम्' इति जैत्रा १, ५० (तु. टि. वैपर यस्था.) । d) =तदाख्योपनिषद्-विशेष- । e) गपू. (पृ ४७३) प्राति. यनि. शोधः द्र. । f) पा. ? यनि. शोधः द्र. । g) अत्र टि. 'तु. टि. एकत्रिंशक-' इत्येवं शोधः द्र. । h) द्विस. । i) गपू. (पृ ४७५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

पञ्चे(ञ-इन्द्रिय-चक्षुस्^०
 +पञ्चेन्द्रिय-भ्रम-गत^०
पञ्चमान- √पञ्च् (परि.) द्र.
पञ्चाल- रक्षु^०
पञ्जर- १ अङ्ग^०, तन्तु^०, पाश^०, मच्छरी-
 रक^०, १ वज्र^०
 √पट् (वधा.) > पाटि उद्^०, परि^०,
 वि^०
 +१पट- उद्^०
 २पट- २घट^०, तद्^०, २पट्ट^०, २शुक्ल^०,
 संकोचित^०
 +पटल- पादर्वदन्त^०
पट्ट-
 +पाटव- अभ्यास^०
 +पट्ट-ता- क्षेत्रपात्र^०
 +पट्ट-त्व- अनादिवासना^०
 +पटोल- गज^०
 १पट्ट- गपू. पृ ४७६ द्र.
 २पट्ट- पुष्प^०
 ३पट्ट- गपू. पृ ४७६ द्र.
 ४पट्ट- २योग^०, ललाट^०, स्तम्भ^०
 +पट्टा(इ-ञ्)भिषेक- समस्तमो-
 क्षसाम्राज्य^०
 +५पट्ट-> +पट्ट-चतुष्टय- १ट्ट^०
 +६पट्ट- राजन्^०
 +पाटक- उद्^०
 +पाटि- परि^०
 +पाटित- वि^०
 +पाट्य उद्^०, वि^०
 +पट्टण^०- नगर^०
 √पट् परि^०, प्र^०, व्या^०
 पठन- अथर्वणवेद^०, प्र^०
 पठि(त>)ता- २पुराण^०
 +पाठ- तल्लीला^०
 +पाठक- १मङ्गल^०, मन्त्र^०
 +√पण्, >पण- वि^०
पाण्डित- श्रेष्ठ^०
पाण्डित्य- सर्वविद्या^०

√पत् (गतौ) > पाति अनु^०, आ^०,
 उद्^०, उपनि^०, नि^०, परि^०, प्र^०,
 प्रणि^०, वि^०, विपरि^०, व्यति^०,
 संनि^०, सम^०
 पतन्- ४अ^०, आ^०, उद्^०, प्र^०
 पतन- देह^०, प्र^०
 पतित- अभिशस्त^०, आरूढ^०, उद्^०,
 नि^०, म्लेच्छ^०, शूद्र^०
 +पतितुम् उद्^०
 +पत्य उपनि^०, प्रणि^०, विपरि^०
 पात- गर्भ^०, देह^०, नाराचनिकर^०, नि^०
 निर्घात^०, पत्न^०, पिराड^०, प्रणि^०,
 भूमि^०, व्यति>ती^०, संनि^०, सम^०
 +पातन- निशितासिशत^०
 +पातिन्- अनु^०, संसारार्णव^०
पतङ्ग- कीट^०, कृमि^०
 +पतङ्ग-क- तृण^०
पतञ्जलि- > पातञ्जल- जैन^०
 +पता(क>)का- छत्र^०, ध्वज^०
 +पताका-ध्वज-तोरण- ब्रह्मानन्दा-
 तुभव^०
१पति- अधि^०, अज्ञ^०, अम्बिका^०, अव-
 सान^०, अश्व^०, अष्टाशा^०, १ आ-
 दि^०, उमा^०, ऋग्यजुःसा...रस्^०,
 ऋत्-> ऋत्स्^०, ककुद्^०, कमला^०
 काष्ठा^०, गण^०, गृह^०, गो^०, चक्षुस्^०,
 जगत^०, तद्^०, २तारा^०, २त्वच्^०,
 दिश^०, १धन^०, १धरा^०, नर^०,
 निधन^०, निधि^०, नृ^०, १पशु^०, पुष्टि^०
 पृथिवी^०, प्रजा^०, प्रधानक्षेत्रज्ञ^०,
 प्रमथ^०, प्रिय^०, १भवानी^०, सुवस्^०,
 १भू^०, भूत^०, भूर्^०, भूर्भुवःस्व^०,
 मन्तु^०, मही^०, यज्ञ^०, रथ^०, २रमा^०,
 १रुद्र^०, १वाच्^०, वाजिन्^०, १विज्ञा-
 न^०, वृषली^०, वात^०, २शची^०, श्री^०,
 श्रोत्र^०, १सत्^०, सर्वजगत^०, सर्वाम-
 य^०, सीता^०, २सुर^०, स्व^०, हिरण्य^०

पत्नी- स्त्रीम् गर्भ २०^१. [°स्त्री-
 १आशा^०, १राम^०, विष्णु^०]
 +पति(-क>)का- स्वाधीन^०
२पति(२ब्रह्मन्-> -ह्यणः)- -तिम्
 मना २, ३०^१; प्रा १, ६१^१.
३पति(२रै-> रायः)- गपू. पृ ४७८ द्र.
४पति(२वाच्-> वाचः)- -तये व
 ४६५ : ४९^१.
पत्तन- ६स^०
प(त्)>त्र- अब्ज^०, अश्वत्थादि^०, अ-
 ट्टन्^०, असि^०, आग्नेय^०, आनन्द^०,
 उत्तान^०, १कमल^०, खर्जूरताल^०,
 ताम्बूल^०, तुलसी^०, तृण^०, द्वा-
 त्रिंशत्^०, द्वादशन्^०, १पद्म^०, पला-
 श...झ^०, पीठ^०, पुष्प^०, पूर्व^०,
 १फल^०, विल्व^०, भूर्ज^०, १मूल^०,
 वसु^०, शत^०, शतदलपद्म^०, षष्^०,
 षोडशन्^०, स्तुहि^०
 +पत्र-कुसुम-कन्द-मूल-फल-पत्र-
 पुष्प- +पत्र-संख्यान- तद्^०
 √पथ् > पथ- आदित्य^०, उदुद्^०,
 खेचरी^०, चतुर्^०, त्रि^०, दृष्टि^०,
 १देव^०, १ब्रह्मन्^०, मनःशान्ति^०,
 महत्^०, १मोक्ष^०, २योग^०, शत^०,
 शिवपूजा^०, १सत्^०, सु^०, स्त्री^०
 १पथिन्-> १पथ्- पथि अना ३.
 पथ्य- ४अ^०
 पथ्या^१- २सैन्धव^०
 √पद् अति^०, अनुप्र^०, अभि^०, अभिनि^०,
 अभिनिस्^०, अभिप्र^०, अभिसम्^०,
 अभिसंप्र^०, अव^०, आ^०, उद्^०,
 उदुद्^०, उप^०, उपसम्^०, नि^०,
 निस्^०, परासम्^०, प्र^०, प्रति^०, प्रत्या^०
 वि^०, विप्रति^०, व्युद्^०, सम्^०, समा^०
 समुद्^०
 +पत्ति- आ^०, उद्^०, उप^०, निस्^०,
 प्रति^०, प्रत्या^०, विप्रति^०, व्युद्^०,

a) गपू. (पृ ४७६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) =वज्र- । c) अर्थः? । d) व्यु. ? =पत्तन- । e) व्यु. ? ।

f) अज्याः सा. अपा. । g) गपू. (पृ ४७८e) यनि. शोधः द्र. (तु. गपू. पृ ४७७s) । h) तैत्र्या २, १२, १ ।

i) =हरीतकी- ।

सम्, समा, समुद्
 +१पद्- ४अ°, आ°, प्रति°, १युग°
 वि°, सम्°
 पद्- ४अ°, अकर्त्तु°, अक्षर°, अख-
 रडानन्द°, अशिमामादि°, अनन्त°,
 अनानन्द°, अनु°, अमर°, अष्टन्°
 असि°, आत्मन्°, आश्रम°, इ-
 न्द्रादि°, उच्चैः°, उच्छिष्ट°, एक°,
 १कति°, कैवल्य°, गिरिपर्वतसागर-
 र°, गोस्°, चतुर्°, चतुर्थ°, चरम°,
 १जन°, जीवन्मुक्त°, तत्तद्°, त-
 त्वम्°, तद्°, तद्विवर्त°, तीर्थाश्रम°
 १तुर्य°, तुर्यरूप°, तुर्यातीत°, वृती-
 य°, त्रि°, त्वम्°, ६दक्षिणा°,
 हु°, देवी°, देवेन्द्र°, द्वादशान्त°,
 द्वितीय°, १नमस्°, नारायण°,
 निर्वाण°, निर्विकल्प°, निस्त्रैशुराय°
 पञ्चन्°, परम°, परमात्मन्°,
 पर्वतेश°, पाणि°, प्र°, प्रज्ञामेधा°,
 प्रति°, प्रथम°, प्रोष्ठ°, १ब्रह्मन्°,
 ब्रह्मालोक°, ब्रह्मसूत्र°, १भद्र°, भव-
 भयमुक्त°, १भाव°, मद्°, मन्त्र°,
 महत्°, महाज्ञान°, महानन्द°,
 महावाक्य°, महाविराज्, मात्रा-
 लिङ्ग°, मामक°, रक्तशुक्ल°, १राम°,
 लब्ध°, वट°, १वर्ण°, १वर्ण°,°
 विरिञ्चि°, विष्णु°, वैकुण्ठ°,
 शान्ति°, शिवशक्ति°, श्वन्>श्वा°
 षष्°, संविद्°, १सत्य°, सप्तन्°,
 सर्वातीत°, सर्वाभीष्ट°, सायुज्य°,
 सीता°, सुष्ठुप्त°, सुष्ठुप्ति°, स्तन°,
 स्व°, स्वप्रकाश°, स्वाहा°
 पद्-द्वय- निवारय°
 १पद्(वि>)वी- कालपुत्र°,
 १ब्रह्मन्°, मत्सायुज्य°
 पदा(द-अ)न्तर- स्थान°
 पदा(द-अ)र्थ- अन्तर°, घटपटा-
 दि°, जगज्जाल°, तादृश°, पूज्य°,
 भूत°, विस्मृत°, षष्°, षोडशन्°,

सर्वे°
 +पदाथै(र्थ-ए)क- दृढाभ्यस्त°
 पदन- प्र°
 +पद्य अभि°, उपसम्°, प्र°, प्रति°,
 सम्°, समुद्°
 +पद्य- गद्य°, विष्णु°
 +पद्यन्- वि°
 +पद्यमान- अति°, अभिसम्°, आ°,
 उद्°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, सम्°,
 समुद्°
 +पद्म- अनुप्र°, अभि°, अभिसम्°,
 आ°, उद्°, उप°, निस्°, प्र°, वि°,
 व्युद्°, सम्°, समुद्°
 +पद्म-ग- सिद्ध°°
 +पद्मवत्- प्रति°
 १पाद्-
 पाद्- ४अ°, अक्षि°, अधस्तन°,
 अनन्त°, अविद्या°, अष्टन्°, असं-
 ख्य°, आ°, आनन्द°, उत्तान°,
 उद्°, ऊर्ध्व°, एक°, २कति°, २क-
 र°, गुरु°, चतुर्°, चतुर्थ°, जानु°,
 जिह्वा°, तुरीय°, त्रि°, १दक्षिण°,
 दक्षिणोत्तर°, नाभि°, पञ्चन्°,
 पत्रास्तरित°, १पद्म°, पांसु°, पा-
 णि°, २पार्श्व°, पृथिवी°, प्रथम°,
 बाहु°, ब्रह्मविद्या°, भूतादि°, मद्°
 १मध्यम°, महापाताल°, महेश्वर°
 १वाच्°, २वाम°, विद्या°, विश्वत-
 स्°, शिरस्°, शिरस्°, ६स°, सम्°
 १सव्य°, सुविद्या°, २हस्त°, १हृद्°
 २पद्- अनुदातोदात्तद्वि°, अ-
 ष्टन्°, एक°, एकादशन्°, चतुर्°,
 त्रि°, द्वि°, नवन्°
 +पद्-ध(<ह)ति- दुःख°,
 निर्वाणप्राप्ति°
 २पाद्- अष्टन्°, अष्टाक्षर°,
 उभय°, एक°, एकादशन्°, चतुर्°,
 त्रि°, द्वि°, नवन्°, विश्वतस्°,
 २व्याघ्र°, सहस्र°

पाद्-चतुष्टय- २वेद°°
 पाद्-तल-, >पादतल-मस्त-
 क- आ°
 पाद्-त्रय- उपरितन°, विद्यान...
 ख्य°
 पाद्-प- ४कल्प°, विमुक्ति°,
 संसार°, संकल्प°
 +पाद्-पद्म- ध्वजवज्रा... त°
 पाद्-पर्यन्त- जान्वादि°
 +पाद्-मस्तक- आ°
 +पाद्-युगल त्वद्°
 +पाद्-विभूति-वैकुण्ठ- अनादि°
 +पाद्-शीर्ष- आ°
 +पाद्-शूल- अज्ञशूल°, शि-
 रःशूल°°
 +पादा(द-अ)कुली-शूल-
 शिरःशूल°°
 +पादा(द-अ)ङ्गुष्ठ-द्वय- आस्य°°
 +पादा(द-अ)भोहृद्-द्वन्द्व-
 यद्°
 पाद्->पाद्(क)>का- तद्°,
 १त्रिदण्ड°°
 १पाद्य-
 +पादक- उदुद्°, १कुश°
 +पादन- प्रति°
 +पाद्या- उपसम्°, सम्°
 +पादित- उद्°, प्रति°, सम्°
 +पाद्य आ°, उद्°, सम्°
 +२पाद्य- निस्°, समुद्°
 +पाद्यमान- उद्°, प्रति°
 १पद्म- अङ्घ्रि°, अमय°, अष्टदल°,
 अष्टाक्षरी°, अष्टादशदल°, कौस्तु-
 भ°, चतुर्दशदल°, चतुर्विंशति-
 दल°, चत्वारिंशदल°, तद्°, दश-
 दल°, २द्वात्रिंशदल°, २द्वादशद-
 ल°, नवदल°, पञ्चाशदल°, पीठ°°
 पलाश°, पाद°, भूतहृद्°, भूमि°,
 मध्य°, महत्°, १वज्र°, वस्वादि-
 त्यकला°, १शङ्ख°, १शङ्ख°°

शतदल°, शरीर°, षट्त्रिंशद्दल°, षड्दल°, २षोडशदल°, सहस्रदल°, सुदर्शन°, १हृद्°
 पञ्च-ज^१- त्र्यक्ष्ण°
 *पञ्च-पाद- १भद्र°
 पञ्च-राग- १वज्र°
 २पञ्च, ज्ञा- हरि°
 *पञ्चा(घ्रा-आ)स्य-वक्षस्- -क्षाः
 पा ७, ७°.
 ३पञ्च- २स्वस्तिक°
 १पञ्च-क^b-
 ३पञ्चा(घ्रा-आ)सन- बद्ध°
 ४पञ्च- धर्म°, महत्°
 २पञ्च-क^b- कर्कोटक°, दैत्य°, महत्°
 ५पञ्च- गपू. पृ ४८२ द्र.
 *६पञ्च- महत्°
 पद्य, पद्य-पद्यत्-, पद्यमान- √पद्
 (परि.) द्र.
 + √पन्, >पन्थु- वि°
 पनस- एला°
 *पन्थिन्^d- परि°
 पन्न-, पन्नग-, पन्नवत्- √पद्(परि.) द्र.
 + *पम्, >पान्त- आ°
 पथस्- गो°, पुष्प°, २सुगन्ध°
 पायस- सर्पिस्°, सिद्धाक्ष°
 पयस-विन्- सु°
 पयो-धर- पीनवृत्°
 *पयोधर-युग्म- हृदीभू...त°
 *पयो-राशि- परब्रह्मन्°
 १पर, रा°- -रः मउ ९, ४४^f; -रम्
 ते २, ९^g; गोपू १^h. [°र-
 अतिसेवा°, अद्वितीय°, अद्वैत-
 निष्ठा°, अनन्य°, अनुबन्ध°,
 अन्तःस्थसंविन्मात्र°, अन्नपान°,
 अन्नादन°, अन्य°, अन्यथा-
 चार°, अपरोक्षानुभव°, अशुभ-
 क...न°, असंभाषण°, आत्मन्°,
 आहार°, उपवास°, उपादेय°,

एकत्रान्नादन°, एकत्रान्नादन°,
 १काम°, १कालदण्ड°, किंचिद्वि-
 निमय°, क्रयविक्रय°, क्रीडा°,
 १चित्°, चिन्ता°, ३जाति°, १ज्ञान°
 ज्ञानयोग°, तत्क्रीडा°, तत्सेवा°,
 तत्स्वरूपध्यान°, तद्°, तद्ब्रह्मण°,
 तद्ब्रह्मोपनिषद्°, तपोनिष्ठा°, दधि-
 मथनक्रिया°, दास्य°, ध्यानयोग°,
 नामसंकीर्तन°, नृत्य°, परम्°, पर-
 मन्त्रप...टक°, परात्°, पशुपाश°,
 पिठरस्त्र...धन°, पितृमा...न°,
 प्रकृति°, प्रणवकीर्तन°, प्रत्यगभि-
 क्ष°, प्राणायाम°, बहिर्वृत्ति°, १ब्र-
 ह्मन्°, ब्रह्मनिष्ठा°, ब्रह्मप्रण...न°,
 २भक्ति°, भस्मोद्धूलन°, ३भावना°
 भैक्षान्न°, १भोग°, मद्°, मदसूया°
 महाक्रीडा°, माया°, यद्°, योग-
 ज्ञान°, विचार°, विसर्जन°, विहार°
 विहारक्रीडा°, व्यक्ताव्यक्त°, व्यव-
 हार°, व्याख्यान°, शुभाशु...न°,
 श्रीकृष्णाख्य°, संविन्मात्र°, १स-
 त्य°, सन्मात्रैक°, सेवा°, स्वरूपा-
 नुसंधान°, स्वर्ग°, १स्वाश्रमाचार°
 स्वेच्छाचार°]
 *पर-कटक- परमन्त्र°
 *पर-कृत-> *परकृत-दुष्टग्रह-
 मन्त्र-तन्त्रो(न्त्र-उ)च्चाटिनी-
 प्रेरित- अरिष्टकारिणी°
 *परकृत-सर्वो(र्व-उ)पद्मव- अ-
 रिष्टकारिणी°
 पर-ज्योतिस्- अपरिच्छिन्ना...न्त°,
 ब्रह्मानन्द°
 पर-तत्त्व- शोधित°
 पर-तन्त्र- परमन्त्र°, परमन्त्रयन्त्र°
 पर-ता- आत्मता°
 *पर-दूत- परमन्त्र°
 पर-देवता- -ता मा २८ⁱ.
 *पर-धना(न-अ)पहरण- समस्त-

पा...तक°
 पर-ब्रह्मन्^१- अखण्ड...रा°, अद्वय°
 अद्वैतप...क्ष्ण°, तदाकाराका-
 रित°, नारायण°, नारायणशब्द°,
 १नित्य°, निरतिशयप...रा°,
 निरतिशयाद्वैत...रा°, परमानन्द-
 लक्ष्ण°, २प्रश्न°, वाचामगो...
 र°, शिवगायत्री°, शुद्धाद्वै...रा°,
 श्रीरामतारक°, सर्वपरिपू...रा°
 *पर-भाग- रात्रि°
 *पर-भूत- परमन्त्रयन्त्र°
 परं-परा- अनादि°, १अन्ध°, तद्°,
 निरन्तरसमाधि°, बोधानन्दवि-
 मान°, भूत°, विमान°, शिष्य°,
 सर्ग°, सोपान°
 *पर-यन्त्र- परमन्त्र°
 पर-वस्तु- सच्चिदानन्दस्वरूप°
 परस्पर- प्रफुल्लित...त°
 *परस्पर-गन्धा(न्ध-आ)ह्य-
 ललामभूत°
 *परस्पर-वस्तु- ज्योत्स्ना...त°
 *परस्पर-संभूत- ४अ°
 *परस्पर-स्व-मर्यादा- कन्दुक-
 लीला°
 *परा(र-अ)क^१- तप्त°
 परा(र-आ)काश- १आशा°
 *परा-काष्ठा- अनन्यभक्ति°, श्रुत°
 परात्>परात्-पर-, >परात्परा-
 (र-अ)तीत- १चित्°
 *परा(र-अ)नन्त-नित्य-मुक्त- वि-
 द्भू°
 परा(र-आ)नन्द- १चित्°, १सत्°
 *परा(र-अ)न्त- ४अ°
 *परा(र-अ)न्न- १रति°
 *परा(र-अ)पर-रहस्य- ६स°
 परा(र-अ)यण- कामकोष°, कृष्ण-
 ध्यान°, चान्द्रायण°, चिरसमा...
 न°, जपध्यान°, तद्°, ध्यानयोग°,

g) गपू. (पृ ४८२) सकृत् यनि. शोधः द्र. । b) गपू. (पृ ४८२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) व्युः।
 =निधिविशेष- । d) वैपश् यद्र. । e) गपू. (पृ ४८३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) मा ८, ३६ । g) व° इति अच्चा. ।
 h) ब्रह्मन. अपा. । i) तान्त्रि. अपा. । j) बप्रा. द्र. । =१ब्रह्मन्-, उपनिषद्विशेष- ।

प्रणवि...न°, प्रत्याहार°, प्राणा-
याम°, भङ्गत्राण°, मद्°, १मनु°,
महाध्यान°, १मोक्ष°, २योग°,
योगनिद्रा°, रामसेवा°, शिशु-
दर°, शुक्लध्यान°, २श्रुति°, १स-
त्य°, स्वात्मलाभ°
परा(र-अ)र्थ- > +परार्थ-स्व- संह-
त°, संघात°
२पर- √पृ (परि.) द्र.
परम, मा- अनन्त°, उत्पत्ति°, कामो-
पभोग°, चिन्मात्र°, १नित्य°,
निरतिशयानन्दमय°, निर्वाण°,
मत्कर्मन्°, मद्°, मदेक°, सहस्र°,
सौभाग्य°
+परम-कारण-भूत- उदयस्थिति-
...जाल°
परम-तत्त्व- अबाधित°, परममूर्ति°
+परमतत्त्व-विभूति- विविधवि-
चित्रानन्त°
+परम-तेजस्- अमित°
+परमतेजः-पुञ्ज- परममूर्ति°
+परम-द्युति- सर्वोत्कृष्ट°
परम-धामन्- श्री°
परम-मङ्गल- २निरतिशयानन्द°
+परम-महत्त्व- परमाणु°
परम-मूर्ति- अनन्त°, निरतिशयपर-
मानन्द°, निरतिशयब्रह्मानन्द°
परम-योगिन्- तादृश°
+परम-विभवे- परमतत्त्व°
+परम-विभूति- विविधवि...न्त°
+परम-विलास- अनन्तान...मनी°
+परमविलास-विशेष- ब्रह्मते-
जस्°
परम-वैकुण्ठ- महानारायणमय°
परम-शिव- शुद्ध°
परम-हंस- ईशावास्य°, कुटी-
चक°, हंस°
परमहंस-परिवाजक- २प्रश्न°

परमा(म-आ)काश- परिपूर्ण°
परमा(म-अ)णु- भूम्यम्भस्°
परमा(म-आ)त्मन्- ४अ°, आत्मन्°,
१केवल°, जगत्°, जीव°, १जी-
वात्मन्°, द्वादशान्तस्थित°, श्री°,
श्रीमन्नारायण°
परमा(त्मक)स्मिका- परज्यो-
तिस्°
परमा(म-आ)नन्द- अखण्ड°,
अखण्ड°, अद्वितीय°, अद्वैत°,
अमिताप...त°, अलौकिक°,
निखिल°, निरतिशय°, निरतिश-
य°, वृन्दारक°, शुद्ध°, शुद्धबो-
ध°, शुद्धद्वैत°, १सत्°, सर्वपरि-
पूर्ण°, सर्वाद्वैत°
+परमानन्द-पारावार- निरति-
शयानन्त°
+परमानन्द-विभूति- अनन्त°
+परमानन्द-शक्ति- चिदाभि-
स्वरूप°
+परमानन्द-शुद्ध-बोध-स्वरू-
प- निरतिशयदि...कार°
+परमानन्द-समुद्र- अनन्त°
+परमानन्दा(न्द-अ)मृत-रस-
अनन्त°
परमा(म-अ)र्थ- सकलवेदा...त°
पारमार्थिक- > +पारमार्थिक-
जीव- अव्यक्तलेशा...त°
परमे(म-ई)श्वर- अघोर°, १केव-
ल°, १सूर्य°
परशु- आपत्करञ्ज°, खण्ड°
परशु-राम- २मत्स्य°
+परशु-हरिण- ६स°
परस्- > परो(रस्-अ)क्ष- ४अ°,
प्राच्°
पराक- १पर- (परि.) द्र.
+परा/क्रम- > परा-क्रम- १बल°,
शिवतुल्य°

पराग- उपस्थित°, गुच्छपुष्प°, १पञ्च°,
पुष्प°, ६स°
परा(रा/अ)च्, ङच् > परा(रा-अ)च्,
ङच्- तद्°
पराङ्-मुख- अर्थस्त्रीपुत्र°, परस्त्रीपुर°
प्रापञ्चिक°, वित्तस्त्री°, सर्वविषय°
परा/जि > परा-जय- इन्द्र°
+परा-जित-, +परा-जिष्णु- ४अ°
परा/मृश > परा-मर्श- १इतर°,
ऐक्य°, संस्कार°
परा-मृष्ट- ४अ°
परा/सू (प्रेरणे), परासुव मउ ९,
७५°
परि° पा २, २.
परि/क्लिश् > परि-क्लेश- २योग°
परि/क्षि(क्षये) > परि-क्षय- चेतस्°,
तद्विकल्प°
परि-क्षीण- ४अ°, चिरकाल°
+परि/क्षिप् > परि-क्षिप्त- पुष्प-
माला°
+परि/खिद् > परि-खेद- ४अ°
परि/ग्रह > परि-ग्रह- ः नाप ४,
५^d. [°ह- ४अ°, अशेष°, आ-
स्था°, निस्°, यद्°, विवर्णजी...
न°, सर्व°, सीतापाणि°, स्वाहु°
परि/चर् > +परि-चरण- अग्नि°
+परि-चारक- मृत्यु°
परिचारिका- दासी°
+परि-चिह्न > परिचिह्नित- बाहु-
मूल°
+परि/च्छिद् > परि-च्छिद्- अन्तः-
पुर°, देशेन्द्रिय°
+परि-च्छिन्न- १चित्रवर्ण°
परि/च्छिद् > +परि-च्छिन्ति-
असंनिकृष्टार्थ°
परि-च्छिन्न- ४अ°, सगुण°
परि-च्छेद- त्रि°, देशकालवस्तु°
+परि-च्छेद्य- ४अ°

b) बप्रा. द्र. । = तदाख्योपनिषद्विशेष-, संन्यासिभेदविशेष- । b) ऋ ५, ८२, ५ । c) वैतु. पाटी. उत्तरेण
किप. संबन्ध इति । d) तु. गपु. पृ७०० ।

परि-जन- १नित्य°
 +परि/जू>परि-जर्जर- विषय...ङ्ग°
 परि/ज्ञा>परि-ज्ञात- ४अ°
 परि-ज्ञान- ४अ°, अन्यविद्या°, चि-
 देकत्व°, जाग्रच्चिदान्त°, १ब्रह्मन्°,
 ब्रह्मविद्या°, मत्स्वरूप°, १रूप°,
 स्वात्मन्°
 परि/ण(<न)म्>परि-णत- चतुर-
 शीतिलक्ष्योनि°
 परि-णाम- ४अ°, एकाग्रता°, गुणा°,
 जात्यन्तर°, त्रिगुणभेद°, धर्मल-
 क्षणावस्था°, निरोध°, प्रियत्व°,°
 समाधि°
 +परिणाम-शूल^{११}- अङ्गशूल°°
 +परि-णामिन्- १दृढ°
 +परि/ण(<न)ह्>परि-णाह- द्वि-
 तीय°, प्रथम°, २ब्रज°, सहस्रयो-
 जन°
 +परि/तप्>परि-ताप- ह्लाद°
 परि/त्यज्>परि-त्यक्त- क्षौरकर्म-
 न्°, १सर्वकर्मन्°
 परि-त्यज्य ४अ°
 परि-स्वाग- असत्कृत्य°, ज्ञेयवस्तु°,
 देहदे...क°, पञ्चरूप°, षडवस्था°,
 सर्वधर्म°, सर्वभाव°, सर्ववस्तु°
 परि-स्वागिन्- ४अ°, अन्तःसङ्ग°,
 त्यागादान°, शुभाशुभ°, सर्व°,
 १सर्वकर्मन्°, सर्वारम्भ°
 +परि-स्वाज्य- ४अ°
 परि/त्रै>त्रा>परि-त्राण- गोब्राह्म-
 ण°
 परि/दृश्>परि-दृष्ट- प्रत्येक°
 परि/धा>परि-धान- उत्सर्ग°
 परि-धि- तप्तसुवर्ण°, परागोद्भूत°,
 पुष्पपराग°, रत्न°, श्यामहिरण्य°
 +परि-धामन्- > +परिधाम-
 शूल^{११}- अङ्गशूल°°
 +परि-नि(स्)>श् चल् > परि-
 निश्-चल- स्वभाव°

परि/पच्>परि-पक्- परम°, मनो-
 न्मन्यवस्था°
 परि-पाक- सकलवेद...त°, १सत्क-
 र्मन्°
 परि-पाल->√*परिपालि> +परि-
 पालक- अखिलापवर्ग°, अरुड°,
 अनन्त°, आनन्द°, भगवद्...ध°
 मूलविद्यारुड°, सकलजगत्°
 +परिपालित- विष्वक्सेन°
 परि/पीड्>डि>परि-पीडित-
 अन्योन्यवायु°
 +परि/पू>परि-पूत- उद्धृत°
 परि/पूज्>जि> +परि-पूजित-
 त्रैलोक्य°
 परि/पू>पुर> +परि-पूरक- सर्वा-
 शा°
 परि-पूर्ण- अखरुड°, अखरुडलक्ष-
 ण°, अखिल°, अद्वैत°, अप्रमे-
 य°, १नित्य°, १नित्य°, रस-
 लम्पट°, सच्चित्सुख°, सर्व°, सर्व-
 निरामय°, सर्वायुध°
 परिपूर्णा(र्ण-आ)नन्द- अव्यक्त°
 परिपूर्णाणन्द-दिव्य-सौदा-
 मि(श्म)नी-निचय- अनन्त°
 +परि-प्रा(प्र/आ)प्>परिप्रा(प्र-आ)-
 स- सत्वरूप°
 परि/प्लु> +परि-प्लुत- वासनाम्बु°
 +परि-बाण^{११}- > परिबाण-शूल^{११}-
 अङ्गशूल°°
 परि/भाष्>परि-भा(ष)>षा-
 तद्°, पूज्य...क्ति°
 परि/भ्रंश्> +परि-भ्रंश- १स्वरूप°
 परि-भ्रष्ट- सत्यशौच°
 परि/भ्रम्> +परि-भ्रम- मननादि°
 +परि-मण्डल- ह्रस्व°
 परि/मा(माने)>परि-माण- १अणु°
 आहार°
 परि-मित- ४अ°, सप्तको...स°
 +परि-मेय- ४अ°

परि/मार्ग>गि^b
 परि/मुह्>मोहि> +परि-मोहित-
 माया°
 परि/रञ्ज्> +परि-रक्षण- मौलिरथ-
 कुम्भ°
 परि/वृ(आच्छादने),>वारि > परि-
 वार- ६स°
 परि-वारित- दिव्यस्त्री°, महाभुज°
 परि-वृत- चीरचर्मवलकल°, नयनो-
 ...स°, नादयत्नयोगिनी°, पीठ-
 ...ता°, भूतवेताल°, सहस्ररिम°
 परि/वृज्> +परि-वर्जन- आस्था°
 परि/वृत्> +परि-वर्तक- षडध्वन्°
 +परि-वृत्- यज्ञ°
 +परि(रि)>री-वर्त- १पार्श्व°
 +परि/वृह्>परि-वृह- भ्रवग°
 परि/वेष्ट्>परि-वेष्टित- सहस्रा-
 नन्दप्राकार°
 परि/व्रज्>परि-व्राज्- परमहंस°
 +परि-व्राज^{११}- तुरीयातीत°°
 परि-व्राजक- परमहंस°
 परि/शिष्>परि-शेष- ४अ°
 +परि/शील्>परि-शीलित- शो-
 भायमानलवङ्गलता°
 परि/शुध्>परि-शुद्ध- २स्वप्ति°
 परि/श्रम्> +परि-श्रम- सकलवि-
 द्या°
 परि/श्रि> +परि-श्रय- ६स°
 परि-(स्)>ष्/कृ>परि-ष्कृत- सु°
 +परि-सहस्र- सप्तकोटि°
 परि/स्पन्द्>परि-स्पन्द- ज्वाला-
 जाल°, प्राण°, सूर्यालोक°, स्व°
 परि/हन्>परि-घ- ब्रह्मविद्यानन्त°
 शुद्धानन्द°, सुदर्शन°°
 परि/ह्> +परि-हार- अनुज्ञा°, अ-
 भक्ष्य°
 +परि-हार्य- ४अ°
 परी(रि/इ(गतौ)]> +परी(रि-इ)त-
 दुःखजाल°, पुष्पपराग°

पर्या(रि-आ)घ- जीव°
 परी(रि/ई)ञ् > परी(रि-ईञ् >)-
 क्षा- मरिण°, लता°
 परी-वर्त- परि/वृत् (परि.) द्र.
 पर्क- √पृच् (परि.) द्र.
 पर्जन्य- गर्जत्°
 पर्ण- अष्टन्°, इच्छु°, उत्तानभाप°,
 पुष्कर°, १ब्रह्मन्°, मृद्°°, रैक°,
 वस्त्र°, सु°
 +पर्ण-पुट- नाना°
 +पर्ण-फल- शीर्षा°
 पर्यङ्क-> +पर्यङ्क-समासीन- तद्°
 +पर्या(रि-अ)न्त- ४अ°, अनुष्टि°,
 अनुभव°, अलंबुद्धि°, अशीति°,
 आन्वारडालादि°, आजानुकटि°,
 आजानुपाद°, १आदि°, आ-
 ब्रह्मस्तम्ब°, उपाधि°, करठ°,
 कीट°, केवलसिद्धि°, केश°, चतुः-
 ससुद्र°, जानु°, त्रिचतुस्त्रि...
 मास°, देहपतन°, द्वादशाङ्गुल°,
 धनुःप्रमाणा°, पञ्चयोजन°, पञ्च-
 विशतिवत्सर°, परार्ध°, पाद°,
 १पायु°, २पार°, पिपीलिका°, प्रण-
 व°, प्रारब्धकर्मन्°, प्रारब्धक्षय°,
 प्रारब्धप्रति...श°, ब्रह्मरन्ध्र°,
 मण्डपस्तम्भ°, मस्तक°, सुहृत्-
 द्वय°, मूर्धन्°, मूलाधार°, लोक°,
 वामाक्षि°, विशेषभूत°, सत्तासा-
 मान्य°, सहस्रयुग°, सूक्ष्म°, स्र-
 ष्टि°, स्तम्ब°
 पर्य(रि-अ)ञ्/सो > सा > +पर्यव-
 सान- अलिङ्ग°
 पर्या(रि/आ)प् > पर्या(रि-आ)प्त-
 ४अ°
 पर्वत- अनन्त°, आनन्द°, गिरि°,
 तडित्°, तद्°, तेजस्°, दिव्यते-
 जस्°, १फल°, २यव°, १लवणा°,

वृत्त°, १वैखानस°, श्री°, ६स°,
 संजीवन°
 पर्वन्- गुण°, पञ्चन्°, पौषपूर्णिमा°,
 सर्व°
 +पर्व(क) १सम°
 पशु-> १पार्श्व- २कन्द°, १त्वच्°°,
 २दक्ष°, १दक्षिणा°, पृष्ठवंश°,
 शिरस्°, २षट्कोणा°, सीवनी°,
 सुषुम्ना°
 +पार्श्व-शूल- शिरःशूल°°
 *पर्षद्-> पार्षद्- वैकुण्ठ°
 २पल- -लानि निर २, १. [°ल-
 अष्टक°, द्वादशक°, द्वादशान्°]
 +पल-संख्यान- तद्°
 पला(ला < रा/अ)य् > +पला-
 (ला-अ)यन- ४अ°
 पलाल-> +पालाल-पलाशाङ्कुरज°°
 पलाश- अष्टन्°, पुष्कर°
 +पलाश-वन- मथुरावन°°
 पलित- वली°
 पल्लव- पाणि°, पुष्प°, वासन्ती°,
 शाखा°, सर्व°, २हस्त°
 +पल्लव- जन्मन्°
 √*पश् अतु°, अभि°, अव°, परि°,
 प्र°, प्रति°, वि°, सम्°
 पश्यत्- -श्यन् मैत्रि ७, ११°°. [°ल-
 ४अ°, अनु°, प्र°, सम्°]
 १पश्यन्ती-> २पश्यन्ती-
 परा°
 १पशु- शुभिः कौर, ५°°. [°शु- ४अ°,
 इन्द्रिय°, ग्राम्यारण्य°, १धन°,
 नर°, १पुत्र°, १पुत्र°, स्वभाव°]
 पशु-पति- भुवनाधिपति°°
 पाशुपत- २प्रश्न°°
 पश्चात्-> पश्चिम- आधार°, सुषुम्ना°
 √पा(पाने), > पिपास अतु°, उप°, प्र°,
 सम्°

२प- आज्योष्मन्°, २ऊष्मन्°,
 कच्छ°, कमण्डलूदक°, द्वि°, पाद°
 पूय°, फेन°, मद्य°, सुरा°, १सोम°
 +१पा- प्र°
 पान- अति > ती°, अनु°, अन्न°,
 अपेय°, आ°, उद°, उदक°, केदा-
 रोदक°, क्षीर°, दीक्षासंतोष°,
 प्रपा°, ब्रह्मामृत°, मद्य°°, मद्य°,
 रसायन°, संतोषामृत°, सहस्र°,
 सुरा°, १सोम°, स्त्री°, ज्ञान°°
 +पायिन्, नी- ४अ°, ४रक्त°, सुरा°,
 सोमैक°
 १पायु- अन्तःकरणा°, पाद°,
 पाद°, पृथिवी°, मस्तक°,
 १वाच्°, शिरस्°°
 +पायु-शूल- अङ्गशूल°°
 पिपास, सा- ४अ°, अशाना°, अश-
 नाया°, १काम°, १क्षुध्°,
 जरा°°
 १पीत- अशित°, पूर्व°
 पीयमान- उप°, सम्°
 +पेय- ४अ°, खाद्य°, मद्य°, वाज°
 +पेय-क- पान°
 √पा(रक्षणे) अधि°, परि°, सम्°
 ३प- अधि°, गणा°, गो°, द्वार°, नृ°,
 १भू°, मही°
 +२पा- अधि°, गो°
 पाल- अनु°, अभि°, अवनि°,
 क्षेत्र°, गो°, दिश्°, द्वार°, धर्म°,
 परि°, १पशु°, पृथिवी°, प्रणत°,
 प्रति°, १भू°, भूत°, मही°, लोक°
 √पालि > पालक- इन्द्रिय°,
 क्षेत्र°, दिश्°, लोक°, सर्व°,
 सर्वस्थूल°
 पालयत्- ४अ°
 +पालिन्- क्षेत्र°
 √पा(*बधा.) > ४प- २मण्ड°

अ) 'परिग्लानोऽन्ताय' इति कृत्वा प्रास. विप. च (वैतु. अन्यत्र 'परिगतोऽन्तः' इति कृत्वा प्रास. एव सन्नपि नाप.)। b) व्यु. ? = तडाग-। c) 'पश्यः' इति छान् ७, २६, २१। d) आन., अज्याः सा. अपा.। e) भावे कर्मण्यधिकरणे वा कृत। f) धा. अर्थः ?।

१पा- √पा (पाने) परि. द्र.
 २पा- √पा (रक्षणे) परि. द्र.
 पांसु- पद°, शर्करा°
 पाक्य- √पक् (परि.) द्र.
 *पाञ्चालिका- मांस°
 पाटक- √पट् (परि.) द्र.
 *पाटलीपुत्र^{१६}-> *पाटलीपुत्र-स्थ-
 चुम्नस्थ°
 पाटि- पाटित- पाट्य √पट् (परि.) द्र.
 पाठ- पाठक- √पठ् (परि.) द्र.
 पाणि- ४अ°, अक्षि°, उपहार°, जिह्वा°,
 धनुस्°, पृथिवी°, १वज्र°,
 १वाच्°, २वाम°, विश्वतस्°,
 वेष्टित°, शङ्खचक्रगदा°, २शस्त्र°,
 शिरस्°, शूल°, सधनुस्°, सामिधु°,
 सीता°
 *पाणि-पद- ४अ°
 *पाणि-पल्लव- मनोज्ञ°
 पाणि-पाद- ४अ°, कुरवकरसाञ्चित°
 सर्वतस्°
 पाणिपादा(द-आ)दि- स्त्र°
 १पाण्डर-> २पाण्डर- आ°, वैरो-
 ज्ञन°
 १पाण्डु- चम्पक°°
 १पाण्डुर-> २पाण्डुर- आ°
 पातक- अन्य°, अशेष°, उप°, कर्ण-
 रोगादिकृत°, कायिक...स°, गो-
 हत्यादि°, ब्रह्महत्यादि°, ब्रह्म-
 हत्यासुरापानस्वर्णस्तेयगुरुतल्प...
 गिन्°, ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्ते-
 यगुरुदार...ग°, महत्°, सर्व°
 *पातको(क-उ)पपातक-महापात-
 क- समस्त°
 पातन- √पत् (गतौ) परि. द्र.
 पाताल- अतल°, महत्°, रसातल°,
 स्वर्ग°°
 पातिन्- √पत् (गतौ) परि. द्र.
 पात्र- ४अ°, अर्घ्य°, अलाडु°, अला-
 व्वादि°, अष्टन्°, आधार°, आम°,
 आस्य°, आहार°, उच्छिष्ट°, उद्°,

उदर°, २कर°, कांस्य°, क्षेत्र°, ताम्र-
 कांस्य°, तालखर्जूर°, १निदरड°°
 दाह°, देश°, पञ्चामृत°, पाणि°,
 पाथार्था...न°, पूर्ण°, पूर्वोक्त°,
 १फल°, भिक्षा°, मुक्त°, मृद्°,
 मृदार्वाला...र्ण°, यज्ञ°, वस्तु°,
 १शङ्ख°, ६स°, १सत्°, सर्वलोक-
 स्तुति°, सुवर्ण°, सुकृन्तुवादि°
 १-२पाद्-, पादक-, पादन-, *पाद-
 या-, पादित-, पाद्य, १-२पाद्य-,
 पाद्यमान- √पद् (परि.) द्र.
 पान्त- √पम् (परि.) द्र.
 १पाप- -पस् रुजा ४२^b [°प- ४अ°,
 अशेष°, १काम°, कृत°, गुरु°,
 जन्मन्°, दग्ध°, दृश्य°, १पुरय°,
 पूत°, ब्रह्महत्यादि°, महत्°, लघु°,
 वि°, विधृत°, व्याधि°, समस्त°,
 सर्व°, सर्वधर्मपरित्याग°
 २पाप-> पापिष्ठ- महापातक°
 *पाप-काशि(न्->)नी-, पाप-कृत-,
 *पाप-विद्ध- ४अ°
 पापिन्- षी पहं १५० : १९°.
 *पापौ(प-ओ)व- अशेष°
 पाप्मन्- अप°, अपहत°, महत्°, वि°,
 सर्व°
 पायिन्- √पा (पाने) परि. द्र.
 १पार- √पृ (परि.) द्र.
 २पार- √पृ (परि.) द्र.
 पारिजात- आम्र°, तुलसी°, मन्दा-
 र°, २सुगन्ध°
 पारीण- √पृ (परि.) द्र.
 पार्व(त->)ती- ईश°
 २पार्श्व- -र्धयोः जाद ३, ६, १^d. [°र्ध्व-
 अधर°, उभय°, कोण°, तद्°,
 २दक्ष°, नाभि°, पाद°, पृष्ठ°,
 मुष्टि°, मेहन°, २वाम°, स्कन्ध°,
 १द्वद्°]
 पार्श्व- *पर्षद्- द्र.
 पार्णि- वामपाद°
 *पार्णि(क)- ६स°

पालाल- पलाल- (परि.) द्र.
 पालिन्- √पा(रक्षणे) परि. द्र.
 पाश- १आशा°, उरग°, एक°, २काल°,
 केश°, छिन्न°, तत्त्वविचार°, तत्क-
 लच्छिन्न°, दैत्य°, १पशु°, पाशु-
 पताल्ल°, मायामोह°, मुद्गर°,
 १मृत्यु°, १वज्र°, विलीन°, सं-
 सृति°, समस्तजन्मन्°, सर्व°, ज्ञेह°
 *पाश-बन्ध- अक्षी°
 पाशुपाल्य- १पशु- द्र.
 पाषाण- काष्ठ°, तरङ्ग°°
 पिक- कोकिल°, १ध्रमर°, १मयूर°,
 १शुक°
 १पिङ्ग-> २पिङ्ग-> विङ्गा(ङ्ग-अ)त्-
 दरदेश°
 १पिङ्गल-> २पिङ्गल- एक°, कलहल°
 १कृष्ण°, चम्पक°°, २हरित°
 ३पिङ्गल-> पैङ्गल^{१६}- ईशावास्य°°
 ४पिङ्ग(ल->)ला- इडा°
 *पिच्छ- १मयूर°
 √पिण्ड (*बधा.)> विण्ड- अजरा-
 मर°, अयस्°, कृत°, तमस्°, तूल°,
 पलल°, मद्°, मांस°, लघु°, २लो-
 हित°, शव°, शिरस्°, २सैन्धव°
 पिण्ड-क- गोमय°, बडिश°, १बाल°.
 *पिण्ड-ज- अण्डज°
 *पिण्ड-विशेष- परममूर्ति...ज°
 पिण्डी √कृ> पिण्डी-करण- अव-
 काश°°
 *पिण्डो(रड-उ)दक-क्रि(या->)य-
 लुप्त°
 पितृ- ४अ°, अति°, अस्मद्°, आत्मन्°,
 कर्मन्°, १देव°, १देव°, ५न°,
 १मनस्°, २मातृ°, सुरेश°, स्व°
 पितामह- अति°, आत्मन्°, आत्म-
 न्°, पितृ°, प्र°, लोक°, सर्वलोक°
 *पितामही- १मातृ°
 *पितृ(क)- जीवत्°
 *पितृ-हत्या- समस्तपातको...क°
 पित्त- अस्थि°, २गरुड°, १गुल्म°, १गुल्म°, १गुल्म°°

वात°, विष्°
 +पिच-ज्वर°- अतिभयंकरज्वर°
 +पिच-शूल°- अङ्गशूल°
 पि/धा>+पि-धान- ईषच्छिद्र°,
 तोयाधार°
 पिपी(लक>)लिका- कीट°
 +पिपीलिका-पर्यन्त- ब्रह्मादि°
 पिप्पल- आम्र°
 +पैप्पल्य- प्रियङ्गु°
 पिप्पला(ल-अ)द- रनिदाघ°
 पिशाच,ची- अरिष्टकारिणी...दि°,
 १असुर°, १आशा°, १काम°,
 गन्धर्व° दिग्भवादि°, प्रेत°,
 १बाल°, भूत°, भूत°, १मनस्°
 २यज्ञ°, यज्ञराक्षसभूतगण°
 +पिशाच-क- भूत°
 पिशाचि(न्>)नी- महत्°
 पिशुन->+पैशुन- ४अ°
 पैशुन्य- स्नेह°, हिंसा°
 √पिष् आ°, प्रति°
 पिष्ट- ६स°
 +पेषम् आ°
 पीठ- अकथादिश्री°, अमृत°, अष्टादश-
 न्°, आकाश°, उज्ज्वारा°, उद्रीय-
 णा°, उप°, १ओंकार°, १काम°,
 कामरूप°, चतुर°, जालंधर°,
 तद्°, तेजस्°, त्रि°, निरालम्ब°,
 नैवेद्य°, पूजा°, पूर्णगिरि°, पूर्व°,
 बद्ध°, बिन्दु°, मणि°, ३मत्स्य°,
 महत्°, रसोग°, २रक्त°, रत्न°,
 २रमा°, वसुधा°, वैष्णव°, व्या-
 ख्या°, सर्व°, स्व°
 +पी(ठक>)ठिका- मृत्कुम्भ°
 √पीड>डि आ°, उप°, नि°, निस्°,
 परि°, प्र°, सम्°
 पीडन- उप°, घ्राण°, चक्षु°, नि°
 पी(ड>)डा- प्र°
 पीडित- परि°, भार°

+पीड्य नि°, निस्°, प्र°, सम्°
 पीड्यमान- आ°
 २पीत->३पीत- १नील°, २रक्त°,
 शौच°, २हरित°
 +पीत-चन्द्रा(न्द्र-अ)र्ध- ललाटप-
 द्योल्लसत्°
 पीता(त-अ)म्बर- २श्याम°
 पीयूष- अखरडानन्द°
 पुंस्->पुंस- ४अ°, स्त्री°
 पुंस-, पुम्- स्त्री°
 +पुं-गव- द्विज°, नर°, मुनि°,
 २योगिन्°
 पुमस्- स्त्री°
 पुङ्ग- अनु°
 पुच्छ- कल्पाष°, तद्°, १वज्र°,
 १विष°, शिरस्°
 +पुच्छ-पक्ष- ३पीत°
 +पुञ्ज- गुञ्जा°, तेजस्°, नाडी°, परमते-
 जस्°, १पुराय°, प्रभा°, रजस्°,
 विद्युत्°
 +पुञ्जि(न्>)नी- सत्या°
 +पुंनाग^b- आम्र°
 √पुट् सम्°
 पुट,टी- अक्षि°, अग्नीषोम°, अज-
 लि°, खुर°, चञ्चु°, त्रि°, त्रिरेखा°,
 नासा°, नासिका°, पर्षा°, सम्°
 पुटित- आदिकला°, एतत्पुटितमा-
 तृका°, एतद्°, कामकला°, तारा-
 द्वय°, रमानुका°, राक्षी°, शक्ति-
 काद्वय°, श्रीकला°, सम्°, संबो-
 धनद्वय°
 +√पुण, >पुण- नि°
 १पुण्डरीक- एक°, १सत्°, १हृद्°,
 हृदय°
 पुण्डरीक(क-अ)क्ष- हरि°
 २पुण्डरीक^२- ऐरावत°
 १पुण्ड- ऊर्ध्व°, तिलक°, त्रि°, मध्य°,
 शुद्ध°

२-४पुण्ड- गपू. पृ ५१० द्र.

५पुण्ड->३पौण्ड->१पौण्ड-का-
 लिक- अनन्त°

१पुण्य- ४अ°, १काम°, स्त्रीण°,
 १पाप°, महत्°, शिवायतन°, सर्व°
 सर्ववेदपारायण°, सु°, सुख°,
 ज्ञान°

२पुण्य- सु°

+पुण्य-देव- -वः पा १०, २°.

१पुण्य-लोक- अनेक°

पुण्य-स्थल- अपूर्व°

१पुण्य-कर्मन्- प्राच्°

+पुण्य-पुञ्ज- अनेकजन्मार्जित°

+पुण्य-लेश- धृत°

पुण्या(ण्य-अ)दि- मृगु°

१पुत्र,त्री- ४अ°, अग्नि°, अजात°,
 अत्रि°, अथर्व°, अर्थ°, आत्रेयी°,
 आर्तभागी°, आलम्बायनी°,
 आलम्बी°, ईश्वर°, उग्र°, उचथ्य°,
 औपस्वस्ती°, कण्व°, कलत्र°,
 कारवी°, कात्यायनी°, कार्पी°,
 कार्शकेयी°, रकाल°, कुन्ती°,
 कौरव्यायणी°, कौशिकी°, कौञ्चि-
 की°, कुश्वि...नि°, गौतमी°, जा-
 त°, जायन्ती°, १ज्येष्ठ°, ज्येष्ठमा-
 र्या°, तद्°, ३तपन°, दार°, १देव°,
 देवकी°, द्रुपद°, पत्नी°, १पशु°,
 २पारङ्ग°, पाराशरी°, पितृ°, पौति-
 माषी°, प्राचीनयोगी°, प्रारुनी°,
 बन्धु°, बहु°, १ब्रह्मन्°, भारद्वाजी°
 भालुकी°, मृगु°, मद्°, मारुका-
 यनी°, मारुकी°, राजन्°, राधी-
 तरी°, वन्ध्या°, वात्सी°, वायु°,
 वार्कारुपी°, विराज्°, वैदभृती°,
 वैयाघ्रपदी°, व्यास°, शत्रु°,
 शारिङ्गली°, शिला°, शौङ्गी°,
 १सत्°, सांक्रुती°, सांजीवी°, १स-
 त°, स्व°, २हित°

a) व्यु. ? । b) व्यु. ? = वृत्तविशेष- । c) गपू. (पृ ५१०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) व्यु. ? = दिग्गज-

विशेष- । e) पूर्वोत्तराभ्यां संधिरार्षः ।

पौत्र- १पुत्र°
 +पुत्र-जीवि(श्व)क- २प्रवाल°°
 +पुत्र-मित्र-कलत्र-बन्धवा(न्धु-आ)-
 दि- स्व°
 +पु(त्रक>)त्रिका- वन°
 पुत्रिन्- ४अ°
 पुनर(>:)-> +पुनः-प्राप्ति- विस्मृ-
 तपदार्थ°
 +पुनर-आगमन- ५न°
 +पुनर-आचमन- १पाद्य°
 +पुनर-आवर्तन-, पुनर-आवृत्ति-,
 पुनर-जन्मन्- ४अ°
 पुनर-भव- ४अ°, ५न°
 पुरंदर-, १-२पुरी- √पृ(परि.) द्र.
 पुरीष- सूत्र°, रवेद°°
 पुरु->पुरु-हृत- तम् मउ २०, २९°.
 १पु(>पृ)रुष--षः कुं २३: १°.[°ष-
 अद्वैत°, अन्तर°, अवर°, १आदि°
 आदित्यमण्डल°, आनन्द°, आ-
 नन्दविभूति°, आसुष्मिक°, उत्त-
 म°, कारख°, २जल°, तद्°,
 तुला°, त्रि°, १देव°, परम°, परम-
 हंस°, २पुराय°, १पुराय°, प्रकृति°
 प्रति°, प्रधान°, १ब्रह्मन्°, भुवस्°,
 भूर्°, भूर्भुवःसुवर्°, मण्डल°,
 महत्°, महाविराज्°, राजन्°, वि-
 भूति°, विराज्°, रवेद°, १सत्°,
 सत्त्व°, सदाशिव°, सर्व°, सुदर्शन°
 सुवर्°, स्त्री°]
 पौरुष- स्व°
 पौरुषेय- ४अ°
 पुरुष-सूक्त- कल्पस्तवनादि°
 +पुरुष-हृत्वा- समस्तपा...तक°°
 पुरुषा(ष-अ)र्थ- ४अ°, अत्यन्त°,
 चतुर्विध°, सर्व°
 पुरुषो(ष-उ)त्तम- आनन्दात्मक°,
 प्रेमानन्दरक्त°, रसिकानन्द°
 +पुरोडाश^{१०}- मन्त्र°°
 +√पुल्ल->पुल्ल- वि°

पुलिन- नदी°, शून्यागार°°
 पुल्कस->पौल्कस- ४अ°, ५न°
 √पुष्>पोषि सम्°
 पुष्ट- अति°, १नित्य°, सु°, हृष्ट°
 पुष्टि- सु°
 +पोषक- कामरस°
 पोषण- शरीर°
 +पोष्यमाण- सम्°
 पुष्कर- अतिपुष्ट°, २कर°, १हृद्°
 पुष्करि(न्>)णी- णीम् वृ ६, ४,
 २३९^१. [°न्, णी- अप्सरस्°,
 उष्णोदक°, गोपी°, गोविन्द°,
 २जल°, रुद्रशिव°, श्रीराधा°,
 श्रीराधाकृष्ण°, सुगन्धमणि°]
 पुष्प- ४अ°, अक्षत°, अतसी°, अधस्°,
 अनन्त°, अमृत°, अम्लान°,
 आनन्द°, कदली°, कल्लार°,
 कुसुम्भ°, गन्ध°, गुच्छ°, चम्प-
 क°, १चित्र°, जाती°, तरु°,
 तृण°, ४नाग°, नागकेसर°,
 नाना°, नीलमणि°, पक्वफल°,
 पत्र°, पारिजात°, १फल°,
 १फल°, वन्धूक°, मणि°, मन्दा-
 र°, मन्दारपारिजात°, १मूल°,
 २रक्त°, २वसन्त°, विचित्र°, २श्वे-
 त°, संन्यस्त°, २सुगन्ध°, सुतहस्त-
 स्थ°, स्थूत°, हरितपीतश्वेतारक्त°
 +पुष्प-गुच्छ-लता- अनेक°
 +पुष्प-दन्त^{१०}- ऐरावत°°
 +पुष्प-फल-लता-गुल्म- कल्पवृक्ष°
 +पुष्प-माल्य- अनन्त°
 +पुष्प-राग- पद्मराग°
 पुष्प-लता- अनेक...त्सना°
 पुष्प-वृष्टि- अमित°
 +पुष्पा(ष्य-अ)क्षत- ६स°
 पुष्पित- सदा°, सम्°
 पुस्त- ज्ञानमुद्रा°°
 पुस्तक- पाश°, १मुद्रा°, १शङ्ख°,°
 १शिव°

√पू>२पवन- कल्पान्त°, चित्त°,
 प्राण°, १मन्द°, मन्दादि°, ६स°
 +पवना(न-आ)घात- ज्वलनाघात°
 +पवना(न-आ)रूढ- सुमनस्°
 +पवनो(न-उ)द्धृत- खुर...त°
 पवमान- वहिस्°
 पवित्र- ४अ°, अखिल°, अति°,
 ऊर्ध्व°, २जल°, १त्रिदण्ड°,°
 परम°, १रक्त>चा°
 +पवित्रक- गन्ध°
 पवि(तु>)त्री- १पुराय°
 १पावक->२पावक--काय मउ ३,
 ६.[°क- पवमान°, पातकेन्धन°,
 वासनातृण°]
 पावन- अब्धि°, पङ्क्ति°, पङ्क्तिश-
 ...क्ष°, परम°
 पूत- ४अ°, अग्नि°, आत्मन्°,
 आदित्य°, १ज्ञान°, हृष्टि°, १देव°,
 १नित्य°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्महत्या°,
 १मनस्°, मन्त्र°, १रुद्र°, वस्त्र°,
 वायु°, विष्णु°, १सत्य°, सर्व°,
 १सूर्य°, १सोम°, स्थाणु°
 +पूत-तन्तु- तद्वन्न°
 पूग- आम्र°°
 +पूग-फल- एला°°
 √पूज् अभि°, अभिसम्°, परि°, प्र°,
 प्रति°, सम्°
 +पूजक- अद्वैतशिव°, १देव°, १शिव°
 पूजन- ईश्वर°, कर्तन°, तद्°,
 ताडन°, १देव°, देवद्विज...ज्ञ°,
 बिल्व° महेश्वर°, २मातृ°, विष्णु-
 रुद्रादि°, श्रीचक्र°
 *पूजया- सम्°
 पू(ज>)जा- अर्चा°, अष्टदल°,
 अष्टाक्षर...ता°, आत्मन्°, आवर-
 ण°, उत्तानपत्र°, गुरु°, जप°,
 तादृशप...गिन्°, १देव°, द्वार°,
 नानाभरण°, पितृ°, पीठ°, पूज्य°,
 मद्°, मदेक°, महत्°, मानस°,

रहस्य°, १शिव°, शुश्रूषा°,
१सत्°, सत्कार°, सर्व°, सर्वात्म-
क°, स्नान°, स्नान°

+पूजा(जा-अ)धिकरण- मन्त्रज-
पाधिकरण°

पूजित- -तम् जाद ३, ६, ३°. [°त-
अभि°, अशेषामर°, परि°, विष्णु°,
सम्°, सु°]

पूज्य अभि°, परि°, प्र°, सम्°
पूज्य- जङ्गम°, सु°, स्फुरत्प्र...ला°

√पूय्>पृति- १मनस्°

+पूय- मांस°°, विरमूत्र°

पूर-, पूरिन्-, १-३ पूर्णमास-, १-२ पू-
र्णिमा- √पृ (परि.) द्र.

पूर्त- २इष्ट>ष्टा°

+१पूर्ति°- २इष्ट>ष्टा°

२पूर्ति-, पूर्थ √पृ (परि.) द्र.

पूर्व- र्वः खे २, १६४°. [°र्व- ४अ°,
अति°, अनु°, उत्तर°, उप°,
क्रिया°, १ज्ञान°, दशन°, दष्ट°,
नन्°, १पर°, पृष्ठ°, बुद्धि°, यथा°,
वैराग्य°, शत°]

+पूर्व(-क)- अन्यधर्मविस्मरण°,
अभिशस्तप...न°, अष्टदिक्पा-
लकार्थ°, आचमन°, आदर°,
उदकस्पर्शन°, उपनयन°, एतद्-
यन्त्राराधन°, कृच्छ्रप्रायश्चित्त°,
चौर°, गुरुनमस्कार°, गृहस्थप्रार्थ-
ना°, तत्तन्मन्त्र°, तद्°, द्वादशवर्ष-
शुश्रूषा°, १न्याय°, पञ्चाशन्मा...
क° प्रतिताभि...न°, पुराणश्रवण°
प्रणव°, प्रणवव्याहृति°, प्रणवानु-
संधान°, प्रदक्षिण°, प्रदक्षिण-
नमस्कार°, प्राणस्पन्दन°, प्रीति°,
बिन्दु°, भगवद्द्यान°, यथोचिता-
तिथ्य°, यथोपयोगशुश्रूषा°, लिङ्ग-
लिङ्गिन्°, लोभक्रोधमोह°, वास-
नात्रय°, विधि°, विषयव्यावर्तन°, १

विष्णु°, वेदान्तश्रवण°, शास्त्र-
स...स°, श्रद्धावी...ज्ञा°, सज्जन-
संपर्क°, सद्योजातादि°, सहस्रगा-
यत्री°, साधुप्रशंसा°, सावित्री-
प्रवेश°, सीत्कार°, स्थूलस्...
व°, स्वरूपानुसंधान°, स्वशाखा-
ध्ययन°

पूर्व-देह- प्राकृत°

पूर्व-भाग- सुषुम्ना°

+पूर्वा(र्व-अ)पञ्चा(ञ-अ)श्रमा-
(म-अ)चार-विद्या-धर्म- स्°

+पूर्वा(र्व-अ)पर-विचारण- त्यक्त°
पूर्वा(र्व-अ)र्ध- उकार°

पूषन्- आदित्य°, धातृ°, १मित्र°
१सोम°

+√पृ, > १पार- व्या°

+√पृच्, > पकं- सम्°

पृच्छक- √प्रच्छ (परि.) द्र.

+√पृण् > पृ(ण>)णा- लोकम्°

पृथक्- ४अ°

+पृथक्-कृति- नामरूप°

पृथक्-स्व- प्रज्ञान्तर°

+पृथग्-धर्मिन्- ४अ°

पृथग्-भाव- ४अ°, भूत°

+पृथग्-विवेक्य- ४अ°

२पृथा->पार्थ->+पार्था(र्थ-अ)दि-
१अङ्ग°

पृथिवी- -वी मैत्रि ६, ३३^d; -व्याः
कुं २२ : ८°; -व्याम् शा ३२३ः
४°; -व्यै १कौल झां. [°वी-
अक्षरसमय°, आधारशक्ति°, दि-
वस्°, यावा°, महत्°°]

पार्थिव- मण्डिज°

पृथुक्^३- मोदक°

√पृष्>पृषत्->पृषद्-आज्य-
पालाश°

पृष्ठ- अग्नि°, अनु°, करठ°, २कर°,
१काक°, गोवर्धनाद्रि°, मध्यमा°, १

१सुष्टि°, शश°, शिरस्°, सवत्स°
पृष्ठ-पार्थ- सुषुम्ना°

+पृष्ठ-पूर्व- ४पिङ्गल°

पृष्ठ-भाग- इडा°

पृष्ठ-वंश- १त्वच्°

√पृ(*बधा.)> पारि, पुर, पुरि अति°,
अनुसम्°, अभि°, आ°, नि°,
परि°, प्र°, प्रति°, सम्°, समुद्°
+२पर- अनुसम्°

२पार- ४अ°, अपार°, आश्रम°,
कला°, तमस्°, ब्रह्मद्वार°, संसार°

+पार-ग- १ज्ञान°, ज्ञानसागर°,
२वेद°, वेदान्तज्ञान°

+पार-पर्यन्त- अदृष्ट°

पारा(र-अ)यण- आनन्द°, इदम्°
२घटिका°, १चक्र°, नामन्°,
मन्त्र°, सर्ववेद°

पारा(र-अ)वार- दृष्टिशूल...ल°,
निरतिशयपरमानन्द°, निरतिश-
यसौन्दर्य°, २निरतिशयानन्द°,
निरन्तराति...नन्द°, परमतेजस्°
परमानन्द°

+पारीण- सर्वमन्त्रयोग°

१पुर->पुरस(>:) अग्नि°°
पुरश्-चरण- कृत°

पुरस्/कृ>पुरस्-कृत- श्रद्धा-
भक्ति°

पुरः-सर- तत्तन्मन्त्र°, दिव्यमङ्ग-
...द्य°, द्वादशवर्षसेवा°, नम-
स्कार°, प्रतियोगिन्°, २भक्ति°,
विहिततत्तच्छान्ति°

+पुरस्-सर- प्रणिपात°
+पुरो-गम- लयक...र्य°, ब्रह्मे-
शान...र°

१पुर->पुर-त्स(>:) वृत् १९६ः
१३^d. [तद्°]

२पुर- अन्तर°, अष्टन्°, १काशमीर°,
२कुबेर°, गणेश°, गो°, गोपाल°, १

a) अच्चा : यो. अपा. । b) =पूर्त- । c) मा ३२, ४ (तु. टि. वैप१ यस्था.) । d) सात. अपा. ।

e) अच्चा : सं. अपा. । f) गपृ. (पृ५२४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) निसा. अपा. ।

४जयन्त°, त्रि°, दशद्वार°, १न-
न्द°, परस्त्री°, १ब्रह्मन्°, १भू°,
मिथिला°, मूलाविद्या°, वायु°,
वृषभालु°, वैकुण्ठ°, १शिव°, स्व°
१पुरी°- नगर°, नरनारायण°
नरासिंह°, नाना°, १यम°, १राम°,
शक्र°, १श्वेत°, वैकुण्ठ°, सप्तन्°
+२पुरी°- री म ४९: १.
+पुरं-दर°- १ब्रह्मन्°, १ब्रह्मन्°
१पुराण-> २पुराण- आगम°, इति-
हास°, तर्क°, २वेद°, २वेद°,
१श्रुति°, खर°
+पूर°- आ°, १काम°, खेचरीबीज°,
दुस्°, पारावार°, १बीज°, मणि°,
रेच°
१पूरक- कुत्ति°
२पूरक- रेच°, रेचक°
पूरण- आ°, १काम°, विदाधोदर°,
सर्वसंपत्ति°
पूरित- अगाधजल°, आ°, ताम्बूल°
पञ्चमण्डल°, मिष्टान्तरस°, रत्न°,
सम्°
+पूरित- रेचित- वायु°
+पूरित- सर्वक्रीडारस°
पूर्ण- ४अ°, अखण्डानन्द°, अख-
ण्डानन्दपीयूष°, अधस्°, अन्तर्°,
अन्न°, अभि°, अमृत°, अश्रु°,
आ°, आनन्द°, आनन्दबुद्धि°,
आनन्दस्वानुभवैक°, ऊर्ध्व°, चि-
द्रस°, तदन्त्यबिन्दु°, तोय°, निखि-
लपरमानन्द°, परमहंस°, परमा-
नन्द°, परि°, १पाप°, पिष्टरस°,
प्र°, प्रति°, प्रविततसुख°, बहिस्°,
बिन्दु°, मध्य°, यौवनसंपत्ति°,
रतिर...टि°, रस°, शमदमा...
ण°, शीतोदक°, १सच्चिदानन्द°,
१सत्य°, १सदानन्द°, सम्°, स-

र्व°, सर्वसुखसंपत्ति°, सु°, स्वतस्°
पूर्ण-धी- स्व°
+पूर्ण-पात्र- प्रबोध°
१पूर्ण-मास-
पौर्णमास- ४अ°
पौर्णमासी- -स्वाम् गरु
५४४: २४^d.
२पूर्ण-मास-> +पूर्णमासी->
+३पूर्णमास^१°- १दर्श°
पूर्ण-स्वरूप- १शिष्ट°
पूर्णा(णं-आ)त्मन्- स्व°
पूर्णा(णं-आ)हुति- १शिव°
१पूर्ण(म)>मा°-
+२पूर्ण(म)>मा°- पौष°
२पूर्ति- सत्रयाग°
+पूर्त्य, पूर्त्यमाण- आ°, सम्°
पेय- पेयक- √पा (पाने) परि. द्र.
पेलव- परि°
पेशास्- ४अ°
पेषम् √पिष् (परि.) द्र.
पैप्पल्य- पिप्पल- (परि.) द्र.
पैशुन- पिशुन- (परि.) द्र.
+पोतृ°- धारा°
पोषक- पोष्यमाण- √पुष् (परि.)
द्र.
√प्याय्>पी>पीन- उचुङ्ग°, दृढी-
भूत°
√प्यै आ°, प्रत्या°
प्यायन- आ°
प्र√कट्>प्र-कट्^b- ६स°, सदारास-
क्रीडा°, संसिद्ध°, स्वावेश°
प्र-कटित- १भाव°, भावसंविद्°
+प्र-कटित्- परमन्त्र...भूत°
प्र-कर- २प्र-करण- प्र√कृ (परि.) द्र.
प्र-कर्ष- प्र√कृष् (परि.) द्र.
प्र√काश्, प्रकाशते त्रिवि ३१७:
२^d.

प्र-काश- ४अ°, अतिनिर्मला...वि°
अनन्तकोटिरवि°, अनन्तकोटि-
विप्र...य°, अन्तर्°, आत्मन्°, आ-
त्मबुद्धि°, आहरण°, कोटिसूर्य°,
चक्षुस्°, १चित्°, जड°, तत्त्व°,
तत्त्वप्रदीप°, ४तारक°, तुर्यातुर्य°,
तेजस्°, त्रि°, दीप°, दीपवत्°,
पश्चिमाभिमुख°, प्रत्यच्°, प्राप्ता-
र्थ°, बुद्धि°, मिश्र°, युगपद्बुद्धि...
वि°, सत्तामात्र°, सत्तामात्रप्रका-
शक°, सर्व°, सर्वज्ञान°, स्फुट°,
स्व°, स्वयंज्योतिस्°, स्वयम्°,
स्वात्मन्°
+प्रकाश-कृत- रहस्यकृत°
+प्रकाशै(श-ए)क-बन्धन-यद्°
प्र-काशक- अप्राप्त°, देवज्ञान°,
२योग°, सर्वविद्या°, सिद्धिमार्ग°,
प्र-काशन- चिदादित्य°, सर्वविद्या°
प्र-काशित- तद्°, विद्या°
+प्र-काशित्, नी- ४अ°, तेजस्°,
१पर°, सर्वजन्तु°, सूर्यादिस...न°
प्र-काश्य- ४अ°
प्र-कीर्ण- प्र√कृ (परि.) द्र.
+प्र√कुप्>प्र-कोप- वातपि...धि°
प्र√कृ(करणे)> १प्र-करण°-
प्र-कार- अनन्त°, अन्य°, इत्यादि°,
२उपासना°, एवम्°, १गुह्य°, घट-
ना°, तद्°, तदुक्त°, दशन°, द्वि°,
पुरुषसू...स्य°, भजन°, १मोक्ष°,
लिङ्गदेह°, विविध°, व्यष्टिसमाष्टि°,
स्वगुरुकृत°
प्र-कृति- अविवेक°, अष्टन्°, जी-
व°, परम°, प्रयाव°, प्रयावहं...
न°, भूत°, माया°, १मूल°, ६स°,
स्थूल°
+प्रकृति-काल- अरिष्टयुक्त°
प्रकृति-लय- १विदेह°

४) गपू. (पृ ५२६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) =संन्यासिबर्गविशेष- । c) बत्रा. द्र. । d) निसा. अपा. ।

७) =यागविशेष- । f) गपू. (पृ ५२८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) वैपश् यद्र. । h) मतवैविध्यप्रदर्शनार्थं तु. टि.

वि-कट- । i) गपू. (पृ ५२९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

प्रा-कार- अनन्त°, आनन्द°, गो-
पुर°, वैकुण्ठ°, सहस्र°, सुवर्ण-
जाम्बूनद°, स्वर्ण°
+प्राकार-विशेष- अनन्त°, अ-
नेक°
प्राकार-प्रासाद-तोरण-विमानो-
(न-उ)पवना(न-आ)वलि- अ-
नन्त°

प्र/कृष्> +प्र-कर्ष- ध्यानाभ्यास°
प्र-कृष्ट- सर्वदेव°

प्र/कृ, > किर > +प्र-कर- जातियु-
थिका°
+प्र-करण- १नानापुष्प°
+प्र-कीर्ण- लता°

प्र/कल्प (<कृप्)> कल्प > प्र-क-
ल्पित- दृढवंश°, मृदुवर्मन°,
व्यवहार°

प्र-कोप- प्र/कृप् (परि.) द्र.

प्र-कोष्ठ-> +प्रकोष्ठ-शूल^र- शिरः-
शूल°

प्र/क्षाल > क्षालि > +प्र-क्षालित-
पाद°

प्र/क्षि(क्षये) > +प्र-क्षय- रवासना°

प्र/क्षिप् > +प्र-क्षेप- अक्षत°
१प्रक्षेप-क°-

+२प्र-क्षेपक- प्रकाश°

+प्र/ख्या > प्र-ख्य, ख्या- इन्दीवर-
दल°, मणि°, रत्नवर्णमणि°,
हेमन°

प्र/ग्रह > प्र-ग्रह- १मनस्°

प्र-चण्ड°- दरुडेश°, २मधु°

प्र/चर् > प्र-चार- ४अ°, १मनस्°

प्र/चल् > +प्र-चल- उद्यत्ता...र्ष°

प्र/चित् > प्र-चेतस- दिशु°

प्र/चुद्, > चोदि, प्रचोदयात् मउ ३,
६; ८; १०; ११; १३; १४; १८.

प्र-चोदित- तद्°, पुरायपाप°, पुरा-

कल्प°

+प्र-चोदित- हंसात्ममा...ल°

✓प्रच्छ, > पृच्छ अति°, अनु°, परि°,
सम्°

+पृच्छक- परि°

पृष्ट- ४अ°

१प्रश्न- अति°, १काम°, तद्°,
तृतीय°, परि°, सम्°

२प्रश्न- ईशु°

प्राश्- परि°

प्र/च्यु > +प्र-च्यव-, प्र-च्युत-
४अ°

प्र/जन्, > जा > प्र-(ज)जा- -जया

कौ २, ५^d; मउ २, ४^g°. [°ज, जा-
अधि°, आत्मतत्त्व°, राजन्°]

प्रजा-पति- -ति: मउ २, ४^g°.

[°ति- अखिललोकसृष्टि°, इन्द्र°,
निशाकर°, शक्र°, शिशुमार°]

प्र-जात- १च्युत°

प्र-जायमान- ४अ°

प्र/ज्ञा > १प्र-ज्ञ- ४अ°

१प्राज्ञ- १देव°, महा°

२प्राज्ञ- कारणाव्याकृत°,
२जाप्रत्°, तद्°, तुरीय°, तैजस°,
२प्राज्ञ°, १विश्व°, १विश्व°, १
सुषुप्त°, स्वप्न°

२प्र-ज्ञ, ज्ञा- अधि°, अन्तर°, अ-
मल°, आयुस्°, उभयतस्°, १घन°

पूर्व°, बहिस्°, मायावाद...त°,
श्रद्धा°, श्रुतानुमान°, सत्या°,
सम्यच्°, सूक्ष्म°, स्त्री°, स्थित°,
स्थूल°

प्र-ज्ञान- एकीभूत°, १सत्य°

प्र/ज्वल् > +प्र-ज्वल-> +प्रज्वल-
संज्वाला- स्फुरत्°

प्र-ज्वलित- अक्षोभ्यमौलीन्दु°

प्र/ण (<न)म् > प्र-णाम- सार्वार्थिक°

प्र/ण (<न)श् (अदर्शने) > नाशि >

प्र-णाश- १पाप°, मरणाप्रभव°

+प्र-णाशन- सर्वपाप°

+प्र-णा (<ना)ल-> प्रणा(लक)-

लिका- रागरङ्ग...वेणु°

प्र-णि (<नि) / घा > प्रणि-धान-

ईश्वर°

प्र/णी (<नी) > प्र-णय- ज्ञेह°

प्र-णीत- प्राच्°

+प्र-णीय ४अ°

प्र-णेत- कालचक्र°

प्र/णु (<नु) > प्र-णव- -वम् ध्या

१८^b. [°व- अकारोका...र°, अ-
न्तर्°, अभिमानोत्पत्ति°, अर्धमा-
त्र°, अर्धमात्रा°, आन्तर°, आर्ष°,
उत्पत्ति°, द्वादशसहस्र°, निर्गुण°,
निर्विशेष°, प्राच्°, बाह्य°, १ब्रह्म-
च्°, महत्°, मानुष°, विराज्°,
व्यावहारिक°, ६स°, संहार°,
सप्तन्°, सृष्टि°, हंस°, हंस°]

+प्रणव-प्रयोग- २प्लुत°

+प्रणव-विमान- तदभ्यन्तरस्थि-

...त°

+प्रणव-संधान- दीर्घ°

+प्रणवा(व-आ)वर्तन- शुद्धि°

प्र/णु (<नु)द् > +प्र-णुद- जरा°

प्र/तन् > +प्र-तान- लता°

प्र/तप् > प्र-ताप- चण्ड°, प्रदीप°

+प्र/तर्क > प्र-तर्क- ४अ°

+प्रति/काश > प्रति > ती-काश-
कोटिसूर्य°, चित्रभित्ति°, पद्मकोश°
पद्मसूत्र°, भानुकोटि°

प्रति-कुञ्ज- कुञ्ज°

+प्रति/कृज् > प्रति-कृज- रतिसुख-
संपत्ति°

प्रति/कृ(करणे) +प्रति-कृति- १रूप°

+प्र(ति) ती-कार- ४अ°, तद्°,

a) गपू. (पृ५३१) 'प्र-क्षेपक-' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । b) विप. वा नाप. वा । c) भावे कर्तारि वा कृत् । d) आन., अज्याः सा. अपा. । e) मा ८, ३६ । f) गपू. (पृ५३५) यनि. संख्याननिर्देशः द्र. । g) भावे कर्मणि वा कृत् । h) आन. अपा. ।

प्रात्यहिकबुध्
 प्रति-क्षण- > +प्रतिक्षण-सुख-दावृ-
 २ललिता°
 प्रति/गृह्, ग्रह् > +प्रति-गृह-
 ४अ°
 प्रति-ग्रह- उग्र°, समस्तपा...तक°
 +प्रति/घट् > प्रति-घटित- चन्द्र-
 खण्ड°
 प्रति/ज्ञा > +प्रति-(ज्ञा)ञ्-
 १सत्य°
 प्रति-तिष्ठत्- प्रति/ष्ठा द्र.
 प्रति/पद् > पादि > प्रति-पत्ति-
 अनेक°, अन्य°, तदन्तर°
 +प्रति-पादक- कर्मन्°, त्वद्रूप°
 प्रति-पादन- निरुपाधितादात्म्य°,
 सर्वश्रुत्यर्थ°
 प्रति-पादित- १ज्ञान°, नारायण°
 *प्रति-पाल- > /प्रतिपालि > +प्र-
 तिपालक- १शिष्ट°
 +प्रति/फल > प्रति-फलन- चन्द्र-
 सूर्य°
 प्रति/बन्ध > प्रति-बद्ध- ४अ°
 प्रति-बन्ध- ४अ°, प्रस्तुत°
 +प्रति-बन्धन्- अन्यसंस्कार°
 प्रति-बिम्ब- १चित्°, बिम्ब°
 /प्रतिबिम्ब > प्रतिबिम्बित- अ-
 न्तःकरण°, अविद्यासागर°, ज्यो-
 त्सनाति...वस्तु°, तद्°, बुद्धि°
 प्रति/भास् > प्रति-भास- प्रारब्ध°
 प्रातिभासिक- व्यावहारिक°
 प्रति-भासित- वेदशास्त्र°, सागर°
 प्रति/मा(माने) > प्रति-म, मा- ४अ°
 ईश्वर°, नूतन°, पाषाण°
 +प्रतिम-लिङ्ग- महत्°
 प्रति/युज् > प्रति-योगिन- क्षण°
 +प्रति/रुघ् > प्रति-रोधक- चक्षुस्°
 प्रति-रूप- ४अ°
 प्रति/वच् > +प्रति-वचन- वचन°
 प्रति/विद् (ज्ञाने) गपू. पृ५४१ द्र.

+प्रति/विद्(पीडायाम्) > प्रति-विद्-
 -विदः कौ १, ४.
 +प्रति-वैकुण्ठ- अविद्यासा...रठ°
 +प्रति-शाखा- शाखा°
 +प्रति/शास् > प्रति-शासन- ४अ°
 +प्रति/श्रि > प्रति-श्रय- शून्यागार°
 प्रति/पि(<सि)घ् > प्रति-पिद्ध-
 विहित°
 प्रति-षेध- अन्य°, तद्°, श्रवणा...
 र्थ°
 प्र-तिष्ठमान- प्र/स्था द्र.
 प्रति/ष्ठा(<स्था) > प्रति-ष्ट, ष्ठा-
 ४अ°, अचल°, अतद्रूप°, अस्त्येय°,
 अहिंसा°, २कौल°, चित्रतम°,
 प्राण°, ब्रह्मचर्य°, लिङ्ग°, वायु°,
 ६स°, १सत्°, १सत्य°, सर्वविद्या°,
 सु°, १स्वरूप°, हुताशन°, १हृद्°
 प्रति-ष्ठान- ४अ°, अन्तर्°
 प्रति-ष्ठित- -ताः नाप १५१ : ७.
 [°त- ४अ°, अनुष्टुप्°, पूर्व°,
 सु°]
 +प्रति-सं/क्रम् > प्रतिसं-क्रम-
 ४अ°
 प्रति/स् > प्रति-सर- महत्°
 १प्रती[ति/इ(गतौ)] > प्रती(ति-इ)त-
 सर्व°
 प्रती(ति-इ)ति- अपरोक्ष°, आत्मन्°,
 कार्यता°, तद्भेद°, निर्गुणनिरवय-
 वादि°, बाह्य°, १भाव°, मिथ्या°,
 रक्त्स्फटिक°, वेदार्थ°, शुद्धस्फटि-
 क°, सगुणपरिच्छिन्नादि°
 प्रत्य(ति-अ)य- ४अ°, अभाव°, अ-
 स्मद्°, इतरेतर°, एकात्मन्°, तद्°,
 तद्रूप°, तुल्य°, २दर्शन°, २भव°,
 विराम°, शब्दार्थ°, स्वात्मन्°
 +प्रत्यय-शब्द- अस्मद्°
 प्रतीक- सु°
 +प्रतीका(क-अ)लम्बन- ४अ°
 प्रतीकार- प्रति/कृ(करणे) परि. द्र.

प्रती-काश- प्रति/काश्(परि.) द्र.
 प्रती(ति/ई)ञ् > +प्रती(ति-ई)क्षा-
 १आशा°
 प्रत्य(ति-अ)ञ्- अबाह्य°, केशसमूह-
 शिखा°, १नित्य°
 +प्रत्यक्ष-निर्णय- १नित्य°
 प्रत्यक्ष-बाध- तद्°
 +प्रत्य(ति-अ)ङ्- १अङ्ग°
 प्रत्य(ति/अ)च् > प्रत्य(ति-अ)च्-
 > +प्रत्यक्-प्रकाश- अकर्तृ°
 प्रत्य(ति-अ)धि-देवता- देवता°
 +प्रत्य(ति-अ)र- विशति°
 प्रत्या(ति-आ)/घा > प्रत्या-धान-
 ६स°
 प्रत्या(ति-आ)/ह् > प्रत्या-हार- प्रा-
 णायाम°, २यम°
 प्रत्युष- धावृ°
 प्रत्ये(ति-ए)क- पञ्चाशन्मा...र्शु°
 /प्रथ् > +प्रथिति- तद्°
 प्रथम- २दर्शन°
 प्रथमा(म-अ)क्षर- ईकार°
 प्रथमा(म-आ)वरण- तद्°
 +प्रथस्- ६स°
 प्र/दह् > +प्र-दाह- ४अ°
 प्र/दा(दाने) > +प्र-त्त- मद्°
 +प्र-द- अणिमादि°, अणिमा-
 दिगुण°, अप्रतर्क्यसुख°, अभय°,
 अमनस्कफल°, आरोग्य°, १काम°
 कामफल°, कामितार्थ°, काम्य°,
 क्रमसुक्ति°, चतुर्वर्गफल°, चतुर्वि-
 धपु...द्धि°, जन्मकर्मफल°, जन्म-
 कोटिशत°, १ज्ञान°, दीर्घायुष्य°,
 दुःखजन्मभय°, दुःखशोकामय°,
 देवेन्द्रभोग°, धनघा...पत्°,
 धर्मोपशम°, १फल°, १बीज°,
 भक्तानन्द°, १भय°, भुक्तिमुक्ति°,
 भुक्तिमुक्तिफल°, भूमण्डलाधिप-
 त्य°, १भोग°, १मङ्गल°, १मनस्°,
 महस्त्वामफल°, महाज्ञान°, १

महामङ्गल°, महायोग°, महालक्ष्मी°, महासंपद्°, सुक्ति°, १मोक्ष°, रतिसुखसंपद्°, रोग°, वयुन°, १वर°, वसु°, वाञ्छित°, शुभ°, संपद्°, सर्वकर्मफल°, १सर्वकाम°, सर्वकामफल°, सर्वजीवभय°, सर्वज्ञान°, सर्वदुःख°, सर्वफल°, सर्वबल°, सर्वभोग°, सर्वविद्याप्रकाशन°, सर्ववेदचतुर्वर्गफल°, १सर्वशक्ति°, सर्वसंपद्°, सर्वसिद्धि°, सर्वसौभाग्य°, सर्वाभीष्ट°, सर्वाभीष्टफल°, सर्वोप्सितफल°, सर्वैश्वर्यफल°, सायुज्यमुक्ति°, सुख°
 प्र-दातृ- १एकाक्षर°, तदभ्यास°
 प्र-दान- अवकाश°, इन्द्रनील°, एकादशसहस्रगो°, कोटिगो°, गो°, तद्°, तिलमात्र°, दशगो°, दशधेनु°, द्विसहस्रगो°, पाद्यासन°, पिरण्ड°, बलि°, भक्ष्यभोज्य°, रत्नासन°, लक्ष°, वैदूर्य°
 प्र-दाय ४अ°
 +प्र-दायक- दिव्ययोग°, फलसुक्ति°, १मोक्ष°, सर्वसिद्धि°
 प्र-दायिन्, नी- अमृतत्व°, आनन्दवि...स्व°, दाह°, भुक्तिमुक्ति°, सुसुक्षुत्व°, सर्वैश्वर्य°
 +प्र/दिह्>प्र-दिग्ध- रुधिर°
 प्र/दीप्>प्र-दीप- तत्त्व°, श्रुत्युत्य...न°
 प्र-दीप्त- अत्यन्त°
 प्र/दुष्>+प्र-दुष्ट- दुष्ट°
 प्र/दृश्>+प्र-दर्शन- मध्यनाली°, सु°
 प्र-देश- अधस्°, फाल°, गुद°, गुल्फ...टि°, नाभि°, पाद°, मध्य°, शिरस्°
 प्रादेश- अद्भुष्ट°, शरीर°
 प्र/द्युत्>प्र-द्योतमान- सर्वोत्कृष्ट-परमद्युति°
 प्र-द्योति(त>)ता- कौमुम्भा°

प्रशुभ- अनिरुद्ध°, १राम°, वासुदेव°
 प्र/धा>प्र-धान- अविद्या°, आत्मशक्ति°, गुण°, चातुर्होत्र°, तद्°, वृन्दावनेश्व...डा°, रजोगुण°, शक्ति°, संसु°, १शुद्धसत्त्व°, सत्त्व°, सत्त्वतमोगुण°, १सम°
 प्राधान्य- आनन्द°, उभय°, तत्तद्°, विद्या°
 प्र/ध्वंस्>+प्र-ध्वंसिन्- उद्भूत°
 प्र/पञ्च>प्र-पञ्च- अनन्तभव°, अन्तर्बहिस्°, अभ्यन्तर°, अविद्या°, २जाग्रत्सुषुप्ति, जाग्रत्सुषुप्ति, सुषुप्त्यादि, निस्°, बहिस्°, बाह्य°
 १मोक्ष°, विद्या°, शारीर°, शिवशक्तिसंपुटित°, सर्व°, सर्वविद्यापाण्डित्य°, सृष्टि°
 +प्रपञ्च(-क)- ६स°
 +प्रपञ्च-गन्ध- विगत°
 +प्रपञ्च-रूप- -पश्य ते १, १९°.
 +प्रपञ्चा(ध-अ)वगाहित-ज्ञान-विद्याध्वस्त°
 +प्र/पठ्>प्र-पठन- ऋग्वेद°, यजुर्वेद°, सामवेद°, स्वस्ववेद°
 प्र/पद्>प्र-पद->+प्रपदा(द-अ)- क्लृष्ट- उन्नत°
 प्र-पञ्च- आगममन्त्र...स°, रसलीला°
 +प्र-पादिन्- सभा°
 प्र-पितामह- आत्मन्°, पितृ°
 +प्रपितामही- २मातृ°
 प्र/पीड्>डि>+प्र-पी(ड>)डा- तापत्रय°
 प्र/पृ>पूरि>+प्र-पूरित- विद्या°
 प्र/फुल्ल्>प्र-फुल्ल- ४अ°
 +प्र-बल->प्राबल्य- १अज्ञान°
 प्र/बुध्>+बोधि>प्र-बुद्ध- ४अ°, अर्ध°, अर्धसुप्त°, आत्मन्°, १नित्य°, सम्यक्°
 प्र-बोध- अन्तर्°, आत्मन्°, जाग्रत्संस्कारोत्थ°, १ज्ञान°, ब्रह्मविद्या°, १मन्त्र°, शक्ति°, १वाच्°
 +प्र-बोधित- सु°

मध्यशक्ति°, शक्ति°
 +प्र-बोधक- १वाच्°
 +प्र-बोधित- सु°
 प्र/भञ्ज्>प्र-भञ्जन- सर्वमन्त्र°
 प्रभर्मन्- तृपल°
 प्र/भा>प्र-भ, भा- अकृत्रिममारी°, अग्नि°, अनन्तेन्दुरवि°, अर्चिःसम°, इन्द्रगोपसम°, उग्र°, कोटिचन्द्र°, कोटिदिवाकरसम°, कोटिसूर्य°, कौस्तुभ°, गोक्षीरधवल°, चन्द्रकोटिसम°, चामीकर°, तडित्°
 तप्तजाम्बूनद°, तुहिन°, पूर्ण°, प्रातःसूर्यसम°, बालार्ककोटि°, ब्रह्मज्ञान°, ब्रह्मानन्दरस°, भानुकोटिसम°, भिन्नाञ्जनसम°, १मनस्°, महाविद्यासंचय°, मृदु°, रत्न°
 विद्युत्पुञ्जसम°, विधूमग्निसम°, १सत्य°, सुवर्णसदृश°, सूर्यकोटिसम°, सूर्यायुत°, स्फटिक°, स्फटिकधूम्रवि...दि°, स्व°, स्वयम्°, स्वर्ण°, हरिदिनकृत°
 +प्रभा-शक्ति- विज्ञेपशक्ति°
 प्र/भाष्>+प्र-भाषण- मद°
 प्र-भास- धातृ°
 प्र/भिद्>+प्र-भेद- अधिकारिन्°, आकाश°, दैवादि°, सर्वदोष°, सर्वभोग°
 +प्र-भेदिन्- शिरःशूलाक्षि...टक°, सर्वविद्या°
 +प्र-भेष- ४अ°
 प्र/भृ(बधा.)>प्र-भव- १ओंकार°, मरण°, संकल्प°, स्वभाव°
 प्र-भाव- अप्रतिम°, आयुध°, तपस्°
 १पुरय°, अद्°, राममन्त्र°, शक्ति°
 शून्याशून्य°, सर्ववैराग्य°, स्नानपुरय°, स्वपूर्वाप...धर्म°, ह्यप्रीव°
 प्र-भु- भुः मैत्रि ५, ११°. [भु-कमला°, तद्°, महत्°]
 +प्र/भृ>प्र-भृति- गौतमभर...ष्ट°,

चन्द्रावली°, तदा°, तपस्°, मरुत-
भरत°, संवर्तकारुणिश्वेतकेतुज...
क°, संवर्तकारुणिश्वेतकेतुदु...त्रे-
यैरैवतक°, संवर्तकारुणिश्वेतकेतुदु-
...त्रेयैरैवतकमुसुराड°
प्र-भेद-°, दिन्-°, घ- प्र/भिद्
(परि.) द.
प्र/मथ्>+प्र-मथन- १बल°
प्र/मद्>प्र-मत्त- ४अ°
प्र-माद- ४अ°, निद्रा°, व्याधि°
प्र/म(माने)>प्र(म)>मा- अन्त-
र्गत°, अन्तर्गूढ°
प्र-माण- ४अ°, अखिल°, १अणु°,
अण्ड°, अयुतद्...न°, अष्टहस्त°
अहोरात्र°, आशुस्°, एकाङ्गुल°,
२कति°, कार्पासास्थि°, कियत्°,
शुरु°, तर्क°, त्रुटिमात्र°, दशह-
स्त°, धतुस्°, धर्मिप्राहक°, धात्री-
फल°, धूपवेला°, नाभ्यादिब्रह्म-
विल°, नाभ्यादिब्रह्मरन्प्रान्त°,
पादादिमस्तक°, सपादकोटियो-
जन°, सर्व°, २हस्त°, हस्तमात्र°
प्रामाण्य- ४अ°
+प्रमाण(-क)- तद्°
प्र-मातृ->+प्रमातृ-ता- देहशून्य°
प्र-मित- वितस्ति°
प्र-मेय- ४अ°, प्रमाय°
प्र-मुख- भीष्मद्रोण°
प्र/मुच्>मोक्ष>+प्र-मोक्षण- सा-
र्वकालिकसर्वभय°
प्र/मुद्>प्र-मु(द)>दा->१प्रमु-
दि(त)>ता°-
+२प्र-मुदित- १नित्य°
प्र-मोद- मोद°, २वर्षा°
प्र/मृज्>+प्र-मार्जन- तद्°
प्र/यत्>प्र-यत्न- ४अ°, अति°,
आत्मन्°, कृत°, १पुरुष°, सर्व°
प्र/यम्(यमने)>प्र-यत्->+प्रयत्-

मानस- ४अ°
प्र-याज- प्र/यज् द.
प्र-यास- प्र/यप् द.
प्र/युज्>प्र-युक्त- १ओंकार°, करठ-
माला°, १पर°
प्र-योग- अभ्यास°, नृत्यक्रीडा°,
प्रणव°
+प्रयोग-कल्प- तद्°
प्र-योजक- ४अ°, संसारोत्पत्ति°
प्र-योजन- रूपग्रहण°, ६स°
+प्र-योज्य- अपर°
प्र/रुह्>+प्र-रोह- उपदेशबीज°,
मणीनारङ्ग°
प्र/लप्>+प्र-लाप- असंबद्ध°
+प्र/लम्ब्>प्र-लम्बिन्- मुक्ताहार°
+प्र/लिप्>प्र-लिस- २सुधा°
+प्र-लेप- मलमूत्र°
प्र/ली>प्र-लय- अनादिमूलाविद्या°
आ°, उदात्त°, जगत्°, महत्°,
संपत्सुतन्त्री°, सृष्टि°, स्थिति°,
स्थिति°
+प्रलय-ज्वाला(ला-अ)ग्नि-
अनन्तघोर°
प्रलयो(य-उ)दय- संसार°
प्र-लीन- अन्तर्°
प्र/वच्, प्रवक्ष्यामि त्रिवि १b.
+प्र-वक्तृ- शिवधर्म°
प्र-वचन- स्वाध्याय°
प्रो(प्र-उ)क्त- अन्य°, मुनि°, १मृत्यु°,
१शिव°, १श्रुति°, हनुमत्°
+प्रो(प्र-उ)च्य ४अ°
प्र-वरा- उदक्°
प्र/वस्(निवासे)>+प्र-वसित- १नि-
त्य°
प्र/वह्(गतौ)>प्र-वाह- अनन्ता-
नन्द...रस°, अनर्गल°, अमितते-
जस्°, अमृतधारा°, आनन्द°, आ-
नन्दरस°, आह्लादानन्त°, गङ्गा°, १

२जल°, तेजस्°, दुःख°, परमतेजो-
महानदी°, परमानन्द°, प्रयास°,
ब्रह्मतेजो...रस°, ब्रह्मविद्या°, ब्रह्मा-
कारमनोवृत्ति°, १मनस्°, सजा-
तीय°, सूर्यमण्डला...नदी°, स्वा-
त्मान...रस°
प्रौ(प्र-ऊ)ढ- ४अ°
२प्रवाल- धातु°, विषय°, सुवर्णयूधि-
का°, स्फटिक°
प्र-वि/भज्>+प्रवि-भाग- तद्°,
पदार्थ°
प्र/विश्>प्र-विष्ट- वेदशिरस्°
प्र-वेश- अभि°, २चैतन्य°, परकाय°,
विल°, सावित्री°
+प्रवेशा(श-अ)न्त- ईक्षणादि°
+प्र-वीण- अत्यन्त°
+प्र-वीर- १कुर्द°
प्र/वृ(वरणे)>१प्र-वर- १देव°
प्र/वृ(आच्छादने)>२प्र-वर- अनेक-
मणिलता°
+प्रा-वार- विविधलता°
प्र/वृत्>प्र-वर्तक- कर्मज्ञानवैराग्य°,
दिवा°, सुक्लिमार्ग°, रात्रि°, सर्व°
+प्र-वर्तिन्- ४अ°, ऊर्ध्व°
प्र-वृत्त- ४अ°, द्वादशनाड्यन्तर्°,
विसुक्यभि...र्ग°, शिवयोग°
प्र-वृत्ति- ४अ°, इतरशास्त्र°, इ-
न्द्रिय°, तत्तत्कर्म...य°, निष्कल°,
प्रकाश°, बहुमार्ग°, १ब्रह्मन्°,
युगपद्°, २योग°, योगशास्त्र°,
संसारनिवृत्तिमार्ग°, सदाचार°,
सर्व°, स्वचतुर्दशकरण°
प्र/वृष्>प्र-वृद्ध- गुण°
प्र-वृद्धि- १वर°
प्र/वृष्>प्रा-वृष्->+प्रावृषेण्य->
+प्रावृषेण्य-वन-राजि- सजल°
प्र/वे>प्रो(प्र-उ)त्- ओत°, १शृङ्ग°
+प्र/वेष्ट>प्र-वेष्टित- नानारत्न°

a) गपू. (पृ ५५१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) आन. अपा. । c) व्यु. ? । d) गपू. (पृ ५५५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

प्र/व्रज् > प्र-व्रजित- अति°, चाट°
 प्र/शंस् > प्र-शंस(स)सा- विसुक्ति°
 साधु°

प्र-शस्त- ४अ°

प्र/शम्, > शाम् > प्र-शम- १मनस्°
 †प्र-शमन, नी- १मनस्°, महादुर्ग°,
 सर्वदुष्ट°, सर्वमृत्यु°

प्र-शान्त- ४अ°, सु°

†प्र-शान्ति- भूत°

प्र/शास् > †प्र-शिष्य- शिष्य°

प्र/श्वस् > †प्र-शवास- दुःख°,
 श्वास°

प्र/सञ्ज् > प्र-सक्त- तद्°, भोगै-
 श्वर्थ°

†प्र-सक्ति- आचार°, कृत्स्न°, दृष्टवा-
 धादि°, दोषद्वय°, पुनर्वाद°, पूति-
 भाव°, बहुकल्पना°, ब्रह्मबाध°,
 वस्तुकल्पना°, विशेषणानर्थक्य°,
 हिताकरणादि°

प्र-सङ्ग- अनिष्ट°, अन्यस्मृ...दोष°,
 अविमोक्ष°, उपलब्ध्यनुपलब्धि°,
 तद्वत्°, निमित्तनैमित्तिक°, १रति°
 स्मृत्यन...ष°, स्व°

प्र/सद् > प्र-सन्न- अति°, मधुर°, सु°
 प्र-साद- अध्यात्म°, आत्मबुद्धि°,
 १ओंकार°, क्षिप्र°, गुरुदेव°, गुरु-
 वक्त्र°, प्रामस्वामिन्°, १चित्त°,
 चित्त°, १ज्ञान°, तद्°, त्वद्°,
 १देव°, देवता°, नारायण°, भोज-
 नोच्छिष्टकृपा°, मद्°, १मनस्°,
 वनदुर्गा°, १वरी°, १वाच्°, व्यास°
 १शिव°, श्रीहनुमत्°

प्र-सादन- चित्त°

प्रा-साद- अनन्त°, अनेक°, चिन्मय°
 २चैतन्य°, प्राकार°, बोधानन्द°,
 मेरु°, वैकुण्ठ°, शुद्धानन्दवि...
 नन्त°

प्र/सद् > †प्र-साह- ४अ°

प्र/साध् > †प्र-साधक- अशेषार्थ°
 २प्र-साधन- देह°

प्र/सिध् > प्र-सिद्ध- ४अ°, षड्गुण°
 प्र-सिद्धि- शिवयोग°, सर्वयोग°

प्र/सू(प्रैरयो) > †१प्र-सव- १सत्य°

प्र/सू (प्रसवे), प्रसूते त्रिता १, २०.
 २प्र-सव- नानानाडी°, निवृत्त°,
 प्राणिन्°

प्र-सूत- १नव°, बृहस्पति°, सत्कुल°

प्र-सूति- तद्°

प्र/सृ, > सारि > †प्र-सारण- पाद°
 प्र-सार्य जाद ३, ६, २^b.

प्र-सृत- संसारवारि°

प्र-सृति- > †प्रसृति(-क)- ६स°

†प्र/सृज् > प्र-सृष्ट- त्वद्°, मद्°

प्र/स्तु > प्र-स्तुत- > †प्रस्तुत-प्रति-
 बन्ध- ४अ°

प्र/स्था > प्र-स्थ- १देव°, पित्त°,
 महत्°, वन°

†प्र-स्थान- महत्°

†प्र/सृ > प्र-स्रवण- गिरि°

प्र/हा(त्यागे) > †प्र-हाण- स्वरूप°
 †प्र-हाणि- जन्ममृत्यु°

प्र/ह् > †प्र-हरण- दम्भोलिस्तम्भ-
 सार°, नानाशस्त्र°, भस्मन्°

†प्रह्वी- विमला°

प्रा(प्र/अ)च्, ङच् > प्रा(प्र-अ)च्, ङच्-
 प्राक्, प्राङ् कौ २, १०.

प्राक्-त्तन- > †प्राक्तन-संचार- पुर-
 प्राम°

†प्राक्-श्रुति- तद्°

†प्राग्-भार- कैवल्य°

प्राचीन- > प्राचीन-योग- > प्राची-
 नयोग- सैतव°

प्रा(प्र/अ)ण् (प्राणने), > प्राणि >
 प्रा(प्र-आ)ण- -णः नाप १५१ः
 ८^b; -णाः नाप १५१ः ७^b; -णेन
 कौ २, ५^c. [°ण- ४अ°, अपान°,

आयत°, इन्द्रिय°, १इष्ट°, उत्का-
 न्त°, उप°, एक°, कण्ठस्थ°,
 चक्षुस्°, जगत्°, जीव°, पञ्चन्°,
 बाह्य°, ब्रह्माथर्वन्°, भूत°, मद्रत°
 १मनस्°, मर्मन्°, ३महिष°,
 मुख्य°, १वाच्°, २वासना°,
 व्यान°, श्री°, ६स°, १समान°,
 १समान°]

†प्राण-चिन्तन- प्रयास°

†प्राण-पञ्चक- बुद्धि°

प्राण-प्रतिष्ठा- लक्ष्मण°

प्राण-मथ- अन्नमथ°

†प्राण-योजन- तद्°

प्राण-स्थापन- गायत्री°, शुद्धि°

†प्राण-हत्या- समस्तपात...क°

प्राणा(ण-आख्या) > ख्य- ४अ°

प्राणा(ण-अ)ग्निहोत्र- कठव-
 क्षी°

प्राणा(ण-आ)दि- वायुकार्य°

प्राणा(ण-आ)धाम- २यम°

प्राणिन्- शत्रु°, सर्व°

†प्राणि-जीव- सर्व°

प्रा(प्र-अ)णत्-, †प्रा(प्र-आ)णयित-
 व्य- ४अ°

प्रातर(>:) रुजा ४९ⁱ. [अभि°,
 सायम्°]

प्रादुस् > प्रादुर, > प्रादुर-भाव-
 अणिमादि°, अभिभव°, आवि-
 भाव°

प्रा(प्र-अ)न्त- ओंकारोच्चारण°

प्रा(प्र/आ)प्, > ईप्स् > प्रा(प्र-आ)-
 पक- सर्वशरीर...हन्°

प्रा(प्र-आ)स- ४अ°, क्रम°, १तन्मा-
 त्र°, परंपरा°, १ब्रह्मन्°, यथा°,
 १सम°, २हस्त°

प्रा(प्र-आ)सि- ४अ°, अकारण°,
 अक्षर°, १केवल°, कैवल्य°, तत्त-
 लीलौ...ला°, तत्तल्लोक°, तद्°,

३. गपू. (पृ५५७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) अज्याः यो. अपा. । c) बप्रा. द्र. । d) करणौ कृत ।

e) व्यु. । f) अज्याः सा. अपा. । g) आन., अज्याः सा. अपा. । h) अज्याः सं. अपा. । i) अज्याः शै. अपा. ।

तद्दर्शन°, तल्लोक°, देशान्तर°,
देहान्तर°, धर्म°, निर्वाण°, परमा-
त्मपद°, पुनर्°, प्रेमानन्द°, ब्रह्म-
ज्ञान°, १ ब्रह्मन्°, १ भगवत्°, भज-
नप्रे...ख°, १ मोक्ष°, रसिकानन्द°,
शुभ°, संभोग°, सर्व°, सारस्वत°,
सुहृद्°

प्रा(प्र-आ)प्य ४अ°

प्रा(प्र-आ)प्य- प्राप्त°

+प्रे(प्र-ई)प्सु- कर्मफल°, १फल°

प्राबल्य- प्रबल- (परि.) द्र.

प्राय- मोद°, शमदम°

प्रायस्(> श) > प्रायश्-चित्त- कृच्छ्र°
प्रयागा...क्त°, सर्व°

प्रा(प्र-आ)√रभ् > प्रा-रब्ध- > +प्रा-
रब्ध-कर्मन्- विविधविचि...भ°

प्रा-रम्भ- प्रावृत्काल°

प्रा(प्र-अ)र्थे > थिं > प्रा(प्र-अ)र्थ-
(न)ना- गृहस्थ°, २तपन°

प्रावी°- सु°

प्रा(प्र-आ)√वृ(आच्छादने) > प्रा-वर-
ण- > +प्रावरण-भोजन- २कु°

प्रावृषेण्य- प्र√वृष्(परि.) द्र.

प्रा(प्र-अ)श(भोजने) > +प्रा(प्र-अ)-
शन- सक्तु°

प्रियङ्गु- २अणु°

प्रियङ्गु-बिल्व-पैपल्य°

√प्री सम्°

प्रिय- ४अ°, अर्च्य°, आलिङ्गन°,
ईश्वर°, १काम°, २कृष्ण°, गान°,
जडत्व°, तामस°, तिलज्योति-
र्धृत°, दृष्टि°, नारायणमनस्°,
१पद्म°, परोक्ष°, बिल्व°, २भक्त°,
१भोग°, महाकाल°, महामङ्गल°,
मुकुन्द°, योगिजन°, योषित°,
१रति°, १रुद्र°, लोचन°, वस्वष्टक°
विष्णु°, १शिव°, ६स°, संभोग°,
सर्व°, सर्वजन°, सारिवक°,

स्वतस्°, हरि°

प्रेष्ठ- मणि°

+प्रियं-कर- सर्व°

प्रिय-तम- अत्यन्त°

प्रिय-व्रत°- स्थाणु°°

प्रिया(य-अ)प्रिय- तुल्य°, सर्व°
प्रीत- अति°

प्रीति- अति°, आयुस्°°, गङ्गा°, तद्°

देवता°, परमहंस°, १भगवत्°,

१रति°, विष्णु°, १शिव°, श्रीका-

लाभिरुद्र°, श्रीमहागरुड°

प्रीयमाण- सम्°

प्रेमन्- अति°, इन्द्रियशुद्धि°, गाढ°,

१पर°, परम°, भजन°, १रति°,

सखि°, सर्व°, सुरतकला°°

प्रेम-भजन- अत्यन्त°

+प्रेम-भर- आलिङ्गनसु...त°

१प्रेमा(म-आ)नन्द- १धुरता-
नन्द°

+प्रेमानन्द-प्राप्ति- अति°

प्रे[प्र√इ(गतौ)] > प्रे(प्र-इ)त- १अ-
सुर°°, दिग्भवादि°°, भूत°, भूत°°

+प्रेत-पिशाच- ६स°

+प्रेतपिशाच-मण्डल- ग्रहम-
ण्डल°°

प्रे(प्र√ई)क्ष् > प्रे(प्र-ई)क्षण- नटादि°,
प्रेमन्°

+प्रेक्षण(-क)- नाना°

+प्रेगीवक°- एक°, चतुर्°

प्रे(प्र√ई)र् > प्रे(प्र-ई)रित- दुष्टग्रह-
मन्त्रयन्त्रतन्त्रोच्चाटिनी°

प्रे(प्र√इ)ष्(गतौ) > +प्रे(प्र-ए)ष-
त्रिगुणीकृत°

+प्रे(प्र-ए)ष्य- १पर°

प्रोच्य प्र√वच्(परि.) द्र.

+प्रोदि [प्र-उद्√इ(गतौ)] > प्रोद्-
इत- > प्रोदित-मात्र- भूमि°

+प्रोष्टपद°°- उत्तर°, पूर्व°

प्रीहन्- १गुल्म°

√प्लु, > प्लावि आ°, उद्°, उप°, परि°,
प्र°, वि°, सम्°

१प्लव- १ओंकार°, १ज्ञान°

२प्लव- उप°, परि°, वि°, सम्°

+प्लवन- सु°

+प्लावक- रेचक°°

प्लावन- अमृत°

+प्लावित- आ°, केशच्छदा...स°

+प्लाव्य आ°

१प्लुत- पृषदाज्य°, सम्°

२प्लुत- उदात्त°, दीर्घ°, ह्रस्व°°

+प्लुत्य आ°, उद्°

+√प्सा, > प्साय सम्°

फ

फद् १हु°

√फण् > फण, णा- अयुत°, तद्°,
३शेष°

+फण्ट- > फण्ट-रस- गोरस°°

+फर्वा°- प्र°

√फल् प्रति°

१फल- ४अ°, अणिमादि°, अन-
न्त°, अतु°, अन्न°, अभीष्ट°,
अमनस्क°, अमृत°, अमृतत्व°,
अर्ध°, अविशिष्ट°, अशेष°, असं-
सर्ग°, आप्त°, १इष्ट°, ईप्सित°,
एकादशस...न°, एतद्°, कर्मन्°,
कर्माजित°, १काम°, कैवल्य°,
कोटिगोप्रदान°, कतुशत°, क्रिया°,
खर्चूर°, गुच्छ°, चतुर्वर्ग°, चतु-
समुद्र...न°, जम्बीर°, २जम्बू°,
१ज्ञान°, तत्तत्कर्मन्°, तत्तद्°,
तत्प्रदान°, तद्°, तिन्तिडीक°,
तृष्ण°, त्याग°, दशगोप्रदान°,
द्राक्षा°, द्विसहस्रगोप्रदान°, धर्म°,
२धात्री°, नारङ्ग°, नित्यविहित-
कर्मन्°, निस्°, नैवेद्य°, न्ययोध°,
पक्°, पञ्चाथ...प°, पत्र°, पयस्°,°

a) वैपश् यद्र. । b) गपू. (पृ५६६) °पैपल्य° इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । c) व्यु. ? । d) व्यु. ? = नचत्र-
विशेष- ।

बलि- दिश°, १नित्य°
 +बलि-दान- बलिवैश्वदेव°
 +बलिदानान(न-आ)दि- नैवेद्यभूत°
 बलिमान्- १बल- (परि.) द्र.
 व(<>व)स्ति+बास्तेय- -यम्
 छां ३, १९, २.
 बहिष्(>ष) वृषू ५, ३°. [अन्तर°,
 तद्°]
 बा(<>वा^१)ह्य, ह्या- -ह्यम् सांका
 ३३^३; -ह्याः सांका^{५०}. [ह्य, ह्या-
 ४अ°, अति°, अन्तर°, अशेष°,
 उपमान°, तद्°, प्रसृतिदिक्काल°]
 +बाह्य-प्रपञ्च- चलुरादि°
 +बाह्य-भेद- -दाः सांका
 २७.
 बाह्या(ह्य-आ)त्मन्- दृष्ट°
 बाह्या(ह्य-आ)भ्यन्तर- ६स°
 +बहिष्-कृत- प्राप्त°, यज्ञ°, श्रद्धाभ-
 क्ति°, श्राद्धकर्मन्°, १सर्वकर्मन्°,
 सर्वदुःख°
 बहु- अन्न°, सु°
 +बहु-कठोरो(र-उ)त्तमाङ्ग- हरित-
 हयवद्ध°
 बहु-ज्ञ- अति°
 +बहु-त्व- १पुरुष°
 +बहु-रत्न- १धन°°
 बहु-ल- क्रियाविशेष°
 १बाहुल्य°- विघ्न°
 २बाहुल्य°-
 बहु-विध-> +बहुविध-ध्यान-
 प्रणव°
 बहु(हु-उ)दक- कुटीचक°
 बहु(हु-आ)व^१- ऐतरेय°°
 १बा(<>वा^१)ण- -णः भा २३;
 -णम् प्र २, २; ३; -णाः त्रिता ३,
 १५. [ण- अरि°, उत्कृष्ट°,
 चाप°, तद्°, द्रावण°, घनुस्°,

पञ्चन्°, परि°, पाश°°, पुष्प°, मद्-
 नावेश°, वशीकरण°, २शस्त्र°,
 संतापन°, संदीपन°, १संमोहन°]
 २वाण- गणेश°, नन्दिसेन°
 ✓बाध, >धि प्र°, सम°
 १बाध- ४अ°, अत्यन्त°, जीव-
 भा^१व°, दृष्ट°, धर्मिग्राहकप्रमा-
 ण°, धर्मिग्राहकमान°, प्रत्यक्ष°,
 प्रत्यभिज्ञा°, १ब्रह्मन्°, सम°
 बाधक- ४अ°, देहात्मज्ञान°, प्रधान°
 सर्वोपरम°
 +बाधन- वितर्क°
 +२बा(ध>)धा- जलाग्नि^१दि°,
 प्राणिन°
 बाधित- ४अ°, उत्तरक्षणा°
 बाध्य- ४अ°, विद्या°
 १बाल- उन्मत्त°, १ज्येष्ठ°, सु°
 बाल-क- चित°
 +बाल-लीला- तद्°, परस्पर°
 *बालि-
 १बालि-श- स्त्री°°
 +बाले(ल-इ)न्दु- धृत°
 +बा(<>वा^१)ष्प-> +बाष्पा(ष्प-आ)-
 म्बु- १त्वच्°°
 बास्तेय- बस्ति- (परि.) द्र.
 बाहु- अनन्त°, ऊर्ध्व°, चतुर°, १त्वच्°°
 १दक्षिण°, दशन्°, दीर्घ°, पृष्ठ-
 वंश°, महत्°, मुद्रापु^१सत्°,
 १वज्र°, २वाम°, विश्वतस्°, शत°,
 सहस्र°, सुक्यूरान्वित°, हिरण्य°,
 १हृद्°
 बाहु-द्वय- मस्तक°°
 बाहु-मूल- ललाट°°
 +बाहु-शूल^१- शिरःशूल°°
 +बाहु(हु-उ)दर-वक्त्र-नेत्र- अनेक°
 +बाहु(हु-ऊ)रु-पाद- बहु°
 बि(<>१वि)न्दु^१- अकार°°, अधस्°

अप्°, अमृत°, अश्रु°, एक°,
 २जल°, १जित°, तद्°, तृण°,
 तेजस्°, तैल°, ध्यान°, नाद°, १ब्र-
 ह्मन्°, रेफ°, वामश्रोत्र°, वियत्°,
 व्योमन्°, व्योमन्°, शश°, शुक्ल°,
 ६स°, स्फटिक°, स्वेद°
 वैन्दव- -वम् त्रिता २, २७^१।
 +विन्दु(-क)- ६स°
 बिम्ब- तुषारकर°, प्रति°, भास्कर°,
 शशभृत्°, रिफच्°
 +बिम्ब-त्रय- १भू°
 +बिम्बा(म्ब-आ)धरो(र-ओ)ष्ठ- अ-
 तिरति°
 बिल- अर्वाच्°, करण°, १कर्ण°, १ब्र-
 ह्मन्°, भुजग°, भ्रूयुगमध्य°, स-
 चित°
 बिल्व- प्रियङ्गु°, ब्रह्मतेजोमय°
 बिल्व-पत्र- उत्तान°
 +बिल्व-रूप- ६स°
 १बी(<>वी)ज- अग्नि°, अङ्कुश°, अ-
 मृत°, अविद्यातरुसंभृत्°, आका-
 श°, उपदेश°, १ओकार°, १काम°
 कार्पास°, १कूर्च°, खेचरी°, चित°,
 जगत्°, जगन्मोहन°, जीव°, जी-
 वप्रा^१श्य°, तद्°, तारमाया-
 ...स्व°, ३दत्त°, दुःख°, दृष्टि°,
 दोष°, नारसिंह°, नारायण°,
 निजबोध°, निर्°, नृसिंह°, परा°,
 १पुराण°, प्रपञ्च°, प्रयोग°, प्राण°,
 बीजशक्त्यादि°, बुद्धि°, ब्रह्मावैश्व-
 ...ल्प°, भूतदिकपाल°, भृष्ट°,
 मन्मथ°, माया°, सुख°, ४रक्त°,
 १रमा°, रमामाया°, १राम°,
 वं°, वट°, वह्नि°, वराह°, वायु°,
 वाराह°, २वासना°, शक्ति°, शब्द°
 श्री°, षष्°, ६स°, संमृष्ट°, सर्व°,
 सर्वज्ञ°, सु°, सूक्ष्म°, सौबाल°,

a) वैत. J.C. °हिमां° इति (गपू. पृ५७४६ शोधः द्र.) । b) तु. गपू. पृ५७०७ । c) गपू. (पृ५७६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) बप्रा. द्र. । =ऋग्वेदिन्-, उपनिषद्विशेष- । e) व्यु. ? =पार्षदविशेष- । f) गपू. (पृ५७७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) गपू. (पृ५७८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । h) °द्यबै° इति पा. ? यनि. शोधः द्र. ।

स्थल^०, रस्पर्श^०, स्व^०, खर^०,
 हयधीवैकाक्षर^०, २हृद्^०
 †बीज-मन्त्र- अधोर^०
 बीजा(ज-अ)क्षर- त्रैलोक्यवशंकरी^०
 बुद्बुद्- २जल^०, जीव^०, तरङ्ग^०, प्रा-
 णिन्^०, महाजलौघ^०
 √बुध्, > बोधि, बुभुत्स [अनु^०, अव^०,
 उद्^०, नि^०, प्र^०, प्रति^०, वि^०, सम्^०,
 संप्र^०]
 १बुद्ध- ४अ^०, अद्वितीय^०, अद्वैत^०
 अव^०, १आदि^०, १नित्य^०, १नि-
 त्य^०, निरुपम^०, प्र^०, प्रति^०, शुद्ध^०,
 सम्^०, सुप्त^०
 २बुद्ध- २मत्स्य^०
 †बौद्ध- जैन^०
 †बुद्धवत्- प्र^०
 बुद्धि- -द्धिर् गर्भ २०^०. [०द्धि-
 ४अ^०, अन्तःकरण^०, अज्ञ^०,
 अमात्य^०, अलम्^०, अल्प^०, असक्त^०
 आत्मन्^०, आनन्द^०, इन्द्रिय^०,
 उत्कृष्ट^०, एकता^०, एतद्^०, कृत^०,
 कौर्य^०, गमन^०, चक्षुस्^०, तद्^०,
 तीर्थ^०, दुःख^०, दुर्^०, देह^०, नाना-
 विचित्रज...र्थ्य^०, पाद^०, १पा-
 प^०, पृथिवी^०, प्रबुद्ध^०, प्रभा^०,
 प्राणादिपञ्चवायु^०, बाह्य^०, बुद्धि^०,
 वृन्दावन^०, ब्रह्माराधन^०, भेद^०,
 १मनस्^०, १मन्द^०, रस^०, रौप्य^०,
 १वाच्^०, विवेक^०, विवेकयुक्ति^०,
 विषयग्रहण^०, विष्णवादि^०, १व्या-
 घ्न^०, शत्रु^०, शुद्ध^०, सत्त्व^०, सम्^०,
 १सम^०, सर्वप्राणिन्^०, सर्वानन्य^०,
 साक्षात्^०, सिद्धि^०, सुख^०, सुखदुः-
 ख^०, १स्थिर^०, स्व^०, हानोपादानो-
 पेक्षा^०]
 बुद्धि-पूर्व- ४अ^०
 †बुद्धि-मति- १मन्द^०

बुद्धी(द्धि-इ)न्द्रिय- कर्मन्द्रिय^०,
 मायामय^०
 बुद्धया(द्धि-आ)दि- पञ्चन्^०, सुग-
 तृष्णाम्बु^०
 †बुध्- ४अ^०
 १बुध- -धा: नाप १५१:८^b. [०ध-
 ४अ^०, वि^०]
 †बुभु(त्स>)स्ता- मनोभाव^०
 बोद्धव्य- ४अ^०
 बोद्धुम् सम्^०
 बोद्ध- ४अ^०, सिद्धरूप^०
 बोध^०- अखण्ड^०, अखण्डानन्द^०,
 अनु^०, अन्तःकरणसंभिन्न^०, अ-
 मित^०, अव^०, आनन्द^०, कुरण्डलि-
 नी^०, केवलाखण्ड^०, तरव^०, तद्^०,
 दुर्^०, दृश्यासंभव^०, दोष^०, रनिज^०,
 १नित्य^०, परमानन्द^०, पूर्ण^०,
 पूर्णानन्दैक^०, प्र^०, प्रति^०, ब्रह्म-
 साक्षा...ष^०, भविष्यद्दुःख^०,
 महत्^०, वि^०, विमुक्त^०, विविक्त^०,
 वैराग्य^०, शक्ति^०, शुद्ध^०, संपूर्णा-
 नन्दैक^०, स्व^०, १स्वरूप^०
 †बोध-विशेष- वाचामगो...द्ध^०
 †बोध-सौध- अनन्त^०
 बोध-स्वरूप- १नित्य^०
 †बोधा(ध-अ)चल- अनन्त^०
 बोधा(ध-आ)नन्द- अमित^०
 †बोधानन्द-प्रासाद- अत्य-
 न्तोच्चत^०
 †बोधानन्द-व्यूह- †बोधा-
 नन्दा(न्द-अ)चल- अनन्त^०
 †बोधा(ध-अ)र्थ- अज्ञानजन^०
 बोधक- आत्मन्^०, कुरण्डली^०, प्र^०,
 प्रत्यय^०, १ब्रह्मन्^०
 †बोधन- अव^०, देहादिसत्यत्व^०,
 प्रति^०, सम्^०
 †बोधयितृ- सम्^०

बोधित- पार्वस्थ^०
 †बोधिन- दोष^०, ब्रह्मात्मन्^०
 †बोध्य सम्^०
 बुध्न- उद्^०, ऊर्ध्व^०, भूमि^०
 बुध्न्य- २अहि>अहिद्^०
 √बृह्, > बृंहित- उप^०
 †बृगाल^०- अर्ध^०
 १बृ(<>वृ)न्द- आमलक^०, जनता^०,
 निरतिश...ण्डल^०, पदार्थ^०,
 सर्ग^०, रसुर^०
 २बृ(<>वृन्द>)न्दा- गपू, वृ५८२३.
 ३बृ(<>वृन्द>)न्दा- ३भद्र^०
 वृन्दा-वन- -नम् गौड २१; सार
 २५५:१२; २८९:८; -ने कृ७;
 सार २८९:८. [०न- अनन्त^०,
 तद्^०, श्री^०]
 †वृन्दावन-मध्य- -ध्ये राधा १,
 १५.
 †वृन्दावन-श्रेणि-विहारिन्-
 -रिणे सार २७७: १८.
 वृन्दावने(न-ई)व(र>)री-
 श्री^०
 √बृह्(*बधा.)> †२बृहण- उप^०
 १बृहत्- ४अ^०
 बृहज्-जाबाल^१- २प्रभ्र^०
 †बृहद्-आरण्य^२- ईशावास्य^०
 १ब्रह्मन्^१- -ह्य मना २, ७९^f;
 गोपू १^g; -ह्यणा वृउ १९७: २२^h;
 -०ह्यन् गौड १५^g; -ह्या मउ ३,
 १८. [०न्- ४अ^०, अखण्ड^०,
 अखण्डानन्द^०, अखण्डित^०, अ-
 द्रय^०, अद्वितीय^०, अध्यात्म^०, अया-
 तयाम^०, आ^०, १आदि^०, आन-
 न्द^०, इच्छाज्ञा...क^०, उपवीतलक्ष-
 णाम्पूत्र^०, एतद्^०, कठवल्ली^०,
 १चित^०, चित्सदानन्द^०, चिदाद्या-
 द्वितीय^०, जीव^०, तद्^०, १तारक^०,

a) अख्या: सा. अपा. । b) अख्या: सं. अपा. । c) भावे कर्मणि वा कृत् । d) व्यु. ? । e) गपू. (पृ५८३) यनि. संख्यानिर्देश: द्र. । f) गपू. (पृ५८६) '१ब्रह्मन्->-०ह्यन्' इत्यत्र यनि. शोध: द्र. । g) आन. अपा. । h) निसा. अपा. ।

तुर्यात्मन्, त्रि°, नवन्, नित्यमुक्त°
निर्गुण°, पञ्चन्, पञ्चपाद°, १पर°,
पीठ°, प्रत्यच्°, २प्रश्न°, मन्त्र-
तारक°, महत्, मायाशवलित°,
यज्ञाङ्गलक्षण°, रहस्योपनिषद्°,
वायु°, विघ्नराज°, विष्णु°, १श-
ह्व°, शब्द°, शुद्ध°, शुद्धचिदा-
नन्द°, शुद्धाद्वैत°, ६स°, सगुण°,
सच्चित्परानन्द°, सच्चित्पुखानन्द°,
१सत्°, सदाशिव°, सर्ग°, सर्व-
परिपूर्णातुरीयातीत°, सर्वशरीरस्थ-
चैतन्य°, साक्षात्, सुदर्शन°,
स्वयंज्योतिस्, स्वराज°, हंसा-
त्ममालिकावली°]

१ब्राह्मण- ४अ°, आभास°,
गो°, दुग्, १देव°, महत्, १सूर्य°°
२ब्राह्मण- मण्डल°

ब्रह्म-गन्ध- अनन्त°, निरतिशय°,
२निरतिशयानन्द°
ब्रह्म-चर्य- अस्तेय°, अहिंसा°,
चतुर्विध°, चरित°, प्रणति°, २वेद°
वेदोक्ताचरित°

ब्रह्म-चारिन्- ४अ°, अनन्त°,
आनन्द°, १कुमार°, २चैतन्य°,
जीव°, १नित्य°, प्रकाश°, सु°,
१स्वरूप°

ब्रह्म-चैतन्य- अद्वैताख...त्मक°
+ब्रह्म-उवर!- अतिभयंकरज्वर°°
ब्रह्म-तत्त्व- विज्ञात°, स्वप्रकाश°
ब्रह्म-तेजस्-> ब्रह्मतेजो-मय->
+ब्रह्मतेजोमय-बिल्व-कल्पत-
रु-वन- अनन्त°

ब्रह्मतेजो-राशि- अनन्त°,
समस्त°
+ब्रह्म-दर्शन- अल्पमूत्रपुरीष-
...भाव°

ब्रह्म-ना(डि)>डी- इच्छाज्ञान-

क्रि...न्तु°
ब्रह्म-निष्ठ- सनकसन...दि°
ब्रह्म-प्रणव- स्वरूपानुसंधान°
ब्रह्म-खिल- नाभ्यादि°
ब्रह्म-भाव- वम् शा ३२३:३°.
[°व- विज्ञात°]
ब्रह्म-मन्त्र- पञ्चन्°
+ब्रह्म-महा(हा-अ)र्णव- अख-
एडानन्दपीयूषपू...र्ण°
+ब्रह्म-मात्रा(त्र-अ)वलोकन-
सर्व°
ब्रह्म-मार्ग- तत्तद्°
ब्रह्म-यज्ञ- पूर्वोक्त°
ब्रह्म-रन्ध्र- ब्रह्माण्ड°, मूलादि°,
मूलाधार°

+ब्रह्मरन्ध्रा(न्ध्र-अ)न्त- ना-
भ्यादि°

+ब्रह्म-राक्षस!- अरिष्टकारि-
णी°, २कूशमारण्ड°, दैत्य°,°
भूत°, वेताल°

ब्रह्म-वन- अनन्त°
+ब्रह्म-वाचक- समस्त°

ब्रह्म-विद्- ४अ°, स्वधर्मनिरत°,
ब्रह्म-विद्या!- द्याम् ब्रवि १°.
[°द्या- अनन्तादिव्यापार°, अप-
र°, अपार°, कठवल्ली°, गारुड°,
परमानन्दामृत°, श्रीमहागरुड°]

१ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर!- -रात्
ब्रवि १°.

२ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर!-
+ब्रह्म-शरीर-ज्ञान-लहरी!-
-री अद्वै २४.

ब्रह्म-संवित्ति- अद्वितीय°
+ब्रह्म-मुख- अबाधित°

ब्रह्म-स्तम्ब- आ°
ब्रह्म-स्थावर- आ°
ब्रह्म-स्वरूप- अद्वितीया...न्द°

ब्रह्म-हत्या- समस्तपा...तक°°
ब्रह्म-हन्- ४अ°
ब्रह्मा(ह्य-अ)ण्ड- अनन्तकोटि°,
अनेककोटि°, १कोटि°, पिरण्ड°,
समस्त°

+ब्रह्माण्ड-जाल- समस्त°
+ब्रह्माण्ड-नायक- त्रिपुरह्र°

+ब्रह्माण्ड-मण्डल- सकल°
+ब्रह्माण्डा(ण्ड-अ)न्त- लि-

ज्ञादि°
ब्रह्मा(ह्य-अ)द्वैत- -तम् त्रिवि
४, ३°.

१ब्रह्मा(ह्य-अ)नन्द- अनन्त°,
अमनस्कसुख°, उक्त°, निरतिशय°
निरतिशयानन्दाखण्ड°, निरुपम-
नित्यनिर...क°

+ब्रह्मानन्दा(न्द-अ)नुभव-
पताका-ध्वज-तोरण- अनन्त°
+ब्रह्मा(ह्य-अ)मृत-पान- विर-

समाधिजनित°
१ब्रह्मा(ह्य-अ)स्त्र!- पाशुपतास्त्र°
+ब्रह्मे(ह्य-इ)न्द्र-गंगाधर- लब्ध-

विभव°
ब्रह्मो(ह्य-उ)पनिषद्- सौबाल-

बीज°
बृहस्पति- शुक्र°

+वैल(वैष्ण)वा(व-अ)स्त्र!-पाशुपतास्त्र°°
बोधन-, बोधयित्-, बोधिन्-, बोध्य,

बौद्ध- ✓बुध् (परि.) द्र.
✓ब्र् अतु°, अव°, प्र°, प्रति°, वि°
+ब्रव- अव°

ब्रुवाण- अनु°

भ

✓भक्ष् सम्°
भक्ष!- अभक्ष्य°, अम्बु°, पयस्°,
वायु°, सर्व°

a) अश्याः सं. अपा. । b) बप्रा. द्र. । c) आन. अपा. । d) समाहारे द्रस. । e) द्रस. (गपू. पृ५९३)
यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । f) गपू. (पृ५८५) '१ब्रह्मन्->क्ष' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । g) °द्वितीयम् इति निसा. ।
h) भावे कर्तरि वा क्तृ ।

भक्षण- अभक्ष्य°, सम्°, सर्वाघ°
भक्षित- उग्र°

+भक्षिन्- केशचेलास्थि°, रेतस्°

+भक्ष्य सम्°

भक्ष्य- ४अ°

भक्ष्य-भोज्य- नाना°

+भक्ष्या(क्ष्य-त्रा)दि- धूपादि-
त्रय°

+भक्ष्या(क्ष्य-त्र)ञ- पुष्प°°

भक्ष्या(क्ष्य-त्र)ञ-पाना(न-त्रा)-
द्य- सर्व°

√भज् (*बधा.) अनु°, अन्वा°, आ°,
प्रवि°, वि°, संवि°

२भक्त- ४अ°, अतिसेवापर°, अन-
न्य°, अन्वदेवता°, अन्वा°, ईश्वर°
ऐक्य°, गुरु°, तद्°, १देव°, परम°,
परमशिव°, प्रवि°, १भगवत्°,
मद्°, मन्त्र°, वि°, विद्या°, विष्णु°
१शिव°, सु°, १सूर्य°, स्व°

२भक्ति- अनन्य°, आद्यनादि...
द्ध°, एक°, ऐकाग्र्य°, कर्मन्°,
गुरु°, तद्°, नाना°, १भगवत्°,
मद्°, महत्°, १रति°, वि°, विष्णु°
१शिव°, श्रद्धा°, सदसत्°, सामा-
न्य°, सु°, स्व°

+भक्ति-मार्ग-रत- अतिशय°

१भग- सु°

१भग-वत्- -वत्ते रार २, ५४;
-वान् अक्षि १^b; वउ ४, २३?°.

[°न्- श्री°, धीकृष्ण°]

भगवती- -ती मउ ३, १३

भागवत- महत्°

+२भग-वत्^d- २मातङ्ग°

भजत्- वि°

भजन- अनन्य°, तद्°, त्वन्नामन्°,
देवान्तर°, नित्यलीला°, प्रेमन्°,
मन्नामन्°, विष्णु°

+भजन-भाव-, +भजन-योग्य-
नाना°

+भज्य प्रवि°, वि°, संवि°

भाग- ४अ°, अग्र°, अधऊर्ध्व°,
अधरोत्तर°, अधस्°, अन्तर°,
अमृत°, अर्ध°, आग्नेय°, २आज्य°
ईशानदिश°, उत्तान°, ऊर्ध्व°,
१ऋत°, एक°, क्षेत्र°, तुरीय°,
१तुर्य°, तृतीय°, त्रि°, १दक्षिण°,
दक्षिणोत्तरदिश°, निर्°, १पर°,
पार्थिण°, पूर्व°, पृथिवी°, पृष्ठ°,
प्रवि°, १फल°, १बीज°, भूमि°,
मन्थमद्दार°, महत्°, मही°, यथा°,
२वाम°, वि°, १विष°, वृन्त°, व्यो-
मन्°, शत°, ६स°, १सव्य°, सा-
क्षिन्°, सिद्धाक्षमो...ञ°

भाग-त्रय- अपञ्चीकृत...श°,
भूतस्रवांश°

भाग-धेय- किम्°

+भागधेयिन्- त्वद्°

+भाग-माला->भागमालि-
(न्>)नी- कामेश्वरी°°

१भागिन्-

भाग्य- दुर्°, प्रकृति°, महत्°

भाग्यो(ग्य-उ)दय- कियत्°

+२भागिन्- गुणतद्°, सुर्वनुग्रह°,
जन्मानर्थ°, दुःख°, २भव°

+भाज्- अनन्य°, अवस्थात्रय°,
ऊर्ध्व°, १काम°, खेचरीसिद्धि°,
जन्मन्°, दीर्घ°, दुःख°, १पाप°,
मूलमन्त्र°, मुक्ति°, ३वर्ण°, २वा-
नरी°, वृद्धिहास°, शिवसायुज्य-
मुक्ति°, सिद्धि°, सुखदुःख°

भाजन- आधार°, भविष्यच्चित्त...

ब्दार्थ°, मुक्ति°, सिद्ध°, सिद्धि°

+भाजिन्- १आदि°, उद्गीथ°, उप-
द्रव°, दीर्घ°, निधन°, प्रतिहार°,

प्रस्ताव°, हिंकार°

√भञ्ज् प्र°, वि°

भञ्ज- वि°

+भञ्ज- देहत्रय°, भूरि°

+√भङ्गि>भ(ङ्गि)>ङ्गी- २रक्त°

+भङ्गुर- पल्लवकोणा...कण°

+भञ्जन, नी- गात्र°, भङ्गार्ति°, प्र°,
१मनस्°, हल°

+भञ्जि(न्>)नी- महापाप°

+भट्^१- चाट°°

√भद् (*बधा.)>१भद्- -द्रम् मउ९,
७५^१. [°द्र- ४अ°, अति°, चन्द्र°,
१राम°, वीर°, सर्वतस्°, सु°, स्फ-
टिक°°]

+भद्रा(द्र-अ)श्च^१- १नन्द°°

२भद्- २स्वस्तिक°°

३भद्->+भद्रा(द्र-अ)श्च^१-
एला°°

४-५भद्- गपू. पृ६०३ द्र.

६भ(द्र>)द्रा- १विश्व°

१-२भय- √भी द्र.

१-२भर-, १-२भरण-, भरि-, भरित-
√भृ (परि.) द्र.

+√भल् नि°

१-२भवन-, भवितृ-, भविष्णु- √भू
(परि.) द्र.

√भस् (*बधा.)>बभस- -सः छां ४,
३, ७^b.

भस्मन्- अतिरात्राग्निहोत्र°, अमेध्य°
काष्ठ°, कुलालालय°, गो°, जटा°,
तद्°, नर्थ°, नवकारश्मशान°,
परकृताभिचार°, मृद्°, १शिव°,
१शेष°, सर्व°, सु°

भस्म-धारण- त्यक्त°, विधि°

√भा आ°, उद्°, प्र°, प्रति°, प्रवि°,
वि°, संवि°

भा- तद्°, नि°, प्र°, प्रति°, संनि°

४) गपू. (पृ६००) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । ५) अक्ष्याः सा. अपा. । ६) गपू. (पृ६०४) '१भवद्-> भवान्' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । ७) तु. गपू. पृ६२९C । ८) गपू. (पृ६०२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । ९) व्यु. ? । १०) ऋ ५, ८२, ५ । ११) 'रपसः' इति जैउ ३, २, ४ (तु. टि. वैप२ यस्था.) ।

भात- प्र°, वि°
 मान- जगत्°, तद्°, प्रति°, मिथ्या-
 त्व°
 भानु- नुः मउ ३, १०. [°नु-
 अरुण°, बृहत्°, मार्तण्डादि°,
 १मित्र°, वृत्त°, वृष°, सहस्र°
 +भानु-जर्- मोह°
 +भानु-मण्डल- स्वान्तर्विजृ-
 म्भित°
 +भा-व(न् >)री- वि°
 १-२भागिन्-, भाजू-, भाजिन्-
 √भज् (परि.) द्र.
 भाण्ड- ब्रह्माण्ड°, भग्न°, मल्ल°, मृद्°,
 सुरा°
 +भाण्ड-समाश्रय- शिष्य°
 भाण्डीर- ३भद्र°, वट°
 +भाण्डीर-वट- महत्°, साधनवट°
 भाण्डीर-वन- मथुरावन°
 √भाम् > २भाम- २भवं°, १सत्य°
 १भारत- गपू. पृ६०६ द्र.
 २भारत-> १भारती- > +२भार-
 ती- -ती म ४९ : १.
 ३-४भारत- गपू. पृ६०६ द्र.
 ५भारत- महत्°
 भावक-, १-३भावन-, भावितव्य-,
 भावुक- √भू (परि.) द्र.
 √भाष् अभि°, आ°, परि°, प्र°, वि°,
 सम्°
 +भाषण- भाचार्य°, १शुद्ध°, चिदह-
 म्°, देश°, द्वैताद्वैतादि°, १पशु°,
 प्र°, सम्°, सु°
 +भाषमाण- सम्°
 भा(ष >)षा- परि°
 भावित- मुनीन्द्रात्रेय°, वि°, १शिव°
 +भाषिन्- अमृत°, उपास्यदेवता°,
 मृद्°
 +भाष्य आ°
 भाष्य- उच्च°

+भाष्यमाण- सम्°
 √भास्, > सि अव°, आ°, निर्°, प्रति°
 भास- आत्मन्°, प्रति°, स्व°
 भास-कर- ४अ°, मार्तण्डादि°,
 १मित्र°
 +भास्कर-बिम्ब- उदय°
 भास-वत्- उद्यत्°, शशिकला°
 +भास- अव°, आ°, निर्°, प्रति°
 भासक- अव°, जगत्°
 भासयत्- अव°
 भासित- अग्निहोत्र°, प्रति°, महा-
 विद्यासंचयप्रभा°
 भासुर- कोटिसूर्यप्रभा°, यकाराक्षर°,
 लावण्यवा...टित°, हकाराक्षर°
 १भास्वर- आ°, दीपज्वाला°,
 २शुक्ल°
 +२भास्वर(>)रा...- विराजा°
 √भिच् > +१भिक्ष- दुर्°, सु°
 २भि(त्त >)क्षा- आनन्द°, एक°,
 दरुण°, देवार्चन°, निद्रा°, पिशा-
 च°, राज्य°
 भैक्ष-> भैक्ष-चर्य- चातुर्व-
 र्य°
 +भैक्षा(त्त-अ)टन-पर-
 सार्ववर्णिक°
 भिक्षा-मात्र- -त्रेण पहं १५० :
 १८।
 भि प्रा(त्ता-आ)शिन्- अकल्पित°
 भिक्षु- ईशावास्य°
 √भिद्, > भेदि अनु°, उद्°, निर्°,
 प्र°, वि°, विनिर्°, सम्°, समुद्°
 +भित्ति- अण्ड°, ३चित्र°, सुवर्ण°
 +भिद्- उद्°, महावज्रकपाट°
 +भिद्य निर्°, वि°, विनिर्°, सम्°
 भिन्न- ४अ°, एक°, गुण°, द्विधा°,
 निर्°, बहु°, भिन्न°, मद्°, वि°,
 शुक°, षट्स्वर°, सम्°
 भेद- ४अ°, अंशत...स्थान°, अङ्गयो-

ग्य°, अङ्गरस°, अत्यन्त°, अञ्चन्°,
 अभ्यास°, अवस्था°, अवस्थेश्वर°,
 अवान्तर°, अष्टादशन्°, अष्टाविं-
 शति°, अष्टाविंशत्युत्तरशत°, आ-
 चार°, आत्मन्°, आध्यात्मिका-
 दि°, आसन°, उच्चैरुपांशु°, उप-
 देश°, उपाधि°, एकविंशति°,
 एतद्वायु...धि°, औपाधिक°,
 कटकमु...दि°, रकति°, कर्तृ°,
 कारण°, कार्य°, कार्यकारणोपा-
 धि°, रकाल°, कूटस्थोपहित°,
 क्रिया°, गीतरस°, गुण°, गुणपरि-
 रागम्, गुरुशिष्यादि°, ग्रन्थि°, घ-
 टिकाष्ट...त्रि°, चतुष्पष्टि°, चित्त°
 जगत्°, जगदीशजीव°, जाग्रत्स्वप्न-
 ...स्था°, जात्यन्तर°, जीवेश्वर°,
 तत्कार्यकारण°, तत्तद् वृत्तिव्यापा-
 र°, तत्त्व°, तद्°, तदनुष्ठान°,
 तद्गुणकर्मविभाग°, १त्रिगुण°,
 त्रिदशस्थान°, दिनपञ्चमा...दि°,
 दुःखादि, देश°, देह°, देहारम्भक°
 द्वि°, द्विचन्द्र...ष्णादि°, नाडी°,
 नानात्मन्°, नानाभाव°, नानासुग-
 न्धरस°, नित्यनूतनभाव°, निर्°,
 पञ्चमास...र°, पक्षविपक्षदि°,
 पञ्चाशत्°, पर्वतवृक्ष...वस्तु°,
 पाद°, प्र°, प्रकरण°, प्रकृति°, प्र-
 वृत्ति°, प्रैष°, बहु°, बाह्य°, बुद्धि°,
 १ब्रह्मन्°, भजन°, भावाभावोदि°,
 मधुराम्लति...ण°, मननध्यान°,
 १मनस्°, १महत्°, १मायोपाधि°,
 मार्ग°, रतिरसभाव°, रस°, रस-
 भाव°, २राग°, रेचकपू...क°,
 लिङ्ग°, १वरण°, २वर्ण°, वस्तु°,
 वल्लसुगन्ध°, वायु°, वि°, विद्यादि-
 साकार°, विद्याविद्यादि°, विपर्यय°
 विरुद्धवैकु...वस्तु°, १विरव°,
 विश्वतै...स्थ°, विषयदेवताकोश°,

४) गपू. (पृ६०६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । ५) =संन्यासिर्गविशेष- । ६) =ग्रन्थविशेष- । ७) गपू. (पृ६०७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । ८) व्यु. ? =नाडीविशेष- । ९) निसा. अया. । १०) बप्रा. द्र. =विप., उपनिषद्विशेष- ।

वेधाद्यर्थ°, व्यक्ति°, व्यूह°, श-
क्लि°, शब्दादि°, शरीर°, शो-
भा°, षोडशन्°, षोडशस्वर°,
संस्कार°, सदसत्°, संन्यास°,
सम्°, समुद्°, साकारनिराकार°,
सुगन्धनृत्य°, १सूर्य°, १सेतु°°,
स्तुति°, स्त्रीपुमादि°, स्थान°, स्थू-
लसूक्ष्मतर°°स्तु°, स्थूलसूक्ष्मबी-
जसाक्षिन्°, स्व°, स्वरव्यञ्जन°
+भेद-विधि- अक्षमाला°
भेद-व्यपदेश- विशेषण°
भेदा(द-ञ्च)भेद- आत्मानात्म-
विवेकादि°, भूमि°

+भेदक- वि°

भेदन- १अज्ञान°, सर्वविषभू°°दि°

+भेदिन्- वाराह्यादि°, स्थलजला-
प्रिममन्°

+भेद्य वि°

+भेद्य- दुर°, प्र°

भिषज्- शत°

+भिषज्य- दुर°

भेषज- औषध°, मन्त्र°, सर्वसंसार°,
सर्वाधिव्याधि°

+भेषजी- जलास°

भैषज्य- गृह°

√भी, > भीषि दि°

१भय- ४अ°, अल्पकाल°, आज्ञा°,
इच्छा°, १काम°°, कायक्लेश°,
२काल°, कालधर्म°, किम्°,
१क्षुध्°, गर्भवास°, जगत्°,
जरा°°, दुःख°, दुःख°°, दुर्भिक्षा-
दि°, १द्वैत°, निद्रा°, निद्रा°°,
निद्र°, बहु°, २भव°, महत्°, महा-
व्याधि°, १मृत्यु°, १राग°, १राग°°
विगत°, शोक°, सर्पराजचो°°ल°,
सर्व°, सर्वजीव°, सर्वरोग°, हर्ष°°
भयंकर- उग्र°

+भयंकर-ज्वर- अति°

भय-प्रद- भूत°

भी- विगत°, व्यपेत°

भीत- पात°, २भव°, भीत° वि°

भीति- अखिलभूत°, २भव°

भीरु->भैरव- उग्र°, गरुश°°,

३त्रिपुर°, भूत°, महत्°, महा-
काल°, महात्रिपुर°, शरभसालुव°,
२सौम्य°

+भैरवा(व-ञ्च)र्चन- त्यक्त°

भीषण, णा- ४अ°, अति°, जिह्वा-
म°°र°, महत्°, रक्तलोचन°,
वि°

+भीषण-संहार- चन्द्र°°लिन्°

भु- √भू (*बधा.) परि. द्र.

√भुज् (कौटिल्ये) परि°

√भुज् (*बधा.), भुनक्तु १प्र ३० : १°.

[अति°, अनु°, आ°, उप°, प्र°,
सम्°]

भुक्त- ४अ°, अति°, अर्ध°, उप°,
वृषलीपति°

भुक्ति- उप°, तद्°

+भुज्- अग्र°, आनन्द°, १ऋत°,
गुण°, तत्फल°, पयोमूलफला-
दि°, पराग°, प्रविचिक°, भैक्ष°,
१भोग°, यज्ञ°, यज्ञशिष्टामृत°,
१विश्व°, शक्ति°, १श्राद्ध°, सकल-
भोग°, सर्व°, सूक्ष्म°, स्थूल°,
हविस्°, हुत°

भुज- अनेक°, चतुर्°, १दक्षिण°,
द्वि°, महत्°, सरिन्नद°, सहस्र°

भुज-ग->+भुजगे(ग-इ)न्द्र-
इन्द्रनाग°

+भुजं-ग- आधिव्याधि°, १आ-
शा°, दरुणाहत°, रज्जु°

+भुजं-गम- अन्तरङ्ग°

भुञ्ज- सम्°

भुञ्जान- ४अ°, अति°, अनु°, सम्°

भोक्तृ- ४अ°, आद्यना°°ख°, उप°,
कर्तृ°, २काल°, गुण°, गुणकैलि-
°°ख°, महत्°, १रति°, सुखदुःख°

भोक्तृ-स्व- कर्तृत्व°

+भोक्तृ-भोग-भोग्य- कर्तृकर्म-
कार्य°°

+भोक्तृमाण- सम्°

१भोग- अत्यन्तप्रवीण°°णि°, अ-
नन्त°, अनेक°, आ°, आद्यना°°भो-
क्तृ°, आनन्द°, उप°, १काम°, क्री-
डा°, २जाति°°, तद्°, दिव्यस्त्री°,
१देव°, देवस्त्री°, देवेन्द्र°, नाना°,
परस्परशृङ्गारसु°°ख°, पुनर्जनन°,
ब्रह्मादि°, २भव°, सुक्त°, भोक्तृ°, म-
र्त्य°, महत्°, रङ्ग°, रस°, रसदातृ°,
२राग°°, २लीला°, विचित्र°,
विषय°, २शची°, शृङ्गार°, शृङ्गा-
रादि°, सकल°, सम्°, सर्व°, सर्वचै-
तन्य°, सिद्धाञ्ज°, सुख°, सुगन्धम-
णिमय°, १सुरत°, १सुरतानन्द°,
स्वरस°, स्वर्ग°, स्वात्मन्°

+भोग-प्रिय- अति°

+भोग-रस- अनेक°, नाना°

भोगा(ग-ञ्चा)दि- -दयः अन्न
२, ४३.

१भोगिन्°-

भोगे(ग-इ)च्छा- प्रक्षीण°

भोग्य- भोक्तृ°°

+२भोगिन्- १फल°

+भोज- कुन्ति°

भोजन- ४अ°, अर्चन°, उच्छिष्ट°,
१कथा°, क्षीर°, क्षीराज्य°,
क्षौर°°, पांडु°, पुनर्°, प्रावरण°,
मित°, रेत°, ३वर्ष°, विहार°°,
शय्या°, शुद्धाञ्ज°, शुष्करिन्गधा-
ञ्ज°, शूद्राञ्ज°, सम्°, २सह°, सु°,
सुजीर्यामित°, स्नान°

+भोजिन्- अल्प°, शीर्यापर्याफल°

+भोजि(>)जी- सु°

भोज्य- ४अ°, भक्ष्य°, भोक्तृ°, सम्°,
सु°

भुज्- √भुज् (बधा.) परि. द्र.

+भुज्य- -> भुज्य-वन- मथुरावन^०
भुसुराड- रसर्वतक^०

√भू("बधा.)> भावि, भवेत् जादरे, ६,
३^b [अङ्कुरी^०, अद्वैती^०, अनु^०, अनु-
प्र^०, अन्तर^०, अन्तर्मुखी^०, अभि^०,
अभिमुखी^०, अभिसम्^०, अमनी^०,
अमृती^०, अविना^०, अविषयी^०,
अव्यक्ती^०, अव्ययी^०, आ^०, आ-
रुडी^०, आर्जवञ्जीवी^०, आविस्^०,
उद्^०, उन्मनी^०, एकी^०, कुराड-
ली^०, कृशी^०, केवली^०, तत्त्वी^०,
तिरस्^०, त्रेधा^०, दृढी^०, द्वैती^०, निर्वा-
सनी^०, निश्चली^०, परा^०, परि^०, प्र^०,
प्रत्यनु^०, प्रादुस्^०, ब्रह्मी^०, मृङ्गी^०,
मिथुनी^०, मिश्री^०, मोक्षी^०, वि^०,
विवशी^०, व्यक्ती^०, शिवी^०, संवि^०,
सखी^०, सम्^०, समनु^०, समरसी^०,
समुद्^०, समुन्मनी^०, स्तब्धी^०,
स्थिरी^०, स्फुटी^०, स्वयम्^०, हस्ती^०]

२ भव- अति^०, अनन्त^०, अनु^०,
अभि^०, आविस्^०, उद्^०, जगत्^०,
दिश^०, परि^०, पापहेतु^०, पुत्रासब-
न्धु^०, पुनर्^०, प्र^०, १ मनस्^०, १ वाच्^०
वि^०, शून्य^०, सत्कुल^०, सम्^०, सम-
नु^०, समुद्^०

+ भव-कारण- घनतर^०

+ भव-भीति- भूत^०

भव-सागर- विनिर्मुक्त^०

+ भवा(व-अ)न्त-भूमि- भव्य^०

भवा(व-अ)न्तर- द्वित्रि^०

+ भवे(व-इ)न्द्र^{१२}- धातु^०

३ भव- वाय नी ३^०. [°व- भुवना-
धिपति^०]

१ भवानी- १ आदि^०

२ भवत्- अनु^०

+ १ भवन^१- अन्तर^०, अभि^०,
पुनर्^०

२ भवन^१- १ रुद्र^०, सर्व^०, स्व^०

+ भवितृ- ४ अ^०

+ भविष्णु- प्र^०

भविष्यत्- भूत^०

१ भाव- ४ अ^०, अकर्तृ^०, अखण्ड^०,

अग्राह्य^०, अतीत^०, अत्यन्त^०, अ-

द्वितीय^०, अनन्य^०, अनात्मन्^०, अ-

नु^०, अनुग्राह्यानुग्राहक^०, अन्तर^०,

अन्तर्मुखी^०, अन्य^०, अन्यथा^०,

अमनी^०, अव्यक्त^०, २ असत्^०, अहं-

कार^०, १ अहम्^०, आत्मन्^०, आप-

न्न^०, आविस्^०, इदम्^०, इन्द्रियादि^०,

ईश्वर^०, उत्तमाधम^०, उदासीन^०,

२ उन्मनी^०, उपकार्योपकारक^०,

उपरज्योपरजक^०, एक^०, एकात्मन्^०

एतद्^०, एवम्^०, कला^०, कारण^०,

कार्यकारण^०, कृत्स्न^०, १ कृपा^०,

केवली^०, गतिरति^०, गुणप्रधान^०,

गुरुशास्त्रोक्त^०, गोपी^०, ग्राह्य^०,

१ चित्^०, २ चैतन्य^०, जगत्^०, जा-

ब्ज्य^०, जीव^०, तत्तद्^०, तत्त्वं^०, तद्^०,

तिरस्^०, दास^०, इष्टान्त^०, देवाद्यु...

दि^०, देह^०, १ देहात्मन्^०, दैन्य^०,

द्रष्टृदर्शनदृश्यादि^०, १ द्वैत^०, द्वैती^०,

नर^०, नाना^०, नानाशरीर^०, निगूढ^०

निर^०, निर्वासनी^०, निश्चली^०, नि-

ष्पन्द^०, नूल^०, पुम्^०, पूति^०, पूर्व^०,

पृथक्^०, प्र^०, प्रतिबिम्ब^०, प्रत्यक्ष^०,

प्रादुस्^०, १ ब्रह्मन्^०, भजन^०, भूत^०,

भोक्तृ^०, मकार^०, मद्^०, १ मनस्^०,

मनोभव^०, २ मातृ^०, यथाश्रय^०,

रङ्गरस^०, १ रति^०, रतियोग्यता^०,

रतिरस^०, रस^०, २ लीला^०, विक-

रण^०, विज्ञानादि^०, विनय^०, विमूढ^०

विरह^०, वैराग्य^०, शीतमन्दसुरभि^०

शुद्ध^०, शुद्धचैतन्य^०, शुभतर^०,

शून्य^०, श्रवणकीर्तन...स्य^०,

श्वस्^०, षष्^०, ६ स^०, सखी^०, १ सत्^०

संतत^०, १ सम^०, समरसी^०, समु-

न्मनी^०, सर्व^०, सर्वात्मन्^०, २ सह^०,

सहज^०, साधु^०, सावधान^०, सुषुप्त^०,

सुस्थिरी^०, सोहम्^०, स्तब्धी^०, ज्ञेह^०

स्व^०, स्वयम्^०, स्वस्वामिन्^०, स्वा-

त्मन्^०, स्वामिन्^०, हाव^०

+ भाव-पद- सर्व^०

+ भाव-भूत- कृत^०

+ भाव-स्वरूप- भावा(व-अ)-

पन्न- अति^०

भावा(व-अ)भाव- अवस्थात्रय^०

रूपशोभासं...ना^०, विधूत^०,

संपूर्ण^०

भावाभाव-दहन- पत्राक्ष-

...लु^०

+ भावै(व-ए)क- निरस्ताति...

ख^०

+ भावक- ४ अ^०

१ भावन^१- ४ अ^०, अत्यन्त^०, अनु^०,

अभेद^०, आत्मन्^०, उद्^०, चेत-

कर्तृत्व^०, दृढाभ्य...क^०, १ द्वैत^०,

प्रतिपक्ष^०, १ ब्रह्मन्^०, २ भव^०, श-

ब्दार्थ^०, सूक्ष्म^०

+ २ भावन^१- भूत^०, १ विश्व^०

३ भाव(न^१>)ना^१- नायाः भा ३^१

[°ना- अद्वैत^०, अनन्य^०, अनु^०,

अन्तर^०, अभाव^०, अभेद^०, आका-

श^०, आत्मन्^०, आत्मभाव^०, आर्ज-

वञ्जीवी^०, कठ^०, जीव^०, १ दृढ^०,

नकिञ्चित्^०, पदार्थ^०, २ प्ररन^०,

२ भव^०, १ भाव^०, १ ब्रह्मन्^०, रति-

रस^०, वि^०, संसार^०, सङ्काव^०,

समाधि^०, साङ्ग^०, सुख^०, सोहम्^०]

+ भावना-विषय- -याणाम् भा

३ ३^१.

भावयत्- ४ अ^०, परा^०

a) व्यु. अर्थश्च ? । b) अज्याः यो. अया. । c) आन. अया. । d) भाप. । e) अधिकरणे कृत् (गपू. पृ६१४ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । f) भाप. (गपू. पृ६१६ यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । g) कर्तरि कृत् । h) बप्रा. द्र. । =भाप., उपनिषद्विशेष- । i) तान्त्रि. अया. ।

भावित-अनु°, आत्मरस°, १काम°, तद्°, तद्भाव°, नित्यविहार...व°, २भक्ति°, सुनि°, यज्ञ°, यमनियम-प्रा...सुख°, वि°, १विश्व°, व्रजा-विर्भाव°, १शिव°, सम°, स्यूत-पुष्प...ज्योत्स्ना°
 +भावितव्य-परि°
 भाविन्, नी-अवश्यम्°, अविना°, आविर्भावतिरोभाव°, तद्भाव°, भू-त°, यावदात्म°, यावद्देह°, सम°
 +भावुक-अत्यन्तप्र...भोग°
 भाव्य वि°, सम°
 भाव्य-अविना°
 +भु-आ°, प्र°, वि°, संवि°, स्वयम्°
 २भुवन-नानि मउ ९, ४९°. [न-तत्तद्°, चतुर्दशन्°, त्रि°, १ब्रह्म-न्°, वैकुण्ठ°, सकल°, समस्त°]
 भुवना(न-आ)कार-सिंहासन-ऊर्ध्वान्नाय...श°
 भुवस(रु)° भूः°
 भुवर-लोक-भूलोक°, भूलोक°
 १भू-१अज्ञान°, कर्मन्°, गर्भ°, चतुः-स...न्त°, ज्ञ°, द्यु°, १धन°, प्रति-ष्ठा°, भेद°, १भोग°, मरु°, स्वर्ग°
 +भू-चक्र-अष्टशूलाङ्कित°
 भू-तल-अशुद्ध°
 भू-पाल-१ब्राह्मण°
 भू-पुर-प्रथम°, बहिस्°, मध्य°
 +भू-मण्डल-आ°
 +भू-रुह-४कल्प°, २सुर°
 +भू-वाचक-ऋः गोपू १^b.
 २भू-अन्यतस्°, अभि°, तद्°, परि°, प्र°, १ब्रह्मन्°, मयस्°, वि°, २सह°
 भूत-तानाम् कुं २३:२°. [त-४अ°, अखिल°, अतीन्द्रिय°, अद्वैती°, अधि°, अनन्ता...ण्ड°, अनादि°, अमु°, अनुप्र°, अन्तर°, अज्ञ°, अपञ्चीकृत°, अभि°, अव-

यव°, अविद्या°, अविषयी°, अव्य-क्ती°, अव्ययी°, अशेष°, १असुर°
 आत्मन्°, आत्मरक्षा...म°, १आ-दि°, आधार°, आविस्°, आशि°, इत्थम्°, ईश°, उद्°, उपाय°, एक°, एकी°, एवम्°, काम-कला°, कारण°, कुरडली°, कोश°, चतुर्°, जीव°, तत्वी°, तथा°, तद्°, तेजस्°, दशप्रकार°, दारु°, दास°, दासी°, दिग्भवादि°
 दृढी°, १देव°, द्विधा°, द्वैती°, धर्मिन्° २निश्वास°, नैवेद्य°, पञ्चन्°, पञ्चीकृत°, परमकारण°, परमरहस्य°, पात्र°, पृथक्°, प्र°, प्रति°, प्रत्यच्°, प्रत्यनु°, प्राकारय°
 प्रादुस्°, १ब्रह्मन्°, २भव°, १भा-व°, भूत°, मत्सार°, मन्थन°, महत्°, ४मित्र°, मिथ्या°, मिश्री°, मूर्ति°, २यत्न°, यथा°, रयि°, रयिभूत°, ललाम°, वरवेशमन्°, वि°, विवशी°, विशेष°, १विष°, व्यक्ती°, शक्ति°, शिवादिशक्त्य-न्तराल°, शिवी°, शून्य°, इवस्°, सम°, समुद्°, सर्व°, सर्वकारण°, सर्वपरिपूर्णु...ह्वन्°, सर्वसंपत्ति°, सर्वान्तर्°, साक्षिन्°, सार°, सु°, सुषुप्त°, सूक्ष्म°, स्थाणु°, स्थिरी°, स्थूल°, १स्वरूप°, स्वांश°, स्वा-त्मन्°, हस्ती°, हाहा°]

भौतिक-भूत°

भूत-गण-गन्धर्व°
 भूत-ग्राम-चतुर्विध°
 +भूत-प्रेत-पिशाच-अरिष्टका-रिन्°
 +भूत-प्रेत-पिशाच-ब्रह्मराक्षस-शाकिनी-डाकिनी-काकिनी-हा-किनी-याकिनी-राकिनी-लाकि-नी-वेताल-कामिनी-अष्टादश-

कोटि°
 +भूत-प्रेत-पिशाच-भैरव-दुर्गा-हनुमद्-गणेश्वरा(र-आ)दि-सकल-किल्बिष-परप्रयोग°
 +भूत-मण्डल-प्रहमण्डल°
 +भूत-शरीर-असुरराज्ञ...दि°
 भूत-संभव-आ°
 भूता(त-आ)श्मन्-स्मा ससा १, २२^d.
 १भूति-४अ°, प्र°, भूयस्°, भूह°, वि°, विष्णुपुजित°, स्व°
 २भूति-गपू. पृ६२० द्र.
 ३भूति...
 +४भूति-अनु°, अभि°, आ°, उद्°, सम°
 भूत्वा अनु°, अभि°, अमृती°, एकी°, कृशी°, मृत्नी°, स्थिरी°
 +भूय अङ्कुरी°, अनु°, अभि°, एकी°, त्रेधा°, ब्रह्मी°, स्वयम्°
 +भूय-असुत्र°, आत्मन्°, एक°, एक-धा°, १ब्रह्मन्°, १मेघ°, १सत्य°
 +भूयमान-अभि°
 भूमन्-अध्यात्मसंबन्ध°, परमानन्दैक°, सुपूर्णा°
 भूमि-अनु°, अनेक°, आकाश°, गन्ध° गो°, २जल°, जाम्बूनदसुवर्णा°, १ज्ञान°, तट°, तुरीय°, १दुर्ग°, तेजस्°, १दृढ°, चावा°, पञ्चन्°, पञ्चम°, पञ्चयोजन°, पितृ°, प्रान्त°, भवान्त°, मणि°, मणिमय°, मरु°, महत्°, १मान°, विभव°, श्री°, षष्ठ°, सप्तन्°, सप्तम°, सर्व°, सुवर्णा°, हाटक°
 १भौम-त्रि°, पञ्चन्°
 +१भूमि(क)-अलब्ध°
 २भूमि(क)>का°-निष्पत्ति°, प्रथ-म°, प्रथमद्वि...य°, महत्°, २यो-ग°, षष्ठ°, सप्तन्°

a) मा ८, ३६ । b) आन. अपा. । c) अज्या : सं. अपा. । d) तु. गपू. पृ१०८२h । e) गपू. (पृ६२०) २भूति... इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । f) आप. । g) गपू. (पृ६२१) यनि. संख्यानिर्येशः द्र. ।

+भूमि-पात- ४अ°
 +भूम्य(मि-ञ्)भिमन्त्रण-जल...न°
 भूय,भूय- ,भूयमान- √भू>(*बधा.)
 परि. द्र.
 भूयस्- १ब्रह्मन्°
 भूयस्-स्व- लिङ्ग°
 +भूयो-दर्शन- तद्°
 भूर->भूर-भुवस्-स्वर-लोक-स-
 मासीन-तत्-त्व°°
 भूरि->+भूरि-द्युष्टि- सुद्युष्ट°
 √भूष् वि°
 भूषण- १अङ्ग°, अनन्त°, आसन°,
 कनकव...त°, कर्षा°, कामदेवदु-
 न्दुभि°, १नाग°, रुद्राक्ष°, वल्क°,°
 वि°, शृङ्गार°, समस्तासा...व्य°,
 सर्व°, सुवर्ण°
 +भू(ष>)षा- कनकचम्पकदामन्°,
 जानकीदेह°, विविध°, हारप्रैवेय°
 +भूषि- भूषण°
 भूषित- ४अ°, अम्बुमण्डल°, आल°
 ओंकारस्वर°, घण्टाचामर°, जटा-
 कुसुम°, जाम्बूनदसुवर्ण°, नगेन्द्रा-
 ष्टक°, नागाभरण°, भसितरुद्राक्ष°
 ३ भूति°, मालतीदामन्°, मेखला-
 त्रय°, रत्नावली°, राश्यादि°, वि°,
 श्रीमद्गोपुर°, सर्वभूषण°, सर्वाभ-
 रण°, सर्वालंकार°
 √भू अतु°, अव°, आ°, नि°, प्र°, सम्°
 बिभ्रत्- ४अ°, अतु°
 १भर°- १रति°
 +२भर°- अमितम्°, १ञ्चतम्°,
 निद्°, ब्रह्मानन्दरसम्°, १विश्वम्°
 +१भरण°- आ°, भूतिरुद्राक्ष°
 २भर(ण°>)णी-
 २भरत्->भरद्-वाज- गोतम°,
 गौतम°, २निदाघ°, २वसिष्ठ°
 १भरत्- शत्रुघ्न°, सीता°
 २भरत्- गपू. पृ६२३ द्र.

३भरत्- मरुत°
 +भरि- आत्मम्°
 +भरित- आनन्द°
 भर्तु- भूत°, लक्ष्मी°
 भार- काष्ठ°, कुङ्कुम°, कुच°, जटा°
 प्राच्°, १भू°, वन°, सम्°
 भा(र्थे>)र्था- गुरु°, गोप°, १ज्येष्ठ°
 तृष्णा°, दास°, शत°, स्व°
 भार्या- जगन्-मोहन-चक्र-
 श्रीचन्दन वलित°
 +भृत्- अङ्किताङ्क°, क्षमा°, गोत्र°,
 देह°, प्राण°, भूत°, मही°, १वज्र°,
 विद्°, १विश्व°, शश°, २शस्त्र°,
 सर्व°
 भृत- आ°, नि°, सम्°, सु°
 भृत-क- निर्देश°
 +भृति- सम्°, स्वात्मभोग°
 +भृत्य सम्°
 भृत्य- गोत्र°, बहु°, ४मित्र°, ४मि-
 त्र°, समस्त°, सर्व°
 +भृत्य-जन- चित°
 +भृत्य-परिचारक- ६स°
 +भृथ- अव°
 १भृगु°-
 भार्गव- १ब्रह्मन्°
 +२भृगु- संसार°
 भृङ्ग- श्रीमद्रमा...न°
 +भृङ्गार- शुष्क°
 +भृङ्गि- गणेश°
 √*भृष्(<भ्रस्ज्),>भृष्ट- सम्°
 +भृष्टि- १शर°
 भेक- कांस्य°
 भेदक- भेदिन्-, भेद्य, भेद्य- √भिद्
 (परि.) द्र.
 भेरि,री- जलधि°, महत्°
 भोद्यमाण-, १-२भोगिन्-, भोज-,
 भोजिन्-, भोजी-√भुज(*बधा.)
 परि. द्र.

√भ्रंश् परि°
 +भ्रंश- तद्°, २स्मृति°
 +भ्रष्ट- अक्षरपद°, उभय°, २कुल°,
 परि°, २योग°
 √भ्रम्(*बधा.)>, भ्राम् उदुद्°, परि°
 वि°, सम्°
 भ्रम- अनादिसंसार°, १क्षुध°, दिश°
 देहात्मन्°, पञ्चन्°, पञ्चेन्द्रिय°,
 पारमाथिककर्तृत्व°, २भव°, भेद°,
 वि°, विकारित्व°, विपरीत°, संसार°
 सत्यत्व°, सम्°, सर्वप्रपञ्च°, सुख°
 +भ्रमण- १चक्र°, संसार°
 +भ्रमण-शील- अति°
 भ्रमत्- परि°
 १भ्रमर,री- किङ्किणी°, कोकिल°,
 तद्गन्धलोलुप°, त्रैलोक्यचित्त°,
 त्रैलोक्यान्तर°, दिग्भवाद्युष्ट्र...
 चित्त°, दुष्टग्रह...न्त्र°, परम...
 न्त्र°, राजमन्त्र...न्त्र°, सकल-
 कामिनीसुख°, सकलदेवतासुख°,
 सकलदेशसुख°, सकलनरसुख°,
 सकलराजसुख°, सकललोकसुख°,
 सकलसुरासुर...तन्त्र°, सिद्धम...
 न्त्र°, हरितपी...भ्र°
 +भ्रमर-पिक-शुक- उन्नद°
 +भ्रमि- १चक्र°
 भ्रान्त- उदुद्°, वि°
 भ्रान्ति- ४अ°, ईश्वर°, २घट°, तीर्थ°
 १समय°, सर्प°
 +भ्रान्ति-दर्शन- व्याधि°°
 √भ्राज् वि°, सम्°
 +भ्राजत्- वि°
 भ्राजमान,ना- कपिलाकज...भ्रा°,
 वि°
 भ्राजस्->+भ्राजस्-वत्- -वते
 मउ २०,८°१६।
 भ्रातृ- जाया°, वित°

३) गपू. (पृ६२२) °तत्-स्व° इत्यत्र यनि. शोधः द्र.। ४) गपू. (पृ६२२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। ५) कर्तारि कृत। ६) कर्मणि कृत। ७) गपू. (पृ६२३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। ८) व्यु. ? =प्रपातविशेष-। ९) व्यु. अर्थश्च ?। १०) व्यु. ? =पाषाणविशेष-। ११) वैपश् यद्र.। १२) 'भ्राज्याय' इति मा ८,४०² (तु. टि. वैपश् यस्था.)।

भू- १त्वच्°, पृष्ठवंश°, मरिण°, शि-
रस्°

भू-मध्य- -ध्ये शां १, ५. [°ध्य-
गल°, पाद°°]

+भू-लता- कामकार्मुक°

भूण- १ब्रह्मन्°

भूण-हत्या- समस्तपात...क°

भूण-हन्- ४अ°

म

१म°>म-कार- अकार°, पञ्चन्°

२म- √मा (माने) परि. द्र.

मकर->मकर-कुण्डल- स्फुरत्°

मकरन्द- अनन्त°

मञ्जिक- १मधु°

मख- महत्°

२मघ->मघ-वन्- वा मउ२०, ३९°

३म(घ)>घा°->माघ->+माघा-

(घ-आ)दि-द्वादश-मासा-

(स-आ)धिपति- अरुणसूर्य...
ष्णु°

१मङ्गल- अति°, दिव्य°, १नित्य°,

परम°, महत्°, सर्व°, सु°

+माङ्गलय- १सर्वमङ्गल°

+मङ्गल-का(छक)>ष्टिका- १वंश°

+मङ्गल-पाठक- गेय°

+मङ्गल-महा-वाद्य- दिव्य°

+मङ्गल-वाद्य- नाना°

+मङ्गल-विग्रह-, +मङ्गला(ल-आ)-

लय-, +मङ्गला(ल-आ)सन-

दिव्य°

√*मज्ज् (<मस्ज्) उद्°, नि°, प्र°,
सम्°

मम,मा- अत्यन्त°, आनन्द°, आन-

न्दसमुद्र°, गुण°, तन्मण्डल...
न्द°, धराविवर°, नि°, परिपूर्णाप...

श°, पुष्पमि...स°, प्रेमन्°, माष°,
१रति°, रतिस°, रस°, रसलीला°,

१सुरत°, सुरतान...न्द°

मज्जन- रचिति°, तद्°, नि°

+मज्ज्य उद्°, नि°

म(ज्ज)>ज्जा- अस्थि°, १त्वच्°, ०°

मांस°, मेदस्°, रस°, विषू°

मञ्जरि,री- अमृतरस°, आश्र°, कद-

म्ब°, चरणकमल°

+मञ्जिष्ठा^६->माञ्जिष्ठ- कौसुम्भ°

√मट्>मठ- आनन्द°, गोषर्धन°,
२घट°, ज्योतिस्°, ३शारदा°,
शृङ्गेरी°, सुमेरु°, सुशोभन°

मठा(ठ-आ)काश- घटाकाश°

मणि- अकृत्रिम°, आरक्त°, उदर्चिस्°,
केशच्छटाचि...त°, चन्द्रकान्त°,
चिन्ता°, चूडा°, २जल°, जाम्बू-

नन्द°, ज्वलत्°, तिलक°, तुलसी-

दारु°, नाना°, १नील°, नीलपीत-

रक्त°, पद्मराग°, पद्मरागपु...का-

न्त°, पाषाण°, पुष्पराग°, प्रति°,
१फल°, मध्य°, १मनस्°, महा-

ज्वाला°, २मुक्ता°, मेधास्पर्श°,
रक्तवर्षा°, लघुकोमल°, १लोह°,
विविध°, शिखा°, शिरस्°,
२सुगन्ध°, सुवर्णजटित°, सूर्यका-

न्त°, स्फटिक°, हस्ताङ्गु...त°,
हाटक°, हाटकजटित°

+मणि-गण-चित्रित-मध्यस्थल-

जाम्बूनद...मि°

+मणि-घटिका- सूक्ष्मतर°

मणि-ज्योत्स्ना- अत्यन्त°

+मणि-पुष्पक°- सुघोष°

मणि-बन्ध- शिरस्°

+मणिबन्ध-शूल^१- शिरःशूल°

+मणि-मुक्ता- नाना°, स्यूतपुष्प...त°

+मणि-राजि- आरक्तमणि...त°

मणि-लता- अनेक°, २सुगन्ध°

+मणि-वल्ली- सुरचित°

मणि-स्तम्भ- ३वर°

+मणिस्तम्भ-शत- २नानारङ्ग°

मण्डप- अष्टाक्षरी°, रत्न°, वाहन°,
सुवर्ण°

√मण्ड्(°बधा.)> १मण्ड- गपू.
पृ६२८ द्र.

२मण्ड->मण्ड-प- अनन्त°,
२पुर°, मरिण°, महत्°, सुक्ति°,
रत्न°, व्याख्यान°, शान्ति°, सन्न°,
सौवर्ण°, स्वर्ण°

३मण्ड->मण्ड-ल- अखण्ड°,
अखण्डानन्दतेजस्°, अग्नि°,
अजन्य°, अद्वयपर...र°, अनन्त-

दिव्या...ष्टि°, अन.तपर...ष्टि°,
अनन्तोत्कटजलद°, अनन्तोत्कट-

ज्वलदर°, अपरिच्छिन्न°, अपरि-

च्छिन्नान...न्द°, अम्बु°, अन्न°,
आकाश°, आदित्य°, आधिकारि-

क°, इन्दु°, इन्द्र°, ईशान°, कर्णक-

...चि°, रकुबेर°, क्रीडा°, गुद°,
२ग्रह°, ग्रहर्षि°, चन्द्र°, चिद्रूपादि-

त्य°, छिन्नाभ्र°, जातवेदस्°, जानु°,
ज्योतिस्°, ज्वाला°, तत्कणा°,
तद्°, तेजस्°, २त्रिकोण°, ४ध्रुव°,
नाभि°, निरतिशयदिव्यतेजस्°,
निरतिशयपर...शेष°, निरतिश-

यानन्त...राशि°, निरतिशया-

नन्दतेजस्°, निरतिशयानन्ददि-

...शि°, निर्ऋति°, निर्वाण°, प-

ञ्चन्°, परमतेजस्°, परममू...ष°,
परमाधिष्ठान°, परि°, परिपूर्णाच-

न्द्र°, पृथ्वी°, प्रेतपिशाच°, फा-

लोर्ध्व...शेष°, बोधानन्दमयान-

न्त...ष्टि°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्माण्ड°,
३भग°, भानु°, २सुवन°, १भू°,
भूत°, मरिण°, मथुरा°, मध्य°,
मथ्याहार्क°, माथुर°, सुख°, १यम°,
योनि°, रत्नप्रभा°, रवीन्दु°, रास°,
१रुद्र°, १वरुण°, वह्नि°, वह्निशि-

खा°, वाचामगोचरा...शि°, वायु°

वासुकि°, विज्ञानानन्दघ...न°,
१

विष्णु°, २ब्रज°, शशिन°, शीतां-
शु°, शीर्षान्तर्गत°, शुद्धानन्द-
वि...ष्टि°, शून्य°, २षट्चक्र°,
संसार°, सखी°, सुख°, सुषुम्नाना-
डि°, १सूर्य°, सूर्यचन्द्र°, सूर्यसोम°,
सूर्येःदुवह्नि°

†मण्डली- रश्मि°

†मण्डल-ब्राह्मण^{११६}- ईशावा-
स्य°

मण्डन- गोपीचन्दन°, पुष्प°

†मण्डित- अनेकायुध°, आत्मसमा-
...न्द°, जटामुकुट°

१मण्डक- महत्°

२मण्डक->माण्डक्य- ईशा°,
२प्रश्न°

†मण्डलि^b- १वंश°

१मतङ्ग->†मतङ्ग-ज- दुष्ट°

१मातङ्ग- १मृत्यु°

२मतङ्ग- गू. पृ६२९ द्र.

३मतङ्ग->२मात(ङ्ग)>ङ्गी- महाम-
त्त°, राजन्°

मत्सर- ४अ°, काम°, क्रोध°, गत°,
जरा°, निन्दा°, १मुक्त°, वि°

मात्सर्य- १काम°, १भाव°, मद°,
मद°, स्नेह°

१मत्स्य- जन्मपल्लव°, महत्°, महा-
जलौष°

√मथ् निर्°, प्र°, विनिर्°

†मथ- प्र°

१मथन- अनन्तान...र°, १चित्°,
२दधि°, निर्°, सु°

†२मथन^d- दशास्य°, १मृत्यु°

†मथिन्- प्रज्ञा°

१मथ्य विनिर्°

†माथिन्- प्र°

२मथ्य, मध्यमान- √मन्थ् (परि.) द्र.

√मद्, >माद् अतु°, आ°, उद्°, प्र°

मत्त- उद्°, प्र°, महत्°

†मत्त-गजे(ज-इ)न्द्र- १मनम्°

मद- आ°, इरम्°, उद्°, १काम°,°
गृत्स°, जरा°, दम्भ°, धनमान°,
प्र°, मृग°, लोभ°, श्री°, ६स°

†मदा(द-अ)न्धकार- माया-
वाद°

मदा(द-अ)भिमान^f-

मदन- अनङ्ग°, दुष्ट°

†मदितव्य- प्र°

मदि(र>)रा- आमोद°, मोह°

†माद- प्र°

†मादिन्- उद्°, प्र°

†माद्यत्- प्र°

१मधु- अमृत°, २दधि°, १देव°, ६स°

मधु(>धू)-कर->माधुकर- असं-
क्लृप्त°

माधुकर- करपात्र°

†मधु-पर्क- १पाद्य°

मधु-र- कटु°, चतुर्थाशावशेषक°,
प्रसन्न°, संतोषामोद°, सु°, सुस्नि-
ग्ध°

†माधुर्य- कटु°, धैर्य°

†मधुर-शाखा- आम्र°, ताली-
वन°

मधु-वन^f- मथुरावन°

२-३मधु- गू. पृ६३१ द्र.

†४मधु^g- ३भद्र°

†१मधु-कर्क- सर्षप°

२मधुक^b-

मध्य- अकारोकार°, अर्धवेद°, अमृ-
त°, अष्टदलकेसर°, अरिथ°, आ-
काश°, आत्मन°, १आदि°, आ-

नन्दव्यूह°, आलय°, आवरण°,
एकदेहिन°, करठ°, कनीयसी°,
२कन्द°, करपुष्कर°, कला°, काम-

परा°, कामिनी°, कुम्भ°, कोदण्ड-

द्वय°, कोष्ठ°, २ख°, गर्भ°, गान्धा-
रीसररवती°, २घट°, घटघट°,
१चक्र°, चक्षुस्°, चन्द्र°, चन्द्रम-

रञ्जल°, चित°, जङ्घा°, २जल°,
जीव°, तच्चक्र°, तत्तदायर्षी°, तद्°,
तन्तुपञ्जर°, तालु°, तिल°, तुन्द°,
तेजस्°, तैल°, त्रिपीठ°, दारु°,
दीप्ति°, दुग्धोदधि°, १देव°, देह°,
द्युति°, नवरेखाःस्वर°, नाडी°,
नाद°, नाभि°, नासिका°, निद्रा-

वस्था°, पक्ष°, पङ्कज°, २पट°,
पयम्°, पिराडाण्डशिरस्°, पितृ-

भूमि°, १पुराङ्ग°, २पुर°, पुष्प°,
पूयासरस्वती°, पृष्ठ°, प्रकाश°,
प्रणव°, प्रभा°, बन्धन°, बाहु°,
बिन्दु°, वृन्दावन°, मातु°, भ्रू°,
भ्रूयुग°, मध्यमाङ्गुलि°, १मनसु°,
मानस°, मूलशृङ्गाट°, मृदु°,
मेरु°, यद्°, यन्त्रीकृततु...न्त्र°,
यशस्विनीकुहू°, योनि°, ललाट°,
रत्नपङ्कज°, रथ°, रवि°, वह्नि°,
वेदि°, व्यक्त°, शक्ति°, १शङ्ख°,
शरीर°, शाशिन°, शिरस्°, शि-

रोललाटभ्रू°, शीर्षान्त...ल°,
श्रोत्राक्षि°, २षट्कोण°, षोडश-

दल°, सत्त्व°, समूह°, सर्वदिव्य-
देह°, सर्वलोक°, सामन्°, सूर्य-

मण्डल°, १सोम°, सौवर्णाम्बुज°,
स्थिरजङ्गम°, स्वाद्यवस्था°, खर°,
स्वर्णसिंहासन°, स्वाद्यस्वादक°,
हृत्पद्म°, हृत्पुराणरीक°, १हृद्°,
हृदयकमल°, हृदयाम्भोज°

†मध्य-चिबुक- रक्षित°

†मध्य-प्रदेश- मध्यमपाद°

१मध्य-म, मा- अनामा°, २आद्य°,
उत्तम°, चन्द्रार्क°, तर्जनी°, तुन्द°,
नाभि°, परा°, बाह्य°, भ्रू°,
द्वय°, कोष्ठ°, २ख°, गर्भ°, गान्धा-
रीसररवती°, २घट°, घटघट°,
१चक्र°, चक्षुस्°, चन्द्र°, चन्द्रम-

रञ्जल°, चित°, जङ्घा°, २जल°,
जीव°, तच्चक्र°, तत्तदायर्षी°, तद्°,
तन्तुपञ्जर°, तालु°, तिल°, तुन्द°,
तेजस्°, तैल°, त्रिपीठ°, दारु°,
दीप्ति°, दुग्धोदधि°, १देव°, देह°,
द्युति°, नवरेखाःस्वर°, नाडी°,
नाद°, नाभि°, नासिका°, निद्रा-

वस्था°, पक्ष°, पङ्कज°, २पट°,
पयम्°, पिराडाण्डशिरस्°, पितृ-

भूमि°, १पुराङ्ग°, २पुर°, पुष्प°,
पूयासरस्वती°, पृष्ठ°, प्रकाश°,
प्रणव°, प्रभा°, बन्धन°, बाहु°,
बिन्दु°, वृन्दावन°, मातु°, भ्रू°,
भ्रूयुग°, मध्यमाङ्गुलि°, १मनसु°,
मानस°, मूलशृङ्गाट°, मृदु°,
मेरु°, यद्°, यन्त्रीकृततु...न्त्र°,
यशस्विनीकुहू°, योनि°, ललाट°,
रत्नपङ्कज°, रथ°, रवि°, वह्नि°,
वेदि°, व्यक्त°, शक्ति°, १शङ्ख°,
शरीर°, शाशिन°, शिरस्°, शि-

रोललाटभ्रू°, शीर्षान्त...ल°,
श्रोत्राक्षि°, २षट्कोण°, षोडश-

दल°, सत्त्व°, समूह°, सर्वदिव्य-
देह°, सर्वलोक°, सामन्°, सूर्य-

मण्डल°, १सोम°, सौवर्णाम्बुज°,
स्थिरजङ्गम°, स्वाद्यवस्था°, खर°,
स्वर्णसिंहासन°, स्वाद्यस्वादक°,
हृत्पद्म°, हृत्पुराणरीक°, १हृद्°,
हृदयकमल°, हृदयाम्भोज°

†मध्य-चिबुक- रक्षित°

†मध्य-प्रदेश- मध्यमपाद°

१मध्य-म, मा- अनामा°, २आद्य°,
उत्तम°, चन्द्रार्क°, तर्जनी°, तुन्द°,
नाभि°, परा°, बाह्य°, भ्रू°,
द्वय°, कोष्ठ°, २ख°, गर्भ°, गान्धा-
रीसररवती°, २घट°, घटघट°,
१चक्र°, चक्षुस्°, चन्द्र°, चन्द्रम-

a) =तदाख्योपनिषद्विशेष- । b) तु. गू. पृ७२९p । c) भावे कृत (गू. [पृ६२९] यनि. संख्यानिर्देशः

द्र.) । d) कर्तारि कृत । e) भावे कर्तारि वा कृत । f) गू. (पृ६२९) मदा(दि-अ)भि° इत्यत्र यनि. शोधः द्र. ।

g) च्युः? =अशोक- (=वृद्धविशेष-) । h) गू. (पृ६३१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

मध्य°, २मन्द्र°, मिलित°, मृदु°,
रत्नमण्डप°, विराजा°, षड्ज°,
सु°, हीन°

+मध्यमा(मा-अ)नामिका- ख°

+मध्यमा-वृष्ट- परस्पर°

+मध्य-मणि^२- धातु°

मध्य-वर्तिन्- तदन्तर°

मध्य-स्थ- उन्मीलितनिमीलित°,

श्वाम°°, सुहृद्°°

मध्य-स्थल- मणिगणचित्रित°

मध्या(ध्य-अ)ह- प्रातद्°

√मन्(*बधा.)>मानि अनुसम्°, अ-

भि°, अव°, शा°, प्रति°, वि°, सम्°

मत- ४अ°, अभि°, अव°, रकाक°,

कादिहादि°, गुरु°, तद्°, बहु°,

वि°, १वैखानस°, सम्°

+मत्ता(त-अ)न्तर- जैन... जल°

मति- ४अ°, अनु°, १अहम्°, आत्म-

न्°, आदित्यादि°, आर्य°, आश्व-

स्त°, इत्थंभूत°, ईशताकृत°, २कु°,

श्रीडाविनोद°, गति°, गमनचाल-

नवैराग्य°, गो°, तपस्°, दानादि-

कृपा°, दुर्°, द्वेषकोप°, धर्मकीर्ति°,

निद्रालस्य°, पटु°, परमार्थ°, पाप-

कर्माहिंसा°, बुद्धि°, मनोभिन्न°,

ममता°, महत्°, साधु°, सु°, सुख-

शृङ्गार°, १स्थिर°, स्वात्मन्°

मत्वा ४अ°

मनन- ४अ°, आ°, उपशान्त°,

क्षीण°, जाड्य°, देहेन्द्रियनिग्रह°,

ध्वस्त°, निद्र°, १मनस्°, २श्रवण°

+मनना(न-अ)दि-परिभ्रम-

चिरकालपरिक्षीण°

+मनना(न-अ)नन्द- निरस्त°

१मनस- -नः मना २, ४२१^१; अशि

७०^१b. [स- ४अ°, अनन्य°,

अनुद्विभ°, अन्तःकरण°, अन्यत्र°

अवदात°, अवासन°, अविश्रान्त°

असंसर्ग°, आत्मन्°, आसक्त°,

इन्द्रिय°, उत्कण्ठ°, उद्°, एक°,

काय°, गोपीजन°, चक्षुस्°,

१चित्°, ज्ञ°, ज्ञानिन्°, तद्°,

धर्मक... वल°, नारायण°, निर्°,

निर्वासन°, निर्विकल्प°, परिपूर्ण-

पर... गन्°, पाद°, पृथिवी°,

प्रभा°, प्रशान्त°, प्रसन्न°, प्राण°,

प्राणादिपञ्चवायु°, प्रीत°, भूत°,

मद्°, मन्मथ°, महत्°, राधा°,

वाक्यार्थलब्ध°, १वाच्°, १वाच्°

१विज्ञान°, विरक्त°, व्याकुलित°,

व्युत्पन्न°, शरीर°, शान्त°, ५स°,

सकल°, संकल्प°, समाहित°, सं-

प्रीयमाण°, सर्व°, सर्वजन°, साव-

धान°, सु°, सुखसमाविष्ट°, सुषुप्त°

१स्थिर°, स्नेहाविष्ट°, ख°]

मानस- अशान्त°, एकाग्र°,

कायिक°, कारण°, कुम्भका-

विष्ट°, गम्यागमन°, चलित°,

१तनु°, नियत°, पावन°, प्रयत°,

मायामोहित°, सुदित°, २रमा°,

१वाच्°, १वाच्°, शुद्ध°, शोकसं-

विभ°, सत्कथाक्षित°, सत्यसंधान°

मनः-प्राण°- ४अ°

+मनः-शूल^१- शिरःशूल°

+मनस- १वाच्°

मनसि > मनसि-ज- अण्डज°

+मनस(क)- ४अ°, निर्°, वि°,

६स°

मनीषा- तद्°

मनो-ज्ञ- > +मनोज्ञ-पाणि-प-

च्छव- पाशाङ्कुश°

+मनो(नस्-उ)स्साह- अति°

मनो-नाश- वासनाक्षय°

मनो(नस्-उ)न्मन- वाचामगो-

चर°

१मनो(नस्-उ)न्म(नि >)नी- >

+मनोन्मन्य(नी-अ)नुभव- सं-

विदित°

मनो-बुद्धि- अर्पित°

मनो-भव- १रति°

मनो-भाव- नाना°

मनो-मय- अन्नमय°

+मनो-मोह- ४अ°

मनोरथ- अखिल°, १काम°

मनो-रम- मिथ्या°

+मनो-विकार- पृथिवी°

मनो-वृत्ति- २ब्रह्माकार°, सर्व°

+मनो-सम्भन्- अतिहेहसंकुलित°

मनो-हर- अत्यन्त°, उतुङ्ग...

म्भ°, सर्वाङ्ग°

+मनोहर-रूप- अति°

मनो-हारिन्- सदा°

१मनु- २कालिका°, ५तार°, ३त्रिपु-

रा°, दुर्गा°, महत्°, माला°, मेल-

न°, श्रीरामचन्द्र°, सर्वदुर्गा°,

सिद्ध°, २सुन्दरी°, सौर°, लज्°

२*मनु-

१मानव- ४अ°, आ°

मनु-ज- तिर्यक्°

३मनु- प्रजापति°, वैवस्वत°

मनुस-

मानुष- गोपीचन्दनसंसक्त°,

प्रकृति°, २यत्°

+मानुष-चेष्टा(ष्टा-अ)-

दि- अति°

मनुष्य- १देव°, १देव°, पितृ°

मानुष्यक^१-

+मनुष्य(ष्य-अ)षि- देवर्षि°

मन्तष्य- ४अ°

मन्तु- ४अ°, अनु°, अभि°, अव°

मन्त्र- ४अ°, अखिल°, १अङ्ग°,

अधर्वण°, अध्यात्म°, अध्यात्म-

शास्त्र°, २अनाहत°, अनु°, अन्नपू-

र्योश्चरी°, अन्य°, अष्टत्रिंशदक्षर°,

a) खि १०, १५१, ३ (सू. टि. वैपश् यस्या.) । b) अञ्ज्याः शै. अपा. । c) द्रस. । d) बुञ् > अकः प्र.

उसं. [पा ४, ३, १२० (एतदनु गपू. पृ ६३९।।। यनि. शोधः)] ।

महा-वाक्य^१- इत्यादि^२,
तारसार^३, प्रणव^४, २प्रश्न^५

*महावाक्य-महामन्त्र-
श्री^६

*महा-वाद्य- १मङ्गल^७

महा-विदे(ह>)हा^८-

महा-विद्या- श्री^९

महा-विष्णु- अरुणपरिपाल-
क^{१०}, केवलम...य^{११}, निरतिशया-

...रा^{१२}, पुराकल्पि...य^{१३}, श्री^{१४}

*महा-वेदि- शिवयज्ञ^{१५}

महा-व्याधि- पापरोग^{१६}, वा-
तपित्तश्लेष्मन्^{१७}

*महा-व्रण- शस्त्रबाणक्षत^{१८}

महा-शक्ति- अष्टन्^{१९}

*महा-शङ्ख-माला- वस्त्रा-

लंकार^{२०}

*महा-शान्ति- १शिव^{२१}

*महा-शूलि(न्>)नी^{२२}- न्यै
मउ ३, १३.

*महा-सेतु- भवोदधि^{२३}

महे(हा-ई)भ- १ब्रह्मन्^{२४}

महे(हा-ई)श्चर- १ब्रह्मन्,
भूत^{२५}, लोक^{२६}, विष्णु^{२७}, विष्णु^{२८},
सर्वलोक^{२९}

माहेश्वर->*माहेश्वर-

ज्वर^{३०}- अतिभयंकरज्वर^{३१}

*महै(हा-ऐ)श्चर्य- १पुत्र^{३२}

महो(हा-उ)ञ्जवरु- बोधा-
नन्द^{३३}

महो(हा-उ)स्सव- इन्द्रपरा-
जय^{३४}, तद्दर्शन^{३५}

महो(हा-उ)दधि- शिवज्ञा-
न^{३६}, सु^{३७}

महो(हा-उ)दय- मुख्यानन्द^{३८}

*महो(हा-उ)दर^{३९}- मदाशक^{४०}

महो(हा-उ)रग- किनर^{४१}

१महिमन्- अगाध^{४२}, उक्ल^{४३}, एव-

म्^{४४}, चन्द्र^{४५}, २निज^{४६}, मोह^{४७}, स्व^{४८}

महस- आधारचक्र^{४९}, १मित्र^{५०}

महर-लोक- जनोलोक^{५१}, भूर्लोक^{५२}

२महिप- महाज्वालामणि^{५३}

१महिषी- १धन^{५४}

३महिष- त्रिशूलक्षत^{५५}

*महिषा(ष-अ)सुर- २मधु^{५६}

√मा(माने) अतु^{५७}, अभि^{५८}, अभिवि^{५९},

उद्^{६०}, उप^{६१}, निर्^{६२}, परि^{६३}, प्र^{६४},

प्रति^{६५}, वि^{६६}, सम^{६७}

*२म,मा- उप^{६८}, प्र^{६९}, प्रति^{७०}

*मा(त>)ता^{७१}- द्विवर्ण^{७२}

*माति^{७३}- अभि^{७४}

१मातृ- निर्^{७५}, प्र^{७६}

मात्र,त्रा^{७७}- ४अ^{७८}, अंश^{७९}, अकार^{८०},

अङ्गुष्ठ^{८१}, १अणु^{८२}, अतिकृच्छ्र^{८३}, अ-

द्वयानन्द^{८४}, अद्वैत^{८५}, अधि^{८६}, अध्य-

यन्^{८७}, अनन्त^{८८}, अनास्था^{८९}, अनु-

ष्ठान^{९०}, अन्तःस्थसंविद्^{९१}, अप^{९२},

अपवाद^{९३}, अभाव^{९४}, अभ्यास^{९५},

अर्थ^{९६}, अर्ध^{९७}, अर्धचतुर्थ^{९८}, अष्टन्^{९९},

अष्टावि^{१००}भेद^{१०१}, असंकल्पन्^{१०२}, अ-

स्मिता^{१०३}, आकाश^{१०४}, आत्मन्^{१०५}, आ-

नन्द^{१०६}, आभास^{१०७}, आराप्र^{१०८}, आलो-

चन^{१०९}, आस्था^{११०}, इच्छा^{१११}, ईषत्^{११२},

उच्चारित^{११३}, उत्पत्ति^{११४}, उदर^{११५}, उद्गा-

टन^{११६}, उपार्जितवस्तु^{११७}, २उपासना^{११८},

एक^{११९}, एकाह^{१२०}, एकाहित^{१२१}, एकैक^{१२२},

एतद्विज्ञान^{१२३}, १ओंकार^{१२४}, २कति^{१२५},

कथाश्रवण^{१२६}, १कर्ण^{१२७}, कायशो

षण^{१२८}, किंचित्^{१२९}, कृच्छ्र^{१३०}, क्षण^{१३१},

खद्योत^{१३२}, गोदोह^{१३३}, गोधूम^{१३४}, प्रास^{१३५},

चण^{१३६}, चतुर्^{१३७}, चतुर्थ^{१३८}, चतुःषष्टि^{१३९},

१चित्^{१४०}, चिद्रूप^{१४१}, चिन्तित^{१४२}, चि-

न्निष्पन्दांश^{१४३}, चेतन^{१४४}, २चैतन्य^{१४५},

जन्मन्^{१४६}, जप^{१४७}, जात^{१४८}, जिह्वा^{१४९},

१ज्ञान^{१५०}, तडिदाभ^{१५१}, तत्प्रमार्जन^{१५२},

तद्^{१५३}, तदभावन^{१५४}, तदमार्जन^{१५५},

तद्गा^{१५६}, तावत्^{१५७}, तिल^{१५८}, तृण^{१५९},

त्रुटि^{१६०}, तेजस्^{१६१}, त्रि^{१६२}, दक्षि^{१६३}, दृष्ट^{१६४},

देह^{१६५}, द्वात्रिंशत्^{१६६}, द्वादशन्^{१६७}, द्वि^{१६८},

द्विहस्त^{१६९}, १धन^{१७०}, २धारण^{१७१}, नामो-

च्चार^{१७२}, नामोच्चारण^{१७३}, नाल^{१७४},

नित्यशु...त्ता^{१७५}, निमेष^{१७६}, नि-

स्तुलद...स्तु^{१७७}, पञ्चन्^{१७८}, पाणि-

पादादि^{१७९}, पिठरख...दि^{१८०}, पूर्व-

भाविन्^{१८१}, पृथिवी^{१८२}, प्रज्ञा^{१८३}, प्रति^{१८४},

प्रतिषेध^{१८५}, प्राणयात्रिक^{१८६}, प्रादेश^{१८७},

प्राप्तवस्तु^{१८८}, प्रोदित^{१८९}, २प्लुत^{१९०},

वदरीफल^{१९१}, बन्धध्वंस^{१९२}, १ब्रह्मन्^{१९३},

ब्रह्मविद्^{१९४}, ब्रह्मवेदन^{१९५}, ब्राह्मणाभा-

स^{१९६}, ३भावना^{१९७}, २भिक्षा^{१९८}, भूत^{१९९},

१भोग^{२००}, मनःप्रशम^{२०१}, १मनस्^{२०२},

मरुभू^{२०३}, मसूर^{२०४}, माया^{२०५}, माष^{२०६},

मास^{२०७}, १मुण्ड^{२०८}, १मुहूर्त^{२०९}, मृषा^{२१०},

मोह^{२११}, १यव^{२१२}, यात्रा^{२१३}, २याम^{२१४},

२युग^{२१५}, २योजन^{२१६}, १रति^{२१७}, रोमन्^{२१८},

लक्ष^{२१९}, लेश^{२२०}, ३वकार^{२२१}, वस्तु^{२२२},

१वाच^{२२३}, वायु^{२२४}, वालाप्र^{२२५}, २वास-

ना^{२२६}, विज्ञात^{२२७}, १विज्ञान^{२२८}, विता-

न^{२२९}, शरीर^{२३०}, शान्ति^{२३१}, शुक्लिका^{२३२},

२श्रवण^{२३३}, श्रुत^{२३४}, षण्मास^{२३५}, षोड-

शन्^{२३६}, ६स^{२३७}, संवत्सर^{२३८}, संविद्^{२३९},

सकृच्छ्रवण^{२४०}, सकृदभ्यास^{२४१}, संक-

ल्प^{२४२}, १सच्चिदानन्द^{२४३}, संज्ञा^{२४४},

१सत्^{२४५}, सत्ता^{२४६}, सत्त्वपुरुषा...

ति^{२४७}, सत्यविज्ञान^{२४८}, सदानन्द-

चित्^{२४९}, संनिधि^{२५०}, सुख^{२५१}, स्तुति^{२५२},

स्पन्द^{२५३}, स्मरण^{२५४}, स्वदन^{२५५}, स्वर^{२५६},

स्वात्मन्^{२५७}, २हस्त^{२५८}

*१मात्र(-क)- आभास^{२५९}, एक^{२६०},

एतावत्^{२६१}, द्वि^{२६२}, भोगेच्छा^{२६३}, माषक^{२६४}

१यव^{२६५}, १सच्चिदानन्द^{२६६}, स्वात्मन्^{२६७}

*मात्रा-चतुष्टय- २जाग्रत्^{२६८}, उ-

रीय^{२६९}, सुषुप्ति^{२७०}, स्वप्न^{२७१}

+२मा(त्रक >)त्रिका- अर्ध°
 २मान- अनु°, अभिवि°, उद्°, उप°,
 चूर्ण°, तदीय°, १देव°, देह°, द्वाद-
 शाङ्गुल°, द्वादशाङ्गुलि°, धर्मिप्रा-
 ह्क°, ध्येय°, नवन्°, निर्°, परि°,
 प्र°, प्रति°, १ब्रह्मन्°, महाप्रस्थश-
 त°, १मातृ°, लिङ्ग°, वि°, वेदान्त°,
 स्वातुभूत्येक°
 +मान-द- ६स°
 मान-यष्टि- रेखा- तदन्तर्मध्यव-
 तिन्°
 +१माय निर्°
 +माय- १विश्व°
 मित- ४अ°, नवमान°, निर्°, परि°,
 प्र°, सम्°, सुजीर्ण°
 मित-भोजन- अल्पमूत्रपुरीष°
 १मिता(त-आ)हार- अहिसा°°
 मिमान- निर्°
 मेय- ४अ°, अनु°, परि°, प्र°, विद्या-
 विद्यादि°
 मांस- अस्थि°, कपाल°°, गो°, १त्वच्°
 १त्वच्°, १मधु°, मल°, मेदस्°,
 ४रक्त°, रस°, रवन्°, सर्व°, सुरा°
 माङ्गल्य- १मङ्गल- (परि.) द्र.
 माञ्जिष्ठ- मञ्जिष्ठा- (परि.) द्र.
 मात- माति- √मा(माने) परि. द्र.
 +मातुलुङ्ग^६- आम्र°°
 २मातृ- ४अ°, जगत°, १देव°°, ५न°,
 पितृ°, माधुकर°, १विश्व°, २वेद°,
 सकलभुवन°, सप्तन्°, स्कन्द°
 +मातृ-गण- १रुद्र°
 +मातृ-पितृ-जाया(या-अ)पत्य-
 वगै- तद्°
 +मातृ-पुत्र- शुद्धि°°
 ३मातृ- > २मातृ-क, का- अन्तर°,
 एतत्पुटित°, पद्माशत°, मन्त्र°
 +मातृका-मन्त्र-वर्ण- पद्माशत°
 +मात्र(तृ-अ)ष्टक- ६स°

१-२मात्रक- √मा(माने) परि. द्र.
 माथिन- √मथ् (परि.) द्र.
 माद-, मादिन्-, माद्यत्- √मद्
 (परि.) द्र.
 माधुर्य- १मधु- (परि.) द्र.
 √मान् > मीमांस > मीमांसक-
 जैन°°
 १मीमां(स >)सा- व्रत°
 २मीमांसा- १पुराण°°
 मीमांस्य- ४अ°
 मानन-, मानयत्-, मानित-, १-२मा-
 निन्- √मन् (परि.) द्र.
 २माय°
 माय- √मा (माने) परि. द्र.
 माया- ४अ°, अग्नि°, १अज्ञान°, अ-
 नादि°, अन्त्य°, आत्मन्°, तद्°,
 तमस्°, १तार°, त्रिशक्ति°, धर्म°°,
 २निज°, ३भू°, भूल°, महत्°, मोह°
 यद्°, २योग°, १रमा°, राजस°,
 रास°, १वश्य°, १विश्व°, शक्ति°°
 शब्द°, श्री°, ६स°, सकल°, सा-
 च्चात्°, सार्विक°, स्व°, स्वप्न°,
 स्वाधीन°, १हर°
 +माया(या-आ)दि-विद्या- सर्व°
 +माया-मन्मथ- श्री°°
 माया-मय- > +मायामय-बुद्धी-
 (द्धि-इ)न्द्रिय- स्वस्वरूप°°क°
 १माया-विद्या^१-
 २माया(या-अ)विद्या- परजीवोपाधि°
 मायुक- √मी (*बधा.) परि. द्र.
 मारी- √मृ (परि.) द्र.
 +√मार्ग > गिं परि°, वि°
 +मार्गितव्य- परि°
 मार्गशीर्ष- √मृग् द्र.
 १-२मार्जन-, मार्जयत्- √मृज्
 (परि.) द्र.
 १मार्जार- दुष्टक्रीट°°
 +मार्तण्ड^{१२}- आदित्य°°

माताण्ड- धातु°°
 मा(ल >)ला- २अच्°, अनङ्ग°, आन-
 न्द°, करठ°, १कमल°, जप°,
 ज्वाला°, तरङ्ग°, तुलसीकाष्ठा-
 क्लित°, तुलसीनलिनाच्°, त्रि°,
 दुष्टग्रहज्वाला°, पद्माक्षतु...त°,
 पुष्प°, प्रयाव°, बिल्वदल°, २भग°,
 महासुयङ्क°, महाशङ्ख°, २मातृका°
 मातृकाप...र°, रत्न°, वन°, वल्ल-
 वीव...ज°, विद्युत्°, १शिव°,
 सप्तन्°, स्वर्ण°
 माला-मन्त्र- गरुड°, वृसिंह°, मूल-
 मन्त्र°, रामकृष्ण°, सुदर्शन°
 +मा(लक >)लिका- २अच्°, २घ-
 ट°, पूर्व°
 +मालिका-वर्ण- हंसात्मन्°
 मालि(न् >)नी- ३त्रिपुर°
 १मात्य°- आनन्दतुलसी°, गन्ध°,
 पुष्प°
 +माल्या(त्य-अ)नुलेपन- २शु-
 क्क°
 +माल्या(त्य-अ)म्बर- दिव्य°
 +माल्या(त्य-अ)म्बरा(र-अ)-
 लंकारा(र-आ)द्य- २सुगन्ध°
 मालिन्य- मल- (परि.) द्र.
 +१२मात्य^१-
 माष- तिल°
 मास- सान् त्रित्रा २, ११२. [°स-
 अर्ध°, चतुर°, तद्°, त्रि°, त्रिचतु-
 स्त्रि...तुर°, दिन°, द्वादशत्रयो-
 दशन्°, द्वादशन्°, द्वि°, पञ्च°,
 पूर्ण°, १वार°, षष्°
 मासिक- > +मासिक-ज्वर^{११}- अ-
 तिभयंकरज्वर°°
 १मित्र- अरुण°°
 २मित्र- > मैत्राय(ण >)णी- केन°°
 मित्रयु- > मैत्रे(य >)यी^६- कालामि-
 रुद्र°, केन°°

a) कर्तरी कृत् । b) व्यु. ? = वृच्चविशेष- । c) गपू. (पृ ६५८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) गपू. (पृ ६५९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) गपू. (पृ ६६०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) तु. गपू. पृ ४५८e । g) बप्रा. द्र. = व्यसं., उपनिषद्विशेष- ।

√मिथ्(*बधा.)>१मिथुन- अभि-
भव०, शुक्रशारिका०
२मिथुन- आत्मन्०
मैथुन- अति०, १लुध्०
+मैथुना(न-अ)धिकरण-
मन्त्रजपाधिकरण०
मिथ्या संशय०
√मिद्(*बधा.)>३मित्र->४मित्र-
४अ०, अरि०, कलत्र०, दुर०,
१पुत्र०, १विश्व>धा०, शत्रु०,
१श्राद्ध०, सु०, सुहृद्
२मैत्र->मैत्री- विद्या०
मेदस्- १त्वच्०, मांस०, रस०,
विष्०
√मित् सप्०
+मिलन- १मारण०
मिलित- कुङ्कुम०, मध्यमानख०
+मेलक- सप्०
मेलन- अन्तस्तत्त्व०, ब्रह्मविष्णु...
बिन्दु०, व्योमज्वलनेन्द्राकला-
बिन्दु०, व्योमज्वलनेन्द्राक्षय्य०,
व्योमष...न्दु०, सप्०
√मिथ् व्या०
मिथ्र- लुद्, तमस्, १बीज०,
२रक्त०, व्या०
मिथ्रित- कर्मन्०, गुड०, १विष०,
शक्ति०
√मिष्(*बधा.) उद्, नि०
+मिष- नि०
मिषत्- उद्, नि०
मिष्ट- कटु०
+मिष्ट-रस- राधास्वादित०
+मिष्टा(ष्ट-अ)शृतमय- पुष्प०
+३मेष- उद्, नि०
+मेषण- नि०
√मिह्>मिहि(क>)का- संसारमोह०
मेष- -वः छां ३, १९, २०. [०ब-
धर्म०]
√मी(*बधा.) उद्, प्र०

+मायुक्- प्र०
मीन- खञ्जन्, चित्त०, महत्०
+√मील् उद्, नि०, सप्०
+मीलन- उद्, नि०
+मीलित- उद्, नि०, सप्०
+मील्य उद्
मुकुट- कटक०, किरीट०, जटा०
+मुकुट-कोटि- त्रिदश०
मुकुन्द- हरि०
+मुकुन्द-निधि- श्री०
मुकुल->मुकुलित- रतिभर...स्य०
२मुक्त->मुक्ता- कनक०, कनक०,
मणि०, स्फटिक०
मौक्तिक- अलंकार०, २प्रवाल०
६स०
+मुक्ता-फल- मणिमय०, शुद्ध०,
हीरकावलीघटित०
मुक्ता-लता- व्यक्त०, २सुगन्ध०
+मुक्ता(का-आ)व(लि>)ली- भूत०
बर्हाद्योतित०
+मुक्तावली(क)- कोमल०
+३मुक्त^{११६}- २स्वस्तिक०
मुख- ४अ०, अक्षस्, अन्तर०, अभि०,
अवाच्, अव्यक्त०, अष्टन्, आ-
चार्य०, आवाहन०, उत्तरा०, उद्,
उदच्, उरस्, उल्का०, ऊर्ध्व०,
एकोनविंशति०, कतिभेद०, १की-
र्ति०, गुरु०, गो०, चतुर्, चतुर्दशन्
चन्द्र०, २चरण०, चारु०, चेतस्,
जलयन्त्र०, जिह्वा०, तद्, ताम्बूल-
पूरित०, तिर्यगूर्ध्वमधस्, त्रयोद-
शन्, त्रयोदशसोम०, त्रि०, त्वद्,
२दक्षिणा०, ६दक्षिणा०, दक्षि-
णाक्षि०, दन्ती०, द्वादशन्,
नगरराज०, नाना०, नारायण०,
पञ्चन्, पराच्, पश्चात्, पश्चिम०,
पितामह०, प्र०, बगला०, ३बल०,
बहिस्, ब्रह्मद्वार०, १ब्रह्मन्, ब्रह्म-
नाडी०, ब्रह्मरन्ध्र०, भिक्षापात्र०,

मृग०, १मृत्यु०, १यम०, १वज्र०,
वि०, विधि०, विश्वतस्, विष्णु०,
१व्याघ्र०, शत्रु०, शशिन०, ३श्रव-
ण०, षष्, सकलकामिनी०, सक-
लदेवता०, सकलदेश०, सकलनर०,
सकलराज०, सकललोक०, सप्तन्,
सबिन्दु०, सप्, सर्वजनवैरिन्,
सर्वतस्, सहस्रावधि०, साक्षाद्-
विधि०, सु०, २स्थिरा०, स्मित०,
स्व०, स्वेदबिन्दुस्रसत्
+मुख-द्युति- अनानन्द...१ध०
+मुख-शूल^{१११}- शिरःशूल०
+मुखा(ख-अ)म्बु-ज- स्मयमान०
+मुख(ख-अ)म्भो-ज- चतुर्मुख०,
तप्तकार्त...जित०
मुख्य- अपान०, इन्द्र०, तद्, दैत्य०,
दैव०, ३नील०, प्राण०, योध०, वर-
दान०, वसिष्ठवे...क्षि०, विप्र०,
सर्व०, सुरेन्द्र०
+मुख्य-प्राण- जीव०
√मुच्>मोचि, मुमुक्षु, मोक्ष, >क्षि
अति०, अव०, निर्, परि०, प्र०,
प्रति०, वि०, विनिर्, विप्र०, संप्र०
१मुक्त- ४अ०, अदेह०, अद्वितीय०,
अद्वैत०, अरिषड्वर्ग०, कलाकल-
न०, क्रम०, २चैत्य०, जीवत्, १ज्ञा-
न०, २निज०, १नित्य०, १नित्य०,
निर्, परापवाद०, परि०, १पाप०,
पाश०, प्र०, प्रपञ्च०, बद्ध०, १बन्ध०,
१बुद्ध०, भवभय०, योनि०, राराग०,
२वासना०, वि०, १विदेह०, विनिर्,
शुद्ध०, सदा०, सद्यस्
+मुक्त-के(श>)शी^१- अरिष्टका-
रिणी०
मुक्ति- अति०, अदेह०, कैवल्य०,
क्रम०, जीवत्, तद्, देह०, १फ-
ल०, १बन्ध०, २भव०, मुक्ति०, वि०,
वैदेही०, शिवसायुज्य०, सायुज्य०,
सालोक्य०, सालोक्यसारूप्य०

+१मुक्ति(-क)- वैदेही°
 +२मुक्ति(-क)>कार्०- ईशावा-
 स्य°° कलिजावा... च°
 +मुक्ति-प्रद- सद्यस्°
 मुक्ति-मार्ग- स्वान्तर्विजृ...रित°
 मुक्त्य(क्ति-अ)र्थ- संसार°
 +मुच्य अति°, प्र°, वि°, संप्र°
 +मुच्यमान- वि°
 मुसुक्षु- जीवत्°, सर्व°
 +मोक- निर्°, वि°
 १मोक्ष- क्षम् अशि ७०^b. [°क्ष-
 अति°, आ°, करटक°, १केवल°,
 जरामरण°, १देव°, देहित्व°,
 धर्म°, निर्°, निर्वाण°, निश्शङ्का-
 नन्द°, परम°, १बन्ध°, भूतप्रकृति°,
 १भोग°, वि°, विनिर्°, विप्र°,
 विमुक्त° शुद्ध°, समाधि°, स्वर्ग°]
 मोक्ष-साधन- आखिल°
 +मोक्ष-साधन- अनन्त°, स-
 मस्त°
 +मोक्ष-स्थिति-बन्ध- संसार°
 +मोक्षै(क्ष-ए)क-साधन- सा-
 क्षात्°
 +मोक्षण- १बन्ध°, वि°
 मोचक- १बन्ध°, वि°, संसार°, सर्व-
 संसार°
 १मोचन- विरामूत्र... दि°, २शुक्र°,
 संसार°
 +२मोचन^a- २भव°, भवबन्ध°
 √मुराड्(वधा.)> १मुण्ड- महत्°,
 सुरिद्धत°, लघु°, १वर°°
 २मुण्ड- गपू. पृ६६७ द्र.
 +३मुण्ड^१- ईश°°
 +मुण्ड-क^१- २प्रश्न°
 +३मुण्ड^१- खण्ड°, २मधु°°
 √मुद्, > मोदि अजु°, आ°, प्र°, प्रति°
 मुद्- प्र°

१मुद्-
 २मु(द°>)दा- प्र°
 मुदि->मुदि-ता- मुदिता°, मै-
 त्री°°
 मुदित- उदात्त°°
 मोद- अज°, आ°, प्र°, प्रतिबिम्बित-
 शा...दन°
 +मोद-त्व- जडत्व°°
 +मोद-दायिन्- सदा°
 मोदक-, +मोदयित्वा अनु°
 +मुद्^१- गोधूम°
 १मुद्गल->२मुद्गल- ऐतरेय°°
 १मु(द°>)द्रा- आधारनवक°, आनन°,
 कण्ठ°, १ज्ञान°, तद्°, नभस्°,
 पञ्चन°, पृथ्वीमण्डल°, २बन्ध°,
 महत्°, महोन्मादिनी°, मौन°, २यो-
 ग°, योनि°, २लोपा°, शांभवी°
 +मु(द्रक°>)द्रिका- हस्ताङ्गुलि°
 २मु(द°>)द्रा- उन्मादिनी°, खेचरी°, त्रि-
 खण्डा°, द्वावणी°, १बीज°, महा-
 कुश°, सर्ववशंकरिणी°, सर्ववशंकर-
 री°, सर्वविदाविणी°, सर्वसंज्ञो-
 भिणी°, सर्वाकर्षिणी°
 मुनि- अज्ञोभ्य°, क्रोध°, १देव°, म-
 हत्°, ३वर°, वसिष्ठवामदेवादि°,
 विभाण्डक°, सनकादि°
 मौन- ४अ°
 +मौन-फल- सर्व°
 मौनिन्- महत्°
 +मुनि-शब्द-वाच्य- मुग्धतर°
 +मुरली^१- हेमन्°
 +√मुष् परि°, प्र°, संप्र°
 +मुषित- मायावाद...कार°, मोह-
 राहु°
 +मोष- संप्र°
 +मोषिन्- परि°
 १मुष्टि- भस्मन्°

+१मुष्टि(-क)- सूर्यमण्डल°
 +मुष्टि-पार्श्व-शूल^१- दृष्टिशूल°°
 +मुष्टि-पृष्ठ-शूल^१- दृष्टिशूल°°
 +मुष्टि-शूल^१- दृष्टिशूल°
 २मुष्टि->२मुष्टि-क^१-
 मुसल- १वज्र°, सन्न°, सुदर्शन°°
 √मुह, > मोहि परि°, प्र°, वि°, सम्°
 मुग्ध- ४अ°
 +मुग्धा(ग्ध-अ)मुग्ध- अनान-
 न्दसमानन्द°
 मुह्यमान- परि°
 मूह- ४अ°, अति°, दिश्°, प्र°, वि°,
 सम्°
 मोह- ४अ°, अविद्या°, अशना-
 या°, १काम°, १लुब्ध°, गत°,
 जरा°, दर्प°, द्वन्द्व°, द्विनिमि-
 त्तक°, निन्दा°, परि°, पृथिवी°,
 प्रमाद°, १भय°, १भाव°, मद°,
 मद°, १मनस्°, महत्°, १मान°,
 माया°, लोभ°, लोभ°, वि°, वित्त°,
 विध्वस्त°, शोक°, संसार°, संकल्प-
 न°, सम्°, सुख°, सुखदुःखादि°
 मोह-कर(>)री- अति°
 मोहक- जगत्°
 +१मोहन^१- १मारण°, विद्वेषिन्°
 २मोहन^१- अति°, आनन्दरसि...
 शि°, जगत्°, त्रैलोक्य°, दृष्टि°,
 महत्°, श्रीराधारसिक°, सम्°,
 सर्वजगत्°
 +मोहन-गृह- जघनस्थलवासिन्°
 +मोहन-रूप- अति°
 मोहवत्- सम्°
 मोहित- ४अ°, १काम°, दैव°, परि°,
 माया°, लोभ°, वि°, सम्°
 १मोहि(त्)>नी- एक°, चन्द्रकला°,
 त्रैलोक्य°, वि°, १विश्व°, सकल-
 जगत्°, सम्°

a) =तदाख्योपनिषद्-विशेष-। b) अज्याः शै. अपा.। c) गपू. (पृ६६७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.।
 d) कर्तरि कृत्। e) धा. अर्थः ? =तदाख्योपनिषद्-विशेष-। f) धा. अर्थः ? =राक्षसविशेष-। g) व्यु.। h) गपू.
 (पृ६६९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। i) भाप.। j) गपू. (पृ६७०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.।

२मोहिनी- स्तम्भिनी°
मूक- ४अ°, निरंश्या...न्ति°, वधि-
र°°, १बाल°

मूत्र- अल्प°, कफ°°, गो°, मल°, मांस°°,
४रक्त°, विष°, रवन्°, सूकर°, स्वेद°

मूत्र-क- कपिला°

मूत्र-पुरीष- अल्प°

मूर्ध- म्लेच्छ°

√मूर् (<मुर्छ्) > मूर्छ् (>) छां- २जा-
प्रत्°°

मूर्छित- तद्वाण°

मूर्ध- ४अ°

मूर्ति- ४अ°, अकार°, अनन्त°,
अनिरुद्ध°, अव्यक्त°, अष्टम्°,
आकाश°, आत्मन्°, आदिचान्त°
आनन्द°, उकार°, ऋच्°, करचर-
यादि°, २कृष्ण°, गुरु°, चतुर्°,
१ज्ञान°, तद्°, त्रि°, ६दक्षिणा°,
१निज°, नित्यानन्द°, निर्मलनि-
र्वाण°, पञ्चन्°, परम°, प्रयुम्न°,
बोधानन्दैक°, १ब्रह्मन्°, मकार°,
१राम°, वरद°, वारुण°, १विश्व°,
विष्वादि°, वैराग्य°, शशमृद्धि-
म्ब...र°, शिववि...धर्म°, शिवा-
नन्दनन्दि...न्द°, ६स°, १सच्चि-
दानन्द°, संज्ञा°, सर्वदया°

मूर्ति-मत्- ४अ°

मूर्धन्- एक°, नाभि°°, पर्वत°, पाद°°,
१ब्रह्मन्°, सर्व°

√मूर् > १मूर्- ४अ°, अङ्गुष्ठ°, अङ्गु-
ष्ठतल°, अनादि°, अष्टदल°, आ-
त्मविद्यातपस्°, ऊर्ध्व°, कण्ठ°,
कनिष्ठिका°, कल्पतरु°, १कुश°,
कैलास°, क्लेश°, चित्त°, जिह्वा°,
तद्°, तदन्त°, तरु°, तालु°, तुल-
सी°, तृण°, त्वद्°, दक्षिणभुज°,
दन्त°, निद्°, पञ्चबुद्ध्यादि°, पत्र°,
पयत्°, १पायु°, पीठ°, १फल°,

१फल°°, बाहु°, बिन्दु°, विल्व°,
महाभाण्डरीवट°, यद्°, २रसना°,
रुद्राक्ष°, लिङ्ग°, वटाश्वत्थ°, वाम-
पाद°, वामबाहु°, वामाङ्घ्रि°,
वामोरु°, वृक्ष°, शत°, शब्द°,
२शाक°, शान्त°, शिखायज्ञोप-
वीत°, शूल°, श्रीफल°, ६स°,
१सत्°, सदाचार्य°, सर्वकारण°,
सुविरुद्ध°, स्थूल°, ख°

+मूल-कारण- परमसूक्ष्म°

मूल-प्रकृति- आधारशक्ति°

मूल-मन्त्र- अघोर°

+मूल-शूल- शिरःशूल°°

+मूला(ल-आ)दिक- तुलसीपा-
...वृक्ष°

मूला(ल-आ)विद्या- महत्°, विवि-
धविचित्रानन्त°, सर्व°, सविलास°
+मूल्य- पत्र°°

२मूल- गप्. पृ६७२ द्र.

३मूल->मूल-क- १कन्द°, १बाल°

√मृष् (*बधा.) +मृष- १व्याघ्र°

मृषक- २कु°

मृषिक- -काणाम् गृह २४.[°क-
३वक°, १माज्जर°]

√मृ, > मारि अव°, परि°

मर- ४अ°, परि°

मरण- अशनाया°°, आ°, १का-
म°°, गर्भ°°, जन्मन्°, जरा°,
२जाप्रत्°°

+मरणा(रा-आ)न्तिक- आ°

+मर्त्यु- ४अ°

+मर्थ- जरा°

मार- १तार°°

१मारण- अरि°, २ग्रह°, शत्रु°

+मारि(>)री- महत्°

मृत- ४अ°

१मृत्यु- स्युम् श्वे३, ८९°; ६, १५९°.

[°स्यु- ४अ°, अति°, अतिमृत्यु°,

अप°, १काम°°, २काल°, जन्मन्°
जरा°, पुनर्°, महत्°, १मृत्यु°,
वडवानलदुर्गा°, वि°, सर्व°]

+मृत्यु-क- दिश°°

मृत्यु-मृत्यु- ४अ°

√मृग् (*बधा.) वि°

मर्ग->मार्ग- अज्ञानिकृत°, अन-
न्य°, अन्य°, अर्चिस्°, अवधूत°,
आचार्यशास्त्र°, उक्त°, एक°, एतद्°
कर्मन्°, गुरुशास्त्रोक्त°, गुरुरूपदिष्ट°,
गुरुरूपदेश°, १ज्ञान°, तत्त्व°, तद्°,
तन्मात्रप्राप्त°, तारकयोग°, त्रि°,
दशमद्वार°, धर्म°, धूम°, नभस्°,
नाडि°, नाडी°, नाना°, निजाभ्यास°
निर्वाण°, निवृत्ति°, निष्कर्मन्°, पर-
महंस°, पश्चिम°, पश्चिमद्वार°, प्रवृ-
त्ति°, प्राण°, प्रेमन्°, बहु°, बाह्य°,
१ब्रह्मन्°, २भक्ति°, भजन°, महत्°

मुक्ति°, १मोक्ष°, २योग°, रस°,
रसिकानन्द°, रहस्य°, राजन्°,
वन°, २वामदक्षिण°, वायु°, विधि-
निषेध°, विमुक्त°, रवेद°, वेदलौ-
किक°, २शुक°, श्रुतिस्मृत्युक्त°,
श्रुत्यनुष्ठान°, संसारनिवृत्ति°,
१सत्°, १सत्य°, संबन्ध°, सर्व°,
सिद्धि°, सुषुम्ना°, सूक्ष्म°, सूक्ष्म-
तर°, ज्ञेह°, स्वर्गह्योक्त°, स्वरूपानु-
...ध्यान°

+मार्ग-द्वय- इडादि°

+मार्ग-भेद- त्रि°

मृग- ७चित्र°, दुष्ट°, द्विज°°, नर°,
नर°°, १पशु°, सर्प°°

मृग-तृष्णा- द्विचन्द्र°°

+मृग-मद- अगुरु°°, केसर°°,

तैल°°, स्रज°°

+मृगमदा(द-आ)गुरु-रवि-

त- अति°

मृगय- वि°

√मृज्, >मार्जि अनु°, अनुवि°, नि°, परि°, प्र°, वि°, सम्°
 १मार्जन°- ४अ°, दृश्य°, छीव°, सम्°
 +२मार्ज(न°>)नी°- सम्°
 +मार्जयत्- परि°
 +मृज- ४अ°
 +मृजत्- परि°
 +मृज्य अनुवि°, प्र°, वि°, सम्°
 १मृष्ट°- ४अ°, सम्°
 +मृष्टा(ष्ट-अ)शन- अल्प°

√मृड् >मृड- पाशुपतास्त्र...शास्त्र°
 √मृण्, >मृणत्- प्र°
 √मृद् अभि°, उप°, वि°
 +मृद्- उप°, वि°
 १मृदन°- गात्र°
 +२मृदन°- अनात्मासुर°, अरि°, राक्षस°, वि°
 +मृदिन्, नी- १अहि°, ३महिष°
 मृद्- तास्र°, पाषाण°, १मूल°, १श्वेत°
 मृत्- ति(क)>कम- गोपीचन्दन°, तुलसीमूल°, १श्वेत°
 +मृत्-तोय- ज्ञानवैराग्य°
 +मृत्-स्ना- १श्वेत°

√मृध्, >+मृध- ति°
 +√मृश्, >मृशि अभि°, अव°, परा°, परि°, वि°, सम्°
 +मृश- परा°, वि°, सम्°
 +मृशिन्- सम्°
 +मृश्य- +मृशमान- अभि°
 +मृश्य अभि°, अव°, वि°
 +२मृष्ट- परा°, परि°, वि°
 +√मृष् >मृषण- अव°
 मृषा ४अ°
 +√मे, >मव- विनि°
 मेख(ल)>ला- अनङ्ग°, कटि°
 मेट्- वासन°, गुद°, १त्वच्°, पाद°, ०°

पृष्ठवरा°°
 मेध- अश्व°, पितृ°, प्रिय°
 मेध्य- ४अ°
 +मेधस्- अकुराठ°, अल्प°, दुर्°, सु°
 १मेधा- अति°, प्रज्ञा°, श्रद्धा°
 मेरु- महत्°, महेन्द्र°, सहस्रशिखर°, सु°
 मेलक- √मिल् (परि.) द्र.
 १-२मेष- गपू. पृ६७७ द्र.
 ३मेघ- , मेषण- √मिष् (परि.) द्र.
 मोक- , मोक्षण- √मुच् (परि.) द्र.
 १मोघ- ४अ°
 १-२मोचन- √मुच् (परि.) द्र.
 मोदयित्वा √मुद् (परि.) द्र.
 मोष- , मोषिन्- √मुष् (परि.) द्र.
 १-२मोहन- √सुह (परि.) द्र.
 मौलि- इन्दुखरबान्त°, ज्योतिस्°, धृतबालेन्दु°, बिन्दु°, रत्नौघाब-
 ङ्क°, शेषफणाच्छादित°, संमोह°, १सुरलोक°
 +मौली(लि-इ)न्दु- अक्षोभ्य°
 +√स्ना आ°, समा°
 +म्नाय- आ°
 +√मुच्, >मुच्-, ओचत्- नि°
 +√म्रेड् आ°, उपनि°, नि°
 +म्रेडन- आ°
 √म्लुच्, >+म्लोचत्- नि°
 म्लेच्छ- १पशु°
 √म्लै अभि°, वि°
 +म्लान- अभि°
 म्लान- ४अ°

य

१य > १य-कार- > +यकार(र-अ)न्त-
 नकारादि°
 १यत् > २यक्ष- गन्धर्व°, गन्धर्व°, १देव°, नाद°, पिशाच°, भूत°, ०°

शनि°°, ६स°, सिद्ध°°
 +यक्ष-गन्धर्व-रक्षः-किंनर-मानुष-
 जठरान्तःस्थित°
 +यद्म- ४अ°
 √*यच्छ्, यम्(यमने), > यमि, यामि
 अन्तर°, उद्°, नि°, प्र°, विनि°, संनि°, सम्°
 १यत्- उद्°, नि°, प्र°, १वाच्°, विनि°, सम्°
 यन्त्- चित्ताहंकार°, नि°, सु°
 यन्त्र- एतद्°, २घटी°, २जल°, २त्रि
 कोण°, दुष्टग्रह°, नारायण°, १पर°
 १बीज°, मन्त्र°, महत्°, महानारा-
 यण°, सर्व°, सुदर्शनादि°, सूत्र°
 +यन्त्र-कवाट- आरक्कम...त°
 +यन्त्र-तन्त्रा(न्त्र-आ)दि-
 १वश्य°
 +यन्त्र-निर्माण- जलशु...न°
 +यन्त्र-मन्त्रा(न्त्र-आ)वरण-
 पूजा- नारायण°
 +√यन्त्रि नि°
 +यन्त्रित- नि°, सु°
 १यम- अरुण°, इन्द्र°, निशा-
 कर°, शक्र°°
 +यमा(म-अ)न्तक- पद्मान्तक°
 २यम- उद्°, जप°, नि°, सम्°, समुद्°
 यमा(म-आ)द्य(दि-अ)ष्टा(ष्ट-अ)-
 ङ्ग-योग- ज्ञानसहित°
 ३यम- गपू. पृ६८० द्र.
 +४यम- वाचम्°
 +यमत्-, +१यमन- सम्°
 +यमित- नि°
 +१यम्य उद्°, नि°, विनि°, संनि°, सम्°
 +३याम- अन्तर°
 +४याम- नि°
 +यामिन्- अन्तर°, अशेषभूतान्तद्°

a) गपू. (पृ६७५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) करणे कृत् । c) गपू. (पृ६७६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।
 d) कर्तरि कृत् । e) वैपश् यद्र. । f) गपू. (पृ६७९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

√*यच्छ्, यम्(दाने) उप°, प्र°, संप्र°
 +४याम्- उप°
 √यज्, >याजि अनु°, अव°, आ°,
 प्र°, सम्°
 +इज्- ऋतु°
 इ(ज्य>)ज्या- क्रिया°, भूत°
 +इज्यान- आत्मन्°
 २इष्ट- सु°
 इष्टा(ष्ट-आ)दि-कारिन्- अन्°
 इष्टि- पुत्रकाम°, प्राजापत्य°, ब्राह्म°,
 वैश्वानर°
 +इष्टि(क)- दर्शपूर्णमास°
 +यज्- १देव°
 यजन- अव°, १देव°, प्रत्यक्ष°,
 ज्ञान°
 यजमान- -नाय गर्भ २०°. [°न-
 ४अ°]
 यजुस्- ऋच्°, सामन्°
 यजुर-वेद- १कृष्ण°, २शुक्ल°
 यज्- ४अ°, अग्निष्टोमादि°, अधि°,
 आतिथ्य°, आत्मन्°, जप°,
 १ज्ञान°, तपस्°, तीर्थ°, ३दक्ष°,
 ध्यान°, ५न°, नामन्°, द्रव्य°,
 पञ्चन्°, १ब्रह्मन्°, १मनस्°, महत्°,
 २योग°, व्रत°, शारीर°, १शिव°,
 २वेद°, १सत्य°, सर्व°, २सह°,
 सृष्टि°, स्वाध्यायज्ञान°
 यज्-कर्मन्- सर्व°
 +यज्-दान- अनेक°
 यज्-वल्क-> १याज्जवल्क्य°-
 गौतम°, २जनक°
 +२याज्जवल्क्य^{१०}- ईशावा-
 स्य°
 +यज्-शील- ४अ°
 यज्ञा-यज्ञा->यज्ञायज्ञीय-
 ४भद्र°

यज्ञो(ज्ञ-उ)पवीत- ४अ°, एक°,
 १ज्ञान°, १त्रिदण्ड°, शिखा°,
 २शुक्ल°
 यज्ञोपवीतिन्- ४अ°
 यज्वन्- ४अ°, सु°
 याग- गम् पहं १५० : ६^d [°ग-
 अन्तर्°, गृह°, द्वादशवर्षसत्र°,
 धर्म°, पितृ°, १मनस्°, सत्र°,
 समस्त°]
 +याग-व्रत-तपो-दाना(न-आ)-
 दि- नित्यनैमित्तिक°
 याज- अनु°, प्र°, सम्°
 याजक-, +याजन- अयाज्य°
 +याजिन्- अश्वमेध°, आत्मन्°,
 मद्°, १सत्°, सर्वयज्ञ°, १सोम°
 +याजुक- इष्टि°
 याज्य- ४अ°
 √यत्(यतने) अन्वा°, आ°, प्र°, सम्°
 +यतन- आ°
 यत्- अन्वा°, आ°, सम्°
 यत्न- ४अ°, अनु°, आत्मन्°, पौर-
 ष°, प्र°, सर्व°
 √यत्(निकारे)>याति>यात(न>)-
 ना- घोरादि°
 १यत- √*यच्छ्, यम्(यमने) परि. द्र.
 २यत- √यम् (दैव्यै) द्र.
 १यति- -ति: पहं ४°. [°ति- ४अ°,
 १कोटि°, नीच°, ब्रह्मचारिन्°,
 महत्°, १सत्°]
 +यति-वृत्ति-हन्- -हा पहं १५०:
 १९^d.
 २यति- गप्. पृ६८४ द्र.
 ३यति- √यम् (दैव्यै) द्र.
 +यत्खल^{१०}- -ल: व ४४५ : २१.
 यद्->४य- य: यस्मात् मउ२, ४९^d.
 यत्र ब्रवि १^d.

यथा वृ ६, ४, २३^१.
 +यथा(था-आ)त्म->याथा-
 त्म्य- आत्मन्°
 १यथा-योग्य-> +यथायो-
 ग्य-काल- शृङ्गार°
 यथा(था-आ)र्थ- रहित°
 यथा-वत् ४अ°
 या->या-वत्-> +यावत्-सद्-
 गन्ध-गुटिका- का शि ४, ३४.
 यन्त्रित- √*यच्छ्, यम्(यमने) परि. द्र.
 १यम्^१
 +२यम्^k छां ८, ३, ५.
 √यम् (दैव्यै), > +२यत्-, +३यति-,
 +२यमन-, +२यम्य, +५याम्-
 आ°
 १-४यम- , यमत्-, १यमन-, यमित-,
 १यम्य √*यच्छ्, यम् (यमने)
 परि. द्र.
 +ययाति^१- सुबुध्र°
 १यव^m- व्रीहि°, ६स°
 २यव- √यु (मिश्ररो) परि. द्र.
 यशस्- ४अ°, आयुस्°, १ब्रह्मन्°,
 महत्°, विद्या°
 यशस्-विन्-> १यशस्विनी->
 २यशस्विनी- पूषा°
 यशो-(द>)दा- १नन्द°, श्री°
 यष्टि- कटि°, कन्दुक°, कन्दुककेलि°,
 महत्°, २मान°
 √यस् (*बधा.)>यासि आ°, निर्°, प्र°
 +यस्त- आ°
 +यास- आ°, निर्°, प्र°
 +यास्य^m- ४अ°
 √या, >यापि, यियास, याति भोउ
 १५^b. [अनु°, अप°, अग्नि°, आ°,
 उद्°, उप°, उपा°, निर्°, प्र°,
 प्रत्या°, विनिर्°, सम्°, समा°]

a) अञ्ज्या: सा. अपा. । b) गप्. (पृ६८२) यनि. संख्यानिर्देश: द्र. । c) =तदाख्योपनिषद्-विशेष- ।
 d) निसा. अपा. । e) अञ्ज्या: सं. अपा. । f) व्यु. ! =राक्षसविशेष- । g) मा ८, ३६ । h) आन. अपा. । i) ऋ ५,
 ७८, ७ । j) गप्. (पृ६८८) यनि. संख्यानिर्देश: द्र. । k) 'सतीयम्' इत्यस्यान्तिमोऽवयवः । l) व्यु. ! =नृपविशेष- ।
 m) गप्. (पृ६८९) यनि. संख्यानिर्देश: द्र. । n) तु. वैप१, ३९६g ।

यात्- आ°, प्र°
यात- अधस्°, अनु°, आ°, उप°, प्र°, समा°, स्वर्°
यात-याम- ४अ°
याता(त-अ)यात- समस्त°
+यावृ- उप°
या(त्र>)त्रा- ग्राम°, तीर्थ°, दूर°, १देव°, प्राण°, रथ°, शरीर°
१यान- दिव्य°, महत्°, विमान°, सम°
+२यान- अग्र°, उड्दि°, १देव°, पितृ°, प्र°
+यापन- निरु°
२याम- अष्टन्°, चतुर्थे°, तृतीय°, द्वितीय°, प्रथम°, यात°
+याधिन्- ५मरीचि°
+यास्थत्- उड्°
+यियासत्- प्र°
+यियासु- परलोक°
यै आ°
+याक->याकि(न्>)नी- भूत°
√याच्>+याचक- २पुर°
+याचन->याचन-क- १नित्य°
याचमान-याचित- ४अ°
याजन-, याजिन्-, याजुक-, १-२-या- ज्ञवल्क्य- √यज् (परि.) द्र.
१-२याम- गपू. पृ६९० द्र.
३याम- √*यच्छ्, यम्(यसने)परि. द्र.
४याम- √*यच्छ्, यम्(दाने) द्र.
५याम- √यम्(द्वेषे) द्र.
यामन-, यामिन्- √*यच्छ्, यम्(यसने) द्र.
यास- वास्य- √यस्(*बधा.) परि. द्र.
√यु(मिश्रणे) अव°, प्र°, सम°
२यव- अव°
+युव- दीर्घस्वर°
युत- ४अ°, अक्रूर°, अग्निमण्डल°, अग्निमादि...र्ये°, अत्रि°, अना- हतध्वनि°, अनेकस्वाडु°, आत्म-

ध्यान°, आनन्द°, आरक्मणि°, कष्टचेष्टा°, किरीटाभरण°, गुणग- रणना°, डे°, १चतुर्द्वार°, चातुर्य- गुण°, ज्वालावली°, दीर्घ°, द्वाद- शद्वार°, १द्वादशार°, नति°, पञ्च- वक्त्र°, पूर्णानन्द°, प्र°, १प्रेमान- न्द°, प्रेमोत्पादक°, फलपुष्प°, बहुक्षीर°, बहुशाल्म°, १बीज°, बीजनिद्रा°, भूमिभेदाभेद°, मणि- लता°, मयूरपिक...स°, मातृका- दि°, यमनियम°, १रमणानन्द°, रूपप्रतिकृति°, रूपलावण्य°, वर्णा- श्रमाचार°, शक्तित्रय°, शिवलि- ङ्गार्चन°, शिवोमा°, शुक्रवार°, समू°, १सर्वकाम°, सावेशस्मर°, सुखसंतति°, १सुगन्ध°, सूक्ष्म°, स्वप्ननिद्रा°, हेमस्तम्भ...शन्°

+युति- प्र°
युवन्->युवा वृजा ६, १८°. [०न्- साधु°]

युवति- सर्व°

यौवन- आत्°

+यौवना(न-अ)इव- सुयु- त्र°

१-५युग-, युगवन्- नाउ. द्र.

√युज् (*बधा.) अनु°, अनुविप्र°, अभि°, आ°, उड्°, उप°, नि°, प्र° प्रति°, प्रतिसम्°, वि°, विनि°, विप्र°, संनि°, सम°, समा°, समुद्° संप्र°

युक्त- अ°, अभिनारायण°, अन- न्याश्रय°, अनु°, अनुविप्र°, अ- भि°, अभ्यास°, अभ्यासयोग°, अरिष्ट°, अविशुद्धि...य°, अ- हंकारकला°, आ°, आत्मेन्द्रिय- मनस्°, आद्यन्त°, आशिस्°, आस्तरण°, उड्°, ऐश्वर्य°, काला- त्मन्°, केवलजीव°, गुण°, गुण- त्रय°, घृततैलनदी°, चतुर्दशक-

रण°, चन्द्रदर्शन°, जगन्मोहन- बीज°, जाग्रत्स्व...धर्म°, ज्ञानवै- राम्य°, तद्°, तपनप्रार्थना°, तार- पञ्चार्ण°, तुर्यविश्रान्ति°, त्वगा- दि°, दशलक्षण°, दशसमा°, दिव्याश्व°, दीर्घ°, दुष्टाश्व°, ध्यान°, नटनाद्य°, नानाभरण°, नारायणबीज°, नि°, १नित्य°, निर्गुणध्यान°, नीली°, नृसिंहैका- क्षर°, पक्कफलरस°, पक्कफलसुगन्ध- रस°, पञ्चसंस्कार°, परस्परगोष्ठी°, १पाप°, २पुर°, पुष्पदामन्°, प्र°, प्रणव°, प्रणवसंपुटितग...र°, प्रणवसंपुटितश्रीबीज°, प्रतिभान°, प्राण°, प्राणोक्ता...नस्°, बिन्दु°, बुद्धि°, ब्रह्मयज्ञक्रिया°, ब्रह्मयोग°, ब्रह्माज्ञलक्षण°, २भक्ति°, ३भाव- ना°, भोक्तृभोगार्थ°, १मनस्°, मन्दादिपवन°, मन्मथबीज°, महा- पातक°, २मातृका°, मायाबीज°, मुख°, युक्ति°, रत्नवस्त्रालंकार°, १रुद्र°, रेखात्रय°, रेचकपूरक°, रेफबिन्दु°, लाक्षा°, लोकसंप्रह°, वराहबीज°, वह्नि°, वि°, विविध- रस°, वैष्णवकला°, व्रण°, शक्ति°, शक्तिचालन°, शान्त्यादि°, शुक्र- वार°, शुक्रवासर°, षड्गुणयोग°, षड्दीर्घ°, सतत°, सारव°, संन्या- सयोग°, सम°, समा°, संप्र°, सु°, स्वाध्याय°, हयग्रीवैकाक्षर°, हिसा°

युक्ति- द्वय्य°, १योग°, २योग°, विवेक°

+यौक्तिक- ४अ°

१युग->युग-पत्(इ?)>+युग- पत्-प्रवृत्ति- ४अ°

२युग- अनलाङ्ग°, २कर°, पाद°, भ्रू°, २हस्त°

युग-ल- अङ्घ्रि°, कुक्षि°, १कुण्डल°, कौपीन°, नासा°, रण°

a) गपू. (पृ६९०) यनि. संख्याननिर्देशः द्र. । b) भावे करणे वा कृत । c) अज्याः शै. अपा. ।

नासापुटं, पादं, वृत्तं
 ३युग- गपू. पृ६९१ द.
 ४युग- चतुरं, १पुरुषं, सहस्रं
 +युग-सहस्र- तावत्
 +५युग- विद्या
 युग्म- अंसं, २अरं, इभं, दोस्, पयोधरं, परस्परबा...खं, भूँ, श्रीबीजं, हंसं
 +युग्मा(मम-अ)म्बु-ज- १इष्टं
 +युग्वन्- ६सं
 युज्- ४अं, अश्वं, दीर्घधेन्दुं, ६सं
 +युज्य प्र०
 +युज्यमान- प्रं, समं
 युज्ज्ञान- उपं, प्रं
 योक्तव्य- नि०
 +योक्ष्यमाण- प्रतिस्मृं, समं
 १योग- ४अं, १अज्ञानं, अणिमादिं अद्वैतं, अध्यात्मं, अनन्यं, अन्यं, अन्यतरं, अपानं, अभिव्यक्तिं, अभ्यासं, अविद्याशक्तिं, अस्पर्शं, आत्मन्, आधेयशक्तिं, आवृत्तिं, आसनाशनं, इन्द्रादिपदं, उत्तरोत्तरयोनिं, उद्, उदानं, उपं, उपाधिं, उमाशंकरं, ऊर्ध्वं, एकान्तध्यानं, एतद्, कर्मन् १कर्मनिमित्तं, क्रमं, क्रियां, २कालं, खजाग्निं, गतिं, गुणं, २घटं चक्षुस्, चिराभ्यासं, १जनं, जन्मान्तरकर्मन्, १ज्ञानं, तद्, ताम्बूलं, देशं, देहं, दैव्यं, दोषं, द्रव्यत्वाभावं, नानां, निं, निजशक्तिं, पञ्चामिं, पञ्चावयवं, परकायमनस्, पूतिभावं, पृथिवीं, प्रं, प्रधानशक्तिं, प्राचीनं, प्राणं प्राप्तिव्यायामं, प्रेमन्, १बन्धं, बुद्धिं, १ब्रह्मन्, २भक्तिं, भागं, १भावं, १भूतिं, मद्, मन्त्रं, महत्, मात्राद्वादशन्, रथं, रेतःसिन्, वर्त्याधारज्ञेहं, वह्निं,

विं, विनिं, विप्रं, विभुत्वं, विभूतिं, वैराग्याभ्यासं, व्याख्यानं, व्यानं, शक्तिं, शिवशक्तिं, श्रद्धाभक्तिध्यानं, श्रवणाङ्गुष्ठं, पङ्गुणं, संघातं, संन्यासं, समं, समां, १समानं, समानकर्मन्, समुद्, संप्रं, सर्वं, साङ्गुष्ठं, साधकतमत्वं, सुं, सृष्टिं, स्थिरतां, स्वं
 योग-क्षेम- निरं
 २योग- अतिशयं, अष्टाङ्गं, आत्मसंयमं, कर्मन्, क्रमं, तच्छेषगत्यनुसृष्टिं, तत्त्वं, ४तारकं, तीर्थं, दिव्यं, देहशोषणं, १धनं, ध्यानं, ध्यानबलं, निरालम्बं, प्राणायामप्र...धिं, यमनियमास...ध्यष्टाङ्गं, यमाद्यष्टाङ्गं, राजन्, लब्धं, लयं, १शिवं, सकलं, सत्यसिद्धं, सालम्बं, सालम्बनिरालम्बं, हंसं, हठं
 ३-४योग- गपू. पृ६९२ द.
 ५योग-> १योगिन्-गपू.पृ६९२ द
 योगे(ग-ई)श्वर- महत्
 ६योग- २सांख्यं
 +योग-कुण्डलि(न>)नी...
 कठवल्ली०
 योग-चूडा-मणि...- केन०
 योग-तत्त्व- कठवल्ली०, तेजस्०
 योग-निद्रा- अजाज्यस...स्कं, लब्धं
 +योग-पट्ट- ब्रह्मावलोकं
 योग-पीठ- सर्वात्मसंयोगं
 योग-माया- महत्
 +योगमाया-विलास- अनन्तं
 योग-युक्ति- ४अं
 +योग-रूप- मनःप्रवाहं
 योग-शिखा- कठवल्ली०

+योगा(ग-अ)न्त- त्रिणाशिकादिं
 २योगिन्- -गिभिः जाद ३, ६, ३, ३, -गी पंहं ४. [न्- ४अं, अनादिं, अभ्यासं, आदिपतिं, आनन्दं, ज्ञानामृतवृत्तं, १देव, १परं, परमं, प्रकृतिं, महत्, २योगं, संन्यासिन्, सर्वं
 योगिनी- गणेशं, नादं
 रेणुकां
 +३योगिन्- प्रति०
 योग्य- ४अं, १अङ्गं, आत्मदर्शनं, आनन्दं, क्रीडाशृङ्गारं, गुणगणं, तल्लीलां, तल्लीलादर्शनं, २दर्शनं, नित्यस्थलसामीप्यं प्रं, प्रतिसरं, १बन्धं, मजनं, १भोगं, यथां, रचितं, रमणं, १रमणानन्दं, रमणानन्ददर्शनं, रहस्यस्त्रीलां, राज्यं, रासस्त्रीलां, लयं, २स्त्रीलां, समं
 योग्य-ता- आनन्दं, तदावेशं, तल्लीलां, तल्लीलादर्शनं, महास्त्रीलां, १रतिं, रतिगतिं, रमणानन्ददर्शनं, रूपग्रहणं, २स्त्रीलां, संयोक्ष्यमा...पतिं
 +योजक- प्र०
 १योजन- १आकारं, ३धारणां, प्रं, प्राणं, समं
 योजना- आसनान्तरं
 योजित- कनकमुक्तां, निं, फलपुष्पम...लितं, मणिहीर...कं, विनिं, समं, साधुमतिं
 +योज्य निं, प्रतिं, विनिं
 योज्य- समं
 युत्- युति- √यु (मिश्रण) परि. द.
 √युध् आं, प्रतिं
 युद्ध- मरणं, १मारणं
 +युध- आं
 +योधन- दुर्

*योध्य- ४अ°

युष्मद्->त्वम् जगत्°, तद्°
यूथ- पिक°, वि°, १शुक°, शुकपिक°,
सखी°, स्व°, हंस°, हंससारस°

यूथिका^६- ४जाति°, २मुक्ता°, सुवर्णा°
वै √या (परि.) द्र.

योक्ष्यमाण- १-३ योगिन्- , योजक-
√युज् (परि.) द्र.

रयोजन- अनन्त°, अयुतद्वयकोटि°,
अयुतायुतकोटि°, एकविंशति°,
चतुर्°, त्रिकोटि°, दशकोटि°,
दशन्°, पञ्चन्°, पञ्चविंशत्°, पञ्च-
विंशति°, पञ्चाशत्कोटि°, बहु°,
शत°, षट्त्रिंशत्क्षन्°, सपादकोटि°
सप्तकोटि°, सहस्र°, सहस्रकोटि°

योज्य √युज् (परि.) द्र.

योधन- √युध् (परि.) द्र.

योनि- -निः मउ २०, ८९°. [°नि-
४अ°, अब्ज°, अमृत°, अष्टन्°,
आत्मन्°, २आद्य°, इन्द्र°, इन्धन°,
उत्तरोत्तर°, उपस्थ°, ऊर्ध्वसंपुट°
एतद्°, क्षत्रिय°, गुद°, चण्डाल°,
चतुरशीतिलक्ष°, जगत्°, तिर्यच्°,
दशन्°, दुःख°, १देव°, द्वि°, ना-
ना°, पञ्चन्°, १पाप°, पूर्व°, प्रति°,
१बीज°, १ब्रह्मन्°, १ब्राह्मण°, भू-
त°, मूढ°, १विश्व°, विश्वजगत्°,
वैश्य°, शास्त्र°, शिववक्त्र°, श्वन्°
षष्°, ५स°, सदसत्°, सर्व°, सर्व-
देववेद°, सूकर°, स्त्री°, स्व°

योनि-मुद्रा- सर्व°

*योनि-सहस्र- पूर्व°

योस(>) शम्°

यौक्तिक- √युज्(परि.) द्र.

यौवनाश्व- √यु (मिश्रणो) परि. द्र.

र

१-३२- गपू. पृ६९७ द्र.

४र- ३भ°

√रंह्> +रंहस्- वैराग्य°

√रञ्(*बधा.) अभि°, परि°, सम्°
१रक्ष- सर्व°

२रक्ष,क्षा- अग्नि°, आत्मन्°, उद-
क°, गो°, १पर°, प्रत्यक्ष°, १राष्ट्र°
वायु°, विवेक°, सकललोक°, सर्व°

रक्षण- अभि°, त्रैलोक्य°, दुःखापा-
र्जन°, देह°, देहैक°, लोक°, शक्ति°,
सकललोक°, सम्°, सर्गादि°

रक्षित- शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग°, सु°

रक्षित्- परि°

+रक्ष्य सम्°

रक्षस्- पितृ°, २यज्ञ°, १विष°,
शनि°, सर्व°, सिद्ध°

राक्षस- १असुर°, गन्धर्व°,
१ब्रह्मन्°, भूत°, २यज्ञ°, सर्प°

+रक्षो(स्-अ)धिनाथ- विवशीभूत°

१रघु-> २रघु-> राघव- आदिब्रह्म-
न्°, १ब्रह्मन्°

√रच् अनु°

रचित- अनु°, आभरण°, चन्द्र-
कान्त°, १नानारङ्ग°, पुष्पराग°,
भूमि°, मृगमदागुरु°, सु°, सुगन्ध-
पुष्पक्षिता°

+रच्यमान- सु°

+रज्- ४अ°, वि°

रजत- २प्रवाल°, शुक्तिका°, स्फटि-
क°

रज(नि)>नी- रवासना°

रजस्- अधोर्ध्व°, धर्म°, निर्धूत°, पर-
स्°, पीठ°, १भू°, महत्°, वि°,
शान्त°, शीत°, सत्त्व°
राजस- तामस°, सत्त्व°, सात्त्वि-
क°

+रजः-पुञ्ज- तद्°

+रजस(क)- ४अ°

रजो(जस्-अ)श्वा- अपकीकृत***त°

१रजो-गुण- आकाशादि°

+रजो-रेतस्- स्व°

रज्जु- २खग°, तद्°, दुर्वासना°, वात°,
संकल्पवासना°

+रज्जु-गण- तृष्णा°

+रज्जु-तरु- प्रबुद्ध°

रज्जु-सर्प- कल्पित°

√रञ्ज्(*बधा.) अनु°, उप°, वि°

१रक्त- अनु°, उप°, कौसुम्भमाञ्जि-
ष्ठ°, १प्रेमानन्द°, वि°, ६स°

२रक्त-> ३रक्त- १अणु°, आ°,
१नील°, ३पीत°, १श्वेत°,
२सित°

४रक्त- १त्वच्°, मूत्र°, स्वेद°

+रक्त-बीज^{१६}- २मधु°

+रक्तबीज-दनु-ज- निरशे-
षीकृत°

+रक्ति- अनु°, वि°

रङ्ग- ४अ°, अनेक°, नाना°, यावक°,
१रति°, रस°, २राग°, विदुम°,
विलास°

+रङ्ग-धामे(म-ई)श्च(र>)री-
श्री°

+रङ्ग-भोग- १वसन्त°

+रङ्गा(ङ्-अ)वतारिन्- चाट°

+रजन- महत्°

+रज्य उप°, वि°

+रञ्जक- चित°

१रञ्जन°-

+२रञ्जन°- सर्व°, सर्वदुःख°

+३रञ्ज(न>)ना- अनु°

रञ्जित- अति°, अनेकरङ्ग°, धातु°,
नानाराग°, प्रथमसङ्ग°, यावकरङ्ग°,
विदुमरङ्ग°

१राग- १अङ्ग°, अनु°, उप°, १काम°

नी°, १पद्म°, पुष्प°, मोह°, वि°,
१वीत°, ६स°

राग-द्वेष- ४अ°

a) व्यु. ? =पुष्पविशेष- । b) मा ८, ४० । c) =रजस्- । d) =राक्षसविशेष- । e) गपू. (पृ७००) यनि.

संख्यानिर्देशः द्र. । f) कर्तारि कृत ।

+राग-द्वेष-विहिंसा-दम्भ-
अत्युग्र°
+राग-भय-क्रोध- १वीत°
+राग-विषय- १वीत°
रागिन्- सु°
२राग->+राग-भेद- तन्तूत्पाथ°
+राग-रङ्ग-भोग- नाना°
+३राग- नाना°
रत्न- आत्मन्°, लुद्र°, २ग्रह°, त्रिदशसु-
कुटकोटि°, दुःख°, दोष°, नवन्°,
नाना°, बहु°, मन्त्र°, महत्°, सर्व°,
हेमन्°
+रत्न-कुटी- तटभूमि°
+रत्न-कुड्य- कोटिवैकुण्ठव्यापिन्°
रत्न-सिंहासन- आधारशक्ति°
रथ- अश्मन्°, अश्वतरी°, १ओंकार°,
गज°, १चित्र°, जयत्°, तद्°,
दशन्°, १देव°, १बृहत्°, महत्°,
१शिव°, ६स°, सप्ताश्व°, सुपर्ण°
रथन्तर- २बृहत्°
√रद्>रद->रदा(द-आ)व(लि)>-
ली- ऊर्ध्व°
+रदन- कुन्द°
√रध्(*वधा.)>न्ध>रन्ध- ऊर्ध्व°,
प्राण°, नवन्°, नाभि°, नासिका°,
नी°, १पर°, १ब्रह्मन्°, मूलचक्र°,
व्योमन्°
+रन्ध-द्वय- १कर्ण°
+√रप्>रपस्- ४अ°
रपिशन्- वि°
√रभ्(*वधा.)>म्भ् अन्वा°, आ°,
प्रा°, सम्°, समन्वा°, समा°
+रब्ध- आ°, प्रा°, सम्°
+रभमाण- आ°
+रभ्य आ°, समा°
१रम्भ->रम्भा- राजन्°
+रम्भा-फल- मोदक°°
२रम्भ->रम्भा- गपू. पृ७०२ द्र.

+३रम्भ- आ°, प्रा°, सम्°, समा°
+रम्भक- आ°
+१रम्भण- आ°, समन्वा°
+√रभ्(शब्दे)>म्भ्>२रम्भण-
आ°
√रम् अभि°, आ°, उप°, नि°, वि°,
समा°
रत्- अतिगुणगणना°, अन्यधर्म°,
अभि°, अभ्यास°, अव°, आत्म-
माया°, उप°, कर्मकारण°, कर्मन्°,
कर्ममार्ग°, १काम°, कामाब्धिक-
ल्लोल°, काष्ठदारु...र°, कृष्ण-
गोपी°, कैवल्यधर्म°, क्षीरपान°,
तमोधर्म°, १दुराचार°, नि°,
नूतनस्वाविर्भाव°, भक्तिमार्ग°,
भस्मस्नान°, योगाभ्यास°, लाभा-
लाभ°, वि°, विष्णुभजन°, वेदवा-
द°, वेदोक्तकर्ममार्ग°, शिवपूजा°,
शुद्धचिद्...न°, श्रवणकीर्ति...
न्दन°, १सत्यधर्म°, सदाचार°,
समा°, सु°, सुरामांस°, स्वात्मन्°
१रति- ४अ°, अति°, अध्यात्म°,
आत्मन्°, आनन्द°, उप°, एक°,
१काम°, क्रीडा°, गति°, गुण°,
दर्शनस्प...ला°, नाना°, २भक्ति°
रसलीला°, रसिकानन्द°, रचिर्°,
२लीला°, २वर्ण°, वि°, विष्णु°,
६स°, संयोद्धयमाण°, सुखरूप°,
स्व°, स्वयम्°
+रति-कौतुक- अति°
+रति-क्रिया- स्वात्मन्°
+रति-ज्ञ- अति°
+रति-द- १निःशङ्क°
रति-दावृ- आदिहेतु°
+रति-ध्यान-कीर्तन- संस्थाप-
क°°
रति-मीति-, +रति-भक्ति-,
+रति-भोक्-, +रति-मग्न-,

+रति-रमण-कोटि-काम-
पूर्ण-, +रति-विहारिन्-, +रति-
संचरित- अति°
रति-सुख- अनेकभोगरस°
+रत्या(ति-आ)विष्ट-चित्त- अ-
त्यन्त°
१रम->१रमा- १तार°°
२रम- १मनस्°
२रमा->रमा-रमण- श्रीमत्°
३रम->३रमा- ४अ°
१रमण- आनन्द°, पुरुषोत्तमरसि-
कानन्द°, रमणरस°, रस°, स्व°
रमण-स्थान- नाना°, महत्°,
+२रमण- उमा°, रति°, २रमा°
+३रमण- २सुरलोक°°
रम्य- ४अ°, अति°, प्रशान्तकलना°
१राम- मः रार २, २५?। [म-
२कृष्ण°, परशु°, १बल°,
२मत्स्य°, महाविष्णु°, वीर°,
शिवोमा°, श्री°, ६स°, सीता°]
+राम-कृष्ण-माला-मन्त्र- प्रण-
वश्री...टित°
राम-चन्द्र- शिवोमा°, श्री°
+राम-ताप(न)>नी...- २प्र-
श्न°°
+राम-द्वादशा(श-अ)क्षर- हुं-
फट्न्तिसहित°
राम-लक्ष्मण- श्री°
+राम-रहस्य...- २प्रश्न°°
+रामा(म-अ)ङ्क- षट्को...स्थ°
२राम->रामा- गपू. पृ७०५ द्र.
+३राम- अभि°, आ°, १मनस्°,
वि°
रव- √र(परि.) द्र.
रवि- अतिनिर्मला...टि°, अनन्तको-
टि°, अरुण°, इन्दु°, १चित्°,
बिन्दु°, १ब्रह्मन्°, १मित्र°,
शशिन°

a) =२वर्ण- । b) वैपश् यद्र. । c) भाप. । d) भाप. (गपू. [पृ७०३] यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । e) कर्तारि
कृत । f) श्रीरा° इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अथ्या.) । g) =तदाख्योपनिषद्-विशेष- ।

रशना- यूप°
 रश्मि- शीत°, सहस्र°, १सूर्य°
 +रश्मि-मण्डल(ल)>ली- रवि°
 √रस्(बधा.), >रसि>रस- ४अ°,
 अगुरु°, १अङ्ग°, अति°, अनन्त-
 प...मृत°, अनेक°, अन्तःकर-
 ण°°, अन्न°, अन्नमय°, अन्य°,
 अमृत°, अमृतोपनिषद्°, अशेष°,
 असार°, आगम°°, आत्मज्यो-
 तिस्°, आत्मन्°, आनन्द°, आ-
 लिङ्गननु...भर°, इन्द्र°, एक°,
 औदार्य...म्य°, कटुतिक्रक...र्य°,
 कटुतिह्रमा...ष्ट°, कर्पूर°, १काम°,
 कामकेलि°, कुरवक°, १केवल°,
 केशच्छटा...ध°, केसर°, केस-
 र°°, क्रीडा°, खाद्यपे...ष्य°,
 गत°, गन्ध°, गीत°, गो°, घृत°,
 १चित्°, १चिदानन्द°, जिह्वा°°,
 ज्ञानामृत°, तदुपकरण°, तेजस्°,
 तैल°, २दधि°, २दुग्ध°, दुग्धद-
 धिनवनीत°, नवनीत°, नाना°,
 नी°, पक्क°, पक्कफल°, परम°, परि-
 पूर्णच...त°, परानन्द°, परामृत°,
 पाक°, पिष्ट°, पुष्प°, पुष्पमिष्टा-
 मृतमय°, पृथिवी°, प्रत्यय°,
 १फल°, फारट°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्मा-
 नन्द°, ब्रह्मामृत°, भक्तिमार्ग°,
 १भोग°, मधुराम्ल...य°, महत्°,
 मिष्ट°, मेध्यामेध्य°, यावक°, रङ्ग°,
 १रति°, १रति°°, रतिभर°,
 १रमण°, २राग°, रूपशोभासं-
 चरित°, लयहीन°, १वाच्°, वि°,
 विविध°, शब्द°°, शब्दबीज°,
 शुक्तिकामात्र°, शृङ्गार°, षष्°,
 ६स°, सकेत°, संगम°, संगीत°,
 १सत्°, १सदानन्द°, १सम°, सं-
 भावित°, सर्व°, सर्वज्योतिस्°, सु°
 सुखदुःख°, १सुगन्ध°, २सुगन्ध°,
 सुगन्धमार्गि°, १सुरत°, सुरतानन्द-

रूप°, सेचन°, स्पर्शबीज°, स्रज्°°,
 स्व°, स्वात्मानन्दा...ल्लोल°,
 स्वातुभूति°, स्वेद°°
 +रस-कल्लोल- नौका°
 +रस-क्रीडा- सुखभोग°
 +रस-गुणा(ण-आ)व्य- अति°
 +रस-तन्तु- इच्छाज्ञा...मत्°
 +रस-दाना(न-अ)भि(ज्ञ)>-
 ज्ञा'- अति°
 +रस-पूर्ण- अति°
 +रस-भाव-भेद- नेत्रहा...म°
 +रस-भोग- अनन्त°
 रस-मन्त्र- अति°, अत्यन्त°
 +रस-मला(ल-अ)न्त- रूपादि°
 +रस-रमण- अति°
 रस-लम्पट- अति°
 रस-लीला- सर्वलोक°
 +रसलीला-मन्त्र- अत्यन्त°
 +रस-संपाद- अनन्त°
 +रस-सुख- ६स°
 +रससुख-रसिक-शिरो-म-
 णि- अत्यन्तप्रवीण°
 +रसा(स-आ)व्य- अति°
 रसा(स-आ)स्वादन- परावरैक्य°
 रसिक- ४अ°, आनन्द°, कुञ्ज-
 केलि°, जलकेलि°, यमुनाकेलि°,
 रससुख°, १राधा°, संगीत°, १सुग-
 न्ध°
 रसिक-शिरो-मणि- श्री°,
 संभावितजित°
 रसिका(क-आ)नन्द- काम-
 कर्मु...त°, निर्दासंभा...स्कृत°,
 पुरुषोत्तम°, १राधा°, श्री°, सुरता-
 नन्दस...त°
 १रसन- चक्षुस्°°, १वाच्°, श्रोत्र°°
 २रस(न)>ना- >+रसना(ना-अ)-
 अ-निपीडन- तालु°
 रसयितृ- ४अ°
 रास- १काम°°

+रास-केलि-कला- परस्पर°
 रास-क्रीडा- निरन्तर°, सदा°
 +रास-ज्ञान- ३कल°
 +रास-वन- मथुरावन°°
 +रास-स्थल- निकुञ्ज°, महत्°
 रसातल- अतल°°
 √रह्(बधा.), >+रह- वि°
 रहस->रहसिक- २वेद°
 रहस्य- अति°, आत्मन्°, क-
 लि°, गायत्री°, नित्यविहार°,
 परम°, परमतत्त्व°, परमतत्त्व-
 कैलास°, परापर°, पुरुषसूक्तो-
 पनिषद्°, प्रपञ्च°, मदभिमत्°,
 मन्त्र°, रस°, राजश्यामला°, श्री-
 राजश्यामला°, ६स°, सकलवेदा-
 न्त°, सिद्धान्त°, सर्व°, सर्वविद्या°,
 सर्वश्रुति°
 +रहस्य-पूजा- काम्य°
 +रहस्य-मार्ग- वृन्दावन°
 +रहस्य-स्थल- अबाधक°
 +रहस्यो(स्य-उ)पनिषद्-
 अङ्ग- ६स°
 +रहः-स्थल- अबाधक°
 रहित- अन्यधर्म°, अन्यमार्ग°,
 अन्यासक्ति°, अशेषबाह्य°, अहं-
 भाव°, आद्यन्त°, आधार°, आ-
 धि°, आविर्भावतिरोभाव°, उच्चा-
 र°, उच्चारण°, उत्पत्तिविनाश°,
 उद्वेगानन्द°, उन्मेष°, उपाधि°,
 कटकमु...धि°, कर्मन्°, २कल-
 ना°, कलाकलङ्क°, ३कल्पना°,
 कामरागादिदोष°, कामादि°, गु-
 ण°, २चैत्य°, चैत्याश°, चैत्यानु-
 पात°, २जल°, ज्ञानवैराग्य°, ज्ये-
 ष्ठाज्ये...न°, तद्°, तलस्पर्श°,
 १तार°, १त्रिगुण°, त्रिपुटी°,
 देहादि°, द्वितीयवस्तु°, १द्वैत°,
 द्वैताद्वैत°, धर्मकर्मन्°, ध्यानेच्छा°
 धनकार°, नेत्रादि°, परिच्छेद°, २

पाश°, पुनरावृत्ति°, प्रपञ्च°,
भस्मन्°, भावमात्सर्य°...हादि°,
मन्त्र°, मलमूत्र°, रमातृका°,
माया°, लयविक्षेप°, रवासना°,
वि°, विकार°, शिखायज्ञोपवीत°,
शोकमो°...द्वेग°, षट्कोश°, षड्-
भि°°, षड्भिष°...दोष°, संकल्प°,
सङ्ग°, संचारधर्म°, सत्त्वराज°...
रा°, सर्वदृश्य°, सर्वदोष°, सर्व-
संकल्प°, स्वयंभाव°, स्वात्मबन्ध°
हिंसादि°

*राहित्य- अनुसंधान°, देश-
का°...च्छेद°

✓रा>राति- ४अ°

*री(<रि)- कर्त°

१राक->राकि(न्)>नी¹²- भूत°°

१-३राग- ✓रञ्ज् (परि.) द्र.

✓राज् नी°, वि°, संवि°, सम्°

*राज्- १अहि°, १चक्र°, १ज्येष्ठ°,
धर्म°, भूत°, सुनि°, २योगिन्°,
वि°, सम्°, स्व°

*राजस्- वि°

राजन्- जा मना १, १५५° [°न्-
४अ°, अन्य°, महाच्छेद°, सर्प°]

राज्ञी- ३पट्ट°, विद्या°, १सोम°

*राज- अनङ्ग°, १काम°, काशि°,
तन्त्र°, १देव°, धूर्त°, नगर°, प-
क्षिन्°, मधुकर°, १मनु°, मन्त्र°,
महत्°, २यत्न°, यन्त्र°, २योग°,
राजन्°, ३वत्स°, विघ्न°, विद्या°,
शक्तिकूट°, सकल°, सम्°, समुद्र°,
सर्व°, सर्वकोटि°...धा°, १सिन्धु°,
स्तव°, हेति°

*राज(-क)- ४अ°, १काम°

राज-धा(न)>नी- नगर°°

राज-योग- परिपूर्ण°

राज-श्याम(ल)>ऊ- श्री°

राज्य- त्रैलोक्य°, मदन°, १म-

नस्°, १यम°, वि°, १सूर्य° १सो-
म°, स्वात्मन्°

*राज्य-भिक्षा- स्वप्रस्थ°

राजन^b- नी°

राजमान- आरक्तमणि°...राजि°,
क्षुद्रघण्टिका°, ज्योत्स्ना°, नाना-
रङ्गम°...दि°, वि°, संवि°, सम्°

राजित- वि°

२राजि- २घन°, चिन्मयान°...ध्वज°,
तेजःपर्वत°, मणि°, रोमन्°, हाट-
कोपघटितनी°...रि°

रात्रि- २काल°, २घटिका°, दिवा°,
नवन्°, १ब्रह्मन्°, १शिव°, संसार°
१संध्या°, सप्तन्°, सर्व°

*रात्र- अति°, अर्ध°, अहन्°, एक°,
त्रि°, दिवा°, द्वादशन्°, द्वि°,
द्विसप्तन्°, पञ्चन्°, १शिव°, सप्तन्°

रात्रि-कृत- तम् रुजा ४९°

✓राध् अनु°, अप°, आ°, वि°, सम्°,
समा°

*राधि- वि°

राधन- आ°, सम्°, समा°

*राधया- आ°

१रा(ध)>धाrd- २कृष्ण°, श्री°

राधा-कृष्ण-, *राधा-रसिक-,

>राधारसिक-शिरो-मणि-,

राधा-रसिकानन्द-, रा(धक)>-

धिका-, >*राधिका-रसिक-,

*राधिका-बल्लभ- श्री°

*२रा(ध)>धा- अनु>नू°

*राधित- आ°

*राध्य आ°, समा°

*राध्य- दुरा°

१-३राम- ✓रम् (परि.) द्र.

✓*राश् (<राज्)>१राष्- धृत°,
सु°

१राशि- अङ्गुल°

२राशि- द्वादशन्°

*३राशि- अपरिच्छिन्ना° तेजस्°, अ-
मिततेजस्°, अमिततेजोरा°...
जस्°, अम्बु°, आशिस्°, २जल°,
तदन्तर्गतजीव°, तूल°, तेजस्°,
तेजोज्वाला°, निरतिशयदि°...ज-
स्°, निरतिशयानन्दतेजस्°, निर-
तिशयानन्दादिव्यतेजस्°, पयस्°,
ब्रह्मतेजस्°

राहु- मोह°, शनि°

✓रिख्>रे(ख)>खा- अनङ्ग°, उप°,
ऊर्ध्वग°, १चित्र°, २जल°,
तृतीय°, त्रि°, त्रिपुराङ्ग°, द्वि°,
द्वितीय°, नवन्°, नाना°, प्रथम°,
मानयष्टि°, १चक्र°, शशिन्°,
साध्याद्या°...द्ध°, सु°, सूक्ष्म°,
हेमन्°

✓रिच्, >रेचि अति°, उद्°, वि°,
व्यति°

रिक्त- अति°, अहंकार°, उद्°, कृष्ण-
पत्त°, चित्त°, व्यति°, सर्वसङ्ग°

*रेक- अति°, उद्°, व्यति°

रेचक- २पूरक°°

रेचन- वि°

रेचित- पूरित°

*रेच्य वि°

रिपु- ४अ°, महत्°

✓रिष् अनु°, वि°

*रिष्ट- ४अ°, वि°

*रिष्टि- ४अ°

✓री उद्°

रय- २जल°, देशान्त°, द्वीपान्त°,
नयन्त°, महत्°, लोकान्त°

*रीति- शब्दादि°

*रीयाण- उद्°

✓रु>*रव- २घण्टा°

रावण- गरुडश°, नन्दिसेन°°

*रुत- सर्वजन्तु°, सर्वभूत°

✓रुच् अति°, अभि°, वि°, सम्°

a) ष्ट ९, १७, ४० (तु. टि. वैपश् यस्था.) । b) बप्रा. द्र. । c) अज्याः शै. अप्रा. । d) गपू. (पृ० ११)

यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) व्यु. ? = समूह- ।

रुक्म->रुक्मि(न्->)णी->

+रुक्मिण्या(यी-आ)दि-१अङ्ग°

रुच्-कृत°, सु°

+रुचक^१-कनक°

रुचि-४अ°,अन्यविद्या°,२उपासना°,कर्णकु...त्सना°,पराहिसा°,यथा°,१विश्व°,शीत°

रुचिर-कदलीकारण्ड°,स्वर्ण°

१रोचन-अभि°,वि°

२रोचन(>)ना-गो°

रोचमान-सम्°,सु°

+रोचिस->१रोचिष्-मत्-अति°

२रोचिष्मत्-१नन्द°,२सु-

श्लोक°

√रुज् आ°

+रुज-नी°

रुजत्-आ°

रोग-४अ°,अक्षि°,१कर्ण°,१काम°,कुचि°,कुष्ठ°,२ग्रह°,चक्षुस्°,जरा°,१त्वच्°,दैत्य°,नी°,नेत्र°,१पाप°,बहु°,२भव°,महत्°,१मूल°,१विष°,शिरस्°,संसार°,सर्व°

+रोग-जाल-निर्मुक्त°

रोगा(ग-आ)र्त-कृश°

√रुद्->रोदम् १पुत्र°

१रुद्-उमा°,एकादशगुण°,एकादशन्°,कालापिन°,केन°,पीठ°,१ब्रह्मन्°,भद्रजाति°,महत्°,२माधव°,वसु°,वायु°,विरिञ्चि°,विष्णु°,श्री°,सदाशिव°,सप्तन्°,१सोम°

रौद्र-अनन्तघो...नि°,प्रलय-काल°

२रुद्र-शत°

+रुद्रा(द्र-अ)ध्याय-कल्पस्तवनादि°

रुद्र-मन्त्र-सकल°

रुद्र-हृदय-कठवल्ली°

रुद्रा(द्र-अ)क्ष-एक°,पद्माक्ष°,२प्रवाल°,भसित°,भस्मन्°,३भूति°,विभूति°,स्फटिक°,स्वात्मानन्दा...न°

रुद्राक्ष-धारण-त्यक्त°

+रुद्राक्ष-वृक्ष-महत्°

√रुध्->रोधिअनु°,अव°,आ°,उद्°

उप°,नि°,प्रति°,वि°,संनि°,सम्°

+रुद्ध-नि°,वि°,शक्ति°,संनि°,सम्°

+रुध्यअव°,उप°,नि°,संनि°

+रोद्धव्य-नि°

रोध-अव°,आधारवात°,उप°,तद्गृत्ति°,नि°,प्राण°,वि°,सम्°

+रोधक-प्रति°

+रोधन-प्राण°

+रोधिन्-अव°,वि°

+रोध्यसम्°

+रुध्(<ह्)-वी°

रुधिर-१त्वच्°

+√रुष्->रोष-१काम°

√रुह्->रोषि,रुह् अति°,अधि°,अध्या°,अन्वा°,अभ्या°,अव°,आ°,उपाव°,प्र°,वि°,समा°

रुह्यु-आ°

+रुह-अम्बु°,अम्भस्°,२धाना°,१भू°,वक्षस्°,शिरस्°,१सरस्°

+रुह्य आ°,समा°

रुढ-४अ°,अन्वा°,आ°,देह°,यानादि°,प्र°,समा°

+रोष-अध्या°,आ°

+रोषित-आ°

+रोष्य आ°,समा°

+रोह-अभ्या°,अव°,आ°,प्र°

+रोहण-आ°,प्र°

+रोहत्-अव°,आ°,प्र°

२रोहि(न्->)णी-रसातल°

√रुच्->रुक्ष-कटु°

√रूप्->पि नि°

१रूप-पम् ते १, ३९°. [°प-४अ°,अकार°,अकारोकार°,अकारोकारमकार°,अन्नाधिदेवता°,अखरडाकार°,अखरडाकाश°,अखरडानन्द°,अखिलविश्व°,अग्नि° प्रभृ.]

+१रूप(क)-४अ°,अखरड°,अधूमज्योतिस्°,उभय°,एक°,ज्ञानमुद्रात्मन्°,ज्ञानविज्ञान°,नान्तज्योतिस्°,पद्माग्नि°,बुद्धि°,भोक्तृभोज्यादि°,२वासना°,विज्ञेपावृत्ति°,शान्त°,१सच्चिदानन्द°,सिंह°,स्वप्रकाशात्मन्°

२रूप-क^b->+रूपक-विन्य-

स्त-शरीर°

रूप-गुण-सृष्टि°

+रूप-ज्ञ-४अ°

+रूप-लावण्य-लवक-सूक्ष्म-

स्वरूप-अति°

रूप-वत्-४अ°

+रूपा(प-आ)विर्भाव-प्रादु-

र्भाव-स्मरणमात्र°

+रूपण-,+रूपयत्-,+रूपित-,

+रूप्य,+रूप्यमाण-नि°

रूप्य->रौप्य-२जल°,सौवर्ण°,

हेमन्°

रेक-,रेक्य √रिच् (परि.) द्र.

रेणु-कोटिब्रह्माण्ड°,खुरपुटो...त°

रैत-ऊर्ध्व°

रैतस्-तः कुं २३:१°. [°स्-४अ°,

ऊर्ध्व°,रजस्°,१वाच्°,सु°,

सुवर्ण°,हिरण्य°]

रेफ-१काम°

+रेफ-जात-४अ°

+√रै अग्नि°

+रैवत^{११a}-शाकर°

+रैवतक^a-श्वेतकेतु°,२संवर्तक°

a) स्वरू° इति श्रज्या. । b) गपू. (पृ७१६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) श्रज्याः सं. श्रपा. । d) वैप१

यद. । e) व्यु. ? ।

१-२रोचिष्मत्-, रोचिस्- √रुच्
(परि.) द्र.

रोदम्- √रुद् (परि.) द्र.

रोद्धव्य-, रोधक-, रोधन-, रोधिन्-,
रोध्य √रुध् (परि.) द्र.

*रोध्र- आभ्र°

रोप-, रोपित-, रोप्य √रुह् (परि.) द्र.

रोमन्- अस्थि°, १कूर्म°, केशा°,
तद्°, १त्वच्°, नख°, १पशु°,
मृदु°, १वज्र°, हृष्ट°

रोम-कूप- अनन्त°, एकैक°

*रोम-राजि- १नव°

*रोमन्थ- बहुशास्त्रकथाकन्या°

रोष- √रुष् (परि.) द्र.

रोह-, रोहण-, रोहत्- √रुह् (परि.) द्र.

रौरव- महत्°

*रवतः^b वृषु १, १३.

ल

१ल°-

२ल- √ला (*बधा.) परि. द्र.

३ल- √ली (परि.) द्र.

√लक्ष् आ°, उप°, प्र°, वि°, सम्°

लक्षण- ४अ°, अखण्ड°, अखण्ड-

परि...न्द°, अदृश्यत्वादि°,

अद्वैतपरमानन्द°, अनुष्ठान°,

अन्तरुपवीत°, अन्तर्लक्ष्य°, अ-

भ्यास°, अमनस्क°, अमानित्वा-

दि°, अमितापरि...न्द°, अरिभि-

जादि°, अलौकिकपरमानन्द°, अ-

स्तित्ता°, अस्तित्व°, आनन्द°, १इतर°, उक्त°, उप°, उपवीत°, एवम्°, कण्ठसंकोच°, कर्तृत्वभोक्तृ-

...दि°, किम्°, कृत°, चिन्मय°, २जाति°, जीव°, जीवन्मुक्ति°, तद्°

तमस्°, त्रिमूर्ति°, दशन°, धर्म°, धर्मादि°, निर°, निरतिशयपरमा-

नन्द°, निरतिशयाद्वै...न्द°, २निरतिशयानन्द°, निरस्ताति-

...क°, परिण्डत°, परमहं...क°, परमानन्द°, परिव्राजक°, पश्चिम-

द्वार°, पृथक्°, प्रज्ञानघन°, प्रवृत्ति°

बहिलक्ष्य°, बह्नाङ्ग°, मध्यलक्ष्य°, १मोक्ष°, यज्ञाङ्ग°, लक्ष्य°, लीला-

गृही...न्द°, वस्तु°, वायु°, वि°, विध्युक्त°, विश्वप्राज्ञादि°, वेष्टना-

म्बर°, व्योमपञ्चक°, शान्तादि°, शांभवी°, शुद्धबोधानन्द°, शु-

द्धाद्वै...न्द°, श्रीवत्स°, ६स°, १सच्चिदानन्द°, सत्यज्ञानादि°, सत्यज्ञानानन्दपूर्ण°, सत्यज्ञानान-

न्दादि°. सत्यप्रज्ञान°, संन्यास°, सर्व°, सर्वज्ञत्वादि°, सर्वपरि...न्द°, सर्वसाक्षित्व°, सर्वाद्वैत...न्द°, सात्त्विकरा...स°, सु°, स्व°

*लक्षण(क)- दशन° प्रेमन्°

लक्षित- ४अ°, आ°, उप°, त्रिमूर्ति-

लक्षण°, बहिस्°

लक्ष्य- ४अ°, अन्तर्द°, अन्तर्बाह्य°, एक°, तत्तद्°, तत्त्वमस्यादि°, तत्त्वंपद°, तत्प्रत्यय°, तद्°, ४ता-

रक°, त्रि°, दुर°, बहिस्°, बाह्या-

भ्यन्तर्द°, मध्य°, १मनस्°, विष्णु-

वि...न°, १शिव°, सम्°, सु°

*लक्ष्या(क्ष्य-अ)र्थ- त्वमहंशब्द°

लक्ष- अष्टन्°, चतुरशीति°, दशन°, द्वादशन°, नवन्°, पञ्चन्°, भातु°, १वर्ण°, १वर्ष°, शत°, षट्त्रिंशत्°, षट्सहस्र°, षष्टिसहस्र°

लक्ष-क- अक्षर°

*लक्ष-चतुष्टय- १वर्ष°

लक्ष्मण- १राम°, सीता°

लक्ष्मी- ४अ°, अनन्तमो...ज्य°, अ-

विद्या°, २जय°, १तार°, दरुडेश°

१देव°, महत्°, माया°, १मोक्ष°, म्लान°, २योग°, योगमाया°, राजन्°, राज्य°, ३वर°, विष्णु°, वीर°, श्री°, सर्व°, सिद्ध°, सौभाग्य°, स्व°

√लग् वि°, सम्°

लग्न- करण°, वि°, सम्°, सु°

लघु- देह°

लाघव- देह°

लघु-ता- शरीर°

लघु-पाप^d-

लघ्वा(घु-आ)हार- १निःसङ्कल्प°

√लङ् उद्°, वि°, समुद्°

*लङ्गन- उदधि°, वि°, व्रतनियम°

*लङ्घ्य उद्°, वि°, समुद्°

*लङ्घ्य- ४अ°

√लज्ज् > लज्ज, ज्ञा- ४अ°, १काम°, निर°, लक्ष्मी°, ६स°, सु°, सुरतकला°

*लङ्कु^{१३}-> लङ्कु-क- तिल°

लता- अनेक°, कदम्ब°, ४कल्प°, कुञ्ज-

विद्रुम°, तरु°, तृण°, तृष्णा°, नाना°, पद्मरागमणि°, पर्वत°, पुष्प°, पुष्प°, प्रफुल्लित°, प्रसारित°, १फल°, भुज°, भ्रू°, मणि°, मणिविद्रुम°, २सुक्ता°, लवङ्ग°, विजयकाम° रण्ड°, विद्रुम°, विविध°, वृक्ष°, वृक्ष°, सुवर्ण°, सुवर्ण°, सुगन्ध°, सूक्ष्म°, हरितपीतारक°

लता(ता-अ)न्तर- विविध°, सूक्ष्म°

*लतौ(ता-आ)षधि- रत्नधातुमय°, २सुगन्ध°

√लप् अप°, अभि°, आ°, प्र°

*लपत्- प्र°

*लपन- अप°

*लाप- अप°, अभि°, आ°

लब्धवत्-, लब्धव्य-, लब्धि- नाउ.द्र.

√लभ्, > लभ्, लिप्स अन्वा°, आ°, उप°, उपा°, प्र°, विप्र°, सम्°, म्लान°, २योग°, योगमाया°, राजन्°, राज्य°, ३वर°, विष्णु°, वीर°, श्री°, सर्व°, सिद्ध°, सौभाग्य°, स्व°

√लग् वि°, सम्°

लग्न- करण°, वि°, सम्°, सु°

लघु- देह°

लाघव- देह°

लघु-ता- शरीर°

लघु-पाप^d-

लघ्वा(घु-आ)हार- १निःसङ्कल्प°

√लङ् उद्°, वि°, समुद्°

*लङ्गन- उदधि°, वि°, व्रतनियम°

*लङ्घ्य उद्°, वि°, समुद्°

*लङ्घ्य- ४अ°

√लज्ज् > लज्ज, ज्ञा- ४अ°, १काम°, निर°, लक्ष्मी°, ६स°, सु°, सुरतकला°

*लङ्कु^{१३}-> लङ्कु-क- तिल°

लता- अनेक°, कदम्ब°, ४कल्प°, कुञ्ज-

विद्रुम°, तरु°, तृण°, तृष्णा°, नाना°, पद्मरागमणि°, पर्वत°, पुष्प°, पुष्प°, प्रफुल्लित°, प्रसारित°, १फल°, भुज°, भ्रू°, मणि°, मणिविद्रुम°, २सुक्ता°, लवङ्ग°, विजयकाम° रण्ड°, विद्रुम°, विविध°, वृक्ष°, वृक्ष°, सुवर्ण°, सुवर्ण°, सुगन्ध°, सूक्ष्म°, हरितपीतारक°

a) व्यु. ?। b) तु. गप्. पृ३३८। c) गप्. (पृ७१८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। d) गप्. (पृ७२०) 'लघु-प'-

इत्यत्र यनि. शोधः द्र.। e) भाप. वा नाप. वा। f) व्यु. ?=मोदक-।

समन्वा°, समुप°
लब्ध- ४अ°, उप°, एकदेश°, १पु-
रय°, प्र°, यथा°, वाक्यार्थ°
+लब्ध-विभव-ब्रह्म(हा-इ)न्द्र-
गंगाधर- श्रीमत्कामकटाक्ष°
+लब्धा(ब्ध-अ)तिशय-संब-
न्ध- लीनवस्तु°
+लब्धवत्- ४अ°
+लब्धव्य- उप°
+लब्धि- ४अ°, उप°
लब्ध्वा ४अ°
+लभ- डुर°, सु°
+लभन- आ°
+लभमान- ४अ°
+लभ्य अन्वा°, आ°, उप°, समुप°
लभ्य- गुरुपदेश°, विवेक°
+लभ्यमान- ४अ°, उप°
+लभ्म- उप°, विप्र°, रस्मृति°
लभ्मन- उप°
लाभ- ४अ°, अभिपूजित°, आत्मन्°
१इतर°, कर्मातिदूर°, जीवन्मुक्त्या-
दि°, तद्°, देशादि°, ब्रह्मविज्ञान°,
भाग°, भोगदेशकाल°, मपञ्चक°,
यथा°, यदृच्छा°, वीर्य°, शुभ्रूपा°,
सुख°, १स्वरूप°, स्वात्मन्°
+लि(प्स)न्सा- वेदान्तज्ञान°
+लिप्सु- स्वकर्मन्°
+लम्पट- रस°
√लम्ब अव°, आ°, प्र°, वि°
लम्ब- अव°, आ°, पक्षवकोणाप्र°,
महापाता°°°न्त°
लम्बो(म्ब-उ)दर- २रक्त°
+लम्बन- अव°, आ°
+लम्बित-, +लम्बि(न्)नी- वि°
+लम्ब्य अव°, आ°
√लल्, >लालि आ°, उद्°
+ललत्- उद्°
लल(न्)ना- वल्लि°, लिग्ध°

२ललि(त)ता- ता भा २८°
+लालयत्- आ°
ला(ल)ला- कफ°, ४रक्त°°
ललाट- केसरमृग°°°जित्°, १त्वच्°,°
पाद°, पृष्ठवंश°, शिरस्°
+ललाट-विशेष- फालोर्ध्वग°
१लव-
+२लव- चित्त°
+लव-क- रूपलावरय°
लवङ्ग- आम्न°
+लवङ्ग-लता- विद्रुमलता°, शोभा-
यमान°
१लवण- कटु°, चार°, तरङ्ग°, मधुर°,
६स°
२लवण- गपू. पृ७२२ द.
३लवण->लावण्य- अतिसुकोमल°,
अशेष°, १रूप°, सौन्दर्य°
+√लष्, >लषित-, लाष-, लाषिन्-
अभि°
√लस्, >लालस् उद्°, वि°, समुद्°
+लस- ४अ°
लसत्- अणुमात्र°, उद्°, जटाभार°,
वि°, विविधमणि°
+लसत्-कुण्डल- कनकमय°
+लसित- अर्धेन्दु°
+लाल(स)सा- १भोग°
+लास- उद्°, वि°, समुद्°
+लह(र)री- परमानन्द°, ब्रह्मश-
रीरज्ञान°, १सच्चिदानन्द°
√ला(*बधा.) आ°
२ल- एक°, जीव°
लाक->लाकि(न्)नी- भूत°°
+लाङ्गु(ङ्ग)ल- उद्यत्°, तारकजाल°,
१मृत्यु°
लाज- मोदक°°
√लाङ्गु >लाङ्गन- श्रीवत्स°, ६स°
+लाङ्गित- अर्जुन°, मन्त्र°, १वज्र°
लाप- √लप (परि.) द.

लापन-, लापयमान-, लापित-, ला-
पिन्-, लाप्य √ली (परि.) द.
√लिख् अभि°, आ°, उद्°, वि°, व्या°,
सम्°, समा°
लिखित- दैव°
लिख्य आ°, वि°, व्या°
+लेखन- वि°
+ले(ख)खा- चन्द्र°, तडित्°, यामि-
नीनाथ°, विद्युत्°, १हृद्°, २हृद्°
√लिङ् (*बधा.) आ°, समा°
लिङ्ग- ४अ°, अधस्°, अध्यवसाय-
सं°°°न°, अनुग्रह°, अव्यक्त°,
आख्यात°, आत्मन्°, उभय°,
ऊर्ध्व°, एक°, १घटिका°, चक्षु-
स्°, १चित्°, चैतन्यशक्त्य°°°
श्वर°, जीवमुख्यप्राण°, ज्योति-
र्मय°, ज्योतिस्°, ज्वल°, तत्तद्°,
तद्°, दिव्य°, दैत्य°, नाद°,
परम°, पश्चिम°, २पुरय°, पुम्°,
प्रतिम°, प्रतिमा°, प्राण°, प्रासार्थ-
प्रकाश°, १ब्रह्मन्°, ३भव°, भोग-
मात्रसाम्य°, महत्°, मात्रा°,
मूलस्वरूप°, विद्या°, विष्णु°,
शर्व°, १शिव°, शैव°, १श्रुति°,
संकल्पाध्य°°°न°, सर्व°, सुवर्ण°,
२स्मृति°, स्त्री°, स्वहस्ताचित्°,
स्वात्मन्°, हिरस्य°
+लिङ्ग(क)- सृष्टि°
लिङ्ग-धारण- पशुपत्ति°°°क°
+लिङ्ग-मात्र- विशेष°°
लिङ्ग-शरीर- यज्ञकर्म°°°क°,
२वासना°
लिङ्गिन्- लिङ्ग°
+लिङ्गन-, +लिङ्गित- आ°
+लिङ्ग्य आ°, समा°
√लिप्, >म्प, लेपि अनु°, अभि°,
अव°, आ°, उप°, निर्°, परि°,
प्र°, वि°, समा°

a) व्यु. ? । b) भावे कर्तरि वा कृत् । c) तान्त्रि. ऋपा. । d) गपू. (पृ७२२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।
e) व्यु. ? =अंश- । f) व्यु. ? =प्रारयङ्गविशेष-, तदाख्योपनिषद्विशेष- ।

लिस- अनु°, अव°, आ°, कुङ्कुम°,
गन्ध°, गोपीचन्दन°, गोमयादि°,
तल्लिङ्ग°, निर्°
+लिप्य आ°, परि°
+लिम्पत्- अभि°
+लेप- ४अ°, २आज्य°, कर्मन्°,
तद्°, निर्°, विष्°
+लेपक- ४अ°, निर्°
+लेपन- अशुद्ध°, गन्ध°, मदङ्ग°,
मूलमृद्°
+लेपित- मांसशोणित°, वि°
+लेप्य- ४अ°

लिप्सा-, लिप्सु- √लभ् (परि.) द्र.

√लिष् (*वधा.) वि°
लेश- अवर्ण°, अव्यक्त°, कारुरय°,
ध्यान°, पवीकृतमहाभूत°, १पु-
रय°, माया°, माहात्म्य°, विशेष°,
संस्कार°, सद्गुरुकटाक्ष°

√लिह प्रति°

+लीढ- अशित°

+लेह्य- अशित°, खाद्य°, भक्ष्य°

√ली, >लापि अनु°, अनुवि°, आ°,
नि°, प्र°, प्रवि°, वि°, सम°,
समव°, संप्र°

+३ल- ज°

लय- अस्मद् भ्रवि १°. [°य- आ°,
उत्पत्ति°, उदय°, कारण°,
काष्ठा°, चित्त°, तत्त्वम्°, तद्°,
देवता°, नाद°, नि°, प्र°, प्रकृति°,
प्रपञ्च°, १मनस्°, २वासना°,
वि°, शब्दकाल°, संगीत°, सम°,
सृष्टि°, सृष्टि°, स्वस्वोपाधि°

लयन- नि°

+लापन- प्रवि°, वि°

+लुपयमान- वि°

+लापित- प्रवि°

+लापिन्- वि°

+लाप्य प्रवि°, वि°

लीन- अन्तर्°, प्र°, प्रकृति°, वि°,
सम्°

लीयमान- वि°

२ली(ल>)ला- अत्यन्तभाव°, अनु-
भव°, आत्मन्°, आवरण°, ओंका-
राविर्भाव°, क दुक°, १काम°, कर्म°
ग्रीष्म°, जगन्निर्माण°, तत्तद्°,
तत्तल्लीलोपयोगिन्°, तद्°, तादृ-
श°, दर्शनस्प...ख°, १दान°, द्वा-
रिका°, नाना°, निकुञ्ज°, १नित्य°,
नित्यानन्द°, प्रावृष्°, १बाल°,
वृन्दावन°, मज्जन°, महत्°, महा-
वन°, १मान°, १रमण°, रस°, रस-
रङ्ग°, रहस्य°, राधारसिक°, रास°,
रासादि°, वन°, वनविहार°,
१वसन्त°, विहार°, वैकुण्ठ°,
२व्रज°, १शारद°, शृङ्गार°, ६स°,
संसिद्ध°, संभोग°, स्व°, स्वसृष्टि°

+लीला-विग्रह- नाना°

+लीला-स्मरण- संस्थापक°

√लुद >ण्ट >लुण्ठन- शिरस्°

√लुप्, >म्प, लोलुप् अव°, वि°,
विपरि°

+लुम्पक- वि°

+लोप- ४अ°, अनित्यकर्मन्°, कर्म-
न्°, जाग्रदव्यवहार°, पात्र°, वि-
परि°, १सर्वकर्मन्°

+लोलुप्->लोलुप्-स्व- ४अ°

लोलुप- ४अ°, अति°, तद्गन्ध°,
निर्°

+लोलुप-स्व- ४अ°

√लुभ् प्र°

लुब्ध- आमोदगन्ध°

लोभ- अर्थ°, १काम°, किञ्चिद्°,
क्रोध°, जरा°, दर्प°, निन्दा°,
प्र°, मद°, मोह°, राज्यसुख°
लोभा(भ-आ)दि- अशेष°

√लुल् >लोल- अति°, कालिन्दीकू-

ल°, यन्त्र°

लौल्य->+लौल्य-क- धातु°

+लू (<रु)ल- ४अ°

लू(त>)ता- एकादशन्°

लू(तक>)तिका- तन्तुपञ्जरमध्यस्थ°

लेखन-, लेखा- √लिख् (परि.) द्र.

√लोक, >कि अव°, आ°, वि°,
समव°, समा°

लोक- ४अ°, अखिल°, अग्नि°,
अतल°, अत्यानन्दमय°, अधि°,
अनन्त°, अनेक°, अन्तरिक्ष°,
अन्नपान°, अव°, आ°, आत्मन्°,
आदित्य°, इन्द्र°, इह°, क्षत्र्य°,
क्षीण°, गन्धमाल्य°, गन्धर्व°,
गीतवादिन्°, गुण°, गो°, चन्द्र°,
चन्द्रादि°, चिर°, चिरलोक°, जन-
स्°, १जित°, जीव°, तत्तद्°, तद्°,
तद्गत°, तन्मरुत्तल°, तपस्°,
तलातल°, त्रि°, १देव°, दु°, बौद्°,
५न°, नक्षत्र°, नर°, १नाग°, नितल°

निर्ऋति°, दृ°, १पर°, पापपुरण°,
पितृ°, २पुरण°, पृथिवी°, प्रजा-
पति°, १ब्रह्मन्°, भुवस्°, १भू°,
भूत°, भूम्यादि°, भूर्, भूर्भुवस्व-
द्, आवृ°, मद°, मनुष्य°, मर्त्य°,
महस्°, महातल°, २मातृ°, १यम°
२रमणानन्द°, रसातल°, १रुद्र°,
२लीला°, १वरुण°, वायु°, वित-
ल°, विष्णु°, वैकुण्ठ°, २व्रज°,
शर्व°, १शिव°, ५स°, सकल°,
सखि°, १सत्य°, सप्तन्° प्रभृ.

लौकिक- ४अ°, २वेद°

+लोक-पर्यन्त- ब्रह्मादि°

लोक-स्मृत्- स्मृते मैत्रि ६,
३५१५^b.

लोका(क-अ)न्तर->लोकान्त-

रा(र°-आ)दि-

लोकै(क-ए)षणा- दारैषणा°

+लोकन- आ°
 +लोकयत्- अव° , आ°
 +लोकित- अव° , आ° , समव°
 +लोक्य अव° , आ° , वि° , समव°
 लोक्य- ४अ°
 √लोच् आ° , वि°
 लोचन- अधोन्मीलित° , आ° ,
 कञ्ज° , त्रि° , धृञ्° , निर्मल° ,
 प्रसन्न° , मस्तक° , ररक्त° , वारिज° ,
 वि° , श्रोत्र° , स्व°
 +लोक्य आ°

लोप- √लुप् (परि.) द्र.
 लोमन्- उडु° , कक्षोपस्थ° , केश° , के-
 श°°
 +लोम- अनु° , प्रति° , वि°
 +लोम-क- ४अ°

लोलुप्- √लुप् (परि.) द्र.
 लोष्ट-> +लोष्टा(ष्ट-अ)श्म-काञ्चन-
 १सम°
 १लोह- अष्टन्° , त्रि° , पाषाण° , मृद्°
 +लोह-शलाका- तप्त°

२लोह- ३भद्र°°
 १लोहित-
 +लौहित्य- -त्यम् भा २९^b.
 २लोहित- ४अ° , १नील° , मृद्° ,
 वि° , सु° , स्फटिक° , २हरित°°

व

१वंश- किङ्किणी° , तिरश्चीन° , १दड° ,
 पृष्ट° , मूलार्धच्छिन्न°
 +वंश-खण्ड- मृद्°°
 २वंश- इत्वाङ्क° , १कंस° , गण° ,
 १रघु° , २वसिष्ठ° , १सूर्य° , १सोम° ,
 स्व°
 √वक्>वक्- ४अ° , उग्र° , ऋतु°
 +वक्-पाद- -दाय मउ ३, ११.
 वकुल- =बकुल- गप्.

वक्षस्- पद्मास्य° , विष्णु° , शिरस्°° ,
 १शिव° , श्रीवत्सकौ...ङ्कित°
 +वक्ष-स्थल- १दक्षिण°
 +वक्षो-रुह^१- पीनोन्नत°

√वच्>वाचि, विवक्ष् अधि° , अनु° ,
 अभि° , अभ्यनु° , निर्° , परिप्र° ,
 प्र° , प्रति° , वि° , सम्° , संप्र°
 उक्त- -क्तः पा१०, २१° [°क्त- अन्°
 अनु° , अभि° , अभ्यनु° , अष्टादश-
 न्° , आचार्य° , २एकाक्षर° , २कल्प°
 कादिहादिमत° , गुरुशास्त्र° , तथा°
 तद्° , दुर° , देशिक° , नानास्मृति°
 नारद° , निर्° , पितृयाग° , पूर्व° ,
 १बीज° , प्र° , प्रति° , प्रथममन्त्र° ,
 प्रयागा...र्थ° , ब्रह्मकर्मन्° , यथा° ,
 यद्° , विधान° , विधि° , २वेद° ,
 शान्तादिलक्षण° , शास्त्र° , शास्त्र-
 विधान° , १श्रुति° , श्रुतिस्मृति° ,
 संप्र° , सु° , स्फुट° , स्वगुरु° , स्वगु-
 ह्य° , स्वविधि° , स्वाश्रम°]
 +उक्त-मार्ग- बृन्दावन°

+उक्तवत्- प्र°
 उक्ति- आधिकारि...स्थ° , देशिक° ,
 धर्म° , १नमस्° , पूज्यपदार्थ° , पेश-
 ल° , यथाव्यपदिष्ट° , वाक्य°
 +उक्त्य अनु° , प्र°
 +उक्त्यमान- प्र°
 +उच्चान- अनु°
 वक्तव्य- -व्यः नाप १७६ : ३^d.
 [°व्य- ४अ° , प्र°]
 वक्तुम् वि°
 वक्तु- ४अ° , परमतत्वरहस्य°
 वक्त्र- अग्रनासिका° , अष्टन्° , एक° ,
 गज° , गुरु° , चतुर्° , चतुर्थ° , तद्° ,
 त्रि° , दशन° , दीप्तहुतारा° , द्वि° ,
 नवन्° , नानादेशिक° , नासा° , प-
 ञ्चन्° , पञ्चम° , बाहु°° , वायु° , व्य-
 ङ्क° , १शिव° , षष्° , सप्तन्° , २सौ-

म्य°
 +वक्त्र-क- एक°
 +वक्त्र-नयन- अनेक°
 +वक्त्र-नेत्र- बहु°
 +वक्षयत्- प्र°
 वचन- ४अ° , आख्यात°° , आप्त° ,
 उभय° , चतुचाटु° , २ञ्जन्दस्° ,
 तद्° , धात्वर्थ° , निर्° , पुष्पित° ,
 प्र° , प्रति° , २ब्राह्मण° , मद्° ,
 रसिकानन्द° , वन्याकुमार° , वह्नि°
 २वेद° , व्यास° , १सत्य°
 वचस्- दशाङ्गुल° , १पुरुष° , १मन-
 स्° , यज्ञ° , १सत्य° , स्व°
 वाक- अनु° , शंयोस्° , सूक्त°
 +वाकिन्- ४अ°
 वाक्य- अथर्वण° , अनु° , २आदि° ,
 इत्यादि° , एक° , गुरु° , तत्त्वमस्या-
 दि° , तद्° , दुर° , प्रज्ञान° , प्रति° ,
 १भवत्° , महत्° , १वर्षी°° , २वे-
 द° , वेदान्त° , शास्त्र° , १श्रुति° ,
 सत्यादि°
 +वाक्यो(क्य-उ)क्ति- सर्वदेशि-
 क°
 १वाच्- ४अ° , अति° , अहत° ,
 गति°° , २जाति°° , जीवेश्वरे-
 ति° , तर्कागम...दि° , १तार°° ,
 दुष्ट° , परा° , पाणि°° , १पुरुष° ,
 पृथिवी°° , १ब्रह्मन्° , मद्° , १म-
 नस्° , १मोक्ष° , १यत्° , लक्ष्मी° ,
 शरीर° , १सत्य° , सर्व° , १सूर्य°° ,
 स्व°°
 +वाक्-काय-मानस- १यत्°
 +वाक्-काय-मानस- १यत्°
 +वाग्-अग्नि- स्व°
 वाग्-ईश्वर- सर्व°
 वागीश्वरी- श्री°
 +वाग्-रस- -सः ह ५४१ : ३^d.
 +वाग्-रसन-गोचर- ४अ°

a) भावे करणे वा कृत । b) तान्त्रि. अपा. । c) तु. गप्. पृ २४१m । d) अब्याः सं. अपा. ।
 e) भावे कर्तरे वा कृत । f) गप्. (पृ ७३२) यनि. संख्याननिर्देशः द्र. । g) निता. अपा. ।

*वाग्-विलास- आगम^०
 *वाङ्-मनस-गोचर- ४अ^०
 १वाङ्-मनो(नस्-अ)गोचर-^१
 *२वाङ्-मनो-गोचर- ४अ^०
 वाङ्-मय- अखिल^०, सर्व^०
 *वाङ्-मानस- १जित^०
 *वाचा>वाचा(चा-आ)रम्भण-
 -णम् छां ६,१,४-६^b; ४,१-४^b;
 पत्र २^०.
 वाचिक- कायिक^०
 वाचक- अंश^०, अनन्त^०, अमेद^०,
 इत्यादि^०, तारकब्रह्मन्^०, निर्वृति^०,
 प्रणवाद्य^०न्त्र^०, १ब्रह्मन्^०, १भू^०,
 वाच्य^०
 *वाचन- शिवपुस्तक^०
 *वाचिन्- अन्वर्थे^०, जगत्^०, जीव^०
 वाच्य- ४अ^०, अंश^०, अकार^०,
 इत्यादि^०, इत्यादिवाचक^०, उकार^०
 १ओकार^०, १गुहा^०, तत्पद^०, त्वंप-
 द^०, निर^०, प्रणवाद्य^०चक^०, भ-
 गवच्छब्द^०, मकार^०, सुनिशब्द^०,
 यजुर्वेद^०, सच्छब्द^०, समस्तत्र^०
 क^०, सर्व^०
 *वाच्य-वस्तु- सर्व^०
 *त्रिव(त्)>क्षा- अत्व^०
 १वज्र- इन्द्र^०, कनक^०, द्वादशन्^०, ध्वज^०
 महत्^०, शत्रुजिह्वा^०
 २वज्र-तुण्ड- वज्रनख^०
 *वज्र-नाल- सुमुप्रा^०
 *वज्र-पक्ष- १वज्रतुरण्ड^०
 वज्र-बाहु- हुः मना १, १०^१
 *वज्र-संहनन- १रूप^०
 वज्र-सूची->वज्रसूचि(क->)-
 का- केन^०
 वज्रे(ज-ई)इवर(र>)री- कामेश्वरी^०
 √वञ्च्>*वञ्जन- २काल^०
 √वट(*वधा.)>वट- अनेक^०, एक^०,

कुब्ज^०, भण्डोर^०, भारण्डीर^०,
 ३वंशी^०, संकेत^०, साधन^०
 वा(टक)>टिका- चण्डाल^०
 व(<>व)ट्ट->वट्ट-क- गणेश^०
 वट्टके(क-ई)इवर- १भगवत्^०
 √वण्(शब्दे)>वा(शि)>णी- कपो-
 ल^०, १देव^०, पर-शतषष्टि^०, १शुक^०
 वणिज्->वाणिज्य- कृषि^०
 १वत्स- १बाल^०, नष्ट^०
 *वत्स-त्तर(>)री- १वत्स^०
 *वत्स-ल- दीन^०, पितृ^०, २भक्त^०
 *वात्सल्य- २भक्त^०, शास्त्र^०
 २-३वत्स- गपू. पृ७३६ द्र.
 *४वत्स^१- श्री^०
 वत्सर- द्वादशन्^०, पञ्चविंशति^०, परि^०,
 शतकोटि^०, षण्मास^०, सम्^०
 √वद्, > वादि, वदिष्यामि १कौल
 शां^११^१. [२अच्छा^०, अति^०, अनु^०
 अप^०, अभि^०, आ^०, उप^०, परि^०,
 प्रति^०, वि^०, व्यव^०, सम्^०]
 २उदित- अभि^०, आ^०, निखिलनि-
 गम^०, निगम^०, प्र^०, २वेद^०, श्रुति-
 वाक्य^०, सदा^०
 *उद्य- १ब्रह्मन्^०
 *वद्- २अच्छा^०
 वदत्- ४अ^०, अभि^०, प्र^०, वि^०
 वदन- अत्यन्तक्रीडा^०त^०, अनेक^०
 आलिङ्गनचु^०लित^०, उग्ररूप^०,
 कराल^०, करालदंष्ट्र^०, गल^०,
 दंष्ट्राकराल^०, नारसिंह^०, प्रसन्न^०,
 मधुरप्रसन्न^०, मस्तक^०, संपूर्ण-
 चन्द्र^०, सुमुप्रा^०
 *वदन-द्वार- जिह्वा^०क्रान्त^०
 *वदना(न-अ)म्बु-ज- प्रसन्न^०
 *वदना(न-अ)म्भो-ज- वल्लवी^०
 *वदमान- वि^०, सम्^०
 *वद्य- ४अ^०

वाद- अति^०, अद्वैत^०, अप^०, अवा-
 च्य^०, जीवेश^०, तद्^०, नाना^०,
 नैरात्म्य^०, १पर^०, परि^०, पुनर्^०,
 पुरुषार्थ^०, पृथक्^०, २प्रज्ञा^०, मा-
 या^०, वि^०, वीणा^०, २वेद^०, सम्^०,
 स्वतन्त्र^०
 *वादन- अभि^०, वीणा^०, वेणु^०
 *वादित- गीत^०
 वादित्र- उदात्त^०, महत्^०
 वादिन्, नी- अति^०, अनृत^०, अग्नि-
 य^०, अभि^०, अस्तित्वस्तुत्व^०, १अ-
 हम्^०, आगम^०, उप^०, कालैक^०,
 तन्तु^०, १ब्रह्मन्^०, ६योग^०, १वाच्^०,
 वादित्र^०, २वेद^०, शब्द^०, शुष्क^०,
 शून्य^०, षट्पदार्थ^०, १सत्^०, १सत्य^०
 *वाद्य अभि^०
 वाद्य- प्र^०, १मङ्गल^०, महत्^०, संगीत^०
 *वद्ध्यश्व^१- सुयुञ्ज^०
 √वध् वि^०
 वध- अश्व^०, इन्द्रिय^०, गुरु^०, गो^०,
 २त्रिपुर^०, धूम्रलोचन^०, पितृ^०,
 पितृमातृ^०, प्राणिन्^०, बुद्धि^०,
 १ब्राह्मण^०, २मातृ^०, सर्वजीव^०
 *वधय- ४अ^०
 १व(धु)>धू- २कुल^०, गुरु^०, चतुर्मुखा^०
 हंस^०, ४वर^०
 √वन्(*वधा.)>वनाति मउ ९, ५^१.
 [उप^०, सम्^०]
 वन्- अमृतकल्पतरु^०, अशोक^०, अ-
 सिपत्र^०, आनन्द^०, आनन्दकल्पत-
 रु^०, उत्सुक^०, उप^०, कदम्ब^०, ४क-
 ल्प^०, कल्लोल^०, १काम^०, काम्य^०,
 कालञ्जर^०, १कुमुद^०, २कृष्ण^०, केत-
 क^०, क्रीडा^०, खदिर^०, खारण्डव^०,
 गन्धमादन^०, गृह^०, चतुर्मुखमुखा-
 म्भोज^०, चतुर्विंशति^०, तपस्^०, १ता-
 ल^०, त्रि^०, २दधि^०, दीप^०, द्रुम^०,

a) गपू. (पृ७३४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) गपू. (पृ७३३f) नेव द्र. । c) गपू. (पृ७३३) √वच्> १वाच्-> वाचा इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । d) *व्रह्मस्तः इति मा २६, १० (तु. टि. वैपश् यस्था.) । e) पा ५, २, ९८ । f) व्यु. ? । g) तैत्रि ७, १, १^१ (एतद्वत् गपू. [पृ७३७b] शोधः द्र.) । h) वैपश् यद्र. । i) तैत्रि १०, १०, २ । j) बपा. द्र. ।

द्वादशन्°, १नन्द°, नन्दीश्वर°,
१पद्म°, परमानन्दलहरी°, पर्वत°,
पलाश°, पारिजातक°, प्र°, बकुल°,
बहुल°, ३वृन्दा°, १वृहत्°, बोधक-
ल्पतरु°, बोधानन्द°, ब्रह्मकल्पतरु°,
ब्रह्मतेजोम...रु°, १ब्रह्मन्°, ब्रह्म-
विद्याकल्पतरु°, ३भद्र°, भद्रश्री...
न्दा°, भागडीर°, सुज्य°, मथुरा°,
१मनस्°, महत्°, मुक्तिकल्पतरु°,
यज्ञकल्पतरु°, योगकल्पतरु°, रा-
स°, २लोह°, विभूतिकल्पतरु°,
वृषभानु°, वेदकल्पतरु°, शुद्धवो-
...कार°, शेषशायिन°, शैल°,
श्यामानु°, श्री°, संकेत°, स्वात्मा-
न...तरु°
वन-दुर्गा- तुल्य°, श्री°
वन-प्रस्थ->वानप्रस्थ- ब्रह्म-
चारिन्°
वन-माला- कौस्तुभ°, १शङ्ख°°
श्यामाहि...धि°, श्रीवत्स°°
*वनमाला(ला-आ)दि-
१शङ्ख°°
*वन-माल्य^{१३}- श्यामाहि...धि°
वन-लीला- अति°
*वन-विहारिन्- सदा°
वन-स्थ- बहूदक°
*वनन- सम्°
वन(त)>ता- १देव°
वनस्पति- ओषधि°, तृण°, पृथिवी°,
वृक्ष°°
*वंताक- भूत°°
√वन्द् अमि°
वन्दन- अमि°, अमि°, २श्रवण°,°
२संख्या°
वन्दित- ऊर्ध्वान्नाय...र°, ब्रह्मरु-
द्रादि°, ब्रह्मादि°, सिद्ध°
वन्ध- देवदा...नि°, वृषभध्वज°,
सर्व°
√वपु- नि°, निद्र°, परा°
*वाप- १बीज°

वपुस्- कृश°, चन्द्राक°, १चित्°, दि-
व्य°, नर°, प्रणवोद्गीथ°, मुक्तामु-
क्त°, २श्याम°, २सौम्य°, स्पष्ट°,
स्पष्टास्पष्ट°, स्व°
१-२वर- गप्, पृ७३९ द्र.
३-७वर- √वृ(*बधा.) परि. द्र.
१-३वरण- गप्, पृ७३९ द्र.
४वरण- √वृ(*बधा.) परि. द्र.
वराह- १आदि°, आधारशक्ति°, कठ-
वल्ली°°, दुष्टकीट°°, २मत्स्य°°,
विष्°, श्री°
वाराह- नारसिंह°
वरीयस्- √वृ(*बधा.) परि. द्र.
१वरुण- अर्क°°, इन्द्र°, निशाक°°,
१मित्र°, शक°°
*व^{१३}√रुध्>व-रोध- -धे अच् ११°.
१वर्ग- अरि°, अष्टन्°, चतुर्°, जगद्-
व्यापार°, पञ्चन्°, प्राण°, बन्धु°,
भृत्य°, मातृपि...त्य°, षष्°, सर्वे-
न्द्रिय°
वर्ग्य- √वृज् (परि.) द्र.
√वर्च>वर्चस्- अनल°, १ब्रह्मन्°,
सु°, १सूर्य°, सूर्यचन्द्रामि°
*वर्चस्- १ब्रह्मन्°
वर्ज- वर्जन-, वर्जम्, वर्जिन्-
√वृज् (परि.) द्र.
√वर्ण>णि उप°, निद्र°, सम्°
१वर्ण- अ°, अष्टन्°, आकृति°,
२कति°, तत्तद्°, तत्त्व°, त्रि°, त्रि-
शत्°, द्वि°, द्वित्रि°, द्विपञ्चत्रिचतुर्°,
पञ्चन्°, पञ्चाशत्°, मन्त्र°, माला-
मनु°, मालिका°, १रुद्र°, षष्°,
सप्तचत्वारिंशत्°, सप्तविंशति°,
स्वर°
*३वर्ण(-क)- अष्टाविंशति°, च-
तुर्दशन्°, चतुर्विंशति°, द्वात्रिं-
शत्°, द्वादशन्°, पञ्चन्°, पञ्चविंश-
ति°, १ल°, सप्तविंशति°
*वर्ण-चतुष्टय- रामकृष्ण...य°
*वर्ण-द्वय- हंसैति°

*वर्ण-षट्क- मालामनु°
*वर्ण- ४अ°, निद्र°
२वर्ण- अग्नि°, अनेक°, आदित्य°,
इन्द्रगोप°, इन्द्रनील°, एक°, एतद्°,
१कपिल°, १कृष्ण°, गौर°, १चि-
त्र°, चित्रादि°, तद्रजःपुञ्ज°, तरु-
णाक°, १धूम्र°, नाना°, १नील°,
पद्मराग°, ३पीत°, बन्धूकपुष्प°,
भास्कर°, भास्वर°, महानीलकण्ठ-
मन्त्र°, माणिक्य°, २रक्त°, स्वम्°,
३वर°, वि°, वैदूर्य°, १शङ्ख°, शङ्ख-
कुन्देन्दु°, शशिन°, शुद्धमुक्ता-
फल°, १श्याम°, १श्वेत°, श्री°,
सिन्दूर°, सु°, सुधूम्र°, सुवर्ण°,
स्फटिक°, स्फटिकरजत°, स्वर्ण°,
हंस°, हिरण्य°, हेमन्°
*४वर्ण(-क)- ३पीत°, २रक्त°, १शङ्ख°
*वर्ण-भेद- व्यक्ताव्यक्ता...मुख°
*वर्णा(र्ण-आ)कृति- नाना°
३वर्ण- ४अ°, २कुल°, २कुल°, चतुर्°,
त्रि°, १देव°, ५स°, सर्व°
*वर्ण-भोजन- ४अ°
वर्णा(र्ण-आ)श्रम- अति°, स्व°
वर्णाश्रमा(म-आ)चार- त्यक्त°,
सर्व°
वर्त- वर्तक-, वर्तित-, वर्तितुम्, वर्ति-
न्-, वर्त्य √वृत् (परि.) द्र.
१-२वर्धन- वर्धित-, वर्धिन्-, वर्धय^{१३}
√वृध् (परि.) द्र.
वर्मन्- मृदु°
वर्य- √वृ(*बधा.) परि. द्र.
१वर्ष- अष्टन्°, अष्टाचत्वारिंशत्°, चतु-
र्विंशति°, चतुश्चत्वारिंशत्°, दश-
न्°, दशसहस्र°, द्वादशन्°, षष्टन्°
नवन्°, पक्ष°, शत°, षोडशन्°,
सहस्र°
वर्ष-शत- तावत्°
वर्ष-सहस्र- तावत्°, दशन्°, दिव्य°,
पञ्चन्°
वर्षण- वर्षिन्- √वृष् (परि.) द्र.

a) व्यु. अर्थश्च ? । b) अव इत्यस्य पूर्वाश्लोपः (तु. गप्, पृ५०८D) । c) वि° इति निसा. ।

+वर्षमन्- अविद्यादि°, तन्नामाङ्कित°

√वल् (*वधा.) आ°, सम्°

+*वल्->वल्-क- यज्ञ°

वल्क-ल- चीर°°, सूत्र°

+वल्कला(ल-अ)जिन-

जीर्ण°, विवर्णजीर्ण°

वलय- आन्तर°, वृत्तीयरेखा°, द्विती-

यरेखा°, प्रथमरेखा°, मण्डिगुरा°, रेखा°

+वलित- आ°, त्रैलोक्य°, रेखोपे-

खा°, सम्°, सुगन्धमणिरस°

√वल् वि°

व(ल्म>)ल्मी->वलमी-क- गृह°°, शून्यागार°°

√वल्ल्->व(लि>)ल्ली- अमृत°, कठ°, मणि°, खगुहाश्रम°, हार°

वल्भ,भा- अति°, अत्यन्त° इकि- शोरी°, गान°, गोपीजन°, जानकी°, रमणसुख°, रुक्मिणी°, विधि°, त्रिष्णु°, शंकर°, श्रीविष्णु°, सीता°, हरि°

+√वल्ह्, >वल्हित- प्र°

√वश् (*वधा.)>वश- ४अ°, अखिलेन्द्रियक्षय°, अण्डिमादि°, अदस्°, अदृष्ट°, अभ्यास°, अर्थ°, अविद्या°, अशक्ति°, अहंकार°, १आशा°, आश्रय°, आस्वाद°, इच्छा°, इदंपारायण°, उन्मन्यवस्था°, कर्मन्°, रकाल°, १कृपा°, गमागम°, तद्°, तदभ्यास°, तदाचार°, तदाज्ञा°, तद्रूप°, दृढाभ्यास°, दृश्य°, देहारम्भकभेद°, १पर°, १पुरण°, प्रकृतिभेद°, प्रत्याहृति°, प्राक्पुरण्यकर्मन्°, प्राणापान°, प्राणिकर्मन्°, १ब्रह्मन्°, मद°, १मनस्°, मनोनाश°, महाभाग्य°, माया°, १मायोपाधि°, मिथ्याध्यास°, मोह°, बाध्याघात°, २वासना, वि°, १विज्ञान°,

व्यवधान°, श्रीरामसांनिध्य°, संस्कार°, सकलवेदशा...पाक°, संकल्पसंक्षय°, संगीतता...द्य°, समता°, संभोग, सर्व°, सर्वजन°, सांनिध्य°, स्व°, स्वसंकल्प°, हंस°
+वशं-कर,री- त्रैलोक्य°, राजन्°, राजपुरु...ष°, राजप्रजा°, सर्व°, सर्वदुष्टमृग°, सर्वभूत°, सर्वराज°, सर्वलोक°, सर्वसरव°, सर्वस्त्री-पुरुष°

+वशं-करि(न्>)णी- सर्व°

वशी/√कृ>वशी-करण- जगत्त्रय°, १मारण°°

+वशी-करि(न्>)णी- स्तम्भिनी°°

+वशी-कृत- एकाग्रचित्त°, खड्गनमी...ल्य°, समग्र°, १सुरतानन्द°

१वश्य- ४अ°, आत्मन्°, गजादि°, जीव°, यन्त्रतन्त्रादि°

वश्य-कर- १जन°, १पुरुष°, सर्व°, सर्वलोक°

+वश्यकरी- महत्°

वश्य-जन- सर्वजन°°

+वश्य-यन्त्र-तन्त्रा(त्र-आ)-दि-दुष्ट-वाच्- १पर°

वषट् १नमस्°°, स्वराज्°°

√वष् (निवासे) अधि°, अनु°, आ°, उद्°, नि°, परि°, प्र°, वि°, सम्°

१उषित^b- एकरात्र°, परि°, संवत्सरात्र°, ससरात्र°

+१उष्य प्र°

वसत्- आ°, नि°

वसति- कृत°

+वसथ- आ°

+वसित- प्र°

१वास^b- अधि°, अबाधकर...ल°, एकान्त°, गर्भ°, गुरुकुल°, चिर°, नि°, प्र°, २त्रज°, सम्°

*वासा- प्र°

वासित- अधि°

वासिन्,नी- अन्ते°, अष्टाचत्वारिंशद्वर्ष°, आकाश°, आचार्यकुल°, आश्रम°, आसुरि°, एकरात्र°, कारमीरपुर°, २कुल्य°, कुसुमान्म-स्°, गुरुकुल°, ग्राम°, १छाया°, जघनस्थल°, २जल°, तद्°, तद्द्वै-कुण्ठ°, १त्रिपुर°, निकेत°, १पद्म°, पाताल°, वृन्दावन°, ब्रह्ममयवै-कुण्ठ°, भूमण्डल°, वन°, वह्नि°, विन्ध्य°, वैकुण्ठ°, २त्रज°, शून्यागारदेवगृह°, रमशान°, १षट्चक्र° संवत्सर°, सत्यलोक°, २सह°, स्वर्ग°, हृदयागार°

वास्तु- यज्ञ°

+३वा(स्य>)स्या- अमा°, उद्°

√वस्(आच्छादने) सम्°

वसन- २रक्त°, सु°

वसान- सम्°

वस्त्र- अन्न°, अन्न°, उपानह°, काषाय°, केशबन्धन°, कौपीन°, १चित्र°, तद्°, धौत°, ३पीत°, बहु°, मृद्°, २रक्त°, लघु°, विवर्ण°, विशीर्ण°, २शुक्ल°, शुभ्र°, शौचपीत°, श्लक्ष्ण°, सूक्ष्म°, हेमन्°

+२वास- १कृष्ण°, २रक्त°, १श्वेत°

+वासयत्- सम्°

२वासस्- ४अ°, अहत°, उद्°, एक°, कन्थाकौपीन°, काषाय°, काष्ठ°, कृत्ति°, १कृष्ण°, कौपीन°, चीराजिन°, जीर्णकौपीन°, दिश°, दुर°, २पाण्डुर°, ३पीत°, पीतकौशेय°, बहिस्°, २रक्त°, विवर्ण°, २शुक्ल°, ६स°, सु°

१वास्व- ईशा°

√वस्(गन्धे)>वासि>वासित- अगुह°, तत्तत्कर्म...ल°, २वासना°, सु°

+√वस्(अशने), > उषण- , २उषि-
त- , २उष्य, ३वास- उप°

√वस्(*बधा.), > +उष्टि- वि°
१वसन्त-^१

वसु^१- स्रोः मउ ९, ५९^१. [°सु-
अष्टन°, अस्मद्°, १धी>धिया°,
१नन्द°, १नन्द°, पुनर्°, १शृहत्°
वाजिनी°, विभा°, १विश्व>श्वा°,
१सत्य°]

वासव- भूत°°
२वसिष्ठ- गौतम°°, २निदाघ°°
वसु-देव- उग्रसेन°

वासुदेव^१- अनिरुद्ध°°,
केन°, नारायण°, लक्ष्मी°
वासुदेवा(व-आ)दि-

१अङ्ग°
+वासुदेवा(व-आ)दि- १अ-
ङ्ग°°

वसुं-धर(>)रा- प्रकटित°
+वसु-पत्र- त्रिकोण°

+वस्वत्- वि°

२वासन, ना- ४अ°, अनादि°, अना-
द्यविद्या°, अन्तर°, अप°, अभ्या-
स°, अमल°, असंख्येय°, १इतर°,
उत्तम°, कर्मसंभूत°, १घन°, चि-
न्मात्र°, चिरंतनातिसूक्ष्म°, चिरा-
भ्यस्त°, २जाग्रत्°, जीवपर्याय°,
तद्°, १तनु°, दुर्°, दृढतरशु...
क°, देह°, निर्°, पूर्व°, प्राण-
स्पन्दन°, बाह्यार्थ°, भक्तिज्ञा...
स्य°, भेद°, १भोग°, भोगैक°,
भ्रम°, मैत्र्यादि°, यज्ञकर्मन्°,
लोक°, वि°, विगलित°, विषय°,
शान्त°, शास्त्र°, शुद्ध°, ६स°,
संसार°, संकल्प°, संत्यक्त°, सर्व°,
सर्वार्थ°
+वासन-पङ्क्ति- सर्व°

वासना-जाल- कुत्सित...मन्°,
तत्कर्मफल°
वासना-त्रय- एषणात्रय°
+वासना-बीज- निर्दग्ध°

वसथ- √वस्(निवासे) परि. द्र.
+वसा^१°- विष्°°

वसित- √वस्(निवासे) परि. द्र.

वस्तु- ४अ°, अनन्त°, आभास°, उपा-
र्जित°, एक°, ज्ञेय°, तद्°, दशि-
रूप°, देश°, देशकाल°, द्वितीय°,
नाना°, २नित्यानित्य°, निरञ्जन°,
पत्र°, १पर°, परम°, परस्पर°, प्राप्त°
१ब्रह्मन्°, मुख्य°, यथा°, लीन°,
वाच्य°, विज्ञात°, ६स°, १सत्°,
सर्व°, साध्य°, सिद्ध°, सुखागत°,
स्थूलसू...न्त°, स्वव्यतिरिक्त°

वास्तव- ४अ°, प्रकृति°
+वस्तु(क)-, वस्तु-तस(>:) ४अ°
वस्तु-स्व- ४अ°, अस्ति°
+वस्तु-पात्र-देहा(ह-आ)दि- इष्ट-
तम°

+वस्त्व(स्तु-अ)न्तर- देश°°
√वह्(*बधा.), >वाहि अति°, अधि°
आ°, उद्°, निर्°, परिसम्°, प्र°,
प्रति°, वि°, सम्°

उह- अनस्°
+उह्य निर्°, परिसम्°, प्रति°
+ऊढ- अधि°, उद्°, प्र°, प्रति°,
वि°, सम्°
+वह- अहोरात्र°, आ°, उद्°, हुत°
वहत्- आ°
+वहन- कुङ्कुम°
+वहिवृ- निर्°

वह्नि- अन्यारोपित°, अप°, अपान°,
अर्के°, १चित°, ज्वाला°, दिश°°
पीठ°, प्रज्वलत्°, १मुद्रा°, वि-
वेकज्ञान°, शर्करा°, १सूर्य°°

वह्नि-जाया^१- अन्न°
वह्नि-ज्वाला(ला-आ)व(लि)>-
ली- प्रातश्चित्रादिवर्णसूर्य°°
+वह्नि-ललना^१- १कूर्वे°
+वह्नि-वृद्धि- लघु°°

वाह- अति°, उद्°, गरुड°, तार्क्ष्य°,
प्र°, प्रति>ती°, वारि°, वि°,
विष्णु°, वृषभ°, १सत्य°, हंस°
+वाहक- द्वादशानिल°, वादित्र-
ध्वज°

वाहन- आ°, कव्य°, गन्ध°, गरुड°,
प्र°, १वर्ण°, विष्णु°, ६स°, सैन्य-
बल°, हव्य°
वाहिन, नी- अहन°, जयन्तपुर°,
प्रशान्त°, प्राण°, लावण्य°,
स्वरस°

+वाह्य आ°, वि°
√वा, >वापि अनु°, आ°, निर्°,
परिनिर्°

वात- १अणु°, अनु°, अस्थि°°,
आकाश°, आधार°, २काल°,
दिश°, नि°, निर्°, निशाकर°°,
पुरस्°, प्रति°, विष्°, व्योमन्°,
शीत°, सर्व°

+वात-शूल^१- अङ्गशूल°°
+वान-, +वापन- निर्°

वायु- युः वृ ६, ४, २३^१. [°यु-
४अ°, अक्षर°, अग्नि°, अन्योन्य°,
अपान°, आकाश°, इन्द्र°, चतु-
ष्पथस...रग°, इश°, नागादि°, प-
ञ्चन्°, पृथिवी°, पृथ्वी°, प्राण°,
प्राणादि°, १मनस्°, १मन्द°,
महत्°, महत्°, व्यान°, १समा-
न°, १सोम°, २स्पर्श°
वायव्य- अग्नि°, शक्र°°
+वायु-दशक- एतद्°
+वायु-भेद- चतुर्दशन्°

a) गपू. (पृ७४४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) बप्रा. द्र. । c) तैआ १०, १०, २ । d) बप्रा. द्र. ।
=२कृष्ण-, उपनिषद्विशेष- । e) वैप१ यद्र. । f) =स्वाहा । g) भावे कर्तरि करणे वा कृत् । h) 'वातः' इति ऋ ५,
७८, ७ (तु. टि. वैप१ यस्था.) ।

*वायु-विमोक्षण- ऊर्ध्व°
 वाकिन- √वच् (परि.) द्र.
 वागु(र<>)रा- अङ्गवन्धन°, महावीचि°
 वाचन- वाचिन्- √वच् (परि.) द्र.
 वाज- २भरत्°
 √वाञ्छ् अभि°, अभिसम्°
 *वाञ्छन- ४अ°, अभि°
 वा(ञ्छ्)>ञ्छा- विषयानन्द°, सि-
 द्वि°, स्व°
 वाञ्छित- अभि°
 वात्सल्य- १वत्स- (परि.) द्र.
 वादन- वादित- वाद्य √वद् (परि.) द्र.
 वान- √वा (परि.) द्र.
 वाप- √वप् (परि.) द्र.
 वापन- √वा (परि.) द्र.
 वा(पि>)पी- नदी°°
 १वाम- संयत्°
 २वाम-> ३वाम- तद्°, २दक्ष°
 *वाम-कर-युग- कपालोत्पल°
 वामा(म-अ)क्षि-पर्यै(न्त>)न्ता°-
 वामा(म-अ)ङ्ग- सीतालंक्रुत°
 ४वाम> १वाम-देव- तत्पुरुष°°
 २मत्स्य°°, २वसिष्ठ°, २वसिष्ठ°°,
 २शुक°, शुकदेव°, २संवर्तक°°
 १वामन- गपू. पृ ७५२ द्र.
 २वामन- २कृष्ण°, १दधि°, २मत्स्य°°
 ३वामन- गपू. पृ ७५२ द्र.
 *४वामन^b- ऐरावत°°
 वार-> वाइ-धि- संसार°
 १वार- शुक°, १सौम°
 २वार- एक°, एकविंशति°, चतुर्°, त्रि°,
 त्रिचतुर्°, दशन°, द्वि°, द्वित्रि°,
 पञ्चन्°, सप्तन्°
 ३वार- √वृ(आच्छादने) परि. द्र.
 वारक- √वृ(प्रतिघातने) परि. द्र.
 १वारण°-
 २वारण- √वृ(प्रतिघातने) परि. द्र.

वारि- आनन्द°, कीट°, ज्ञान्ति°, गोपी-
 चन्दन°, तिल°, १फल° भूरि°,
 १भोग°, वह्निसंयुक्त°, विवेक°, भ्रम-
 संजात°, संसार°
 १वारित- √वृ (आच्छादने) परि. द्र.
 २वारित- √वृ (प्रतिघातने) परि. द्र.
 वा(र्त>)र्ता- अनुमान°°, आवरणली-
 ला°, धर्मधर्मित्व°, प्रातिभ°°,
 १ब्रह्मन्°, भिक्षा°, राजन्°, लोक°
 वार्य, १वार्य- √वृ (वरयो) परि. द्र.
 २वार्य- √वृ(प्रतिघातने) परि. द्र.
 वा(<> २वा)ल- सूत्र°°
 वाला(ल-अ)ग्र- वटकणिका°°
 वालखिल्य- २वसिष्ठ°
 वालु(क>)का- शर्करा°°
 वाष्प- =वाष्प- गपू.
 १वास- √वस्(निवासे) परि. द्र.
 २वास- √वस् (आच्छादने) परि. द्र.
 ३वास- √वस् (अशने) परि. द्र.
 वासयत्- √वस्(आच्छादने) परि. द्र.
 वासर- अनु°, त्रिचतुर्°, शुक°, सप्तन्°
 *वासा- √वस् (निवासे) परि. द्र.
 वासुकि- अनन्त°, दैत्य°°
 वास्तुक- २क्षार°
 १-२वास्य- गपू. पृ ७५३ द्र.
 ३वास्य- √वस्(निवासे) परि. द्र.
 वाहक- वाह्य √वह् (*वधा.) परि. द्र.
 *विशत्^a- ऊन°, एक°, त्रयस्°, चतुर्°,
 द्वि°, पञ्चन्°, षष्°
 विंशति- अष्टन्°, एक°, एकोन°, २घटि-
 का°, चतुर्°, त्रयस्°, द्वि°, पञ्चन्°,
 षष्°, सप्तन्°
 वि-कट°- भद्रजाति°
 वि/कम्प>+वि-कम्प- ४अ°
 वि-करण- ५कल°, १बल°
 वि-क(ला>)ल- ४अ°, १अङ्ग°
 *वैकल्य- १करण°

१-३विकल्पक- विकल्पना- वि-
 √कल्प् (परि.) द्र.
 वि/कास्>+वि-कास- पूर्ण°, मा-
 यामात्र°, १संकोच°
 *वि-कासिन्- परब्रह्मन्°
 वि/कित्(ज्ञाने)> चिकित्स>+वि-
 चिकित्सत्- ४अ°
 वि-चिकि(त्स>)त्सा- ४अ°, कर्म-
 न्°, निर्°, वृत्त°
 वि-कुण्ठ->वैकुण्ठ- अनन्त°, १को-
 टि°, तद्°, तुलसी°, १नित्य°,
 परम°, पादविभूति°, प्रति°, बोधा-
 नन्द°, ब्रह्ममय°, ब्रह्मविद्या°, ब्रह्म-
 विद्यापाद°, वन°, १शिव°, शुद्ध-
 बोधानन्द°
 *वैकुण्ठ-पुर- पादविभूति°, विष्णु-
 वसेन°, श्रीतुलसी°, सुदर्शन°
 *वैकुण्ठ-प्रासाद-प्राकार-विमाना-
 (न-अ)दि- विरुद्ध°
 वैकुण्ठ-स्थान- त्रिपाद्विभूति°
 वि/कृ(करणे)>वि-कार- ४अ°, एत-
 द्°, तद्°, तन्मय°, तन्तु°, तमस्°,
 निर्°, प्रणवमय°, १भाव°, भूत°,
 १मनस्°, मृद्°, यद्°, षड्भाव°,
 षष्°, ६स°, स्व°, स्वर्ण°, हर्षार्थम्°
 *विकारा(र-अ)न्त- बुद्बुदा-
 दि°
 विकारिन्- निर्°
 वि-कार्य- ४अ°
 वि-कृति- ४अ°, उदुत्तीर्ण°, प्रकृति°,
 षड्भाव°
 *वि-क्रिय, या- ४अ°, १धी°
 *वि-कृ(न्धक>)न्धिकार्- कांस्य°°
 वि/कल्प(<कृप्>कल्प>वि-क-
 ल्प- ल्पानाम् वा ३२^६. [ल्प-
 ४अ°, अष्टन्°, उह्ण°, १घन°, ज-
 गत्°, तद्°, देशिक°, निर्°, पूर्व°

अ) गपू. (पृ ७५१) °क्षिपर्या° इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । b) व्यु. ? =दिग्गजविशेष- । c) गपू. (पृ ७५२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) =विंशति- । e) व्यु. ? उत्तरांशः <√कट्(अर्थः?) इति वा प्र. एवेति वा [तु. पां ५, २, २९ (तु. उक्-कट-प्र-कट-सं-कट-)] । f) व्यु. ? । g) तान्त्रि. अपा. ।

प्रमाण^०, १मनस्^०, शब्दार्थ-
ज्ञान^०, ६स^०, संकल्प^०, समुच्चय^०]
+१ विकल्प(क)- निर्^०, ६स^०
+२ विकल्पक- संकल्पक^०
+विकल्प-जाल- ६स^०
+विकल्पां(ल्प-अं)श- असंसृष्ट^०
३वि-कल्पक^०-
+वि-कल्प(न>)ना- पृथिवी^०
+विकल्पना(ना-आ)दि- वटक-
णि...क्ष^०
वि/क्रम> +वि-क्रम- अमित^०, त्रि^०
निरतिशय^०
वि/क्री> +वि-क्रय- क्रय^०, २दाधि^०
+वि/क्रीड> वि-क्रीड- गोरस^०
+वि/कलु> वि-कुव- वि^०
वि/क्षिप्> वि-क्षेप- चित^०, लय^०
विक्षेप-शक्ति- हिरण्यगर्भाधिष्ठित^०
विक्षेपा(प-आ)वृत्ति^०-रूपक-
वि/गम्> वि-गत- अवगत^०, सर्वा-
भिलाप^०
वि/गुप्> उगुप्, विजुगुप्सते ई ६;
वृ ४, ४, १५९^०.
वि/ग्रह> वि-ग्रह- अखण्ड^०, अख-
ण्डविशेष^०, अखण्डानन्द^०, अति-
मेध^०, अनर्गलप्रवाह^०, अन्योन्य^०,
अमल^०, आकाशमय^०, आधिदै-
विक^०, आनन्द^०, केवलमन्त्रमय...
प्य^०, चिद्ब्रह्मानन्द^०, चिन्मात्र^०,
१ज्ञान^०, तत्कण्ठामण्ड...तित^०,
नर^०, नरकेसरिन^०, पञ्चाशद्वर्य^०,
परमाकाश^०, पाषाणखलो...रमय^०
पुराकल्पितमन्त्रमय...प्य^०, पूर्ण^०,
पूर्णानन्दैक^०, १ब्रह्मन्^०, ब्रह्मा-
नन्दैक^०, १भगवत्^०, भूतिभूषित^०,
१मङ्गल^०, माया^०, मुख्यविज्ञान^०,
२सीमा^०, ब्राह्मामगो...शेष^०, वि-

लास^०, शांभवी^०, शाश्वतानन्द^०,
१सच्चिदानन्द^०
विघात, विघातिन्- वि/हन्
(परि.) द्र.
+√विच्, > विक- प्रवि^०, वि^०
+विच्य, वेक-, वेक्य-, वेचक-,
वेचन- वि^०
वि/चक्षु> १वि-चक्षण- हंसयोग^०,
शत^०
वि/चर, > चारि> वि-चार- ४अ^०,
इत्यादिवाक्य^०, कृत^०, धर्माधर्म^०,
नानादर्शनसिद्धान्त^०, नित्यानित्य-
वस्तु^०, निर्^०, मध्यनाडी^०, महा-
वाक्य^०, वाक्यार्थ^०, वितर्क^०, वेदा-
न्तवाक्यार्थ^०, वेदान्तार्थ^०, ६स^०,
स्फार^०, स्व^०
वि-चारण, णा- पूर्वापर^०, मित्रामि-
त्रादि^०
वि-चार्य शा ३२३ : ३^१.
वि-चर्षण- णम् तै १, ४, १९^०.
वि/चल् > +वि-चलित- हेला^०
वि-चिकित्सत्- वि/कित (ज्ञाने)
परि. द्र.
वि-चित्र- अदृष्ट^०, अनेकरङ्ग^०, कुत्सि-
त^०, नाना^०, मणिकटक^०, विविध^०
वैचित्र्य- कर्मन्^०, जगत्^०, प्रकृति-
कार्य^०, वासनावेग^०, सृष्टि^०
+विचित्र-भोग- स्त्रियज्ञपनादि^०
+विचित्रित- धातुप्रवालनटवेष^०
वि/चृत् > वि-चृत्य मना १, ४९^१.
+वि-चेतन^०- ४अ^०
वि-चेतस्- जितश्वास^०
वि/चेष्ट > +वि-चेष्ट(ष्ट)> ष्टा- तद्^०
+वि-चेष्टित- १विरव^०
वि/च्छिद् > वि-च्छिन्न- ४अ^०, ता-
लन्तर^०, प्रसुप्त^०

+वि-च्छेद- ४अ^०, गति^०, प्रस्थि^०
+वि-च्छेदन- स्वकर्मन्^०
√विज्, > +विग्न- उद्^०, सम्^०
वेग- अनङ्ग^०, अम्बु^०, उद्^०, तीव्र^०,
नदी^०, पञ्चदुःखौघ^०, २पवन^०,
प्राण^०, १मनस्^०, वायु^०, २वास-
ना^०, विरमूत्र^०, सम्^०, समृद्ध^०
वि/जि > १वि-जय- अनन्त^०, वायु^०
शीतोष्णा...द्रा^०, सर्व^०
२वि-जय- गप्, पृ ७५७ द्र.
३वि-ज(य)> या- लक्ष्मी^०
+४वि-जय^१h- ३जयन्त^०
वि-जित- कृताय^०, तपस्^०
+वि-जिति- १पुरयलोक^०
वि/जृम्भ > वि-जृम्भण- उच्चभा-
ष्य^०, गुणदोष^०
+वि-जृम्भि(न्>)णी- १वान्^०
वि-जृम्भित- उदात्त^०, स्वान्तर्^०
वि/ज्ञा, > जा, ज्ञापि > वि-ज्ञानत्-,
वि-ज्ञात- ४अ^०
वि-ज्ञातृ- ४अ^०, अक्षरस^०
१वि-ज्ञान- ४अ^०, अद्रयानन्द^०,
अमित^०, अविशेष^०, आत्मन्^०,
आत्मस्वरूप^०, उत्त्व^०, एतद्^०,
गूढ^०, १ज्ञान^०, तत्त्व^०, धर्म^०, पक्क^०,
परमार्थैक^०, पारमार्थिक^०, पूर्णान-
न्दैक^०, बालमूकादि^०, बुद्धि^०,
बुद्धि^०, १ब्रह्मन्^०, ब्रह्मस्वरूप^०,
ब्रह्मात्मैकत्व^०, मति^०, महत्-
मुख्य^०, यद्^०, राममन्त्रार्थ^०, लक्ष-
णात्रय^०, वासनाक्षय^०, विशेष^०, वे-
दान्त^०, व्यङ्ग्याव्यङ्ग्य^०, शाश्वत^०,
शास्त्र^०, ६स^०, १सत्य^०, सदात्म,
कत्व^०, १स्वरूप^०
विज्ञान-घन- स्वात्मानन्दालु-
भव^०

३) गम्. (पृ ७५४) यनि। संख्यानिर्देशः द्र. १। ४) गप्. (पृ ७५४) १पावृत्ति इत्यत्र यनि. शोधः द्र. १।

o) 'विचिकित्सति' इति मा ४७, ६ (उ. टि. वैपश् मस्था.) । d) अख्याः सं. अपा. । e) 'विचक्षणम्' इति खि १०, १५१, ५ (उ. टि. वैपश् मस्था.) । f) मा ३२, १२; 'द्रो कम्' इति शौ २, १, ५; 'विचृत्' इति तैत्र्य १०, १, १४; JC. च । g) वैपश् यद. । h) द्र. गप्. पृ ३२५h ।

विज्ञान-मय- अत्रमय^०
 विज्ञान-वत्- ४अ^०
 विज्ञाना(न-आ)नन्द- १शिव^०
 +विज्ञानिन्- साक्षात्^०
 वि-ज्ञाप्य,वि-ज्ञाय ४अ^०
 वि-ज्ञेय- ४अ^०,विज्ञात^०, विराजासु-
 ...स्वरा^०, सु^०
 +वि/ज्वल- वि-ज्वलन्- ४अ^०
 वि(<>वि)डाल- स्त्री^०
 विडू(<>दू)र->वैदूर्य- कनक^०,
 १वज्र^०
 वि-त(था>)थ- ४अ^०
 वि/तन्>वि-तान- आबद्ध^०, छत्र^०
 +वितान-मात्र- किञ्चिल्लोभ^०
 +वितानित- शशसृष्टिम्ब...ल^०
 वि/तर्क>वि-तर्क- निर्^०, ६स^०
 वितल- अतल^०
 वि-तृ(ष्णा>)ष्ण- दृष्टानुश्रविकवि-
 षय^०
 वैतृष्ण्य- गुण^०, दृष्टश्रवणविषय^०,
 दृष्टानुश्रविकविषय^०, विषय^०
 √विद्(ज्ञाने),>वेदि, विविस्, विदुः
 नाप १५१: ८^०; विद्महे मउ ३,
 ५; ६; ९-११; १३; १४; १८.
 [अनु^०, आ^०, नि^०, निर्^०, परि^०,
 प्र^०, प्रति^०, विनि^०, सम्^०]
 +१वित्ति- सम्^०
 १वित्त्वा^०
 १विद्^०- अल्प^०, अहोरात्र^०, आत्म-
 न्^०, २आशा^०, इत्थम्^०, उक्थ^०,
 उत्तम^०, एवम्^०, २काल^०, काल-
 त्रय^०, कालवेलाविधान^०, कृत्न^०,
 गायत्री^०, गुण^०, चित्त^०, १ज्ञान^०,
 तत्त्व^०, तद्^०, १देव^०, देवजन^०,
 १द्वैत^०, नि^०, पद^०, परमाक्षर^०,
 परात्मन्^०, परावर^०, पाद^०, पारा-
 चार^०, पुर^०, १पुरुष^०, प्राण^०, बहु^०

१ब्रह्मन्^०, ब्रह्मविद्या^०, ब्रह्मात्मन्^०,
 भूत^०, मृगवह्निस्^०, भोक्^०, १मनम्^०
 मन्त्र^०, मार्ग^०, मूर्त^०, यज्ञ^०,
 २योग^०, १रूप^०, लोक^०, वयुना^०,
 १वाच्^०, १विज्ञान^०, विशेष^०,
 १विश्व^०, २वेद^०, वेदान्त^०, शिव-
 ज्ञान^०, शिवतत्त्व^०, १षडङ्ग^०, ६स^०,
 सकलयोग^०, सम्^०, सर्प^०, सर्व^०,
 सर्वान्तर...प^०, सूक्ष्म^०, सूत्र^०,
 सृष्टि^०, स्थिति^०, हंस^०
 +१विद- को^०, द्वि^०
 १विदान- सम्^०
 विदित- ४अ^०, अथर्वन्^०, प्रतिबोध^०,
 सम्^०, सु^०
 §विदित्वा श्चे ३, ८; ६, १५. [४अ^०]
 +१विद्य अनु^०, निर्^०
 विद्या- -द्याम् अशि ७०^{३४}. [०द्या-
 ४अ^०, अथर्वन्^०, अधि^०, अध्यात्म^०
 अन्य^०, अमृतकलश^०, अष्टन्^०,
 अस्मद्^०, आंगस्त्य^०, आचार^०,
 आत्मन्^०, १आदि^०, आश्रम^०,
 उक्त^०, कर्मन्^०, कादि^०, २कुल^०,
 कृत^०, क्षत्र^०, चक्षुष्मती^०, चाक्षुषी^०
 चाक्षुष्मती^०, चिन्तामणि^०, तेजस्^०
 तेजस्^०, त्रयी^०, त्रि^०, ३त्रिपुरा^०,
 त्रिपुरेश्वरी^०, १देव^०, नक्षत्र^०,
 नन्दि^०, निर्^०, पठितसिद्ध^०, १पर^०,
 परमशिव^०, १पुरुष^०, प्राण^०, प्राप्त^०
 १ब्रह्मन्^०, ब्रह्मविद्^०, भूत^०, मन्त्र^०,
 महत्^०, महाविद्येश्वरी^०, माया^०,
 मायादि^०, यथा^०, रसरहस्य^०, रा-
 जन्^०, २लीला^०, वास्तु^०, २वेद^०,
 शास्त्र^०, १शिव^०, शिवतत्त्व^०, श्री^०,
 सकल^०, १सत्^०, २सन्ध्या^०, सर्प-
 देवजन^०, सर्व^०, सर्वोपनिषद्^०, सा-
 दि^०, सिद्ध^०, सु^०, सुरभि^०, सौभाग्य-
 लक्ष्मी^०, २स्पर्श^०, हंस^०, हादि^०]

+विद्या-जाल- समस्त^०
 विद्या-धर- किन्नर^०, गन्धर्व^०
 +विद्या(द्या-अ)न्तर- २वेद^०
 विद्वस्- ४अ^०, पञ्चार्द्रतत्त्व^०, प्र^०,
 शास्त्र^०, स्वाश्रमो...चार^०
 +विवि(त्स>)त्सा- तत्त्व^०
 वेत्तु- अप्रिय^०, तद्^०, श्रीराजश्या...
 षद्^०, सर्व^०, सर्वशास्त्र^०, सर्वार्थ^०
 +वेदक^०- वेद्य^०
 १वेदन^०- ४अ^०, अहंत्व^०, आत्मन्^०,
 तत्त्व^०, दुराराध्यदेव^०, नि^०, परि-
 पूर्ण^०, प्रातिभ^०, १ब्रह्मन्^०, रस-
 तन्मात्र^०, सम्^०, सर्वात्मन्^०, स्ते-
 षितत्याग^०
 +वेदनीय- दृष्टादृष्टजन्मन्^०
 वेद्यत्- +वेद्यथा-, +वेद्यित्वा
 नि^०
 +वेदित- आ^०, गो^०, चिन्मयानन्द^०,
 नि^०, विनि^०, सम्^०
 वेदितव्य- सकृत्^०
 वेदितृ- गोभूमि...त^०
 +१वेदिन्, नी- आत्मन्^०, नि^०, वेदा-
 न्त^०, वेदार्थ^०, संवरसर^०, संताप^०
 +वेद्य नि^०, विनि^०
 वेद्य- अनुभवैक^०, अमितवेदान्त^०, अ-
 शेषवे...न्त^०, नि^०, महर्षि^०, विद्या^०
 वेदान्त^०, २षडर्ष्य^०, सम्^०, सर्व^०,
 सर्ववेदान्त^०, सर्वागमा...शेष^०
 √विद्(लाभे), >न्द् अनु^०, निर्^०, सम्^०
 वित्त- अनु^०, अल्प^०, दार^०, १भग^०,
 शिवायतन^०
 २वित्ति^०- -त्तये वृ ६, ४, २०^६.
 [०त्ति- ४अ^०]
 +२विरवा ४अ^०
 +२विद्^०- वसु^०
 +विदत्- +३विदान- सम्^०
 +२विद्य अनु^०, निर्^०

a) अख्या : सं. अपा. । b) गपू. (पृ७६१) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) मा ३१, १८ (तु. टि. वैपश् यस्था.) ।

d) अख्या : शै. अपा. । e) कर्तारि कृत् । f) भावे कर्तारि वा कृत् (गपू. [पृ७६३] यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । g) गपू. (पृ७६४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । h) 'कर्तवे' इति काठ ३५, १८ (तु. टि. वैपश् यस्था.) ।

+विन्द- +२विन्दु- गो°
+विन्न- निद्°
+४वेद- +२वेदन- निद्°
१वेदस्- -दः त्रिता २, २७९^b.
[°स- १विश्व°]
+वेदस- सर्व°

√विद्(सत्तायाम्) > विद्यमान- ४अ°

+√विद्(पीडायाम्), > ३विद्- प्रति°

√विद्(बधा.) > २विद्-

२वेद- -दान् जाब्वा २२°. [°द- ४अ°, अथर्वण°, अथर्वन्°, अधी- त°, आथर्वण°, आयुस्°, ऋग्थ- ...र्वण°, ऋच्°, कर्मन्°, गान्ध- र्व°, गो°, चतुर्°, त्रि°, १देव°, धनुस्°, ५न°, प्रति°, १ब्रह्मन्°, यजुस्°, वास्तु°, सर्व°, साङ्गोपा- ङ्ग°, सामन्°, स्वर°, स्वस्व°]
वैदिक- ४अ°, लौकिक°
+वैदिक-कल्प- १मूल°

+वेद-गायत्री-पादचतुष्टय-

व्याहृतिशि...त°

+वेद-तपस्- सर्व°

वेद-रहसि(क>)की^d-

वेद-विद्- ४अ°, सनकादिमहा- योगिन्°

वेद-वेदान्त- अशेष°, समस्त°, सर्व°

वेद-व्यास- श्री°

+वेद-ग्रन्त-चर्या- सर्व°

वेद-शास्त्र- सकल°

+वेद-शास्त्रे(त्र-इ)तिहास-पुरा- ण- समस्त°

वेदा(द-अ)ङ्ग- अरुण°

१वेदा(द-अ)घ- स्थिरादि°

वेदा(द-अ)न्त- अमित°, जैन°

२वेद°, सकल°, सर्व°

वेदान्त-श्रवणा(या-आ)दि- पुरुषप्रयत्नसाध्य°

+वेदा(द-अ)र्थ-वेदिन्- सर्व°
+वेदा(द-अ)विरुद्- विधिवद्- गुरुपदिष्ट°
२वेदिन्-
+२वेदस्- जात°

१विद्- √विद्(ज्ञाने) परि. द्र.

२विद्- √विद्(लाभे) परि. द्र.

१विद्- √विद्(ज्ञाने) परि. द्र.

विदत्- √विद्(लाभे) परि. द्र.

वि/दह् > +वि-दाहिन्- कटु°

१-२विदान- गप्. पृ ७६७ द्र.

३विदान- √विद्(लाभे) परि. द्र.

वि-दिश् > +विदिक्-कोण- अष्टारच- कायन्त°

+वि-दूर- ४अ°, अति°, ३कल्प°

वि/दृ > +वि-दारिन्- वैरिन्°

१वि-देह- महत्°

२विदेह- कारी°

विदेह-मुक्त- जीवनमुक्त°

१विद्य √विद्(ज्ञाने) परि. द्र.

२विद्य √विद्(लाभे) परि. द्र.

वि/द्युत् > वि-द्युत्- खद्योत°, रघन°, चम्पक°, दीपज्वाला°, महा- न्धकार°

+वि-द्युत्- सङ्कत°

+वि-द्योत- ओंकाराग्र°, तुरीयोका- राग्र°

वि/द्वु > +वि-द्रावि(न्)णी- सर्व°

विदुम- कुञ्ज°, मणि°

+वैदुम- स्वर्ण°

विदुम-रुता- दोला°, शतकुञ्ज°

वि/द्विष् > २वि-द्वेषण- १मारण°

√वि(, <व्य)घ्(बधा.) अति°, अनु°, अप°

विद्ध- ४अ°, अप°, अस्मीतिशब्द°, दिग्घ°, १पाप°, शब्द°

वेध- महत्°

+वेध(त)नी- पत्र°

वि/धा > वि-ध, धा- अनु°, अष्टन्°, उभय°, एक°, एतद्°, एवम्°, २कति°, कीदृश्°, चतुर्°, चतुर्द- शन्°, चारक°, तथा°, तेजोमरुड- ल°, त्रयोदशन्°, त्रि°, दशन्°, द्वि°, नाना°, पञ्चन्°, १पुरुष°, पृथक्°, बहु°, वि°, षष्°, सप्तन्°, सर्व°

वि-धान- ४अ°, अर्चन्°, ऋच्°, कालवेला°, देशिकोक्त°, पितृयागो- क्त°, पूजा°, पूर्वोत्तर°, १ब्रह्मन्°, यथा°, याग°, शास्त्र°, खगुह्योक्त°

+वि-धायक- आशापाश°

वि-धि- ४अ°, अनुष्ठान°, अभ्यास°

अर्चा°, अशक्योपदेश°, आच- मन°, आहुति°, १उपासन°, ऊर्ध्व- पुरङ्ग°, कर्मयोग°, कल्पोक्त°, गुरु- पूजा°, तद्°, त्रिपुरङ्ग°, पञ्चतत्त्व°, पुरश्चरण°, पुरश्चर्या°, पूजा°, भस्मस्नान°, भेद°, मन्त्रावृत्ति°, मोक्षसाधनोपदेश°, यथा°, १यथो- क्त°, याग°, २योग°, योगाभ्यास°

रुद्राक्षधारण°, विष्णु°, वेदोक्त°, शब्द°, संन्यास°, सहकार्यन्तर°, साक्षात्°, सेवा°, स्व°, स्वाश्रमोक्त°

विधि-निषेध- अशेष°, भगवद- नन्तविभूति°, विधूत°, वेदोक्त°

+विधि-पूर्वक- ४अ°

वि-धेय- पितृमातृ°

वि-हित- ४अ°, अथर्वन्°, २कालि- का°, तत्तद्देह°, धर्म°, २वेद°, वेदतरवार्य°, शास्त्र°, स्वाश्रम°

विहित-कर्मन्- १नित्य°

विधारण- वि/धु(परि.) द्र.

विधु- अर्क°

+वि-धुर- पद्मवि...द°

+वैधुर्य- कायक्लेश°

वि/धू > वि-धूत- अवकाश°

a) गप्. (पृ ७६४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. 1 b) ऋ १, ९९, १1 c) ऋध्याः शै. अपा. 1 d) गप्. (पृ ७६५)

'वेद-रह(सक>)सिकी-' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. 1 e) गप्. (पृ ७६७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. 1 f) धा. अर्थः ? =वेधस्- 1

वि/धृ, > धारि > +वि-धर्तु- -तारम्
मउ ९, ५९^४.

+वि-धारण- छर्दिं, प्रच्छर्दनं

वि/ध्वंस > +वि-ध्वंसन- उद्योगं,
डाकिनी

वि-ध्वस्त- १विज्ञानं

वि/नश(अदर्शने) > वि-नश्यत्-
४अ°

वि-नाश- ४अ°, अश्लेष°, उत्पत्ति°,
कंसवंश°, कुक्षिरोग°, जन्मन्°,
जरा°, दोष°, विषयवासना°,
संसार°, सर्वज्वर°, सर्वपाप°, सर्व-
भूत°, सर्वरोग°, स्व°, हृदयस्थि-
...ग्रन्थि°

+वि-नाशन^२- आवरण°, धातुगत-
दोष°, महारोग°, वातनाडी...
ग°, विषरोग°, सकलविष°, सर्व-
दुःख°, सर्वाघौष°, सुख°

वि-नाशिन, नी- क्षण°, जन्मन्°,
भवबन्ध°, विघ्न°, महाभय°, व्या-
धि°, सर्वव्याधि°

विना ४अ°

+वि-नि/प्रह् > विनि-प्रह- आत्मन्°

+वि-नि/मे > विनि-मय- किञ्चिद्°

वि-नि/युज् > विनि-योग- सायु-
ज्य°, स्ववाञ्छा°

वि-निर्/गम् > विनिर्-गत- यव-
मात्र°

+विनिर्-गम- सर्प°

वि-तिर्/णी(<नी) > +विनिर्-
णय- कार्याकार्य°

+वि-निर्/मा(माने) > विनिर्-मित-
गुणत्रय°, महाशिल्पिन्°, माता-
पितृ°, वास्तुविद्या°, संकल्पैक°

वि-निर्/मुच् > विनिर्-मुक्- अ-
खिलोत्साधि°, उपाधि°, एतद्-
भाव°, कारागार°, कारागृह°,
गुरुशि...दि°, चित्तवृत्ति°, जन्मब-
न्ध°, जरा°, जाग्रद्विदा°, जाड्य°,

जाड्यभाव°, ज्ञानयोग°, पञ्चदोष°,
पक्षुपात°, १पाप°, बन्धयोग°,
बाह्यकर्मन्°, भावाभाव°, भावा-
भावकला°, भूयोजन्मन्°, भेद-
बन्ध°, माया°, १मायोपाधि°, लो-
भमोह°, शोकमोह°, श्रमदाह°, प-
ट्कोश°, १सर्वकर्मन्°, सर्वक्लेश°,
सर्वदोष°, सर्वपाप°, सर्वरोग°, स-
र्वावस्था°, सर्वैपरणा°, सर्वोपाधि°

वि-नि/वृत् > विनि-वृत्त- सतरूप°
विनि-वृत्ति- ४अ°, प्रधान°

+वि-नि(स्)श्-चल- १नित्य°

वि-नि(स्)श्/चि(ज्ञाने) > वि-
निश्-चय- आत्मन्°

वि/नी > वि-नय- विद्या°

वि-नायक- अष्टन्°, २माधव°

वि/नुद् > वि-नोद्- १काम°°
क्रीडा°, वेणुनाद°, श्रीराधारसि-
कानन्द°, हास्य°

+वि-नोदन- १निदाघ°

+वि-नोदिन्- १शृङ्गाररस°

विन्द- √विद्(लाभे) परि. द्र.

१विन्दु- =विन्दु- (परि.)

२विन्दु- √विद्(लाभे) परि. द्र.

विन्ध्य- महत्°

विन्ध्य(नि/अ)स्(क्षेपणे) > विन्ध्य-
(नि-अ)स्त- भूमि°, रूपक°

विन्ध्या(नि-अ)स- उत्तम°, भूमिका-
द्वय°

वि-पक्ष- पक्ष°

+वि/पच् > वि-पाक- क्लेश°,
तद्°

वि/पद् > +वि-पत्ति- १इष्ट°, प्राण°

वि-परी [रि/इ(गतौ)] > विपरी-
(रि-इ)त- तद्°, संशय°

+विपरीत-भ्रम- अनादिसंसार°

विपर्य(रि-अ)य- ४अ°, तद्°, त्रिगु-
णादि°, त्रैगुण्य°, निर्देश°, प्रमा-
ण°, १बन्ध°, शक्ति°

वि-पर्य(रि/अ)स्(क्षेपणे) > विपर्यो-
(रि-अ)स- तद्°, देहात्मत्व°

विपश्चित्- ४अ°

+वि/पा(पाने) > वि-पीत- गर्दभी°

वि/पुल् > वि-पुल- > +विपुल-च्छ-
त्र- शेषायुतफणाजाल°

विप्र- १देव°, ५न°

+वि-प्र/कृष् > विप्र-कृष्ट- सूक्ष्म°°

वि-प्रति/पद् > +विप्रति-पत्ति- वा-
दिन्°

+विप्रति-पन्न- २श्रुति°

वि-प्र/लभ् > म्भ् > विप्र-लम्भ-
निद्रासंभावित°

+वि/प्लु > वि-प्लव- ४अ°

वि-फल- किञ्चित्तो...त्र°

वि/भज् > वि-भक्त- ४अ°

वि-भक्ति- आख्यात°°

वि-भाग- ४अ°, अंशत...भेद°,
ऋग्वेदादि°, कारणकार्य°, गुण-
कर्मन्°, दिवारात्रि°, निर्द्, बन्ध-
मोक्ष°, भूत°, भूतविकार°, मन्त्र°,
मूलमन्त्र°, रहस्योपनिषद्°, संव-
त्सरादिकाल°, सालोक्यादि°

+विभागै(ग-ए)क- देहदेहिन्°

वि/भा > वि-भात- ४अ°, सकृत्°,
सु°

+विभाण्डक^१- > विभाण्डक-मुनि-
गुरु°

विभाविनी- वि/भू(*बधा.) परि. द्र.

वि/भिद् > भेदि > वि-भेद- ४अ°,
तेजोरस°

+वि-भेदक- गुणत्रयस...त्र°, ग्रन्थि-
त्रय°

+वि-भेदन- ग्रन्थित्रय°

वि/भी > भीषि > वि-भीषण-

सुग्रीव°

वि/भू(*बधा.), > भावि > वि-भव-
-अनन्त°, दृष्ट°, नाना°, परम°,
स्वानन्दमयानन्ताचिन्त्य°

वैभव- कोटिसूर्यप्रकाश°
 वि-भावन- नम् भा ३२°.
 वि-भावित- ४अ°, ब्रह्मेन्द्ररूपादि°,
 यावकरस°, सर्वागमान्तार्थ°
 +वि-भावि(न्>)नी- अरिष्टकारि-
 णी°
 वि-भु- एक°, सर्व°
 वि-भूति- अणिमादि°, अनन्त°,
 अनन्तचिद्विलास°, आत्मन्°,
 आनन्द°, त्रिपाद्°, दग्धकामाङ्ग°,
 निरतिशयान...रम°, निर्मल°,
 परम°, परमतत्त्व°, परमानन्द°,
 पाद°, १ब्रह्मानन्द°, महत्°, वि-
 द्या°, विलास°, विविधविचि...
 लास°, शिवभक्त...स्त°, शुद्धबो-
 धानन्द°, सकल°
 +विभूति-पुरुष- आत्मसमा-
 नानन्द°
 +विभूति-विशेष- अद्भुतान-
 दाश्चर्य°
 वि/भूष>वि-भूषण- १अङ्ग°, ग-
 न्ध°, मुक्ताहार°
 वि-भूषित- अमर°, अर्धचन्द्र°,
 अष्टाक्षरीपद्म°, आनन्दवन°, गुञ्जा-
 हार°, चक्रको...ञ्ज°, धृष्ट्याष्टक°,
 पञ्चाशदक°, पुष्पाश्रम°, मुक्ताम-
 णि°, मेखलादि°, हेमरत्न°
 +वि/भ्रंश>वि-भ्रष्ट- उभय°
 वि/भ्रम्>वि-भ्रम- कौतुक°, चित्त°
 चित्तादि°, जराभरण°, नाना°, मा-
 याभारत°, श्रुतिस्मृति°, संसृति°,
 सु°, रसृति°
 वि-भ्रान्त- अनेकचित्त°, कर्मन्°
 +वि-भ्रान्ति- जीव°
 वि/मन्थु°
 वि-मल- अति°
 वि/म(माने)>वि-मान- अखण्ड-
 बोध°, अनन्त°, अनन्तशुद्धबोध°,
 अनन्तानन्द°, आनन्द°, आनन्दा-

मृ...ल°, दिव्य°, खज°, परमा-
 नन्द°, प्रणव°, प्राकार°, बोधा-
 नन्द°, ब्रह्मानन्दमय°, महत्°,
 महारथ°, शुद्धबोध°, शुद्धानन्द°
 +विमान-च्छत्र-ध्वज- दिव्य°
 विमाना(न-आ)दि- वैकुण्ठ°
 विमाना(न-आ)वलि- अनन्त°
 +वि-मित- प्रभु°
 +वि-मुख- मङ्गकि°
 वि/मुच्>मोक्ष>वि-मुक्त, का-
 ४अ°, कायिकादि°, कालत्रय°,
 जीवत्°, देशकाल°, द्वैतभाव°, नाम-
 रूप°, नास्तित्वास्ति°, १नित्य°,
 रागद्वेष°
 वि-मुक्ति- दुःख°, मन्दबुद्धि°, संसार°
 +वि-मोक्ष- जाळ्य°
 वि-मोक्ष- ४अ°, १पुरुष°, प्रतिपु-
 रुष°
 +विमोक्षा(त्-अ)न्त- जाग्रदा-
 दि°
 +वि-मोक्षण- पशुपाश°, वायु°,
 शरीर°
 +वि-मोचक- पशुपाश°
 +वि-मोचन- भवबन्ध°, मर्मप्राण°
 संसार°, सर्वदुःख°
 वि/मुद्>मोहि>वि-मूढ- अहं-
 कार°, इन्द्रियार्थ°, सर्वज्ञान°
 +वि-मोहित- १अज्ञान°
 वि-मोहि(न्>)नी- भोगतृष्या°
 वि/मृग्>गि>वि-मृग्य- अनन्तो-
 पनिषद्°
 वि/मृद्>वि-मर्द- गुणवैषम्य°
 +वि-मर्दन- पुरण्यपाप°
 वि/मृश>वि-मर्श- -र्शःभार२°.
 वि-यत्->+विथंद्-विम्बु-नाद-
 अन्त्याङ्ग्रीश°
 वि/युज>वि-युक्त- कामक्रोध°,
 तद्°, प्राणायाम°, रागद्वेष°
 वि-योग- १इतर°, १इष्ट°, ज्ञानिक°, १

त्याग°, दुःखसंयोग°, खेष्टबन्धु°
 वि/रञ्ज>वि-रक्त- ४अ°, अति°,
 तत्त्वद°, धर्माधर्म°
 वि-राग- १राग°
 वैराग्य- ४अ°, अत्यन्तपक्व°,
 अन्तर्°, अभ्यास°, औदार्य°, क-
 र्मन्°, गमन°, १ज्ञान°, तद्°,
 तितित्ता°, १दृढ°, धर्म°, ध्या-
 न°, २भक्ति°, विवेक°, शास्त्रस-
 जनसंपर्क°, शोक°, सर्व°, स्वी-
 कृत°
 +वैराग्य-बल- उत्पन्न°
 +वैराग्या(ग्य-अ)भ्यास-यो-
 ग- शास्त्रसजनसंपर्क°
 वि/रम्>+वि-रत- ४अ°
 वि-रति- अर्थ°
 +वि-रम- समाधि°
 +वि-रस- भुक्त°
 वि/रह>वि-रहित- आख्यायिका°
 श्रद्धा°
 वि/राज>वि-राज- अण्ड°, दीर्घ°
 महत्°, स्थूल°, स्वराज°
 वैराज- वैरुप°
 विराट्-पुरुष- अण्ड°, १आदि°
 +विराट्-स्वरूप- अण्ड°, १आ-
 दि°, सर्वकारणमूल°
 वि-राजमान- तिर्यक्त्रिपुरद्वरेखा°
 वि-राजित, ता- तप्तकार्तस्त्र...य°,
 हुहियादि...लि°, नानाविधस्त्र्य-
 लंकार°, पूर्वप्रस्थि°, महाचीनगुरु-
 ...श्रा°, रत्नश्रेणि°, वृषभाकृति°
 वि/रिच्>वि-रेचन- अर्च°
 विरिञ्चि- स्वसिद्ध°
 वि/रुध>वि-रुद्ध- ४अ°, अत्यन्त°,
 धर्म°, परस्पर°
 वि-रोध- ४अ°, अद्वैतश्रुति°, अन-
 न्त°, कर्मकर्तृ°, इकरूपना°, गम-
 न°, गुणवृत्ति°, त्रिविध°, निर्गु-
 णादिश्रुति°, प्रमाण°, रयोग°, १

१श्रुति° श्रुतिन्याय°, समस्तस्वरूप°, साका...द°
वि-रोधिन्- धर्म°
वि/रुह् > +वि-रुह- सु°
वि-रूप- > +विरूपा(प-अच) > क्षी-चन्द्रघण्टा°
वि-लक्ष्ण- ४अ°, तद्°, तदुभय°, द्वैताद्वैत°, परस्पर°, भास्य°, सदसत्°, सर्व°
वि/लङ् > +वि-लङ्घन- गुरुवाक्य°
वि/लस, > लासि > वि-लसत्- अखण्डान...र्गत°, मुद्रापु...ग°
वि-लास- क्षणशून्या...द्या°, खेद° १चित्°, चिद्रूप°, जगत°, नानालीलाविग्रह°, निरतिशयविक्रम°, परम°, परमकल्याण°, १मनस्°, महामाया°, योगमाया°, रसिकानन्द°, १वाच्°, विलय°, विविधवि...द्या°, शुद्धचि...ह्यन्°, ६स°
 +विलास-वच्- अति°
 +विलास-विभूति-विशेष- अनन्तपरम°
 +विलास-विग्रह- अधिष्ठानवि...ह्यन्°
 +विलास-विशेष- परम°, परम-मूर्ति...त्व°
 १विलासिन्-
 +वि-लासित- नानालीला...स°
 +२वि-लासिन्, नी- गतिरति°, ध्ये-यत्याग°
वि/लिख् > +वि-लेखन- प्रचारण°
वि/लिप् > +वि-लिस- श्रीचन्दन°
वि/ली, > लापि > वि-लय- अहंकार°, उपाधि°, दृश्य°, निःशेष°, बुद्धि°, मनोहंकार°, माया-तत्कार्य°, २वासना°, विच्छिन्नशरदभ्रांश°, शरदभ्रांश°
वि-लापन- आत्मन्°

वि-लीन- अन्तर्लक्ष्य°, सकल°
वि/लुप् > म्प > +वि-लुम्पक- अ-स्मद्रसु°
वि/लोक् > +वि-लोकन- बन्धा-यास°
वि-लोम- अनुलोम°
विवक्षा- √वच् (परि.) द्र.
वि/वद् > वि-वाद- ४अ°, कर्मन्°
वि-वश- ४अ°
 वैवश्य- १आशा°
 +विवशी/कृ(करणे) > विवशी-कृत- २वासना°
 +विवशी/भू > विवशी-भूत- > विवशीभूत-१क्षो(स्-अ)धिना-थ- दम्भोलिस्त...रण°
वि/वस् (*बधा.) > वि-वस्वत्- धातु°
वि/वह् (बधा.) > +वि-वाह- श्री-गौतम°
वि/विच् > वि-विक्त- अति°
 वि-वेक- ४अ°, आत्मज्ञान°, आत्म-न्°, आत्मानात्मन्°, जात°, २दे-हात्मन्°, नवचक्र°, २नित्यानित्य°, प्राप्त°, मध्य°, विधिनिषेध°, स्व°
 विवेकिन्- ४अ°
 +वि-वेक्य- पृथक्°
 +वि-वेचन- अन्तःपदार्थ°
विवित्सा- √विद् (ज्ञाने)परि. द्र.
वि-विध- अदृष्ट°, कुत्सित°, खाय-पे...ह्य°
 +विविध-भूषा- विष्ट°
 +विविध-विचित्रा(त्र-अ)नेक-शु-भा(भ-अ)शुभ-प्रारब्ध-कर्मन्-तत्तद्देहविहित°
 +विविध-षट्-रस- २शाक°
 +विविधा(ध-आ)कल्प- मुकुटाङ्ग-दादि°
वि/वृ (*बधा.) > वि-वर- कपाल°, तद्°, द्वार°, १धरा°, राजदन्ता-

वलम्बिनी°, शङ्खिनी°
 +वि-वरण- महावाक्य°
वि/वृज् > वर्जि > +वि-वर्जन- कालत्रय°, तापत्रय°, सर्वकार्य°
 +वि-वर्जित- अणुमात्र°, अन्यचि-न्ता°, आत्माना...भेद°, इहा-मुत्र°, उत्पत्ति...ज्ञान°, एकात्म-त्व°, कलाकाष्टा°, १काम°, काम-राग°, कालत्रय°, गत्यादि°, गम-नादि°, गुण°, चतुर्थांश°, जन्तु°, तद्°, तुरीयादि°, द्वैताद्वैत°, नाम-रूप°, नास्तित्वादि°, पञ्चकोश°, परवाद°, परापर°, परामर्श°, १पा-प°, २पार°, पुरयपाप°, पुनर्जन्मन् पूज्यपूजा°, प्राणकोश°, बन्धमो-क्ष°, भूयोजन्माङ्कुर°, मुक्तामुक्त°, रसबुद्धि°, रेचपूर°, लक्ष्यादि°, लाभालाभ°, वर्णाश्रम°, विजा-तीयविशेष°, विज्ञानादि°, १विश्व°, व्यवहार°, शब्द°, शब्दविद्ध°, शर्करादि°, शर्करावह्निवालुका°, शु-भाशुभ°, शून्याशून्य°, संकल्प°, सङ्ग°, सर्वचिन्ता°, सर्वचेष्टा°, सर्व-दोष°, सर्वध्यान°, सर्ववाच्य°, सर्व-वृत्ति°, सर्वसङ्ग°, सर्वसंज्ञा°, सर्व-सिद्धि°, सर्वाभास°, सर्वासर्व°, सर्वेन्द्रिय°, सर्विकल्प°, सूक्ष्मदेह°, स्वयंभाव°
वि/वृत् > +वि-वर्त- १चित्°, तद्°
वि/वृध् > +वि-वर्धन- आयुःप्रज्ञा°
 आयुःसत्त्वब...ति°, देहानल°, बलारोग्य°, शरीरामि°, जाठ-रामि°
 +वि-वर्धिन्- जाठरामि°
वि-वृद्धि- आत्मन्°, १वत्स°
विश, > वैशि अनु°, अनुप्र°, अन्वा°
 अभिनि°, अभिसम्°, आ°, उदु-त्प्र°, उप°, उपा°, उपोप°, नि°;

परिणि^०, प्र^०, प्रा^०, वि^०, विनि^०,
संनि^०, सम्^०, समनुप्र^०, समा^०,
समुप^०, संप्र^०
विश्व- उप^०, प्र^०
+विशमा(न>)ना- नि^०
+विश्य अनुप्र^०, आ^०, उप^०, नि^०,
प्र^०, समुप^०, संप्र^०
विष्ट- अनुप्र^०, आ^०, उप^०, उपा^०,
नि^०, प्र^०, शिपि^०, संनि^०, सम्^०,
समनुप्र^०, समा^०
+विश- अभिनि^०, आ^०, प्र^०, प्रति^०,
संनि^०, संप्र^०
+वेश(न>)नी- +वेशयत्- नि^०
+वेशया- प्र^०
+वेशयित्वा उप^०, नि^०, प्र^०
+वेशित- आ^०, नि^०, विनि^०
+वेश्य आ^०, नि^०, संनि^०, समा^०
+वेष्टुम् प्र^०
+वेष्टु- उदुत्प्र^०
१विश्व->विशाम्->+विशां-पति-
भुवनाधिपति^०
२विश्व- १ब्राह्मण^०
वैश्य- १ब्रह्मन्^०, १ब्राह्मण^०
+वि/शङ्क->वि-शङ्क- निर्^०
+वि-शङ्कित- ४अ^०
विशद- रत्नोष्ण^०
१विशा(ख>)खा- २ललितता^०
+विशाखा(खा-आ)श(दि-आ)नेक-
सखी- १कुजान्तर^०
विशारद- १ब्रह्मन्^०, युद्ध^०, २योग^०,
सर्वशास्त्र^०
वैशारथ- निर्विचार^०
विशाल,ला- अण्डभित्ति^०, अयुतायु-
...न^०, तमस्^०, १दीप्त^०, रजस्^०,
सत्त्व^०
वि/शिष्->शेषि->वि-शिष्ट- ४अ^०,
आकृति^०, ओघत्रयनामन्^०, करच-
रणादिमूर्ति^०, नवनाथनामन्^०, सुख^०

वि-शेष- ४अ^०, अखराडचि...न्द^०,
अखराडतेजोमण्डल^०, अखराड-
परमानन्द^०, अखराडानन्दामृ-
त^०, अदृष्टाशु...न्त^०, अधिकार-
र^०, अधिष्ठान^०, अनन्तपरमा...
ष्टि^०, अनन्तबोधसौध^० प्रमृ.
वैशेष्य- ४अ^०, अवस्थिति^०
+विशेष-भूत-पर्यन्त- महदा-
दि^०
+विशेषां(ष-अं)श- अशेष^०
वि-शेषण- अनन्तमहामाया^०, सा-
मान्य^०
वि-शेषित- अनन्तमहा...ण^०, स-
जातीयविशेष^०
वि/शुष्->१वि-शुद्ध- ४अ^०, गुरु-
भक्ति^०, १नित्य^०, १फल^०, मस्-
ज्ञान^०, सु^०
१वि-शुद्धि- ४अ^०, आत्मन्^०, सर्व-
पाप^०
+वि-शोधिन्- सर्वपाप^०
+वि-शून्य- ईषन्मात्र^०
वि/श्रम्->वि-श्रान्त- ४अ^०, ताप-
साश्रम^०, श्रम^०
वि-श्रान्ति- अनुत्तम^०, १तुर्य^०, निरं-
शय्यान^०
+वि/श्लिष्->वि-श्लेष- १पुत्र^०
१विश्व- -इवम् सुं २, १, १०१^०; शा
३२३: ३^b; -इवा मउ ९, ४९^०;
-इवानि मउ ९, ७९^०. [०इव-
४अ^०, अखिल^०, अनुष्णायु^०,
२जाग्रत्^०, तुरीय^०, तैजस^०, २प्रा-
ज्ञ^०, १विश्व^०, सर्व^०, सुषुप्त^०, स्वप्न^०
+विश्व-जन- सर्वजन^०
विश्व-देव->वैश्वदेव^{१२}- ४अ^०,
बलि^०
१विश्व-रूप- मद्^०, श्रीरामता...
ह्वन्^०
वि(श्व>)श्वा-नर->वैश्वानर- -र:

मउ ३, ६.
वि(श्व>)श्वा-मित्र- २वसिष्ठ^०
विश्व(श्व-ई)श- १तार^०
+विश्व(श्व-ई)श्वरा(र-अ)र्चन- लक्ष्ण^०
वि/श्वस्->वि-श्वास- सीता^०
√विष्(वधा.) परि^०
विष्- मांस^०
+विष्-मूत्र- अस्थि^०
१विष्- कालपाश^०, लुत्तृषा^०, इष्टि^०,
निर्^०, भूतप्रेतपि...रोग^०, महोप्र^०,
व्याघ्रमु...ला^०, सकल^०, सर्प^०,
सर्व^०, सर्वव्याधि^०, स्नेह^०
+विष्-भूत-रक्ष-कृत्या- सर्व^०
+विष्-विषूचिका- तुष्णा^०
+विष्यमाण- +२वेष्टु- परि^०
वि/ष(<स)द्->वि-षाद- १काम^०,
जरा^०, प्रीति^०, हर्ष^०
वि-ष(<स)म->वैषम्य- गुण^०, वि-
षय^०, साम्य^०
विषम-ज्वर^{१२}- अतिभयंकरज्वर^०
विषय- ४अ^०, भूमिका^०, न्द्रिय^०, अती-
त^०, अनिष्ट^०, अनुभूत^०, अन्य^०,
अबाधितब्रह्मसुख^०, आकाशका-
...ण^०, आत्मन्^०, १इष्ट^०, कर्म-
ज्ञानेन्द्रिय^०, २काल^०, २जाति^०,
जैवतन्मात्र^०, १ज्ञान^०, तत्तत्कर्म-
फल^०, तत्तद्^०, तद्^०, त्रैगुण्य^०, दृष्ट-
श्रवण^०, दृष्टानुश्रविक^०, देह^०, द्रव्या-
दि^०, निर्^०, पञ्चन^०, पुङ्गवानुपङ्ग^०,
पृथिवीका...य^०, प्रति^०, प्रयोग^०, प्रा-
णतन्मात्र^०, बाह्यस्थ^०, बाह्याभ्य-
न्तर^०, १ब्रह्मन्^०, ३भावना^०, १य-
म^०, रज^०, १राग^०, वस्तु^०, १वाच्^०
वायुकार्यप्राणादि^०, विदेहमुक्ति^०,
विद्या^०, विशेषाविशेष^०, शब्द^०,
शब्दादि^०, शब्दाद्यर्थ^०, सकल^०,
समस्त^०, सर्व^०, सर्वथा^०, सुख-
दुःख^०, सुखदुः...ख्य^०, सूक्ष्म^०

a) 'सुर्वम्' इति ऋ १०, ९०, २ (तु. टि. वैपश् यस्था.) । b) अज्याः सं. अपा. । 0) मा ८, ३६ ।

d) ऋ ५, ८२, ५ । e) बप्रा. द्र. =विप., वकार-बीजाक्षर- ।

+विषय-ग्रहण- १एकरूप°
 +विषय-जन- असत्संसार°
 +विषय-ज्ञान- ४अ°
 +विषय-देवता-कोश-भेद- अंश-
 त...भेद°
 +विषय-संप्रयोग- स्वस्व°
 +विषय-सुख- अविद्यमानफल्यु°
 विषया(य-आ)सङ्ग- निरस्त°
 +विषयो(य-उ)पराग- अनादि°
विषाण- खुर°,शश°
विषु>विष्व(षु/अ)च् >विष्व-
 (षु-अ)च्->विष्वक्-सेन- अ-
 नन्त°°, १शङ्ख°°
 +विषूचिका^{१६}- १विष°,तृष्णा°
वि-ष्टप- त्रि°
वि/ष्ट (<स्त)म्भ > +वि-ष्टब्ध-,
 +वि-ष्टम्भ- त्रि°
 +वि-ष्टम्भन- ४अ°
रविष्टा- अल्प°,सूकरी°,स्व°
विष्णु- णवे मै ६, ३५^{१०} [°ष्णु-
 ४अ°,अति°,अरुण°,१आदि°,
 दशन°,पीठ°,१ब्रह्मन°,महत्°,
 वायु°,विरिञ्चि°,श्री°,सदा-
 शिव°°
 वैष्णव- ४अ°,श्री°
 +वैष्णव-दिश्य-तेजोराशि-
 अखण्डानन्दामित°
 +वैष्णव-पीठ- आधारश-
 क्त्यादि°
 +विष्णु-ज्वर^{११}- अतिभयंकरज्वर°°
 +विष्णु-नेत्र- वामपादाचित°
 विष्णु-भक्त- ४अ°
 विष्णु-लिङ्ग->विष्णुलिङ्गिन्- -ङी
 शा ३२३: ४°.
 विष्णु(<>स्फु)लिङ्ग-धूम°°,सृद्°°
वि/सृ>+वि-सृत- अर्चिर्माण°,
 धूममार्ग°
वि/सृज्,>सर्जि>वि-सर्ग- वच-

न°°,६स°
 +विसर्ग(-क)- ६स°
 वि-सर्जन,नी^{१२}- एकान्त°,१भोग°,
 विरमूत्रादि°,स्थूलदेह°
 +विसर्जन-पर- ५न°
 वि-सर्जयितव्य- ४अ°
 +वि-सर्जित- आत्ममाया°
वि/स्तृ,स्त्वृ>वि-स्तर- ग्रन्थ°,
 २त्रिगुण°,२न्याय°,१भृगु°,मी-
 मांसान्याय°,सु°
 वि-स्तार- अलब्ध°,आकृति°,आ-
 याम°,१ज्ञान°,तल्लोक°
 वि-स्तीर्ण,र्णा- अणुकोटर°, त्रिको-
 टियोजन°,दशकोटियोजन°, द्वि-
 हस्त°,द्विहस्तमात्र°,पञ्चयोजन°,
 पाद°,सप्तकोटियोजन°,सु°
 +वि-स्वृत- चतुरङ्गुल°
वि/स्फुट्>+वि-स्फुट- ४अ°,
 सु°
 +वि-स्फोटक^{१३}- २गण्ड°, शिर:-
 शूल°°
वि/स्फुर>+वि-स्फुरण- तारक-
 योग°
वि/स्मि>वि-स्मित- अति°
वि/स्मृ,>स्मारि>+वि-स्मरण-
 तद्°,वृत्ति°,स्वशरीराभिमानदेश°
 +वि-स्मारण- अन्यधर्म°
 वि-स्मृति- आत्मन्°,ध्यान°
 वि-स्मृत्य ४अ°
वि/हन्>+वि-घात- ४अ°,दु:ख°
 +वि-घाति(न्)>नी- दुराचार°
 वि-घ्न- त्रिविध°, निर°, महत्°,
 १मोक्ष°,२योग°,१विष°,श्रेयस्°,
 संन्यास°,सर्व°
 विघ्ना(घ्न-अ)न्तक- पद्मान्तक°°
वि/हा(त्यागे)>वि-हीन- अन्नको-
 श°, आचार°, आदिमथ्यान्त°,
 भानन्दादि°, एकसंख्या°, कार-

णादि°, चराचर°, गुणागुण°,
 गुरुभक्ति°, चित्तवृत्ति°, तद्°, त-
 पस्°,तुल्यातुल्य°,देहत्रय°, देह-
 भाव°, द्वैताद्वैत°, ध्यातृध्यान°,
 नामरूप°, रनित्यानित्य°, पुरय-
 लेश°, बन्धमुक्ति°, ब्रह्मविज्ञान°,
 भानाभान°,भावाभाव°,मङ्गलि°
 मन:कोश°,मातृमान°, लक्ष्याल-
 क्ष्य°,लोकत्रय°, विकारादि°,शि-
 वभक्ति°, षड्विकार°, सदसत्°,
 संपूर्णभावाभाव°, सर्वदृश्य°,सर्व-
 वृत्ति°,सर्वासर्व°, सर्वेन्द्रिय°,सा-
 द्यवस्तु°,स्थूलदेह°
विहायस्->विह->विह-ग- मयूर-
 कोकिलसारस°,शनि°°
 विहं-ग- नर°
 +वि/हिंस>वि-हिंसक- ४अ°
 +वि-हिं(स)>सा- १राग°°
वि/ह्>+वि-हरण- १गुहा°,नमस्°,
 वचन°°,स्वैर°
 वि-हार- अद्वयपरब्रह्मन्°, अनन्त°,
 अनिर्वचन°, अविद्या°, आदि-
 द्वादशधन°, आनन्द°, आहार°,
 कलरासज्ञान°,कुञ्जान्तरवि...खी°,
 क्रीडा°,गृहवन°, १नित्य°,महा-
 वन°,यमुनाजलकल्लोल°,लक्ष्मी-
 टि°,रललिता°,वन°,वनावनि°,
 सदा°,सु°
 +विहार-देह- अनेक°
 +विहार-लीला- महावन°
 +विहार-संस्थान- परम°
 वि-हारिन्- अव्याकृत°, अमितान-
 न्दा...रि°, कुञ्ज°, क्रीडावन°,
 बुन्दारण्य°,बुन्दावन°, बुन्दावन-
 श्रेणि°,महालीला°,१रति°,वन°,
 संकेत°
 +विहारि-ता- भाषा°°
वि/हल्ल>वि-हल्ल- सु°

a) व्यु: ?=रोगविशेष- । b) 'दृष्टये' इति मा ४०,१५ (तु. टि. वैपश् यस्थ्या.) । c) अज्याः सं. अया. ।
 d) भावे कर्तरि वा कृत ।

वी(वि-इ(गतौ))> १वीत- > वीत-
राग- ४अ°

+व्य(वि-अ)य- ४अ°, १धन°

वी^b- पद°

वी(वि-ई)न् > +वी(वि-ई)क्षण-
बाह्याभ्यन्तर°

+वी(वि-ई)क्षित्- व्योमभाग°

वीचि- महत्°, १विश्व°

+√वीज् > वीजित- सु°

वी(ण)> णा- किङ्किणी°°, ज्ञानमुद्रा°°
रराग°°

२वीत- √व्ये द्र.

वीथि, थी- अन्तर्°, अन्तर्गत°, ५ना-
ग°, परस्परज्यो...त°, प्रथमभू-
पुर°, बहिर्भूपुर°, बाह्यवृत्त°, मध्य-
भूपुर°, रत्न°

वीर- ४अ°, अति°, एक°, नरलोक°,
प्र°, १ब्रह्मन्°, भद्रजाति°°, मह-
त्°, योध°, २रखु°, सु°, २स्वस्ति-
क°°

वीर-भद्र- गणेश°°, श्री°

वीर-हत्या- समस्तपात...क°°

वीर्य- अनन्त°, अल्प°, कृत°, १ज्ञा-
न°°, महत्°, श्रद्धा°, सु°, खेद°°

+वीरणा^d- १वंश°

वी(<वि)-रुध(<ह)-२जल°°, प्रत्य-
यरस°, वृक्ष°°

√वृ(वररो), > वारि अभि°, आ°,
निर्°, प्र°, प्रति°

१वर- अभय°, १चक्र°, पद्मद्वय°°,
प्र°, स्वयम्°

वर-द्- ३वर°

१वरण- प्र°

+वार्य आ°

१वार्य-

+१वृत्- अभि°, निर्°

+१वृत्ति- निर्°

/वृ(आच्छादने) अपा°, आ°, परि°,

प्र°, प्रा°, वि°, व्या°, सम्°, समा°,
संपरि°

२वरण- आ°, प्रा°

वरूथ-> +वरूथ-पर- २सुरलोक°°

+३वार- परि°, प्र°

+१वारित- परि°

२वृत्- अपा°, आ°, ज्वालावली°,

परि°, प्रा°, वि°, व्या°, सम्°,

समा°, संपरि>री°

+२वृत्ति- अभिसम्°, आ°, सम्°

+१वृत्त्य आ°, प्रा°, समा°

√वृ(प्रतिघातने) नि°

+वारक- उदुत्पथ°

+२वारण- दुष्कृत°, नि°

+२वारित- ४अ°

+२वार्य- दुर्नि°

√वृ(*बधा.) वि°

३वर- अमर°, इन्दी°, १देव°, पर्वत°,

पाशाङ्कुरा...लु°, प्र°, १ब्रह्मन्°,

ब्रह्मविद्°, सुनि°, १सरस्°

वरिष्ठ- ब्रह्मविद्°, सर्वरहस्य°

+वरीयस्- परस्°, ब्रह्मविद्°

४-६वर- गपू, पृ७९६ द्र.

+७वर-, +४वरण- वि°

+वर्य- मन्त्र°, २योगिन्°

व्रत- अभि°, अनु°, अशुचि°, उप-

सद्°, एकादशयुवासादि°, क-

था°, कर्मन्°, चातुर्मास्य°, चीर्या°

तपस्°, तीर्थ°, १दठ°, १देव°,

नियत°, नियम°, नैष्ठिक°, १पति°,

पितृ°, प्रजापति°, प्रिय°, ब्रह्मचा-

रिन्°, महत्°, २महालक्ष्मी°,

याग°, २वेद°, २वेद°, शिरस्°,

१शिव°, शिवधर्म°, संशित°,

१सत्य°, सर्व°, सु°, सोमवार°

व्रक्तिन्- ४अ°

वृक्ष- ४अ°, आन्न°, एक°, कतक°,

४कल्प°, १कल्पक°, कल्पद्रुम°,

किशुकबकुलाम्र°, चीर°, गन्ध°,

चन्दन°, चित्त°, जम्बू°, तृण°°,

त्रैलोक्य°, दुःख°, नभस्°, नाना°,

२नानापुष्प°, पर्वत°, पारिजातक°,

पुष्पित°, प्रति°, १फल°, बकुल°,

बिल्व°, मन्दार°, महत्°, राजन्°,

रुद्राक्ष°, लता°, १वासस्°, १वि-

ष°, विष्णु°, शुष्क°, संसार°, सर्व°

+वृक्ष-कोटर- काष्ठ°°

+वृक्ष-जल- भव्य°

वृक्ष-तृण-पर्वत- ६स°

वृक्ष-मूल- शून्यागार°°

वृक्ष-लता- पुष्पित°

√वृज्(*बधा.) > वर्जि अनु°, अप°,

आ°, उद्°, परि°, परिवि°, प्र°,

वि°, सम्°

२वर्ग- अप°, उद्°, सम्°

+वर्ग्य- प्र°

+वर्ज- लकार°

+वर्जन- अभिशस्तपातित°, उपाया-

न्तर°, पतिताभिशस्त°, परि°, प-

रिवि°, भवभावन्°, वि°, संकल्प°,

संकल्पाशानुसंधान°

+वर्जम् कक्षोपस्थ°, रस°, ३वर्ष°,

वर्षा°, षड्वर्षि°

१वर्जित- अयुस्थूलादि°, अतिथि°,

अस्तित्व°, आत्मशब्दार्थ°, आदि-

मध्यान्त°, आश्रय°, उभयोष्मन्°,

एक°, कलाकलन°, कामसंकल्प°

प्रभृ.

+वर्जिन्- परदार°

वर्ज्य- तच्छब्द°, समस्तयातासात°

वृजिन- ४अ°

वृढ- √वृह्(परि.) द्र.

√वृत्(*बधा.) > वर्ति अति°, अनु°,

अनुपरि°, अन्वा°, अपा°, अभि°.

अभिप्र°, अभिसमा°, आ°, उद्°,

उपा°, नि°, निर्°, परा°, परि°.

g) गपू. (पृ७९३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । b) वैप१ यद्र. । c) बप्र. द्र. =विप, आसनविशेष- प्रभृ. ।

d) व्यु. ? =उशीरतृण- । e) गपू. (पृ७९५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) भाप. ।

पर्यां, प्र°, वि°, विनि°, विपरि°,
व्या°, सम्°, समा°, संप्र°
+वर्त- आ°, वि°, सम्°
+वर्तक- नि°, प्र°
वर्तन- अनु°, अभि°, आ°, उद्°,
उपा°, प्र°, व्या°, स्वप्र°
वर्तमान- आ°, परि°, भूत°
वर्तयत्- निर्°, समा°
वर्ति- दीप°, रभक्ति°
+वर्तित- प्र°
+वर्तितुम् नि°
+वर्तिन्, नी- अन्तर्°, आ°, १चक्र°,
चतुष्पादन्तर्°, चन्द्रमण्डलमध्य°,
जाठर°, तदाज्ञावश°, त्रिपीठ-
मध्य°, त्रैलोक्यान्तर्°, नि°,
निदेश°, परस्परम...ष्ट°, प्र°, प्रण-
वान्तर°, ब्रह्माण्ड°, मध्य°, वश°,
शीतलाशय°, सत्त्वान्तर°, सर्व-
भूतान्तर°, स्वयंकल्प...न्तर°
वर्तुल- ६स°
वर्मन्- अखिल°, उद्°, १कृष्ण°,
त्रि°, पृथक्°, मृत्युसंसार°, वेदान्त°
१शिष्ट°, संसार°
+वर्त्य आ°, निर्°, परि°, विनि°
वृत्- आ°, त्रि°, परि°
वृत्त- ४अ°, अन्तर्°, अपा°, अभि-
प्र°, आ°, जघन्यगुणा°, त्रिकोणा-
ष...पत्र°, दुर्°, नि°, निर्°, पी-
न°, प्र°, बाह्य°, बुद्धि°, १ब्रह्मन्°,
यौवन°, विनि°, व्या°, शील°,
१सत्°, सम्°, संप्र°, साधु°, सु°
वृत्ति- अखण्डाकार°, अजगर°,
१अज्ञान°, अनु°, अन्तःकरण°,
अन्तर्°, अपारासृत्°, अभिभवा-
श्र...थुन°, अमलशान्त°, भा°
प्रभृ.
+वृत्ति-(क)- प्रशान्त°, शरीर°
+२वृत्त्य अभिसमा°, आ°, निर्°, २

व्या°
१वृत्- √वृ (वरणो) परि. द्र.
२वृत्- √वृ (आच्छादने) परि. द्र.
१वृत्ति- √वृ (वरणो) परि. द्र.
२वृत्ति-, १वृत्त्य √वृ (आच्छादने)
परि. द्र.
√वृष् अभि°, परि°, प्र°, वि°, सम्°,
संप्र°
१वर्धन^a- अभि°, जठरामि°, प्रिय-
त्व°
+२वर्धन^b- अनसूयानन्द°, आयुरा-
रोग्य°, उत्साहवल्°, गो°, पुष्टि°,
१राष्ट्र°, वि°, श्रीक्रीति°, सर्वा-
नन्द°, सौभाग्य°
वर्धमान- वि°
+वर्धित- प्र°, वि°, सम्°
+वर्धिन्- अनन्तभोग°, १काम°,
वि°
+वर्धय अभि°
वृद्ध- १कुरु°, २कुल°, कृशा°, १ज्ञान°
१देव°, १धन°, प्र°, १वयस्°,
वि°, विद्या°, विधवा°
वृद्धि- अभि°, पञ्चन्°, १पद्म°, १पुत्र°
पुष्टि°, प्र°, सृष्टबीजसमुत्पल°,
मेदस्°, २योग°, रस°, वहि°,
२वासना°, वि°, सत्त्व°, सम्°,
संप्र°, सर्वसंपद्°, सिद्धि°, स्व-
वंश°
+वृध- १मस्त°, सदा°
वृन्त- अद्वितीया...न्य°, १ताल°
√वृष् (*बधा.) अभि°, प्र°
३वर्ष- अमृत°
+वर्षण- अभि°, शीकर°
+वर्षिन्- अमृत°, २काल°
+वृष्- प्र>प्रा°
वृष- अश्व°, तेजस्°, महत्°, ६स°
वृष-भानु- १नन्द°, १नन्द°, १
श्री°

+वृषभानु-वन^c- मथुरावन°
वृषण- गुद°
वृषभ- -भः मउ ३, ११. [°भ-
. शिवधर्मानन्दमूर्ति°]
वृष्टि- अमृतपुष्प°, दिव्यग...ष्प°,
पुष्प°, ब्रह्मकल्प...ष्प°, मद्वाच्°,
सु°
√वृह आ°, परि°, प्र°, वि°, सम्°
+वृह- परि°
+वृह्य प्र°
+√वे, > १उत्त- आ°, प्र°
वेक-, वेचक-, वेचन- √विच्(परि.)द्र.
+वेणी^d- त्रि°
वेणु- २राग°, १शङ्ख°
वेताल- दैत्य°, भूत°, भूत°
+वैताल- अग्नि°
+वेताल-ब्रह्मराक्षस-ज्वर^e- अ-
तिभयंकरज्वर°
+वेत्र^f- तन्द्रीराघ°, वेणु°
१-३वेद- गपू. पृ८०० द्र.
४वेद- √विद् (लाभे) परि. द्र.
वेदक-, १वेदन- √विद्(ज्ञाने)परि.द्र.
२वेदन- √विद् (लाभे) परि. द्र.
३वेद(न>)ना- शिरकर्णाग्नि°
वेदनीय-, वेदया-, वेदयित्वा √विद्
(ज्ञाने) परि. द्र.
१वेदस्- √विद् (लाभे) परि. द्र.
२वेदस्-, वेदस- √विद् (बधा.)
परि. द्र.
वेदि, दी- अन्तर्°, उत्तर°, त्रि°, प्रति-
मा°, १रुद्र°, १शिव°
वेदि-(क>)का- आनन्द°, चतुरश्र°
चिदानन्दमय°, चिन्मय°, पितृ-
तर्षण°, मन्दार°
+वेदिका-स्थान- स्वात्मज्यो-
तिर्मयचिद्रूप°
वेदिन्-, १वेदिन्- √विद्(ज्ञाने)
परि. द्र.

a) भावे कृत् (गपू. [पृ७९८] यनि. संख्यानिर्देशः द्र.) । b) कर्तरि कृत् । c) बप्रा. द्र. । d) व्यु. १ । e) गपू. (पृ८००) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

२वेदिन्- √विद् (बधा.)परि. द्र.

वेद्य √विद् (ज्ञाने) परि. द्र.

+?वेद्याद्यस्थिरमायाद्य- -द्याः पी
४२२: १२.

वेधनी- √विध् (परि.) द्र.

वे(ल>)ला- अन्त°, २काल°, धृप्°,
नीहार°, संगव°, समुद्र°

१वेश- √विश् (परि.) द्र.

२वेश- कन्धा°, साधु°

वेशनी- वेशयत्-, *वेशया-, वेश-
चित्वा, वेशित- √विश् (परि.) द्र.

वेश्मन्- ३वर°

वेश्य- √विश् (परि.) द्र.

वेव- काषाय°, च्छाय°, गोप°, तुरीया-
तीतावधूत°, नर°, नाना°, बालो-
न्मत्तपिशाच°, सु°

√वेष्ट् > ष्टि आ°, परि°, प्र°, सम°, समा°

वेष्टन- कामबीज°, कौपीन°, चतुरश्रुल°
+वेष्टयित्- परि°

वेष्टित- अविद्याभूत°, आ°, तत्सृष्टि°
परि°, प्र°, भूततन्मात्र°, शूल°,
संकल्पवासनारज्जु°, सम°

+वेष्टित्- परि°

+वेष्टय सम°, समा°

वेष्टुम्, १वेष्ट- √विश् (परि.) द्र.

२वेष्ट- √विष् (बधा.) परि. द्र.

√वै(शोषणे) उद्°

वैकल्प- विकल- (परि.) द्र.

वैख(र>)री- परा°

१वैखानस->+वैखानस-पर्वत-
१राम°

वैताल- वेताल- (परि.) द्र.

वैदुम- विदुम- (परि.) द्र.

वैधुर्य- विधुर- (परि.) द्र.

वैयासकि- व्यास- (परि.) द्र.

वैर- निद्°, आटु°, वेद्°

वैरिन्- अशुद्ध°, १नित्य°, शम्बर°,
सर्वजन°

व्य(वि-अ)अ- ४अ°, गत°, तत्तत्कर्म-
कर°, सु°

व्य(वि/अ)ज् > व्य(वि-अ)जन- कृत°
+व्या(वि-आ)ज- कन्दुक°, जलक्री-
डा°, तद्°

व्य(वि/अ)ञ्ज् > व्य(वि-अ)क- ४अ°
+व्यक्त-वक्त्र- -वक्त्रः जाद ३, ६,
२१.

व्य(वि/अ)ञ्ज् > १व्य(वि-अ)जन-
४अ°, शब्द°, स्वर°

+व्य(वि-अ)ति √कृ(करणे) > व्यति-
कर- ४अ°

व्य(वि-अ)ति √पत् (गतौ) > व्य-
(ति>)ती-पात्- महत्°

व्य(वि-अ)ति √रिच् > व्यति-रिक्-
४अ°, आचार्य°, स्वद्°, देहादि°,
नारायण°, निन्दास्तुति°, १ब्रह्मन्°
मद्°, रसमार्ग°, शरीरादि°, स्व°,
स्वरूपानुसंधान°, स्वशरीर°,
१स्वस्वरूप°

व्यति-रेक- ४अ°, अन्वय°, स्व°

व्य(वि-अ)ती[ति/इ(गतौ)] > व्यती-
(ति-इ)त- स्थानत्रय°

+व्यत्य(ति-अ)य- २पवन°, सं-
भव°

√व्यथ् परि°, प्र°

व्यथ, था- गत°, देह°

व्यथमान- ४अ°

+व्यथित- प्र°

व्य(वि/अ)न् (प्राणने), > आनि >

व्या(वि-आ)न- अन्तःकरण°,
उदान°, प्राण°, १समान°

+व्या(वि-आ)नयितव्य- ४अ°

व्य(वि-अ)प √दिश् > व्यप-दिष्ट-
यथा°

व्यप-देश- ४अ°, अर्थान्तरत्वादि°,

१अभिमानिन्°, १असत्°, १इतर°,

ईक्षतिकर्मन्°, उच्छ्वासनिश्वास°,

उभय°, कर्मकर्तृ°, चिरञ्छिप्र°,
तत्तद्°, तद्°, तद्धर्म°, नाना°,
निमित्त°, प्रधान°, भूतादिपाद°,
भेद°, मुक्तोपसृप्य°, षष्ठी°, संसार°

सेतून्मा... द°, स्थानादि°, १हेतु°

+व्यप-देश्य- ४अ°

व्य(वि-अ)पा(प-आ) √धि > +व्यपा-
श्रय- अर्थ°, चराचर°, मद्°

+व्य(वि-अ)भि √चर् > व्यभि-चार-
४अ°, उभय°

+व्यभि-चारिन्- ४अ°

व्य(वि/अ)य् > व्य(वि-अ)यमान-
४अ°

व्यय- वी (परि.) द्र.

व्य(वि-अ)र्थ- > +वैयर्थ्य- ४अ°

व्य(वि-अ)व √च्छिद् > +व्यव-
च्छिन्न- ४अ°

व्य(वि-अ)व √धा > व्यव-धान-
४अ°, ज्येष्ठाज्येष्ठ°

+व्यव-हित- जातिदेशकाल°, सू-
क्ष्म°

व्य(वि-अ)व √सो > सा > व्यव-सा-
य- > +व्यवसायिन्- ४अ°

व्य(वि-अ)व √स्था > व्यव-स्था-
जन्मादि°, स्वसिद्धान्त°

व्यव-स्थित- द्वारशास्त्रा°, सर्वकाल°
१स्वर्गलोक°

+व्यव-स्थिति- कार्याकार्य°, चिदेक-
त्व°, जीवन्मुक्त°, ज्ञानयोग°

व्य(वि-अ)व √ह् > व्यवहार- २अस-
ङ्ग°, इत्यादि°, २जाप्रत्°, निखि-
लनिग...र्मन्°, निःसङ्ग°, बन्ध-

मोक्षादि°

व्यव-हार्य- ४अ°

व्यव-हृति- बाधिकर्मन्°

व्य(वि/अ)श्(व्याप्तौ) > १व्य(वि-अ)-
ष्टि- सर्वकारण°

+व्यष्टि-मस्तक- समस्त°

a) पा. ? वेद्याद्यस्थिरमाया(या-आद्य)द्या- इति शोषः द्र. । b) वप्रा. द्र. = तट-, २काल- ।

o) गपू. (पृ८००) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) अख्याः यो. अपा. ।

व्या(वि-अ)स (क्षेपणे) > व्य(वि-अ)-
सन- सृष्टि°°

व्या(वि-अ)कुल- ४अ°

व्या(वि-अ)√कृ(करणे) > व्या-कृत-
४अ°

+व्या-कृति- सर्व°

व्या(वि-अ)√ख्या > व्या-ख्यान-
१प्रश्न°

+व्याख्यान-मण्डप- श्रीमद्°

व्या(वि-अ)√घ्रा > १व्या-घ्र-
७चित्र°°, दुष्टकीट°°, १पुरुष°,
राजन्°°

+व्याघ्र-मुख(मूष°)-सर्व(प°)-वृश्चि-
का(क-अ)भिज्वाला-विष-
-धम् लां २१६ : १४.

व्याज- व्यज् (परि.) द्र.

+व्या(वि-अ)√दिश > व्या-देश-
प्रीचा°, १त्वच्°, नखरोमन्°

व्या(वि-अ)√धा > व्या-धि- आधि°
ऋण°, गर्भ°, जन्मन्°, निर्°,
बुद्धि°, १मनस्°, महत्°, १मृत्यु°,
सर्व°

व्या(वि-अ)प > व्या(वि-अ)पक-
अद्वितीय°°, अन्तर्बहिस्°, आत्म-
न्°, तद्विलक्षण°°, १विश्व°, व्या-
प्य°, समस्तविद्यारण्ड°, सर्व°

व्या(वि-अ)पिन्- ४अ°, कोटिवै-
कुण्ठ°, दिवारान्त्रि°, २भक्त°,
१विश्व°, व्योमन्°, सकलकला°,
सबाह्याभ्यन्तर°, सर्व°

व्या(वि-अ)पत्- ४अ°, दंष्ट्रा°, ब्रह्मै-
कपाद°, १स्वरूप°

व्या(वि-अ)पित- लु°, विषय°

+व्या(वि-अ)-पारुडुर- भस्मन्°

व्या(वि-अ)√पृ > व्या-पार- जगत्°
तत्तद्वृत्ति°, तद्°, निर्°, मन्त्र-
तन्त्र, १वाच्°, सर्व°

+व्या(वि-अ)√मुह > व्या-मोह-
उभय°

+व्या(वि-अ)√यम्(दैर्घ्ये) > व्या-
याम्- प्राप्ति°

+व्याल- ६स°

व्या(वि-अ)√वृत् > वर्ति > +१व्या-
वर्तन- विषय°

२व्या-वर्त(न)ना°-

व्या-वृत्त- ४अ°

व्या-वृत्ति- अन्यभाव°, जड°, तद्°

+व्या(वि-अ)शा- २आशा°

व्यास- २वद°

+वैयासकि- २वसिष्ठ°

+व्या(वि-अ)√हन् > व्या-घात-
स्ववचस्°

+व्या-हृत- ४अ°

व्या(वि-अ)√ह् > व्या-हृत- ४अ°

व्या-हृति- पञ्चन्°, प्रणव°, भूर्भुवः-

स्वरिति°, महत्°, ६स°, सप्तन्°

व्यु(वि-उद्)त्/पद् > +व्युत्-
पन्न- लोक°

+व्युत्पन्न-मनस्- ४अ°

व्यु(वि-उ)ह्(वहने) > व्यु(वि-उ)ह-
१अङ्ग°, आनन्द°, काय°, चतुर°,
२तारा°, परमानन्द°, बोधानन्द°,
२वासना°

व्यूह-भेद- द्वात्रिंशत्°

+√व्ये > वी, > २वीत- आ°, उप°,
नि°

व्योमन्- एकान्त°, १चित्°, तदन्त-
र्गत°, तादृश°, पद°, परम°,
१मनस्°

व्योम-पञ्चक- बाह्याभ्यन्तरस्थ°

√व्रज्(बधा.) अनु°, अनुसम्°, अभि°
अभिप्र°, आ°, उद्°, परि°, प्र°

व्रजत्- अनु°, प्र°

+व्रजन- परि°, प्र°

+व्रजित-, +व्रजिष्यत्- प्र°

+व्रज्य अभिप्र°, परि°, प्र°

+व्र(ज्य)व्या- प्र°

+व्राज्-, +व्राजक- परि°

+व्राजिन्- प्र°

१व्रज- गो°

व्रण- ४अ°, नाडी°, निर्°, शस्त्रवाण-
क्षत°°

+व्रतति- वृत्ति°, संसृति°

√व्रश्च् परि°

२वृक- २साला°

वृक्ण- परि°

वृश्चिक- द्वादशकुल°, १व्याघ्र°°,
सर्प°°

व्रात- ऐहिकामुष्मिक°, सिन्दूर°

+√व्रीड् > व्री(ड)डा- निर्°

व्रीहि- तिल°

श

+श- गिरि°

√शंस् (स्तुतौ) अनु°, अभि°, आ°, प्र°
+१शंस- उद्°

+२शंस(स)सा- प्र°

+३शंसिन्- अभि°, १ब्राह्मण > णात्°
शस्त-, शस्ति- अभि°, प्र°

+√शंस् (हिंसायाम्) > ३शंस- नृ°

√शक्(बधा.) > शक्त- ४अ°, अति-
पूर्व°, अन्तर्धारण°

शक्ति- ४अ°, अचिन्त्य°, अज्ञान-
माया°, अधस्°, अनङ्गकुलमादि°,
अनन्त°, अनेकवट°, अभ्यासवा-

सना°, अविद्या°, आत्मन्° प्रम्.

+१शक्ति(-क)- नति°, ६स°

२शक्ति-क-

+शक्ति-बोध- उत्पन्न°

शक्य- ४अ°, दुस्°

a) पा. ? यनि. शोधः द्र. । b) गपू. (पृ८०५) यनि. शोधः द्र. । c) व्यु. ? =सर्प- । d) भाप. । e) गपू.
(पृ८०५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) व्यु. ? =वल्ली- । g) वैपश् यद्र. । h) तु. गपू. पृ४६७k । i) गपू. (पृ८०९)
यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

शक्र- क्रम मउ २०, ३९. [°क्र-
प्रजापति°]
शका(क-अ)भि-यम-निर्कृति-
वरुण-वायव्य-धनदे(द-ई)शा-
न-प्रजापति-नागे(ग-ईश>)
शा°-
१शकल°-
+२शकल°- दन्तास्थि°, शशिन°
शकुन- -नः भैत्रि ६, ३४९.
शकुनि- भ्रमविश्रान्त°
√शक् अभि°, आ°, वि°
+१शक्- वि°
२शक्>क्षा- निस्°
क्षित- ४अ°, अभि°, वि°
+शक्क्य आ°
शक्कु- त्रि°, पञ्चीश°
१शक्- अरि°, कुमारी°, कौस्तुभ°,
गदा°, चम्पक°, २प्रवाल°,
महत°, वैरोचन°
शक्-चक्र- बाहुमूलपरिचिह्नित°
+शक्-पद्म-निध्या(धि-आ)दि-
नव-निधि- कल्पवृक्षका...रिण°
+शक्-वर्ण- हरि°
२शक्->शक्-क- अनन्त°°
शट->शाक्य->शाक्याय(न>)-
नीर°- ईशावास्य°°
√शट>शट- ४अ°
शण्डिल->शाण्डिल्य°- उदर°, २प्र-
रन°°
शत- अथर्वशि...पक°, अनुपनीत°,
अष्टन°, अष्टाविंशत्युत्तर°, अष्टो-
त्तर°, अष्टोत्तरसंधि°, आस्थापाश°,
उदकुम्भ°, उपनीत°, एक° प्रभृ.
+शत-भास- आकाश°, बालाश्र°
शत-सहस्र- पङ्क्ति°, महास्र°, वट
क्षया...लाश्र°

+शतसहस्र-कोटि-तेजः-पुञ्ज-
परम...न्त्र°
+शत-साहस्र- बालाश्र°
शता(त-अ)धिक- जन्मन्°
+शता(त-अ)भिधान- १राम°, वि-
पुविध्यादि°
शत्रु- -यून् व ४६० : १७९. [°त्रु-
अजात°, ६कल°, सर्व°]
शत्रु-भ- सीता°°
+शत्रु-जन- सर्वजन°°
+शत्रु-माण- समस्तपात...तक°°
+शन्त°- गिरि°
√शप्>शपत्- ४अ°
१शफ- एक°
शबल- अविद्या°, दुःख°, पारोक्ष्य°,
माया°
+√शबलि>शबलित- माया°
शब्द- -ब्दः गोपू १. [ब्द- ४अ°,
अन्तर्हृदयाकाश°, अस्मद्°, अस्मी-
ति°, आत्मन्°, आयाम°, २आर-
म्भया°, इष्टानिष्ट°, उपायन°,
ओंकारोच्चार...न्त° प्रभृ.]
+शब्द-विधि- कर्मन्°°
शब्दा(ब्द-अ)न्तर- अधिकार°°
शब्दा(ब्द-अर्थ)- भविष्यच्चि...मन्°
√शम्(*बधा.),>शाम, शमि उप°,
नि°, प्र°, सम°
शम्->शं-कर- उमा°, १ब्रह्मन्°,
विरिञ्चि°, वीरभद्र°, हरि°
शं-सु- १शिव°°
शंभव- षष्°
+शं-सू- १विश्व°
शम- ४अ°, उप°, चित°, तिति-
क्षा°, प्र°
शमन- -रोम°, सर्वदारिद्र्य°, सर्व-
विघ्न°

शमित- उप°
+शम्य नि°
शान्त- ४अ°, अन्तर्°, अमल°,
१आदि°, उप°, प्र°, सम°
शान्ति- आत्मलिङ्ग°, उप°, कल्पस्त-
वनादि°, क्षुत्पाविष°, २ग्रह°,
चित°, चेतश्चाक्षय°, ज्वरदाह°,
तप्तद्°, तद्°, तारकालोक°, द्वि-
धात्रिधा°, १नित्य°, परम°, प्र°,
ब्रह्मचर्य°, १मनस्°, १राग°, श-
श्वत्°, ६स°, सम°, समस्तारिष्ट°,
सर्वदा°, सर्वेच्छाकलना°, सूर्या-
लोकपरिस्पन्द°
+शान्ति-गृह-द्वय- १शिव°
+शान्ति-पद- लब्ध°
+शान्ति-मात्र- सृगतृष्णा...दि°
+शाम्यत्- प्र°
+शमल°- यज्ञ°
१शय- √शी (परि.) द्र.
+२शय°- १दक्षिण°
शयध्वै, शयित- √शी (परि.) द्र.
३शर->१शर-भ->२शरभ^२-
२प्रश्न°°
शरणा- शिवाभिहोत्र°
शरद्->शरद्-अन्न- विच्छिन्न°
३शरभ- गपू. पृ ८१७ द्र.
+४शरभ^३- शवि°°
+शराव^३- उद°
शरीर- ४अ°, अन्तर्°, अर्ध°, आका-
श°, एक°, एतद्°, क्लरया°,
क्रीडा°, प्रीवा°, जीवन्मुक्त°, त्रि°,
देवता°, धृत°, नाना°, १पर°, पित्रा-
दि°, १पुरुष°, प्रति°, प्राण°, बिन्दु-
मूल°, १ब्रह्मन्°, भूत°, मन्त्रमय°,
माया°, मालतीदा...त्°, १रक्त°,
लिङ्ग°, वज्र°, वज्रपञ्चाङ्गक्षित°

a) ऋ ६, ४७, ११। b) गपू. (पृ ८१०) °नागेश- इत्यत्र यनि. शोचः द्र.। c) गपू. (पृ ८१०) यनि. संख्याभिर्देशः द्र.। d) व्यु. ? =खण्ड-। e) °भिः इति पाग ३, १५, २० (तु. टि. वैपश्च वस्था.)। f) कर्तरि कृत्। g) बभ्रा, द्र. =अग्निविशेष-, उपनिषद्विशेष-। h) ऋ १०, ८४, ३ (एतदनु गपू. [पृ ८१२०] शोचः द्र.)। i) वैपश्च यद्र.। j) आन. अपा.। k) भवे कर्तरि वा कृत्। l) व्यु. ? =रहस्त-। m) व्यु. ? =कीट-।

वज्रपञ्चालकृत°, विद्यानन्दमय-
 ...व्य°, व्यापक°, शब्द°, ६स°,
 सुखालंकृत°, सूक्ष्म°, स्थूल°, स्व°
 शारीरक- कठवल्ली°, भिज्जु°
 शरीरक- मद्°
 +शरीर-मात्र- अङ्गुष्ठप्रादेश°
 +शरीर-वृत्तिक- कुर्यापवत्°
 +शरीर-संयोग- अप्राप्त°, प्राप्त°
 शरीरिन्- ४अ°, सर्व°
 शर्क(र>)रा- एला°
 +शर्याति^१- सुद्युम्न°
 शला(क>)का- अञ्जन°, अनहंभाव°,
 अयस्°, बुद्धि°, १लोह°, ४शर°,
 शृङ्गदन्त°
 शल्य- वि°
 शव- -वः कुं २० : ७^b.
 ✓शश्च>शश-> +शश-बिन्दु^१-
 सुद्युम्न°
 शशिन्- खद्योत°, वृन्दावन°
 +शशि-तार- आ°
 शश्वत्^१->शश्वत्- ४अ°, स्वरूप-
 तेजोमय°
 +शश्वली°- १कर्ण°
 ✓शश्व(हिंसायाम्)> २शस्त्र- ४अ°,
 १असङ्ग°, गदाद्यायुध°, २जल°,°
 नाना°, महान्धकार°
 +शासक- समस्ताघ°
 १शाक->शाकि(त्>)नी- अरिष्ट-
 कारिणी°, भूत°
 २शाक- कुसुम्भ°, सर्व°
 शाख,खा- अङ्कुर°, अधस्°, अवाक्°,
 आथर्वण°, एकविंशति°, कारव°,
 त्रि°, द्वार°, पञ्चन्°, प्र°, प्रति°,
 बहु°, मधुर°, वृत्त°, २वेद°, ६स°,
 सर्व°, सहस्र°, स्तम्भ°, स्तम्भ°,
 स्व°
 शाखा(खा-अ)प्र- प्रतिबिम्बित°

+शाखिन्- विटप°
 शा(टि>)टी- एक°, कौपीन°
 +शाद्^१->शाद्-वल^d- २हरित°
 शाम्यत्- ✓शम् (परि.) द्र.
 शायिन्- ✓शी (परि.) द्र.
 शारिका- शुक°
 शाङ्ग- १शृङ्ग°- द्र.
 शार्दूल- १कपि°, सुनि°
 शाल,ला- अग्निहोत्र°, कुलाल°, चन्द्र°
 ३चित्र°, प्राचीन°, १ब्रह्मन्°, म-
 हत्°, रोग°, विचित्र°
 +शाला(ला-अ)ण्डक- पञ्चन्°
 शालि-> +शाल्य(लि-अ)न्न- गो-
 धूम°
 +शशालिन्,नी°- अव्यक्त°, आनन्द°,
 उल्लास°, १कृपा°, घनाहंकार°,
 दुःखकरटक°, नृत्त°, परोपशम°,
 १रूप°, शम°, श्रीराधाधरसुधा°,
 सहस्राङ्गु...ल्लव°, श्राय्वस्थिग्रन्थि°
 २शालि(त्>)नी^१-
 ✓शास् अतु°, अभ्यनु°, आ°, प्र°,
 प्रति°, सम्°
 शासन^१- अतु°, प्र°, प्रति°, १श्रुति°
 +शासमान- अतु°
 +शासितृ- अतु°, प्र°
 शास्तृ- प्र°, १विश्व°, सर्व°
 शास्त्र- अखिल°, अध्यात्म°, अन्य°,
 असंकल्पन°, १असत्°, आचार्य°,
 १इतर°, उद्°, गुरु°, ज्योतिस्°,
 धर्म°, बहु°, मन्त्र°, महत्°, १मो-
 क्ष°, यथा°, २योग°, २वेद°, वेदा-
 दि°, व्याकरणज्यौतिषादि°, १श्रु-
 ति°, १सत्°, सर्व°, १सांख्य°,
 साधु°
 +शास्त्र-गुरु- बहु°
 +शास्त्र-विहित- ४अ°
 +शास्त्रा(न्न-अ)र्थ-संगम- गुरु°

+शास्त्रिन्- परिडित°
 +शास्य-, +शास्यमान- आ°
 १शिष्ट- अनु°, पुर°
 शिष्टि- २सह°
 +शिष्य अनु°
 शिष्य- ४अ°, अतिसेवाप...वत्°,
 गुरु°, शूद्र°
 +शिस- आ°, प्र°
 +शिषुपा^१- आम्र°
 शिष्य- १त्रिदण्ड°, पिठर°
 ✓शिष्व>शिक्षित- ४अ°, सु°, स्वा-
 श्रमो...द्रस्°
 शिख,खा^१- ४अ°, अथर्वशिरस्°, अ-
 नल°, केशसमूह°, चिन्तानल°,
 १ज्ञान°, त्रि°, १त्रिदण्ड°, दीप°,
 दुष्कृताग्नि°, १धूम°, पञ्चन्°, बद्ध°,
 विन्दुनादशिरस्°, २योग°, वह्नि°,
 वि°, ६स°, सिद्धान्त°
 शिखा-यज्ञोपवीत- बहिर्लक्ष्यमाण°
 १शिखिन्- ४अ°
 २शिखिन्- प्रत्यग्ज्ञान°
 +शिखो(खा-उ)पवीत- अन्तर°,
 प्रणवहंस°, प्रापञ्चिक°, बहिष्प्रपञ्च°
 +शिखोपवीत-धारण- अन्तर°
 शिखण्ड- १नील°
 शिखर- अत्यन्तोन्नतानन्त°, अनन्त°,
 अनन्तवि...जाल°, अनेक°,
 आनन्दपर्वत°, कैलास°, ज्वलत्°,
 ब्रह्मतेजोमथानन्त°, रत्नसानु°,
 शतकोटि°, सर्वधान्य°, सहस्र°
 शित- ✓शो (परि.) द्र.
 शिथिल- ४अ°
 शैथिल्य- प्रयत्न°, बन्धकारण°
 शिरस्^१- ४अ°, अथर्वन्°, अधस्°,
 अश्व°, आकुञ्चित°, आनन°,
 ऋग्वेद°, काय°, गोवर्धनाग्नि°,
 ग्रीवा°, चतुर्°, त्रि°, १त्वच्°,°

a) वैपश् यद्.। b) अज्याः सं. अपा.। c) व्यु. ?। d) पा ४, २, ८८। e) गप्. (पृ८२०) यनि. शोधः द्र.।

f) गप्. (पृ८२०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। g) भावे कर्तरि वा कृत्। h) व्यु. ? = वृत्तविशेष-। i) बप्रा. द्र. = अज्ञ-
 विशेष-, उपनिषद्विशेषकदेश-।

१पाशर्वे°, पिरडाण्ड°, पृष्ठवंश°
 प्रणव°, प्राच्°, प्रावृत°, प्रिय°,
 बिन्दुनाद°, मयूरपिच्छ°, यजुर्वेद°,
 वागीश्वरीधामन्°, विश्वतस्°,
 रवेद°, व्याहृति°, षड्दशन्°,
 सामन्°, सामवेद°, स्व°
 +शिरः-पाद- समुन्नत°
 शिरश्-शूल°- अङ्गशूल°
 +शिरस्(-क)- ४अ°, अव°, त्रि°
 +शिरो-धर- काय°
 +शिरो-मणि- आनन्दरसिक°, रस-
 सुखरसिक°, रसिक°, रसिकानन्द°
 +शिरो-रूह°- ज्वालामाला°, नाग-
 पुष्प°, हर°
 शि(ल>)ला- २मनस्°, २सुगन्ध°
 शैल- ताम्र°, महत्°, श्री°
 +शैल-वन-कानन- ६स°
 २शिल्प-> +शिल्पिन्- महत्°
 १शिव- ४अ°, अद्वैत°, जीव°, नित्य-
 शु°...क्त°, १पर°, परम°, १ब्रह्म-
 न्°, १ब्रह्मानन्द°, १रुद्र°, शक्ति°,
 सदा°, साम्ब°
 शैव- महत्°
 +शैव-धर्म- शिववि...न°
 +शिव-तत्त्व-ज्ञान- परमरहस्य°
 +शिव-तत्त्व-विद्या- परमरहस्य°
 +शिव-पञ्चा(श्च-अ)क्षर-मन्त्र-
 प्रणवयुक्त°
 शिव-शक्ति- शक्ति°
 +शिवा(व-आ)त्मन्- आधाररूप°
 +शिवा(व-आ)दि-चिह्ना(ह-अ)-
 न्वित- ४अ°
 शिवा(व-अ)न्त- पृथिव्यादि°
 शिवा(व-आ)लय- ४अ°, अनन्त-
 गणसेवित°
 +शिवा(व-आ)श्रय- ४अ°
 शिशान- √शो (परि.) द्र.
 शिशिर- हेमन्त°

१शिशु- सद्योजात°
 +शिशु(र>)रा°- विराजा°
 शिश्र- पाणि°, शिरस्°
 √शिष्>शेषि अति°, अव°, उद्°,
 निस्°, परि°, वि°, समुद्°
 २शिश्र- अति°, अव°, उद्°, परि°,
 यज्ञ°, वि°, समुद्°
 १शेष- ४अ°, अति°, १आदि°,
 उपायनशब्द°, तद्°, १नित्य°,
 निस्°, परि°, १यथोक्त°, वाक्य°,
 वि°, विधि°, शम्यर्धफलवत्°,
 संस्कार°, होम°
 +शेषां(ष-अं)श- १अहम्°
 २शेष->शेषा- १शिव°
 +शेषक- अव°
 +शेषण- वि°
 +शेषित- निस्°, वि°
 शिष्य, शिस्- √शास् (परि.) द्र.
 √शी अति°, अधि°, अनु°, आ°, सम्°
 +शय°- अति°, अनु°, आ°, १गुहा°
 पुरि°, सम्°, सर्वभूतगुहा°
 +शयद्यै आ°
 शयन- आसन°, उपानह्°,
 १कथा°, भूतल°
 शयान- भस्मशय्या°
 +शयित- शव°
 श(य्य>)य्या- अनेक°, पुष्प°,
 भस्मन्°, रचित°, वस्त्र°, विहार°
 +शय्या(य्या-आ)सन- नीच°,
 शिला°
 १शय्यो(य्या-उ)पकरण- ६स°,
 संस्थापक°
 +शायिन्- अस्तमित°, उत्तान°,
 क्षीरोदारणव°, तिर्यगूर्ध्वमधस्°,
 नदीपुलिन°, १ब्रह्मन्°, भस्मन्°,
 भूमि°, ३शेष°
 +क्षीति- सम्°
 +शीकर°- २जल°, जलयन्त्र°

+शीकर-वर्षण- धारागृह°
 शीर्य, शीर्य- √शृ (परि.) द्र.
 शीर्ष- अथर्वन्°, अनन्त°, असंख्य°,
 इक्ष्वाकुवंशध्वज°, जटाभारलस-
 त्°, तद्°, द्विशतसाहस्र°, पञ्चन्°,
 पाद°, मृग°, सहस्र°
 +१शीर्ष(-क)- चतुर°, मुरिडत°
 २शीर्ष-क°-
 शीर्ष-तस्(>:) अशि ६, ७°.
 शीर्षन्- अनन्त°, त्रि°, सहस्र°
 √शील्(बधा.)>लि परि°
 शील- अध्ययन°, अनु°, एकान्त°,
 २कुल°, १दान°, धर्म°, १ध्रुव°,
 प्रकाशक्रियास्थिति°, वृहज्जाबा...
 प°, भ्रमण°, यज्ञ°, संचार°,
 सर्वलोकसंचार°, सु°, स्वप्न°, हय-
 प्रीदै...प°
 +शील-वृत्त- भलाक्षित°
 +शीलित- परि°
 १शुक- कोकिल°, १भ्रमर°
 २शुक- २श्री°, २संवर्तक°
 +शुक-रहस्य°- कठवल्ली°
 +शुक-वामदेव- जनकया...दि°
 शुक्ति->शुक्ति(क>)का- द्विचन्द्र°,
 मरु°
 √शुच्(शोके), >शोचि अनु°, सम्°
 शोक- ४अ°, अशानाया°, १काम°
 जरा°, जरा°, दुःख°, १भय°
 वि°, १वीत°, सम्°, सर्व°, हर्ष°
 शोक-भय-, +शोक-भया-
 (य-आ)यास- १वीत°
 शोचितुम् अनु°
 शोच्य- ४अ°
 √शुच्(बधा.) नि°
 शुक्- अन्योन्यवा...त° अस्थि°°.
 मूत्र°
 १शुक्- १लोहित°
 २शुक्- ४अ°, चम्पक°, २रक्त°, २रक्त°, २रक्त°

a) व्यु? =नाडीविशेष- । b) भावे कर्तरि वा क्त। c) व्यु? । d) गपू. (पृ८२९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

e) 'शीर्ष' इति अज्या. । f) =तदाख्योपनिषद्-विशेष- ।

रस^०, २लोहित^०, सर्व^०
 +शुक्ल-पक्ष- अश्वयुज^०
 शुचि- ४अ^०, आत्मन्^०, १नित्य^०,
 पवमान^०
 शौच- ४अ^०, अष्टन्^०, अहिं-
 सा^०, १ज्ञान^०, देवार्चन^० शुद्ध^०,
 १सत्य^०, स्नान^०, स्वाध्याय^०
 शुचि-रूप- -पः अक्षि १^०.
 +शु(रठ) > गृही^० - गुड^०
 √शुष्, > शोधि परि^०, वि^०, सम्^०
 शुद्ध- ४अ^०, अखण्ड^०, अति^०,
 अद्वितीय^०, अद्वैत^०, अन्तर^०,
 १केवल^०, गुणातीत^०, दृढतर^०,
 १नित्य^०, निरुपम^०, परमानन्द^०,
 परि^०, १भाव^०, महत्^०, वाचामगो-
 चर^०, वि^०, व्यपगतक...ङ्क^०,
 सम्^०, सु^०
 शुद्ध-बोध- अनन्त^०, अपरिच्छि-
 ज्ञानन्त^०
 शुद्ध-ब्रह्म-तेजस- > शुद्धब्रह्म-
 तेजो-मय- पुराकल्पि...य^०
 शुद्ध-भाव- ४अ^०
 +शुद्धा(द-अ)नन्द-परिध- अ-
 नन्त^०
 शुद्धि- ४अ^०, अन्न^०, आत्मन्^०, आ-
 हार^०, इन्द्रिय^०, २कर^०, कर्मन्^०,
 कुसुम^०, चित्त^०, देह^०, नाडी^०,
 १भाव^०, भावात्मन्^०, मतिवि...
 त्ति^०, १मनस्^०, वि^०, शरीर^०,
 सत्त्व^०, स्थान^०, स्वात्मन्^०
 +शुद्धि-क्षालना(न-आ)चमन-
 रजल^०
 +शुद्धि-प्राणस्थापन-प्रणवाव-
 र्तन-मातृपूजना(न-अ)न्तमार्तृ-
 का(क-अ)न्तर्यागा(श-आ)दि-
 आत्मरक्षा...त^०
 शोधन^०- कपाल^०, १कर्ण^०, कौपीन^०,
 नाडि^०, नासिका^०, भूर्भुवस्स्व...

पद^०, विद्यायुग^०
 शोधित- नानाकल्मष^०, वि^०
 +शोधिन्- वि^०
 +शोधय वि^०, सम्^०
 √शुभ् (*बधा.), > शोभि अभि^०, उ-
 प^०, सम्^०
 शुभ- ४अ^०, सदा^०
 शुभा(भ-अ)ङ्ग- प्रफुल्लित...र^०
 शुभा(भ-अ)शुभ- अन्तर्लानस-
 मारम्भ^०, विविधविचित्रानेक^०
 +शुभाशुभ-संकल्प- ४अ^०
 शुभे(भ-इ)च्छा- विचारणा^०
 शुभ्र, आ- कपिला^०, परि^०, २हरि-
 त^०, २हरित^०
 शोभ, मा- १अङ्ग^०, अनन्यभाव-
 रूप^०, उप^०, चरणाकमलमञ्जरी^०,
 बाहु^०, वृन्दावन^०, मणिवटितहा-
 ...जाल^०, मनोहर^०, मार्ग^०, १रू-
 प^०, वेशशृङ्गार^०, सम्^०, सर्व^०, सु^०
 शोभन- ४अ^०, अति^०, आकाश^०,
 परम^०, प्रफुल्लित...भाङ्ग^०, सु^०
 शोभमान- बहु^०, सम्^०, सु^०
 √शोभाय > शोभायमान-
 अति^०, अत्यन्त^०, सु^०
 शोभित- अति^०, अभि^०, उप^०, ना-
 नारङ्ग...म्भ^०, परमानन्द...वन^०,
 पूर्णप्रभा^०, सूपरशना^०, शेषायुतफ-
 ...च्छत्र, षट्कोणम...परि^०, सु^०
 +√शुम्भ् > शुम्भि(न्)नी- एक-
 वृक्ष^०
 शुम्भ- २मधु^०
 √शुष्, > शोधि अति^०, अनु^०, उद्^०,
 उप^०, परि^०
 +शुष्य अनु^०
 शोष- सुषुन्नाना...ल^०
 +शोषक- रेचक^०
 शोषण^०- उद्^०, काय^०, देह^०, शरीर^०
 +शोधिन्- १विष^०

शोष्य- ४अ^०
 १शुक^०-
 +२शुक^०- नीवार^०
 शूद्र- १ब्रह्मन्^०, १ब्राह्मण^०, स्त्री^०
 +शूद्रा(द-अ)ञ्ज-भोजन- समस्तपा-
 ...तक^०
 शून्य, न्या- ४अ^०, अति^०, अन्तर^०,
 अभिमान^०, १आदि^०, आदिमध्या-
 न्त^०, आयन्त^०, इतरलक्षण^०,
 क्षण^०, गमनादि^०, चिर^०, तदाल-
 म्बन^०, देवान्तरध्यान^०, देह^०, द्रष्टृ-
 दर्श...ष^०, निश्चय^०, पात्रान्तर^०,
 पुरुषार्थ^०, प्रचार^०, प्रभा^०, प्रभाम-
 ...द्धि^०, बहिष्^०, बाह्य^०, बुद्धि^०,
 १मनस्^०, महत्^०, लक्षणा^०, लक्ष-
 णा^०, वस्तु^०, वि^०, वृत्ति^०, व्योम-
 न्^०, शमादिषट्क^०, षड्भाववि-
 कार^०, समाधि^०, सर्व^०, सर्वसंकल्प^०
 १स्वरूप^०, स्वसमानाधिकरण^०
 १शूर- -रम् मउ २०, ३९^०. [०-
 ४अ^०]
 शूल- अक्षि^०, १अङ्ग^०, अष्टन्^०, उदर^०,
 कटि^०, १कर्ण^०, कुक्षि^०, गुद^०, गु-
 लफ^०, ३गुल्म^०, जङ्घा^०, जातु^०, त्रि^०
 दन्त^०, दृष्टि^०, नेत्र^०, परिणाम^०, प-
 रिधामन्^०, परिबाण^०, पाद^०, १पा-
 यु^०, पित्त^०, मुष्टि^०, मुष्टिपार्ष्व^०,
 मुष्टिपृष्ठ^०, १वज्र^०, वात^०, शिरस्^०,
 सर्व^०, सुमनस्^०, स्तन^०, २हस्त^०
 +शूल(क)- त्रि^०, धनुस्^०
 शूला(ल-अ)ञ्ज- अष्टन्^०
 शृङ्खल > ला- तीक्ष्ण^०, दुःख^०
 १शृङ्ग- ४अ^०, गो^०, चतुर्^०, नर^०, वृ^०,
 मेरु^०, वि^०, वेणु^०, शश^०, सप्तन्^०,
 हिरण्य^०
 शाङ्ग- कौस्तुभ^०, १शङ्ख^०, सुद-
 र्शन^०
 २शृङ्ग- ऋष्य^०

a) अच्चाः सा. अपा. । °ची° इति संटि. । b) व्यु. ? । c) करणाद्यर्थे कृत् । d) भावे कर्तरि वा कृत् ।

०) गपू. (पृ८१५) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) ऋ ६, ४७, ११ ।

+शृङ्गाट°- १मूल°
 शृङ्गार- आत्मसुख°, क्रीडा°, गन्ध°,
 गृह°, नित्यनू...द°, १रति°, २वे-
 श°, शय्या°°, सुख°
 +शृङ्गार-भूषण- सकल°
 १शृङ्गार-रस- महत्°
 शृङ्गार-वत्-
 शृङ्गारवती^१- २ललिता°°
 शृङ्गारवत्-सखी- पुष्पशय्या°
 शृङ्गार-सुख- परस्पर°
 शृङ्गार-स्थान- रसिकानन्द°
 +शृङ्गारा(र-आ)स्म-सुख- सुरतान-
 न्दव...तिका°
 √शृ(*बधा.)>शिर नि°, वि°
 ४शर- १शङ्ख°, शत°, ६स°
 +शर-शलाका- १आशा°
 शरारु-, शीर्ण- वि°
 +शीर्यं नि°
 +शीर्य- ४अ°
 शेष->, शेष-धि- सु°
 १-२शेष- √शिष् (परि.) द्र.
 शेष- १शङ्ख°
 +शेष-भोगा(ग-आ)सन- शुद्ध°
 +शेष-शाधिन्->शेषशाधि-वन^१-
 मथुरावन°
 शेषक-, शेषण-, शेषित-√शिष्(परि.) द्र.
 शैवाल- जन्तु°
 +√शो>शित->शित- नि°, सम्°
 शिशान- सम्°
 शोणित- अस्थि°°, १त्वच्°°, मांस°,
 मांस°, मेदस्°°, शुक्र°
 शोधिन्-, शोध्य √शुध् (परि.) द्र.
 +शोभनन्दि^१- गणेश°°
 शोषक-, शोषिन्- √शुष् (परि.) द्र.
 श्म(<>स्म)शान- नवकार°, महत्°
 श्मश्रु- केश°, हिरण्य°
 श्याम> २श्या(म)>मा- नीलो-
 त्पलदल°

श्याम-ल, ला- राजन्°, लघु°, १शुक°
 श्यामाक- उदुम्बर°
 श्यामाक-तण्डुल- वटकणिका°
 +श्यामायु->श्यामायु-वन^१- मधु-
 रावन°°
 √श्यै>शी>शीत- अति°, २सुग-
 न्ध°
 शैत्य- एकान्त°
 शीत-उत्तर- अतिभयंकरज्वर°°
 १शीत-ल- अन्तर्°, आ°, सु°, २सु-
 गन्ध°
 +शीतल-ता- अन्तर्°
 श्रध्*->श्र(ध्)>द्/घा>श्रद्-द-
 धत्-, श्रद्-दधान- ४अ°
 श्रद्-धा- ४अ°, उप°, तपस्°, २भ-
 क्ति°, यद्°
 १श्राद्ध- अष्टन्°, आतिथ्य°,
 आत्मन्°, ऋषि°, २गया°, दिव्य°,
 १देव°, १नव°, १पर°, पितृ°,
 भूत°, मनुष्य°, २मातृ°
 +श्राद्ध-मित्र- ४अ°
 √श्रम्,>श्राम् आ°, परि°, वि°
 श्रम- अति°, आ°, ऐहिकासुम्भिक-
 सुख°, नेत्र°, योगाभ्यासकृत°,
 वि°, सुख°
 +श्रमिक->श्रमिका(क-अ)प-
 स्मार^१- अतिभयङ्करज्वर°°
 +१श्रमण-, +अन्य वि°
 श्रान्त- परि°, वि°
 +श्रान्ति- अत्यन्तक्रीडा°, वि°
 २श्रमण^१- ४अ°, ५न°
 १श्रवण->श्रवण->१श्रावण^१-
 √श्रा>१शृ>शृत- ४अ°
 श्राव-, श्रावक-, २श्रावण-, श्रावधि-
 तृ-, श्राव्य- √श्रु (परि.) द्र.
 √श्रि अधि°, अपा°, आ°, उद्°,
 उप°, उपनि°, उपा°, परि°, प्र°,
 प्रति°, प्रत्या°, व्यपा°, सम्°,

समा°, समुद्°, समुपा°
 +श्रय- अपा°, आ°, उपा°, प्र°,
 व्यपा°, सम्°, समुद्°
 श्रित- अधि°, आ°, उद्°, उदग-
 वाच्°, उपा°, परि°, पृथिवी°, सम्°,
 समा°, समुद्°, समुपा°
 +श्रित्य अधि°, आ°, व्यपा°, समा°
 +१श्री- उप°
 +√श्रिष्,>श्रे(ष>)षा- आ°
 २श्री^१- ४अ°, अकथादि°, आगत°,
 इन्द्रजाल°, इन्द्रियार्थ°, गुण°,
 चतुरश्रवेदिका°, २जय°, ३त्रिपु-
 रा°, द्वार°, ३भद्र°, १भाव°,
 १भृगु°, १भोग°, महत्°, यौवन°,
 शमोदित°, श्रीराधा°, सर्व°
 +श्री(क)- ६स°
 श्री-कर- १राम°°
 श्री-कृष्ण- हरि°
 श्री-बीज- प्रणव°, प्रणवसंपुटित°
 श्री-राधारसिकानन्द->श्रीराधा-
 रसिकानन्द-रूप- अकारावि-
 ...प°
 श्रीराधारसिकानन्द-त्रिनोद^१-
 श्री-वल्स- कौस्तुभ°°, १शङ्ख°
 +श्री-वृक्ष- तुलसी°°
 श्री^१>+श्री-कार->श्रीकारिन्- ऐका-
 रिन्°°
 √श्रु,>२श्र, श्रावि, शुश्रूष् अनु°,
 आ°, उप°, परि°, प्रति°, प्रत्या°,
 वि°, सम्°
 शुश्रूषण- गुरु°
 शुश्रूष्(ष>)षा- ४अ°, गुरु°, २द्वाद-
 शवर्ष°, यथोपयोग°
 शुश्रूषु- ४अ°, परि°
 शृण्वत्- ४अ°
 +श्रव- अनु°
 २श्रवण- ४अ°, उपदेश, १कथा°,
 कृषि(ईष्टि)°, तदनादर°, दूर°,

a) व्यु. ? । b) व्यु. ? =पार्षदविशेष- । c) व्यु. अर्थश्च ? । d) गप्. (पृ. ३९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

e) गप्. (पृ. ४०) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । f) गप्. (पृ. ४२) °कान्द° इत्यत्र यनि. शोधः द्र. ।

दूरस्थ^०, दृष्ट^०, देहेन्द्रियनिग्रह^{००},
पापपुरण्य...व^०, पितृ^०, २पुरा-
ण^०, वेदान्त^०, शब्द^०, सङ्गत^०,
समीकरणा^०, सिद्धान्त^०, सूक्ष्म^०
+श्रवण-प्राण-कर्षण- पुराण-
न्या...ति^०
+श्रवण-ध्यान- भगवत्कथा^०
श्रवणीय- ४अ^०
३श्रवण- अनन्त^०, दिश^०
+२श्रवण- प्रातिभ^०
श्रवस्- उच्चैस्^०, उपम^०, वाज^०, वृद्ध^०,
सामन्^०
+श्राव- सम्^०
+श्रावक- सर्वचैतन्यभोग^०
+श्रावयितृ- सम्^०
श्रावित- प्रत्या^०
+श्राव्य- अधिगत^०
+श्रुत्- प्रति^०
श्रुत- ४अ^०, १जन^०, बहु^०, यथा^०, वि^०
१श्रुति- अग्न्यादिगति^०, अद्वैत^०, अ-
नावृत्ति^०, कार्यत्व^०, कृति^०, गति^०,
गुणसाधारण्य^०, जन्मन्^०, तत्कार-
र्यत्व^०, तत्फल^०, तद्^०, तदन्नमय-
त्व^०, त्रिसुपर्णा^०, देवतालय^०, निर्गु-
णादि^०, निर्भागत्व^०, भेद^०, प्राच्^०,
मुक्ति^०, यज्ञादि^०, विमुक्ति^०, वैशि-
ष्ट्य^०, सर्व^०, सर्वोत्कर्ष^०, सादिसं-
सार^०, साम्य^०
श्रौत- ४अ^०
+श्रुत्य(ति-अ)थै- सर्व^०
२श्रुति- ४अ^०, अल्प^०, असङ्गादि^०,
आप्त^०, आहंकारिकत्व^०, दूर^०, १फ-
ल^०, मकार^०
३श्रुति- गो^०, मस्तक^{००}, सर्वतस्^०,
२सन्धेतर^०
श्रोतृ- ४अ^०
श्रोत्र- ४अ^०, २घट^०, चलुस्^०, १त्व-
च्^०, २त्वच्^०, पाणि^०, पाद^{००},
पृथिवी^{००}, पृष्ठवंश^{००}, मुख^{००},

१वाच्^{००}, २वाम^०
श्रेणि, णी- अचल^०, अत्यन्तसुख^०,
अत्युन्नत^०, अष्टम^०, असिपत्रवन^०,
आनन्दाचल^०, एकादशन्^०, कद-
म्बकुञ्ज^०, कुञ्ज^०, २कुञ्जान्तर^०, च-
तुर्^०, चतुर्थ^०, तृतीय^०, १दान^०,
द्वादश^०, द्वादशान्^०, द्वितीय^०, नव-
म^०, निकुञ्ज^०, पञ्चम^०, प्रथम^०, वृ-दा-
वन^०, अमरपि...हंस^०, मन्थ^०, रज^०,
रथ^०, वानीर^०, विद्रुम^०, षष्ठ^०, सप्त-
म^०, सुवर्णालवाल^०
श्रेणि-संचार- परंपरा^०
श्रेयस्- १अहम्^०, महत्^०
+श्रेयस- निस्^०
श्रेषा- √श्रिष् (परि.) द्र.
श्रेष्ठ- १कपि^०, १कुर^०, द्विज^०, नृप^०,
बृहद्रसु^०, ब्रह्मविद्^०, ३भरत^०, सु-
नि^०, २रघु^०
+श्रोणि^{११६}- सु^०
श्रोत्रिय- ४अ^०, महत्^०
श्लक्ष्ण- मृदु^०
√श्लिष् आ^०, उप^०, उपसम्^०, वि^०,
सम्^०
श्लिष्ट- आ^०, उपसम्^०
+श्लिष्य सम्^०
+श्लेष- ४अ^०, वि^०, सम्^०
+श्लेषण- वि^०
श्लेष्मन्- अस्थि^{००}, गल^०, मूत्र^०,
वात^०
+श्लेष्म-साक्षिपातिक-ज्वर^{११६}-
अतिभयंकरज्वर^{००}
श्लेष्मा(ष्म-अ)त->श्लेष्मात-
क- आम्र^{००}
श्लोक- दशान्^०, २पुरण्य^०, मन्त्ररहस्य^०,
वाक्यार्थ^०, सु^०
श्वन्- धूम^०
श्वान- दुष्टकीट^{००}
+श्व-चण्डाल-गो-खर- आ^०
+श्व-मांस- ६स^०

√श्वस्, >श्वसि आ^०, उद्^०, नि^०,
निस्^०, प्र^०, वि^०, विनि^०, समा^०
श्वसन्- उद्^०
+श्वसित- नि^०, निस्^०
+श्वसितव्य- प्र^०
+श्वस्त- आ^०
+श्वस्य निस्^०
श्वस- उद्^०, एक^०, १जित^०, दुःख^{००},
नि^०, निम्^०, प्रचारण^{००}, वि^०,
विनि^०, समा^०
+श्वसया- आ^०
+श्वसित- उद्^०
√श्वि उद्^०
√श्वित् (वधा.) > १श्वेत-> २श्वेत-
शुभ्र^०, २हरित^{००}
श्वेत-केतु- २संवर्तक^{००}
+श्वेता(त-अ)श्व^{११६}- ब्रह्मकै...ल^०
श्वेता(त-अ)श्वतर^०- कठवल्ली^{००}

ष

पण्ड- कदम्ब^०, १पद्म^०
षष्- चतुर्^०, द्वि^०, सप्तन्^०
+षट्-क- १अङ्ग^०, अरि^०, द्वि^०, ना-
मन्^०, भूमि^०, १वर्ण^०, शमादि^०
+षट्क-गण- गुरु^०
२षट्-कोण- त्रिकोण^०
१षट्-चक्र- मूलाधारादि^०
+षट्चक्र-जागर्ति- निरञ्जनज्ञा-
नार्थ^०
+षट्-त्रिंशद्-अक्षर- हयग्रीव^०
२षट्-पद, दी- भूतहृत्पद्म^०, हृत्पद्म^०
१षड्-अक्षर- १राम^०
२षड्-अक्षर- श्रीरामचन्द्र^०, ६स^०
+षड्अक्षर-मन्त्र- रामकृष्ण^०, वि-
ष्णुनृसिंह^०, सुदर्शन^०
१षड्-अङ्ग- नैवेद्यभू...सुस्थ^०, महा-
वाक्य^०, ६स^०
+षड्-गुण- शमदमादि^०

षड्-रस- विविध°
 +षड्-वर्ग- अरि°
 षण्-मास->षण्मासिक->+षण्मासिक-ज्वर°- अतिभयंकर-ज्वर°°
 षण्-मुख- -खः मना १,५°; -खाय मउ ३,५. [°ख- चतुर्मुख°°]
 षष्टि- २घटिका°, चतुर्°, परःशत°
 षष्ठ- १मनस्°
 +षष्ठ-स्वर- व्योमन्°
 षोडशन्- बगलादि°, सहस्र°
 षोड(श>)शी- -शी मना ९,४५°
 षोडश-क- कामाकर्षिण्यादि°, कामाद्याकर्षिणी°
 +षोडश-पदार्थ- प्रमाणादि°
 +षोडश-शक्ति- कामाकर्षिण्यादि°
 षोडशा(श-अ)क्षर-मन्त्र- श्री-कृष्णसुदर्शन°
 षो(ढ>)ढा- १अङ्ग°, १तुर्य°, हंस°
 +ष्रि(>ष्टी)व नि°
 +ष्टीव->ष्टीव-मार्जन- भोजन°
 +ष्टीवन- नि°

स

२स>स:>सोद्वम् अजपा°
 +सं/यज्>सं-याज- पत्नी°
 सं/यम्(यमने)>सं-यत- ४अ°
 सं-यम- आत्मन्°, इन्द्रिय°, इन्द्रिय-प्राप्त°, कायरूप°, कायाकाश°, प्रहरणस्व...त्वं°, चित्त°, तत्प्रविभाग°, तद्°, ३तार°, धर्माधर्म°, परार्था...र्थ°, परिणामत्रय°, प्राण°, संबन्ध°, स्थूलस्व...त्वं°, स्वाध्याय°, स्वार्थ°
 सं-यमन- प्राण°

+सांयमन- -नम् कौ २,५!°
 +सं-याम- प्राण°
 सं/या>+सं-यान- सत्त्व°
 सं/यु(मिश्रणे)>सं-युत- ४अ°, २अधर°, अनुस्वार°, अशेष-गण°, अशेषामर°, अष्टाङ्ग°, अष्टावरण°, आभ्रमञ्जरि°, गण°, गुणपञ्चक°, चतुरण्डक°, चतुः-शीर्षक°, १तार°, निश्चयज्ञान°, निश्चलज्ञान°, पत्नीपुत्रादि°, पूर्वोक्तिज्ञान°, फणित्°, भस्मन्°, मात्राद्वादशन°, संतोष°, समस्त-कुल°, सर्वलक्षण°, सर्वस्वजन°, सीतालक्ष्मण°, सु°, सूत्र°
 सं/युज्,>योजि>सं-युक्त- अग्नि° अनन्तशक्ति°, अनेकभुज°, कटुति-क्त...रस°, कुलात्रिशक°, क्रीडावि-हार°, गजास्वरथ°, गोत्रभृत्य°, घृतसूपादि°, ज्ञानसंहार° प्रभृ.
 सं-योग- ४अ°, आत्ममनश्चतुस्°, आसनभेद°, कर्मफल°, क्षेत्रक्षेत्र-ज्ञ°, जलशीकर°, तद्°, दुःख°, परावर°, बुद्धि°, १मनु°, मातृपितृ°, रस°, विषयेन्द्रिय°, शरीर°, शिवो-मातीर्थ°, शुक्रशोणित°, सर्वात्म-न्°, स्वर°
 +सं-योग्य->संयोग्य-ता- सुख°
 +सं-योजिन्- केसरसृग्...खा°
 +सं-योज्य- ४अ°
 सं/रन्>+सं-रक्षक- आत्मविद्या°
 १सं-रक्षण- आत्मन्°, जन्तु°
 सं/रभ्,>म्भु>संरभावहै वृ ६, ४, २०^द.
 सं-रम्भ- अशेष°, कृत्रिम°
 सं/राज्>+सं-राजित-वेशश्व...भा°
 सं/रुध्>+सं-रोध- प्राण°, वास-नाप्राण°, संविद्°
 +सं-रोधन- प्राण°

+सं/लज्>सं-लक्ष्य- सर्ववेदान्त°
 सं/लग्>सं-लग्न- ब्रह्मप्राणव°, सु°
 सं/ली>+सं-लीन- प्राणवबहु...न°
 सं-वत्सर- चन्द्र°, दिन°, पक्ष°, प्रधान°, शत°, सहस्र°
 सांवत्सरिक->+सांवत्सरिक-ज्वर°- अतिभयंकरज्वर°
 +संवत्सर-रात्रो(त्र-उ)षित-, +संव-त्सर-वासिन्-, +संवत्सर-वेदि-न्- ४अ°
 +संवत्सरा(र-आ)दि-काल-वि-भाग- ५न°
 सं/वद्>सं-वाद- गुह्यशिष्य°
 +सं-वादि(न्>)नी- लोकपाल°
 +संवादि-गुण- रूपशो...रस°
 सं/वल्>सं-वकित- १अङ्ग°, अत्य-न्तक्रीडाश्रान्ति°, अनन्यभाव...स्य°, अनुराग°, आनन्द°, आलि-ङ्गनचु...सुख°, ओंकारबीज°, १का-म°, खाद्यपेय...क°, गुण° प्रभृ.
 सं/वस्(निवासे)>+सं-वास- अत्य-न्त°
 सं/वह्,>वाहि>+सं-वाहन- गात्र°
 +सं-वाहिन्- रूपशोभासं...भाव°
 +सं/विज्>सं-विभ- शोक°
 +सं-वेग- तीव्र°
 सं/विद्(ज्ञाने)>सं-विद्- ४अ°, १अङ्ग°, अद्वितीयपर°, अन्तःस्थ° चित्त°, २जल°, जाड्य°, निरुपा-धिक°, निर्वाण°, १पर°, प्रवितत...खं°, १भाव°, भूमि°, शुद्ध°, सर्व°, स्व°, हर्षामर्ष°
 +संविद्(क)- हुत°
 सं-वित्ति- ४अ°, एकान्त°, गलित°, चिदाद्या...हान्°, १ब्रह्मन्°, शुद्ध-सन्मात्र°, सुख°, स्व°
 १सं-विद्वान- ४अ°

a) 'षष्ठः' इति JC. । b) मा ८, ३६ । c) 'सायमन्नम्' इति निसा., अज्या., 'संयमनम्' इति शांभ्या. (४, ५) च पा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. आन.) । d) 'सुभवाव' इति शौ १४, २, ७१ (तु. टि. वैपश् यस्या.) ।

सं-वेदन- ४अ°, त्यक्त°, प्रचार°, स्वबुद्धि°, हृदिकान्तव्योमन्°
 सं-वेद्य- सर्व°, सु°
 सं/विद्(ताभे)> २सं-विदान- -नः मउ ९, ४९°
 सं-वी[वि/इ(गतौ)]सं...वि...एति मना १, ३९°
 सं/वृ(आच्छादने)>सं-वृत्- ४अ°, अष्टपात्र°, २घट°, २पट°, वायुमण्डल°, १षोडशपात्र°
 सं-वृत्ति- कल्पित°
 सं/वृत्(*बधा.)> १सं-वर्त-> १सं-वर्त-क- महत्°
 २सं-वर्त-> २सं-वर्त-क- श्वेतकेतु°°
 सं/वृध्>वर्धि> +सं-वर्धित- मद्°
 सं-वेग- सं/विज्(परि.) द्र.
 सं-व्या(वि/आ)प् +सं-व्या(वि-आ)-स- इक्षुरस°
 सं/शम>सं-शान्त- सर्वसंकल्प°
 +सं-शान्ति- गाढतामिस्र°, सर्वेच्छाजाल°, प्राणाद्यनिल°
 सं/शी>सं-शय- ४अ°, आज्ञा°, छिन्न°, ज्ञानसंछिन्न°, निस्°, व्याधि°, सर्व°
 +संशय-वत्- ४अ°
 सं/शुध्> +सं-शुद्धि- १भाव°, सत्त्व°
 +सं-शोधन- नाडी°
 सं/शो>शा>सं-शित- प्राण°
 सं/श्रि>सं-श्रय- ४अ°, अर्घ्यपात्रादि°, विद्यामन्त्रैक°, वैष्णव°
 सं/श्रु> +सं-श्राव- वायु°
 सं/शिलष्> +सं-श्लेष- ४अ°
 सं/सञ्ज्> +सं-सक- ४अ°, एतत्कोशचतुष्टय°, एतत्कोशत्रय°, एतत्कोशद्वय°, कुटुम्ब°, गोपीचन्दन°, विविक्रदेश°
 सं-सक्ति- ४अ°
 +सं/सद्>सं-सद्- १जन°, १ब्रह्मन°, व्याख्याध्ययन°, सर्वदेवर्षि°

१सूर्य°
 सं/सिध्>सं-सिद्ध- ४अ°, अनादि°, अनेकजन्मन्°, आद्यनादिरूप°, चैतन्यमात्र°, देशका... भाव°, २योग°, षट्कर्मन्°, साधन°, सु°, रवप्रकाशैक°, स्वभाव°
 सं-सिद्धि- १इष्ट°, २योग°
 सांसिद्धिक- ऊमज्ज°
 सं/सृ>सं-सार- अनादि°, १असत्° कलि°, गर्भजन्मजरामरणा°, गर्भजन्ममरणा°, गर्भजन्मव्या...रा°, दग्ध°, नाना°, महत्°, १मृत्यु°, सर्व°, सादि°
 +संसार-कलन- शान्त°
 संसार-चक्र- असार°
 संसार-दुःख- सर्व°
 +संसार-धर्मन्- अन्यारोपित°
 संसार-बन्धन- जन्मन्°, धृत°
 संसार-सुख-दुःख-विषय- अनित्य°
 +संसारा(र-आ)वरण- पितृमातृ...ता°
 सं-सृति- भन्तःकरण°, सर्व°
 सं/सृज्>सं-सर्ग- ४अ°, असत्सं...न°, एतद्वायुदशक°, १विष°, १सत्°
 सं/सेव्> +सं-सेवित- सुख°
 सं-सेव्य- २सुर°
 सं-स्/कृ>सं-स्कार- अनेकजन्मन्°, अन्य°, अशेष°, कृत°, गर्भाधानादि°, चतुरस्रत्वारिंशत्°, चत्वारिंशत्°, २जाग्रत्°, पञ्चन्°, परिणाम°, मन्त्र°, २वेद°, व्युत्थाननिरोध°, संध्योपासनकाल°, २स्मृति°, हरि°
 सं-स्कृत- ४अ°, काञ्चन°, पञ्चसंस्कार°, सु°
 सं/स्तु>सं-स्ताव- प्रतिष्ठा°, स्वर्ग°
 +सं-स्तुति- आत्मन्°

+सं-स्तुत्य- मन्त्र°
 सं/स्था,>स्थापि> १सं-स्थ,स्था- अरुणकमल°, १घटी°, पुरमध्य°, १ब्रह्मन्°, महिषोत्तमाङ्ग°, स्वचित्तविल°, स्वर्णसिंहा...ल°
 २सं(स्थ>)स्था- मद्°, आत्मन्°, ईश°, दल°, मृदत्°, सर्व°
 सं-स्थान- अद्वैत°, तदभ्यन्तरं°, नाभिमण्डल°. विहार°, २हस्त°
 +सं-स्थापन- धर्म°
 सं-स्थाप्य सु°
 सं-स्थित- अग्नि°, अनेकाकार°, ऊर्वाधस्°, एकान्त°, कण्ठ°, चित्तत्व°, नाभिमण्डल°, निरुपाधि°, पञ्चाद्यासन°, बुद्धिसत्त्व...यं°, भूमध्य°, २योग°, रक्ताम्बुज°, १विश्व°, हृन्नाभि...दि°
 सं-स्थिति- २जाग्रत्°
 सं/स्पृश्>सं-स्पर्श- १अङ्ग°, तृणकाष्ठ°, प्राणा°, १ब्रह्मन्°
 +सं-स्पर्शन- नाडी°
 +सं-स्पृश्य- +सं-स्पृश्य- ४अ°
 सं-स्पृष्ट- ४अ°, शिवाग्निधूम°
 सं/स्मृ>सं-स्मरत्- -रन् गोउ१५°
 सं/हन्(*बधा.)> +सं-हति-त्वद्भांस...स्थि°, मांसाक्षुप्...स्थि°
 +सं-हनन- वज्र°
 +सं-ध- अनन्त°, अवनिपाल°, ऋषि°, गन्धर्वय...द्ध°, जीव°, १ज्ञान°, भूतविशेष°, महर्षिसिद्ध°, सिद्ध°, २सुर°
 सं-घात- ४अ°, अस्थिचर्म...फ°, इन्द्रिय°, एतद्°, देहादि°, पवमानपा...चि°, मनोबु...चित्त°, मोहजालक°, विण्मूत्र...फ°
 संहारिन्- नाउ. द्र.
 सं/ह्>सं-हरण- १पाप°, सर्वदुष्ट- दैत्यदानव°
 सं-हर्त- सर्व°

ब) 'संरराणः' इति मा ८, ३६ (एतदनु गपू. [पृ८५४]) श्लोचः द्र.) । b) मा ८, ३६ (एतदनु गपू. [पृ८५४]) श्लोचः द्र.) । c) गपू. (पृ८५८) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । d) आन. अपा. ।

स-हार- उत्पत्ति^०, १ज्ञान^०, नि-
मेष^०, २प्लुत^०, भीषण^०, सर्व^०,
सृष्टि^०, स्थिति^०
+सं-हारिन्- , +सं-हृत्- सर्व^०
स-कल- सर्पराज^०...दि^०
+सकल-किल्बिष- भूत^०, भूतप्रेत-
...दि^०
+सकल-दिग्-अन्तर- महाविद्या-
सं...त^०
+सकल-भुवन- सूर्यादि^०
+सकलै(ल-ए)षणा- प्रशान्त^०
स-काम->+सकाम-कर्मन्- निखि-
लनिगमोदित^०
सकाश- तद्^०, त्वद्^०, प्रजापति^०
सकृत् ४अ^०
सक्तु- मोदक^०
सखि, खी- अनेक^०, एक^०, क्रीडा^०,
नाना^०, १बृहत्^०, २रमणानन्द^०,
रास^०, शृङ्गारवत्^०, २श्री^०, स्व^०
सखी-भाव- अत्यन्त^०
सखी-समूह- ६स^०
सख्य- सुग्रीव^०
+स-गोत्र- ऋष्यात्रेय^०, सांख्यायन^०
सं-कट^०- अति^०, संसार^०
सं/कल्>+सं-कलन- २काल^०
+सं/काश>सं-काश- अग्नि^०, अ-
तसीपुष्प^०, अभिनवजलद^०, अ-
मृतोदधि^०, कदलीपुष्प^०, कोटि-
सूर्यप्रकाश^०, कोटिसूर्यप्रकाशवै-
भव^०, चन्द्र^०, चन्द्रमण्डल^०, तप्त-
काञ्चन^०, दीप^०, नीलजीमूत^०,
भातुमण्डल^०, विहुमहुम^०, शुद्ध-
स्फटिक^०, संपूर्णचन्द्र^०, सहस्रा-
दित्य^०, सिन्दूरजात^०, १सूर्य^०
सं/कित्(ज्ञाने)>सं-केत- महाली-
ला^०
+संकेत-वट- वंशीवट^०
+संकेत-वन^०- मथुरावन^०
सं/कुब्>१सं-कोच- करठ^०

+संकोच-विकास- यद्^०
सं-कोचन- करठ^०, लिङ्ग^०
संकुल- अनन्तचिन्म...ल^०, अनन्त-
शु...ल^०, अनन्तान...ल^०, अ-
नन्तोपनि...ल^०, कल्लोलवन^०,
धर्म^०
+संकुलि>संकुलित- अतिस्ने-
ह^०, निर्भरसेचनरस^०
सं/कृष्>सं-कर्षण- अनिरुद्ध^०,
वायुदेव^०
सं/कृ, >किर>सं-कर- ३वर्या^०,
२स्मृति^०
सांकर्ष्य- उत्पत्ति^०
सं-कीर्ण- ४अ^०
सं/कृत्>कीर्ति>सं-कीर्तन- नाम-
न्^०
सं/कृत्पु(<कृप्), >कल्प, कल्पि>
सं-कल्प- ४अ^०, आज्ञाभयसं...
ण^०, अणिमाद्य...द्^०, अध्यक्षसाय^०
अशेष^०, असंन्यस्त^०, अहमित्या-
दि^०, आकाश^०, कर्तृत्वाद्यहंकार^०,
१काम^०, केवलमोक्षापेक्षा^०, १ज्ञा-
न^०, तद्^०, देवमनु...काम^०, नाना^०,
निःशेष^०, निस्^०, पितृमातृ...रण^०,
१भगवत्^०, यमाद्यष्टाङ्गयोग^०,
वर्णाश्रमधर्मकर्मन्^०, १वाच्^०,
विषय^०, शब्दादिविषय^०, शान्त^०,
१शिव^०, शुभाशुभ^०, १सत्य^०,
समस्तनष्ट^०, सर्व^०, सिद्ध^०, स्व^०
+संकल्प-ज- ऊष्मज^०
+संकल्प-जाल- सर्वे^०
सं-कल्पन-, >संकल्पनीय- ४अ^०
सं-कल्पित- यथा^०
+सं-कल्प- ४अ^०
सं/क्रम>सं-क्रमण- प्राण^०,
बहु^०
+सं-क्रान्त- ४अ^०, मोहभाजुज^०
सं/क्षि(क्षये)>सं-क्षय- मोह^०, विक-
ल्प^०, संकल्प^०, सर्वाशा^०

सं/क्षिप>सं-क्षेप- विध्युक्कर्मन्^०
सं/क्षुभ>+सं-क्षोभण-, +सं-क्षो-
भिन्-, णी- सर्व^०
सं/ख्या>१-२सं-ख्य- गधू,
पृ०६४ द्र.
३सं-ख्य, ख्या^०- ४अ^०, ऊर्मि^०, एक^०
एकविंशति^०, एतद्^०, २कति^०,
चतुर्मुखपद्म...दि^०, तन्तु^०, ति-
ल^०, देश^०, द्वि^०, नामन्^०, पत्र^०,
पलाशाङ्कुर^०, प्रति^०, यावत्^०, शत^०
षष्^०, षोडशचतु...शत्^०, सप्तन्^०,
सप्तर्तुस...द्र^०, सहस्र^०
१सांख्य->+सांख्या-
(ख्य-श्च)न्त- लोकायतादि^०
२सांख्य- कर्मन्^०
+संख्या-(क)- ४अ^०, एकत्रिं-
शत्^०, एकोनविंशति^०, २कति^०,
चतुर्विंशति^०, दशन्^०, द्वात्रिंशत्^०,
षोडशन्^०
सं-ख्यात- ४अ^०, चतुर्विंशति^०, रस^०,
सहस्रदल^०
+सं-ख्यान- केसर^०, गुण^०, तत्फल^०,
तद्दीप^०, तद्दीज^०, तद्रज्जु^०, तद्दो-
मन्^०, पत्र^०, २पल^०
+सं-ख्येय- ४अ^०
सं/गम्>सं-गद- ४अ^०, १ब्रह्मन्^०,
मूलप्रकृति^०, सु^०
सं-गति- अविवेकप्रकृति^०, महा-
पा...ष्ठ^०, ६स^०, समयाचार^०,
साधु^०
सं-गम- ४अ^०, ग्रामसूकर^०, ग्राह्य-
ग्राहक^०, त्रिवेणी^०, दीक्षितोदधि^०,
मस्मामि^०, भार^०, रजस्वी^०,
शास्त्रार्थ^०, साधु^०, खप्र^०
+संगमो(भ-उ)पवेश-ताम्बूल-
सुगन्ध-रस- सखी^०
सं/ग्रह>सं-ग्रह- उदरमात्र^०, कर्म-
न्^०, १मनस्^०, मन्त्रतन्त्रादि^०,
लोक^०, शिष्य^०, सर्वसिद्धान्त^०

सं-ग्रहण- प्राण°, ब्रह्मचर्यशास्त्रि°
 +सं-ग्राह्य- १भाव°
 सं/गै>गा>सं-गीयमान- उन्मद-
 को...र°
 संघ- सं/हन् (परि.) द्र.
 सं/घट्>+सं-घटित- त्रिदशमु...
 रत्न°
 ✓सच्/सचते मउ ९, ४९°.
 सं/चर्>सं-चरत्- ४अ°
 +सं-चरित- अनन्यभा...भा°,
 १रति°, रूपशोभा°
 सं-चार- अत्यन्तसुखश्रेणि°, पर-
 स्पर°, परापर°, प्राक्कन°, मध्य°,
 वायु°, विविध°, वृत्त°, श्रेणि°,
 सर्वलोक°
 +सं-चारक- सकल°
 सं-चारिन्- प्राण°
 सं/चि>सं-चय- अर्थ°, कर्मन्°,
 ग्रन्थि°, नाडि°, १भोग°, महा-
 विद्या°, शिष्य°
 सं-चित- पञ्चीकृत...र्मन्°, प्रारब्ध°
 सं/छिद्>सं-छिन्न- १ज्ञान°
 ✓सञ्ज् अति°, अतिप्र°, अनु°, आ°,
 उपा°, नि°, प्र°, व्यति°, सम्°,
 समा°
 सक्त- ४अ°, अति°, अनु°, अन्यो-
 न्य°, आ°, गुरु°, नि°, प्र°, व्यति°,
 सम्°, समा°
 +सक्ति- ४अ°, अतिप्र°, आ°, प्र°,
 सम्°
 सङ्ग- ४अ°, १अङ्ग°, १अज्ञान°,
 अतिप्र°, अन्तर्°, अत्यन्त°,
 अशेष°, अशेषलो...स्त°, आ°,
 आत्मन्°, उपा°, कर्मन्°, गत°,
 गुण°, १जित°, १ज्ञान°, तद्गुरु°,
 तृष्या°, त्यक्त°, देशका...न्तर°,
 निस्°, पुत्रदारदि°, प्र°, प्रथम°,
 बहिस्°, मात्रा°, १मुक्त°, १रति°,
 २ब्रज°, १शिव°, ६स°, १सत्°,
 सर्व°, सुख°, स्त्री°

+सङ्ग-दोष- १जित°
 +सङ्ग-रहित-स्मरण- स्वव्यति-
 रिक्रवस्तु°
 सङ्गिन्- ४अ°, कालिन्दीज...ला°
 +सञ्जन- ४अ°
 सं/जन्>जा>सं-जात- चित्तमा-
 लिन्य°, ब्रह्मानन्दाश्रु°, मनोविक-
 ल्य°, विघ्नबाहुल्य°, शीतांशु°, श्र-
 म°, संसारार्णव°
 सं/जीव>सं-जीवन- सर्व°
 सं/ज्ञा>सं-ज्ञा, ज्ञा- अक्षर°, अभि°,
 अध्यात्म°, अनन्त°, १अन्ध°,
 अमृतस°, अष्टाक्षर°, आगस्त्य°,
 आत्मन्°, इष्टानिष्टशब्द°, ईश्वर°,
 कर्मन्°, उदान°, २काल°, ३गाय-
 त्र°, तत्त्व°, तुरीय°, धर्म°, पाद°,
 १पुरुष°, पुरुषोत्तम°, पद्युम्न°, प्रा-
 ण°, १ब्रह्मन्°, महारौरव°, मुक्ति-
 मण्डप°, मूलप्रकृति°, २योग°,
 १रुद्र°, लय°, ३वर्ण°, वशीकार°,
 वायु°, विष्णु°, ५स°, २समान°,
 सरिगमपधनिस°, सर्व°, सहज°,
 सुखदुःख°, सुखदुःखमोह°, १सो-
 म°
 +संज्ञ(-क)- अन्वर्थादि°, अव्यक्त°,
 आतुर°, २खेचरी>रि°, जीव°,
 निमेषोन्मेष°, १पुरुष°, प्राण°,
 महारौरव°, मायाज्ञानादि°, सत्य-
 वसु°
 +संज्ञिन्- संज्ञा°
 सं/ज्वल्>+सं-ज्वल(ल)>ला-
 प्रज्वल°
 १सत्->१सच्-चिद्-आनन्द->
 सच्चिदानन्दा(न्द-आ)त्मक-
 १ब्रह्मन्°
 २सत्-चिद्-आनन्द- अखण्डलक्ष-
 ण°, निस्तरङ्गाद्वैत...य°
 +सच्-चिद्-उल्का- पवनाव...
 लन°

सञ्-जन- शास्त्र°
 सत्/कृ(करणे)>सत्-कार- दीर्घ-
 काल°°
 सन्-कृत- ४अ°, मन्त्र°
 सत्-तम- १कुरु°, द्विज°, नृप°,
 १ब्राह्मण°, ३भरत°, मुनि°
 सत्-ता- कला°, २काल°, चित्त°,
 नित्यशुद्धिचि...न्द°, परमेस्वर°,
 परात्मन्°, १ब्रह्मन्°, महत्°, रज्जु°
 लोल°, वस्तु°
 +सत्ता(-क)- प्राप्त°
 सत्ता-मात्र- १केवल°, १भगवत्°
 +सत्-पात्र- चूर्णाधार°
 सत्-पुत्र- १धन°°
 सत्-सङ्ग- यथासंभव°
 सद्-आचार- १धृति°°, स्वाश्रमोक्त°
 सद्-आत्मक- स्वप्रकाश°
 +सद्-आत्मन्- त्सा पदं ४°.
 सद्-गन्ध-गु(टक>)टिका- यावत्°
 सद्-गुरु->+सद्गुरु(रु-उ)पासन-
 देहेन्द्रियनिग्रह°
 सद्-भाव- अनेकजीव°, अन्तःकर-
 ण°, भस्मन्°
 +सद्भावा(व-अ)भाव- वेप°
 सन्-मात्र- १केवल°, शुद्ध°, सत्व-
 स्वरूप°, सर्वाधिष्ठान°
 सत्तु- ✓सद् (परि.) द्र.
 सत्त्व- ४अ°, आयुस्°, तदूर्ध्वस्थ°,
 धर्म°, १नित्य°, पीठ°, पूर्वसि-
 द्ध°, बुद्धि°, भूत°, महत्°, रजस्°,
 १विशुद्ध°, शीत°, शुद्ध°, सर्व°
 सार्विक- दृढतर°, शुद्ध°, सौर°°
 +सत्त्व-चमत्कार- रुढ°
 +सत्त्व-मय- गुणातीत°°
 सत्त्वां(त्व-अं)श- भूत°
 +सत्त्वौ(त्व-अो)जस्- १सम°
 १सत्य- स्वम् अशि ७०^d. [°स्व-
 ४अ°, अहिंसा°, आत्मन्°, १द्वैत°,
 १नित्य°, नीलिमन्°, ब्रह्मचर्य°°]

भास्, शुद्ध^०, १ सत्य^०] सत्य-त्व- जगत^०, देहादि^०, स्वस्व-रू... गत्^०
 सत्य-लोक- आ^०, तपोलोक^०, भूलो-क^०
 सत्य-स्वरूप- अद्वितीय^०
 सत्या(त्य-ञ्चा)त्मक- अद्वैत^०
 २-३ सत्य- गपू. पृ८७३ द्र.
 +४स(त्य>)त्या^१ - १ नन्द^०, विम-ला^०
 +५स(त्य>)त्या^१ - विराजा^०
 ✓सद्, >सीद्, सादि अनुवि^०, अव^०, आ^०, उद्^०, उप^०, उपनि^०, उपोप^०, नि^०, परि^०, प्र^०, वि^०, समा^०, संप्र^०
 +सत्- उप^०
 स(त्त्र>)त्र- -त्रम् पंहं १५० : ६०.
 [त्र- २ द्वादशवर्ष^०, महत्^०, १ शिव^०, ज्ञान^०]
 +सद्- अन्तरिक्ष^०, उप^०, उपनि^०, १ ऋत^०, गर्त^०, २ चमू^०, दिवि^०, दुरीण^०, नृ^०, परि^०, पृथिवी^०, २ वर^०, वेदि^०, व्योमन्^०, शुचि^०
 +सद्- उप^०, दुरा^०
 +सदन- अनङ्गराज^०, १ गुहा^०, १ दे-व^०, पञ्चबाण^०, १ ब्रह्मन्^०, भक्तजि-ह्वाप्र^०, होतृ^०
 सघ्न- १ मनस्^०, वसुदेव^०
 सन्न- अनुवि^०, आ^०, उद्^०, उप^०, नि^०, प्र^०, संप्र^०
 +सन्नवत्- प्र^०
 +साद्- प्र^०, प्र>प्रा^०, वि^०, संप्र^०
 +१ सादन^१ - उद्^०, प्र^०
 २ सादन^१ -
 +सादयत्- अव^०
 +सादित- आ^०
 +सादिन्- प्र^०, वि^०
 +साद्य आ^०, प्र^०, समा^०

+सीदत्- उप^०, वि^०
 +सेदिवस्- आ^०, प्र^०
 सदा पंहं ४^१; जाद ३, ६, ३^६; गौड १५^१.
 १ सदा(दा-ञ्चा)नन्द- अद्वैत^०
 +सदानन्द-पूर्ण- -र्णः भा २८^१.
 +सदा(दा-ञ्चा)नन्दा(न्द-ञ्चा)नुभ-वै(व-ए)क-गोचर- सकृद्वि-भात^०
 सदा(दा-ञ्चा)भ्यास- आत्ममन्त्र^०
 +सदा-मोद-दायिन्- श्रीवृन्दावन^०
 सदा-रासक्रीडा-प्रकट^०
 +सदा-विहार- किशोरन...यस्^०
 सदा-शिव- १ ब्रह्मन्^०, २ श्री^०
 स-दृश- अयःशलाका^०, आकाश^०, कालानल^०, गगन^०, गोपाल^०, तद्^०, निवातदीप^०, पार्वणचन्द्रको-टि^०, प्रवालाङ्कुर^०, मद्^०, श्यामत्व^०
 श्वमूत्र^०, सुवरी^०, सुधुप्त^०
 सद्यशी- नवदूर्वा^०
 सादृश्य- अदूरगत^०
 सद्यस्(>ः)>सद्यो-जात- तत्पुरु-ष^०, २ मत्स्य^०
 स-धर्म->साधर्म्य- प्रारब्धसं...र्मन्^०
 +स^१-धर्मन्- विद्या^०
 ✓सन्>सनि- १ धन^०, वाज^०
 सनक- नारद^०
 सनत्>सनत्-कुमार- सनक^०
 सनत्-सुजात- सनक^०
 सनन्दन- सनक^०
 सना>१ सना-तन-
 २ सनातन- सनक^०
 +सनातना(न-ञ्चा)द्य- सनत्सुजातादि^०
 सं/तन्>सं-तत- विशवाह^०
 सं-तति- ४अ^०, १ ज्ञान^०, दुःख^०, प्राण^०, शाल्म^०, संसार^०, सुख^०
 सं/तप्>सं-ताप- ब्रह्माद्यैश्च...

ज^०, २ भव^०
 सं/तुष>सं-तुष्ट- यहच्छालाभ^०, स्मरणमात्र^०
 सं-तुष्टि- देवता^०, यहच्छालाभ^०
 सं-तोष- तपस्^०, दीक्षा^०, शौच^०, सदा^०, सर्व^०, स्वाध्याय^०
 सं/तृ>तारि>+सं-तारण- कलि^०
 सं/त्यज्>सं-त्यक्त- अन्तर्^०, सद्य-स्^०, सु^०, स्वाद्यस्वादक^०
 +सं-स्याग- वासनामात्र^०
 +सं-स्यागिन्- ध्येय^०
 +सं/त्रस्>सं-त्रास- कालादि^०
 सं/दिद्>सं-दिग्ध- भस्मन्^०
 २ सं-देह- गत^०, परमानन्द^०, विश्रा-न्त^०, शान्त^०, सर्व^०
 +सं-देह-दौरात्म्य- शान्त^०
 +सं/दुष>दूषि>सं-दूषित- १ देव^०
 सं/धा>सं-हि(त>)ता- १ पुरुष^०, महत्^०, यजुर्वेद^०
 सं-धान- प्रयाव^०, ब्रह्मप्रयाव^०, १ स-त्य^०, १ स्वरूप^०
 सं-धि- अति^०, अद्योत्तर^०, ऋतु^०, तद्^०, तद्दल^०, तुन्द^०, त्रि^०, पाद^०, संधि, सर्व^०
 +संधि-काल- ४ युग^०
 +संधि-अह^१ - अरिष्टकारिणी^०
 +संधि-स्थान- तद्^०
 १ सं(ध्य>)ध्या- कृष्णपक्षरिक्त^०, तुरीय^०, त्रि^०
 १ स-हित- अकारोका...त्रा^०, अन्य-प्रतिपत्ति^०, अपानवह्नि^०, उमा^०, ऋग्वेद^०, कामादि^०, कुङ्कुमादि^०, १ ज्ञान^०, ज्ञानवैराग्य^०, तद्^०, तद्वा-सना^०, तारादि^०, १ त्रिवर्ण^०, देव-ताप्रत्यधिदेवता^०, द्रव्यमन्त्रस्थ-लादि^०, द्रव्यमन्त्रस्थानादि^०, द्वि-त्रिवर्ण^०, नियति^०, बहूपान^०,

a) व्युः! =सखीविशेष-, शक्तिविशेष-। b) व्युः! =नाडीविशेष-। c) निसा. अपा.। d) भावे कृत।

e) गपू. (पृ८७३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। f) अञ्चा : सं. अपा.। g) अञ्चा : यो. अपा.। h) आन. अपा.।

i) तान्त्रि. अपा.। j) गपू. (पृ८७४) °डाप्रकर इत्यत्र यनि. शोधः द्र.। k) =५स।

माथा°, सुक्ति°, मौञ्जीकौपीन°,
४रमा°, रूपतन्मात्र°, वत्सवत्स-
तरी°, वराभ...रुड°, १विज्ञान°,
संस्कार°, सामवेद°, हुंफट्नुति°
+साहित्य°- तद्°, धर्म°, सं-
गीत°

सं/धृ>धारि> +सं-धारण- प्राण°,
शरीर°

१संध्या- सं/धा (परि.) द्र.

+३सं(ध्य>)ध्या°- सत्या°

सं/ध्यै>ध्या> २सं(ध्य>)ध्या-
ध्यान°, प्रातर्°

संध्या-क्रिया- १ब्रह्मन्°

+संध्या-वन्दन- सायम्°

सन्न-सन्नवत्- /सद् (परि.) द्र.

+सं-नि/काश्>संनि-काश- शर-
दध्र°

सं-नि/कृप्> +संनि-कृष्ट- ४अ°

सं-नि/धा>संनि-धान- गम्भीर-
नामिहद°, तद्°

संनि-धि- आत्मन्°, आदित्य°,

गुरु°, तद्°, देवता°, प्रतिमा°, ब्रह्मा-

त्मन्°, मद्°, महादेवी°, श्रीराम°

सांनिध्य- १चित्°, जपाकुसुम°,

देवता°, मद्°, श्रीराम°

संनि-हित- ४अ°

सं-नि/पत्>संनि-पात->सांनि-
पातिक- श्लेषन्°

+सं-नि/भा>संनि-भ,भा- अपा-
नादित्य°, आकोश°, कालानल°,

कोश°, गर्जत्पर्जन्य°, चम्पकातसी-

...सार°, जपावन्धूक°, तरुणादि-

त्य°, नीलजीमूत°, प्रवालाङ्कुर°,

बन्धूक°, शुद्धरफटिक°, सौदाम-

नी°, रफटिक°, स्वप्नसंगम°

सं-न्य(नि/अ)स्(क्षेपणे)>संन्य-

(नि-अ)स्त- ४अ°, २योग°

संन्या(नि-अ)स्°- अर्निमित्त°, अ-

न्तर°, आतुर°, उत्क्रमणकाल°,

उपाधिभेद°, कर्मन्°, केन°, क्र-

म°, ३घोर°, १ज्ञान°, ज्ञानवैराग्य°,

निमित्त°, परम°, तुरीयार्तीत°,

वैराग्य°, सर्वरांकल्प°

संन्या(नि-अ)सिन्- १नित्य°, पूर्व°,

विद्वस्°, विविदिपा°, सर्व°, सर्व-

संकल्प°

सपत्न- ४अ°

+सं-पवन- -नम् १योत ८३१।

सपत्न- चतुर°, त्रिचतुर°, द्वि°,

पञ्चन्°, षष्°

सस-क- त्वग्धातु°, १बीज°, भूमि-

का°, मुखबीज°

+सस-जि(ह्वा)>ह्व-ह्वाय मउ३, ६.

ससति- एक°, चतुर°, द्वि°

सस-दशन- सप्तन्°

१सस-द्वीप- महाभुजपरिवारित°,

६स°, ससागराम्भस्°

१सस-धातु- त्वगादि°

+सस-भूमिक- माशिमय°

सस-म- २शिवि°

+ससम-द्वार- श्रेणी°

+सस-मुख- चतुर्मुख°

+सस-शृङ्ग- अच्छिद्रित°

ससा(स-अ)क्षर- १राम°

स-प्रसृतिक°-

स-फल->साफल्य- मन्त्र°

सभा- एक°

सभ्य- आहवनीय°

१सम- ४अ°, अग्नि°, अत्याश्चर्या...

ति°, अथर्वेशिरः...पक°, अर्चिस्°

अर्धचन्द्र°, अश्वमेध°, १असत्°,

इन्द्रगोप°, उद्यद्वास्वत्° प्रभृ.

साम्य- गुण°, जरामर...दि°,

तद्°, देह°, भोगमात्र°, वस्तु°,

व्योमन्°, शिला°, शुद्धि°, सत्वा-

दिगुण°, सर्व°

सम-ता- २शेचरी°, महत्°, विशेष-

तत्त्व°

सम-त्व- दिवानक्त°

सम-रस- शाश्वतविज्ञान°

१समा(म-अ)भिर्त्रा°-

२सम-

समा- पौडशन्°

समग्र-> +समग्र-वशीकृत- १सुर-

तानन्द°

+समग्रा(अ-अ)व्यव- २चरण°

सम(म्/अ)च्>सम्य(मि-अ)च्->

+सम्यक्-प्रबुद्ध- शान्त°

सम्यग्-अर्थ- समवलोकित°

समञ्जस- ४अ°

+सामञ्जस्य- ४अ°, उभय°

सम(म्/अ)न्(प्राणने), >आनि>

१सम्-आन- -ने मना२, ६९११११.

[°न- प्राण°, व्यान°]

+सम्-आनयितव्य- ४अ°

+सम्-अनु/*गृह>समनु-गृहीत-

बृन्दावनेश्वरी°

+सम्-अनु/भू>समनु-भव- नि-

द्रासंभा...सुख°

१समन्त°- तद्°

२समन्त°- सनक°

सम्-अन्वि[रु/इ(गतौ)]>समन्वि-

(रु-इ)त- अव्यक्त°, अहंकार°,

कौतूहल°, चेतन°, छिद्र°, तत्त्वत-

न्तु°, तालत्रय°, धामत्रय°, श्लु-

त्साह°, नानाभक्ति°, पञ्चलोकस्°,

पदक्रम°

सम्-अभ्य(मि/अ)स्(क्षेपणे)>स-

मभ्य(मि-अ)सन- १कृपा°

a) व्यु. ? =शक्तिविशेष- । b) बप्रा. द्र. =भाप., चतुर्थाश्रम-, उपनिषद्विशेष- प्रभृ. । c) =६स ।

d) 'स्वपवनः' इति अज्या. ? (तु. 'स्वपवनम्' इति निसा.) यनि. शोधः द्र. । e) गपू. (पृ८८१) 'प्रसू' इत्यत्र यनि.

शोधः द्र. । f) गपू. (पृ८८२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । g) तैत्र्याम्ना १०, ६९१ (एतदनु गपू. [पृ८८३p] शोधः द्र. ।

h) गपू. (पृ८८४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) व्यु. ? =ऋषिविशेष- ।

सम(म्/अ)र्ध् > सम्-अर्थ- ४अ^०,
चलन^०, नियामन^०, सर्वसंहार^०
सामर्थ्य- चित्त^०, नानाविचि...ण^०,
निमेषोन्मेषस्...शक्ति^०, भस्मन्^०,
लौकिकवैदिक^०, विद्या^०, सर्ग^०,
सर्वाधमक्षण^०, स्व^०
सम(म्/अ)र्ध् > पिं > + सम्-अर्पण-
आत्मन्^०, ग्रहण^०
सम-अवे[व/इ(गतौ)] > समवा-
(व-अ)य- पक्षभूत^०
समवे(व-इ)त- केलिसंपत्ति^०
सम(म्/अ)श्(व्याप्तौ) > सम्-अष्टि-
अनन्तचिदादित्य^०, अनन्तचिद्वि-
लासविभूति^०, अनन्तचिद्विलास-
विभूतिविशेष^०, अनन्तदिव्यतेजः-
पर्वत^०, अनन्तदिव्या...क्ति^०,
अनन्तपरममूर्ति^०, अनन्तपरमान-
न्दविभूति^०, अनन्तब्रह्मगन्धाका-
र^०, अनन्तब्रह्मतेजोराशि^०, अन-
न्तब्रह्मानन्द^० प्रभृ.
सम(म्/अ)स्(क्षेपणो) > सम्-भस्त-
कामरेफेन्द्रा^०
+समस्त-क्षेत्र- अनित्यसं...षय^०
+समस्त-जन्म-पाश- परिगलित^०
+समस्त-देव-वनिता- दासीभूत^०
+समस्त-पाप- समस्तपा...नादि^०
+समस्ते(स्त-ई)हा- अन्तःशान्त^०
सम्-आकुल- ग्रहरत्न^०, ज्ञानध्यान^०,
रश्मिज्वाला^०
सम्-आ/कृ(करणो) > समा-कृत-
नानानाडी^०
+सम्-आ/कृ > किर > समा-की-
र्ण- चतुःपीठ^०
+सम्-आ/क्षिप् > समा-क्षिप्त-
प्राणापान^०
सम्-आ/ख्या > +समा-ख्य, ख्या-
रूप^०, सुखासन^०
सम्-आ/गम् > समा-गम- भूत^०,
१सत्^०

सम्-आ/चर > समा-चार- २भक्त^०
सर्व^०, २सौम्य^०
सम्-आ/धा > समा-धान- स्थिर^०
समा-धि- एक^०, चिर^०, जन्मन्^०,
१नित्य^०, निरन्तर^०, निर्विकल्प^०,
पुरुषप्रय...नित^०, प्राणायाम^०,
ब्रह्मकर्मन्^०, २यम^०, श्रद्धा^०,
संप्रज्ञात^०, सांख्ययोग^०, सुषुप्ति^०
समा-हित- ४अ^०, सर्व^०, सु^०
२समान- आत्मन्^०, उभयपक्ष^०, तडि-
त्कोटि^०, तादृग्योमन्^०, शत्रुमित्र^०
सामान्य- ४अ^०, अभिचार^०,
अर्थ^०, १आदि^०, २आप्ति^०, गति^०,
गुण^०, १चित्^०, २मान^०, लय^०,
वटबीज^०, सत्ता^०, सर्व^०
+सामान्य(क)-, +सामा-
न्य-कोटि- सत्ता^०
+सामान्य-विशेषण- ४अ^०
+समाना(न-अ)धिकरण- स्व^०
+सम्-आ/नन्द > समा-नन्द- अ-
नानन्द^०
समानयितव्य- समन्(परि.) द्र.
समा(म्/अ)प् > +सम्-आसि-
तद्^०, परिणामक्रम^०
सम्-आप्य ४अ^०
सम्-आ/पद् > समा-पत्ति- अन-
न्त^०, लघुतूल^०
सम्-आ/बन्ध > +समा-बद्ध- भुज-
गविल^०
सम्-आ/भिद् > २समा-भिन्न-
गुरुवाक्य^०
१समाभिन्न- १सम- (परि.) द्र.
+सम्-आ/यु(मिश्रणो) > समा-युत-
चक्षुर्लिंग^०, नादबिन्दु^०
सम्-आ/युज् > समा-युक्त- अर्ध-
मात्रा^०, अष्टाक्षर^०, गुदयोनि^०,
गुरुभक्ति^०, १चक्र^०, चतुष्कला^०,
चतुष्पथ^०, प्राणापान^०, बिन्दु-
नाद^०, मुक्ताहार^०, विद्यालोक^०,

शय्यासन^०, स्थानोद्देश^०
+समा-योग- जातीपुष्प^०, दृश्य^०,
प्राणापान^०, शिवशक्ति^०
सम्-आ/रम् > रम् (*बधा.) > स-
मा-रम्भ- अन्तर्लान^०, आचार^०
सम्-आ/रुह् > समा-रुढ- उद-
यात्रि^०
सम्-आ/लोक > +समा-लोक-
सम्यग्ज्ञान^०
सम्-आ/विश्र > समा-विष्ट- जरा-
शोक^०, सत्त्व^०, सुख^०
सम्-आ/वृ(आच्छादने) > समा-
वृत्त- कपिच्छुक^०, कर्मयोग^०,
मोहजाल^०, योगमाया^०, स्वधर्म-
नि...विद्^०
सम्-आ/श्रि > +समा-श्रय- भा-
रुढ^०, भिक्षापात्र^०, १शिव^०, सर्व-
सिद्धि^०
समा-श्रित- कल्पवृक्षकाम...निधि^०,
महायष्टि^०
समा(म्/अ)स् > सम्-आसीन-
तदभ्यन्तर^०, निरतिशयदि...न्तर^०
निरतिशयान...र^०, पर्यङ्क^०, ब्रह्म-
ते...न्तर^०, भूभुवस्स्वर्लोक^०
सम्-आ/स्था > स्थापि > +समा-
स्थाप्य जाद ३, ६, २^०
सम्-आ/ह् > समा-हार- गुण^०
+समा-हृति- सर्वेन्द्रिय^०
+सम्-आ/ह् > समा-ह्वय- परहंस^०
समि(म्/इ(गतौ)) > १सम्-भय-
एक^०, कल्पारम्भ^०, २जाति^०,
ज्ञानसंपत्ति^०, देहावसान^०, बहु^०
समि(म्/इ)ध्, न्ध् > सम्-इक्ष-
४अ^०, सु^०
सम्-इध्- शमी^०, साज्य^०
समी(म्/इ)न्ध् > +सम्-ईक्षित-
द्वादशाङ्गुल^०
सम्-ईक्ष्य ४अ^०
समीप- गुल्फदेश^०, तद्^०, १देव^०,

पितृ°, प्राणक्षय°, सद्गुरु°,
सूर्येन्दुगु...ण°, स्वाभिम...रु°
सामीप्य- देवता°, नित्यस्थल°,
मदु°, सर्व°, सालोक्य°
समी(म्/ई)र् > सम्-ईर- धीर°
+समी(म्/ई)द् > सम्-ईहित-
१अस्त°
सम्-उ(द्)च्/द्धि (<श्रि) > स-
मुच्-द्धित- तदर्थाधि°, पञ्चहस्त°
सम्-उ(द्)ज/ज्वल् > समुज्-
ज्वल- रेफाक्षर°, लक्षसूर्य°
सम्-उत्था(द्)त्/स्था > +समुत्-
थ- इच्छादिष°, वंशालालु°
समुत्-थित- वीणादण्ड°, सर्वचि-
न्ता°
सम्-उ(द्)त्/पद् > समुत्-पत्र-
औपासन°, पुण्यस्थल°, मृष्ट-
बीज°, समिदग्नि°, सृष्टि°
सम्-उद्/गम् > +समुद्-ग->
+समु(द्रक) > द्विका- सु°
+सम्-उद्/भिद् > समुद्-भेद-
द्वैताद्वैत°
सम्-उद्/भू > समुद्-भव- अक्षर°,
अग्निहोत्र°, कर्मदोष°, कर्मन्°, ज-
तु°, जीवात्म...त्मन्°, तृष्णासङ्ग°,
देह°, नाद°, प्राणायाम° प्रभृ.
समुद्-भूत- अग्निहोत्र°, गुणत्रय°,
गुरुवाक्य°, तापत्रय°, देह°, द्वैता-
द्वैत°, वज्रदण्ड°, सम्यग्बन्ध°
+सम्-उद्/यम् (यमने) > समुद्-
यम- ररण°
+सम्-उद्/युज् > समुद्-योग-
मिह्नाटन°
समुद्- अनन्त°, अमनस्क...न्द°,
अमितानन्द°, आनन्द°, क्षीर°,
चतुर्°, दया°, दुःखरत्न°, द्वीप°,
१निरतिशयानन्द° प्रभृ.
+समुद्-राज- क्षीर°
संभू (म्/ऊ)द् (वहने) > सम्-ऊह-

केश°, चोर°, रमणानन्दसखी°,
सखी°
सम्(म्/ऊ)ध् > सम्-ऊह- प्राण°,
शान्ति°
सम्-ऊह- ४अ°, आशिम°, सुख°
+सम्ऊहया(द्धि-आ)नन्द- सर्व°
समे[म्-आ/इ(गतौ)] > समे(मा-इ)-
त- क्रीडा°, लक्ष्मी°, रत्नीला°,
शतभार्या°
+समो(म्-आ-उ)पे[प/इ(गतौ)] >
समोपे(प-इ)त- प्रतीहार°
सं/पत्(गतौ) > सं-पात- जलभू-
मीन्दु°, तद्°, यावत्°, रशस्त्र°
सं/पद् > सं-पत्ति- अनन्तसुख°, अ-
नादि...द्धि°, अर्ध°, केलि°, रजल°
१ज्ञान°, नानाजल...ख°, प्रेमन्°,
१प्रेमानन्द°, १फल°, १ब्रह्मन्°,
मतिविज्ञान°, यौवन°, रतिसुख°,
महाप्रलय°, वैराग्य°, शमादिषट्-
क°, सर्व°, सस्य°, सुख°, स्वाप्यय°
सं-पद्- असाररस°, काय°, द्रव्य°,
धनधान्यादि°, १पुराय°, महत्°,
रतिसुख°, १रमण°, सर्व°, सुख°
सं-पद्- अतितरस्त्रेह°, अमानित्वा-
दि°, एवंलक्षण°, कर्मभक्तिज्ञान°,
चतुश्चत्वार...र°, ज्ञानवैराग्य°,
दिव्यस्त्रीभोग°, पञ्चकृत्य°, पीता-
लंकार°, प्रसाद° प्रभृ.
+सं-पाद- रस°
+सं-पादक- सर्वाभीष्ट°
+सं-पादिन्- क्रीडा°
सं-पाद्य सु°
सं-परि/त्यज् > +संपरि-त्याग-
२वासना°, संवेद्य°
सं/पुद् > सं-पुट- ऊर्ध्व°, कपाल°,
भारण°, सुवर्ण°
सं-पुटित- नामद्वय°, प्रणव°, प्रणव-
श्रीबीज°, व्याहृतिशिरस्°, शिव-
शक्ति°

सं/पुप् > +सं-पुष्ट- शिवभक्ति°
सं/पूज् > जि > सं-पूज्य सु°
सं/पृच् > सं-पर्क- १काम°, शास्त्र-
सज्जन°, सज्जन°
सं/पृ > पुर, पूरि > सं-पूरित- सुख°
सं-पूर्ण- अङ्गराग°, योगाङ्गद्रव्य°,
रत्न°, वैराग्यतैल°, सर्व°, सर्वकाल-
...द्धि°, सर्वलक्षण°, सर्वलक्षण-
ज्ञानकरण°, सर्वाङ्ग°, सर्वावयव°,
सु°, स्मित°
+संपूर्ण- भावा(व-अ)भाव-
विहीन- अचल°
सं-पूर्णमाण- अगुरुस°
सं-प्र/ज्ञा > सं-प्र-ज्ञात- ४अ°
+सं-प्रति/पद् > सं-प्रति-पत्ति-
मात्रा°
सं-प्र/दा > सं-प्र-दाय- आनन्दवा-
रि°, काशी°, कीटवारि°, भूरि-
वारि°, भोगवारि°, यथा°, ६स°,
१सत्°
+सं-प्र/मुष् > +सं-प्र-मोष- ४अ°
सं-प्र/युज् > सं-प्र-योग- अनिष्ट°,
इष्टदेवता°, विषय°
सं-प्रा(प्र/आ)प् > सं-प्रा(प्र-आ)स-
४अ°
+सं-प्रा(प्र-आ)सि- तत्त्व°, पद°,
१फल°, सूतकद्रय°
सं/प्री > +सं-प्रीति- १शिव°
सं/प्लु > +सं-प्लव- अवधूतादि°,
भूत°
सं/बन्ध् > सं-बन्ध- ४अ°, तद्द्वार-
मिति°, सु°
सं-बन्ध- ४अ°, २अक्ष°, अध्यात्म°,
अन्तःकरण°, अन्यान्य°, अहं-
कार°, कर्मदायाद°, ग्राह्यप्राहक°,
तद्दृष्टि°, दृश्यदर्शन° प्रभृ.
सं-बन्धिन्- केवलपरमात्मन्°,
केवलपरमेश्वर°
सं/बाध् > सं-बाध- ४अ°

सं/बुध्> सं-बोध- अखरडान-
न्द°, जन्मकथंता°
सं-बोधन- आत्मन्°
सं/भाष्> सं-भाषण- ४अ°, १अ-
सत्°, पतित°, १पशु°, शूद्रस्त्रीप-
...क्या°
सं/भिद्> सं-भिन्न- अन्तःकरण°
+सं-भेद- ४अ°
सं/भुज्> सं-भुञ्ज-> संभुञ्ज्>
संभुञ्जमान-°
सं-भोग- आनन्द°, एतद्°, १रति°,
रमणानन्दसुख°, २रम्भा°, रस°,
राजस्त्री°, सुख°
संभोग-सुख- आद्यनादि°
+सं-भोग्य- सुख°
सं/भू> भावि> सं-भव- ४अ°, अं-
श°, अकाराक्षर°, अज्ञत्व°, अनन्त-
सुख°, अनुभव°, अनुमान°, अने-
कजाति°, अनेकदेह°, अन्न° प्रभृ.
+सं-भवत्- ४अ°
सं-भावित- आत्मन्°, लुद्रघरिष्ट-
...र°, निद्रा°, १रति°
सं-भूत- अकाराक्षर°, १अज्ञान°,
अज्ञनागर्भ°, अविद्यातरु°, उका-
राक्षर°, एतत्संभोग°, १ओंकार°,
कर्मन्°, कारणत्रय°, तद्°, नाग-
दन्तादि°, परस्पर°, मकाराक्षर°,
वंशताल्लादि°
सं-भूति- ४अ°
सं/भृ> सं-भरण- २महावीर°
सं-भार- ओषधि°
सं-भृत- अन्तःकरण°, मकार°
+सं/भ्रम्> सं-भ्रम- दृश्य°, ६स°,
सर्वसंकल्प°
सं/मन्> सं-मत- आर्य°

सं/मा(माने)> सं-मित- आत्मन्°,
कल्पार्थ°, लशुन°, वाच्यार्थ°,
२वेद°
सं/मिल्> सं-मेलन- आद्यन्त-
ग्रह°
सं/मील्> सं-मीलन- महामाया°
सं-मुख- तद्°, शिवालोकन°
सं/मुद्> मोहि> सं-मूढ- ४अ°,
गुण°, धर्म°
सं-मोह- ४अ°, १अज्ञान°, १घन°
१सं-मोहन- सर्व°
२सं-मोहन- भूत°
सं-मोहित- कामका***ता°, निगूढ-
भाव°
सं-मोहिन्, नी- नगरपु...नी°, सर्व°
सं/मृज्> सं-मार्ज(न)> नी- पञ्चन्°
सम्/राज्> सम्-राज्-> साम्रा-
ज्य- अति°, अनन्तदिव्या***घा°,
अपरब्रह्मविद्या°, अपारब्रह्मविद्या°,
महत्°, महानरक°, १मोक्ष°,
२योग°, सकल°
+साम्राज्य-चिन्तामणि- निरशङ्का-
नन्दमोक्ष°
स-युज्-> सायुज्य- गणेश°, तद्°,
देवता°, नारायण°, मद्°, विष्णु°,
१शिव°, श्रीमन्नारायण°, श्रीमहा-
विष्णु°, श्रीविष्णु°, सालोक्य°
१सर- चतुर°, त्रि°, द्वि°
२सर-, सरत्- √स (परि.) द्र.
+१सरल- आम्र°°
२सर(ल)> ला-
१सरस्- १ज्ञान°, पावन°, महत्°,
मृगतृष्णा°
सरो-ज- चम्पक°°
+सरो-रुह- १हृद्°

+सरो-वर- मानस°
२सरस्-> सरस्-व(त्)> ती- -ती
मना २, ४२११°. [°ती- अति-
रुढ°, गान्धारी°, पूषा°, महत्°,
२श्री°]
सारस्वत- संपद्°
+सरस्वती-रहस्य***- कठवल्ली°°
सरस्- १रमण°
सरिगमपधनिस- गपू. पृ८५२ द्र.
सरित्- २वासना°
सरीसृप- √सृप् (परि.) द्र.
१सर-रूप- प्रकृति°, स्वप्नमाया°
सारूप्य- केवलमन्त्र...ष्णु°, देव-
ता°, नारायण°, पुराकल्पि...
ष्णु°, मद्°, वृत्ति°, सालोक्य°
सर्जत्-, सर्जन-, सर्जयितव्य- √सृज्
(परि.) द्र.
सर्पण-, सर्पव- √सृप् (परि.) द्र.
सर्पि- √सृप् द्र.
सर्व, र्वा- -र्वम् श्वे ३, १५११; -र्वस्य
भा २९१; -र्वाः नाप १५१:७;
-र्वान् जावा २२१. [°र्व- ४अ°,
एतद्°, ग्रहमण्डल°, चित्तादि°]
+सर्व-सह- -हाः आश्र ४.
+सर्व-क्रिया- लुप्त°
+सर्व-केश-कर्मल- निरस्त°
सर्व-गत- -तः ससा ५९१:९।
सर्व-जन- सर्वजन°°
सर्व-ज्ञ- निरतिशय°°
सर्वज्ञ-ता- ४अ°
सर्वज्ञा(ज्ञ-आ)दि-दशक- ६स°
सर्व-ज्ञान- नम् ब्रवि १।
सर्व-तन्त्र- सर्वमन्त्र°°
सर्व-तस(>:) वृ ६, ४, २३१३.
सर्वतो-मुख- ४अ°, अति°

a) गपू. (पृ८९४) 'सं-भुञ्जमान-' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. । b) गपू. (पृ८९६) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

c) व्यु. ? = वृत्तविशेष- । d) गपू. (पृ८९७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । e) सकृत् तैत्र्या १०, ४०, १ । अन्यत्र 'मानुषी'
इति खि १०, १५१, ३; 'मनुष्यजा' इति तैत्र्या १०, ४१, १ (एतदनु गपू. [पृ८९७] शोधः द्र.) । f) = तदा-
ख्योपनिषद्-विशेष- । g) ऋ १०, ९०, २ (तु. टि. वैप २स्था.) । h) तान्त्रि. अया. । i) अष्ट्याः सं. अया. ।
j) अष्ट्याः शै. अया. । k) उप. कर्तरि कृत् । l) आन. अया. । m) ऋ ५, ७८, ७ ।

सर्व-त्र नाप १९९:३^a.

+सर्वत्रिक- ४अ^o

सर्व-दोष- षड्भिर्भिष...दि^o

सर्व-द्रष्टृ- जगत्^o

सर्व-नियन्तृ- निरतिशय^o

+सर्व-नेत्र- हरि^o

+सर्व-परिग्रह- त्यक्त^o

+सर्व-पल्लव- सर्वमन्त्र^o

१सर्व-पाश^b-

+२सर्व-पाश- -०श लां २१४:

१६^d.

सर्व-प्रपञ्च- अनादि^o

+सर्व-प्रिया(य-अ)प्रिय- त्यक्त^o

सर्व-भय- सार्वकालिक^o

सर्व-भाव- चित्तादि^o

सर्व-भूमि>सर्वभूमि- ऐरावत^o

+सर्व-मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र- सकल-

सुरासुर^o

सर्व-मय- आनन्दमय^o

+सर्व-यन्त्र- सर्वमन्त्र^o

सर्व-रोग- गरुडपित्त...दि^o, वात-

नाडीगत^o

सर्व-वशं-क(र)>री->सर्ववशं-

करी-मुद्रा- -द्रया त्रिता२,५३^d.

सर्व-विद्या- सर्वकोटि^o

१सर्व-शक्ति- निमेषोन्मेषसु...हादि^o

२सर्व-शक्ति- निरतिशय^o

+सर्व-शूल- अङ्गशूल^o, दृष्टिशूल^o

+सर्व-संविन्-न्यास- ६स^o

+सर्व-संवेद्य- संशान्त^o

सर्व-संसार- क्रोधेष्या...त्मक^o

+सर्व-संकल्प- उच्छिन्न^o, प्रशान्त^o

संशान्त^o, संन्यस्त^o

+सर्व-संक्षोभिण्या(शी-आ)दि-

दशक- ६स^o

+सर्व-संक्षोभिण्या(शी-आ)दि-

द्विसप्तक- ६स^o

सर्व-सार^१- कठवल्ली^o

सर्व-सिद्धि-प्रदा(द-आ)दि-दश-

क- ६स^o

सर्व-स्व- आनन्दविहार^o, चिन्ता^o,

धैर्य^o

+सर्व-हेतु- सर्वप्रवृत्ति^o

सर्वा(र्व-अ)ङ्ग- काय^o, कुङ्कुमारुणा^o

भस्मसंदिग्ध^o, भस्मोद्भूतित^o, ह-

दासन . रथ^o

सर्वाङ्ग-स्वर्ण- चिन्मन्मयीति^o

+सर्वा(र्व-अ)ज्ञान-हा(रक)>रिका-

-०के वपं ३११ : ५^d.

सर्वा(र्व-अ)त्मक- सिद्ध^o

सर्वात्मक-त्व- सर्वोत्कृष्टत्व^o

+सर्वा(र्व-अ)र्थ-साधि(न्)>नी-

महाविद्या^o

+सर्वा(र्व-अ)शा- अन्तःसंत्यक्त^o

सर्व(र्व-इ)न्द्रिय-वर्ग- संन्यस्त^o

सर्व(र्व-ई)हा- आत्^o

सर्वा(र्व-उ)पद्रव- परकृत^o

सर्पप- मेरु^o

सलिल- अब्द^o, गन्ध^o, समुद्र^o

स-लोक-

सालोक्य- देवता^o

सलोक-ता- १ब्रह्मन्^o

१-२सव- गपू. पृ९१५ द्र.

३सव- √सू(प्रसवे) परि. द्र.

१सव्य->२सव्य- ४अ^o

+सव्य-कर्ण- आ^o

सव्य-गुल्फ- लफेन जाद ३, ६, १^b.

सव्य-हस्त- त्रिशूल^o

स-व्याल- -लः द ट^१.

१स-मंज्ञ- -ज्ञस्य रापू २, १^१.

√सह (*बधा.) उद्^o, प्र^o, वि^o, सम्^o

१सह^b- ४अ^o, क्लेश^o, दुस्^o, द्वन्द्व^o,

राकलदुःख^o, सर्वम्^o

+सहत्- प्र^o

सहमान- ४अ^o

सहस->साहस- धर्म^o

सहिष्णु- ४अ^o, द्वन्द्व^o, निन्दासर्भ^o

+सह्य प्र^o

+सासहि- प्र^o, वि^o

+साह- १तुर>रा^o, सत्रा^o

+१सा(<स)ह^१- अभिमाति^o

+२साह^m- उद्^o, प्र^o

२सह>सह-कारिन्- १मनस्^o

सह-चारि(न्)>णी- १भगवत्^o

सह-ज- अजाज्य^o

+सह-जीव- काष्ठा^o

+सह-भाव- तद्^o

+सह-भू- वित्तेप^o

+सह-शिष्या(पि-आ)दि- तद्^o

सहा(ह-अ)य- ४अ^o, उमा^o, गुरु^o,

लक्ष्मी^o

+सहा(ह-आ)यक- ४अ^o

+सहा(ह-आ)श्रयिन्- अनवरत^o

+सहो(ह-उ)दर- पितृ^o

+सहकार^u- एला^o

सहस्र- ४अ^o, अग्निष्टोम^o, अनन्त^o,

अश्वमेध^o, अष्टन्^o, अष्टोत्तर^o,

उज्ज्वलज्वाला^o, एकविंशति^o,

एकादशन्^o, कल्पकोटि^o प्रभू.

+साहस्र- द्विशत^o, शत^o

सहस्र-किरण- -गाय मउ ३, १०.

सहस्र-प्राकार- २निरतिशयानन्द^o

a) अख्याः सं. अपा. । b) गपू. (पृ९०४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) तस. । d) °प इति पा. ? यनि.

शोधः द्र. । e) बपा. द्र. =विप., दिग्गजविशेष- । f) ससर्ववशंकरिणीसु^o इति निसा. ? यनि. शोधः द्र. (तु. अख्या.) ।

g) °र्वज्ञानं हा^o इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (एतदनु गपू. [पृ९११] 'सर्वाज्ञान->नम्' इत्यत्र टि. नेव द्र.) ।

h) अख्याः यो. अपा. । i) °व्याडः इति निसा. संटि. । j) 'समो यस्य' इति पा. ? यनि. शोधः द्र. (एतदनु गपू.

[पृ८८१] '१सम->-मः' इत्यत्रापि शोधः द्र.) । k) कर्तरि कर्मणि वा कृत् । l) वैपश् यद्र. । m) भावे कर्मणि वा

कृत् । n) व्यु. ? =आत्र- ।

+सहस्र-बोडशन्- हेमस्तम्भ°
 सहस्रा(स-अ)क्ष- -क्षाय नीर, ४९°
 +सहस्राक्ष-जित्^b- घटश्रोत्र°
 सहायक- ,सहोदर- २सह (परि.) द्र.
 सह्य ✓सद् (परि.) द्र.
 +सह्य^h- महेन्द्र°
 सांयमन- सं✓यम् (यमने) परि. द्र.
 सा(स-आ)कार- अद्वैताखण्ड°न्य°,
 आनन्द°, उभयात्मक°, त्रिविध°,
 १नित्य°, निरुपाधिक°, ब्रह्मविद्या°
 १मुक्त°, विद्या°, विद्यादि°, सोपा-
 धिक°
 साक्ष-> २साक्ष->साक्षिन्, गी-
 अवस्थान्...व°, अशेष°, तद्°,
 त्रिधामन्°, बुद्धि°, बुद्धितद्बुद्धि°,
 १भोग°, मनआदि°, रस°, वियोग°,
 शून्य°, समस्त°, सर्व°, सर्वका-
 मा...ति°, सर्वधीवृत्ति°, स्थूल°
 +साक्षि-क- आत्मन्°
 साक्षि-चैतन्य- तदाकाराका...
 त्मक°
 साक्षि-स्व- साक्ष्य°
 साक्षि-भूत- सर्वधी°
 साक्षात्>साक्षात्✓कृ(करणे)>
 +साक्षात्-करण- संस्कार°
 साक्षात्-कार- अपरोक्ष°, ईश्वर°,
 १ब्रह्मन्°
 सागर- अत्याश्चर्य°, अमितबोध°, अ-
 मिताप...मस्°, अमृत°, अविद्या°,
 आनन्द°, आनन्दधन°, आनन्द-
 चित्°, आनन्दाश्चर्य°, आश्चर्य°,
 क्षीर°, गिरि°, गुण°, १चित्°,
 १ज्ञान°, दुःख°, २निरतिशयान-
 न्द°, निरतिशयानन्दामृतसार°,
 १बीज°, ब्रह्मानन्दम्...न्द°, २भव°
 मृत्युसंसार°, मोह°, ६स°, संसार°
 +सागरा(र-अ)म्भस- ६स°

+सागर-तीर्थ- शिवविज्ञानानन्द°
 +साचिन्^a- २सव्य°
 साद- ,१-२सादन-, सादयत्-, सादि-
 त-, सादिन्-, साद्य ✓सद्(परि.)द्र.
 ✓साध्, >धि प्र°
 +साध- दुस्°
 साधक- कर्मज्ञान°, ज्योतिषागमकर्म-
 न्°, प्र°, १मोक्ष°, सर्वार्थ°, सर्वेषु°
 साधक-तम- तद्°
 साधन°- ४अ°, अन्यकथा...र्थ°,
 असाध्य°, अहिंसादि°, कैवल्य°,
 १ज्ञान°, ज्ञानैक°, ज्ञेयैक°, तज्ज्ञान-
 न°, तद्°, धर्म°, धर्माध...र°, ना-
 स्तित्व°, नित्यत्व°, पिठरखनि...त्र°,
 पूजा°, प्र°, १भोग°, मन्त्रादि°,
 मुक्ति°, १मोक्ष°, मोक्षमार्गैक°,
 मोक्षैक°, यमाद्यष्टाङ्ग°, रसौषधि...
 दि°, वीरहनुमत्साध्य°, ६स°, सर्वे-
 च्छासिद्धि°, सिद्ध°, सिद्धि°
 साधित- तद्भाव°
 +साधि(न्>)नी- सर्वार्थ°
 साधु- ४अ°
 साध्य^h- ४अ°, आयास°, गन्धर्व°,
 दुस्°, पुरुषप्रयत्न°, वीरहनुमत्°,
 ६स°
 साधारण- ४अ°, अन्य°, प्रमाणाप्र-
 माण°, सर्व°
 +साधारणा(ण-अ)ङ्ग- यज्ञ°
 +साधारण्य- ४अ°, गुण°
 सान- ✓सो (परि.) द्र.
 सानु- रत्न°
 सा(स-अ)पेक्ष- आत्मप्रयत्न°
 सामञ्जस्य- समञ्जस- (परि.) द्र.
 सामन्- ४अ°, ऋचु°, २बृहत्°
 +सामन्त^h- १नन्द°
 २सामन्त^h-
 साय ✓सो (परि.) द्र.

साय^h->+साया(य-अ, ह- मन्थाह
 २साय- ✓सो (परि.) द्र.
 साय^h- ४अ°, अज्ञ°, अमृत°, एका-
 त्मप्रत्यय°, २घन°, गन्ध°, १चि-
 त्°, तद्गुण°, १तार°, निस्°,
 परमात्मन्°, बुद्धि°, मद्°, मन्त्र°,
 महत्°, स्तम्भ°, २वेद°, १श्रुति°,
 सत्त्व°, समस्तवेदवेदान्त°, सर्व°,
 सर्ववेदान्त°, सर्ववेदान्तसिद्धान्त°,
 सर्वोपनिषद्°, सु°
 +सार-तरा(र-अ)नन्त-आकार-
 ब्रह्मसाक्षा...ध°
 सार-भूत- केवलसन्मात्र°, वेदान्त°
 २सार- ✓सु (परि.) द्र.
 सारङ्ग- अन्तरङ्ग°, भयत्रस्त°
 सासारण- ✓सु (परि.) द्र.
 २सार(ण>)णी^h-
 सारथि- पार्थ°, वहि°, १विज्ञान°, सु°
 सारस- १भ्रमर°, १मयूर°, हंस°
 सारित- ✓सु (परि.) द्र.
 +सा(स-अ)र्धा(र्ध-अ)ङ्गुल- त्रिशत्°
 सार्थ ✓सु (परि.) द्र.
 सार्वत्रिक- सर्व- (परि.) द्र.
 सासाल- कदम्ब°
 +सालुव^h- ३शरभ°
 सासवित्र- ✓सु (अभिषेवे) परि. द्र.
 २सासवित्र- ✓सु (प्रेरणे) परि. द्र.
 सासहि-, साह-, १-२साह- ✓सद्
 (परि.) द्र.
 साहस्र- सहस्र- (परि.) द्र.
 साहित्य- सं✓धा (परि.) द्र.
 ✓सि(बन्धने)>+सित- ४अ°
 १सेतु- महत्°
 सिंह- -हः मउ ३, १७. [°ह- ध्वज°,
 नर°, वृ°, २मत्स्य°, राजन्°,
 शृङ्खलाबद्ध°, २स्वस्तिक°]
 सिंहा(ह-आ)सन- नम् जाद ३,

a) मा १६, c (तु. टि. वैपश् यस्था.) । b) =मेघनाद- । c) व्यु? =पर्वतविशेष- । d) व्यु? नैप्र. =शरा-
 (र-आ)जिन्-? [उप. <✓अज् (तु. शं.; वैतु. P.W. प्रभृ. <✓सच्)] । e) भावे कर्तारि वा कृत् । f) बप्रा. द्र. =
 कर्मणि कृत्, देवजातिविशेष- । g) व्यु? =गोपविशेष- । h) गपु. (पृ९२३) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । i) =६स । j) व्यु? ।

६, ३. [°न- दिव्य°, १पद्म°,
भुवनाकार°, रत्न°, वीर°, स्व°,
स्वर्ग°, स्वात्मन्°]

+सिंहे(ह-इ)न्द्र- वनगतगज°

सिक(त>)ता- सुगन्धपुष्प°

✓सिच्, >न्च्, सेचि अभि°, आ°,
उद्°, उप°, नि°, परि°, प्र°, सम्°

सिक्त- अभि°, आ°, आहारापान°,
रदुग्ध°, नि°

+सिच्- रेतस्°

+सिच्य अभि°, प्र°

सिच्यमान- अभि°, आ°

+सेक- अभि°, उद्°

सेचन- उप°, रजल°, हिम°

+सेचन-रस- निर्भर°

+सेचित- केशच्छटा°

१-२सित- गपू. पृ९२५ द्र.

३सित- ✓सि(बन्धने) परि. द्र.

४सित- ✓सो (परि.) द्र.

✓सिघ् अभि°, नि°, उद्°, प्र°, प्रति°,
विप्रति°, सम्°

सिद्ध^b- ४अ°, अशिमामघ°शा°,
अथर्वणवेद°, अनन्यभजन°,
अनादि°, आत्मन्°, उपासा°,
ऊर्ध्वानाय°न°, कार्य°, खेचरी-
मन्त्र°, गन्धर्व°, नि°, १नित्य°,
पठित°, पूर्व°, प्र°, प्रति°, मन्त्र°,
महर्षि°, २योग°, संकल्प°,
१सत्य°, सम्°, संबन्ध°, सर्व°,
सर्वप्रमाण°, साधन°, सु°, स्व-
तस्°, स्वभाव°

सिद्ध-लक्ष्मी- महत्°

+सिद्ध-वस्तु- सकल°

+सिद्ध-संकल्प- ब्रह्माद्यैश्वर्याशा°

+सिद्ध-सर्वात्मक- सत्त्वस्वरूप°

सिद्धा(द्ध-अ)न्त- अप°, गगन°,
नानादर्शन°, नानाश्रुति°ति°,
नैरात्म्य°, महत्°, वेदान्तसारभू-
त°, वैष्णव°, वैष्णवधर्म°, शास्त्र°,
सत्कार्य°, सर्व°, सर्ववेदान्त°,
सर्वशास्त्र°, स्व°

+सिद्धान्त-रहस्य- सकलवे-
दशास्त्र°

सिद्धान्त-श्रवण- तपम्°°

सिद्धि- -द्धिः भा ३०°. [°द्धि-
अशिमन्°, अशिमामदि°, अध्या-
स°, १अनाहत°, अन्यतर°, अन्य-
था°, अपरोक्ष°, अभीष्ट°, अर्चा°,
अल्पमूत्र°°प° प्रभू.

+सिद्धि-स्वरूप- १नित्य°

+सिद्धि-स्वरूप- १नित्य°

+सिद्धि-स्वरूप- १नित्य°

+सिद्धि-स्वरूप- १नित्य°

+सिद्धि-स्वरूप- १नित्य°

सिनीवाली- २राका°

सिन्दूर- सीमन्त°

१सिन्धु- अनुकम्पा°, २दुग्ध°, मोक्षान-
न्दैक°, सुख°

✓सि(सी)व् अनु°, अभि°, सम्°
सीवि(न्>)नी- न्याःजाद३, ६, १^a

+सीव्य सम्°

स्यूत- अनु°

सीता^१- २प्रश्न°

सीदत्- ✓सद् (परि.) द्र.

सीमन्- ४अ°, निस्°, सु°, सौन्दर्य°

सीम(म-अ)न्त->+सीमन्त-सि-
न्दूर- केशच्छटा°°त°

✓सु(अभिषवे), >सावि अभि°, अभि°
आ°, प्र°

१सवन- अधि°, तृतीय°, त्रि°, प्रा-
तर्°, प्रातर्मध्याह्नतृतीय°, १ब्रह्म-
न्°, माध्यंदिन°, १सोम°

+१सावित्र- अभि°

१सुत- आ°, प्र°

✓सु(प्रसवे)>२सुत- अजना°, अहं-
कार°, इन्दिरा°, जाया°, देव-
की°, १मस्त°वन्ध्या°, वृषभालु°,
व्यास°, १शिव°, सत्यवती°,
संपद्°, स्व°

+सु-कर्ण- शर्षप°

+सु-कृत्- वि°

सु-कृत- २इष्ट°, जन्मजन्मा°°ष्ट°

सु-कोमल- अति°, जाम्बूनदण्ड°त°,
सुवर्णसुगन्ध°

सुख- ४अ°, अखण्ड°, १अङ्ग°,
अज्ञात°, अत्यन्त°, अनन्त°,
अन्तर°, अन्य°, अप्रतर्क्य°, अम-
नस्क° प्रभू.

सौख्य- असङ्गसुख°, २प्रज्ञा°,
संतत°, सर्व°

सुख-द- अनेकरसास्वाद°, महाक्री-
डा°

+सुख-दातृ- प्रतिज्ञण°, प्रत्ययरस-
वीरुध°, २रमयानन्द°

+सुख-दायक-रूप- अत्यन्त°

सुख-दायिन्- अति°, कुञ्जप्रतिकुञ्ज°

सुख-दुःख- ४अ°

+सुख-दुःख-विषय- संसार°

+सुख-प्रद- विप्रलम्भ°

+सुख-समृद्धि- अनादि°, आनन्द°,
सर्वकाल°

सुख-संपत्ति- संयोज्यमाणा°°स°,
सर्व°

+सुख-संपद्- संसार°

+सुखा(ख-आ)नन्द- १सत्°°

सुखिन्- अत्यन्त°

१सु-गन्ध- अति°, अन्तर°, जातियू-
र°, तद्°, नाना°, परस्पर°, मणि-
लता°, २राग°, वस्त्र°, सु°, सुव-
र्ण°, हाटक°

२सु-गन्ध- अति°, चिकण°, दिव्य°,
संगम°°

सुगन्ध-रस- अनेक°, नाना°, पक्-
फल°

+सु-गोप्यमान- अगुरुवा°°री°

सु-ग्री(वा>)व->+सुग्रीव-विभी-
षण- ६स°

+सु-घन- १अज्ञान°

+सुजय^१- १नन्द°°

सु-जात- सनत्°
 सुतल- अतल°°
 सु-तीक्ष्ण- प्राणायाम°
 +सु-तलिका- मृदुशलक्ष्ण°
 सु-दक्ष- अधहरण°
 सु-दर्शन, ना- २कृष्ण°, कौस्तुभ°°,
 वृसिंह°, महत्°, विराजा°, २श्री°
 २सु-दामन->सौदामनी- आनन्द°,
 दिव्य°, परमानन्द°
 +सु-दृष्टा(ष्ट-अ)न्त- एवमादि°
 १सुधा- श्रीराधाधर°
 +सुधा-कर°- नीहार°°
 +सुधा-नदी- भवसंतापनिर्वापण°
 २सुधा->+सौध- आनन्दबोध°,
 बोध°, शुद्धबोध°
 +सुनन्द°- गणेश°°
 +सु-नियम- आत्मरक्षा°
 सु-निश्चित- वेदान्तविज्ञान°, सर्व-
 शास्त्र°
 १सुन्दर- अशेषलावण्य°, १काम°,
 सर्वाङ्ग°
 १सुन्दरी- ३त्रिपुर°, परम°, २भ-
 क्ति°, मदन°, महात्रिपुर°, बहि°
 सौन्दर्य- एक°, औदार्य°, नामन्°,
 निरतिशय°, निरन्तराति...य°
 +सौन्दर्य-लावण्य- निरतिशय°
 सु-पर्या- अनवकाशान्तर्गत°, त्रि°
 सु-पुराय- रथिमत्°
 १सुप्रतीक^b->+सुप्रतीका(क-अ)-
 क्ष°- ऐरावत°°
 +२सुप्रतीक^d- हरि°°
 सु-बाल°- ईशावास्य°°
 सु-भ(ग>)गा- गायै मउ ३, १४.
 [°ग- अति°, चन्द्रावली°, सर्व°]
 सौभाग्य- ऐतरेय°, कलि°, °

महत्°, सर्व°
 सु-भूत- -तः क २, १, ८९।
 सु-मनस्-
 +सौमनस्य- सत्त्वशुद्धि°
 +सुमनश्-शूल°- अङ्गशूल°°
 २सु-मि(त्र>)त्रा->सौमित्रि-
 सीता°°
 सु-मुख°- हरि°°
 +सुम्न°- सु°
 १सु-योग- तुर्यभूमि°, प्राणायाम°
 १सुर->सुरा->१सुरा-पान- ब्रह्म-
 हत्या°, स्वर्गस्तेय°
 २सुर- गो°, गोप°°, प्र°, रथिमत्°,
 विष्णवादि°, ६स°
 +सुर-भूरुह- वृन्दावन°
 सुरा(र-अ)सुर- सकल°
 सुरे(र-इ)न्द्र- महत्°
 +सु-र(ङ्ग>)ङ्गा°- कौसुम्भा°
 सु-रचित- अत्यद्भुत°
 १सुर-रत- एककल°, रतिरस°, रतिदा-
 यक°, विलास°
 सुरत-कला- नाना°
 +सुरत-नृत्य- विपरीत°
 +सुरत-भोग- रस°
 +१सुरत-सुख- आलिङ्गनचुम्बन°
 २सुरत-सु(ख>)खा°-
 १सुरता(त-आ)नन्द- नाना°
 सुरतानन्द-सुख- गुणकेलि°
 सुरतो(त-उ)त्कण्ठा- कामकला°°
 सुरभि- शीत°°
 +सौरभ्य- अङ्गशोभा°
 सुवर्(ः) भूर°°
 +सुवः-पुरुष- -षः सूता ४, १०।^k
 सु-वर्ण- जाम्बूनद°, तप्त°, शुद्ध°, स्फ-
 टिक°, स्यूतपुष्प°

+सुवर्ण-वटिका- पट्टो...त°
 +सुवर्ण-धन- कटकमुकु...त°
 सुवर्ण-पक्ष- -क्षाय मना १, ६।
 सुवर्ण-भूषण- केशच्छटा...त°
 +सुवर्ण-मण्डप- आधारशक्ति°
 सुवर्ण-यूथिका- ४जाति°
 +सुवर्ण-रेतस- अरुण°°
 सुवर्ण-रुता- २सुगन्ध°
 सुवर्णा(शी-आ)दि- आत्मतुल्य°
 सु-विभात- -तम् वृउ १९६:१३।^m
 +सु-विभ्रम°- अन्तर्मुख°
 सु-शोभमान- अति°
 सु-शोभित- पद्मशाखा°, करठमाला°
 सु-श्रो(णि>)शी°- चन्द्रावली°°
 सुषि- १देव°
 सु-शुत- ४अ°, २जाप्रत्°°
 सु-शुति- २जाप्रत्°°, समाधि°
 +सुषुप्ति-दशा- स्वप्नावस्थान°
 सु(सु>)सु(म्या, त्र>)म्या, स्या-
 इडा°°
 +सौषुप्त- इडा°°
 +सुषुप्ता-सरणि- शुद्ध°
 सुषु
 सौषुव- प्रेमानन्दर...ष्टान°,
 संपीयमान°, सुख°, स्वर°
 +सुषु-त्व- प्रमाण°
 सु-संलग्न- विष्णुलोक°
 सु-समाहित- -तः जाद ३, ६, २°.
 +सु-संप्रदाय°- १सत्य°
 सु-सेवि(त>)ता- विविधानन्त...क्ति°
 सु-स्थ- नैवेद्यभूत...दि°
 +सु-स्थिरीभाव°- १मनस्°
 सु-स्निग्ध- चतुर्थांशवशेषक°
 सु-हय- महत्°
 १सु-हव^b- -वम् मउ २०, ३९°.
 २सु-ह(व>)वा^d-

a) व्यु. ? = पार्षदविशेष- । b) गपू. (पृ९३२) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । c) = दिग्गजविशेष- । d) व्यु. ? ।
 e) बप्रा. द्र. = ऐश्वर्य-, उपनिषद्विशेष- । f) 'सुधितः' इति ऋ ३, २९, २ (तु. टि. वैप१ यस्था.) । g) विप. वा
 नाप. वा । h) वैप१ यद्र. । i) = सखीविशेष- । j) गपू. (पृ९३४) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । k) तु. गपू. पृ६१७r ।
 l) सुवर्ण° इति jc. । m) निसा. अपा. । n) प्रास. । o) अज्याः यो. अपा. । p) ऋ ६, ४७, ११ । q) गपू.
 (पृ९३९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. ।

सु-हृद्- प्रमदा°
 ✓सू(पिरणो) आ°, उद्°, परा°, प्र°
 २सव- उद्°
 सवित्- ०-तः मउ ९, ७५°; -तारम्
 मउ ९, ५५°. [°तृ- आदित्य°,
 ततद्°, १ब्रह्मन्°, १मित्र°°]
 २सावि(त्र°>)त्री- केन°°
 ✓सू(प्रसवे) प्र°, प्रतिप्र°, संप्र°
 +३सव- प्र°, प्रतिप्र°
 २सूत- प्र°
 सूत-क- २मातृ°, मृत°
 सूति- प्र°
 सूनु- अङ्गना°, दैवतदेव°, मृङ्ग°, वायु°
 सूकर- ग्राम°
 सू(उ-उ)क्त- २एकच°, जातवेदस°,
 १पुरुष°, १रुद्र°, २श्री°
 सूक्त-वाक- २सह°
 सूक्ष्म- -क्षमम् योशि २, १५°. [°क्षम-
 अति°, दीर्घ°, परम°, महत्°, मृ-
 णालतन्तु°, रूपला°वक°, विवि-
 ध°°, व्यक्त°, सु°, सूक्ष्म°, स्थूल°°]
 सूक्ष्म-तर- अति°, लुद्रव°°°ब्द°
 सूक्ष्म-तस(>:) बुद्धि°
 +सूक्ष्म-पर्यन्त- महदादि°
 +सूक्ष्म-भूत- पञ्चन्°
 +सूक्ष्म-रेखा-, +सूक्ष्म-वक्र-
 तद्°
 १सूक्ष्म-शरीर- १व्यष्टि°
 सूक्ष्म-स्वर- उन्मदको°°°र°
 १सूक्ष्म(म-अ)ङ्ग- अपञ्चीकृतभूतो-
 त्य°, महाभूतोत्य°
 ✓सृच् > चि > सूचक- तत्सिद्धि°,
 निर्वाण°
 सूचन- १ब्रह्मन्°
 सू(चि>)ची-, >सूचि-(क>)का-
 १वज्र°
 सूत्र- ४अ°, २अक्ष°, अञ°, उपवीतल-

क्षण°, कटि°, २कल्प°, चौम°,
 १चित्°, त्रि°, त्रिभृत्°, दीर्घ°,
 नवन°, नाडी°, पञ्चन्°, १पद्म°,
 वहिस्°, १ब्रह्मन्°, मृणाल°, यज्ञ°,
 लिङ्ग°, वस्त्र°, स्वान्तर°, हंस°
 सूत्र-त्रय- १चित्°
 +सूत्रा(त्र-त्रा)त्मक- विराज्°
 +✓सूद्(हिंसायाम्)>दि नि°
 +सूदन- अरि°, नि°, पौलस्त्य°,
 २मधु°
 सूप- घृत°
 +सूय°- राजन्°
 सूरि- ४अ°
 १सूर्य, र्या°- -र्यः मउ ३, ८; -र्याथ मउ
 २०, ८३५°. [°र्य- अग्नि°°, अरु-
 ण°, आदित्य°°, उद्यत्°, १कोटि°
 चन्द्र°, चित्रादिवर्ण°, २प्रश्न°°,
 प्रातर्°, मार्तण्डादि°°, १मित्र°°,
 लक्ष्ण°, विघ्न°, विराजा°°, राशिन°,
 १शिव°, २श्री°, १सोम°, १स्वरूप°]
 सौर- २माधव°, शाक°
 +सूर्य-कान्त°- पद्मराग°°
 +सूर्य-चक्र- चित्रादिवर्णाखण्ड°
 सूर्य-नारायण- २श्री°
 सूर्य-मण्डल- पीठ°°
 +सूर्या(र्य-अ)ष्टा(ष्ट-अ)क्षरी-
 मन्त्र- व्याहृतिशिरः...य°
 ✓सृ, > सारि अनु°, अप°, अपि°,
 अभि°, अव°, उद्°, उप°, निस्°,
 प्र°, प्रति°, वि°, सम्°
 +२सरत्- अभितस्°, अव°, प्रति°,
 पुरस्°
 सरण- अप°, उप°, प्र°, सम्°
 सरणि, णी- अर्थ°, सुषुम्ना°
 +सरत्- प्र°
 +२सार- अनु°, प्र°, सम्°
 +१सारण- प्र°

+सारित- प्र°, सम्°
 +सार्य उद्°, प्र°
 +सृत- निस्°, प्र°, वि°
 सृति- कृष्णाङ्घ्रिपद्म°, प्र°, सम्°
 +सृत्य उप°
 +सृत्वर- अभि°, उप°, प्रति°
 ✓सृज्, > सर्जि अति°, अभि°, अभि-
 वि°, अव°, उद्°, उप°, वि°,
 सम्°, समति°, समुद्°
 सर्ग- उद्°, उप°, कला°, जगत्त्व°°
 दि°, प्रत्यय°, १ब्रह्मन्°, भूत°, वि°,
 वियदादि°, सम्°
 +सर्जत्- उद्°
 +सर्जन- जगत्°, वि°
 +सर्जयितव्य- वि°
 +सृज्- १विरव°, सम्°, सर्व°
 +सृजत्- उद्°, वि°
 +सृज्य उद्°, वि°, सम्°, समुद्°
 सृष्ट- ४अ°, अव°, उद्°, वि°, सम्°,
 समति°
 सृष्टि- अति°, उद्°, चतुर्विध°,
 जगत्°, तत्त्व°, तद्°, नाना°,
 निमेष°, प्रधान°, १अमर°, वि°,
 समुत्पन्न°, स्व°
 सृष्टि-कर्तृ- एकैक°
 +सृष्टि-प्रपञ्च- अव्यक्तादि°
 +सृष्टि-स्थिति-प्रलय-, +सृष्टि-
 स्थिति-व्यसन-, +सृष्टि-स्थित्य-
 (ति-अ)न्त- जगत्°
 +सृष्ट्यु(ष्टि-उ)पराग- अन्य°
 +सृष्टुम् कृ १९; मुद्र २; अव्य ३.
 [उद्°, समुद्°]
 +सृष्टु-काम- -मः पै १, १७.
 +सृष्टु- -ष्टा मै ५, ७; -ष्टारम् षे
 ४, १४; ५, १३. [°ष्टु- अखि-
 ललोक°, उद्°, सर्व°, हरिह°°°भै°]
 +सृष्टी- -ष्ट्रीम् गु ५७.

a) ऋ ५, ८२, ५। b) तैश्चा १०, १०, २। c) गपू. (पृ९३९) यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। d) हिरण्यगर्भस्य° इति ऋष्या. (एतदनु गपू. [पृ९४०]) शोभः द्र.। e) वैप१ यद्र.। f) बप्रा. वैप१ यद्र.। इह =रवि-, उपनिषद्विशेष-, नाडीविशेष- प्रष्ट.। g) तैश्चा ३, १६, २। h) भावे कर्तारि वा कृत। i) 'सृष्टम्' इति ऋष्या.। j) 'उत्सृष्टा' इति मैत्रि६, ७।

+सृणि- -ण्या त्रि १३.
 सृत-सृत्य,सृत्वर- √सृ (परि.) द्र.
 √सृप्, >सरीसृप् अव°, आ°, उप°,
 उपाव°, प्र°, प्रति°, प्रत्यव°
 +सरीसृप्- निद्राभय°
 सर्प- रज्जु°, राजन्°
 +सर्पण- अप°, उप°
 +सर्पत्- उपाव°
 +सृप्य प्रति°, प्रत्यव°
 सेक-सेचित- √सिक् (परि.) द्र.
 सेदिवस्- √सद् (परि.) द्र..
 सेध-सेधन- √सिध् (परि.) द्र.
 सेन,ना- कक्ष°, इन्द्र°, उग्र°, नन्दि°,
 १बृहत्°, महत्°, विष्वक्°, शक्ति°
 सैन्य->+सैन्य-बल-वाहन- ६स°
 √सेब् आ°, उप°, नि°, परि°, सम्°
 सेवक- रसिकानन्द°, १राम°, श्रीरा-
 म°, श्रीरामचन्द्र°
 सेवन- तत्त्व°, तल्लोक°, नि°, वहि-
 स्त्रीपथ°, २श्रवण°, सखीसंग°
 रस°, हरिसंस्कार°
 सेवमान- आ°, उप°, सम्°, सु°
 से(व>)वा- अग्नि°, अति°, आ°,
 १कथा°, २कृष्ण°, गुरु°, चिरकाल°
 तद्°, २द्वादशवर्ष°, ध्यान° प्रभृ.
 सेवित- अनन्तगण°, उप°, ऋग्य-
 जुःसा° शा°, ऋषि°, कालिन्दीज-
 ल° त°, ग्रीष्मर्तु°, दीर्घका° र°,
 धर्मज्ञ°, परि°, ब्रह्मवि° वर°, यक्ष-
 गन्ध° शा°, शोभिनीगण°, वसन्त-
 ऋतु°, वासुदेवा° ह°, सिद्ध°, सु°
 +सेविन्- अभि°, तीर्थ°, ब्रह्मविद्या°,
 विविक्त°, विविक्तदेश°
 सेव्य- सम्°, सु°
 सेव्यमान- उप°, सु°
 २सैन्धव->+सैन्धव-खण्ड- जल-
 गत°
 +√सौ, >सा अध्यव°, अन्वव°,

अव°, पर्यव°, व्यव°
 +सान- अव°, पर्यव°
 +साय अव°
 +२साय- अध्यव°, व्यव°
 +४सित- अव°, पर्यव°, व्यव°
 सो(स-उ)त्साह- रासागम°
 सोपान- अनन्त°, रत्न°
 १सोम- अग्नि>ग्नी°, आदित्य°, त्रयो-
 दशन्°, धातु°, पीठ°, रवि°,
 वहि°, वायु°, शक्ति°, १सूर्य°
 १सौम्य- सौर°
 सोम-प- ४अ°
 +सोम-वार-व्रत- त्यक्त°
 १सोम्य°->२सौम्य- सर्व°
 +२सो(म्य>)म्या°- विराजा°
 +सो(स-उ)ह्लास- अत्यन्त°
 सौध- २सुधा- (परि.) द्र.
 सौमनस्य- सुमनस्- (परि.) द्र.
 सौरभ्य- सुरभि- (परि.) द्र.
 सौषुप्त- सुषुप्ता- (परि.) द्र.
 √स्कन्द अव°, आ°, उप°, प्र°
 स्कन्द- उप°, कठवह्नी°, नन्दि°,
 १शिवोमा°
 +स्कन्दत्- उप°
 स्कन्ध- अनन्त°, ऊर्ध्व°, गुल्फ°, धर्म°,
 १बृहत्°, शिरस्°, १सव्य°
 +स्कन्ध-शूल°- शिरःशूल°
 √स्खल्, >+स्खलत्- प्र°
 +स्खलित- ४अ°, उदात्त°
 स्तन- गो°, १घन°, धेनु°, पीनोद्यत-
 घन°, ललना°
 +स्तन-पद्- युग्म°
 +स्तन-शूल°- अज्ञशूल°, शिरः-
 शूल°
 स्तम्ब- अधस्°, १ब्रह्मन्°, राजन्°
 +स्तम्ब-पर्यन्त- ब्रह्मादि°
 √स्तम्भ अव°, उद्°, उप°, प्र°, वि°,
 सम्°

स्तम्ब- अव°, उद्°, प्र°
 +स्तम्भ अव°, वि°, सम्°
 स्तम्भ- एक°, कदली°, चिन्मय°,
 तद्ब्राह्मशक्ति°, पङ्क°, बाह्याभ्य-
 न्तर°, मणि°, मण्डप°, महत्°, मो-
 ह° १रम्भा°, १वज्र°, विवस्वदधु-
 ति°, सर्व°, सर्ववात°, सेना°, हेमन्°
 +स्तम्भ-पट्टा(ट्ट-आ)द्य- २ज-
 गती°
 +स्तम्भ-सार- दम्भोलि°
 +स्तम्भक- उप°
 स्तम्भन°- अग्नि°, गतिम° ह्वा°,
 परवश्य° वाक्°, १मारण°,
 मेह°, वि°, शत्रुगति°, शत्रुबुद्धि°,
 शत्रुमुख°
 +स्तम्भनी- सर्व°
 स्तम्भिन्,नी- अशेष°, त्रैलोक्य°
 स्तर- स्तरण°, स्तार-, स्तारशिष्णु-,
 स्तीर्ण-, स्तीर्य° √स्तृ, स्तृ(परि.) द्र.
 √स्तृ अभि°, अभिसम्°, आ°, परि°,
 प्र°, सम्°
 स्तव- मन्त्रराजात्मक°, सीता°
 +स्तव-राज- नारदोक्त°
 स्तवन- अत्यन्त°, १कल्प°
 +स्ताव- आ°, प्र°, सम्°
 स्तुल- अभि°, गन्धर्वविद्याधर°, प्र°,
 १ब्रह्मन्°, सम्°, सु°
 स्तुति- २कुशा°, ५न°, निन्दा°,
 निस्°, परमेश्वर°, परि°, प्र°, ब्रह्म-
 प्रणव°, सम्°, सर्वलोक°
 +स्तुति-भेद- नाना°
 स्तुत्य अभि°, सम्°
 +स्तुय अभिसम्°
 स्तुयमान- अभि°, सम्°
 +स्तोत्- प्र°
 स्तोत्र- निस्°, पञ्चदशन्°
 +स्तोत्रा(त्र-अ)धिकरण-
 मन्त्रजपाधिकरण°

१) व्यु. ? = अङ्कुश- । २) ग्मू. (पृ९४७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । ३) व्यु. ? = नाडीविशेष- । ४) = ६स ।

५) भावे कर्तारि वा कृत् ।

स्तोम- अग्नि°, ज्योतिस्°, त्रिणव-
त्रयस्त्रिंश°, यज्ञ°, महम्°
स्तोष्यत्- अभि°
+स्तुक°- १पृथु°
√स्तुम् अतु°
+स्तुम्- अतु°, त्रि°
+स्तूप^{ib}-> स्तु(पक>)पिका- ऊर्ध्व°
स्तूय √स्तु (परि.) द्र.
√स्तु, स्तु> स्तिर, स्तारि आ°, उप°,
परि°, प्र°, प्रवि°, वि°, सम्°
+स्तर- प्र°, वि°
+स्तरण- आ°, उप°
+स्वार- प्र°, प्रवि°, वि°
+स्तारिष्यु- +स्तीर्ण- वि°
+स्तीर्य परि°, वि°, सम्°
+स्तृत- ४अ°
+स्तृति- वि°
स्तेन- ४अ°
स्तेय- ४अ°, गो°, सुवर्ण°, स्वर्ण°
स्तेयिन्- ४अ°
स्तोत- √स्तु (परि.) द्र.
+√स्त्वै> स्त्वान- व्याधि°
स्त्री- अर्ध°, २कुल°, जयाचप्सरस्°,
दिव्य°, १देव°, १देव°, धातु°,
१पर°, पुम्°, रजस्°, राजन्°,
वित्त°, वीर°, २वेद°, २व्रज°,
शूद्र°, संपद्°°
+स्त्री(-क)- निस्°
+स्त्री-जन- २व्रज°
+स्त्री-पथ- वहि°
+स्त्री-पुरुष- राजपुरुष°, सर्व°
+स्त्री-योनि-शत- -तम् गर्भं १०°.
स्त्री-हत्या- समस्तपात...क°°
+स्त्व(स्त्री-अ)लंकार- नानाविध°
स्थण्डिल- १शिव°, शून्यागार°
√स्थल्> स्थल- आरक्मणि...ट°,
उदक°, उरस्°, एकैक°, क्रीडा°,
क्रीडाविहार°, २जल°, तुलसीपा-

...क°, द्रव्य°, द्वादशन्° प्रभृ.
√स्था (*बधा.), > तिष्ठ, स्थापि
अति°, अधि°, अनु°, अनुप्र°,
अनृद्°, अन्तर°, अप°, अभिप्र°,
अभिसम्°, अभ्युद्°, अव°, आ°,
उद्°, उदुद्°, उप°, उपोद्°, नि°,
निस्°, परि°, परिनि°, पर्यव°, प्र°,
प्रति° प्रतिप्र°, प्रत्युद्°, प्रा°, वि°,
विप्र°, व्यव°, व्युद्°, सम्°, समव°,
समा°, समुद्°, समुप°, समुपा°,
संप्र°, संप्रति°
+तस्थि- उप°
तिष्ठत्- अनु°, उद्°, निस्°, प्रति°
तिष्ठमान- अनु°, प्र°
+१स्थ, स्था^d- अङ्गु°, अण्ड°, अन्तः-
पुर°, अन्तर°, अन्तःशरीर°,
अन्त्याश्रम°, अन्धोदपान°, अर्ध-
भाग°, अव°, अवधूतमार्ग°, अहं-
कारगृह° प्रभृ.
+२स्थ, स्था^e- अव°, आ°, परिनि°,
प्रति°, वि°, सम्°
स्थाणु- भुवनाधिपति°°, मरु°
स्थातुम् अव°, परि°
स्थातृ- अधि°, उद्°, प्रतिप्र°
स्थान^f- ४अ°, अंश°, अग्नि°,
अङ्गराग°, अधि°, अनु°, अन्तर्°,
अभ्युद्°, अमृत°, अर्धे° प्रभृ.
+स्थान-पदा(द-अ)न्तर- तुल्य°
स्थाना[?नो^g(न-उ)]ह(१ हे^h)वा-
समायुक्त- -कम् शि २, १७^h.
स्थापक- सम्°
स्थापन- आचार°, चेतस्°, प्राण°
+स्थापयत्- *स्थापया- अभिप्र°
+स्थापयितु- उदुद्°
स्थापित- प्रति°
स्थाप्य उद्°, उप°, प्रति°, सम्°,
समुद्°, संप्रति°

+स्थामन्- अश्व°
+स्थाय अधि°, अनु°, आ°, उद्°,
उप°, नि°, व्युद्°, समा°, समुद्°,
समुपा°
+स्थायिन्- प्रत्युद्°, १स्थिर°
स्थावर- जङ्गम°, १देव°, पश्वादि°,
१ब्रह्मन्°
१स्थावर-जङ्गम- जगत°, यावत्°
स्थित- अङ्क°, अधस्°, अधि°,
अनु°, अन्तर°, अन्तर°, अभ्युद्°,
अभितवो...रि°, अव°, अष्टपत्रा-
न्तर° प्रभृ.
स्थिति- अन्तर्मुख°, अव°, १असङ्ग°,
आ°, उत्पत्ति°, उदय°, चित्त°,
जगत°, जडता°, जन्मन्° प्रभृ.
स्थिति-प्रलय- विराज्°
+स्थिति-संहार-कर्तृ- एकैक°
स्थित्य(ति-अ)न्त- १विश्व°
+स्थिन्^a- परम>मे°
१स्थिर- ४अ°, अथर्वणवेदसिद्ध°,
१चल°, युधि°, सु°
स्थैर्य- अपरिग्रह°, बुद्धि°,
१मनस्°, १वयस्°, सुषुप्त°
+स्थिर-समाधान- १शेष°
+स्थिर-स्थ- -स्थः पदं ४ⁱ.
स्थूण, णा- अयस्°, अस्थि°, त्रि°,
६स°
स्थेय- अनु°
स्था(लि>)ली- २आज्य°
स्थाली-पाक- मन्त्र°°
स्थूल- ४अ°, १अणु°, महत्°, विवि-
ध°, सर्व°
+स्थौल्य- प्रचारण°°
+स्थूल-देह- पञ्चीकृ...चित°
स्थूल-शरीर- ततद्भुव...लक°
+स्थूलां(ल-अं)श- अकार°, अर्ध-
मात्रा°, उकार°, मकार°

a) वैपरि यद्र. । b) व्यु? । c) आन, अञ्चा : सा. अपा. । d) कर्त्तरि कृत् । e) भावे कृत् । f) भावेऽधि-
करणे वा कृत् । g) पा. ? यनि. शोधः द्र. । h) गपू. (पृ १५२) 'स्थान->-जात्' इत्यत्र यनि. शोधः द्र. ।
i) अञ्चा : सं. अपा. ।

√स्ना, > स्नापि अभि°, नि°, सम्°
 स्नात- नि°, वेदविधात्रत°
 स्नात-क- ४अ°
 स्नान- कृत°, चौर°, १ज्ञान°, तीर्थ°, १त्रिकाल°, त्रिषवण°, देवार्चन°, पादधावन°, प्रातर्°, भस्मन्° प्रभृ.
 +स्नापन-> स्नापन-पूजा- महत्°
 +स्नाप्य सम्°
 +स्नायिन्- त्रिषवण°
 स्नायु- अस्थि°, १त्वच्°, मांस°
 +स्नाविर- ४अ°
 √स्निह् > स्निग्ध- ४अ°, शुष्क°, सु°
 स्नेह- ४अ°, अति°, अतितर°, अत्यन्त°, अभि°, गत°, वत्या- धार°, विगत°, सु°
 +स्नेहा(ह-श्चा)विष्ट-मनस- अत्यन्त°
 +स्नुषा°- दुहितृ°, ५न°
 √स्पन्द् नि°, परि°, प्र°
 स्पन्द- ४अ°, अक्षि°, अनिल°, १घन°, चित्त°, नि°, निस्°, परि°, प्राण°, प्राणपवन°, भुज°, १मनस्°
 +स्पन्दन- प्राण°, प्राणादि°
 स्पन्दमान- ४अ°
 +स्पन्दित- अलात°, चित्त°, १वि- ज्ञान°
 √स्पश् सम्°
 स्पष्ट- ४अ°, सम्°
 √स्पृश् उप°, सम्°
 २स्पृश- शैस् पृहं १५०:१००.
 [°श- ४अ°, १भङ्ग°, अष्टलोह°, २जल°, जिह्वा°, तद्°, तल°, २दर्शन°, दुस्°, नाना°, पृथि- वी°, बाह्य°, मात्रा°, १मेधा°, शब्द°, शिवशक्त्यमृत°, सम्°
 +स्पृश-रूप- ४अ°
 स्पृशन- १अङ्ग°, उदक°, उप°, २दर्शन°, महावनविहार°, रमणा-

नन्दलोक°, संकल्पन°
 +स्पृशम् सम्°
 +स्पृश्- नभस्°
 स्पृशत्- सम्°
 +स्पृश्य उप°, सम्°
 +स्पृश्य- सम्°
 स्पृष्ट- ४अ°, उप°, ३भूति°, सम्°
 स्पृष्ट- ४अ°
 √स्पृह् > स्पृह(ह>)हा- नि°, निस्°, विगत°, ६स°
 √स्फट्(°बधा.)>स्फटिक- खद्योत° जपा°, निर्मल°, २प्रवाल°, मरु°, २रक्त°, शुद्ध°
 +स्फटिक- स्वर्ण°
 +√स्फर् > स्फार-> स्फार-विचार- कृत°
 +√स्फल् > स्फालि > स्फालन- आ°
 स्फिच्-> +स्फिग्-देश- श्रोत्र°
 √स्फुट् आ°, वि°
 स्फुट- वि°
 +स्फुटित- उदात्त°
 स्फोट- मूर्ति°, शस्त्रबाणक्षत°
 +स्फोटन- अङ्गुलि°
 √स्फुर् परि°, प्र°, वि°, सम्°
 स्फुरण- ४अ°, प्राणप्राहरूप°, चिदग्नि° शक्ति°, वि°
 स्फुरत्- परि°, प्र°, रकभङ्गी°, वि°
 स्फूर्ति- उत्पत्तिस्थितिसंहार°
 स्फुलिङ्ग- एक°
 +√स्फूर्ज् > जिं अव°, वि°
 +स्फूर्जयत्- वि°
 +स्फूर्जयमान- अव°
 √स्मि वि°
 +स्मय- वि°, सङ्ग°
 स्मित- वि°, शुचि°
 स्मेर- ६स°
 √स्मृ(°बधा.)>स्मारि अजु°, अप°, उप°, वि°, सम्°

१स्मर- दैव°
 २स्मर- सावेश°
 +३स्मर- प्रत्याहार°
 स्मरण- अजु°, २चरण°, तन्मन्त्र°, देह°, २लीला°, वि°, २श्रवण°, श्रीरामचन्द्रमनु°, संकल्प°, सङ्ग°
 रहित°, सञ्चित्तु...ता°
 स्मरण-मात्र- तद्°
 स्मरत्- अजु°, सम्°
 स्मार- अप°
 +स्मारण- वि°
 +स्मृत्- लोक°, सर्व°
 स्मृत- वि°, सम्°
 १स्मृति- अन्य°, दृष्ट°, नाना°, नानाश्रुषिकृत°
 २स्मृति- अजु°, उक्तब्रह्मानन्द°, एतद्°, तथा°, प्रमाण°, वि°, विधिनिषेध°, श्रद्धा°
 +स्मृत्य अजु°, वि°, सम्°
 √स्यन्द् प्र°
 +स्यन्द- स्वल्प°
 +स्यन्दिन्- आनन्द°, प्र°
 √स्रस्, > +स्रस्- वि°
 स्रज्- अलंकार°, पुष्कर°, रजत°, वन्य°, विचित्रपुष्प°
 स्रष्टुम्, स्रष्टु- √स्रज् (परि.) ३.
 स्राम- ४अ°
 √स्रु आ°, परि°, सम्°, संप°
 स्रव- सम्°
 +स्रवण- सर्वाङ्ग°
 स्रवत्- आ°
 +स्राव- पयस्°, मल°
 +स्रुत्- परि°
 स्रुव- स्रुच्°
 स्रोतस्- पञ्चन्°
 स्व- ४अ°, १तार°, सर्व°, स्व°
 स्व-कर्मन्- ३धारणा°
 +स्वकर्म-विच्छेदन- समस्तपा- त...तक°

स्व-जन- ४मित्र°, सर्व°
 स्व-तन्त्र-> स्वातन्त्र्य- ४अ°
 स्व-धर्म- वर्णाश्रम°
 स्व-प्रकाश- अखण्डलक्षण°°, २स-
 चिदानन्द°
 स्व-भाव- अखण्डानन्द°, अद्वितीय°
 अन्यहीन°, आत्मन्°, एकान्तके...
 स°, कर्मन्°, कार्पण्यदोषोपहत°,
 केवलसत्तामात्र°, तद्°, १दिव्यग-
 न्ध°, देश°, धातु°, नित्यशु-
 ...क्त°, निर्मनस्क°, परिज्ञात°,
 प्रसन्न°, १बाल°, बुद्धमुक्त°,
 मधुर°, योनि°, विज्ञानचिन्मात्र°,
 सर्वातीत°, स्व°, स्वयंज्योतिस्°
 *स्वभाव-(क)- शीत°
 स्व-मर्यादा- परस्पर°
 स्व-रस-> *स्वारस्य- अनन्यभा-
 व...त°
 १स्व-रूप- अखण्डचिद्र...न्द°,
 अखण्डानन्द°, अखण्डानन्दब्र...
 ता°, अखण्डैक...मात्र°, अखि-
 लकार्यकारण°, अराड°, अथर्ववेद°
 अद्वैत°, अनन्तोपनिषदर्थ°, अन-
 भिव्यक्त° प्रसृ.
 *स्वरूप-(क)- अग्नित्रय°, उ-
 ष्ण°, चतुर्वक्त्र°, पञ्चब्रह्मन्°,
 परतत्त्व°, परिपूर्ण°, पूर्णज्यो-
 तिस्°, १ब्रह्मन्°, महाविष्णु°,
 सर्वभाव°, सर्वाभाव°
 *स्वरूप-ग्रहाण- ४अ°
 स्व-शक्ति- १अङ्ग°
 स्व-संविद्- सर्वान्तरस्थ°
 स्व-स्थ- ४अ°
 १स्व-स्वरूप- अस्खलित°
 स्वा(स्व-अ)ङ्गुलि- -लीन् जाद ३,
 ६, २°.
 स्वा(स्व-अ)स्मन्- -स्मा भा २८°.
 [°न्- परिपूर्ण°, १ब्रह्मन्°]
 *स्वात्म-चैतन्य- चैतन्यशक्त्य-

लंकृत°
 स्वात्म-ज्योतिस्- अमिततेजो-
 राशि°
 *स्वा(स्व-अ)धीन-पति(क)>का-
 सुरतानन्दवशीकृत°
 १स्वा(स्व-अ)नुभव- आनन्द°
 स्वा(स्व-अ)नुभूति- गुरुवाक्य...त°
 स्वामिन्- ग्राम°, तद्°, स्व°, १स्व-
 रूप°
 *स्वाभ्या(मि-अ)र्ति- समस्त-
 पात...क°
 स्वा(स्व-अ)र्थ- परार्थान्य°
 *स्वा(स्व-अ)वयव- अङ्गुप्रादि°,
 पञ्चीकृत°
 स्वा(स्व-अ)विर्भाव- नूतन°
 स्वी√कृ(करणे)> *स्वी-कार- तु-
 रीयाश्रम°
 *स्वे(स्व-इ)तर- स्व°
 स्वे(स्व-इ)ष्ट- शिष्टानुशिष्ट°
 +√स्वञ्ज् अभि°, परि°, संपरि°
 *स्वक्त- परि°, संपरि°
 *स्वङ्ग-, *स्वङ्गिन्- अभि°
 √स्वद्, >स्वादि आ°
 *स्वाद- आ°, सु°
 *स्वादक- स्वाद्य°
 *स्वादित- अशित°, आ°
 स्वादु- ४अ°, अति°, अनेक°
 स्वधा- अनु°, स्वाहा°
 स्वधा√कृ(करणे)>स्वधा-कार-
 ५न°, निस्°
 √स्वन् निस्°
 स्वन- निस्°, ६स°
 √स्वप् प्र°
 सुप्त- ४अ°, अर्ध°, एक°, प्र°, सु°
 सुप्ति- गाढ°, २जाग्रत्°, सु°
 *स्वप- सु°
 स्वप्न- ४अ°, अति°, अहंमम्°,
 २जाग्रत्°, दीर्घ°, दुस्°
 *स्वप्न-दर्शन- अनिद्र°

*स्वप्न-शील- अति°
 *स्वप्ना(प्र-अ)वबोध- युक्त°
 स्वाप- २दिव>वा°
 स्वयम्>स्वयं-प्र(भा)>भ- अन्य-
 हीन°
 स्वर् भूर्°
 स्वर-लोक- भूलोक°
 स्वर्ग- रार्ग°
 *स्वर्ग-फल- शुभकर्मन्°
 स्वर्ग्य- ४अ°
 स्वर्ण- श्रोत्रिय°
 स्वर्ण-स्तेय- ब्रह्महत्या°
 स्व(सु-अ)ल्प- उत्तम°
 स्वस्ति- -स्ति मउ २०, ३९°. [°स्ति-
 उप°]
 स्वा(सु-अ)गत- कृत°
 स्वाध्याय- तपस्°, तीर्थ°, व्रत°
 शौच°
 स्वान्त- आनन्दभरित°
 स्वाहा १नमस्°
 स्वाहा√कृ(करणे)>स्वाहा-कार-
 ५न°
 √स्विद् प्र°
 स्वेद- प्र°, मूत्र°, ४रक्त°
 स्वेद-ज- अराडज°, जरायुज°
 √स्वृ अति°, अनु°, प्रत्या°
 स्वर- ४अ°, अः°, अकारादि°, उदा-
 त°, उदात्तादि°, १ओंकार°, तुरी-
 य°, त्रि°, दीर्घ°, धीर°, प्रत्या°,
 षष्°, षोडशन्°, सप्तन्°, सु°,
 सूक्ष्म°
 *स्वर-वर्ण- पञ्चाशत्°
 *स्वरित- आख्यात°
 *स्वार- अनु°

ह

१ह>*हा(ह-अ)दि- कादि°
 ह-√हन्(परि.) द्र.

हंस- ईशावास्य^{००}, एक^०, ४कल^०, कुटीचक्र^{००}, चतुर्मुखमु^{००}वन^०, त्रे-
तागन्यात्मा^{०००}, १पर^०, परम^०,
प्रणव^०, १भ्रमर^{००}, १मयूर^{००},
मार्तण्डादि^{००}, रमामानस^०,
सामन्^०, सोऽहम्^०, हंस^०, हंसी^०
हंस-सूत्र- प्रणव^०
✓हृद्(दीप्तौ) > हृद्- १चैत्य^०
हाटक- आरक्तमणि^{००}ल^०, तम^०,
तिलक^०
✓हृद् > १हठ- > २हठ- यमाद्यासन-
जायास^०, लय^{००}
✓हन् (*बधा.), > जिघांस, जहि नी
३^०. [अति^०, अप^०, अभि^०, अ-
भिप्र^०, अभ्या^०, अव^०, आ^०, उद्^०,
उप^०, नि^०, निर्^०, परि^०, प्रति^०,
वि^०, विनि^०, व्या^०, सम्^०]
+घ- परि^०, सम्^०
+घात- इन्द्रिय^०, निर्^०, पार्ष्णि^०,
वायुमण्डल^०, वि^०, सम्^०
+घातक- १पाप^०
+घातम् उप^०
+घातिन्- केशिचारु^{००}, देवब्राह्मण^०
+घ्न, घ्नी- अति^०, अप^०, अभिचार^०,
१अहि^०, एनस्^०, कफादिदोष^०,
२काल^०, २कुल^०, कृत^०, कोटिय-
ति^०, गो^०, ग्राम्यारण्यपशु^०, जन्मा-
न्तर^०, जरामृत्युगद^०, १पाप^०,
पितृ^०, बहुरोग^०, १ब्रह्मन्^०, १ब्रा-
ह्मण^०, मधुकैटभ^०, २मातृ^०,
रक्षस्^०, रोग^०, वक्त्रदोष^०, वि^०,
१विष^०, शत्रु^०, समधु^०, सर्वरक्षस्^०
घ्नत्- विनि^०
+जघ्निवस्- वि^०
+जिघांसु- अभि^०
+ह- आर्ति^०, आष्टि^०
हत- ४अ^०, अप^०, अभि^०, आ^०,
उद्^०, उप^०, १काम^०, नि^०, प्रति^०,
मटची^०, वनिता^०, व्या^०, सम्^०

+हति- अप^०, तद्^०
+हस्तु- उप^०
+हृत् अप^०, अभिप्र^०, आ^०, उप^०,
नि^०, वि^०, सम्^०
+हृत्, त्या- आजन्मकृत^०, गुरु^०,
गो^०, चराचर^०, पितृ^०, पुम्^०,
पुरुष^०, प्राण^०, १ब्रह्मन्^०, ब्रह्मभूषा-
वीर^०, भूषा^०, वीर^०, सर्व^०, स्त्री^०
हत्वा ४अ^०
+हन्- अमित्र^०, अवीर^०, आचार्य^०,
आत्मन्^०, दस्यु^०, दुःख^०, दुःस्वप्न^०,
२दुर्ग^०, पितृ^०, १ब्रह्मन्^०, १ब्राह्म-
ण^०, भ्रातृ^०, भ्रूण^०, २मातृ^०, यति-
वृत्ति^०, रक्षस्^०, वलग^०, विष्णु^०,
वीर^०, वृत्र^०, सर्वदोष^०, स्वप्न^०
+हनन^०- गुरु^०
+ह(न>)ना- दुर्^०
हन्त्, न्त्री- अप^०, पञ्चमवक्त्र^०,
लवणासुर^०, लोक^०, विपद्^०, व्य-
सनौघ^०
हनु- वक्षोन्मत्त^०
हनु-मत्- कालाम्नि^०, कालाम्निरुद्र^०,
चण्डप्रताप^०, चिन्तामणि^०, दावा-
नलकालाम्नि^०, पातालगरुड^०,
भद्रजातिवि^{०००}, भूत^०, वीर^०,
२श्री^०
हय- १धन^०, सु^०, २हरित^०
हय-श्री(वा)>व- नारायण^०, वृ-
सिंह^०, २प्रश्न^{००}, १राम^{००}, ल-
क्ष्मीनारायण^०
१-२हर- हरद्विज- हरमाण- ✓ह
(परि.) द्र.
२हरिण- परशु^०
१हरित-> २हरित- अत्यन्त^०
+हरित-पीत-इवेत-शुभ्र-भ्रमर-
फलपुष्पमणिलता^०
हरिश्चन्द्र- ✓ह (परि.) द्र.
+हरीतक^० > हारीतक^०- २संवर्तक^०
हर्षण- ✓हृष् (परि.) द्र.

✓हस् अव^०, उप^०, प्र^०
हस्त- प्र^०
+हास- अट्ट^०, अव^०, उप^०, मञ्जु^०,
६स^०
१हस्त- नागेन्द्र^०
हस्तिन्- महत्^०, माया^०
२हस्त- -स्तौ जाद ३, ६, २^०. [°स्त-
अष्टन्^०, असि^०, आजन^०, उल्का^०,
ऐकारि^{००}रिन्^०, २कणा^०, कनक-
दर्वि^०, कपाल^०, कपालकर्तिका^०,
कमण्डलु^० प्रष्ट.
+हस्त(क)- वरदाभय^०
+हस्त-युग- १सम^०
+हस्त-शूल^० > अङ्गशूल^{००}
+हस्त-स्थ-कौस्तुभ- त्यक्त^०
+✓हा(गतौ) वि^०, सम्^०
+१जिहान- सम्^०
✓हा(त्यागे), > हापि अप^०, अभ्युद्^०,
अव^०, परि^०, प्र^०, वि^०, सम्^०
+२जिहान- सम्^०
हान- १इतर^०, एकतर^०, तद्^०, प्र^०,
वेदिजन्मन्^०, हेय^०
+हानो(न-उ)पादानो(न-उ)पे-
क्षा-शुद्धि- वचनादान^{०००}नन्द^०
हानि- अप^०, अर्थ^०, आद्यकारणता^०,
चित्त्व^०, तद्^०, दृष्ट^०, देह^०, प्रति-
ज्ञा^०, समाधि^०, सर्वज्ञेश^०, सिद्धा-
न्त^०
+हापित- परि^०
+हाय अप^०, अव^०, वि^०
हीन- १अङ्क^०, अन्य^०, अवस्थात्रय^०,
अविद्याकार्य^०, अविद्यातत्कार्य^०,
आत्मज्ञेयादि^०, २आदि^०, आदि-
मथ्यान्त^०, आनन्दकोश^०, आश्र-
व्याश्रय^० प्रष्ट.
+हीन-कर्म-करण- समस्तपात-
...क^{००}
हेय- ४अ^०, ध्यान^०, प्रतिप्रसव^०
हाक-> हाकिनी^०- भूत^{००}

a) आन. अपा. । b) कर्तरि कृत् । c) ब्रपा. द्र. =व्यसं., उपनिषद्विशेष- । d) व्युः! =ऋषिविशेष- ।

e) अख्याः यो. अपा. ।

हापित-

हापित-हाय √हा (त्यागे) परि. द्र.
 १हार- गुञ्जा, वैवेयं०, नीहार, पुष्प०,
 २मुक्ता, १शङ्ख०

+ १हारक- १कर्णिका०

+ १हारवल्ली- मुक्तागुम्फित०

हाव->+हाव-भाव-कटाक्ष- नेत्र०

हास- √हस् (परि.) द्र.

हि ते १, १९०.

√हि (*बधा.) प्र०

२हित- ४अ०, आत्मन्०, एकान्त०,
 जगत्, प्रिय०, मित०, सर्वजगत्,
 सर्वभूत०, सर्वलोक०

+ हित-यथार्थार्थं (अ-अ)भिभाष-
 ण- भूत०

+ ३हित- प्र०

४हित (>) वा ११०

१हेतु- अन्य०, १आदि०, २आद्य०,
 उभयवचन०, कर्मफल०, जगदावि-
 ...व०, जन्मन्०, तत्प्राप्ति०, तद्,
 दुःखविमुक्ति०, दृष्टान्त० प्रभृ.

हेतुक, की- ४अ०, मुक्ति०

+ १हेतु- (क)- अन्य०, १असत्०,

उभय०, १काम०, परस्परकृत०,

पुरुषार्थ०, ६स०, १सत्०

२हेतु-> २हेतु-क०-

√हिंस्र आ०, वि०

हिंसक- वि०

+ हिंसक-धर्म- वेदादिशास्त्र०

+ हिंस्र- ४अ०

हिंस (>) सा- ४अ०, १पर०, पापकर्म-

न्, प्राणित्, वि०

+ हिंस्र- ४अ०

१हित (< √धा)- सु०

२-४हित- √हि (परि.) द्र.

हिम- ४अ०

हिरण्य- २स्याम०, हस्तिन्०

११८४

हिरण्य-गर्भ- १मित्र०, विराज्०,
 हरि०

हिरण्य-दंष्ट- -ष्टः ज्ञां ४, ३, ७, १०

हिरण्य-वर्ण- -र्णः मै ६, ३, ४, ५

+ हिरण्या (सय-अ)क्ष- अरिष्टका-
 रिणी०

हीरक- तिलक०, मणि०

√हु [दानाद (१दा) नयोः] अभि०, आ०,
 उप०, प्र०

हवन- अग्निहोत्र०, आ०

हव्य-> हव्य-वाहन१- शशिन०

हुत- ४अ०, आ०, १काम०, प्र०, सु०

+ हुता (त-अ)क्ष- १दीप्त०

+ हुति- आ०

होम- जप०, तद्, विरजा०, व्रत०,

सायम्, ज्ञान०

ह्वय √ह्वि (परि.) द्र.

+ √ह्व (< हु) छे वि०

√ह्व, > ह्वि, जिहीर्ष अनुव्या०, अनु-
 समा०, अन्वा०, अप०, अभि०, अभि-
 व्या०, आ०, उद्, उदा०, उप०,
 उपसम्, उपा०, नि०, निर्, निरा०
 परि०, प्र०, प्रति०, प्रत्या०, वि०,
 व्यति०, व्यव०, व्या०, संव्यव०,
 सम०, समव०, समा०, समुदा०

जिहीर्ष (>) र्षा- उद्

१हर- दिवाकर०, हरि०

+ हर-द्विज- १वैखानस०

+ २हर- आ०, एकजन्मन्, कण्ठो-
 त्थितानल०, गलश्लेष्मन्, गोपी-
 जनमनस्, चक्षुरोग०, २त्रिपुर०,
 नाडीजल०, परोक्ष०, पश्यन् >
 तः०, १पाप०, १भय०, १मनस्,
 वातपित्तश्लेष्मन्, शीर्षोदितान-
 नल०, श्लेष्मन्, संसाररोग०,
 संकल्प०, सर्व०, सर्वदोष०, सर्व-
 पाप०, सर्वरोग०, सर्वविघ्न०, सर्व-

१हृद्-

विष०, सर्वव्याधि०, स्वात्मबन्ध०

हरण- अघ०, आ०, क्लेश०, निर्, ०,
 प्र०, प्रत्या०, बलि०, भ्रान्ति०, वि०,
 श्रोत्रियस्वर्य०, सम्, समयभ्रा-
 न्ति०, समस्तपात... पाप०, सम-
 स्तपाप०

हरत्- आ०, परि०, वि०, व्यव०,
 व्या०, सम्

+ हरमाण- प्रति०

हरि- महत्, १शिव०

+ हरि-शू-चन्द्र- सुयुज्ज०

हर्तुम् सम्, समा०

हर्तु- उपसम्, १पशु०, प्रति०, प्रा-
 ण०, विघ्न०, सम्

+ २हार- अप०, अभिव्या०, आ०,
 उप०, उपसम्, नि > नी०, प्रति०,
 प्रति > ती०, प्रत्या०, वि०, व्यति०,
 व्यव०, संव्यव०, सम्, समा०

+ २हारक- निरा०

+ हारिका- सर्वाज्ञान०

+ हारम् समव०

+ हारया- आ०

+ हारिन्, णी- अप०, तृणावर्तासु०,
 धैर्यसर्वस्व०, १पाप०, प्रत्यर्थिन्,
 राधात्मनस्, मार०, वि०, १विष०,
 व्यव०, सर्वजनमनस्

+ हार्य- ४अ०, अन्वा०, अभि०, आ०,
 परि०, व्यव०

हृत्- अप०, अभिव्या०, आ०, उदा०,
 उपसम्, प्रति०, वि०, व्या०, सम्,
 समुदा०

+ हृति- प्रत्या०, व्यव०, व्या०, सम्

+ हृत्य अभिव्या०, आ०, उदा०, उप०,
 उपसम्, व्यव०, सम्, समा०

१हृद्- हृदि नाप १५१ : ७; ८; १०-
 २भक्त०, भूत०, विश्वात्मन्, सर्व०,
 सु०, स्व०]

४) अच्चा : यो. अपा. । ५) गपू. (पृ९७७) यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । ६) गपू. (पृ९७८) यनि. संख्यानिर्देशः
 द्र. । ७) दन्तः इति जैड ३, २, ४ (उ. टि. वैपय यस्या.) । ८) ण्यपक्षः इति हिगृ १, १७, २; 'हिरण्यवर्णं शकुने'
 इति पागृ ३, १५, २० [तु. टि. वैपय यस्या. (एतदनु गपू. [पृ११५९] शोभः द्र.)] । ९) गपू. (पृ९८०) यनि.
 संख्यानिर्देशः द्र. । १०) भवे करणे वा क्व । ११) पा ६, १, १५३ । १२) अच्चा : सं. अपा. ।

+हृत्(-क)- २श्री°
हृदि>हृदि-स्था- -स्थाः नाप
१५१:७°.
हृद्य- सकलभुवन°
२हृद्->२हृल्-ले(ख>)खा- राक्ति-
भूत्°
हृदय- -यम् मना २, १३, २^b. [°य-
४अ°, अन्तर्°, आनन्दस्वा...र्ण°
गल°, गुञ्जाहा...त°, नाभि°,
न्यस्त°, पाद°, मस्तक°, मूला-
धार°, १रुद्र°, ललाट°, लला-
ट°, शान्त°, शिरस्°, ६स°,
सकलीकरणाङ्गुष्ठ°, संपूर्ण°, सर्व°,
सर्वजन°, स्व°]
हृदय-ग्रन्थि- १अज्ञान°
हृदय-ज्ञ- ४अ°
+हृदय-शूल^१- शिरःशूल°°
+हृदया(य-आ)द्य(दि-अ)न्ना-
(न्न-अ)न्त- तद्युक्त°

√हृष् प्र°
हर्ष- अति°, १काम°, जरा°,
निन्दा°, प्राप्त°, रोमन्°, विस्मृत-
प...ति°, शक्ति°, शोक°
+हर्षण- रोमन्°
हृष्ट- सु°
√हृद्(, <> ल) अव°
+हृडन- १देव°
+हृडमान- ४अ°
+हृल(न>)ना- अव°
+हृ(ल>)ला- अव°, ६स°
१-२हेतुक- √हि(परि.) द्र.
हेमन्- द्रुत°
+हेमा(म-अ)द्वि^१- सुमेरु°
+√हृ भप°, अपनि°, नि°
+हृति- नि°
हृद्- नाभि°
√हृस्>हृस्व-४अ°, अति°, उदात्त°°
+ह्रास- वृद्धि°
√ह्राद्, >+ह्राद्- आ°

√ह्री>१ह्री- तपस्°°
२ह्री>ह्रीं>१ह्रीं-कार->+ह्रींका-
रिन्- ऐंकारिन्°
√ह्राद् आ°, प्र°
ह्राद- अति°, आ°, प्र°
+ह्रादन- आ°
ह्रादिन्- प्र°
+√हृल्, >हृल- वि°
√हृ, >+हृ- प्र°
√हृ, >हृ, ह्रवामहे मउ ९, ५९°;
ह्रयामि मउ २०, ३९^d. [आ°,
उप°, नि°, समा°]
ह्रव- -वे-वे मउ २०, ३९°.[°व-
आ°, नि°, सु°]
ह्रत- पुर°
+ह्रय आ°
ह्रोत्- चतुर°, सप्तन्°
+ह्रोत्र- अग्नि°, वीति°
+ह्रय- समा°
+ह्रयितवै, +ह्रान- आ°

इति परिशिष्टम् ।

a) अञ्ज्याः सं. अया. । b) 'सुषिरम्' इति Jc. । c) तैश्चा १०, १०, २ । d) ऋ ६, ४७, ११ (तु. टि. वैप१ यस्था.) । e) ऋ ६, ४७, ११ ।

मूलभागीयमुद्राक्षरभेष-शोधाः ।

पृ १३	!अग्राष-	>	!अग्राष-	पृ ८५	अभ्यासभेदतः	>	अभ्यासभेदतः
„ ३२	आदित्य-स्य	>	आदित्य-स्ये	„ १७५	१उत-√वे द्र.	>	१उत-√वे(परि.)द्र.
„ ६२	अन्तर-बहिस	>	अन्तर-बहिस	„ २७४	गुरु-रुःरु २०;>	>	गुरु-रुः रु २०;

टिप्पणभागीयमुद्राक्षरभेष-शोधाः ।

पृ ५१b	यत्राऽय	>	यत्राऽयं	पृ ३८५n	°रज्जू-	>	°रज्जु-
„ ६९j	°विसर्ग°	>	°विसर्ग°	„ ५३८n	सकृत	>	सकृत
„ ११८m	दिक	>	दिक्	„ ६०९C	अपादाने	>	अपादाने
„ १४७j	शषः	>	शेषः	„ ६३८g	मनन	>	मनने
„ १६४m	एकाऽनेक°	>	एकाऽनेक°	„ ८४८e	अर्थः?	>	अर्थः ?
„ २६३r	विशषः	>	विशेषः				

